

शान्तकुटी-वैदिकग्रन्थमाला

तस्यां च शास्त्र्यादिविरुदालङ्कृतेन

विश्वबन्धुना

कर्मिष्ठसंघटकानां लम्बितप्रौढिविशेषाणामुपनिशानां विदुषां सहयोगतश्च
परामर्शकसंघटकानां नानादेशीयानामुपनिशानां
विपश्चिदपश्चिमानां सन्निर्देशतश्च

संपादितायाम् अयं

१२शो ग्रन्थः

होशिआरपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१५ वि०



THE SHANTAKUTI VEDIC SERIES

Edited

*with the co-operation of a Staff Organisation of about thirty
specially Trained Scholars and under the general
guidance of an international
Advisory Board*

By

VISHVA BANDHU, *M.A., Shastri, M O L, O d'A. (Fr.)*

VOLUME XII

HOSHIARPUR

Published by the V. V. R. Institute

1958

A VEDIC WORD-CONCORDANCE

Being a *universal vocabulary register* of about **400** Vedic works,
with complete textual reference and critical commentary bearing on
phonology, accent, etymo-morphology, grammar, metre,
text-criticism, and ur-Aryan philology

In five Volumes, sub-divided into sixteen Parts

By

VISHVA BANDHU

Director, the Vishveshvaranand Vedic Research Institute and the
D. A.-V. College Research Department, formerly,
Principal, Dayananda Brahma Mahavidyalaya.

In collaboration with

**BHIM DEV, RAMANAND, AMAR NATH & PITAMBAR DATT
AND MANY OTHER SCHOLARS,**

Vol IV in Four Parts

Vedānga-sūtras

PART II

ऋ-न

Pages 141 and 761—1456

HOSHIARPUR

PUBLISHED BY THE V. V. R. INSTITUTE

1958

वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

संहिताब्राह्मणोपनिषत्सूत्रवर्गीयोपचतुःशत [४००] वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः

प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तन्नवपुराणवेदाङ्गीय-

विचारसमन्वितटिप्पणैः सनाथितश्च

संभूय षोडशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सन्

दयानन्दब्राह्ममहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य

च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

विश्वबन्धुना

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त-

प्रमुखानां बहूनां शास्त्रिणां

सायुज्य-समुपलभ्नेन

संपादितः

अयं च तत्र

वैदाङ्गिकस्य

चतुःखण्डात्मकस्य धर्मस्य विभागस्य

२यः खण्डः

ऋ-न

पृष्ठानि, I-IV च ७६१-१४५६ च

होशियारपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२०१५ वि०




(All Rights Reserved)

Printed and Published by Dev Datta Shastri,
at the V. V. R. I Press, Hoshiarpur
First edition, first issue, 1958
Price [REDACTED]

(अधिकार-सर्वस्वं सुरक्षितम्)

होशियारपुरे वि वै शो. स. मुद्रागृहे
देवदत्तशास्त्रिणा मुद्रापितः प्रकाशितश्च ।
प्रथम संस्करणम्, प्रथम प्रकाशः, २०१५ वि. ।
मूल्य [REDACTED]



Prepared and published under the patronage of the Governments of the Indian Union and the States of Panjab, Jammu-Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Bombay, Mysore Kerala and Madras, the former Princely States of Hyderabad, Travancore, Baroda, Indore, Kolhapur, Sangli, Patiala, Nabha, Jodhpur, Bikaner, Idar, Alwar, Udaipur, Shahpura, Sirmur and Keonthal, the former Princely Estates of Awagarh and Vijayanagaram, the Universities of Panjab, Poona, Andhra and Calcutta and the Trusts and Charities of Swami Vishveshvaranand, Shri Vishva Bandhu, Shri Moolchand Kharaitiram, D.B. Krishna Kishore, Shri Dhani Ram Bhallo, Shri Dayal Dalmia, and other donors.

अथ
वैदिक-पदानुक्रम-कोषे
वैदाङ्गिके चतुर्थे विभागे
द्वितीयः खण्डः

क

क^१ शुभ्रा ८,३, ऋत १,४, पाग १,४,
 ५७, उः पा १,१,५१, पावा १,
 १,३,५१^२, ऋम् ऋत ३,५,२
 ऋ-ऋ-ऋ३ याशि २,९४
 ऋ-ल-वर्ण- -र्णाभ्याम् शुभ्रा ४,
 १७, -र्णे शुभ्रा ४, १४८, -र्णौ
 माशि ९,८.
 ऋ-ऋ-क-कौ शुभ्रा १,६५
 ऋ-कार- -रः अप ४७, ३, ३, शुभ्रा
 ४, ६०, तैप्रा ५, ९, शैशि ८४,
 कौशि ७८, भाशि २५, नाशि
 २, ६, ४, ७, -रम् ऋप्रा १४,
 ४५, माशि १०,३, नाशि २,६,
 ३, -रा नाशि २,६,५, -रात्
 ऋप्रा ७,१, शौच ३, ८५, -रे
 ऋप्रा २, ३२, ६४, १३, ३४,
 शुभ्रा ३, ९४, ४, ५०, १६६,
 माशि १२, ६, याशि २, १९,
 -रेण शैशि ११९
 ऋकार-लृकार- -रयोः पावा १,
 १, ९
 ऋकार-गुण-बलीयस्त्व-
 -स्त्वात् पावा ६,४,६२.
 ऋकार-ग्रहण- -णम् पावा ८,४,
 १, पाप्रवा ४,११.
 ऋकार-द्वय-सयुत- -तम् शैशि
 ३३२
 ऋकार-पर- -रः शुभ्रा ४,१२५,
 -रे तैप्रा १०, ८
 ऋकार-प्रत्यय^३- -यः माशि
 १०,१.
 ऋकार-रेफ-वत्- -वति तैप्रा
 ६, ८

ऋकार-रेफ-वकार- -राः ऋप्रा
 ५, ४०
 ऋकार-रेफ-संयुक्त- -क्तम् माशि
 १२, ३
 ऋकार-रेफा(फ-अ)र्-उदय^४-
 -य शुभ्रा ३, ८२.
 ऋकार(र-ऋ)र्कार(र-लृ)लृकार-
 -रेषु तैप्रा २, १८
 ऋकार(र-लृका)लृकार- -रौ
 ऋप्रा १, ४१, १२, २, तैप्रा १,
 ३१
 ऋकार-व(र्ण)र्णा^५- -र्णा
 ऋप्रा ६, ४६
 ऋकारा(र-अ)क्षर- -रयोः अप
 ४७, ३, १
 ऋकारा(र-आ)दि- -दयः ऋप्रा
 १, ६५
 ऋकारा(र-अ)न्त^६- -न्तात् शौच
 २, ९९, -न्तानाम् पावा ६, ३,
 २४, -न्ते भाशि ८८.
 ऋ-पर^७- -रम् ऋप्रा १५, १२
 ऋ-वचन- -नात्, -ने पावा ६, ४,
 ४७
 ऋ-वर्ण- -र्णः आशि १, २६,
 -र्णम् शौच १, ३७, नाशि २,
 ६, २, -र्णस्य अप ४७, १, २०,
 शौच १, ७१, पावा १, १, ५०^८,
 -र्णात् पावा ८, ४, १, -र्णे शुभ्रा
 ४, ११३, शौच ३, ४६, नाशि
 २, ६, ३
 ऋवर्ण-ऋक-क-ख-ग-घ-ङ- -डा.
 याशि २, ९४
 ऋवर्ण देश-संदेह- -ह अप
 ४७, ३, २
 ऋवर्ण-रेफ-षकार- -रेभ्य शौच

३, ७५
 ऋवर्ण-रेफ-संयुक्त- -क्तम् माशि
 १२, ३.
 ऋवर्ण-व्यञ्जना (न-आ) दि-
 ग^९- -गः याशि २, ४४८
 ऋवर्णा(र्ण-आ)देश- -शस्य
 पावा १, १, ५०.
 ऋवर्णा(र्ण-उ)दय^{१०}- -य याशि
 २, ५६.
 ऋ-वर्ण^{११}- -र्णे ऋप्रा ९, ६.
 ऋ-स्थ- -स्थम् ऋत ३, ५, ७
 √क^{१२} पाधा भ्वा पर गतिप्रापणयोः
 लु पर गतौ, √कच्छ तुदा.
 पर. गतीन्द्रियप्रत्ययमूर्तिभावेषु,
 ऋभ्यात् बौश्रौ ७, १०:५;
 हिश्रौ ८, ५, २९
 ऋह्यति निघ २, १४, या ९,
 ४७
 ऋपोति निघ २, १४
 ऋच्छति आपश्रौ १२, ७, ४१;
 हिश्रौ १०, ७, १६१, सु १९, ११,
 अप, ऋनिघ २, १४, ३, ५, या ४,
 १८, ९, २; ऋच्छन्ति वाध ३,
 १२, ऋप्रा ५, १८१, ऋच्छतु
 आश्रौ ८, १४, १८, शाश्रौ ६, ३,
 १-७, ८, १२, ११, आपश्रौ;
 ऋच्छन्तु अप १९, १, ९१, ऋच्छ
 आपश्रौ ६, ६, ८१, ऋच्छत या
 ३, १७; आच्छेत् आपश्रौ ५, २,
 ४१, ऋच्छेत् आपश्रौ ११, १,
 ४, १४, १३, ७, वाधुश्रौ ३, ३३:
 ३, हिश्रौ १०, ७, १६, १५, ८,
 ३३, ऋच्छेयुः शाश्रौ १३, ३, ४.-
 ऋारिम द्राश्रौ ६, ४, ११, लाश्रौ
 २, १२, १२, अरिष्यति वाधुश्रौ

a) =वर्ण-विशेष-। b) विप । बस उप भाप । c) विप । द्वस > बस । d) विप । बस ।
 e) विप । मलो. कस. > षस. > उस. उप. < √गम् । f) शिति ऋच्छाऽऽदेशः (तु. वैप१) । या १, ९, १८, २, ७;
 २५, ५, ७, ९, ८; ३२ पा ३, १, ५६, ७, २, ६६, ७४, ३, ३६, ७८, ८०, ४, ११, २९; ७७ परामृष्टः द्र. ।

३, १९ = १७^१, ऋारत् भासि
११५, १२०, ऋाराम आमिष्ट
३, ८, ३ : २८, बौपि १, १६ :
१५, हिपि १६ : ११, आरिष्यत्
वाधुश्री ३, २२ : १२

ऋच्छ(त>)न्ती-न्ती या १, ९^१
ऋत्त^१- पाउवृ ३, ८९\$, -०त
शाश्री २, ७, १४, -तः बौश्री
१०, ५३ ४^२, माश्री ६, २, ५,
२३; अप ४८, १३७, वृदे
१, १२४\$, निघ ५, ४; \$या
१०, ४०, ४२, ऋप्रा ४, ५२,
उसू ८, १९, -तम् आश्री २,
९, १०, ३, ८, १, ४,
५, ७, ५, २, १४, ६, २, ९,
शाश्री २, ६, १०^१, ५, ८, ५××;
काश्री, आपश्री ६, ५, ४^१;
काश्रीसं \$३६.१३^०, १४^०,
बौश्री ३, ५.१^१; भाश्री ६, १०,
१^१, वैश्री २, २ : १५^१, हिश्री
३, ७, २२^१; वैताश्री ७, ४^१,
आमिष्ट २^१, ४, १० : २४, ६, ७ :
१८, कौसू ३, ४^१, अप ४५, १,
९^१, शघ ११६.६१\$, निघ १,
१२, २, १०, ३, १०; या २,
२५^१\$, ४, १९^१; १४, ११\$,
३१, पाम १, ४, ५७\$,
-तस्य आश्री १, ३, २५××,
शाश्री, लाश्री ९, १०, ६^०, आपसं
२, ११, २३; निघ १, १२,
या ३, ४^१; ६, १६, २२^१;
७, २४^१, ८, ६^१, १९^१, २१,

१०, १६, ४१^१, १४, २, ११,
१४^१, २५, -तात् शाश्री १४,
१६, १०; आपश्री ४, १, ६, १६,
१६, ६, ५, ३, ९, ३, ११, ४, १४,
६, भाश्री ६, १, ५, हिश्री ६, ४,
३३, -तानि शाश्री १५, ३,
७, -ताय शाश्री २, ७, १३,
आपश्री १६, ३१, १, बौश्री २६,
३१ ८^१, वैश्री १८, २०. ५३,
हिश्री ११, ८, ४, -ते आपश्री
५, १०, १, ८, ४, २^१, १०, ९, ४,
१६, ३१, १, बौश्री ५, ४ २६^१,
वैश्री १८, २० ५४, माश्री १,
७, २, २३, हिश्री ३, ३, ४१, ५,
१, ४५^१, १०, २, ६, ११, ८, ४,
आश्री १, ५, ४^१, काश्री, पावा ६,
१, ८८\$, -तेन शाश्री २, ६,
११^१××, काश्री, आपश्री ६, ५,
४^१; बौश्री ३, ५ २^१, भाश्री ६,
१०, १^१, वैश्री २, २ १६^१;
हिश्री ३, ७, २२^१; वैताश्री ७.
२०^१, आमिष्ट २, ४, १० २३^१,
६, ७ : १९^१, कौसू ६, २०^१,
अप ४५, १, १०^१; वैघ २,
१४, १०^१, या ११, १५^१\$,
-तेभ्यः आपश्री १६, ३१, १,
वैश्री १८, २० : ५४, हिश्री ११,
८, ४.
ऋत्त-जा^१-जा. या १४, ३१^१.
ऋत्त-जित्^१-जित् बौश्री
१०, ५३ : ३^१; माश्री ६, २, ५,
२३, -जितम् शंघ ११६ : ५१^१

ऋत्त-ज्ञ,ज्ञा^१-ज्ञ, -ज्ञा बौफि
२, ९, १२^१
ऋत्त-ज्ञा^१-ज्ञाः^१ बौश्री २, ८ :
२९; या ११, १८^१, -०ज्ञाः
गौपि २, ५, १४, अप ४४, ४,
१२
ऋत्त-जय^१-याय आमिष्ट १,
२, २. २१, भाग ३, १० : ६,
हिष्ट २, १९, ६.
ऋत्त-दे(व>)वी^१-व्य ऋअ
२, ४, २३
ऋत्त-धामन्^१-मा शाश्री ६,
१२, २३, आपश्री ११, १४, १०,
१७, २०, १, बौश्री ६, २९ : १९^१;
१०, ५४ १४, १४, १७ ४;
माश्री ६, २, ५, ३२, वैश्री १४,
१३ ६, हिश्री १०, ३, ४२, १२,
६, १५; २२, १, ३१; जैश्री १३ :
१७; द्राश्री ४, २, ११; लाश्री २,
२, २०, आमिष्ट १, १, २ २०;
५, २ : ३७; ६, २ : ७, भाग १,
११, १५, वैग १, १८ १, हिष्ट
१, ३, १३, शुअ १, ३४५
ऋत्त-धीति^१-निम् बौश्री २५,
४ १२^१.
ऋत्त-निघन^१-नम् द्राश्री २, १,
१२, लाश्री १, ५, ९.
ऋत्त-पर्ण^१-०र्ण या ८, १९.
ऋत्त-पा^१-०पाः बौश्री ८, १२ :
२९^१.
ऋत्त-पात्र-त्रम् द्राश्री ३, १,
१८, लाश्री १, ९, २०.

- a) वैप १ द्र । b) पामे. वैप २, ३खं. तैत्रा २, १, ११, १ टि द्र । c) = द्रव्य- ? । d) = द्वादशा-
स्त्रिरसेष्वन्यतम- । e) पामे वैप १ सल्यस्य मा २३, २९ टि. द्र. । f) पामे वैप १, ९९५ f द्र ।
g) पामे. वैप १, ९९७ g द्र. । h) पामे. वैप २, ३खं. ऋत्तम् मन्ना २, ४, १० टि द्र । i) = एको-
नपञ्चशतमरुत्सन्धतम- । j) विप । उस. क. प्र । k) पामे वैप १ परि ऋत्तज्ञा टि. द्र. ।
l) वैप. म. उस. खन्तम् । m) विप । वस. । n) विप (आज्यदोह- [साम-विशेष-]) । वस. ।

ऋत-पेय^०- -यः काश्रौ २२, ८, १०, -यस्य बौश्रौ १८, ३४-४, -ये द्राश्रौ १५, ४, १८, लाश्रौ ५, १२, २२, ८, ९, ७१, -येन आश्रौ ९, ७, ३५, शाश्रौ १४, १६, १, आपश्रौ २२, ९, ११, काश्रौसं २९ १४, बौश्रौ १८, ३२ १, हिश्रौ १७, ४, ६^b

ऋतपेय-त्व- -त्वम् बौश्रौ १८, ३४ ४

ऋत-प्रजा(त>)ता^०- -ता बौश्रौ ७, ५ २२, १४, ४. ३८
ऋत-भाग^०- पाग ४, १, १०४, -गा.^० बौश्रौप्र ३ : ६

ऋतभाग- पा ४, १, १०४.

ऋतभागी-> ङी-पुत्र-
-त्र बौश्रौ २१, १६ १२
√ऋतय, ऋतयन्त ऋप्रा ९, २११

ऋतयु- -यु बौश्रौ १८, ४० ८, ऋप्रा ९, १५

ऋत-युक्ति^०- -क्तिम् ऋप्रा ९, २११

ऋत-व(त>)ती- -ती शाश्रौ १४, १६, १०, -त्यः या २, २५
ऋत-वाक^०- -केन ऋप्रा ९, १८१

ऋत-वादिन्- -दिभ्य आश्रौ ४, ५, ७, शाश्रौ ५, ८, ५, बौश्रौ ६, ८९. १८, २१ १६, द्राश्रौ १४, २, ६, लाश्रौ ५, ६, ९, वैताश्रौ १३, २४.

ऋत-शब्द- -ब्दे ऋप्रा १७, ३३.

ऋत-श्री^०- -श्री आपश्रौ २, ३, ७, बौश्रौ १, ११ ३२, भाश्रौ २, ३, ९, हिश्रौ १, ६, १०.

ऋत-सत्य- -त्याभ्याम्^१ आश्रौ २, २, ११, बौश्रौ १८, ३३. २, भाश्रौ ६, १०, १, माश्रौ १, ६, १, १०, वाश्रौ १, ५, २, १५; -त्ये बौश्रौ १८, ३३ : ७^२

ऋतसत्य-शील^०- -लः आश्रौ २, १, ५

ऋत-सद्, ध्- -सत् आपश्रौ १६, २९, २, बौश्रौ ७, १२ ३७, वाश्रौ, या १४, ३१, -सघ^३ आपश्रौ २, ३, १३, वैश्रौ ५, २ ५, हिश्रौ १, ६, १११.

ऋत-सदन^०- -ऋनम् काश्रौ ७, ९, २६, २७, आपश्रौ २, ३, ७, बौश्रौ, -ने द्राश्रौ ३, २, ६, ३, ५, लाश्रौ १, १०, ५, २९

ऋत-सदनी- -नी काश्रौ ७, ९, २५, आपश्रौ १०, ३१, २, वैश्रौ १२, २१ : १७.

ऋत-सदनि^०- -नि भाश्रौ १०, २०, १६, हिश्रौ ७, ३, ५०

ऋत-साप्^०- -सापः बौध १, ६, ३१.

ऋत-स्-पति^०- -०ते आश्रौ ३, ८, १, शाश्रौ ३, १८, ५, ऋप्रा १३, ३०, उस् ८, १९, शुप्रा ३, ५१.

ऋता(त-आ)दि- -दि वैश्र १, १८ : १३.

√ऋताय>ऋतायत्- -यते आपश्रौ ८, १४, २४, १६, २५,

१, बौश्रौ १०, ३३ २४ माश्रौ ६, १, ७, २२, वाश्रौ २, १, ६, ३६, वैश्रौ, -यन् ऋप्रा ९, २२.

ऋतायि(त्>)नी^०- -नी ऋप्रा ९, १४^१

ऋतायु- -यव आश्रौ ४, १३, ७, शाश्रौ^० ११, ६, ८, १४, ५६, ४, बौश्रौ ३, १४ ९६, तैप्रा ३, २, -युभिः ऋप्रा ९, ५१; -युभ्य बौश्रौ ७, ४. १४, -युभ्याम् आपश्रौ १२, १४, १२, बौश्रौ ७, ६ ४५, १८, २८ ९, माश्रौ २, ३, ५, ६, वैश्रौ १५, १६ ३, -युम् ऋप्रा ९, २२, -यो^० या १०, ४५^४, ऋप्रा ९, २२

ऋत(त>)ता-वन्^०- -०वः ऋप्रा २, ४१, -वा आपश्रौ १४, १७, १, २४, १३, ३, हिश्रौ १५, ५, १, वैताश्रौ ३३, २०, गौपि २, ४, ७, ऋप्रा ९, ११; -वानम् आश्रौ ८, १०, ३, शाश्रौ ३, ३, ५, १०, १०, ८, बौश्रौ १३, ९ : ६, माश्रौ ५, १, ५ ३२, निस् ९, ५ : १४, शुभ्र, -वने ऋप्रा ९, २४.

ऋताव(त्>)री^०- -री आश्रौ १, ७, ७, शाश्रौ १, १२, १, शौच ३, २४, -री बौश्रौ ९, २ : १८, ऋप्रा ९, ५१, -०री काश्रौ ४, २, ३२, आपश्रौ १, १३, १०, बौश्रौ; या २, २५^४.
ऋत(त>)ता-वृत्^०- -वृत्तः^१ वैताश्रौ १३, २०^६, -वृत्तौ अप ४८, ६०^१.

a) = एकाह-विशेष-। b) ऋतु^० इति पाठः^२ यनि शोधः (तु. आपश्रौ.)। c) वैप १ द्र। d) वैप २, ३खं. द्र। e) बहु <ऋतभाग-। f) पामे वैप २, ३खं ऋतुम् तैप्रा २, १, ११, १ टि. द्र.। g) विप.। बस वा उस. वा। h) विप. (२अप्-। i) नाप। उस उप अधिकरणे ऋनिः प्र. उसं (पाउ २, १०२)। j) सपा. ऋतः<>ऋधः इति पामे.। k) ऋधः इति ०.। l) = द्यावापृथिवी-।

क (त>) ता-वृध्- वृध्
शाश्रौ १०, १०, ७, ११, ८, ३,
आपश्रौ ५, १९, ४, ११, १, ९^b,
बौश्रौ २, १० १५, ६^b, १९.
९, २१.८, २४, २६.५,
माश्रौ १२, १, ७^b, माश्रौ २, २,
१, ११^b, ५, २, ७, ५, वैश्रौ ८,
१ ९, १२, २३ ४^b, हिश्रौ ३,
५, ५, ४, ३, ५४, ७, ३, ७६^b,
वैताश्रौ, विघ ४८, १०^b, या १२,
३३^क, -वृधा आश्रौ ३, ८, १,
शाश्रौ ८, ३, ११, आपश्रौ १३,
१३, ८, बौश्रौ, -०वृधा या ५,
२२, -वृधौ वृदे ३, ३८, ४,
१२५, -०वृधौ ऋप्रा १७, ३१
क(त>)ता-वाह्- पा ८, ३,
१०९, -कपाट काश्रौ १८, ५,
१६, आपश्रौ १७, २०, १, बौश्रौ
१०, ५४ १३, १४, १७.४, माश्रौ
√कति>कतयत्- -यन्
बौश्रौ ९, ७ : ४^क

√कृ^० पाधा. स्वा. पर हिंसायाम्.

√*कृह्, *कृह्, आनृह्^a पा ६, १,
३६^क
कृहव- -हन् अप ४८, ६७^२,
निघ ३, २
कृका- पाउभो २, २, ६
कृक्-चोदना- प्रभृ √कृच् द्र
कृकतु^०- (>कार्कतव- पा) पाग
४, ३, १६४.
कृक्-वत्-^०वन्- प्रभृ √कृच् द्र.
√कृष्^०
कृक्ष^०- पाउ३, ६७, पाग२, १, ५६,
४, २, ८६, -क्ष. विघ ४४, ४१,
-क्षम् अप ५७, २, १, अशा १,
६ २-३, ४, ५, ४, ३-५,
५, १, ३, ४, ६-८, -क्षा बौश्रौ
१९, १० - ३२^क, कप्र ३, ६,
११, अप ४८, १२०^क, अशा ६,
६, निघ ३, २९^क, या ३,
२०^३क^०, वेज्यो १८, -क्षाणि
कप्र १, ९, ३, अशा १, १, शंघ
११६: ४८, -क्षे बौश्रौ २, ५.६^क,
अप १४, १, ५, -क्षेभ्यः मायृ २,
१२, १७, -क्षेषु अप ५२, १५, ३.
कृक्ष^०- -क्षं आपश्रौ २२,
१२, ७
काश्रौ(र्त्त-उ)पासङ्ग^b- कृ.
शाश्रौ १४, ३३, २०.
कृक्ष-तस् (.) आपश्रौ १०, २४, ६
कृक्ष-वत्^१- पा ४, २, ८६, -वन्तम्
शंघ ११६ : १०.
कृक्ष-विभाग- -ने अप ५६, १, १.

कृक्ष^१- पाग ४, १, १८, १०५, -क्षम्
शंघ ११६ : ५६^२, ६१^१
-क्षणाम् आश्रौ १२, ११, २;
आपश्रौ २४, ७, ६, हिश्रौ २१,
३, १०
कृक्ष^२- -क्षस्य ऋअ २, ८, ७४.
काश्र्य- पा ४, १, १०५
काश्र्यायण- पा ४, १, १८.
कृक्ष(क्ष-अ)श्वमेध- -घयोः ऋअ
२, ८, ६८, वृदे ६, ९२.
कृक्षपाद्^m- -पादम् शंघ ११६ :
५४^२
कृक्षर^०- पाउ ३, ७५, या ९,
३२^क^p.
कृक्-संहिता- प्रभृ. √कृच् द्र
कृक्-स्व(र>)रा^p- -रा नाशि २,
३, ८
कृगक्षर- प्रभृ √कृच् द्र.
कृगाजोथगर्भाज.^r चाअ १६ : ४.
कृग्-गुण- प्रभृ √कृच् द्र
√कृच् [=√अर्च्] पाधा तुदा पर
स्तुतौ, कृानृचुः पा ६, १, ३६^६;
अप्रा ३, ४, १.
कृर्च्य- पा ७, ३, ६६.
कृकृन्^a- -कृभि. आश्रौ ५, २०, ८;
९, ६, २, शाश्रौ ११, २, १३, -का
माश्रौ ४, १, २३, शैशि ३३०;
-काण. शैशि १२१
कृग्मन्^a->कृग्मिय^a- -यम्
बौश्रौ १८, ४८ : १५; कृया ७,
२६^क, -याणि बौश्रौ ८, १८,

a) कैप १ द्र. । b) पाभे वृ ७६५ j टि द्र । c) = √रि इति [पक्षे] BPG । d) नाप. ।
व्यु ? । कृक्षतु- इति भाण्डा, कृक्षन्तु-, कृक्षन्तु- इति [पक्षे] पाका । e) < √कृत् + √क्षि इति BPG. ।
f) = भल्लूक-, नक्षत्र-, पर्वत- प्रभृ. । g) विप । विकारायै अन् प्र. । h) विप. (अश्व-रथ-). बस. उप.
= तूष्णीर- । i) विप., नाप. । j) = कृषि-विशेष- । व्यु ? । k) पाठ ? । दक्षम् इति अपु २१९, २५ । l) पाठः ? ।
दक्षम् इति अपु २१९, २० । m) = मरुद्-विशेष- । व्यु. ? । n) पाठ ? । अक्षपादम् इति अपु २१९, ३३ ।
o) कृष्ण- व्यु- व ? । < √कृष् इति पाठ. । p) = कण्टक- । < √कृच्छ इति । q) विप. । बस. पूष.
कृष्ण- । री पाठः ? कृष्णजो-कृष्णयजः इति स्यात् ? (तु. काठ १६, ३) । s) < √अर्च् । पजायाम । इति ।

८, वैश्रौ १६, २२:१०

कृच्- पाठवृ २, ५७, कृच्
आपश्रौ ४, ४, ४, ९, २, ३,
१६, ३२, ४, बौश्रौ, निघ १,
१११, या १, ८×४, कृच्छ्र शाश्रौ
६, १, ४, वाश्रौ, पा ८, ३,
८, कृग्मिः आपश्रौ १६, १, ४,
बौश्रौ, या १३, ७, कृग्म्य
जैगृ २, ८ ७, बौघ ३, ९, ५,
वृदे १, १, कृग्भ्याम् शाश्रौ ४,
१४, १५, १५, २३, १, काश्रौ,
कृच् आपश्रौ २, १३, ८×४,
शाश्रौ, हिश्रौ ६, ३, ९१^७,
आमिगृ २, १, ४ २^{१०}, वैगृ ३,
१५: १८^{१०}, हिगृ २, ३, ९^{१०},
अपं ४ ५^{१०}, या १, ८, ७, १×४,
पा ६, ३, ५५, कृच्म आपश्रौ
१, १, १७×४, शाश्रौ, या २, ८,
७, ८, कृच्मऽकृच्म आपश्रौ ४, ६,
२, कृच्चा आपश्रौ २, १९, ३५, ८,
२, ९, शाश्रौ, या ३, १×४,
कृच्चाऽकृच्चा बौश्रौ २२, १:
१२, ६: ४, ९. १६, कौस्
७६, ३१, कृच्चाम् शाश्रौ १३,
१, ६, काश्रौ, या १, ८^१, कृच्चि
शाश्रौ १५, २२, १, आपश्रौ १३,
१६, ३, २४, १३, १२,
बौश्रौ, या २, २०×४, पा ४,
१, ९, ६, ३, १३३, ७, ४, ३९,
पावा ६, १, ३७, कृच्चिऽकृच्चि
शाश्रौ १५, २२, १, कृच्चे काश्रौ
१७, ५, ९, आपश्रौ १६, २७,
२×४, कृच्चो कृच्च २, ५, २,
कृच्चौ आपश्रौ २, १२, ३, आपश्रौ

आर्च- > आर्ची- -ची
अत्र ५, ६×४, -च्यं अत्र ९,
६(६)

आर्ची-त्रिष्टुम्-
-ष्टुभ अत्र ८, १०(४), -ष्टुभौ
अत्र १५, ६

आर्ची-पङ्क्ति-
-ङ्क्ती अत्र ९, ६(६), १५, ४, ६,
१४.

आर्ची-बृहती- -त्य
अत्र ८, १०(३), -त्यौ अत्र
१५, १८

आर्च्य(ची-अ)नुष्टुम्-
-ष्टुप् अत्र १९, १८, -ष्टुभः
अत्र ८, १०(४), ११, ३(२),
१९, १८, -ष्टुभौ अत्र ९, ६,
७, १२, ५(२), १४-१५, ४,
१६, १, ३.

आर्च्यु(ची-उ)ष्णिह्-
-ष्णिहौ अत्र ५, २६.

आर्चा(र्च-अ)भ्याम्नाय-
-ये या २, १३

आर्चिक- पा ४, ३, ७२.
-कम् लाश्रौ ७, ८, ५-७, ९, ७,
मैत्र २१, निसू २, १०: १३,
२४, नाशि १, १, २, -कस्य
सात्र १, १, नाशि १, ८, १,
-काः मैत्र २४, -कान् द्राश्रौ
६, ३, ३, लाश्रौ २, १०, २४,
-कानि लाश्रौ १०, ९, ७, निसू
६, ७ ५१, -केषु मैत्र २८

आर्चिका(कृ-अ)व्यवेत-
-तान् लाश्रौ ६, १०, २६
कृच्-चोदना- -ना लाश्रौ १०,

२, १
कृच्-छ(<श)स() शाश्रौ १२,
११, ८, १५, ३, २.

कृच्-तस्() आपश्रौ १, १२, ३३,
आपश्रौ ९, १६, ४, १४, ३२, ५
बौश्रौ २७, ४ ५, माश्रौ

कृच्-तन्त्र- -न्त्रम् चच्यू ३:
१३
कृच्-पद- -देषु कृच्चा १२,
१६

कृच्-वत्- -वता शाश्रौ ६, १०,
५^१

कृच्-शत- -तम् विघ ५०,
४८

कृच्-शस्() आपश्रौ ८२, ६,
११, १९, गोगृ

कृच्-इलोक- -काम्याम् या
३, ४.
कृच्-संहिता- -ताम् याशि १
३१

कृच्-समावाय- -ये माश्रौ ५,
१, १, १३.

कृच्-समावाय- -येन निसू २
१२: ३

कृच्-साम- पा ५, ४, ७७,
पाग २, ४, १४, -मयोः
काश्रौ ७, ३, २०, आपश्रौ १०,
८, १६, बौश्रौ, मीसू ९, २, ३०^१,

-मानि लाश्रौ ६, ९, १२, क्षुस्
३, १६ २, आमिगृ १, ५, २
४५, वैगृ १, १८ ६, जैगृ २,
७ ८, -माम्याम् माश्रौ २,
१, १, ६, शुग्रा ३, ८१, तैप्रा ३,

a) वैप १ द्र. । b) रु इति पाठ ? यनि शोध (तु तैप्रा ३, ७, ६, १८) । c) सपा कौगृ
१, १६, १६ शागृ १, २४, ८ कृग्वेदम् इति पाठे । d) °चर्चा इति पाठ. ? यनि शोध । e) तस्येदमीयस्
तस्यसमूहीयश्च अण् प्र । f) = कृग्वेद- । कस । g) = प्रन्थ-विशेष- । h) विप. । तत्रभवीये
यति प्र कुत्वम् (तु. वैप १ कृक्त्-) ।

५, -मे भाश्रौ ९, १३, १,
वाधुश्रौ ४, ३३: ५, जैश्रौ ७:
९, शुश्र १, ५०२, तैप्रा ४,
११

ऋक्साम-देवता-> ऋत्य-
-त्यम् अत्र ७, ५४.

ऋक्-साम्-ऋ- -न्न. साम १,
३६९, -न्नाम् लाश्रौ १०, १०,
५, -न्नि शुप्रा २, ५७

ऋक्-साम-यजुस्- -जूषि बौध
३, ५, ७.

ऋक्सामयजुर्-अङ्ग- -ज्ञानि
नाशि १, १, ४

ऋक्-सूक्त^b- -क्ता: अप २. ४.

ऋक्-सूक्ता (क-अ)र्ध्व-संश्रित-
-तम् वृदे १, ५९

ऋग्-अक्षर- -रे निस् ३, १२:
२७-२९, ३२, ४५, ४, ७
२१

ऋग्-अन्त- -न्तम् आश्रौ १,
२, १०, वैताश्रौ २१, ४, -न्ते
काश्रौ १९, ७, ५, -न्तेषु आपश्रौ
२१, २०, ४, माश्रौ २, ४, २, २५,
हिश्रौ २१, १, १३, गोगृ ४, ५,
२६, -न्तै: आश्रौ ६, ४, ४, ८,
१, ६.

ऋगन्त-क- -के याशि १,
१४.

ऋग्-अन्तर- -रम् माशि १३, २.

ऋग्-अयन-> आर्णयन- [पा.,
पावाग ८, ४, १०], ण- पावा)
पाग ४, ३, ७३

ऋग्-आगम- -म. मीस् १०,
५, २६.

ऋक्-आदि- -दिभि: द्रायु ३, २,

२१, -दीनाम् कप्र २, ४, १६
ऋग्-आवान^c- -नम् आश्रौ ४,
६, १, ५, १, ५, ९, २२, १३, २,
२०, ३, ८, १२, २०, वैश्रौ १३,
८: ५.

ऋग्-उत्तर^b- -रेण आपश्रौ २१,
७, १५

ऋग्-उपसंधान- -ने बौश्रौ
१९, ४: ३५.

ऋग्-ऊढ- -ढम् लाश्रौ ७, ९,
७^२.

ऋग्-गण- -ण चव्यू २: ९,
या १४, १, ३६, -गणाम् शाश्रौ
१, १, २४, -णेपु शाश्रौ १, १,
१८, २२.

ऋग्-गुण^b-त्व- -त्वात् मीस् ८,
३, २७

ऋग्-जप- -प गौपि २, ४, ९

ऋग्-दृष्टि^b- -ष्टीनि निस् ६,
७. ५९.

ऋग्-द्वय- -यम् वैश्रौ २१, २:
१०, -येन कप्र २, १, १०.

ऋग्-भाज्- -भाज. या ७, १३,
-भाजि वृदे १, १७; १८,
२, ७८.

ऋग्-मत्- -मन्तम् या ७, २६.

ऋग्-यजुष- पा ५, ४, ७७,
-षयो: शुश्र ४, १९४; -षाणि
चाश्र २: ५

ऋग्-यजुस्- -जुभि: हिश्रौ
१५, ७, १२; १६; आमिष्ट २, ३,
५: २७, ३, ३, २: २१; ११,
३: २०; -जुषाम् वाध १३,
३०; गौध १६, २१; ऋप्रा ११,
७१; उनिस् ३: १८; -जुषी

विध ३०, २६, -जूषि चव्यू २:
३०

ऋग्-यजु-सामन्- -मभि: शैशि
१६९, १७१, माशि ३, ५, याशि
१, ४०, ४६, -न्नाम् अप ६७,
८, १

ऋग्यजु साम-निर्दग्ध- -ग्ध:
माशि ३, ३.

ऋग्यजु साम-लक्षण- -णम्
नाशि १, २, ३

ऋग्यजु:साम-वेद- -दानाम्
बौध ४, ५, २९

ऋग्यजु:साम-संस्थित-
-तम् अप २, ५, ३

ऋग्यजु सामा(म-आ)त्मक^b-
-का: आमिष्ट २, ४, १२ ८.

ऋग्-यजु-सामगान- -नानि
माशि ३, ४^{१०}

ऋग्-यजु-सामा(म-अ)थर्वन्-
-र्वभि: आमिष्ट २, ५, ७: १७; बौध
१, ११, १२, वैगृ ३, १३: १०.

ऋग्-यष्टृ- -ष्टा या ३, १९.

ऋग्-या(ज्या>)ज्य^b- -ज्यौ
हिश्रौ २१, २, ४६.

ऋग्-वत् मीस् ९, २, ३४.

ऋग्-विद्^c- -वित् ऋश्र ३,
३७, -विदम् वैताश्रौ ११, २.

ऋग्-वि(धा>)ष^b- -धम् बौध
१, ४, २५^२.

ऋग्-विधान- -नम् बौध १, ४,
२५^२.

ऋग्-विराम- -म: तैप्रा २२,
१३.

ऋग्-वेद- -द: शाश्रौ १, १;
२८; अप ४१, ५, ३; वैगृ,

a) मलो कस. ।

b) विप. । बस. ।

c) षस. उप. < आ√वे (तन्तुसंताने

d) *सामयदीनि इति पाठः? यनि. शोषः (तु. याशि १, ४०) ।

e) लस.

-दम् कौट १, १६, १६^१,
शाण्ट १, २४, ८^१, आमिण्ट १,
२, १. ५, २ ४०, २, ६, १ :
११, ३. ४२, हिण्ट, -दस्य बौण्ट
२, ९, ५, भाण्ट ३, १५. ४,
चव्यू १ : ४, ४ १०, २१,
-^१दाय आमिण्ट १, २, २ : २५,
बौण्ट ३, १, ८, २, ९, २२, ३४, ४७,
३, ११, ९, ५, भाण्ट, -दे शाश्रौ
३, २१, २, पाण्ट २, १०, ४, आमिण्ट
२, ४, १२ ११, ऋअ, साअ १,
२३३^१, २५९, -देन आपश्रौ
२४, १, १६, वाश्रौ १, १, १, ६,
हिश्रौ १, १, ३, ४५, कौण्ट १,
१०, १^१, शाण्ट १, १६, ३^१
ऋण्वेद-यजुर्वेद- दाभ्याम्
आपश्रौ २४, १, ५, हिश्रौ १, १,
४

ऋण्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-
-दैः आपश्रौ २४, १, ४

ऋण्वेद-वादिन्-दिन काण्ट
४२ : १२

ऋण्वेद-सामवेद- दाभ्याम्
आपश्रौ २४, १, ८, वाश्रौ १, १,
१, ७

ऋण्वेदा(द-अ)न्त्य- -न्त्यः
ऋअ ३, ३१

ऋण्वेदा(द-आ)झाय- -ये
ऋअ १, १.

ऋण्व-व्यपदेश- -शात् मीसू २,
१, ४३.

ऋण्व-मन्त्र- -न्त्राणाम् वृदे ३,
३९.

ऋण्व-मय- -य लाश्रौ १, ६, ३७,
शुअ ४, २१९, -यम् बौश्रौ
१६, ६ : १७, -यान् मैअ २२
ऋण्व-मिश्र- -श्रम् या ४, ६

१ऋच्-√ऋच् द्र

२ऋच्^०- (>आर्चायन- पा) पाण
४, १, ९९

१ऋचसमा निसू ९, ६ : ५

ऋचाभ^०-> आर्चाभिन्^०->०भि-
मौद्वल^०- ला पाण ६, २, ३७

ऋचीक^१- पाउभो २, २, १९६.

ऋचीक पुत्र- -त्र अप ५२, १०, ३

ऋचीष^१- -षम् विध ४३, १७

१ऋचीषम^१- -म निघ ४, ३, या ६,
२३६, शैशि १२१, ३३०, अप
४८, ११५

ऋचीस^१- >०स-पक्- -कम् शंघ
४२७

ऋच्छर^१- पाउ ३, १३१^१.

√ऋजू पाधा -वा आत्म गतिस्था-
नार्जनोपार्जनेषु ।

१ऋजीति^१- -०ते^१ आपश्रौ २०,
१६, १२, हिश्रौ १४, ३, ३६,
ऋअ २, ६, ७५

ऋजु^१- पाउ १, २७, पाण ५, १,
१२२, -ज्व आपमं १, १, २^१,
शाण्ट ४, ४, ८^१, आमिण्ट १, ५,
१ : १^१, ६, १ : ५, काण्ट २५,
१^१, बौण्ट १, १, १५^१, वाण्ट
१०, ७^१, जैण्ट १, २० : ३^१,
कप्र २, ५, १९, ३, ८, १३, अप
४४, १, १०, ६८, १, ९, बौध
४, ७, २, -^१जवे काश्रौ २६, १,

२७, बौश्रौ ९, ४ : १२, माश्रौ
४, १, २७, शुअ ४, ७७, -जु
अप २३, १०, १, -जुः आपश्रौ
२१, ४, १८, काठश्रौ; या ६,
२१, -जुत्वा वाधूश्रौ ४, ६^१,
३, कप्र १, २, १, -जुम् आपश्रौ
२, १२, ७ x^१, १७, १३,
२^१, बौश्रौ, हिश्रौ १२, ४, ४^१,
-जू आपश्रौ २, १२, ८, -जोः
भाश्रौ ७, १, ९, हिश्रौ ४, १, १८.
ऋज्वी- -ज्वीमि माश्रौ
२, १, ४, ३, -ज्वीम् कौसू १३७,
८

आर्जव- पा ५, १, १२२;
-वम् अप ३, १, १३, आपघ १,
२३, ६, विध २, १७, हिघ १,
६, १४, या १४, ७, -वे पावा
३, १, ६

ऋ, रजिमन्- पा ५, १, १२२;
६, ४, १६२.

ऋ, रजिष्ठ- पा ६, ४, १६२.

ऋ, रजीयस्- पा ६, ४, १६२;
-य^१ अअ ५, १४^१.

ऋजु-कर्मन्- -मैभि. बौध ४,
७, २

ऋजु-गमन- -ने अप ४८, ४४.

१ऋजु-गा^१- -गा^१ बौश्रौ ७, ८ :
५, १४, ५ ४३, माश्रौ २, ३,
६, ४, हिश्रौ ८, ४, ४६.

ऋजु-गामिन्- -मिन^१ या १०,
३, -मिनाम् या १२, ३९.

ऋजुगामिनी- -नी या ९,
२६.

a) पासे. पृ ७६७ C द्र । b) पाठः ? यनि. शोधः (तु उत्तरीयं स्थलम्, काचित्क मूको. च) ।

c) = ऋषि-विशेष-। व्यु ? । d) = वैशम्पायनान्तेवासिन्-। णिनि प्र (पा ४, ३, १०४) । e) द्वस उप.

<सुद्वल-। f) = जमदग्नि-पितृ-। व्यु. ? । g) <√ऋच् इति । h) = नरक-विशेष-। व्यु. ? ।

०स-इति जीसं. । i) वैप १ द्र । j) = ऋजुषि-। k) अर्थ व्यु. च ? । l) <√ऋच्छ इति ।

m) पासे. वैप. १, १००५ y द्र. । n) पासे. वैप १, ९८९ f द्र ।

ऋजु-ज्वा (ला>) ल^a- ल^b.
 अप २९, १, ४
 ऋजु-तम- मै या ८, १९
 ऋजु-देह-> ङ्हीय- -याः
 माश्रौ २, ५, १, २०
 ऋजु-धा आपश्रौ ९, १४, १^b,
 बौश्रौ ^a
 ऋजु-नीति^c- -ती आश्रौ ७,
 २, १०, शाश्रौ १०, ९, १६, १२, २,
 १४, ऋजु २, १, ९०, साञ्ज
 १, २१८, निघ ४, ३, या ६, २१
 ऋजु-ले (ख>) खा^a- -खा
 वैश्रौ १८, १६. ४०^{ad}, -खा
 आपश्रौ १६, १३, ६, ३४, २,
 माश्रौ ६, १, ४, ३९, ८, १०, वाश्रौ
 २, १, ४, ३, वैश्रौ १८, ११,
 २३, हिश्रौ ११, ५, १८, बौशु
 ६, ५, -खाभि वाश्रौ २, १,
 ६, ४
 ऋजू (जु-उ)दर^a- -रा माश्रौ
 २, ४, ४, १३
 √ऋजू> ऋजूयत्- -यताम्
 या १२, ३९, शुप्रा ३, ११२;
 -यन्तम् ऋप्रा ९, १६
 ऋजूया^c- -या ऋप्रा ९,
 ४९^f
 ऋजूयत्^c- -ज्यन्त या १०, ३६
 ऋज्रा, ज्रा^c- पाठ २, २८, -ज्रम् वृदे
 ६, ६६^f, -ज्रा या ५, १५^f.
 ऋज्रा (ञ-अ)श्व^c- -श्वम् या
 ५, २१^f.
 ऋज्राश्रा (श्व-अ)श्वरीष-
 सहदेव- भयमान-सुराधस-
 -धस. ऋजु २, १, १००

ऋजिमन्- √ऋजू द्र
 ऋजिश्च^c- -श्वः शुभ्र ३, २१८, ४,
 २६, ३५
 ऋजिश्चन्^c- -श्वनि वृदे २, १२९, -श्व
 ऋजु २, ६, ४९, ९, ९८, १०८,
 वृदे ३, ५५, साञ्ज १, ६११
 ऋजिष्ठ- √ऋजू द्र
 ऋजीर्क^c- पाठ^b ४, २२, ५, ५१
 ऋजीक-प्रभ(व>)वा- -वा या ९,
 २६
 ऋजीति-, ऋजीयम्- √ऋजू द्र
 र्ऋजीष^c-> ऋज्जीषिन्^c- -षिण
 आश्रौ ६, ४, १०, शाश्रौ १८, ७,
 १०, शैशि १२१, ३२९, -०निच्
 शाश्रौ १४, ७१, ४, आश्रु १, १५,
 ३, पाश्रु १, १८, ४, या ६, ७,
 -षी आश्रौ ५, १६, २, शाश्रौ
 ७, २३, ९, १८, १९, ८, बौश्रौ
 १०, २४, १०, वैताश्रौ ३३, १७,
 या ५, १२
 र्ऋजीष^c- पाठ ४, २८^b, पाग ५, २,
 ३६, -षम् आपश्रौ १२, १२,
 ११, १३, १०, ६, २०, ८, बौश्रौ,
 ऋया ५, १२^f, -षस्य काश्रौ
 १०, ३, १८, ८, २८, ३०,
 आपश्रौ १३, २०, १०, माश्रौ
 ८, १०, ८, वाधुश्रौ ४, ६५^२
 ३, हिश्रौ ९, ५, ३७, मीसू १०,
 ६, १६, -वे आपश्रौ १३, १०,
 ५, बौश्रौ ८, ९. ५, १४, ६.
 २३, २९ १०, २३, ८ : २८,
 माश्रौ २, ५, १, ११, ३, ६,
 १८, २१; वैश्रौ १६, १० : ११,
 २१, १४. १, हिश्रौ ९, ३, २७,

१५, ७, १, अप्राय ३, ३;
 -वेण आपश्रौ १४, २४, ७;
 काठश्रौ १२४, बौश्रौ १७, ५६
 २२, ६२ १२, माश्रौ २, ३, ४,
 १८, वैश्रौ १६, २६ ३, लाश्रौ
 ८, ८, ६^b
 ऋजीष-कल्प- -ल्पेन आपश्रौ १९,
 ४, ७, वैश्रौ ११, ६ ३
 ऋजीष-कुम्भ- -म्भम् काश्रौ १०,
 ९, १
 ऋजीष-वर्म- -र्मन् आपश्रौ ८,
 ७, १५, -मैग हिश्रौ ५, २, ६७.
 ऋजीष-भक्ष- -क्षान् भाश्रौ ८, १०,
 ७
 ऋजीष-भक्षण- -णम् वाश्रौ १, ७,
 २, ४२
 ऋजीष-भाव- -वात् काश्रौ ९, ५,
 ११
 ऋजीष-मिश्र- -श्रम् काश्रौ १०,
 ३, १३, -श्रस्य काश्रौ २५, १३,
 १८^१
 ऋजीष-मुख^a- -खान् वैश्रौ १५,
 १४ : १, १६, ११६, हिश्रौ ८,
 ३, ३९, -खेषु काश्रौ ९, ५, १२.
 ऋजीष-वत् मीसू ११, ३, ३३
 ऋजीष-स्थान- -ने वैश्रौ ८,
 १४. ४
 ऋजीषित- पाग ५, २, ३६
 र्ऋजीषिन्^c- -षि बौश्रौ १४, ६ :
 २४, तैप्रा १६ : १८
 ऋजू- प्रभृ √ऋजू द्र
 ऋजू^c (बधा.) पाधा. भ्वा.
 आत्म. भर्जने, ऋजूते^c आपश्रौ
 ५, ६, ३, हिश्रौ ३, २, ५६,

a) विष । वस । b) पाभे. वैप १, १०१२ f द्र. । c) वैप १ द्र. । d) पाठ. ? ख्वा. इति शोधः (तु. आपश्रौ प्रभृ) । e) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । f) अर्थः व्यु. च ? । g) <√ऋजू इति । h) सहजीषे इति पाठः ? सह, ऋजीषेण इति द्वि-पदः शोध (तु भाष्यम्, काश्रौ २२, ६, ७ च) । i) तु चौस. j) निघ ४, ३ या ६, २१ परामृष्ट. द्र. ।

ऋजति अप ४८, ४४
 ऋजत्- -जन् या ३, ४[†]
 ऋजती- पावा ६, १, ८२
 ऋजमान^२- पाउ २, ८७
 ✓ऋण्^३ पाधा तना उभ गतौ
 ऋण^०- पाग २, ४, ३१, -णम्
 शाश्रौ १५, १७, ११, आपश्रौ
 २२, १, १०[†], हिश्रौ १७, १
 १२[†], कौघ ३, १२, ६, ऋणमिगृ
 २, ४, ४ १०, ०९ वाध
 १७, १, शं व २८५, बौध १,
 ५, ७९, ऋण, ७, ११, १४,
 विध ६, २९, ३४, ३५, ४०,
 १५, ४५, गौध १२, ३७, पा ८,
 २, ६०, अत्र १९, ४५[†], -णात्
 शं व ४२, अत्र १९, ४५[†],
 -णानि बौश्रौ २४, १२ २,
 २५, ४, २, -णे गोगृ ४, ४, २५,
 या ५, २५, पा २, १, ८३, ३,
 २४, ४, ३, ४७, पावा ६, १,
 ८८, -णैः वाव ११, ४८[†]
 ऋण-च्युत्^०- -च्युतम् आश्रौ ८,
 १, १२[†]
 ऋण-च्य^०- -य ऋञ्ज २, ५,
 ३०, ९, १०८ वृदे ५, १३, ३३,
 माञ्ज १, ५८३
 ऋण-जय^०- -याय आमिगृ १, २,
 २ २१, वौघ ३, ९, ५, भागृ
 ३, १० ६, हिगृ २, १९, ६
 ऋण-त्रय- -यम् वैगृ २, १८ :
 १६[†], -यै वैध १, ४, ५
 ऋण-दश^०- -शाभ्याम् पावा ६,

१, ८८
 ऋण-भूत्^०- -तौ बौपि ३, १, ४
 ऋण-या^०- -या. ^६ आपश्रौ १६,
 १८, ७, वैश्रौ १८, १६. २,
 हिश्रौ ११, ६, २९
 ऋण-वत्- -वान्^६ वाव ११, ४८[†]
 ऋण-वन्^०- -वा^६ ऋण २, ६,
 ३५, ९, ७
 ऋण-वाक्य- -क्येन मीसू ६, २, ३३
 ऋण-संयोग- -ग. बौध २, ९, ४,
 -गम् बौध २, ९, ७
 ऋणसयोगा(ग-आ)दि- -दीनि
 बौध २, ६, ३५
 ऋण-सस्तुत्- -तम् वाव ११, ४७
 ऋणा(ण-ऋ)र्ण- पावा ६, १, ८८
 ऋणिक^१- -कः विव ६, ४३
 ऋणिन्- -णी विध ७, १३
 ऋणर्ति^१ निघ २, १४
 १ ऋणाकुण्ड- -ण्डे वावूश्रौ ४, ७५
 ८
 ऋणवत्^० (= ✓रिण्व्), ऋणवति^६
 काश्रौ २२, ६, १६, माश्रौ १,
 ५, ३, ४, वाश्रौ १, ४, ३, २६,
 जैश्रौ २२ : ५, द्राश्रौ १२,
 २, ३, लाश्रौ ४, १०, ३, ८,
 ८, ३६, गौपि १, ३, १६, जैगृ
 २, ४ १२, निघ २, १४[†]
 ऋणवत्- -णवन् वौगृ २, ५, ५८[†]
 १ ऋण- ✓ऋ द्र
 २ ऋण- -ते आश्रौ ८, १, ६, शाश्रौ,
 ऋया ७, २, ११, ३९, पाग १,
 १, ३७, पावा १, २, १७.

ऋते-ग्रह^१- -हान् बौश्रौ २०, ५ :
 २५, २३, १५ २
 ऋते-मूल^२- -लानाम् आपश्रौ १,
 ५, १२
 ऋते-स्फ्य^१- -स्फ्यै आपश्रौ ३,
 १३, १
 ऋते-स्वाहाकार^१- -भान् बौश्रौ २०,
 ५ २४, २३, १५ : १.
 ऋत-जा- प्रसू ✓ऋ द्र.
 ऋतपर्ण-कयोवधि^१- -धी आपश्रौ
 २१, २०, ३०, हिश्रौ १६, ६,
 ४१^०
 ऋतव्य- प्रसू ऋतु- द्र
 ऋत-शब्द- प्रसू, ऋणा-वन्- प्रसू,
 ✓ऋति प्रसू ✓ऋ द्र.
 ऋतु^०- पाउ १, ७२, -ऋतव आपश्रौ
 ८, १३, १४, शाश्रौ ५, १, ९,
 १४, ७५, २, १६, २५, २६,
 आपश्रौ ४, १ : ९, ८, २१,
 १, १४, १४, १२[†], २८, ४,
 बौश्रौ, -तवे बौश्रौ १८, २४ :
 २, अप्राय २, ९[†], -ऋतु आश्रौ
 ४, १२, २, ६, १, २, ८, ४, ३;
 शाश्रौ ९, ४, ३, १२, २६, १२,
 आपश्रौ १९, १२, १४, बौश्रौ
 १९, ३ ३८^२, माश्रौ; या ६२,
 २५^२, १२, ४६^२, -तुना
 शाश्रौ ७, ८, ५[†], १४, ९, ११,
 काश्रौ ९, १३, १३, १९, ७,
 २१[†], आपश्रौ, -ऋतुभि आश्रौ
 ४, ४, ४, शाश्रौ ३, १८, १४;
 काश्रौ ९, १३, १४[†], १७, ८, १८;

a) वैप १, १७२३ f द्र । b) पा ६, ४, ३७ परामृष्ट द्र । c) वैप १ द्र । d) व्यप । उस उप.
 खजन्तम् । e) द्रस उप = दशन्- । f) सुप्सुवीय समास- । g) पामे वैप १, १००८ । द्र । h) सपा.
 षरदरं पामे । i) = अधमर्ण- । मत्वर्थीय ठन् प्र । j) लघुशास्त्रीय पाठः । k) पामे वैप १,
 ९८८ । द्र । l) विप । बम । m) व्यु पामे च वैप १ परि द्र । n) ऋषि-विशेषयोः
 द्रस । o) ऋत पर्णकयोऽवधिः इति ऋतपर्णक योऽवधि. इति च पाठौ ? यनि शोधः (तु ० LZDMG
 ५७, ७४३) ।

आपश्रौ ८, १५, १७, २०, ५^०,
 xx, मागृ १, १४, १६^०, या ८,
 ३३^०, १४, २७, -†तुभ्यः आश्रौ
 २, ४, १३, आपश्रौ २०, २०, ६६,
 आपमं १, ३, १२^०, आगृ, पागृ
 १, ८, १^०, मागृ १, ११, १८^०,
 -तुम् आश्रौ २, १, १५, शाश्रौ,
 -तुषु वावृश्रौ ४, २८. ११, ६५^३.
 ९, ११, वैश्रौ १७, ७ ३,
 आमिगृ १, ७, ४ ९, ३, ६, ३.
 २, बौपि १, १७ : ३४, अप
 ७०^३, १७, ४, वृदे २, ४१, -तू
 बौश्रौ २, १६ १७^३, भाश्रौ ८,
 २४, १०, वैश्रौ १, १९ १३,
 १८, १७ ४३, १९, २ १०^३,
 २१, १५ : १७^३, हिश्रौ ५, ६,
 १३, वृदे १, १३१, -तून् आश्रौ
 ८, ९, ७, शाश्रौ, आपश्रौ ८, २२,
 १०^३, हिश्रौ ७, २, ४७^३, या७,
 १९^३, -तूनाम् आश्रौ १०, ३,
 १, शाश्रौ, -तो शाश्रौ १४, ९,
 ९, हिश्रौ १७, १, ८, बौगृ १,
 १, ११, गौध १८, २२, पा ७,
 ३, ११, पावा १, १, ७२, -तौ
 आश्रौ २, १, १४, १६, २५,
 शाश्रौ, -तौऽ-तौ आश्रौ २,
 १२, ६; बौश्रौ २८, २ : ५८,
 आमिगृ २, २, १० १, ९, ५, १
 ६, ९ : १, बौगृ ३, ७, २, १०,
 २, भागृ, या ८, १७
 आर्तव^१- पा ५, १, १०५, -वम्
 वृदे ३, ३४, -वाः बौश्रौ १७,
 १९ ३, कौस् १०६, ७^३, -वान्
 अप ७०, ९, ३, -वानाम् अश्र

१६, ८^३, -वे शध १३, ३३३,
 वृदे ४, ९१^३, आज्यो १३, ३,
 -वेभ्य अश्र १९, ३७^३, -वेषु
 वृदे ३, १५, -†वै. बौश्रौ १७,
 ४१ २६, आमिगृ १, ३, ५
 २, वैगृ २, १५ ३, हिगृ १,
 ११, २

आर्तवी- -वी गौध १४,
 २४

आर्तव-स्ना(त>)ता- -ता
 शंघ २४१

आर्तव-स्वस्त्ययन- -नानि
 कागृ ५५, १

ऋतव्य, व्या^३- पा ४, २, ३१,
 -व्यम् ऋश्र २, १, १५, २, ३६,
 शुश्र २, १८३, २०६, २४०, -व्या
 ऋश्र २, ३, २७, साश्र १, ६१७,
 -व्या. आपश्रौ १७, १, ३xx,
 बौश्रौ, -व्यानाम् चाश्र १७ :
 ८, -व्यासु आपश्रौ १६, २४,
 १०, वाश्रौ २, २, १, ५, वैश्रौ
 १८, १७ ४५, हिश्रौ ११, ७,
 ३८, -व्ये काश्रौ १७, ४, २४xx,
 आपश्रौ.

ऋतव्या-पात्र- -त्रेण वाश्रौ ३,
 २, १, ६३

ऋतव्या-वेला- -लायाम् काश्रौ
 १७, १२, १

ऋतु-काल- -ल. या १२, ४६^३,
 -लम् बौगृ ४, १२, २; -ले
 शाश्रौ ३, १३, ३०, बौश्रौ २९,
 १० : २३, द्रागृ १, ४, १५,
 आज्यो १२, ५, -लेन वाध २८,
 ३; -लेषु या १, १९^३, ३, ५

ऋतुकाल-गामिन्- -मी वाध
 १२, २१, काध २७० : २
 ऋतुकाल-भय- -यात् वाध १७,
 ७०

ऋतु-केतु- -तून् अप ५५, १, १

ऋतु-क्षय- -ये आज्यो ७, ७

ऋतु-गत- -तम् अप ५५, ६, ४

ऋतु-गमन- -नम् बौगृ १, ७, ४६;
 -ने आपगृ २, १

ऋतु-गामिन्- -मिनाम् या १२,
 ३९

ऋतु-ग्रह^३- -हान् वाधूश्रौ ४, ८३ :
 १६, -हे वैश्रौ २१, १५ ११,
 -हेषु बौश्रौ २५, २१ ५, माश्रौ
 २, ४, २, ५, हिश्रौ ९, २, २१;
 -है काश्रौ ९, १३, १, आपश्रौ
 १२, २६, ८, १४, २८, ४^३,
 माश्रौ २, ४, २, १, हिश्रौ ८,
 ८, १, १५, ७, १२, -हौ बौश्रौ
 १५, ३४ : ९

ऋतुग्रह-वत् वैश्रौ १६, ८ १३

ऋतु-च्छन्दः-स्तोम-पृष्ठ^३- -ष्ठस्य
 या ७, ११, -ष्ठानाम् अप ४८,
 १४७

ऋतु-जायो(या-उ)पाधिन्- -यी
 काश्रौ ५, २, २१

ऋतु-तिथि-नक्षत्र-देवता- -ता
 कागृ ४७, १२

ऋतु-त्रय- -यम्, -ये विध २४,
 ४०.

†ऋतु-था^३ आश्रौ २, ११, १२^३,
 शाश्रौ ३, ६, २^३; या ८, १७^३;
 १२, २७, शुप्रा ५, १२.

ऋतु-दीक्षा^३- -क्षाः आपश्रौ २०,

a) पामे वैप २, ३खं तैत्रा २, ५, ८, ३ टि. द्र । b) सपा. आपमं १, ११, ४ रातिभिः इति पामे. ।

c) पामे वैप २, ३ख रायु-तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । d) ऋजून् इति C. (तु खदत्तः) । e) पामे.

वैप १, १०-११० द्र । f) विप, नाप । g) =स्रु, ऋच्, इष्टका-प्रभृ । h) वैप १ द्र । z) समाहारे

द्रस. । j) पामे वैप १, १०-१२ b द्र. । k) =आहुति-विशेष, मन्त्र-विशेष- ।

११, ६, बौश्रौ १५, २० ३,
-क्षामिः आपश्रौ २०, ८, १२,
हिश्रौ १४, २, २९, -क्षाम
बौश्रौ १५, १३ ८, १००, -क्षे
बौश्रौ १५, १३ . ११
१ऋतु-देवत, ता^२- -ता गोश्रु ३,
१०, २, -ता बौश्रौ २४, ३
१५, २५, २१ ८, २६, ११ :
२५, ऋश्र २, १, १५, या ८,
२२, -ताम् आश्रु २, ४, १२.
२ऋतु-देवता- -ताभ्य. वैश्रु ४, ८ :
७, -ताम् माश्रु १, १०, ९, २,
२, १५
ऋतु-दैवत^३- -तम् शुश्र २, १५८,
३, ७२.
१ऋतु-धा आपम २, ४, ४^०, वैश्रु
१, १९ १३, माशि ४२
ऋतु-नक्षत्र- -त्राणाम् बौश्रौ २४,
१६ १, पावा २, २, ३४,
-त्राणि बौश्रौ २, ६ २
ऋतु-नक्षत्रा(त्र-अ)तिक्रम-
वचन- -नात् मीसू ५, ४, ६
ऋतु-नक्षत्र-पूर्व-संनिपात- -ते
वाश्रौ १, ४, १, ३
ऋतु-नक्षत्र-सभार साम-वपन- चातु-
ष्पाश्य-जागरणे(ण-इ)धमपूर्वा-
र्धान्वारम्भण-सार्पराज्ञी- -ज्ञी
काश्रौ ४, १०, ३
ऋतु-नामन्- -मभि बौश्रौ २१,
१ ३३, -मसु आपश्रौ १४,
२८, ५, -मानि आपश्रौ १९,
१२, १४, बौश्रौ १०, ४५ ४०,
हिश्रौ २३, २ : २५, -म्ना वैश्रौ
१, १५ ५
ऋतु-पति^४- -०ते शशि ३३५

ऋतु-पर्याय^५- -यम् बौश्रौ १५,
३८ १००
ऋतु-पशु^६- -शच. शाश्रौ १६, ९,
२६, १४, २०, १५, १८, बौश्रौ
२६, ११ : २५०, -शुभि
आपश्रौ २०, २३, १०, बौश्रौ
१५, ३८ : १०, माश्रौ ५, २,
१२, ४६, हिश्रौ १४, ५, १७०
ऋतु-पात्र- -त्रम् आश्रौ ५, ८, ८,
आपश्रौ १२, २७, १३, माश्रौ २,
४, २, २५, वैश्रौ १६, ९ २,
हिश्रौ ९, २, २५, -त्राभ्याम्
बौश्रौ ८, १ २०, माश्रौ २, ४,
४, ११, हिश्रौ ९, २, १३, -त्रे
काश्रौ ९, २, १३, आपश्रौ १२,
१, १३, १८, २०, काठश्रौ ११६,
बौश्रौ ७, २ . १२, १६ १,
१७, ३७०, १४, ८ : २३, २५,
१३ १५, माश्रौ २, ३, १, १५,
४, २, ३४, वैश्रौ १५, २ . ८,
२२ : १०, हिश्रौ ८, १, २४,
वैताश्रौ २०, ६^१, अप्राय ६, ६,
-त्रेण काश्रौ १०, १, १३, ३,
३, आपश्रौ १३, २, ४, वैश्रौ
१६, २ ७, ८, ९ १
ऋतुपात्र-वर्जम् आपश्रौ १२,
२८, ९
ऋतु-प्रत्यय^७- -यानि निसू ६, ९ ४
ऋतु-प्रैष^८- -वेभ्यः शाश्रौ १०,
७, ८, -वै. शाश्रौ ७, ८, २
ऋतुप्रैष-सूक्त- -क्ते वृदे ३, ३६
ऋतुप्रैषा(ष-आ)दि- -दिभि
आपश्रौ ११, १९, ५, माश्रौ २,
३, ६, १७, वैश्रौ १४, १७ : ८,
हिश्रौ ७, ८, ३७

ऋतु-भव^९- -वानि कप्र २, ८, ११
ऋतु-मण्डल- -लानि बौश्रौ १९,
१० १४
ऋतु-मत- -मत शुप्रा ३, १५०
ऋतुमती- -ती गोश्रु २, ५, ६,
वाध १७, ६७, बौध ४, १, १५,
-तीम् वैताश्रौ १२, १४, बौध
४, १, १३, १९, -त्या कौसू
२२, ५, -त्याम् वाव १७, ७०,
बौध १, ५, १२०
ऋतुमती-गमन-सहासन-
शयन- -नानि वैध ३, १, ६
ऋतु-मुख^{१०}- -ख बौध २, २, ७६,
-खेऽखे आपश्रौ १४, १४, १३,
बौश्रौ २४, १३ . ७, हिश्रौ १०,
७, १८, -खेषु बौश्रौ १६, २७ .
२२, २६, १८ १०, माश्रौ ५,
२, १४, १८
ऋतुमुखी^{११}- -लीभि वैश्रु ५,
५ : २३
ऋतुमुख-श्रुति- -ते काश्रौ १,
२, १३.
ऋतुमुखीय- -य आपश्रौ १४,
१४, १३, -येन आमिगृ ३, ४,
४ : ६, बौपि ३, ४, १३^१
ऋतु-याज^{१२}- -जम् आपश्रौ २१,
७, १४, बौश्रौ १६, ५ : १, २,
२६, १३ १५^२, हिश्रौ १६, ३,
३३, -जा बौश्रौ २५, २१ ८,
-जान् आश्रौ ५, ५, २१०, बौश्रौ
२५, २० २०, वैताश्रौ २०,
४, -जानाम् आश्रौ ८, १, ५,
-जेषु या ८, २, -जै. आश्रौ ५,
८, १; शाश्रौ ७, ८, १, जैश्रौ
१५ . १

a) विप । बस । b) पाभे वैप १, १०१२ h द्र । c) वैप १ द्र । d) बस. वा क्वि वि ।
e) वैप २, ३ खं द्र । f) षपात्रम् इति C शोध । g) विप. । उस वा बस वा । h) =Lऋतुमुख-
शब्दयुक्ता-] ऋच्- । i) ऋतुमुखीभिः इति R । j) =याग-विशेष- ।

ऋतुयाजे(ज-इ)ज्या- -ज्या
काश्रौ १२, ३, १४
ऋतु-याजिन्- -जी आपश्रौ ८, ४,
१३, वैश्रौ ८, ८ ९, या ३,
१९
ऋतु-याज्या- -ज्या आपश्रौ २१,
२, २, -ज्यानाम् वैताश्रौ ३१,
२७, -ज्याम् हिश्रौ १६, १,
२३
ऋतु-रात्रि- -त्रय. वैश्र ३, ९ : ७,
-त्रिषु वैव ३, १, ५
ऋतु-विशेष- -ष वैश्रौ १९, २
१०, ११
ऋतु-वेला- -लायाम् कौश्र १, १२,
१, शाश्र १, १९, १, आमिश्र १,
६, ३ ६८, २, ७, ६ ३६
ऋतु-व्यतिक्रम- -मे वौश्रौ २८, १
३०, २ ५२
ऋतु-व्यावृत्ति- -सौ आपश्रौ ७,
२८, ७
ऋतु-शस्त्र (:) आपश्रौ ३, १२,
१, वौश्रौ ३, ३१ ४, भाश्रौ
३, ११, १, हिश्रौ २, ६, १७,
आमिश्र १, ५, ४ : २१
ऋतु-शेष- -षम् वेज्यो ४१
ऋतु-षडह- -हे निस् ८, ११ १
ऋतु-ष्ठा^१ - > ष्ठा-यज्ञायज्ञिय^०-
-यम् द्राश्रौ २, १, १८, लाश्रौ १,
५, १५, -येन जैश्रौ ४ . ६
ऋतु-संवेशन-> ण-विच्छेद-प्राय-
श्चित्त- -सम् बौश्र ४, १२, १, ७
ऋतुसंवेशना(न-आ) दि- -दि
बौश्र ३, १३, १
ऋतु-संगमन- > ण-गर्भाधान-
पुंसवन-सीमन्त-विष्णुबलि-जा-
तकर्मो(र्म-उ)त्थान-नामकरणा-

(ण-अ) ऋप्राशन-प्रवासागमन-
पिण्डवर्द्धन-चौडको(क-उ)पनयन-
पारायण-व्रतबन्धविसर्गो(र्ग-उ)-
पाकर्म-समावर्तन-पाणिग्रहण-
-णानि वैश्र १, १ : १-४.
ऋतुसंगमन-वर्जम् वैश्र २, १ . १
ऋतु-सवि- -विषु पाश्र २, ११, २
ऋतु-समावेशन- -ने आपश्र ८,
१३
ऋतु-स्रैष- -षम् वौश्रौ २६, १४ २
ऋतु-सर्व^१ -व वौश्रौ १८, ४ १३
ऋतु-स्तोम^१ -मा. आपश्रौ ९, ८,
२६, शाश्रौ १४, ७५, १
ऋतु-स्था^१ -स्था. तैप्रा ६, ७१
ऋतुस्था-यज्ञायज्ञिय^० -येन
आपश्रौ १७, १२, १०, वौश्रौ
१०, ४९ . १४, वैश्रौ १९, ६
६, हिश्रौ १२, ३, १३
ऋतु-स्ना(त>)ता- -ता वैश्र ३,
९ ६, -ताम् वाव २०, ३५,
बौध ४, १, २०, २३, -तायाम्
आमिश्र २, ५, ६ १२, वैश्र ६,
२ १
ऋतु-स्नान- -नात् आमिश्र २, ७,
६ १
ऋतु-स्वभाव- -वाः अपश्र ६४, १०, १
ऋतु-होम- -मान् वैताश्रौ २०, ५,
-मैः वाधूश्रौ ३, १४ . ३, ५
ऋतूना(षडह-)आपश्रौ २२, २२, ४
ऋतूनाम् (एस्मान्नपञ्चाश-) हिश्रौ
१८, ३, ३
ऋतूनाम् एकादशरात्र- -त्रेण
आपश्रौ २३, १, ५, हिश्रौ १८,
१, ६
✓ऋतूय>ऋतूया^० -या कौसू
९९, २१

ऋत्व(तु-अ)न्त- -न्ते हिपि २० :
९१
ऋत्व(तु-अ)न्तर-ग्रह-सूतक- -के
विव ३०, ५
ऋत्व(तु-अ)न्तर्-भारमण- -णे
गौध २४, ४
ऋत्व(तु-अन्त्य>)न्त्या- -न्त्यासु
कौश्र ३, ७, १३, शाश्र ४, ५, १७.
ऋत्व(तु-अ)भीज्या- -ज्या निस् २,
५ १६, -ज्यायाम् निस् ७,
३ २०
ऋत्व(तु-उ)जू^१ -पा ३, २, ५९, पाग
५, १, १२८, -त्विक् शाश्रौ ४,
२१, १, द्राश्रौ, या ३, १९६,
-त्विक्षु वौश्रौ २४, १० : १५,
२८, ११ . ७, द्राश्रौ १२, ४,
२०, लाश्रौ ४, १२, १५, राध
३०३, पावा ३, २, १३५,
-त्विभिः आपश्रौ ६, १, ६१, १४,
२६, १४१, वौश्रौ ३, ६ ६१, २४,
३० ८, भाश्रौ ६, ७, ५१, माश्रौ
१, ६, १, २१, वाश्रौ, -त्विभ्य
आश्रौ १०, १०, १०, शाश्रौ १३,
२, १, काश्रौ, -त्विद् शध ३०२;
-त्विज आश्रौ १, ११, ७१ x x,
शाश्रौ, या ७, ३०; ८, २, १३, १३;
-त्विजम् वाधूश्रौ ४, १८ २२;
३२, निस्, या ७, १५१, १,
-त्विजा आश्रौ ७, २, ४, शाश्रौ
१२, १, ५१, अप्राय ६, ६१,
-त्विजाम् आश्रौ १, १३, ७; २,
४, ३, काश्रौ, निघ ३, १८;
-त्विजि शध ३०३, -त्विजे आश्र
१, ६, २, कौश्र ३, १०, ३२; शाश्र;
-त्विजोः वैश्र ६, १ ८, -त्विजौ
वैश्र १, ९ : १७, ११ : ११;

a) = अहीनयाग-विशेष- । b) वैश्र १ द्र । c) वैश्र १, १० १३ b द्र । d) = याग-विशेष- ।

e) वैश्र १, ९९९ a द्र. । f) षम्यः इति पाठ. ! यनि. शोष (तु काठ ३५, १०) ।

कौसू ७२, ४४
 आर्विज^a - जम् वृदे ७, ८३,
 -जा वृदे ७, १३८, -जे मीसू
 ३, ४, ३४
 आर्विजीन- पा, पावा ५,
 १, ७१
 आर्विज्य^b - पा ५, १, १२४,
 -ज्यम् शाश्रौ १, ४, ५^c,
 ऋषापश्रौ २, १५, १^d, ३, १८,
 ४, १०, १, ३, २१, १, २०, २४,
 १, २१, ११, २^e, बौश्रौ, -ज्यस्य
 शाश्रौ १३, १४, २, बौश्रौ १४,
 ११ ३१, -ज्यात् आपश्रौ
 १४, १५, १^f, ३१, ८, हिश्रौ
 १०, ७, १७, -ज्याय वृदे ५,
 ३३, ५५, ८, ६, -ज्येन आपश्रौ
 २१, १, १९
 आर्विज्या(ज्य-अ)भाव-
 -वात् मीसू ६, ६, १८
 ऋत्विक्-कर्मन्- -र्मणाम् या
 १, ८
 ऋत्विक्-कल्प- -ल्प. कौसू ९२,
 ३२
 ऋत्विक्-त्व- -त्वम् मीसू ३, ७,
 ३२
 ऋत्विक्-पत्नी-प्रैषकृत्- -कृत
 वैताश्रौ ३८, ९.
 ऋत्विक्-पथ- -थेन द्राश्रौ ४,
 ४, ८, लाश्रौ २, ४, ४
 ऋत्विक्-पुत्र- पा ६, २, १३३.
 ऋत्विक्-फल- -लम् मीसू ३,
 ८, २५
 ऋत्विक्-श्रुति- -तेः काश्रौ १,

६, १३
 ऋत्विक्-श्वशुर-पितृव्य-मातुल-
 -लान् वाध १३, ४१, आपध १,
 १४, ११, हिध १, ४, ४३,
 -लानाम् बौध १, २, ४६, गौव
 ६, ९
 ऋत्विक्-श्वशुर-सखि-संबन्धि-
 मातुल-भागिनेय- -यानाम् पागृ
 ३, १०, ४६
 ऋत्विक्-स्तुति- -तिः ऋग्र
 २, १०, १०१, वृदे ८, १०
 ऋत्विग्-अपोहन->नीय^g-
 -या काश्रौ २२, ६, २१
 २ऋत्विग्-अपोहन^d- -न क्षुस्
 २, ९ १
 ऋत्विग्-आचार्य- -र्ययो काश्रौ
 २४, ६, ३०, -र्यौ वाध १३, ५०,
 गौध १५, १४, २१, १२
 ऋत्विग्-आचार्य-श्वशुर-पितृव्य-
 मातुल- -लानाम् गौव ५, २८
 ऋत्विग्-आदि- -दिना कप्र ३,
 १, १
 ऋत्विग्-दान- -नम् मीसू १०,
 २, २२
 ऋत्विग्-दीक्षित-ब्रह्मचारि-
 वर्जम् बौध १, ५, ९०
 ऋत्विग्-यजमान- -नौ अप ११,
 १, ३, १३, १, ३
 ऋत्विग्-वरण- -णम् वैश्रौ १८,
 १ : ८, २१, १० ३.
 ऋत्विङ्-नामन्- -मानि निघ
 ३, १८, या ३, १९
 ऋत्विज्य^h - पा ५, १, १०६, -य

आश्रौ ३, १०, ५x, शाश्रौ;
 -यम् आश्रौ १०, ९, ५, शाश्रौ
 १६, ७, १, बौश्रौ २९, १२ : १०, ६,
 वाधूश्रौ ४, ६८ : ४, -याः आश्रौ
 ३, ७, ९, -ये भाश्रौ ८, ३, २६,
 आपर्म १, ११, २, मागृ १, १४,
 १६, वागृ १६, १, अग्र १४, २,
 -यौ आपश्रौ १४, ३०, २, बौश्रौ
 २९, ५ : २, वैश्रौ २१, १६ :
 ५, हिश्रौ १५, ७, १८
 ऋत्विज्य-व(त् >)ती- -०ती
 आपश्रौ ५, ८, ८, बौश्रौ २, १५ :
 ११, माश्रौ १, ५, २, ४, वाश्रौ
 १, ४, १, १९, वैश्रौ १, ८ ४,
 हिश्रौ ६, ५, १०
 ऋत्वि(य >)या-व(त् >)ती-
 -ती ऋप्रा ९, १७ⁱ
 ऋत्वि(तु-इ)ष्टका^j - -का. बौश्रौ १९,
 ३ ३६.
 ऋत्विज्य^k - पा ६, ४, १७५, -त्विज्यः
 अप्रा ३, २, १२^l
 ऋतुपर्ण^m - -र्ण बौश्रौ १८, १३ ३
 ऋतुर्जनित्री - > नीयⁿ - -यम्
 शाश्रौ ११, १४, २२, -यस्य
 शाश्रौ ११, १४, १०
 ऋतु-वर्ण^o - -र्णः अग्र २, १७
 ऋतेऽवस्थूणा^p मागृ २, ११, १४.
 ऋते-ग्रह- -प्रभृ २ऋत- द्र
 ऋत्वे^q आपश्रौ ३, १७, ८, ८, ४, ६;
 आपध २, ५, १७, हिध २, १, ९९.
 ऋत्वोत्त्रागेव मैश्र ३२
 ऋतु-दर^r - -रः निघ ४, ३, -रेण
 बौश्रौ १३, २५. २, या ६, ४.

a) विप । तस्येदमीय अण् प्र. । b) वैप १ द्र । c) = एकाह-विशेष- । d) वस उप भाप ।
 e) = इष्टका-विशेष- । f) = ऋत्विज्य- । g) पाठ ? ऋत्विज्य इति शोध । h) = नृप-विशेष- । व्यु ? । i)
 = सक्तु विशेष- । j) व्यप । व्यु ? । k) पाठ ? ऋत्वेन स्थूणाम् इति शोध (तु सप्र शौ ३, १२, ६ आगृ २, ९, २,
 कागृ ११, ३) । वैप १, ९९७ k नेष्टम् । l) पाठ ? ऋत्विजे (तु ८, वैतु. आपध. हिध भाष्ये य-लोप इति ?), इति
 यद्वा ऋत्विजे (तु सपा. भाश्रौ ८, ३, २८, ८ च, वैतु आपश्रौ. भाष्ये ऋतौ इति) इति शोध ।

†ऋदू-प^a- -ये निघ ४,३, या ६,४, ३३०.

†ऋदू-वृध्^a- -वृधा या ६,३३, ऋप्रा ९,८.

√ऋध्, न्ध्(बवा)^b पाधा दिवा, खा पर वृद्धौ, ऋधत् शाश्रौ १,१४, १६१^c, †आध्मि आश्रौ १,९, १, शाश्रौ १, १४, २, ऋध्यात् आश्रौ १,९,५१, शाश्रौ १,१४, १८, †ऋध्याम, >मा वैगृ १, ६ ९, ऋप्रा ७,५५, शुप्रा ३, १२९, तैप्रा ३, १०
 ऋध्याते वाध्श्रौ ४, ९४ ८, ९४^२: ९, ९४^३: ८, ९४^४. ९
 ऋध्नोति आपश्रौ १९, १७, २०××, बौश्रौ, निघ ३,५१, ऋध्नुवन्ते हिश्रौ १६,१, ३४१, ऋध्नुवन्ति आपश्रौ २३, ७, ५××, बौश्रौ, †ऋध्नोमि^d माश्रौ १, ५, २,१, वाश्रौ १, ८,१,१६, ऋध्नुहि हिश्रौ १४,१, २८, †आध्नोत् आपश्रौ २३, ११, १४, ऋध्नोत् हिश्रौ १८, ४, १८, †आध्नुवन् आपश्रौ २१, ११, १-१०, बौश्रौ १७, २१ १०५, हिश्रौ १६,४, २७-२९, ३०^२, ३१^२, ३२, तैप्रा ५, २१, ऋध्नुयात् आपश्रौ ५, २६, ३, २८, ९, ६,७, ७, १७, २४, ६, भाश्रौ ५,२०, ३, माश्रौ ६, १, १, २७; वाश्रौ १,५, २, २४१; २,१, १, २३, ३, २, ६, २११, वैश्रौ १९, ८: ७, निसू ६, ११: १३, अप ७२, २, ८; †ऋध्नुयाम्

आपश्रौ ३,१४,१४, १०,५,५^४, बौश्रौ १७, ३० १, हिश्रौ २, ६,४९, ३,७, ४८, ७, १, २९, ३०, १२, ८, १५, आपश्रु १४, ८, हिश्रु ४,४८
 †ऋधेत्^e आश्रौ १,९,५, वाश्रौ १,३,६, ८
 †ऋणधत् या १४, २५, भाशि ४९, †ऋणद्धि अप ४८, १०, निघ ३,५
 ऋध्यासुः शाश्रौ ६, १, ५, †ऋध्यासम् आपश्रौ ४, १०, १, १४, १८, १, १५, १, १०, बौश्रौ ४, ३ ३७, ९, २ १०, १४, १९, २३, २७××, भाश्रौ, माश्रौ २, ४, ५, १४^०, †ऋध्यास्म आश्रौ १, ९, १, शाश्रौ १, १४, २, हिश्रौ २, ८, ३९, वैगृ १, ७: ७, कौसू १३६, २^१, अप्राय ६, ५
 ऋध्यते गौध ११, १६१, ऋध्यन्ते अप ५३, ४, १, †ऋध्यताम् बौश्रौ २, १ १७, १८, आपमं १, १३, ४५, आमिष्ट २, ३, ४: ५, कौसू ४५, १६, ऋध्येत माश्रौ ५, १, १, ३४१.
 ईत्सेत् आपश्रौ ६, २९, ९, १९, १७, २०, बौश्रौ १४, १६. १५, १६१, पागृ १, ५, ८^{१४}, †आमिष्ट २, ५, ५ ११, १२, वागृ १४, १२.
 ईत्सेत्- -त्सेतः लुसू १, २. २८.
 ऋद्ध-द्धम् बौश्रौ १७, १९. ११, आमिष्ट २, ५, ३: ४५; ४७,

वौगृ ३, ७, २८, २९, -द्धाः काश्रौ ४, २, १२१
 ऋद्ध-तम- -म या ३, २०
 ऋद्धि- -†द्धय बौश्रौ १७, ४१: १९^१, आपमं २, ८, २, आमिष्ट १, ३, ४. १२, भागृ २, २१: १६, हिगृ १, १०, ६, -द्धिः काश्रौ १२, ४, १०१, बौश्रौ २, १२. १६, माश्रौ ५, १, १, १९, आपगृ ३, १६, २०, वैगृ १, १९ ५, अप्राय १, ५, शुप्रा ६, २६१, -द्धिम आश्रौ २, ३, १३, ८, १३, १०, काश्रौ, राध ११६ ३४^१, -†द्धयै आपश्रौ ३, ११, २, २०, ९, ५, बौश्रौ १, २१ १४, भाश्रौ ३, १०, २, हिश्रौ २, ६, १, लाश्रौ १, १०. २२५, आमिष्ट १, ५, २: १५५, कौगृ १, ५, २९, कागृ ३०, ३
 ऋद्धि-कर्मन्- -र्मणा वृदे ३, ४; ऋद्धि-काम- -म आश्रौ १०, ३, ६××, आपश्रौ, -मस्य आश्रौ १०, १, १, काश्रौ १९, १, १, हिश्रौ ३, २, १७; वैताश्रौ ४३, ३८; -मा आश्रौ ११, ३, ११, आपश्रौ २३, १, १७, ५, १०, ८, ८, हिश्रौ १८, २, १०; -मानाम् आश्रौ ११, २, २, काश्रौ २४, २, २२; ३४
 ऋद्धि-नदीसमास-संख्यावयव- -वेभ्य पावा २, ४, ८४.
 ऋद्धि-पशु-ब्रह्मवर्चस-वीर्या(र्व- अ)ब्राह्म-प्रतिष्ठा-काम- -मानाम् काश्रौ २३, १, १८.

a) वैप १ द्र । b) या ३, २०; ४, २५ पा ७, २, ४९, ४, ५५ पावा ६, १, ९ परामृष्टः द्र. । c) पामे. वैप १, १०१४ द्र. । d) पामे. वैप २, ३खं. ऋद्ध्वा टि द्र. । e) पामे. वैप १, १०१५ द्र । f) पामे. वैप. २, ३खं. भूयाम ष१, ६ टि. द्र । g) ईच्छेत् इति पाठः? यनि. शोघः (तु. राजा.) । h) ऋधयः इति पाठः? यनि शोघ (तु. सप्र. खि ४, ६, २) । i) नाप. । j) विप । बस. ।

ऋद्धि-पुनराधेय- -यम् बौश्रौ
 ३, ३ : १३.
 ऋद्धि-पूर्त्- -सैषु बौगृ १, १, २२.
 ऋद्धि-संस्तव- -वम् निसू ८,
 १ ३२
 ऋद्धि-सप्तसमिद्-व्याहृति- -ती
 वैगृ ३, ४ ६
 ऋद्धि-सामन्- -म निसू ७,
 ३ : २६
 ऋद्धि-वा^० आपश्रौ ५, ८, ४, बौश्रौ
 २, १५ : १९, हिश्रौ ६, ५, ९
 ऋध्नु- > ऋध्नु-क^० -कम् आगृ
 ४, ७, २५^१
 ऋध्नुवत् - -वन् या ४, २५^२
 ऋध्नुत्- -न्धन् या ८, ६^१
 ऋध्नुक्^० शाश्रौ १०, ६, ६, ऋध्नु २,
 ८, १०१, वृदे ६, १२४, शुअ
 ३, २४७, निघ ४, १, या ४,
 २५^२ १, शैशि २७२, पाग १,
 १, ३७५.
 ऋध्नु-मन्त्र- -न्त्र कौसू १५,
 १, २२, १, ३५, १२, अप ३२,
 १, ५, अअ ५, १, अप २ ४०
 √ऋध्नु-मन्त्र- -मन्त्र कौसू १५,
 १, २२, १, ३५, १२, अप ३२,
 १, ५, अअ ५, १, अप २ ४०
 √ऋध्नु-मन्त्र- -मन्त्र कौसू १५,
 १, २२, १, ३५, १२, अप ३२,
 १, ५, अअ ५, १, अप २ ४०
 ऋवीस [७]^० -सम् निघ ४, ३,
 या ६, ३६^१, -षात्^० अप्राय
 ६, ९^१, -से वृदे ५, ८४,
 या ६, ३६^१
 ऋवीस-पक्क- -कम् शंघ ४२७,
 ४२८^१, -कस्य आपश्रौ ५, २५,
 ६, भाश्रौ ५, १६, १९^१, माश्रौ
 १, ५, ६, १४, वैश्रौ १, १८ - ३,
 हिश्रौ ६, ५, २४

ऋवीसपक्का(क-अ)शन- -नम्
 वाश्रौ १, ४, ३, ४२
 ऋभु^० - पाउभो २, १, २८^१, -भव
 शाश्रौ ८, २०, १^१, बौगृ २, २,
 ६^१, मागृ २, १५, ६^१, अप
 ४८, १३९^१, वृदे १, ८२, ४,
 १२२, ८, १२८, निघ ५,
 ५^१, या ११, १५^१, १६^१ १^१,
 -०भव ऋप्रा २, ६८^१, -ऋभुः
 आश्रौ ६, ३, १, ८, ८, ६,
 शाश्रौ १०, ६, १८, काश्रौ
 १३, १, ११, २३, ३, १,
 आपश्रौ २२, १९, १, वैताश्रौ
 १७, १०, अप ४८, ८५, ऋध्नु
 २, ४, ३४, वृदे ३, ८३^१, ६,
 १३५, अअ ४, १२, निघ
 ३, १५, या ११, १६,
 -भुभि आश्रौ ५, ५, १९^१,
 ७, ७, ७, ९, ५, ५, ऋश्रौ
 ३, १८, १५^१, ८, २, ५,
 १४, ३, १२, वृदे १, १२७,
 -भुभ्य आश्रौ ८, ८, ४, शाश्रौ
 १०, ५, २३^१, आमिगृ १, २,
 २ : ११, वौगृ ३, ९, ३, बौपि
 ३, ५, २, मागृ ३, ९ : ११, हिगृ
 २, १९, १, ऋध्नु २, ४, ३३,
 ३, २४, -ऋभुव^१ आपश्रौ
 ३, ११, २, भाश्रौ ३, १०, २,
 हिश्रौ २, ६, ९, -ऋभुणाम् काश्रौ
 ४, ९, ३, आपश्रौ ५, ११, ७,
 बौश्रौ २, १६ : ४८, ७, ४२ :
 १५, भाश्रौ ५, ६, ७, वाश्रौ
 १, ४, ३, १, वैश्रौ १, ११.

९, हिश्रौ ३, ४, १०, साअ
 १, २५७, २५८, या ९, ३, -भून्
 आमिगृ २, ५, ३ : ३१^१, बौगृ
 ३, ७, २१, -भो. या ११, १६.
 धार्मेव- -वः शाश्रौ १४,
 २४, २, ३३, ५, ६१, ६;
 बौश्रौ ८, ११ ° ८x४, वाधुश्रौ;
 निसू ९, १० : ३६^१, -वम् आश्रौ
 ८, ८, ८, १२, २४, शाश्रौ ८,
 ३, १४; १०, ८, १८, ११, २, ९;
 ५, ४, ६, ७, ७, ९, १८, २२,
 ६, माश्रौ २, ५, १, २०, हिश्रौ
 ९, ३, ३५, ऋध्नु २, १, २०;
 ११०, १६१, ३, ६०, ४, ३३;
 ७, ४८, वृदे ४, २७^१, ५, १;
 १७५, ६, १०८, -वस्य शाश्रौ
 १४, ५६, ८, माश्रौ २, ५, १, २२;
 ३, ७, ५, अप्राय ६, ४, -वात्
 आपश्रौ १३, ११, १, १७, २३,
 २, हिश्रौ १०, ५, ६, -वान्^१
 जुसू ३, ११ - १२, -वाय वैश्रौ
 १६, १२ १७, -वे आश्रौ ५,
 १७, ४, शश्रौ ६, ८, १२, आपश्रौ
 २२, ७, २४; बौश्रौ १४, ५ :
 १४, ६ - ६, माश्रौ ३, ७, ६;
 वैश्रौ २१, १३ : ७, हिश्रौ १५, ६,
 ४४, १७, ३, २३, जैश्रौ, निसू
 ४, ७ : ४, ६, २, २२, ७, ५ : ३१;
 -वेण शाश्रौ ८, १, ९, द्राश्रौ ६,
 २, ४, १०, ३, ३, लाश्रौ २, १०,
 ४, -वेषु क्षुसू २, १२ - ५;
 १२, १९, २७.
 धार्मेवी- -वी ऋध्नु २,

- a) विप । मलो बस । b) पाभे वैप २, ३ख द्र । c) विप । वसु. प्र उस्. (पा ३, २, १४०) ।
 d) स्वार्थे क प्र । e) वैप १ द्र । f) पाभे वैप १, १०१६J द्र । g) √रिक्, म्क् इति [पक्षे] BFG :
 h) पाभे. वैप १ परि द्र । h) ऋजीषप^० इति पाठ. १ यनि शोध । j) <√रिभ् । k) पाभे वैप २,
 ३खं ऋतुभि. तैत्रा २, ५, ८, ३ टि. द्र. । l) पाभे वैप १ परि ऋभवः ऋ १, ११०, १ टि. द्र. । m) विप.,
 नाप (= साम-विशेष- [निसू J) । n) पाठ ?^० इति शोध (तु. मूको.) ।

वैप-द्वि-३

१०, १७६, बुदे ५, १७४, १०८, ८, ७४
 ?आर्भवचर- रम् निसू ५,
 : २५, ८, ४ : २
 आर्भव-कन्दस- न्दासि निसू
 ३, १ २३
 आर्भव-जातवेदसीय- ये
 शाश्रौ १६, २०, १६
 आर्भव-पत्रमान- नात् वैश्रौ
 १६, १२. २१, -ने काश्रौ २२,
 ६, ४^३
 आर्भव-मास्त- -ते शाश्रौ
 ११, १४, ३२
 आर्भवा(व-अ)न्त- न्तान्
 निसू ५, ६ ३
 आर्भवान्ती(य>)या-
 -या. निसू ६, २. १४
 आर्भवा(व-अ)न्त्य^०- न्त्या
 दाश्रौ ८, २, २१, लाश्रौ ४, ६,
 १६; चुसू ३, १० २५, २६,
 ११ १४^३, १२ १५, निसू
 ४, ६ २०, ९, ५ २८
 आर्भवी(य>)या- या निसू
 ५, २. २५, ६, २. ९, -याम् निसू
 ५, २ २४, ६, २. ७, ८, ९, ३. २१
 ऋभु-मत्^०- मत काश्रौ १०, ५,
 ९; ७, १३, आपश्रौ १३, १२,
 २, बौश्रौ ८, १२ : १६, माश्रौ
 २, ५, १, ३२, वैश्रौ १६, १३
 १५, हिश्रौ ९, ३, ४९, -मते

आश्रौ ५, १, १५, शाश्रौ ६, ७,
 १०, बौश्रौ ९, १० ११, -मन्तम्
 आश्रौ ५, ३, १०, शाश्रौ ६, ९,
 १३, -मान् काश्रौ १०, ७, १३
 ऋभुक्षन्, क्षा^०- ऋभुक्षन् आश्रौ
 ८, १२, २४, ऋभ्र २, ७, ४८,
 -ऋक्षा अप ४८, ६८, निघ ३,
 ३, या ९, ३
 ऋभुक्षिन्^०- पाउभो २, १, २९५,
 पा ७, १, ८५.
 ऋभ्व^०- भ्वम् या ११, २१^०
 ऋभ्वन्^०- भ्वा ऋभ्र १४, ४८, ५२,
 -भ्वाणम् अप ३, २, ३०^०
 ऋभुचु^१- चु अप ५२, ९, ५
 √ऋम्फ √ऋफ् द्र
 ऋश्य^०- पाग ४, १, ४१^०, १५४^{१०}, २,
 ८०^{१०}, -श्यस्य निसू ६, ७
 २२^१, -श्या. बौश्रौ २५ १^१,
 -श्ये बौश्रौ २, ५. १०^१ ^३
 ऋश्यी- पा ४, १, ४१.
 आश्र्यायनि- पा ४, १, १५४
 ऋश्य-क- पा ४, २, ८०^३
 ऋश्य-द^०- द. अप ४८, ७७,
 -दात् निघ ३, २३
 ऋश्य-हरिण-पुषत-महिष-वराह-
 कुलङ्ग- ज्ञा बौध १, ५, १३२
 ऋश्यायण- णा बौश्रौ २५ १
 √ऋष् (=√अर्ष [बधा !]) पाधा तुदा
 पर गतौ, ऋष्यति आग्निष्ट २,
 ४, ५. ११^०

ऋषण^०- णेन या ४, ७
 ऋषक^०- कै अप ५२, ५, ३
 ऋषभ, भा^१- पाउ ३, १२३, पाग २, १,
 ५६, -०भ बौश्रौ ५, १० २४,
 -भ आश्रौ ९, ४, ६ × x, शाश्रौ,
 -भम् आश्रौ १२, ७, १३,
 शाश्रौ, -भस्य शाश्रौ १७, ५, ९,
 आपश्रौ, लाश्रौ ६, १०, १२^०,
 -भा बौश्रौ २५ १^१, दाश्रौ
 ९, १, १६, लाश्रौ ३, ५, ५, १५^५,
 ६, ४, ९, ४, २१, ऋषापमं १, १३,
 २^१, ३, आश्रु १, १, ८, कौश्रु १,
 १२, ६^१, हिश्रु १, २५, १^१,
 -भागाम् काश्रौ ३० १०,
 माश्रौ ५, २, १०, ३५, लाश्रौ
 ९, ४, २०, -भान् बौश्रौ २१,
 २६ २, -भान् बौश्रौ १०,
 ५. २३, ६ : ६, १२, ८ : ४,
 २२, २ १७, माश्रौ ५, २, १०,
 ४४, वैश्रौ १८, १ : ७६,
 -भाम् आपश्रु ३, १२^०, -ऋभय
 बौश्रौ १८, ४० ९, १०,
 वाधूश्रौ ४, ८९ २४, बौश्रु २,
 ८, १६, -ऋभास आपश्रौ १९,
 ३, २, बौश्रौ १७, ३६ : १,
 आश्रु १, १, ४, -मे आश्रौ २,
 १८, १०, शाश्रौ १६, ९, १०^१,
 आपश्रौ १०, १२, ४; १९, १७,
 १, बौश्रौ १५, १७ २; भाश्रौ
 १०, ११, १^१, वैश्रौ ९, ३. ८;

a) आर्भवे, स्तूयमाने इति चौरसं । b) विप. । बस । c) वैप १ द्र । d) = ऋभुक्षन्- ।
 e) पामे. वैप १ द्र । f) व्यप. । व्यु ? । g) बप्रा । उत्तरत्र टि विवेकः द्र । व्यु ? । h) ऋष्य- इति
 पाका. । i) = ऋषि-विशेष- । j) ऋष्य इति [पक्षे] भारडा । k) अर्थः ? । l) बहु. < आश्र्यायनि- ।
 m) = मृग-विशेष- । n) = देश-विशेष- ? । o) हिंसाया वृत्ति । सपा बौश्रौ २, ५. २६ रिष्यतु
 इति पामे । p) विप । कर्तरि कृत् । q) अर्थः व्यु. च ? । r) विप., नाप. (उक्षन्- स्वर-विशेष-
 । नाशि. माशि प्रभृ., इष्टका-विशेष- प्रभृ), व्यप. (ऋषि-विशेष- [ऋभ्र !]) । वैप १ द्र. । s) पूर्वेषु संघिरार्थः ।
 t) बहु. < अर्षभ- । u) पामे. वैप १ वृषभा शौ ९, १, ९ टि. द्र. । v) पामे वैप १, १० १९ ऽ द्र ।
 w) = [वरणे परिवर्जिता-] कन्या- ।

हिश्रौ १०, २, ४११, २२, १, १३, जैश्रौ २५ : ५, द्राश्रौ २, २, ४६, १३, १, १६, लाश्रौ १, ६, ४३, ५, १, १४, ७, १, ७, ९, ४, २०, वैताश्रौ ३९, १८, निसू ६, ३, २२, माशि १, ९, नाशि १, २, ११, -भेण आश्रौ ९, ७, ३० ^६ , आपश्रौ १०, २५, १४, २२, १२, ११, भाश्रौ १०, १७, ७, माश्रौ ६, १, ८, १०, हिश्रौ ७, २, ६८ ^८ , १७, ५, १९, ३०, लाश्रौ ९, ४, १, आमिष्ट १, ५, ५ : १४ ^८ , ६, ३, ६६, २, ७, ६ • ३३, हिष्ट १, २५, २ ^३ , कौसू २४, २२, अप्राय ५, ६, ऋश्र २, १०, १०२, -भेषु काश्रौ ४, ४, ११ आर्षभ ^७ - भम् बौश्रौ १६, २० ३, १८, ३ २, ७, जैश्रौ २५ ५, द्राश्रौ २, २, ४६, लाश्रौ १, ६, ४३ ^० , ६, ११, ४, वाघ १७, ८, अश्र ९, ४, -भेण बौश्रौ १६, २० • १०, लाश्रौ ३, ११, २, अप १, २७, २ आर्षभ-स्तोत्रीय- -यम् निसू ६, ४ : १२ आर्षभ्य- पा ५, १, १४ ऋषभ-गोसव- -वौ काश्रौ २२, ११, ३ ऋषभ-चर्मन्- र्म आपश्रौ २०, २०, १, २२, २५, ५, वाश्रौ ३, ४, ५, ५, हिश्रौ १४, ४, ४२, २३, ४, ३, माष्ट २, १४, २६ ऋषभ-तर- पा ५, ३, ९१ ऋषभ-दण्डिन् ^८ - ण्डिन कौसू	२४, ९ ऋषभ-धैवत- -तौ शैशि १७४, पाशि १२, याशि १, ७, नाशि १, ८, ८ ऋषभ-पूजा- -जा गोगृ ३, ६, ११. ऋषभ-प्रतिरूप- -पा लुसू २, २ : २ ऋषभ-प्रभृति- -ति हिश्रौ १२, १, ७, २०, २९, -तीनि हिश्रौ ११, ८, २२ ऋषभ-रूप- -पम् शाश्रौ १४, २३, २ ऋषभ-वत् नाशि १, ५, ८ ऋषभ-व(त>)ती- -ती शाश्रौ १४, २३, ४ ऋषभ-वेहत्- -हतौ वाघ २१, २२ ऋषभ-षोड(श>)शा- -शा गौघ २८, १५ ऋषभ-सहस्र- -स्रम् काश्रौ २२, ११, ५ ऋषभा(भ-आ)दि- -दि. आपश्रौ १७, १, १०, २, ७, १३ ऋषभा(भ-अ)धिक ^९ - कम् काश्रौ २४, ५, २८ ऋषभै(भ-ए)कश(त>)ता ^{१०} - ता बौश्रौ १६, २९ : ६, गौघ २२, १६, -तानाम् आश्रौ १२, ६, ३२ ऋषभै(भ-ए)कसह(स>)सा ^{११} - -सा गौघ २२, १४ ऋषभै(भ-ए)कादश, शा ^{१२} - श सुघ ३६ ^{११} , -शम् बौघ ४, ४, १० ^६ , -शा बौश्रौ १६, २९ ६, गौघ २२, १८, वाघ २४, ७ ^६	ऋषभै(भ-ए)काधिक ^{१३} - कम् बौघ १, १०, २१ ऋषभो(भ-उ)क्त- -क्तम् निसू ७, १० : ८ ऋषभो(भ-उ)स्थित-षड्ज-हत- -त नाशि १, ४, ५ ऋषभ्युषा निसू ६, १० : १० ऋषि ^{१४} - पाउ ४, १२०; पाग ४, ४, ६२ ^१ , -षयः आश्रौ ५, ६, १, ७, ११, शाश्रौ, या १, २०, २, ११; ४, ३ ^१ , २७, ७, ४, ११, १७ ^१ ; १९, २३, १२, ३६, ३७ ^१ ; ३८ ^१ , १४, १५, १९ ^१ ; -षये वृदे ५, ५८, ६, ६०; ६६, -षिः आश्रौ ४, ७, ४ ^२ ; १२, ९, १८, शाश्रौ, आपश्रौ ४, १०, ४ ^{१३} , भाश्रौ ४, १५, ३ ^{१३} ; विघ ४८, ६ ^३ , अश्र ८, २ ^३ , ऋया २, ११ ^१ , २४, ३, ११, ४, १५, १६, १९, ५, २, ६, २५, ७, १, १३, ९, २३, १०, ५, ३२, ४२, १३, १२, १४, १३ ^३ , -षिणा आश्रौ २, ३, २५ ^१ , ऋयाश्रौ १६, २८, १ ^३ , २४, ५, ४, ऋवैश्रौ १८, २० १४, २१, ऋहिश्रौ ११, ७, ६५ ^३ , २१, ३, ४; कौगृ २, ४, १६, ऋश्र १, २, २७, वृदे ३, ६८, १०९, साश्र २, ६५७; -षिभिः ऋयाश्रौ १६, २६, ६ x x, वैश्रौ, या ७, १६ ^१ , पि ३, ९ ^० , -षिम्य आश्रौ ८, १४, १८, बौश्रौ, पावा ४, १, ११४; -षिम्य शाश्रौ १५, १९, १, बौश्रौ; या ४, १४, १३, १२, -षिषु वृदे
---	---	--

- a) = एकाह-विशेष- । b) तस्येदमित्याद्यर्थेषु प्र । c) = साम-विशेष- । d) सस उप = बलीयस्- ।
e) विप । बस । f) पाठ ? °शा इति शोचः (तु गौघ) । g) सपा °शम् <> °शा इति पाभे । h) विप ।
तुस उप बस । i) वैप १ द्र । j) तु पाका । ऋषि- इति भाण्डा । k) पाभे वैप १, १०२० d द्र । l) शोचः
वैप १, ८९८ b द्र । m) पाभे वैप १, १०२० f द्र । n) °र्व्यं इति पाठ ? यनि. शोच । o) = सप्तन्- ।

२, १३, या १३, १२, -षी सु
२, ३, वृदे २, ३७, ५, ६२, १५०,
पा ६, १, १५३, -षीणाम्
आश्रौ ८, १४, ४, शाश्रौ, या
२, ११, ३, १७, ७, ३, ८,
२१, १४, १९, -षीन् काश्रौ
४, १४, २७, बौश्रौ, या ६, ५,
-०षे शाश्रौ १५, २०, १×४,
आपश्रौ, -षे सु २७, ६, कौश्र,
या ९, ८, १०, १०, ४६, १४,
२९, वेज्यो २९^a, ३०^b, -षे ङ-
षे: आपश्रौ २४, ११, १०, १,
-षी वृदे २, १२९, १५५, ऋत
५, १, ५, पा ४, ४, ९६^c, ६, ३,
१३०.
आर्षे- पा २, ४, ५८, -र्ष
आश्र १, ६, ४, वैश्र ३, १ २,
वाघ १, २९, ३२, शघ ६७, ६८,
बौघ १, ११, ४, विघ २४, १८,
२१; अत्र २०, ८५, -र्षम् आश्रौ
५, १०, २७, शाश्रौ ६, १, २,
आमिश्र २, ६, १७, वैश्र, या ६,
२७, ९, ८, १३, ९, १२, -र्षाणाम्
वाघ १२, ४१, -र्षाणि उनिसू १:
३; -र्षात् बौघ १, ११, १८, १,
गौघ ४, ३०; -र्षे आपघ २,
११, १८, हिघ २, ४, ३३, गौघ
४, ८, तैषा ९, २१, १०, १३,
-र्षेण वैश्र १, ५. ९, ११ : ४,
विघ २४, ३५, वैघ २, १३, ५,
वृदे ४, १४, ५, ७४
आर्षी- -र्षी अत्र १,
१७×४, ऋप्रा, -र्ष्यः अत्र १३,
२, उनिसू ३. १४, पि २, १६,

-र्ष्याम् ऋप्रा २, ५२, ५६, ११,
५५
आर्षी-गायत्री- -ञ्य
अत्र १८, २, -ञ्यो अत्र १०,
७
आर्षी-जात- -तः वैश्र
३, १ १३
आर्षी-पार्षद- -दे
अप ३ १
आर्षी-पुत्र- -त्रः विघ
२४, ३१
आर्ष्य(र्षी-अ)नुग्रह-
-ह ऋप्रा ११, १८
आर्ष्य(र्षी-अ)लोप-
-पेन ऋप्रा ११, १
आर्ष्य(र्षी अ)विलो-
प-विक्रम- -म ऋप्रा ११, ५९
आर्ष-क- -कम् वृदे २, १२६
आर्ष-वत् ऋप्रा १६, ११
आर्षेय^d- -यः शाश्रौ ५, १६,
५, काश्रौ, -यम् शाश्रौ ३, १६,
२३, आपश्रौ, -यस्य बौश्रौ २३,
९ : १९^e, २९, ८ २५, -या
आपश्रौ ५, २२, ४, बौश्रौ २,
१९:१५, १४, १८ ३०, २०, १६
३९; भाश्रौ, -याणाम् हिश्रौ १६,
१, ३६, अत्र १६, ८, १, -याणि
आश्रौ ४, १, १७, शाश्रौ १, ४,
१५, -यान् आश्रौ १, ३, १,
शाश्रौ ५, १, १, बौश्रौ २, १४
७, भाश्रौ २, १५, ९, ११, १०,
१, १, माश्रौ २, १, १, ४, वैश्रौ
१२, १ : ३, हिश्रौ १०, १, ४,
कौसू ६३, ३, -याय आपश्रौ

१३, ७, १०, माश्र १, ९, १२;
-येण आपश्रौ २४, ५, ५१, हिश्रौ
२, १, ५४, -येभ्य आपश्रौ ५,
५, ९, २०, २, ५, भाश्रौ ५, ३,
१०, हिश्रौ ३, २, ४८, १४, १,
१८, कौसू ६७, २७, अत्र ४३,
१, १२, १, -येषु कौसू ६५, १२, १
आर्षेयी- -यीम् अत्र ६,
आर्षेय-कल्प- -ल्पः निसू
२, ४ : १०, १२ ६, ३, ३-
४३, -ल्पेन लाश्रौ ९, ५, २२,
१२, ९, १०, ६, ७, ८, ३, ६,
१०, २०, १३, १८, २०, ११
आर्षेय-गोत्र-स्मृति- -ति
वैघ ४, ८, ७
आर्षेय-प्रवादिन्- -दिभ्य
लाश्रौ ९, ६, ११
आर्षेय-वत् मीसू ६, ८, ३५
आर्षेय-वरण- -णम् आपश्रौ
२१, ३, ४, -णे बौश्रौ २३, ९ :
१८, २१
ऋषि-क^f- पाग ५, १, १२^h,
-कान् आमिश्र २, ६, ३ ३८, रंघ
११६ ३२, बौघ २, ५, २७, १
आर्षिक्य- पा ५, १, १२८
ऋषि-कल्प- -ल्प बौश्र १, ७, ५;
वैश्र १, १ १६, -ल्पम् बौश्र
१, ७, १४
ऋषि-कृत- -कृत् द्राश्रौ ७, २,
७, लाश्रौ ३, २, ७, या ६, २०,
शैशि ३३१.
ऋषि-कृत- -तम् वृदे ३, ४ⁱ, -तस्य
जैश्रौ २०:५; -ताः निसू १, १ :
१; २, १:१५^j; -तानि; मैश्र ४,

a) = चन्द्रमस् । b) = मन्त्र- वा वेद- वा । c) विप., नाप (विवाह-, तीर्थ-, पाठ- प्रसृ) ।
तस्यापत्येदमायर्षेणु अण् प्र । d) वैष १ द्र. । e) प्यश्च इति पाठ^१ यनि. शोध । f) = ग्रन्थ-विशेष- ।
g) अल्पार्थे कः प्र । h) रूपिक- इति पाका. । i) भूयास पाभे इति संस्कर्तु. टि द्र । j) षतः इति पाठ इ
यनि. शोधः ।

ऋषि-क्रम- -मेण वैगृ ३, २३ ११
 ऋषि-गण- -णा ऋअ २, ९, ८६,
 साअ १, ५६०, २, १७३^{२६},
 २४८, ३०८, ३८२, ३८३, ३८७
 ऋषि-ग(त>)ता- -ताम् बृदे ७,
 ११२^०
 ऋषि-गोत्र-प्रवर- -रान् वैवध, १, १
 ऋषि-च्छन्दस्- -न्दः निसू १ ६
 १८, ऋप्रा १६, ७, -न्दासि
 ऋप्रा १६, ८, १५
 ऋषि-च्छन्दस्^०- -सानि वावृश्रौ ४,
 १००^२ १३
 ऋषि-च्छन्दो-देवता(त-आ)दि-
 ज्ञान- -नम् बृदे ८, १३५
 ऋषि-ण^०- -ण या १४, १३^२
 ऋषि-तस्() अप १, ३९, ५,
 ४१, ६, अशा ९, ५, ११, ६४
 ऋषि-त्व- -त्वम् जैगृ २, ८ २६,
 बौध ३, ९, १९, या २, ११^१,
 ऋषि-दर्शन- -नम् निसू ५, ५
 २७, -नात् बौश्रौप्र ५४ ११
 ऋषि-देवता- -तयो पा ३, २,
 १८६
 ऋषि-दैवत-च्छन्दस्- -न्दासि कौगृ
 २, ४, १७, शागृ २, ७, १९, ऋअ
 १, १२, ३, शुअ १, १, अअभू
 १, ८, १
 ऋषि-नामधेय- -यम् बौश्रौ २४,
 ३८ ७
 ऋषि-नामन्- -मसु जैश्रौका ८७
 ऋषि-निकेतन- -नानि बौध ३, १०,
 १३
 ऋषि-निर्वचन- -नाय या १४, ३१.
 ऋषि-निवास- > ँस-गोष्ठ-परिष्क-

न्दल, न्व-।- -न्दा^० गौध १९,
 १५, -न्धा^० वाध २२, १२
 ऋषि-पत्नी- -नी. वैगृ १, ४ : १७,
 बौध २, ५, २७^१, -नीम् शंघ
 ११६ ३२, -न्यः वैगृ १,
 ७. १
 ऋषि-पुत्र- -त्रम् बृदे ५, ६३,
 -त्राणाम् चाअ ४ ९, ४१
 ३, -त्रान् आमिगृ २, ६, ३
 ३८, शव ११६ ३२, बौध
 २, ५, २७^१, -त्रौ बृदे ४, ११
 ऋषि-पुत्रिका- -कायाम् अप २४,
 १, १
 ऋषि-पुत्री- -त्री आमिगृ २, ६,
 ३ ३८, -त्र्या^० या ५, २
 ऋषि-पौत्र- -त्रान् बौध २, ५,
 २७^१
 ऋषि-प्रतिषेध- -ध पावा ६, २,
 १६५
 ऋषि-प्रति(ष्ट>)ष्टा^०- -ष्टा कौस्
 ६०, ३४, ६१, ३३
 ऋषि-प्रोक्त-मन्त्रादि-शब्द-स्वर-
 ज्ञाना(न-अ)र्थ- -र्थे अप्रा
 १, १, ३
 ऋषि-बन्धु^०- -न्धवे आमिगृ २, ३,
 ५ : २०^१
 ऋषि-मुख^०- -खानि पागृ २, १०,
 १९
 ऋषि-वाक्य- -क्यम् बृदे १, १३
 ऋषि-विद्वन्-नृप- -पाः बौध २,
 ३, ५७.
 ऋषि-विद्वन्-नृप-वर-मातुल-श्वशुर-
 (र-ऋ)त्विज- -त्विज बौध २,
 ३, ५६

ऋषि-श्रेष्ठ- -ष्ठम् बृदे ७, ५५.
 ऋषि-स्तु(<स्तु)त^०- -तः आश्रौ
 १, ३, ६, शाश्रौ १, ४, १९
 ऋषि-संयुक्त- -कम् भागृ १, १२ :
 ७
 ऋषि-संसद्- -सदि बृदे ४, १३३.
 ऋषि-सस्तुत- -तः वाध २३, ४७
 ऋषि-सत्तम- -म बृदे ४, ७८, ५,
 १५१
 ऋषि-ससरात्र^१- -त्रम् आश्रौ १०,
 ३, ६.
 ऋषि-सु(त>)ता- -ता शुअ २,
 २७९
 ऋषि-सूक्त- -क्तम् बृदे १, १४
 ऋषि-सृष्टि-प्रतिपा(दक>)दिका-
 -काम् शुअ ४, ३३
 ऋषि-स्तोम^१- -माः आश्रौ ९, ८,
 २५, शाश्रौ १४, ६३, १.
 ऋषि-स्वाध्याय- -ये शागृ २, ७,
 २७^६, -येन कौगृ २, ४, २३^६.
 ऋ(षि>)षी-वत्^१- -वः ऋप्रा
 ९, २४^१
 ऋषी(षि-इ)ष्टका^१- -का आपश्रौ
 १६, ३१, १, वैश्रौ १८, २० :
 ५८
 ऋष्य(षि-अ)णूक- -कम् बौगृ २,
 १, २८
 ऋषि-षेण- ऋषिषेण- टि द्र
 ऋषि-ष्टि^१- -ष्टय माश्रौ ५, १, ७, ९;
 -ष्टि या ६, १५, -ष्टिभिः
 वैताश्रौ ३१, २७.
 ऋषि-मत्^१- -मद्भिः या ११, १४^१;
 ऋषि-षेण^१-[पाग]>आर्षिषेण^१-
 पा ४, १, १०४^३, ११२, -०ण

a) षिर्ग^० इति पाठ १ यनि शोध । b) पूर्वैण संघिरार्थ । c) षस समासान्तषु ट्च प्र (पावा ५, ८, १०३) । d) विप । मत्वर्थाय न. प्र उंसं (पा ५, २, १००) । e) परस्परं पाभे । f) वैप १ द्र । g) विप. (पद-विभाग-) । त्स > क्स > द्स > षस > बम । h) बस उप = प्रारम्भ- । पूष = ऋषि-मण्डल- । i) = अहीन-विशेष- । j) = एकाह-विशेष- । k) परस्परं पाभे । l) = इष्टका विशेष- । m) षि^० इति पासि. †

आश्रौ १२, १०, ८, आपश्रौ २४,
५, १५, १६, बौश्रौप्र ५: ४,
हिश्रौ २१, ३, ७^३, वैध ४, २, ३,
-ण वृदे ७, १५५, ऋअ २,
१०, ९८, या २, १०, ११^३र्द्ध,
-णस्य या २, ११, -णा बौश्रौप्र
१ ३, ५: १, ३, ५, -णानाम्
आश्रौ १२, १०, ८, आपश्रौ
२४, ५, १५, हिश्रौ २१, ३, ७,
वैध ४, २, ३
ऋषिषेण-वत् आपश्रौ २४, ५,
१५, १६, हिश्रौ २१, ३, ७^३,
बौश्रौप्र ५ ४, वैध ४, २, ३
ऋषिषेण-सुत- -त् वृदे ७,
१५६ -

ऋष्य^३- पाठ ४, ११२, -ष्यः साअ
१, ६२५^३, -ष्यान् शाश्रौ ८,
२५, १^३

भाष्यार्थिणि- ऋष्यक-^३
ऋष्य-शृङ्ग- ङ्ग. ऋअ २, १०,
१३६

ऋष्व^३- पाठना १, १४२, -०ष्व
आमिगृ २, ७, ३ ४, ३, १०, ३
१२, -ष्व अप ४८, ६८, निघ
३, ३, ऋप्रा १६, ६३, -ष्वा^३
वाश्रौ १, १, ६, ६, या ७, ६

√ऋह्, ऋहत्- √ऋह् द्र

ऋ

ऋ^३, ऋरे शुप्रा ८, ३
ऋ-कार- > ऋ-गुण-प्रतिषेधा
(ध-अ)र्थ- -र्थम् पावा ३, २,
१७१.
ऋकारा(र-अ)न्त-गुण-प्रतिषेधा
(घ-अ)र्थ- -र्थम् पावा ३,

२, १०७
ऋ-वाचन- -नम् पावा ६, १, ९९
√ऋ^३ पावा क्रया पर गतौ ।

लृ

लृ^३ शुप्रा ८, ३, याशि २, ९४, पाग
१, ४, ५७
लृ-कार- -र ऋप्रा १३, ३५, शुप्रा
४, ६१, ८, ३५, पाशि ५, भाशि
२५, -रम् ऋप्रा १४, ४५, -रस्य
याशि २, २३, -रे याशि २, १९
लृकार-वर्जम् शुप्रा १, ८७
लृ-तु-ल-स- -सा पाशि १७, आशि
१, १५
लृ-ल-सि-त- -ता शुप्रा १, ६९
लृ-वर्ण- -र्ण अप ४७, १, २०,
-र्णम् शौच १, ३९, -र्णस्य आशि
६, ४, -र्णे शुप्रा ४, ११४
लृवर्ण-त-थ-ध-न-लकार-
सकार- -रा याशि २, ९४

लृ

लृ^३, लृरे शुप्रा ८, ३, याशि २, ९४

ए

ए^३ शुप्रा ८, ५, शैशि ४४, पाशि १९,
आशि ३, ८, पाग १, ४, ५७
ए-इ-कारा(र-अ)न्त- -न्ता
भाशि ११४
ए-कार- -र अप ४७, ३, ४, उस् ७,
६, तैप्रा ९, ११, अप्रा २, १, २,
शौच १, ७६, ९७, ३, ४४, याशि
२, ९४, कौशि १४, -रम् ऋप्रा
२, १६, १८, उस् ७, २, शुप्रा ४,
५४, तैप्रा १०, ४, वृदे ८, ८५,

-रात् ऋपा ५, १, अप्रा ३, १,
१६, -रे तैप्रा २, १५, २३,
-रेण ऋप्रा ५, ८, शुप्रा ७ २
एकार-ओकार-पूर्व- -र्वः तैप्रा
११, १
एकार-चकारवर्ग- -गौ ऋप्रा
१, ४२
एकार-रेफ-पृतनो(ना-उ)प(धा-
>)ध- -ध ऋप्रा ५, २२
एकारा(र-अ)दि- -दी अप्रा १,
१, ९
एकारा(र-अ)न्त^३- -न्तम् ऋप्रा
२, ६१, शुप्रा ७, ७, -न्तात् अप्रा
२, ३, ७, ३, १, २१, -न्तानि
अप्रा २, ३, १७

एकारान्त-त्व- -त्वम् पावा
४, ३, २३

एकारान्त-निपातन- -नम्
पावा २, १, १८

एकारान्त-प्रस्ताव- -वम्
लाश्रौ ७, २, १

एकारे(र-ई)कार- -रौ तैप्रा ४,
८

एकारे(र-ई)कारो(र-ऊ)कार-
-रा शुप्रा १, ९३

एकारै(र-ऐ)कार- -रयो. शौच
३, ५०, -रौ हिश्रौ २१, २, ३३.

एकारैकार-पर^३- -र तैप्रा
१०, ६

एकारौ(र-ओ)कार- -रयोः शौच
१, ३४, पाशि २०, याशि २,
२०, -रौ शाश्रौ १, २, ७, शौच
३, ५५.

एकारौकार-पर^३- -रः ऋप्रा
२, ६२.

a) बप्रा । व्यु १ । b) = ऋषि-विशेष । c) = सृग-विशेष । d) पृ ७७८ h, j टि द्र ।
e) वैप १ द्र । f) = रिष्व- (तु पाठ १, १५३) । g) पामे वैप १, ८६९ ० द्र । h) = वर्ण-विशेष ।
१) बस > षस > षस । j) पा ७, ३, ८० परामृष्ट द्र । k) विप । बस ।

<p>एकारौकारा(र-अ)न्त^a- -न्तात् शौच ३, ५३ ए-कृत-निघन^b- -नम्, -नस्य लुस् ३, १० : २० ए-त्व- -त्वम् पावा १, १, ५७, ७, ३, १०३ ए-त्व वचन- -नम् पावा ६, १, १, ४, १२० ए-त्व-विज्ञान- -नस्य पावा ६, ४, १२० ए-त्वा(त्व-अ)भाव- -वः पावा ६, ४, १२०</p>	<p>१, काश्रौ, या छ, १५, ङिषि पाग १, ४, १५, आमिग ३, ५, ६ ७, बौपि १, ४ २३, ङिषि आपश्रौ^c ६, २७, ३, १६, १६, ४, वैश्रौ १८, १४ १२^d, हिश्रौ ११, ६, १४^e, कौग ३, ४, ५^f, शाग ३, ७, २^g, भाग २, ५ १०, अप १३, ४, ३^h, शुप्रा ३, १५०ⁱ, ङिषमसि आपश्रौ ६, २७, ३, हिश्रौ ६, ७, ८, शाग ३, ७, २, भाग १, २७ २, ९, हिग १, २९, १, ङिषेतु आश्रौ ५, ५, ८××, शाश्रौ ८, १०, १^k, काश्रौ २५, ५, २८^l, बौश्रौ ९, ३ ३^m, १९, १० ५२ⁿ, वैताश्रौ १८, ४^o, आपम १, ४, ७^p, आग १, १३, ६^q, २, ९, ५^r, ३, ६, ८^s, पाग १, ५, ११^t, आमिग २^u, ७, ५ ६, १५, काग २८, ४^v, बौग १, ४, २०^w, भाग १, १४ १^x, माग १, ३, १^y, २^z, वैग ३, ३ : ४^{aa}, हिग १, २७, ४^{ab}, १९, ७^{ac}, गोग ३, ३, ३२^{ad}, जैग १, २० : ६^{ae}, कौसू^{af} ९, २, ४५, १७, ५४, २, ५७, ८, ६६, २, अप्राय^{ag} १, ४, ६, ५, ९, अप^{ah} ३२, १, २६, ३७, ४, २, ८, २, १३, १, २०, १, अअ ७, ६७^{ai}, १या^{aj} ३, ३, ८, १३,</p>	<p>आ एतु आश्रौ ३, ८, १; शाश्रौ १६, ११, २४, आपश्रौ, बौश्रौ ९, ३ : ३^{ak}, आग १, १३, ६^{al}, ङा(एतु) शाश्रौ छ, २०, २, ६, १०, ७, ११, १२, ८, ६, ३, माश्रौ ५, १, ७, २, आग छ, ८, २३, कौग, एतात् बौश्रौ १८, ४७ : १२^{am}, १४^{an}, ङिषायन्तु आपश्रौ १, ७, १३^{ao}, १०, १२, ४, बौश्रौ ३, १५ ९, माश्रौ, बौग २, ६, १३^{ap}, कौसू ५६, १७^{aq}, ङा यन्तु आश्रौ ५, १८, ५, काग ६३, ४, बौग १, ३, ३५, २, ६, १०, कौसू १९, १४, अअ २, २६, ङा- (यन्तु) शाश्रौ ८, ३, १६, ऋअ २, १, ८९, वृदे ३, १२२^{ar}, शुअ ३, ५०, ङिषहि आश्रौ २, ८, ७××, शाश्रौ, आपश्रौ ९, २, ३^{as}, १९, १४, १४^{at}, माश्रौ ९, ३, १^{au}, हिश्रौ १५, १, ४१^{av}, २३, ३, १२^{aw}, आपम २, १, १^{ax}, आग १, ७, ६^{ay}, १७, ६^{az}, कौग १, ८, २०^{ba}, शाग १, १३, १२^{bb}, पाग १, ५, ११^{bc}, ६, ३^{bd}, २, १, ६^{be}, ३, १, ३^{bf}, काग २५, २७^{bg}, २८^{bh}, ४०, ९^{bi}, ४१, ८^{bj}, बौग १, ७, ४२^{bk}, २, ४, ८^{bl}, भाग १, २० २^{bm}; माग १, २२,</p>
--	---	--

a) विप । बस । b) नाप (सामन्-) । बस पूष = ए-कार- । c) सपा शौ ३, १२, ७^३ आ-
(अगात्) इति पामे । d) पामे वैप १, ६२७ c द । e) अयम् इति पाठ १ यनि शोधः (तु भाग-
हिग) । f) पामे वैप १, १०२४ d द । g) पामे वैप १, १०२४ i द । h) सपा एतु <>
प्रेतु इति पामे । i) पामे वैप १ परि एतु खि २, ११, १ टि द । j) एतु इति जीसं । k) पामे-
वैप १, ६२४ a द । l) एतु इति पाठः १ यनि शोधः (तु. BN) । m) सपा बौश्रौ ९, २. ८ प्र • एतु
इति पामे । n) आ • एतु इति आन १ । o) पामे पृ ४८६ f द । p) पामे वैप २, ३खं आयन्तु
तैआ ७, ४, ३ टि द । q) पामे वैप १, ७९९ k द । r) पामे वैप २, ३ख एहि तैआ ३, ११, ९, ८
टि द । s) पामे. वैप १, १०२५ l द । t) पामे. वैप १, १०२५ j द । u) पामे वैप १ वि-भाहि
काठ २, १५ टि द ।

१२^a, हिगृ १, २०, २^b, जैगृ १,
११ : ९^०, २१ १५^b, कौसू ५४,
८^a, ७४, १९^d, अप ४, ४, ६^a,
अम्र २, १३^a, या १०, १८^a,
१२, २८, पा ८, १, ४६, ऋ
इहि आश्रौ ५, १४, ५, शाश्रौ
७, १९, १०, आ(इहि) शागृ १,
१३, ४^१, ऋण्त्स काश्रौ ७, ९,
१०, आपश्रौ १०, २८, १, बौश्रौ
२, १५ ८, ६, १५. २७, माश्रौ,
मागृ १, १०, १६^a, ऋण्त्स,
> ता, तो(त-उ) आश्रौ ७, ८,
२, ९, ८, १३, शाश्रौ, काश्रौ ९,
३, ३^१, आपश्रौ ३, ४, २^६, बौश्रौ
७, ३ ८^१, आश्रौ ३, ४, २^६,
माश्रौ १, १, २, १२^b, २, ३, २,
९^१, वैश्रौ ७, ३ ७^६ हिश्रौ^६ २,
३, ४१^६, ६, ३, ७, कागृ ६३, ४^b,
मागृ २, १, १३^१, वैगृ १, ९^०
१, गोगृ ४, ३, ४^१, गौपि २,
३, १०^१, ४, ९, कौसू ३, ३,
विघ ७३, १२^१, ऋम्र २, १, ३३,
ऋम्र ८, ३२, ऋआ ए(आ-इ)
त>ता^k आश्रौ ६, ४, १०,
शाश्रौ ९, १६, १, वैताश्रौ ३९,
७, ऋम्र ८, ३२, ऋआ(ए
[आ-इ] त>ता)^k ऋम्र २, १,
५, साअ १, १६४, आयानि
बौश्रौ १८, ४५ २, एयात्
बौश्रौ १४, २३ २२, २०,
२१ : ९, वैश्रौ २०, ११ १,

हिश्रौ १५, २, १०, द्राश्रौ ७,
४, १, लाश्रौ ३, ४, १, ८, ८,
३४, १०, १९, १२, द्रागृ ४, १,
१७, या ५, २८^१, एयु लाश्रौ
१०, ९, ५
एयाय शाश्रौ १५, १८, १, १९,
१^१, २०, १, २१, १, एयथ
अम्र १०, १^१
आ(आ-अ)य^m>^०य-स्थान- -ने
जैगृ १, २३. ८, -नेभ्यः पा
४, ३, ७५, पावा ४, २, १०४
आ-यत्- -यते माश्रौ ३, १, २५,
अप्राय ४, १, -यन् शाश्रौ २,
१४, ११, बौश्रौ, -यन्त्स
शाश्रौ १८, २१, ६, वैश्रौ १८,
१ ५५^१, कौसू ४८, ७, या
५, १९^१, १४, २, -यन्ति निसू
४, १२ १५, ५, २ २३
आयती- -ती आश्रौ ५, १,
१०^१, आपश्रौ १, ११, १०,
बौश्रौ १, ३ : १५, माश्रौ २,
१२, ३, माश्रौ १, १, ३, ७, ६,
२, १७^१, वैश्रौ ३, ६ १२,
हिश्रौ १, ३, १९, वैताश्रौ २१,
२४, आगृ २, १०, ६, हिगृ १,
१८, २, गो २, १८ कौसू २१,
८, -ऋतीम् ऋश्रौ १५, २
८, १८, ८ ९, १६ ५, ४० : १८,
आपमं २, २०, २७, पागृ ३,
२, २, आमिगृ ३, २, २ : ७,
मागृ २, २ ७, मागृ २, ८,

४, हिगृ ३, १७, २, कौसू
६०, २६^१, -तीषु शाश्रौ ६, ७,
७, -त्याम् शाश्रौ ५, १०, २.
आयती-गव- पाग २, १,
१७, -वे बौश्रौ २, १४ २
आयती-सम- पाग २, १,
१७
२आ(आ-अ)यन- -नात्^१ आश्रौ २,
५, २, १२
१ए(आ-इ)त- -त बौश्रौ १८, ४७ :
१५^१, -तम् बौश्रौ १८, ४७ :
१२^१, १५
एत-तर- र या ३, १६
ए(आ-इ)ति- तय ऋम्र २,
७३^१
ए(आ-इ)त्य आश्रौ ३, ६, २७,
शाश्रौ ४, १२, ११, १४, ७, १,
१५, २०, १, काश्रौ
ए(आ-ई)यिवस्- युषि जैश्रौ ३
१८, ७३
एयुषी- षीणाम् या ४, १६^१
एहि>^०हि-कटा-, ^०हि द्वितीया-,
^०हि-पच-, ^०हि-प्रक्सा^१-, ^०हि-
प्रघसा^१-, ^०हि-यव-, ^०हि-रेया-
हिरा-, ^०हि-वाणिजा-, ^०हि-
विघसा-, ^०हि-स्वागता- पाग
२, १, ७२, एही(हि-इ)ड^१-
पागवा २, १, ७२
एह्य(हि-अन्त>)न्ता-न्ता गो
१, १७
ऋ(आ-ए)तोस (:) आश्रौ २, ५,

a) पामे वैप १, १०२५ j द्र । b) पामे वैप १, ७९९ k द्र । c) पामे वैप १, १०२५ l द्र ।
d) पामे वैप १ स्योन तै ५, ७, २, ५ टि. द्र । e) पामे वैप १, ९३३ 1 द्र । f) पामे. वैप २, ३३३ एत मास
३, ९, ३, १६ टि. द्र । g) सपा माश्रौ १, ३, ३, १४ परीत इति पामे. । h) पामे पृ ४८६ f द्र । i) एतद्
इति पाठ ? यनि शोध (तु पामे वैप १, १०२६ e, परि च) । j) पामे वैप १, ६८३ e द्र । k) वैप १,
१०२६ f द्र । l) पामे वैप १, ६८४ c द्र । m) वैप १ द्र । n) पामे. वैप १, ६२५ h द्र । o) पामे.
वैप १, १०२७ g द्र । p) तु पागम । q) पाठ ? इहेड- [सामन्-] वैप २, ३३३ द्र) इति संभाव्येत, एतदनु
वैप १ इहीड- इति यदुक्तम्, तद् वाचि स्यात् ? ।

३, बौश्रौ ३, १३ ४, माश्रौ १,
६, ३, ९, वाश्रौ १, ५, ४, २९
ए(आ√ई), आ इयाते या ५,
२८०, ऋ आ ईमहे आपश्रौ
१०, ८, १, भाश्रौ १०, ५, ६,
बौश्रौ ६, २ २४, वैश्रौ १२, ७
१६, हिश्रौ १०, २, १, माश्रौ
२, १ २, १८, शुश्र १, २४२,
आ(ईमहे) काश्रौ ७, ३, ४

एक, का^१— पाउ ३, ४३, पाग १, १,
२७, २, १, ५९^२ —क पा ६, ३,
६२^०, —क आश्रौ २, ४, ३, ७,
५, २०××, शाश्रौ, गौपि २, ६,
५^१, या ३, ८^०, —कम् आश्रौ
३, १०, ९^२, ६, ६, १××,
शाश्रौ, कौगृ ३, १४, १२^०,
१३^१, पा ८, १, ९, पावा १,
२, ६४, मीस् ५, ४, १८^६,
—कम्-कम्^१ आपश्रौ ५, २१, ७,
—कया आश्रौ २, १९, ३५, ५,
१८, ५, ७, १२, ४, शाश्रौ, या ५,
११^१, —कया-कया^१ आपश्रौ
१०, २४, ९, बौश्रौ, —कस्मात्
काश्रौस ३४: २, ३, वाधूश्रौ,
—कस्मिन् आश्रौ ६, ६, ६, शाश्रौ,
—कस्मै आपश्रौ १४, २, २,
२०, १०, ७, १२, १०^१××,
बौश्रौ, —कस्य आश्रौ ९, ५, १६,
शाश्रौ, —कस्या: आश्रौ १२, ८,
३०, काश्रौ, —कस्याम् शाश्रौ ३,
१०, २××, काश्रौ, हिश्रौ १७,
५, ३१^१, —का आश्रौ २, १४,
६, ३, ७, ६, ४ २, १७××,
शाश्रौ, —का-का^१ आपश्रौ १७,

२६, ६, द्राश्रौ, —का: हिश्रौ
२२, २, २, —कात्-आमिष्ट २,
७, ७ ९, शुप्रा, पा ५, ३,
५२, ९४, —कान् निस् ८, ७
३०, —कानि वाधूश्रौ ४, २६^१
१, —कामि वाधूश्रौ ३, ९१ ६,
—काम् आश्रौ ४, ७, ४××, शाश्रौ,
—काम्-काम्^१ वैश्रौ १८, १२
१९, २० १३, हिघ २, २, ४,
—के आश्रौ १, ३, १३^२, २, २,
१××, शाश्रौ, —केन आश्रौ ८,
१, १०, १५, ३, १२××, शाश्रौ,
—केभ्य आश्रौ ६, १०, १९, वृदे
८, ५९^१, अत्र १८, २^१,
—केषाम् काश्रौ ३, ७, २०,
४, १३, ७, आपश्रौ, —केषाम्
—केषाम्^१ आमिष्ट २, ६, ३ ६०,
—केषु शाश्रौ ३, १९, ८, कौस्
१५, ४, या २, २^२
१एक्य— क्यम् याशि १, ९०.

एक^० पा ६, ३, ५९, ४, १२०

एक-क— पा ५, ३, ५२

एक-कनीयस्^१— य सु लाश्रौ ६, ७,
५

एक-कपाल^१— ल काश्रौ १, ९,
१२××, आपश्रौ, या ७, २४,
—लम् काश्रौ १९, ४, २, आपश्रौ,
—लस्य काश्रौ १९, ७, १४,
आपश्रौ ८, २०, १३, बौश्रौ ५,
८ ३०, ३६, २०, २२. १२,
भाश्रौ ८, ७, ११, ९, ८, १०, ९,
१४, ६, २३, ७, —ला काश्रौ ४,
५, ३^३, बौश्रौ २३, १२ १३,
द्राश्रौ १३, २, १०, लाश्रौ ५, ३, १,

—लान् काश्रौ ५, १०, १, आपश्रौ
८, १७, १, बौश्रौ ५, १६ २^१;
२६, २१ ३, भाश्रौ ८, २१, १;
९, माश्रौ १, ७, ७, १, ४, ५, २,
१, १, ३, वाश्रौ १, ७, ४, १३;
वैश्रौ ९, १० ९, हिश्रौ ५, ५, १;
कागृ ५२, ७, गोच ३, १०, ११;
—लानाम् आपश्रौ २४, ३, ३८;
बौश्रौ २१, १ २५, २७, ३२, २;
१, भाश्रौ ८, २१, ७, माश्रौ १,
६, ४, ६, हिश्रौ ३, ८, ८०, मीस्
७, १, २३, —लानि हिश्रौ १, १,
६०, —ले आपश्रौ ८, ७, १;
बौश्रौ २०, ८ १९, २१, ५
२०, हिश्रौ ५, २, ५६; —लेन
काश्रौ १०, ८, २७, आपश्रौ ८,
२, १७, काश्रौस २९. ४, बौश्रौ
५, ३. १२, ८. २८, २१, १६:
१२, माश्रौ ६, १७, ९, माश्रौ
१, ६, ४, १९, ७, ४, २४, २, ५, ४,
२८, हिश्रौ ३, ८, ८०

एककपाल-देवता— ताम्य शाश्रौ
१४, ५, ७

एककपाल-प्रमृति— तीनाम्
काश्रौ २३, २, १८

एकरूपाल वत् बौश्रौ २८, ४ १४.
एककपाला(ल-आ)शय^१— यस्य
माश्रौ १, ६, ४, २२.

एककपालै (ल ऐ) न्द्राम्— श्रौ
मीस् ७, १, २२

एक-कर^१— र विघ ५, ७८

एक-करपाद्^१— द- विघ ५, ४८;
७७

एक-कर्ण^१— गर्णानाम् काश्रु ४, १०.

a) वैप १ द्र । b) पाभे पृ ७५२ ० द्र । c) लुप्रविभक्तिनो निर्देशः । d) सपा एकः पिण्ड-

<> एकपिण्डम् इति पाभे । e) सपा एकं पवित्रम् <> एकपवित्रम् इति पाभे । f) सपा एकमर्च्यम् <>
एकामर्च्यम् इति पाभे । g) एवम् इति जीसं श्रेष । h) वैप १, १०२८ f द्र । i) सप्र शुकस्याम् <>
एकदिं इति पाभे । j) विप. । बस ।

एक-कर्मन्^a - मीणि काश्रौ १, ५,
११, १०, ११, काण् २५, २५,
२६, मीसू ८, १, २६, १२, ३, ९
एककर्म्य^b - म्यैम् मीसू २,
४, ११, ६, १, १७, ३, १२, ११,
१, १, ६, ४, ५०, -म्यैत् मीसू
३, १, ११, ५, २, ११, ८, २, २५,
१०, ४, ३५, ५, ८२, ६, ६३, ११,
२, ११, -म्यै मीसू २, ४, ३२
एककर्म-त्व- -त्वम् मीसू ११,
४, ४३, -त्वात् मीसू ५, ४, १२^d,
१०, ६, ६५
एककर्म-वत् मीसू २, ३, ३३
एक-कल्प^e - लपानाम् काश्रौ १, ६,
१४
एक-काम- -म आपश्रौ ३, १४, ९,
१०, २, १, बौश्रौ १९, १० ६२
एक कार्य- > ंर्य-त्व- -त्वात्
मीसू ५, २, ५
एककार्य(र्य-अ)र्य-साध्य-
त्व- -त्वात् कप्र १, ९, ८
एक-काल- लम् शध ३८७, विध
५५, २, -ले हिश्रौ ८, ७, ५०,
वैध ३, ६, ९
एककाल्य- -ल्यम् मीसू ५,
४, २४
एककाल-त्व- -त्वात् मीसू ११,
२, १८, २३
एककाल(ल-आ)हार^e - रः शंध
३७९ ३.
एककालिक^f - कम् विध २८,
५०, -काः वैध १, ८, १
एक-क्रतु- -तौ द्राश्रौ ५, ४, २७,
लाश्रौ २, ८, २७

एक-कलीतक^g - केन आण् ३, ८, ८
एक-खुर^h - रा आपध २, १६, १६,
हिध २, ५, १६, -राणाम् लाश्रौ
९, ४, ८
एकखुरो(र-उ)ष्ट-गवय-ग्राम-
सूकर-शरभ-गो- -गवाम्
आपध १, १७, २९, हिध १, ५,
६१
एक-ग(ण>)गा^e - गण बौश्रौ १८,
२१ ३, २६, ३२. १५
एक-गत्य(ति-अ)र्य- -र्यम् पावा ६,
२, ४९
एक-गु^e - गुना वैताश्रौ २४, २०
एक-गुग^e - गण आज्यो ७, २१,
-गम् शव ११४
एक-गुह- -हे वाध ३, ९
१ एक-गोत्र- > ंत्रो(त्र-उ)त्पन्न-
-त्राः वैध ४, ८, ५
२ एक-गोत्र^e - आ. शंध २९१
एक-गो-पूर्व- -र्वात् पा ५, २,
११८
एक-ग्रन्थि^e - न्थिम् माश्रौ १, ३,
१, ३
एक-ग्रह- -हाय आपश्रौ १२, ७,
१०, ८, ५, ९, ८, वैश्रौ १५, ९
१, ११ ७, हिश्रौ ८, २, ६, ३०,
३, ४
एक-ग्राम- पाग ४, २, १३८
एकग्रामीण^h - ण वाध ८, ८,
-णम् कौण् ३, १०, ३५, शाण्
२, १६, ३, विध ६७, ३५
एकग्रामीय- पा ४, २, १३८
१ एक-चक्र- > ंक्रा(क्र-अ)पहरण-
-णे शध ३२४

२ एक-चक्र^e - क्रम् अप १४, १,
२४, ४८, ११६, या ४, २७;
अप्र १०, ११, -केण आपश्रौ
१६, १८, ६, वैश्रौ १८, १५ १८,
हिश्रौ ११, ६, ३०
एक-चत्वारिंशत् - शतम् बौश्रौ २६,
११ १०
एकचत्वारिंशद्-रात्र-प्रभृति-
-तीनि आश्रौ ११, ४, ८
एक-चरⁱ - रम् बौश्रौ ४ ८ ५ १४,
३. २५, -राय गौध २६, १२.
एक-चरु- -रु जैण् १, २०:३, -रौ
बौश्रौ २०, ८ १
एक-चारिन्- -रिणम् या ४, २७
एक-चिति- -ति. मीसू ४, ४, १७
एक-चितिक- -कम् वाश्रौ २, १,
४, १७²
एक-चितिक^j - क हिश्रौ ११.
५, ४०, -कम् आपश्रौ १६, १५,
३, १७, २४, ६, ८, बौश्रौ २२,
४ १०, वैश्रौ १८, १२ २३,
हिश्रौ ११, ५, ३९, १२, ७, १८,
२१, -का बौश्रु ७ १४, -कान्
आपश्रौ १६, १५, ४, वैश्रौ १८,
१२, २३
एक-चित्त^e - -त्तः नाशि २, ८, १३
एक-चैल^e - ल कौसू ८२, ४३
१ एक-चोदन- -नात् काश्रौ ४, ३,
११, ५, ६, ९
२ एक-चोद(न>)ना^e - नासु काश्रौ
१६, ७, १७
१ एक-च्छन्दस्- > ंन्दस्य- स्यम्
गोण् ४, ९, ४^k.
२ एक-च्छन्दस्^e - न्दसः मीसू ३,

a) कस वा बस. वा । b) भावे व्यञ् प्र. । c) ंम्यैत् इति चौस । d) ऐककर्म्यैत् इति जीसं. ।
e) विप । बस । f) विप., नाप. । मत्वर्थीयः ठन् प्र । g) अर्थः व्यु च² । = एकत्रीजयुत-करञ्- (=तत्पिष्ट-)
इति भाष्यकृत । मलो कस. । h) शैषिक. ख> ईन् प्र (पा ४, २, ९४) । i) विप, नाप. [गौध] ।
कस. उप कर्तारि कृत । j) वैप १ द्र. । k) सपा मन्ना २, ६, १३ एकं पदम् इति पाभे. ।

२,४२
 एक-ज,जा- -जम् काश्रौ ६,१,१५;
 या १४,१९१, -जा वृदे ३,३०,
 -जानाम् शाश्रौ ८,१७,११
 एक-जनपद- -दे लाश्रौ ९,१०,१६
 एक-जात- -ता शव २०८,
 -तानाम् वाध १७, १०, विध
 १५,४२
 एकजात-त्व- -त्वात् वृदे १,
 ९८
 एकजाता(त-अ)धिकार- -र
 मीस् १०,३,४३
 एक-जाति^a- -ति. गौघ १०,
 ५०
 एकजातीय- -यम् मीस् ५, २,
 २, -यानि निसू ३,३ : ४१
 एक-ज्यायस्^b- -य सु लाश्रौ ६,७,५
 १ एक-ज्योतिस्^b- -तिषम् शंघ ११६
 ५०
 एकत^c- -त बौश्रौ २४,२६ १३१,
 शुभ्र १,७६, या ४, ६, -ताय
 आपश्रौ १,२५, १५, बौश्रौ १,
 १० १४,२४,२६ १२, भाश्रौ
 १,२६, १०, माश्रौ १,२, ४,३,
 वाश्रौ १, ३, १, २९, वैश्रौ ४,
 १० १५, हिश्रौ १,६,५, चाअ
 १ : ७
 एक-तक्ष^d- -क्षः काश्रु ७,९
 १ एक-तन्त्र- -न्त्रम् मीस् १२, १,
 १०, -न्त्रे आश्रौ ३,१,१०, काश्रौ
 १५,९,१०, बौपि २, ७, १६,
 अप्राय ३, ९
 एकतन्त्र्य- -न्त्र्यम् मीस् ११,४,
 ९,१२,२३
 २ एक-तन्त्र^e- -न्त्रम्^f आमिगृ ३,

९,३ : १९, -न्त्राः अप्राय ३,
 ९, -न्त्राणि हिश्रौ १३,३, ११,
 -न्त्रे काश्रौ १५,२,१८, -न्त्रौ
 काश्रौ १५,८,१०
 एक-तम- पा ५,३,९४, -म कागृ
 ४३,९, -मस्मिन् आमिगृ १,३,
 १ २०, २,२,३ : २
 एक-तय- -यानि बौश्रौ १५, १४
 ५, १५ : ९, ३८ ७
 एक-तर- पा ५,३,९४, पाग ४,२,
 १३८^g, -रस्मिन् हिगृ १, २६,
 २०, -रात् पावा ७, १, २६,
 -रे अप ६३,२,५, -रेण शंघ
 १८३
 एकतरीय- पा ४,२,१३८
 एक-तस् () माश्रौ ५,२,१४, २१,
 पागृ
 एक-त-पा(श >)शा^h- -शा
 बौश्रौ ६,१.३, वैश्रौ १२,८
 १३
 १ एक-तो-मु(ख >)खाⁱ- -खाम्
 आपश्रौ ३,१,७, बौश्रौ १,१८
 ४, भाश्रौ ३,१,१, हिश्रौ २,३,८
 एक-ता(रा >)र^j- -रा अप ५२,
 ६,३,५, -रेषु जैगृ २,५ १९
 एक-तृच- -चम् लुसू ३, १६ :
 ५, -चे लाश्रौ ६,३, १४, -चेन
 लुसू ३, १६ ७
 एक-तृण- -णेन काश्रौ ८,८,२५
 एक-त्र निसू १०,५. १२^k, आमिगृ
 एक-त्रिशत्- -शत् वावूश्रौ ४,७०
 १२, आपश्रु, निघ ५, ६,
 -शत हिश्रौ १०, ८, ४६,
 -शतम् आपश्रौ १७, २५, ९,
 बौश्रौ १०,४५.९, हिश्रौ १२,

१,३२, वाश्रौ २, २, १, २६;
 -शता शाश्रौ १५, २२,१.
 एकत्रिश- -शः बौश्रौ १०,
 ४२ ७१, १८,३२ ९; -शम्
 दाश्रौ ८,४, २६, लाश्रौ ४, ४,
 २१, -शे लाश्रौ ९, ५, ४
 एकत्रिशत्-क^l- -कम् अत्र ९,
 ३, अप ४ १३
 एकत्रिशद्-रात्र- -त्रम् आश्रौ
 ११,३,११, आपश्रौ २३, ५,१;
 -त्रेण हिश्रौ १८, २, ८
 एकत्रिशद्-वर्ग-सूक्त^m- -क्तम्
 सु १,४
 एक-त्रिकⁿ- -क आपश्रौ २२, ४,
 २८, बौश्रौ १८,३४ २०,२२;
 हिश्रौ १७,२,१४, निसू ६,१० :
 ३२, -कम् शाश्रौ १३, २०, ४;
 -कस्य लाश्रौ ६, ३, ४, -के
 शाश्रौ ११,३,१, काश्रौ २२, ३,
 २५, लाश्रौ ८, ५, १८, मीसू
 १०,५, ७, -केण आश्रौ ९, ५,
 १३
 एकत्रिक-त्रिकैक- -काभ्याम्
 शाश्रौ १४, ४२, ७
 एकत्रिक-स्तोत्र- -त्राणि आपश्रौ
 २१,२५,५
 एकत्रिक-स्तोम- -मम् दाश्रौ ८,
 ४,११, लाश्रौ ४,८,११
 एकत्रिका(क-अ)न्त^o- -न्ताः
 लाश्रौ ८,३, ३.
 एक-त्रि पञ्च-सप्त^p- -स बौघ ४,
 ५, २२
 एक-त्व- -त्वम् मीसू २,३,२,४,१,
 ११,१०,३, ५७, -त्वात् काश्रौ
 ६, ७, २४, निसू २, ७ : १ ;

a) विप । बस. । b) = मरुद्-विशेष- । व्यु । c) वैप १ द्र. । d) विप. । बस. उप. भाप ।
 e) एकतन्त्र्यम् इति जीसं. । f) कचिद् वा. क्वि. । g) तु पागम. । h) पृ ४४३ f द्र. । i) = एकह-
 विशेष- । बस. । j) समाहारे द्वस ।

पाप्रवा १, ५, मीसू ६, ६, ८, ९, ३, ३४, १०, ७, २१, ११, १, ३३, -त्वे पावा २, १, १०, मीसू २, ४, १३, २०, ९, ३, ४२
 एकत्व-निर्देश-शास्त्र पावा १, १, ५०
 एकत्व-युक्त-क्तम् मीसू ३, १, १२.
 एक-दक्षि(णा>)ण^२-णम् आश्रौ ६, ८, १४, लाश्रौ १०, १, १२, अप्राय ६, ४
 एक-दण्ड-> ण्डिन्-ण्डी बौव २ १०, ४०
 एक-दन्त^३-न्तम् बौध २, ५, २१
 एक-दा निस् ५, १२ : १६, वैगृ ७, ६ १३, गोगृ १, ५, ९, वृदे ७, ५१, पा ५, ३, १५
 एक-दिवस-सम् विध ४६, १९
 एक-दिश-दिक् पा ४, ३, ११२
 एक-दी(क्षा>)क्ष^४-क्ष लाश्रौ ८, ५, १९, -क्षे शाश्रौ ५, ४, ३
 एक-दीक्षा-> ष्किन्-क्षी काश्रौ ७, ५, ११.
 एक-दुग्ध-ग्धम् आपश्रौ १०, १६, ६, हिश्रौ १०, २, ४८, -ग्धे माश्रौ २, १, २, ३९, ३, २, ४, हिश्रौ १०, २, ४९.
 एक-देव(ता>)त^५-तः भाश्रौ ६, १५, ९^६, -ता आपश्रौ २४, ३, ४१, हिश्रौ ३, ८, ३०, -तान् आश्रौ ३, ६, १९, -तानाम् आपश्रौ २४, १२, ५, -तानि या ५, ११, -ते मीसू १०, ८, ४२, -तेषु काश्रौ २२, ७, ४; हिश्रौ ९, ८, ५०, मीसू ११, २, २३.

एकदेवत-द्विदेवत-तयो शाश्रौ ६, १, १२
 एक-देवता-> ण्य-त्यम् वृदे २, १४२, -त्ये निस् ६, ८ १४
 एक-देश-शः काश्रौ १४, २, १४, वाश्रौ ३, ४, २, ३, भागृ ३, १९ १, गौव ८, २३, मीसू ३, ३, २२, १०, ३, ३३, ८, ४, -शम् बौश्रौ २७, ५ ११, भाश्रौ, -शस्य मीसू ३, ८, ३२, ६, ४, १८, -शे वाश्रौ २५, ८, १८^६, हिश्रौ ८, ३, ४, १५, १, ७९, निस् ५, ४ ४, आपगृ १३, ८, कागृ २८, ५, वृदे ५, २५, पावा ८, ४, १, मीसू ३, ५, २७, ६, ३, २, ३७, ४१, ४, १०, १९, -शेन आपश्रौ १२, ९, १०, भाश्रौ ८, २, ३, हिश्रौ ७, ५, २, मीसू ६, ३, ४२, ६, ११, १०, ८, ३६
 एकदेश-ग्रहण-णेषु मीसू १०, ५, १
 एकदेश-त्व-त्वम् मीसू १०, ६, १३, ११, २, ७, -त्वात् मीसू १, ३, २९, ३, ३, २०, ६, २२, ४, १, ३४, ४, २५, ९, ३, १७, ११, २, १३
 एकदेश-द्रव्य^७-व्यः मीसू ४, १, २८.
 एकदेश-प्रतिषेध-घात् मीसू १०, ७, ४९^९.
 एकदेश-विकृत-त्स्य पावा १, १, ५६^९, २, ४, ८५, ८, ३, ८५, पाप्रवा २, ४
 एकदेश-विभावित-तः विध

६, २२
 एकदेशा(श-अ)नुवृत्ति-त्तिः पावा ६, १, ९२
 एकदेशिन्-शिना पा २, २, १
 एकदेशि-ग्रहण-णात् पावा २, ४, २६
 एकदेशि-प्रधान^८-नः पावा ५, ३, ७२, -ने पावा २, १, १८
 एकदेश(श>)शा^९-शासु काश्रौ १६, ७, १७
 एक-देश काल-कर्तृ^{१०}-त्व-त्वम् मीसू ११, २, १
 एक-द्यु^{११}-द्युः ऋग्र २, ८, ८०
 एक-द्रव्य-व्यस्य पावा ५, ३, ५७, -व्ये काश्रौ १, ७, ८, १०, ६, मीसू ११, ४, ४३
 एकद्रव्य-चिकीर्षा-र्षया मीसू ११, ३, ४१
 एकद्रव्य-वत् मीसू ११, ४, ४५
 एकद्रव्या(व्य-अ)भिवान-नात् पावा ८, १, ५१
 एकद्रव्यो(व्य उ)पनिवेशि(त्>)नी-नी पावा १, ४, १
 एकद्रव्य^{१२}-व्येषु आग्र ४, ७, १०.
 एक-द्वार^{१३}-रा हिश्रौ ७, १, २८
 एक-द्वि-द्वयोः पावा २, ४, ६४
 एकद्वयू(द्वि-ऊ)ता(न-अ)धि(क>)का^{१४}-का ऋप्रा १७, २.
 एक-द्वि-त्रि-क्रम^{१५}-मेण कौशि ६९.
 एक-द्वि-त्रि-चतु-पञ्च-पद^{१६}-दानि उनिसू २. १४.
 एक-द्वि-त्रि-चतुर्-तुर्णाम् अप ५, १, ४, काथ २७० : ३.

a) विप । बस उप = दान- । b) विप. । बस. । c) °ताः इति पाठ ? यनि शोध* (तु सस्थ द्विदेवतः) । d) °देशद° इति चौसं Web. । e) °षेधवा° इति कास. । f) षस. वा बस. वा (तु. कैयटः) । g) बस > दस । h) वैष इ द. । i) त्स.>दस । j) दस.>षस. । k) विप. । दस.>बस. ।

एक-द्वि-त्रि-चतुष्-पाद्^a- -पात्
पि ३, ७
एक-द्वि-त्रि-चतुष्-पाद्^b- -कम्
ऋप्रा १६, ११
एक-द्वि-बहु- -हुषु पावा ३, १,
६७.
एक-द्वि-शब्दपरिमाण-द्रव्य-देवता-
गुण-सामान्य^b- -न्येभ्य काश्रौ
४, ३, ८
एक-द्वि-शीर्ष^c- -र्षे अप ७२, ६, २
१ एक धन- -नम् बौश्रौ २०, ३१ :
३५^d, माश्रौ १०, २, ८, माश्रौ
५, १, ५, १, बौश्रौ १, २, ६१,
अप १, ४९, ३, अशा १३, २,
-नेन हिपि ५ ८, आपध २,
१३, १२, हिध २, ३, १२
२ एक-धन, ना^d- -ना आपश्रौ १२,
५, ११, ७, २, बौश्रौ २९,
६ १७, वैश्रौ १५, ७ १, ८
९, २१, १८ ३, हिश्रौ ८, १,
३९, ६, ११, -नान् काश्रौ ९,
२, २२, ३, ७, आपश्रौ १२, २,
१३, बौश्रौ ६, ३४ : ५, ७,
३ : १८, ४. १०, २० ९,
८, ८ २७, २८, १७, १ ३,
२१, १६ २५, २५, १७ : ६,
वैश्रौ १५, ३ ७, ६ : २,
-नानाम् काश्रौ ९, ३, १९,
आपश्रौ १२, १६, ११, १३, २,
६, १०, १४, बौश्रौ ७, ४ ९,
२० ८, १८, ३० : ४, २५,
१७ : ८, वैश्रौ १६, २ ९,
हिश्रौ ९, १, १६, -नासु आश्रौ
५, १, ९, हिश्रौ ८, १, ६, -नै

काश्रौ २५, १२, २५
एकधन-परिशि(ष्ट>)ष्टा- -ष्टा
वैश्रौ १६, २२ : १०.
एकधन-परिशेष- -षान् हिश्रौ
९, ४, ५५^e, -वेषु आपश्रौ १३,
१७, ९^f
एकधन-प्रवेशन-काल^g- -ले
काश्रौ १४, १, २६
† एकधन विद्^h- -विदे आश्रौ
४, ५, ६, शाश्रौ ५, ८, ३, बौश्रौ
६, १९ ११, २१ १०, द्राश्रौ
१४, २, ५, लाश्रौ ५, ६, ८,
वैताश्रौ १३, २३
एकधन-शेष- -षम् काश्रौ १०,
३, २३
एकधन-स्थान- -ने काश्रौ ९,
४, १
एकधना(न-अ)र्ध- -र्धम् काश्रौ
९, १४, १८
एकधना-स्थाली- -ली हिश्रौ
८, १, ६०
† एकधनिन्- -० निनः काश्रौ ९,
३, ३, आपश्रौ १२, ५, २, बौश्रौ
७, ३ ७, माश्रौ २, ३, २, ९,
११, वैश्रौ १५, ५. ६, ६ : १,
हिश्रौ ८, १, ५८
एकधनै(ना-ए)कदेश- -शम्
वैश्रौ २१, १४ ३, -शान् वैश्रौ
१५, १८ ७, हिश्रौ ८, ४, ३९
एक-धर्म-> एकधर्म्य- -र्म्यम् मीस्
७, १, २
एक-धाⁱ आश्रौ ३, ३, ११, ३,
शाश्रौ, एकधाऽएकधा शाश्रौ ६,
१, १०, माश्रौ ५, २, ९, ५

एकध्व^j- पा ५, ३, ४४, -ध्वम्
काश्रौ १४, २, २४, आपश्रौ
२, १७, ३, हिश्रौ ५, १, ९, मीस्
९, ३, ३४
एक-धान्य- -न्यम् गोश्रु ३, २,
५१
एक-धामन्^k- -मा जैश्रु २, १ -
२२†
१ एक-धुर-> २ एकधुर-, एक-
धुरीण- पा ४, ४, ७९
एक-नक्षत्र- -त्रे काश्रौ २१, ३, ३,
आश्रु ४, ५, १
एक-नवति- -ति शंघ २६३
एक-नाराशंस^l- -सम् आपश्रौ १२,
२५, २६, बौश्रौ २५, २२ : २
एक-नाल- -ले अप ७०^m, ४, ३
एक-निधनⁿ- -नम् निस् ६, ५, ३;
-नानि निस् ६, ५ ४
एक-निष्पत्ति- -त्ते मीस् ४, १, २२.
एक-नीच- -चे नाशि २, १, ११
एक-पङ्क्त्यु(हित्त-उ)पविष्ट-
-ष्टानाम् शंघ ३८३
एक पञ्चाशत्- -शत् ऋश्रु ४, १;
चाश्रु १४ ७, -शत् अप ५२,
३, १, -शत्म् बौश्रौ ११, १ :
११, २५, ३३ २, -शता
आपश्रौ १८, १४, ६, वाश्रौ ३, ३,
२, ३२, हिश्रौ १३, ५, २३.
१ एक-प(ति>)त्नी^o- पा ४, १,
३५, -त्नीनाम् वाध १७, ११
२ एक-पत्नी^p- -त्नीभ्य आश्रु १,
२, २ ३०, बौश्रु ३, ९, ६, भाश्रु
३, ११ ५, हिश्रु २, २०, १.
एक-पद्^q- -पदे शाश्रु १, २६, २४,

a) विप । द्वस > बस । b) द्वस > षस । c) विप । मलो कस (= एकाऽन्यवीभूते द्वे) > बस ।
d) विप । बस । e) सप्र ऽशिष्टा. <> शेषान् <> शेषेषु इति पाभे । f) षस. > षस । g) वैप १
द्र । h) स्वार्थिक ष्यन् प्र । पाप्र ध्यमुञ् प्र इति । i) विप. (त्री-). बस. । j) विप. (पुरुष-). बस उप.
ह्रस्वाभाव उंस (पा १, २, ४८) ।

पाण्ड २, १५, २, वैश्व ३, २०
१०, ५, २ ३०
एकपदा-दा ऋअ २, ४, १७०××,
शुअ, -दाः आश्रौ ६, ५, १२,
८, २, २०, २५, १२, २०^२,
१२, ९, १४, निसू २, १२ ३२,
ऋअ १, १२, ९, ४, ८, बुदे ८,
१०९, शुअ १, १७४, अअ २,
१७, ११, ३, (२^३), १२, ५ (२),
ऋप्रा १७, ४३, उसू ३, २,
उनिसू ८ : १०, २८, -दामि
कौसू ४७, ४१, -दाम्य आश्रौ
८, २, २४, -दायाः शुअ ४,
१४६, -दायाम् लाश्रौ ७, ४,
९, -दे अअ ९, ७
एकपदा द्विपदा-दानाम्
निसू १, ७ २
एकपदा(दा-अ)न्त^३-न्तम्
ऋअ २, ६, ६३
एकपदा-प्रभृति-तय
निसू १, ४ : २५
एकपदी-पाग ५, ४, १३९,
-कवी आपश्रौ ९, १९, १०,
बौश्रौ १४, १४ : ३१, वैश्रौ २०,
३८ : १, हिश्रौ १५, ८, २२,
आण्ड १, ७, १९, कौण्ड १, ८, २८,
शाण्ड १, १४, ६, अअ १३, १,
या ११, ४०
१ एकपद-दानि या २, २, ३,
ऋप्रा ११, ३५, अप्रा २, ३, १९,
-दे शुप्रा १, १११, तैप्रा १५,
४; ऋत ५, ६, ७, याशि १, ७८,
२, ५५, ९५.
एकपदिक-कम् या ४, १;
-का या १, १४.
एकपद-निरुक्त-कम् या ९,

२६
एकपद-वत् शुप्रा २, १८
एकपद-स्वर-रस्य पावा १,
१, ६३
एकपदा(द आ)बाध-धे अप्रा
२, ३, १८
२ एक पद, दा^३-द गौच ४, १२६,
-दा नाशि २, ६, ६
एकपद-द्विपद-त्रिपद-चतुष्पदा-
(द अ)नेकपद-दा. शुप्रा १,
१५७
एकपद-द्विपदा^३-दा आश्रौ ४,
१५, ६
एकपदि-पाग ५, ४, १२८
एक-पर्ण-र्णेन भाण्ड ३, १४ १९
एक-पर्व^०-र्वे भाश्रौ ६ १५ १६
१ एक-पर्वन्^०-वणि शाश्रौ १४,
१०, १९
२ एक-पर्वन्^३-र्वसु या २, २
एक-पल-लम् आमिण्ड २, ७, ७
१२
एक-पलाश-, ण्शिका^३-(> शीय-
ण्शिकीय-पा) पाग ४, २,
१३८
१ एक-पवित्र-त्रम् माश्रौ १, १,
२, ३; वाश्रौ १, २, ३, ४, ३, ५,
शाण्ड ४, २, २^०, गौपि २,
६, ५, ६-त्रे भाश्रौ १, ७, ३, -त्रेण
आपश्रौ १, ७, ७, आमिण्ड ३, ५,
५. १४, ११, ३. २, बौपि १,
४. १४, हिपि ३. १४
एकपवित्रा(त्र-अ)न्तर्हित, ता-
नान् कौसू ८७, ७; -तानि
हिण्ड २, १४, ३; -ताम् हिश्रौ
२, ७, १०; -तायाम् आमिण्ड ३,
१, १ : ५; हिण्ड २, १०, ४;

-ते आमिण्ड ३, ११, २ ५.
२ एक-पवित्र^३-त्र आमिण्ड ३, २,
१ ३
एक-पशु-शु काण्ड १९, ४, -शोः
अप १, ३२, २, ६८, २, १४,
-शौ शाश्रौ १४, १०, १९
एक-पशु(रु>)का^३-काः आश्रौ
३ ६, १८
एक-पाण्या(णि-आ)वर्जित-तेन
आपध १, ४, २१, हिध १, १,
१४०
एक-पात-> १ एकपाति(रु>)नी-
नी आश्रौ ६, ५, ६, -नी आश्रौ
५, १८, ११, -नीनाम् शाश्रौ
१४, ५३, ६, ५६, १३, -न्य.
आश्रौ ७, ११, २३, ८, १, १२,
९, २, १०, १, ११, २, शाश्रौ ८,
३, १५, ६, १६, १२, २, १४, १८,
१, ८, ११, २ -न्या शाश्रौ ८,
७, ८
२ एक-पातिन्-तिनः ऋप्रा ११,
५२, १७, ४३, ऋतीनि आश्रौ
१२, ६, २३.
१ एक-पात्र-त्राणि आश्रौ ५, ९,
२८, -त्रे मीसू ३, ५, ३७;
-त्रेभ्य आश्रौ ५, ६, २९.
२ एक-पात्र^३-त्रम् आपश्रौ १२,
२४, १७, -त्राः वाधुश्रौ ४, ७८:
१, २, ४^२, -त्राणाम् मीसू ३, ५,
४४.
एक-पात्री-त्र्याम् काश्रौ ९, ९, ४.
१ एक-पाद्^३-पात् कप्र २, १,
१२^३, अअ १३, २, ३; अप्रा १,
२, २.
२ एक-पाद् (अज-)^३-पात्(-जः)
शाश्रौ ६, १२, २५^३, आपश्रौ ५,

a) विप. । बस । b) मलो. कस. । c) कस समासान्तस्य प्र. विवल्पः (पावा ५, ४, १०३) ।

d) द्व. पागम । e) पाणे ष्ट ७८५ e द्र. । f) वैप १ द्र. ।

१९, ४^१××, बौश्रौ, या १२,
२९^१, ३०^१, ३२, -^१पादम्
(-जम्) वाधूश्रौ ४, ६१ ७
एक-पाद-^१दे ऋप्रा १, ९९
एकपाद-स्थित-^१ता वैध १, ८, १
१ एक-पिण्ड-^१ण्डम्^१ कौय ३, १४,
१४, शाय ४, २, ४, -ण्डस्
कौय ५, ७, २
२ एक पिण्ड^१-^१ण्डाः शं व २०८
एक-पिण्ड-स्व(धा >)घ^१-
-धानाम् सुवप ८८ १
एक-पुत्र^१-^१त्र शव २६८, -त्रा
विव १८, २८
एक-पुरोडाश^१-^१शेषु काश्रौ १२,
२, १२
एक-पुंकरिणी-पर्ण^१-^१र्णे अप ६८,
२, ३
एक-पु(ष्य>)पा-^१पावा ४, १,
६४
एक-प्रकरण-^१णे आपश्रौ २४, २,
२६
एक-प्रतिषेधा (व-अ) र्थ-^१र्थम्
पावा १, १, ७
एक-प्रतिहार^१-^१रम् लाश्रौ ६, १२,
४, ७, ४, ४, -रे लाश्रौ ७, ४, १७
एक-प्रत्यवाय^१-^१यम् काश्रौ १, ९, ९
एक-प्रदक्षिण-^१णम् हिश्रौ १७,
१, ३६
एक-प्रदान, ना^१-^१न काश्रौ १२,
६, १२, -ना आश्रौ १, ३, १८,
२, ११, २, ११
एक-प्रधान(>)ना^१-^१ना वृदे ४, ८
एक-प्रभृति-^१तीनाम् वाश्रौ ३, २,

१, ३
एक-प्रस्ताव^१-^१वानि निसू १०, ६
२७
एक-प्रस्थ-^१पा ६, २, ८८
एक-प्राण-भाव^१-^१वे तैप्रा ५, १
एक-प्राण-योग^१-^१ना शुप्रा १,
१५८
एक-बर्हिर्-बृध्मा(भ-आ)ज्य-स्विष्ट-
कृत्^१-^१कृत. आगृ १, ३, ९^१
१ एक-बर्हिस्^१-^१र्हिष आगृ १, ३,
१०, मागृ २, १८, ४^१, कौसू ६,
३४
एक बृहतीका-^१का. निसू ५, ७ ५
१ एक-भक्त-^१क्तम् कौसू ३८, २२
एकभक्तिक^१-^१क. गौव २४, ७
२ एक-भक्त, क्ता^१-^१क्ता वैगृ ३, ९ :
२, -क्ता वैगृ ५, ७ ४
१ एक-भाग->^१भाग्य-^१ग्यम्
निसू ३, ६ : ३
२ एक-भाग^१-^१ग मीसू १०, ७, २१
एक-भा(र्या>)र्य^१-^१र्यस्य आपश्रौ
१६, ४, ५, हिश्रौ ११, १, ४९
एक-भाव-(>)एकभाव्य-^१पा)
पाग ५, १, १२४
एक-भुक्त-^१क्तम् हिपि ८ १०
एक-भूयस्^१-^१र्यांसि गोयृ ४, ५,
२०, ऋअ २, १, ९९
एकभूयस्-त्व-^१त्वम् वृदे ३,
१३०
एक-भूयसी-^१सी आश्रौ ५, १४,
२०, ७, ५, १३, ८, ४, १३.
एक-भेद^१-^१दुम् सु १६, २
१ एक-मनस्^१-^१ना^१ कौय २, ३,

१४, शाय २, ४, १, पायू १, ८,
८, २, २, १६, आम्रिगृ १, १, ३ :
२४, ५, ४ ३९, बौगृ १, ४,
१, भागृ १, १७ ९, मागृ १,
१०, १३, हिगृ १, ५, ११
१ एक-मन्त्र-^१न्त्रः हिश्रौ १, १,
२९, मीसू ३, २, २६
एकमन्त्र्य-^१न्त्र्यम् मीसू ३, २,
४३^१
२ एक-मन्त्र^१-^१न्त्राणि आपश्रौ २४,
१, ३८, भाश्रौ १, १, २०, हिश्रौ
१, १, ३४
१ एक-मा(त्रा)त्र^१-^१त्र तैप्रा २२,
१३, शौव १, ५९, माशि १३,
१, याशि १, १६, -त्रम् उसू
१, ९, -त्रे माश्रौ १, २, ३, ६
२ एक-मात्रा-^१त्रा याशि १, १३
एकमात्रिक^१-^१कः कौशि ७३.
एक-माष^१-^१षेण जैगृ २५ ११.
एक-सु(ख >)खी^१-^१खीम् अप
६, १, १४, १५
एक-सुष्टि-^१ष्टिम् आम्रिगृ १, ६ ३ :
४६
एक-मूल^१-^१ल भागृ १, १० ४,
-लम् आगृ १, २२, २१
एक-यज्ञ-^१ज्ञे काश्रौ २५, १३,
२९.
एक-यम^१-^१मम् तैप्रा १५, ९^२
एक-यान-भोजना(न-आ)सन-शय-
न^१-^१नै विघ ३५, ४
एक-यावन्^१-^१न्नः वाधूश्रौ ३, ९४ ५.
एक-युक्त-^१क्तम् आश्रौ ९, ४. १८.
-क्तेन आपश्रौ २२, २२

a) पाभे ७८५ d द्र । b) विप । बस. । c) विप । बस. > द्वस । d) कस > षस । e) कस.
> षस यद्वा कस > उस (तु भाष्यम्) । f) 'बर्हिंराद्याज्य' इति वृत्तिकारः । g) 'र्हिषि' इति पाठ^१ यनि शोधः
(तु आगृ) । h) मत्वर्थाय ठक् प्र. । i) विप. । लस । j) पाभे. वैप २, ३खं एकमनाः मंत्रा १, २, २१
टि द्र । k) एकमन्त्रत्वम् इति कासं । l) कस उप = अन्न-विशेष- (तु. ०, वैतु भाष्यम् = प्रमाण-विशेष-
[तद्विज्ञाने द्विस]) । m) विप. । बस. उप = उदात्तादि-] स्वर- । n) कस. > द्वस । o) वैप २, ४खं द्र ।

एक-यूप- -प हिश्रौ १६, २, १,
-पम् आपश्रौ १७, २२, ६, १९,
१, ११, वैश्रौ १९, ६० १४३,
हिश्रौ १२, ६, २७, १३, ८, ९,
मीसू ११, ३, ४, -पे काश्रौ ८,
८, २६, आपश्रौ १७, २२, ८,
१९, १, २०, १६, २१, २२,
१, १५, बौश्रौ २२, ११
२७, माश्रौ ५, २, १२, ४६, ६,
२, ६, १३, वाश्रौ २, २, ५, २,
वैश्रौ १९, ६ : १४४, हिश्रौ १२,
७, १, १७, १, १६, -पेन हिश्रौ
२, ८, ५
२ए-यूप- -पेषु शाश्रौ ६, ९, ४
एक-योग^१- -नो पावा १, ४, ५९, २,
४, ८३, ६, १, ९२, १००, ७, ३,
११९
एकयोग-लक्षण-त्व- -त्वात्
पावा १, १, ६२
एक-योनि^२- -नयः आश्रौ २, २, १
एक-रज्जु- -ज्ज्वा आपश्रु ५, २, ६,
७, १०-१२, ७, १, हिश्रु २, ९,
३५, ३९, ४०, ४५, ४७
एक-रथ- -थेन वृदे ६, २०.
एक-राज^३- -राट् आपश्रौ १८, ६,
४, वाश्रौ ३, १, २, २४, हिश्रौ
१३, २, १८
एकराज्य- -ज्यम् आश्रौ ५, १९,
४, १.
एक-राज- -जः लुसू १, २ २७,
-जम् काश्रौ २२, ११, २९,
-जात् पावा ४, १, १६६, -जेन
कौसू १७, ११.

१एक-रात्र^४- -त्रेण शाश्रौ १६, १९,
२
एकरात्र-चतुरात्रो(त्र-उ)पजन^५-
-नानि आश्रौ ११, ४, ९
एकरात्रो(त्र-उ)पजन^६- -न
आश्रौ ११, ४, ७, -नम् आश्रौ
११, २, १८, ३, ११^७
एक-रात्रि- -त्रिम् आपध २, ७,
१६, १
एकरात्रिक^८- -क गौव ५,
४१
२एकरात्र^९- -त्रम् आश्रौ ८,
१४, ८, शाश्रौ ४, १५, ६, माश्रौ
१, ५, १, २५, वाश्रौ १, ४, १, ११,
हिश्रौ १०, ३, २०, कौश्र ५, ४,
९, पाश्रु २, ११, ९, ३, १०,
४×४, -त्राय हिपि १४ ५, १,
-त्रेण आपध १, २७, ११, बौध
२, १, ४२, विव २२, ४०, ४४,
५३, ९, हिव १, ७, ३६
एकरात्र-धृतो(त-उ)षि (त-
>)ता^{१०}- -ता वैश्रौ १९, ६ :
७८
एकरात्रीण^{११}- -णः लाश्रौ ८,
४, ३, -णस्य बौश्रौ १८, १ : ७
एकरात्रो(त्र-उ)पवास- -स
काश्रु ७, ३, वाध २७, १३,
बौध ४, ५, ११, सुध १८,
६४
एकरात्रो(त्र उ)षित- -तम्
या १४, ६.
एक-रुद्र-देवता->१२- -त्य.
शुश्रु २, २४६

एक-रुद्र-स्तुति- -ति शुश्रु २,
२५३
एक-रूप, पा^{१३}- -पम् काश्रु ५९, ५,
अप १८^{१४}, १, ११, -पा माश्रौ
१, ८, ३, ३, हिश्रौ १३, १, २२^{१५},
-पान्^{१६} आश्रौ १८, २, १३,
बौश्रौ ११, ३ ३०, वाश्रौ ३,
१, १, २०, वैश्रौ १७, १० ६,
-पाम् कौसू ६९, २
एक(क-क)र्च, चा^{१७}- -र्च लाश्रौ ६,
४, ७, निसू ६, २ २६, ऋश्रु
३, ४०, चन्सू १ ११, -र्चम्
जैश्रौ ९ २४, लाश्रौ, -र्चया
वैश्रु ५, ५ २९, ७, २ ५, १३,
-र्चयो द्राश्रौ ९, ३, ६, लाश्रौ ३,
६, २५, -र्चा द्राश्रौ ८, २, ५,
लाश्रौ, -र्चान् निसू २, २ ४,
५, ७, ११, १४, -र्चानाम् लाश्रौ
८, ५, ९, अपं ४ : १६, -र्चानि
जैश्रौ २२. १३, २६ ७, अश्रु
१९, ६१, -र्चै लाश्रौ ६, ४,
८, -र्चैभ्यः अप ४६, १०, २०,
अश्रु १९, २३, -र्चेषु लाश्रौ ६,
१, १०, अपं २ ४, १४, ७२,
-र्चै निसू २, २ ६, -र्चौ निसू
६, ३ १८, २२, १३ २४.
एक-र्च-दृष्टि^{१८}- -ष्टीनि निसू २,
२ १, २
एक-र्च-वत् लाश्रौ ६, १, ४.
एक-र्च-स्थ- -स्थानि मीसू १०
६, १^{१९}.
एक-र्च-स्थान- -नेषु लाश्रौ ६,
४, ५

a) विप. 1. बस. 1 b) कस. उप = सज्ञ-1 c) वैप १ द्र । d) पाभे वैप २, ३ खं आजिम् तांजा
१, ५, १९ टि द्र. । e) वैप १, १०३२ ६ द्र. । f) द्वस. > बस । g) विप. (अतिथि-) । ठब् प्र (पा ५,
१, ८०) । h) समासान्तः अच् प्र. (पा ५, ४, ८७) । i) विप. (समिध्-) । j) विप. । निर्धृतार्थे ख > ईनः प्र.
(पा ५, १, ८७) । k) परस्परं पाभे. । l) विप., नाप. कस वा बस. वा । अर्थर्चादि. द्र. [तु. वाच.] ।
m) एक-र्च-स्थानि इति कासं. ।

एक(क-ऋ)द्धि^a -द्धि^b आपश्रौ २२,
१३, ५०
एक(क-ऋ)र्षि- -र्षये कौसू ६७,
२७
एकर्षि-त्व- -त्वात् आपश्रौ २४,
११, १४
एक-लिङ्ग^c -ङ्गम् या १२, ४०^d
एक-वचन- -नम् अप्राय १, १,
अप्रा २, १, ११, २, २, ३, ६, पा
१ २, ६१, २, ३, ४९, ४, १, पावा
१, २, ६९, २, ४, १२, ४, १, ९३,
६, १, ८३, -नस्य पा ७, १, ३२,
८, १, २२, -नानि या ४, १५,
अप्रा २, १, १५, २, १, १६,
२०, ३, २, २, ३, १९, -ने
ऋत २, २, ९, पा ४, ३, ३, ७,
२, ९७.
एकवचन-ग्रहण- -णम् पावा
२, ४, ७९
एकवचन-द्विगु^e - -गो पावा २,
२, ५.
एकवचन-द्विवचन-बहुवचन-
-नानि माश्रौ ५, २, ९, १, अप्रा
२, २, १४, पा १, ४, १०२
एकवचन-द्विवचना(न-अ)न्त^f-
-न्तस्य पावा २, ४, ६२, ४, १,
८९
एकवचन-विधान- -नम् पावा
२, ४, १
एकवचना(न-अ)देश- -शे पावा
१, २, ५८
एकवचना(न-अ)भाव- -वः
पावा २, ४, १

एकवचना(न-अ)र्थ^g - -र्थः या
६, १६
एकवत् शाश्रौ ९, २३, १४,
आपश्रौ ८, ५, ८, ११, ११, ७,
बौश्रौ १७, ५५ : १०, ६१
८x४, जैगृ २, ५ २१^h, पा
१, २, ६९, ४, १०६
एकवद्-भूत- -तात् बौश्रौ
१६, १ ८
एकवद्-वचन- -नम् पावा ६,
३, १, -नात् पावा २, ४, १,
-ने पावा ६, ३, १
एक वय -प्रभृतिⁱ - -ति बैश्रौ १७,
११ . १०
एक-वर^j - -र मागृ २, १३, ९.
एक वर्ग- -र्गं ऋअ ३, ४०, चव्यु
१ ११.
एक-वर्जम् काश्रौ^k ३, १, ११, १४,
५, २१, १७, ३, ६, अप २ ३,
पा ६, १, १५८, पावा ६, १,
१५४^l
१ एक वर्ण^m - -र्णं शुप्रा १, १५१,
तैप्रा १, ५४
एकवर्ण-वत् ऋप्रा १, ६७, शुप्रा
४, १४४, शौच १, ४०, पाप्रवा
४, ८
एकवर्ण-विकार- -र निसू ३,
११ १२
२ एक-वर्ण,र्णाⁿ - -र्णम् कौगृ ३, ६,
३, शागृ ३, ११, ७, पागृ ३, ९,
६, गोगृ ४, ७, ८, ऋप्रा २, ६,
१०, ३, -र्णाम् आगृ ४, २, ६,
-र्णानाम् पाप्रवा ५, ९, -र्णे अप

६३, १, ८, -र्णेषु पावा ६, १, १;
-र्णे शुप्रा ४, १४८.
१ एक-वस्त्र- -स्त्रम् गोगृ ३, २, ५१.
एकवस्त्र-ता- -ता बौध २, १,
७०, ३, १०, १४
२ एक-वस्त्र^o - -स्त्रं शागृ ४, १२, २२^p,
आमिगृ २, ६, ३ : ५९, आपध
१, ६, १९, बौध २, ५, ३१,
हिध १, २, ४२, -स्त्राः पागृ ३,
१०, १७
एक-वाक्य- -क्यम् मीसू ३, १,
१९
एकवाक्य-त्व- -त्वात् मीसू १, २,
७, ३, ४, ९, ७, १४, १०, १, ८, ४,
४, ११, २, ३९, ४७
एकवाक्य-भाव- -वात् पावा ६,
१, ८३
एक-वास^q - -स वाध २४, ५
एक-वासस^r - -ससः आमिगृ ३, ४,
४ १८, हिपि २ : १३, ८ :
५, गोगृ ३, १, २९, गौपि १, ४,
७, द्रागृ २, ५, १९, आपध २,
१५, ७, हिध २, ३, ३७, -साः
कौगृ ३, ११, २२^s, जैगृ १, १६ .
३, अप ४०, १, १४, शीघ १९७;
३७९^t, ४३३, ४४३, ४५३^u,
विध ६८, १३, वैध २, १४,
१३
एक-विंशति- -तये शाश्रौ १६, ३,
१५, -ति. आश्रौ ८, ८, ५,
शाश्रौ, निघ १, १, या २, ७;
-तिम् आश्रौ ६, ९, १, ७, ५,
११, काश्रौ, आपश्रौ २१, १,

a) कस वा. किवि । विप. इति कृत्वा °द्धयौ इति ० शोध. ? । °द्धयै इति संभाव्येत ? । b) पार्श्वे ।
पृ ७८५ १ द्र, तत्र च १ एकध्याम् (तु. मूको) > १ एकध्याम् इति ० पिपठिषु । c) विप । बस । d) मलो. कस ।
e) द्रस > बस । f) तदह्योयः वति प्र. (पा ५, १, ११७) । g) विप । बस > बस । h) कस. उप. = श्रेष्ठ- ।
i) कस उप = अक्षर- । j) विप । बस उप = रङ्ग- वा अक्षर- वा । k) सपा °वस्त्रः <> °वासा. इति पाभे ।
l) विप । बस उप = वस्त्र- । m) उत्तरेण संधिरार्थ (तु ४४३) । n) °सो इति पाठ. ? °सा. इति शोधः ।
वैप-द्वि-५

१४^{१०}, हिश्रौ १३, १, ६^०, १६, १,
 ११^{१०}, -त्या काश्रौ १७, १, ७,
 १८, ६, १०, आपश्रौ, -त्या
 बौश्रौ २६, १० ५, बौश्रु ४
 २०, -त्याम् बौश्रौ ११, १ :
 १५^०, १८, ४५ ३९, कौसू
 ३७, ३, -त्यै बौश्रौ १८, ४५ :
 ३८
 एकविंश^०-श आश्रौ ११,
 ७, ७, शाश्रौ, -शम् शाश्रौ
 १४, ३३, ६×५, आपश्रौ,
 -शस्य शाश्रौ १६, २४, ७,
 लाश्रौ ६, ८, १४, क्षुसू १, २
 २२, -शा आश्रौ १२, ५, १६,
 आपश्रौ, -शान् निसू ४, १३
 ९, ७, ७ ५, १०, ४ ११,
 -शानाम् कप्र ३, ८, २०, -शानि
 आश्रौ ११, ५, २, शाश्रौ ९,
 २१, ६, १४, १२, ९, आपश्रौ,
 -शाभ्याम् शाश्रौ ९, २७, ११,
 -शे आश्रौ ७, ५, ११, १२,
 ७, ११, शाश्रौ, -शेन आश्रौ
 १२, ३, ३, ४, २३, आपश्रौ,
 -शेषु निसू १०, २ : ३१,
 -शौ आश्रौ ४, १२, १, आपश्रौ
 १६, ३३, ५१, बौश्रौ १६, ३५
 ७, १८, ४८ २७, वैश्रौ १८,
 २१ : २२१, हिश्रौ ११, ८, ३^११
 एकविंश^०-शी शाश्रौ
 १८, १४, ४, आपश्रौ १, ५, ११,
 भाश्रौ १, ५, १०, वाघश्रौ ४,
 ११५ २, हिश्रौ १, २, ६४,
 ऋश्र २, १, २३, -शीम् आपश्रौ

१८, १, ६^०, वैश्रौ १७, ७ ५^०,
 कौसू १३८, १२, -श्याम् वाघश्रौ
 ४, ११५ १६
 एकविंश^०-त्रयोविंश^०-
 -श्रौ ऋश्र २, ७, १०४
 एकविंश^०-श्यात् निसू ६,
 ५. १४^{१०}, १०, ६ २२
 एकविंश^०-त्रयस्त्रिंश^०-
 -शाभ्याम् निम् ४, ११ : ५
 एकविंश^०-त्रिणव-त्रयस्त्रिंश^०-
 -शाः आश्रौ ११, ३, ८
 एकविंश^०-प्रभृति- -तय
 शाश्रौ १६, २१, ६
 १ एकविंश^०-स्तोम- -म निसू
 ३, ४. २१, १०, ७ : १७, या
 ७, ११, -मम् शाश्रौ १०, ५, १,
 ११, १३, १, १४, १३, १२, १६,
 ३, ९, निसू ८, १३ ३२
 २ एकविंश^०-स्तोम^०- -मा
 निसू ८, ३ : १५, -मानि निसू
 ८, १३ १२
 एकविंश^०(श-आ)यतन^०-
 -न निसू २, १३ : ५
 एकविंशक^०- -कम् जैश्रौका
 १९५, अश्र ८, १, अयं ४. २०
 एकविंशिका- -का ऋश्र १६,
 २१
 १ एकविंशति-क^०- -कम् वैश्र ३,
 १ १५
 २ एकविंशति-क^०- -कम् ऋश्र ३,
 ४४
 एकविंशति-कपाल^०- -लम्
 आपश्रौ १८, १२, ११, बौश्रौ

१२, १० २, २६, ३०. १५;
 माश्रौ ५, १, ७, २४, वाश्रौ ३, ३,
 २, ४, हिश्रौ १३, ५, ७, २५,
 -लस्य बौश्रौ २२, १८ १९,
 -लात् बौश्रौ २४, १० १२,
 -लेन हिश्रौ १३, ६, ३९
 एकविंशति-कुश-पिञ्जूल^०-
 -लानि आश्रु १, १७, ४
 एकविंशति गर्भ^०- -भं नौश्रौ
 २६, १६ : १०
 एकविंशति-छदि^०- दि^० हिश्रौ
 ९, ७, ३६, १६, १, ५०^१
 एकविंशति-छदि^०- -दि. ^०
 आपश्रौ २१, ४, १६, बौश्रौ १५,
 १७ ५, वैश्रौ १७, ३. १०
 एकविंशति-दक्षि(जा >)ण^०-
 -णस्य आपश्रौ १०, २६, ४,
 भाश्रौ १०, १७, ११, वैश्रौ १२,
 १९ २, हश्रौ ७, २, ५५,
 -णेन बौश्रौ २५, ४. ९
 एकविंशति-दर्भ कूर्व^०- -वैः
 वैश्रौ १२, ७ ९
 एकविंशति-दाह^०- -रम् आपश्रौ
 १, ५, ६, बौश्रौ १, २ २६,
 भाश्रौ १, ५, ०, वैश्रौ ३, ५ २,
 हिश्रौ १, २, ५८, आमिश्र १, १,
 १ : १८, भाश्र १, २. ८, हिश्रु
 १, १, १८
 १ एकविंशति-धा आपश्रौ १,
 ६, १, बौश्रौ.
 एकविंशति-निर्बाध^०- -ध
 आपश्रौ १६, १०, ९, हिश्रौ ११,
 ३, २६, -धम् बौश्रौ १०, १२ :

a) पाठ ? णिः इति ०. शोघः (तु. वृ ४३९ W) । b) सपा. णिंशतिम् <> णिंशत्याम् <>
 णिंशतिम् इति पाठे । c) स्वार्थे ङ् प्र उस् (पा ५, २, ४६) शिष्ट वैप १ द्र । d) श्या इति पाठ ? यनि शोघः
 (तु. नान्तरिया पंक्ति) । e) विप । बस । f) विप । परिमाणार्थे इच्छुन् प्र (पा ५, १, २४) । g) पूरणार्थे कन्
 (पा ५, ३, उस् (पा ५, २, ५६) । h) स्वार्थे क. प्र । i) वैप १ द्र । j) कस > षस । k) परस्पर पाठे ।
 m) एकविंशति-इति पाठः ? यनि. शोघः ।

९, माश्रौ ६, १, ४, १, वाश्रौ २,
१, २, ३४; वैश्रौ १८, ६ ८, ७ :
२८
एकविंशति-पिण्ड^३- -ण्डम् काश्रौ
१६, ५, १
एकविंशति-प्रदान^३- -नान् काश्रौ
२०, ७, २२
एकविंशति-प्रभृति- -ति शाश्रौ
७, १७, १८
एकविंशति-माष- -षान् वैश्रौ
१८, ४ : ४
एकविंशति-यव- -वान् हिश्रौ
१५, ५, २४
एकविंशति-रात्र^३- -त्र शाश्रौ
१३, १६, ३, बौश्रौ १६, ३३.
१३, -त्रम् बौश्रौ २८, २. ५३,
निसू १०, १ ११, बौध ३, ६,
२०, विध ४८, १६, -त्रयो
काश्रौ २४, २, ३, -त्रात् बौध
३, ५, ७, -त्रे निसू १०, १. ९,
-त्रौ आश्रौ ११, ३, १, आपश्रौ
२३, ३, १, हिश्रौ १८, १,
२५
एकविंशति-वर्ग- -गान् काश्रौ
२२, १०, ८, लाश्रौ ९, ४, १
एकविंशति-वि(धा>)घ^३- -घ.
काश्रौ २०, ४, १५, बौश्रौ १५,
१७ ४, २६, १० : ७, ८, काशु
५, ३, -घाय बौश्रौ १५, १४ :
११, वाधुश्रौ ३, ७६ २०
एकविंशति-स (स्था>) स्थ^३-
-स्थः कौसू १३८, १३
एकविंशति-स्तोम^३- -मेन बौश्रौ
१८, ४७ ९, २६

एकविंशती (ति-इ)ध्म- -म्नान्
वैश्रौ ४, १ : २
एकविंशत्य(ति-अ)क्ष(र>)रा^३-
-रा निसू ६, ५ १३.
एकविंशत्य(ति-अ)हुल- -लम्
वैश्रौ ११, ७ ८
एकविंशत्य(ति-अ)नुवाक-
-कान् माश्रु १, २३, १५, -कैः
वाश्रौ ३, ४, ३, २२
एकविंशत्य(ति-अ)रति^३- -त्तयः
शाश्रौ १६, ३, १, वाधुश्रौ ३,
७६ : ९, -त्ति वाश्रौ ३, ४, १,
५४, -त्तिम् आपश्रौ २०, ९,
६, हिश्रौ १४, २, ३८, -त्तीन्
बौश्रौ १५, १४ २, -त्ते बौश्रौ
२४, ३५ : ६
?एकविंशत्यवरापरार्धात् माश्रौ
२, ४, ५, ९^०
एकविंशत्य(ति-अ)ह^३- -हे लूसू
२, १४ १९
एकविंशत्यह-कारिन्- -रिणः
द्राश्रौ ८, २, १२^०, लाश्रौ ४, ६,
१२, निसू ५, ७ : ३, -रिणाम्
निसू ९, १२. १५
एकविंशति(न>)नी^३- -नीम्
आपश्रौ २०, ११, ५, बौश्रौ १५,
१३. ६, २० २, वाधुश्रौ ३,
८३ २^{१६}
एक-वि(धा>)घ^३- -घ आपश्रौ
१६, १७, १५, आपश्रु ८, ७,
हिश्रु ३, ८, -घम् शाश्रौ १६,
१९, २, बौश्रौ ६, २० : १४,
७, १ १६, २५, १५ : २१.
एकविध-प्रभृति- -तीन् बौश्रु

५. १०, २१ १०, -तीनाम्
आपश्रु ८, ९, ११, १४, १६;
हिश्रु ३, ११, ४, १७, २०.
एकविध-प्रसङ्ग- -ङ्ग. बौश्रु ५ :
१७
एकविधो(ध-उ)क्त- -क्तम्
आपश्रु १२, ४, हिश्रु ४, २६.
१एक-विभक्ति- -क्तौ पा, पावा १,
२, ६४
एकविभक्त्य(क्ति-अ)न्त^३-
-न्तानाम् पावा १, २, ६४
२एक-विभक्ति^३- -क्ति पा १, २,
४४, -क्तौ पावा १, २, ४४
एकविभक्ति-त्व- -त्वात् पावा
२, २, २४
एक-विमुक्त- -क्ते काश्रौ ८, १, २
एक-विष्टर- -र जैश्रु १, १९ ३७.
†१एक-वीर- -र माश्रौ १, ६, २,
१७, वैताश्रौ १४, १
२एक-वीर^३- -रान् कौसू ४७, १४.
एक-वृक्ष- पाग ४, २, १३८, -क्षे
माश्रु १, १३, ११, वाश्रु १५, ५,
अप २२, ३, ४, ७०^३, ४, ५,
७२, ३, ८
†एकवृक्ष-सद्- -सदे माश्रु १,
१३, ११, वाश्रु १५, ५
एकवृक्षीय- पा ४, २, १३८,
-यान् काश्रौ २, ८, १.
एक-वृत्^३- -वृत्त काश्रौ ८, २, २७,
७, १३, आपश्रौ ६, २३. १†;
माश्रौ २, २, ४, ३१, माश्रु १,
१०, २^१, २, २, ५, माश्रु २,
२० १५†
एक-वृद्धि- -द्ध्या बौध ४, ५, १७.

a) विप. 1 बस । b) वैप १ द्र । c) पाठ ? एकविंशतिः, अवरा, भा, परार्धात् इति चतुष्पदः
शोधः (तु शाश्रौ ७, १७, १७, संस्कर्ता च) । d) = क्रतु-विशेष- । e) षः का° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु.
लाश्रौ) । f) विप । परिमाणार्थे ङिनि प्र. (पावा ५, १, ५८) । g) षा° इति पाठ ? यनि शोधः । h) विप. ३
बस उप ? । i) षत् इति पाठ. ? यनि. शोधः (तु. माश्रौ) ।

एक-वृष^० - ऋष अत्र ५, १६, अर्ष
 २ : ९, ४८, ३ ९, ४. ११,
 -षम् छुसू १, २ २६^b, अत्र
 ५, १६^०, -षस्य लाश्रौ ७, ६, ५^b
 एकवृष-देवता- > ल्य- ल्यम्
 अत्र ५, १६, ६, ८६
 एक-वेद- -दे वागु ६, २९, गौघ
 २, ५२
 एक-वेदस^d - दा बौश्रौ १८, ३३
 १२
 एक-वेद्य(दि-अ)न्त- -न्ते आमिगु
 १, २, २ १७
 १ एकवेद्यान्तेभ्यः^० हिगु २, १९, ६
 एक-व्यपदेश- -शात् मीसू १०,
 ६, ४८.
 एक-व्यवेत- -त तैत्रा ४, ५१
 एक-व्यूह^f - हम् विध १, ६१
 १ एक-व्रत, ता^f - -त^० आगु १, २१,
 ७, कागु ४१, ९, मागु १, २२,
 १०, जैगु १, १२ ३३, -ता
 आपश्रौ १७, १३, २, हिश्रौ
 १२, ४, ४
 १ एक-व्रात्य^h - -ल्य आपम २,
 १६, ३, ६, भागु २, ७, ११, १७,
 हिगु २, ७, २
 १ एकशक^१ - कम् शंघ ११६ ५०
 १ एक-शत- -तम् शाश्रौ ११, १४,
 २९, १५, २६, १, काश्रौ २०,
 ५, १६, आपश्रौ १६, १६, ११^१,
 बौश्रौ १२, ९ २, १५, १४ :
 १, १^१ वैश्रौ १८, १४ : ५^१, ६,
 भागु १, २५. १९^१, हिगु १,
 २३, १^१, कौसू ९७, ८^१, अत्र

७, १, ८^१, वृदे ४, ९५, निघ
 १, १२, या २, २४, -तात् वाश्रौ
 ३, ४, २, ६, हिगु १, २३, १^१,
 -तेन काश्रौ ७, ३, ३, आपश्रौ
 १८, १४, ५^१, बौश्रौ १२, ९ :
 १६, वैश्रौ १२, ७ १२, हिश्रौ
 १३, ५, २३
 २ एकशत^१ - -तः बौश्रौ १५,
 २ १६, ३६ २८
 एकशत-तम- -म बौश्रौ २२,
 २० २१, लाश्रौ ८, ४, ९
 एकशत-वि(धा >)ध^f - -ध
 आपश्रौ २०, २५, ५, हिश्रौ १४,
 ६, १६, -धात् काश्रौ १६,
 ८, २०, आपश्रौ १६, १७,
 १५, वैश्रौ १८, १४ ३०, काशु
 ५, १, ६, ५, आपशु ८, ७, हिशु
 ३, ८, -धान् बौशु ५ ३, -धे
 काशु ६, २
 एकशतविधा(ध-अ)न्त^f -
 -न्तम् बौशु ५ : ३
 एक-शफ^k - -फम् शाश्रौ ७, १८,
 ४, आपश्रौ १६, २१, १५^१,
 बौश्रौ १०, ३४ ५^१, माश्रौ ५,
 २, १४, ७, वैश्रौ १८, १९
 २२^१, हिश्रौ ११, ७, ५९^१,
 -फा बौश्रौ २, १८. १९^१,
 वाधुश्रौ ३, ७५ १३, वाध २,
 २८, -फान् काश्रौ २२, १०,
 २०, शंघ ४२०
 एकशफ^१ - -फम् गौघ १७,
 २२
 एकशफ-द्विपद- -दानाम् गौघ

२८, १३
 एकशफ-विक्रियिन्- -यी विघ
 ४५, २३
 एकशफो(फ-उ)भयदन्ता(न्त-
 अ)शन^m - -ने विव ५१, ३०
 एकशफो(फ-उ)ब्द-स्त्री^m -
 -स्त्रीणाम् वैध २, १५, ५^१^m
 १ एक-शब्द- -ब्दे मीसू १, ४, ८^०
 एकशब्द- -ब्द्यात् मीसू २,
 १, २८^p, ७, १, १८, ९, १, ४७,
 ३, ३७, १०, ३, ६, ११, १, १४,
 २५, २, ४.
 एकशब्द-त्व- -त्वम् पावा १,
 २, ६४
 एकशब्दा(ब्द-अ)भिमयोग-
 -गात् मीसू ११, १, १
 एकशब्दो(ब्द-उ)पदेश- -शा.
 मीसू ११, ४, २, -शात् मीसू
 ११, १, ५५, २, १
 २ एक-शब्द^f - -ब्दानि या ४, १
 १ एक-शला(का >)क^f - -केन कौसू
 ८०, २५
 २ एक-शलाका- -कया काश्रौ ५,
 ८, १८
 एक-शस() काश्रौ ४, १, ३, वृदे ६,
 २१, पा १, ४, १०२
 एक-शा(खा >)ख^f - -पाग ४, २,
 १३८, -खम् कौसू ९०, ३
 एकशाखीय- पा ४, २, १३८.
 एक-शाटी-परिहित^f - -त वाध
 १०, ९.
 एक-शाला- > लिक-, एकशा-
 लिक- पा ५, ३, १०९

a) वैष १३ । b) = साम-विशेष- । c) = सुह-देवता- । d) विप । बस उप. = वेद- ।
 e) पाठः^१ वेद्यान्तेभ्यः इति शोध. (तु. Boht [ZDMG ४३, ६००], वैतु भाष्यम्) । f) विप । बस ।
 g) पामे. वैष २, ३ खं. एकमना मंत्रा १, २, २१ टि. द्र । h) = क्षप्रह-विशेष- । i) = मरुद्-विशेष- । समास^१ ?
 j) एकशफ^१ डट प्र (पा ५, २, ४८) । k) विप., नाप. । बस. । l) विप । तस्येदमीय. अण प्र । m) द्वस. >
 बस । n) कौ इति पाठ^१ यनि शोधः (तु C) । o) एकशब्दे इति जीसं । p) एकशब्दात् इति जीसं ।

एक-शि(खा>)ख^३- -ख बौगु २,
४,१७

एक-शितिपाह^३- पाग ६, २, ८१,
-पात् माश्रौ ५, २, १०, २८^३

एकशितिपात्-स्वर-वचन- -नम्
पावा २, १, १

एक-शीर्षन्^३- -र्षा सु १६, ४

एक-शुचि^३- -चय हिव १, ७, ८

एक-शूल(ल>)ला^३- -लया आपश्रौ
७, १७, ६०, १९, १^३, भाश्रौ ७,
१३, ७०, १४, १४^३, वैश्रौ १०,
१४ २०, १५ ३^३, हिश्रौ ४,
४, ३०, १६^३, भागु २, १६ २,
हिगु २, १५, २, -लाम् आपश्रौ
७, ८, ३, २१, ३, भाश्रौ ७, ६,
६, १६, १०, वैश्रौ १०, ७ २^३,
हिश्रौ ४, २, २७, ४, १८, ४१,
गोगु ४, १, २

एक-शृङ्ग, ज्ञा^३- -०ङ्ग विध ९८, ७८^३,
-ज्ञया माश्रौ १, ८, ३, ३८, ४,
१२^३, वाश्रौ १, ६, ५, ८०, २५^३,
-ज्ञा माश्रौ १, ८, ३, २६, -ज्ञाम्
माश्रौ १, ८, ४, ३८, वाश्रौ १,
६, ६, ११, कौसू ४५, १३

एक-शेष- -ष पा, पावा^३ १, २,
६४, -षे पावा १, २, ६४^३

एकशेष-निर्देश- -शात् पावा १,
३, ३, ४, १०१, २, १, १, ६, ३,
६७, ८, ४, ६८

एकशेष-प्रतिषेध- -घः पावा २,
४, १.

एकशेषप्रतिषेधा(ध-अ)र्थ-
-र्थम् पावा २, २, २८

एकशेष-वचन- -नम्, -नात्
पावा १, २, ६४

१एक-श्रुति^३- -नौ मीसू १०, ७, ५१,
-त्या पावा ६, ४, १७४^३

एकश्रुति-क्रम- -मात् जैश्रौका
९३

एकश्रुति-त्व- -खात् मीसू ४, १,
१२, ११, १, १६

एकश्रुति विधान- -नान् द्राश्रौ
१, १, ४, लाश्रौ १, १, ४

२एक-श्रुति^३- -ति आश्रौ १, २, ८,
काश्रौ १, ८, १९, पा १, २, ३३

ऐकश्रुत्य- -त्यम् आश्रौ १,
२, ९, पावा १, २, ३९

एकश्रुत्य-वचन- -नम् पावा
१, २, ३९

ऐकश्रुत्य-प्रतिषेध- -घ पावा
८, १, ५५

एक-षष्टि- -ष्टि चात्र ४१ : ३,
अत्र १८, १, अपं ४ ४०,
-ष्टया वेज्यो ४०

एकषष्टि^३- -ष्टे काश्रौ १६, ८,
१७

एकषष्टि-रात्र- -त्र बौश्रौ १६,
३६ : १३, -त्रम् आश्रौ ११,
६, १३, आपश्रौ २३, ८, ८, निस्
१०, ४ : १७, -त्रात् निस् १०,
४ : १६, -त्रे शाश्रौ १३, १८,
१, काश्रौ २४, ३, १७, बौश्रौ
२३, १३ : १५, लाश्रौ १०, ५,
८, -त्रेण हिश्रौ १८, ३, ४

एक-संयुक्त- -क्त मीसू ९, ३, ३७

एक-संयोग- -गात् मीसू ३, ३, १९,

३९, ६, ५, ५३, ९, ३, ३२७, १०,
२, ४१

एक-सं(स्थ>)स्था^३- -स्था अप
६४, ५, ४

एक-संख्या-> ऐकसख्य- -ख्यम्
मीसू ८, ३, १६

एक-सज्ञा(ज्ञा-अ)धिकार- -रे पावा
१, ४, १^३

एक-सप्तति- -ति विध २०, ११

एक-समास- -स काशु ३, ३, -सेन
काशु ३ ४, ३, ५, ५

एक-संग्रह- -षे आश्रौ २, १६, १५

एक संभार्य^३- -र्यम् आश्रौ ११, ७,
१२, -र्ये वाश्रौ ३, २, ४, १

एक-सभार्य-ता- -ता वाश्रौ ३,
२, ३, ३२

एक सर, रा^३- -रम् कागु ४१, २१,
-राभि आपश्रौ १५, ५, ७,
बौश्रौ ६, १० . ९, १०, १२ ६,
भाश्रौ ११, ५, ९, वैश्रौ १८, ६
६, हिश्रौ २४, २, ४, -रे कौसू
३३, १२

एक-साध्य- -ध्येषु कप्र ३, ८, २
१एक-सामन्- -म्न निस् १, १३ :
४
२एक-सामन्^३- -मा मीसू १०, ६,
१५

एक सूक्त^३- -क्ते शाश्रौ ११, १०,
१०

एक-सूक्त^३- -क आपश्रौ ९, १२,
४, १५, १९, २, बौश्रौ ९, १८ :
७, भाश्रौ ११, १९, १०, वैश्रौ
२०, २५ : ४, -कम् हिगु १,

a) विप । बस । b) वैप १ द्र । c) सप्र °शूलया <> °शृङ्गया इति पाभे । d) सप्र °शूलया

<> °शृङ्गया इति पाभे । e) °ला इति पाठ १ यनि. शोष (तु आपश्रौ ७, ८, ३) । f) = विष्णु- । g) °ज्ञायो°

इति पाठ ? यनि शोषः (तु आपश्रौ ७, १९, १) । h) षस. वा कस वा । ४) एकश्रुति-निर्देशात् इति गुसं ।

j) ङः प्र उस (पा ५, २, ४६) । k) विप (दरड- , रज्जु- प्रभृ.) । उस वा बस वा । l) = एकचर-सकाल-

[शृगाल-] । मलो कस. ।

१६, १९, -के आपध १, ११, ३३, हिध १, ३, ८४
 एक-स्तन^१ - नम् आपधौ ११, १५, ६, १६, ३५, १०, १७, २६, ७, २१, ४, १४, २३, ११, ६, भाश्रौ १२, ५, १९, वैश्रौ १२, २४ : ७, १९, १ १८, हिश्रौ १०, ३, ३९, -नानि हिश्रौ ११, ८, २६, १२, ८, २०, १६, १, ४८, -ने माश्रौ २, २, १, ४९
 एकस्तन-प्रभृति- -ति बौश्रौ २९, ११ : २१
 एकस्तन-व्रत- -तम् बौश्रौ ६, २४. १
 एक-स्तोत्र- -त्रम् आपधौ १४, १८, १३, १९, ९, हिश्रौ १५, ५, १४, २०, निसू ४, ८ : २१, ६, १३ १८, -त्रस्य लाश्रौ १०, ३, ५
 एकस्तोत्रिय- -यः आश्रौ ६, ६, ८, -येषु आश्रौ ७, २, ७
 एक-स्तोम^२ - म बौश्रौ १८, ३६ ११, निसू ८, ८ १५, मीसू ५, ३, ४३, -मम् लुसू ३, १६ : ९, -मा. निसू ८, ३ ४, १०, ७ १६, -मानाम् निसू ९, ४ : ३९, -मानि निसू ८, ३ ६; -मेन क्षुसू ३, १६ ११, -मेषु लाश्रौ ९, ७, ८, निसू १०, ७ : ८
 एकस्तोम-ता- -ताम् निसू ८, ४ २६; १० : १२
 एक-स्थ^३ - -स्थ बौध २, ६, २२.
 एक-स्थान- -ने हिश्रौ १६, १, ३६; ६, ३

एकस्थान-वासिन्- -सी शंघ १६०
 एक-(स्फ्य >) स्फया^४ - -स्फयया ङकाश्रौ ५, ४, ७, १८, ३, १७, आपधौ ८ ५, २०, बौश्रौ ४, २. ३८, १०, ५१ १९, द्राश्रौ १३, १, ४१, लाश्रौ ५, १, ४१, -स्फ्याम् आपधौ १, ७, १३, ७, ४, ५, ५, ४, भाश्रौ १, ७, ८, ७, ३, ९, वैश्रौ ८, ९ : ९, १०, ४ ११, हिश्रौ २, ७, १८, २०, ४, १, ६०, ५, २, १३, -स्फ्यायाम् आपधौ १, ८, १, १०, ९, १४, भाश्रौ १, ८, ६, वाश्रौ १, २, ३, ८, ३, ९
 एकस्फया-देश- -शे हिश्रौ २, ७, १७.
 एकस्मान्-न-पञ्चाशत्^५ - -शत् वाधश्रौ ३, ८६ ५
 एकस्मान्नपञ्चाश^६ - -श हिश्रौ १८, ३, १.
 एकस्मान्नपञ्चाशद्-रात्र- -त्र बौश्रौ १६, ३६ : ४, ८, -त्रा आपधौ २३, ७, १
 एक-खुव- -वम् वाश्रौ १, ५, २, ४९
 १एक स्वर-> ऐकस्वर्य- -र्यम् शाश्रौ १, १, ३१.
 २एक-स्वर^७ - -रात्र याशि १, ६०
 एक स्वरित^८ - -तम् अप्रा १, १, ५, कौशि ३५
 ङएक-स्विष्टकृत्^९ - -कृत्. आश्रौ १, ३, १०, माश्रौ २, १८, ४^{१०}, कौसू ६, ३४.
 एक-हविर्धान^{१०} - -न बौश्रौ १८, ३६ : ११

१एक-हविस्- -वि बौश्रौ २०, ८ ३२, ३५, कौसू ७४, १५१
 एकहविष्-द्व(< त्व)- -द्वम् मीसू १०, ७, १
 २एक-हविस्^{११} - -विषः आश्रौ २, ११, ६, शाश्रौ २, ३, १४
 एक-हस्त^{१२} - -स्तम् अप ३०^{१३}, १, ३.
 एक-हानि- -न्या बौध ४, ५, १७.
 एक-हायन^{१४} - -न आपधौ ९, ८, २, १३, १४, भाश्रौ ९, १६, ७, भाश्रौ ५, १, १, २६, वैश्रौ २०, २८ १५, हिश्रौ १५, ४, ७, -नम् माश्रौ ५, १, ५, ३५, अप्राय ४, १, विव ५०, २७, -नाम् बौश्रौ १८, ११ २.
 एकहायनी- -नी आपधौ १०, २२, २, २२, १५, ३, बौश्रौ ६, १० : ३, भाश्रौ १०, १४, १९, १७, १२, हिश्रौ ७, २, १६, १७, ६, २३, -नीम् काठश्रौ ८३, वैश्रौ १२, १६ ९, -न्या बौश्रौ १६, २४ १४, १७, १ ३.
 एकहायन-प्रभृति- -ति आपधौ १८, ३, ९
 एक-हाविर्- -वी शाश्रौ २, १२, ८
 एक-हिकार^{१५} - -र निसू २, ७ ७, -रम् निसू २, ७ : १
 ङएक-होतृ^{१६} - -ता आपधौ ८, ४, ३; बौश्रौ २७, १० १७, २९, २ : ३, वैश्रौ ८, ८. ५, २१, १२. ६, आमिष्ट ३, ४, ४ : ६, ७, ३ : २२, बौध ४, १०, १, ३, बौधि २, २, २, ३, ४, १३, वैश्रौ ५, ५ : २६, ७, ९ ८, हिपि १९ : ९;

a) विप. । बस. ।
 (तु. BC.) इति पाठः^१ यनि श्लोच ।
 [दाना^१] । g) वैप १, १३०२ । द्र. ।

b) विप. (परित्राजक-) ।
 e) विप. । तद्धितार्थे द्विस ।

c) वैप १ द्र ।

d) एकं स्विष्टकृतम्
 f) विप. । उस उप. < ✓ इ

-तारम् आमिष्ट २,७,४ १५
 एक-होम- मे शाश्रौ २,९, १५,
 बौगु ३, १३, १, २, वैगु ६,६
 ४,७
 एकाकिन्^३- पा ५,३,५२, -किनम्
 वाघ १७, ८६, बौव १, ५,
 १०२, -फकी आश्रौ १०, ९,
 २३, शाश्रौ १६, ५, १३, काश्रौ
 २०,५,२०,७, १०, बौश्रौ १५,
 २९ ५, ७, वाश्रौ ३, ४, ३,
 ५१३, अप २,१,५५, विव ४५,
 २७५, चाअ ४२ ६
 एकाकिन्ता- ताथै वाधुश्रौ ३,
 ९ ५.
 १एका(क-अ)क्षर- रम् वाघ १०,
 ५, २५, ११, विघ ५५, १७,
 -रात् ऋप्रा १६, ५, नाशि २,
 १,१०
 एकाक्षर-गिघन^४- न निस् ६,
 ३ : ५, -नम् लाश्रौ १०,१,१४,
 निस् ८,५ २८
 एकाक्षर-नियत^५- तस्य उम् ८,
 १६
 एकाक्षर-भाविन्^६- विनः निस्
 १,७ २९.
 एकाक्षर-वृद्धि- द्वौ शुप्रा ५,
 २९
 एकाक्षर-समावेश- शे ऋप्रा
 ३, ३
 एकाक्षर-ही(न >)ना- ना
 उनिसू २ ३
 एकाक्षरा(र-आ)दि- द्वौ ऋप्रा
 २,१५
 एकाक्षरी/कृ > एकाक्षरी-कृत-
 -तात् ऋप्रा ३,२३
 एकाक्षरी/भू > एकाक्षरी-

भाव- चान् ऋप्रा १७,२२
 एकाक्षरो(र-उ)प(धा >)घ-
 -वम् ऋप्रा ८,१६
 एकाक्षर्य >)र्या^७- र्यया द्रागु
 ४, ३,१, -र्यायाम् गोगु ४, ८,
 ११
 २एका(क-अ)क्षर,रा^८- र शुप्रा ६,
 ५, -रम् वाधुश्रौ ४,१०० ३,
 वैगु ६४ : ४, वैगु १,४ २८,२,
 १० १३, ऋप्रा ११, ३, अप्रा
 ३,४,३,४, -रयो ऋप्रा ८,५,
 -रस्य ऋप्रा ५, ३३, -रा बौश्रौ
 २४,२ ७फ, निस् ३, ४ ५,
 उनिसू ३ ३, -फराः आपश्रौ
 ४, ४, ४, भाश्रौ ४, ५, ५,
 वाश्रौ १,१,२, १६, हिश्रौ ६,
 १,५१, ऋप्रा १२,२२५, -राणि
 अप्रा १,३,१०, -रात् पावा ५,
 २,११५, -फराम् वाश्रौ ३,१,
 १, ४१, निस् ३, ४ २, मअ
 १७, चाअ १४ ६, -राय
 वाश्रौ ३,१,२,२१फ, -रे ऋप्रा
 ७,१०, शुप्रा ३, ७६, ऋत ५,
 २,६, माशि ५,९, -फरेण काश्रौ
 १४,५,२८, आपश्रौ १८,४,१९,
 बौश्रौ ११,७ ३१, वाधुश्रौ ४,
 १०० १९, वैश्रौ १७,१३ : ९,
 हिश्रौ १३,१,५४, ५शौच ४,
 ५५,५६, -रेषु द्राश्रौ ३,४,११
 एकाक्षर-चर्षणि-धन्व-वर्जम्
 ऋप्रा ९,२७
 एकाक्षर-तत्र-पूर्व- -र्वम् ऋप्रा
 २,५८
 एकाक्षर-पदा(द-आ)दि- -दीनि
 उनिसू १ ४
 एकाक्षर-पूर्व-पद- -दानाम् पावा

५, ३, ८४
 एकाक्षर-प्रभृति- -तीनि निस्
 १, ६ : ११
 एका(क-अ)क्षि^९- -क्षि. अप ६९, २,
 ३
 एका(क-आ)गम- -मात् शाश्रौ ९,
 १, ९
 एका(क-अ)गार- -रात् पावा ५, १,
 ११३
 एकागारिक- पा ५,१,११३
 एका(क-आ)गु(र >)रा^{१०}- -रे आश्रौ
 ५,५,४
 १एका(क-अ)ग्नि- -ग्नि भागु ३,
 १ १, -ग्निम् कौसू ६९, १, -ग्ने
 कागु ४५,१, -रनौ द्राश्रौ १२, १,
 ३, लाश्रौ ४, ९, २, जैगु १, १ ५,
 द्रागु १, १, २०, अप्राय १, १३,
 ६, ९
 एकाग्नि-क^{११}- > का(क-आ)
 दि- -द्वौ शंघ १३८
 एकाग्नि-त्व- -त्वात् मीसू ११,
 २, ४७
 एकाग्नि-परायण- -ण. आमिष्ट
 २, ७, १० : १३.
 एकाग्नि-वत् मीसू १२, १, ६
 एकाग्नि-विधान^{१२}- -नम् आमिष्ट
 २, ५, १० ८, भागु ३, ३ : १४.
 २एका(क-अ)ग्नि^{१३}- -अय काश्रौ ६,
 १०, २०, -ग्नि आपध २, २१,
 २१, हिघ २, ५, १३०
 एका(क-अ)ङ्ग- -ङ्गम् आमिष्ट ३,
 ११, ४ : ४५, आपध १, २६, ६,
 हिघ १, ७, १७, -ङ्गस्य विघ
 १२, ६
 एकाङ्ग-दर्शन- -ने बौपि ३, ७, ३.
 एकाङ्ग-वचन- -ने आश्रौ १, १,

a) वैप १ द्र । b) विप. । बस । c) विप । उस । d) = ऋग्-विशेष- । मत्वर्थीय यत् प्र ।

e) विप । बस समासान्तस्य षचः अभाव. उसं (पा ५, ४, ११३) । f) = गृह्याग्नि- । स्वार्थे क प्र ।

१२
 एका(क-अ)ङुल,ला^२- -लम् वैश्रौ
 ११,७: १०,८: ६, -ला वैश्रौ
 ११,८ १२, -लाम् जैगृ २,
 ३: ११
 एका(क-अ)ङुलि- -ल्या वैश्रौ २१,
 ९: ६, -ल्या: लाश्रौ ८, ९, १०^२
 एकाङुलि-परिणाह^०- -हा वैगृ
 १, ८. ५
 एका(क-अ)ङु(छ>)छा^२- -छा कप्र
 १, ७, ९.
 ऋएका(क-अ)ज्य^०- -ज्यान् आगृ
 १, ३, १०, मागृ २, १८, ४^२,
 कौसू ६, ३४
 एका(क-अ)जलि- -लिम् आगृ ४,
 ४, १०, जैगृ २, ५ ६
 एका(क-अ)तिरिक्त- -क्तान् आपश्रौ
 ८, १७, १, बौश्रौ ५, १६. २,
 १३, ३३: २, २३, ४. २, ४,
 ६, बौगृ ३, ८, २, -क्तानि
 आपश्रौ ८, ५, ४१, बौश्रौ ५,
 ५ ६, वैश्रौ ८, १०. ९
 एका(क आ)स्मन्- > ऐकात्म्य-
 -त्म्यम् वृदे २, १८.
 ए(क>)का-दशन्^०- -श आश्रौ ३,
 २, १, ६, १२, शाश्रौ, आज्यो
 १२, १^२, -शाऽ-श आश्रौ ९,
 ५, ७, ८, शाश्रौ १५, ४, ११,
 काश्रौ २१, १, ९, २२, ५, २१;
 हिश्रौ १४, ६, ७, -शभि आश्रौ
 १०, ८, ५, शाश्रौ १६, ३, २०,
 १२, १७, काश्रौ, -शभ्य: शाश्रौ
 ४, १०, २, पा ५, ३, ४९, -शसु
 काश्रौ ४, ८, १७, १८, ६, ११,
 आपश्रौ, -ज्ञानाम् बौश्रौ २६,

२३ ५, बौश्रु ४: १७, कप्र
 ३, १०, ५
 एकादश- -श शाश्रौ १६, ३०,
 ७, बौश्रौ १८, ३२ ८,
 वाश्रौ, -शम् शाश्रौ १६, ३०,
 १०, लाश्रौ ७, ५, १७,
 आपम १, ४, ६, कागृ, -शस्य
 बौश्रौ १०, ४८: ११, १७,
 २५-२६ ११, -शा वैश्रौ १८,
 १ १०, हिश्रौ ६, १, २६, १,
 ऋश्र ३, २२, -शात् आपश्रौ
 २०, ७, ७, हिश्रौ १४, २, २०,
 -शाय आपश्रौ ७, १४, ८, बौश्रौ
 १०, ४७ १४, भाश्रौ ७, ११,
 १२, माश्रौ १, ८, ३, १८, वैश्रौ
 १०, ११: ६, हिश्रौ ४, ३, ३४,
 -शास आश्रौ ९, ११, १५,
 शाश्रौ ८, २१, १६, तैप्रा ११,
 १६, -शे शाश्रौ ६, ९, ७, बौश्रौ
 १०, ४७ १७, ५०: १, १२,
 २ ३, ४ २४, ५ २८, १७,
 २४. ८, २६, ३ ३, माश्रौ,
 वाश्रौ, -शेषु वाध ११, ५०
 एकादशी- -शी बौश्रौ
 २५, ८: ८, वाश्रौ, -शी: निसू
 ७, ७ ३१, -शीम् शाश्रौ ६,
 ७, २, बौध ३, ८, ९, आज्यो ६,
 ९, -श्या बौश्रौ १०, २९ १२,
 कौसू २९, १४; वृदे ३, ४०, अश्र
 ५, २४, -श्याम् काश्रौ १७, ७,
 ११, बौश्रौ
 एकादशी-प्रभृति-
 -तय: शाश्रौ ७, १५, १०, निसू
 १, ९. १७; -ति आमिगृ २,
 ७, ९: ३५, ३६; भागृ ३, २०:

४, ६, १०, ११
 एकादश-दिन- -नात् वैध
 ३, ९, १, -ने वैगृ ५, १३ ४
 एकादश-द्वादश- -शयो
 गौध १, १३, -शे अय १,
 १२, १, १३, १, १५, १;
 १६, १
 एकादशा(श अ)नुवाक-
 -के वैश्रौ १९, ६ ४१
 एकादश-क^१- -क: ऋश्र ३,
 २८, २९^२, -कम् ऋश्र २,
 १०, ५३, अश्र ५, ३, १५, १९,
 १९, अय ५: २५, -का: ऋश्र
 १, ६, ८, श्रुश्र ५, ३९, अश्र १५,
 १०, अय ५: १९, -कानि
 ऋश्र २, १, १३, अपं २. ४७;
 -के अय २ ४८, -कौ ऋश्र
 ३, २३
 एकादश-कपाल- -ल काश्रौ ४,
 ५, २१×४, आपश्रौ, -लम् शाश्रौ
 १४, १३, ६, वाश्रौ, -लस्य
 माश्रौ १, २, ३, ५, वैश्रौ
 ४, ९: ५, हिश्रौ १, ६, १५;
 २०, -ला. बौश्रौ १३, ३५:
 ९, २४, १० २-५, ७, -लान्
 आपश्रौ १२, ४, २, बौश्रौ ७,
 २: ६, २६, १५: ९, १७, २५,
 २७, १४ २१, माश्रौ, -लेन
 वाधुश्रौ ४, २२ ६, १३, २६:
 २१, वाश्रौ ३, २, ४, ६^२.
 एकादश-काण्डा(ड-अ)न्त-
 -न्तम् अश्रभू ८
 एकादश-कृत्वस् (०) काश्रौ ९,
 ४, १५, आपश्रौ.
 एकादश गुण^०- -ण: वेज्यो १५;

a) विप. । तद्धितार्थे द्विस. । b) ंल्या इति पाठः^२ यनि. शोषः । c) विप. । बस. । d) ंज्याम्
 इति पाठः^२ यनि. शोषः. (तु. आगृ.) । e) वैप १ द्र. । f) ंश इति पाठः^२ यनि. शोषः. । g) पामे. वैप १,
 १०-३६ b द्र. । h) पृ ४४३ f द्र. ।

-णम् विध ५, ७९, ८२.

एकादश-छदिः-प्रभृति- -तीनि
वैश्रौ १४, ११ ९

एकादश-त्रय- -यम् भाशि २६

एकादश-धा आपश्रौ ७, २६,
११, बौश्रौ

एकादश-परम^०- -मान् बौश्रौ ६,
३४ ६

एकादश-प्रक्रम- -मे वैश्रौ १,
२ ८

एकादश-प्रयाज^०- -जम् बौश्रौ
२१, २५ २१, २४, ११. १०,

२६, २९ ३, -जस्य बौश्रौ २४,
१०. १७, -जे बौश्रौ २५,

३१ ९, -जेन बौश्रौ २४, ११
१२

एकादश-रात्र^०- -त्र आपश्रौ २२,
२४, ८, २३, १, ५, बौश्रौ, -त्रम्

निसू ९, ६ २६, बौव ३, ६,
१९, गौध १४, २, -त्रस्य

आपश्रौ २२, १४, १२, -त्रात्
आपश्रौ २२, १४, १, बौश्रौ,

-त्राय बौश्रौ १६, ३२ १,
-त्रे लाश्रौ ९, ५, १०, -त्रेण

शाश्रौ १६, ३०, १

एकादशरात्र-प्रभृति- -तय
निसू ९, ८ ३५

एकादश(श-ऋ)र्षे^०- -र्षम् शुश्र
२, ४४५, ३, ३१, चाश्र ४० :

१२, अश्र ३, ३१, ५, ११-
१३××, अर्ष २ : ८९, -र्षेन

बौश्रौ १०, १६ : १८, वैश्रौ
१८, ९ ८, -र्षेभ्यः अर्ष ४६,

१०, ८, अश्र १९, २३
एकादश-वर्ष^०- -र्षम् पागृ २, २,

२, हियृ १, १, ३

एकादशावि(धा >)ध- -धम्
शाश्रौ १६, ३०, १, २, -धात्

बौशु ५ २.

एकादश-सूक्त^०- -क्ता अर्षं २
१३

एकादश-स्तोम^०- -म शाश्रौ
१४, ११, ४

एकादश-हीन- -न अर्षं ४ ९

एकादशा(श-अ)क्षर, रा^०- -र
निसू १, १. ३, १०, ऋप्रा १६,

२८, ६७, -रम् वावृश्रौ ४,
१०० ९, २५, निसू ३, ४

२६, -रा शाश्रौ १४, ११, ५,
१६, ३०, २, वावृश्रौ ४, ८९

१७, निसू ३, ४ १८, -रा
शाश्रौ ७, २७, २२, ऋप्रा १६,

४२, ६९, -राणि लुसू १, ६
१८, -राभ्याम् उनिसू २ ३१,

-रौ निसू १, ४ १६, ऋप्रा १६,
३४

एकादशाक्षर-त्रयोदशाक्षर-
-रौ निसू १, ४ २३

एकादशाक्षर-पा(द >)दा^०-
-दा निसू १, ४. १, -दा निसू

१, ४ २६

एकादशाक्षरा(र-अ)ष्टाक्षर-
-रौ निसू १, ४. २४

एकादशा(श अ)न्त- -न्ते काश्रौ
१६, १, १३

एकादशा(श-अ)भ्य(स्त >)
स्ता- -स्ताम् वेज्यो २०

एकादशा(श-अ)ह^०- हात्
गौषि १, ४, ११

एकादशाहा(ह-आ)दि- -दि

कप्र २, ७, ५

एकादशौ(श-ए)कादशशत-

-तानि लाश्रौ ८, ७, ९

एकादशिन^०- -शिन शाश्रौ ४,
१०, ३१, ऋश्र १, ९, ६, शुश्र

५, ६५, ऋप्रा ९, ४२; -शिना
वाश्रौ ३, ४, १, ५५, -शिने.

ऋश्र १, ५, ५, शुश्र ५, २८.

एकादशिनी- -नी आश्रौ
६, १४, १०, आपश्रौ २२, १०,

१६, बौश्रौ १६, १९. ६; माश्रौ
५, २, १२, ४६^३, हिश्रौ १७, ८,

३४, -नी आपश्रौ २०, ९, ९,
हिश्रौ १४, ६, ९, -नीम् आश्रौ

१२, ७, ९, १४, बौश्रौ १६, ११ :
१०, १३, १७, ११-१, माश्रौ ५,

२, १२, १३, हिश्रौ १६, ८, ४;
-न्य आश्रौ १२, ७, १०, आपश्रौ

२१, २२, २, बौश्रौ १६, १२ :
३, २६, १७. १, हिश्रौ १६, ८, ५,

-न्या शाश्रौ १४, १०, १५;
बौश्रौ १७, १५ : २, -न्याः

माश्रौ ७, १०, ९, -न्याम्
आपश्रौ २२, २, ११, बौश्रौ २६,

२३ १, वाश्रौ ३, २, ६, १,
बौशु ४ १६, २२, -न्यै बौश्रौ

२३, १४. १, १०, २६, १७ :
२, -न्यो शुश्र ३, १३१; -न्यौ

काश्रौ २०, ४, २३

एकादशिन^०- -नाः
आश्रौ ३, ७, १५, शाश्रौ ६, ९, ३;

काश्रौ १२, ६, १६, २२, ७, १२,
आपश्रौ १४, ५, १, २२, ८, १४,

१३, १८, २४, ३, ३६, काश्रौसं
२८ : २२, बौश्रौ १६, ११ : ७;

a) विप । बस । b) वैप १, १०३२ ढ । c) पृ ४४११ ढ । d) समाहारे द्विस उप
अहादेश-निषेवः (पा ५, ४, ८९) । e) परिमाणार्थे ङिनि. प्र (पावा ५, १, ५८) । f) विप । तद्धिते ङिनि प्र.
वृद्धिर् वा द ।

वैप४-दि-६

१९-२, २३, १९: २८, हिश्रौ ९,
८, १, १७, ३, ३३, ५, ३९,
-नान् काश्रौ २०, ५, ८, २१, १,
७, आपश्रौ ७, १३, ९, १७, २२,
८, २३, ४, १८, २२, १७, २०,
९, १३, १५, ४, २२, ४, २४, ७,
२१, १४, ८, २२, १४, २३, ७, १३,
बौश्रौ १०, ५७-७, १५, १८
१०, २२, ११-२७, २८, १४-
१२, १४, माश्रौ ६, २, ६, १३,
वैश्रौ १९, ६: १४४, ७ ३,
हिश्रौ १४, २, ४२, ५, २, ६, ५,
१६, २, १७, ८, ३, ९, -नानाम्
शाश्रौ ६, १०, १२, १७, ७, ७,
आपश्रौ २४, ३, ३५, बौश्रौ २२,
११ २६, -नेषु शाश्रौ ६, ९,
४, मीसू ८, १, १४, १०, ५, ८६,
६, ६, -नै आपश्रौ २०, २४,
११.

एकादशिन-
देव(त>)ता^३- ता आपश्रौ
१२, १६, १०

एकादशिन-
पशु^३- शानि बौश्रौ २३, ११
२६

एकादशिन^३- नान्
आश्रौ १२, ७, ६, ८, माश्रौ ७,
१०, ९, -नानाम् बौश्रौ २५,
३२-१, २६ ११-२४

एकादशिन-धर्म^३-
-र्मा काश्रौ १९, ४, ६

एकादशिन-लिङ्ग-
-ङ्गात् काश्रौ १५, १०, ६

एकादशिनी-रशना-
-ना: आपश्रौ १४, ५, १२, बौश्रौ

१७, ११: १५, हिश्रौ ९, ८, ७.
एकादशिनी-वत्
काश्रौ २०, ४, १६, मीसू १०,
५, ८३

एकादशि-द्वादशिन- -शिनी.
ऋप्रा ८, ३६, -शिनौ ऋप्रा
१७, ३८

एकादशो(श-उ)प(र>)रा^३-
-राम् आपश्रौ १४, ५, १०, हिश्रौ
९, ८, ६

एका(क आ)दि- -दि पा ६, ३,
७६, -दीनाम् पावा २, २, २९.

एका(क-आ)दिट^३- -ट कौशि १५,
-ष्टस्य पावा ३, २, १०९, -ष्टात्
पावा ७, १, १४

एका(क-आ)देश- -सा अत्रा ३,
१, ३, शौच ३, ६३, पा ८, २, ५,
पावा १, १, ५७, ४, २, ३, १, ३,
-शस्य पावा १, १, ५१, ५७,
६, १, ८५, -शात् पावा १, ४,
२३, ६, १, ८४, ९०, १२३^३,

-शे अत्रा १, १, ६, २, २, ६, ३,
२२, २३, शौच १, ६९, पावा
६, १, ४५, ८४^३, ८, २, ६, १९,
पात्रवा ४, ५

एकादेश-शत-स्वर^३->^३रे-
(र-ए)काननुदात्त-सर्वानुदात्ता-
(त-अ)र्थ-र्थम् पावा ८,
२, ६

एकादेश-स्वर- -र: पावा ८,
२, ६

एकादेश-स्वर संधि-दीर्घ-
विनाम- -मा शौच ४, ११८.

एका(क-अ)धर^३- -राणि बाधूश्रौ
४, १००-३^६

एका(क-अ)धिक, का^३- क अप ४:
४, -कम् अत्र ५२, ३, ३, ६,
१, -का ऋय ३, ३३, अत्र १,
३, १८, ३, उनिसू २ ४,
-का. ऋप्रा १७, ४४, -कान्

काश्रौ ५, १०, १, बाश्रौ १, ७, ४,
१३, हिश्रौ ५, ५, २, -कानि
काश्रौ ५, २, ३, हिश्रौ ५, २, ३४,
काशु ६, ७, -केषु बौध १, २,
१०, -कौ ऋप्रा १६, ४१

एका(क अ)धिकरण- -गे पा २,
२, १

एका(क-अ)वि-शत- -तानाम्
चाअ ३ १

एका(क-अ)धिशय^३- -थ निसू १,
८ ११, -या: लाश्रौ ६, ५,
१८, निसू १, ८ १०, २४, ९-
३, १२, १६, २०, २१, २५,
-यानाम् लाश्रौ ६, ५, २७,
निसू १, ८ ४१, ४३, -येषु
लाश्रौ ६, ५, १३, २३

एकाधिशय-प्रभृति- -तिषु निसू
१, ८ २३

एका(क-अ)ध्याधिन्- -यी आपध
१, ६, २४, हिध १, २, ४७

एका(क-अ)ध्या(स>)सा^३- -से
निसू ३, १३ २२

एका(क-अ)ध्वर्यु- -र्यु वैष्ट २,
१८ ६

एका(क-अ)ध्वर्यव-प्रायश्चित्त-
-त्तानि बौश्रौ २७, ६: ३, १९,
वैश्रौ २०, ३०: १४

एका(क-अ)ननुदात्त^३- >^३त्त-त्व-
-त्वात् पावा ६, १, १५४

एकाननुदात्तद्वि-गुस्वर गति-

a) विप.। बस.। b) पृ ८०१ गृ द्र । c) षस पूष ह्रस्वत्वम् (पा ६, ३, ६३)। d) विप ।
बद्धितार्थे द्विस. उप = तत्परिमाण-विशेष-। e) = एकादेश-। f) द्वस > षस । g) सप्र धराणि <>
वाचि इति पाठे । h) विप । उस. उप कर्तरि क्त ।

निघात- नैषु पावा १, १, ५७
 एका(क-अ)नुगान^a- नम् द्राश्रौ २,
 १, १२, लाश्रौ १, ५, ९
 १एका(क-अ)नुच^b- -चेभ्य. अप
 ४६, १०, २२, -चेषु अप
 २. ५
 एका(क-अ)नेक-प्राशन^c- -ने सुध
 ६२
 एका(क-अ)न्त^a- -न्त पावा १,
 ३, ९, -न्तम् माश्रौ १, १, १,
 ३१, -न्ते पावा १, ३, ९
 एकान्त-तस(ः) शंघ २५०,
 आपशु १६, १३
 एकान्त-दर्शन- -नात् पावा ४,
 ३, १६१
 एकान्त-समाहित- -तम् आपध
 १, २०, ८, २, २९, १४, हिध १,
 ६, २२
 एकान्ता(न्त-आ)दि-त्व- -त्वे
 पावा १ १, ७३
 एका(क-अ)न्तर, रा^a- र तैप्रा २,
 २५, नाशि १, १, ३, -रम् पा
 ८, १, ५५, -र्या शाश्रौ १६,
 १३, १८, -रा माशि १, २,
 -रात् शुप्रा ६, १३, -राया
 वृदे २, १४०, -रे पावा ८, १,
 ५५, वेज्यो ११, -रेण लाश्रौ
 १, ११, २९
 एकान्तर-द्वयन्तर-व्यन्तरा(र-
 आ)शिन- -शी विध ९५, ६
 एकान्तर-विधि- -धौ पावा
 ८, १, ७२
 एकान्तर-वृत्त्यु(त्ति-उ) पात्त-
 -त्तम् विध ५८, ८.
 एकान्तरा-द्वयन्तर(र>)रा^d-
 -रासु बौध १, ८, ७.

एकान्तरा-द्वयन्तरा-व्यन्तरा-
 रासु वाध १८, ८
 एका(क-अ)न्न- -न्नम् बैगृ ६५
 ११, बौध २, १० ५४^e
 एकान्-न-चत्वारिंशत्- -शत् ऋअ
 २, ८, ५
 एकाक्षत्वारिंशद्-रात्र- -त्रम्
 आश्रौ ११, ४, ८, -त्रेण आपश्रौ
 २३, ६, ९
 एकान्-न-त्रिंशत्- -शत् वृदे ५,
 १०५, -शतम् आपश्रौ १४,
 १०, ४, हिश्रौ १०, ८, ४७,
 लाश्रौ १०, ११, ३, -शता बौश्रौ
 १४, २० १०
 एकात्रिंश- -शः अप्राय ६, ८,
 -शे बौश्रौ १७, २४ १०, २५-
 २६ : १३
 एकात्रिंशै(श-ए)कत्रिंश-
 शयोः लाश्रौ ६, ७, ६
 एकात्रिंशत्-स्तोमभाग- -गैः
 वैताश्रौ २९, ७
 एकात्रिंशद् रात्र- -त्रम् आश्रौ
 ११, ३, ११, हिश्रौ १८, २, ६,
 -त्रेण आपश्रौ २३, ४, ११
 एकान्-न-पञ्चाशत्- -शत् बौश्रौ
 २, ८ : २५
 एकाक्षपञ्चाशद्-रात्र- -त्र
 शाश्रौ १३, १७, ३, -त्राणि
 आश्रौ ११, ५, १, काश्रौ २४,
 २, ३७, लाश्रौ १०, १, १०,
 -त्रे काश्रौ २४, ३, ३२
 एकान्-न-विंशति- -ति लाश्रौ
 १०, १, ७
 एकात्रिंश- -शम् बौश्रौ १९,
 ७. ५६, -शे लाश्रौ ६, ७,
 १४.

एकात्रिंशति-रात्र- -त्रम् आश्रौ
 ११, २, १८, -त्रेण आपश्रौ २३,
 २, १७, हिश्रौ १८, १, २३.
 एका(क-अ)न्य- -न्याभ्याम् पा ८,
 १, ६५
 एका(क-अ)पचय- -येन काश्रौ ८,
 ३, २, बौध ३, ८, २३, गौध २७,
 १३
 एका(क-अ)पवर्ग^a- -गार्णि हिश्रौ
 १, ६, ४०
 एका(क-अ)पस्वाव^c- -वम् बौश्रौ
 १५, २. १४
 एका(क-अ)भिधान- -ने पावा ८,
 १, ४
 एका(क-अ)भिसमवाय- -यात् मीसू
 ९, ३, ४५
 एका(क-अ)मन्त्रित- -ते शौच २,
 ४७
 एका(क-अ)रत्नि-प्रभृति- -ति
 आपश्रौ ७, २, १२, -तीन् काश्रौ
 ६, १, २५, -तीनि भाश्रौ ७,
 २, ६, हिश्रौ ४, १, २७.
 एका(क-अ)कै-सूत्र^f- -त्रम् कौसू
 ४०, १६
 एका(क-अ)र्ध्व- -र्ध्वम्^g शाश्रु ४,
 २, ३, गौपि २, ६, ५
 एका(क-अ)र्णव-गत- -तः विध
 १, १०
 एका(क-अ)र्णव-जल- -अ(ष्ट>)
 ष्टा- -ष्टाम् विध १, १०.
 १एका(क-अ)र्थे- -र्थे पावा ४, १,
 ९२.
 १एकार्थ- -र्थम् पावा १,
 २, ५८, ६४, मीसू २, १, २८,
 ६, ८, ३७, -र्थात् पावा २, १,
 १; पापवा ५, १३, मीसू ११.

a) विप । बस. । b) वैप १ द्र. । c) द्रस > कस. । d) रद्वय^o इति पाठः ? यनि. शोधः ।
 e) पृ ४४४ d द्र. । f) विप. (आर्क- [अर्कमणि-]) । बस. > पस. । g) पापे. पृ ७८५ f द्र. ।

• १, ६, १२, ३, १६, -थ्ये मीस्
 ७, २, १९^०
 एकार्थ-संयोग- -गात् मीस् ३,
 २, २६
 एकार्थ(र्थ-आ)पत्ति- -त्ते. मीस्
 ९, २, ४९
 एकार्थी ✓ मू > एकार्थीभाव-
 -व पावा २, १, १
 २ एका(क-अ)र्थ^० -र्थम् या ४, १,
 -र्थी मीस् १२, ३, १०, -र्थी-
 नाम् काश्रौ १, ८, १, पावा १, २,
 ६४, मीस् १२, ३, २९, -थे
 निस् ९, १० ६, १०, ३ ३५
 एकार्थ्य- -थ्यात् मीस् ८,
 १, २८, ९, २, २४, ४६, १०,
 ४, १२, ७, ६५, ११, १, ५६,
 ४, ५, १२, ३, ३६.
 एकार्थ-ग्रहण- -णम् पावा ४,
 ३, ३.
 एकार्थ-त्व- -त्वात् पावा १, २,
 ६४, २, २, २९, ३, ३, १६१, ८,
 १, ४, मीस् १०, २, २१,
 ६, ७०.
 एकार्थ-विकार- -रे मीस् १०,
 ७, ६१
 एका(क-आ)र्द्र-वासस्^० -सा:
 शंघ ३९०.
 एका(क-अ)र्थ- -र्थे निस् २, २: २४
 एका(क-आ)र्थ- > ^०र्थ-द्वयार्थ-त्रयार्थ-
 पञ्चार्थ-सप्तार्थ- -र्षात् वैगृ ३,
 २३ ११.
 एका(क-आ)र्थ्य, या^० - -यः आपश्रौ
 २४, ६, ४, ६; १०, ९, बौश्रौप्र ९:
 ३, ४५: ८, हिश्रौ २१, ३, ७^३;
 १५, वैघ ४, २, ७, ८, ६, २,

-यम् आपश्रौ २४, १०, १८,
 हिश्रौ २१, ३, १८, -याः आपश्रौ
 २४, १०, ४, १६, बौश्रौप्र १.
 ५, हिश्रौ २१, ३, १४, १६,
 -यान् बौश्रौप्र ४५ १
 एका(क-आ)र्थ्य^० - -र्ष्या वैघ १,
 १०, १, ३, ११, १
 एका(क-अ)लाभ- -भे मागृ १, ७,
 ७, वागृ १०, ६
 एका(क-अ)ल्पीय (स् >) सी-
 -सी आश्रौ ७, ५, १२
 एका(क-अ)वदान-त्व- -त्वात् मीस्
 १०, २, ७, १०
 एक(क-अ)वम^० - -मानि ऋप्रा १६,
 ६
 एका(क-अ)वर^० - -रम् वैगृ १, ३
 १७
 एका(क-अ)वसान, ना^० - -नम् अत्र
 ५, १६^१, -ना अत्र ५, ६, ६,
 ८३, १२३, १३६, ७, २२, ११६,
 ८, १, ९, १, ५, १०, १, १०, ११,
 ५, १२, २^३, १८, ३, १९, २१,
 ३८, -नाः अत्र ५, २६, २७,
 ९, ३, १८, ४, १९, २२, २३, २७,
 ४५, ६९, २०, २, अप ३ २४,
 -नानि अत्र २, १९, -ने अत्र
 १, २६, २, १७, १२, १, १८, ४,
 १९, ५१
 एका(क-अ)वाञ्च^० - -वाञ्चि निस्
 १, ६ - १३^६.
 एका(क-अ)शीत्य(ति-अ)धिक^० -
 -कम् ऋश्र ४, ३.
 एका(क-आ)श्रम- > एकाश्रम्य-
 -म्यम् बौघ २, ६, २९, गौघ ३,
 ३६.

एका(क-अ)ष्टका^१ -का लाश्रौ १०,
 १, ७, आपमं २, २०, ३५^१,
 ऋश्रमिष्ट ३, २, ६: ३, ६, आपगृ
 २१, १०, बौगृ २, ११, ६०, भागृ
 २, १५ २, १७: ४^१, ११, हिगृ
 २, १४, २, ५^१, १५, ९^१, गोगृ
 ४, ४, ३२^१, द्रागृ ३, ५, ३८^१,
 अत्र ३, १०^१, -ऋकाम् बौश्रौ
 १६, १३: ८^१, आपमं २, २०,
 ३३, आमिष्ट ३, २, ६: १,
 भागृ २, १७ २, हिगृ २, १५,
 ९, -कायाः आपश्रौ ६, ३०, ७,
 २०^१, भाश्रौ ६, १७, १९, १८,
 ८, -कायाम् काश्रौ १३, १, २,
 आपश्रौ १६, १, १, २१, १५, ४^१,
 बौश्रौ १४, १३: २२, २४, १६,
 १३ ४, ६, माश्रौ ५, २, १०,
 ३८, ३९, ६, १, १, १, वैश्रौ १८,
 १. ७, वैताश्रौ ३१, ४, बौगृ
 १, १, १२, गो १, १०, २, ८,
 -कायै जैगृ २, ३: ४^१, -ऋकं
 आपमं २, २०, ३४, आमिष्ट ३,
 २, २: ५, भागृ २, १५. ७,
 मागृ २, ८, ४, हिगृ २, १४, ४
 एकाष्टका-दीक्षिन्- -क्षिण.
 द्राश्रौ ८, ४, २५, लाश्रौ ४, ८,
 २१
 एकाष्टका-श्रुति- -ते मीस् ६,
 ५, ३२.
 १ एका(क-आ)सन- -ने आश्रौ ७,
 २, १५, द्राश्रौ १२, ४, ५, लाश्रौ
 ४, १२, ५
 एकासन-स्थ- -स्थ शागृ ४, ८, ६-
 एकासनो(न-उ)पवेशिन्- -शी
 विघ ५, २०

a) एकार्थे इति कासं. । b) विप. । बस. । c) चस इति शाबरभाष्यम् । d) विप. । बस. > कस. ।

e) = वानप्रस्थ-विशेष- । बस । f) 'नैक' इति पाठः ? 'नमे (म, ए)' इत्याकारक शोधः । g) पामे. पृ
 २०२ g द्र । h) विप । बस. > बस. । i) वैप १ द्र. ।

२एका(क-आ)सन^a- -नः विध २८,
०७

एका(क-अ)ह^b- -ह. आश्रौ ५, १५,
१५, ९, १, ३, ११, १, २, शाश्रौ
१३, २४, १६, १५, १, ३९, २,
३१, १६, ८, ६, १७, काश्रौ ८, २,
३७, बौश्रौ २६, २२ : १, माश्रौ,
-हम् आश्रौ १०, ५, ९, काश्रौ
१३, ४, ९, आपश्रौ ५, ३, २३, ७,
१४, बौश्रौ १८, ३२. २, २३,
१२ २४, वैश्रौ १, ६. १०,
हिश्रौ ३, २, ५८, निस्, -हस्य
शाश्रौ ११, १५, ९, बौश्रौ २६,
२२ ३, -हा आश्रौ ९, ८,
१५, १०, १, १०, काश्रौ २२, १,
१, २३, ५, ९, २४, ४, १७, बौश्रौ
२६, १ २, ३०. १, वैताश्रौ
४२, १२, निस् २, १ ३५, ३,
७ १४, ६, २ १, ८, ८ १६,
-हात् शाश्रौ ११, ४, १२, ५, ३,
६, ४, ७, ७, ६, १०, ११, वैध ३,
६, ७, मीस् ८, ३, १२, -हान्
आश्रौ १०, १, १३, -हौइति^c
बौश्रौ १६, २७. २४, -हानाम्
आश्रौ ४, २, १६, ८, १३,
९, १, ३, शाश्रौ ९, १, १,
आपश्रौ २४, ४, ३, बौश्रौ २३,
१८ २२, २९, १०. २४, निस्
६, ९ : १९, ८, ८ : १७, -हानि
अप्राय ३, ९, -हाय हिश्रौ
१६, २, ५, -हे आश्रौ ८, ४,
१७, शाश्रौ १३, १९, ३, १५,
१२, ३, आपश्रौ, -हेन आश्रौ
९, ११, ३, १०, ५, २०,
बौश्रौ १, १ २, कप्र ३, ५, ९,
-हेभ्यः लाश्रौ ८, १, ४, -हेषु

आश्रौ ६, १०, २८, ७, ५, १३,
शाश्रौ ४, १४, २, १४, १, १,
आपश्रौ २२, १, ११, बौश्रौ २९,
४ १५, वैताश्रौ ३५, ६, ३९,
२, कौश्र ५, १, २, निस् ६,
२ ५, -हे निस् ३, ७
१४, १०, ८ २२, -हौ क्षस्
२, ९ : २४, निस् ७, ८ २४,
११ २४, १२ १७, -हौऽहौ
जुस् २, ९ : २७

एकाहिक, का- -क आश्रौ
७, २, ८, १०, १०, ४, ६, बौश्रौ
२२, ३ ७, २३, ११. १८,
-कम् आश्रौ ७, १, २२, ८, २,
१६, ३, ३४, १०, ५, २२, १०, २,
४, शाश्रौ ११, १०, ६, १३, १७,
१२, ५, २४, १४, १, ३, ३, १४,
८, ७, १५, १, ३८, २, ३०, १६
७, १३, १५, १४, २, ४, १७, ८,
१३, १८, २०, ८, बौश्रौ २२, ३
६, २६, १० १७, लाश्रौ ६, ९,
१६, निस् ८, ९ ११, १०.
२३, ९, ३ : २५, ९ : ४१, मीस्
७, ४, १३, -कयो शाश्रौ १६,
८, ५, -कस्य शाश्रौ १२, ४-५,
१, जैश्रौ २१. २१, लाश्रौ ८,
२, २०, -का. आश्रौ ७, ५, १४,
९, २, ५, १०, १०, ३, जुस् २,
१६ : ३, ७, ९, निस् ३, ६ ३४,
-कान् आश्रौ ६, ९, ६, शाश्रौ
११, १०, ७, १५, ७-८, १, निस्
६, ७ : ४३, -कान् शाश्रौ १२,
६, १९, ८, २, १५, ७, ९,
-कानाम् आश्रौ ९, १०, १४,
वैताश्रौ २५, १०, -कानि आश्रौ
८, ४, ३, १६, १०, १०, ६,

शाश्रौ १२, ११, १७, २४, ५,
वैताश्रौ ३३, १९, निस् ५, २.
१८, ७ : १५, ७, ३ : १०;
८, ५ १२, -काम्याम् शाश्रौ
१५, ८, २, -के आश्रौ ८, ५,
५, ९, ८, २१, १०, १०, शाश्रौ
१६, ७, १४, १६, १४, ३, ५,
बौश्रौ २४, ३९ ९, द्राश्रौ ८,
३, ३५, लाश्रौ ४, ७, १३, ६,
९, ११, निस् ९, ४ : १२^d,
-केन लाश्रौ ९, ४, १८, -केषु
शाश्रौ १६, ८, १६, -कौ आश्रौ
८, ६, २०, ७, ९, ११, शाश्रौ १२,
११, १३

एकाहिकी- -की निस्
९, ३ : २२, -कीभि शाश्रौ
१०, ७, १४, १२, ६, १८, -क्य.
लाश्रौ ८, ७, १२

एकाहिक-शस्त्र^e- -स्त्राः
शाश्रौ १४, ८४, ४

एकाहिक-शस्य^e- -स्या-
आश्रौ १०, १, ९.

एकाह^e- -ह्यात् निस् ३,
६ : ३३, ३५.

एकाह-क्लृप्त- -सः निस् ८,
१० ४७, ९, १ २, ६ : १४.

एकाह-गम- -म पा ५, २, १९

एकाह-तन्त्र- -न्त्रात् निस् ८,
९ : ८, १३, ९, ४ : १९

एकाह-व्यह- -हम् निस् ८,
१२ : ३.

एकाह-द्वादशाह- -हयो काश्रौ
१२, १, १

एकाह-न्याय- -येन निस् ७,
८. २८

एकाह-प्रभृति- -ति आश्रौ ४,

a) विष । बस. । b) = याग-विशेष-, एकदिन- । तद्धितार्थे द्विस. वा कस. वा । c) -ह. इति >
-इ इति > यनि. प्लुतो अनुनासिक आर्षः । d) ए० इति पाठ. ? यनि. शोध । e) विप. ।

२, १४
 एकाह-भूत- -तस्य शाश्रौ १२,
 २, २६, ६, १९
 एकाह-मध्य- -ध्ये काश्रौसं २७.
 २
 एकाह-याजिन्- -जिन बौश्रौ
 १४, ४ ३२, २६ २१
 एकाह-वत् काश्रौ १२, २, ११,
 मीसू ७, ४, १३, १०, ६, ४
 एकाह वश- -शेन निस् ५, १
 ११
 एकाह-संनिपात- -ते वैगृ ७,
 ४ : ९
 एकाह-समाप- -सम् निस् ९,
 ३ : २५
 एकाह-स्तोम- -मः निस् १०,
 ७. ३
 एकाहा(ह-आ)तान^a- -न शाश्रौ
 १७, ९, ४, १८, २२, ३
 एकाहा(ह-अ)र्थ- -र्थे आश्रौ ११,
 १, ९, शाश्रौ १३, १५, १, काश्रौ
 २४, १, ५.
 १ एकाहा(ह-अ)होन^b- -नः निस्
 ९, ९ : ३९; ४०
 २ एकाहा(ह-अ)हीन- -नयो.
 जैश्रौका १४०
 एकाहा(ह-अ)हीन-सत्र- -त्रेषु
 वाश्रौ १, १, १, ६६
 एकाही/भू > एकाही-भवत्-
 -वत् शाश्रौ १३, २४, १७, -वत्सु
 आश्रौ ८, ४, १४, १५, ९, २, ५.
 ३ एका(क-अ)हन्- -ह्नि निस् १०,
 ६ : १५०.
 एका(क-आ)हवनी(य >)या^d-
 -या काश्रौस ५ : २.

एकाहवनीय-पक्ष- -क्षे काश्रौस
 ५ ४
 एका(क-आ)हुति- -तिम् हिश्रौ
 ११, ७, ५३, १२, ५, ८, ७, ७,
 १५, ७, ११, -त्यै वायूश्रौ ३,
 २२ : १०
 एकिन्- -किनि लाश्रौ ६, ६, १२,
 १३, -किषु लाश्रौ ६, १, १८,
 -कीनि लाश्रौ ८, ५, २३, २४
 एकिनी-> णी-पर्याय-
 -या लाश्रौ ६, ५, ९
 एकि-प्रभृति- -तयः लाश्रौ ६,
 ५, १६, १८, निस् १, ८ ५, २४,
 ९ ७, १२, २५, -तीन् लाश्रौ
 ८, १२, ६
 एकी/कृ > एकी-कर्तुम् कासु ६, ७
 एकी-कृत्य बुदे २, ११३, शैशि
 ३३३
 एकी/भू, एकीभवति ऋप्रा २,
 ३४, ११, ३९
 एकी-भाव- -व शुप्रा ४, १३२,
 माशि ६, २, -वम् या १, ३,
 -वे ऋप्रा ३, ११, नाशि १, ३, १
 एकी-भाविन्- -विनाम् ऋप्रा ३,
 १५
 एकी-भूत- -तम् उसू ८, ९.
 एकै(क-ए)क, का^e- -क आश्रौ ३,
 ६, २५, काश्रौ; -कम् आश्रौ १,
 ५, ३××, शाश्रौ; काश्रौ १५, ८,
 १८^f; -कया शाश्रौ ४, २१, ५,
 १४, १६, १३, ५, काश्रौसं,
 -करमात् वैश्रौ ६, ५ : २, हिश्रौ
 २, १, २६; द्रागृ ३, ४, २१,
 -कस्मिन् आपश्रौ १, ९, ७××;
 भाश्रौ, -कस्मै लाश्रौ ९, १, ९,

६, ४, ११, ३, कौमू ७२, १२;
 अप ९, ४, ६, -कस्य आश्रौ
 ७, ५, २१, काश्रौ, पा,
 पावा ८, २, ८६, -कस्यऽ-
 कस्य लाश्रौ ८, ८, ४८, -कस्याः
 शाश्रौ ८, ७, ८, आपश्रौ २०,
 १५, ८, या ७, ५, -कस्याम्
 बौश्रौ २०, १४ १२, १८ :
 २२, २९, जैश्रौप ५, लाश्रौ ६,
 १, १, -कस्यै शाश्रौ १, १७, ७;
 बौश्रौ १३, २८ : ९, २९ : ६;
 माश्रौ ५, २, ३, ४, वाधूश्रौ ४,
 ६ २, हिपि २०. १२, १४;
 -का आश्रौ २, १९, २८, शाश्रौ,
 -काम् आश्रौ ४, ८, ५, शाश्रौ,
 -केन आश्रौ १२, ५, १७-१९;
 शाश्रौ
 एकैक-तस (.) हिश्रु ३, ३१.
 एकैक-वर्ण-वर्ति-त्व- -त्वात्
 पावा १, ४, १०९
 एकैक-वासस^d- -ससः वौपि ३,
 ४, १६^h.
 एकैक-शस (:) आश्रौ २, ६,
 ४××, आपश्रौ
 एको(क-उ)च्च^d- -च्चम् ऋन ३, १,
 २.
 एको(क-उ)च्चय- -येन काश्रौ २३,
 १, ५, २, १८, २४, १, २, गौष
 २७, १४.
 एको(क-उ)च्छ > ङा- -ङानाम् विष
 १५, ४१.
 एको(क-उ)ति^e- -तेः वाधूश्रौ ३,
 १८ १, १४.
 एको(क-उ)त्कर्ष- -र्वेण ऋप्रा १७,
 ४४.

a) षस. उप. = विस्तार- (तु वैप २, ३खं.) । b) एकाहविशिष्टः अहीनः इति कृत्वा मलो. कस. ।

c) पाठ ? एकाह-> हे इति शोष स्यात् (तु मूको) । d) विप. । बस. । e) वैप १ द्र । f) एकम् इति पाठः ? यदि शोष (तु. चौसं.) । g) एकवा इति B. । h) अर्थ. ? इति C. । वैप २, ३खं. द्र. ।

एको(क-उ)त्तर^a-रम् शाश्रौ ४,
१०, २, अप ५५ १, ४, -रा
शाश्रौ १६, १९, १, ३०, १२,
-राणि शाश्रौ १३, १४, ९,
वाधुश्रौ ४, १०० २, निस् १,
६ ११, ऋप्रा १६, ५, -रान्
आपश्रौ १६, १७, १६, वैश्रौ
१८, १४. ३०, आपशु ८, ८,
दिशु ३, १०
एकोत्तर-वृद्धि- -द्धिः आमिष्ट
३, १०, ५ : ३, बौग ३, १२, ९,
हिपि ८ ७, गौपि १, ४, १०
एको(क-उ)त्सर्ग- र्गम् काश्रौ ७,
७, १२
एको(क-उ)दक^b-कम् सु ९, ४.
एको(क-उ)दात्त^c-त्तम् शुप्रा २,
१, अप १, १, ५
एको(क-उ)हिष्ट^d-ष्टम् कौग ३,
१४, ११, शागृ ४, २, १, आमिष्ट
३, ३ १ : १२, १०, ३ . ५, ११,
२ . १, १२, १ : ७, बौपि ३, ४,
२५, ५, २, ९, ६, वैगृ ५, ७ :
१३, १३ १, २७, ७, ७ : ३,
८, गौपि २, ६, १, अप ४४, १,
३, ७, १२, शेष १९०, २४०,
-ष्टात् वैगृ ५, १४ २, -ष्टे आगृ
४, ७, १, आमिष्ट ३, ३, २ १३,
बौगृ ३, १२, १३, बौपि २, १०,
१, ७, अप ४४, ४, ६, विघ २१,
२, -ष्टेन कप्र ३, ५, १३, -ष्टेषु
बौगृ ३, १२, ६, बौपि २, ९, १
एकोहिष्ट-निमित्त-आह- -हे
वैगृ ७, ७ ३
एकोहिष्ट-वत् आमिष्ट ३, ३, २
२९, बौपि २, ११, २, वैगृ ४,
४ . १

एकोहिष्ट-आह- -द्धम् आमिष्ट
३, ११, १ १४, वैगृ ५, १३ : ५,
-हे आमिष्ट ३, ३, २ . १३
एकोहिष्ट-सूतक-सूतक- -केषु
शव ४७
एको(क-ऊ)न, ना- -नम् अप ७०,
२, २, वेज्यो ३०, -ना वाश्रौ २,
२, २, ९, ऋम, -ना मैत्र २१,
-नानि काशु ६, ७, -नौ लाश्रौ
१०, १०, ७
एकोन-चत्वारिंशद्-रात्र- त्रेण
हिश्रौ १८, २, १६
एकोन-त्रिंशत्- -शत् लाश्रौ
१०, ६, ६, निस् ५, ३ १५,
विव ९६, ८४, शुभ २, २१२
एकोनत्रिंशद्-वा बौशु २ :
२२^e
एकोन-नवति- -ति अम १८,
४, अप ४ ४१
एकोन-पञ्चाशत्- -शत् शुभ ३,
६, अम ४, २९, नाशि १, २, ४,
-शतम् शेष ११६ ५५
एकोन-विंशत्^d- -शत् वैश्रौ
१७, ६ १०
एकोन-विंशति- -ति अप ४६,
१०, १६, ४७, ३, ६, अम २०,
४७, वेज्यो १९, -तिम् आज्यो
९, ५, -त्या काशु ७, ३८
एकोनविंश- -शम् अप १९^e,
५, ९, ४१, ५, ७
एकोनविंशति-लिङ्गोक्त-देव-
(ता>)त^f- -तानि शुभ २,
१८८
एकोन-शत- -तात् वाश्रौ ३,
४, २, ६
एकोनशत-रात्र- -त्रात् आश्रौ

११, ४, ८
एको(क-उ)न्नत- -तम् वाधुश्रौ ४,
९० १०, -ते वाधुश्रौ ४, ९०. ९.
एको(क-उ)पक्रम-त्व- -त्वात्
आपश्रौ ८, २२, १७
एको(क-उ)पचय- -यम् काश्रौ ७,
७, १४, -येन बौध ३, ८, २७
एको(क-उ)पदिष्ट- -ष्टम् पावा १,
२, ६४
एको(क-उ)पवास- -सम् वैगृ ६,
१५ . ७, १२
एको(क-उ)पसर्ग^g- -र्गात् या ७, ९.
एको(क-ऊ)ध्वंद्वा^h- -रम् अप
२१, ४, ५
एको(क-उ)लमुक- -कम् आश्रौ २,
६, २, आपश्रौ १, ८, ७, १०, १४,
८, १७, ८, १२, १८, ८ ९, १६,
बौश्रौ ५, १६ ५१, ९, १२, १ :
१२, १६, ४ ११, १३, १४,
१३ २७, २८, भाश्रौ १, ८, ५,
८, २१, ५-७, माश्रौ १, ७, ६,
१४, ७, ३, वाश्रौ १, २, ३, १, ७,
८, ६, ६१, ६३, ३, १, ७, १८,
वैश्रौ ९, ६ ५, १० १५, ११
२, १०, १५ ९, हिश्रौ २, ७,
१७, ५६, ५, ४, ३७, ५, ७, ११,
१३, ३, १८ ३३, -कस्य बौश्रौ
२१, ५ : २२, २२, १६ ८,
-केन आमिष्ट ३, ५, ६ : १०,
बौपि १, ४ २५
एकोलमुका(क-आ)हरण- -णम्
वाश्रौ १, १, १, २२
एकौ(क-ओ)दन- -नम् बौश्रौ १८,
८ : ११
२एकⁱ- (> ऐकायन-, ऐक्य- पा)
पाग ४, १, ९९, १०५

a) विप. । बस । b) = आह-विशेष- । बस । c) °शत्रा इति पाठः १ यनि. शोध (तु.
द्वारकानाथ-यज्वा) । d) कस. उप = विंशति- । e) विप । बस. > कस. । f) व्यप. । व्यु १ ।

एक-कुणिक- -कौ आपध १, १९,
७, हिध १, ५, १०९
एकल^१- (> ऐकलव्य-> ऐकलव-
पा) पाग ४, १, १०५, २, १११
एकविन्दु^२- > ऐकविन्दवि- (>
वीय-) उपविन्दु- टि द्र
एकव्यम् वाश्रौ ३, २, ६, ४६
एकशफाष्टसन्धीनाम्^३ सुध ३४
एकवदिष्टं त्वयं मासपूजादधा-
ज्युदुलिकापिष्टेका^४ वाश्रौ ३,
२, ५, २६.
एकागरगीर्णिन्^५- -र्णिन् चाञ्च
४० १३
एकानसि^६- पाउभो २, १, २३९
एकापरम्^७ वाधुश्रौ ४, २९ १७.
एकारिणाम् अप १, ६, ५
एग^८- (> ऐग्य^९- पा) पाग ४, २,
८०
एज् पाधा भ्वा आत्म दीप्तौ, पर
कम्पने, ऋजुजति शाश्रौ १६, ४,
२^१, आपम २, ११, १६, आमिष्ट
२, १, ३ ३, कागृ ३३, २,
बौगृ २, ८, २९, भागृ १, २२
१२, ३, १३ १०, हिगृ २,
३, १, कौस् ११५, २, अत्र १०,
११, शुप्रा ४, ५७, निघ २, १४,
या ३, १५, ऋजुजत शाश्रौ १२,
२४, २, लाश्रौ ९, १०, ५,
एजन्ति अप ७०^३, ८, ४^४,
एजाति माशि ८, १^५, ऋजुजतु
आश्रौ १०, ८, १२^६, १३; काश्रौ
२५, १०, ५, लाश्रौ ९, १०, ३^७,

४, आपम २, ११, १६, पागृ १,
१६, १, आमिष्ट २, १, ३ ३,
कागृ ३३, २, भागृ १, २२
१३, हिगृ २, ३, १, शुभ्र १,
५१६
ए(ज>)जाय^१ आपम २, १६,
१, भागृ २, १७ ७
ऋजुजत्- -जत् बौगृ २, १, ७, भागृ
२, ७, १, कौस् १३३, ३, १३५, ९
ऋजुजत्-(क >) का^२- -का
आपश्रौ १९, १२, १२, बौश्रौ
१९, ३ ३२, हिश्रौ २३, २, २३
एज्य- पा ३, २, २८
ऋजुज्यत्- -यन् आपश्रौ १४, २९,
३^१
एजि^२ - (> ऐज्य- पा) पाग ४,
१, १५१
एज्या- आ/यज् द्र
एज् पाधा भ्वा आत्म विवाधायाम्
एडक^३- पाउभो २, २, ११०, पाग
४, १, ४, -क हिश्रौ १५, ३,
२५
एडका- पा ४, १, ४, पावाग ७, ३,
४५
एडक- कम् आपध १, १७, २२
हिध १, ५, ५४
एडकी- -क्या आपश्रौ १५,
१७, ५, १७, ११, ३, भाश्रौ ११,
१७, ७, वैश्रौ १९, ६ २९
हिश्रौ १२, ३, ३
एण- पाउभो २, २, १२२.
एणी^४- -णी वाधुश्रौ ४, ३०:१०;

तैप्रा १३, १२^५, -ऋणी:
आमिष्ट ३, ८ २:३८, बौपि
१, १५. ४५, हिपि १५:
१५
ऐण्य- पा ४, ३, १५९, -यम्
पागृ २, ५, १७, कागृ ४१, १३,
भागृ १, १ ७, वागृ ६, २८;
जैगृ १, १२. ५०, ५१, आपध
१, ३, ३, हिध १, १, ७५, -येन
आगृ १, १९, १०, कौगृ २, १, १;
शागृ २, १, २
ऐण्य-रौरवा(व-आ)ज-
-जानि गोगृ २, १०, ८
ऐण्य-हारिण- -णानि
कौस् ५७, १०
एणी-पद- पा ५, ४, १२०
एत्- (> ऐत्-पा) पाग ५, ४, ३८^५
एत- ए (आ/इ) द्र
एत^६- पाउ ३ ८६, -ता शुप्रा
२, ३५
एनी- -नी आपश्रौ २२, १५,
८
एत-य^७- -य निघ १, १४
एत-प्रतिषेध- -धे पावा २, १, ६९.
एता(त-अ)न्वय^८- -य अप ३,
३, ५
एत^९- (> एती^{१०}- पा.) पाग ४,
१, ४१
एत, ता- एतद्- द्र. १
एतद्^{११}- पाउ १, १३३.
रक्ष-> अ-तस् () आश्रौ १,
३, ३०; ४, ८xx, शाश्रौ; माश्रौ

a) व्यप । व्यु ? । b) पाठः ? फोष्टसन्धिनीनाम् इति शोध (तु. गौध १७, २२, २३) । c) पाठः ? सप्र. आपश्रौ २१, १७, १६ बौश्रौ १६, २१:५ हिश्रौ १६, ६, २१ प्रष्ट विशिष्ट पाभे. । d) = उज्जयिनी- । व्यु. ? । e) पाठ ? एकपर-> -रम् इति संस्कर्ता । f) अर्थ. व्यु. च ? । g) = देश-विशेष- ? । h) पाभे. वैप १, १०५४ ० द्र । i) पाभे. वैप १, १०३८ d द्र । j) छान्दसो दीर्घ. । k) = सिक्ता- । व्यु. वैप १ द्र. । l) पाभे. वैप १, १०३८ i द्र. । m) <√एज् इति M.W. । n) = मेप- । व्यु. ? । o) <√ईइ इति । p) वैप १ द्र. । q) तु पाका । एनस्- इति भाण्डा. । r) पूष अर्थ. ? । उप = वंश- । s) एनी- इति BPG. ? ।

१, ५, २, १२^६, पा २, ४, ३३,
पावा ७, ३, ८५.

अत. प्रभृति- -ति वैश्रौ
१३, ४, ११

अतोदेवा(व-आ)दि^६- -दि
वैगृ १, ५. १, २, २ ६

अत्र, चा आश्रौ २, ६, १५, ७,
१××, शाश्रौ. या १२, ३८^६,
पा २, ४, ३३, ५, ३, १०

अत्र-अहण- -णम् पावा ६,
४, २२

अत्र-भक्षित- -त वाधूश्रौ
४, ४९ ५

अत्र सस्थित- -तेन वाधूश्रौ
४, ६९ ३, ७६ ५

अत, ता- -तम् आश्रौ १, ३, २३,
४, ६, ३××, शाश्रौ, आपश्रौ ७,

१७, ५^६, ९, १०, १७^०, १०, १०,
३^६, १३, ७, १६^६, -तया आश्रौ

५, ३, २५, आपश्रौ, -तयो
आश्रौ १, १३, ९, वाधूश्रौ,

-तस्मात् काठश्रौ १२८, वाधूश्रौ,
-तस्मिन् आश्रौ २, १६, ३, ५,

७, १××, आपश्रौ, -तस्मै
वाधूश्रौ ३, ९९ : ७, -तस्य

आश्रौ १, १, १, २, १९, ८××,
आपश्रौ, -तस्या आश्रौ ४,

१३, १, शाश्रौ ९, ६, १२, १०,
१३, ६, लाश्रौ ७, १३, २, या ६,

२, -तस्याम् आश्रौ २, १८, ८,
वौश्रौ, -तस्यै शाश्रौ ६, ३, ६^६,

आपश्रौ ६, १८, ३^६, वौश्रौ,

-ता आश्रौ ५, ७, ५, शाश्रौ ७,
६, ६, -ता. आश्रौ २, ७, ७^६, ४,

८, ७, १४, २, शाश्रौ, आपश्रौ २,
१०, ४^६, १८, १३, २१^६, वाश्रौ

३, २, ५, ३३^६, वैताश्रौ ३४,
९^६, -तान् शाश्रौ ४, १६, ३,

वौश्रौ ६, ३४ ८, वाधूश्रौ,
-तानि आश्रौ १, ६, १, २,

१४, १२××, आपश्रौ, -ताभिः
आपश्रौ ३, १४, २××, माश्रौ,

-ताभ्याम् आपश्रौ ३, ८, ५
माश्रौ, -ताभ्य. वाधूश्रौ ३,

४५ १२, आगृ १, २, ४,
-ताम् आश्रौ १, ६, १, ३, ८,

१^२, १०, १६^०××, आपश्रौ
माश्रौ ३, ४, १०^६, -तासाम्

आपश्रौ १९, १८, ८, वाधूश्रौ
-तासु आश्रौ ५, ४, ७, वाधूश्रौ,

-ते आश्रौ १, ३, ३२, ५, २××,
आपश्रौ, वैताश्रौ २०, ४^६,

हिगृ १, १७, ४^६, -तेन आश्रौ
१, २, २३, १०, ४××,

आपश्रौ, -तेभ्य वाधूश्रौ ३,
९२ ६, वौगृ १, २, ६६, ३,

१, १५ या ७, ९^६, २५, पा ५,
४, ८८, पावा ३, १, २२, -तेषाम्

आश्रौ २, १, ११, ३, ८, ६××,
शाश्रौ, -तेषु वाधूश्रौ ३, १०२.

४, द्राश्रौ, -ते आपश्रौ १, ९,
१ २५, १५××, वाधूश्रौ, -तौ

आश्रौ १, ५, ३२, वाधूश्रौ
ए(तक>)तिका- -कासु पावा

७, ३, ४४

एतद्- -तत् आश्रौ १, १, ७, २४××;
शाश्रौ, -तत्-तत् हिश्रौ २, ४,

२८, -तद्. पा २, ४, ३३, ५,
३, ५, पावा ५, ३, ५^६

एतच्-चूर्ण- -र्णात् अप ३५,
१, १७

एतज्-ज्ञान- -नम् ऋञ्ज १, १, १.
एतत्-तद्- -तदो पा ६, १,

१३०
एतत्-तीर्थ- -र्थानि वौश्रौ १३,
१ : ५

एतत्-त्रय-विसंयुक्त- -क्तः
विव ५५, १४

एतत्-पक्ष- -क्षौ वौश्रौ १८,
३८. ६, १४.

एतत्-परोक्ष- -श्वाग्नि निस् ४,
१३ : ११

एतत्-पवित्र^६- -त्र. वाधूश्रौ ३,
२५ ८

एतत्-पुरस्तात् आमिगृ ३, ८, १:
१८

एतत्-पुरोडाश^६- -शय वैश्रौ
१७, १२ ५

एतत्-पृष्ठ^६- -ष्ठेणु आश्रौ ५, १५,
१०

एतत्-प्रकम्प- -न्पानाम् अप
६२, १, ९

एतत्-प्रथम- पा ६, २, १६२.
एतत्-प्रभृति -तयः माश्रौ ५

२, १६, १५, लाश्रौ ९, १२, ५,
-ति हिश्रौ ९, ४, ४४, -तिवा

a) पासे वैप १ परि अद् काठ ७, १२ टि द्र । b) विप । बस पूष <अतो देवा. (ऋ १, २२, १६)
इति । c) पासे. वैप १, १४१४ a द्र । d) पासे वैप १, १०४१ b द्र । e) पासे. वैप २, ३३३ एतुम् तैत्रा
१, ४, ४, १० टि. द्र । f) पासे वैप १, १०४१ ० द्र । g) पाठ. १ सा इति शोध (तु. वैप १ परि. १९५ मै १,
१०, ३ टि) । h) पासे वैप १, १०४३ f द्र । i) पासे वैप १, १०३० ० द्र । j) पासे पृ ५९४ ० द्र ।
k) ०रेताम् इति पा १२, एताम् इति च्छेदः । l) पाठः १ तान् इति शोध. (तु. आश्रौ [५, ५, २१], ८. च) ।
m) पासे. वैप १ पुन शौ ७, ६९, १^३ टि. द्र. । n) विप । बस. ।

वैप-द्वि-७

गोष्ठ ३, ४, १९, -तिभि द्राश्रौ
 ५, ३, २३, ६, ३, २०, लाश्रौ २,
 ७, २०, ११, १४, गोष्ठ २, १,
 २३, ३, ६, ३, ८, ३, १०, -तीनि
 आश्रौ ४, १३, ७, हिश्रौ ९,
 ७, ६२, अत्र ७, १
 एतत्-प्रमा(ण>)णा^१- -णाम्
 कप्र १, २, १२
 एतत्-फल^१- -ल जैश्रौ १ १८
 एतत्-सप्तद्वि^१- -द्वयः बौश्रौ
 २४, ३८ ६
 एतद्-अविन^१- -नीनि बौश्रौ
 २३, ७ १९
 एतद्-अधि(क>)का^१- -कया
 द्राश्रौ ७, १, २२, लाश्रौ ३, १,
 २२
 एतद्-अनुख्य^१- -ख्यानि बौश्रौ
 २४, १० १६
 एतद्-अन्त^१- -न्तम् वाश्रौ १,
 ३, २, २, निस् ५, ८: ७^१, ६, ७.
 ३३, ७, ४: ४३, ऋअ २, १,
 १६४, शुअ ३, ४४, -न्ताः शुअ
 ४, ८१
 एतद्-अर्थ- -र्थम् आपश्रौ १२,
 १४, ११
 एतद्-अह -कर्मन्- -र्मे आम्रिगृ
 ३, २, ४: १०^१, ६ १५, ७:
 १४.
 एतद्-अहर-व्रत-परिमाण^१-
 -णम् हिश्रौ १०, ३, ३६
 एतद् अह -स्नात- -तानाम्
 भागृ २, १८ ८
 एतद्-आदि- -दय आपध १,
 १३, ८: हिध १, ४, २२, -दि

आपश्रौ ××१३, १६, १२^१, वैश्रौ
 १४, ३ १०, हिश्रौ २३, २, ४,
 आम्रिगृ, -नीनि आपध १, १३,
 ९, हिध १, ४, २३, ऋअ २, १,
 ९९, अत्र ५, ६
 एतद्-उत्थ- -त्थे अप ५२, १६,
 ६
 एतद्-देवता-> °वत्य, त्या-
 -त्या निस् ७, ४: ७, -त्येषु
 निस् ७, ४ ८
 एतद्-ध्यान-युक्त- -क्त ऋगृउ
 ४२ १
 एतद्-भक्ति^१- -क्ति निस् ७,
 ४ ३०, ६ ३, १० २१,
 -क्तिनः निस् ७, ४ २.
 एतद्-रूप^१- -पस्य बौश्रौ १८,
 २४ ११, -पेभ्य निस् ४,
 २ ३६
 एतद्-वचन^१- -न. आपश्रौ ८,
 २२, १५
 एतद्-वर्जम् आपश्रौ १२, ७,
 १३
 एतद्-विद्^१- -विदम् आश्रौ
 ८, १४, १, -विदे आपगृ ९,
 ११
 एतद्-विद्वस्- -द्वान् आम्रिगृ
 ३, २, ६ १५, ७ १५
 एतद्-विपरीत- -नम् आपश्रौ
 १७, २३, ३, -ता नाशि १, ३,
 ११.
 एतद्-वृक्ष-> °क्षी(य>)-
 या^१- -याम् भागृ १, १ २
 एतद्-व्रत^१- -त हिगृ १, ८, ८.
 एतन् नामधेय^१- -या. बौश्रौ

२४, २७ २
 एतन्-महा-वृक्षा(क्ष-अ)प्र-
 -आणि शागृ १, ३, २
 एतन्-मास- -मासि बौश्रौ २४,
 ५: १२
 एतन्-सुख^१- -खम् बौश्रौ २२,
 २० २५
 एतन्-मूल^१- -लम् वैध २, ५, ९,
 -ला वैगृ २, ७. १४
 एतर्हि^१ बौश्रौ १४, १ १८,
 वाश्रौ
 एतल्-लक्षणो(ण-उ)पेत- -तम्
 अप ६२, २, ३, ३, ३
 ए(त>)ता दृक्ष^१- -क्षम् शध
 ११६: ५२^१, -क्ष्वास बौश्रौ
 १०, ५३ ६^३, माश्रौ ६, २, ५,
 २३.
 ए(त>)ता दृश्^१- -दृक् वाधश्रौ
 ३, ४६: ४, -दृड माश्रौ ६, २,
 ५, २३, -दृशम् वैशि ५६
 ए(त>)ता वत्- पा ५, २,
 ३९, -वत् आश्रौ ३, ५, ३, ८,
 १३, ३०, शाश्रौ, -वतः आपश्रौ
 १९, १३, १२, बौश्रौ २, ७ २४,
 १९, ५ २८, २१, ६ २१,
 हिश्रौ २३, २, ४५, -वता बौश्रौ
 ३, २८: २१, द्राश्रौ ३, १, ३, २,
 ६, लाश्रौ, -वताम् या १,
 २०, -वति बौश्रौ ११, ११: १८,
 १८, ४३: ८×४, -वद्भिः वाधश्रौ
 ४, १० ३^१ १४, ११९: ६, निस्
 ५, १२ ३, -वन्त बौश्रौ १०,
 ४८ ११, वाधश्रौ, या १, २०;
 -वन्तम् वैश्रौ ९, ७: २, -वन्ति

- a) विप । बस । b) °न्तत° इति पाठ ? यनि च त° इति च शोधः (तु अश्रीयं स्थलम्) ।
 c) °व तदह° इति पाठ ? यनि शोधः (तु अश्रीयं स्थलम्) । d) कस > सस > षस । e) पाभे पृ ५९२
 ३^१ द्र. f) विप । उस उप. < ✓ विद् [ज्ञाने] । g) विप । विकारार्थे छ > ईय प्र. उसं. । h) वैप १,
 १०४९ ङ द्र. । i) वैप १ द्र. । j) = मरुद्-विशेष- । सप्र. अपु २१९, ३२ एतादृक् इति पाभे. ।

आपश्रौ १४, १९, ४, बौश्रौ २,
७ २४, २१, ६ २१, वाधूश्रौ,
-वान् आपश्रौ ८, १४, २२, ११,
३, ८, काश्रौस
एतावती-ती आपश्रौ
१९, १३, १२, हिश्रौ २३, २,
४५
एतावत्-त्व- -त्वम् आश्रौ
८, १३, ३४, अप्रा १, १, ४,
-त्वे शाश्रौ १३, १, ३
एतावद्-अह- -हे द्राश्रौ १,
३, ४, लाश्रौ १, ३, १.
एष, षा- -ष आश्रौ १, २, ४××,
शाश्रौ, आपश्रौ १८, १७, ११,
हिश्रौ १३, ६, १०^{१०}, -फा
आश्रौ ३, ७, ६××, शाश्रौ, या
१, १४
एषका-, एषिका- पा ७, ३,
४७
फेषो(षा उ) आश्रौ ४, १५, २,
शाश्रौ ६, ६, २
एतर्हि एतद्-द्र
एतवै, एतव्य- √इ द्र
एतश^b- पाउ ३, १४९, -फा ऋअ
२, १०, १३६, निघ १, १४,
-शो ऋप्रा १, ८८, -फो न
बौश्रौ ३, १९ १०, -शोभिः
बौश्रौ ६, १२ : १५फं,
एतशसु- पाउना ३, १४९
एतादृक्ष- प्रभृ एतद्-द्र
एतावादिना माश्रौ ३, ५, ३

एति- ए (आ/इ) द्र
एतिक- पाउभो २, २, १८
एतिका- एतद्-द्र
एते^c दवि २, ११
एतोस्() √इ द्र
एत्य ए (आ/इ) द्र
एत्व- प्रभृ ए-द्र
एदिधिषुस्^d- > षुः-पति^d-
-तिम् छप्रा ३, ३८फं^e
एद्यंतानात् वाश्रौ ३, २, ६, ३०
√एध् पाधा म्वा आत्म वृद्धौ,
एधते अप ६८, २, ११, ७०,
८, ४, विध ५१, ६८, फधति^f
शाश्रौ १२, १७, १, वैताश्रौ ३४,
९, फधन्ते आपमं १, ६, ८,
कागृ ३१, ४, बौगृ १, ५, १०
फधतु वैताश्रौ ३६, ३१^g,
आपम १, ९, ७^h, बौगृ १, ५,
१३ⁱ, फधन्ताम् पागृ १, ६, २,
आमिगृ १, ५, ४ ३, कागृ २५,
३२, भागृ १, १६ १३, मागृ
एधिष्येते कौगृ ३, १२, १७,
फधिषीमहि^j आश्रौ ३, ६,
२६, आपश्रौ ७, २७, १६, ८,
८, १८, १८, १०, १३, २२, ६,
बौश्रौ ४, ११ ५××, भाश्रौ
एधतु^d- पाउ १, ७७, -तु शाश्रौ
४, ५, १फं
फधमान, ना- -न आपम २, ११,
३२, -ना आपमं २, १३, १,
आमिगृ २, १, ४ : १६, भागृ १,

२५ ९, हिगृ २, ४, २, -ना
कौसू ८९, १३; -नान् या ६,
२२^k
एधमान-द्विष्^d- -द्विट् या ६,
२२फं

ए(आ/इ)ध्, न्ध्, फा - इन्धते
आश्रौ ६, ४, १०, ७, ८, १, शाश्रौ
१२, ११, २०, १८, ७, ६, आपश्रौ;
फा(इन्धते) शाश्रौ ३, १२, ७;
ऋअ २, ८, ४५, शुअ १,
४७४, साअ १, १३३
फा इधीमहि आश्रौ ७, ८,
१, शाश्रौ १२, १०, ११;
माश्रौ, वाश्रौ १, २, ३, ३५^l;
फा(इधीमहि) कागृउ ४० :
१, निसू ६, ७ : ५७, लाश्रौ
१०, ९, ९, साअ १, ४१९

एध-, एधस्- प्रभृ √इध्, न्ध् द्र
फधसम् बौपि १, १५ ८२^m

एधिकीयताम् अत्राय ६, ८

एधोदक- प्रभृ √इध्, न्ध् द्र

*एतद्^d-> एन, ना- न शुप्रा२, १३;

शौच ३, ८०, पा २, ४, ३४, -नम्
आश्रौ १, १२, ३६, ३, ३, १ⁿ;
शाश्रौ, आपश्रौ ३, १४, २^o,
भाश्रौ ३, १३, १^o, माश्रौ
२, ५, ५, २१^o, शागृ ३, २, ९^o;
हिगृ २, ९, ८^o, शध ३३^o,
अअ १५, ७^o, १०^o, ११^o,
निघ ४, २फं, या १, १०फं, १५,
१६, २०फं, २, १०, १२, १४, ५,

a) एषु इति पाठ^१ यनि शोध (तु सपा आपश्रौ १८, १७, ११)। b) वैप १ निर्दिष्टानामत्रसनिवेश
द्र। c) पाठ. १ एता (=श्रुती) इति शोध (तु मूको)। d) वैप १ द्र। e) पामे. वैप १, १०५४ I द्र।
f) सपा शौ २०, १२७, १० एधते इति पामे। g) पामे वैप १, १०५४ ० द्र। h) सपा हिगृ १, २२, १४
आजतु इति पामे। i) पामे वैप १, १०५५ b द्र। j) इधा^० इति पाठ^१ यनि शोध। k) पामे वैप
१, १०५५ a द्र। l) पामे वैप १, १०५७ d द्र। m) =तैत्रा ३, ३, ११, ३। संहिताया खल्वं द्र।
n) पामे वैप १ परि एतम् मा १८, ६० टि द्र। o) पामे वैप १, ७९३ b द्र। p) एवम् इति Boht [ZDMG
५२, ८७] शोधुकः। q) नान् इति पाठ. १ यनि शोधः। r) पाठः? ऐ(आ-ए)नम् इति शोधः (तु. सपा. शौ.)।

२८, १०, ८, ११, २, २३, ऋप्रा ५,
६०^३, -नया या ६ १२, -नयो
आश्रौ ५, ६, ५, वाधूश्रौ, -ना
शाश्रौ ६, ४, ७^१, काश्रौ, आपम
१, ९, ४^१, कागृ २५, ९^१, निघ
३, २९, या ३, २१^१, -ना शाश्रौ
४, १६, १०, बौश्रौ, ऋप्रा ५,
६०, -नान् आश्रौ २, ५, २^१,
१२×५, शाश्रौ १०, १५, ८,
बौश्रौ, लाश्रौ १०, १७, १३^१,
तया २, ११, ८, ८, ९, ७, ८,
१२, ४३, -नानि बौश्रौ १, ३,
८, ८ १७, लाश्रौ, -नाम्
आश्रौ १, ११, ७, २, ४, १३×५,
आपश्रौ, बौश्रौ ६, २७ ७^१,
निघ ४, २, या १, १३, १४×५,
-ने शाश्रौ ११, १४, १, बौश्रौ
१, ४ १८, गोयु, -नेन वाधूश्रौ
३, ३१ ३, या २, ५, ३, २१×५,
-तौ बौश्रौ १६, २६ ९, -तौ
वाधूश्रौ ३, ६९ २४, लाश्रौ ९,
४, ११, ४, ३९, पागृ

एनद्- नत्, द् आश्रौ ५, ४, ८,
७, ९, आपश्रौ २, ६, ७×५,
बौश्रौ, या १, ९, ८, १, ११, ४, ७,
पावा २, ४, ३४

एनस्- पाठ ४, १९८, पाग ५, ४,
३८^६, -न. आश्रौ १२, २, ३, ६,
५, १४, २४, ९, ३, १३, शाश्रौ,
-तंस आश्रौ २, ७, ११×५,
शाश्रौ, -नस ऽनस आपश्रौ १३,

१७, ९^१, -नसा आपश्रौ १३,
७, १७^१, बौश्रौ ८, ६ १४^१,
वैश्रौ १६, ८: ९^१, हिश्रौ ९,
२, १८^१, सु ११, ४, कप्र २,
२, ११, -नसि विध २८,
४९, -तंसले^१ आमिगृ १, ५, ४.
२२, ६, ३ ५, २, ७, ४ ७,
बौगृ ४, ११, २, वैगृ ४, १ १४,
६, ९ ४, -नस्सु वाव २२,
१५, बौध ३, १०, १७, गौध
१९, १९, -नासि बौश्रौ २१,
२४: १२, जैश्रौ २०. ४

ऐनस- पा ५, ४, ३८, -सम्
वाध २६, २, ३

ऐनस-विन्- -विन् वाध १, १८,
-विभि. विव ५४, ३१, -वी
गौध १२, ४२, वृदे ५, १५

ऐनो-निर्णोदन- -नम् शुअ ४, १९६

१एनी- २एत- द्र.

२एनी- -न्य अप ४८, ७६, निघ
१, १३

एमन्- √इ द्र

१पमुष- -षम् या ५, ४^१.

एयिचस्- ०युषी- ए(आ√इ) द्र
ए(आ√इ)ए, एरिरे निघ ४, १, या
४, २३^१

एरयन्ताम् कौस् १३३, २^१,
तपरयस्व^३ शाश्रौ १०, १६, ६^१,
आपमं १, ११, ६^३, आमिगृ^३ १,
५, ३. ११, ३, ९, ३. ८, कागृ
२५, २२^३, बौगृ १, ७, ४४^३, बौयि

२, ७, ६^३, भागृ १, १५. १३^३,
हिगृ १, २०, २^३, जैगृ १, २१
१२^३, तपरय आश्रौ १, ८, ७,
शाश्रौ १, १३, ४, १८, ११, २,
आपश्रौ ४, ११, १, बौश्रौ १,
१९: २७, भाश्रौ ३, ६, १, ४,
१६, २, हिश्रौ ६, ३, ३, पागृ १,
४, १६^३, आ ऐरयन् शाश्रौ
८, २५, १^१, आ ऐरयम् मागृ
२, ११, १२^१

एरयत्- -यन् अप १, ३८, ५

एर- पाठमो २, ३, २९

१एर(क>)का^१- पाठमो २, २,
११^१, (>ऐरक्य- पा) पाग
४, १, १५१

२एर(क>)का^१- -का बौगृ १, २, २,
-काम् बौश्रौ १७, ३९ १, २६,
आमिगृ १, ३, १ १, २ ११, २,
४, ६. २७, बौगृ १, ३, २०,
बौयि ३, ३, १२, भागृ २, १८
२, १४, जैगृ १, १९: २, ४, २०:
१२, १६, -कायाम् बौश्रौ १७,
४० ३, आपगृ १२, ३, जैगृ
१, ७ ४, २० १७

एरको(का-उ)पवर्हण- -णे बौश्रौ २,
८ ४, २३, ९: १३, ३, १०:
३, ५

एरण्ड- पाठमो २, २, ११७

एरा- पाठना २, २७

१एर्त्समान^१ अप्रा ३, ४, १^१.

एवार्ह- पाठमो २, १, १०१

a) एत्त्व द्र । b) पामे वैप १, १०५५] द्र. । c) एतान् इति ०. । d) ०नात् इति पाठः ? यनि.
शोधः । e) एना इति पाठ ? यनि शोधः । f) वैप १ द्र । g) पामे पृ ८०८ ० द्र । h) पामे. पृ ५९७
४ द्र । i) = नदी- । व्यु ? । <√इ [गतौ] इति दे. । j) पामे वैप १, १०६२ m द्र. । k) ऐरयस्व इति
पाठ ? यनि शोध. (तु सपा तैआ ३, ४, १; ० च) । l) पामे वैप २, ३खं ऐरयन् माश ११, ७, २, ६ टि. द्र. ।
m) पामे वैप १, १०६२ n द्र । n) ऐं इति पाठः ? यनि. शोधः (तु पामे वैप १, १०६२ n) । o) पामे.
वैप १, ६२७ ० द्र, यत्र मागृ यनि शोध. । p) व्यप । व्यु ? । क- इति पाका । q) = तृण-विशेष- ।
r) = [उर्णानिर्मित-] आस्तरण-विशेष- । व्यु ? ।

१एला^a- > एला-सिद्धार्थक- कै
अप १, ४५, ८

२एला- (> √एलाय पा) पाग ३,
१, २७

एलाक^b- (> ऐलाक्य- पा) पाग
४, १, १०५

एलूक- पाठवृ ४, ४१

ए(आ√ई)ळ्, ऋभा (ईळीत) शाश्रौ
११, ११, ७, ऋअ २, ५,
१७

३एव, > वा^c आश्रौ १, २, १, ५,
२६××, शाश्रौ, कौगृ १, ८,
१८^d, मागृ १, १०, १५^e,
हिगृ १, १५, ८^f, या १, १, १०,
१०^g, १३, १^h, १४, १८ⁱ,
एवो^j ऋप्रा २, ६६, ७, ३,
एवो (व-उ) आपश्रौ ६, २२, १^k
१एव- वे पावा ६, १, ९३

एव-कार-करण- पावा ३, ४, ६७,
११०

२एव- √इ द्र

एवम् आश्रौ १, ६, ४, २, ७, १८××,
शाश्रौ, वैश्रौ १७, ३ : १०^l,
हिश्रौ १६, २, १७^m, या १, ३, ५,
११, १४, ४, १६, ७, ३, ७,
१४, २९, ३०, ३३, पाग १,
४, ५७.

एवं-युक्त, का- -क्त माश्रौ ४, ७,
८, -क्ता बौगृ ३, ३, २२,
-क्तानि निस् ४, ९ १४

एवं-रूप, पाⁿ- -पम् आपश्रौ १२,
२, २, -पा. गोगृ ३, २, १७^o,
-पाणि आपश्रौ २१, २, ३, भाश्रौ

१०, १४, ६, वाधूश्रौ ३, ७६
११, हिश्रौ १६, १, २३, हिगृ
१, १७, ५

एवं-लि(ङ्) > ङा^p- ङासु आश्रौ
८, ६, २४

एवं-वर्णगुग^q- -गानाम् अप ६४,
८, ४

एवं-वाद^r- -द निस् ७, १३ : १२
एवं-विद्^s- -पित् वाधूश्रौ ३, ९
२२, १३ १८××, आगृ, -विद

वाधूश्रौ ४, २८ १०, १०७
३, -विदम् वाधूश्रौ ३, १९

१४, २७ १०××, -विदा
वाधूश्रौ ४, २८^t. ५, १०१ :

९, आगृ ४, ४, ७^u, -विदे
बौश्रौ २, १० : ४१

एवं-विद्वस्- -द्वान् वाधूश्रौ ४,
८६^v १२

एवं-विध, धा^w- -धः निस् ७, ७ :
५, ९ ११, ८, ७ २, १०, ४ : ७,

अप ६९, ८, ६, आपध १, ३,
२६^x, हिध १, १, १०१^y, -धम्

काठश्रौ १२७, निस् २, १३ ७,
अप ७१, ७, १, -धस्य काश्रौसं

२५. ३, -^zधा शाश्रौ १४, २,
१५, ३, १९, ६, ३, ७, ५, ८,

६, ९, ३, १३, २, -धा शाश्रौ
१४, ५, ७, द्राश्रौ ५, २, १५,

लाश्रौ २, ६, ८, -धान् काश्रौसं
३० ३, विध २१, १, -धानाम्

बौध १, ११, १९, -धाभिः कप्र
१, ८, १९, -धाय शागृ १, २,
७, -धे शागृ १, २, ८, -धेन

७, -धे शागृ १, २, ८, -धेन

विध २०, १५

एवं-विहित, ता- -त आपश्रौ १,
१०, १७, -तम् भाश्रौ ४, २२,

१२, ६, ४, ५, १४, १८, हिश्रौ ३,
२, ५९, ६०, -ता आपश्रौ २१,

१४, ४, २२, ९, -तान् आपश्रौ
२१, १४, ८^{aa}, ११, १५, १२,

२४, १६, ९, २२, १४, हिश्रौ
१६, ८, ३, -ताभि आपगृ १४,
१५

एवं-वृत्, ता^{ab}- -त्त. आपध २, ११,
४, गौध ३, ९, -त्ताम् कप्र ३,

१, ६, -त्तौ आपध २, ४, १५,
हिध २, १, ६८

एवं-व्रत^{ac}- -त. आपव १, ३, २६^{ad},
बौध २, १०, ७१, हिध १, १,

१०१^{ae}, -ता बौगृ १, २, ६३
एवं-शब्द- -ब्देन काश्रौसं ३६ १.

एवं-स्तोम^{af}- -म शाश्रौ १४, २८,
११

एवं-स्थित^{ag}- -तान् आश्रौ ७, ३, ४-
१ एवं-कर्मन्- > °र्मा(र्मे-आ)

वृत्ति- -त्तौ आश्रौ १, ३, २९
२ एवं-कर्मन्^{ah}- -र्मा या ५, २.

एवं-कारम् पा ३, ४, २७.
एवं-कृत-स्वस्थयन^{ai}- -न अप ४,
१, १९.

एवं-ग(त) > ता- -^{aj}ता ऋप्रा
१७, ३

एवं-जाति-> °तीय^{ak}- -यम् हिश्रौ
२१, १, १६, गोगृ २, १, १९,

जैगृ १, २० १२, -या निस्
१, ११ ३४, -यानि निस् ३,

a) = सुगन्धिवद्रव्य-विशेष-। व्यु ?। b) व्यप. व्यु ?। c) वैप १ द्र.। d) पाठ ? (तु सपा
शागृ १, १३, ४ एह (= आ [इहि], इह) इति पाठे। e) पाठे वैप १, ७९९ k द्र। f) Boht LZDMG
५२, ८४] एनम् इति शोधकः। g) संहिताया सानुनासिकता द्र। h) अव^o इति पाठ ? यनि. शोध ।
i) सपा. एवं हि विहि^o <> एवंविहि^o इति पाठे। j) विप। बस। k) °ह^o इति मूको C. च ।
l) स्वार्थे छ > ईय प्र. (पा ५, ४, ९)।

१० २१, -येन द्राश्रौ ५, २,
५, लाश्रौ २, ६, २, निस् १,
११ ११
एवं-देव(ता >)त^३- -ता शाश्रौ
६, १०, १३
एवं-नामन्- -मानम् काश्रौ १५,
७, १०
१ एवं-न्याय- -येन आपश्रौ २४,
१०, ३, १५, हिश्रौ २१, ३, १६
२ एवं-न्याय^३- -या आश्रौ ११, १,
१३.
एवं-अनुपूर्व^३- -र्वा हिश्रौ ८, ७,
४६
एवं-अन्त^३- -न्तम् अप ४४, ४,
११, -न्तानि आश्रु ३, ४, १,
कौश्रु २, ५, १ शाश्रु ४, ९, ३
एवं-अर्थ^३- -र्थ. निस् ७, ११
१६, -र्थान् भाग २ १ १९
एवं-अर्थ-त्व- -त्वात् मीस् १२,
२, ८
एवं-अर्थीय- -ये या ३, १
एवं-आचार^३- -र गौघ ९, ७१
एवं-आदि^३- -दय शैशि २३७,
-दि काश्रौसं २९ २१, ऋप
४४, ४, ११, ६८, ३, १३, -दीन्
बौश्रौ २९, ४ ४, -दीनि अप्रा
२, ३, १४-१६, ४३, २, ४०
एवं-आदि-क- -कम् अप ६९,
५, ४.
एवं-आदि-धर्म- -र्मम् आश्रिण
२, ७, ११ १७.
एवं-आदि-निमित्त- -त्तेषु कप्र
३, ५, ४.
एवं-आदि-प्रत्यायनान्त- -न्तान्

वैश्रौ १६, १५ २.
एवं-प्रकार^३- -रम् वृदे १, ५९,
-राणि सुवप ८३ ३
एवं-प्रकृति^३- -तय वृदे १, ४०
एवं-प्रभृति^३- -तय वागृ १४,
२७
एवं-प्रा(य >)या^३- -या: आश्रौ
९, १, ६
एवं-प्रोक्त-विधान- -नेन अप ३१,
१०, १
एवं-बल^३- -लस्य सु २९, ६
एवं-भूत- -त आश्रौ १, १, २५,
११, १०, ८, १४, १०, -तस्य
माश्रौ १, ५, ४, १८, -तानाम्
बौघ १, ५, ४३
एवं-माना(न-आ)दि- दि वैश्रौ
१६, १ ७
एवं-मुख^३- -खस्य आपघ २, १९,
२, हिव २, ५, ७४
एवं-या-मरुत्-, °द्व-आख्यात-, एव-
यावन्- ✓इ द्र
१ एवाजननेवाजनकम् अप ४०, १,
१४
२ एवावद^३- -दस्य ऋप्रा ९, २४
✓एप् पावा +आ आत्म गतौ
एष-, एषका- एतद्- द्र
१ एषण- -णे सुध ४२
२ एषण- पाग ४, १, ४१^०, -णेन या
४, ७^d, -णेषु या ६, २२
एषणी^०- पा ४, १, ४१
एषणा-, एषणिन्- ✓इष् (बधा) द्र
एषिक- (> एषिक्य- पा) पाग ५,
१, १२८.
एषिवत्-, एतद्- द्र

ए(आ-इ)ए- आ ✓यज् द्र.
एष्टवै, एष्टव्य- ✓इच्छ (इच्छायाम्)
द्र
एष्टि^३- -ष्टय याशि २, ८
एष्ट्री- ✓इच्छ (इच्छायाम्) द्र
एष्ट्यत्- ✓इ द्र.
ए(आ ✓ई)ह > ए(आ-ईह >)हा^३-
-हा: अप्रा २, ३, ९१
एहस्^३- -ह: निघ २, १३
एहि^{०h}- (> एही- पा) पाग ४, १,
७३
एहिकटा- प्रभृ ए(आ ✓इ) द्र

ए

ऐ^३ पाग १, ४, ५७, अप ४७, १, १८;
शुप्रा ८, ५, ऐरे शुप्रा ८, ५
ऐ-कार- -र. अप ४७, ३, ४, उस्
७, ७, तैप्रा ९, १४, १६, २३,
अप्रा ३, १, १६, २, २०, शौच
३, ५०, भाशि २७, -रम् ऋप्रा
१४, ४१, ४२, तैप्रा १०, ६
ऐकारा(र-अ)न्त- -न्त. भाशि
२५, -न्तम् या १, १७, शुप्रा
७, ७, -न्तानि अप्रा २, १, १४.
ऐकारौ(र-अ)कार- -रयो: शुप्रा
१, ७३, तैप्रा २, २६, शौच १,
४१, पाशि २०, -रौ शुप्रा ४,
५८, १४५.
ऐ-त्व- -त्वम् भाशि ८१, -त्वे
ऋप्रा १४, ४४.
ऐत्व-र्ग^३- -र्गा भाशि २८
ऐक- (> ऐकीय-) उपविन्दु- > औप-
विन्दवि- टि. द्र.
ऐककर्म्य-, °ककाल्य- प्रभृ १ ऐक- द्र.

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र । c) अर्थ व्यु च^१ । d) विप. । व्यु ? < ✓इष्(गतौ)
इति स्क., SEY [४२], < ✓इष् (इच्छायाम्) इति दु । e) = नाराची-, वैद्यशलाका- इति पागम. ।
f) वैप १, १०७१ g द्र. । g) = क्रौव- । व्यु ? < ✓हन् इति दे. । h) < ए(आ ✓ई)ह इति न्यासः ।
i) = वर्ष-विशेष- । j) उस. उप. < ✓गम् ।

ऐकलव-, °लव्य- एकल- द्र
 ऐकविश्य- १एक- द्र
 ऐकविन्दवि-, °वीय- उपविन्दु->
 औपविन्दवि- टि द्र
 ऐकश्रुत्य- प्रभृ १एक- द्र
 ऐकायन- २एक- द्र
 १, २ऐकार्थ्य-, °काश्रम्य- प्रभृ
 १ऐक्य- १एक- द्र
 २ऐक्य- २एक- द्र
 ऐक्षव-, १, २ऐक्षुक-, ऐक्षुभारिक-
 इक्षु- द्र
 ऐक्ष्वाक-, °कु- इक्ष्वाकु- द्र
 ऐगय- एग- द्र
 ऐङ्गद- इङ्गदी- द्र
 ऐच्छिक- √इच्छ (इच्छायाम्) द्र
 ऐज्य- एजि- द्र.
 ऐतत्- इटत्- द्र
 १ऐड- √इड् द्र
 २ऐड- २इडा- द्र
 ऐडक-°की- एडक- द्र
 ऐड-त्व- इड्- द्र
 ऐड-वाक्य- २इडा- द्र
 ऐड-वाङ्-निधन-, ऐडादध- √इड्
 द्र
 ऐणेय- एणी- द्र
 ऐतर-, ऐतरेय-, ऐतरेय-क-, ऐत-
 रेयिन्- २इतर- द्र
 ऐतश-°-श बृदे ८, १०१, -शस्य
 बृदे १, ५५
 ऐतश-प्रलाप-प शाश्रौ १२, १७,
 ३१^b, -पम् वैताश्रौ ३२,
 २०
 ऐतशप्रलाप-वत् वैताश्रौ ३२,
 २८
 ऐतिकायन- इतिक- द्र

ऐतिशायन- इतिश- द्र
 ऐतिह- इदम्-> इतिह- द्र
 ऐतिहासिक- इतिहास- द्र
 ऐतिह्य- इदम्-> इतिह- द्र
 ऐनोस्() ए(आ√इ) द्र
 ऐत्वरायण- इत्तरा- द्र
 ऐदंयुगीन- इदम्- द्र
 ऐद्म-, ऐम्वाह- √इड् द्र
 ऐनपिण्ड्य- इनपिण्डी- द्र
 ऐनस- एनस्- द्र
 ऐन्दव-, °वी- इन्दु- द्र
 ऐन्द्र-, ऐन्द्रजाल्य- प्रभृ, ऐन्द्रा°,
 १ऐन्द्रायुध- इन्द्र- द्र
 २ऐन्द्रायुध- २इन्द्रायुध- द्र
 ऐन्द्राभव- प्रभृ, ऐन्द्रि- प्रभृ,
 ऐन्द्रोत्- इन्द्र- द्र
 १ऐन्द्रोपानस्यक° माश्रौ १, ३, ५,
 १४^१
 ऐन्द्रय-, ऐन्द्रयादि- इन्द्र- द्र
 ऐन्धायन- २इन्ध- द्र
 ऐन्य- इन- द्र
 ऐमकान्तक- इम- द्र
 १ऐर- √इर् द्र
 २ऐर- २इरा- द्र
 ऐरक्य- १ऐरका- द्र
 १ऐरम्^d आपमं १, ३, ६
 ऐरमद्-, १, २ऐरावत- √इर् द्र
 ऐल- √इड् द्र
 १ऐलव°- व अप ४८, ११६, दंवि
 २, ६
 १ऐलव-कार- रेभ्य. अत्र ११,
 २
 ऐल-बृद- √इड् द्र
 ऐलाक्य- एलाक- द्र
 ऐलूष- इलूष- द्र.

ऐशानी-, ऐशी-, °श्वरि-, °श्वरी-,
 °श्वर्य- √ईश् द्र
 ऐषमस्(>) पा ४, २, १०५, ५, ३,
 २२, पावा ५, ३, २२
 ऐषमस-तन-, °व्य- पा ४, २, १०५.
 १ऐषमितिकम् अप १९, ३, ८
 ऐषिकि°- -क्य बौश्रौप्र ४३ २,
 -कि बौश्रौप्र ४४ ४
 ऐषिक्य- एषिक- द्र
 ऐषिर- इषिर- द्र
 ऐषीक- √ईष् द्र
 ऐषीकपावि°- -वय निसू ६, ११:
 २२, -वीनाम् निसू ६, ११.
 २४^{2d}
 ऐषीरथि- इषीरथ- द्र
 ऐषुकारि- इषु- द्र
 ऐष्टक- इष्टका- द्र
 ऐष्टिक-, °की-, °ष्टीक- इष्टि- द्र
 ऐष्टेपि°- -षय. बौश्रौप्र ३ ५
 ऐहलौकिक-, ऐहिक- इदम्->
 इह द्र

ओ

ओ¹ ऋप्रा २, ३३, शुप्रा ८, ५^३,
 शैशि ४४, ५१, ५७, माशि ७,
 ३, पाशि १९, पाग १, ४,
 ५७
 ओ-कार- २. आश्रौ ७, ११, ११,
 शाश्रौ १, १, १९, जैश्रौका ११६,
 अप ४७, २, २, ३, ४, या २, ५,
 ऋप्रा १, ६८, शुप्रा १, ९४, ४,
 ९३, तैप्रा, -रम् आश्रौ १, ४,
 १३, ७, ११, २, ऋप्रा २, १७, ४,
 २५, शुप्रा ३, ४६, ४, ४३, ५५,
 तैप्रा ९, ७, १०, ५, १८, १,

a) = मुनि-विशेष-। व्यु ? (वैप २, ३ख द्र)। b) एत्° इति पाठः ? यनि शोध। c) १इन्द्रो-
 पानस्य टि द्र। d) अर्थ व्यु च ?। सपा पाश्रु १, ४, १५ वैर्ण इति पाठे। e) वैप १, १०७२ d द्र।
 f) = ऋषि-विशेष-। व्यु ?। g) = ब्रात्य-विशेष-। व्यु ?। h) -वि° इति पाठः ? यनि शोधः। i) = वर्षा-विशेष-।

-रात् लाश्रौ ७, २, ११, शुप्रा
३, ६१, पावा ७, २, १, ८, ३,
२०, -रे तैप्रा २, १३, अप्रा
३, १, ३.
ओकार-प्रतिषेध- -घ पावा ७,
२, १
ओकार-सकार-भकारा(र-आ)
दि- -दौ पावा ५, ३, ७२
ओकारा(र-अ)न्त^a- -न्त शौच
१, ८०, -न्तात् अप्रा ३, १,
२२
ओकारी√भू, ओकारीभवति
माश्रौ ५, १, १, १२
ओकारौ(र श्रौ)कार- -रयो
शौच ३, ५१, -रौ हिश्रौ २१,
२, ३३
ओकारौकार-पर- -रे तैप्रा
१०, ७
ओत्- >ओत्-त्व- >त्वा(त्व-
अ)भाव- -व पावा ७, २, १
ओद् भाव- -वे पावा ७, १, १
ओव-वचन^b- -नम् पावा ५, २,
१०
ओभाव- -व. शैशि १९६, पाशि
१४, माशि १०, ४, ५, याशि
२, ४२, -वम् याशि २, ४८
ओभाव-प्रसंधान^c- -नम् पाशि
१५, शैशि १९८, याशि २, ४७,
नाशि २, ५, ८.
ओ-भूत- -ते ऋत ३, १, १०
ओ-वर्ण- -र्णे शैशि ५०
ओक^d- पाउवृ ३, ४१, पा ७, ३, ६४.
ओकस्^e- पाउभो २, १, ३४५,
-क. आश्रौ ९, ११, २०,

शाश्रौ १५, ८, २१, आमिगृ ३,
६, ३ : २५, ७, ४० १६, बौपि
१, १२ १, चाअभू २९,
अअ ५, २२, या ३, ३६, ९, ५९,
ऋप्रा १४, ५१, -कस आपश्रौ
३, १४, २, बौश्रौ २, ९ ४,
भाश्रौ ३, १३, १, हिश्रौ २, ६,
३४, -कसि आपश्रौ ५, १९,
३, हिश्रौ ३, ५, ४, जैश्रौ ८ :
१७९, दाश्रौ २, ४, ११, लाश्रौ
१, ८, ९
ओको-निघन^f- -न्म् लाश्रौ ७,
१, १
ओ(आ√उ)क्ष्, क्(आ(उक्षतम्) आश्रौ
२, १४, ११, ३, ८, १, ५, १०,
२८, ७, २, २ ५, ९, शाश्रौ
√ओस् पाया भ्वा पर शोषणा-
लमर्थयो
ओघ^g- घ या २, २
ओघ-व(त>)ती^h- -तीम् बौश्रौ
१९, १० ४९
ओङ्कार- ओम्- द्र
कओचिषेⁱ ऋप्रा २, ७१
ओज^j- -ज आउयो ६, १३, -जयो
ऋप्रा २, १८, -जा ऋप्रा १,
१७
ओजस्- √उज् द्र
ओजस्^k- (>ओजसायन-) पा)
पाग ४, १, ११०
√ओजाय √उज् द्र
ओजा^l कौगृ २, ३, १०५.
ओजिष्ठ-, °जीयस्-, ओजोदा-
√उज् द्र.
ओढ- आ√वह द्र.

ओद्^m- पाउभो २, ३, ३०
√ओण् पाधा भ्वा पर अपनयने
कओणीⁿ- -ण्यो क आश्रौ ४, ६, ३, ८,
१, १८, १२, २३, १०, १०, ६,
शाश्रौ ५, ९, ७, अप्रा ३, ४, १,
शौच ३, ६१, -कश्रौ अप ४८,
६०, निघ ३, ३०
ओत्.ता- आ√वे द्र
ओतु^o- पाउ १, ६९
ओत्तो(तु त्तो)ष्ठ- -ष्ठयो पाग ६,
१, ९३
कओद्(त >)नी^p- -ती निघ १, ८,
-तीनाम् शाश्रौ १८, १, १३,
लाश्रौ ७, ३, ८, निस् १, २. १०,
उनिम् ७ २२
ओदन^q- पाउ २, ७६, पाग २, ४,
३१, ५, १, ४, पागवा ५, १,
१०१, -कंन वाश्रौ १, १, ५,
४, कौस् ६५, १२, ६८, २६३,
-नः आश्रौ २, ३, २, आपश्रौ,
अप ४८, १००कं, निघ १,
१०कं, -नम् आश्रौ ३, १०,
२७, १४, १, शाश्रौ, या ६,
३४कं, ७, १३, पावा १, १,
६७, -नयो आपश्रौ ८, ११, २,
वैश्रौ ९, २ ९, कागृ ७०, ६,
-नस्य बौश्रौ २, १४:५, वाधुश्रौ,
-ना इ शौच १, १०५कं, -नात्
आपश्रौ २२, २५, २२, हिश्रौ
२३, ४, १६, -नात् आपश्रौ ८,
१०, ७, १९, १३, १२, बौश्रौ,
-नानाम् भाश्रौ ८, १२, १०, १३,
वाश्रौ १, ७, ३, १२, भागृ २, ९ :
६, -नानि आपगृ २०, ५;

- a) विप. । बस. । b) षस । पाम [पक्षे] उ^० इति । c) वैप १ द्र. । d) =साम-विशेष- । बस ।
e) व्यु ? । <√वह इति स्क. दु प्रभृ. । वैपरे अपि द्र. । f) =इष्टका-विशेष- । g) =विषम- (तिथि-, वर्ष-) ।
व्यु ? । h) व्यप । व्यु. ? । i) पाठ. ? सप्र. शांगृ २, ६, १ ऊर्जाः इति पामे. । j) ओद्- इति पाउनात् २, २८ ।
k) पामे. वैप १, ९८३ b द्र. । l) =विडाल- । व्यु. ? <√अव् [रक्षणे] इति प्रायोक्ताद. । m) =मेघ- ।

-ने माश्रौ १, ५, १, २४, कौसू
६६, ६, १०९, ७, -नेन आपश्रौ
४, ११, ३१×४, भाश्रौ, -नेभ्य.
वैश्रौ ९, २ १२, हिश्रौ ५, ३,
२६, आगृ २०, ४, हिगृ २, ८,
९, -नौ काश्रौ १९, १, २१
ओदनिक- पावा ५, १, १०१,
-कम् बौपि २, ४, १४
ओदन-चरु- -रुम् गोगृ ४, १, ६,
२, १४
ओदन-दर्व- -वैग कौगृ ४, २, ३^३
ओदन-पिण्ड- -ण्डम् आपगृ १९-
२०, ७, भागृ २, १० : ३,
हिगृ २, ९, ५
ओदन-वत् मीसू ६, ४, २७
ओदन वत्- -वताम् बौश्रौ १८,
१८ १७^१
ओदन-शेष- -षम् आपश्रौ २२,
२६, ६, हिश्रौ २३, ४, २३, भागृ
२, १० १०, -षान् आपश्रौ
८, ११, ८
ओदन-सत्त्वा(कु-आ)दि- -दि कप्र
३, ५, ३
ओदन-सव^१- व आपश्रौ २२, २७,
१, बौश्रौ १८, १० २३, हिश्रौ
२३, ४, ३४, -वानाम् कौसू
६७, ५, -वेन आपश्रौ २२, २५,
१९, बौश्रौ १८, ८ १, हिश्रौ
२३, ४, १३
ओदना(न-अ)वशिष्ट- -ष्टम् कौसू
८९, २
ओदनिक- पा ४, ४, ६७
✓ओदनीय, ओदनीयन्ति काश्रौ
१२, २, १२.

ओदनीय-, ंन्य पा ५, १, ४
ओ(आ-उ)द्-क्वच- -चम् माश्रौ
२, १, २, १६
ओद्वा- पाउना १, १३०
ओद्वान्- ✓उद् द्र
ओ(आ-उ)प✓नम् > ओ(आ-उ)प-
नत- -तम् आपश्रौ ७, १, १७^१.
ओपश^१- -श अप्रा ३, ४, ५^१
ओपशिन- -गिनम् अप्रा ३, ४, १^१
ओप्य, ंप्यमान- आ ✓वप् द्र
✓ओम् ✓अव् द्र
†ओम्^१ आश्रौ १, २, ३, ११, १५,
१२, १२, १३, ७, ८, १३, ८^६, ९,
३, ११^६, १२^६, शाश्रौ ४, ६, १७,
७, १७, २१, २३, २४, काश्रौ २,
२, ८, ९, १३, ३०, आपश्रौ ३,
१९, १, २०, ८, ४, ४, ६, ७, १,
बौश्रौ, पा ८, २, ८७, पाउ १,
१४२, पाग १, १, ३७, ४, ५७,
†ओइम् शाश्रौ ४, ६, ९, काश्रौ
४, १४, ९, १५, ६, ३, वैताश्रौ
१, ३
ओ-कार- -रः काश्रौ १९, ७, ५,
लाश्रौ ९, ७, ५, निस्, या
१३, ९, शुप्रा १, १६, याशि
२, २१, -रम् आश्रौ १, २, १०,
हिश्रौ २१, १, १४, द्राश्रौ १५,
३, ६, लाश्रौ ५, ११, ६, ६, १०,
१६, ७, १०, २०, शागृ, -रस्य
लाश्रौ ९, ७, ४, शध १०७, -रे
वाश्रौ १, १, १, ५४, -रेण काश्रौ
२, २, ९, हिश्रौ २, ८, १२, लाश्रौ
६, १०, १३, ७, ७, ३४, ८, ३,
निस् ४, १ : ३५, ४१

ओंकार-चतु(र्थ>)थी- -थीभिः
आगृ ८, १०, १५, ४
ओंकार-पूर्व- -वैम् बौगृ १, १,
२४
ओंकार-पूर्व(वर्क>)र्विका- -काः
विध ५५, १५
ओंकार-वषट्कार- -रौ अप ४३,
२, १५.
ओंकारा(र-अ)थकार- -रौ शुप्रा
१, १७
ओंकारा(र-आ)दि- -दि वैष
२, १०, ३, -दि लाश्रौ ६,
११, ८
ओंकारा(र-अन्त>)न्ता- -न्ता
बौश्रौ २५, ९ : ६, -न्ताः गोगृ
२, १०, ३६
ओंकारी ✓कृ, ओंकारीकुर्यात्
लाश्रौ ६, १०, १६.
ओं✓कृ, ओंकुर्यात् कप्र २, ८, १६.
ओम्-अर्था(र्थ-अ)वाप्ति- -सि.
वैगृ २, १८. ५
ओम्-भाङ्- -भाङो पा ६, १, ९५.
ओम्-पूर्व(वर्क>)र्वा- -र्वाः आगृ ३,
२, ३, ५, १२, कौगृ २, ४, ६^१;
४, ७^१, आमिगृ २, ६, ४ ७;
जैगृ २, ८ : ९, वाध २३, २३;
गौघ १, ५७
ओम-, १-२ओमन्-, ंभ्या-
✓अव् द्र
ओयि^१ हिपि १४ १२^३
✓ओलण्ड^१ पावा जुरा. पर.
उत्क्षेपणे.
ओवा^१- -वया लाश्रौ ७, २, १२;
-वायाः लाश्रौ ७, २, ९

- a) सप्र शागृ ४, १५, १९ अक्षतसक्तूनां दर्वेण इति पामे. । b) = यज्ञ-विशेष- । वैप १ द्र. ।
c) अस समासान्तष् टच् प्र उसं (पा ५, ४, १०७) । सपा तै १, २, २, ३ प्रस्य. आ उद्-क्वचः इति द्वि-पदः पामे. ।
d) पामे घृ ५७५ घृ द्र । e) वैप १ द्र । f) वैप १, ४४६ f द्र. । g) = प्रतिगर- । h) = विलापव्य-
न्यनुकरण- । व्यु ? । i) = ✓लण्ड । j) = स्तोम-विशेष- । व्यु. ? ।

ओवीली^a- ली कप्र १, ७, २, ५, अप २२, ७, १, -लीम् कप्र १, ८, ३
†ओष^b- षम् आश्रौ ४, ७, ४^०, बौश्रौ ९, ९ २२, माश्रौ ११, ९, १५, अप ४८, १०६, निघ २, १२,
ओषत्- √उष् द्र
ओषधि, धी^d- पाउभो २, १, २०५, पाग ६, २, ४२, -†धय आश्रौ १, २, १, ११, ७ × ८, शाश्रौ, निघ ५, ३६, \$या ४, २५, ६, ३, ३६, ९, ८, २७, २८, १४, ८, -†धय काश्रौ १६, ३, १३, आपश्रौ, वाश्रौ १, ३, २, १८^०, हिश्रौ ६, ३, १७^०, -घि बौश्रौ २१, १२ ४, वृदे ७, १२२, साअ २, ११७४†, या ११, २, ५, -†धिम्य मागृ २, १२, ५^२, कौस् ७३, ५, -धिम भाश्रौ ७, १, १२, हिश्रौ, हिगृ २, ६, ७^३, अअ २, २७^{२६}, या ११, ४†, -†धी^h पागृ १, ३, १, वैगृ ६३ ५, वैगृ २, १५:३, -†धी. आश्रौ ३, ६, २४ × ×, शाश्रौ, माश्रौ १, २, ४, १८^३, आमिगृ २, २, ५ १०^३, ऋअ २, १०, ९७^३, शुअ २, १२७^३, या २, २२\$, ६, ८, ९, २८^३, शुप्रा २, ३८^३, -०धी बौश्रौ ६, २ २६, -^१धीन् पागृ ३, ४, ८†, शंघ ११६ १४, -†धी-

नाम् आश्रौ १, ३, २३, ४, १२, २, शाश्रौ ४, १० १^३, पागृ १, ५, १०^३, विव ५०, ५०\$^m, हिघ १, ५, ५७\$^m, या ८, २२, -धीभि आपश्रौ १, १४, २ × ×, बौश्रौ, †माश्रौ १, २, ३, १३^०, २, १, २, ७^p, मागृ १, ११, ६†^p, -†धीभ्य शाश्रौ ९, २८, ५, आपश्रौ, लाश्रौ ७, १२, ५^१, या ६, १, -धीभ्याम् बौपि ३, ११, १, -धीम् आपश्रौ १५, १९, ९, भाश्रौ, आपम १, १५, १†^t, -धीषु आपश्रौ ८, १, ४ × ×, बौश्रौ, †माश्रौ १, ८, ३, ३^०, -†ंधे काश्रौ ५, २, १५, ६, १, १२, ६, ७, आपश्रौ, आपमं २, ७, २५^h, आमिगृ १, ३, ४:१^h, भागृ २, २१ ३^h, हिगृ १, १०, ६^h, ११, ३^h, या १, १५, -धे शौच ३, ५, पा ५, ४, ३७, ६, ३, १३२, -धौ पावा ४, १, ४२, -धय विघ ५१, ६३, -ध्या माश्रौ १, १, ३, १२†^h, २, ४, ७, वाश्रौ १, २, २, ९, वागृ १, १२, कौस् ३०, ११, -†ंध्या बौश्रौ १, ११ ७, १२, १७, भाश्रौ २, १, ६, बौगृ ४, १, ३, शुप्रा २, १९ ओषधि- पा ५, ४, ३७, पागृ २, ४, ३१, -घ. हिश्रौ ११, ८, ९†,

-धम् काश्रौ ४, १४, ४, बौश्रौ २४, १. १८, २९, ३ २, शंघ ३९४, बौव २, १०, ६०, या ५, २८, मीस् ८, १, ३७, -धस्य बौश्रौ २०, ६ ७, १२, १३. २१, २४, २८, २४, ९:६, बौगृ २, ३, ५, -घा वाधूश्रौ ३, १००:५, -वात् बौश्रौ २४, ३ २, वैश्रौ १७, १६ १, -घानि विव २०, ४५, मीस् ८, ४, २५, -धेन बौश्रौ २०, ४. २, ४, -धै अप ७, १, १
ओषधि-कल्प- ल्प हिश्रौ २२, ४, २
ओषधि-कारित- तानि भाश्रौ ७, १७, १
ओषधि-धर्म- -र्मा काश्रौ २३, २, १६, २६, ४, ९
ओषधि-पात्र- त्राणि वाश्रौ १, ७, २, १४, हिश्रौ ४, ४, ४५
ओषधि-प्रदान- न्नेन विघ ९२, १७
ओषधि-मन्त्र-संयोग- न्नेन बौध २, ९, १२
ओषधि-वत् बौध २, १०, ५०
ओषधि-संयुक्त- -क्तैः अप ७०^२, ९, ३.

- a) = अग्निमन्थन-साधन-। व्यु ?। b) वैप १, १०७४ h द्र । c) तु आन । d) वैप १ द्र । e) पाभे वैप २, ३ खं ओषधे तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि. द्र. । f) सपा ंधिम <> ंधी इति पाभे । g) औं इति पाठ 'यनि. शोध'. । h) सपा. ंधी <> ंधे (तु आपमं [भू XXIV]) इति पाभे. । i) पाभे. वैप १, १०७५ e द्र. । j) पाभे. वैप १, १०७५ d द्र । k) ंधी इति लाघा । l) पाभे वैप १, १०७७ a द्र । m) औं इति Jolly? । n) औं इति पाठ: ? यनि. शोध: (तु आपध. भाष्यम्) । ओषधीनां ..कीलालम् इत्यस्य स्थाने सप्र. आपध १, १७, २५ कीलालौषधीनाम् इति पाभे । o) पाभे. वैप १, १०७७ h द्र । p) पाभे वैप १, १०७७ f द्र. । q) गीतिविकारतया निर्देशः । r) सपा ऋ १०, १४५, १, शौ ३, १८, १ ंधिम इति पाभे. । s) पाभे. वैप १, १०७८ a द्र. । t) पाभे वैप १ पवित्रे मा १, १२ टि. द्र ।

ओषधा(ध-आ)वस्था (ध-अ)
शाना(न-आ)च्छादन- नै शध
२४७
ओषधा(ध-आ)हुति- त्या
या १०, २१
?ओषधि-कृच्छ्रजीवन^a- ने अप
४८, २८
ओषधि-खनन- नम् कौसू ३३,
१६
ओषधि-देवता- >°(त्य>)त्या-
-त्ये शुभ्र २, ५१
ओषधि-पर्यन्त^b- -न्तानि या ७, ४
ओषधि-पाणि^c- -णय माश्रौ ४,
३, ३९, ४, ३७, ५, १२, ८, ३,
-णि माश्रौ ४, १, ३१, ६, ६,
७, ९
ओषधि-पात्र- -त्राणि हिश्रौ ८, १,
४८
?ओषधि-भक्त्य(क्लि-अ)भीज्या-
-ज्या निसू २, ५ १७^o
ओषधि-भार- -रम् शंघ ४०८
ओषधि-भोजिन्^d- -जी वैव १, ७,
३
ओषधि-मूल- -लानि अशा १२, ३
ओषधि-वत् कौसू ३६, १२, ३२.
ओषधि-वत्- -वत् हिश्रौ १०, १,
२२
ओषधि-वनस्पति- -तय वौगृ १,
५, ५, द्रागृ १, ५, ३३, बौध ४,
३, ५, या ८, ५, -न्तिभ्य आगृ
१, २, ४, कौगृ ३, १०, ११, बौगृ
२, ८, १७, भागृ ३, १३ : ६, ८,
वागृ १७, ८, गोगृ १, ४, ९\$,

कप्र २, ४, १-५, कौसू ७४, ६,
या ८, ५\$, -तिभ्याम् आमिगृ १,
७, २ १०[†], २, ४, ३ ७, -तिभ्यः
पा ८, ४, ६, -तिषु मागृ २, १०,
८, या ६, ३६, -तीन् आपश्रौ
२०, २५, १४, वैताश्रौ ७, १४,
बौपि ३, ४, ८, गौपि १, ३, १०,
आपव १, ३०, १९, हिध १, २,
६३[†], ८, २२, -तीनाम् शाश्रौ
१६, १५, ११, काश्रौ २१, १, ६,
हिश्रौ १४, ६, २५, गोगृ १, ९,
१५, कौसू ३२, २६, आपध १,
७, ४^o, २, २, ४, हिध २, १, २६,
गौध ३, २०
ओषधिवनस्पति-मूल-फल^e-
-लै आपध १, ११, ५, हिध १,
३, ६२
ओषधिवनस्पति-वत्- -वत् आगृ
२, ७, ३
ओषधि-वनस्पति-गन्धर्वा(व-अ)
प्सरस्- -रस वैगृ १, २० : ४
ओषधि-विभाग- -ग आमिगृ २,
६, ५ : २३, बौगृ २, ९, २२
ओषधि-संयोग- -गात् मीसू ६, ५,
२२
ओषधि-सूक्त- -क्तेन आश्रौ ६, ९,
१, आपश्रौ १४, २१, १६, हिश्रौ
१५, ५, २५[†]
ओषधि-स्तम्ब- -म्बम् हिपि १२
१, -म्बान् हिपि १६ ४
ओषधि-स्तुति- -ति ऋअ २, १०,
९७, -तिम् शुभ्र २, १२७
ओषधि-होम- -मम् वाधूश्रौ ३,

७८ २, -मान् आपश्रौ ३०,
११, १४
ओषधी-पर- -र. तैप्रा ५, १७
ओषधी-म(त् >)ती- -ती अश्र
१९, १८[†].
ओषधी-वनस्पति- -तय अप ४१,
६, ४
ओषधी-वीरुध्- -रुधः अप ७०[†];
६, १
ओषधी(धि-ई)श- -ज्ञाय वैगृ ४,
८ ८[†]
ओषधी-सूक्त- -क्तेन वैश्रो २१, ७ :
१[†]
ओषधी-स्तव- -वः वृदे ७, १५४.
ओषध(धि-अ)नुवाक- -कान् वौगृ
३, १, २८[†]
ओषन्ती- ✓उष् द्र.
?ओषु- -षुम् शाश्रौ ५, १०, १०[†].
ओष्ठ^f- पाठ २, ४, पाग ५, २, २४,
-ष्ठ आश्रौ १२, ९, ९, -ष्ठम्
बौश्रौ १७, २९ ८, आपगृ ११,
१३, -ष्ठयो आश्रौ १, ७, १;
-ष्टाभ्याम् ऋप्रा १४, ४ तैप्रा
२, ३९, १०, १४[†], -ष्ठे बौश्रु
१८ : ७, शुप्रा १, ७०; -ष्ठौ
वाध ३, ३९, आपध १, १६, ३,
१०, विध ९६, ९२, हिध १, ५,
३, ९; तैप्रा २, १४, २१, शैशि
५३, ५८, १२०, पाशि १३;
माशि ६, ७
ओष्ठ^g- -ष्ठम् काश्रौ २, २, ७.
ओष्ठौ^h- -ष्टीभ्याम् काश्रौसं
३६. १७.

- a) पाठ ?। ओखति (>ओखदि [तु मूको] <✓ओख् [तु पंजा औखा]) इति कृ° इति च द्वि-पद शोध° ।
b) विप. । बस । c) = आग्रयण- [ओषधीना पक्ते पाकस्याभीज्या-] । पाठ ? °धि-पक्ष्य° इति शोध (तु. मूको.) ।
d) विप (औदुम्बर- [सपत्नीकवानप्रस्थाऽन्यतम-]) । उस । e) सप्र ?°तीन् <> °तीनाम् इति पाभे । f) षस.
>दस । g) सपा °धिसू° <> °धीसू° इति पाभे । h) पाभे पृ ७५५ । इ । i) पाठ ? सपा बौ ७, ७७, १
ओषम् इति पाभे । j) वैप १ द्र । k) इवार्थे अण् प्र. उसं. (पा ५, ३, १०७) । l) = [ओष्ठाकृति-] पात्री- ।

ओष्ठ-चलु^१ - लु माशि १२, ५
 ओष्ठ-ज - जः शैशि ४२, -जौ पाशि
 १७
 ओष्ठ-जाह- पा ५, २, २४
 ओष्ठ-द्वय-विहीन- न विध ५,
 २१
 ओष्ठ-वत् वैश्रौ ११, ७ ५
 ओष्ठ-हलु- - लु तैप्रा २, १२
 ओष्ठा(ष्ठ-अ)न्त- -न्ताभ्याम् तैप्रा
 २, ४३
 †ओष्ठा(ष्ठ अ)पिधा(न>)ना^१-
 -ना गोयु ३, ४, २८, द्रागु ३, १,
 २६
 ओष्ठो(ष्ठ उ)परि-दन्त^२- -न्ता.
 काध २७९. ३
 ओष्ठो(ष्ठ-उ)पसंहार- -र तैप्रा २,
 २४
 ओष्ठ्य^३- -ष्ठ्य. अप ४७, २, २,
 ऋप्रा १, ४७, -ष्ठ्यम् दवि १,
 २, ४१^०, २, ८^०, -ष्ठ्यस्य याशि
 २, २०, -ष्ठ्याः शुप्रा ८, ४१,
 याशि २, १, ९४, आशि १, १८,
 दंवि १, १२, -ष्ठ्यान् दंवि १, ३^०,
 -ष्ठ्यानाम् शौच १, २५, -ष्ठ्ये
 ऋत २, १, ९, -ष्ठ्यौ शैशि ४३
 ओष्ठ्य-निभ- -भौ ऋप्रा १४,
 ३८
 ओष्ठ्य-पूर्व- -र्वस्य पा ७, १,
 १०२, -र्वा ऋप्रा २, ३३
 ओष्ठ्य-योनि- -न्योः ऋप्रा २,
 ३१
 ओष्ठ्य-स्थान- -ने शाश्रौ १,
 २, ५
 ओष्ठ्य-स्वरा(र-अ)न्त- -न्ते
 कौशि ७९.

†ओह- -हम् या ५, ११^१, -हेन
 उसू ३, ५^१, -है भाशि ४५^१
 †ओह-ब्रह्मन्^१ - -ह्याग या १३,
 १३^१
 ओ(आ-ऊ)हिवस्- आ√वह् द्र
 ओहिषे^१ ऋप्रा २, ७१†
 ओ(आ-उ)ह्य, ह्यमान- आ√वह् द्र

औ

औ^१ अप ४७, १, १८, शुप्रा ८, ५^२,
 ऋत ३, २, ३, शैशि ४४, ५१,
 ५७, पाशि १२, पाग १, ४, ५७
 औ-कार- रः शाश्रौ १, २, १३, अप
 ४७, ३, ४, तैप्रा ९, १५, उसू ७,
 ५, शौच ३, ५१, -रम् ऋप्रा २,
 १९, शुप्रा ७, ५, तैप्रा १०, ७,
 -रात् लाश्रौ ७, २, ४
 औकार(र-अ)न्त- -न्तम् शुप्रा
 ७, ८

औकथ- , ०थ- उकथ- द्र
 औकत्रायणि^१- -णि. बौश्रौप ४१ :
 १४

औकथ- १उकथ- द्र
 औकथिक, का-, ०कथिक- √वच्
 द्र.

औकथ्य-, ०थ्यायन- १उकथ- द्र
 १औक्ष- √उच् द्र
 २औक्ष- २उक्षन- द्र
 औक्षणोरन्ध्र- उक्षणोरन्ध्र- द्र
 औख-, ०खी- उखा- द्र
 औखीय-, ०खेय- २उख- द्र
 औख्येयक- उखा- द्र
 औग्रचिति^१- -तयः बौश्रौप ६ ४
 औग्रेय- २उग्र- द्र
 औचथ-, १औचथ्य- १उचथ- द्र

२औचथ्य- उचथ्य द्र
 औचित्य- √उच् द्र
 औचै श्रवस- उच्च- द्र
 औजसायन- २ओजस्- द्र
 औजसिक- √उज् द्र
 औज्जयनक- उज्जयनी- द्र
 औज्जिहानि- उज्जिहान- द्र
 औड->औडी- पृ ५४७ ङ टि द्र.
 औडपिक- उडप- द्र
 औडलि^१- -लय बौश्रौप ४७ ८
 औडवि-, ०वीय- उडव- द्र
 औडायन- (> ०न-भक्त- पा) पाग
 ४, २, ५४
 औडुप-, ०पिक- उडुप- द्र
 औडुलोमि- उडुलोमन्- द्र
 औतकि^१- ०की- (> औतकीय-
 पा) पाग ५, ३, ११६
 औतथ्य- उतथ्य- द्र
 औत्क्षिप- उत्क्षिपा- द्र
 औत्क्षेप- उत्क्षेप- द्र.
 औत्तम-, ०मित्क- उत्तम- द्र
 औत्तरकीय-, ०रतनिक-, ०रपक्षिक-,
 रपथिक-, ०रपदीय-, ०रवे-
 दिक-, ०राधर्य-, ०राह-
 १उत्तर- द्र
 औत्पत्तिक- उत√पत् द्र
 औत्पत्तिक- उत्पात- द्र
 औत्पन्निक- २उत्पन्न- द्र
 औत्पात-, ०तिक- उत्पात- द्र
 औत्पाद्- उत्पाद्- द्र
 औत्पुट-, ०टिक- उत्पुट- द्र
 औत्पुतिक- उत्पुत- द्र
 औत्पूतिक- २उत्पूत- द्र.
 १औत्स- १उत्स- द्र
 २औत्स- √उद्, न्द् द्र

a) विप (पाठक-)। अर्थः व्यु. च १। b) वैप १ द्र.। c) विप। षस > बस। d) विप। भवार्थे
 चत् प्र. (पा ४, ३, ५५)। e) औ इति पाठ १ यनि शोषः। f) वैप १, १०७९ J द्र। g) वैप १, १०७९ k द्र।
 h) = वर्ष-विशेष-। i) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। j) अर्थ पृ ४८० m द्र। तु. पाका, औदिक- इति भाण्डा. पासि. †

औत्सङ्गिक- उत्/सञ्ज् द्र
 औत्सायन- १उत्स- द्र
 औदक- प्रभृ √उद्, न्द् द्र
 औदकि- (> औदकीय- पा)
 औतकि- टि द्र
 औदकी- √उद्, न्द् द्र
 औदङ्कि-, ङ्कीय- १उदङ्क- द्र
 औदज्ञायन-, ंनि- उदज्ञ- द्र
 औदञ्चनक- २उदञ्चन- द्र
 औदञ्चवि- उदञ्चु- द्र
 औदञ्चि- १उदञ्च- द्र
 औदनिक- ओदन- द्र
 औदन्य- ३उदन्य- द्र
 औदन्यायनि- २उदन्य- द्र
 औदन्यि- ३उदन्य- द्र
 औदपान- √उद् द्र
 औदभृजि-, ०दमजि- उदभृ, मज्ज-
 द्र
 औदमेघ-, ०दमेघि-, ०दमेघीय-,
 उदमेघ- द्र
 औदमेयि-, ०यीय- उदमेय- द्र
 औदर- उदर- द्र
 औदरि^a- रि. बौश्रौप्र ३१ २
 औदरिक- उदर- द्र
 औदल- प्रभृ २उदल- द्र
 औदवापि-, ०वापीय- उदवाप- द्र
 औदवाह-, ०वाहि-, ०वाहीय-
 २उदवाह- द्र
 औदव्रजि- उदव्रज- द्र
 औदशुद्धि- उदशुद्ध- द्र
 औदश्वित-, ०श्वित्क- √उद् द्र
 औदासीन्य उदा(द्/आ)स् द्र
 औदुम्बर- प्रभृ १उदुम्बर- द्र
 औदुम्बरक-, ०रायण-, ०रि-
 २उदुम्बर- द्र.
 औद्वान्त्र- उद्/गै द्र
 औद्वाहमानि-, ०नी-, ०नीय-

२उद्वाहमान- द्र
 औद्भरण-, ०हण- उद्/गृभ्, गृह्
 द्र
 औद्दण्डक- २उद्दण्ड- द्र
 औद्दालकि- उद्दालक- द्र
 औद्देशिक- उद्/दिश् द्र
 औद्दव- उद्/वृ द्र
 औद्द्वारि- उद्द्वार- द्र
 औद्द्विद- प्रभृ उद्/भिद् द्र
 औद्दघाव- उद्/यु द्र
 औद्द्वप- उद्द्वप- द्र
 औद्द्वहिक- उद्/वह द्र
 औद्द्वेप- उद्/वेप् द्र
 औद्द्वेत्र- उन्/नी द्र
 औद्द्वकर्णिक- उपकर्ण- द्र
 औद्द्वकार्य- उप/कृ द्र
 औद्द्वकूल्य- उपकूल- द्र
 औद्द्वगात्र- उप/गै द्र
 औद्द्वचाकवि- उपचाकु- द्र
 औद्द्वचारिक- उप/चर् द्र
 औद्द्वच्छद- उपच्छद- द्र
 औद्द्वजङ्गनि^b- नि बौध २, २, ३३
 औद्द्वजानुक- उपजानु- द्र
 औद्द्वजिद्धि^a- ह्य. बौश्रौप्र ३:९
 औद्द्वदहनि^a- नय बौश्रौप्र ३१
 ६, ४९ २
 औद्द्वदेशिक- उप/दिश् द्र
 औद्द्वधेय- उप/धा द्र
 औद्द्वनायनिक- उप/नी द्र
 औद्द्वनिन्दवि- उपनिन्दु- द्र
 औद्द्वनिषद्-, ०षदक-, ०षदिक- उप-
 नि/षद् द्र
 औद्द्वनीविक- उपनीवि- द्र
 औद्द्वबाहवि- उपबाहु- द्र
 औद्द्वबिन्दवि-, ०वीय- उपबिन्दु- द्र
 औद्द्वबिन्दु^a- न्दव. बौश्रौप्र ११ २
 औद्द्वभृत- उप/भृ द्र

औपमत्कटायन^a- ना बौश्रौप्र
 १९ ३
 औपमन्यव-, ०वी- उपमन्यु- द्र
 औपमर्कटायन- उपमर्कट- द्र
 औपमिक-, ०भ्य- १उपम, मा- द्र.
 औपयज- उप/यज् द्र
 औपयातिक- उप/या द्र
 औपयिक- उपे (प/इ) द्र
 औपरव- उप/व द्र
 औपराजिक, का, ०की- उपराज- द्र.
 औपराधय्य- उप/राव् द्र
 औपरिमेखलि-, औपरिष्टाज्ज्यौतिष-
 उपरि द्र
 औपल- उपल- द्र
 औपवन्स-, औपवसथ-, ०सथिक-,
 ०सथ्य-, ०स्त- उप/वस्
 द्र
 औपवस्ति^a- स्ति बौश्रौप्र ४६ १.
 औपवस्तिक- उपवस्ति- द्र.
 आपवस्त्र- उप/वस् द्र
 औपवाजन- उप/वा द्र
 औपवास्-, ०सिक- उप/वस्
 द्र.
 औपवेशि, षि, सिक्- उप/विश् द्र.
 औपव्य^a- न्या बौश्रौप्र ४१ ६
 औपशद- उपशद- द्र
 औपशय- उप/शी द्र
 औपशवि^b- वि शुभ्रा ३, १३१
 भासू २, २०, २२
 औपशल- उपशल- द्र
 औपशि^a- शय बौश्रौप्र १७ ४
 औपशिव्य^a- न्यौ अप १, ३, १.
 औपसंक्रमण- उप-स/क्रम् द्र.
 औपसद्- उप/सद् द्र
 औपसार्गिक- उप/सृज् द्र.
 औपसीर्य- उपसीर- द्र
 औपस्तिक- उपस्ति- द्र

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु ?। b) = आचार्य-विशेष-। व्यु ?।

औफस्थान-, °निक- उप√स्था द्र
 औपस्थान्य- २उपस्थान- द्र
 औपस्थिक- १उपस्थ- द्र
 औपस्थूष्य- उपस्थूष- द्र
 औपस्थूल्य- उपस्थूल- द्र
 औपहस्तिक- उपहस्त- द्र
 १-२ औपाकरण- उपा√कृ द्र
 औपानह्य- उप√नह् द्र
 औपानुवाक्य- प्रभृ उपानुवाक्य-
 द्र
 १औपासन- उपा(प√अ)स्
 (क्षपणे) द्र
 २औपासन-, °निक-, °नीय-
 उपा(प√आ)स् द्र
 औपास्तिक- उपास्ति- द्र
 औपोदिति- उपोदित- द्र
 १औब्जाङ्गिरस- रसाम् चाञ्च २ :
 ४
 १औभय- उभ- द्र
 २औभय-, °भय- २उभय- द्र
 औभयसाम्य- १उभय- द्र
 औम-, °मक-, °मिक-, °मीन-
 उमा- द्र
 औम्वेयक- उम्बि- द्र
 औम्भि- (> २औम्भेयक-)
 उम्बि- टि द्र
 १औम्भेयक- उम्बि- द्र
 औरभ्र-, °भ्रक- प्रभृ उरभ्र- द्र.
 १औरव- १उर- द्र
 २औरव- २उर- द्र.
 औरश- (> २औरशायनि-) ३औरस-
 टि. द्र
 १औरशायनि- उरश्- द्र
 औरशि^a- शयः बौश्रौप्र ३ : ९

औरशी- उरश- द्र
 १औरस- प्रभृ १उरस्- द्र
 २औरस- उरसा- द्र
 ३औरस^b- (> २औरसायनि- पा)
 पाग ४, १, १५४^c
 १औरसायनि- २उरस्- द्र
 औरसिक-, १औरसी-, १उरस्-
 द्र.
 २औरसी- २उरस्- द्र
 औरस्य- १उरस्- द्र
 औरासुत- २उ(र>)रा- द्र
 औरुक्ष्य- १उर- द्र
 औरुक्ष्यायण^d- -णा बौश्रौप्र ७
 ३
 और्ण- प्रभृ, °णक- √ऊर्णु द्र
 १और्णनाभ- ऊर्णनाभ- द्र
 २और्णनाभ- (> २और्णनाभक-)
 ऊर्णनाभ- टि द्र
 १और्णनाभक-, और्णनाभि- ऊर्ण-
 नाभ- द्र
 और्णवाम- ऊर्णवामि- द्र.
 और्णायव- १ऊर्णायु- द्र
 और्णावत-, °य- १ऊर्णावत्- द्र
 और्ध्व-, °ध्वकालिक-, °ध्वदेहिक-,
 °ध्वदमिक-, °ध्वलक्षण- ऊर्ध्व-
 द्र
 और्म्या- ऊर्मि- द्र
 १और्व- २उर्व- द्र.
 २और्व- २ऊर्व- द्र
 १और्वभृगुवत् १उर्व- द्र.
 २और्वभृगुवत् २ऊर्व- द्र.
 और्वश- उर्वशी- द्र.
 औलन्दक- उलन्द- द्र.
 औलपि- ३उलप- द्र.

औलपिन्- २उलप- द्र
 औलपीय- ३उलप- द्र
 औलब<>व^d- -बः आपमं २, १६,
 २, भाग २, ७ ८, हिगृ २, ७, २.
 औलालायत^e- (> औलालायत-
 भक्त- पा) पाग ४, २, ५४.
 १औलूक- १उलूक- द्र
 २औलूक-, °क्य- २उलूक- द्र
 औलूखल- उलूखल- द्र
 औशन-, °नकाव-, °न-श्यावाश्व-
 उशन- द्र
 १-२औशनस- उशनम्- द्र
 ३औशनस- उशनम- द्र.
 १-२औशिज- उशिज्- द्र
 ३औशिज- उशिज- द्र.
 औशीनर-, °नरी- उशीनर- द्र.
 औशीरेय- उशीर- द्र.
 १औषजलराजसु वाश्रौ ३, ४, ३, २२.
 औषद् आपश्रौ २४, १४, १०^f, पाग
 १, ४, ६१
 औषद् √कृ पा १, ४, ६१
 औषध- औषधि, धी द्र
 औ(आ-ओ)षध्य(धि-अ)नुवाक^g-
 -कम्^h आमिगृ १, २, १ : २३;
 २४
 औषस- उषस्- द्र
 औष्ट्र-, °ष्ट्रक-, °ष्ट्राक्षि- १उष्ट्र- द्र.
 औष्ट्रायण-, °यणक- २उष्ट्र- द्र.
 औष्ट्रिक- १उष्ट्र- द्र.
 औष्ठ-, °ष्ठी- औष्ठ- द्र
 औष्णिह- प्रभृ. उष्णिह- द्र
 औष्ण्य- √उष् (बधा) द्र.
 औसजⁱ- -जे विघ ८५, ५२^j.
 औह- √ऊह (प्रापणे) द्र

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु ?। b) व्यप । व्यु ?। < २उरस् - (क्षत्रिय-विशेष-) इति पागम. ।
 c) °वा- इति [पक्षे] भाण्डा । d) = बालप्रह-विशेष-। व्यु ?। °व- इति हिगृ । e) व्यप. । व्यु ?।
 f) [पक्षे] औषद् इति पदसूची ?। g) अस. > षस । h) पाभे. पृ ७५५ । द्र. । i) = तीर्थ-विशेष-। व्यु ?।
 j) °जसे इति जीसं ?, औशिजे इति ? Jolly ।

क

१क^१- कः भाशि ३४, कात् पा ७,३,
४४, के शौच ४,२५
क-कार- -र अप ४७, १, १५,
ऋप्रा ४, ४७, ६, २१, तैप्रा ५,
३२, शैशि ३१२, ३१३, -रम्
ऋप्रा ४, १६, -रे ऋप्रा ४, ४१
ककार-द्वय- -यम् याशि २, ६२
ककार-पकार- -रयो शुप्रा ३,
२१
ककार-वर्ग- -र्गे शुप्रा ४, १६५
ककार-षकारा(र-आ)दि- -दि
निस् ८, ६ ११, २०
ककारा(र-आ)दि- -दय उस्
१, ३, याशि २, १
ककारादि-प्रथम- -मान् भाशि
३१
ककारा(र-अ)न्त^b- -न्ते माशि
१४, २, याशि १, ६२, २, ३६,
-न्तौ भाशि ३२
क-ख- -खयो शुप्रा ३, ११, शैशि
३२३
कख-प(र>)रा^b- -रा नाशि
१, ८, ९
कख-प-फ- -फेषु ऋप्रा ४, ३८,
शुप्रा ४, ८
क-ग्रहण- -णम् पावा ७, ३, ४४
क-च-ट-त-प- -पा याशि २, ९४.
क-ट-त- -तौ शौच २, ९.
क-ट-त-प- -पम् माशि १४, ६
क-टा(ट-अ)न्त- -न्तयो माशि
४, ११
क-न- -नौ अप्रा ३, २, १६, २२^२
क-प- -पयोः अप्रा ३, ३, ५, शैशि
१२३

कप-पर- -रः उस् ५, ६
कपा(प-आ)श्रितो (त-ऊ)ष्म-
जात- -तौ शैशि ३०
कप-वर्ग-पर- -र तैप्रा ९, ४
क-रेफ- -फाभ्याम् शुप्रा ३, ५८
क-व(त् >)ती- -त्यः निस् ८,
६ : ५
क-वर्ग- -र्गेः शुप्रा ८, ८, -र्गस्य
अप ४७, १, २०, -र्गे तैप्रा २, ३५
कवर्ग-निवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ८, ३, ७९
कवर्ग-प्रथम- -माः हिश्रौ २१,
२, ३३
कवर्गा(र्ग-अ)नुस्वार-जिह्वामूली-
य- -याः आशि १, १०
कवर्गा(र्ग-अ)वर्गा(र्ण-अ)नुस्वार-
जिह्वामूलीय- -याः आशि १,
१०
क-शब्द- -ब्दे अप्रा ३, ४, १
क-स-वर्ण^c- -र्णम् याशि २, ४१
का(क-आ)दि- -दयः अप ४७, १,
८, -दि शुप्रा १, ४७, शैशि १८,
-दीनाम् शैशि २१
कादि-लोप- -प पावा ६, ४,
१४९
को(क-उ)पध,घा- -घात् पा ४, २,
६५, ७९, १३२, ३, १३७,
पावा ४, २, १०४, -घाया पा
६, ३, ३७
कोपध-ग्रहण- -णम् पावा ४, २,
१४१
कोपध-प्रतिषेध- -ध पावा ४,
२, १०४, -धे पावा ६, ३, ३६
२क^d- ङक काश्रौ ९, ७, १३, १९, ४,
१९, आपश्रौ ४, ४, ४, ९, १९,
१०, १, १२, १५, बौश्रौ १४,

८ २७^२, १५, ३० २२^३;
भाश्रौ ४, ५, ५, वाश्रौ १, १, २,
१६, वैश्रौ १५, २२. १३^३,
हिश्रौ ६, १, ५१, ४, ३१, १४, ४,
२०^३, २३, २, २६, द्राश्रौ ५, ३,
१९, कौसू ४५, १७, अप ४८,
१३७, वृदे १, १२२, २, १२५,
३, ७०, निघ ५, ४, या १०,
२२५^३, वेज्यो १०^३, ङकम्
आपश्रौ ८, ७, १, १७, २, बौश्रौ
५, ८ २८, १६. ६, ६, २.
२२, १३, २० ९, २५, ३.
१७, भाश्रौ ८, २१, ६, १०, ५,
५, वावृश्रौ ४, १९^३ १४, १०३^३;
११, १२, हिश्रौ १, २, ४७, ५,
२, ५६, वृदे २, ४७^३, अप ४८,
७५, निघ ३, ६, या २, १४^३,
४, १८^३, १०, ४, १४, ११,
पा ५, २, १३८^३, कस्य बौश्रौ
२७, १४ १४^३, हिश्रौ २३, ४,
३९^३, वृदे ५, ९८, पा ४, २,
२५, ५, ३, ७२, ङकाय शाश्रौ
९, २७, १, काश्रौ २०, ४, २,
आपश्रौ ८, ७, १, बौश्रौ ५, ८.
२८, १४, ८ : २७, २५, ३.
१६, १७, वाश्रौ ३, ४, १,
४८, वैश्रौ ८, १३ : ७, हिश्रौ
५, २, ५६, आश्रु १, २०, ८, शाश्रु
३, २, २, काश्रु ३४, ४, ४१, १६,
भाश्रु १, ७ ११, माश्रु १, २२,
५, शुश्रु ३, १४
१काय,या^e- -पा ४, २, २५,
-य शाश्रौ ३, १४, ४, १६,
काश्रौ ५, ४, २१, बौश्रौ १७,
५६ १८, ५९ १६, वाश्रौ १,
७, २, १७, -यम् आश्रौ ४, १२,

a) = वर्ण-विशेष-। b) विप । बस । c) बस उप स = रसमान-। d) = प्रजापति-
सुख-, उदक- प्रसू । वैप १ द्र. । e) विप. (पुरोडाश-, वशा- प्रसू) । f) स्त्री. टाप् प्र (तु. दंष्ट्र->=ष्ट्रा प्रसू) ।

२, आपश्रौ ८, ६, ७, बौश्रौ ५,
 ५ १६१, ६.१८, ८ १६,
 २५,३.१७, माश्रौ ८, ५,११,
 ६,९, माश्रौ १,७,३, १, वैश्रौ
 ८, १० ६, हिश्रौ ५, २, २३,
 ३१, वैताश्रौ ८, २२, ऋश्र २,
 १०, १२१, शुश्र २, १४२,
 -यस्य हिश्रौ ५, २, २७, -या
 बौश्रौ १७, ५६ २४, ६२ १४,
 -या आपश्रौ २०, १४, ९, हिश्रौ
 १४, ३, १७
 काश्री^० -यी शाश्रौ १४, ७,
 ५, शुश्र ३, १८, वृदे ३, ९८,
 साम्र १, ३४१, -यीम् शुश्र २,
 १२९, -य्यौ शुश्र ३, ४९
 काश्या (यी आ) श्रेयी-
 य्यौ ऋश्र २, १, २४
 कं-य- क-यु- पा ५, २, १३८
 कं-वत्- -वति काश्रौ २१, ३, २२
 कत- कंति-, १कतु-, कव-, कभ-
 पा ५, २, १३८.
 कं(कई)श^० -शस्य अशा ६, २
 रक, का- किम्- द्र
 ✓कंस^० पाधा. अदा आत्म. गतिशा-
 सनयो
 १कंस^० पाठ ३, ६२, पाग २, ४, ३१,
 -स आश्र ४, ६, १९, कौश्र ५,
 ८, ७, काश्र ४६, १०, ५७, ८,
 गोश्र ३, २, ३८, द्राश्र २, ५, ३३,
 अप १, ३५, १, -सम् आपश्रौ
 १, १६, ३; बौश्रौ १, ४. २०,
 १८ १××, हिश्रौ, -सा: अश्र
 १०, १३१, -सात् द्राश्र ३, ४,
 २४, पा ५, १, २५, -से बौश्रौ

४, ९ १२, ५, २ १८, ६ १०,
 १३, ६, ७ ८, ९, ८, ३ ३××,
 भाश्रौ, -सेन आपश्रौ १, १६, ३,
 बौश्रौ १, ३. ३५, भाश्रौ १, १७,
 १२, वैश्रौ ४, २ १०, हिश्रौ १,
 ४, ४५, कौश्र ५, ८, ४, काश्र ४५,
 ५, गोश्र १, ३, ९, ७, २, द्राश्र १,
 ५, ११, -सौ बौश्रौ ५, ९: १०
 १काम^० -सम् जैश्र १, १७. ९,
 १३, १५, -सस्य शश्र १६४^२,
 १६५, -सेन माश्र १०, १०
 काश्र्य^१ -स्य शाश्रौ ४, १६,
 ९, बौश्रौ १८, ३५ ८, -स्यम्
 बौश्रौ १८, ८. ४, ९ १५, माश्रौ
 १, २, १, ९, १०, ४, ७, ५, बौश्र
 -स्यस्य शाश्रौ ४, २१, ८, शंघ
 १६४, -स्यानि बौश्र १, २, ५,
 -स्ये माश्रौ २, १, ३, ४, २, १, १,
 ४, १, ६, ५, २, २, ३, १७, ६, १६,
 पाश्र १, ३, ५, ३, ४, ९, काश्र,
 -स्येन शाश्रौ ४, १६, ३, माश्रौ
 १, २, १, ८, वाश्रौ १, २, ४, ५, पाश्र
 १, ३, ५, आपश्र, -स्यै. अप २७,
 १, १
 काश्र्य-कवच^० -च. शाश्रौ
 १४, ३४, २, काश्रौ २२, १०,
 ३१, बौश्रौ १२, २: १३, -चौ
 लाश्रौ ९, ४, १४
 काश्र्य-कार- र वैश्र ३,
 १४, १०
 काश्र्य-ताम्रा(म-आ)दि-
 -दीनाम् काध २७८ २.
 काश्र्य-तुर्थ^० -र्याणि आश्रिण
 २, ६, ६. १.

काश्र्य-दोहन-पूर (ण>)
 णीङ- -णीम् अशा १३, ४
 काश्र्य-पात्र -त्रम् अप ९,
 २, २
 काश्र्य-पात्री- -त्रीम् अप
 ६८, ५, ५
 काश्र्य-भाजन- -ने विध ७१,
 ३९
 काश्र्य-भोजि-वत् मीश्र १२,
 २, ३४
 काश्र्य-मय- -यम् आश्रिण २,
 ६, ७: १४
 काश्र्य-लोह- -यो विध
 २३, २६^६
 काश्र्य-वानस्पत्य मार्तिक-
 -कै. काश्रौ २, ३, ५
 काश्र्य-स्थ- -स्थम् वप्र ३,
 १०, १९
 काश्र्या(स्य-आ)दि- -दि वैश्र
 ५, १३ २०
 काश्र्यादि-लोह-म(य>)
 यी- -यी वैश्रौ ११, ९ ७.
 काश्र्या(स्य-अ)पहारिन्- -री
 विध ४४, १५
 काश्र्या(स्य-अ)पिधान^०- -नम्
 कप्र ३, १०, १९
 काश्र्यो(स्य-उ) पदो(ह>)
 हा^१- -हाम् विध ९२, ८.
 कंस-कुम्भ-पात्र-कुशा-कर्णी- -र्णीषु
 पा ८, ३, ४६.
 १कंस-पात्र- -त्रम् काश्रौसं ४: १३.
 २कंस-पात्र^१-> कासपात्रि- -त्रय:
 बौश्रौप्र ४४ २.
 कंस-पात्री- -श्याम् पावा १, ४, १.

a) विप (ऋन्, वशा-). b) विप. । बस । c) ✓कस वा ✓कश वा इत्यप्येके । d) = धातु-
 विशेष-, तन्निर्मित-पात्र-परिमाण- च । वै १ १ द्र । e) विप. । विकारार्थे अण् प्र. । f) विप, नाप. (कंस-).
 विकारार्थे यञ् प्र (पा ४, ३, १६८) । पात्र. तु कंसीय- > यनि. इति । g) विप । कस > उस उप कर्त्तरि
 स्तुद् प्र. । h) 'लौ' इति जीसं. । i) विप. । बस. उप. अधिकरणे घञ् प्र. । j) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? ।

कंस-मन्थ-शूर्प-पाय्य-काण्ड- -ण्डम्
पा ६, २, १२२
कंस-वसन- -नम् कौसू ५४, २१,
१३६, ११, अथ ७२, २, ९.
कंस-स्थाल- -ले लाश्रौ ८, ११, २५
कसा(स-आ)दि- -दिना कप्र १, ९,
११
कसिक- पा ५, १, २५.
कसीय-> ०य-परशव्य- -व्ययो
पा ४, ३, १६८, पावा १, १,
६१^२
२कंस^०- (> २कास- पा) पाग ४,
३, ९३
३कंस^०-> कासायन- -ना बौश्रौप्र
४१ १४
कासि- -सय बौश्रौप्र ३ २
√कक् पाधा भ्वा आत्म. लौत्ये
ककन्द- पाउभो २, २, १६७
ककर^०- -रान् आपश्रौ २०, १४, ५
ककल^०- (> काकलेय- पा) पाग ४,
१, १२३
ककाटिका^०- -काम् अप्रा ३, ४, ११
ककुच^०- -वै कौसू ४८, ३२
ककुद्^०- पाग ८, २, ९, -कुव् बौश्रौ
१३, ४२ २, निसू १०, १ १,
तैप्रा ८, ४, -कुद्^१ आपश्रौ १८,
७, ९, बौश्रौ १८, ४० : ११६,
हिश्रौ १३, २, ३८, -कुदम्
आपश्रौ १८, ७, ९, हिश्रौ १३,
२, ३८, -कुदि बौश्रौ ४, ६ ६,
वैश्रौ १०, १० १६, -कुन्नि.
आपश्रौ १४, ३३, ७, माश्रौ
६, २, २, २१, हिश्रौ १५, ८,

४०
ककुत्-स्थ^०- पाग ४, १, ११२
काकुस्थ- पा ४, १, ११२
काकुस्थ-कन्या- -न्या वृदे
६, ५४
ककुद्-मत्- पा ८, २, ९, -†मान्
बौश्रौ ११, ६ २४, ऋप्रा ४,
२२, तैप्रा ८, ४, शैशि २५३
ककुद्-रूप- पम् निसू ७, १० २
ककुद्^०- पाग २, ४, ३१, -दस्य पा ५,
४, १४६, -वे कौसू ४४, ७
ककुदा(द-अ)क्ष- (> काकुदाक्षिक-
पा) पाग ४, १, १४६
ककुदिन्- -दी बौध १, ५, ८६
ककुन्दर^१- -रे विव ९६, ९२
!ककुबद्ध निसू १, २. ३
१ककुम्^०- पाग ४, १, ८६, -कृ
शाश्रौ ७, २५, ३, २७, ४, लाश्रौ
६, ४, ७, निसू १, २ ७, २, ११
२७, २८, ऋअ १, ५, ३×४,
या ७, १२^०फ, ऋप्रा १६,
३०, १८, २३, पिं ३, १९,
उनिसू ४ १४, ५ ३५, ३७,
७ १७, -कृप्सु लाश्रौ ७, ३,
५, निसू १०, ५ ९, -कुम्भि
वाश्रौ २, २, १, ३१, -कुम्भ.
आश्रौ ६, १, २, ७, २, १७, शाश्रौ
७, २५, १४, १६, २७, २०, काश्रौ
१७, १२, १०, आपश्रौ १२, ३,
२१, हिश्रौ ८, १, ४११, लुस
१, ५ ९, ६. १०, ७ १७, जैश्रौ
९ ८१, निसू १, ३ १३×४,
निघ १, ६१, -कुम्भम् निसू ६, ८:

२८, ८, ६ १८, ९. १८, ६, ३:
१२, -†कुम्भि शाश्रौ ७, २५,
५६, आपश्रौ २, ५, १०^१, बौश्रौ
१, १२ : १७^१, ३, ३१ ६;
१४, १४ : ३, वाश्रौ १, ३, २,
१८^१, भाश्रौ २, ५, २, माश्रौ
१, २, ५, ८^१, हिश्रौ १, ७,
१४^१, निसू ४, १० : ८, ६,
६ १४, ७, १२ ६, -कुम्भौ
शाश्रौ ७, २५, ७, लाश्रौ ६, १,
२०-२२, ७, ९, १, ८, ५, १३;
चुसू.
१काकुम्भ- -भ पा ४, १, ८६;
शाश्रौ ७, २५, ५, निसू ३, १२ ४;
ऋअ १, ११, ३, २, ६, ४८^१, शुअ
२, २२४, ऋप्रा १८, १, -भम्
ऋअ २, ८, १९, -भाः शाश्रौ
१८, १३, ९, ऋअ २, ९, १०८;
-भान् ऋप्रा १८, २, -भानाम्
वैताश्रौ २५, ५, ऋअ ४, १०;
-भे ऋप्रा १८, ६, -भेषु आश्रौ
५, १५, ८.

काकुम्भ-बर्हत्^०- -तः ऋप्रा
१८, १९
ककुप्-कारम् शाश्रौ ९, २०, ६, १८,
४, ३, ४, ५, ३, ४, कौण्ट ३, ३, १,
शाण्ट ३, ४, ५, ६, ३, १२.
ककुप्-पंक्ति- -क्ती ऋअ २, ८, १९.
ककुप्-पूर्व^०- -र्व ऋप्रा १८, १९.
ककुप्-प्रमृति- -ति लाश्रौ ६, ३,
२६
ककुप्-सतोबृहती- -स्यौ ऋअ २,
५, ५३

- a) = देश-विशेष-। व्यु ?। b) ऋषि-विशेष-। व्यु ?। c) वैप १ द्र। d) अर्थः व्यु च ?।
e) = तिमिर-फल- इति दारिल., ओषधि-विशेष- इति संस्कृतां (तु भू XLVIII)। f) पामे. वैप १, १०८१ k द्र.।
g) ककुम्भः इति मूलो.। h) व्यप.। उस। i) = शरीरावयव-विशेष-, अभा तु ककुन्दर- इति। व्यु ?।
j) = छन्दस्-, दिश-, [उपचारात्] इष्टका-विशेष- प्रमृ.। k) ऋभिः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैप्रा ३, ३,
२, १)। l) पामे. पृ ६४५ ७ द्र.। m) मल्लो. कस.। n) विप.। बस.।

ककुब्-उत्तर,रा^१- राणि निसू २,
१० ४, -रासु लुसू ३, ३११,
४:१, निसू ७, २ २२, ४
२९, ३९, ५२
?ककुबुत्तरा-स्थान- -नम् निसू
७, २ २२, ४:४०, ५३
ककुब्-उष्णिह्- -ष्णिक्षु उनिसू ७
१७, -ष्णिहौ द्राश्रौ ८, ३, ८,
२०, लाश्रौ ४, ७, १, ३
ककुब्-देश^२- -शे माश्रौ १, ८, ३, १२
ककुब्-भन्द^३- -न्द सु २३, ४
ककुब्-रूप- -पम् निमू १०, ४ ७
ककुम् भादि- -वय अप्रा ३, ३, २१
?ककुभि न्<>नी^४- -नी या ७, १०
ककुम्-न्यङ्कुशिरा^५- -रा ऋअ
१, ५, ४, २, ८, ४६, शुअ ५,
२७, ऋप्रा १६, ३३
ककुम्-म(त्<>ती^६- -ती अत्र १,
१०, ११, १४××, पिं ३,
५६, -यौ अत्र ८, ५, १३, १.
ककुम्मती-ग(र्भ<>)र्भा- -र्भा
अत्र ३, १९, २७, २९, ४, ३,
-र्भा: अत्र १०, ५
ककुम्मत्य(ती-अ)लुष्टुम्-
-ष्टुम अत्र ५, २८
ककुम्-मध्येज्योतिस्- -तिषी ऋअ
२, ८, २२
२ककुम्^७- (> २काकुम्- पा)
पाग ४, १, ११२
ककुम्-भ ऋप्राय ३, ३^८, -भम्
जैश्रौ २३ १०^९, जैश्रौका ५६^९,
अप २६, ५, ३^९, -मा ऋप्रा
३, ४, १^९

ककुह^८-ह निघ ३, ३, -हम्^१
आपश्रौ १२, ८, ३, बौश्रौ १४,
१२ १३, वैश्रौ १५, १० ७,
हिश्रौ ८, २, ४२
ककोल- पाउभो २, ३, ११५
ककखट- ✓कस् द्र
कक्ष,क्षा^९- पाउ ३, ६२, पाग ५, २,
१३१, -क्ष बौश्रौ १४, १३.
२८, या २, २९, -क्षम् आपश्रौ
९, ११, २२, बौश्रौ १४, १३.
२३, ३०, २३, ६ ८, ९,
वाश्रौ १, ५, ३, १७, वैश्रौ २०,
२२ ११, वैताश्रौ ३१, ४,
आगृ २ ४, ९, कौगृ ३, १५, ७,
शागृ ३, १४, ६, बौगृ २, ११,
६०, वैगृ ४, ४ २६, हिपि
२३ १९, गोगृ १, २, २, ३,
४, १, ०१, वाव २, १२, बौघ
१, २, ५०, या २, २, -क्षान्
कौसू ४६, ४०, -क्षाम् हिगृ
१, ४, ६^{१०}, -क्षाय वैगृ १, १५
१३, -क्षे काश्रौ २१, ३, १५,
वैघ ३, १४, ७, या २, २८^{११},
-श्रौ माश्रौ १, ४, १, ३, २, १,
१, २८
कक्ष-दैवत-सोम- -माय वैगृ १,
१५:१३
कक्ष-वन-डाहिन्- -ही शध ३७७
१५
कक्ष सेन->काक्षसेनि- -नि. निसू
४, ११:२२
✓कक्षाय पावा ३, १, १४
कक्षिन्- पा ५, २, १३१

क(क्ष>)क्ष्या^{१२}-क्ष्या या २, २९;
६, २८^{१२}, -क्ष्या अप ४८,
८२^{१३}, निघ २, ५^{१४}, या ३,
९^{१५}, -क्ष्याम्^{१६} आग्निगृ १, १,
२:४२, वैगृ २, ६:१३, १२
१८, -क्ष्याया पावा ६, १, ३७.
कक्ष्या-जीविन्- -वी वैघ ३,
१२, १०.
कक्ष्या-वत्- -वान् या ६, १०
कक्षतु^{१७}- (>काक्षतव- पा) पाग ४,
३, १६४
कक्षी-वत्^{१८}- पा ८, २, १२, पावा ६,
१, ३७, -वताम् आश्रौ १२,
११, ३, -वति वृदे २, १३०
-क्ष्वन्तम् बौश्रौ ३, ९, ६, हिश्रौ
६, ६, १६, अप्राय ४, १, शुप्रा
५, ३७, या ६, १०, -वान्
शाश्रौ १६, ११, ५, ऋअ २, १,
११६, १२६, ९, ७८, वृदे ३,
५६, १४२, १५०, या ६,
१०^{१९}, तैप्रा ९, २९^{२०}, अप्रा ३,
४, १^{२१}
?काक्षीवत- -०त् आश्रौ १२,
११, ३, आपश्रौ २४, ६, १५,
बौश्रौप्रा १२ ३, १३ १,
हिश्रौ २१, ३, ९, वैघ ४, ४, ३,
४, -त् ऋअ २, १०, १३१,
१६९, शुअ १, ६४०, -तस्य
चाअ ४२:५
काक्षीवती- -ती ऋअ २,
१०, ३९, वृदे ७, ४२, -वत्यै
वृदे ७, ४८
२काक्षीवत^{२१}- -तम् शाश्रौ ९,

a) विप । बस । b) कस पूष = कडुद्- । c) = सोमरक्षक-विशेष- । व्यु ? । d) ककुदिनी-
इति स्क । e) मलो कस । स्त्री ङाबन्तम् । f) = छन्दो-विशेष- । g) व्यप । व्यु ? । h) सपा. काठ
३४, १६ °ह इति पाभे । i) = अर्जुन-वृक्ष- । j) = पिशाच-विशेष- । वैप १, १०८१ । यनि शोध । k) वैप १ द्र. १
l) पाभे. वैप १, १०८१ m द्र । n) सपा कक्षाम् <> कक्ष्याम् इति पाभे. । n) वैप १, १०८२ j द्र ।
o) स्वार्थे प्र । p) = वनस्पति-विशेष- । व्यु ? । ऋकनु-, कर्कन्तु-, कर्कन्धु- इति पाका । q) = सूक्त-विशेष- ।

२०, १२, १६, ११, ४, लाश्रौ ६, १२, १४ ^a , निसू ७, ५ ३३ ^b , वृदे ३, १४१, १५२, -तानि शाश्रौ ९, २०, ११ कक्षीवत्-प्रमुख ^b - खान् वृदे ४, २५ कक्षीवद्-वत् आपश्रौ २४, ६, १५, बौश्रौ १२ ४, १३ २, हिश्रौ २१, ३, ९, वैध ४, ४, ३, ४	पाग ४, २, ८० ^c कङ्कण ^d - पाउमो २, २, १२४ कङ्कणीका- पाउ ४, १८ १कङ्कत ^e - ण्त बौश्रौ १८, १९ ६, वाश्र ३१, २, -ण्तम् काश्र ३१, २, वाश्र १६, ८ ^f , -तेन कौसू ७६, ५, -तै पाश्र २, १४, १५ २ ^१ कङ्कत ^g - त ऋश्र २, १, १९१, वृदे ४, ६३ ^h ३ ^१ कङ्कत ^m - तान् आमिगृ २, ४, ८ ९, -तेभ्य आमिगृ २, ४, ८: ४ कङ्कति ⁱ - > ण्ति-ब्राह्मण- णम् आपश्रौ १४, २०, ४ कङ्काल- पाउमो २, २, १०५ कङ्कगु- पाउमो २, १, ४८ ✓कच् पाधा भ्वा आत्म बन्धने कच ^k - (> कचिक ^l - पा.) पाग ४, २, ८० कचप- पाउ ३, १४२. १कञ्जुक ⁿ - (> काञ्जुक्य- पा) पाग ४, १, १०५ ^m कञ्चूर- पाउना ४, ९६. १कञ्ज ^o - पाउवृ ४, १०५, -ञ्ज या ४, १८ ^q , -ञ्जम् या ४, १८, -ञ्जन या ४, १८ ^r कञ्ज-प ^s - -प. या ४, १८ ^q , -पम् माश्रौ ३, ६, १६, वाश्रौ २, १, ६, ३६	कञ्जा(ञ्ज अ)मि-वक्त्र-गर्तो(नी-उ) त्तरपद्- दात् पा ४, २, १२६ २कञ्ज ^t - (> काञ्ज- काञ्जक- पा) पाउमो २, २, ८५, पाग ४, २, १३३, १३४ कञ्जा(ञ्ज-आ)दि- दिभ्यः पावा ४, २, १००, -दिषु पावा ४, २, १३३ कञ्ज ^u - पाउ १, ८४ ^t कञ्ज-र ^v - पावा ५, २, १०७ कञ्जूल ^w - (> ण्जिल ^u - पा) पाग ४, २, ८० ^t ✓कञ्ज ✓खञ्ज द्र कञ्जल ^v पाग ५, २, ३६ कञ्जला(ल-अ)र्म- पा ६, २, ९१. कञ्जलित- पा ५, २, ३६ ✓कञ्च् पाधा भ्वा आत्म दीप्ति- बन्धनयो १कञ्जखन्ता अप ४०, ६, ६ १कञ्ज ^u - नम् वाश्र ६, ९ ^v कञ्जुक ^w - पाउमो २, २, २३ ^x , पाग ५, २, ३६, -कानि माश्रौ १, १, २, १८. काञ्जुक ^y - > ण्किन्- की आपध १, ८, २, हिध १, २, ९. कञ्जुकित- पा ५, २, ३६. कञ्जूल- पाउवृ ४, ९० कञ्ज- पाग २, २, ३८ कञ्जार- पाउ ३, १३७
---	---	--

a) = साम-विशेष-। b) विप । बस । c) = पक्षि-विशेष-। व्यु ? । d) विप । उस उप. क्तिबन्तम् ।
e) व्यप । व्यु ? । f) आयुर्वेदाचार्य-विशेष-, ऋषि-विशेष-। g) अर्थः व्यु. च ? । h) कण्टक- [काशादौ] इति
कर्केटा- [प्रेक्षादौ] इति च पाका । i) = देश-विशेष- ? । j) वैप ३ द्र. । k) = केशप्रलेखनोपकरण- [कक्षी
इति नभा] । व्यु ? । l) उत्तरेण संधिरार्ष । m) = वायस-विशेष-। व्यु ? । n) तु पाका । जुलुक- इति
भारुडा प्रभ । o) = नदी-तट-, कूर्माङ्ग-विशेष- प्रभ. । व्यु ? । p) उप. < ✓पा [पाने] ✓पा [रक्षण] चेति या ।
q) = रोग-विशेष-। व्यु ? । r) < ✓कष् इति । s) वैतु MW < कञ्ज इति । t) वञ्जूल- इति पागम ।
u) नाप । व्यु ? । v) पाठ ? क्तिञ्ज इति शोधः (तु माश्र १, १, १०) । w) < ✓कञ् इति पांमाधा. ।
x) < ✓कश् इति । y) स्वार्थे षण् प्र. ।

कट्^१ बौश्रौ २३, ७:२६

✓कट् (बधा) पाघा म्वा पर वर्षा-
वरणयो गतौ च

कट्^२- पाग ४, २, ८०^०, ५, १, ४, ६, २,
८५, -ट वाध्रौ ३, ७६ ३५,
-उम् आपश्रौ २०, २१, ७, बौश्रौ
१५, १४ ९, वाश्रौ ३, ४, १, ७,
५, १०, पागृ १, ५, २, आपगृ ४,
९, गोगृ २, १, १९, बौध १, ५,
११०, -टात् पागवा ४, १,
४१, -टान् आपश्रौ ११, ८,
२१, २१, १२, ९, हिश्रौ ७, ५,
२७, ७, २१, १६, ५, ३, -टे काश्रौ
१३, ३, १६, आपश्रौ २०, २१, १,
बौश्रौ १५, ३२ १२, ३३ ६,
१८, २१ : १३, २६, ३२ १७,
वाश्रौ ३, ४, ५, ९, हिश्रौ १४, ४,
२४, ४८, आपगृ १२, ३, कागृ
४५, ६, मागृ २, १, ७, वागृ १४,
५, -टेन आपश्रौ २०, २१, ६,
बौश्रौ १५, ३३ १०, हिश्रौ
१४, ४, ५१, आपगृ ३, ५, ३
९, बौपि १, ३ ७

कटो- पा ४, १, ४१

१कट-क^१- कम् अप १८, २, २

कट-कार- रः वैध ३, १३, ६

कट-कारिन्- री वैध ३, १३, ६

कट-परिवार^१- रम् बौश्रौ १६,

२० ६, -रे बौश्रौ १६, २१

७, -रौ बौश्रौ ६, १ १४

१कट-प्रवृत्त- ते अग ३६, ९, ३

कट-पू- पाउ २, ५७, पावा ३, २,
१७८

कट-शलाका- -कया आपश्रौ २१,
१८, ९

कट-संवात^१- -ते आपश्रौ २१, १८,
५, हिश्रौ १६, ६, ३३

कटा(ट-अ)ग्नि- -ग्निना बौध २, २,
५३

कटा(ट-आ)दि- -दे पा ४, २, १३९

कटा(ट-अ)न्त- -न्तम् गोगृ २,
१, २१, -न्ते गोगृ २, १, २२

कटिन्^१- पा ४, २, ८०

कटीय- कव्य- पा ५, १, ४

२कटक^१- पाउ ५, ३५^१, पाग २, ४,
३१, ५, १, ४^०

कटक-केयूर-वारिन्- -रिणे अप
४०, १, १३

कटकीय- कटक्य- पा ५, १, ४

क-ट-त-, °प- १क- द्र

कटनि- पाउभो २, १, २१२

कटभ^१- -भम् अप २६, ५, ३

कटम्ब- पाउ ४, ८२

१कटविकटकरटेमाटे अप ३६, ९, ३

कटा^१- (> कटालु-पा) पागवा
५, २, ९७

कटाकु- पाउना ३, ८०

कटान्त- १क- द्र

कटार- पाउना ३, १३६

कटाह- पाउभो २, ३, १८७

कटि^१- पाउ ४, ११८^१, -टि. कप्र
१, ७, ९, -टिम् कप्र १, १, ३,

-टौ शोध १९७, -ट्याम् विव
५, २०.

कटिच- पाउभो २, ३, ८८

कटिप^१- (> काटिप्य- पा) पाग
४, २, ८०

१कटिमाटर^१- -राय अप ६६, ३, २

कटीर- पाउ ४, ३०

कटु^१- पाउवृ १, ८, पाग ६, २, २४^m,
-टु अप ३६, ३०, १

१कटु-क, का^१- पाग ५, १, १३०;
६, २, ८७^०, -कम् विध ६१, १५,

आपम १, १७, ९, -का द्रागृ
४, २, ८, -के अप ३५, १, १,
-कै. अप २६, ५, २

काटुक- पा ५, १, १३०

कटुक-प(त्र>)त्रा^१- -०त्रे अप
३५, १, १

कटुक-प्रस्थ- पा ६, २, ८७

कटुक-बदरी^१- वा पाग ४, २, ८२^f

कटुकिमन्- -आ या ५, ४

कटु-तैल- -लेन अप ३५, १, १०

कटुतैला(ल-अक्त>)क्ता- -क्ताः
अप २६, ४, २

कटु-मन्थ- (> काटुमन्थि-)
२कटुक- टि द्र

२कटुक^१- (> काटुकि- पा) पाग
२, ४, ६३^t

कटुक-बाधू (, वाचं [पाका]) लेय-
पाग ६, २, ३७

कटेट- (> टी-) पाग ४, १, ४१^m.

कटेर- पाउनावृ १, ६०

a) = धन्यनुकरण-। b) बप्रा.। वैप १ द्र। c) अर्थः?। d) स्वार्थेऽलपार्थे वा प्र.। e) नाप।
षस. उप. < परि✓वृ [आच्छादने]। f) षस.। g) = देश-विशेष-^१। h) = आभरण-विशेष-।
व्यु^१। i) < ✓कट् इति। j) = वृक्ष-विशेष-। व्यु^१। k) अर्थ. व्यु च^१। = जुद्रगजगण्ड- इति
पागम। l) = श्रोणि-। व्यु^१। m) तु. पाका। पटु- इति भाण्डा। n) विप, नाप.
(ओषधि-विशेष-). वैप १ द्र। o) तु. पाका। कन्दुक- इति भाण्डा। p) विप.। बस.। q) = तददूरभव-
श्राम-विशेष-। r) कन्दुक^१ इति [पक्षे] भाण्डा। s) व्यप। व्यु^१। t) °कमन्थक- इति पाका,
कटुमन्थ- इति पागम। थ) तु. पागम।

कणे-हृत्- -तः या ५, ११
 कणीक- पाउना ४, २६
 कणीचि- पाउ ४, ७०
 कणूक^a- पाउमो २, २, २७
 √कण्ट^b, कण्टति निघ २, १४^c
 कण्ट^c- ण्ठेषु विघ ४३, ४३^d
 कण्टक^e- पाग २, ४, ३१, ४, २, ८०^f,
 ५, २, ३६, -क या ९, ३२^g,
 -रुम् अप ३६, ११, १, -कै
 आपश्रौ २२, ४, २५, काश्रौ २२,
 ३, २२, हिश्रौ १७, २, २९, अप
 २६, ५, २, विघ ४३, ३५
 कण्ट(क>)की^h- -कीम्
 आपश्रौ १५, १, १, २, ५, ११, ७,
 १, ११, ९, भाश्रौ ११, १, १, २,
 ५, १४, ११, १०, १२, ७, हिश्रौ
 २४, १, १, २, २, ५, ११, ५, २,
 वैश्रौ १३, १ ४
 कण्टक-मर्दन- (>कण्टकमर्दनिक-
 पा) पाग ४, ४, १९
 कण्टक-शा(व्य>)व्याⁱ- -व्यया
 कौसू ३५, २८
 कण्टक-शाधिन्^j- -यिनः वैध १,
 ८, १
 कण्टक-शात्मलि^k- -लि विघ ४३,
 १९.
 कण्टकिक^l- पा ४, २, ८०
 कण्टकित- पा ५, २, ३६
 कण्टकिन्- -किन द्रागृ ४, २, ८,
 हिपि १ ६, याशि १, ३७,
 नाशि २, ८, ४, -किनम् आमिपृ
 २, ३, ५: ३
 कण्टकिनी- नीम् गौपि १,

४, ४, सुघ ५६
 कण्टकि-क्षीरिन्- -रिणः आगृ
 २, ७, ५, ४, १, १४^m
 कण्टकि-ज- -जम् विव ६६, ७,
 ८, -जानि विव ७९, ५, ६
 कण्टकिल- पा ४, २, ८०
 ?कण्टको(र-ऊ)षर-वत्- -वति
 काव २७७ १ⁿ
 कण्टकार^o- (>कण्टकार- पा)
 पाग ४, ३, १५४
 कण्टकारिका^p- पा, पाग ४, ३,
 १६७
 √कण्टू पाधा म्वा आत्म चु उभ
 शोके, कण्टति निघ २, १४^q
 कण्ट^r- पाउ १, १०३, -ण्ठ आश्रौ
 १२, ९, ४, अप, -ण्ठम् काश्रौ
 २५, १०, ७, माश्रौ, -ण्ठस्य
 ऋप्रा १३, १, पाशि २०, -ण्ठात्
 कागृउ ४६. १४, भासू ३, १९,
 माशि १, ११, १२, नाशि १, ५,
 ५, ६, -ण्ठे शाश्रौ ४, १४, २१,
 काश्रौ, -ण्ठेन माशि ४, ४, -ण्ठेषु
 काश्रौ १६, १, १८
 कण्ट-गडु- पाग २, २, ३७
 कण्ट-गत- -तेन माशि ४, ५
 कण्ट-(ग>)गा- -गाभि वाध ३,
 ३२, शव ९३, ९४, वैध २,
 १०, १
 कण्ट-ज- -जा शैशि ४२
 कण्ट-नालु-> लव्य- -व्यौ शैशि
 ४४, पाशि १९, आशि १, २२.
 कण्ट-देश- -शे अप ४७, २, ६
 कण्ट-नासिका-> ऽसिक्य- -क्यम्

आशि १, २०
 कण्ट-पृष्ठ-श्रीवा-जङ्घ- -ङ्घम् पा ६,
 २, ११४
 कण्ट-प्रानृत-> ऽता(त-अ)वमक्थि-
 का(का-अ)पाश्रयण-पादप्रसा-
 रण- -गानि गौध २, २०
 कण्ट-बन्ध^s- -न्धम् माश्रौ ५, १, ५,
 ३५.
 कण्ट-बिल- -लम् आशि ८, ९;
 -लस्य आशि ८, २०, २१, -ले
 आशि ८, १०
 कण्ट-मात्र- -त्रम् सुवप ८७. ९.
 कण्ट-युक्त- -क्तम् नाशि १, ३, ३
 कण्ट शीर्ष-समाहृत- -त नाशि १,
 ५, ८, ९
 कण्ट-सक्त- -क्ते वैगृ १, ५: १२.
 १कण्ट-स्थान- -नम् नाशि १, ७, २.
 २कण्ट-स्थान^t- -नौ तैप्रा २, ४६
 कण्ट हस्त- -स्तेन अप १, २७, ४.
 कण्टे-विद्ध^u-> कण्टेविद्धि- -द्धिः
 बौश्रौप ४५. ४
 कण्टेविद्धी-, कण्टेविद्धया-
 पा ४, १, ८१५.
 कण्टो(ण्ट-उ)क्ति^v- -क्ति भाशि
 १२९
 कण्टो(रठ-उ)रस्- -रसो तैप्रा २,
 २
 कण्टो(रठ-ओ)ष्ठ-> ऽष्ठ-ज- -जौ
 शैशि ४४, पाशि १९
 कण्टोष्य- -ष्यौ आशि १, २३.
 कण्ठ्य, ण्ठ्या- -ण्ठ्य ऋप्रा १,
 ३८, शुप्रा ४, ४९, -ण्ठ्यम् अप^w
 ४७, २, ७, पाशि १६, याशि २,

a) = धान्य-स्तोक । वैप १ द्र । b) या ९, ३२ परामृष्ट. द्र । c) = कण्टक- । व्यु १ । d) ण्ठेषु
 इति जीसं । e) < √ कृत् वा √ कण्ट् वा कम् (< किम्-) + तप- (< √ तप्) वेति या । वैप १ द्र. ।
 f) सकृत् तु. पाका. । g) विप । मत्वर्थायः अण् प्र. (पा ५, २, १०३) । h) विप । बस. । i) = वानप्रस्थ-
 विशेष- । j) = नरक-विशेष- । k) = देश-विशेष- ? । l) पाठः ? 'वत्-स्थल' इति शोधः संभाव्येत ।
 m) = श्रोषधि-विशेष- । व्यु ? । n) धा. गतौ वृत्तिः । o) वैप १ द्र. । p) = ऋषि-विशेष- । q) ण्ठे इति पाठि. ।

५७, -ण्ठ्ययो ऋप्रा १४, १२,
-ण्ठ्यस्य ऋप्रा १३, १२, याशि
२, २०, -ण्ठ्या शुप्रा १, ७३,
-ण्ठ्याः शुप्रा १, ८४, ८, ३२,
शैशि ३२४, याशि २, १, ९४,
आशि १, ७, -ण्ठ्यात् ऋप्रा १४,
३१, शुप्रा ४, ५३, -ण्ठ्यानाम्
शौच १, १९, -ण्ठ्याभि बौध
१, ५, १८, -ण्ठ्ये ऋप्रा १४, ६२,
ऋत ५, ३, ५, -ण्ठ्यौ ऋप्रा २,
३२, ६२, पाशि १७
कण्ठ्य-जिह्वामूलोय-तालव्य-म-
र्धन्य-दन्त्यो(न्त्य-ग्रो) ऋ-यमा-
(म-अ)नुस्वार-विमर्जनीयो(य-उ)
पध्मानीय नामिकया(क्य-अ)नु-
नासिक्य-रङ्ग- =ज्ञा याशि २, १
कण्ठ्य-दन्त्य-पर- -रे ऋत ४,
१, ७
कण्ठ्य-पूर्व- -र्व शुप्रा ४, ३८.
कण्ठ्य-स्वर- -र भासू ३, ११,
-रम् शुप्रा ७, २
✓कण्ठ पाधा भ्वा आत्म पर मदे,
तु पर भेदने
कण्ठन^१- > °नी-नी शघ १३१,
विघ ५९, १९
कण्ठन-प्रक्षालन- -ने विघ २३,
३५
क(रुडक->)ण्डिका- -के शुअ ३,
१३६
१कण्ठ, ण्ठ^२- पाउभो २, १, ५१०,
पाग ३, १, २७, ५, २, ९७^३, ४,
३४, पावा ५, २, १०७^४
काण्डविक- पा ५, ४, ३४
कण्ठ, ण्ठ^५-ल- पा ५, २, ९७

कण्ठ^६✓कृ>कण्ठ-कृ(त>)
ता^७- -ता बौश्रौ १६, २४ १३,
२६, १८ ७
✓कण्ठ्य पा ३ १, २७, कण्ठ्यते
आपश्रौ १०, १०, २, बौश्रौ ६, ५
२१, भाश्रौ १०, ६, १६, ८, ३, भाश्रौ
२, १, २, १३, वैश्रौ १२, ९ ७,
हिश्रौ १०, २, १०, ६७, कण्ठ्यति
भाश्रौ १०, ६, १६, कण्ठ्यासै
बौश्रौ ६, ६ ३^८, कण्ठ्यस्व
बौश्रौ ६, ५ २२, कण्ठ्येत
माश्रौ २, १, २, १४, २, ४, ४४,
कण्ठ्येत कौश्र ३, ११, १९, शाश्र
४, १२, १८, विव ७१, ५३,
कण्ठ्यथा बौश्रौ ६, ६ . २
कण्ठ्यति- -त्याम् वैश्रौ १२,
९ : ७
कण्ठ्य^९ बौश्रौ २८, ९ २३,
वैश्रौ २१, २ ९
कण्ठ्यन^{१०}- -नम् विघ २३,
६०, काश्रौ ७, ३, २६, भाश्रौ
१०, ९, ८, -ने काश्रौ ७, ४, ८,
मीसू ११, ४, ४९
कण्ठ्यनी- -न्या
काश्रौ १५, ६, ८
कण्ठ्यन-मन्त्र- -न्त्रः
हिश्रौ १, १, ४१
कण्ठ्यन-स्वप्न-नदीतरा-
(र-अ)ववर्षणा(रा-अ)मेध-प्रति-
मन्त्रण- -णेषु आपश्रौ २४, १,
४०
कण्ठ्यमान- -नम् वैश्रौ
१२, ९ . ९
कण्ठ्वा(रुड-आ)दि- -दिभ्य.

पा, पावा ३, १, २७, -दिषु
पावा ३, १, ९१, -दीनाम् पावा
६, १, ३
कण्ठर^{११}- (> ✓कण्ठराय पा) पाग
३, १, १२^{११}
१कण्ठनी^{१२}- (> काण्ठन्य- पा)
पाग ४, १, १०५, २, १११
२कण्ठु (> काण्ठव-) १खरुड- टि द्र
कण्ठूल- पाउभोवृ २, १, १२
कण्ठोल, क- (> कण्ठोल-पाद-,
कण्ठोलक-पाद- पा) पाउवृ
१, ६६, पाग ५, ४, १३८
कण्ठ्वा^{१३}- > ✓कण्ठ्वाय पावा ३,
१, १७
कण्व^{१४}- पाउ १, १५१, पाग ४, १,
१०५, २, १११, -ण्व. अप ४८,
८५^{१५}, निघ ३, १५६, आपध १,
१९, ३, हिघ १, ५, १०५, ऋअ
२, १, ३६, ९, ९४, वृदे ६, ३५,
३७, शुअ २, ४४, ३१०, ३,
२४९, ४, ३९; साअ १, ५४,
१३६, २२१, -ण्वस्य ऋअ २,
८, १, वृदे ६, ३६, या ३, १७,
-ण्वा. ^{१६} आपश्रौ १३, २१, ३^{१६},
२४, ८, २, बौश्रौ २१ : १,
३, हिश्रौ ९, ५, ४२^{१७}, निसू ४,
८ . ५, वृदे ४, ९८, तैप्रा १३,
९^{१७}, -^{१८}ण्वा काग २२, १,
या ७, २^{१८}, -ण्वानाम् ^{१९} आश्रौ
१२, १३, १, वैघ ४, ३, ५,
-ण्वाय भाग ३, ११ ३, या
६, ६^{२०}, -ण्वासः ऋप्रा ४,
६१^{२१}
१काण्व^{२२}- -ण्व आश्रौ १२,

a) भाप, नाप (अन्नशोधन-साधन-). b) गात्रविघर्षणे धा वृत्ति. c) < ✓कण् इति. d) ण्ठु-
इति पाका, ण्ठु इति पागम, गण्ठु- इति भाण्डा. e) तु पागम. f) = उपच्वस्ता-। g) = कण्ठ्यित्वा।
h) तु. पासि.। कुण्डिन- इति पाका., कुण्डिनी- इति भाण्डा.। i) = कृपा- (तु पागम.)। j) वैप १ द्र.।
k) वैप १, १०८३ १ द्र.। l) वैप १, १०८४ ० द्र.।

१३, १२^a, आपश्रौ २४, ८, ३,
 बौश्रौप्र २१ ३, वैध ४, ३, ५,
 -ण्व शाश्रौ १६, ११, २०,
 ऋअ २, १, १२, ४४, ८, १,
 ७६, ८१, वृदे ६, ३९, शुअ,
 -ण्वम् लाश्रौ ६, ११, ८, छुसू^b
 १, ४ ५, १५, २, १० : २०,
 ११ १८, बौव २, ५, २७,
 -ण्वस्य वृदे ६, ५८, शुप्रा १,
 १२३, १४९, -ण्वा चव्यू २
 ३६, -ण्वाय बौगृ ३, ९, ६
 काण्वी^c -ण्वीम् आश्रौ
 ४, ७, ४^३, -ण्व्यौ वृदे ४, १००
 काण्व-कुत्स- -त्सौ आपध
 १, १९, ७^d
 काण्व-गोपायन- -नौ अप्राय
 ३, ५, ८
 काण्व-पुष्करसादि- -दी
 आपध १, २८, १, हिध १, ७,
 ३७
 काण्व-रोहितकूलीय^e -ये
 लाश्रौ ६, ११, ४
 काण्वायन^f -नस्य चाअ २
 १६, ४ १, १४ : ६, -ना.
 बौश्रौप्र २४ १, -०ना. ऋप्रा
 ८, २०^g, -नौ ऋअ २, ८, १४,
 साअ १, १२३, १२४; २१२,
 ३८४, २, ९९५.
 काण्वि^h -ण्वय बौश्रौप्र ५ १
 काण्व्य- पा ४, १, १०५
 २काण्व- पा ४, २, १११,
 पावा ४, २, १०४
 कण्व-कश्यपⁱ -नेभ्यः आपश्रौ
 १३, ७, ५, वैश्रौ १६, ८ २,

हिश्रौ १०, ४, ६६
 कण्व-कश्यप-याचमान-वर्जम् ऋश्रौ
 १०, २, ३०
 कण्व-कश्यप-सकृति- -तीनाम्
 माश्रौ ५, १, १, १७
 कण्व-कौल्म- -त्सौ हिध १, ५,
 १०९^d
 कण्व-चिकीर्षा- -र्षायाम् पावा ३,
 १, १४
 कण्व-पत्नी- -त्न्याः वृदे ६, ३६
 कण्व-प्रभव^h -न या ३, १७
 कण्व-बृहत्^e -हत् छुसू २, १०
 १२, ११ : ५, ३, ४ १, ३
 कण्वबृहत्-कारिन्- -री जुसू ३,
 ९ ३, १३
 कण्व-रथन्तर^e -रम् आश्रौ ९, ८,
 ११, शाश्रौ १३, १६, ५, आपश्रौ
 २२, १२, १८, बौश्रौ १८, ७
 १३, हिश्रौ १८, २, १, जुसू २,
 १०. १०, ११ : ३, १५ २८, २९,
 ३, ३ ९, १४, निस् १, १३ :
 १४, ७, ४ : २१, ९, ५ : १९,
 ६ ३०, १०. ३५, -रस्य शाश्रौ
 १०, ९, १४
 कण्वरथन्तर-मध्यन्दिन- -नम्
 जुसू २, १५. २१
 कण्वरथन्तर-बौधाजय- -ये
 जुसू २, १५ ३०
 कण्वरथन्तर-सामन्- -न्ना
 आपश्रौ २२, १०, ४, हिश्रौ १७,
 ४, २०.
 कण्व-वत् आपश्रौ २४, ८, ३,
 बौश्रौप्र २० ४, वैध ४,
 ३, ५

कण्व-सकृति- -तीनाम् शाश्रौ १,
 ७, ३.
 कण्वा(ख-अ)ङ्गिरो(रम्-अ)गस्त्य-
 शुनक- -का ऋअ ३, १०.
 कण्वा(ख-आ)दि-वत् पावा ४, १,
 १५१
 ✓कण्वाय पा ३, १, १७
 कण्वा(ख-आ)श्रम- -मे विध ८५,
 ३०
 कतⁱ- पाग ४, १, १०५¹, २, ८०¹, ३,
 ९२^k, -त ऋअ २, ३, १७;
 -ना¹ आश्रौ १२, १३, २,
 आपश्रौ २४, ७, ३, बौश्रौप्र ३५ :
 १, ३, हिश्रौ २१, ३, १०, १८;
 -नानाम् आश्रौ १२, १४, ६,
 आपश्रौ २४, ९, ११, वैध ४, १,
 ९१^m
 कात्य- पा ४, १, १०५, ३, ९२,
 -०त्य आश्रौ १२, १३, ६, १४,
 ६, २४, ७, ४, ५, ९, ११;
 बौश्रौप्र ३५ ४, हिश्रौ २१, ३,
 १०^३, १२, वैध ४, १, ९ⁿ, -त्यः
 बौश्रौ २, १५ ६, ७, ४ : २४,
 ११, २ ३०, २०, ४ : २६;
 ५ ३३, १६. ४०, ५१, बौध
 १, २, ४७, ऋअ २, ३, १५, शुअ
 २, ५३, साअ १, ६०, -त्यस्य
 शुअ २, ३५९.
 कात्यायनⁱ- -न बौश्रौ २३,
 ७ २, कप्र २, ७, ७; ९, ४, ३,
 ७, ११, शध २०७, काशु ७,
 १४, शुप्रा ८, ५३; -नम् शांठ
 ६, १, १, शंघ ११६ : ४१;
 -नेन काश्रौसं ३६. १, कप्र ३,

a) °क इति पाठ ? यनि शोधः । b) =साम-विशेष- । c) =ऋग्-विशेष- । d) सपा काण्वकु° <>
 इति पाठे । e) साम्नो द्वस । f) वैप १ द्र । g) ऋषि-विशेष- । h) विप. । उस. । i) कपि-
 इति भाषण्ड । कपिकत- इति पाठः । j) अर्थ- व्यु च ? । k) तु. पागम. । l) बहु <कात्य- ।
 इति पाठः ? यनि. शोधः । m) कात् इति पाठ. ? यनि. शोधः ।

७, ६, -नौ अप १, ३, १
 कात्यायनी- पा ४,
 १ १८.
 कात्यायन-महात्मन्-
 -स्मनः काशु ७, ३९
 कात्यायन-वचस्- -च.
 कप्र २, ९, २४
 कत-वत् आपश्रौ २४, ७, ४, ५,
 ९, ११, बौश्रौष ३५ ४, हिश्रौ
 २१, ३, १०^३, १२, वैध ४, १,
 ९^{१३}
 कतिक पा ४, २, ८०^b
 कतक- (> कातक- पा) पाग ५,
 १, १३०^c
 कतम-, कतर-, कति- किम्- द्र
 कत्त्रि^d- (> कात्त्रेयक- पा) पाग
 ४, २, ९५
 ✓कत्थ् पाधा म्वा आत्म श्लाघायाम्
 कथना- -ना वृदे १, ३५, ५१
 कत्थक->कात्थक्य^e- -क्यः या ८,
 ५ ६, १०, १७, ९, ४१, ४२,
 साअ २, ६९७^f
 कत्तपय^g- -यम् निघ ४, ३, या ६,
 ३६
 ✓कत्त्र^h पाधा चुरा उभ शैथिल्ये
 कत्त्रि- पाउभो २, १, २२६
 ✓कत्थ् पावा चुरा उभ वाक्यप्रबन्धे,
 कथयति अप २४, ५, ४,
 कथयन्ति वृदे ३, ७३, ४, ३४,
 कथयामि अप ६९, १, ३,
 कथयस्व अप २९, १, २,
 कथयेत् अप २९, २, ३, आपध
 १, ८, ६, हिध १, २, ९४,

कथयेसु. द्राश्रौ ९, ४, १५
 कथ्यते जैश्रौका ८६, शंघ,
 कथ्यन्ते वृदे १, ९३
 कथन- -नम् कौशि ६५, -नात्
 माशि १६, १४
 कथा- पा ३, ३, १०५, पाग ४, ४,
 १०२, -था विध २०, २५,
 -थाः आगृ ४, ६, ६, विध
 ३२, १०, -थामि गौपि १, ४, २
 काथिक- पा ४, ४, १०२
 कथित, ता- -त अप २५, २, ४,
 विध ५, १९३, वृदे ६, १०१,
 -तम् अप २२, १०, १, २३, ९,
 ५, वाव १२, १५, या ११, ७,
 -ता शंघ १८२, विध २३,
 ४६, वृदे ३, १२३, -ताः विध
 ८२, ३, -तानि वृदे ३, १५४,
 -ताभ्य वृदे ४, ६, -ने वृदे
 ३, ६९, पावा १, ४, ५१
 कथित-देवता->०त्य- -त्यम्
 वृदे ५, ५
 कथिता(त-अ)नुकथन-मात्र-
 -त्रम् पावा २, ४, ३२
 कथेर- पाउना १, ५७
 कथ्यमान- -नम् अप ७०, १, ३,
 वृदे १, १०५
 कथकⁱ- (> काथक्य-> काथक्याय-
 (न>)नी- पा यक) पाग ४,
 १, १०५, १८.
 कथम्, कथा किम्- द्र
 कद्- किम्- द्र.
 कदम्ब^j- पाग ५, ४, ३^१, पाउ ४, ८२,
 -म्ब. याशि १, ३६; नाशि २,

८, ४, -म्बस्य माशि ४, १, अप
 २६, ५, २
 कदम्बक- पा ५, ४, ३
 १कद्दर, ल^k- (> ०री, ली- पाउवृ १,
 १०८) पा) पाउभो २, ३, ३८^३;
 पाग ४, १, ४१
 कदली-स्तम्भ- -म्भे कप्र ३, ३, ५.
 २कदल^m- (> कादलेयⁿ- पा.) पाग
 ४, २, ८०.
 कदा किम्- द्र.
 कदामत्त^o- पा, पाग २, ४, ६९
 कदूरक^{१०} (> कादूरक- पा) पाग
 ४, १, ११२
 ✓कद्रा^p, कद्राति, चकद्राति या २,
 ३६
 चकद्र^q- -द्र या २, ३.
 १कद्रु^{११}- पाग ५, २, १००; -हु
 काश्रौ २२, ४, १४, -हु. बौश्रौ
 २४, ३८ : ९
 कद्रु-ण- पा ५, २, १००
 २कद्रु, द्रु^{१२}- पा २, ४, ६३; ४, १, ७१;
 ७२, पाग २, ४, ६३, ४, १,
 १२३, -०हु सु ६, २, ५, -हुवै
 बौगृ २, ८, १२, -द्रु वाधुश्रौ
 ४, ५० १०^३, ६४ १, २, ५;
 सु ५, ३^२, ९, २, वृदे ५, १४५;
 भाशि १७^१, -द्रुम् वाधुश्रौ ४,
 ६४ : २, सु ७, ५, -द्रुवा सु २,
 २, ५, १, १०, १.
 काद्रवेय- पा ४, १, १२३, -यः
 आश्रौ १०, ७, ५, शाश्रौ १६, २,
 १३, सु २३, ३, ऋअ २, १०,
 ९४, साअ १, ६३१-३४, -याः

a) कात^० इति पाठः ? यनि श्लेष । b) = देश-विशेष- ? । c) तु. पाका. कुतुक- इति भाण्डा. । d) = गर्दभी-
 (तु. पागम ३१५) । व्यु. ? । e) = आचार्य-विशेष- । f) वैप १ द्र. । g) ✓कर्त्, कर्त्र इति [पक्षे] BFG ।
 h) = श्रधि-विशेष- । व्यु. ? । i) = वृत्त-विशेष- । व्यु. ? । j) तु. पागम. । k) नाप. । व्यु. ? । कन्दल- इति पाका. ।
 l) = श्वेत-खदिर- । m) अर्थ व्यु च ? । n) व्यप. व्यु. ? । o) तु. पासि । खदूरक- इति पाका, खदूरक- इति
 भाण्डा. । p) यनि नैप्र. < कद् ✓ द्रा । q) तु टि. विश्वकद्र- । r) विप., नाप. (वर्ण-विशेष-) । s) नाप., व्यप, &
 वैप-द्वि-१०

सु २९, २
 कटु-नामन्^१ -मा सु २, १
 †कटु-पुत्र-त्रान् आमिष्ट २, ४, ८
 ९, -त्रेभ्यः आमिष्ट २, ४, ८. ५
 कद्रयच्, ङच्- रिम्-द्र
 †कद्विन्दुकोष्ठ^२ -ष्ठै कौसुष्ठ ८, ३०
 †कध^३ > कध-श्री^४ -० प्रिय शाश्रौ
 १०, १०, ८†
 √कन्^५ पावा भ्वा पर दीप्तिकास्ति-
 गतिषु, †कनति अप ४८, ३, निघ
 २, ६
 †चाकनत् आश्रौ ८, ११, ४^०,
 अप ४८, ३, निघ २, ६, ३,
 ११, †चाकन् शाश्रौ १८, १, ६,
 वैताश्रौ ३२, १०, निघ ४, ३, या
 ६, २८†
 †कानिषत् अप ४८, ३, निघ
 २, ६, कानिष आश्रौ ५, ४, ६†
 कनक^६ - पाउवृ २, २२, -कम् अप
 ४८, ११, ६८, ३, ४, अशा १२,
 ३, वाध २८, १७, विध ९, ४,
 ७८, २१, निघ १, २†, या १४,
 ३०, -का अप १४, १, ८, ५२,
 २, ५६, ६, २, -कानाम् अप १७,
 १, ८, -के अप ६७, ८, २
 कनक-किञ्जल्क-तडित्-कल्प-
 -ल्पा. अप ५८, १, ७.
 कनक-पिङ्ग(ल>)ला- ला अप
 ६८, १, १३
 कनक-मणि-रजत-शङ्ख-शुक्ल्य(ङ्नि-अ)
 ष्ठो(†बजो)पल्- लानाम् सुध
 २७
 कनक-रजत- -तम् विध ७८, ४७.

कनका(क-आभा>)भ^७ - भ
 माशि १, १३, नाशि १, ४, १
 *कन^८ -> †कनिष्ठ, ष्टा- पा ५, ३, ६४,
 पा, पाग ४, १, ४, -ष्ठम् वैगृ ६६
 २, -ष्ठया वैश्रौ १२, १७ १७,
 १८, कागृ २४, १३, -ष्ठायाम्
 माशि २, २, नाशि १, ७, ४
 कनिष्ठ-कुल-> कनिष्ठकुलीन^९-
 -नस्य शाश्रौ १४, ३१, १
 कनिष्ठा(ष्ट-अ)ङ्गुलि-नाह^१ -हा
 वैश्रौ ११, ११. २
 कनिष्ठा(ष्ट-अ)ङ्गुलि-मूल- -लम्
 वैगृ १, ५ ७
 कनिष्ठा(ष्टा-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठयो. कप्र
 १, १, ७
 कनिष्ठाङ्गुष्ठ-योग- नोन शंघ
 ४५७-४५८ ४
 कनिष्ठा(ष्टा-आ)दि- -दि वैगृ ३,
 २२ १०
 कनिष्ठाद्य(दि-अ)ङ्गुल्य (लि-
 अ)ग्र- -आणि वैगृ २, ६ ८-९
 कनिष्ठाद्ये(दि-ए)कैका(क-अ)
 ङ्गुलि- -ल्या वैश्रौ १२, १७ १६.
 कनि(ष्ट-क>)ष्टिका^{१०} - पाग
 ५, ३, १०७^६, -कया काश्रौ ७,
 ७, १३, आपश्रौ १०, २४, ८,
 आमिष्ट २, ३, १. ९, वैगृ ६६
 २, -†कस्य वैगृ १, २ ८^१,
 -का कौशि ३८, -कायाम्
 आमिष्ट २, ६, १ १०, शैशि
 १७९, -के वैश्रौ १२, १०.
 २, १२. २१
 कानिष्ठिक- पा ५, ३,

१०७
 कनिष्ठिका-तल- -लयो शंघ
 ५४
 कनिष्ठिका-तस्() आपश्रौ
 १०, ५, १२, भाश्रौ १०, ३, १९,
 माश्रौ १, ४, १, ३, २, १, ४, ३;
 हिश्रौ ७, १, ३८
 कनिष्ठिका-प्रभृति- -तिभि
 माश्रौ २, १, ४, ३
 कनीयस्- पा ५, ३, ६४, -य
 शाश्रौ १५, २२, १, आपश्रौ ४,
 ८, ५†, ६, ११, २, १६, २७, २१†,
 बौश्रौ १, १० ५४×४, भाश्रौ,
 -य ऽ-य आपश्रौ १०, ६, ९,
 भाश्रौ १०, ४, ६, वैश्रौ १२, ७
 २, हिश्रौ १०, १, ४२, -यसः
 बौश्रु २ : १, -यसम् जैगृ १,
 ३. ५, -यसा या ३, १३,
 -यसाम् बौश्रौ १८, २६ २,
 २६, ३३. १, विध ३२, ४,
 -यसि द्राश्रौ ९, ३, २१, लाश्रौ
 ३, ७, ७, -यास शाश्रौ १५,
 २६, १^२, तैप्रा १६, १३†,
 -यासम् बौश्रौ २, ९ २२,
 आपश्रु १०, १४†, बौश्रु ५-
 १२†, हिश्रु ३, ५४†, या ३,
 १३, -यासि वाधूश्रौ ४, १०० :
 १, -यासौ निसू ६, १२. ९,
 -यान् वाधूश्रौ ३, ८३. १०,
 निसू २, १२ २८, लाश्रौ ६,
 ७, ५, बौध २, ६, ३२†, १०,
 ८, वृदे ४, १२, ६, ३६; ७, १३,
 १५६, या २, १०.

a) विप. । बस । b) अर्थ व्यु च१। c) वैप १ द्र । d) या ४, १५ परामृष्ट. द्र । e) पाभे
 वैप १, ११७१ द द्र. । f) = सुवर्णैः, तद्वर्णवत्- । g) = [शनैश्चरसुत-] ग्रह-विशेष- । h) अपत्यार्थे खः > ईनः
 प्र. (पा ४, १, १३९) । i) कस > बस । j) = कनिष्ठा- । k) कपिष्ठिका- इति [पक्षे] पासि कपिष्ठिक-
 पिष्ठिका- इति पाका । कनिष्ठिक- , पिष्ठिका- इति [पक्षे] भाण्डा । l) पाठ. † कनिष्ठस्य (तु मूको) यद्वा
 कनिष्ठकस्य इति शोष ।

कनीयसी-सी अप ५९, १,
६, -सीम् वैश्रौ २, ४ ९, जैगृ
१, २० ३, -स्या शंघ ५७,
४५६

कनीयसाम्-उक्थ्य- -क्थ्य
बौश्रौ १८, २६ २, २६, ३३
१

कनीयो(यस्-अ)क्ष (र>)रा^०-
-रामि लुसू १, ७ : २६

कनीयो-वादिन्- -दी भासू
३, ६

कनक- प्रसृ ✓कन् द्र

कनखल^b- -ले विध ८५, १४

कनल^c- (>कानलक^d-) पा ४, २,
८०

१*कनि^e-> १*कनीन, ना^०- -न
आश्रौ ९, ५, १६, -ना शश्रौ
८, २०, १, -ने^१ आपश्रौ ७, ५, १,
भाश्रौ ७, ४, १, वैश्रौ १०, ४
१३, हिश्रौ ४, १, ६२

रकनि-> कनी^०- -नीनाम् आपमं
५, १२, आगृ १, ४, ८, वागृ १६,
७, या १०, २१७

१*कन्य^f-> १*कन्य-(ल>)ला-
-ला आपमं १, ४, ४, बौगृ १, ४,
१७, गोगृ २, २, ८, जैगृ १,
२१ : २०^३, द्रागृ १, ३, २४,
-ला अत्र १४, २, अप्रा २,
१, १.

रक(न्य>)न्या^०- पाठ ४, ११२;
पागृ ६, २, १९४. फि ७६,
-न्ययोः या ४, १५, -न्या आश्रौ
२, ८, ३१, ३, ७, ६१, ५, २०, ६,
१शाश्रौ ६, १०, २; १२, २१, ३;

४, हिश्रौ २२, ३, ४१, पागृ
१, ६, २१^६, आभिगृ ३, १०, १.
६, कागृ १७, २, बौगृ ४, १, ९-
११, बौपि ३, ५, २, मागृ १, ८,
२, वागृ १३, ४, ११^४, १८^६,
२१^६, वैगृ ३, १ ३, जैगृ १,
२१ २३^६, कप्र १, ६, १३,
१४, अप १, ४३, ८, ४४, ३, १४,
१, ८, ६८, २, १९, ४४, ६९, ४, ५,
सुधप ८८ ६, बौध ४, १, १७^३,
विध २४, ४०, ४१^३, वाध १७,
६९, ७३^३, शध २७६, २९८,
ऋअ २, ८, ११^१, वृदे ५, ५८,
६, ७६, ९९, १०१^१, १०७, या
२, २७, ४, १५^७, आज्यो ३,
६^३, १४, १, ५, -१*न्या
आपश्रौ १७, १८, १, आपमं
१, ५, ७, आगृ १, ७, १३^३,
कौगृ १, ११, ४^३, शागृ १,
१८, ३^३, १कागृ १७, २, २५,
३०, ३५, बौपि २, ३, १२^५,
मागृ १, ११, १२, २, १४,
१५, वागृ १३, ४^१, हिपि
१२ ११, काध २८० : १,
वृदे ३, १४६, -न्यानाम्
शागृ १, २८, २२, बौगृ ३,
१३, ८, बौपि २, ३, ११,
३, ६, १, शंघ ३४९, या १०,
२१, आज्यो ३, ५, -न्याम्
आश्रौ ५, १३, १७, भाश्रौ ७,
१६, १४, माश्रौ ४, ७, २,
आगृ १, ५, २, ६, १, कौगृ १,
२, २, ७, १^३, ८, १३, ९,
१३, शागृ १, ६, ४, ११, १,

२, ४, १२, ११, १५, ९, आभिगृ
१, ६, १ २; कागृ १७, १, २१,
१, मागृ १, ७, ८, १०; ८, ९;
११, १०, ७, ११, ६, वागृ १०,
८, १३, १; ६, १४, १३, वैगृ
३, १. ४, ६-८, २ : २;
५, ९ : ८, १०, ६, १२-१३ :
१, अप १, १०, २, ३६, ६, १;
६८, ४, २, वाध १, ३१; १७,
१७, ७०, ७१, बौध ४, १, १२;
१३, विध ५, ४५, १६०, २४,
३३, ७८, ३७, गौध ९, ३२;
काध २८१-८, वृदे ५, ५६;
६६, ७६, आज्यो ३, ६, १३,
६, -न्यायाः कौगृ १, २, ३;
शागृ १, ६, ६, कागृ १४, ६;
२५, २०, वागृ ३, ३, ४, २५;
१३, २, वैगृ ३, १९ : १०, ५,
११ ७, ६, ४. २, १३ ३,
अप ३६, ६, ३, वृदे ५, ६०;
-न्यायाम् शंघ ३३२, ३६६;
-न्यायै कागृ १८, १; -न्यासु
बौध १, ५, ९४, काध २८१ : २;
-०न्ये मागृ १, १०, १७^१
कन्यका- पवाग ७, ३, ४५;
-का कप्र १, १०, १२^१, -काम्
कप्र १, ६, १५, -के^१ या ४, १५.
कन्या-काम- -मः अप ३६,
६, १.
कन्या-कुमार- -रौ वैगृ ७, २ :
७
कन्या-गमन-प्रायश्चित्त- -त्तम्
वैगृ ६, १२. १४.
कन्या-गृह- -हम् वैगृ ३, २ :

a) वैप २, ३खं द्र । b) = तीर्थ-विशेष-। व्यु १ । c) अर्थ- व्यु च १ । विप. इति *AW*. ।

d) = देश-विशेष- । e) वैप १ द्र. । f) विप (वेदि-) । g) पाठः १ न्याः इति शोधः (तु-
कागृ २५, ३० प्रसृ. Old. च) । h) कन्यानाम् इति मैसू. । i) नारी इति *BI* १. । j) वैप १
१०८६ ४ द्र. ।

४, १०
 कन्या(न्या-ञ्च) गन्यु (मि-उ)-
 पयम-नेषु गौध १८, १९
 कन्या(न्या-ञ्च)दातृ-याजक-
 -कानाम् सुधप ८६ ४
 कन्या-दान- -नम् विध २४,
 १९, ३७, १७, बौध १, ११, २,
 -ने वृदे ३, १४४, -नेन वाध
 २९, १८
 कन्या-दूषक- -क शध ३७७ १२
 कन्या-दूषण- णम् बौध २, १,
 ४४
 कन्या-दूषिन्- -षी शंध ३७८,
 ४१४.
 कन्या-दोषिन्^३- -षी शंध ४१५
 कन्या(न्या-ञ्च)नृत- -ने वाव
 १६, ३४
 कन्यानृत-गवानृत- -नम् अप
 ९, ३, ४.
 कन्या-प्रजा(जा-ञ्च)र्थ- -र्थम्
 आज्यो ८, ५
 कन्या-प्रद- -द वैगृ २, १५
 १४, ३, २ ५, -दा: विध २४, ३८
 कन्या-प्रदान- -नम् आज्यो ८, ७
 कन्या-भाग- -गा: शंध २९८
 कन्या-वत्- -ते बौध १, ११,
 ४, गौध ४, ८.
 कन्या-विवाह- -ह वैध ४, ८, ६
 कन्या-सहस्र- -खेण अप २०,
 २, ७
 कन्या-हरण- -णम् वैगृ ३, १ :
 १०.
 कनिक्नत्- -कनतम् अप्रा ३, २,
 १६१^३
 रकनिष्ट, ष्टा- *कन-द्र

रकनिष्ट, ष्टा^८- पाग ४, १, १२६,
 फि २२, -ष्ट बौधौ २, ९.
 २०, कौसू ८१, ३३, ८५, २४,
 -ष्टम् शाश्रौ १५, २०, १, सु
 ३०, ३, विध २६, २, -ष्टस्य
 आपश्रौ २, १९, ४, ६, ४, १,
 बौधौ ३, ४ १८, भाश्रौ ६, ९,
 १, २, वाश्रौ १, १, १, ४१, ५, २,
 १२, हिश्रौ २, २, १९, ३, ७, १९,
 वाध १७, ४४, -ष्टा काश्रौ २२,
 ४, ५, निसू ६, ११ ३१, ३२,
 -ष्टानाम् शाश्रौ १४, ७२, १,
 आपश्रौ २२, ५, १४, हिश्रौ १७,
 २, ४२
 कनिष्ठिनेय- पा ४, १, १२६,
 -यस्य आपश्रौ २, १९, ४, ६,
 ४, १, बौधौ ३, ४ १९, भाश्रौ
 ६, ९, १, २, वाश्रौ १, १, १,
 ४१, ५, २, १२, हिश्रौ २,
 २, १९, ३, ७, १९
 कनिष्ठ-जघन्य^९- -न्या आगृ ४,
 २, ९
 कनिष्ठ-तस्र () आपश्रौ ६, ७, ८
 कनिष्ठ-पूर्व- -र्वम् वैगृ ५, ६
 १३, -र्वां शाश्रौ ४, १५, ४,
 पागृ ३, १०, २३, गौपि १, २,
 ३७, ४, १४.
 कनिष्ठ-प्रथम, मा^{१०}- -मा. आगृ ४, ४,
 १२, कौगृ ५, २, ९, आमिगृ ३,
 ४, ४ : २२, ५, ३ : ५, ४. ६,
 १४, २२, बौपि १, ३ ४, १६,
 २३, ३०, ३, ४, १६; १९, वैगृ
 ५, ५ ४, हिपि ४ : ७, -मान्
 मागृ २, ७, ५
 कनिष्ठ-भार्या- -र्याम् शंध ३९७

कनिष्ठ-यज्ञ- -ज्ञ निसू ६, ११ -
 ३०
 कनिष्ठिका- प्रष्ट कन- द्र
 कनी- रकनि- द्र
 कनीत->कनीत^{११}- -त वृदे ६, ७९;
 -तस्य ऋग्र २, ८, ४६१, -ते
 गाश्रौ १६, ११, २३१
 रकनीन- १*रुनि- द्र
 रकनीन^{१२}-> कानीन- पा ४, १,
 ११६, -न वाध १७, २१,
 शध २९१, बौध २, २, २४१,
 विव १५, १०, -नम् बौध २,
 २, ३२
 कानीन-सहोद-पौनर्भव-पुत्रि-
 कापुत्र-स्वयदत्त-क्रीत- -ता.
 गौध २८, ३४
 कनीन(क>)कार्- -र्का वृदे
 ४, १४४, या ४, १५, -के या
 ४, १५
 कनी(नरु >)निका^{१३}- -र्का
 आपश्रौ १०, ७, १, बौधौ ६, २
 १७, २१, ८:११, भाश्रौ १०, ४,
 १२, माश्रौ २, १, १, ३८, वैश्रौ
 १२, ७ ६, हिश्रौ १०, १, ४४,
 मागृ १, ११, ८, -काम् बौधौ ६,
 १२ १५१, अप २७, २, १,
 २८, २, १, -के विध ९६, ९२,
 तैप्रा ४, १११
 कनीनिका-मूल- -ले विध ६२, १
 कनीनी^{१४}->कनीन्य(नी-ञ्च)प्र-
 सम-स्थौल्य^१- -ल्यम् विध
 ६१, १६
 कनीयस्- कन- द्र
 कन्त- रक- द्र
 कन्तप^१- -प: या ९, ३२^६

a) उस. उप^१, यद्वा ऊकाराऽभाव वैकल्पिक उसं (पा ६, ४, ९०) । b) पामे वैप १, १०८५ । द्र । c) वैप १
 द्र. । d) विप । बस. । e) पाप्र. तु <रकन्या- । f) वैप १, १०८६ । s द्र । g) = अक्षि-तारक-, कनिष्ठा-
 कुलि- । h) = कनिष्ठिका- । व्यु? । i) विप. । षस > वृस > बस. । j) = कस्यक- । व्यु? । k) पृ ८३० ६ टि. ।

कान्ति-, १कन्तु- २रु- द्र

२कन्तु- √रुम् द्र

√कन्थु^a (आतरणे) > क(न्थ>)न्था^a- पाउना २, ४^b, -न्था

पा २, ४, २०, ६, २, १२४

कान्थिम्- पा ४, २, १०२

कन्था-पल्लव-नगर-ग्राम-हृदो

(द-उ)त्तरपद- -दात् पा ४, २,

१४२

कन्थक^c (> कान्थक्य-, कथय

(न>)नी- पा यक्र)भाग ४,

१, १८, १०५

कन्थु^d (> कान्थव्य- पा)पाग ४,

१, १०५

√कन्द (बधा)पाधा +वा पर

आह्वाने रोदने च, आत्म वैकुण्ठे^d

वैकल्ये च

१कन्द^a (> कन्दी- पा)पाउवृ४, ९८, पाग ४, १, ४१^o

कन्द-मूल-फल- -लम् बौष्ट ३,

३, १८

कन्द-मूल-फल-शाक-भक्ष-

-क्षायाम् बौव ३, ३, ८

कन्द-मूल-फल-शाका(क-आ)

दि- -दीनि वैधे ३, ५, ७.

कन्द-मूल-फल-शाकौ (क-ओ)

षवी- -धो. बौध ३, २, ३

कन्द-मूल-भक्ष- -क्षा. बौध

३, ३, ३

२कन्द^a (> १कन्दर^b- पा)पाग

४, २, ८०

२कन्दर^b- (> कन्दरी- पा)पाउवृ

३, १३१, पाग ४, १, ४१, पावाग

८, २, १८^dकन्दर्प^e- (> कान्दर्प पा)पाग ४, १,

१०४

कन्दल^k (> कन्दली-, कन्दलित-पा यक्र) पाउभो २, ३, ९३¹,

पाग ४, १, ४१, ५, २, ३६,

पावाग ८, २, १८¹कन्दु^f- पाउ १, १४कन्दुक^g- (> कान्दुक- कन्दुक-प्रस्थ-पा यक्र) पाउभो २, २, २२^m,पाग ५, १, १३०, ६, २, ८७ⁿ

कन्दुक-बदरी- कटुकबदरी- टि द्र

कन्ध(र>)रा^o- -रा कप्र १, ७, ८

१कन्ध- २क(न्ध>)न्या २रुनि- द्र

√कप् √कप् द्र

क-प- प्रभृ १क- द्र

कपट- पाउवृ ४, ८१, पाग २, ४,

३१

कपटु^p- पाग ४, १, ७३कापटव^p- -व निस् ४, ८ ३५

कापटवी- पा ४, १, ७३

कपरि, लिंकार^r- पावाग ८, २, १८^dकपर्द^q- -र्दा वारु ४, १८कापर्दि^r- -र्दय निस् ९,

१३. ४

कपर्दिक- -रान् पाग ३, ५, २

कपर्दिन्- -र्दिनम् वृदे ५, ११९,

-र्दिने शागृ ५, ६, २, अप ६६,

३, २^२, गौध २६, १२, शुभा ५,

३७

कपर्दिनी^s- -नी नाशि १, २,

१०

कपाल^t- -लम् शाश्रौ १८, ७, ८,

२०

कपाट^u- पाउभो २, २, १००, पाग २,

४, ३१

कपाट-वन- पा ३, २, ५४

कपा(टक>)टिका^v- (> कापा-

टिक- पा)पाग ५, ३, १०७

कपाल^w- पाउ १, ११८, फि ६७,

-ल. आश्रिष्ट ३, ४, ४ : ७, -लम्

आश्रौ ३, १४, १०, काश्रौ,

-लयो. माश्रौ ४, ३, ४४, वैश्रौ

१५, ५ १, -लस्य भाश्रौ ६,

१५, ७, -ला हिश्रौ १६, ८,

२३, -लान् तैप्रा ६, १४¹,-लानाम् आपश्रौ ८, ९, १४¹ × ५,

बौश्रौ, -लानि शाश्रौ ४, १४,

२५, काश्रौ, बौश्रौ २०, १२ :

११^x, या ७, २४, -ले आश्रौ ३,

१३, ९, आपश्रौ १, २२, ३, २३, ३,

३, १०, ११¹, १२, ४, १, ९, काश्रौ,

पावा ६, ३, ४५, -लेन काश्रौ

२, ४, २६, हिश्रौ १, १, ४३,

आगृ ४, ५, १०, -लेभ्य.

आपश्रौ १, २४, ६, भाश्रौ १,

२५, १०, माश्रौ १, २, ३, १९,

a) वैप ३ द्र । b) < √कन् इति । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु² । d) √कद् इति [पक्षे] BPG । e) अर्थ. ? । f) अर्थ व्यु. च ? । g) = देश-विशेष- ? । h) = दरी- । व्यु² ? । i) तु. पागम. । j) व्यप । व्यु² । तु पाका, किंद्भं- इति भारुडा, किंद्भं- इति [पक्षे] पाका । k) पृ ८३३ j-द्र । l) < √कन्द । m) < √कम् । n) १कटुक- इति पाका । o) = ग्रीवा- । वैप ३ द्र । p) = आचार्य-विशेष- (तु पाका ४, १, ७८, ३, ८०) । q) = चूडा-, वराटक- प्रभृ. । व्यु ? । r) = आचार्य-विशेष- । कापटव. इति मूको. । s) = मूर्च्छना-विशेष- । t) = भाग- । व्यु ? । u) नाप । व्यु ? । < कं/पद् [गतौ] इति अभा । v) हस्वार्ये कन् प्र । w) वै १ द्र. । x) कापा^o इति मुपा ? अग्नि, शोध (तु भव-स्वामी) ।

-लेषु आपश्रौ १, २३-२४, ६, ८,
 ६, ५, ९, १३, १०, १९, २१, २२,
 २२, ८, बौश्रौ, -लै बौश्रौ १०,
 १३-१२, वैश्रौ १८, ७ ४,
 हिश्रौ १५, ८, ४३, अत्राय ६, २
 कापालिक^०-क काध २७८
 १०
 कपाल-करण-गे बौश्रौ २७, ३ १
 कपाल-चिह्न-ध्वजा-> °जिन्-
 -जी शंघ ३७९
 कपाल-धर्म-र्म हिश्रौ ३, ८, ४४
 कपाल-नाश-शे बौश्रौ २८, ११ ५
 कपाल-प^०-पान् आमिग २, १, ३
 २२, आपम २, १४, १, भाग १,
 २३ १४, हिग २, ३, ७
 कपाल-मन्त्र-न्त्रेण आपश्रौ ८,
 १०, २, १३, १८, १२, ४, ९, २४,
 ३, २४, भाश्रौ ५, १४, ९, वाश्रौ
 १, ४, ४, ३२, हिश्रौ ३, ८, ५८,
 ५, ४, २२, ८, १, ५२, -न्त्रै.
 बौश्रौ २०, ८-२०
 कपाल-मात्र-त्रम् बौश्रौ २८, ४
 १३
 कपाल-योग-गम् आपश्रौ १, २३,
 २, भाश्रौ १, २४, ६, -गात्
 हिश्रौ १, ६, ३७, -गे भाश्रौ १,
 २५, १०, हिश्रौ १, ६, ४२
 कपाल-वत् आपश्रौ २, १०, ४, वैश्रौ
 ५, ८ : ५, मीसू ६, ६, ६, १०,
 १, २२, २६.
 कपाल-विकार-रः मीसू १०, १,
 ३८
 कपाल-विमोचन-नम् आपश्रौ ४,

१४, ५^०, १२, २५, १३, हिश्रौ
 ४, ४, ७१, -नात् माश्रौ २, ३, ७,
 ११
 कपाल-वृद्धि-द्वि बौश्रौ २७, ३
 २.
 कपाल-वृद्धि-हास-सौ वैश्रौ
 २०, २८ १२
 कपाल-शे(ष>)षा-षा^d आमिग
 ३, ४, ३ ९, बौपि ३, ४, ८
 कपाल-शे(ष-उ)षोढक-कम् वैग
 ७, २ १२
 कपाल-संयोजन-ने बौश्रौ २०, ८
 १२
 कपाल-सतपन^०->°ना(न-अ)गिन-
 -ग्निा बौपि ३, १, ११^f, वैग ५,
 ५-२९, ७, २ : १३
 कपालसंतपनीय-येन गौपि
 १, १, २०
 कपाल-सामान्य-न्यम् बौश्रौ २७,
 १४ २६
 कपाल-स्थान-ने वैश्रौ ९, १ : ११
 कपाल-हास-स बौश्रौ २७, ३ २:
 कपाल(ल-अ)वशे(ष>)षा-षा
 वैग ५, ५ १५^d.
 कपा (ल-क>) लिका-(२कापा-
 लिक-पा) पाग ५, ३, १०७
 कपालिन्-लिने वैग ५, २. ३०,
 -ली अप ४३, ५, १७, वाघ
 १६, ३३, शंघ ३७७ ७, बौघ
 २, १, ३
 कपालो(ल-उ)पधान^०-नम् काश्रौ
 ५, ८, १५, -नात् बौश्रौ ३,
 २४ : ७, २०, ६. २८, भाश्रौ

५, १४, ८, ८, १६, ४, -नानाम्
 बौश्रौ २०, ८ १७^d, -ने बौश्रौ
 २२, १८ १९

कपाश्रितोमजात-१क-द्र
 कपि^b-पाउ ४, १४४, पाग ४, १,
 १८, ४५^f, १०५^f, ५, १, १२४;
 २^f, १८, ९७, १००, ३, १०८^f,
 ६, ३, ११९^f, -पय^k बौश्रौप्र
 २६ १, ३, -पि. आपश्रौ १४,
 २९, ३^f, हिश्रौ १५, ७,
 १६^f, आमिग ३, ७, १
 १४^f, बौपि १, १७ : १३^f,
 या ३, १८^{२f}, वृदे २, ११६^f;
 शुअ १, १२८^m, -पीनाम्^m आश्रौ
 १२, १३, २, आपश्रौ २४, ७, ८;
 हिश्रौ २१, ३, १०, -पेः हिश्रौ
 २१, ३, १०^m

कपी-पा ४, १, ४५

कापिक-पा ५, ३, १०८.

कापेय^m-पा ५, १, १२७, -याः
 आपश्रौ १४, ७, २०, हिश्रौ १,
 ४, ६, ९, ८, ४५

कापेयी-यी आपश्रौ १४,
 ७, १९, हिश्रौ ९, ८, ४४.

काप्य-पा ४, १, १०५, १०७;
 ५, १, १२४

काप्या(प्य-आ)ध्वर्यव^०-

-वम् आपश्रौ २३, ११, ११;
 हिश्रौ १८, ४, १५.

काप्याथ(न>)नी-पा
 ४, १, १८

कपि-केश-फि ७३, -शाः बौश्रौप्र
 ४७. ६^m.

a) = भिक्षु-विशेष-। तेनचरतीयं ठक् प्र (पा ४, ४, ८)। b) = बालमह-विशेष-। उप्त. उप. <✓पा
 (पाने)। c) = मन्त्र-। तु. तै १, १, ७, २। d) सपा. °शेषाः<>°लावशेषाः इति पामे। e) उप. भावकरणयोः
 व्युद् प्र.। f) °सान्तपन^० इति B.। g) = मन्त्र-। h) वप्रा। वैप १ द्र। ष) = वानर-। j) व्यप।
 क्त-टि अपि द्र। k) बहु. <कापेय-, काप्य-। l) वृषाकपि इत्यस्योत्तरांशः। m) = ऋषि-विशेष-।
 n) भावाऽपत्याद्यर्थे ठक् > प्यः प्र। o) विप। वस.।

१कपिल- पा ५,२,९७
 कपि-श- पा ५,२,१००
 कपि-शी(र्षन् >)ःगी^१- ष्याम्
 द्राश्रौ ११,२,३, लाश्रौ ४,२,२
 कपि श्यापर्णेश- पाग ६,२,३७
 क(पि>)पी-त्र(त्>)ती- पा ६,
 ३,१२०
 कप्या(पि-आ)दि- -दय अप ६९,
 ३,४
 कप्यु(पि-उ)ष्टे(ष्ट-इ)भ-गवा(गो-
 आ)दि- -दीनाम् अप ६९,३,३
 १कपिञ्जल^b- पाठभो २, ३, ९९^c,
 -०ल कौसू ४६, ५४^d, या ९,
 ५^e, -ल अप १, ३६, ६, वृदे
 ४,९३, ६, १५१, या ३, १८^f,
 ९,४, -लम् शव २२३, -तलान्
 आपश्रौ २०, १४, ५, वाश्रौ ३,
 ४, २, २२[†]
 १कपिञ्जल- -लानि कौसू ४६,
 ५३, ५४, अप १, ३६, ६
 कपिञ्जल-मास- -सेन पागृ १, १९, ८.
 कपिञ्जला(ल-आ)दि- -दय शुअ
 ३, ४३, -दीन् काश्रौ २०, ६, ६
 कपिञ्जलादि-वत् काश्रौ २१, १,
 १२
 २कपिञ्जल[†]- पाग ४, १, ११२[‡], -ल
 अश्र २, २७, ७, ९६
 २कपिञ्जल- पा ४, १, ११२, -ला[†]
 बोश्रौप्र ४७ : १
 कपित्थ^h- पाग २, ४, ३१, ४, २, ८०ⁱ;
 ५, २, १३५, ६, ३, ११९^j

कपित्थ-क^k- -क भागृ २, २१ १०
 कपित्थि(>न्)नी- पा ५, २, १३५
 कपित्थिल^l- पा ४, २, ८०
 १कपिल- कपि- द्र
 २कपिल^m- पाठ १, ५५, -०ल विव
 ९८, ८५, -ल. वैगृ ३, २१ :
 १०[†], अप २९, २, ४, ४३,
 ३, ४[†], वृदे २, ६७, ७, १४१,
 बौध २, ६, ३०, -लम् ऋप्रा
 १७, ५८, -ला याशि २, १, ३,
 -लात् आमिगृ २, ७, ७ ९,
 -लान् आमिगृ २, ४, ८ ६
 वापि(ल>)ला- -ले अप १,
 ३, १
 कपिल-रोमन्ⁿ- -माण अप ६८,
 १, ९
 कपिला(ल-अ)र्के(र्के-इ)न्दु-
 मण्डल^o- -लम् अप ६४, ९, ३
 कपिललाट^p- -ट कौसू ४५, ४[†],
 -टस्य माश्रौ १, ८, ५, १९, वाश्रौ
 १, ६, ७, १, ४, -टात् माश्रौ १,
 २, ५, १८
 कपिला^q- -लानाम् आमिगृ २, ४, ८
 २१, अप ७२, ४, ७, -लाम्
 आमिगृ २, ५, १ ४४, अप ८,
 २, ३, विध ९२, ९, -लाया.
 आमिगृ २, ७, ७ ८, अप ३८, १,
 ६, -लासु अप ७२, ४, ७
 कपिला प्रदान- -नम् शंध २५०
 कपिलि(क>)का^r- (>कापिलिक-
 पा) पाग ४, १, ११२.

कपिवन^s- -न. निसू ८, ४ २९.
 कापिवन^t- -नम् आश्रौ १०, २, ३६
 -नेन आपश्रौ २२, १४, २०, हिश्रौ
 १७, ६, १५
 कपिष्ठिक- > कापिष्ठिक- कनि-
 ष्टिका- टि द्र
 कपिष्ठल^u- पाग २, ४, ६९^v, -लः
 पा, पावा ८, ३, ९१
 कापिष्ठलि- (>कापिष्ठल्या-
 पा पावा) पाग ४, १, ८०,
 पावाग ४, १, ७९
 कपिष्ठल-कठ- टा चव्यू २ : ३
 कपिष्ठि(क>)का- > कापिष्ठिक-
 कनिष्ठिका- टि द्र
 कपी- कपि- द्र
 कपुच्छल^w- -लम् गोगृ २, ९, १८,
 वप्र ३, ६, ७
 कपुजा^x- -जा कागृ ४०, २
 कपुष्पिका^y- -का कप्र ३, ६, ७,
 -काम् गोगृ २, ९, १२, १८,
 -कायाम् गोगृ २, ९, १४
 कपुस्- > २-विपर्वा-रोदाका-वृक्का-
 वती-नाडा-निर्दहन्ती^z- -न्ती-
 नाम् वैताश्रौ ५, १०
 कपूय^{aa}- -यम् या ५, २४, -या या
 ५, २४, ६, १९
 क[†]क-पृथु^{ab}- -पृत् आश्रौ ८, ३, ३०,
 शाश्रौ १२, २४, २, ४, अश्र २०,
 १३७
 कपोत^{ac}- पाठ १, ६२, पाग ४, २,
 ९१, ५, ४, १३८, ६, ४, १५३,

a) = वीणा-विशेष-। बस । b) वैप १, १०८७ n द्र । c) <√कम्प । d) सकृत् पाभे वैप १
 शुक्लन्तक (खि २, २, ५) टि द्र । e) ०लः इति पाठ १ यनि शोधः (तु खि २, २, १) । f) = ऋषि-विशेष-।
 व्यु ? । g) कुं इति [पक्षे] भाण्डा. । h) वैप ३ द्र । i) अर्थ ? । j) तु पागम । k) = मणि-विशेष-।
 l) = देश-विशेष-। m) विप, व्यप (मुनि-, अमुर-विशेष- [बौध]) । वैप १, १०८७ o द्र । n) विप.
 (वातप्रकृतिक-नर-) । बस । o) कस > दस. > पस. । p) = अङ्ग-विशेष । व्यु ? । q) = गो-। व्यु. ? ।
 r) व्यप । व्यु. ? । s) वैप १ द्र । t) = अहीन-विशेष-। u) नाप । व्यु ? । पाप्र तु कपि- + स्थल- इति ।
 v) = चूडा-। व्यु. ? । w) ओषधीना दस. इति सोमादित्यः । x) नाप., व्यप (ऋषि-विशेष- [ऋअ. वृदे]) ।

-त. आगृ ३, ७, ७^२, शागृ ५, ५, २^१, आम्रिगृ २, ५, २ : १, ३, ६, ३ २१, २३, कागृ ५६, १^१, बौगृ ३, ६, १, बौपि १, ११ : १८, १९, भागृ २, ३२ १, मागृ २, १७, १^१, हिगृ १, १७, ५^१, जैगृ २, ७ २, कौसृ ४६, ७^१, अप १९, १, १०^१ ६३, ४, ७, ६७, ३, १, ७०^३, ६, ९, २९, १^१, शव ३७८, काध २७६ ५, ऋअ २, १०, १६५, वृदे ८, ६७, ६८, अअ ६, २७^१, -^१तम् मागृ २, १७, १, कौसृ ४६, ७, वृदे ८, ६८\$, अअ ६, २८, -ताय शाश्रौ १२, १६, १^१ -ते कागृ ५६, १, मागृ २, १७, १, -तौ वृदे ७, ८७
कापो(त>)ता^२ -ता बौध ३, १, ५
कापोत-वृत्ति-नि(छा>)ष्ट-
-ष्टस्य बौध ४, ५, २८.
कापो(त>)ती^२ -तीम् अप ७०^३, ८, १
कपोतकीय- पा ४, २, ९१
कापोतक- पा ६, ४, १५३.
कपोत-पद-दर्शन- -ने आपगृ २३, ९.
कपोत-पाक- पाग ७, ३, ५३.
कपोत-पाद- पा ५, ४, १३८
कपोत-वत् बौध ३, २, १२.
कपोत-वृत्ति- -त्तिः विध १४, ११.

कपोत-वृत्तिक^० -ऋ वैध १, ८, १
कपोतो(त-उ)पहति- -तौ ऋअ २, १०, १६५
कपोतो(त-उ)लृङ्- -काभ्याम् शागृ ५, ५, १
कपोतोलृङ्-जन्या(न्य-अ)रिष्ट-
क्षय^१ -काम- -म अय ६, २९
१कपोल^० - पाउ १, ६६
२कपोल^१ -ला^२ चव्यू २ ३६
कफ^२ - पाउभो २, २, २१८, -कम्
वैश्रौ २१, २ ५
कफ-प्रकृति^१ - -तय अप ६८, १, ४, २९, ३७
कफस^१ ->कफ(स्य>)स्या^१ -
-स्या^१ बौश्रौ २८, ९ १७, वैश्रौ २१, २ ४
कफेलू- पाउ १, ९३
✓कब् पाधा भ्वा आत्म वर्णे
कबन्ध^० - पाउभो २, २, १७४, पाग २, ४, ३१, -न्ध वाधूश्रौ ४, ३७ : २१, २५, अप ५२, ८, १, अअ ६, ७५, -न्धम् अप ४८, ७५^१, ६७, ६, १, निघ १, १२^१, या १०, ४^१, ऋप्रा ४, ६१^१, अप्रा ३, ४, १^१, -न्धा. अप ५२, ५, १, -न्धानि आपश्रौ १६, ८, १, हिश्रौ ११, २, १३, -न्धे अप ७२, १, ५, ६, २
कबन्ध-यान- -नानि अप ७०^३, ११, २४.
कबन्धा(न्ध-आभा>)म^१ - -मा. अप ५२, ५, १

कवर^२ - पाउ ४, १५५^०
कवरी^२ - पा ४, १, ४२
कवर-पुच्छी- पावा ४, १, ५५
कवोध^१ - (>क.बोध- पा) पाग ४, १, ११२
कृष्ण- -^१वृ^० अअ ११, ३, दवि २, ४.
✓कम्^१ पावा भ्वा आत्म कान्तौ, कामयते काश्रौ ३, ८, १६; आपश्रौ x, २१, १२, ४^६, बौश्रौ; कामयति अप १, १३-१६, ३; कामयेते हिश्रौ ५, २, ६८; कामयन्ते आपश्रौ २३, १, ८x; बौश्रौ, कामयसे या ३६, २५, ३, कामये आपम १, १३, ८^१, कामयावहे वाधूश्रौ ४, २. ६, कामयामहे या २, ७, कामयाते आपश्रौ ४, ८, ५, माश्रौ, कामयेताम् बौश्रौ १८, ३५ : ४, या ९, ४२, ४३, कामयन्ताम् या १२, ४६, अकामयत शाश्रौ १०, १४-१५, २x, बौश्रौ, अकामयेताम् बौश्रौ १८, ३५ : १, अकामयन्त शाश्रौ १०, १८, २, बौश्रौ; कामयित बौश्रौ २, १ १, वैश्रौ २०, ३४ : ९, आगृ १, ७, ३, २, ४, ६, कामयेत आश्रौ ९, ७, ३५; शाश्रौ, कामयेत् आपश्रौ ८, १९, ६, हिश्रौ १७, २, ६५, वाध १७, ३५^१, कामयेयाताम् आपश्रौ ८, ८, १७, माश्रौ ८, १०, १५; कामयीरन् आश्रौ १२, ८, ३३;

a) =वृत्ति-विशेष-। ताद्धितः अण् प्र स्त्री. च टाप् प्र. । b) विप.। अण् प्र. । c) =वानप्रस्थ-
विशेष-। बस. । d) पंस > कस. > षस. । e) वैप १ द्र. । f) = यजु शाखा-विशेष-। व्यु. ? । g) = शाखा-
ध्यायिन्- । h) = श्लेषमन्-। वैप ३ द्र. । i) विर । बस. । j) नाप. । व्यु. ? । k) विप (२अप्-). । l) सप्ता.
आपश्रौ १०, १४, १ २कृपा- > -पाः इति पाठे. । m) = ऋषि-विशेष- [वाधूश्रौ. अअ], असुर-विशेष- [अप.] ।
n) = केश- , चित्र- । व्यु ? । o) < ✓कु । p) = केशवेक्ष- । q) व्यप. । व्यु. ? । r) हिश्रौ ६, १, ३ पा ३,
१, ३०, ८, ३, ४६, ४, ३४ पाठ १, १, ५ परामुष्ट. द्र. । s) सप्ता. यद् कामयते < > यत्कामाः भवन्ति इति पाठे. ।

कामयेरन् बौश्रौ १४, २६. १,
कामयेयम् सु २८, ३
न्वकमे वावूश्रौ ४, १०८ ४,
५, वुदे ६, ९९, या ११, ३४
अचीकमेताम्, अचीकमन्त शाश्रौ
६, १, ५, अचीकमथाः वावूश्रौ
३, ९२ ८
कन्तु- पाठ १, २७, ७३
कमन- -न या १०, २२, -नेन
या ४, १५
कमनीय, या- -य या २, २,
-यम् या २, ३, ३, १८, -या
या ४, १५
कमनीय-देव- -व या ५,
२७
कमनीय-भोज- -जा या
२, २
कमर- पाठ ३, १३२
कमित्- -ता पा ५, २, ७४
कत्र- पा ३, २, १६७
कान्त- -न्त या ५, ११, -न्ता
काठश्रौ ३३०, माश्रौ १, ७, ४,
११०, कौश्र २, ६, ९१^५, अप
५२, १३, ३, -न्तानाम् कौश्र १,
८, १०, -न्तानि या १०, २६^२,
१४, १९^२
कान्त-क- -कानि या ५, ११
कान्ति- -न्तिः विध ९९, ४, या
५, १४, १५
कान्ति-कर्मन्- -र्मण या ४,
१५, ६ १०, ७, १२, १०, ३८,
११, ५, १२, ५, -र्मणि निध २,
६, या ३, ९

कान्ति-हृत्- -त्त या ५, ११
काम, मा- पाग ६, १, १९९,
पावाग ५, १, १११, -फं०म
आश्रौ ५, १३, १५, ८, १४, ४,
आपश्रौ १४, ११, २^२, काश्रौसं
४ २, बौश्रौ १९, ७ ५६,
माश्रौ ५, २, १४, १३, हिश्रौ
१०, ६, ९^२, जैश्रौ २० १४,
जैश्रौका २०१, वैताश्रौ ४, ५,
द्राश्रौ ६, ३, २७, लाश्रौ २, ११,
२०, पाश्रु ३, १२, ९^५, आमिगृ
२, ७, ५ ५^३, ६, बौश्रु ३, ३, ६,
माश्रु १, ८, ९, वैश्रु ४, १ : १६^३,
६, ९ ५^२, गोश्रु २, १, ९, कौसू
४८, ५, ९२, ३०, ३१, अप ३२,
१, ८, बौव २, १, ३३^४, ४, २,
१०^५, गौध २५, ४^५, अत्र ९, २^३,
१९, ५२, -म फंआश्रौ ५, १३,
१५^३, ८, १०, ३, शाश्रौ ३, ५,
८^५, ४, ७, १५^५ फं०, या ५, २^५,
६, ७, -मम्^६ आश्रौ २, २,
४^५ फं०, शाश्रौ, काश्रौ २६, ७,
४९^५, आपश्रौ ६, १, ८^५,
माश्रौ १, ६, १, ४^५, आपमं २,
१५, १४^५, या १४, ६, पाग १,
१, ३७, -फंमम्-मम् बौश्रौ
१८, २९ ७, ९, गो १, ८,
-मस्य काश्रौस ४ ४^५, ९, ५
७, वावूश्रौ ४, ९४^३ ७, कौश्रु २,
२, १४, शाश्रु २, ४, २, आमिगृ १,
५, १०९^५, १०, बौश्रु १, ५, २९^५,
हिश्रु १, २४, ४^५, -मा माश्रु
२, १३, ६^५, -माः आश्रौ ९,

८, २४, शाश्रौ १४, ९, १२, कौश्रौ
३, ८, १^५, आपश्रौ ५, २९, ४^५,
१०, ६, ५^५ ×, माश्रौ १, ८, ४,
३६^५, कौश्रु ३, १५, ४^५, शाश्रु ३,
१३, ३^५, फंमाश्रु २, ४, ५, ९,
४, फंश्रौ ६, १, ४५, ११, १४;
८४, १, या ४, ६, ७, २^५, -मात्
काश्रौ ४, २, ४६, पाश्रु २, ७, २;
१७, ३, कम् ३, १, ८, वाध;
-मात् आश्रौ ६, १२, ४;
१०, ६, १, शाश्रौ ४, १८,
२^५, १०, २१, १४, १५, १,
१२ ×, आपश्रौ ४, ६, २^५,
हिश्रौ ६, २, १०^५, आपमं १, ७,
११^५, या १, ७, २०, ४, १६;
-मानाम् आपश्रौ ४, १, २, बौश्रौ
१, २१. २४^५, माश्रौ ३, ११,
१^५, वैश्रौ ३, १ ५, निस्, -माय
आश्रौ १, ११, १ ×, शाश्रौ;
काश्रौसं ४ २^५, बौपि ३, ७, ५^०;
-मायऽ माय माश्रौ ५, २, १०,
१३, बौध ३, ८, ३५, -फंमायै
माश्रु २, १३, ६, वाश्रु १४, १२;
-मे बौश्रौ १, १२ २२^५, २०, ४;
४, द्राश्रु २, ५, १३, अप ४८, ३^५,
पा ५, २, ६५, पावा ६, १, १४०;
-मेऽ-मे बौश्रौ २३, १ : ३७,
-मेन आश्रौ ५, १३, १५^५;
फंशाश्रौ २, १३, ६, ४, १२, १०;
आपश्रौ १४, ११, २^५, बौश्रौ
१३, १-१३, हिश्रौ १०, ६, १^५;
कौश्रु, या १२, १८^५, -मेभ्य-
आपश्रौ ४, ४^५, ६, ४, २०,

a) भावे कर्त्तरि च कृत् । b) विप । उस । c) सप्र कान्ता <> जारा इति पाठे ।
d) = वृक्ष-विशेष- । e) विर । बस । f) वैप १ द्र । g) क्वचित् वा क्विदि । h) सप्र. शाश्रौ २, ६, ७ लोकम्
इति पाठे । i) पाठे वैप १, १०९० a द्र । j) = काम-पत्नी- । k) पाठे वैप १, १०९० g द्र । l) पाठे.
वैप १ श्रुतिकामान् काठ ३१, १४ टि द्र । m) पाठे वैप १, १०९० f द्र । n) काय इति पाठ. ? यनि. शोच-
(तु सस्थ. अग्नये कामाय, सरस्वती-च) । o) आयुष्मतीम् इति B. । p) पाठे. वैप १, १०९१ a द्र. ।

१, ५, २२, ४, बौश्रौ, -मेघु
माश्रौ ६, १, ३, २६, अशा १७,
३, -मैः निस् २, ४ ९, आपम
२, २०, २८^३, आग्नि १, ५, २
९, ३, १, १२ : २, ७^३, x x २, ७
५^३, बौश्रौ, ऋभा २, १५ १४,
१६-१४, १७ ९, ऋहि २,
११, १^३, १५, ७, या १२, २१,
-मौ आपश्रौ १७, २४, १०, २३,
२, ७, छुस् ३, १० ५
काम-कति^३- -तय. आपम २,
११, ७^३
काम-काम- -माय वाव २३,
३^३
काम-कामिन्- -मी विध ७२, ७
काम-कार- -रेण विध ५, १०४
कामकार-तस् (:) विध २८,
५३
काम-काल-देश-दक्षिणा-
-णानाम् आश्रौ ८, १३, ३४
काम-कृत- -ते आपध २, २८,
१२, हिध २, ६, १२.
काम-कलुषि- सी वैताश्रौ ४२,
१३
काम-क्रोध-द्रोह-लोभ-मोह-
-हान् बौध २, ३, २१
काम-क्रोध-भय-लोभा (भ-आ)
दि- -दिभि विध ३, ७४
काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-
मात्सर्य-स्थान- -नम् विध
९६, ५०
काम-क्रोध-लोभा (भ-आख्या >)
ख्य- -ख्यम् विध ३३, १
काम-चार^३- -र बौश्रौ १५, ८ :
८; काध २७१ ३

काम-चार-वाद-भक्ष- -क्ष
गौध २, १.
काम-चारिन्- -री जैगृ २, ८ :
२२, ऋप्र २, ४, १७
कामचारिणी- -णीम् शंघ
३३४
काम-जात- -तम् अप २०, ७,
११
काम-ज(व >) वा^३- -वाम् अप
१, ४९, १, १४, १, १६^३.
काम-तस् () शागृ १, १, ७, कप्र
१, ६, ६, शध १६१, ४४९, विध
२८, ४८, ५१, १८, वृदे ६,
५५
काम-दर्शन- -नात् मीस् १२, ४,
१७
काम-दायि (न् >) नी- -०नि
अशा ५, ७
काम-दुष्^३- -दुष्. आपश्रौ ६,
१, ५, बौश्रौ २, ७ २८
काम-दुष्, घा^३- -ऋष कौगृ ५,
७, २, आग्नि ३, ११, २ ८,
३ : १६, -घम् अप १, ४६, ३,
४७, १, -घा भागृ २, २ : ११^३,
-वाः आश्रौ ६, १२, ४, ऋआपश्रौ
१, १४, १२, ५, २६, ५, बौश्रौ
२, ७ २८, १८, ४७ ११,
१६, २४, ११ : १५^३, ऋभाश्रौ
१, ११, १, ५, १८, १, वैश्रौ १,
१९ ७^३, ऋहिश्रौ १, ४, १०,
३, ६, ५, बौपि १, १५ ७२^३,
-वाभि बौश्रौ १८, ४६ १८,
-ऋषाम् आपश्रौ ६, ९, ४^३, हिश्रौ
३, ७, ६१^३, -०घे आपश्रौ १६,
१९, ५^३, बौश्रौ १०, २५ ५^३,

माश्रौ ६, १, ६, ६, वाश्रौ २, १,
५, १६^३, वैश्रौ १८, १६. १३^३,
हिश्रौ ११, ६, ३५.
काम-दुह- -दुक् कौगृ ३, १२,
२६
काम-देव^३- -०व विव ९८,
१०
काम-देवता- > ०व्य, त्या-
-त्यम् अत्र ९, २, -त्या अत्र
३, २९
काम-देव(त >) ता^३- -ता या
७, ४
काम-द्वेष- -घ. या १४, ३
काम-धरण^३- -णम् शाश्रौ २,
१२, ४, बौश्रौ १०, २० ६^३,
१९, २ २३^३, भाश्रौ ५, ५, २,
वाश्रौ ४, ११४ : २, ३, हिश्रौ
३, ३, २४, ११, ५, २६
काम-नियुक्त- -क्तानि बौश्रौ
२४, १६ ५
काम-पति- -तिः शाश्रौ ४,
१८, २^३
काम-पत्नी^३- -त्नी मागृ २, १३,
६^३
काम-पाल^३- -०ल विध ९८,
११.
काम-प्र^३- -प्रेण जैगृ १, २. १७,
-प्रौ वैताश्रौ १२, १
काम-प्र^३- -प्रम् कौसू ६६,
५, -प्राय शाश्रौ १७, १६, ४^३,
-प्रेण बौश्रौ २६, १० : २५.
काम-प्र(द >) दा- -दाम् मागृ
२, १३, ६
काम-प्रवेदन- -नम् पावा ३,
३, १५७, -ने पा ३, ३, १५३

a) पाभे. वैप १, १०९० g द्र. । b) वैप १ द्र । c) वैप २, ३ खं द्र । d) विप । बस. ।

e) विप । उस उप. ✓दुष् + क्विप् प्र । भक्त्वाऽभावश्च द्र । f) सपा. मै १, ८, ६ कामदुघा. इति पाभे. ।

g) विष्णुनाम-विशेषः । h) विप. (देवी-विशेष-। षष्ठी-) ।

काम-प्रस्थ^६- पाग ४, २, १३८,
पा ६, २, ८८
कामप्रस्थीय- पा ४, २,
१३८
काम-बल- ले पा ५, २, ९८.
काम-भोग-परीत- -तस्य चाअ
३० : २६
काम-भो(ग >)गा^७- -गा
आमिगृ २, ७, ६ : १२
काम-मन्यु- -न्युभ्याम् आपध
१, २६, १३, हिध १, ७, २४,
-न्यु आपध १, २३, ५, हिध
१, ६, १३
काम-मा (त्र >)त्रा- -त्राः
वाश्रौ ३, ४, ४, २६
काम-योग- -ग. वैगृ ३, १ ९
काम-रूप- > षिन्- -पिणे
गौध २६, १२, -पी चव्यू ४ :
१९
काम-लिङ्ग^८- -ङ्गेन आपध २,
४, १, हिध २, १, ५४
काम-लुब्ध- -ब्ध याशि २,
६२
काम-वत्- -वान् या १०, ४२
कामवती- -त्य काश्रौ १६,
१, २७
काम-वर्षिन्- -र्षीं निस् ४, ३ :
७, गोगृ ३, २, २४, जैगृ १,
१७ ७
काम-वादिन्- -दी बौध १, ५,
८६
काम-विवेक- -कात् बौशु ७ .
२१
काम-शास्त्र- -स्त्रम् मीस् १०,
५, ६६,

काम-शोचिन्- -चिभि अप १,
३८, २१, अशा ८, २
काम-श्रुति- -तिः मीस् २, २,
२९
काम-संयोग- -गः लाश्रौ ७,
११, २२, मीस् २, २, २८, -गात्
मीस् १०, ५, ८१, -गे काश्रौ
४, १५, २६, मीस् ३, ६, ४३,
६, २, ७, १०, ५, ६५, -गेन
मीस् ११, ४, १०
काम-सूक्त- -क्तम् अप १०, १,
७, ४६, ७, ४, ५, अर्ष ४
२४१, -क्तेन अप्राय २, ५, अप
२०, ५, ५, ३९, १, ९
कामसूक्ता(क्त-आ)दि- -दय
अप २०, ४, १
काम-हत- -त आपश्रौ २२,
६, ८, हिश्रौ १७, २, ५३
कामा(म-आ)गान- -नम् निस्
२, ४ १९
कामा(म-अ)ज्ञान- -नात् मीस्
१०, २, ४९
कामा(म-आ)तु(र >)रा-
-रा याशि २, ६७
कामा(म-आ)त्मन्-चेतस्-
-तसा अअ ६, ९.
कामात्म-दैव (त >)ता-
ते अअ ६, ९.
कामा(म-आ)नन्त्य- -न्त्यात्
वैताश्रौ ४३, ४३
कामा(म-अ)भिधान- -ने पावा
५, २, ६५
कामा(म-अ)र्थ- पा पाग २, २,
३१
कामा(म-अ)वधारण- -णानि

निस् ३, ३ ४०
कामि(क >)का^९- -काम् अष
७०^३, ८, २
कामे(म-ई)प्सु^९- -प्सोः चाअ
१९ २६
कामे(म-इ)षु-देवताक^९- -कम्
अअ ३, २५
कामे(म-इ)ष्टि- -ष्टौ मीस् १०,
२, ४२
कामो(म-उ)दक- -कानि पागृ
३, १०, ४६
१काम्य- पावा ५, १, १११
कामन^९- -नम् आपश्रौ ४, १, २;
वैश्रौ ३, १ ५
कामयत्- -यन्त या ६, २६
कामयमान, ना- -न बौश्रौ १४,
२५ ११, २०, माश्रौ ३, ८,
११^{११}, वाध, -नस्य शाश्रौ १४,
३१, १, शौच ४, १०२, -ना
बौश्रौ १८, ४४ २, १०, या
१, १९, ३, ५, -ना ऋ^{११}कौस्
९२, ३०, ३१, १९, ५२, या
५, १८××, -नात् या ६, १३;
-नानि या १४, १५, -ने या ९,
३९, -नेषु बौश्रौ १४, २६ १.
कामयाम्√अस(मुवि), कामयामास
वृदे ६, ७६
कामयित्वा वैताश्रौ ३४, २
कामि- पाउभो २, १, १६६.
कामि(त् >)नी->नी-मनो(नस्-
अ)भिमुखीकरण-काम- -मः
अअ २, ३०
कामुक, का- पा ३, २, १५४, पाग ४,
१, ९९^१, -का दाध्श्रौ ४,
४७ ९.

a) =देश-विशेष-। b) विप.। बस.। c) =मन्त्र-विशेष-। d) विप (दक्षिणा-।) मत्वर्थे ठन्
प्र। e) विप। षस.। f) विप। षस.>बस.। g) =कामन-। भाप.। h) पाभे. वैप १, ११७३ I द. ३
१) व्यप। धा अर्थे. ?।

कामुकी- पा ४,१,४२
 कामुकायन- पा ४,१,९९, -न
 मीस् ११,१,५७,६२
 २काम्य,म्या^१- -म्य आपश्रौ १२,
 ७,८, माश्रौ ५,१,१,३५, हिश्रौ
 १७,६, ४५, वैताश्रौ, -म्यस्
 आश्रौ ८,१०,१, शाश्रौ २,५,१,
 १२, २०, २१, आपश्रौ, -म्यस्य
 बौश्रौ २२,३,८, निस् २,८ ६,
 -म्या अपश्रौ २०,१६,२, बौश्रौ
 १५, २४ ४, वाश्रौ, -म्या
 आश्रौ २,१०,१, शाश्रौ ६,१,
 २०, आपश्रौ ४, १३, २×४,
 बौश्रौ, -फं०म्या काश्रौ ४,१२,
 ९, शाश्रौ २,१२, ४, -म्यान्
 बौश्रौ २४, ३८ १, हिश्रौ,
 -म्यानाम् माश्रौ ५,२, ७, १,
 द्राश्रौ, -म्यानि शाश्रौ ३,११,५,
 आपश्रौ १०, २०, ५, ११,
 १०, १२, १२, १४, ४, भाश्रौ,
 या ११, ३६फं०, -म्यामि
 आपश्रौ १९,१८,१, हिश्रौ २२,
 २, १, -म्यासु शाश्रौ १, १६,
 २१, -म्ये हिश्रौ ८,२,५, ४,
 ५×४, आश्रु, -फं०म्ये द्राश्रौ
 ९,२,३, लाश्रौ ३,६,३, -म्येषु
 गोश्रु ४, ५, १, ७, ९, द्राश्रु
 १, २, २३, ४, १, १, अप,
 -म्ये आपश्रौ १९, १६, १,
 हिश्रौ २२,१,१, लाश्रौ ७, १३,
 ८, वप्र १,६,१२, -म्यौ आपश्रौ
 १२,७,८, वैताश्रौ ४३,३४
 काम्य-स्व- स्वात् मीस् ५,३,
 ३४; ६,१,३१

काम्य-देवता- -ता काश्रौ ४,
 ५, १
 काम्य-नित्य-समुच्चय- -य
 मीस् १२, ४, १७
 काम्य-नैमित्तिका(रु-आ)दि-
 -दिषु शुभ्र ४,१२७
 काम्य युक्त- -क्तम् मीस् ३, २,
 १९
 काम्य-वत् भाश्रौ ३,१३,१०
 काम्य-सामान्य- -न्ये कप्र २,
 ४,६
 काम्य-होम- -मा. कौस् ५, ४
 काम्य(म्य-त्रा)घ्नडित- -तयो
 शौच ४,३०
 १ काम्यमा(न>)ता- -ना वाश्रौ
 ३,९२ : ४^b
 फं०चकमान- -नः अप ४८,३, निघ
 २,६^c, -नाय बौश्रु २, १, १४,
 अत्र १९,५२
 फं०कम्^a आश्रौ ५, २०, ६×४, शाश्रौ,
 या १,९\$, १०, ७, २५
 कमक^d- पाग २,४,६९
 कामकायन->०यनिन्^e- -निन
 बौश्रौप्र ३३ १
 कमठ^f- पाउ १,१००
 कमण्डलु, लु^g- पाउभो २,१,१०६,
 पा ४,१,७१, ७२^h, पाग २,४,
 ३१, ५, १, १३०^h, -लुः वाश्रौ
 ३, ७६ ३५, वाश्रु, -लुना
 आपश्रौ २०, २२, १, काठश्रौ,
 -लुभि बौश्रौ २०, २७ : २०,
 २२, १४ २१, -लुम् बौश्रौ
 १५, १५ : ७×४, कौश्रु, -लुत्
 बौश्रौ १५, १५ : १३, वाश्रौ

३,७६ : २४, -लौ वाश्रौ ३,
 ९६ ४, बौध १, ४, ६
 कामण्डलव- पा ५, १, १३०
 कामण्डलेयⁱ- (>०लेयी- पा)
 पाग ४,१,७३
 कमण्डलु-कपाल- -ले अप ४०,६,५
 कमण्डलु-ग(त >)ता- -ताभिः
 बौश्रौ २०,४ : ७
 कमण्डलु-चर्या- -र्याम् बौध १,
 ४, १
 कमण्डलु^j-पद- -दे आपश्रौ ५,१५,
 १, भाश्रौ ५, ८, १६, वैश्रौ १,
 १३ ३
 कमण्डलु-मृद्ग्रह(रा>)णी- -ण्यौ
 वैध २,३,३, ८, १
 कमण्डलु(लु उ)दक- -केन बौध
 १,४,१४फं
 कमण्डलु(लु-अ)धारण- -णे बौश्रु
 ४,११,१
 कमथ^k अप ४८,११६फं
 कमन- , कमनीय- ✓कम् द
 कमन्तL,न्दिक^l- (<> कामन्त-
 L,न्दिकि- पा)पाग २,४,६९.
 कमर- ✓कम् द
 रकमल^m- पाउभो २, ३, ९३, पाग
 २, १, ५६, ४, १, ४५, ५, २,
 १३५, -लै अप १,४३,८
 कमला-,कमली- पा ४,१,४५
 कमल-गर्भा(र्भ-आभा>)भ- -भा
 अप ५२,३,१
 कमलि(न>)नी- पा ५,२,१३५.
 रकमलⁿ-पाग ४,३,१०६^m
 कामलि- (>०लायन- पा.) पाग
 २,४,६१

a) वैप १ द्र. । b) पाठः? कामयमाना. इति शोधः । c) <✓चक् इति दे । d) व्यप. ।
 व्यु ? । १ न्तक- इति भाखडा । e) प्रोक्तार्थे इनिः प्र. उसं (पा ४,३,१०६) । f) वैप ३ द्र । g) = पात्र-विशेष- ।
 h) व्यप । १) अपत्ये ढञ् प्र उकारलोपश्च (पा ४, १, १३५, ६, ४, १४७) । j) = पशु-विशेष- ।
 k) अर्थ- व्यु च ? । l) वैप १, १०९३ I द्र । m) तु पागम ।

कामलिन्- पा ४,३,१०६
 कमलकीकर- (>काम°) कमल-
 कीट- द्र
 कमलकीट[र]°- (>काम° पा)
 पाग ४,२,११०
 कमल-भिदा°- (>कामलभिद-
 पा) पाग ४,२,११०
 कामित्- ✓कम् द्र
 कामुजा°- -जा कागृउ ४४ १९
 ✓कम्पु° पावा म्वा आत्म चलने,
 कम्पते अप ५०,९,२, ७०^३, ११,
 २३, निघ २ १२^१, कम्पन्ते अप
 ५७, १-४, २, कम्पन्ति अप
 ६४, ७, ६
 कम्प्येने शैशि १२०
 कम्पयन्ति अप ६४, १, ५,
 कम्पयेत् अप ६४, १, १०, ६८,
 २, ६, शध
 कम्प- -म्प अप ६४, २, २, ३, ९, उसू,
 -म्पम् उसू ८, २२×, शैशि,
 -म्पा शैशि २००, कौशि २१,
 -म्पात् अप ६४, १, ८, -म्पानाम्
 अप ६२, २, ७, ६४, १, ६, -म्पे
 अप ६४, १, ७, २, ४, -म्पेषु अप
 ६२, ४, ६, कौशि १८, -म्पै
 आज्यो ११, १, -म्पौ अप ६४,
 २, ५^२.
 कम्प-प्रहास- -सा. अप ६४,
 ६, ४
 कम्प-विधि- -धि शैशि १४५,
 १५२
 कम्प-संधि-स्वरा (र-आ) दि-
 -दयः कौशि ५६

कम्प-स्थान- -ने शैशि २४१
 कम्पा(म्प-अ)र्थ- -र्थ शैशि
 १४३
 कम्पो(म्प-उ)स्वरिता(त-अ)
 भिगीत- -तम् नाशि २,३,७
 कम्पन°- पाग ४, ४, ५९^१, -नम्
 काश्रौ ९, १३, ३५, अप ६४, ४,
 १०, भासू १, २०, -नाः या
 ६, ४, -ने अप ७१, २, २
 काम्पनिक-, काम्पनीक- पा
 ४, ४, ५९
 कम्पयत्- -यन् सु १४, २, वृदे २,
 ६७
 कम्पित- -तः नाशि १, ४, ८, -तम्
 माशि ५, २, -ताः अप ४७, ३,
 ५, -तात् माशि ५, २
 कम्प्र- पा ३, २, १६७, -म्प्राभ्याम्
 काश्रौ २२, ४, १७
 कम्प्र-मिश्र- -श्राभ्याम् लाश्रौ
 ८, ६, १०
 कम्पिल°- पाग ४, २, ८०
 काम्पिल्य°- पा ४, २, ८०, -ल्य
 फि ६२
 कम्ब- २क- द्र
 कम्बल^१- पाउ १, १०७, -ल
 जैश्रौका १९५, आपध १, ३,
 ८, हिघ १, १, ८०, कम्प्र ३, ८,
 ११^१, या २, २^१, -लम् अप
 १, ५०, १, अशा १३, ३, दवि
 २, २^१, -ला बौश्रौ २६, ३२,
 २८, -लानि हिघ १, २२, १४^१,
 -ले अप्रा ३, ४, १^१, -लेन अप
 ३३, ६, ५

कम्बल-भा[हार]°- पाग २, ४, ६३.
 कम्बल-भोज- -जाः या २, २
 कम्बला(ल-ऋ)र्ण- पावा ६, १,
 ८८
 कम्बलथ- पा ५, १, ३
 कम्बलिका[का]°- (>काम्बलिका-
 यन^१- पा) पाग ४, २, ८०
 कम्बु^१- पाउमो २, १, ८५^१
 कम्बु-क(णठ>)ण्ठी- -ण्ठीम् विघ
 १, २३
 कम्बु-शूर्प- -र्षे भाश्रौ ९, १६,
 १७
 कम्बू- पाउ १, ९३
 कम्बूक^१- -का अशा १५, ५, -कान्
 गोगृ ४, ९, १४, द्रागृ ४, ३, ६,
 कौसू ६३, ७^१, अप्रा ३, ४, १^१,
 दवि २, ४^१.
 कम्बूक-पिण्डक- -क अप १,
 ३४, ३
 कम्बूका(क-आ)डुति- -तिम् अशा^१
 १५, ५.
 कम्बोज^१- पाग ४, १, १७५, २, १३३;
 १३४, ३, ९२, -जा, -जेषु या
 २, २^१
 काम्बोज- पा ४, २, १३३, ३,
 ९३, -जा अप १, ७, १०
 काम्बोज-मुण्ड- पाग २, १,
 ७२
 काम्बोज-वाहिहक- -का अप
 ५७, २, ५
 काम्बोजक- पा ४, २, १३४
 कम्भ- २क- द्र
 कम्प्र- ✓कम् द्र

a) =ग्राम-विशेष-। व्यु ?। b) कललकीट-, कललकीकटा- इति [पत्ते] पाका। °कीकर-
 इति भाखडा पासि। c) =चूडा-। d) पा ३, २, १६७ पावा ६, ४, २४ परामृष्ट द्र। e) भाप, नाप (कृमि-
 विशेष-[या])। f) तु पागम। अर्थ^१। g) अर्थ व्यु च^१। h) =देश-विशेष-^१। i) वैप १ द्र।
 j) =मृग-विशेष-। त° इति पाठ^१ यनि, शोधः। k) व्यप.। l) =शङ्ख-। व्यु ?। m) <✓कम् इति।
 n) =जनपद-विशेष-, तद्राज- प्रभृ.। व्यु ?।

कयाधु^a -> कयाधव^b - च भाशि
 ५२१
 कयाधुभीय- प्रभृ किम्- द्र
 श्कर^c - रै अप ७०^d, ११, १३
 करिन् -> करि-प^e - पाग ६, २,
 १३४
 करि-पथ- पा, पाग ५, ३, १००
 रकर- √कृ द्र
 रेकर- √कृ (विक्षेपे) द्र
 करक, का^f - पाउ ५, ३५, पावाग ७,
 ३, ४५, -कम् वैगृ १, ६ : २०.
 करङ्क - पाउमो २, २, ३
 करा, लञ्ज^g - पाउमो २, २, ९०, -ञ्जम्
 वध २, १५, ५, -ञ्जस्य माशि ४, १
 करा, लञ्ज-पलाण्डु-परारिका- का
 आपध १, १७, २६, हित्र १, ५,
 ५८
 करञ्जा(ञ-आ)आ(ञ-अ)सवर्ण-
 -र्णा कौगृ २, ६, ९
 करट^h - (> ष्टिक- पा) पाउ ४,
 ८१, पाग ४, ४, १६ⁱ
 श्करण - (> कारणिक- पा) पाग
 ४, २, ११६^j
 रकरण- , करणि- , णी- प्रभृ √कृ द्र.
 करण्ड - पाउ १, १२९
 करत् - , ंन्ती- √कृ द्र
 श्करभ - पाउ ३, १२२, पाग ५, ४,
 ३^k, -भे पा, पावा ५, २, ७९
 करभ-क - पा ५, ४, ३
 करभ-रामभ - पाग २, २, ३१^l.
 रकरभ^m - भा. बौश्रौ ३५ : १
 करभूर - पाउमो २, ३, ५९.
 करम्ब - पाउ ४, ८२

करम्भⁿ - पाउमो २, २, २३२, -म्भ
 आश्रौ १२, ८, ३३, आपश्रौ
 १२, ४, १३^o, काठश्रौ ११३,
 वैश्रौ १५, ५ ३, हिश्रौ ८, १,
 ५६, १२, ६, ६^p, वैताश्रौ १६,
 १७, कौसु १३८, २, -म्भम्
 काश्रौ ९, १, १५, णञ्जआपश्रौ ८,
 १५, १७, १२, ४, ६, बौश्रौ ५,
 १२ १८, २०, १३ १३
 १४. २८, १५ ३^q, ७, १२
 ४, २५, ३ : १४, २०. ४,
 २८, ४ ३, वैश्रौ ९, ६ ७, ९,
 १५, ४ ५, हिश्रौ ८, १, ५०,
 अप्रा ३, ४, १^r, -म्भस्य बौश्रौ
 ५, १४. २, ७, १२, १३, ७,
 १२. ९, वैश्रौ १५, २५ : २,
 -म्भात् माश्रौ २, ४, ६, २६^s,
 -म्भान् आपश्रौ २०, १०, ५,
 बौश्रौ २८, ४ ४, हिश्रौ
 १४, ३, ३, बौगृ ३, १०, ४,
 -म्भाय माश्रौ २, ३, २, २, ७,
 ८, -म्भेण बौश्रौ ५, ७ १३^t
 करम्भ-चर्मन् - मर्णि बौश्रौ १५,
 १६ ४
 करम्भ-पात्र - त्राणि काश्रौ ५, ५,
 १०, आपश्रौ, -त्रेभ्य भाश्रौ
 ८, ५, ९, -त्रेषु आपश्रौ ८, ६,
 १४, भाश्रौ ८, ७, १०, वैश्रौ ८,
 ११. ४, हिश्रौ ५, २, ४३, -त्रै
 आपश्रौ २२, ८, १२
 करम्भपात्र-करण- -णम् काश्रौ
 ५, ३, २.
 करम्भपात्रा(त्र-अ)र्थ- -र्थान्

आपश्रौ ८, ५, ३७
 णिकरम्भिन् - म्भिणम् आश्रौ ५,
 ४, २, गोगृ ३, ३, ६
 करवाल - पाउमो २, ३, १०५
 करवीर^u - पाउमो २, ३, ५०, पाग ४,
 २, ८०, -रस्य माशि ४, २
 कारवीरेय - पा ४, २, ८०^v
 करवीर-करञ्ज - -ञ्जयो नाशि २,
 ८, ४
 करवीर-करञ्जक - -कौ याशि १,
 ३६
 करवीर-शङ्खपुष्पो(ष्य-उ)पल-नन्द्या-
 वर्त-चम्पक-मल्लिका(का-अ)सित-
 गिरिकर्णिका-कल्हार-तापिच्छ-
 पुष्प - -ष्यैः वैगृ ४, १३ १२.
 करशिखण्ड^w - ण्डानाम् बौश्रौ प्र
 २६ : २
 करस् - √कृ द्र
 करस्कर^x - पाग ६, १, १५३^y, -रान्
 बौश्रौ १८, १३ : १०, -राम्याम्
 बौगृ २, ८, ३०^z
 करस्करा(र-अ)वकाश - -शे बौगृ
 २, ८, ३०
 करस्न^{aa} - स्नान् शाश्रौ १८, २४, ३;
 -स्नौ निघ २, ४^{ab}, या ६,
 १७^{ac}
 णिकरस्यु^{ad} - स्युः द्राश्रौ ११, १, ५;
 लाश्रौ ४, १, ५
 कराल^{ae} - पाउमो २, ३, १००, -लः
 शैशि १६०, पाशि २७, माशि
 १५, २, याशि १, २६, नाशि
 २, ८, १२, -लाय णञ्ज ३६,
 ९, ४, ६६, ३, २

a) वैप २, ३ख द्र । b) =शुण्डा-दण्ड- । c) =हस्तिप- । d) बप्रा । व्यु ? । e) =कमण्डलु-
 [जल-पात्र-] । f) =वृक्ष-विशेष-, रङ्ग-लशुन- । व्यु ? । ञ् ० इति वैध हिध । g) अर्थ व्यु. च ? । h) तु. पागम ।
 i) =ऋषि-विशेष- । व्यु ? । j) वैप १ द्र. । k) =वृक्ष-विशेष- । व्यु ? । कर-वी^o इति MW. । l) =देश-विशेष- ? ।
 m) व्यु ? । n) तु पागम । कारस्कर- इति भाण्डा । =वृक्ष- वा गिरि- वा । o) =जनपद-विशेष- ।
 p) =अगारैकदेश-, तदधिष्ठित- देवता-विशेष- । q) विप (वाय- [वीणा-]) । व्यु ? । r) वैप ३ द्र. ।

कराली- (>ली/कृ पा) पाग
१,४,६१
कराष्ट्रीलाः वाध १९,२१.
करिक्रत्- ✓कृ द्र
करिक्रत्^a- -तः ऋअ २,१०,१३६
करिणी^b- -णी माशि ९,११, याशि
२,१३-१५, -णीम् माशि ९,
१२
करित- ✓कृ द्र,
करिन्- १कर-द्र
करिष्यत्-, करिष्यमाण- ✓कृ द्र
करीर^c- पाउ ४,३०, पाग ४, २,
८६^d, ३, १४१, ५, २, २४,
६, २, ८७, -राणाम् माश्रौ ५,
२, ६, २३, -राणि काश्रौ ५,
५, १
करीर- पा ४,३,१४१
करीरी^e- -री आश्रौ २,
१३, १, बौश्रौ १३, ४० ५,
माश्रौ ५,२,६,२३, -र्या आपश्रौ
१९, २५, १६, बौश्रौ १३, ३७
१, माश्रौ ५, २, ६, १, हिश्रौ
२२, ६, १
करीरी-व्रत- -तम्
आमिष्ट १, २, १ . २०^f, बौष्ट
३, १, २६
करीर-कुण- पा ५, २, २४
करीर-प्रस्थ- पा ६, २, ८७
करीर-मूल- -लम् कौसू २९, २०
करीर-वत्- पा ४, २, ८६
करीर-सक्तु- -क्तवः आमिष्ट २, ५,
१०:३, -कून् आपश्रौ १९, २६,

१, बौश्रौ १३, ३७ २, ६, ३८,
७, माश्रौ १, ७, ४, ७, ५, २,
६, ३, ५, हिश्रौ २२, ६, ६,
आमिष्ट २, ५, १० १८
करीरसक्तु-मि(श्र>)श्रा-
-श्रा अप ३०^g, १, १७
करीरी^h- पा, पाग ४, १, ४१
शकरीषⁱ- पाउ ४, २६, पाग ४, २,
३८, ५, २, १३५, -षाणि वाश्रौ
१, ४, २, ८, -षे माष्ट १, २३,
९, १७, वाष्ट ७, ८, विध २३,
६१
करीष- पा ४, २, ३८
करीष-कष- पा ३, २, ४२.
करीषा(ष-आ)दि- -दिषु वैश्रौ १,
११:२
करीषिन्- पा ५, २, १३५, -षिण
कौसू ८९, १२^j
करीषिणी- -णीम् आमिष्ट २,
६, १ २९, माष्ट २, १३, ६
रकरीष^k- >करीषायण- -णा:
बौश्रौ १७:१८
करीषि- -षय बौश्रौ २२ ३,
३६:१
शकरुण^l- -ङ्गम् बौश्रौ ३, ३० ३^l,
७^l, निघ २, १
रकरुण,णा^m- पाउ ३, ५३, पाग ३,
१, १८, ५, २, १३१ⁿ, ६, २,
१७०, -णम् अप ६८, २, २४,
-णा नाशि १, ७, १०
✓करुणाय पा ३, १, १८
करुणिन्- पा ५, २, १३१

करुण्य^o- > ण्य-तर- -र भौशि
९२^o
करुत्र- पाउना ४, १८१
करुम^p- -मा अप्रा ३, ४, १^o
करुकर^q- -रम् अप्रा ३, ४, १^o
करुळतिन्^r- -ती अप ४८, ११५;
बुदे ४, १३९, निघ ४, ३, या
६, ३०^s ३१
करुशा,ष^t- पाउभो २, ३, १६६,
(> कारुशी- पा) पाग ४,
१, १७६
करुडु- पाउवृ १, ३७
करेणु^u- पाउ २, १^o, -णुम् अप ६८,
२, २८, बाध २५४
करेणु-पाल^v- -लानाम् वैध ४, ४,
५
करेणुपाल- -०ल बौश्रौप्र
१५ ३, वैध ४, ४, ५
करेणुपालि- (>करेणु-
पालायन- पा) पाग २, ४, ६१
-लय बौश्रौप्र १५:१, २
करेणुपाल-वत् बौश्रौप्र १५ ४,
वैध ४, ४, ५
करोट- पाउभो २, २, १११
कर्क^w- पाउ ३, ४०, पाग ४, २, ७७^x,
५, २, १००^x, -र्क काश्रौसं
३६ . १३^y, -र्कम् माश्रौ ३, ६,
१६
कर्क- पा ४, २, ७७
कर्कीक- पा ५, ३, ११०.
१कर्क-श- पा ५, २, १००
कर्कट^z- पाउभो २, २, ९७

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु²। b) = स्वरभक्ति-विशेष-। व्यु²। c) वैप १ द्र। d) किरि- इति पाका। e) = इष्टि-विशेष-। f) करीरि^o इति पाठ² यनि शोधः (तु बौष्ट)। g) = करिदन्तमूल- (तु पागम)। व्यु²। h) पाभे वैप १, १०९४ I द्र। i) णाम् इति पाठ² यनि शोधः (तु सप्र तै १, ६, ४, ४)। j) = द्या। वैप ३, २२२ O द्र। k) णा- इति पाका। l) तत्रसाधवीय यत् प्र (पा ४, ४, ९८)। m) तु. पाका. पाउभो च। n) = हस्तिन्-। व्यु²। o) < ✓कृ। p) = ऋषि-विशेष-। उस। q) बप्रा। व्यु²। r) अर्थ ?। s) = आचार्य-विशेष-।

कर्कटक- (> कार्कटक्य-, > कार्क-
टक-पा) पाग ४, १, १०५, २,
१११

कर्कटा- (> कर्कटिन्-) कङ्कट- टि
द्र

कर्कन्तु- (> कार्कन्तव-) कत्तु- टि
द्र

कर्कन्धु, न्धु^a- पाउ १, ९३, पाग ४,
२, ८६, ३, १३४, ५, २, २४, ६, २,
८७, पावाग ६, १, ९३
कार्कन्धव- पा ४, ३, १३४,
१६४^b

कर्कन्धु-कुण- पा ५, २, २४

कर्कन्धु-पर्ण- -र्णानि कौष्ट ४, ४,
१९, शागृ ४, १९२

कर्कन्धु-प्रस्थ- पा ६, २, ८७

कर्कन्धु-मत्- पा ४, २, ८६

कर्कन्धु L, न्धु^c मती- (> कार्क-
न्धु L, न्धु^c मत- पा) पाग ४,
२, ७७

कर्कन्धु-सक्तु- -क्तुमि आपश्रौ
१९, २, १०, बौश्रौ १७, ३४ १५,
माश्रौ ५, २, ४, २१, ११, १६,
वाश्रौ ३, २, ७, १८, हिश्रौ १३,
८, २३, -क्तून् वैश्रौ ११,
४.२

कर्कर^d- (> कर्करी- पा) पाउमो २,
३, ३५, पाग ४, १, ४१^e

कर्करि^e- -रि: कौसू ४६, ५४^f

कर्करि-क- क. शाश्रौ १२, १८,
१^g

कर्करिक, कार्- पाउना ४, २०, -का
बौश्रौ १६, २० : ६, २६, १७ :
१३, -कामि बौश्रौ १६, २१ .

५, १४, २६, १७ ११

कर्करेडु- पाउवृ १, ३७

१कर्कर-श- कर्क- द्र

२कर्करा^h- पाग ४, २, ७७^h, -शः
बौश्रौ २, ५ १४ⁱ, -शानाम्
माशि १६, १२, याशि २, १०६

कार्कश- पा ४, २, ७७

कर्कार- पाउमो २, १, १००

१कर्की^j- पा ५, ३, ११६, ६, २, ८७

कर्की-प्रस्थ- पा ६, २, ८७

कर्कीय- पा ५, ३, ११६

२कर्(र्कि>)की^k- -कीम् कौसू ६६,
१३^l

कर्की-प्रवा(द>)दा^m- -दानाम् कौसू
२१, ११

कर्कोट- पाउमो २, २, ११२

✓कर्ज पावा म्वा पर व्ययने

✓कर्ण पावा चु पर भेदने

१कर्णⁿ- पाउ ३, १०, पाग ५, २,
२४, ९७, -र्ण मागृ १, ३, ४,
कौसू ५८, १^o, या १, ९, शुप्रा २,
३१^o, पा ६, २, ११२, -र्णम्
आपश्रौ १९, १७, १, २०, १८,
१३, २२, १६, ७, बौश्रौ १४,
१३.३५, १५, ७.१२, १६,
२६ : १३, हिश्रौ १४, ३, २९^o,
२२, १, १३, कौष्ट १, २०, ६,
भागृ १, ८ : ८, १७.११,
२४.२, कौसू १०, ८, ५८,
१, या ९, १८^o, -र्णयो. काश्रौ
२५, ७, २७, आपश्रौ, -र्णस्य
ऋत ५, १, १; -र्णा या १०, ४१^o,
-र्णाभ्याम् आश्रौ ५, ६, १२,
आपमं १, १७, १^o, आगृ ३, ६,

८^o, पागृ २, ६, १९, ३, १५, २३,
बौगृ २, ५, ४१^o, मागृ १, ९,
२५^o, वागृ १२, २^o, या ७,
३^o, -र्णे आश्रौ ३, १४, १९,
शाश्रौ ४, १४, २३, काश्रौ १३,
४, १८, आश्रौ, पा ६, ३, ११५;
-र्णेभि आश्रौ ५, १९, ५, ८, १४,
१८, आपश्रौ १४, १६, १, बौश्रौ
१९, १० ६, हिश्रौ १५, ५, १,
कौगृ ३, ५, ३, शागृ ३, ८, ६,
५, ५, ११, कागृ ७, २, मागृ १,
१, १९, वैगृ १६ १२, अत्राय
६, १^o, शुभ्र ३ ५२, -र्णे काश्रौ
६, ६, ३, आपश्रौ ६, २० २^o,
माश्रौ २, २, ३, २०, वैश्रौ १३,
१७.३, शागृ-५, ५, ११, आपगृ
११, १३, वागृ २, ४, ३, १०, वैगृ
१, ३ : ११, गोगृ १, २, ८, कौसू
४४, २२, अप ९, १, ४, वाध २,
१०^o, शध ५७, ४५६, आपध
२, १९, १, विध ३०, ४७^o, ९६,
९२, हिध २, ५, ७३, वृदे ८,
११८, अथ १६, २^o, या २,
४^o, १०, ४१^o
२कर्ण, र्णा^p- -र्ण आपश्रौ ९, १४,
१४, भाश्रौ ९, १६, १७, हिश्रौ
१५, ४, २१^o, -र्णा अथ ५,
१३^o, -र्णा आपश्रौ १८, ११,
१५, २५, ४, २४, बौश्रौ १२,
६ ८, हिश्रौ १३, ४, २३, १७,
२, २८, -र्णान् आपश्रौ १८,
११, १३, बौश्रौ १२, ६ ३, ७;
हिश्रौ १३, ४, २२
१कर्ण-क^q- -कौ शाश्रौ १२, २२,

a) वैप १ द्र. । b) पृ ८२६ p द्र. । c) तु. पाका. । d) अर्थः व्यु. च ? e) फर्करक- इति [पक्षे] भारुहा. ।

f) = वाद्य-विशेष- । व्यु ? । g) वैप ३, २२३ b द्र । h) अर्थः ? । i) भाप = कर्कशता- । j) = आयुधजीवि-संघ- । व्यु. ? ।

k) विप. (ऋच्-) । बस. । l) = श्रोत्रेन्द्रिय-, तद्वत्-, कोष्प-, पार्व- । m) पामे वैप १, १०९६ b द्र. । n) २, ३ कर्ण-

वैप १ द्र] इत्येतयोरत्र समावेश- द्र । o) अक^o इति पाठ ? यनि. शोधः । p) पामे. वैप १, १०९६ h द्र ।

३१
 २कर्ण-क^a- पाग ५, २, ३६
 कर्णका(क-अ)भाव^b- -वे काश्रौ
 १८, ४, ७
 १कर्णका-व (त >)ती^a- -ती
 तैप्रा ३, ५, -तीम् वावृश्रौ ४,
 २० १२
 कर्णकित^c- पा ५, २, ३६
 कर्ण-कोष्ठ- (> कार्णकोष्ठ- पा)
 क्रोष्ठु-कर्ण- टि इ
 कर्ण-गृहीत, ता^a- -तम् माश्रौ २,
 १, ४, ३३, -ताम् हिश्रौ ७, २,
 २३, -तेन आपश्रौ १०, २९,
 ४, बौश्रौ २१, १२ २८, भाश्रौ
 १०, २०, ४, वैश्रौ १२, २०:
 १३, हिश्रौ ७, ३, २१
 कर्ण-ग्राह^d- (> कार्णग्राहिक- पा)
 पाग ४, १, १४६
 कर्ण-घोष-वत्- -वति काध २७६:
 १२
 कर्ण-च्छिद्र- -द्रे वाश्रौ २, १, ७, ५
 कर्णच्छिद्र-प्रतीकाश- -शा: अप
 ५२, ७, ५
 कर्ण-छेद- -दम् अप ६८, २, १०
 कर्ण-जाह- पा ५, २, २४
 कर्ण-द्वज- -द्वम् आपश्रौ ५, १४,
 ८, माश्रौ १, ५, ४, १३, वाश्रौ
 १, ४, ३, १४, हिश्रौ ३, ४, १८,
 -द्रे वाश्रौ १, ४, ३, १३
 कर्ण-धार^e- -र: या १४, ३३
 कर्ण-ध्वनन- -ने आगृ ३, ६, ७

कर्ण-नासा-विकर्तन- -ने विध ५,
 ६८
 कर्ण-पत्रक- -कौ विध ९६, ९२
 कर्ण-पवित्र- -त्रे गौपि २, ६, १२
 कर्ण-प्रावृत्- -ता वैश्रौ १६, १८
 १०
 कर्ण-मूल- > °लीय- -य शैशि
 १३०
 कर्ण-युग्म- -ग्मे शंघ ४५७ १३.
 कर्ण-ल- पा ५, २, ९७
 कर्ण-ललाट-नासिका- -का माशि
 १२, ५
 कर्ण-लोमन्- -मानि आमिगृ ३,
 ५, ८ ५, बौपि १, ७. ७
 कर्ण-वत्- -वन्त या १, ९१
 कर्ण-विष^f- -विट् विध २२, ८१
 कर्ण वेधन^g- नम् कौगृ १, २०, १
 कर्ण-वेष्टक^h- पाग ५, १, ४, -कौ
 पागृ २, ६, २६
 कर्णवेष्टकीय- , °क्य- पा ५,
 १, ४
 कर्ण-श्रवस्- > कार्णश्रवसⁱ- -सम्
 लाश्रौ ७, ३, ३
 कार्णश्रवसा (स-आ) जिग-स-
 रूप- पाणाम् लाश्रौ ६, १०, ४
 कर्ण-श्राविन्- -विणि गौध १६, ६
 कर्ण-श्रुत्^d- -श्रुत् ऋअ २, ९, ९७,
 साम्र १, ५३८
 कर्ण-सश्रित- -त वृदे ८, ११३.
 कर्ण-संमित- -त बौश्रौ १९, १:
 ६, ७

कर्ण-सहि(त >)ता^a- -ता केश्रौ
 १७, ६, ३
 कर्ण-स्थ-ब्रह्मसूत्र^k- -त्र आमिगृ
 २, ६, ८: ४
 कर्ण(र्ण-आ)तर्द^l- -र्दम् आपश्रौ
 ११, ७, ३, ४, हिश्रौ ७, ५, १६.
 १कार्णिका- पा ४, ३, ६५^m, -क
 अप १८, १, १६ⁿ
 कार्णिका-मध्य- -ध्वे आमिगृ २,
 ४, १० ६
 कार्णिन्- -र्णिभि: बौध १, १०, १०.
 कार्णिनी- -नी बौश्रौ १८, ४६:
 १४, -न्य लाश्रौ ८, ६, २३;
 -न्यौ काश्रौ २२, ४, २३.
 कर्णे-चुख, र^oचुरा- पाग २, १, ४८.
 कर्णे-जप- पा ३, २, १३
 कर्णे-तिरिटिरा^p- पाग २, १, ४८.
 ३कर्ण- पाग ४, १, ११२^o, २, ८०^q,
 -र्ण. अप ५२, ९, ४^r
 कार्ण- पा ४, १, ११२
 कार्णायनि^s- पा ४, २, ८०.
 ३कर्ण-क^t- पाग २, ४, ६९
 १कार्णजयेन वाधूश्रौ ४, १०८. २.
 कार्णटा, टाक^u- पाग २, ४, ६३.
 १२कार्णिका^v- -कानाम् हिश्रौ २१,
 २, ५८
 कार्णिकार^w- > °र-वन- -नानि अप
 ६८, १, १६
 १कार्णिन् ° कौशि ४५
 कर्ण^x- (> कार्णव- पा.) पाग ४, २,
 १३३.

a) वैपश् १। b) पूष = दारुस्फोटरोग-। c) = अङ्कुरित- इति MW। d) व्यप। व्यु १।
) = नाविक-। उस पूष = अरित्र-। f) = कर्ण-मल-। g) = सस्कार-विशेष-। h) = कुखडल-। षस।
) = साम-विशेष-। j) विप. (इष्टका-। k) विप। उस > बस। l) = ईषासधानकील-।
 n) = अलंकार-विशेष-। n) = ओषधि-विशेष-। o) तु पाका.। p) °र्ण-टिटिभ- इति पाका, °र्ण-टिरिटि-
 ति पागम। q) अर्थ व्यु च १। r) = सूर्य-ग्रह-। s) = देश-विशेष-। t) स्वार्थिक क प्र.। u) व्यप.।
 इ. १। °र इति पाका.। v) = वनस्वति-विशेष-। व्यु १। w) व्यप.। पाठ: ? कुण्डन- > -न: इति शोच-
 तु. तै काण्डानुक्रमणिका २७। x) तु, पाषम.।

ःकृप्या वाश्रौ ३, २, १, ०.
 ✓कर्त्तृ पाधा चु उभ. शैथिल्ये
 श्कर्त्त- ✓कृत् (छेदने) द्र
 र्कर्त्त- ✓कृत् (वेष्टने) द्र
 कर्त्तरि, री- ✓कृत् (छेदने) द्र
 कर्त्तवै, कर्त्तव्य- ✓कृ द्र
 कर्त्त- पाठभो २, १, ६४
 कर्त्तुम् ✓कृ द्र
 श्कर्त्त^a- (>कार्थ्य- पा) पाग ४,
 १, १५१
 र्कर्त्त- , कर्त्तौस () ✓कृ द्र
 ✓कर्त्त्र ✓कर्त्त्र इटि द्र.
 कर्त्त्र- ✓कृ द्र.
 ✓कर्द् पावा भ्वा पर. कुत्सिते
 शब्दे
 श्कर्द्, ह्रीम^b- पाठ ४, ८४, पाग ४,
 २, ८०^{२०}, ५, २, ३६, १२७,
 १३५, फि ५९, -मम् काश्रौ
 २५, ८, २, अप ७१, १३, ५,
 -मेन गौपि १, ६, २.
 कर्द्म- , कर्द्मिक- पावा ४,
 २, २
 र्कर्द्म- पा ५, २, १२७
 कर्द्म-क्- पा ४, २, ८०^d
 कर्द्म-कूप- -पेषु अप ६८, ५, २.
 कर्द्म-भित्त्यन्तक्रोण-वेध- -धै
 कप्र ३, १०, १६
 कर्द्मित- पा ५, २, ३६
 कर्द्मि(न >)नी- पा ५, २, १३५
 कर्द्मिल- पा ४, २, ८०^d.
 कर्षट- पाठवृ ४, ८१, पाग २, ४,
 ३१
 कर्षर- पाठभो २, ३, ३९

कर्पास^e- पाठ ५, ४५, पाग २, ४,
 ३१
 कर्पासी- पाग ४, ३, १३६
 श्कर्पास- पा ४, ३,
 १३६, -सम् आश्रौ ९, ४, १७,
 लाश्रौ ९, २, १४, निसू १, ११ :
 ८, गोश्र २, १०, ११, शंभ २३५,
 विध ७१, १५, गौध १, २०
 कर्पास-कीटजो (ज-
 ऊ) र्णा (र्णा-अ) पहरण-
 -णे विध ५२, ११^f
 कर्पास-शणा(ण-आ)
 विक- -कानि विध २७, १९
 र्कर्पास^g- -सः आम्रिष्ट २, ४,
 ९ ३
 कर्पासा(स-अ)स्थि- -स्थि
 विव ६३, २५
 कर्पासो (स-उ) ल्य- -ल्यम्
 विध ७९, ३
 कर्पासिक- -कानि बौध १, ६,
 १०
 कर्पास-तन्तु->कर्पासतान्तव^h-
 -वम् विध ४४, २८
 कर्पूर- पाठ ४, ९०, पाग ४, १, १२३,
 २, ८०^e
 कर्पूरैय- पा ४, १, १२३
 कर्पूरिन्^e- (> कर्पूरिण- पा)
 पाग ४, २, ७७
 कर्पूरिल- पा ४, २, ८०^d
 ✓कर्ष पाधा. भ्वा पर गतौ
 कर्षटⁱ- पाग २, ४, ३१^a
 कर्षुदार- पाठभो २, ३, ४५
 कर्षुर- पाठवृ १, ४१, -रम् अप ४८,

७५^f
 कर्म- ✓कृ द्र
 श्कर्मग्रामोऽवरुन्धेत^l वाश्रौ ३, २, ५,
 ४३
 कर्मन्- ✓कृ द्र
 कर्मन्द-> ंन्दिन्- पा ४, ३, १११.
 कर्मर- ✓कृ द्र
 ✓कर्ष पाधा भ्वा पर दर्षे
 कर्ष- , कर्षर- ✓कृ द्र
 कर्षिणी^k- -णी माशि ९, ११,
 -णीम् माशि ९, १२,
 श्कर्षफ^l- -फस्य कौसू ४३, १, अत्र
 ३, ९
 कर्षित्वा ✓कृश् द्र
 कर्ष- , कर्षक- ✓कृष् द्र
 कर्षट- पाठभो २, २, ९७
 कर्षण- , कर्षत्- , कर्षमाण- , कर्षयित्वा
 ✓कृष् द्र.
 कर्षा^m- षीसु अप ६८, २, ४६.
 कर्षापण^m- पाग ५, ४, ३८ⁿ
 श्कर्षापण- पा ५, १, २९, ४, ३८,
 पाग २, ४, ३१, -णः शध
 ३२२, विध ४, १३, -णम् विध
 ५, ५४, -णाः शध ३१२^r,
 ३२४, विध ५, ३८, वाध १९,
 २१, -णात् पावा ५, १, २५,
 -णान् विध ५, ५२, ५३, ६०,
 १३९
 कर्षापण-द्वय- -यम् विध ५,
 २७
 कर्षापण-पञ्चविंशति- -तिम्
 विध ५, ९१.
 कर्षापण-शत- -तम् विध ५,

a) अर्थः व्यु च^१ । b) वैप १, ३ द्र । °हूँ इति कप्र । c) अर्थ^२ । d) =देश-विशेष-^३ ।
 e) नाप.। व्यु. ? < ✓कृ [अर्थ. १] इति प्रायोवाद । कर्पास- इति पाठना । f) ंणाद्यप^४ इति जीसं. ।
 g) =कर्पास-। स्वार्थे ञ् प्र. । h) विप । तस्येदमीय ञ् प्र. उभयपदवृद्धिश्च । i) तु.पागम. ।
 j) पाठ^५ सप्र आपश्रौ २१, २०, ३ क्षेमे व्युद्धे ग्रामेण इति पाठे । k) =स्वरभक्ति-विशेष-। व्यु. ? । सप्र. यादि
 २, १३ कुर्विणी इति पाठे । l) वैप १ द्र. । m) =षोडशपल-प्रमाण-। व्यु ? । n) का^६ इति पाका ।

२८, ३३, ४४, ५०, ५७
 कार्षापण-शतद्वय- -यम् विध
 ५, २६
 कार्षापण-सहस्र- -स्त्रायाम् पा
 ५, १, २९
 कार्षापणिक- पावा ५, १,
 २५
 कर्षिन्-, कर्ष- प्रभृ $\sqrt{\text{कृष्}}$ द्र
 $\sqrt{\text{कल्}}^a$ (बवा), पाधा भ्वा आत्म
 शब्दसंख्यानयो, चुरा पर
 क्षेपे, उभ गतौ सख्याने च,
 कालयति निघ २, १४१
 कल^b->कल-हंस-प(द्>)दी^c-
 पाग ५, ४, १३९
 कलित- पाग २, १, ५९
 कलकीट^d- (> कालकीट- पा)
 पाग ४, २, ११०
 कलकूट^e- > कालकूटि- पा ४, १,
 १७३
 कलङ्क^f- पाउभो २, २, ३०, पाग ५,
 २, ३६.
 कलङ्कित- पा ५, २, ३६
 कलञ्ज-करञ्ज- द्र
 कलत्र^g- पाउ ३, १०६
 कलन^h- (> कालनक^b- पा) पाग
 ४, २, ८०.
 कलन्दन- भलन्दन- टि द्र
 कलप- पाउनाट्ट ३, १४२
 कलभ- पाउ ३, १२२, पावाग
 ८, २, १८ⁱ.
 कलम- पाउ ४, ८४

कलम्ब- पाउना ४, ८८
 कलल^j- पाउभो २, ३, ९६, -लम् या
 १४, ६
 कललकीकटा-, कललकीट-
 कमलकीट- टि द्र
 कल-व(त्>)ती^k- -ती कप्र ३, ९,
 १०
 कलविङ्क^l- पाउभो २, २, ३२, -ङ्कः
 वृदे ६, १५१, -ङ्कान् आपश्रौ
 २०, १४, ५१
 कलविङ्क-प्लव-चक्रवाक-हस-रज्जु-
 दाल-सारस-वायूह-शुक सारिका-
 बलाका-बक-कौकिल-खञ्जरीटा-
 (ट-अ)शन- -ने विध ५१,
 २९
 कलविङ्क-ल्ल(ल्ल^m)व-चक्रवाक-हंस-
 चाष-भास-श्रीञ्च-क्रकाक-कङ्क-
 गुध्र-श्येन-वलीक-मल्लु-टिट्टिभ-
 खञ्जरीटो(ट-उ)ल्लक-रक्तपादा
 (द-ग्रा)दि-मांस-भक्षण-
 -णे सुध ३५
 कलशⁿ- पाउभो २, ३, १४२, -श
 आश्रौ ५, ५, १९१, काश्रौ, या
 ११, १२०, -शम् काश्रौ ८, ९,
 १८, आपश्रौ, मागृ २, ११,
 १२१, गोयृ २, १, १२०,
 -शा शाश्रौ ७, १५, ८१, माश्रौ
 २, ३, ७, ६१, -शात् आपश्रौ
 १४, २७, ३, बौध्रौ, -शान् शाश्रौ
 १७, ४, ८, १७, ९, माश्रौ, या
 ११, १२१, -शानाम् अप २१,

२, १, -शे शाश्रौ १३, १२, १३;
 जैश्रौका, -शेषु आश्रौ २, १२,
 ४१, ५, १२, १५१, शाश्रौ;
 -शौ वैश्रौ २१, ४ : ६, आगृ
 २, ८, १६१, कौगृ ३, २, ६१,
 शागृ ३, २, ९१, पागृ ३, ४, ४१;
 कागृ ११, २१, वैश्र ४, १० :
 १८, हिगृ १, २७, ४१, अप
 ५, १, २, बौध १, ५, १२६;
 -शौ आपश्रौ १२, २९, ९५;
 वैश्रौ.
 कलशी^o- -शी आपमं २,
 १५, ४; आगृ २, ४, १ : १६,
 भागृ २, ३ - ९
 कलशी-कण्ठ^p- पाग २,
 ४, ६९.
 कलशी-प(द्>)दी-
 पाग ५, ४, १३९.
 कालशिक^q- -का वैध १,
 ८, १.
 कलश-भेदन- -ने काश्रौ २५, १२,
 २३
 कलश-व(त्>)ती- -तीः शाश्रौ ७,
 १५, ८
 कलशि^r- (>कालशेय-) पा ४, ३,
 ५६.
 कलह^s- पाउभो २, ३, १८५; पा ६,
 २, १५३, पाग २, ४, ३१, -हः
 मागृ २, १४, २९१, -हम् हिश्रौ
 ६, ७, ८, हिगृ १, २९, २, अप
 ६८, १, १८, -हान् जैगृ १, १९ :

- a) या २, २५ परामृष्ट. द्र । b) विप. । घा कान्तौ वृत्तिः । c) कस > बस । d) अर्थः
 व्यु च ? । e) = योद्ध-वंश- । व्यु. ? । f) = चिह्न, अपवाद- प्रभृ । व्यु. ? । g) नाप. । वैप ३ द्र. ।
 h) = देश-विशेष- ? । i) तु. पागम । = वरभ- । j) नाप । व्यु ? । k) = बदरी-शाखा- ।
 व्यु ? । l) वैप १ द्र । m) पाठ ? यनि शोधः (तु विध.) । n) पाभे. वैप
 १, १०९७ । द्र । o) षम् वावि यनि. शोध । p) व्यप । बस. । q) = वानप्रस्थ-
 विशेष- । r) कलश- । s) = युद्ध- । व्यु ? कल- + ह- (< $\sqrt{\text{हव}}$) इति अन्त. ।
 t) < $\sqrt{\text{कल्}}$ ।

२९, --हे अप ७०^२, १६,३, सु
५,४.
कलह-कर्मन्- -मैणि अप २६,४,६
कलह-कार- पा ३,२,२३
कलह-प्रिय^२- -या. अप ६८,१,९
✓कलहाय पा ३,१,१७
कलहिन्- -हि कौस् २७,१, -हिन
आय २, ७, ११, -हिन कौस्
२३,५
कला^१- पाग ४, २, ८०^०, फि ५७,
-ल्या अपाश्रौ १०, २५, ४,
काश्रौ, -ला शाश्रौ १६, २२,
१८, बौश्रौ, -ला शाश्रौ १६,
२२, १६, वावूश्रौ, या ६, ६, ११,
१२, -लानाम् वेज्यो ३८^१,
-लाम् अप ८,१, ४×४, वाध,
-ले निम् ५, १२ : ५
कालायन^०- पा ४, २, ८०
कला-त्रिंशत्- -रात् आज्यो १,४
कला-भर^१- -र गौध ६, १६
क(ल्य>)ल्या^२- -ल्या आमिष्ट २,
६, ५ २४
कलाप^२- पा बौश्रौप्र ३१ ८^१, -पान्
आपश्रौ ८, १, १५, हिश्रौ ५, १,
९^१, -पेन अप ५८^२, २, ८^२.
कलाप-मा(त्र>)त्रा- -त्राम् अप
३६, १७, १
कलापिन्- पा ४, ३, ४८, १०४;
पाग ४, १, ११२^१, पावा ६, ४,
१४४, -पि आपश्रौ २२, ३,
८^२, काश्रौसं २८ २, -पिनः

काश्रौ २२, ३, १८, पा ४,
३, १०८, -पिनम् शध ११६
६०^२, -पी आश्रौ ९, ७, १८,
काश्रौ २२, ३, ४८, लाश्रौ ८, ३,
६
कालाप- पा ४, ३, १०८,
पावा ६, ४, १४४
कलापक- पा ४, ३, ४८
कलापि-खाडायन-ग्रहण- -णम्
पावा ४, ३, १०४
कलापि-वैशपायना(न-अ)न्तेवा-
सिन्- -मिभ्य' पा ४, ३, १०४
कलाय- पाउमो २, ३, ८
१कलि^० पाउ ४, ११८^१, -लि. शाश्रौ
१५, १९, १, वावूश्रौ ४, ५९^२
६, अप ६७, १, ४, या ११,
१२^१, -लिम् काश्रौ १५, ७,
१९, आपम २, १३, ७^०, अप
७०^३, ३२, ४, ५, -ले वाधूश्रौ
४, ५९^२ : ४, कप्र २, १०,
१०, -लौ जैश्रौका १
✓कलि पा ३, १, २१
कलि-युग- -गम् विध २०, ६
कलि-व्यपे(त>)ता- -तासु विध
२२, २२
कलि-स्तोम- -मा निस् १, ९ ७,
१२-१४
कलि-स्थान- -नम् निस् १, ६ ६
२कलि^१- -लय बौश्रौप्र ४४ २^१,
-लिः ऋअ २, ८, ६६, साअ १,
२३९, २७२, २, ९५९, अअ २०,

१७, -ले पा ४, २, ८, पावा ४,
२, ७
१कालेय^१- पा ४, २, ८, पावा ४,
२, ७, -यम् शाश्रौ ७, २४, १,
१५, ७, ५, बौश्रौ १८, १५ ९,
जैश्रौका १८१, लाश्रौ ९, ५, १८,
१०, ७, ९, लुस् १, २ १०×४,
-यस्य लाश्रौ ७, ८, २, ९, ५,
१६, निस् ५ ४ १४, -यात्
धुस् १, ४ १०, २९, ६ १९,
८ १०, निस् ४, १० ११,
-येन जैश्रौ १७ २५
कालेय-रैवत- -ते आश्रौ ९,
११, ९
कालेय(य-ऋ)र्च- -यर्च द्राश्रौ
९, २, १७, लाश्रौ ३, ६, १८
कालेय-स्थान- -ने द्राश्रौ ८,
३, १६, लाश्रौ ४, ७, ३
२कालेय^१- -याः बौश्रौप्र ४४ १.
कलिका- पाउमो २, २, १५
कलिङ्ग^१- पाउमो २, २, ६३, -ज्ञान्
बौश्रौ १८, १३ २, बौध १, १,
३०, ३१, -ज्ञानाम् अप १, ६,
२, -ज्ञेषु बौश्रौ २, ५ : २०^१,
जैगृ २, ९ १८, अप ५१, १, ३.
कालिङ्ग- पा ४, १, १७०
कलिङ्ग-पुर-पृथिवी-मण्डल-
मध्य- -ध्ये अप ५६, १, २
कलित- ✓कल् द्र
कलित-हरण- पाग २, २, ३७^१
कलिन्द^१- पाउमो २, २, १६८.

a) विप । बस । b) वैप १ द्र । c) अर्थ ? । d) कुं इति पाठ ? यनि शोध । e)
=देश-विशेष-? । f) =कलाकार- । उस । g) विप । तत्रसाधवीय यत् प्र । h) बप्रा ।
व्यु ? । <कला- +✓आप् इति अभा MW । i) = ऋषि-विशेष- । j) = निधन- इति भाष्यम् ।
k) = बर्ह- । l) तु. पागम । m) = धान्यतृण-मुष्टि- । n) सप्र अपु २१९, २३ कापालिम्
इति पाभे । o) = युग-विशेष-, कलह-, यूत-साधन-, छन्दस्-, स्तोम- । वैप १ द्र । p) <✓कल्
भाष्ये इति । q) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । r) = साम-विशेष- । s) = जनपद-विशेष-, तद्वासिन्- ।
व्यु ? । t) = पर्वत-विशेष- । व्यु ? ।

कालिन्दी^a- नदी याशि १, ३३
 कालिन्द^b- न्द. द्राश्रौ १, २,
 १५, लाश्रौ १, २, ९.
 कलिल- पाउ १, ५४
 कलिव-(>कालिव्य-) कविल- टि.
 द्र
 कलील- पावाग ८, २, १८^c
 कलु^d, ल^d | तर^e- (>कालु^d, ल^d | तर-
 पा) पाग ४, २, १३३
 कलुष, षा^f- पाउमो २, ३, १६४,
 -षा अप ६४, ४, ५, -षामि:
 बौघ १, ५, १४, -बौ अप ६४,
 ३, ८
 कलुष-सलिल(ल-अ) वपासु
 -मश^g-म अप ६८, ४, १
 कलुषा(ष-आ)कृति-रदिम^h-रमय
 अप ५२, ३, ४
 कलेवरⁱ- पाउमो २, ३, ७५, -रम्
 शघ १५९ : ९
 कलक^j- पाउ ३, ४०^k, पा ३, १,
 ११७, पाग २, ४, ३१, -लक
 वाघ ६, ४०
 कल्प-, कल्पत्- प्रसृ^l | कल्प^m द्र
 कल्पट- पाउना ४, ८६.
 कल्पन्ⁿ- पावाग ८, २, १८^c
 कल्पलि^o- लि अप्रा ३, २, २८.
 कल्पलीक^p- पाउमो २, २, २०
 कल्पलीकिन्- किनम् अप ४८,
 २०, निघ १, १७
 कल्पम^q- पाउमो २, ३, १५२^m, -षम्
 अप ८, १, ७, आपघ १, २४,
 २६, २८, १८, २९, १, हिघ १,
 ६, ७४, ७, ५३, ५७, -षस्य

विघ ५२, १४, -षानि अप ५३,
 १, ४
 रकल्माष^r- पाउमो २, ३, १५३,
 पाग ४, १, ४१, -ष आपश्रौ
 २०, २२, १३१, वाश्रौ ३, २,
 ६, ३४, हिश्रौ १४, ५, ९, -षम्
 आपश्रौ ५, ७, १७, बौश्रौ २,
 १५ २०, १०, ५७ १०, १५,
 ३७ : ८, भाश्रौ ५, ४, १, माश्रौ
 १, ५, १, ३३, वाश्रौ १, ४, १,
 १४, वैश्रौ १, ६ : १६, हिश्रौ
 ३, २, ६३, ९, ८, ३१, आगृ ४,
 ८, ५, कौसू १०, १२, कप्र १,
 २, २, -षे कौसू २७, १५
 कल्माषी- पा ४, १, ४१, -षी
 काश्रौ १६, २, ५, लाश्रौ ८, २, ६,
 भाशि ९६१, -षी बौश्रौ १८,
 ११ ८, -षीम् आपश्रौ १६, १, ७,
 माश्रौ ६, १, १, ८, वाश्रौ २, १, १,
 ४, वैश्रौ १३, १०, हिश्रौ ११, १,
 ११ १७, १, १३, -षीव्य आपश्रौ
 २१, २०, ३, हिश्रौ १६, ६,
 ४१
 कल्माष-ग्रीव^s- वः आपमं २, १७,
 १९१, -वम् अम ३, २६
 कल्माष-दण्ड^t- ण्डः बौश्रौ प्र
 ४९ : २
 रकल्माष^u- -षाः बौश्रौ प्र १७ : ८
 कल्प- पाउमो २, ३, १.
 कल्याण, णा^v- पाउमो २, २, १२८,
 पाग ४, १, ४५, ५, १, १३३, ८, १,
 ६७, -णम् शाश्रौ १०, १९,
 २, आपश्रौ, या २, ३, ९, २, -णा

पा ४, १, ४५, -णे बौश्रौ १८,
 ४४ १, आगृ १, ४, १, या
 ११, १९, पावा ५, २, १००,
 -णेषु आगृ १, ८, ६, -णै आगृ
 १, २३, २२.
 कल्याणी- पा ४, १, ४५, पाग
 ४, १, १२६, ६, ३, ३४,
 -०णि वृदे ८, २६, -णी आश्रौ
 ८, १३, १३, शाश्रौ, -णी आपश्रौ
 १०, २०, ४१, १७, २३, ६, हिश्रौ
 १२, ७, ४, कौसू २०, ९, या ७,
 ६, -णीभि. गौपि १, ४, २,
 जैगृ २, ५ १०, -णीम् शाश्रौ
 १०, १९, २, द्राश्रौ, या २,
 ११, ११, ११, -ण्य. आपश्रौ
 १०, १, ३×४, वैश्रौ, या ७, १७,
 -ण्याम् या ७, २२, ११, १९,
 १२, ३९, -ण्यै आश्रौ ५, १३,
 १२, शाश्रौ
 कल्याणक- पा ५, १, १३३.
 कल्याणिनिय- पा ४, १,
 १२६
 कल्याण-कर्मन्^w- -र्माण या ११,
 १४
 कल्याण-कृत्- कृत् कप्र १, ७, ११.
 कल्याण-गा(व>)वी- वी भाश्रौ
 १०, १७, १२
 कल्याण-चक्र^x- -क्रे या १०, ३.
 कल्याण-चित्त^y- -त्ते विघ ९९, २०.
 कल्याण-जिह्व^z- -०ह या ८, ६
 कल्याण-दान^{aa}- -नः या २, २४, ५,
 २७, ६, १४, -०ना या ६,
 २३

a) = नदी-विशेष-। तत प्रभवतीत्यर्थे अणि प्र. (पा ४, ३, ८३) स्त्री ङीप्। b) विप। तस्येदमीय. अण्
 प्र। c) तु पागम। d) = तु BPG। e) = देश-विशेष-। व्यु. ?। तु भाण्डा। कुल्लन- इति पाका।
 f) = मलिन-। व्यु. ?। g) कस >इस. >सस। पाठः ?। h) विप। बस >बस.। i) = शरीर-। व्यु. ?
 j) नाप.। व्यु. ?। k) <√कल् इति.। l) = कर्मन्-। m) वैप १ द्र.। n) <√कल् [*मालिन्ये]
 इति.। o) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। p) विप। बस।

कल्याण-देव- -व. या १४, २७
 कल्याण-नामधेय- -यम् अप १,
 ३१, ७
 १कल्याण-नामन्- -म या ९, २
 २कल्याण-नामन्^१- -मानम् कौस्
 ७८, ८
 कल्याण-नासि(का>)क^१- -कम्
 वाव २, ३५
 कल्याण-पाणि^१- -णि. या २, २६
 कल्याण-प्रजा- -जा: जैगृ १, २२, ३
 कल्याण-प्र(ज्ञा>)ज्ञ^१- -ज्ञ या
 १४, २७, -ज्ञा या ११, १४
 कल्याण-भ(द्र>)द्र^१- -द्राम् या
 ११, ३४
 कल्याण-मङ्गल^१- -ल या ९, ४
 कल्याण-वर्ण- -र्णस्य या २, ३
 कल्याणवर्ण-रूप^१- -प या २, ३
 कल्याण-वासस्^१- -सा या १, १९
 कल्याण-वि(द्या>)द्य^१- -द्य या
 ६, १४
 कल्याण-वीर^१- -र या ९, १२,
 -रा या १, ७.
 कल्याण-शी(ल>)ला^१- -ला जैगृ
 १, २२ ३
 कल्याण-सारथि^१- -थि. या ९, १६
 कल्याण-हस्त^१- -स्त: या ११, ४३
 कल्याणा(ए-अ)मिन्वाहार^१- -र
 शाश्रौ १७, १, १८
 कल्याणो(ए-ऊ)र्मि^१- -र्मि या ५,
 २७.
 ✓कल्ल पाधा भ्वा आत्म अव्यक्ते-
 शब्दे
 कल्लोल^१- पाउभो २, ३, ११५, पाग
 ५, २, ३६, १३५.
 कल्लोलित- पा ५, २, ३६

कल्लोलि(न>)नी- पा ५, २, १३५
 कल्हार- पाउभो २, ३, ४५
 कव- किम् द्र
 कवक- पाउभो २, २, ७
 १कवकेशावकाशि(न>)नी^१- -नी
 कागृ ३५, १
 कवच^१- पाउभो २, २, ७५, पाग २,
 ४, ३१, -च आपश्रौ २२, १२,
 ७, -चम् काश्रौ १३, ३, १३,
 आपश्रौ १८, १०, ३०, २०, १६,
 ४, हिश्रौ १४, ३, २७, आगृ ३,
 १२, ३, आमिगृ २, ५, १: ५०,
 अप ३६, १, ४, या ५, २५^२क,
 -चस्य वृदे ५, १३४
 कवच-वरुथ- -थम् वाधुश्रौ ३,
 ७६ १६
 कवच-स्तुति- -ति वृदे ५, १३२
 कवचिन्- -चिन शाश्रौ १६, १,
 १६, आपश्रौ २०, ५, १०, २१,
 १८, ६, १९, १३, वाश्रौ ३, २, ५,
 ४६, ४, १, ३१, हिश्रौ १४, १, ४६,
 १६, ६, ३४, कागृ ५७, ५, या
 १०, ३०, -ची अत्र ११, १०^१
 कावचिक- पा ४, २, ४१
 कवचि-निषङ्गि-कलापि-दण्डिन्-
 -ण्डिन काश्रौ २०, २, ११
 क-वत्- १क- द्र
 कवन^१- -नम् या १०, ४^१
 कवन्तर्क^१- पाग २, ४, ६९
 कव-पथ- प्रभु किम्- द्र
 क-वर्गा- १क- द्र
 १कवल^१- पाउभो २, ३, ९८.
 २कवल^१- पाग ४, २, ८०, ६, २, ८७
 कवल-प्रस्थ- पा ६, २, ८७.
 कवल्य^१- पा ४, २, ८०

१कवष्^१- -वषा आश्रौ ३, ३, १;
 शाश्रौ ५, १७, ५, ६, १, ६, माश्रौ
 ५, २, ९, ४
 १कवष्^१->कवषी- -व्य ऋप्रा २,
 ४१
 २कवष्^१- -ष ऋप्र २, १०, ३०;
 सात्र १, ४३९, ४४०, ४५४,
 -षस्य चात्र १९ १३
 कवस्- पाउ ४, २
 कवाट^१- पाग २, ४, ३१
 कवाटक- -के अप ६८, २, २९
 १क(व>)वा-तिर्यञ्च्^१- -र्यञ्च्
 आपश्रौ ६, १६, ३, बौश्रौ ३, ९:
 १६, भाश्रौ ६, १, ७, वैश्रौ २,
 ७ १, हिश्रौ ६, ६, ७, बौष २,
 १, ३४, ४, २, ११
 कवाढ्यायोवसा वाश्रौ ३, २, ८, १४
 कवा-सख^१- -ख. या ६, १९^१क;
 ऋप्रा ९, ८
 कवि^१- पाउ ४, १३९, पाग ४, १,
 १८, १०५^१, १५१, -वय आश्रौ
 ५, ९, १^१, आपश्रौ, या ६, २७^१क;
 -०वय या ३, २२^१क, -^१वये
 आश्रौ ४, १३, ७, आपश्रौ;
 -^१वि: आश्रौ १, ८, ७××,
 शाश्रौ; निघ ३, १५, या ५, २;
 ८, ५, १२, १३^१क, १४, २०,
 -विना पावा १, ४, ५१,
 -^१विमि: आपश्रौ ४, ७, २,
 भाश्रौ, -^१विम् आश्रौ ४, ६, ३,
 शाश्रौ, -^१वी आश्रौ ६, १२,
 १२; शाश्रौ, -^१वी आपश्रौ
 ६, २१, १, वाधुश्रौ ३, ५४: १;
 -^१वीनाम् आश्रौ ३, ७, १४××,
 काश्रौ, या १४, १३^१क, -^१वै

a) विप. । बस. । b) भाप. । वैप ३ द्र. । c) नाप । अर्थ: व्यु. च ? । d) वैप १ द्र ।

e) =उदक- । व्यु. ? । f) व्यप । व्यु. ? । g) =प्रास- । h) अर्थ व्यु च ? । i) =देश-विशेष- २ ।
 j) तु. पागम. । =कपाट- । व्यु. ? । k) व्यप ।

आपश्रौ २, ९, १०, बौश्रौ, -वे
जैश्रौका ३, शैशि २८३१
काव^a- वम् जैश्रौ २३ : १६,
जैश्रौका ६१, लाश्रौ ७, ३, ११,
छुसू १, ८ १५, ३, ३ १६,
११ २९, निसू ७, ८ ३१,
३५, १०, १२. २८, -वस्य
छुसू १, ७ २७, ३, ३ १६,
निसू १०, २ ३४

कावा(व-अ)न्त- न्तम्
जैश्रौका १८६
ककाव्य^b- पा ४, १, १०५,
१५१, पाग ४, १, ९९०, -व्य
शाश्रौ १४, २७, १, बौश्रौ, अप्राय
६, ३^c १^d, -व्यम् बौश्रौ १४, ७
४^e, १८, ४६ १७, वावूश्रौ,
या १४, १८^f, -कव्ययो शाश्रौ
७, १०, ११, शुअ ३, २३५, -व्यस्य
भाण २, ६ १६, चाअ ३८ :
१६, -कव्या आश्रौ २, १९, २४,
बौश्रौ, -कव्याय शाश्रौ १४, २७,
१३, कौसू १३९, ६, -कव्येन बौश्रौ
१८, ३१ ६, ऋप्रा ८, १३,
-कव्येभि आश्रौ ७, ५, ९,
शाश्रौ १२, २, ५, १५, -व्येभ्य
द्राश्रौ ७, २, १२, लाश्रौ ३, २,
१२, -व्यैः शाश्रौ ७, ५, २४,
जैश्रौ.

कावी- पा ४, १, ७३

काव्यायन- पा ४, १, ९९,

-नौ ऋअ २, ८, १४

काव्यायनी पा ४, १, १८

कवि-ऋतु^g- तुम् आश्रौ ४, ६,

३, शाश्रौ ५, ९, ७, बौश्रौ ६,
१४ १४

कवि-तम- मम् आश्रौ ३, ७, १४,
-मस्य या ६, १३

कवि-प्रशस्त^h- -स्त. बौश्रौ २८,
२ : ४६ⁱ

कवि-मत्- -मत निसू ७, ५ : १०,
-मन्तम् निसू ८, ७ ३४, ९,
४ ३५

कवि-वृध^j- -ध शाश्रौ १८, १८,
११^k

कवि-शब्द- -ब्दे ऋप्रा ४, ५२

कवि-शस्त- पाग ६, २, १४७,
-कस्त आश्रौ १, ३, ६, शाश्रौ १,
४, १९^l, -कस्ता आपश्रौ ५,
१९, ४, हिश्रौ ३, ५, ५, या १२,
३३

कवि-सत्तम- -मम् अप ७०^m,
१, १

✓कवीय > कवीयमान- -न. ऋप्रा
९, १४ⁿ, -नानाम् या १४,
१३

✓कव्य पा ७, ४, ३९

कविय- पाउभो २, ३, ११

कविर- पाउभो २, ३, ४७

कविल^o- (> काविल्य^p- पा) पाग
४, २, ८०

कचूर- पाउभो २, ३, ५६

कवेर- पाउभो २, ३, ६१

कवेरजेव चोडानाम् जैश्रौका ३

कव्य^q- पा ५, ४, २५, -कव्य^r शाश्रौ
६, १२, ९, आपश्रौ ११, १५, १,
वैश्रौ १४, १३ : ९; हिश्रौ १०,

३, ४२, जैश्रौ १३ : २३, द्राश्रौ
४, २, १६, लाश्रौ २, २, २५,
-व्यम् बौग २, ११, ३२^s, वाग
१७, १४, वैग ४, ३ १६, ५,
१३. ८, १४ ७, -व्यास
आपश्रौ १४, ३२, ३^t, -व्येन
वैग ५, २ २५, -व्येभ्य आपश्रौ
१४, ३२, २^u, -कव्यै आश्रौ
५, २०, ६, शाश्रौ ८, ६, १३,
वैश्रौ ९, ९ १

कव्य-वाल^v- -वालम् अप ४३,
५, ३०

कव्यवाल-अनल- -लम् कप्र
२, २, ३-८

कव्य-वाहन^w- पा ३, २, ६५, -क^xन^y
आपश्रौ १९, ३, ११, बौश्रौ,
-न आश्रौ २, १९, २५××, शाश्रौ;
आपश्रौ ११, १५, १^z, वैश्रौ
१४, १३ १०^{aa}, हिश्रौ १०,
३, ४२^{ab}, जैश्रौ १३ २३^{ac}, -नम्
आश्रौ २, १९, ८, आपश्रौ,
-नस्य शाश्रौ ३, १६, १०, -ना-
अप्राय २, ९, -नाय आश्रौ २,
६, १२^{ad}, शाश्रौ

कव्यवाहनी^e- नीभि

आपश्रौ १९, ३, ११, वैश्रौ ११,
५ १२^{af}, हिश्रौ १३, ८, ३५^{ag}

कव्यवाहन-प्रवाद- -द माश्रौ
५, १, ४, १४

कव्यवाहन-संस्तुति- -तिः वृदे
६, १६१

कव्य-स्थाली- -लीम् वैग ५, १३ :
१६

- a) = साम-विशेष- । तेनदृष्टीय अण् प्र । b) ककाव्य-, रकाव्य-, इकाव्य- (तु वैप १) अत्र समाविष्टाः । c) काव्य- इति [पक्षे] भाण्डा । d) पामे शोधश्च वैप १, ११०२ b द्र । e) वैप १ द्र । f) अर्थः व्यु. च । कलिव- इति पाका. । g) = देश-विशेष- ? । h) विप. । उस उप. = वाह > ल, इ- । i) पामे वैप १, ११०३ n द्र । j) पामे वैप १, ११०३० द्र । k) = [कव्यवाहन-शब्दवती-] ऋच्- । l) का इति पाठ ? यनि शोध. । m) 'हि' इति पाठ. ? यनि शोध ।

कव्या(व्य-अ)पहारिन्- री शध
३७८
✓कश् पावा अदा आत्म गति-
शासनयो
कशस्^१- श निघ १, १२^१
क(श >)शा^२- पाग ५, १, ६६,
-शा आपश्रौ १२, १८, १०^१,
काठश्रौ १२८, बौश्रौ ७, ८
२०^१, माश्रौ २, ३, ६, १४^१,
वैश्रौ १५, २१ ८^१, हिश्रौ ८,
५, १०^१, अप४८, १०२^१, निघ
१, ११^१, या९, १९^१, -शाम्
वाश्रौ ३, १, २, २१^०, ४, ३, ३८^०,
बृदे ५, १३२, शुअ ३, १२६,
-शाया अअ ९, १^१
१कश्य- पा ५, १, ६६
१कशा^३- शो बौश्रौ २, ५ ८^१
२कशा^३- (> २कश्य- पा) पाग ४,
३, ५४
कशर्क^४- काय आमिष्ट १, १, ३.
४२^६
कशा, स^५कृत्स्न- (> काशा, स]-
कृत्स्न- पा) पा, पाग २, ४,
६९
क-शब्द- १क द्र
कशम्बूक^६- क सु २३, ५
कशाब्ब- पाउभो २, ३, २२२.
कशाथ^७- (> काशायन- पा) पाग
४, ३, १०६^६
कशिक^८- (> कशिक-पाद्- पा)
पाग ५, ४, १३८.
कशिपा^९- पा शुअ ४, १९
कशिपु^{१०}- पाउभो २, १, ८४, -पु

बौश्रौ १२, १६ : ६, १५, १५ :
१७, २. २३, २६, ३८ : ८,
वाश्रौ ३, ७६ : २२, हिश्रौ
२, ७, २२, १४, २, ९, कौसू २४,
२८, अप २३, ५, ४, -पुनि
वाश्रौ ३, ४, १, ३६, -पुनो
काश्रौ १५, ६, ४, -पुम् वाश्रौ
१, २, ३, ११, -पुषु काश्रौ २०,
२, २१, -पौ बौश्रौ १२, १५ :
२५, बृदे ५, २०
कशिपू(पु-उ)पवर्हण- -णम् आपश्रौ
१, ८, २, ८, १४, १६, भाश्रौ
१, ७, ९, ८, १७, ७, वैश्रौ
९, ६ : ९, हिश्रौ ५, ४, ३९,
वैताश्रौ ३६, २३, अअ ९, ६^१,
-णे बौश्रौ ५, ११ ४, ५, १२
२०, १५ २०
कशिपू(पु-उ)पवर्हण-वासस्- -स
वैष्ट ४, ६ ७
कशिप्वा(पु-आ)दि- -दि वैताश्रौ
११, १४
कशी^{११}- पागम ५८
कशी(क >)का^{१२}- -का अप १,
३४, ४
कशु^{१३}- -शो ऋअ २, ८, ५, बृदे ६,
४५
कशेरु, रू- पाउ १, ८८.
कश्मर- कश्मीर- टि द्र
कश्मल- पाउ १, १०९
कश्मीर^{१४}- पाउ ४, ३२, पाग ४, १,
१७६, २, ८०^१, १३३, १३४, ३,
९३.
कश्मीर- पा ४, २, १३३, ३, ९३,

-रम् अप ५६, १, ९, -रान् अप
५०, २, २
काश्मीरी- पा ४, १, १७६
काश्मीरक- पा ४, २, १३४
काश्मीर्य- पा ४, २, ८०^१
३कश्य- पाउ ४, ११२
कश्यप^{१५}- पाग ४, १, १०४, -०प
बौश्रौ १८, १६ १०^१, वैध
४, ७, ६, -प शाश्रौ १६,
१६, ८, बौश्रौप्र ५४ : ७, १३,
आपमं १, २, २^१, काय ३, ५^१,
हिष्ट २, १९, २, अप १, ३,
१, ४८, ११५^१, ५२, १०, २,
वौव १, ११, २०, विध १,
२१, ३०, ऋअ २, ८, २९××,
-†पम् वैष्ट १, ४ १६, विध
१, २०, २१, ३३, -†पस्य
बौश्रौ १७, ४० ४××, आपमं,
-†पा आश्रौ ३, ३, १, शाश्रौ
५, १७, ५, ६, १, ६, माश्रौ ५,
२, ९, ४, -पाः^१ बौश्रौप्र ४१
१, १९, ४४^१ ६, -पान्^१
बौश्रौप्र ४१ १, -पानाम्^१
आश्रौ १२, १४, ७, आपश्रौ २४,
९, १४, हिश्रौ २१, ३, १३,
-†पाय शाश्रौ १६, १६, ३, पाय
२, ९, २, भाष्ट ३, १० : २, हिष्ट
२, १९, ३, बृदे ५, १४५
१कश्यप- पा ४, १, १०४;
पाग ४, १, ९९, -०प आश्रौ
१२, १४, ७^१××, आपश्रौ;
-प आमिष्ट १, २, २ : १३;
काध, या १२, ४०; -पम् शंघ

a) = जल-। b) वैप १ द्र । c) का^० इति पाठ^१ यनि शोध । d) = शकुनि-विशेष-^१। व्यु ? ।
e) = देश-विशेष- (तु. पागम.) । f) = देवता-विशेष-। व्यु. ? । g) सप्र कश^० <> कष^० इति पाभे. ।
h) तु पागम । काशा इति पाका प्रथ. । i) = सर्प-विशेष-। व्यु ? । j) व्यप. । व्यु ? । k) तु पाका ।
२कवाय- इति भाण्डा । l) अर्थः व्यु च ? । m) पुं, न. = कट-। व्यु ? । n) खनित्र- [पंजा. वस्सी] ।
o) = जनपद-विशेष-। व्यु. ? । p) अर्थ ? । कश्मर- इति पाका. ? । q) = देश-विशेष- ? । r) बहु. <काश्यप- #

११६: ३५, बौध २, ५, २६^f,
-पस्य काध २७२. ८, चात्र,
पा १, २, २५^g, -पा वैश्रौ १२,
१. १९, वैध, -पानाम् वैध
४, ७, १, -पाय आमिष्ट १, २,
२ १६, कौष्ट ३, ९, ३, -पे
सात्र १, ३६१, ५७०, पा ४,
१, १२४, -पौ ऋत्र २, ९, ९९,
१०४^h, सात्र
काश्यपी^o -पी अप १,
३, १, -पीनाम् चात्र १६ ३१,
४०: १
काश्यप कौशिक-ग्रहण-
-णम् पावा ४ २, ६६
काश्यप-शाकटायन- नौ
शुप्रा ४, ५
काश्यप-सगोत्र^d -त्रम्
चव्यु ४ २२
काश्यपायन- पा ४, १, ९९
काश्यपिन्- पा ४, ३, १०३
काश्यपीय^o -यम् काध २८२
६, -यान् काध २७० १
काश्यपेय^f -यम् अत्र ८, ९
कश्यप-प्रो (क्ल>) क्ता- क्ता
काध २८०. ५
कश्यप-वत् आपश्रौ २४, ९, १४,
१५, १०, २, बौश्रौप्र
कश्यप-व्रत^e -तम् निस् २, २ २९
कश्यपा(प-आ)र्ध- -र्धम् ऋ २, १,
९९, वृदे ३, १३०
✓कष्^h पाधा म्वा पर हिंसायाम्,

कषेत वैताश्रौ ११, २५
१कष- -षः पावा ३, ३, ११९.
कषि- पाठ ४, १४०
कष्ट, घा- पा ७, २, २२, पाग ५, १,
१२३ⁱ, -घान् या १४, २०,
-घायाम् विव २२, ५५
काष्ट्य- पा ५, १, १२३
✓कष्टाय पा, पावा ३, १, १४
२कष^j (> काष्य-, > काष्याय-
[ण>]णी- पा यक्) ४, १,
१०५, १८
१कषक- -काय हिष्ट १, ६, ५^k
२कषक^l -पाग २, ४, ६३ⁱ
१कषाय^m - पाठभो २, ३, ८, पाग
२, ४, ३१
काषायⁿ -यम् आष्ट १, १९,
११, कौष्ट २, १, ८, आमिष्ट १,
१, ४. ४७, हिष्ट १, ८, १२,
आपध, -याणि कौस् ५७, १४,
-येण अप ३३, १, ८
काषाय-तोय^o -यै वैष्ट ७,
३ ४, १३
काषाय-धारण- -णम् वैध
३, ६, ५
१काषाय-वासस्- -स अप
६८, ५, ७, -ससी आमिष्ट २,
७, ११ २
२काषाय-वासस्^d -सस
माष्ट २, १४, १०, अप ५३,
२, ३, -साः बौध २, ६, २३,
८, १६

काषाया(य-अ)जिन-
-नयो. वैष्ट २, ८ ११.
काषाया (य-अ) षपवित्रा(त्र-
आ)दि- -दीन् वैध ३, ६, ९.
काषाया(य-आ)विक-
-कयो अप १, ३२, ५
कषाय-कटुक-प्रिय^p -या. अष
६८, १, ३८
कषाय-कटुका (क-आ) श्र(य>)-
या^q -याम् बौध ३, ३,
२१
कषाय-प^r -प आपध १, २७, १०,
हिष्ट १, ७, ३५.
२कषाय- (> काषायिन्-)
कषाय- टि द्र
कषीका- पाठ ४, १६
कष्कष^r -षास अप्रा ३, ४, १^f
✓कस्^s पाधा म्वा. पर गतौ, अदा.
आत्म गतिशासनयोः, कसति
निघ २, १४^f
कस- पा ३, १, १४०
कस्वर- पा ३, २, १७५.
कास- पा ३, १, १४०.
कसनील^t -लः अप्रा ३, ४, १^f.
क-स-वर्ण- १क- द्र
१^fकसाम्बु^f -म्बु कौस् ८६, १, अप्रा
३, ४, १.
२कसाम्बु^v -> कासाम्बव^w -वेन
आपश्रौ २०, १५, १२, १३;
वाश्रौ ३, ४, ३, ४४, हिश्रौ १४,
३, २३^x

a) = आचार्य-विशेष-। b) काश्यप्यौ इति [पक्षे] षड्गुरुशिष्य-। c) विप., नाप। d) विप.।
बस। e) विप। प्रोक्तार्थे छण्>ईयः प्र उंस (पा ४, ३, १०२)। f) विप। दृष्टार्थे ढक्>एष प्र।
g) = साम-विशेष-। व्यु[?]। h) या २, २ परामृष्टः द्र। i) तु पासि। पाभे पृ ४८२। द्र। j) व्यष। व्यु[?]।
k) पाभे. पृ ८५६। h द्र। l) तु पागम। m) = रस-, वर्ण-, राग-। व्यु[?]। <✓कष् इति अभा प्रमृ।
n) विप। अण् प्र. (पा ४, २, १)। o) पूष स्वार्थे प्र। p) विप। द्रस > बस.। q) उप. <✓पा [पाने]।
r) वैष १ द्र। s) या ४, १० पा ७, ४, ८४ परामृष्टः द्र.। t) = सर्प-विशेष-। व्यु[?]। u) पाभे वैष १,
११०५० द्र। v) = वृक्ष-विशेष-। व्यु[?]। w) विप। तस्येदमीयः अण् प्र.। x) कौसुम्भेन इति संस्कर्ताः।

कस्त(म्भ>)म्भी^a- म्भ्याम् आपश्चौ
 ३, ८, ४, भाश्चौ ७, २२, ७, ८,
 १०, २, हिश्चौ २, ५, ३
 कस्तम्भ-देश- -शे माश्चौ १, ३, ४,
 २८, वाश्चौ १, ३, ६, २२
 कस्तूर- पाउवृ ४, ९०
 कस्तोडाः निसू ८, २ : ४२
 कस्थली^b- -ली बौध २, १, १९
 कस्थे^c कौसू ८४, १०^d
 कहय^d- (> काहय- पा) पाग ४, १,
 ११२
 कहल- पाउमो २, ३, ९९
 कहूय[, ष]^d- (> काहूय[, ष]- पा)
 पाग ४, १, ११२^e
 कहोडा[, ङ, ल]^d- पाउमो २, २,
 ११९, पाग ४, १, ११२, -ळ
 कौग २, ५, ६, -ळम् आगृ ३, ४,
 ४, कौग २, ५, ३, शागृ ४, १०, ३,
 ६, १, १, अप ४३, ४, २८, -ळाय
 कौग २, ५, ६
 ककह^e- -०ह्य माश्चौ ६, १, ८, १३,
 वाश्चौ २, १, ८, १२
 ककमिश्र^f- -श्रम् लाश्चौ ८, ६, १२
 ककांस- १कस- द्र
 २कस- द्र.
 कांसपात्रि- १कथ- द्र
 कांसायन-, कालि- ३कस- द्र
 कांस्य- प्रमृ १कस- द्र
 कांस्यस्थल- -लम् माश्चौ ४, ६, ३.
 ककाक^g- पाउ ३, ४३, -क जैश्चौका
 १७९, अप ३७, २, १, विध
 ४४, १८; या ३, १८^h, -कम्

शंव ४२६, -काः अप ९, ४, १,
 ५३, २, १, ७०ⁱ, ६, ४, -कात्
 आग्निगृ ३, ११, १०^j, -कै
 वाव १४, २५
 काकी- पावाग ६, ३, ४१
 काक-कङ्क-गृध्र-श्येन- -ना. गौध
 १७, २७
 काक-कङ्क-वका(क-आ)दि- -दिभिः
 विध ४३, ३४, -दीनाम् विध
 ४३, ३७
 काक कपोत-कङ्क-गृध्र-यक्ष-राक्षस-
 पिशाच-श्वापद- -देषु अप ७२,
 २, २
 काक-गुह- पावा, पावाग ३, २, ५
 काक-ताल^k- (> लीय-) पागम
 १९५
 काक-तुण्ड-नि(भ>)भा- -भाभि.
 अप ५२, ४, ४
 काक-बन्ध्या^k- -न्ध्याया कप्र ३,
 ९, ४
 काक-बलाक-हंस-सारस-कारण्डव-
 चक्रवाक-गृध्र-श्येन-खञ्जरीट-
 टिट्ठिभो(भ उ)ल्लक-शुक-सारिका-
 मयूर-का [ब^l] क-कोकिल-कल-
 विङ्क-कपोत-कृपञ्जला(ल-आ)
 दि- -दीनाम् काध २७२ ४
 काक-मार्जार-नकुल-सर्प-मूषक-
 पक्षिन्- -क्षिभि शंध १८३
 काक-मयूर^m- पाग २, २, ३१
 काक-मूषिक-मार्जार- -रान् अप
 ७०ⁿ, ७, ३.
 काक-शब्द-क्रान्त- -न्ते शागृ ५,

५, ४
 काक (< की पावाग)-शाव- पावा
 ६, ३, ४१
 कारु श्वा(श्च-अ)ग्लीड- -ढे आग्निगृ
 २, ७, ७ : ४
 काक संपात- -तात् कौम् ३१, २८,
 ३४, २२
 काक-स्वर^o- -रम् याशि १, २९;
 नाशि १, ३, ११
 काको(क-अ)ण्ड^o-वर्ण- -र्णेषु अप
 ६५, १, २
 काको (क उ) च्छिष्ट- -ष्टम् शध
 ४३१
 काकोच्छिष्टो(ष्ट-उ)पहत- -तम्
 बौध ३, ६, ७^p.
 काको(क-उ)ल्लक- -क्का अप ७०^q,
 ६, १०
 काको(क-उ)ल्लक-कपोत- -तानाम्
 अप ७०, ५, ४.
 काको(क-उ)ल्लक-कृकलास-श्येन-
 निपतित- -न्ते अप ७२, २, ६
 रकाक^d, (काक्य-, काककायनि- पा.
 यक) पाग ४, १, १५१, १५८
 काकण- (> काकणी- पा) पाग
 ४, १, ४१
 काकदन्तकि^r- (> क्वीय- पा.)
 पाग ५, ३, ११६^r
 काकदन्ति- (> न्तीय-)काक-
 दन्तकि- टि द्र
 काकन्दि^s- (> न्दीय- पा) पाग
 ५, ३, ११६
 काकपिञ्जक^s- क बौश्चौ ९, १८, १४.

a) = मेधी- (तु. सा [मास १, १, २, ९, १]। b) स्वरूपम्²। एकस्तनी- इति मूको.। c) वैपश् द्र।
 d) व्यप। व्यु²। e) ष- इति पाका.। f) ङ- इति पाउमो पाग., ङ- इति अप। g) पाभे. व्यु. च
 वैपश् द्र। h) विष। पूष. अर्थ व्यु. च?। i) = वायस-। वैपश् द्र.। j) तु. पाका प्रमृ. (पा ५, ३,
 १०६)। k) = [एकसंतति-] स्त्री-। व्यु?। l) पाठ? यनि. शोधः?। m) तु. पागम.। n) = गीतिदोष-
 विशेष-। बस.। o) षस पूष पुंवद्भाव- (पावा ६, ३, ४१)। p) पाभे पृ ६२९ a द्र.। q) = आयुधजीविसंघ-
 विशेष-। व्यु. ?। r) दन्ति- इति पाका। s) = पक्षि-विशेष-?। व्यु?।

काकरन्ति^a - (> ंतीय- पा) पाग
५,३,११६
काकलि^b - लि. नाशि १,४,९,११
काकलेय- ककल- द्र
काकादन^c - पाग ४,१,४१
काकाद[त^dनी- पा ४,१,४१, न्या
कौष्ट १,१५,१, शाय १,२३,१
काकि- पाउभो २,१,१७३
काकिणी^e - ण्या अपश्रौ १९,२१,२,
हिश्रौ २२,४,२
काकिणीक- पावा ५,१,३३
काकिनी^f - नीम् माशि ९,१३
काकु- पाउवृ १,१
काकुत्स्थ- ककुद्- द्र
काकुद्^g - कुत् निघ १,११,
-कुदम् निघ ४,२, या ५,२७
काकुद्^h - पाउभो २,२, १७१, -दम्
या ५,२६, -दस्य पा ५, ४,
१४८.
काकुदात्तिक- ककुद्- द्र
काकुद्ⁱ - द्र आश्रौ १२,९,४
काकुभ- प्रमृ १म्कुम्- द्र
रकाकुभ- रककुम्- द्र
काकोल^j - लम् विघ ४३,१३
काक्य- रफक- द्र
काकक्ष^k - पा, पाग ४,२, १६४
रका(का-अ)क्ष- किम्- द्र
काक्षतव- कक्षत- द्र
काक्षसेनि- कक्ष- द्र
१-२काक्षीवत- प्रमृ कक्षीवत्- द्र
काङ्कायन- रकङ्क- द्र
√काङ्क् पाघा भ्वा पर कांक्षा-

याम्, काङ्क्षते आश्रौ ५,७,४,
काङ्क्षति शाश्रौ १, १, २५,
माश्रौ २,३,२,१२, वृदे ४,२०,
काङ्क्षन्ते गोष्ट ३, ३, ९, १३,
जैष्ट १, १४:१३, काङ्क्षत
गोष्ट २, ७, १६, काङ्क्षेत
आश्रौ २, ३, २७, बौध ४, १,
१५, काङ्क्षेत आश्रौ ५, १,
७×४, शाश्रौ, काङ्क्षेयुः बौश्रौ
१४,२७०८, २६,९०१९
काङ्क्षण- णाय बौश्रौ २४, १६.
१३
काच^l - चा: वावृश्रौ ३,७६ ३२,
हिश्रौ १४,३,२२, -चान् बौश्रौ
१५, १५.१६, २५: ५, ६,
८, हिश्रौ १४, ३, २२, -चौ
माश्रौ ६,१,७,१५
काच-नीलाञ्जना (न-अ) रिष्टा
(द्व-अ)शनि-सर्प-निभ- भेषु
अप ६१,१,५
काचाक्षि^m - क्षयः बौश्रौप्र १० १
काचान्तिⁿ - न्तय बौश्रौप्र ४७ ५
काचचित् कर^o - रम् या १२,९४
काचुलुक्य- कचुलुक- द्र
काच्छ- काच्छक- रकच्छ- द्र
काजव^p - चानि बौश्रौ २,११०२३१
√काञ्च् पावा भ्वा आत्म दीप्ति-
बन्धनयो
काञ्चन^q - पाउभो २, २, १९२
पा, पाग ४, ३, ५०^m -नम्
आमिष्ट २, ५, १ ४५, जैष्ट २,
९ ३३, अय ३०, ४, १, ३१,

६,४,४६,८,२, ४८,९११, ६८,
२,२७, वाघ ३,६१, १५, २०,
२८,१६, वृदे ५,३४, -ना अप
६५, १, ८, -ने विघ १, ६४;
-नेव अप ५८^r, २,४
काञ्चन-तुल्य-गौर- -र अप २४,
६,४
काञ्चन-मन शिलो(ला-उ)प(मा>)
म- -मेषु अप ६५,१,६
काञ्चन-रत्न-वर-प्रतिरूप- -प अप
२०,६,७
काञ्चन-मप्र(भा>)भ- -भ अप
२९,२,४
काञ्चना(न-आभा>)भ- -भ: अप
२९,१,६
काञ्चनार^s - पाउभो २,३,४५
काञ्चित^t - तम् या ५,२५
काञ्ची^u - > ंञ्ची-नूपुरा (र-आ)
दि- -दि काश्रौम ४.१४
रकाञ्ची^v - (> ंञ्ची-प्रस्थ- पा)
पाग ६,२,८८
काञ्चुकिन्- कञ्चुक- द्र.
काञ्कट^w - ट. आपमं १, १०, ७;
अप ४८, ७७, निघ ३, २३;
-टाय आपश्रौ १७,२,६.
रकाट^x - (> काट^y- पा) पाग ४, २,
८०^m
काटिप्य- कटिप- द्र
काटुक- १कटु- द्र
काटुकि- रकटुक- द्र
काटुमन्थि- १कटु- द्र
काठक- प्रमृ कठ- द्र

- a) आयुर्वजीवि-मघ-विशेष- व्यु ? । b) =स्वर-विशेष-। व्यु ? । c) =ओषधि-विशेष- ? । व्यु ? ।
d) इति शाय । e) =गुञ्जा-। व्यु ? । f) =स्वरभक्ति-विशेष-। व्यु ? । g) वैप १ द्र ।
h) =तालु-। व्यु ? । i) =काकुद्-। व्यु ? । j) =नरक-विशेष-। व्यु ? । k) =वृक्ष-विशेष-, तत्फल-। व्यु ? ।
l) =ऋषि-विशेष-। व्यु ? । m) द्विप, नाप । वैप ३ द्र । n) तु पागम । o) =वृक्ष-विशेष-। व्यु ? ।
p) व्यु ? <क-(<किम्-)+ षञ्चित- इति दु. । q) =आभरण-विशेष-। व्यु ? । r) =नगरी-विशेष-।
व्यु ? । s) अर्थे व्यु च ? । t) =देश-विशेष- ? । u) तु पाका. । कोट- इति भाण्डा. ।

काठेरण-कठेरणि-द्र
काठेरणि^a- (> णीय- पा) पाग
४, २, १३८.

काठेरकृत्^b-कृत् बौश्रौप्र ३.१०

काठेरि^c-रिः बौश्रौप्र १० ४

१काण, पाणि- पाग २, २, ३८, -ण.
बौश्रौ १५, ८: १४^d, हिश्रौ
१७, ७, २९, शध ३७७: ४,
विध ४५, २९, या ६, ३०^e,
तैप्रा १३, ९^f, -णम् अप ३,
२, ४, -णा सु ५, ४, -णा
आपश्रौ २२, ४, २४, -णे अप
३, २, ५, ९, ४, ५, या ६, ३०^f,
-०णे सु ६, २

काण-खञ्जा(ञ-आ)दि- -दीनाम्
विध ५, २७.

काण-खोर कृत् बा, व|(ण्ड>)ण्डा-
-ण्डानाम् लाश्रौ ८, ५, १६

काणखोरकृत् वण्डा-हुतमि(श्र>)
श्रा- -श्रा काश्रौ २२, ३, १९

काण-खोर-कृत्-वण्ट- -ण्टा गौध
२८, ६

काण-द्रोण- पाग २, २, ३८^e

काणैय- (> काणैय-विध- पा)
पाग ४, २, ५४

२काण^b- पाग ४, १, ११०

काणायन- पा ४, १, ११०, -ना
बौश्रौप्र १९: ३

१काणुक^c- -का अप ४८, ११५, निघ
४, २, या १, १५, ५, ११५^f.

काणुक- पाउ ४, ३९

काण्टकमर्दनिक- कण्टक-द्र

काण्टकार- कण्टकार-द्र.

काण्ट(क>)की- कण्टक-द्र.

काण्ठेचिद्धि-, ंद्धी-, ंद्ध्या- करठ-द्र

१काण्ड^e- पाउ १, ११५, पाग ४, २,

८०^g, ३, १३६, -ण्डम् आमिण्ट

३, ८, ३: ७, बौग ३, १, २५, बौपि

१, १५ ७८^h, वैग २, १०.

१४, कौसू ३०, २, आपध १,

११, ६, हिध १, ३, ६३, अत्र ४,

१, १३-१५, १, १८, १, -ण्डस्य

बौग ३, १, १९, २०, -१ण्डात्

ण्डात् काश्रौ १७, ४, १८,

आपश्रौ १६, २४, १, बौश्रौ,

-ण्डानाम् कौसू ८६, १४,

-ण्डानि आमिण्ट १, २, १ ८,

कौसू ६२, १०, -ण्डाभ्याम्

वाश्रौ ३, ३, १, ७, हिश्रौ १३, ३,

१९, -ण्डे कौसू २७, १५, ३४,

१०, कौशि २१, अं ४: ३६,

-ण्डे-ण्डे बौग ३, २, ३, -ण्डेन

आपश्रौ २२, ९, १५, लाश्रौ ८,

९, ९ⁱ, कौसू २९, २०, -ण्डेषु

अपं २ २

२काण्ड- पा ४, ३, १३६

काण्ड-ऋषि- -चये आमिण्ट १, २,

१ ३^j, ४, ५, बौग ३, १, ५^k,

२, ६, १९, ३, ८, -षि बौग

३, १, १८, -षिभ्य आमिण्ट १,

२, १: ४, बौग ३, १, ५, २,

३१, ४४, -षिम् बौग ३, २, ६,

१९, ३१, ४४, ३, ८, -षीन्

आमिण्ट १, २, १: २, २: ३९,

बौग ३, १, ५

काण्ड-धार^l-, काण्ड-वरक^m-, काण्ड-

वारणⁿ- पा, पाग ४, ३, ९३

काण्ड-नामन्- -मानि आमिण्ट १,

२, १: ५, २ ४०, भाग ३, ८.

३, हिग २, १८, ३; २०, ९

काण्ड-परिसमाप्ति- -से. अत्र २, १.

काण्ड-पु(ष्य>)ष्वा- पावा ४, १, ४

काण्ड प्रतीक-त्व- -त्वेन अत्र

१९, ९

काण्ड-प्रश्ना(श्न-अ)नुवाक-

-कानाम् कौशि ७५

काण्ड-मणि- -णिम् कौसू २६,

२७

काण्ड म(य>)यी- -यीम् दाश्रौ

११, २, ७, लाश्रौ ४, २, ६

काण्ड-र- पा ४, २, ८०

काण्ड(रड-ऋ)र्षि- -र्षयः हिग २,

१८, ३, -र्षये ऋभाग ३, ८ ४-

६, ऋवैग २, ७ १, ९ ८, १०

१, ३, ६, ८, हिग २, १८, ३^o,

-१र्षिभ्य भाग ३, ८ ७, हिग

२, १८, ३, -र्षीन् आमिण्ट २, ६,

३ ३७, हिग २, १८, ३, २०, ९,

भाग ३, ८: ३, बौध २, ५, २७

काण्डर्षि-द्वितीय- -यम् आमिण्ट

१, १, ४ ५०

काण्ड-विसर्ग- -र्गे आमिण्ट १, १,

४ ४८, बौग ३, १, २१, हिग

१, ८, १६

काण्ड-त्रीणा- -णा शाश्रौ १७, ३,

१२, काश्रौ १३, ३, २१, वाश्रौ

३, २, ५, २६, हिश्रौ १६, ६, २१,

-णाम् शाश्रौ १७, ३, १४, दाश्रौ

११, २, ६, लाश्रौ ४, २, ५.

१काण्ड-व्रत-विशेष- -षाः वाग ७,

११

काण्ड-समवाय- -यं अपं २. ७

काण्ड-समापन- -ने आपध १, ११,

२, हिध १, ३, ५९

काण्ड-सूक्त^b- -क्ता अप २: ५.

a) अर्थः व्यु च ? । कामेरणि-, कावेरणि- इति पाका । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । c) वैपश् द्र ।

d) सपा. आपश्रौ २०, ७, १८ अन्धः इति पासे. । e) तु. पागम । f) = देश-विशेष- । धार- इत्यस्य
'वरक', वारण^o इति पासे द्र. । g) तु. पाका. । h) मलो कस. (तु शौ १६, १७) । तात्स्थ्यात् = मन्त्र- ।

काण्डा(एड-आ)दि- -दि आसिगृ १, २, २:४७, -दिभि अत्र ४६, २, ४, -दीन् आसिगृ १, २, २ ४१, बौगृ ३, १, ९, ९, १०, भागृ ३, ८:१०, ११ ११, हिगृ २, १८, ५, २०, ९, -दीनि पा ६, २, १३५	कातर-नयन ^० - -न चव्यू ४ १८ २कातर, ल ^b - (> षा, लायण- पा) पाग ४, १, ९९	१६ कान्ति- प्रसृ ✓कम् द्र कान्थक्य- , क्यायनी- कन्थक- द्र. कान्थव्य- कन्थु- द्र कान्थिक- ✓कन्थ द्र कान्द ^१ - (> न्द-र ^१ - पा.) पाग ४, २, ८०
काण्डादि-दूर्वारोपणो (एण-उ)- दधिधावन-वर्जम् बौगृ ३, ९, १६	कातु ^१ - तु निघ ३, २३१ कात्कल ^b - -ला बौश्रौप्र १७ ११ कात्त्रेयक- कत्त्रि- द्र कात्थक्य- कत्थक- द्र कात्य-, कात्यायन- कत- द्र काथक्य-, क्यायनी- कथक- द्र काथंचित्क- किम्- द्र काथल ^b - (> काथलायन- पा) पाग ४, १, ९९ ^६	कान्दम ^b - -मस्य वाधूश्रौ ३, ९४ ५ कान्दर्प- कन्दर्प- द्र कादिशीक- किम्- द्र कान्दुक- कन्दुक- द्र कापटव-, वी- कपटु- द्र कापटु ^b - -टव बौश्रौप्र ४६ २. कापथ- किम्- द्र कापर्दि- कपर्द- द्र कापाटिक- कपाट- द्र १, २कापालिक- कपाल- द्र, कापिक- कपि- द्र १कापिञ्जल- १कपिञ्जल- द्र. २कापिञ्जल- २कपिञ्जल- द्र कापिञ्जलादि ^b - (> ंञ- पा) पाग ४, १, १५१ ^६
काण्डा(ण्ड-अ)नुवचन- -नेषु वागृ ५, २५	काथिक- ✓कथ द्र कादम्ब- पाउ ४, ८३ कादलेय- कदल- द्र कादि- १क- द्र कादूरक- कदूर- द्र काद्रवेय- २कद्रु- द्र कानन- पाउभो २, २, १९२. कानलक- कनल- द्र कानान्ध ^b - -न्धम् बौश्रौ १८, ४१:६, -न्धस्य बौश्रौ १८, ४१ १५१. कानान्ध-यज्ञ- -ज्ञ बौश्रौ २४, ११:२, -ज्ञे बौश्रौ २६, ३३ १०	कापिला- २कपिल- द्र कापिलिक- कपिलिका- द्र. कापिवन- कपिवन- द्र कापिशी ^१ - > कापिशायन- पा ४, २, ९९
काण्डा(ण्ड-अ)न्त- -न्तात् पा ४, १, २३	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिशुभ्र ^b - -आ बौश्रौप्र ४८. ९. कापिष्ठिक- कपिष्ठिक- द्र कापिष्ठ ^b - -ष्टा. बौश्रौप्र ४५ २ कापिष्ठलि-, ल्या- कपिष्ठल- द्र. कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्डो(ण्ड-उ)त्तम- -मै. अत्र ४६, २, ४	कान्दूरक- कदूर- द्र काद्रवेय- २कद्रु- द्र कानन- पाउभो २, २, १९२. कानलक- कनल- द्र कानान्ध ^b - -न्धम् बौश्रौ १८, ४१:६, -न्धस्य बौश्रौ १८, ४१ १५१. कानान्ध-यज्ञ- -ज्ञ बौश्रौ २४, ११:२, -ज्ञे बौश्रौ २६, ३३ १०	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्डो(ण्ड-उ)पाकरण- -णे आसिगृ १, १, ४ ४८, हिगृ १, ८, १६, आपध १, ११, १, हिघ १, ३, ५८	कान्दूरक- कदूर- द्र काद्रवेय- २कद्रु- द्र कानन- पाउभो २, २, १९२. कानलक- कनल- द्र कानान्ध ^b - -न्धम् बौश्रौ १८, ४१:६, -न्धस्य बौश्रौ १८, ४१ १५१. कानान्ध-यज्ञ- -ज्ञ बौश्रौ २४, ११:२, -ज्ञे बौश्रौ २६, ३३ १०	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्डोपाकरण-काण्डसमापन- -नाभ्याम् बौगृ ३, १, १७, २, ५८	कान्दूरक- कदूर- द्र काद्रवेय- २कद्रु- द्र कानन- पाउभो २, २, १९२. कानलक- कनल- द्र कानान्ध ^b - -न्धम् बौश्रौ १८, ४१:६, -न्धस्य बौश्रौ १८, ४१ १५१. कानान्ध-यज्ञ- -ज्ञ बौश्रौ २४, ११:२, -ज्ञे बौश्रौ २६, ३३ १०	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्डमायन ^a - -नस्य तैप्रा ९, १	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्डरथि ^b - -थय: बौश्रौप्र ४ २.	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्डव- २कण्डू- द्र	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्डविक- ✓कण्डू द्र.	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्डिन्य- करिडनी- द्र	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्डूशय ^b - -या. बौश्रौप्र ४८:१	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
काण्व-, ँवायन- ँण्वि-, ँणी-, ०ण्व्य- कण्व- द्र	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
कातक- कतक- द्र	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र
१कातर ^c - पाउभो २, ३, ६६ ^d	कानिष्ठिक- *कन- द्र कानिष्ठिनेय- २ कनिष्ठ- द्र. कानीत- कनीत- द्र कानीन- २कनीन- द्र कान्त- ✓कम् द्र कान्तार ^b - पाउभो २, ३, ४५ कान्तार-पथ-> ंथिक- पावा ५, १, ७७	कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापिष्ठिक- कपिष्ठिका- द्र कापुटि ^b - -टि बौश्रौप्र ४४. २ कापुरुष-, रूष्य- किम्- द्र

a) = आचार्य-विशेष- । व्यु^१ < ?काण्डम- इति PW. । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु^१ ? । c) विप ।
व्यु^१ का- (< किम्-) + √तृ इति अभा । d) < √का इति^१ । e) विप (सामवेद-) । बस । f) = कूप-नामन्- ।
व्यु. ^१ (तु. दे) । g) तु पागम. । h) नाप. । व्यु^१ ? । i) अर्थ- व्यु च^१ । j) = देश-विशेष-^१ ।
k) < कपिञ्जलाद्- इति PW । l) = नगरी-विशेष- ।

कापेय-, °थी- कपि- द्र
 कापोतक-, °ता-, °ती- कपोत- द्र
 काप्य- प्रभृ कपि- द्र
 ¹काप्यतिशययो- चाञ्च ४२:८
 काप्यायनी- कपि- द्र
 कावच^०- -वम् दंवि १, ९१
 ¹कावेर-क^०- -क दवि २, ६१
 कावोध- ऋवोव- द्र
 १काम- ✓कम् द्र
 २काम^०- (> कामायन- पा) पाग ४,
 १, ९९
 कामायनी- -नी ऋञ्च २, १०,
 १५१, -न्यै^० बौश्री १७, ४२
 ३, आपम २, ८, १०, भाग २,
 २२. ५, हिगृ १, ११, ४
 कामकायन-, °निन्- कमक- द्र
 कामण्डलव-, °लेय- कमण्डलु-
 द्र
 कामन- ✓कम् द्र
 कामन्तक^०- -का बौश्रीप्र ३१ ३
 कामयत्- प्रभृ ✓कम् द्र
 कामलकीकर- कमलकीकर- द्र
 कामलकीट, र- कमलकीट, र- द्र
 कामलभिद- कमलभिदा- द्र
 कामलायन-, कामलि-, कामलिन्-
 २रुमल- द्र
 कामशि^०- -शय बौश्रीप्र ४३ ३
 ¹कामाहुर्धुनिना: अप ६५, २, ४
 कामि-, कामिन्-, कामुक-, कामुका-
 यन-, कामुकी- ✓कम् द्र
 कामेरणि- काठेरणि- टि द्र

काम्पनिक-, °नीक- ✓कम् द्र
 काम्पिल्य- कम्पिल- द्र
 १काम्पील^१- > १काम्पीली^१- -ल्या
 शंव ७
 १काम्पील-वासि(न >)नी^०-
 -०नि^१ आपश्री २०, १८, ३, बौश्री
 १५, २९ ३४, हिगृ १४, ४, ९
 २काम्पील^२- -लम् कौसू ४८, ४१,
 -लै. कौसू १६, २८
 २काम्पी(ल>)ली^१- -लीभ्याम
 कौसू ४३, २०, ८२, ८५
 काम्पील पनाग- -शेन कौसू ७६,
 ३१
 काम्पील-पुट- -टान् कौसू २८, ८
 काम्पील-शकल- -लै. कौसू २७,
 ७
 काम्पील-शाखा- -खया कौसू ८३,
 १७, ८७, ४२
 ¹काम्पीवकंसम्^१ अप ४८, ११६
 काम्वरोदरि^०- -रय. बौश्रीप्र ४१
 १०
 काम्बलिकायन- कम्बलिक- द्र
 काम्बल्य^०- -ल्या बौश्रीप्र १७ १८
 काम्बोज-, °जरु- प्रभृ कम्बोज- द्र
 १, २काम्य- ✓कम् द्र
 १काय- २रु- द्र
 २काय^१- पा ३, ३, ४१, -य कप्र ३,
 ३, ७, या ९, २०, -यम् कौगृ
 ३, २, १, वैगृ ५, ८: ८, आपध
 १, २२, ६, बौध २, १, १७, या
 १२, ३०, -या आपध १, २३, २९,

२, हिध १, ६, १०^१, -यान्
 माश्री ६, १, २, ११, -ये कागृउ
 ४६ ९, अप ५०, ३, १, या ४,
 १६, ५, २५, ६, १७, -यै आमिगृ
 ३, १०, ४ १
 काय-क्लेश- -शात् वैध १, ११, १३
 काय-प्रासन- -नम् काश्री १६, १,
 १९
 काय-माना(त्र-आ)याम- -मम्
 वैगृ ५, ३: ७
 काय-शोधन- -नम् आमिगृ २, ७,
 ७ १
 काय-स्थ- -स्थम् अप २३, ५, ४
 काया(य-अ)भि- -भिम् पाशि २६
 काया(य-आ)यस^३- पाग २, १,
 ४०
 कायिक^०- -कै विध २२, ७७
 कायमान- ✓कै द्र
 कायाधव- कयाधु- द्र
 १कार^०- पावाग ८, २, १८
 २, ३कार- ✓कृ द्र
 ४कार- ✓कृ द्र
 कारक- ✓कृ द्र
 कारडि^०- -डिम् जैगृ १, १४ ९
 कारण- प्रभृ ✓कृ द्र
 कारणिक- १करण- द्र.
 कारणडव^०- पाउभो २, ३, १३५, पाग
 ६, ३, ११९, -व. शव ३७८
 कारणडव-व(त् >) ती- पा ६, ३,
 ११९
 कारपचव^१- -वम् शाश्री १३, २९,

a) पाठः? *कप्य(पि-ञ्च)तिशय-> -यस्य इति शोध. । b) वैप १ द्र. । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु ?
 d) °यान्यै इति, °यास्वै[हिगृ] इति च पाठौ ? यनि शोध. (तु आपमं [भू XXIV]) । e) वैप १, ११०७ f
 द्र । f) = नगरी-विशेष- । g) पासे वैप १, ११०७ h द्र । h) = वृक्ष-विशेष- । व्यु ? । २) विप ।
 विकारार्थे अण् प्र । j) प्राति अर्थ- व्यु च ? । k) = शरीर- । व्यु ? पाप्र < ✓चि [चयने] । l) °यात्
 इति पाठः ? यनि. शोध (तु आपध.) । m) = औदरिक- । n) तात्रभविक. ठक् > इक प्र ।
 o) = रक्षा-निवेश- इति पागम । p) = आचार्य-विशेष- । व्यु ? । q) = पक्षि-विशेष- । व्यु ? । हंस-, कारणडव-
 इति भाण्डा. । हसकार^० इति पाका । r) = देश-विशेष- । व्यु ? ।

२१, काश्रौ २४, ६, १०, आपश्रौ २३, १३, ६, हिश्रौ १८, ४, ४०, -वे आश्रौ १२, ६, २८	-रम् काश्रौ १९, २, ७, आपश्रौ १९, ६, १, बौश्रौ १७, ३१ ५, ३२ ३, ४, हिश्रौ २३, १, १०, -रात् काश्रौ १९, २, ७, निघ ३, २३१	कार्तिक-, °की-, कार्तिकिक-, कार्ति केय- कृत्तिका- द्र
कारबु ^१ - -बव बौश्रौप्र ३: १२	कार्क- कर्क- द्र	कार्त्थ- १कर्त्तु- द्र
कारयत्- प्रभृ √कृ द्र	कार्कटक-, कार्कटक्य- कर्कटक- द्र	कार्त्स्न्य- कृत्स्न- द्र
कारवीरेय- करवीर- द्र	कार्कट्य ^१ - (> कार्कट्यकायनि- पा) पाग ४, १, १५८	कार्दम-, °मिक- १वर्दम- द्र.
१कारस्-कर ^२ - पाग ६, १, १५७	कार्कण- कृकण- द्र	१, २कार्पास- प्रभृ कर्पास- द्र
२कारस्-कर ^३ - -रान् बौध १, १, ३०	कार्कण्डेय- कृकण्ड- द्र	कार्पूरिण-, कार्पूरेय- कर्पूर- द्र
कारा ^४ - पा ३, ३, १०४, पाग ६, १, ११९	कार्कन्तव- कर्कन्तु- द्र.	कार्म-, कार्मण-, कार्मानामिक- √कृ > कर्मन्- द्र
कारा-भू- पावा ६, ४, ८४	कार्कन्धव-, °न्धु, °न्धु, मत्- कर्कन्धु- द्र	कार्मार-, °रक-, °रकि- कार्मा- र्यायणि- √कृ > कार्मार- द्र
कारा-व्रत- -तम् आश्रिणु १, २, १ : २४ ^० , बौगु ३, १, २७	कार्कलासेय- २कृकलास- द्र	१कार्मुक ^१ - -का अग ५२, ७, ३
काराद्धोत्रिया- किम्- द्र	कार्कलि- कृकला- द्र	२कार्मुक √कृ द्र
कारालिक ^१ - -कानि वागु १३, ५	कार्कश- २कर्कश- द्र	३कार्मुक- कृमुक- द्र
कारि-, कारिका-, कारित-, कारिन्- √कृ द्र	कार्कष- (> °षकायनि-) कार्कट्य- टि द्र	कार्य- √कृ द्र
कारिरौति ^२ - -ति बौश्रौप्र १९: ५	कार्कसेय- कृकसा- द्र	कार्य- √कृश् द्र
कारिर-, °री-, °री-व्रत- करीर- द्र	कार्कार ^१ - > °रिन्- -रिणः पागु ३, १५, १९	कार्ष-, कार्षक- √कृष् द्र
१कारिरिणी आश्रिणु १, २, १ २२	कार्कीक- कर्क- द्र	१कार्षापण- प्रभृ कर्षापण- द्र
कारिष- १करिष- द्र	कार्डव- कृड- द्र	२कार्षापण ^२ - पा, पाग ५, ३, ११७
कारिषायण-, °रीषि- २करिष- द्र	कार्ण- ३कर्ण- द्र	कार्षि-, कार्षिक-, कार्षिक्य- √कृष् द्र
कार- √कृ द्र	कार्णकोष्ठ-, °र्ण-ग्राहिक-, कार्णश्रवस- १कर्ण- द्र	कार्षित ^३ - -ता बौश्रौप्र ४५: ५
कारुण ^४ - -णि बौश्रौप्र १० ४	कार्णव- कर्ण- द्र	कार्षीवण- कास्टर्ब- √कृष् द्र
कारुपथि ^५ - -थयः बौश्रौप्र १७ १७	कार्णायनि- ३कर्ण द्र	कार्षी- २कृष्ण- द्र
कारुशी- करुश- द्र	कार्त-, कार्त-कौजप- √कृ > ३कृत- द्र	कार्षीकर्ण- १कृष्ण- द्र
कारुष- पाउभो २, ३, १६७	कार्तयश-, कार्तवीर्य-, कार्तान्तिक √कृ > १कृत- द्र	कार्षीजिन- २कृष्ण- द्र
कारेणुपाल-, °लायन-, °लि- करेणु- द्र	कार्ति- √कृ द्र	कार्षीजिनि- २कृष्णाजिन- द्र.
कारेय ^६ - -या: बौश्रौप्र ४३ २		कार्षीयन- ३कृष्ण- द्र
कारोतर ^७ - -र बौश्रौ २६, २२, १९, अप ४८, ७७१, तैप्रा १, १५१,		कार्षीयस- १कृष्ण- द्र

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) = वृक्ष-विशेष-। व्यु. ?। c) = देश-विशेष-। व्यु. ?। d) = बन्ध-
नालय-। वैप ३ द्र। e) कारीराव्रतम् इति पाठ ? यनि शोधः (तु. बौगु)। f) = वादित्र-विशेष-। व्यु. ?।
g) वैप १ द्र। h) तु पाका.। कार्कष- इति भाण्डा। i) = काकशब्दालुकृति-। व्यु. ?। j) = प्रह-विशेष-।
व्यु. ?। k) = आयुधजीवि-संघ-विशेष-। व्यु. ?।

कार्पर्य^०- च्यस्य माश्रौ १,८,३,२६
 कार्पर्य-मय- -या काश्रौ ८, १,
 १०, आपश्रौ ७,७,७, १०,३०,
 ३, भाश्रौ १,५,६, माश्रौ १,८,
 १, १८, वाश्रौ ३, १०० ९,
 वैश्रौ १०, ६ ९, हिश्रौ ४, ५,
 ६५, -याणि आपश्रौ १५, ५,
 ११, भाश्रौ ११,५,१५, -यान्
 बौश्रौ ४, १.४, ४.४×४,
 भाश्रौ, -ये काश्रौ ९, २, १३,
 आपश्रौ ११, १३, १, वैश्रौ,
 -येन बौश्रौ १४, २१ २९,
 -चै. बौश्रौ ६, १८ २.
 कार्पर्यमयी- -यीभ्याम् काश्रौ
 ६,५,७, -यीम् काश्रौ १७, ४,
 १२, आपश्रौ १६,१,७, २२,५,
 ६, बौश्रौ १०, ३०.८-१०,
 माश्रौ, -च्यौ आपश्रौ ७, ८,३,
 काठश्रौ, वैश्रौ १०, ७ २^{१०},
 हिश्रौ ४,२,२७
 कार्पर्य^०- > ष्य-वण- पा ८,४,५
 ✓काल पावा चुरा. उभ कालोपदेशे
 १काल^d- पाग ४,३, ५४, पागवा ५,
 २,९७,१००, ४,३, -ल^० काश्रौ
 १, ७, ७, -ल^१ आपम २,
 २१, ३१, भाश्रु २, २९ १०,
 -ल. शाश्रौ २,५, ७, ६, ६,२०,
 काश्रौ १२, ६, ३६, २५,१, ३,
 आपश्रौ २, २१, २, ५, ३, १९,
 बौश्रौ ६, २२ : २१×४, वैश्रौ,
 या १,६, २, १८, २५^{१०}, १२,
 १३, १४, ४, पा ४, २, ३, पावा २,
 २,५, -लम् आश्रौ २,१,४,४,३;
 ८, १४, ७, १०^३; ११; १२,८,

३०, शाश्रौ १३, ६, १, आपश्रौ,
 हिश्रु १, १२, ४^{११११}, गोश्रु,
 -लयोः बौश्रौ २८, ८ ६,
 आपध २,१, २, दिव १,९, २,
 -लस्य काश्रौ १८, ६, ३०,
 आपश्रौ २४,४, २०, हिश्रौ ३,
 १, २८, निस्र २, १३ : २५,
 अप, पावा २, २, २५, -ला.
 बौश्रौ १९, १०. १९^१, वाश्रुश्रौ
 ३, १०२ ३, आपश्रु २१, १,
 वाध, पा २, १, २८, २, ५,
 -लात् बौश्रौ ६.२२ २४,×४,
 माश्रौ, पा ४,३,११,४३, ५,१,
 ७८, पावा ४, २, १०४, ५, १,
 ५८, -ल्लाया आपश्रौ ६, २०,
 २, बौश्रौ १०, १८ ११, वाश्रौ
 १,५,४, २०, हिश्रौ ६,६, २४,
 आमिश्रु, -ले आश्रौ ३, १४,
 १४×४, शाश्रौ, अप १, २१,
 ४^१, या ५,११, पा २, ३, ६४,
 ५, ३, १५, पावा २, ३, २८, ४,
 २, ३, -लेड-ले बौश्रौ २२, ८ :
 ४, २३, २. १४, जैश्रौका, या
 ८,१७, १२, २७, -लेन बौश्रौ
 २८,१२:२, जैश्रु २,८ १३, अप
 ६८, ५, ५, ६, शंघ, -लेभ्य
 बौश्रु २,८, ३३^१, पा ४, २, ३४,
 मीसू ६, २, २७, -लेषु आपश्रौ
 ६, ४, ११^१, भाश्रौ ६, ९, ९,
 माश्रौ ५, १, ६, ३२, आमिश्रु,
 पा ३, ४, ५७, -ले या ८, ३,
 -लौ हिश्रौ ६, १, २३, आमिश्रु
 १, १, ४. ३०, ३१; हिश्रु १,
 ८, २^३.

०काल^०- पा ६,३,१७
 काल-कर्मन्- -र्मणाम् पावा १, ४,
 ५२
 कालकर्मक- काणाम् पावा १,४,
 ५२
 काल-कर्मै(र्म-ए)कत्व- -त्वात् काश्रौ
 ५,७,३.
 काल-काम- -मौ शं व २१०
 १काल-कृति- -तौ निस्र ५,४ : ४
 काल-कर्मो(म-उ)दित^१- -ता कप्र
 ३,७,१४
 काल-गुण-भेद- -दात् काश्रौ ६,
 ७, २८
 काल-चक्र-वर्णन- -नम् ऋश्र २,
 १, १६४
 काल-ज्ञान- -नम् वेज्यो ५
 काल-तस्र () आपध २,१५, १२,
 दिध २,३,४६, पाशि १०,११
 काल-त्रया(य-आ)त्मक- -काः
 आमिश्रु २,४,१२ : ८
 काल-दूत- > ०दूतिन्- -तिनः
 जैश्रु २,९ : १६
 काल-द्रव्यै(व्य-ए)कार्थत्व- -त्वात्
 काश्रौ १,७,१२
 काल-द्वय- -न्यम् विध २८,४.
 काल-धारणा- -णा ऋप्रा ११,
 ३२
 काल-नष्ट-प(थ>)था^१- -थाम् अप
 ७०^२, २, १०^३
 काल-नामन्- -नाम्न पा ६, ३,
 १७.
 काल-नियम- -मः गौध १५, ५;
 -मम् कौश्रु २,७, १७, शाश्रु २,
 ११, १३.

a) वैप १ द्र. । b) ०र्म्यम^० इति पाठः १ यनि शोधः । c) = वृक्ष-विशेष- । व्यु १ । d) वैप १,
 ११०८ b द्र. । e) = काले । f) सपा. काल <> १कालम् इति पाभे । g) कामम् इति Böht LZDMG
 ५२, ८३ शोधः । h) अक्रा^० इति पाठः १ यनि शोधः । i) षस. > तुस. उप. < ✓वद् । j) विप. ।
 तुस. > बस. । k) ०थम् इति पाठः १ यनि शोधः ।

काल-निवृत्त्य (ति-अ)र्थ- र्थम्
पावा ४,३,५३
१काल-परिमाण- -णम् पावा २,
२,५
२काल परिमाण- -णानाम् पावा
७,३,१५
काल-पाश- -शौ शव ११६.
१९.
काल-पुत्र^b- -त्रा अप ५२,५,१
काल-पूरण- -णेन आश्रौ १२,३,८
काल-प्रकर्ष- -र्षात् पावा ३, ३,
१५
काल-प्रयोजन- -नात् पा ५,२,८१
काल प्राधान्य- -न्यात् काश्रौ १३,
४,१३, मीसू ६,५,४१
काल-प्रवृत्ति- -त्तिम् माश्रौ ३,
१,३४
काल-भावा (व-अ) ध्वगन्तव्य-
-व्या पावा १,४,५१
काल-भेद- -दात् काश्रौ ८,८, ३६,
१४,१,९, १५, १, २, १९, ६,
१, २०, ७, २५, काश्रौस ५
२, पावा १, १, ७०, ४, १०९,
मीसू ३, ६, २८, ८, १, २४०,
१०, ६, ३१, ७१, ११, ६८,
२, १२, २४, ४, ३७, ५५, १२,
१, १७
काल-मन्त्र-हीन- -ने अप ३८,
३,४
काल-मात्र- -त्रम् मीसू ४, ४, ६,
६, ५, ५०, १०, ६, ३, ११, ३,
४७, -त्रे पावा ३, १, १३३
काल-योग- -गान् पावा ४, २, ३
काल-ल- पावा ५, २, ९७
काल-लिङ्ग- -ङ्गानाम् मीसू ६, २,
२८

काल-वचन- -नम् मीसू ११, २,
२१
काल-वाक्य-भेद- -दात् मीसू
१२, २, १५
काल-वाद- -द् शाश्रौ १०, २१,
१९^२
काल-विधान- -नम् मीसू ६, २,
२८, -नात् मीसू ५, ४, ८^d
कालविधान-शास्त्र- -स्त्रम्
वेज्यो ३
काल-विधि- -धि मीसू ३, २, ६,
११, ६, २१, ६, ४, ४५
काल-विप्रकर्ष- -र्षं शौच २, ३९,
-र्षि. निस् ६, ९ १९
काल-विभाग- -गे पा ३, ३, १३७
कालविभाग-शस () बौध २,
३, ५६.
काल-विशेष- -षे पावा २, १, १७
काल-शब्द-व्यवाय- -यात् पाप्रवा
१, ११
काल-शास्त्र- -स्त्रम् मीसू २, ४, ७,
३, ६, २९, १०, ८, ४०
काल शेष- -षम् पागृ ३, १०, ४४
काल-श्रुति- -तौ मीसू ३, ४, २८
काल-संयोग- -गात् मीसू ११, ४,
२३
काल-संशय-त्व- -त्वात् आश्रौ १२,
४, २०.
काल-सकर्ष- -र्षात् निस् ६, ९.
१४, १९
काल-संनिकर्ष- -र्षे आपश्रौ ९, ३,
३, -र्षेण हिश्रौ १५, १, ५१
काल-समय-वेला- -लासु पा ३, ३,
१६७
काल-समापादन- > ंनीय- -यम्
आपश्रौ ९, ७, ३, ४, भाश्रौ

९, ९, ११; १५, हिश्रौ १५, २^१
२२
काल-समुच्चारण- -णात् पावा ३,
३, १३३
काल-संपत्ति- -त्ते काश्रौ २६, २,
३७.
काल-सामान्य- -न्यात् हिश्रौ ४,
५, ६२, मीसू ८, २, १६, ११,
२, ६०
काल सूक्त- -क्तम् अप १०, १, ७.
काल-सूत्र^e- -त्रम् विध ४३, ६;
-त्राणि शध ३७४.
काल स्नान- -नम् आश्रिगृ १, २,
३ १९
काला(ल-अ)ग्नि-रुद्र^f- -द्रम् शध
११६. २
काला(ल अ)तिक्रम- -मे काश्रौ ७,
१, २२, आश्रिगृ २, ७, ४ १,
पागृ २, ५, ४१, बौगृ ४, ६, २;
११, १, -मेषु बौश्रौ २८, ८ :
१७, १२. १०
काला(ल-अ)तिनय- -ये हिश्रौ १५,
१, ८३, २२, २, ९
काला(ल-अ)तिपत्ति- -त्ति आश्रिगृ
२, ७, ९. ३२, भागृ ३, २०.
२, -तौ माश्रौ ३, १, ३३, ५,
१, ७, २७
काला(ल अ)तिपन्न- -न्नस्य आपश्रौ
९, ७, ११
काला(ल-अ)तिपात- -ते अप्राय
५, ३
काला (ल अ) तिरि (क्त >) क्त-
-क्ता वाध १७ ६९
काला(ल-अ) ती (त >) ता- -ताः
अप ७०^२, १०, २, -तासु अप
३७, १२, १

a) विप । बस । b) =ग्रह-ि शः- । c) कर्मभे° इति जीसं । d) °लनिर्देशात् इति जीस. १ ।

e) =नरक-विशेष- । षम । f) कम.>कम ।

वैप४ द्वि १४

काला (ल-अ) त्यन्त-संयोग- -नो
पावा ३, १, २६
काला (ल-अ) त्यय- -येन आश्रौ ३,
१२, १९
काला (ल-आ) दि- -दिषु पावा ३,
१, ९४
काला (ल-अ) ध्वन्- -ध्वनो. पा २,
३, ५
काला (ल-आ) नन्तर्ध-धर्मानुग्रह-
-हेभ्य. काश्रौ ४, ३, १६
काला (ल-आ) नुपूर्वी- -व्या वेज्यो ३
काला (ल-अ) नुवाद- -दम् या १२,
१३
काला (ल-अ) न्तर- -रम् काठश्रौ
१०३, लाश्रौ ८, ८, ४४, -रे
काश्रौ १, ८, ६, आपध २, १, ५,
हिध २, १, ५, मीसू १२, ३, १५
कालान्तर-भोजिन्- -जिन-
वैध १, ८, १
काला (ल-अ) न्यत्व- -त्वम् पावा
३, ४, १
काला (ल-अ) पनय- -यः आपश्रौ
१९, १८, १५
काला (ल-अ) पराध- -धात् मीसू ६,
५, १
काला (ल-अ) भाव- -वात् काश्रौ
१२, ६, ३४
काला (ल-अ) भिनियम- -मात्
आपध २, १६, ७; हिध २, ५, ७.
काला (ल-अ) भ्यास- से मीसू ८,
३, ६
काला (ल-अ) र्ध-त्व- -त्वात् मीसू
६, ४, ४३

काला (ल-अ) विभाग- -गात् पावा
३, २, १२३
काला (ल-अ) व्यवाय- -येन ऋप्रा
२, २
काला (ल-अ) व्यवेत- -तेषु आपश्रौ
२४, १, ४०
कालिल- पा ५, २, १००
काले-ज- पा ६, ३, १५
कालै (ल-ए) क्त्व- -त्वात् मीसू ११,
४, ५४
कालो (ल-उ) क्थ- -र्ष मीसू ५,
१, २१
कालो (ल-उ) पसर्जन- -ने पा १, २,
५७
१ काल्य, ल्या- पा ४, ३, ५४, ५,
१, १०७, पागद, २, १३१, -ल्यम्
आमिष्ट ३, ७, ३ : ८, बौपि २,
१, ३, -ल्या पा ३, १, १०४,
-ल्याम् बौश्रौ २०, १ ४७,
४९, ५२, आमिष्ट ३, ७, ३ : ८,
बौपि २, १, ३
२ काल^a- पावा ८, २, १८^b, पागवा ५,
४, ३, -लेन आपश्रौ १९, ५, ७,
हिश्रौ २३, १, ६
काली- पा ४ १, ४२, -लीम्
कागृ १९, ७^c
कालिका- -का अप ६८, २,
४४.
काल-क, कालिका^d- पा ५, ४, ३^e, ३३;
-कः अप ६८, २, ३१
कालक-वन^f- -नात् वाध १, ८,
बौध १, १, २५^g
कालका-भ्रु^h- -भ्रुम् आपश्रौ

२०, २३, १, हिश्रौ १४, ५, ११-
कालकेयⁱ- -यान् वृदे ७, ५३
काल-क(री>)णीं- -णीं शंघ १०१^j
विध ६४, ४१, -णीम् विध ४८,
१९^k.
काल-कर्णो (री-उ)पेत- -तः या
६, ३०
काल-ने(त्र >)त्रा^l- -०त्रे कौसू
१०६, ७^m
काल-बुन्दⁿ- -न्वै कौसू ३२, ८
काल-रात्री^o- -त्रीम् बौध ३, ६, ६^p.
काल-वाल^q- -फि ७२.
काल-विहीन^r- -नम् वैष्ट ४, ११ १-
काल-शकुनि- -नि अप १, ३२, ३-
काल-शाक- -कम् विध ८०, १४
कालशाक- -च्छाग-लोह-खड्ग-
मांस^s- -सैः गौध १५, १५
काला (ल-अ) नुशातन^t- -नेन
आपश्रौ १९, ५, ७, हिश्रौ २३,
१, ६
काला (ल-अ) म्बुद-परिखाव- -त्राः
अप ६४, १०, ५, -वै अप ६३,
५, ४
काला (ल-आ) यस- -सस्य बौश्रौ
१५, १५ ७, -सान् बौश्रौ १५,
१५ : २, -सेन आपश्रौ १९,
५, ७, हिश्रौ २३, १, ६, -सैः
बौश्रौ १५, २८ : १३, ३० : २६;
३३ : २
कालायस-कृत- -कृत बौश्रौ
१५, १५ १
कालायस-त्सरु^u- -रुन् बौश्रौ
१५, १५ ३

a) = कृष्ण-वर्ण-, तद्वत्-। व्यु^१। b) तु पागम। c) देवी-विशेष-। d) विप., नाप.।
e) °का- = सुरा-। f) = पर्वत-विशेष-। बस.। g) कालकात्, घनात् इति क्वाचित्क पाभे। h) विप।
बस.। i) व्यप.। अपत्यार्थे ढक् > ष्यः प्र। j) सपा °कर्णीम् <> °रात्रीम् इति पाभे.। k) = कृत्या- (तु.
मोविन्दस्वामी)। समास^१। l) विप। त्स.। m) तु Buhler। द्वस. उप द्वस > षस। लोह- = रक्त-छाग-।
n) कस. उप. = उपघान- (तु. हिश्रौ)।

कालो(ल-उ)दक^० - के विध ८५,
३५
१कालकमेविवधु.^b वाश्रौ ३, ४, ५,
२३
काल-काञ्ज^० - आ अप्रा ३,४,११^d
कालकीट- कलकीट- द्र
कालकीतक^० - कस्य कौट १,१५,१^f
कालकूटि- कलकूट- द्र
कालकूतीतक^० - कस्य शाग १, २३,
१^f
कालनक- कलन- द्र
कालपवि^० - वय. बौश्रौप्र २७ ८
कालबव^० - > वविन्- विन निस्
६, ३ १७, ७ ८, ९, १३
२६
कालबवि-ब्राह्मण- -गम् आपश्रौ
२०,९,९
कालमृष^१ - षा. अप १,७,१०
कालशय^० - य बौश्रौप्र ४१ : १३
कालशिक- कलश- द्र
कालशेय- कलशि- द्र
१काला^१ - पाग ४,३, १६७, -लाम्
आमिग ३, ५, ५ : ६, बौपि १,
४. ६
२काला^१ - ला वृदे ५,१४४
कालाप- कलाप- द्र
१कालायन- कला- द्र
२कालायन^० - ना बौश्रौप्र ४९ १
कालाल^१ - लम् माश्रौ १,८,२, ३०,
२,१,४,३३

कालिङ्ग- कलिङ्ग- द्र
कालिन्द- , °न्दी- कलिन्द- द्र
कालिल- १काल- द्र
कालिव्य- कलिव- द्र
कालूतर- कलूतर- द्र
कालेता^m - ता चव्यू २ : १६
१,२कालेय- २कलि- द्र.
कालोप^m - पा चव्यू ३ ४५
कालिक^० - लक्य बौश्रौप्र ४८ ५
काल्य- √क्लृप् द्र
१काल्य- १काल- द्र.
२काल्य^० (> °ल्यायन- पा) पाग
४,१,९९
१काल्यताम्^० भाग ३,१४ २३^१
काल्याणक- , °गिनेय- कल्याण- द्र
काव- कवि- द्र
कावचिक- कवच- द्र
का-चिराज्- किम्- द्र
काविल्य- कविल- द्र.
कावी- कवि द्र
कावेरणि- काठेरणि- टि. द्र
काव्य- , काव्यायन- , °नी- कवि- द्र
√काश^० पाधा भ्वा , दिवा आत्म
दीतौ, काशति अप ४८, ५८
चाकशीमि पावा ७,३,८७
१काश- -शे पा ६,३,१२३
काशन- -नात् या १२,२५
१काशि^० - शि निघ ४, ३, या
६,१,७,६, -शीन् कौसू २१,
७, २४, २, ४७, ३४

१चाकशत्^० - शत् आपमं २, १६,
२, ५, भाग २, ७ १०, १६;
हिग २, ७, २
चाकश्यमान- -नेषु काश्रौ ४, १५,
१९
२काश^१ - पाग ४, २, ९०^१, ३, ५४^१,
-शा अप १, ६, ३; शध ११२,
वृदे ७, ७९, -शान् वैश्रौ ११,
१० ८, विध ७९, २, -शानाम्
आमिग ३, ८, ३ : ४^१, काग
४५, ६, बौपि १, १५. ७६^१,
-शैः शध ११२.
काश-कुश- पाग २, २, ३१^f
काश-ज- पा ६, २, ८२.
काश-दिविधुवक-वेतस- -सान्
कौसू ४०, २
काश-मय- -ये द्राश्रौ १४, २, ६;
लाश्रौ ५, ६, ९
काश-स्तम्ब- -स्वम् आमिग ३, ८,
१. ९, ३ ६, बौपि १, १४. ९,
१५ ७७,
काश-हस्त^० - स्त शंघ ५९.
काशीय- पा ४, २, ९०,
१काश्य- पा ४, ३, ५४
३काशा^० - पाग ४, १, ११०.
काश-कृत्स्न^० - पाग ४, २, ८०^m,
-स्न बौग १, ४, ४४, -स्नस्य
हिश्रौ २१, २, ३४, -स्नः
बौश्रौप्र ३ ६
काशकृत्स्नक- पा ४, २, ८०.

a) = तीर्थ-विशेष- । बस । b) पाठ १ कालकाशु - [द्र] > -शु इति शोध । c) वैप १ द्र । d) पाशे.
वैप १, ११०८ । द्र । e) = वृक्ष-विशेष- । व्यु १ । f) सपा °लकी° < > °लकी° इति पाशे । g) = ऋषि-विशेष- ।
व्यु १ । h) व्यप । व्यु १ । i) = देश-विशेष- । व्यु १ । j) = वनस्पति विशेष- । व्यु १ । k) = दक्ष-कन्या- ।
व्यु १ । l) विप । व्यु १ । m) = वेदशाखा-विशेष- । व्यु १ । n) = सामशास्त्रि-विशेष- । व्यु १ । कापोल- इति
कास । o) पाठ १ कल्ये-ता-> -ताम् इति शोध (तु सस्कृता) । p) ऋत ५, २, ११ परामृष्ट द्र । q) तु-
संस्कृता [भू XXV] इव चाकशत् इति पाठस्य स्थाने भवचाकशत् इति १BC. । r) = तुण- । व्यु १ < √काश
इति अभा । s) शकाशुद्र- इति [पक्षे] पाशा । t) तु पागम । u) अर्थ १ । v) विप । बस. । w)
ऋषि-विशेष-, आचार्य-विशेष- ।

काशकृत्स्नि^a- -त्स्नि काश्रौ ४,
३,१७,
काशायन- पा ४,१,११०.
४काश^b-(>काशिल^c- पा) पाग ४,
२,८०
काशपरी^d-(>काशपरेय- पा) पाग
४,२,९७
काशफरी^e- (> काशफरेय- पा)
पाग ४,२,९७^e
काशायिन्- कशाय- द्र
१काशि- ✓काश् द्र
२काशि^f-(>काश्या- पा) पाग ४,
१,८०
३काशि, शी^g- पाठभो २,१,१६६^h,
पाग ४,२,११६, फि ५७ⁱ
काशिका,की- पा ४,२,११६
काशि-पारियात्र-कुरु पाञ्चाल- -ला
अप ५६,१,२
काशि-राज- -ज: ऋअ २,१०,१७९
काशि-विदेह- -हा बौश्रौ १८,४४
२२
काशी(शि ई)श्वर^k- -राय आम्रिगृ
१,२,२ २३, हिगृ २,१९,६
२काश्य^l- पाग ४,१,९९, -श्यस्य
वृदे ६,४२
काश्य-वैदेह- हयो. काश्रौ १६,
२९,६
काश्यायन- पा ४,१,९९.
काशीत^m- -तम् लाश्रौ ७,२,१, निस्
३,१०. १०, ७, १२ ७, -ते
लाश्रौ ७,१०,६
काशीय- २काश- द्र.

काशीवाजⁿ- -जा बौश्रौप्र १० ४
काश्- पाठ १,८५
काश्मर्य^o- फि ७६
काश्मर्यो(र्य-उ)दुम्बर- -र अप
२३,६,५
काश्मीर-, °रक-, °री-, °र्य-
कश्मीर- द्र
१काश्य- २काश- द्र
१काश्यप- कश्यप- द्र
२काश्यप^p- -पम् अप ७०^q, २०, १,
७०^r, १०, ६
काश्यपायन-, °पिन्-, °पीय-, °पेय-
कश्यप- द्र
काश्यातप^s- -पा बौश्रौप्र ४१ : ४
काषाय- १कषाय- द्र
काषायिन्- २कषाय- द्र
काष्टरेबि^t- -षय बौश्रौप्र १२ १
काष्ठ्य- ✓कष् द्र
काठ^u- पाठ २, २, पाग ४,२, ९१,
६,४, १५३, पावाग ८,१, ६७,
-ष्ठम् काश्रौ १५, ४, ३१, २५,
३,२, आपश्रौ, -ष्ठयो गोगृ ३,
१०, २९, -छात् कौगृ ३, १०,
३५, शागृ, -छानाम् बौश्रौ २२,
१७ १७, बौध १,६,२४, शौव
१६४, -छानि आपश्रौ २, १२,
५, १२, ३, ५, बोश्रौ, -ष्ठे आम्रिगृ
३, १०, ३ २२, कौसू ८७,
१९१, वाध १२, १५, -छेन
वैश्रौ १२, ६ ८, पागृ, -ष्ठेषु
आश्रौ ३, १४, १६, -ष्ठै आपश्रौ
१६, ११, १, वैश्रौ

काष्ठ-कलाप- -पम् आम्रिगृ १, १,
४ ३१^v, हिगृ १, ८, २
काष्ठकीय- पा ४, २, ९१
काष्ठक- पा ६, ४, १५३
काष्ठ-जल-लोष्ठ-पाषाण-शस्त्र- विष्-
रज्जु- -उज्जुभि वाव २३, १५.
काष्ठ-मय- -य वाव ३, ११, -यम्
हिपि १५ ६
काष्ठ-मौनिन्- -नी शव ३९०
काष्ठ-रज्जु-त्वक्-चर्म-चीर वेणु-विद-
ल-पत्र-पर्ण- -र्णानाम् काव
२७७ १२
काष्ठ-वत् वाव ६, ३२
काष्ठ-शक्-स्थान्- -ता पाया ८, २, २२
काष्ठ-संघात- -तै. अप २३, ५, २
काष्ठ-स्थ- -स्थ नाशि १, ६, १७
काष्ठा(ष्ठ-आ)दि-ग्रहण- -गम्
पावा ८, १, ६७
काष्ठा^w- फि ५७, -ष्ठा बौश्रौ ११,
७ ३७, आपव १, २२, ७, हिध
१, ६, ७, या २, १५^x, वेज्यो ३९,
-ष्ठा आपश्रौ १७, १८, ११,
†अप ४८, ७५, ९९, निघ १,
६१, या २, १५^y, ७, २३१^z,
-ष्ठानाम् या २, १६१, वेज्यो
३०, -ष्ठाम् आपश्रौ १८, ३,
१५, बौश्रौ, -ष्ठाया या ९, २४१;
-†ष्ठासु आपश्रौ १७, ८, ७^{aa},
माश्रौ ५, २, ३, ९, १२^{ab}, वैश्रौ
१९, ५ ५१^{ac}, -ष्ठे बौश्रौ २६,
२९ ५, ७, -ष्ठोम्^{ad} आपश्रौ १९,
२३, १, हिश्रौ २२, ४, १७

- a) = आचार्य-विशेष-। b) अर्थ व्यु च ?। c) = देश-विशेष- ?। d) = नगरी- (तु पागम)।
e) °फारी- इति [पक्षे] भाण्डा, °शस्थली- इति वामन, शफरी- इत्यन्ये (तु पागम)। f) तु पागम । व्यप ।
व्यु ?। g) = वाराणसी-। व्यु ?। h) अर्थ ?। i) < ✓कश् इति। j) काशीना- इति पासि. [सुबोधिनी]।
k) = महादेव-। l) = वृप-विशेष-। m) = साम-विशेष-। व्यु ?। n) = ऋषि-विशेष-। व्यु ?।
o) = कार्मर्य-। p) = गृह-विशेष-। व्यु ?। q) वैप १ द्र.। r) °लाम् इति पाठ ? यनि शोधः
(तु. हिगृ.)। s) लुसकाऽऽदिष्ठा^o इति पाठः ? यनि शोध । t) तु पा ८, २, ९० ।

काष्ठा-गमन- ने बौश्रौ २२, १४ २४	✓कि पाधा जु पर ज्ञानि, चिक्यत् निघ ३, १११ ^१	३१, १६
काष्मर्य ^२ - र्य कौष्ट २, ६, ९	किंशक्ते अप ४८, ५१	किकि L, की ^३ दी L, दि ^३ वि ^३ - पाउ ४, ५६, - ^३ वि: आपश्रौ २०, २२, १३, बौश्रौ २६, ११ २१, २२, हिश्रौ १४, ५, ९, -विम् बौश्रौ १५ ३७ ८, -व्या पावा ७, ३, १०९
काष्प- ^३ व्यायणी- ररुष- द्र	किंशरु ^३ - पाउ १, ४, -रु बौश्रौ १, ५ ४, १४, वैश्रौ ४, ४ ८, -रुणि बौश्रौ ६, २३. ७ ^३ , १५, १ ४	किकिटा ^३ > ^३ टा/कृ > ^३ टा-कारम् बौश्रौ १४, १५ ६ किकिटा (कृत्य) बौश्रौ १४, १५: ६, ७, ८ ^३ , ९, चाञ्च १३ ४
✓कास् ^३ पावा म्वा आत्म शब्द- कुत्सायाम्, चकासति सु ४, २ ^०	किंशिल ^३ - -०ल बौश्रौ १०, ४४ ११, -ल तैप्रा १६, २५, -लाय शुप्रा ५, ३७	किखि- पाउभो २, १, १७६ किङ्गण- पाउभो २, २, १२८.
२कास, सा ^३ -सम् आपव २, ३, २, हिघ २, १, ३३	किंशुक ^३ - पागम १०७, -क अप ५२, ५, २, -रुम् या १२, ८, -कानि आपृष्ट १८, ६, हिष्ट २, १६, ३, ५	किङ्गणीका- पाउना ३, १८ किङ्करा, ल ^३ - (> कैङ्करायण- °लायन- पा) पाग ४, १, ९९
कासा-देवता- >°वत्य- -त्यम् अत्र ६, १०५	किंशुका(क-आभा >)म- -म अप २९, १, ४.	२किङ्कर- किम्- द्र
कासिका ^३ - का बौश्रौ २, ५ १९ ^३	किंशुका(क-अ)शोक-पद्मा(अ- आभा >)म- -म अप २१, ७, ३	किङ्किणि ^३ - -णिम् आपृष्ट १८, १
शकास- ✓कम् द्र	किंशुलुक ^३ - (> [क >]का-गिरि- पा) पाग ६, ३, ११६	किङ्किणिका- पाउडु २, ६६
कासक्तिक ^३ - -क. गोष्ट १, २, २५	किंस्- पाग ८, ३, ११०	किङ्किणीका- पाउभो २, २, २०.
कासर- पाउभो २, ३, ३८	किंस्त्य ^३ - > किस्त्य-नाभि-पिप्पली- -ल्यौ कौसू १०, १६	किञ्जलक- पाउभो २, २, ६, पागम १०७
कासाम्भव- कमाम्बु- द्र	?किस्त्य अजाम्बूलोदकरक्षिकाम- शकादि ^३ - -दिभ्याम कौसू ३०, १६	किञ्जला(क अ)रविन्द-संनिभ- -भेषु अप ६५, १, ६
कासार- पाउ ३, १३९	किस्त्या(स्य-आ)दि- -दीनि कौसू	✓किद् पाधा म्वा पर त्रासे गतौ च
कासू- पाउभो २, १, ११६		किदकिडा ^३ >°डा/कृ >°डा-कार- -र ऋत २, १, १०
कासू-त(र >)री- पा ५, ३, ९०		किरव ^३ - पाउना १, १४०, पाग ५,
का-सृति- किम्- द्र		
?कासौबलदादौष्यघ- -घा. अप १, ७, ८		
कास्तीर ^३ - पा ६, १, १५५.		
काहय- कहय- द्र		
काहल- पाउभो २, ३, ९९		
काहावाह ^३ - -हम् अप्रा ३, ४, १, दवि २, ३		
काहूय- कहूय- द्र		
काहायन ^३ - -ना. बौश्रौप्र ३ ११, ४८: ७		
काहोदङ्क ^३ - -ङ्का बौश्रौप्र १७ ६		

a) पृ ८६४ a टि द्र । b) पा ३, १, ३५ परामृष्ट द्र । c) दीप्तौ वृत्ति । पाभे वैप १ प्रकाशते
खि २, १, ४ टि द्र । d) वैप १ द्र । e) अर्थ. व्यु च^३ । = सोष्णीष- इति भाष्यम्, ^२old च । f) = नगर-
विशेष- । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु^३ । h) दर्शने वृत्ति । z) = वान्य-शूक- । व्यु^३ < किम्- + √शू इति अभा ।
j) नाप । वैप ३ द्र । k) अर्थ: व्यु च^३ । l) = शङ्ख-विशेष- । व्यु^३ । m) पद-विभाग^३ । n) पाउ
पाठ । तत्रैव वृत्तौ भूयास पाभे । o) व्यन. । व्यु^३ । p) नाप । व्यु^३ । q) डाजन्तम् अव्य ।
r) = सुरा-किट्ट- । व्यु^३ ।

१,४
 किण्व-कार्पास-सूत्र-चर्मा(र्म-आ) यु-
 धे(ध-इ)ष्टका (का-अ)ङ्गार-
 -राणाम् विध ६, १६.
 किण्व-हस्त°- -स्तेन अप १,३०,४
 किण्वीय- , ण्वय- पा ५,१,४
 ✓कित्^१ पाथा +या पर निवासे
 रोगापनयने च, जु पर ज्ञाने^२,
 चिक्रेत ऋपा ८, ४५^३, चिकिद्धि
 कौसू ४६, ५४^४
 ङ्किक्नेन शाश्रौ १०, ५, ४, ऋअ
 २, ५, ६५, चिकिने या ६, १७^५
 ङ्किक्स्तेत^६ आपश्रौ १३, १०,
 १०, बौश्रौ ८, १० १७,
 वैश्रौ १६, १२ १३, हिश्रौ
 ९, ३, ३३, बौश्र १, ९, ६,
 ङ्किक्स्तेत आपश्रौ ४, ८, ३,
 भाश्रौ ४, १२, १, हिश्रौ ६, २,
 १९, चिकिस्तेत बौध २, १, २६,
 चिकिस्तेत काश्रौ २५, १३, १९
 ङ्किक्ते- -त. आश्रौ ८, १३, ९,
 शाश्रौ १०, १४, ४, बौश्रौ ३,
 ३ : १८, हिश्रौ ३, ६, २७, वैश्र
 ५, ४ ५, गौपि २, ६, २२, निघ
 ३, ९^७, -तम् बौश्रौ ११, २ ३,
 जैश्र १, ३ ८, ऋपा ७, ३८
 ङ्किक्ते-पू- पू बौश्रौ ११, २ :
 ३, जैश्र १, ३ . ८
 केता^८- -ता पाश्र ३, ४, १४^२
 केतु^९- पाउ २, १, ५९^{११}, -ङ्किक्ते
 आपश्रौ १६, १२, १, बौश्रौ
 ८, ५ . ७, १९, १० ५०,
 वाश्रौ ३, २, १, ६२, वैश्रौ
 १८, १० ९, हिश्रौ ८, ४, २७,

११, ४, १३, वैताश्रौ ९, १६,
 जैश्र १, ४ ९, कौसू १८, २५,
 ५८, २२, अप ३२, १, २२, ५२,
 १२, ३, १३, ४, १५, २, अअ १३,
 २, या १२, १५^{१२}, -ङ्किक्ते बौश्रौ
 ६, १६ १३, आपम २, २१,
 ७, आमिगृ २, ५, १ ३२^{१३},
 -ङ्किक्ते आपश्रौ ९, १८, १५, १९,
 १२, २, बौश्रौ १९, ३ ५, ५ :
 २४, २८, ७ १२, माश्रौ २,
 ४, १, ३६, हिश्रौ २३, २, १३,
 वैताश्रौ ३९, १६, आपम १,
 १६, २, २, ११, २६, आगृ ३,
 ६, ८, मागृ १, ३, २, वैश्र ४,
 १३ : ३^{१४}, हिगृ १, १७, ४, जैश्र
 २, ९ २१^{१५}, अप ४८, ८४,
 ५५^{१६}, १, ४, २, १, ५४, १,
 ४^{१७}, ६३, ३, ६^{१८}, ऋअ २, १०,
 १५६^{१९}, साअ २, ८७७^{२०}, अअ
 १३, २, निघ ३, ९, या ११, ६,
 उसू ४, १७, दंवि १, ७, -ङ्किक्तेना
 आश्रौ ३, १२, १८, काश्रौ २६,
 ४, १६, आपश्रौ ९, ७, १०, १५,
 १०, १०, बौश्रौ ९, ८ २३,
 ११ २२, १२ ११, १४,
 २४ २१, २९, ३ : १५, भाश्रौ
 ९ १०, ९, ११, १०, ६ माश्रौ
 ३, २, १५, ४, ३, २७; वैश्रौ १३,
 १२ १२, २०, १३ २, हिश्रौ
 १२, ६, ६, १५, २, २७; ८, ४,
 आमिगृ ३, ६, १ : २०, बौपि १,
 ८ : १७, हिपि ७ . १०, ऋअ
 २, १०, ८, वृदे ६, १४७, शुअ
 ४, ८६, साअ १, ७१, या ११,

२७^{२१}, भाशि १२१, -ङ्किक्तेभिः
 आश्रौ २, १, १७, आपश्रौ ५,
 १, २, बौश्रौ २, ६ . ३५, १२ :
 १०, माश्रौ १, ५, १, ९, हिश्रौ
 ३, २, १, वैताश्रौ ७, ५, अप
 ३ : ६८, अप ७०, ८, ३^{२२};
 -तुभ्य आमिगृ २, ५, १ २१^{२३},
 -ङ्किक्ते आपश्रौ १, ४, १५, १४,
 २९, ३, १९, ३, ५, २०, १६, ३,
 २४, १३, ३, बौश्रौ १५, २४ :
 ५ १७, ३८ . २, माश्रौ १, ४,
 १५, माश्रौ १, १, १, ४६, वाश्रौ
 १, २, १, २७, ३, ४, ३, २७,
 हिश्रौ १, २, ५१, १३, ८, ३०,
 १४, ३, २६, १५, ७, १६, आपम
 २, २०, ३१^{२४}, पागृ ३, ३, ५,
 आमिगृ २, ५, १ ३१, वैश्र १,
 ४ ११, ४, १४ ४, जैश्र २,
 ९ ६, ११, ३१, अप्राय ५, ६;
 शंघ ११६ ४८^{२५}, बौव २, ५,
 २३, शुअ ३, ११३, या १२,
 ७^{२६}, -तूनाम् अप ३१, ४, ४,
 ५४, २, ३, ५५, १, ४, चाअ २ .
 १५, १५ ३, -तो. आमिगृ
 २, ५, १ १७, ३६, ४६, वैश्र ४,
 १४ १३, जैश्र २, ९ : १३;
 १६, २४, २७, ३२, ३४
 केतु-पीडन- -नेन अप ५१,
 ५, २.
 ङ्किक्ते-मत्- -मत् आपश्रौ २०,
 १६, १४, -मङ्गि. आपम २,
 १८, १०, आमिगृ २, ५, ८ : ११;
 बौश्र २, ७, १६; भाग २, ८ :
 ५, हिगृ २, ८, २, चाअ १७ :

a) विप । बस. । b) पा ३, १, ५ परामृष्टः द्र । c) तु BPG d) पामे वैप १, ६१४ ५ द्र. ।
 e) पामे. वैप १, १११० १ द्र. । f) स्त्री भावे अ प्र । g) = प्रकाश-, अर्धिसू-, ध्वजा-, प्रह-विशेष-,
 ऋषि-विशेष- । वैप १ द्र. । h) <✓कि<✓चि इति । i) पाठः १ केतवे इति संभाव्येत (तु. अत्रैव शुक्राय प्रथु) ।
 j) पामे वैप १, ११११ e द्र ।

१०, -मन्तम् शंघ ११६ ६६,
-मान् कौष्ट ३, १२, २९
केतु-संचार- -रम् अप ५४, १, १
केतु (तु-उ) दय- -ये काघ
२७६. १
चिकित्^a- > ०कित्-व- -वम्
आश्रौ ४, १२, २^b
चिकितान- -०न आश्रौ ७, ११,
२२, ऋअ २, ५, ६६, -न
आपश्रौ १४, २९, ३, बौश्रौ ९,
७ १५, हिश्रौ १५, ७, १६,
अप्राय ५, ६
चिकिति^a- -ति: नाशि २, ३, १७^c
चिकित्वस्- -तुषे शाश्रौ ९, २८,
३०, बौश्रौ, -०त्व. या ६, ८^d,
ऋप्रा ७, ५४, -त्वान् आश्रौ २,
१७, १०, काश्रौ, हिश्रौ २, १,
५०^e, या २, ११, ८, ५
चिकित्सक- -क: वाघ ३, ३,
-कस्य आपघ १, १९, १४,
वाघ १४, १९, शघ ४३४, हिघ
१, ५, ११६, -कान् विघ
८२, ९
चिकित्सक-मृगयु-पुश्रली-दण्डि-
क-स्तेना(न-अ)भिशस्त-षण्ड-
पतित- -तानाम् वाघ १४, २
चिकित्सा- -त्सा शघ ४, शुप्रा ३,
१२९, -त्सायाम् आज्यो ४, ८
चिकित्सित- पाग ४, १, १०५^f, ३,
१११^g, -तम् हिश्रौ १४, १, २५^h
चैकित्सित्य- पा ४, १, १०५
चैकित्सित- पा ४, २, १११
चिकित्स्य- -त्स्य पा, पावा ५, २,
९२

चिकित्- -त्त् लाश्रौ ८, ५, २२^क
चिकितान- -न हिश्रौ २१, २,
३५, -नम् बौश्रौ १०, ३६ ९,
माश्रौ ६, १, ८, १०, वैश्रौ १८,
२१ २७, हिश्रौ ११, ८, १४,
आपमं १, ११, १, काष्ट ३०, ३,
६०, ५, माष्ट १, १४, १६, वाष्ट
१६, १, चाअ ४० २^ल
कित^h- (>कैतायन- पा) पाग ४,
१, ११०
कितक- (>कैतकायनि-) रकितव-
टि द्र
रकितव^a- पाउभो २, ३, १३४, पाग
२, १, ४०, ५६, ४, २, ९०, ५,
१, १३०, -व. शंघ २०१, या
५, २२, -वम् वुदे ७, ३७,
-वस्य शंघ ४३४, अप ४८,
१२९^क, शाश्रौ, -वा आष्ट २, ७,
११, -वात् या ३, १६, -वान्
माश्रौ १, ५, ५, ८, १३, अप्रा ३,
४, १^क, -वास: आमिष्ट २, ५,
१० २१^क
कितवी- -वी आष्ट १, ५, ५
कैतव- पा ५, १, १३०
कितव-वध-काम- -म: अअ ७,
५०.
कितव-व्यवहार- -रे पावा २, १, १०
कितवीय- पा ४, २, ९०
रकितव^h- पाग ४, १, ११०, १५४^क
कैतवायन- पा ४, १, ११०, -ना
बौश्रौ ७ ३.
कैतवायनि- पा ४, १, १५४, -नय:
बौश्रौ ३ २ २
कितवाशय^h- -यस्य निस् ७, १०.

१२
किदर्भ^क- (>कैदर्भ- पा) कन्दर्प-
टि द्र
किंतना- अप ६५, २, २
किन्दर्भ- (>कैन्दर्भ- पा) कन्दर्प-
टि द्र
किंदास^h- (>कैदास-, >कैदासा-
यन^क- पा यक्र) पाग ४, १,
१०४, १००
किन्नर^क- (>कैन्नर- पा) पाग ४, ३,
९३
किम्^a- >इक, का- क: आश्रौ १,
२, १^क, ४, १२, ३^क, शाश्रौ, या
११, ४^क, १४, २५, २६, पा
७, २, १०३, क(: >)सऽक
पाग ८, ३, ४८, कम् आश्रौ
१, ३, १३, ५, ६, ६, शाश्रौ,
आपश्रौ ३, १४, ३^क, फ्या ६,
३५^क, फक्या आश्रौ २, १७,
१५, शाश्रौ, कस्मात् काश्रौ २५,
५, २५, निस् ८, १३ २७, सु २०,
३, या १, ४, कौशि २४, कस्मिन्
आश्रौ २, १, ११, १४, भाश्रौ,
फकस्मै आश्रौ ५, १३, १५,
शाश्रौ, कस्य फशाश्रौ १४, १६, ९;
१५, २२, १, वाधुश्रौ, फकस्या-
आश्रौ ४, १३, १, बौश्रौ १, १३:
२५, माश्रौ २, ३, १, २, वैश्रौ
१५, ३: १०, कस्यै शाश्रौ १४,
९, १, फका आश्रौ ४, ६, ३,
काश्रौ, -का आश्रौ २, १३, ३,
बौश्रौ, या ७, १३, कान् भाष्ट
२, १-१६, कौस् १३५, ९^क, वाघ
१२, ४७, का(न >)सऽकान्

a) वैप १ द्र । b) पाभे वैप १, १११० b द्र । c) पाभे वैप १, १११२ d द्र । d) क्रिप इति दु ।
e) ०त्व इति पाठः? यनि. शोधः । f) व्यप । घा अर्थ १ । g) ०तानान इति पाठ १ यनि शोधः (तु ते ५,
७, २, १) । h) व्यप. । व्यु. ? । २) कितक- इति [पक्षे] भारुडा । j) अर्थ व्यु. च १ । k) कै ० इति पाका. ।
l) =देश-विशेष- । व्यु ? । m) पाभे. वैप १, १११३ f द्र । n) पाभे वैप १, १११३ g द्र । o) =अज्ञ- ।

ऋत ४, २, ५, पा ८, ३, १२,
 कानि शाश्रौ १६, ६, ११,
 आपश्रौ, काम्याम् लाश्रौ ८,
 ६, ११, काम् शाश्रौ १६, २,
 २१, काश्रौ, कासु ऋषा १४,
 ६०, ऋके आश्रौ २, ९, १४,
 शाश्रौ, केन ऋषापश्रौ २१,
 ११, १२, ३, वाश्रौ, केभ्य
 निसू १०, १० ५, केषाम्
 लाश्रौ ९, ४, २७, ऋकेषु शाश्रौ
 १६, ६, १२, वैताश्रौ ३७, १२, वृदे
 २, ७५, कै चव्यू ३. १३,
 कौ या १२, १

कतम, मा- पा ५, ३, ९३, पाग १, १,
 २७, -ऋम शाश्रौ १७, ८, ७,
 आपश्रौ, -मत् आपश्रौ १, ५,
 ५१, बौश्रौ, या २, ४१, १३, १०,
 -मस्य शाश्रौ १५, २२, ११,
 -मस्त्वे काश्रु ३४, ४१, -मा बौश्रौ
 २५, २४ : ३०, वाधूश्रौ ४, ५०
 ३, -मा बौश्रौ २५, ३०. ९,
 वाधूश्रौ ४, ५३ : ३, ९७ १२,
 -मानि बौश्रौ २५, ७ १, २४
 २७, २६, १७ ४, निसू २, ११ :
 १८, या १३, ९, -माभ्य. भाश्रौ
 ९, ६, ३, -मे बौश्रौ २५, १०
 ३, २६, ९ : ६, २७ १०, निसू
 १, १० १, ८, ३, १२ १९,
 -मौ वाधूश्रौ ४, ४५ १

कतर, रा- पा ५, ३, ९२, पाग १, १,
 २७, -र. आश्रौ ३, ६, ३, बौश्रौ,
 या ७, ३०१, -रत् शाश्रौ १२,
 १७, ११; बौश्रौ २४, १९ : ७,
 २५, १० : १, वाधूश्रौ ४, ६४ :
 ७, -रस्या सु २०, ३, -रा आश्रौ
 ७, ७, ८, शाश्रौ १०, ८, १४१,

बौश्रौ २०, १९ ३५, ऋष्य २,
 १, १८५१, वृदे ४, ६११, या ३,
 २२१, -रा. वाश्रौ ४, ६७
 ९, -रे बौश्रौ १८, ४६ ५,
 -रेण वाश्रौ ३, ९२१

कतर-कतम- -मौ पा २, १,
 ६३, ६, २, ५७

कति- पा ५, २, ८१, -ऋति
 काश्रौ २०, ७, १३, आपश्रौ ८, ६,
 २०, काठश्रौ, -तिभि वाश्रौ १,
 ७, २, २७, -तिभ्य वृदे १, २३
 कति थ- पा ५, २, ५१.

कति-धा गौव २५, १

कति-प(द>)वा^२- -वा अप
 ४१, ५, २

कति-पय- -या. लाश्रौ ९, ४,
 २१, -यान् शाश्रौ १७, ६, ६,
 -ये वैश्रौ २०, ३ १

कतिपय-कृत्वस(>) हिश्रौ
 १, ५, ७२.

कतिपय-थ- पा ५, २, ५१

कतिपया(य-अ)ह- -हेन
 शाश्रौ १७, १, २

कत्य(ति-अ)क्ष(र>)रा^२- -रा
 अप ४१, ५, २

कथम् आश्रौ ८, ३, १७, १२, १०,
 १, शाश्रौ, पा ५, ३, २५, पाग
 १, ४, ५७

कथं-कारम् पा ३, ४, २७

कथं-चित्- (> कार्थचित्क-
 पा) पाग ५, ४, ३४

कथम्- -थमि पा ३, ३, १४३

कथा आश्रौ ७ ५, २०, शाश्रौ ११,
 ४, १०, काश्रौ १०, ३, १३,
 आपश्रौ ९, १०, १२, बौश्रौ, पा
 ५, ३, २३, २६

कथो(था-उ) आश्रौ ९, ५, १६
 ऋक्^२-, कत् आश्रौ ७, ४, ६, ७, ७,
 शाश्रौ ३, ५, ६×४, १२, १८, १०;
 निघ ३, ६, या ६, २७१, पा ६,
 ३, १०१\$

कच्चित्^२ पा ८, १, ३०, पाग १,
 ४, ५७

कत्-वृ(ण>)णा- पा ६, ३, १०३

कत्-त्रि- पा ६, ३, १०१

कद्-अध्वर्यु- -र्यु बौश्रौ १७,
 ४५ ४^२

कद्-अर्थ- -र्यस्य शध ४३४,
 -र्याय बौव १, ५, ८१

कदर्य-दीक्षित-बद्धा(द्व-आ)
 तुर-सोमविक्रयि-नक्ष-रजठ-
 शौण्डिक-सूचक-वारुणिक-चर्मा-
 वकृन्त- -न्तानाम् वाव १४, ३.
 कद्-उडग- पा ६, ३, १०७

कद्-रथ- पा ६, ३, १०२,
 -व शाश्रौ २, ५, २७

कद्-वत्- -वत् शाश्रौ १५, २,
 ९, वाधूश्रौ ३, ६९ : ३८, -वतः
 आश्रौ ७, १, १५, ८, ७, १०,
 शाश्रौ ११, ११, १०, १२, २,
 -वताम् आश्रौ ८, ४, १६,
 -वद्भ्य. आश्रौ ७, ४, ७, -वन्त.
 आश्रौ ७, ४, ६, ८, ४, १५,
 शाश्रौ १३, २४, १८, -वन्तम्
 शाश्रौ १२, ६, १०, -वन्तौ
 शाश्रौ १२, ६, १, -वान् शाश्रौ
 १२, ४-५, १, १६, २१, २५, २८,
 ३०, वैताश्रौ ३५, १२

कद्वती- -स्यः काश्रौ १६,
 १, ४०

कद्-वद्- पा ६, ३, १०२

ऋक्दा आश्रौ ४, १३, ७, शाश्रौ २,

a) विप । बस । b) वैप १ द्र । पाप्र [६, ३, १०१] < कु- इति । c) पाभे वैप १, १४४१ द्र ।
 d) निपातसमाहारः द्र ।

१२,७, काश्रौ १०,३,४, आपश्रौ,
 \$पा ३,३,५, ५,३,१५, \$पावा
 २,१,६९,५,३,७२^२
 कयाशुभीय^०-यम् शाश्रौ ११, २,
 ४, ११,९, १३,५, १५, १५, २,
 ९, ७, १, आपश्रौ, चाश्र ४१
 ६^{१०}, -यस्य आश्रौ ७, ७, ६,
 माश्रौ ५, १, ६, ४४, -यात् शाश्रौ
 १०, ११, १२, -ये लुसू १, ८
 १९
 कयाशुभीय-तदिदासीय- ये
 आश्रौ ९, ८, २२, १०, ५, २२,
 शाश्रौ १४, ३९, ९, ८४, ५, १६,
 २१, ३१, २३, १८
 कर्हि कौगृ १, ६, ७, शागृ १, ६, ८,
 बाघ, पा ३, ३, ५, ५, ३, २१
 कव->कव-पथ- पा ६, ३, १०८
 कवो(व-उ)ष्ण- पा ६, ३, १०७,
 -ष्णौ शाश्रौ ४, १४, १५
 का->रका(का अ)क्ष- पा ६, ३,
 १०४
 कादिशीक^०- पाग २, १, ७२
 का-पथ- पा ६, ३, १०४, १०८
 का-पुरुष- पा ६, ३, १०६,
 (> ०रुष्य- पा) पाग ५, १,
 १२४
 काराचद्धोत्रि (य>) या^०-या:
 शाश्रौ ९, २०, १२
 का-विराज^०- राट् ऋश्र १, ६,
 ५, शुश्र ५, ३६, ऋप्रा १६, ४०
 काविराण-नष्टरूपी- प्यौ
 ऋश्र २, १, १२०
 का-सृति^०- -या गोरु ३, ५, ३५
 को(का-उ)ष्ण- पा ६, ३, १०७,

-ष्णौ कौगृ ५, ३, ३^०
 किम्- किम् आश्रौ ३, १४, १३,
 शाश्रौ, पाउ ४, १५८^१, पा २, १,
 ६४, ८, १, ४४, पाग १, १, २७
 किं-वदन्त^१-न्तः पागृ १, १६,
 २३, आमिगृ २, १, ३. १४,
 कागृ ३५, १, हिगृ २, ३, ७, जैगृ
 १, ८ : १६
 किं-वद(न्ति>)न्ती- पाउवृ ३,
 ५०, पागम १०७.
 कि-वर्ण-दैवत-लिङ्ग- -ज्ञा
 याशि २, १
 कि-वृत्त- -त्तम् पा ८, १, ४८,
 -त्तस्य पावा ३, ३, १४५, -त्त
 पा ३, ३, ६, १४४
 कि-स्तोम^१- -मानि निस् ८,
 १३. ११
 कि-स्थान^१- -नम् नाशि १, ८,
 ६
 किं-स्वित्^१ पाग १, ४, ५७
 रकि-र- पा ३, २, २१, -र
 अप ३५, २, ३, -रैः विध ४३,
 ३७
 किंकरा(र-अ)वतान^१-ना
 बौश्रौ १८, २४ : १५
 किं-कर्मन्^१- -र्मा बौश्रौ २६,
 १४ : ६
 किं किरात- पागम १०७
 किं किल- पा ३, ३, १४६, पाग
 १, ४, ५७^१
 कि-कृत- -ता या ६, ३२
 कि-गत- -ते बौश्रौ २४, १२ ६
 किं-गोत्र^१- -त्रः कौसू ५५, १०,
 वैध ४, ८, ७

किं-चन पाग १, ४, ५७^१.
 किं-चित् वैश्रौ १८, ११ : १४.
 किंचित्-स्व- -स्वात् कौशि^१.
 किंचित्-पुष्प-फ(ल>)
 ला- -ला या १, २०
 किं-तम->भाम् पा ५, ४, ११.
 कि-तर->तराम् पाग १, ४,
 ५७
 किं दक्षिण^१- -गम् बौश्रौ २४,
 २९ १, वावृश्रौ ३, ३४-३५ :
 १, -णा बौश्रौ २६, २० १.
 किं-दर्श-पूर्णमास^१- -स. बौश्रौ
 २५, १६ ४
 किं-देव(ता>)त^१- -ता य
 ८, २१
 किं-देवता->त्य, त्या- -त्यः
 बौश्रौ २४, ३७. ८, -त्यम्
 बौश्रौ २४, ३६ ३; -त्या बौश्रौ
 २४, ३७. ७, २५, ८ १३;
 २६, ११ : २०, १४ : १५, ३० :
 १९, -त्या बौश्रौ २४, ३ १२;
 २५, १० १५, २१ : ८, २६,
 ९ १४, ११ २५, -त्यानि
 बौश्रौ २५, १. १९, २६, ७ : ८;
 ३१ १८, -त्ये बौश्रौ २४, २५ :
 ७, -त्येन वाधृश्रौ ३, ४३. १.
 किम्-अग्निहोत्र^१- -त्र बौश्रौ
 २५, १६ : १.
 किम्-अनु(ख्या>)ख्य^१-
 -ख्यानि बौश्रौ २४, १० : १३.
 किम्-अभिधारित- -तम् बौश्रौ
 २४, २७ ४
 किम्-अर्थ- -र्थः बौश्रौ २६,
 २७ : १३, निस् २, ४ : ३४x४;

a) वैप १ द्र । b) ष्यः इति पाठ १ यनि. शोध (तु सप्र मै २, १, ८) । c) कां दिशम् > यनि.
 इति । d) < का राधत् धोत्रा (ऋ १, १२०, १) । e) = छन्दो-विशेष- । f) = का-पथ- । g) कवो^० इति
 मूको । h) < √ कै । i) = बालप्रह-विशेष- । उस उप √ वद् + रुक् प्र उसं (पाउ ३, १२६) ।
 j) विप । बस । k) तु पागम । l) षस, । शायतन- इति मूको. (तु. शब्दसूची) ।

पावा ३, १, ११२, -र्थम् बौश्रौ
१८, ४६. ८, १३, निसू ४, ३.
८, ७, ६ २०, या ८, २२, पावा
१, १, १, ७×४, -र्था निसू ३,
१३ १४, -थौ बौश्रौ २६, १० ९
किम्-आधार^२ - र या १, १३,
१४
किम्-उत पाग १, ४, ५७
किम्-उप(ज्ञा)ज्ञ^२ - ज्ञ.
बौश्रौ २४, २ ४, छसू ३, १३ : ५
किम्-औपसद^२ - दः बौश्रौ २५,
१६ : १
किं-पवित्र^२ - त्र वाधूश्रौ ३,
२५ : ७
किं-पु, पू^२रुष- पागम १०७,
-ष शाश्रौ १६, ३, १४, १२,
१३, वाधूश्रौ ४, १९. १३,
-षम् शुप्रा ५, २१, -षान् शंभ
११६ : ४९, -ष बौश्रौ २, ५
१६ः
किं पूत- ते बौश्रौ २४, २५. ७ः
किं-प्रमृदि- तय निसू ९,
८ १
किं-प्रसुत^२ - त बौश्रौ २५,
१६ : १
किं-प्रोक्षि(त)ता- ता बौश्रौ
२४, २५ ११ः
किं-बल^२ - ल सु २८, २
किं-भाग^२ - ग. निसू ३, ५ : ९.
कियत्^२ - यत् आपश्रौ २०, ५,
१५; बौश्रौ २४, १८. १×४, पा
५, २, ४०, पाग ५, ४, १०७,
-यत् या ६, ३, -यति बौश्रौ
२३, ५ : १, -यन्तः बौश्रौ २६,
१६. १४, अप ५२, १, १,

-यन्तम् अप्राय ३, ६, आज्यो
७, ८; -यन्ति बौश्रौ २४, ५
११ः.
कियती- त्य बौश्रौ २४,
४. १^२, २
कियद्-धा- -धा या ६, २०
कियद्-रात्र^२ - त्रेण हिश्रौ ९, ६,
३३,
किंकिस्^२(ः) निष ४, ३, या ६, ३५
की-दक्ष- पावा ३, २, ६०, ६, ३, ९०
की-दृश^२ - पा ३, ३, ६०, ६, ३, ९०,
-दृक् आपश्रौ १, ५, ८; ६, १, २,
५, ६, बौश्रौ, -दृशम् अप ४१,
५, २, चव्यू ४ १२
की-दृश- पा ३, २, ६०, ६, ३, ९०,
-शा अप ५२, १, १
की-दृशी- -शीम् आमिष्ट ३, ७,
३ : ६
की-वत्^२ - वत् या ६, ३ः १
कु^२ - पा ६, ३, १३३, पाग १, १,
३७, कु^२ साम्र १, ३०५ः, को
पा ६, ३, १०१
कु-गति-प्रादि- -दय पा २, २,
१८
कु-चेल, ला^२ - लाश् शंभ ३३४
कुचेल-दर्शन- -नम् अप १,
३२, ११
कु-तस्^२() आपश्रौ १, ३, ५,
बौश्रौ, पा ७, २, १०४
कुत्स ऽकुत्स > कौत्सकु-
तस्^२(ः) पाग ८, ३, ४८
कौत्सकुता(त-आ)दि-
-दीनाम् ऋत ३, ५, ८
कु-तीर्थ^२ - र्थात् पाशि २५,
माशि १५, ६, नाशि २, ८, १०.

कुत्र, > त्रा माश्रौ ५, २, १, १७;
कप्र १, २, १०, ऋप्रा ७, ३३ः;
शैशि १४९, तैप्रा ३, १०, पा
७, २, १०४, पाग १, ४, ५७
कु-दामन्^२ - (> कौदामि [क] >)
का-, °की- पा) पाग ४, २,
११६
कु-नख^२ - > °खिन्- खिना
अप्रा ३, ४, १ः, -खी बौश्रौ
१५, ३७ : २; अप ४८, ११६ः,
वाध १, १८, २०, ६; ४४, शंभ
३७६, विध ४५, ५, काध ३७८-
७, चव्यू ४ २^२.
कु-नामन् - (> कौनामि [क] >)
का-, °की- कुदामन्- टि- द्र
कौनामि- पा ४, १, ९६;
-मिः बौश्रौ ४४ ३.
कु-पथ- पा ६, ३, १०८
कु-पान- -नम् या ३, ११
कु-पुत्र - (> कौपुत्रक- पा.)
पाग ५, १, १३३.
कु-पुरुष- पा ६, ३, १०६
कु-ब्रह्म-, °ब्रह्मन्- पा ५, ४,
१०५
कु-यव^२ - वम् शुप्रा ५, ३०ः.
कु-ष्ठल- पा ८, ३, १६
कु-सृति- -त्या आपध १, ३१,
२१, हिध १, ८, ४०
कु-खी - (> कौख- पा.) पाग
५, १, १३०.
कु-स्वप्न- -नम् अप ६९, ५, ५
कुह^२ आपश्रौ ७, ११, २८;
शाश्रौ १०, ५, २०; ऋप्र २, १०,
२२; वृदे ७, २२; या ३, १५;
पा ५, ३, १३, ७, २, १०४.

- a) विप । बस. । b) शुप्रा पाठः । c) वैप १ द्र. । d) ईषदर्थे कुत्सार्थे प्रस्ने च वृत्तिः ।
e) वैप १, १११९ h द्र । f) प्रास. उप = पुष- । g) कु-नामन्- इति [पक्षे] पागम., कुल-नामन्- इति
वामन इति पागम । h) = अथर्ववेदीयशाखा-विशेष- । i) पामे वैप १, १११९ m द्र. ।

कुहश्रुतीय ^a - यस्य आश्रौ ७, ११, २९, -यानाम् आश्रौ ७, ११, ३२ †क ^b आश्रौ २, १६, १५, शाश्रौ १०, १०, ५, १२, १३, ५, बौश्रौ, पा ७, २, १०५, पावा ४, १, ८३, ६, १, २, ७, १, २ का(कु-आ) इ-स्व(सु-अ)ति- दुर-गति-वचन-नात् पावा २, २, १८	७, ८६. किरि- पाठ ४, १४३ किरिक् ^b - केभ्य शुभा २, २६५† ^c किरीट ^d - पाठ ४, १८५, पाग २, ४, ३१ किरीटिन्- टिनम् विध ९७, १०. किरीर- (> १-वत्-)करीर- टि द्र किरेचेत् ^e वाधुश्रौ ४, ७४ २८. किर्मीर- पाठवृ ४, ३० √किल् ^f पाधा तुदा पर श्वैत्यक्री- डनयोः किल आश्रौ ५, २०, ६१, शाश्रौ, या १, ५२, १८†, पाग १, ४, ५७ किलाट- पाठमो २, २, ९९ किलात ^g - (> कैलात- पा) पाग ४, १, १०४ किलालप ^h - (> कैलालप-, > कैला- लपायन- पा यक्र) पाग ४, १, १०४, १००. †किलास ^b - पाठमो २, ३, १७७, -स बौश्रौ २, ५. १७†, -सम् कौसू १३, १२ किलासा(स-आ)बाध ⁱ - -धम् काश्रौ १५, ३, २५. किलासिन्- -सी आमिगृ ३, १०, १ : ५, बौपि ३, ५, २ किल्बि [ल्वि] ष ^b - पाठ १, ५०, -षम् बौश्रौ २, ५ २३†, †अप ३७, ९, ३, १९, २, वाध ३, १५, १४, ३१, १९, ४४, शंघ ३१७, बोध २, १, १६, या ११, २४†, ४,	-षात् आमिगृ २, ६, २ : २६; ३, १२, २ : १२, १३, वाध ३०, ६, बोध २, १, १६, ५, १४, पाशि २५, माशि १५, ६, नाशि २, ८, १० किल्बिषिन्- -षी कप्र २, ३, १०; शंघ ३२५, सुषप ८५ : ७ किल्बिद्- -दम् या ११, २४. किशार, रा ^k - पाग ४, २, ८६†, ४, ५३†. किशारा-वत्- पा ४, २, ८६. किशरिक- पा ४, ४, ५३. किशारु- किशार- द्र किशलय ^m - > किशलयो (य-उ)प- (मा>)म- -मौ विध १, २५. किशोर ⁿ - पाठ १, ६५; -रम् अप ७१, ७, ३, -रेण मीसू ७, ४, ७. किशो(र-रु>)रिका ^p - (> कैशो- रिक्केय- पा) पाग ४, १, १२३ रकिशोर ^l - > कैशोरि- (> कैशोर्य- पा) पाग ४, १, १५१ √किष्क् ^q पाधा चुरा आत्म हिंसा- याम्. किष्किन्ध ^r - पाग ६, १, १५३ किष्किन्धा ^s - पाग ४, ३, ९३, ६, १, १५३† कैष्किन्ध- पा ४, ३, ९३ किष्कु ^t -, °ष्कुह ^v - पाग ६, १, १५३. किस्(.) किम्- द्र किसर ^w - पाठमो २, ३, ७२, पाग ४, ४, ५३†
---	---	---

- a) <कुह श्रुतः [ऋ १०, २२, १] इति । b) वैप १ द्र । c) अर्थ व्यु च ? । d) = देश-विशेष- ? ।
e) पाभे वैप १, ११२१ d द्र । f) = मुकुट-। व्यु ? । g) पाठः ? किलेच्छेत् इति संस्कर्ता । h) = √पिल्
द्र । i) व्यप । व्यु ? । j) षस. पूष किलासा- [स्त्री] इति विद्याधरप्रमृतय ? । k) = सुगन्धि-द्रव्य- ।
व्यु ? । l) किशारु- इत्यन्य इति पागम । m) तु पाका । किसर- इति भाण्डा प्रमृ. । n) = पल्लव- ।
व्यु ? । o) = शावक- । व्यु. ? । p) व्यप । q) √विष्क् इति भाण्डा, √हिष्क्, √हिष्क् इति [पक्षे]
BPG । r) तु. पागम । = पर्वत- । s) = नगर-विशेष- । t) = गुहा-इत्यपि । u) = प्रमाण-
विशेष । व्यु ? । v) = आयुध- । w) = किसर ।

किसलय^a- पाउमो २,३,७, पाग २,
१,५७, ५,२,३६

किसलय-क्याकु-लशान-निर्यास-
-सा गौघ १७,३०

किसलयित- पा ५,२,३६

किहा वाश्रौ ३,४,३,१७.

कीकट^b- पाउमो २, २, ९८, -टा:
अप १, ८, १०, या ६, ३२^c,
-फंटेणु निघ ४, ३, या ६,
३२

कीकस, सा^b- पाउवृ ३, ११७,
-सा आश्रौ १२, ९, ११, १२,
कौसू ३२, ११फं, -साभ्य
आपमं १, १७, २फं, -सासु
आमिगृ ३,४,१-३४; बौपि ३,
३,१०, वैगृ ५,४-११

कीकस^c->कैकस^d- (> स्त्री-
पा) पाग ४,१, ७३

कीचक- पाउ ५,३६

कीट^e पाधा चुरा पर वर्यो

कीट^b- पाउमो २, २, ९५^e, -ट:
आपश्रौ ९, २, ५, बौश्रौ २६,
७ २३, २७, ९ २, भाश्रौ,
-टा अप ५७,४,४, -टेन कौसू
३१,१९, -टै नाशि २,८,२१

कीटा(ट-अ)वपन्न-अम् काश्रौसं
३१ ६, ३२ १२, माश्रौ ३,
२,७^३, वैश्रौ २०, ५:४, हिश्रौ
१५,१,४३, अप्राय २,६, ४,१,
३, -अस्य बौश्रौ १४,९:१६,
२६,७ २२

कीटा(ट-अ)शन- ने विध ५१,
३२.

कीटो(ट-उ)पघातिन्- ती विध ५,
५४

कीदर्भ^f- पाग ४,१,१०४

की-दक्ष-, °श-, °श- किम्- द्र

कीनाश^b- पाउ ५, ५६, -शस्य
आपव २,२८,२, हिव २,६,२,
-फंशा आपश्रौ ६, ३०, २०,
१६,१९,३, बौश्रौ ३,१२:२८,
भाश्रौ ६, १८, ७, माश्रौ १,६,
४,२४, वाश्रौ १,५,५, ८, वैश्रौ
१८,१६:१२, हिश्रौ ६, ८,१,
११,६,३३, पागृ ३, १, ६, जैगृ
१, २४:८, कौसू २०, ४, बृदे
५,९

कीम् पाग १,४,५७

कीर- पाउमो २,३,५०

कीरि^b- फंरये आपश्रौ २२, ७, ११,
-फंरि अप ४८,९७, निघ ३,
१६, -रिभि बृदे ३,९६

कीरिन्^c- फंरिणा आश्रौ २, १०, ९,
बौश्रौ १३,७ ३, हिश्रौ २२,
२,१७, आपमं २, ११, ५, बौगृ
१,६,१०, ४, १२, ३, भागृ १,
२२ ५

कीर्ण- √कृ (विक्षेपे) द्र

कीर्तन-, °तैयत्- प्रभृ √कृ[स्तुतौ]
द्र

√कील् पाधा भ्वा पर. ब-धने.

कील->°ल-क- -कम् अप ३६,
१, ६, -का: अप ५२, ७, ५,
-कानाम् अप २१, ३, ४, -के
काश्रौसं ३५:१३

कीलक-स्नान- -नात् अप

३६,१६,२

कीलमा(क-अ)खा(ख-आ)

दि- दि अप ३६,३०,३

कील-वत्- -वति अप ७२,
१,४

कीलाल^b- पाउमो २, ३, १०५^h,
-फंल आपश्रौ ६,२७,३ⁱ, हिश्रौ
६,७,८ⁱ, कौगृ ३, २, ६ⁱ, ४,५,
शागृ ३,३,१ⁱ, ७,२, कागृ २७,
३ⁱ, भागृ १, २७:८ⁱ, हिगृ
१,२९,१ⁱ, -फंलम् शाश्रौ ४,५,
३, आपश्रौ १, १०, ४, हिश्रौ
२,७,३७,४९, आमिगृ २,६,३
५७,३,११,२-१२, बौगृ, निघ
२,७.

कीलाल-पा^b- -वे आपश्रौ १९, ३,
२फं

फंकीलाल-पेशस^b- -०शस: आपश्रौ
१६, १८, ६, वैश्रौ १८, १५:
१७, हिश्रौ ११,१६,२८.

कीलाल-मिश्र- -श्रम् कौसू १२,
१६

कीलालौ(ल-ओ)षधि^l- -धीनाम्
आपध १,१७,२५

कीलालि^k- -लय वौश्रौप्र १०.४

कीलिन^l- -नम् कप्र ३,१०,१५

कीवत्- किम्- द्र

फंकीस्त^b- -स्तास अप ४८, ८५,
निघ ३,१५

√कु^m पाधा भ्वा तुदा आत्म., अदा.
पर शब्दे, कवते^m निघ २,१४

कोक्यमा(न>)ना- -ना या५,२६.

१कु- किम्- द्र

a) = प्रवाल-। b) वैप १ द्र.। c) व्यप । व्यु ?। d) कैकसेय- इति पाका । e) <√कि ।

f) तु. पागम । g) वैप १,११२२ III द्र.। h) <√कल्। i) पामे. वैप १,११२३ d द्र.। j) पामे.
पृ ८१८ III द्र । k) = ऋषि-विक्षेप-। व्यु ?। l) = किलिन- (तु अ-किलिन- इत्यत्र उप) । नाप = क्लिन्न-
स्थान-। व्यु. ?। m) = √कृ [तुदा], √कृ इति BPG । या ५, २६, १२, १३ पा ७,४, ६३ परामृष्टः द्र ।
n) गतौ वृत्ति. ।

२कु^१- कु पाशि १७
 कु-स्व-विज्ञाना(न-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ७, ३, ५६
 क्वा(कु-आ)दि- -दे पा ७, ३, ५९
 ३कु^२- पाउभो २, १, १९
 कु-ज^०- पाग २, ४, ३१^१
 कौज^०- -जे विध ७८, ३
 कु-त्र- पावाग ३, २, ५
 १कु-ष्ट- पा ८, ३, ९७
 कुं^१ श्रुपा ८, २४, याशि २, ९४
 ✓कुश् पाधा चुरा उभ भाषायाम्
 ✓कुक् पाधा म्ना आत्म आदाने
 कुक^२- -का बौश्रौप्र १७ : १६
 कुकुन्दुर- पाउभो २, ३, ५२.
 कुकुन्ध^३- -न्धाः^१ अश्र ८, ६, अश्र ३, ४, १
 कुकुभ^४- > ँ-देश- -शम् वाश्रौ
 १, ६, ४, १९
 कुकुभ- पाउभो २, २, १३६
 कुकुर- पाउ १, ४१
 कुकुस^५- -सम् अप ३६, ४, २,
 कुकूरभ^६- -मा अश्र ३, ४, १^१
 कुकूल- पाउभो २, ३, ११२
 कुक्कुट^७- पाउभो २, २, १०६,
 पाग २, ४, ३१, ६, २, १२५,
 ३, ११६, -ट काश्रौ २, ४,
 १५^१, हिश्रौ १, ५, ५४^१,
 आपध १, १७, ३२, बौव १, ८,
 १२, ९, १४, हिध १, ५, ६३,
 श्रुश्र १, ५७^१, याशि २,
 ६२^२, -टाः अप २०, ६, ३

कुक्कुटी-> कौक्कुटिक-
 पा ४, ४, ४६
 कुक्कुटा, टय(ट, टी) लावाग]-
 अ)ण्ड- पावा ६, ३, ४१
 कुक्कुट-कन्थ- पा ६, २, १२५
 कुक्कुट-सूकर- -रम् बौध १, ५,
 १२९, -राणाम् आपव १, २१,
 १५, हिध १, ६, ४५
 कुक्कुटा(ट-अक्षि>)क्ष-(>कौक्कु-
 टाक्षि- पा) पाग ४, १, १४६
 कुक्कुटा(ट-अ)ण्ड- पावा ६, ३,
 ४१
 कुक्कुटाण्ड-प्रमाण- -णम्
 आमिग ३, ११, १ ४
 कुक्कु(ट>)टा-गिरि- पा ६, ३,
 ११७
 कुक्कुर^०- पाउ १, ४१
 कुक्क^१- > कौकायन- -ना. बौश्रौप्र
 १७ १७
 कुक्का(क्त-आ)भिवेश्यौ (श्य-श्रौ)-
 जायन- -नानाम् आपश्रौ २४,
 ७, १^१
 कुक्ष- पाउ ३, ६८
 कुक्षि^२- पाउ ३, १५५, पाग ४,
 २, १२७^१, -क्षि. वैताश्रौ
 १७, ९. कौस् २४, १९^१,
 अश्राय २, ५^१, अप १८^३, १, ७,
 १^१अश्र ७, १११, ९, ७, -क्षिम्
 आमिग ३, ५, १ १९, बौपि १,
 २ : ५, वाग १६, ६, -क्षी
 आश्रौ ६, ३, १, अप ४१, ६, ५,

-श्रौ वैश्रौ २, ६. ११, आमिग
 ३, ५, ७ ९, वैग ३, १४ ३,
 ६, ३ २, ७, ४ : ६, -क्ष्यो-
 बौपि १, ६ ४
 कौक्षक- पा ४, २, १२७
 कौक्षय- पा ४, ३, ५६
 कौक्षया(य-अ)नि- -क्षिम्
 नाशि २, ८, १
 कौक्षयक- पा ४, २, ९६
 कुक्षि-भरि- पावा ३, २, २६
 कुक्षिल^३- -ला अश्र ३, ४, १^१
 कुगतिप्रदि- -किम्- द्र
 कुङ्कण- पाउभो २, २, १२६.
 कुङ्कुम^४- पाउभो २, २, २५४, पाग
 २, ४, ३१, -सम् विव ६६, ९.
 कौङ्कुम^५- -मा अप ५२, ३, २
 कुङ्ग- पाउभो २, २, ६६
 ✓कुच् पावा म्ना पर शब्दे तारे,
 सपर्वन-कौटिल्य-प्रतिष्ठम्-विलेख-
 नेषु, तुदा. पर सकोचने
 कुचित- पाउ ४, १८६
 कुचर^६- -र आश्रौ २, १०, १४,
 आपश्रौ ११, ९, १, हिश्रौ ७, ५,
 ३५, अप १, ३६, ४, या १,
 २०^१, श्रुपा ५, ३७, अश्र ३,
 ४, १.
 कुचवार- (> कौचवार-, १कौच-
 वार्थ- पा)पाग ४, १, १०४^१,
 ३, ७६^१
 कुचुक^७- (> कौचुक- पा) पाग ५,
 १, १३०

a) = कवर्ग-। b) = पृथिवी-। c) = भौम-। उस । d) तु. पासि, कुञ्ज- इति भाण्डा । e) स्वार्थे अण् प्र । f) = [वर्ण-विशेष-] यम-। g) = ऋषि-विशेष । व्यु ? । h) वैप १ द्र । १) पामे. वैप १, १०८१ । १ द्र । j) = शरीराङ्ग-विशेष-। व्यु ? । k) अर्थ व्यु च ? । l) कुक् (शब्द-) + (✓अट् >) अट- इति पागम. । m) पामे वैप १, ११२३ p द्र । n) तु पागम. । o) = श्वन्-। व्यु ? । p) ँश्यो इति पाठ ? यनि शोषः (तु सपा हिश्रौ २१, २, १० तुथ्याभिवेश्यौ इति पामे) । q) = देश-विशेष-। r) नाप । व्यु ? । s) विर. । इवार्थे अण् प्र [पा ५, ३, १०७] । t) कूवाचर- इति अन्य इति पागम, कूच इति भाण्डा प्रम् । u) = जनपद- ।

कुचेल- प्रभृ किम्- द्र
 ✓कुञ्^१ पाधा भ्वा पर स्तैयकरणे
 कुञ- रकु- द्र
 ✓कुञ्च् पाधा भ्वा पर कौटिल्याल्पी-
 भावयोः
 कुञ्चित- > कुञ्चित-केश-श्मश्रु-
 -श्रुः चव्यू ४ : १३
 ✓कुञ्ज् ✓कृञ् द्र
 १कुञ्ज^२- पाउभो २, २, ८८, पाग २,
 ४, ३१
 कुञ्ज-र^३- पाग ६, ३, १०८^४, पावा
 ५, २, १०७, -र माशि १, १०,
 नाशि १, ५, ४, -रम् श्यामिगृ २,
 ५, १ ४६, जैगृ २, ९ ३४, अप
 ३०^३, २, ७, ६८, ५, ३०, -रस्य
 विध ७८, ५३, -रा अप७१, ३, ५
 २कुञ्ज^५- (> कौञ्जायन- > ण्य- पा
 ५, ३, ११३ पा) पाग ४, १, ९८
 ✓कुट^६ पाधा तुदा पर कौटिल्ये,
 चुरा आत्म छेदने
 कुटित- पाउ ४, १८६
 १कुटिल- पाउवृ १, ५४, -लानि या
 २, २८, -ले काश्रौ २१, ४, १९
 १कौटिल्य- -ल्ये पा ३, १,
 २३
 कौटिल्य-बहुल- -ला.
 अप ७०^३, १६, ३
 कुटिल-गामि(न >)नी- नी
 या ९, २६
 कुटिलि(क >)का- > कौटि-
 लिक्- पा ४, ४, १८
 १^१कुट^७- -रस्य अप ४८, ११५, १३१;

निघ ४, २, या ५, २४^८
 २कुट^{११}- पाग २, ४, ३१
 ३कुट^{१२}- (> कौट्य-, > कौटायन-
 पा यक्) पाग ४, १, १५१,
 ११०
 ४कुट^{१३}- > कुट-भार- > कौटभा-
 रिक्- पाग ५, १, ५०.
 कुटज^{१४}- -जस्य माशि ४, २^१
 कुटज-भार- > कौटजभारिक्-
 ४कुट- टि द्र
 कुटप- पाउ ३, १४२
 कुटरु^{१५}- पाउ ४, ८०, -^१रु^{१६} आपथौ
 १, २०, २, भाश्रौ १, २१, ९,
 माश्रौ १, २, २, १७, वाश्रौ १, २,
 ४, ५०, हिश्रौ १, ५, ५४, -रुम्
 वाश्रौ १, २, ४, ४, ४, ५०, हिश्रौ
 १, ४, ३३, ४, ४, ४५
 कुटरवे(रु-अ)न्त^{१७}- -न्तानि माश्रौ
 १, २, १, ४
 कुटाकु पाउभो २, १, ४१
 कुटि-^{१८}टी^{१९}- पाउ ४, १४३, पाग ४,
 ३, १४२, -टिम् आपथ १, २४,
 ११, २१, हिध १, ६, ६०, ६९,
 -टी आपगृ १९, १४, भागृ २,
 ८ ४, हिगृ २, ८, २, -ट्याम्
 वाध १०, २३, -टीम् बौध २,
 १, ३, ३, १, १३
 कौट- > कौट-तक्ष- पा ५, ४,
 ९५
 कुटी-कुट- पाग, पावाग २, ४, ११
 कुटी-गु^{२०}- (> कौटीगव्य-, >
 कौटीगव- पा) पाग ४, १,

१०५, २, १११
 कुटी-चक^{२१}- -का वैव १, ९, १, २
 कुटी-मय- पा ४, ३, १४२
 १कुटी-र- पा ५, ३, ८८
 २कुटिल^{२२}- पाग ४, १, १०५
 २कौटिल्य- पा ४, १, १०५, -ल्याः
 वौश्रौप्र ६ ३
 २कुटीर^{२३}- (> कौटीर- पा) पाग ४,
 ३, १३४
 कुटुम्ब- -म्बम् अप ६७, १, ५, वाध
 १७, १९, शौव १५८, २७०;
 -म्बे आपथ २, ७, २, विध ६७,
 ३७, हिध २, २, २३
 कौटुम्ब- -म्बम् आगृ २, ६, १०.
 कुटुम्ब-क- -क. अप ६९, ८, ३.
 कुटुम्ब-व्यवहार- -रान् शध २७०
 कुटुम्बा(म्ब-अ)र्थ- र्थे विध ६, ३९.
 कुटुम्बिन्- -म्बिन आपथ २, ७, १;
 हिध २, २, २२, -म्बिनम् आपथ
 २, ६, ५, हिध २, २, ५ -म्बिना
 विव ६, ३८, -म्बिनौ आपथ
 २, २९, ३, हिध २, ६, १६;
 -म्बिभ्य विध ५२, २९
 कुटुम्बिनी- पावा, पावाग ४, २,
 ५१^२
 ✓कुट्ट^{२४} पाधा चुरा पर छेदनभर्त्स-
 नयो, आत्म प्रतापने
 कुट्ट- > कुट्टिम्- पाग २, ४, ३१.
 कुट्टयत्- -यन्त अप ६४, ७, ९
 कुट्टाक- पा ३, २, १५५
 कुट्टमल- पाउ १, १०९
 १कुठार- पाउभो २, ३, ४३

- a) या ७, १२ परामृष्ट द्र । b) = लतादिपरिवेष्टित-स्थान-, हस्ति-दन्त- । व्यु. १ । c) वैतु पागम ।
 < २कु- + ✓जू इति । d) तु पागम । e) व्यप । व्यु. । f) या ६, ३० पा १, २, १ परामृष्ट द्र ।
 g) वैप १, ११२४ ० द्र । h) अर्थ व्यु. च १ । i) = घट- वा हलाङ्ग-विशेष- वेति पागम । j) तु पागम ।
 कुटज- इति भाण्डा प्रभृ. । k) व्यु १ । l) = वृक्ष-विशेष- । m) वैप १ द्र । n) पाभे. वैप १, ११२३ p द्र ।
 o) विप । बस । p) = शाला- । व्यु । q) = संन्यासि-विशेष- । उस उप वर्तति < ✓चक् [तुम्] ।
 r) उदुबि(न >)नी- इति भाण्डा । s) तेननिर्वृत्तयः म्प प्र (पावा ४, ४, २०) ।

२कुठार^a- (>कौठार- पा) पाग
४,१,११२
कुठारि(क>)का^a-(>कौठारिकेय-
पा) पाग ४,१,१२३
कुठि- पाउ ४,१४४
कुठेर- पाउ १,५८
✓कुण्ड पाधा तुदा पर बाल्ये
कुण्डप^b- पाग २,४,३१
कुण्डव^c- वै वेज्यो २४
कु(डि>)डी-> कुडी-कुड^d- पाग
२,४,११
कुण्डम्ब^e->म्ब-भार- रम् आमिग
२,७,१०.३
कुण्डव^f- वम् वैश्री १,७ ५
कुण्डमल^g- पाग ५, २, ३६, -लम्
विध ४३, १४
कुण्डमलित- पा ५,२,३६
कुण्ड्य,ड्या^h- पाउवृ ४, ११२^b,
पाग ४,२,९५
कौण्ड्येयक- पा ४,२,९५
कुण्ड्य-मूलⁱ- लात् वैग ३,१६ ११
कुण्ड्यल(प्र>)मा^j- श्मा कप्र १,
१,१५
✓कुण् पाधा तुदा पर शब्दोपकर-
णयो, जुटा. पर संकोचने
आमन्त्रयो च
कुणप^k- पाउ ३, १४३, पाग २, ४,
३१^k, ४,१,८६^{b,d}, -पम् तैप्रा
१३,१२^k
कौणप- पा ४, १,८६^d

कुणप-गन्ध->°न्धिन्- -न्धिन
अप ६४,७,१०
कुणप-रेतो-मूत्र-पुरीषो (ष-उ) पह-
त- -तानाम् शंघ १७९
कुणपतन्त्र^l->कौणपतन्त्रि- -न्त्रि
बौश्री २०,१३ २६
कुणपदी- कुणपदी- टि द्र.
कुणव^m- पाउना ३,१४४
†कुणारुⁿ- -रु अप ४८,१००, -रुम्
निघ ४,३, या २,२, ६,१५
कुणाल- पाउ ३,७६
१कुणि^o-> कुणि-प(द>)दी^o-
पाग ५, ४,१३९
२कुणि^p- -णि बौपि ३,५,२
कौण्य^q- -य. तैप्रा १३, १२^k,
-यस्य^p चाअ ४१: ९
कुणिन्द- पाउ ४, ८५
कुण्ट^{b,d}- पाग २,२,३८^p
✓कुण्ट^r पाधा स्वा पर प्रतिघाते
कुण्ट- पाउभो २,२, ११३, पाग २,
२,३८^p, ५,२,१२७^d
✓कुण्ड^s स्वा.आत्म दाहे, पर वैकल्ये,
जुटा पर रक्षणे
१कुण्ड^t- पाउ १, १५५, पाग ५,
२,९७, -ण्डम् बौश्री १७,२१
२,३३, शागृ २,७,२८, वैगृ १,
८ १४, अप २३,१०,३,२५,१,
१,२,९, १०, ३०^r,१,३, ५,७,
८, १२-१४, वैध १,६, ५, पा
६, २,१३६^t, -ण्डस्य अप २१,

५,४, -ण्डानि बौश्री १७,२१:
१, अप २५, १, ४, -ण्डे
आपश्री १०,५,१६, भाश्री १०,
४, १, हिश्री १०, १, ३५,
आमिगृ १, ६, ३ ३८, वैगृ १,
८: ५
कुण्डी- पा ४,१,४२
कुण्ड-कर्ण^u- -र्ण सु २३,४
कुण्ड-पायिन्->कौण्डपायिन्^v-
-नस्य लाश्री १०, ११, १, -ने
लाश्री १०,१०,६,१६,१२
कौण्डपायिनी^w-
-न्य बौश्री २४,४ ७
कौण्डपायिन्-तापश्चित-
-तयो. द्राश्री १, ४, २८, लाश्री
१,४,३३
कौण्डपायिन्-सारस्वत-
-तयो द्राश्री १, ४, ३०, लाश्री
१,४,२६
कौण्डपायिनी(य>)
या^x- यासु बौश्री २३,१४.२२.
कौण्डपायिन्य^y- -न्ये
बौश्री २१,१: ११
कुण्डपायिनां-सत्र- -त्रम्
आपश्री २३,१,४.
कुण्डपायिनाम्-अयन- -नम्
आश्री १२,४,१, काश्री २४,४,
२१, बौश्री २६,२५: १, हिश्री
१८,१, ४, -नस्य आश्री १२,
६, ११, शाश्री १३, २४, ११^z,

a) व्यप । व्यु ? । b) अर्थः व्यु च ? । c) = परिमाण-विशेष- । व्यु ? < ✓कुण्ड इति अभा ।

d) तु पागम । e) = कुण्डम्ब- । f) = कुण्डव- । g) = कुण्डमल- । h) कुण्ड्या- इति पाका ।

i) पूष = भित्ति- । j) वैप १ द्र । k) कुसप- इति [पक्षे] पासि । l) = आचार्य-विशेष- । व्यु ? ।

m) = कुणप- । n) विप । व्यु ? नाप. > = विकलभुज-पुरुष- । o) °णप° इति पाका । p) °ण्येयणस्य इति

पाठ ? यनि शोध (तु तै २,३,८,१) । q) कुण्ट- इति भाण्डा प्रसृ । r) = ✓गुण्ड । s) = गर्त-,

तदाकारपात्र-विशेष- । वैप १ द्र । t) = वन- । u) = सर्प-विशेष- । v) विप । तस्येदमीयः अण् प्र ।

w) = कुण्ड-पायिनाम्-अयन- । x) विप । तस्येदमीय. छ>ईय प्र । y) तस्येदमीय. न्यः प्र ।

z) कौण्ड इति पाठः ? यनि. शोधः (तु ०) ।

मीसू ८, २, २९, -ने आपश्रौ
२३, १०, ६, हिश्रौ १८, ४, २,
बौय १, ६, ३०, -नेन बौश्रौ
१७, २० १
कुण्ड-पाठ्य^३- पा ३, १, १३०,
-स्ये पावा ३, १, १३०
कुण्ड प्रतिकरूप- -पा. काश्रौ २४,
४, ४०, -वै लाश्रौ १०, १२,
१३
१ कुण्ड-ल- पा ५, २, ९७
कुण्ड-सक्ति- -क्तिषु अप ३०^३,
१, १४
कुण्डा(रड-आ)कृति- -ति अप २१,
५, ४
कुण्डा(रड-आ)द्युदात्तत्व- -त्वे
पावा ६, २, १३६
२ कुण्ड^३- -ण्डः वैध ३, ११, ४
कुण्डा(रड-आ)शिन्- -शी शध
३७७ ३, विध ४५, २४
कुण्डाशि-सोमविक्रय्य (यि-अ)
गारदाहि-गरदा (द-अ)वकीर्णि-
गणप्रेष्या (व्य-अ) गम्यागामि-
हिस्त्र-परिविक्ति-परिवेत्त-पर्या-
हित-पर्याधातृ-त्यक्तात्म-दुर्वाल-
कुनखि-श्यावदच्छिव (त्-धि)त्रि-
पौनर्भव-कितवा(व-अ)जप-राज-
प्रेष्य-प्रातिरूपिक-शूद्रापति-निरा-
कृति-किलासि-कुसीदि-वणिक-
शिल्पोपजीवि-ज्यावादित्रताल-
नुत्तगीतशील- -लान् गौध १५,
१७
३ कुण्ड^३- (> कौण्डायन^३- पा)
पाग ४, २, ८०

कुण्डप^३- पाग २, ४, ३१
२ कुण्डल^३- पाठवृ १, १०४, पाग २,
४, ३१, ४, २, ८०^{२०}, पावाग ५,
२, १०३^३, -लम् वैश्रौ ११,
५ ७, आमिगृ ३, ३, २ १९,
माशि १६, ११, -लाभ्याम् वैगृ
२, १५ ३, विध १, ४२, -ले
द्राश्रौ १२, ४, १३, लाश्रौ ४,
१२, ८, आगृ ३, ८, १, १०,
आमिगृ २, ६, ६ १९, २०,
हिगृ १, १०, ६, ११, १, २, विध
७२, १६
कौण्डल- पावा ५, २, १०३
कौण्डलिक^३- पा ४, २, ८०
कुण्डल-युग- -गानि बौगृ १, २,
७, ६१
कुण्डल-युग्म- -गम् आमिगृ २,
६, ६ २
कुण्डल-र- पा ४, २, ८०
कुण्ड(ल>)ला-क (र्ण >) णी^३-
-णी ऋत ५, १, ३.
कुण्डला(ल-आ)कृति- -ति याशि
१, ६२
कुण्डलिन्- -लिनम् भाश्रौ १०,
२, ७, विव १७, १०, -ली अप
२४, ४, ४
कुण्डलिनी- पावा, पावाग ४,
२, ५१
१ कुण्डिन^३- पाठवृ २, ४९, पाग ४,
१, १०५^६, २, ९५, १११^६,
-नाः^३ बौश्रौ ४६ : १, ४, पा
२, ४, ७०, -नानाम्^३ आश्रौ
१२, १५, २, आपश्रौ २४, १०,

७, हिश्रौ २१, ३, १४
१ कौण्डिन- पा ४, २, १११
कौण्डिनैक- पा ४, २, ९५
१ कौण्डिन्य- पा ४, १, १०५,
-न्य आश्रौ १२, १५, २,
आपश्रौ २४, १०, ७, बौश्रौ १४
४६ ५, हिश्रौ २१, ३, १४,
वैध ४, ६, ३, -न्य तैप्रा १७,
४, -न्यस्य शुश्र २, ४२८,
तैप्रा १८, ३, १९, २, -न्यानाम्
वैध ४, ६, ३, -न्याय आमिगृ
१, २, २ २९, बौगृ ३, ९, ६;
भागृ ३, ११ २, हिगृ २,
२०, १
कौण्डिन्यायन- -न अप
१, ३, १
कुण्डिन-वत् आपश्रौ २४, १०, ७;
बौश्रौ ४६ : ६. हिश्रौ २१,
३, १४, वैध ४, ६, ३
२ कुण्डिन- (> कौण्डिन-)
२ कुण्डल- टि द्र
कुण्डिनी- (> कौण्डिन्य-)
करिडनी- टि द्र
कुण्डोदरायण^३- णा बौश्रौ १४
४७ . ४
कुण्ड्या^३- (कौण्डेयक- पा) पाग
४, २, ९५^३.
कुण्ड- पाठभो २, २, १२०
कुतप^३- पाठभो २, २, २१२, पाग
२, ४, ३१, पावाग ५, २, १०३;
-प बौगृ २, ११, ६३, वाध
११, ३५, ३६६, -पम् कागृ
४, ८, ५, ९, -पस्य वैगृ २, २ :

a) वैप १ द्र । b) = [जीवति पर्यौ जारज-] पुत्र- । व्यु. ? । c) अर्थ व्यु. च ? । d) = देश-
विशेष- ? । e) तु पागम. । f) = ऋतु-विशेष- । g) = आभरण-विशेष- । व्यु. ? । h) २ कुण्डिन- इति
पाका । i) विप. । बस । j) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । k) कण्डिनी- टि. द्र । l) बहु. < कौण्डिन्य- ।
m) < कुण्डोदर- इति । n) व्यप (= [आन्ध्रदेशीया-] नदी-) । o) = काल-विशेष- (दिवसाष्टमभाग-तु पागम.),
पर्वतीयछागरोमनिर्मितवस्त्र- । व्यु. ? < √ कु इति पाठभो, < कु- + √ तप इति पागम ।

३, -पानाम् बौध १, ५, ३३,
विध २३, २०
कौतप- पावा ५, २, १०३
कुतप-सौश्रुत^३- पावा, पावाग २,
१, ६९
कुतस्त^४- > कौतस्त- -स्तौ बौश्रौ
१७, १८ ६^{२०}, बौग ३, १०, ६^{१०}
कुतुक^५- पाग ५, १, १३०^०
कौतुक- पा ५, १, १३०, -कम्
आमिग २, ३, ५ १, -कानि
आज्यो ६, ५, -के माग १, ९, ३०
कौतुक-तन्तु- -न्तुम् आमिग २,
३, ५ ३
कौतुक-बन्ध- -न्धम् आमिग
२, ३, ५ २
कुत्^६- > कुतप- पा ५, ३, ८९
कुत्हल- (> कौत्हल्य- कौत्हल-
कुत्हलित- पा यक्र) पाग
५, १, १२४, १३०, २, ३६
कुत्हलि (न् >) नी^७- -नी बौग
२, १, १९
कुत्र किम्- द्र
कुत्वविज्ञानार्थ- २कु- द्र
✓ कुत्स पाधा चुरा आत्म अवक्षेपणे
कुत्सन- -नम् वाध १२, ४१, -नात्
पावा ८, १, १७, -ने पा ४,
१, १४७, ८, १, ६९, -नै पा
२, १, ५३
कुत्सन-प्रावीण्य- -ण्ययो पा
४, २, १२८
कुत्सना (न-आ) भीक्ष्य-
-क्ष्ययोः पा ८, १, २७
कुत्सनाभीक्ष्य-ग्रहण- -णम्

पावा ८, १, २७^२
कुत्सयित्वा आपध १, १७, ४, हिघ
१, ५, ३६
कुत्सा- -त्सायाम् या ३, १८,
पा ४, १, १६७
कुत्सित, ता- -तम् या १, २०, ५,
२४, पावा ४, १, १६२, -ता
सुधप ८८ ६, -तानि पा २,
१, ५३, -ते पा ५, ३, ७४, पावा
३, २, ९३, -तै पा २, १, ५४
कुत्सित-ग्रहण- -णम् पावा ५,
३, ४७.
कुत्सित-नामन्^८- -मा वृदे १,
३३
कुत्सिता (त-आ) दि- -दीनाम्
पावा ५, ३, ७४
कुत्सितादि-वचन- -नम्
पावा ५, ३, ७४
कुत्सितादि-समानाधिकरण-
-णात् पावा ५, ३, ७४
कुत्सिता (त-आ) र्थ- > ०र्थीय-
-यम् या ५, ७
कुत्सि (न् >) नी- -नी बौपिरे, ५, २
कुत्स^९- पाग ४, १, ११०^१, २, ८०^६,
-त्सः माश्रौ २, १, ३, ५१^१, अप
४८, १०४^म, ऋग्र, निघर, २०^म,
या ३, ११^१ ६^म, ७, १०^०, -त्सम्
ऋग्रा ७, ३४^म, -त्सस्य शुभ्र २,
२५५, ३५६, -त्सा^१ लाश्रौ ७,
८, १९, पा २, ४, ६५, -त्सात्
ऋग्र ३, २१, वृदे ३, १२५,
-त्सानाम्^१ आपश्रौ २४, ८, १,
-त्साय या ४, २५^१, -त्से वृदे

३, १२८, ४, १८, -त्सेन वृदे ५,
२८
१ कौत्स- -०त्स आपश्रौ २४,
८, १, -त्सः आश्रौ १, २, ५;
४, ६, ७, १, १९, काश्रौ ७, ६, २^१;
बौश्रौ ६, १४ : २२, वैश्रौ १२,
१५ - ३^१, द्राश्रौ १३, ४, १५;
लाश्रौ १०, २, ९, निस् २, ९ :
५, ३, ११ - ४, ५, ९ ९, ८,
१० - ७, गोश्र ३, १०, ४, कप्र
२, ८, २४, आपध १, १९, ४;
हिघ १, ५, १०६, ऋग्र, या १,
१५, -त्सम् हिश्रौ ७, १, ७२,
अप १, ३, १, -त्सस्य बौश्रौ ६,
१५ ७, -त्सा. बौश्रौप्र २२ :
१, -त्सात् आपश्रौ १०, २०,
१२^१, बौश्रौ ६, १५ ८, भाश्रौ
१०, १३, ७, -त्साय बौश्रौ ६,
१५ : ११.

कौत्स-हारीत- -तौ आपध
१, २८, १, हिघ १, ७, ३७.
२ कौत्स^{१०}- -त्सम् क्षुसू १, ५ :
१९, २, ३ १५, ३, ९ - ९^१;
लाश्रौ ७, १, १, ९, १३, निस् ८,
१ : ३१, अप ४२, २, १०;
वाध २६, ५, शुभ्र ४, १६९;
-त्सस्य क्षुसू १, ७ : ६, निस्
४, १० : ११, १०, २ - १८;
-त्से लाश्रौ ७, १, ९

कौत्स-कौञ्च- च्चाभ्याग् क्षुसू
१, ५ - २६.
कौत्स-ब्रह्मणसामन्- -सभ्याम्
क्षुसू २, ३ - २१

a) व्यप । मलो कस । b) = सर्प विशेष- । व्यु १ । c) ०त्सुतौ ०स्तुक इति यक्र पाठौ ? यनि शोधः
(तु सप्र ता २५, १५, ३) । d) नाप । व्यु १ । e) कतक- टि. द्र । f) = चर्मनिर्मित-नैलभाजन- । व्यु १ ।
g) = मातृ-विशेष । व्यु १ । h) विप । बस । i) वैप १ द्र । j) = ऋषि-विशेष- । k) अर्थः ? ।
l) सप्र कुत्सः < > कौत्सः इति पाप्मे । m) = वज्र- । n) सङ्कत = वज्र- । o) = देवगणाऽन्यतम- ।
p) बहु < कौत्स- । q) = साम-विशेष-, सुहृ-विशेष- ।

कौत्स-वैमद- -दम् ऋषा ८, २२	५०, २२	५१
कौत्सायन- पा ४, १, ११०, २, ८० ^a	कु-ध- ३ कु- द्र	✓कुन्द्र ^a पाधा चुरा पर श्रुतभाषणे.
कौत्स्य ^b -> कौत्स्यौ (त्स्य-श्रौ)	कुनखिन्- किम्- द्र	✓कुप् ^c पावा दिवा पर क्रोधे, चुरा.
शनम- -सौ ऋष २, ५, ३१	? कुनखिन् ^d आमिष्ट ३, ११, १:९	उभ भाषायाम्, कुपः सु २८, ५
कुत्स-वत् आपश्रौ २४, ८, १	कु-नामन्- किम्- द्र.	कोप- -प. पा १, ४, ३७, -पम् अप
कुत्स-सूक्त- -केन अप १९, ४, १	शकुन्त ^e -> कु(न्त्य>)न्त्या ^f -	५३, ४, ३, विव ७९, १९, -पाव.
कुत्सस्या(स्य-अ)धिरथीय ^g - -यम्	-न्त्या वृदे ८, १०१	शव १२
क्षुस् ३, १०: ३१	रकुन्त- पाठभो २, २, १४७	कोप-भर्त्सन- -नयो पावा ८, १, ८
✓कुथ ^h पाधा दिवा पर पूतीभावे, क्रया पर सश्लेषणे	कुन्तल- पाठभो २, ३, ९९	कोपन- -ना अप ६८, १, ४३.
कुथ- पाठना २, १२	कुन्ताप ⁱ - -पम् आश्रौ ८, ३, ७, शाश्रौ	कोपित- -ता जैष्ट २, ८: १८; बौध ३, ९, १०
कुथहारि ^j - -रिम् बौध ३, १, ८	१२, ६, १३, १३, ७, वैताश्रौ	कुप ^k - -पे काश्रौ ५, १०, १८.
कुथुम- पाठभो २, २, २५२	३२, १९, -पे वृदे ८, १०१	कु-पथ- किम्- द्र
कुथुमिन् ^l -> कौथुम- पावा ६, ४, १४४, -मा चव्यू ३ ५-७	कुन्ति ^m - पाठभो २, १, १९०, -न्त्य प	कुपव- पाठभो २, ३, १३४
कौथुम-लौकाक्ष- पाग ६, २, ३७	अप १, ८, ६	कु-पान- किम्- द्र.
कु-दामन्- किम्- द्र	कौन्त-> शकुन्ती ⁿ - पा ४, १, १७६	कुपिञ्जल- (>कौपिञ्जल-) ररुपि- ञ्जल- द्र.
कुहाल ^o - पाग ५, ४, १३८, -लेन	कुन्ति-सुराष्ट्र- पाग ६, २, ३७	? कुपिन ^d - -नै माश्रौ ६, १, २, १७.
बौध ३, २, ३ ⁱ	रकुन्ती ^d - (>कौन्तायनि ^o -) पा ४, २, ८०	कुपिन्द- पाठ ४, ८६
कौहा(ल>)ली ^b - -ली बौध	✓कुन्थ ^h म्वा पर हिंसासंज्ञेशानयो, क्रया. पर सश्लेषणे	कु-पुत्र- , कु-पुरुष- किम् द्र
३, १, ५, २, ३ ⁱⁱ	कुन्द ^a - पाठवृ ४, ९८	कुप्तु ^x - -प्त्वाम् आपष्ट २३, ९, भाष्ट २, ३२ १, हिष्ट १, १७, ५ ^{yy} .
कुहाल-पाद- पा ५, ४, १३८	कुन्द-गोक्षीर-गौ(र>)रा- -राभि	कुप्य ^z - -प्यम् पावा ३, १, ११४.
कुद्रि ¹ - पाठभो २, १, २४९, पा, पाग	अप ६८, १, ३३	कुप्य-द्रव्य- -न्यम् विध ७८, ३१.
२, ४, ६३, ४, १, १३६ ¹	कुन्द-पुष्पा(ष्प-आभा>)भ- -भा.	कुप्र- पाठना २, २८
कौद्रेय- पा ४, १, १३६, -या	अप ५२, १३, ४	कुबेर ^{aa} - पाठ १, ५९, पावाग ८, ४, ३९, -रः आश्रौ
बौश्रीप्र २७. ८	कुन्द-सप्रभ- -भ माशि १, १३, नाशि १, ४, १	१०, ७, ६, शाश्रौ १६, २, १६, अप ३६, १, ९,
कुद्रीची ^k -> ची-शफ- -फान् कौस्	कुन्दL, न्दु ¹ म- पाग ६, २, १३४.	
	कुन्दुमि(न् >)नी ^u - पाग ४, २,	

- a) =देश-विशेष-² । b) साऽस्यदेवतीय प्र । c) =साम-विशेष- । d) अर्थः व्यु. च² ।
e) =दात्र- इति Buhler, भाष्यं च । f) =ऋषि-विशेष- । व्यु² । g) =खनन-साधन- । व्यु² । h) =वृत्ति-
विशेष- । i) व्यप. । व्यु² । j) विश्रि- इति [पक्षे] भाण्डा । k) =गुह्य-² (तु. संस्कृती) । व्यु² ।
l) पाठः² कुनखिनः इति शोध. संभाव्यते । m) =कुन्ताप- । व्यु² । n) विप (ऋच्-) । o) =सूक्त-
विशेष- । व्यु² । p) =जनपद-विशेष- । व्यु² । q) बहु < कौन्त- । r) व्यप. । s) =लता-,
तत्पुष्प- । व्यु² । t) तु भाण्डा. । u) तु. पागम. । v) या ३, १९ पराष्ट्र द्र. । w) = [वेणुनि-
मित्तसाजनद्रययुक्त-दण्ड-विशेष-, तुला-दण्ड- । व्यु² । x) =चुल्ली- । व्यु² । y) कुप्त्वा इति पाठ-² यनि. शोधः²
z) नाप. । व्यु² पाप्र < ✓शुप् इति । a¹) वैप १ द ।

अत्र ८, १०(४)†, २२; अप्रा
३, ४, १†, वंवि २, ४†, -रम्
वैगृ १, ४ ७†, -राणाम्^a अप
५५, ५, ४, -†राय भाग १, ८
१, २, ५ १४, वैगृ ५, ३
१९, -रे अप ५५, ५, ३, ७१,
१७, २
१ कौबेर- -रा: अप ५५, १, ४,
-रान् अप ५५, ५, १.
२ कौबेर^b- -रौ वैगृ ३, १७ ७
कौबेरी^c- -री अशा १६, १,
-रीम् अप ६८, ३, ९, अशा
१७, ३, -र्याम् अशा १८-१९, ४
†कौबेरक^d- -का. आपमं २,
१३, ११, आमिगृ २, १, ३:
१७^e, भाग १, २३. ०९, हिगृ
२, ३, ७
कुबेर-केशव- पाग २, २, ३१^f
कुबेर-वन- पावा ८, ४, ३९
कुबेरि (क>) का^g- (> कौबेरि-
केय- पा) पाग ४, १, १२३
कुब्ज^h- पाउभो २, २, ८८, पाग ५,
४, ३ⁱ, -ब्ज बौश्रौ १५, ३७ २,
आमिगृ ३, १०, १: ५, बौपि
३, ५, २, या ७, १२
कुब्ज-क- पा ५, ४, ३
कुब्ज-कि, कै^jरात- पा, पाग २,
४, ११
कुब्ज-खल्लै (ज-ए) क्लोचन- -ना
विध ४५, ३२
कुब्ज-वामन- पा, पाग २, ४, ११

कुब्ज-षण्ड-पद्गु-दरिद्र- -द्वा
शंघ ३७६
कुब्जा(ब्ज-आ)अ^k- -अत्रे विध ८५,
१५
कुब्ज- पाउ २, २८
कु-ब्रह्म-, ब्रह्मन्- किम्- द्र
√कुम् (क्षये), कोभति अप ४८,
४२†
कुम् पाग १, ४, ५७
कुमण्ड^l- > कौमण्ड- -ण्ड बौश्रौप्र
१२. ०४, वैध ४, ४, ३, -ण्डा
बौश्रौप्र १ ३, १२: १, २
कौमण्ड-गौतमण्ड-गौतम-
-मानाम् वैध ४, ४, ३
कुमण्ड-वत् बौश्रौप्र १२ ४, वैध
४, ४, ३
√कुमार^m पाधा चुरा पर क्रीडायाम्
शकुमारⁿ- पाउ ३, १३८, पाग ५, ४,
३^o, -०र वाधूश्रौ ३, ९४ १२,
१६, १८, -र कौगृ १, १७,
२×४, पागृ, ऋअ^p २, ५, २, ७,
१०२, १०, १३५, वृदे ३,
१४५^q, या ५, १९, पा ६, २,
२६, -रम् आश्रौ २, ७, १३†,
शाश्रौ, †आपमं २, १३, १^r,
-रस्य कौगृ ३, १, ३, पागृ, -रा
आपश्रौ १, ११, २, बौश्रौ,
-राणाम् आमिगृ २, ५, ३ ४३,
बौगृ ३, ७, २७, अप ७१, १७,
६, मीस् ११, १, ५१^s, -रान्
वाधूश्रौ ४, ७५ २१, ३३,

शागृ २, १४, २१, आपगृ १९,
१, गोगृ ३, २, ६, हिघ २, १,
६५^t, -रे वैगृ ३, १४: १०, ६,
४ ५, जैगृ १, ८-१, -रेषु
अप ५०, ३, ४, ७०^u, १०, ७;
-रै भागृ १, २१ १३, -रौ
वृदे ७, ६.
कुमारी- पाग ५, २, ११६,
-०रि शाश्रौ १२, २२, १^v†;
-री माश्रौ ६, २, ३, ४, द्राश्रौ;
-रीणाम् कौगृ १, २१, २०,
कागृ, -रीम् कश्रौ २०, ८, २५,
आगृ, -रीषु अप ७०^w, १०, ७,
७१, १७, ६, -र्यै काश्रौ ५,
१०, १५, आपश्रौ, -र्या आपगृ
१४, ११, भागृ १, २२ ३,
-र्या पागृ १, ४, ५, ६, १, आपगृ,
-र्याम् बौश्रौ २, ५: ११†, आपध
२, २६, २१, हिघ २, ५, २१६;
पा ६, २, ९५, -र्यै आगृ १, १५,
१०, १६, ६, १७, १९, कौगृ १,
१, ८, ८, १, १६, ११, शागृ १,
५, ५, १२, १, कौसू ३७, ५
शकुमार- पा, पावा
४, २, १३, -रम् वाध १७, १९.
कौमार-दार-
व्यागिन्- -गो शंघ ३७७: ४^x;
४१४
कौमारिक^y- -का:
वागृ १०, १३; -कान् वागृ १०,
१३

a) बहु < कौबेर- । b) विप । साऽस्यदेवतीयस् तस्येदमीयश्च अण् प्र । c) = शान्ति-विशेष- ।
d) = बालप्रह-विशेष । e) ँरिका इति पाठ १ यनि शोघ (तु आपम प्रम्) । f) तु पागम ।
g) व्यप । व्यु १ । h) वैप १ द । i) तु. पाका, [पक्षे] पागम च । j) = [उत्कलदेशस्थ-] तीर्थ-विशेष- ।
k) = ऋषि-विशेष- । व्यु १ । l) √कुमाल् इति [पक्षे] BPG । m) कुमार-, इवशुर- इति पाका । कुमारी-
श्वशुर- इति भागडा । n) सपा हिगृ २, ४, २ पुत्रम् इति पामे । o) तु. आन । p) सपा आपध २, ४, १२
बालान् इति पामे । q) ँपरत्यां इति पाठ १ यनि शोघ (तु. मदनपारिजात*, मितक्षरा च) । r) विप । मत्वर्थे
ठञ् प्र उस् (पा ५, २, ११६) ।

१कुमारिक-, १कुमारिन्-
पा ५, २, ११६
कुमारी-कुचयुग्म-वत्
याशि १, ६९
कुमारी-कुल-लात् कौसू
७५, १०
कुमारी-क्रीडन- (> °न-
क- पा) पाग ५, ४, २९
कुमारी-ज- -जम् अप
७०^३, १०, ७
कुमारी-दा^३- -दा
आपथौ १७, ५, १६, वैश्रौ १८,
२१ १७, हिश्रौ ११, ८, १०
कुमारी-पत्नी- -त्नीभि.
काश्रौ २०, ६, १८
कुमारी-पाल- -लम् कौसू
७५, १२, -लाय कौसू ७६, १
कुमारी-पुत्र- (> °त्र-
क- पा) पाग ५, ४, ३
कुमारी-बाल-वृद्ध-तरुण-
प्रजा(त>)वा^३- -ता वाध
११, ७
कुमारी-वत्- पा ५, २,
११६
कुमारी-वदन- -ने अप
६८, ५, ३
कुमारी-श्वशुर- (> °र-
क-) १कुमार- टि द्र.
कुमार्यां(री-आ)दि-
-दिभि शुभ्र ३, ३०
२कौमार^३- -रम् विध २०,
४९, -रे अप ९, २, ७, वाध ५,
३, बौध २, २, ४६.

कुमार-क- पा ५, ४, ३, -कम्
शागृ ५, ७, ३, -कान् अप ६७,
३, ३
कुमार कर्मन्- -र्मसु वागृ ३, ५,
-र्मणि वागृ ३, १३
कुमार-कुल(ट>)टा-, °र-कुशल-,
°र-गर्भि(त्>)णी- पा २, १,
७०
कुमार-घातिन्- पा ३, २, ५१
कुमार-चपल- पा २, १, ७०.
कुमार-ज- -जम् अप ७०^३, १०, ७,
७१, १७, ६
कुमार-ताप(>स)ली-, °र-दा-
(स>)मी- पा २, १, ७०
कुमार-नन्दिन्^३- पाग ८, ४, ३९
कुमार-निपुण-, °र-पण्डित-, °र-
पटु- पा २, १, ७०
कुमार-प्रत्येनस्- पा ६, २, २७
कुमार-प्रव्रजि(त>)ता- पा २, १,
७०
कुमार-प्रसव- -वे शध १७
कुमार-बन्ध(क>)की-, °र-मृदु-
पा २, १, ७०
√कुमारय > °रया √क >
१कुमारयाचक्रे बौश्रौ १८, ४६ :
१०
कुमारयु- पाउवृ १, ३७^०
कुमार-यज्ञ- -ज्ञेषु जैगृ २, ९ ५
कुमार-रूप- -पेण वृदे ५, २१
कुमार-श्रम(ण>)णा-, °रा(र-अ)
ध्यापक-, °रा(र-अ)निरूपक-
पा २, १, ७०.
२कुमारिन्- -रिणा आपमं १, ११,

१०^३
२कुमार^३- पाग ४, १, ९९
३कौमार-> कौमारी^३- -री
अशा १६, १, -रीम् अशा १७,
५, -र्याम् अशा १८, ७^३, १९, ७.
कौमारायण- पा ४, १, ९९
कुमार-धारा^३- -रायाम् विध ८५,
२५
कुमार-वृष- बौ शुभ्र २, २३८
कुमार-हारित^३- -त शुभ्र २, १२४.
१कुमारिक- १कुमार- द्र
२कुमारि(क>)का- (>कौमारी-
केय- पा) पाग ४, १, १२३
√कुमाल् √कुमार टि द्र
कुमालन्^३- -नाय आपध १, ३२, २४,
हिव १, ८, ६५
कुमुद^३- पाग २, ४, ३१, ४, २, ८०^३,
५, २, १३५, पावाग ३, २, ५;
-दः अप ५२, ५, ३^३, -दै अप
१, ४४, ३
कौमुदिक^३- पा ४, २, ८०
कुमुद-गन्ध^३- > कौमुदगन्धि-
-न्धि. बौश्रौप्र १७ : १५
कुमुद-पत्र- -त्रै वैगृ ३, २१ : १४,
कुमुद-मयूरगल-कालक- -केषु अप
६५, १, ६
कुमुदिक^३- पा ४, २, ८०
कुमुदि(न्>)नी- पा ५, २, १३५
कुमुदो(द-उ)त्पल-पद्म- -आनि अप
७०^३, ४, ३.
कुमुद्-वत्- पा ४, २, ८७^३.
कुमुद्वती- -ती कौसू १०६, ७^३.
कुमुर^३- (>कुमुरित- पा.) पाग ५,

a) वैप १ द्र. । b) द्रस । प्रजाता ? इत्यस्य स्थाने प्रदा(त>)ता इति ?Buhler । c) भावे
अण् प्र. उस् (पा ५, १, १३०) । d) तु पागम । e) < कुमार + यु- (<√या) । f) व्यप ।
व्यु ? । g) =शान्ति-विशेष- । h) कौवेर्याम् इति संस्कर्ता । i) =तीर्थ-विशेष- । j) व्यप. । कस. ।
क) =ग्रह-विशेष- । l) =देश-विशेष- ? । m) =ऋषि-विशेष- । n) अर्थः व्यु च^३ । मुकुर- इति [पक्षे]
भाषडा ।

२,३६
 √कुम्ब^a पाधा म्वा चुरा पर
 आच्छादने
 कुम्बा- पा ३,३,१०५
 १कुम्ब^b- म्बम् बौश्रौ ६, १ ६,४
 १०,२५,४ : ४,५, दवि १,७१
 कुम्ब-कुरीर- नम् आपश्रौ १०, ९,
 ५, ७, बौश्रौ ६,५. १५, भाश्रौ
 १०,६, ५, -राणि बौश्रौ १५,
 १५. १२
 २कुम्ब,म्बा^c- म्बम् वैश्रौ ११,८ २,
 -म्बाम् बौश्रौ १८,२४ : १९
 कुम्ब-तस () बौश्रौ ४, ९ १७,
 २०, ३० : ४, २५, ३२ १२,
 २२,२८
 कुम्ब-शेष- षम् वैश्रौ ११,८ ३
 √कुम्भ √कुम्ब टि द्र
 कुम्भ^d- पाउमो २,२,२३८, पाग ४,
 २,७५^d,८०^d, ५,४,३^e, -म्भ.
 बौश्रौ ६,३२ : ४,२५,१३ ९,
 आगृ २,८,१६^f, पागृ ४,४^f,
 आगृ २, ४, १ १६^f, कागृ
 ११,२^f, भागृ २,३.९^f, मागृ
 २, ११, १२^f, हिगृ १, २७,
 ४^f, कप्र, कौसू १३६, १^g,
 अप्रा ३, ४, १^f, -म्भम् काश्रौ
 १५, १०, १६××, आपश्रौ,
 -म्भस्य आगृ २, ३, ५. ५,
 -म्भा वाश्रौ २, १, ५, २२,
 आपमं २, १५, ४^f, अप २१,
 ५, ३, -म्भात् काश्रौस २८
 ५, माश्रौ २,२,५,१६, कौगृ ३,
 २,६^f, मागृ १,११,२६, गोगृ

१,१,२६, वृदे ५,१५३, -म्भान्
 काश्रौ २१,३,६, बौश्रौ १०,५०
 ७, वाश्रौ ३,७६ १८, हिश्रौ
 ११,८,११, आगृ, -म्भे शाश्रौ
 ४, १५, ८, काश्रौ १०,३, १८,
 १८,२,४,६, २५,८,६, आपश्रौ
 १४,२१,१२, बौश्रौ, कौसू ९३,
 ४३^h, -म्भेन काश्रौ २१, ३,७,
 आपश्रौ ११, २०, ५, काठश्रौ,
 -म्भेभ्य विध ५, १२, -म्भेषु
 वाश्रौ ३,४,३,२२, -म्भौ काठश्रौ
 ११९
 १कुम्भीⁱ- पाग ४,२, ८०,
 पा ४,१,४२^j, -म्भी भाश्रौ १,
 २,१३, आगृ २,५, १०-११
 ३, अत्र ११,३^k, -म्भी. बौश्रौ
 १५,१४ १२, वाश्रौ ३,७६
 १८,१९, हिश्रौ २,६,५५, ११,
 ८,११^k, -म्भीभिः आपश्रौ ३,
 १६, १७, हिश्रौ २, ६, ५५,
 -म्भीभ्यः आपश्रौ ३, १७, १
 वाश्रौ ३, २, ५, ४१, -म्भीम्
 काश्रौ १९, ३, २३, आपश्रौ,
 -म्भीषु बौश्रौ १५, १६ ९,
 -म्भ्य आपश्रौ ३,१७, १, १४,
 ७, ४, हिश्रौ २, ६, ५५, ९, ८,
 ३६, १३, १, २४, -म्भ्या कौसू
 ६१, १२, -म्भ्या. शाश्रौ १४,
 ४१, ९, शागृ ३, २, ९^k,
 -म्भ्याम् आपश्रौ १,१३,६,१०,
 ७,२२,९, २३,७, बौश्रौ, वाश्रौ
 ३, २,७,५^l, -म्भ्यौ माश्रौ १,
 १,३,१०, वाश्रौ १,३,३,३०

कौम्भायनि^m- पा ४,
 २,८०.
 कुम्भी-दोहन- -नम् भाश्रौ
 १,११,११
 कुम्भी-धान्य- -न्य वैध
 ३,१,१२, -न्याः बौध १,१,५.
 कुम्भी-पक्ⁿ- पाग २, १,
 ४०
 कुम्भी-पाक^o- -कम्
 कौसू ८८,१, -कात् कौसू ६,३२.
 कुम्भीपाक-रौरव-
 महारौरव-कूटशाल्मलि-शिलासं-
 घात-वज्रकण्टकशयन- -नानि
 शं व ३१४
 कुम्भीपाक-रौरवा-
 (व-आ)दि- दिषु शं व ३७५.
 कुम्भी-पाक्य^p- -क्यौ
 आपश्रौ ८,६,६, भाश्रौ ८,६,८,
 हिश्रौ ५,२,३२
 १कुम्भी-पात्र^q- -त्र.
 भागृ १,२३ : ७^o
 कुम्भी-पूरण-सादन-
 प्रत्यसना(न-अ) भिमन्त्रण-
 -णानि वैश्रौ १८, २१ १३
 कुम्भी-वत् मीसू ११, ४,
 ४०.
 कुम्भी-शूल-वपाश्रपणी-
 -णीनाम् मीसू ११,४,३१
 कुम्भीशूलवपाश्रपणी-
 प्रभुत्व- त्वात् आपश्रौ २४, ४,
 १६
 कौम्भ- पा ४,२,७५.
 कौम्भायन-, कौम्भ्य- पा ४,

a) = √कुम्भ इति [पक्षे] BPG । b) वैप १ द्र । c) अर्थ व्यु च¹ । = मास- वा मासल-प्रदेश-
 वा स्थूल-प्रदेश वा इति बौश्रौ सूची । d) अर्थः² । e) तु पागम । f) पामे वैप १, ११२७ a द्र ।
 g) उत्तरेण संघिरार्थः । h) = क्षुद्रकुम्भ-, उखा- । i) = तैलादि-स्थान-, स्तम्भाधार- । j) ककुम्भ्याम् इति
 पाठः ? यनि शोध । k) = देश-विशेष-³ । l) = ओदन-, नरक-विशेष- । m) विप । उस । n) = बाल-
 ग्रह-विशेष- । o) सप्र कुम्भीपात्रः <> कुम्भिभक्षुः <> कुम्भी, क्षु <> कुम्भिः, शक्ति इति पामे. ।

२,८०^४
 कुम्भ-क^०- पा ५,४,३
 कुम्भ-कार- पाग ४, ३, ११८,
 -र वैव ३, १२, ११, -राणाम्
 वाधूश्रौ ३, ७६ १७, -रान्
 वाधूश्रौ ३, ७६ ३,
 कौम्भकारक- पा ४, ३,
 ११८
 कुम्भकारा(र-अ)दि-वेश्मन्-
 -श्मसु अप ३६, १४, १
 कुम्भ-देश- शे वागृ १७, ७
 कुम्भ-पदी^०- पाग ५, ४, १३९
 कुम्भ-बिल- पा ६, २, १०२
 कुम्भ-मण्डूक- पाग २, १, ४८, ६,
 १, ८१
 कुम्भ-मध्य-गत- -तम् गौपि १,
 ३, ९
 कुम्भ-मात्र- -त्रम् वाधूश्रौ ३, ७६
 १८
 कुम्भ-मिश्र- -श्रम् वौश्रौ २१, २४
 १८
 कुम्भ-वत् काश्रौ १९, ३, २३.
 कुम्भ-स्थ- -स्थम् आमिष्ट २, ४,
 ७ १९, वैष्ट ४, ११ १५
 कुम्भा(म्भ-अ)न्त^०- -न्तम् आमिष्ट
 ३, ७, ३ २८, वौपि २, ३, २,
 हिपि १२ ०८, ४४ : १२
 कुम्भिन्^०- -म्भी^१ पागृ १, १६,
 २३, हिष्ट २, ३, ७, जैष्ट १, ८
 १६
 कुम्भिनी- -नी वैताश्रौ
 ३४, ९, -न्यः द्राश्रौ ११, ३,
 २४, लाश्रौ ४, ३, २३
 कुम्भि-शत्रु^०- -त्रुम् आमिष्ट

२, १, ३ १५^१
 कुम्भे(म्भ-इ)ष्टका^१- -काः बौश्रौ
 १७, २७ ४ २९, ६ १७,
 माश्रौ ६, १, ६, १८, १९, वाश्रौ
 २, १, ५, २२, वैश्रौ १८, २१ :
 २०, २१, १८ ३, हिश्रौ ११,
 ८, ११, -कानाम् आपश्रौ १६,
 ३३, १, ३, बौश्रौ २२, ६ ११,
 हिश्रौ ११, ८, १२
 कुम्भो(म्भ-उ)पमारणा(ण-अ)
 न्त^०- -न्तम् काश्रौ २०, ८, २०
 कु(म्भ-य)म्भ्या^१- -म्भ्यानाम्
 आपश्रौ ११, २०, ११, हिश्रौ ७,
 ८, ५३
 कुम्भि^०- -म्भि. कागृ ३५, ११^१
 रकुम्भी^१- (>)कौम्भेयक- पा) पाग
 ४, २, ९५
 कुम्भी(क>)का^१- -का अत्र १६,
 ६^१
 कुम्भीर- पाउभो २, ३, ५०
 कु-यव- किम्द्र
 ✓कुरु पाधा तुदा पर शब्दे
 कुरङ्ग- पाउभो २, २, ६१
 कुरण्ट^१- ष्ट-हेमा (म-अ) रुण-शङ्ख-
 कुन्द-मुक्तावली(ली-इ)न्दु-प्रति-
 (मा>)म- -मे अत्र २४, ५, १
 कुरण्टा(रट आ)कृति-गोक्षीर-हेमा
 (म-अ)रुगतडित्-प्र(भा>)भ-
 -भ अत्र २४, ३, २
 कुरण्टक- पाउभो २, २, ८
 कुरर- पाउ ३, १३३
 कुरल^१- पाउना १, १०५, -लस्य
 अप ७०^३, ३, ४
 कुरव- (>)व-क- पा) पाउभो २,

२, ८, पाग ५, ४, ३^१
 कुरीर^१- पाउ ४, ३३, -रम् बौश्रौ
 ६, १ ६, ४ ११, २५, ४ ४,
 ५, भाश्रौ १०, ६, ६, वाधूश्रौ ३,
 ७६ २६, वैताश्रौ ११, २२, १३,
 ९, अप ४८, ११६,
 शकुरु^१- पाउ १, २४, पाग ४, १, ८६;
 ११२^१, १५१, १५४^१, २, १३३;
 १३४, -रवः शाश्रौ १५, १६,
 ११, -^१रव. आपश्रौ १८, १२,
 ७^२, हिश्रौ १३, ५, ४, २४, -रुः
 या ६, २२^१, -रुभि अप ५०,
 २, ४, -रुषु वाधूश्रौ ३, ९७ ३;
 वृदे ७, १५५, -रुणाम् वाधूश्रौ
 ३, ७५ ८, -रुन् अप १, ८,
 ४, वृदे ६, ११०
 कौरव- पा ४, १, ८६, ११२;
 २, १३३, -वे^० आश्रौ ८, ३,
 १०, शाश्रौ १२, १४, १
 कौरवक- पा ४, २, १३४
 कौरवायणि- पा ४, १, १५४
 कौरव्य- पा ४, १, १५१, १७२;
 -व्यः शाश्रौ १२, १७, ११^१, हिश्रौ
 १३, ५, ४, वृदे ७, १५५, -व्यम्
 आपश्रौ १८, १२, ७, -व्यस्य
 चात्र ४२ : ५, -व्ये वृदे ८, २;
 -व्यौ या २, १०
 कौरव्याथ(ए)>)णी- पा ४,
 १, १९
 कुरु कत- (>)कौरुकात्य-, त्या-
 यन- पा) पाग ४, १, १८;
 १०५
 कुरु क्षेत्र^१- -त्रम् वाधूश्रौ ४, ७५ :
 २९, -त्रात् शाश्रौ १५, १६,

a) = देश-विशेष-^१। b) कुम्भिका- इति पागम। c) कुम्भी^० इति पागम। d) विप। बस।
 e) = बालग्रह-विशेष-। f) पाभे. पृ ८८५ p द्र। g) वैप १ द्र। h) विप। षन > बस। i) विप।
 तत्रभव्य यत् प्र। j) = नगर-विशेष-। कुम्भि- इति पागम। k) = पुष्प-विशेष-। व्यु^१। l) = कुरर-।
 व्यु^१। m) तु पागम। n) कुरु- इति पाका। o) वैप १, ११२७ U द्र।

११, -त्रे काश्रौ २४, ६, ३२,
 बौश्रौ १८, ४५ २४, ४७ ७,
 वाधुश्रौ ४, ७५: ४०, लाश्रौ
 १०, १९, १, शध १९४, बुदे ६,
 ५८
 कौरुक्षेत्र^a - -त्रम् वैगृ १, ४० १
 कुरु-गमन- नात् या ६, २२
 कुरु-गार्हपत- पा, पावा ६, २, ४२
 कुरु-पञ्चाल^b - पाग ७, ३, २०,
 -ला: आपश्रौ १८, १२, ७, बौश्रौ
 १८, ४४ २२, -लान् हिश्रौ
 १३, ५, ४
 कौरुपाञ्चाल- पा ७, २, २०
 कुरु-पाञ्चाल- -लान् आपश्रौ १८,
 १२, ७, -लानाम् वाधुश्रौ ४,
 १०८: १५, १८
 कुरु-ब्रह्मन्- -ह्यगाम् बौश्रौ १८,
 २६ ६
 कुरु-राज- -ज: वाधुश्रौ ४, ७५:
 १७^c, -जाय वाधुश्रौ ४, १०८
 १४
 कुरु-श्रवण^b - -ःणम् बुदे ७, ३५,
 उसू २, २६, -णस्य ऋञ्च २,
 १०, ३३
 कुरु श्रेष्ठ^d - पाग २, २, ३१
 २कुरु^e - -ःणम् अप ४८, ९६, निघ
 ३, १८
 ३कुरु^f - -रु वैश्रौ १७, ११, ११^g
 कुरु-वाजपेय- -य शाश्रौ १५, ३,
 १७, आपश्रौ १८, ३, ७, लाश्रौ
 ८, ११, १८
 कुरुङ्ग^h - -ङ्ग: या ६, २२, ४, -ङ्गस्य या
 ६, २२, ४, ऋञ्च २, ८, ४, बुदे

६, ४४
 कुरुण्टक- पाउभो २, २, ८
 कुरुत^g - (<त-पाद- पा) पाग ५,
 ४, १३८
 कुरु-पथ^h > कौरुपथि- -थि कौसू
 ६३, २७, अञ्च ७, ५८, ११, ८
 कुरुविन्दⁱ - -न्दान् बौश्रौ २४, ५
 १८
 कुरुसुति^j - -ति: ऋञ्च २, ८, ७६,
 साञ्च २, ३४१
 कुरुस्तुति^k - -ति: शुञ्च १, ५२७,
 अञ्च २०, ४२
 कुरुकु^l - -र: आपम २, १६, १^m,
 भागृ २, ७ ६, ७, हिगृ २, ७, २ⁿ
 कुर्द पावा भ्वा आत्म क्रीडायाम्
 कुर्द- (> कुर्दी- पा) ऊर्द- टि द्र
 कुर्पासक^o - पाग २, ४, ३१
 कुर्वत् - प्रमृ √कृ द्र
 कुर्विणी^p - -णी याशि २, १३-१५
 √कुल् पाधा भ्वा पर संस्त्याने
 बन्धुषु व
 १कुल^q - पाग २, ४, ३१^d, ५, २, १३६,
 -लम् बौश्रौ २७, ४ ११,
 वाधुश्रौ, या ६, २२, ४, -लस्य
 वाधुश्रौ ४, ९० - १०, १२, १४,
 वैगृ, -लात् शाश्रौ १४, ४०, १०,
 हिश्रौ १४, १, ४७, आपध २,
 १७, ९, हिघ २, ५, ३८^l,
 -लानाम् आपश्रौ २४, ७, २,
 हिश्रौ २१, ३, १०, निसू ४, ८
 १०, -लानि वाधुश्रौ ३, ९७:
 ३, निसू ४, ८ ३, आमिगृ २,
 ७, १ ३, कौसू ५७, १९, बौध

१, ५, ८२, ८४^o, विघ २६, ६;
 -लाय कौसू १८, २०, आपध
 २, २७, ३, हिघ २, ५, २२२,
 -ले आपश्रौ २२, १८, १३, १,
 बौश्रौ, हिश्रौ २, ५, ३८^l, -लेषु
 या १, ४
 १कौल^m - -लेन बौश्रौ २४,
 १२ ५
 १कौलेयक- पा ४, १, १४०
 कुल-कल्प- -ल्प वागृ ४, १, जैगृ
 १, ११ २२
 कुल-क्रमा(म-आ)ग(त>)ना- ता
 जैश्रौका २
 कुल गमन- -नात् या ६, २२
 कुल कुल- -ल शागृ ४, १२, ११ⁿ,
 वाध १२, ८, गौध ९, ५३
 कुल-अय- -ये अशा १७, ४.
 कुल-चारित्र-शील-विद्या-लक्षण-
 गुणा(ण-अ)धिक- -केषु शंघ
 २५२
 कुल-ज- -ज आपश्रौ २०, १८, १;
 हिश्रौ १४, ४, ८, -जा: विघ
 ८, ८
 कुल-ज्यैष्ठ्य- -ष्ठ्यम् कप्र २, ४, ११.
 कुल(ट>)टा^o - पावाग ६, १,
 ९३, फि ५९, -टाय वाध
 १४, १९, शंघ ४३४, आपध १,
 १९, १४, हिघ १, ५, ११६
 कौलटिनैय-, -टैय- पा ४,
 १, १२७
 कौलटेर- पा ४, १, १३१
 कुलटा-षण्ठ-पतित- -तेभ्य:
 विघ ५७, १४

a) विप । तत्रभवीय अण् प्र । b) वैप १ द्र । c) कुरुज्ज् इति पाठः ? यनि. शोष । d) तु पागम । e) = ऋत्विग्-विशेष- । व्यु. ? । f) = अल्प- । व्यु ? । g) अर्थः व्यु व ? । h) व्यप । व्यु. ? । i) = ओषधि-विशेष- ? । व्यु ? । j) = स्वरभक्ति-विशेष- । व्यु ? । k) वैप १, ११२८ m द्र. । l) 'लाकु' इति पाठः ? यनि. शोष । m) विप. । तस्येदमीय. अण् प्र. । n) पामे पृ १२२ द्र. । o) उत. उप. √अट् + कर्तरि अच् प्र, पररूपञ्च ।

कुलदो(टा-उ)न्मत्त-चौर- -रान्
कप्र १,६,६
कुल-दक्षि(णा>)ण^३- -ण काश्रौ
२२, ११, १२, लाश्रौ ९, ४, २८
कुल-दूषण- -णम् आज्यो १४, १
कुल-देवता-संबद्ध- -द्धम् शध २२
कुल-धर्म- -र्म आपृ १६, ७,
२०, १९, बौगृ २, ४, १७, भागृ
२, १० १८, हिगृ २, ९, १२,
-मम् कौगृ १, २०, २
कुलधर्म-परिग्रह- > ङ-रिक्थ-
पिण्डो (ण्ड-उ) दक- -कानि शध
२८८
कुल-नामन्- (>कौलनामिक>।
का-, ंकी-) कुदामन्- टि द्र
कुल-पति- पाग ४, १, ८४, -त्यो.
गोगृ ३, २, २९.
कौलपत- पा ४, १, ८४
कुल-पवत- -तान् शंघ ११६ : १०
कुल-पा- -पा. अत्र १, १४^१
कुल-पुत्र- (> कौलपुत्रक- पा)
पाग ५, १, १३३
कुल-प्रगाश- -शे वाध १, ३८
कुल-मित्र- -त्रम् विध ५७, १६
कुल-योषित्- -षिताम् विध ८१,
२२
कुल(ल-ऋ)त्विज्- -त्विजाम् कप्र
२, ५, ४
कुल-वत्- पा ५, २, १३६
कुल-वधू- -धू शंघ ७८
कुल-वर्द्ध(न>)नी- -नीम् आज्यो
३, ६
कुल-वृद्ध- -द्धः शंघ २१, -द्धा

कौगृ ३, १०, ३५, शागृ २, १६,
४, आमिगृ २, ४, ७ २
कुल-वेद- -दम् शंघ ११६ ३९
कुल-शील-वयो(यस्-अ)न्वित-
-ना अय ७०, १, ५
कुल-संख्या- -ख्याम् बौध १, ५,
८४
कुल-सत्त्र- -त्त्रम् काश्रौ १, ६,
२३.
कुल-स्त्री- -स्त्रिया वाव १६, ३५,
-स्त्रीणाम् शव ३४१
कुला(ल-अ)घ(म >)मा- -माः
काव २८० १
कुला(ल-अ)पकर्व- -र्ष वाध १,
२७
कुला(ल-अ)पदेश- -शेन वाध १,
३८
कुलीन, ना- पा ४, १, १३९, -न
माश्रौ ५, १, १०, ४१, -नम्
अय ३, १, १३, विव ३, ७०,
-नाम् वाध १, ३८, -ने वाध
१७, ८०
कुलो(ल-उ)च्छेद- -दम् अय ३५,
१, १०
कुलो(ल-उ)त्साद- -द अय ३६,
८, ५
कुलो(ल-उ)पाध्याय- -यः शंघ
३०३
१कुल्य- पा ४, १, १४०
२कुल^३-> २कौल^०- -लम् विध २२,
८३
३कुल^१- -ल. भागृ २, ७ : २०^१.
२कौल्यक- पा ४, २, ९६

४कुल^०- (> कुल-२^१-, २कुल्य^१-) पाग
४, २, ८०^२
५कुल^३- पाग ४, १, ११०
कौलायन- पा ४, १, ११०, -नाः
बौश्रौप्र ३१ : ४५
कौलि- -लय बौश्रौप्र २२ : ३.
६कुल^३- (> ३कौल-) पाग ४, २,
१३३
कुलङ्ग^१- > ङ्ग-वर्ज^१- -र्जा. बौध १,
५, १३२
कुलङ्गापमारिन्^३- -री मागृ २, १४,
२९
कुलत्थ^१- -त्थान् बौश्रौ २४, ५ १६.
कौलत्थ- पा ४, ४, ४
कुलत्थ-सप्त(म >)मा^३- -मा.
आपश्रौ १६, १९, १४
कुलप- पाउभो २, २, २१०
कुलल^३- -ले बौश्रौ २, ५ ९
कुलाय^१- पाउभो २, ३, ८, -^१यम्
शाश्रौ १२, १७, १०, १८, १३,
आपश्रौ ७, १७, १७, बौश्रौ ४, ६ :
३६^३, ११, ४० २०^३, भाश्रौ ७,
१३, ४^३, हिश्रौ ४, ३, ५४^३, अय
४८, ८९
^१कुलायिन्- -यिनम् आश्रौ १, ११,
१, शाश्रौ १, १५, १३, बौश्रौ
३, ३० ४, ८, भाश्रौ ३, ९, १२;
वाश्रौ १, १, ४, ३१, वैश्रौ ७,
११ ५, हिश्रौ २, ५, ३२, ४१;
६, ४, ६, २१, २, ७२, -यी
आपश्रौ १६, २७, ७
^१कुलायिनी- -नी वैश्रौ १८,
१७ : ४७, हिश्रौ ११, ७, ४०;

a) विप. । बस पूष = गोकुल- , उप = दान- । b) वैप १, ११२८ t द्र । c) = मद्य-विशेष- ।
d) = श्व-ग्रह-विशेष- । व्यु. १ । e) अर्थ व्यु च १ । f) = देश-विशेष- । g) व्यय । व्यु १ । h) = देश-
विशेष- । व्यु १ । कुल्व- इत्यन्य इति पागम । i) वैप १ द्र । j) उस. । लु^० इति चौस । k) = देव-विशेष ।
व्यु. १ । l) = धान्य-विशेष- । व्यु. १ < कुल- + √स्था इति अभा. प्रसृ । m) विप. । बस. । n) = कुरर- ।
व्यु १ । o) पामे. वैप १, ११२९ & द्र. । p) पामे वै १, ११२८ Z द्र ।

अप्राय ६,२, -नीम् आपश्रौ १५,
३,१३, १७, ५, १६, २४, १४,
बौश्रौ ९, १७ ३६, ३७, भाश्रौ
११, ३, ८, १७, ६, माश्रौ ६, १,
७, १४, वाश्रौ २, १, ६, २३,
वैश्रौ १३, ४: ७, १८, १७
४७, हिश्रौ ११, ७, ४०, २४,
१, १८, लाश्रौ ६, २, ११, १९
कुलाल^१- पाउ १, ११८, पाग ४, ३,
११८ -ला: बौश्रौ १५, १३
१४, -लान् बौश्रौ १५, १४
११, -लेभ्य शुप्रा ५, ३७
कौलाल- -लम् पावा ५, ४,
३६, आगृ ४, ३, १९
कौलालक- पा ४, ३, ११८
कुलाल-चक्र-निष्पन्न- -न्नम् कप्र २,
८, १०
कुलाल-वृत्ति^०- -त्ति. वैव ३, १२,
११
कुलाश्व^०-> कौलाश्व- -श्च बौश्रौ
१६, २७ २२
कुलिङ्ग^१- -ङ्गे बौश्रौ २, ५ १५
कुलिज^०- पाउभो २, २, ८९
कुलि(ज>)जी-^०कुलि-जि(क>)
की-, कुलि-जी(न >)ना- पा
५, १, ५५
कुलिज-कृष्ट^१- -ष्टे कौस् ४३, ४
शकुलिशा^१- पाउभो २, ३, १४६, पाग
५, ३, १०८, -ना ऋप्र ४८,
१०४, १३१, ऋनिघ २, २०,
४, ३, या ६, १७६, -शेन > ना

सु २८, १, या ६, १७६.
कौलिशिक- पा ५, ३, १०८
रकुलिशा^१- (> कौलिशायनि^१- पा)
पाग ४, २, ८०
कुलीन- १कुल- द्र
कुलीर^१- पाउभो २, ३, ४९
कुलीर कर्कट- -टौ अत्र ३९, १,
१०
कुलीर-सुषिर- -रात् बौश्रौ २४,
१४: ४
कुलीरो(र-उ)दध(त>)ता- -ताम्
वैव २, ४, २^१
कुलुन^१- (> कौलुन- पा) पाग ४,
३, ९३
कुलूत- (पाउभो २, १४८) > कौ-
लूत-) उल्लू- टि द्र
कुलून^१- (> कौलून- पा) पाग ४,
२, १३३^१, ३, ९३^१
कौलूनक- पा ४, २, १३४
कुलप^१- -त्पानि आपमं १, ५, २^१
कुलफ^१- पाउ ५, २, ६
कुलफ-द्वज- -न्नम् माश्रौ १, ५, ४,
१२, -ङ्गे वाश्रौ १, ४, ३, १३
कुलमल^१- पाउ ४, १८८, -लम्
अप्रा ३, २, २८^१
कुलमा, ल्मु^०ल-बर्हिष^१- -ष ऋअ
२, १०, १२६, साअ १, ४२६
कौलमलबर्हिष^१- -षम् द्राश्रौ ८,
१, ३३, लाश्रौ ४, ५, २६, -षस्य
लाश्रौ ७, २, १५, -षे लाश्रौ ७,
२, १

कुलमाष^१- पाउभो २, ३, १५३, पाग
४, ४, १०३, -षम् विघ ९०,
२७, -षा: या १, ४६, -षान्
या १, ४
कौलमाष- पा ५, २, ८३.
कौलमाषिक- पा ४, ४, १०३.
कुलिम^१-> कुलिम-मात्र- -त्र आपश्रौ
१, ३, १७, भाश्रौ १, ३, १५.
कुलमुद्^१-> कौलमुद्^१- -दम् जैश्रौ
२२ ६, जैश्रौका २०.
शकुल्य- १कुल- द्र
रकुल्य- ४कुल- द्र
रेकु(ल्य>)ल्या^१- पाउना ४, १२१,
पाग ४, २, ९५^१, -त्ल्या आपमं
२, २०, २८, आगृ २, ४, १३;
३, ३, ३^१, कौय ३, १५, ४, शागृ
३, १३, ३, मागृ २, १६ १३,
१७: ८, मागृ २, ९, ४, कौस्
४५, १४, ६६, ८४, १, अप
४८, ७६, निघ १, १३, -ल्याम्
बौश्रौ ४, ६, ४३^१, वैश्रौ ११,
७ ५
३कौलेयक- पा ४, २, ९५
कुल्व- (कौल्व-) ६कुल- टि द्र
कुवल^१- पाउभो २, ३, ९६, पाग ४,
१, ४१, ५, २, २४^१
कुवली- पाउभो २, ३, ९६, पा
४, १, ४१, पाग ५, २, २४^१
कुवली-कुण- पा ५, २, २४.
कुवल-कर्कन्धु-बदर-चूर्ण- -र्णानि
काश्रौ १५, १०, १०

a) वैप १ द्र । b) विप । बस. । c) व्यप । व्यु. ? । d) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? ।
e) = परिमाण-विशेष- । व्यु. ? । f) अर्थ ? । पूष = घट- (तु उद्-कुलिज- [कौस् १२, ६]) । g) अर्थ:
व्यु च ? । h) = देश-विशेष- ? । i) = जलधर-विशेष- । व्यु. ? । j) कृली^० इति पाठ ? यनि शोध (तु ०) ।
k) कुलूत- इति पाका । l) पृ ८५३ e द्र । m) = लाज- । व्यु. ? । n) पाभे वैप १ पूल्यानि
शौ १४, २, ६३ टि द्र । o) ऋअ पाठ ? । p) = ऋषि-विशेष- । बस । q) = साम-विशेष- । r) = धान्य-
विशेष- । व्यु. ? । s) = गोत्राल- [गोपुच्छ-] । व्यु. ? । t) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । u) कुब्जा- टि. द्र. ।
v) बल- इति [पक्षे] भागडा । w) शाकटायनाभिमतमिति पागम. ।

कुवल-कुण- पा ५, २, २४
 कुवल-ग्रस्थ- पाग ६, २, ८७^४
 कुवल-सक्तु- -कुभिः माश्रौ ५,
 २, ४, २१, ११, १६, वाश्रौ ३, २,
 ७, १५
 कुवल्य^५- (> ०यित- पा) पाग ५,
 २, ३६
 कुविट्यास^६- (कौविट्यासीय^६-)
 पाग ४, २, ८०
 ?कुवितः अप ४८, ११६^५
 कुविद्^७ आश्रौ ३, ८, १, १३, १२, ८,
 १०, १, शाश्रौ, निघ ३, १^५, या
 ४, १५, पा ८, १, ३०
 कुविद्यास- (> कौविद्यासीय-)
 कुविट्यास- टि द्र
 कुविन्द^८- पाउ ४, ८६
 कुवेणिका^९- (> कौवेणिकेय-
 पा) पाग ४, १, १२३
 √कुश् √कुस् द्र.
 शकुश^१- पाउभो २, ३, १४१, पाग ५,
 २, ९७, -शम् आमिगृ २, ५, १
 १७, -शस्य अप २३, १, ५,
 -ज्ञा बौश्रौ १८, ३९: १××,
 कौगृ, -शान् शाश्रौ ४, ४,
 २१××, काश्रौ, -शानाम् शाश्रौ
 १७, ४, ५, बौश्रौ २२, १७.
 १६, कौगृ ५, १, ६, -शे शाश्रौ
 ३, १९, ९, वैध २, ९, ३, -शेन
 कौगृ १, ४, १, शागृ १, ८, १४,
 कप्र १, ६, १०, -शेषु आश्रौ १,
 १२, ८××, शाश्रौ, -शै आश्रौ
 २, ४, १३, शाश्रौ, -शौ काश्रौ
 २, ३, ३०; ४, २, १५, ९, ६, ९,

आगृ १, ३, ३, वैध २, २, १
 कौश^१- -शम् शाश्रौ १६, १२,
 २०, काश्रौ १, ३, १२, १४, ५, ३,
 द्रागृ १, १, ६, कप्र १, २, १०, अप
 ३०, २, २, बौध १, ५, ५
 कौशी- -शी काश्रौ ६, ३,
 १३, शीम् कागृ ४३ २, कप्र
 १, २, १२, -श्या काश्रौ ६, ३,
 २४
 कुश-कण्टक- -कम्^२ शागृ १, २०,
 ३, पागृ १, १४, ४
 कुश-करका(क-अ)शिहोत्रज्ज्या(व्य-
 अ)पहार- -रे शव ३२५
 कुश-काश- पाग २, २, ३१^१
 कुश-मन्थि-कृ (त>) ता- -ताम्
 शध १०७
 कुश-चीर-चर्म-वलकल-वासस्-
 -सा: आमिगृ २, ७, १० ४,
 शध ३६९, ३९०
 कुश-तरुण- -णम् काश्रौ ६, १, १२,
 ७, २, ८, कौगृ १, २१, १०-१२,
 शागृ १, २८, १२, १३, १५,
 शुअ १, २३४, ३६४, -णान् कौगृ
 २, ४, ३, २४, शागृ २, ७, ५, २८,
 -णानि काश्रौ ५, २, १५, पागृ
 २, १, १०, -णाभ्याम् कौगृ १,
 ५, ४, -णाभ्याम् शागृ १, ८,
 १७; -णे शाश्रौ २, ७, १२,
 काश्रौ ५, १, २३, कौगृ १, ४, १,
 ५, शागृ १, ८, १४, -णेन काश्रौ
 १०, ९, ३१, २५, १२, १; कौगृ
 ४, २, ३, शागृ ४, १५, ११
 कुश-तरुणक- -कानि आमिगृ ३, ७,

१: ३, २: ७, बौपि १, १७: ३,
 २, २७, -कै बौश्रौ ९, १: १५,
 १०, १: १३, आमिगृ ३, ६, २: १७,
 १९, ७, २. ५, ३. १२,
 १४, ९, २. १२, बौपि १, १०.
 ६, ९, १२, १४, १७: २५, २,
 १, ६, ७, ६, १०, ११
 कुश-तिल-मिश्र- -श्रेण विध ७३,
 १२
 कुश-तिल-वस्त्र-पुष्पा (ष्य-अ) लंकार-
 धूप-दीप- -पै विध ७३, १२
 कुश-तीक्ष्ण- -क्ष्णम् वैश्रौ ११, ७:
 १३
 कुश-तोय- -वै वैगृ ७, ३ २, ५,
 १४
 कुश-उण्डक- -कम् कौगृ १, १२,
 ८^६
 कुश-दर्भ- -भान् वैध २, ४, २
 कुश-देश- -शे आश्रौ २, ४, १४
 कुश-द्वीप^७- -पम् शध ११६. ४
 कुश-पलाशो(श-उ)डुम्बर-पद्म-शङ्ख-
 पुष्पी-वट-ब्रह्म-सुवर्चला-पत्र-
 -त्रै विव ४६, २३
 कुश-पवित्र- -त्रै काश्रौ ७, ३, १
 कुशपवित्र-पाणि- -णि शंध
 १०७.
 कुश-पिञ्जल- -लान् आश्रौ ६, ९,
 १, -लानि आगृ १, १७, ८; ४,
 ६, ४, -लै आगृ १, १४, ४
 कुश-पुष्प-दर्भा (र्भ-अ) न्यतम-
 -मेन वैगृ ४, १२: ३.
 कुश-पृष्ठ>)ष्टा^८- -ष्टा: द्राश्रौ ५,
 २, ३, लाश्रौ २, ६, १^{१०}, निस्

a) तु पासि । कुशल- इति पाका । b) = उत्पल- । व्यु ? । c) अर्थ व्यु, च ? । d) कुविद्यास-
 इति [पक्षे] पासि, विकुद्यास- इति पाका., विकुट्यास- इति भाण्डा । e) = देश-विशेष- ? । f) वैप १ द्र ।
 g) = तन्तु-नाय- । व्यु ? । h) तु, पाका. । 'वेरि' इति भाण्डा ? । i) = दर्भ- । व्यु ? । j) विप,
 स्वार्थे वा विकारे वा अण् प्र । k) सप्र कुशकण्टकम् <> कुशदण्डकम् इति पाभे । l) तु पागम ।
 m) = समद्वीपाऽन्यतम- । n) विप. । बस । o) कुशा पृष्ठ इति पाठः ? यनि शोधः (तु द्राश्रौ) ।

१,११ : ६
 कुश-प्रसू- -स्व काश्रौ ५,१,२०
 कुश-प्रस्तर- -रे वाध २१,८
 कुश-बद्ध- -द्धे काश्रौ २५, ३, १७
 कुश-बन्ध- -न्धम् आमिष्ट २, ७,
 ११ ३
 कुश-बल्ब, ल्व^३ज- -जैः काशु ७,
 १४.
 कुश-बल्बज-मौ(ज>)जा- -जाम्
 अप २८,१,३
 कुश-वृसी- -स्याम् शंघ १०७
 कुश-भार- -रान् शाश्रौ १७,६,६
 कुश-भित्त^b- -त्तम् शाश्रु १,२८,७०
 कुश-भित्ति^b- -त्तिम् कौष्ट १, २१,
 ६०
 कुश-मय- -यम् बौश्रौ २, १५
 १४, ३३, १४, १६ १८^३, २१,
 २ २२, आमिष्ट ३, ७, १ २,
 ५, बौपि १, १७ २, ५, -यौ
 बौश्रौ २, ५ : ८
 कुशमयी- -यीम् बौश्रौ १५,
 २ ३, -यौ बौश्रौ १०, १ २
 कुश-मुष्टि- -ष्टिभि. कौष्ट ४, १, ९,
 -ष्टिम् काश्रौ १, ३, २३, ६, २,
 १२, ९, ७, १, १८, ३, ४, गोष्ट
 १, ८, २६
 कुश मूल- -लेषु आश्रौ २, ३, २०
 कुश-रज्जु- -ज्जुम् गोष्ट १, २, १,
 -ज्जू आष्ट ४, ८, १५
 १ कुश-ल- -पा ५, २, ९७
 कुश-लव- -वम् आमिष्ट ३, २, ४
 कुश-वारि- -रिण बौध ४, ५, १३
 कुशवारि-जल- -लम् आमिष्ट ३,
 १२, १ : २

कुश-वीरिण- -णम् आष्ट २, ७, ४
 कुश-वृत्ति^d- -त्ते शंघ १३३
 कुश-सम- -मा शंघ ११२
 कुश-सूना- -नासु आष्ट ४, ८, २२,
 २७
 कुश-स्तम्ब- -म्बम् काश्रौ १७, ३,
 १, आष्ट १, २२, २१, आमिष्ट ३,
 ८, १ ९, बौपि १, १४ ९, -म्बे
 काश्रौ १७, ३, १४, २५, ४, ६,
 शंघ २०७, बौध १, ४, २
 कुश-स्थान- -ने विध ७९, २
 १ कुश-हस्त^e- -स्तम् बौश्रौ ६, २५
 २१; २१ २४
 २ कुश-हस्त^e- -स्त बौश्रौ २१, १४
 १६, अप ४२, १, ५, -स्तेन अप
 २३, १०, ७
 कुशा(श-अ)ङ्कुर- -रम् वैष्ट ३, १२
 ३
 कुशा(श-अ)ग्र- -ग्रम् जैष्ट २, ९
 २४, -ग्राणि काश्रौ १७, ३, २०,
 -ग्रेण विध २०, ४४, -ग्रैः वैश्रौ
 ८, ११ २
 कुशाग्रीय- -पा ५, ३, १०५
 कुशा(श-अ)भाव- -वे काउष्ट ४०
 १५, विध ७९, २
 कुशा(श-अ)लाम- -भे जैष्ट १, १
 ११, शंघ ११२
 कु(श>)शा-व(त्>)ती^f- पाग
 ६, ३, ११९
 कुशा(श-अ)वर्त^g- -र्ते विध ८५,
 ११
 कुशा(श-अ)श्मन्तक-बल्बज-
 -जानाम् पाग २, ५, २४
 कुशा(श-अ)सन- -नम् अप २३,

१३, ३, -ने अप ३८, १, ३
 कुशे(श-इ)ण्डव- -ण्डवानि पाग ३,
 ७, ३.
 कुशे(श-इ)ध्मा(ध्म-आ)दि- -दीन्
 वैध ३, ५, १
 कुशो(श-उ)त्तर, रा^h- -रायाम् शंघ
 १०७, -रेषु विध ७३, २
 कुशो(श-उ)दक- -कम् आमिष्ट २,
 ७, ७ १२, १५, काग ६, ४, ७, ३;
 अप ३८, १, ४; २, ३, वाध २७,
 १३, बौध १, ५, १२३, ४, ५,
 १०-१२, १४, २५, वैध २, १, ४.
 कुशो(श-ऊ)र्ण, र्णा- -र्णा काश्रौ
 ५, ३, ८, आपश्रौ ८, ६, १२;
 भाश्रौ ८, ६, ७, -र्णानाम्
 वाधुश्रौ ३, ६९ ३४, -र्णानि
 द्विश्रौ ५, २, ३९
 २ कुशा, शा^h- -शाः द्राश्रौ ५, २, १, ९,
 ६, ३, ५, लाश्रौ २, ६, १, ४, ११,
 २, निसू १, ११ : ४, २८,
 -शानाम् आश्रौ ८, ५, ७
 कुशी- पा ४, १, ४२, -शीभ्याम्
 वाधुश्रौ ४, ३४ : ४²
 कुशा-विधान- -नेन द्राश्रौ ५, २, ४.
 १ कुशयⁱ- -य अप ४८, ७७, निघ
 ३, २३
 २ कुशल^j- पाउभो २, ३, ९९, पाग
 २, १, ४०, ५९, ४, ३१, ५, १,
 १२४, १३०, १३३, ६, २, २४,
 -ल बौश्रौ २, १४-१, ५, १ :
 २९, बौध १, ५, ४७, पा ५, २,
 ६३, -लम् शाश्रौ १५, २६, १३;
 बौश्रौ, -लान् अप ७०, १०, ५;
 -लेन निसू २, ५. २०××, गोष्ट-

a) अप पाठ । b) = कुश-कट- । c) परस्परं पासे । d) विप. । बस । e) = कुश-मुष्टि- ।
 f) तु पागम । g) = तीर्थ-विशेष- । h) = अयस्-पा, [आवृत्ति संख्यानाथार्थं] कण्ठ- । व्यु. ? ।
 i) = कृप-नामन्- । व्यु. ? । j) भाप । विप > नाप । व्यु. ? < √कृश वा कु- + √शल वा कुश- + √ला वेति
 अभा प्रभृ, पाप्र १ कुश- + मत्वर्थीयः लः प्र (पा ५, २, ९७) ।

कौशल- पा ५, १, १३०, -ले
पा ८, ३, ८९
कौशलक- पा ५, १, १३३
कौशल्य- पा ५, १, १२४.
कुशल-श्रुत- -तम् गोयु १, ७, ७
कुशला(ल-अ)नामया(य-आ)रोग्य-
-ग्याणाम् गौध ५, ४२
कुशला(ल-अ)र्थ- -त्रै. पावा २, ३,
१६
कुशलिन्- -ली द्रायु २, ३, ३०
कुशली✓कृ, कुशलीकुरु आयु १,
१७, १७
कुशलीकारयन्ति गोयु २, ९, २३,
१०, ६
कुशली-कर्तृ- -र्ता जैयु १, ११ :
२६.
कुशली-कृत- -तम् द्रायु २,
४, ७
कुशलीकृत-शिरस्- -रसम्
आयु १, १९, १०
कुशलो(ल-उ)दिष्ट- -ष्टम् निसू ९,
९ : ४६
रेकुशा(ल>)ला^१- (> कौशलि-
पा) पाग ४, १, ९६
कुशाहारीत^१- -त आमिण्ड ३, ११, २
२२-२३.
कुशाम्ब^१- पाउना ४, १०३, पाग ४,
१, १२३.
कौशा(म्ब>)म्बी^१- (> १कौशा-
म्बेय- पा.) पाग ४, २, ९७
२कौशाम्बेय- पा ४, १, १२३,
-या बौश्रौप्र ६ : ३
कुशिक^१- पाउमो २, २, १८, पाग ४,

१, १०४, -क ऋअ २, ३, १,
३१, १०, १२७, शुअ ३, २२२,
या २, २५०, -कस्य या २,
२५१, -का^१ आपश्रौ २४, ९,
१२, बौश्रौप्र ३१ १, ९, ३८
१, हिश्रौ २१, ३, १२, वृदे ४,
९८, -फंका^१ शाश्रौ १५, २७,
११, या ७, २, -कान्^१ वृदे ४,
११५, -कानाम्^१ वृदे ४, ११४
कौशिक- पा ४, १, १०४,
-०क आश्रौ १२, १४, ६,
आपश्रौ २४, ९, १३, बौश्रौप्र
३८-३९ २, हिश्रौ २१, ३, १२,
जैश्रौ ३ : १६^२, ७ २, ३, दाश्रौ
१, ३, ३, लाश्रौ १, ३, १, हिगु
१, १७, ३१, वैध ४, १, १०,
११, -क वैताश्रौ १, ३, २२, १,
३६, २१, ४३, ३, कौसू ९, ११,
४६, १६, ६८, ३७, अप २३,
१०, ४, ४४, ४, ८, शंघ ३७७
७, ३७८, वैध ४, १, १०, अअ
६, ३५, ११७, -कस्य जैश्रौ
२२ : ७, जैश्रौका २१, -का.
अप १, ६, ९, अअ १०, ६,
-कान् अप ४४, ४, १५^२, -कान्
अप ५०, १, ५, -केन अप २९,
२, २
कौशिकी- -की अप १,
३, १०, -क्याम् विध ८५, ३१^२
कौशिकिन्- पा ४, ३, १०३
कौशिको(क-उ)क्त- -क्तानाम्
अप २३, ९, ४
कुशिक-वत् आपश्रौ २४, ९, १३,

बौश्रौप्र ३८-३९ . २, हिश्रौ २१,
३, १२, वैध ४, १, १०, ११
कुशीरक^१- (> कौशीरकेय^१- पा)
पाग ४, २, ८०
कुशीलव^१- -व. वाध ३, ३
कौशीलव- > °व-गन्धा (न्व-
अ)जन- -नानि गोयु ३, १, १७.
कुशीलव-ता- -ता विध ३७, ३२
कुशल^१- -लानाम् अप ६४, ४,
१०
कुशेरिका^१- (> कौशेरिकेय- पा)
पाग ४, १, १०३
कुश्मल- पाउना ४, १९५
कुश्रि^१- पाउमो २, १, २२८^१, -श्रिः
शुअ २, १७
कौश्रि- -अय. बौश्रौप्र ४३ ३
✓कुष्^१ पाधा क्रया पर निष्कर्षे
कुषिवा पा १, २, ७
कोष- पाग २, ४, ३१^३
कुषप- पाउमो २, २, २१०
कुषाकु- पाउमो २, १, ४१
कुषीतक^१- पाउमो २, २, ४१, पा,
पाग २, ४, ६९
१कौषीतक- -क बौश्रौ २, ३ ५:
आयु ३, ४, ४, कौयु २, ५, ३
कौषितकायन- पा २, ४, ६९
कौषीतकि- -कये कौयु २, ५, ६,
-कि शाश्रौ ४, १५, ७, ७, २१,
६, ९, २०, ३३, वाधुश्रौ ३, ३९:
२, कौयु २, ५, ६, ३, ७, ८, ५, ४,
१०, शायु ४, ५, ६, आमिण्ड ३,
६, ४ : १८, बौपि १, १३ : १७,
हिपि १० : १४, वृदे ५, ४४;

a) व्यप । व्यु ? । b) =नगरी-विशेष-। c) =ऋषि-विशेष-, नृप-विशेष- (या २, २५) । वैप
१ द्र. । d) बहु. < कौशिक-। e) विप (ज्येष्ठा-नक्षत्र-)। f) =नदी-विशेष-। g) अर्थ व्यु. व ? ।
h) =देश-विशेष- । i) =गायक- । व्यु ? < कु- + शील- + ✓ वा इति अभा । j) कुसूल- इत्यनेन
सन्ध्यायता द्र । k) < ✓कुश । l) या ५, २६; ६, २२ पा ३, १, १०, ७, २, ४६ परामृष्ट द्र । m) तु
आमम । कोश- इति भाषडा प्रमु ।

-किम् शाय ४,१०,३, ६,१,१,
अप ४३, ४, २९, -कीन् निस्
६,१२ : १३, -के शाश्रौ ११,
११,३,६
रकौषीतक^१- -रुम् शाश्रौ ४,
२,१३, ११,१४,२०
कौषीतकिन्- -किन आपश्रौ
१०,१, १०, भाश्रौ १०, १, ७,
आय १,२३,५, आमिण् ३, ६,
४.१९, बौपि १,१३ १७
कौषीतकेय- पा ४,१,१२४, -या
बौश्रौ ४१.८
कुषुभ- (>√कुषुभ्य पा) पाग ३,
१,२७
कुषुम्भ^२- -म्भम् अप्रा ३,४,११
†कुषुम्भ-क^३- -क^० आय ३,५,७,
कौय ३,७,१०, शाय ४,५, ८
कुषुचित्^४- (>कौषुचित्क- पा)
पाग ४,४,१०२
कुषुविद्- (> कौषुचित्क-) कुषु-
चित्- टि द्र
कुषु-घ- ३कु- द्र
रकुषु^५- पाठ २, २, -०ष्ठ अत्र ५,
४†, -घः अप्रा ३,४,११†, -घम्
कौसू ३५,२५, अप ३५,२,३,९,
अत्र ५,४, -घेन अप १८,३,१
कुषु-मासी- -सी अप ३५,१, १४
कुषु-लि(ङ्ग>)ङ्गा- -ङ्गाभि. कौसू
२८,१३
कुषुविद्- (>कौषुचित्क- पा)
कुषु-चित्- टि द्र
कुषिन्- -घी आमिण् ३, १०, १ :
५, बौपि ३,५, २^६, शंघ ३७५,

३७७ : १, विघ ४५, २, हिघ
२,५,४९
कुषि-पैतिक-ब्राह्मण- -गानाम्
विघ २,२७
कुष्य(छि-अ)समर्थ-लोहकार-
-राणाम् विघ २,२५
कुषि-व्यङ्ग- -ङ्गे अप २,४,५
रकुषु^६->कु (घ-क>)घिका- -का
अप्रा ३,४, ११†, -काम् आपश्रौ
१९,९,५, हिश्रौ २३,१,४७
कुषिका-शफ- -फा आपश्रौ १९,९,
४, हिश्रौ २३,१,४६^७, -फान्
आपश्रौ १९,९, ७, हिश्रौ २३,
१, ४७, -फाभ्याम् आपश्रौ
१९,९,५, हिश्रौ २३,१,४७
धकु(घ>)ष्ठा^८- -†ष्ठया^९ आपश्रौ
१०,२५,६, वैश्रौ १२, १८ ८,
हिश्रौ ७, २, ६२, -घाः माश्रौ
२,२,३, ३९, -घासु माश्रौ १,
२,३,७, २,२,३,३
कु-ष्ठल- किम्- द्र
कुषुटीन् आमिण् ३,११,१ ९.
कुषुमन्- पाठना ४,१५९
कुषुमल- पाठना ४,१९४
√कुस् पाधा दिवा पर संस्लेषणे
कुसप- कुराप- टि द्र
कुसय-सर्पिस्^{१०}- -र्षिषा आपश्रौ
१७, ११, ३, वैश्रौ १९, ६ :
३५.
कुसित^{११}- पाठ ४,१०६
कुसितायी- पा ४,१,३७
कौसित^{१२}- -तम् माय १, ६, २,
-तान् माय १,६,४

कुसिद^{१३}->कुसिदायी- पा ४, १,
३७
कुसिन्ध^{१४}- -न्धम् अप्रा ३,४,११†
कुसिन्ध-भग-सुगाल-सुराध्वज-
-जान् बौव १,१०,१८
कुसी अप ४८, २७†
कुसीद^{१५}- पाठ ४, १०६, -दम्
आपश्रौ १३,२४, १५†, बौश्रौ
४, ११ ८†, माश्रौ २, ५, ५,
१८†, वैश्रौ १६, २८. ५†;
हिश्रौ ९, ६, २५†, गोय ४, ४,
२५†, वाघ २, १९, बौध १,
५, ७७, गौघ १०, ६, १२, ३३,
-देन बौश्रौ १७, ३८ १६
कुसीद-जीवन- -नम् विघ ४०, १
कुसीद-वृद्धि- -द्धि गौघ १२,
२६
कुसीदिक- पा ४, ४, ३१
कुसीदिन्- -दिन आपश्रौ १०, ७,
७, शाश्रौ १६, २, २०, या ६,
२६, -दी ऋअ २, ८ ८१^{१६};
वृदे ३, ५८^{१७}, शुअ ३, २०७^{१८},
साअ १, १३९^{१९}, या ६, ३२
कुसुण्ड- पाठना ४, ११४
कुसुभ- पाठभो २, २, २३९
कुसुम^{२०}- पाठ ४, १०६, पाग २, ४,
३१, ५, २, ३६, -मानि अप
३५, २, १, ६७, ४, २, -मे याशि
२, ७५
कुसुम-सर्पिस्^{२१}- -र्षि वाश्रौ ३, ४,
२, ४
कुसुमा(म-आ)शिन^{२२}- -शिनः वैघ
१, ८, १

a) प्रोक्तार्थे अण्प्र । b) वैप १ द्र । c) पामे वैप १, १०९६ h द्र । d) अर्थ. व्यु च १ ।
e) तु पाका । कुषुविद्- इति पासि, कुषुविद्- इति भाण्डा । f) वैप १, ११३१ t द्र । g) षी इति
पाठ. १ यनि शोघ । h) वैप १, ११३१ y द्र. । i) कश^० इति पाठ १ यनि शोघ (तु आपश्रौ) । j) वैप १,
११३१ r द्र. । k) पामे वैप १, ११३१ s द्र. । l) पामे वैप १, ११३२ j द्र. । m) = ऋषि-विशेष- ।
n) = पुष्प- । व्यु ? । o) अर्थ ? । मलो कस. ? । p) = वानप्रस्थ- विशेष- । उस. उप <√अश (भोजने) ।

कुसुमित- पा ५, २, ३६
 कुसुमो(म-उ)ऋव-व अप ६४,
 ८, ३
 कुसुम्भ^a- पाउ ४, १०६, पाग ४, १,
 ४१^b
 कुसुम्भी- पा ४, १, ४१
 कुसुम्भ-कुङ्कुम-मानाम् शंघ
 १८२
 कुसुम्भा(म्भ-अ)तसी-नारिकेल-
 वृक्ष-क्षाणाम् वैश्रौ ११, ११ :
 ११
 कुसुरुविन्द^c- न्द. निस् ९, ४. १,
 भाशि ६८
 कौसुरुविन्द^d- न्द काश्रौ २३, ५,
 २२, २४, ३, १, हिश्रौ १७, ८,
 ३५, निस् १०, २ १, -न्दे
 निस् १०, १२ १०, -न्देन
 आपश्रौ २२, २२, ११, २४, ६,
 हिश्रौ १७, ८, १६
 ? कौसुरुविन्द-द्वितीय^e- यस्
 काश्रौ २४, ४, ४८
 कौसुरुविन्द-वत् आपश्रौ २२,
 २३, २
 कुसुरुविन्दु^f- न्दु शुभ १, ५३१,
 माअ २, ११८७, -न्दुम् आश्रौ
 १०, ३, २३
 कुसुरुविन्दु-त्रिरात्र^g- त्र शाश्रौ
 १६, २२, १४
 कुसूल^h- पाउभो २, ३, ११२, पाग
 ५, ४, १३८, -ला अप्रा ३, ४,
 ११ⁱ
 कुसूल-धान्य- न्य वैध ३, १,
 १२

कुसूल-पाद- पा ५, ४, १३८
 कुसूल-बिल- पा ६, २, १०२
 कुस्तुम्बुरु- ऋत ४, ६, ५, -रुणि
 पा ६, १, १४३
 कु-स्त्री- मिम्-द्र
 ✓ कुस्म् पावा चुरा आत्म कुत्सित-
 स्मयने
 कु-स्वप्न- किम्-द्र
 ✓ कुह^j पावा चुरा आत्म विस्मापने
 कुहक^k- पाउ २, ३७, -क वाध
 ६, ४०
 कुहक-शठ-नास्तिक-बाल-वाद-
 -रेषु आपथ १, २०, ५, हिव १,
 ६, १९
 कुह किम्-द्र
 कुहर- पाउभो २, ३, ३९
 कुहुड- पाउभो २, २, ११९
 कुह^l- पाउभो २, १, १२५, -ह्. आश्रौ
 १, १०, ८^m, ६, १४, १५, शाश्रौ
 ९, २८, ३ⁿ, वौश्रौ २४, २० ११,
 १२, हिश्रौ २१, २, ६७^o, कागुड
 ४४ १३, वैग १, १६ ५^p, कौस्
 १, ३०, अप ४८, १३९^q, वृदे
 १, १२८, २, ७७, ८, १२५, निघ
 ५, ५^r, या ११, ३१^s, ३२^t,
 अप्रा ३, ४, १^u, -ह्स् ऋश्रौ
 १, १०, ६-८, शाश्रौ ९, २८, ३^v,
 आपश्रौ ३, ९, ४, वौश्रौ २४, २९
 १४, माश्रौ ३, ७, १६, ८, २^w,
 ४, १९, ४, माश्रौ १, ३, ५, ४,
 वैश्रौ ७, ९ : ३, हिश्रौ २, ५, ९,
 ६, ४, १, २१, २, ६७^x, वैताश्रौ १,
 १६, आमिष्ट २, १, ५. २१^y, वैग

१, १६. ५^z, अप ३२, १, १९^{aa}
 वृदे ४, ८७, अअ ७, ४७^{ab}, अं
 २ ६८^{ac}, या ११, ३३^{ad}, -ह्वा
 ऋश्रौ ४, १३, २, ३, भाश्रौ
 ४, १९, ४^{ae}, माश्रौ १, ४, ३, १^{af},
 वाश्रौ १, १, ४, ९^{ag}, हिश्रौ ६, ४,
 १^{ah}, वृदे ४, ८७, -ह्वास् आश्रौ
 ४, १, १५, -ह्वा शाश्रौ ९, २८, २,
 वौश्रौ ८, २२ ११^{ai}, १२, ४
 २२, भाश्रौ ३, ८, १^{aj}, माश्रौ २
 ५, ५, ११, वैश्रौ १६, २७ १६^{ak},
 आमिष्ट २, १, ५ २३^{al}, वाद
 १३, १, वैग ३, ७ : ४, -ह्वाः
 हिश्रौ २१, २, ६७

कूच- पाउभो २, २, ७१.
 १कूचवार¹- > २कौचवार्य- पा ४,
 ३, ९४
 २कूचवार- (> कौचवार-) कुचवार-
 टि द्र
 ✓ कूञ्^m पावा भ्वा पर अव्यक्ते शब्दे.
 कूजित- > °त-सन्निभ- -भेन
 माशि ४, ५
 ✓ कूद्ⁿ पाधा चुरा आत्म. आप्रदाने,
 उभ परितापे
 कूट, टा^o- पाग २, ४, ३१^b, ४, २,
 ८०^{3p}, ६, २, ८५^q, -ट आपश्रौ
 २२, २१, ५, हिश्रौ १७, ७, २९;
 -टस् आपश्रौ ९, १४, १४^r,
 भाश्रौ ९, १६, १७, हिश्रौ १५,
 ४, २१, -टा आपश्रौ २२, ४,
 २४, हिश्रौ १७, २, २८, -टानि
 कौस् १६, १६, -टस् वौश्रौ १२,
 ५ २३, आमिष्ट ३, ५, ३. १;

a) = महारजन-। व्यु ² < ✓ कुस् इति अभा । b) तु पागम. । c) वैप १ द्र । d) = क्रतु-विशेष-।
 तेनदृष्टीयः अण् प्र । e) ण्वि² इति पाठ² यनि शोच. । f) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ² । g) = क्रतु-विशेष-।
 h) = अङ्ग^o। नाप । व्यु ? । i) वैप १, ११३२ III द्र. । j) विस्मायने, विस्मारणे इत्यपीति BPG । k) = अक्षक-।
 l) = नगर-विशेष-। व्यु ? । m) ✓ कुञ् इति BPG. । n) अवसादने इत्येके । परिदाहे इत्यन्ये । o) वप्रा. ।
 वैप १ निर्दिष्टयोरत्र संनिवेश द्र । p) अर्थ ? । q) वृद्- इति [पक्षे] भागडा ।

बौपि १,३ १, -टे सु १३, १,
-डेन हिगृ १, १५, ६१
कौटिक- , टीय- , टय- पा ४,
२, ८०^३.
कूट-कर्ण काण-खण्ड-खञ्ज-घृष्ट-वण्ड-
इलोग ससशफ-वर्जम् वैश्रौ १०,
९ १३
कूट-कर्ण काण-खण्ड-वण्ड-श्लोग-
ससशफ-वर्जम् आपश्रौ ७,
१२, १
कूट-कारक- -कः शंघ २०२
कूट-तक्ष- -तत् पावा ६, १, ६७
कूट-तुलामान प्रतिमान-व्यव-
हार- -रे शंघ ३१६
कूट-दन्त^१- -न्तान् आपमं २, १३,
१२, आमिगृ २, १, ३ : २१,
भागृ १, २३ १३, हिगृ २, ३, ७
कूट-लेख्य-कार- -रान् विध ५, १०
कूट-वादिन्- -दिन विध ५, १२३
कूट-व्यवहारिन्- -री शंघ ४०३,
४०४, ४१४, विध ५४, १५
कूट-शासन-कर्तृ- -र्तृन् विध ५, ९
कूट-शासन-प्रयोग- -गे शंघ ३१६,
कूट-साक्षिन्^२- -क्षिणम् विध ८,
१८, -क्षिणाम् विध ५, १७९,
८, २५, ३७, १०, ९, -क्षी शंघ
३७७ ९, विध ८, ४०, ५४, ९
कौटसाक्ष्य- -क्ष्यम् विध ३६,
२, गौघ २१, १०
कूट-स्थ- -स्थेषु अप ५२, ११, ४
कूट-स्थान^३- -नानि अप ५२, ११, १
कूटा (४ट^४)-कर्ण-काण-खण्ड-बण्डा-
(एड-अ)पन्नदत्- -न्तः वाश्रौ १,
६, ३, २६
कूटा(ट-अ)क्ष-देविन्- -विनाम् विध

५, १३४
कूटा(ट-अ)गार-प्रमाण- -जै. विध
४३, ४४
✓कूड् तुदा पर घसने^०
✓कूण् पाधा चुरा उभ संकोचने
कूती^१- > कूती-पलाश-मा (त्रा >)
त्र- -त्रम् माश्रौ १, ६, ४, १४
कूदी^२- -दीम् कौसू ७१, २१, ८०,
३३, ८६, २४, -द्या कौसू ८६,
२२, -द्या कौसू ७१, १९१
कूदी-प्रान्त- -न्तानि कौसू २१, २,
३५, २४
कूदी-म(य >)यी- -यी कौसू २१,
१३
कूद्यु (दी-उ) पस्ती (रुं >) र्णा-
-र्णायाम् कौसू ४७, ३०
✓कूप् ✓कृप् द्व
कूप^३- पाउ ३, २७, पाग ४, २, ८०^३,
५, १, २, -पः अप ७१, १४, ३,
निघ ३, २३१, या ३, १९४,
-पम् बौश्रौ ९, १९ ४१, आगृ,
या ४, १८, -पस्य अप ४८, ७७,
निघ ३, २३, -पात् बौध २, ३,
७, विध २३, ४४, ५४, २,
-पान् बौध २, ३, ६; -पानाम्
अप ७०^३, २, २, -पे विध २३,
४५, वैध २, १४, २, वृदे ३,
१३२, या ४, ६, अप्रा ३, ४, ११,
-पेभ्य हिपि १८ १७^३, १८,
-पेषु पा ४, २, ७३
कूप-कच्छप- पाग २, १, ४८, ६,
२, ८१
कूप-कर्तृ- -र्तृ विध ९१, १
कूप-कर्मन्- -र्मणा या ५, २६
कूपका- (> कूपकि-) कूप-

टि. द्व
कूप-चूर्णक- पाग २, १, ४८, ६, २,
८१
कूप-नामन्- -मानि निघ ३, २३,
या ३, १९
कूप-पतन- -ने काघ २७६ : १
कूप-पर्वत- -ता अप ७१, ४, ४
कूप-पर्शु^१- -श्वः या ४, ६
कूप-प्रखवण- -णेषु अप ६८, १,
१७
कूप-बिल- पा ६, २, १०२
कूप-मण्डक- पाग २, १, ४८, ६,
२, ८१
कूप-यज्ञ- -ज्ञस्य कागृ ७१, १३
कूप-वत् विध २३, ४६
कूप-वापी- -पीषु बौध १, ५, ५५
कूप-वापी-तडाग- -गानाम् अप ३९,
१, ८, -णेषु अप ३९, १, २
कूप-सेतु-तडाग-विप्र-देवतायतन-
भेदन- -ने काघ २७० : ८
कूप-स्थ- -स्थानि कप्र १, १०, १४.
कूपा(प-आ)दि- -दीनाम् अप ३९,
१, ५, -दे अप ३९, १, १२
कूपा(प-आ)राम-तडाग- -णेषु विध
९१, १९
कूपिक^३- पा ४, २, ८०
कूपे (प-इ)ष्ट(क >)का- -काभिः
वृदे ३, १३५
१कूप्य- पा ५, १, २
२कूप्य, प्या- -प्याः काश्रौ १५,
४, ३५, बौश्रौ १२, ८ : ११,
माश्रौ ६, १, ५, २२, कौगृ ५, ५,
६१, वागृ ४, ३१, -प्यान् वैध २,
१३, ५, -प्यानाम् आपश्रौ १८,
१३, ६, वाश्रौ ३, ३, २, १६

a) =देश-विशेष-^१। b) विप । बस पूष =उन्नत-। c) विप । बस । d) पाठ.^२ यनि
शोधः । e) तु BPG । f) अर्थः व्यु च^३। g) वैप १ द्व । h) अर्थ^१ । सकृत् कूपका- इति पाका ।
३) षस उप =इष्टका- ।

हिश्रौ १३, ५, १४, -फण्याभ्य
 आपश्रौ २०, ११, १७, आमिष्ट
 २, ४, ३ : १३, वैगृ १, ४ २
कूपत्- पाग १, ४, ५७
कूबर^a- पाउभो २, ३, ७४, -रम् बौश्रौ
 १२, १२ : ९, १३ २४, १८,
 २४ : १४
कूबरी- रीम् पागृ ३, १४, ५
कूबर-बाहु^b- हू गोगृ ३, ४, ३०
कूर्कुर^c- र पागृ १, १६, २४^२
कूर्च^d- पाउभो २, २, ७३, पाग २, ४,
 ३१, -चै शश्रौ ४, २१, २५,
 वैताश्रौ ३६, २३, आमिष्ट १, ५,
 १ ३, २, ६, ६ ७, बौगृ १, २,
 १५, हिगृ १, १२, १६, -चैम्
 शश्रौ ४, २१, २, १७, ४, ५,
 काश्रौ ४, १३, १४, बौश्रौ,
 -चैयो काश्रौ २०, २, १९, बौश्रौ
 १६, २१ ८, हिश्रौ १६, ६, ४५,
 -चैस्य कागृ ६, ३, -चैर्न द्राश्रौ
 १०, ४, ७, १४, लाश्रौ ३, १२,
 १४, वैताश्रौ ३४, ७, ८, बौगृ १,
 २, ५, -चैभ्याम् आपगृ १३, ७,
 १०, आमिष्ट २, ६, ६. ९, बौगृ
 १, २, १९, २६, ३०, ३३, ४०,
 -चै आश्रौ १०, ६, ११, काश्रौ
 ४, १४, १६, २०, आपश्रौ,
 -चैन भागृ २, २३ : ३, वैगृ १,
 ९ : १६ x x, -चैषु आपश्रौ २१,
 १७, १५, हिश्रौ १६, ६, १३, पागृ
 ३, ८, ११, -चै वैश्रौ १२, ७ :
 १२, आमिष्ट २, ४, ६ : ६, -चै
 आपश्रौ २१, १७, १४, २१, ७,
 बौश्रौ १६, २० : ४, २१ ३,

लाश्रौ ३, १२, ६, बौगृ १, २, ६
कूर्च-त्रय- -यम् आमिष्ट २, ६, ६ २
कूर्च फलक- -के हिश्रौ १६, ६, १२
कूर्च-स्थान- -ने काश्रौ ४, १४, २८
कूर्चा(चि-अ)क्षत-सुवर्ण-रत्न- -लानि
 वैगृ ४, ११ २
कूर्चा(चि-आ)दि- -दीनि गौघ १०,
 ५८
कूर्पा^e- पाउभो २, २, २०८, पाग ५,
 १, २०.
कूर्पर^f- पाउभो २, ३, ३९, -रम् याशि
 १, २०
कूर्पास- पाउभो २, ३, १७८
कूर्मी^g- पाउभो २, २, २४७, -र्म
 आपश्रौ १६, १३, १०, वैश्रौ,
 -र्मम् काश्रौ १७, ४, २७,
 आपश्रौ १६, २५, १, बौश्रौ,
 -र्मस्य आपश्रौ १, २५, ४, भाश्रौ
 १, २६, २, वाश्रौ, -र्मा. अप
 ६२, ३, २, बुदे ७, ७९, बौश्रु
 २० : २, -र्म बौश्रौ २, ५ ३१
कूर्मी^h- र्मी अनिसू ४ ३५
कौर्म्यⁱ- र्म्यम् शुअ २, १६३
कूर्म-चित^j- चित् बौश्रौ १७, ३०
 ६, ९, -चितम् बौगृ २० १
कूर्म-पित्त^k- -त्तम् पागृ १, १४, ५
कूर्म-पृषत्^l- -वन्तम् आपश्रौ १७
 १३, ६, बौश्रौ १०, ५० : २३१,
 २४, वैश्रौ १९, ६ : ७२, हिश्रौ
 १२, ४, ९
कूर्म-प्रकार^m- -रम् बौश्रौ १, ९ : १४
कूर्म-प्रवेश- -शे काध २७६ ७
कूर्म-मकर- -रौ अप ३९, १, १०.
कूर्म-लक्षणⁿ- -गम् चव्यू २. ३२

कूर्म-वत् काश्रौ १७, ९, ६
कूर्मा(र्म-आ)कृति^o- -तिम् माश्रौ
 १, २, ३, २२, ३, ६, १६
कूर्मा(र्म अ)ङ्ग- -ज्ञानि नाशि १, ६,
 १२
रकूर्म^p- -र्म ऋअ २, २, २७, शुअ ३,
 २११, ४, ३६
✓कूल् पावा भ्वा पर आवरणे,
 कूलयेत् आपश्रौ ६, ६, १
१कूल^q- पाग ५, २, १३६, -लम् बौगृ
 ४, ३, ७, विध ६३, ४८^२, या ६,
 १४, -लस्य आपश्रौ ११, २०,
 ८, हिश्रौ ७, ८, ५१, -लात् वैश्रौ
 १२, १४ १३, वाव ६, १६,
 -लानि या ६, ४, -लेन आश्रौ
 २३, १२, २३, १३, १३
कूलं-कष- पा ३, २, ४२
कूल-तीर-तूल-मूल-शाला(ला-अ)क्ष-
सम- -मम् पा ६, २, १२१
कूलम् उद्वृज-, उद्वृह-पा ३, २,
 ३१, पावा १, ३, १०
कूल-मृत्तिका- -का अप १, ४३,
 ७
कूल-वत्- पा ५, २, १३६
कूल-शातन- -नः या ६, १७
कूल-सूद-स्थल-कर्ष- -र्षा. पा ६,
 २, १२९
कूला(ल-आ)दि- -दीनाम् पावा ६,
 २, १२१
कूलिन्- पा ५, २, १३६
कू(ल्य>)ल्या^r- -ल्याः आमिष्ट २,
 ६, ४ : १०, ११^२, १२, १३, ३, १,
 २ ६१, २, ५, १२१, ७ ५, हिगृ
 २, ११, १, १५, ७

a) वैप १ द्र । b) = रेषा- । c) = बालग्रह-विशेष- । व्यु १ । d) अर्थ व्यु च १ । e) तु-
 पागम् । = देश- । f) = शरीराङ्ग- [कफोणि-] । व्यु १ । g) = छन्दो-विशेष- । h) विप । साऽस्य देवतीयः
 ऋग् प्र उर्से (पा ४, २, ३०) । i) = स्थण्डिल-विशेष- । j) = उदकयुक्त-शराव- । व्यु १ । k) विप । बस ।
 l) = परिशिष्टाऽन्यतम- । समासः १ । m) व्यप । व्यु १ । n) कूपम् इति जीसं । o) = अल्पा-कृत्रिमा-सरित्- ।

२कूल- (>कौलक^a- पा) पाग ४,
२, १२७

कूलास^b- (>कौलास- पा) पाग
४, २, ७५

†कूल्बजम्^c अप्रा ३, ४, १, दवि
२, ५

कूवाचर- (>कौ^d) कुचवार-टि द्र
कूश्माण्ड^e- पाउभो २, २, १७७,

-ण्डम् शध ११६ २८, -ण्डानि
बौश्रौ २, ११ : २३, बौगृ २, ९,
५, मागृ ३, १५ ३, वाध २८, ९,
११, गौध १२, १३, -ण्डैः बौध
२, १, ५८, ३, ७, १, गौध २०,
१२, २२, ३८, २४, ११

कूश्माण्ड^f- ण्ड्य आमिगृ २,
६, ५ ९, बौगृ २, ९, ५, ११,
मागृ ३, १५ ६, १८†, बौध ३,
१०, ११, ७, ५

कूश्माण्ड-होम- -मम् वैगृ ३, २१
२, -मान् वैश्रौ १, ४ ५

कूश्माण्ड^g- -ण्डै. वाश्रौ १, ४, १, ६,
आमिगृ २, ४, ४ १, वाध २३,
२१, शध ४४३, सुधप ८६ ६

कूश्माण्ड^h- -ण्डी विध ८६,
१२, शुअ २, ४१४, -ण्डीभिः
शध ३७९, विध ८, १६, -ण्ड्य
आमिगृ २, ४, ५ : ८†, अप ४६,
७, ४, शध १०५, बौध ४, ३, ७,

विध ५६, ७.

कौष्माण्डिकⁱ- -कम् अप ४२,
२, १०

कूष्माण्ड-राजपुत्र- -त्र वैगृ ६७ ६,
मागृ २, १४, २, २९, -त्राय
मागृ २, १४, २७

कूष्माण्ड-वत् अप ५२, १२, ४

†कूष्ठ^j ऋअ २, ५, ७४†

✓कू^k पाधा खा तना उभ करणे,
करते ऋप्रा ७, २२†, करति
आश्रौ ५ २०, ६, आपश्रौ १६,
७, ४†, हिश्रौ ११, २, २†, अअ
१२, १६, ऋप्रा ४, ४५†, पा ८,
३, ५०, †करत आपश्रौ १४,
२९, १, या ३, १५, करन्ति या
३, १०†, †करसि वैश्रौ १८, ५
१†, आमिगृ ३, ६, १ ४, बौपि
१, ८ ४, करथः ऋप्रा ४, ६०†,
करामहे बौश्रौ ११, ६ १८†,
†करत् आश्रौ ३, ४, १५, आपश्रौ
४, २, १†, बौश्रौ, माश्रौ ४, २,
३†, हिश्रौ १, २, ५†, आपमं^l १, ४,
५, ५, ७, बौगृ १, ४, १८¹, पा ८,
३, ५०, करन् माश्रौ ५, २, ९, ६,
ऋप्रा ९, ४९†, कर ऋप्रा ४, ६३†,
कराथ कौस् ९६, ३†, कराथ
कौस् २, ३६†, करवे काश्रौ २५,
११, २१†^m, †करतुⁿ आमिगृ ३,

७, १ ९, बौपि १, १७ : ९;
करताम् माश्रौ ५, २, ९, ६, कर
>रा^o ऋप्रा ४, ६२†

कृषे या ५, २५†^p, कृथः ऋप्रा
८, ८†, कृष्व>ष्वा ऋप्रा ७,
३३†, †कृषि आश्रौ ३, ८, १, ११,
११, शाश्रौ ३, २०, २१, ८, ४, ३;
काश्रौ २५, ११, २१†, आपश्रौ
३, १२, ११, ४, १५, १, १२,
२४, ८^q, २२, २६, ७^r, बौश्रौ;
माश्रौ ३, ११, ११, माश्रौ ३, २,
११, वाश्रौ १, ३, ७, १२†; हिश्रौ
२, ६, १२†, आपम १, ४, ६†;
१५, २^s, २, ४, २^t, कौगृ १,
१९, १०^u; शागृ १, २७, ७^v;
आमिगृ १, १, २-५३^w, हिगृ १,
४, ११^x, अप्राय २, ४^y, पा ८,
३, ५०, कर्त (न>)ना ऋप्रा ८,
३३†

†कृणुते^v पागृ ३, २, २^z, मागृ;
जैगृ २, ३ ५, या ३, १५,
५, १९, †कृणोति^w मागृ २,
१७, १, अप्राय, या ९, १४,
१७†^x, कृणुत^y आपमं १, ११,
११†, †कृणवत्^z हिश्रौ ११, ३,
२४†^y, कृणवते आपश्रौ १६, १८,
७†, वैश्रौ, †कृणवन्ति आपश्रौ
१२, २६, १७, बौश्रौ, कृणोषि

a) =देश-विशेष-। व्यु १। b) अर्थ. व्यु च १। c) वैप १, ११३३ ङ द्र। d) =विनायक-विशेष-।
व्यु १। e) =मन्त्र-विशेष-। व्यु १। f) =सूक्त-विशेष-। g) मलो कस। h) वैप १ द्र। i) ऋत
४, १, १, ५, ५ शौच ४, ५८ या २, ८ पा १, ३, ३२, ६३, ७१, ७९, ४, ५३, ७२, ९८, २, ३, ५३, ४, ८०, ३, १, ५९;
७९, ४, १४३, ५, ४, ५०, ६, ४, १०२, ७, २, १३, ८, ३, ४६ पावा १, ३, ६२, ७९, ४, ५३, ३, १, २५, ६, १, १२, ४,
११०, ७, २, १०, १३, ४, १० परामृष्ट द्र। j) पामे वैप १, ११३४ h द्र। k) पामे वैप १, ११३६ f द्र।
l) पामे वैप १, ११३५ a द्र। m) पामे वैप १, ११३८ j द्र (तु टि श्यवे)। n) पामे वैप १, ११३४ k
द्र। o) वैप १, ११३५ f द्र। p) वैप १, ११३५ g द्र। q) पामे वैप १, ११३५ j द्र। r) पामे वैप १,
प्रा (कृष्वे) शौ ७, १०५, १ टि द्र। s) पामे वैप १, ११३६ d द्र। t) पामे वैप १, ११३५ k द्र। u) पामे
वैप १, ११३५ h द्र। v) पाठ ? णुत [मपु३] इति शोध (तु जैगृ २, ३. ५ प्रमृ)। w) पाप्र (३, १, ८०)
<✓कृष्व इत्यपि। x) पामे वैप १, ११३७ p द्र। y) सपा. मै २, ७, ७, ३, १, ९ कृणुत. इति पामे.।

आपम १,५,१२[†], वायु, ऋणुथ,
 >था अत्र ६,२२, ऋप्रा ७,१०,
 ८,३०, ऋणुगोमि आश्रौ ३,१३,
 १४, आपश्रौ ७, १७, ७^६, बौश्रौ
 ४, ४०^६, ११, ४:२४^६, १५,
 २९:२०^६, माश्रौ ७, १३, ८^६,
 माश्रौ, वैश्रौ १०, १४. ३^६, हिश्रौ
 ४, ४^६, आपम १, ५, १७[†],
 कृण्मसि कौसू २, ३१[†], ऋणुवत्
 काश्रौ १०, ९, ८, बौश्रौ ८, १८
 २, माश्रौ २, ५, ४, ४०, आपम
 २, ११, २८, कृणवत् शाश्रौ १२,
 १८, १^६, ऋणुवन् आपश्रौ
 १६, १२, १, या ४, २०, २५,
 कृणवथ आश्रौ ३, ४[†], ऋणुगोतु
 आश्रौ १, ६, ५^६, २, ११, १२^६,
 शाश्रौ १, ९, २, ३, ६, २^६, २, २८,
 ३^६, आपश्रौ ६, ३०, १०^६, बौश्रौ
 ३, १२ १०^६, माश्रौ ६, १७,
 १७^६, माश्रौ १, २, ४, ४^६, ६, ४,
 २६^६, वाश्रौ १, १, २, १९, हिश्रौ
 ६, ८, १^६, वैताश्रौ १७, ७,
 आपम १, ८, १०^६, २, ४, ४^६,
 कौश्रौ ५, ८, ५, पाश्रु ३, १, ४^६,
 ३, ६^६, आपश्रु ११, ६^६, माश्रु २,
 ८, ६^६, हिश्रु १, ७, ११^६, कौसू
 ४२, १७^६, ऋणुताम् आश्रौ २,

१०, १६, आपश्रौ, ऋणुवन्तु
 आपश्रौ १६, ४, ५, बौश्रौ,
 ऋणुष्व आश्रौ ४, ६, ३, शाश्रौ,
 आपम १, ६, ४^६, माश्रु १, १३,
 ६^६, या १२, ८^६, कृणु बौश्रौ
 १, २०. २५, जैश्रौ, ऋणुहि
 आश्रौ ४, ४, २, शाश्रौ ३, १९,
 ३^६, माश्रौ ६, २, ३, ८^{२०}, वैताश्रौ
 २५, १४^६, बौश्रु २, ५, १२^६, वाश्रु
 ५, ९^६, या ५, १५, ६, १०, ८,
 ६, ऋप्रा ८, ४२, कृणुतम् आश्रौ
 ४, १३, ५[†], बौश्रौ, ऋणुध्वम्
 आपश्रौ १४, १७, १×४, वाश्रौ,
 या ५, २६, १२, ४३, ऋणुत
 शाश्रौ २, ८, ८[†], काश्रौ ७, ४, १५^६,
 आपश्रौ २, २, ६, ६, १०[†], १०,
 १२, ४^६, बौश्रौ, बौवि ३, २,
 १०^६, ऋणुतात् आश्रौ ३, ३,
 १^६, शाश्रौ ५, १७, ५, माश्रौ २,
 ५, ५, २१^६, ऋणुगोत बौश्रौ १७,
 ४२ १२^६, वैताश्रौ १०, १७,
 आपम २, ९, ६^६, आश्रु १, ३,
 ५: १४^६, माश्रु २, २२ १५^६,
 ऋप्रा ५, ५९^६, ७, ४२, कृणवाव
 या ४, १६[†], ऋणुवाम शाश्रौ
 १२, ४, १३, आपश्रौ, ऋणु-
 गोत् बौश्रौ १, १५: २१, वाश्रु

१४, १^६, या ५, ३, ६, २,
 तैप्रा ११, १७, अकृणुताम् पाश्रु
 २, ६, १२[†], ऋणुवत् अप १,
 ५१, १, या २, २५, ५, २५,
 ऋणुवन् आपश्रौ १२, ७, १०,
 हिश्रौ ८, २, ९, कौसू ५, ६, ५९,
 १९, या ७, २८, अप २: ७८,
 ऋप्रा २, ७२, अकृणो शाश्रौ १२,
 १६, १[†], अकृणुतम् गोश्रु ३, ४,
 १७[†], अकृण्महि भाश्रौ १०,
 १८, १०[†]
 कुरुते शाश्रौ ७, ७, ४, काश्रौ,
 करोति आश्रौ १, ११, ४, शाश्रौ,
 बौश्रौ २७, २. २०[†], पा
 ४, ४, ३४, पावा ३, १, २६,
 कुरुत काश्रौ १५, ७, १३,
 आपश्रौ, कुर्वते आश्रौ ३, ६, २५,
 शाश्रौ, कुर्वन्ति आश्रौ ६, १०,
 १, शाश्रौ, हिश्रौ २४, ५, ५^६,
 करोषि आपश्रौ ९, १८, ९[†],
 कुरुथ या ३, १५, ऋणुमि
 आपश्रौ २, ८, ६, १०, ६^६, ७,
 १७, ६^६, बौश्रौ १, १४ ४^६××,
 भाश्रौ, माश्रौ १, २, ६, १९^६,
 आपम १, ५, १६^६, १३, १^६, कौश्रु
 १, १०, २, १^६ शाश्रु १, २८, ९^६,
 आपम २, १२, ६^६, १४^६, ५-९,

- a) पांमे वैप १,११३८० द्र. । b) पांमे वैप १,११३८ n द्र । c) पांमे वैप १,११३९ l द्र ।
 d) पांमे वैप १,११३९ p द्र. । e) पांमे वैप १,११४० g द्र । f) पांमे वैप १,११०९ f द्र । g) पांमे
 वैप १,११४५ k द्र । h) पांमे वैप १,११४० l द्र । i) पांमे वैप १,११४० m द्र । j) पांमे.
 ४४७ j द्र । k) सपा कृणोतु <> दध्नातु इति पांमे. । l) पांमे पृ २६२ g द्र । m) पांमे वैप १,
 ११४१ ० द्र । n) पांमे वैप १,१७१० h, परि धेहि मै १, ४, ३ टि द्र । o) पांमे वैप १ पिपृहि तै ३,
 ५, १, १ टि. द्र. । p) पांमे वैप १,११४५ q द्र । q) सपा. शौ २, १३, २ कृणुत इति पांमे । r) सपा
 कृणुत <> करिष्यथ <> अकार्षी इति पांमे । s) पांमे वैप १, ११४२ j द्र । t) कुरुत इति मैसू ।
 u) पांमे वैप १,११३९ n द्र । v) पांमे वैप १,११३५ e द्र । w) पांमे वैप १,११४३ g द्र. । x) वैप
 १,२९८ ० द्र. । y) क० इति पाठ. १ यनि. शोष । z) पांमे वैप २, ३४ं करोमि तैप्रा ३, ७, ५, २ टि. द्र ।
 a^१) पांमे वैप १,११३८ l द्र । b^१) पांमे वैप १ परि. अस्तु मा ३, ६२ टि द्र. । c^१) पांमे वैप १,११३८ ४
 द्र. । d^१) पांमे वैप १,११४५ b द्र ।

पागृ १, १६, ६^a, वागृ ११, ७^b, हिगृ
१, २५, १०, २, ३, १०^d, तैत्रा ८,
३०, कुर्महे शाश्रौ १५, २६,
११, कुर्म बौश्रौ १०, ५१. १७१,
जैश्रौप, णंकरवत् काश्रौ १२, २, ८,
हिश्रौ १६, १, २९, कौसू १७, ७,
णंकरव^o आमिगृ ३, ६, १ : २,
बौपि १, ८ २, णंकरोतु आश्रौ
२, ७, ११, शाश्रौ ४, १३, १^f,
आपश्रौ २, ११, १०^g, ६, ११, ५^f,
१५^h, २, २, ६, णंकुस्तात् वाश्रौ
६, ८, १, आपश्रौ, णंकुर्वताम्
अप १, ११, ४, ३९, ४, अशा ९,
४, णंकुर्वन्तु आमिगृ २, ५, ११
२४, वागृ, कुरुष्व आपश्रौ १२,
२६, ४^h, बौश्रौ, णंकुरु आश्रौ
२, १६, १९, ६, ३, २२ⁱ, शाश्रौ,
माश्रौ १, २, ५, १०, ६, ३, ७^j, २,
१, ३, ४^k, आपम १, ४, ६^k, २, ६,
१२^l, ८, ४^m, हिगृ १, १०, ६^m,
२०, २^k, कुरुकुरु अप ३६, १,
१४ⁿ, णंकुस्तात् आपश्रौ ६, २१,
^o, वाधूश्रौ ३, ५४ : २, कुरुध्वम्
बौश्रौ ७, १३ : ६×४, वैश्रौ,
या ५, २६, १२, ४३, कुरुत शाश्रौ
४, २१, २३, आपश्रौ १०, १६,
१६^h, बौश्रौ, णंकरोत बौधⁿ २,
१, ३४, ४, २, ११, कुरुतन निघ
४, १^h, या ४, ७, कुरुतात् हिश्रौ

१४, १, २५^h, णंकरवै बौश्रौ
२८, ९ २०, आय, करवाणि
आश्रौ ६, ५, ३, बौश्रौ, विध
७३, १२^o, करवावहै बौश्रौ
१८, ४४ : २०, अकुरुत बौश्रौ
८, १९ १२^h, अकरोत् वाश्रौ
३, ४, १, ३७^h, हिश्रौ, या ५, ३,
६, २, ८, १४, अकुर्वत बौश्रौ १४,
८ १^h, २, ४^h, ५, ६, आमिगृ
३, २, ४ १२, मागृ २, ८, ४^h,
या ५, २५, तैत्रा ५, ७^h, अकुर्वन्
या ७, २८, णंकुरतम् शाश्रौ
८, ११, १३, अकुर्वम्^h आपघ
१, १३, २०^h, हिघ १, ४,
३३, कुर्वीत आश्रौ ६, ९, १,
शाश्रौ, कुर्यात् आश्रौ १, ३,
२२, शाश्रौ, कुर्याताम् जैश्रौका
१९१, द्राश्रौ, कुर्वीरन् शाश्रौ
१३, २०, ४, काश्रौ, कुर्यु आश्रौ
६, ११, ६, शाश्रौ, कुर्याम्
आपश्रौ १२, १५, २×४, हिश्रौ
चक्रे बौश्रौ १२, ९ ९^h, वाधूश्रौ,
णंचकार आश्रौ २, २, ३, शाश्रौ,
णंचकतु शाश्रौ ९, ६, २१,
आपश्रौ, चक्रिरे णंआपश्रौ ५, ६,
३, १९, ३, बौश्रौ, चक्रुः सु ७,
४, हिपि, चक्रुषे कौसू २, २१^h,
चकर्थे बौश्रौ १८, २६ १६,
सु, णंया ३, २१, ६, ३, णंचक्रथु

या ६, २६; ९, ४१, णंचक > का
आपश्रौ १४, १६, १, हिश्रौ;
णंचक्रम, > मा आश्रौ ६, १२, ३;
शाश्रौ, णंकरतास्मः द्राश्रौ ७, ३, ६;
लाश्रौ ३, ३, १०, करिष्यति
शाश्रौ १, ४, ५^h, आपश्रौ, या १,
४^h, ५^h, करिष्यन्ते शाश्रौ ३, ८,
२२, करिष्यन्ति या ४, २०;
करिष्यसि सु ६, ४, १४, ५;
करिष्यथ आश्रौ २, २, १५^h;
करिष्ये आपश्रौ ४, ४, १^h, भाश्रौ;
आगृ ४, ७, १८^o, करिष्यामि
शाश्रौ १, ४, ५^h, काश्रौ, कौगृ ३,
५, ९^o, शागृ ४, २, ३८^o, बौध
२, ८, ७^o, हिघ २, ५, ४६^h;
करिष्यामहे पागृ ३, १०, १३;
करिष्याम. बौश्रौ २, ४ १७;
२०, जैश्रौ, क्रियात् आमिगृ ३,
१०, ४ : ९, णंक्रियासम् आश्रौ
१, ११, १, शाश्रौ, णंअकृत आश्रौ
१, ९, १, शाश्रौ; या ४, १६, णंअ-
करत् आपश्रौ १४, ३१, ३, हिश्रौ;
आपमं १, १, ९^h, अकार्षीत्
आपघ १, २६, १३^h, हिघ,
णंअक आश्रौ ३, १३, १२;
शाश्रौ, आपश्रौ २, ४, १^h, भाश्रौ
२, ४, २२^h, वैश्रौ २०, ९ : ४^h,
हिश्रौ १५, १, ७५^h, पा ३, १,
४२, णंक आपश्रौ १२, १५,

- a) पांमे वैप १, ११४५ b द्र । b) पांमे पृ ११२० द्र । c) पांमे. वैप १, ११३८ I द्र ।
d) पांमे वैप १, ११३८ S द्र । e) = सपा तैत्रा ६, १, ४ । ऋ १०, १६, १ शौ १८, २, ५ तु कृण्वः इति पांमे ।
f) पांमे वैप १, ११४० I द्र । g) पांमे वैप १, ११४० I द्र । h) पांमे. वैप १, ११३४ m द्र ।
i) पांमे वैप १, ११४५ q द्र । j) सपा कुरु <> कुरुत इति पांमे । k) पांमे वैप १, ११४१ h द्र ।
l) पांमे वैप १, ११४१ ० द्र । m) पांमे वैप १, ११४१ p द्र । n) पांमे वैप १, ११४० m द्र ।
o) सपा. करवाणि <> करिष्ये <> करिष्यामि इति पांमे । p) पांमे वैप १, ११४९ f द्र । q) = अकरवम् ।
r) अकुर्वीत इति पाठः ? यनि शोधः (तु हिघ १, ४, ३३) । s) पांमे पृ ८९८ I द्र । t) सपा.
करिष्यामि <> क्रियाताम् इति पांमे । u) पांमे वैप १, ११४३ g द्र । v) पांमे. वैप २, ३खं. अकः तैत्रा ३,
७, ३, ६ टि द्र ।

६, बौश्रौ ९, ९ ११^०, हिश्रौ,
बौगृ २, १, १०^०, पा ८, ३, ५०,
अक्राताम् आश्रौ १, ९, ३, शाश्रौ,
ःअकृषत बौश्रौ ११, ४ २१××,
अकृत आश्रौ १, ९, ३, शाश्रौ,
आपमं २, २०, ३४^०, आमिगृ
३, २, २ ४^०, भागृ २,
१५-६^०, हिगृ २, १४, ४^०,
ःया ४, ९, १२, ७, ःअकृन्
काश्रौ ५, ५, १२, आपश्रौ,
ःअकृथा बौश्रौ २८, ६ ५^२,
वैश्रौ, कृथा आश्रौ ५, ५, २१,
कागृ, ःअकार्षी वैश्रौ २, १०
१६, हिश्रौ ६, ७, ८, कार्षी या
१, ५, अकर अप १^२, १, ३^०,
अकाष्ट आश्रौ २, ३, ९^०,
ःकार्षी^d श्रौम् २२, २५, २८,
ःअकर्त शाश्रौ १५, २७, १, अकर्त
शाश्रौ १५, २७, १^०, हिश्रौ, अकि
आपमं १, १६, ४^०, अकृषि बौश्रौ
२४, १२ : १५, ःअकारिषम्^e
आश्रौ २, १२, ५ ६, १२, १२,
शाश्रौ, ःअकार्षम् आश्रौ ८, ३,
३२^०, आपश्रौ, ःअकरम् आश्रौ
६, ४, १०, आपश्रौ, ःकरम् कागृ
२५, ५, ऋप्रा ४, ४३, ःअकर्म
आश्रौ ३, १०, ३१^०, काश्रौ
२५, ९, १५^०, आपश्रौ ३, १२,
१^२, ९, १८, १२^०, बौश्रौ ८,
२० : १७^०; भाश्रौ, माश्रौ ३, ५,
१४^०, हिश्रौ १५, ८, १२^०, या
१२, ४२^०, ःअकार्षम् द्राश्रौ
१२, ३, २, लाश्रौ ४, ११, ५,

अकरिष्यत् निसू २, ९ २८××
क्रियते शाश्रौ १५, १३, १४,
काश्रौ, आपश्रौ ३, १२, १^०,
क्रियते हिश्रौ ४, ४, ७१, ८, ६,
४, क्रियन्ते शाश्रौ १२, ७, ४,
आपश्रौ, ःक्रियातै बौश्रौ १,
१२ : २२, २, ७ : ४, क्रियताम्
आपश्रौ १४, ३३, ८^०, हिश्रौ,
आपध २, १७, १८^०, क्रियेत
शाश्रौ ४, ५, १३, आपश्रौ,
क्रियेरन् आश्रौ ६, ८, २, बौश्रौ,
अकारि शाश्रौ १८, १९, ९, हिश्रौ
कारयते आपश्रौ १०, ५, ११,
भाश्रौ, कारयति आपश्रौ १०,
४, १४, बौश्रौ, कारयन्ते हिपि
११ ६, कारयन्ति शाश्रौ १७,
२, १, मागृ, कारय द्राश्रौ १३, १,
१४, लाश्रौ, कारयध्वम् अप
३१, २, २, कारयति माश्रौ १, ४,
१, ४, २, १, १, २९, कारयेत हिघ
१, २, ११^०, कारयेत् शाश्रौ १३,
२, १, आपश्रौ, आपध १, ८, ३^०,
कारयेताम् निसू ७, १० ३,
कारयेयु. वैश्रौ २१, ११ ३ द्राश्रौ
१०, २, १४^०, निसू ८, ७ : १५,
कारये लाश्रौ ३, १०, १८^०
कारयिष्यामि बौश्रौ १८, २०,
१०
चिकीर्षति आपश्रौ ६, ६, ८^०,
निसू, चिकीर्षन्ते भागृ १, १२
१३, चिकीर्षन्ति विध ५४, २७,
चिकीर्षतु अप १, १०, ६, अचि-
कीर्षत् निसू ३, ११ : १६,

चिकीर्षत् भाश्रौ ११, १५, १,
वैश्रौ, चिकीर्षेरन् आश्रौ ८, १३,
२२
अचिकीर्षित् निसू ३, १२
४७××
चिकीर्ष्यते मीसू २, १, ८, ४, ७,
४, १, ३
चिकीर्ष्यन्ति या १३, ४४
चर्कृधि शाश्रौ १२, १५, १^०,
चर्किराम ऋप्रा ८, २^०
२कर^१- पाग ५, २, ३६, -रः कप्र
१, १, ८, -रम् आमिगृ २, ६, १ .
३, कप्र २, ५, १७, अप २७, २,
१, विव २७, १, वैव २, ९, ६,
माशि २, १०, ११, याशि १, ५२,
५३, -रयो विघ ११, ३, १०,
-रस्य कप्र २, ५, १७, -रात् कप्र
२, ८, १८, अप ४१, ४, ३,
-राभ्याम् अप ६८, ३, १०,
-रे वैगृ ४, ३ ११, ७, ८ : ३,
अप ६७, १, २, वाध ६, १८,
विघ ६०, २५, २७, १, वृदे ७,
५६, -रेण कप्र २, १, ९, -रौ
वैगृ १, २. १३, ९ १०, ५, ४ :
२७^०, विघ १, २५, ११, १०,
वैघ २, ९, ६
२कार^३- कर-भू- द्र
कर-कूप- -पम् हिपि १७ : १४,
१८ १२, १८
कर-ग^२- -गम् सुधप ८७ ९
कर-च्छेद- -दः विघ ५, १३४,
१३६
कर-तल- -लम् कप्र ३, ९, १८,

a) पाभे. वैप १ परि. अकः सा ३८, ५ टि. द्र । b) पाभे वैप १, ११४९ f द्र । c) पाभे.
पृ ८९८ q द्र । d) पाभे. वैप १, ११४९ m द्र । e) पाभे वैप १, ११५० b द्र । f) पाभे वैप २, ३ ख
अक तत्रा ३, ७, ३, ६ टि द्र. । g) पाभे वैप १, ११३८ p द्र । h) पाभे. वैप २, ३ ख. क्रियते तत्रा ३, ७,
११, ५ टि. द्र । i) पाभे. पृ ८९९ t द्र । j) सपा कारयेत् <> कारयेत् इति पाभे । k) परस्परं
पाभे. । l) = हस्त- । m) स्वार्थे अण् प्र. । n) विप । उस उप. <✓गम् ।

-लै. विध १,४३
 कर-द्वय-सहित- -तानि विध
 ११, ४
 कर-पाद-दन्त-भङ्ग- -ङ्गे विध
 ५, ६८
 कर-वृष्ट- -ष्टम् याशि १, ५४
 कर [२कार]-भू- पावा ६, ४,
 ८४
 कर-मण्डल- -लम् माशि २, ७
 कर-संपूर्(ण)र्णा- -र्णा वैगृ
 १, १४ : २
 कर-स्थान- -नान् आमिगृ २, ३,
 ३ २३
 करा(र-अ)ग्रा (ग्र-अ)ग्रपवि-
 त्रक^३- -कम् कप्र १, २, ९
 करा(र-अ)ग्रा(ग्र-अ)ङ्गुलि-पी-
 डि(त>)ता^३- -ताम् अग्र ३६,
 ८, १
 करा(र-अ)ङ्गुष्ठा(ष्ठ-अ)ग्र- -ग्रेण
 वैगृ २, १८ १२
 करा(र-अ)वधर्षण- -णम् विध
 ७३, २२०
 करित- पा ५, २, ३६
 रकरण^१- -णं ० द्राश्रौ ११, १, ५,
 लाश्रौ ४, १, ५, -णम् आश्रौ १,
 ११, ११^१, शाश्रौ १, १५, १२^१,
 बौश्रौ १, ११:२५^१, ४, २ २^१, ५,
 २:२^१××, माश्रौ, वाश्रौ १, ३, ७,
 १६^१, आपशु ७, ४^१××, ऋप्रा
 १३, ८^१, पाशि २२^१, याशि
 २, ९४^१, पा १, ४, ४२, ३, १,
 १०२, ६, १, २०२, पावा १, ४, १,
 -णस्य शौच १, १८, आज्यो ७,

१५, १७, -णात् निसू ५, १३
 ७^१, अग्र ३०^१, २, १०, पावा ५,
 १, ३७, -णानि वैश्रौ १८, १६ :
 ७२, अग्र ४८, ६१^१, निघ २, १^१,
 आपशु ९, ११, १२, ४, हिशु ३,
 ३०, ४, २६, आज्यो ४, ३, -णे
 बौश्रौ २०, २. ३५××, वैगृ ६७
 १२^१, कप्र, गौध १८, ३६^१, शुप्रा
 १, ११^१, याशि १, ३७^१, पा २, ३,
 ३३, ५१, ६३, ३, १, १७, २, ५६,
 ८५, १८२, ३, ८२, ४, ३७,
 पावा ३, ३, २०, ९५, ४, ३७,
 ६, ३, ६९, -णेन पावा ३, १,
 ८७, आज्यो ७, १३, १४,
 -णेभ्य. आपश्रौ १४, २३,
 ११^१, -णेभु^१ शाश्रौ १, २, २६,
 मीसू ३, ८, २५, -णै आज्यो
 ४, ४^१
 करणी^०- -णी काशु २, ७,
 ३, १, १४, ६, २, -णीनाम्
 काशु ७, ५, आपशु ११, १४,
 २०, ९, -णीम् काशु २, १३,
 बौशु २ ९, १२, हिशु ४, १७,
 -ण्या काशु २, २२, आपशु २,
 ७, ८, बौशु २ १, ३, ८, हिशु
 १, २८, ३०, -ण्या आपशु
 १२, ३××, बौशु, -ण्यो. आपशु
 १२, ८, हिशु ४, २९, -ण्यौ
 हिशु ६, १६
 करणी-नृतीय- -यम्
 काशु २, १७
 करणी मध्य- -ध्ये काशु
 ४, ५, -ध्येषु काशु २, ६, ४, ६

करण-जल्प-कर्ष- -र्षेषु पा ४,
 ४, ९७
 करण-पूर्व- -र्वात् पा ४, १, ५०.
 करण-भाव- -वयो: पा ३, २,
 ४५
 करण-मध्य- -ध्यम् तैप्रा २,
 ४५
 करण-वत्- -वत् तैप्रा २३, ६.
 करण-वर्ण^१- -र्णा. निसू ८, ७ :
 १०
 करण-विज्ञान- -नम् अग्र ६८,
 १, ५०
 करण विन्यय^२- -यात् तैप्रा
 २३, २
 करण-स्थान-भेद- -दे ऋप्रा ६,
 २७
 करणा(ण-आ)दि- -दिषु ऋप्रा
 ७, २१.
 करणा(ण-अ)धिकरण- -णयो
 पा ३, ३, ११७, पावा १, ३, १०,
 ४, २३
 करणा(ण-अ) भिमर्शन-श्लक्ष्ण-
 धूपन-प्रदहनो(न-र)द्वरणा(ण-अ)
 वसेचन- -नानि काश्रौ २६,
 १, २९
 करणा^५(ण अ) र्थ-त्व- -त्वात्
 मीसू १२, ३, २५
 करणा(ण-अ) वस्था- -स्थया
 ऋप्रा १४, ६५
 करणीय,या- -य आमिगृ ३,
 ३, १ : १०, ११, -यम् वैगृ ४,
 ४ २०, -यया हिश्रौ १५, ४,
 ८, -या वाधुश्रौ ४, १०४ ८,

a) विप । षस > बस उपे = पवित्रस्याऽप्र- । b) विप । षस > कस > तुस । c) करव^० इति जीसं । d) वैप १ द्र । e) = बाण- । f) पामे वैप १, १०९४ ० द्र । g) = मन्त्र-विशेष- । h) = इष्टका-निर्माण-पात्र- । i) = प्रयत्न-विशेष- । j) = कर्म-नामन्- । k) अर्थ^१ । l) अकरणे इति जीसं । m) = यज्ञ-साधन- । n) = तदाख्या-विशेष- । o) = रज्जु-विशेष- । p) उप = विन्यास- वा विविधस्पर्श- वा । q) स्वार्थिकः ल्युट् प्र. ।

—याम् बौश्रौ ९, १ : ३, १०,
१ ३
करणि— पाउभो २, १, २१२
कंकरत्^०— रत् आपश्रौ ६, ८, ३,
वायूश्रौ ४, ९८. ५, हिश्रौ ३,
७, ४७, वैताश्रौ १, ६, काय ३०,
५, माय १, १४, १७, कौसू ९१,
११, —रता अप्रा ३, ४, १
कंकर(त् >)न्ती— न्ती अप ४८,
६१, निघ २, १
कंकरस्^०— रामि अप ४८, ६१,
निघ २, १
कंकरिक्त्— पा ७, ४, ६५, —क्रत्
अप ४८, ६१, निघ २, १
करिष्यत्— व्यतः वाधूश्रौ ४, १०३
१११, द्राय २, ३, ७, —व्यत्सु
द्राश्रौ १४, ४, १०, लाश्रौ ५, ८,
१०, —प्यन् शश्रौ १७, १७, ११,
काश्रौ, —व्यन्तः आश्रौ ४, ५, ३,
द्राश्रौ
कंकरिष्यन्ती— न्तीम् शाश्रौ
१७, १७, १, द्राश्रौ ११, २, ११,
लाश्रौ ४, २, १०
करिष्यद्-वचन— नात् मीसू
११, ४, ५७
करिष्यमाण— णः आम्रिण ३, २,
१ १, अप १, ९, १
करोति— >करोति-कर्मन्— म्मैण
या ८, १३, —र्मा या ४, १९
करोति-शब्द— ब्दात् मीसू
१, १, ८
कंकर्तवे काय २५, २७, वाय १४,
१३, अप ४८, ६१
कंकर्तवै माय १, १०, १५०; निघ
२, १
कर्तव्य, व्या— व्य काश्रौस ३३

३, ३५. ७, निस्, —व्यम् बौश्रौ
३, १ २, ३, बौश्रौप्र, —व्या
निस् ८, ११ : ८, जैय, —व्या
बौश्रौ २७, ४. १९, निस्,
—व्यान् निस् ७, १३ : १९, ८,
७ २१, —व्यानि आपश्रौ ९,
१, ५, भाश्रौ, —व्ये अशा ६, ५,
—व्यौ वैय ६, १२ १३
कर्तव्य-काल— ला. अप १८^२,
२०, १
कर्तुम् वाधूश्रौ ३, १९ : १८××,
निस्
२कर्तु— पाग ५, १, १२९^१, —र्तरि
आपश्रौ २४, ३, १, माश्रौ १, १,
१८, बौध, —र्ता आपश्रौ १८,
२१, ४, बौश्रौ, या ३, ६१^१,
११, ५, २१, ६, ५, ३५, १०, २५,
पा १, ३, ६७××, —र्तरि शाश्रौ
७, ४, १३, आपश्रौ २४, २,
१३, वाश्रौ, —र्तरिम् आपश्रौ २४,
१, २४, बौश्रौ, —रौ या ८, १२,
—र्तु आपश्रौ १६, २१, १०, माश्रौ,
बौपि ३, ११, २९, पा १, ४,
४९××, —र्तुभि निस् १०,
१० १०, वृदे ३, ४९, —र्तुषु
पावा ३, २, १५, —र्तुणाम् वाश्रौ
१, १, १, १४, —र्तुन् बौश्रौ २५,
२० : ६, भाश्रौ १०, २०, ९,
—र्त्रा कौसू ७०, १५, —र्त्रे आपश्रौ
१६, ४, ३, बौश्रौ, —र्त्रो पा ३,
४, ४३
कर्तु-कर— पा ३, २, २१
कर्तु-करण— णयो पा २, ३,
१८, —णे पा, पावा २, १, ३२
कर्तु-कर्मन्— म्मैणो पा २, ३,
६५, ३, ३, १२७, पावा १, ३,

१०××

कर्तु-कर्म-ग्रहण— णम् पावा
३, ३, १२७
कर्तु-गुण— णे मीसू ३, १, १८
कर्तु-ग्रहण— णम् पावा १, ३,
१४, ७८, २, ३, ७१
कर्तु-तस् () मीसू ३, ३, २६.
कर्तु-त्व— त्वम् वृदे ४, ४५;
पावा ३, १, ८७, —त्वात् पावा १,
३, ६७, ३, १, ४८, ७, ३, ६१
कर्तु-दात्— तारौ कौसू ६७, १३;
अप ३९, १, ११
कर्तु-देश-काल— लानाम् मीसू
४, २, २३
कर्तु-धर्म— म्मैण मीसू १, ३, २३.
कर्तु-नियम— म मीसू ६, ६,
३६
कर्तु-निर्देश— श पावा २, ३, ९.
कर्तु-परिमाण— णम् मीसू ३, ७,
२७
कर्तु-प्रत्यय— यम् माश्रौ ५, २,
८, ३
कर्तु-भाव— व. पावा १, ४, २३.
कर्तु-भूमन्— म्ना मीसू १, १,
११
कर्तु-भेद— द. मीसू ११, २,
४२, —दात् मीसू ११, २, ४८
कर्तु-भेद-वत् मीसू ११, ३,
२३
कर्तु-वचन— नेन पावा २, २,
२४
कर्तु-वत् मीसू ३, २, ३७, ३,
२८.
कर्तु-विधि— धेः मीसू ११, १, ९.
कर्तु-वेदना— नायाम् पा ३, १,
१८

a) वैप २, ३ खं द्र । b) वैप १ द्र । c) पाभे. वैप १, ११५२ b द्र. । d) तु. पाका. । हर्तु-
इति भाष्या. । e) संस्कारकर्तुः इति B. । f) विप । बस ।

कर्तृ-शब्दा (ब्-अ) लुपपत्ति-
-त्ति पावा १,४,२३
कर्तृ-संयोग- -गात् मीस् ३, ३,
३३, ४, २, १७, १०, ३, ६६
कर्तृ-सस्कार- -र मीस् १०, ६,
५३
कर्तृ-सं(ज्ञा)ज्ञा- -ज्ञम् पावा
१, ४, १
१कर्तृ-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,
४, ५४
कर्तृ-संबन्ध- -न्वात् मीस् ११,
४, २
कर्तृ-सामान्य- -न्यात् पावा ८,
१, ५१, मीस् १, ३, २
कर्तृ स्थ- -स्थे पा १, ३, ३७
कर्त्रे (तृ-अ) मिप्राय- -ये पा १,
३, ७२
कर्तोस () निघ २, ११, या ४, ११, १,
पा ३, ४, १६
कर्त्रे^१ - -त्रेम् अप्रा ३, २, ९, आपमं
२, ८, १०
कर्मे^२ - -मे द्राश्रौ ११, १, ५, लाश्रौ
४, १, ५
कर्मेन्- पाउ ४, १४५, पाग २, ४,
३१, ४, ४, ६२, ५, २, ११६,
पावाग ८, २, १८, -मे आश्रौ
१, १, ११×, शाश्रौ, आपश्रौ
१३, १६, १२^३, बौश्रौ २५, २९
७^४, अप्राय ३, ८^५, -मेऽ-मे
कौस् ६३, १३, या १२, १८, पा
१, ३, ६७×, -मेण शाश्रौ १,
२, २६, आपश्रौ २, २१, १×,

३, १२, १, बौश्रौ, कौ ११९,
२^६, निघ २, १, या ५, २४××,
-मेण ऽ-मेण काश्रौ ११, १, ८,
आपश्रौ १८, २, १०, बौश्रौ
२, ३ : १७, ११, २ १२××,
पा ३, १, ७××, पावा, -मेणा
आश्रौ ६, १, २××, शाश्रौ, बौध २,
६, ३२^७, या २, ४^८, २२××,
पा, -मेणाम् आश्रौ १२, ४, १८,
शाश्रौ, -मेणि आश्रौ १, १२, ३१,
शाश्रौ, -मेणिऽ-मेणि आपश्रौ
३, १८, ६, हिश्रौ २, ८, ७,
बौग, -मेणी आमिगृ ३, ७,
३ : २, बौपि २, १, १, गोश्रु ४,
८, ११, -मेणे काश्रौ २, २,
२१^९××, आपश्रौ, बौपि १, १
११^१, -मेणो विघ ३०, ३,
मीस् १०, ८, ४०, -मेन् आपश्रौ
१६, १, ३^१, आमिगृ १, ५, २ ३५,
या ३, १, -मेभि आश्रौ २, ३,
२०, बौश्रौ, मीस् १०, ३, ५७^२,
-मेभ्य द्राश्रौ १, १, १३, १३,
१, १०, लाश्रौ १, १, १३, ५, १,
८, गोश्रु, -मेसु शाश्रौ १, १, २५,
काश्रौ, -मेणि आश्रौ २, १९,
४, शाश्रौ
कार्म- पा ४, ४, ६२^३, ६,
४, १७२
कार्मेण- पा ५, ४, ३६
२कार्मुक^४- पा ५, १, १०३,
-कम् शुश्रु ३, ११६, -काणि
शाश्रौ १४, २२, १०

कर्मे-क^५- -कम् कप्र १, ६, ७
कर्मे-कर- पा ३, २, २२, -र-
गौध २०, ४, मीस् ६, ३, २४,
-रेषु शध २५१
कर्मे-करण^६- -णम् बौध २, २,
७५, -णा आश्रौ १, १, २१
कर्मे-कर्तृ- -तेरि पा ३, १, ६२,
पावा ३, १, ४८××, -तुं पावा
३, १, ४८, ८७
कर्मेकर्तृ-त्व- -त्वात् पावा
१, ३, ६७
कर्मेकर्त्रे (तृ-अ) र्थ- -र्थम् पावा
२, ३, ६५
कर्मे-कर्मा (म-अ) लुपूर्व- -वेण
कौस् ६३, १३
कर्मे-कल्प- -ल्पा. लुस् १, ११
३२
कर्मे-कार^७- -रः वैध ३, १५, ४.
कर्मेकार-निषाद-रङ्गावतारि-
वेण-शस्त्रविक्रयिन्- -धिणाम्
विघ ५१, १४
कर्मे-कारिन्- -रिणाम् कप्र १,
३, १, -रिभि कप्र १, ५, १, -री
वैध ३, १५, ४
कर्मे-कार्य- -र्यात् मीस् ३, ७,
३२, ४, २, ३१
कर्मेकार्य-समवाय- -यात्
मीस् १२, ४, १६
कर्मे-कृत्- पा ३, २, ८९, -कृत्
कागृ १०, २, मागृ १, ७, १, वागृ
८, १२; -कृतः आपश्रौ ८, ६,
२५^१, बौश्रौ ५, ८ : ६^१××, भाश्रौ,

a) विप । बस । b) वैप १ द्र । c) विप ([वीणा-विशेष-] वाण-) । d) पाशुकं
कर्मे इत्यस्य स्थाने सपा वैश्रौ १६, २० : ९ पाशुकेन इति पाभे । e) कर्म इति पाठ^१ यानि शोध । f) सकृत्
कार्मे इति पाठ^२ यानि शोध (तु पूर्व स्थलं मूको च) । g) पाभे. वैप २, ३ ख तैब्रा ३, ७, ११, ५ टि द्र ।
h) सकृत् पाभे वैप १, ११५२ k द्र । i) सपा. कर्मणे <> कर्मण्य इति पाभे । j) 'दिकर्म' इति कांसं. ।
k) कार्मेण- इति BPG । l) = घतुस्- । m) = कर्म-कर- । घट इत्यस्मिन्नर्थे क प्र उसं. (पा ५, २, ३५) ।
*मर्कः इति जीसं. ? , *र्षकम् इति BI. ? । n) उप. भावाद्यर्थे ल्युट् प्र. । o) = [वर्णसङ्कर-] जाति-विशेष- । उस. ।

कर्मप्रवचनीय-प्रतिषेध- -धः
पावा २,२,१८
कर्मप्रवचनीय-युक्त- -क्ते
पा २,३,८, पावा २,३, ८, ४,
८३
कर्मप्रवचनीय-योग- -गात्
पावा २,४,८३
कर्मप्रवचनीय-संज्ञा- -ज्ञा
पावा १,४,१
कर्म-प्रसव- -वाय शाश्रौ ४,६,
१७.
कर्म-प्राधान्य- -न्यात् काश्रौ
१०,२,२३
कर्म-फल- -लम् गौव ११,३१,
आज्यो २,११, -लै आपध २,
२४,१०, हिध २,५,१७५
कर्मफल-विशेष- -षेण शंघ
३७६
कर्मफल-शेष- -षेण आपध
१,५,५, २, २, ३^a, हिध १,
१२,५
कर्मफला(ल-अ)सम्भव-
-वात् काश्रौ २५,१४,२
कर्म-भेद- -द मीसू २, २,
१, २१, ४, ४, ८xx, -दम्
मीसू ६, ३, ४, -दात् मीसू
३, ४, ३०xx, १०, ६, ६२^b
कर्म-मङ्गल(ल>)ला^c- ला. बौगृ
३,१३,८
कर्म-मध्य- -ध्यात् अप ३७,
४,१
कर्म-मात्र- -त्रम् मीसू ४,३,९
कर्म-युक्त- -क्त आपध १, ६,
११; बौघ १, ५, ७५, हिध १,
२,३४, -क्तम् मीसू २,२, ७७,

-क्ते मीसू ४,२,१८
कर्म-योग- -ग द्राश्रौ १२,२,
१९, लाश्रौ ४,१०,२०, -गात्
काश्रौ १,६,१२, द्राश्रौ १२, २,
११, लाश्रौ ४, १०, ११, -गे
आपध १,१२,९, हिध १,४,९.
कर्मयोगिन्- > ँगि-त्व-
-त्वात् मीसू २, २, २५, ६, ३,
२१
कर्म-लिङ्ग^d- -ज्ञा कौसू १,४
कर्म-लिङ्ग-विधान- -विद्-
-वित् अत्र १,४२ ५
कर्म-वचन- -नेन पावा २, २,
२४
कर्म-वत् पा ३,१,८७, पावा
कर्म-वत्- -वत् या १४, २५,
-०वन् या ५,११, -वन्त या
१०,२२, -वन्ति या १४, २५
कर्म वश-कारित- -तम् बौश्रौ
२५,२९ १३
कर्म-वसु^e- -सु. या ११,२६
कर्म-वाङ्^f- -द निस् ५,९ ८,
बौव २,६,११, ३१
कर्म-विधान^g- -नम् हिश्रौ १,
१,८
कर्म-विपर्यास- -ले शाश्रौ ५,
१०,१३, १३,९, काश्रौसं ३१
३, बौगृ ४,११,१, आभिगृ २,
७,४ : ४, अप्राय ३,४
कर्म-वियोग- > ँग-विव्यापन-
त्रिवासना (न-अ)ङ्करण-
-णानि गौघ १२,४८
कर्म विशेष- -षम् ऋप्रा १३,
४७, -षेण विध ४५,३२
कर्म-विशेषक-त्व- -त्वात् पावा

३,१,७.
कर्म-वृद्धि- -द्धया मीसू ६, ६,
११^h
कर्म-वैषम्य- -न्यात् मीसू १०,
३,५४.
कर्म-व्यतिहार- -रे पा १, ३,
१४, ३, ३,४३, ५,४, १२७, ७.
३,६, पावा.
कर्मव्यतिहारा(र-आ)दि-
-दिषु पावा १,३,१४
कर्म-शंसा- -सा वृदे ५,६.
कर्म शब्द- -ब्द काश्रौ ४,३,१;
मीसू ४,२,६ⁱ, ७,२,१३, -ब्दाः
मीसू २, १, १, -ब्दात् काश्रौ
२२,१,१९, -ब्दे मीसू २,२,२४.
कर्म शेष- -षः मीसू २,३, २०,
-षम् अप्राय २,५, अप ३७,४,
१, -षेण गौघ ३, ६, हिध २,
१,२५^a
कर्म-श्रुति- -ते मीसू ११,२,६.
कर्म-सयुक्त- -क्तानि हिश्रौ ३,
८,४१
कर्म-संयोग- -गात् द्राश्रौ १,३,
१, लाश्रौ १,२,२४, मीसू ६,१,
४५xx, -गे पावा २,३, ३६ⁱ;
मीसू ६,१,१,४,४०, -गेन शाश्रौ
१,१,२४
कर्म-संस्कार- -रम् मीसू १०,
४, १
कर्म-सस्तर- -रे बौश्रौ २७, ४ :
२२, २२, ८ २२
कर्म-सस्था- -स्थासु वृदे ३,८२;
५,९३
कर्म-सकर- -रम् अप ७०,११,
३, ७२,४,२

a) सपा कर्मफलशेषेण <> कर्मशेषेण इति पाठे । b) ँद इति जीस । c) = मङ्गल-कर्मन-
[क्रिया-] । d) विन । बस. । e) नाप । उस । f) = वाक्य- । g) कर्मवत् इति कासं. । h) कयोवि-
शब्दः इति जीसं. । i) कर्म-योग- इति पाठि. ।

१कर्म-संज्ञा >)ञ-ञ पावा १,४,५१
 २कर्म-संज्ञा-ञा पावा १,४,५१, -ज्ञायाम् पावा १,४,४९
 कर्मसंज्ञा-प्रसङ्ग-ङ्गः पावा १,४,२३, २९,४९
 कर्म-सतान-नः मीस् १२,३, २७
 कर्म-सनिपात-त-मागृ १,११, १, -ते काश्रौ २२,१,४२
 कर्म-समवाय-यात् लाश्रौ १०, ९,३.
 कर्म-समाप्त-सम् आपध १, २४,२४, हिध १,६,७२.
 कर्म-समु(त्य >)त्था-त्था. वृदे १,२९
 कर्म-संपत्ति-त्तिः या १,२
 कर्म-सबन्ध-न्धात् मीस् २, ३,१४.
 कर्म-समानकर्तृक-ग्रहणा (रा-ञा)नर्थक्य-क्यम् पावा ३, १,७
 कर्म-साकल्य-ल्यम् मीस् ६, ८,२६
 कर्म-साधन-ने बौध ४, ८, १८^२
 कर्म-सामान्य-न्यात् मीस् ३, ७,३८,८,२४.
 कर्म-सिद्धि-द्धये ऋअप १,३७, २,३, ५, ३९, २, ४०, २, ४१, ५, ऋअशा ७,२,३,५, ९,२,१०, २; ११,५, याशि १,४२, -द्धि अप १, ४६, ३; -द्धिम् कप्र २, ४,११, अप २१,३,४, ३६, ३, २, ७०,१२,१, ७०^३,४,४, विघ ७८,११
 कर्मसिद्धि-विनाशि(न् >)

नी-नी अप २६,२,५
 कर्मसिद्धय(द्धि-अ)र्थ-र्थम् अप ३१,५,५
 कर्म-स्थ-स्थः कप्र ३, ७,१६, ऋन ५,३,२
 कर्मस्थ-कि(य >)या^३-आणाम् पावा ३,१,८७
 कर्मस्थ-भावक^३-कानाम् पावा ३,१,८७
 कर्मा(र्म-आ)कुल-ले अप ७२,५,३
 कर्मा(र्म-अ)ङ्ग-ङ्गम् काश्रौ २, १,१३, आग्निगृ २,३,३.२
 कर्मा(र्म-अ)ङ्ग-भूत-तम् शुअ ३,७९
 कर्मा(र्म-आ)चार^३-र आश्रौ ४,२,१६
 कर्मा(र्म-अ)तिरेक-के हिश्रौ २२,२,६.
 कर्मा(र्म-आ)त्मन्^३-त्मानः या ७,७.
 कर्मा(र्म-आ)दि-दिः काश्रौ १, ३, ५, -दिम् माश्रौ १, १, १, ४, -दिषु द्राश्रौ १२, १, १४, लाश्रौ ४, ९, ८, आग्निगृ २, ४, ४ : २२, कप्र १,१,१३, बौध ३,७,१६^१, पावा २, ३, ५२^०, -दीन् आपश्रौ २४,२,१, भाश्रौ १,२,२, -दौ शश्रौ ४, ६,७, भाश्रौ १,२,३.
 कर्मादि-संनिपात-त मीस् १२, ३,२५.
 कर्मा(र्म-आ)धिक्य-क्यम् माश्रौ ५,२,१०,५
 कर्मा(र्म-अ)धिपति-तये जैगृ १,२ : २३^१
 कर्मा(र्म-आ)नन्तव्यमात्र-

-त्रम् लाश्रौ १०,१६,४.
 कर्मा(र्म-अ)नुकीर्तन-नम् वृदे ४,३८
 कर्मा(र्म-अ)नुवाद-द बौश्रौ २४,१ ४
 कर्मा(र्म-अ)न्त^३-न्त बौश्रौ २४,१५ : १२×४, वागृ, -न्तम् बौश्रौ २, ७ : २१, बौगृ ४, २, १६, ४, १३, -न्ते गौपि १,७, १०, कप्र २,५,१, -न्तेन बौश्रौ २०, २ ८, २४, १५ १३, १४
 कर्मा(र्म-अ)न्तर-रम् काश्रौ ४, ४, २, मीस् २, ३, १, -रे आग्निगृ २,७,८ ३
 कर्मान्तर-स्व-त्वात् काश्रौ १,४,१४, १४,१,१३
 कर्मा(र्म-अ)न्वित-ता द्राश्रौ १२,३,६
 कर्मा(र्म-अ)पवर्ग-र्गे काश्रौ २, २, २१, १५,१०,२३, शागृ १,२,१, -र्गात् काश्रौ २५,१३, ३६
 कर्मापवर्गिन् > ^०वर्गि-त्व-त्वात् मीस् ४,२,३०
 कर्मा(र्म-अ)भाव-वात् मीस् ९,१,४२
 कर्मा(र्म-अ)भिधान-ने पावा २,३,५२
 कर्मा(र्म-अ)भिसंबन्ध-न्धात् मीस् १०, ७,१९
 कर्मा(र्म-अ)भ्यावर्तिन्-र्ति बौश्रौ २४, ६ . १,२.
 कर्मा(र्म-अ)भ्यावृत्ति-त्तौ वाश्रौ १,१,१,८०.
 कर्मा(र्म-अ)भ्यास-स. आपध १, २६, ७, २९, १८, बौध २,

a) विप. । बस. । b) उप = काल- । c) उप = आश्रय- । d) = कर्म-विशेष- ।

१,४८, हिघ १,७,१८, ७५
 कर्मा(र्म-अ)रम्भ- र्भे शुभ्र
 ४,१५३
 १कर्मा(र्म-अ)र्थ- र्थे कौसू
 ११९,४^३
 २कर्मा(र्म-अ)र्थ^३- र्थम् काश्रौ
 २५,८,२१, मीसू ३,८,२८
 कर्मार्थ-त्व- -त्वात् मीसू ३,
 १,५, ११,१,८, १२,३,१९
 कर्मा(र्म-अ)वयव- -वेन आपव
 २,२४,१४, हिघ २,५,१७८
 कर्मा(र्म-अ)विभाग- -गात्
 मीसू १०,६,२०
 कर्मा(र्म-अ)वृत्ति- -त्तौ काश्रौ
 १,७,८
 कर्मा(र्म-अ)समवायित्व- -त्वात्
 मीसू ३,१,१८.
 कर्मै(र्म इ)न्द्रिय- -याणि विध
 ९६,९५
 कर्मै(र्म-ए)कत्व- -त्वात् काश्रौ
 १४,१,१२
 कर्मो(र्म-उ)पत्ति- -त्त्या कौसू
 ६३,१५
 कर्मो(र्म-उ)त्सर्ग- -र्गे हिगृ १,
 १३, ११, मीसू ११, २, ४९,
 -र्गात् मीसू ९,४,५४
 कर्मो(र्म-उ)पक्रम- -मम्
 आप्तिगृ २,३,५ ७
 कर्मो(र्म-उ)पदेश- -शाः मीसू
 ५,१,३, ११,१,१७०.
 कर्मो(र्म-उ)पपद- -द. पावा ३,
 २,१
 कर्मो(र्म-उ)पपात- -त्ते काश्रौ
 २५,१,१
 कर्मो(र्म-उ)पमा- -मा या ३,

१५
 कर्मो(र्म-उ)परमण- -णम् बैगृ
 ६५ ११
 कर्मो(र्म-उ)पसंयोग-द्योतक-
 -का या १,३
 कर्मो(र्म-उ)पसग्रह- -ह. या १,
 ४
 कर्मोपसंग्रहा(ह-अ)र्थ- -र्थे
 या १,४
 कर्मिक- पा ५, २, ११६, पाग
 ५,१,१२८
 कर्मिक्य- पा ५,१,१२८
 कर्मिन्- पा ५,२,११६, -मिण.
 आश्रौ ४,७,४, ६,१४,२१
 कर्मर^d- पाउभो २, ३, ४२,
 पाग ४,१,११२^e, ३,११८, ८,
 ४, ३९^f, पावा ४,१, ९७^g, ५,
 ४, ३६^h, -रस्य शंघ ४३४,
 -राः बौश्रौ १५, १३ : १५,
 अप्रा ३, ४, १^३, -राणाम्
 वाधूश्रौ ३, ७६. २१, -रान्
 वाधूश्रौ ३, ७६ : ३, -रेभ्य
 शुप्रा ५, ३७^३
 कर्मर- पा ४,१,११२,
 पावा ५,४,३६
 कर्मरक- पा ४, ३,
 ११८
 कर्मरकि- पावा ४, १,
 ९७
 कर्मार्थायणिⁱ- पा, पावा
 ४, १, १५५, -णयः बौश्रौप्र
 २७ : ३
 कर्मर-वन- पा ८,४,३९
 कर्व- पाउ १,१५५.
 कर्वर^d- पाउ २,१२१, -रम् अप

४८, ६१, निघ २, १, -र्राणि
 आश्रौ २, १९, ३२, शाश्रौ ३,
 १७, १, काश्रौ २५, ६, ७;
 आपश्रौ ८, १६, ५, १८, २, ३;
 बौश्रौ ११, ३ १६, भाश्रौ ८,
 १६, २१, १९, १०, वैश्रौ १७,
 ९ ७, हिश्रौ ५, ४, ८६, १३,
 १, १८, शागृ ५, ८, २.
 इकारⁱ- -र लाश्रौ ७, ८, ५, अप
 ४७, १, १५, -रान् बौश्रौ २३,
 १२. १७, -रे पा, पावा ६, ३,
 ६९, -रेण शुप्रा १, ३७.
 कारक- -कम् कौशि ४, पा ८, १,
 ५१, पावा १, ४, २९, ५१^२, ३,
 १, २६, -काणाम् पावा २, १,
 ३५, -कात् पा ५, ४, ४२, ६,
 २, १४८, पावा ६, २, १४८;
 -के पा १, ४, २३, ३, ३, १९;
 पावा १, ४, २३, २, ३, १, ६, २,
 ४९, ३, ९९
 कारक-काल-विशेष- -घात् पावा
 १, १, २६
 कारक-ग्रहण- -णम् पावा ३, ३,
 १९
 कारक-त्व- -त्वे पावा १, ४,
 ४९, २, ३, ३६
 कारक-मध्य- -ध्ये पा २, ३, ७.
 कारक-विभक्ति- -क्ति पावा २,
 ३, १९, -क्तीनाम् पावा १, ४,
 ३१^३
 कारकविभक्ति-बलीयस्त्व-
 -स्त्वात् पावा २, ३, १९
 कारका(क-अ)न्यत्व- -त्वात्
 पावा ८, १, ५१.
 कारका(क-अ)र्ह- -र्हाणाम् पावा

a) पाभे वैप २, ३खं यज्ञ तैत्रा ३,७,११,५ टि द्र । b) विप । बस । c) ष्देशत्वात् इति जीस ।
 d) वैप १ द्र । e) तु. भाण्डा. । व्यप । f) = वृक्ष-विशेष- । g) तु पागम. । h) तु पाका. । i) अपत्यार्थे
 अ युडागमश्च । j) कर्तरि बौ कर्मणि वा भावे वा कृत् । k) तु. पासि. ।

२,३,३६.
कारको(क-उ)पादान- -नम्
पावा ३,१,२६
कारण-गम् शाश्रौ २, १४, ८,
लाश्रौ, -णस्य काश्रौ ९, ११,
१५, मीसू ४, ४, ३४, -णात्
काश्रौ ९, १३, २४, वैश्रौ,
पावा १, २, ७१, २, २, २९,
-णानि ऋप्रा ११, ५९, मीसू १,
४, २२, -णे मीसू ४, ३, १९,
-णेन शाश्रौ ३, १९, १७, -णैः
आपश्रौ २४, ४, २, कौगृ ३, १२,
१, अप ५२, १५, १
कारण-कारित- -तम् निसू ९,
१३ ३३
कारण-द्रव्य- -व्याणि शंघ
२६२
कारण-प्राप्ति- -सि मीसू ६,
४, २०.
कारण-भाव- -वात् मीसू ३, ५,
३५.
कारण-श्रुति- -ति मीसू ४, ४,
३६, ४०.
कारणा(ण-आ)गम- -मात् मीसू
३, ५, ४६
कारणा(ण-अ)ग्रह- -हे मीसू
१२, ३, २२.
कारणा(ण-अ)ग्रहण- -णे मीसू
१, ३, ७, ४, १, ५.
कारणा(ण-आ)नुपूर्व्य- -न्यात्
मीसू ३, ५, ४०
कारणा(ण-अ)न्तर- -रात् कप्र
२, ११, १३.
कारणा(ण-अ)न्वय- -यात्
ऋप्रा ११, ४५.
कारणा(ण-अ)विशेष- -घात्
मीसू ३, ४, ४४

कारणै(ण-ए)कत्व- -त्वात् मीसू
११, १, ३०
कारयत्- -यन् अप १, १०, ३,
शंघ ४०५
कारयमाण- -ण कौसू ४६, ८,
-गम् कौसू ५३, ९
कारयाम् √अस, कारयामास अप
४, १, २१
कारयितृ- -ता बौगृ ३, ३, ६३, १,
-तु अप ७०, १२, २
कारयित्वा भाश्रौ ११, २२, ९, द्राश्रौ
कारयिष्यत्- -ष्यन् आगृ १, २४,
३१, कौगृ
कारयिष्यमाण- -ण आगृ १, १७,
३, भागृ २, ३ १, -णस्य आगृ
१, १७, ६
कारि- पाठ ४, १२९
कारिका- > °का-शब्द- -बृदस्य
पावा १, ४, ६०
कारित,ता- -तम् बौश्रौ २, १२
२१×४, वैश्रौ, या १, १३, -ता
बौश्रौ ६, १ : ९, १०, १२ १०,
१२, १७ २, -ता बौश्रौ १०,
१५ १०, १२, २० ४.
कारिता-कायिका-शिखा(खा-अ)
धिभोग- -गा गौव १२,
३०
कारिता(त-अ)न्त- -न्तस्य शौच
४, ९१
कारिन्- -रिण- कप्र १, ६, ६,
-रिणि पा ५, २, ७२, पावा ५,
२, १४, -रिभ्यः पावा ४, १,
१५८, -री वाधूश्रौ ३, ७० :
८१
कारि-मागध- -धानाम् वाधूश्रौ
३, ९० ८
कारु- पाठ १, १, -ऋव आश्रौ

४, ७, ४^२, शाश्रौ ५, १०, ८^२
आपश्रौ १७, ८, ७, १९, २३, १;
माश्रौ ५, २, ३, ९, ११, वैश्रौ
१९, ५ ५०, हिश्रौ २२, ४,
१७, वैगृ २, १० : ५, अप १,
८, ८९, \$शंघ २४८, २६२, \$बृदे
२, २३, २८, -ऋव आश्रौ ३,
७, ५, वैश्रौ १८, ५ : १२, ऋअ
२, ३, ६, -रु अप ४८, ९७,
निघ ३, १६, या ६, ६९, -रुम्
शाश्रौ १२, १५, ११, -रु या
८, १२, १९, -रुणाम् विध २२,
५१, -०रो या २, २७, १, -रो
शाश्रौ १४, ५०, २, १
कारु-कर्मन्- -र्मणि विव २२,
५१
कारु-कुशीलव- -वान् बौध १,
५, ८०
कारु-प्रवादन्- -नम् नाशि १,
४, १२.
कारु विश^०- -शाः बौश्रौ १५,
३. ३, १८, १८ ८
कारु-हस्त- -स्तः शंघ १७६,
बौध १, ५, ४८, विध २३, ४८,
वैध ३, ४, ६
कार्य,र्या- -र्ये शाश्रौ ११, १२,
१, काश्रौ, -र्यम् शाश्रौ १७,
६, २, आपश्रौ, पा १, ४, २, ५,
१, ९६, पावा १, २, ३२, -र्या
बौश्रौ ६, १ २×४, वैश्रौ, जैश्रौका
२१०^{१०}, -र्याः बौश्रौ २४, २५ :
६×४, वैश्रौ, -र्याः आपश्रौ १६,
८, ६, वैश्रौ १८, ५ १७, -र्याणाम्
अप ५१, ५, १, -र्याणि आपगृ
१, २, अप्राय, -र्यान् ऋप्रा १३,
१४; -र्ये आपश्रौ १०, २१,
१६, बौश्रौ, पावा १, १, ४४

a) वैप १ द्र । b) कस वा द्रस वा (तु, सूची) । c) काया इति पाठ. १ यनि शोघ ।

-र्येषु अप ३०^३, २, ११; विध
 ५७, १४, कौशि ६८, -र्यौ निस्
 ५, ८ : २४, काण्ड ४२ १
 °कार्य- -र्यम् पाप्रवा ५, १५
 -कार्य-कृतस्व- -त्वात् पावा ६,
 १, १०६, ४, १०४
 कार्य-ग्रहण- -णम् पावा ५, १,
 ९६
 कार्य-ज्ञ- -ज्ञ शध २७०
 कार्य-त्व- -त्वात् काश्रौ १, ६,
 १९, मीसू १०, २, ६७, ४, ४६,
 ११, १, २१
 कार्य-निरोध^३- -धात् गौध १४,
 ४३
 कार्य-निष्पत्ति- -त्तिः आज्यो
 ७, ११
 कार्य-वत्- -वान् कप्र २, १०, १
 कार्य-वश- -शात् विध ८, ११
 कार्य-विनाश (न>) नी- -नी
 आज्यो ५, १३
 कार्य-विपरिणाम- -मात् पावा
 १, १, ५६
 कार्य-विपर्यास- -स बौश्रौ
 २८, १० १०, -से बौश्रौ २८,
 १० : ८
 कार्य-शब्द- (> °दिक- पा)
 पात्राग ४, ४, १.
 कार्य-संप्रत्यय- -यात् पावा १,
 २, ६९, ३, १, १
 कार्य-सव्य^४- पा, पाग २, १,
 ४०.
 कार्य-सिद्धि- -द्धिम् अप ६८,
 ५, ३१^२
 कार्या(र्य-अ)कार्य- -र्ये कौगृ ३,
 १२, ८.
 °कार्या(र्य-अ) तिदेश- -शाः

पावा ७, १, ९०, -शात् पावा
 १, २, १
 °कार्या(र्य-अ)भाव- -वस्य पावा
 २, ४, ४९, ७, १, १.
 कार्या(र्य-अ)र्य- -र्य पावा १,
 ३, ९
 कार्या(र्य-अ)र्थिन्- -र्थिभि-
 विध ३, ७४
 कार्यै(र्य-ए)रुत्व- -त्वात् मीसू
 १०, ३, ५७
 कार्यान्- -र्यौ पावा ६, ३, २५
 कुर्वत्- -र्वत् काश्रौ २२, ३, १४,
 आपश्रौ, पावा ३, १, २६, -र्वति
 आपश्रौ ९, १८, ९^२, काश्रौस
 २९ ५, -र्वते वाध १, ३१, -र्वत्सु
 जैश्रौका ४६, -र्वन् काश्रौ ६, ६,
 २१, आपश्रौ, -र्वन्त शाश्रौ २,
 २, १६, बौश्रौ १४, ६ २१, हिश्रौ
 ९, ४, ५२, द्राश्रौ, -र्वन्तम् जैगृ
 १, २ २०, अश्र ९, ५, अप
 १ २१, ३. ७०
 कुर्वती- -ती कौसू ७७, २३,
 या ११, ४०, -तीम् विध १,
 २९
 कुर्वाण, णा- -णाः आपश्रौ ५, १,
 ७†××, वैश्रौ, -णा बौगृ २, ६,
 ९†, -णा शाश्रौ १३, १९, ५,
 हिश्रौ ९, ४, २८, या ४, १९,
 -णाम् विध १, २७, २८, -णे
 माश्रौ ५, २, १५, ९, या २, २०,
 -णेषु शाश्रौ १३, ५, १९, २०,
 -णौ वाधूश्रौ ४, ३० : १२.
 कृणु- पाउभो २, १, ७४.
 †कृण्वत्- -णवन् आश्रौ ३, १०,
 ६, शाश्रौ, आपश्रौ ७, ६, ७†^०,
 -ण्वन्त. आपश्रौ १, ६, ७, भाश्रौ,

-ण्वन्तम् आपश्रौ ७, १६, ६;
 भाश्रौ
 †कृण्वती- -ती आश्रौ ३, ११,
 २, शाश्रौ
 †कृण्वान, ना- -न.^d काश्रौ १०, ५,
 ३, आपश्रौ ×× ११, १२, ३, हिश्रौ
 ७, ६, १८××, कौसू, -ण्वाने
 माश्रौ ५, २, ८, २०, आपम २,
 २०, ३१^०
 कृत्^१- -कृत् पा १, १, ३९××, ६, १,
 १८२, कृतः या १, १४, २, २,
 पावा, कृतम् कौगृ १, १६, १२,
 शागृ १, २४, ४, पागृ १, १७, २,
 बैगृ, कृना पा २, १, ३२××, पावा,
 कृति पा २, ३, ६५××, पावा
 कृत्-तद्धित-समास- -सा. पा
 १, २, ४६.
 कृत्-त्व- -त्वात् पावा २, ४,
 ८१, ३, २, १२४
 कृत्-प्रयोग- -नो पावा २, ३, २२.
 कृत्-संज्ञा- -ज्ञा पावा ३, १,
 ९१
 कृत्-स्थ- -स्थस्य पावा ८, ४,
 २९, ३२
 कृत्-स्वर- -र, -रात् पावा ६, २,
 ५२
 कृत्स्वर-निवृत्त्य (त्ति-अ)र्य-
 -र्यम् पावा ६, ३, ९४
 कृत्स्वरा(र-आ)बाधक-त्व-
 -त्वस्य पावा ६, २, ५२
 कृद्-अन्त- -न्तस्य पावा ५,
 १, १३, -न्तात् अप्रा ३, २, ४,
 पावा ४, १, ४८, -न्ते अप्रा १,
 १, १०, २, ३, ८.
 कृदन्त-प्रकृतिस्वर-त्व-
 -त्वम् पावा ६, १, ८४, -त्वात्

a) र्यवि° इति जीसं । b) तु पागम । c) पाभे. वैप २, ३ख कृण्वन् तैत्रा २, ५, ८, १२ टि द्र ।

d) पाभे. वैप १, ११५५ d द्र. । e) पाभे. वैप १, ११११ e द्र । f) = प्रत्यय-संज्ञा-, तदन्त- ।

पावा २,४,८१
 कृदन्त-प्रतिषेधा(व-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ६,१,३३
 कृदन्त-प्रातिपदिकत्व- -त्वे
 पावा ६,१,८४
 कृदन्त-शब्दा(ब्द-अ)भि-
 हित- -त्. वृद्धे १,४५
 कृद्-अर्था(र्थ-अ)नुपपत्ति- -त्ति
 पावा ३,२,६०
 कृद्-आख्यात- -नयो शुप्रा
 ६,४.
 कृद्-इकार- -रात् पावा ४, १,
 ४५
 कृद्-उपदेश- -शे पावा ६, २
 ५०.
 कृद्-ग्रहण- -णम् पावा ६, २,
 १३९, -णे पावा १,४,१३.
 कृद्ग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-
 -क्यम् पावा २, ३,६५, ६, २,
 ५०, १३९
 कृद्-यो(ग>)गा- -गा पा २,
 २, ८.
 कृन्-निवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा १,२,४८, ७,४,१३
 कृल्-लोप- -वे शुप्रा ५, ३०;
 पावा १,४,१
 १कृत,ता- पाग १,४, ५०^६, २,१,
 ५९; -तः आश्रौ १, ११,
 १३^०, शाश्रौ ३, १९, ३^०,
 बौश्रौ; ङश्रौ ५, १३^०, ९७,
 ४^०, या ६,१८^०, ८, १८, १२,
 १८^०, -तम् ङश्रौ २, २,३,
 ३,९,४^०××, शाश्रौ; आपश्रौ १४,
 ३०, ३^०, १९,७,३^०, हिश्रौ
 १५, ७, २०^०, २३,१,२६^०,

या १,५, ५, २२^०, -तम्ऽ-तम्
 बौश्रौ २,९ २५, -तयो निसू ४,
 ६ १६, ५, १२ ५, -तस्य शाश्रौ
 ३, २०, १७, गोश्र, -ता
 आश्रौ ६,१४, १०, आपश्रौ,
 -ता लाश्रौ ९,५,१२××, सु,
 -तात् माश्रौ २,५,५, २०, विध
 १८,१२, -तान् बौश्रौ ३, ३०
 १२^०, वैश्रौ, -तानाम् निसू ३,
 १ १५, वौव १,१,३२, -तानि
 आश्रौ ६, ४, १०^०, ङशाश्रौ,
 -ताम् भाश्रौ ४, ७, २, वैश्रौ,
 पावा ३, २, १, -ङताय काश्रौ
 २,२,२१, भाश्रौ ३, १८, १०,
 वाश्रौ १,१,४,२१, अप ४३,५,
 ५०, -तायाम् आपश्रौ १०,
 २१,६, आमिश्र ३,१०,२ : १,
 माश्र २, १, ७, -तासु आपश्रौ
 १६, १३, २, वैश्रौ १८, ११
 १९, हिश्रौ ११, ५, १३, -ते
 आपश्रौ १३, १, १६××, वाश्रौ,
 पा, पावा ४, ३, ८७, ११६,
 -तेऽ-ते जैश्रौका ७०,११७, -तेन
 आपश्रौ ८,३, ११, बौश्रौ, -तेषु
 वैश्र ७,८ १२, पा ८,३, ५०,
 -तै कप्र ३, ३, १०, -तौ निसू
 ६,१३ ३५, अप १,४१, ७^०.
 १कृत-क,का- पाग ५,१,१३०^०,
 -कम् मीसू २, ४, १२, -काम्
 वैध ३, १४, ३, -केषु शंघ
 ३६७
 कार्तक- पा ५,१,१३०
 कृत-काल- -लानाम् मीसू ५,
 १,२५.
 कृतकाल-त्व- -त्वात् मीसू

१०,६,२८,३०
 कृत-काष्ठ->°ष्ठा(ष्ठ-अ)श्म-
 कौलाल-चर्म-वेत्रदल-भाण्ड-
 -ण्डेषु शध ३२४
 कृत-कौतुकमङ्ग(ल>)ला-
 -ला काध २८० २.
 कृत-गोदान- नः भाश्र १,
 १० १३
 कृत-घ्न- -घ्नः शंघ ४०३,४०४,
 ४१४, विव ५४, १५, -घ्नान्
 विध ५३,३२
 कृत-चक्र-धारिन्- -री काश्रुड
 ४६ १६
 कृत-चू(डा>)ड- -डे विध
 २२,३०^६
 कृतचूड-क- -के शध ३६०^६.
 कृत-चौड- -ड वैश्र ५,९ : १,
 -डम् वैश्र ७, २ ४, -डस्य
 वैश्र ५,९ ११, -डौ वैश्र ७,
 २ ६
 कृत-ज(टा>)ट- -टस्य गौघ
 १४,३२
 कृत-जर्ष- -र्ष्य शंघ ११६.१.
 कृत-जातिभ्रंश-करण- -राणाम्
 विध ४४, ६
 कृत-ज्जातिभ्रंश-करण- -णाः
 विध ४३,२८.
 कृत-ञ- -ञ आश्रौ १३, ९;
 -ञा अप ६८,१,२३
 ङकृत-जय- -याय बौश्र ३,९,
 ५, आमिश्र १,२,२ २१; भाश्र
 ३,१० ६, हिश्र २,१९,६.
 कृत-तन्त्र- -न्त्रम् निसू ९,
 २ ४
 कृत-त्व- -त्वात् काश्रौ १, ७,

a) तु. पागम । b) पासे वैप १,११५६ i द्र. । c) पासे वैप १,११५६ ० द्र. । d) पासे वैप-
 १,११५६ i द्र. । e) अर्थ ? । f) विप. । बस. । g) परस्परं पासे. । h) विप. । बस > षस. उप भाप.
 =करणा । i) व्यप । उस खजन्तम् ।

८×४, पावा १,१, ३६, ४,७४,
 २,१,५१, ३,१,१३१,४,३,३९,
 ५, १,१२, ९६, ६, ३, ७८, ४,
 १३२, १७४, ७,३,१५
 कृत-दर^१- -रम् या ३,२०
 कृत-दा(रा>)र^२- -र कप्र ३,
 १,५
 कृत-दू(ष>)षा- -षा मीस्
 १२,१,९
 कृत-देश- -शात् मीस् ५, २,
 २१
 कृतदेश-त्व- -त्वात् मीस्
 १०,५,७०, ६,१३
 कृत-धृति^३- -ति चाञ्च १६६
 कृत-नापित-कृत्य^४- -त्यम् जैगृ
 १,१२ ४
 कृत-नामन्^५- -मा आमिगृ २,
 ७,११-१२
 कृत-नियम-यन्त्र^६- -न्त्रः
 आमिगृ २,७,५ ३
 कृत-निर्णयन^७- -नान् विध ५४,
 ३१
 कृत-निर्देश- -शौ पावा ४, ३,
 ६६
 कृत-प(त्>)च्-छौच^८- -चान्
 आगृ ४,७,२.
 कृत-परिमाण^९- -त्व- -त्वात् मीस्
 १०,५,३०
 कृत-पातक->^{१०}किन्- -किन
 विध ४३,३२
 कृत-पाप^{११}- -पानाम् काध
 २८०:९
 कृत-पुण्य^{१२}- -ण्यस्य अप २४,
 ४,२.
 कृत-पुण्याह->^{१३}हि(न्>)नी-
 नीम् आमिगृ १,६,१:११.

कृत-पुष्पोपहार^{१४}- -राणि अप
 ६८,१,३५
 कृत-प्रमाण^{१५}- -णा निसू १०,
 ७-११.
 कृत-प्रसङ्ग- -ङ्ग पावा १,३,९.
 कृत-प्रस्थान-लिङ्ग^{१६}- -ङ्गः
 आमिगृ २,७,१० ४, शंघ १५८
 कृत-प्राणायाम^{१७}- -म. वैध २,
 १३,४.
 कृत-प्रातराश^{१८}- -शास्य कौगृ २,
 ७,१८, शागृ २,१२,१.
 कृत-प्रायश्चित्त^{१९}- -त्तः आपध १,
 २७,९.
 कृत-भूमि- -मौ आपध १,१७,
 ८, हिध १,५,४०
 कृत-मङ्गल, ला^{२०}- -ल आमिगृ
 २,४,५ १३, -लम् कौगृ १,
 ८, १, शागृ १, १२, १, -ला
 कागृ १७, २१
 कृतमङ्गल-विरचितोष्णी-
 षिन्- -षी अप ८,१,३
 कृत-मङ्गलस्वस्त्ययन^{२१}- -न
 आमिगृ १,६,१ ८
 कृत-मलापकर्ष^{२२}- -र्ष विध ६४,
 १८
 कृत-मलिनी-करण- -णा विध
 ४३,३०
 कृत-मलिनी-करण-कर्मन्-
 -र्मणाम् विध ४४,९
 कृत-यजुस्^{२३}- -जु. बौश्रौ ३,
 १:१
 कृत-यशस्^{२४}- -शा ऋअ २,
 ९,१०८, साञ्च १,५८२.
 कार्तयश^{२५}- -शम् जुस् ३,
 ९:५, लाश्रौ ७, ३, ११, -शे
 लाश्रौ ७,१०,१३.

कृत-याग^{२६}- -ग अप १९,
 ५,९
 कृत-यान^{२७}- -नः या ५,१५
 कृत-याम^{२८}- -मम् कौस् ७६,
 ६१
 कृत-र(क्षा>)क्ष^{२९}- -क्ष. अप
 १९,५,९
 कृत-रौद्रश(ब्द>)ब्दा^{३०}- -ब्दाः
 अप ७०,११,२०.
 कृत-लक्षण^{३१}- -णा लाश्रौ ९,
 ११, १४, -णान् कागृ १४, ६,
 गोगृ २,१,५
 कृतलक्षण-ग्रहण- -णान्
 मीस् ८,३,९.
 कृत-लब्ध-क्रीत-कुशल- -ला-
 पा ४,३,३८.
 कृत-वत् निसू ९,१३:२२.
 कृत-व(त्>)ती- -त्यः निसू
 २,११ १४
 कृतवन्मन्त्र^{३२}- -न्त्रान् भागृ
 १,४:३
 कृत-वापन^{३३}- -न शंघ ३९०
 विध ४६,२४, ५०,१६.
 कृत-विघटन-हेमपद्म-किञ्जल्क-
 चूर्ण-निकरा(र-अ)रुणता(ता-
 अ)मला(ल-अं)शु- -शुः
 अप २४, ५,४
 कृत-वीर^{३४}- (>कार्तवीर्य- पा)
 पाग ४, १,१०५
 कृत-वीरासन^{३५}- -न अप ४१,
 ३, ८
 कृत-वैश्वदेव^{३६}- -व बौध २, ३,
 १८
 कृत-व्यथ(न>)नी^{३७}- -नि
 कौस् ३९,११.
 कृत-शापथ^{३८}- -थान् विध ८,१९.

1 a) विप. । बस. । b) व्यप. । व्यु ? । c) विप । बस > पस. । d) = ऋषि-विशेष- ।
 e) = साम-विशेष- । f) पाठ ? । कृतवन्, मन्त्रान् इति संस्कृते पदसूची । g) तु पागम । h) वैप १ द्र. ।

कृत-शान्ति^३- न्तयः शागृ ६,
२, १०

२कृत-शौच, चा^३- -च. आग्निगृ
२, ४, ५ : ३, -चा शंघ ३३५,
-चानाम् विध २३, ३४

कृतशौचा(च-अ)वशि(ष्ट>)

ष्टा- ष्टा वाध ६, १७

कृत-श्मश्रुकर्मन्^३- -र्मण विव
१९, १८

कृत-सयुक्त- -क्तान् शंघ
२०९.

कृत-सहि(ता >)त- -तानाम्
ऋप्रा ६, १७

कृत-सकरी-करण- -णाः विव
४३, २७

कृत-सकरी-करण-कर्मन्-
-र्मणाम् विव ४४, ७

कृत-सं(ख्या>)ख्य^३- -ख्येषु
वाश्रौ १, १, ८०.

कृत-स(ज्ञा>)ज्ञ^३- -ज्ञा. वैताश्रौ
३३, २५

कृत-संघयोपासन^३- -न विव
२८, १४

कृत-सुकृत-हानि^३- -नि विव
८, २६

कृत-स्नान^३- -न वैव २, १,
४

कृत-स्वर^३- -रम् लाश्रौ ७, ११,
१९

कृत-स्वस्त्ययन^३- -न अप ४, २,
१३, १९^२, ५, १, -नम् आग्निगृ
२, २, ३. २, -नस्य अप ४,
१, १

कृता(त अ)कृत, ता- -त
आपश्रौ १, ९, ३, १३, १, १५,

माश्रौ २, ५, १, ४८, हिश्रौ २,
७, २९, ८, ६, १५, ९, ४, २१, निस्
२, १२-१४, १३:१७, ३, १३ ५,
४, ७ : ३, ९, ५ ३७, आग्निगृ
३, १, ३ : ८, हिगृ २, १२, ३,
-तम् आश्रौ ३, ६, २३, हिश्रौ
६, ६, २०, आगृ १, ३, ४, २२,
२५, कप्र ३, ५, २, ३, आपध
२, १८, १८, हिध २, ५, ७१,
-तस्य वृदे २, ९७, -त्ता आश्रौ
२, १७, १७, -ता आपश्रौ ५,
२७, ७, हिश्रौ ३, ६, ९, ९, ६,
७, -त्ता माश्रौ २, ५, ५, २०,
-तौ आश्रौ ३, १, १२, माश्रौ
१, ८, ४, ३०, हिश्रौ ४, ४,
३६

कृताकृत-कर्मन्- -र्मणाम्
माश्रौ १०, १, ८

कृता(त-अ)कृति- -ति निस्
४, ६ : १६

कृता(त-आ)गम- -मः निस् ७,
३ ३५

कृता(त-आ)गस^३- -गस बौश्रौ
१७, ४६ १

कृता(त-अ)शिकार्य^३- -र्यं
आग्निगृ ३, ४, १० २

कृता(त-अ)ङ्क^३- -ङ्क विध ५,
२०, -ङ्कम् विध ५, ३.

कृता(त-आ)चमन^३- -न
आग्निगृ २, ४, ५ ३

कृता(त-अ)ञ्जलि^३- -लिः वैगृ
५, ५ २, २८, कप्र २, १, १२,
वृदे ५, ७६

कृता(त-अ)ञ्जलिपुट- -टः कप्र
२, ४, ९, -टम् आग्निगृ ३, १२,

१ : २६.

कृता(त-अ)नुकर- -र काश्रौ
५, ४, ३२

कृता(त-अ)कार- -रः बौश्रौ
२५, २ : १२, १३

कृता(त-आ)धा(न>)ना^३-
-ना कागृ ३९ : १

कृता(त-अ)नुज्ञात^३- -तस्य
आगृ ३, ९, ४

कृता(त-आ)नुपूर्व्य-त्व-
-त्वात् मीसू ५, २, २, ३, ३

कृता(त-अ)नुबन्ध-त्व- -त्वात्
मीसू २, २, १^३

३कृता(त-अ)न्त^३- -न्तात्
आपश्रौ १४, २५, २, १५, २,
१३, बौश्रौ २०, २ १०, २५,
१६-११, भाश्रौ ११, २, २१,
वैश्रौ २१, १० ५, हिश्रौ १५,
६, २, २२, २४, १, १४, अप्राय
६, ४^३, बौश्र ५ ६, -न्तान्
काश्रौस ३३ १६^१, -न्तेन बौगृ
४, १, ४

२कृता(त-अ)न्त^३- -न्तम् वैगृ
१, १९ ६, -न्ताय अप २६,
९, ५, ४३, ५, ५१, -न्ते नाशि
१, १, २, -न्तेन अप ५८,
१, २

३कृतान्त^३- (> कार्तान्तिक-
पा) पाग ४, २, ६०

कृता(त-अ)ञ्ज^३- -ञ्जम् आपश्रौ
२०, ५, १७, २२, ७, २३, १७,
२^३, हिश्रौ १७, ३, २२, ६,
४०, लाश्रौ ८, ८, ४२, अप २६,
५, ८, वाध २, २६; आपध १,
१७, १७; बौध २, ३, २०, विध

a) विप. । बस. । b) °बन्धि° इति कास । c) = कर्मान्त- । d) कृतान्त्वात् इति पाठः ? यनि-

शोध. (तु आपश्रौ १४, २५, २) । e) = यम-, दैवः, सिद्धान्त- प्रमृ. । f) तु. पागम । = मुहूर्त-शास्त्र- ।

g) = पक्षाब्- ।

१८, ४४, ४४, ३३, हिध १,
५, ४९, गौघ ५, २३, -न्नस्य
आपघ १, १८, ४, हिध १, ५,
७४

कृतान्न-दक्षिण^३ - ण काश्रौ
२२, ६, १

कृता(त-अ)पकृता(त-आ)दि-
-दीनाम् पावा २, १, ६०

कृता(त-अ)पसव्य^३ - व्य शध
११६ ७०

कृता(त-अ)पात्री-करण- णा
विध ४३, २९

कृता(त-अ)पात्रीकरण-कर्मन्-
-मैणाम् विध ४४, ८

कृता(त-अ)भाव- -व पावा
२, ४, ८१

कृता(त-अ)भिषेक^३ - क अप
१९१, ५, ९

कृता(त-अ)व्य^३ - व्य कौगु
३, १०, ३३, शागु २, १५, १०,

पागु १, ३, ३१

कृता(त-अ)थ^३ - थान् गोगु ३,
९, ५

कृतार्थ-त्व- -त्वात् आश्रौ
५, ६, २४, मीसू ४, २, १६, २०,

२७, ११, १, ११, २२, १९, ४,
४४

कृता(त-आ)लय^३ - यानि विध
९८, २

कृता(त-आ)वसथ^३ - थ आपघ
२, ८, १, हिध २, १, १०२

कृता(त-अ)शे^३-कृतु-वर-
-रम् जैश्रौका ४

कृता(त-आ)हिक^३ - क अप
१९२, ५, ९

√कृति पा ३, १, २१

कृतिन्- -ती आपम १, १६,
४^b

कृतो(त-उ)थान^३ - नः अप
४१, ३, ८

कृतो(त-उ)दक^३ - कम् जैगु २,
५ ९, -काः पागु ३, १०, ४४,

कप्र ३, ३, ३

कृतो(त-उ)पकार^३ - रात् विध
५८, १०

कृतो(त-उ)पचार^३ - र अप
६९, २, ४

कृतो(त-उ)पवास^३ - सः
आमिगु २, ७, ५ ३

कृतो(त-उ)पवीत- > ँतिन्-
-ती वैगु ३, ७ १५

रकृत^३ - तम् शाश्रौ १५, १९, १,
आपश्रौ ५, २०, १, बौश्रौ १२,

१५ २०, भाश्रौ ५, १२, ७,
वाधूश्रौ ४, ५९ ३, वाश्रौ १,

४, ४, १४, ३, ३, ३, २७, वैश्रौ
१, १५ २, हिश्रौ ३, ५, ७, ६,
५, १७

कृतच्छन्दस्- -न्दासि निसू
१, ५ : ७, ८

कृत-युग- -गम् विध २०, ९

कृत-स्तोम- -माः निसू १, ९ :
१०, २१-२३

कृत-सपन्न- -ज्ञान् कौसू १७,
१७

कृता(त-आ)दि- -दयः वाधूश्रौ
४, ५९^२. ४, -दि काश्रौ १५,
७, १८

कृत^३->कार्त-> कार्त-कौजप-
पा, पाग ६, २, ३७

कार्ति- पावा ८, २, ४२

कृतवत्- -वान् अप ३१, २, ३;
वृदे ४, ५९, ६, ४१, ७, ५८,
८, १८, या ५, २२

कृति- पा ३, ३, १००, -ति वृदे
२, ६, ३, ३०

रकृति^३ - तय अत्र २०, ६७,
-ति. निसू १, ५ ९, ऋअ १,
६, ३, २, १, १२०, शुअ २, ८१;
४, १८४, ५, ३४, अत्र ४, ३४;
१२-१३, ३^२, १७, १, ऋपा १६,
३८, ८९, ९२, उनिसू २ : १८,
पिं ४, ३, -तिम् शुअ ३, १०;
-ती अत्र १०, ५

कृति-दृति-पथ्या-पदन्त्या(द्विक्त-
आ)दि- -दि अत्र ११, ३,
(२).

कृति-प्रकृत्या(ति-आ)कृति-वि-
कृति-सङ्कृत्य (ति-अ) भिक्कृत्यु
(ति-उ)कृति- -तय शुअ
५, २

कृति^३- -तिः अत्र १, ४

कृतु- > कृत्विद्य^३ - य^b बौश्रौ
२८, १ २१, २:२६, वैश्रौ २०,
३३ ११.

कृतु^३- पाउना ३, ३०, -कृतुः
आश्रौ २, १८, १५, बौश्रौ १८,
३१ ५, ऋअ २, ८, ७९^२६,
वृदे ६, १७

कृत्य- पा ३, १, १२०, -त्यम्
वाधूश्रौ २, ११ २, लाश्रौ १०,
११, १२, गोश्रु १, १, २, ३, ७,
२, ४, २, ५, ३, १, द्रागु १, १,
१७, -त्या^३ पा ३, १, ९५××;
-स्यानाम्^३ पा २, ३, ७१××;

कृति-दृति-पथ्या-पदन्त्या(द्विक्त-
आ)दि- -दि अत्र ११, ३,
(२).

कृति-प्रकृत्या(ति-आ)कृति-वि-
कृति-सङ्कृत्य (ति-अ) भिक्कृत्यु
(ति-उ)कृति- -तय शुअ
५, २

कृति^३- -तिः अत्र १, ४

कृतु- > कृत्विद्य^३ - य^b बौश्रौ
२८, १ २१, २:२६, वैश्रौ २०,
३३ ११.

कृतु^३- पाउना ३, ३०, -कृतुः
आश्रौ २, १८, १५, बौश्रौ १८,
३१ ५, ऋअ २, ८, ७९^२६,
वृदे ६, १७

कृत्य- पा ३, १, १२०, -त्यम्
वाधूश्रौ २, ११ २, लाश्रौ १०,
११, १२, गोश्रु १, १, २, ३, ७,
२, ४, २, ५, ३, १, द्रागु १, १,
१७, -त्या^३ पा ३, १, ९५××;
-स्यानाम्^३ पा २, ३, ७१××;

कृति-दृति-पथ्या-पदन्त्या(द्विक्त-
आ)दि- -दि अत्र ११, ३,
(२).

कृति-प्रकृत्या(ति-आ)कृति-वि-
कृति-सङ्कृत्य (ति-अ) भिक्कृत्यु
(ति-उ)कृति- -तय शुअ
५, २

a) विप । बस । b) सपा ऋ १०, १५९, ४ कृत्वी इति पामे । c) =यूत-पाञ्च, युग-, छन्दस्-,
स्तोम- प्रभृ । d) व्यप. । व्यु^२ । e) =छन्दो-विशेष- । f) =ऋषि-विशेष- । व्यु^१ । g) वैप १ द्. ।
h) पामे वैप १, ११५८ g द् । २) विप, व्यप. (ऋषि-विशेष-) । j) =प्रत्यय-संज्ञा- ।

पावा, -त्यानि गोयृ ३, ६, ८,
अप ३६, १०, १, -त्यं^३ पावा
६, १, १४०, -त्यै^३ पा, पावा २,
१, ३३, ४३

कृत्य-तुल्या (त्य-आख्या >)

त्य- -त्या. पा २, १, ६८

कृत्य-नामन्- -मभ्य पावा ५,
१, १२.

कृत्य-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा ३,
१, १५.

कृत्या(त्य-अ)नुनाशिन्- -शीं
शोध २४५

कृत्या(त्य-अ)र्थ- -र्थे पा ३, ४,
१४

१ कृत्या^३- -त्यया कौसू ३९, ११^३,
-त्या आपम १, १७, ७^३,
-कृत्याः कौसू ७९, २३, अत्र ५,
१४, ८, ५, १४, २, -त्याभि.
अत्र ८, ५^३, -त्याम् काश्रौ ८,
५, ९^३, कौसू ६, २२^३, अत्र ४,
१७, ५, ३१

कृत्या-कृत्^३- -कृत्म् अप ४६,
४, १, ५, ५, अत्र ५, ३१, -कृते
अत्र ५, १४

कृत्या-तस् () अप २०, ७, ५
कृत्या-दूषण^३- -ण अप ३३,
६, १, अशा २३, १, इअभू १,
-णम् अप १८, १, १४, अत्र
५, १४

कृत्यादूषण-चातन- -नौ अप
३३, १, ९.

कृत्यादूषण-देवता->त्य-
-त्यम् अत्र २, ११, ५, ३१, ८,
५, १०, १

कृत्यादूषण-मन्त्र- -न्त्रैः अप

३३, ५, ५

कृत्या-नाशन- -नम् बृदे ८, ४५

कृत्या-परिहरण-सूक्त- -क्तम्
अत्र २, ११

कृत्या-प्रतिहरण^३- -ण अप
३२, १, २, -णम् अत्र ४, ४०,
५, १४, -णानि अत्र ३२, १, २

कृत्याप्रतिहरण-ण- -णस्य
अत्रभू १

कृत्या-प्रशमन- -नाय अत्र ५,
३१.

कृत्या(त्या-आ)सक्ति- -क्ति
आपम १, ६, ८, कायृ ३२, ४,
बौयृ २, ५, १०

कृत्रिम, मा^३- -ग कौसू ७६, ५^३,
बोध २, २, २१, ऋअ २, १, २४,
साअ १, १५, अत्रा ३, ४ ५^३,
-मायाम् शध १९२, -मे शैशि
२४२, ३०३, पावा ६, ३, १२१

कृत्वस्^३() आपश्रौ १२, १०, ४,
बौश्रौ, पा ५, ४, १७, पाग १,
१, ३७

कृत्वो(त्वस्-अ)र्थ- -र्थे पा ८, ३,
४३.

कृत्वोर्थ-प्रयोग- -गे पा २,
३, ६४

कृत्वा आश्रौ १, २, १०, शाश्रौ,
आपश्रौ १, १०, १४^३, भाश्रौ १,
१०, १^३, हिश्रौ २, ७, ५६^३,
पायृ ३, २, २^३, बौपि ३,
७, ३^३

कृत्वा(त्वा-अ)पकृत- पावा २,
१, ६९

कृत्वाय काश्रौ १६, ४, ४, आपश्रौ
१६, ५, ३, बौश्रौ १०, ५ २१,

माश्रौ ६, १, २, १२, वैश्रौ २, १
१, ३९, १८, १ : ७२, हिश्रौ
११, १, ५८, शुअ २, ६२

कृन्वी निघ २, १, या १२, १०^३

कृवि- पाठ ४, ५६

कृक्राण^३- -णा अप ४८, ११५,
ऋअ २, ९, १०२^३, निघ ४, १,
या ४, १९^३

क्रियमाण, ण- -ण निस् ९, २ :
३, -णम् भाश्रौ १, ६, १३,
आमिगृ, या १, १६^३, -णयो-

निस् ४, ६ १६, -णा निस्
८, ७ १५, -णानाम् या ४,
११, -णानि भाश्रौ ४, ५, ३,
-णाम् आपश्रौ ४, ५, ५××,

माश्रौ, -णाय आपश्रौ ७, १५,
१^३, बौश्रौ, -णायाम् आपश्रौ
१४, ८, ५, १९, १, १५, हिश्रौ
१०, ३, २४, ८, १०, हिगृ १,
१३, १३, अप्राय ३, १, -णे

शाश्रौ ३, १६, १५, आपश्रौ,
-णेषु शाश्रौ १, ४, १, १३,
-णेषु शाश्रौ ९, २३, १३, १२,
७, ११^३, आपश्रौ

क्रियमाण-च्छन्दोम- -मान्
निस् ९, ५ : ३

क्रियमाणा(ण-अ)नुवादि-त्व-
-त्वात् मीस् १२, ३, ३७

क्रिया- पा ३, ३, १००, -यया विघ
५५, १४, पात्रा २, १, ३५, -ययो-

पात्रा २, ३, १, मीस् १, ४, ७,
-या आश्रौ २, ६, १८××,
काश्रौ, आज्यो १०, ४, पा ४,
२, ५८, ५, १, ११५, पावा १, ४,
३१, -याः काश्रौ ४, ३, २५,

३१, -याः काश्रौ ४, ३, २५,

a) प्रत्यय-संज्ञा- । b) वैप १ द्र । c) विप, नाप (गण विशेष-) । उस । d) = गण-विशेष-,
सूक्त-विशेष- । उस । e) पामे. वैप १, ११५९ i द्र. । f) पामे. वैप १, ११५९ k द्र. । g) कृयात् इति B. ।
h) पामे. वैप १, ११६० a द्र. । i) पामे. वैप १, ११६० m द्र. । j) किय^३ इति पाठ. ? यनि शोध. ।

बौश्रौ, -याणाम् बौश्र ३, १३,
१, मीसू ६, ३, ११, ११, १, २७,
-याभि या ६, ३२, -याम्य.
बौध १, २, ५७, -याम् आश्रौ
५, १३, १०, जैश्रौका ११५,
निसू ४, ११ २४, काश्रु ४३
९, ४५ ९, बौध ४, ८, १, २,
-याया वैश्र १, १६:१, पा, पावा
३, २, १२६, पावा ८, १, ६९,
मीसू ७, २, २, ३, -यायाम् आश्रौ
७, ५, ५, ऋत ३, ५, ४, पा ३, ३,
१०, पावा ३, ३, १३, मीसू ४,
१, ३, -यासु कप्र १, ८, २०,
अप ३७, १२, १, शव २६१,
वृदे १, ४४
क्रिया-काल-विरुद्ध- -द्वेषु वैश्र
४, १४: १५
क्रिया-कुत्सन^१- -ने पावा ८, १,
६९
क्रिया-गणन- -ने पा ६, २,
१६२
क्रिया-गुण-त्व- -त्वात् आश्रौ
२, ६, १७, काश्रौ २५, ११, ७
क्रिया(या-अ)ङ्ग^२- -ङ्गम् शव
१००^३
क्रिया(या-अ)तिपत्ति- -त्तौ पा
३, ३, १३९
क्रिया-निमित्त-त्व- -त्वात् मीसू
६, २, १४
क्रिया(या-अ)न्त- -न्ते वैश्र १,
२१: १२
१ क्रिया(या-अ)न्तर^४- -रम् मीसू
१०, ३, १८
२ क्रिया(या-अ)न्तर^४- -रे पा ३,
४, ५७
क्रिया-पूर्व- -र्वान् आश्रिण्ट ३,

११, १ ११
क्रिया-पृथक्त्व- -त्वे पावा १,
४, १०८
क्रिया-प्रतिषेध- -धः पावा २,
२, १९
क्रिया-प्रधानत्व- -त्वात् पावा ३,
४, २१, ५, ३, ६६, ६७.
क्रिया-प्रबन्ध-सामीप्य- -प्यथो
पा ३, ३, १३५
क्रिया-प्रबन्धा(न्ध-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ३, ३, १३६
क्रिया-प्रक्ष- -क्षे पा ८, १, ४४
क्रिया-प्राधान्य- -न्यम् शंघ ६८
क्रिया-फल- -ले पा १, ३, ७२
क्रिया(या-अ)भिधान- -नम्
मीसू ७, ३, १, ४, -नात् पावा
२, २, २७
क्रिया(या-अ)भिनिर्वृत्ति-वश-
-शेन वृदे १, ४४
क्रियाभिनिर्वृत्तिवशो(श-उ)
पजात्- -न वृदे १, ४५
क्रिया(या-अ)भिलुप्त- -सः बौश्र
३, १३, १
क्रिया-भेद- -दात् पावा १, ४,
२३
क्रिया(या अ)भ्यावृत्ति-गणन-
-ने पा ५, ४, १७
क्रिया-मय- -यम् बौश्र ३, १३, ९
क्रिया-युक्त- -क्तम् वैश्र ३,
२१ ८
१ क्रिया-योग- -गो पा १, ४,
५९, पावा १, १, १४, ४, ६०,
-गेन वृदे २, ९४
२ क्रिया-योग^५- -गान् वृदे २,
९५.
क्रिया(या-आ)रम्भ- -म्भं विघ

३७, २७, -म्भे बौध २, ३, ५७.
क्रिया(या-अ)र्थ, र्था- -र्थानाम्
मीसू ४, ३, ७, -र्थयाम् पा ३,
३, १०; -र्थेन मीसू १, १, २५
क्रियार्थ-स्व- -त्वात् मीसू १,
२, १, ३, ३३, ९, ४, २८, ११, १,
३३, ३५
क्रियार्थो(र्थ-उ)पपद- -दस्य
पा २, ३, १४, पावा ३, ३, १०
क्रिया-लोप- -षे वैश्र ६, १. ५.
क्रिया-वचन- -ने पावा १, ३, १.
क्रिया-वर- -वन्तम् शाण्ट १, २,
६.
क्रिया-वाक्य- -क्यम् शंघ ५
क्रिया-वाचक- -वम् ऋपा १२,
२५
क्रिया-विधि- -धिः कप्र ३, १०,
११
क्रिया-विशेष- -षे पावा ३, १,
२२.
क्रिया-विशेषक- -क पावा १,
३, १
क्रिया-व्युत्तरम- -म अप ६४,
५, ५
क्रिया-शब्द- -ब्द भाशि ३९
क्रिया-समभिहार- -रे पा ३,
१, २२, ४, २, पावा ३, १, २२^२;
४, २, ८, १, १२
क्रिया-समाप्ति- -प्तेः पावा ३, २,
१२०
क्रियासमाप्ति-विवक्षितत्व-
-त्वात् पावा ३, ३, १४२.
क्रिया-सातत्य- -त्ये पा ६, १,
१४४, पागवा २, १, ७२.
क्रिया-साधारणत्व- -त्वात् शंघ
२५१

a) तु पाका. पासि. । b) =स्नान-विशे। c) तस (पा २, १, ७२) । d) उस. उप. <√अन्तरि
<अन्तर-। e) विप. । बस. ।

क्रिया-स्नान- नम् शंघ १००^३,
१०३
क्रिया-हीन- ना अप ४१,३,
३, -ने वैष्ट ६,३. १, १२ : ४,
७, ४. १७
क्रिये(या-ई)प्सित-त्व- -त्वात्
पावा १, ४, ४९
क्रियो(या-उ)त्पत्ति- -त्तिम् मीस्
२, १, २२
चकृवस्- -वास. शाश्रौ ३, १८, ५,
-कृषः भाशि १६
चक्रत्- -क्रत् निघ २, ११
चक्रि- पावा ३, २, १७१
चकु- पाउमो २, १, २०
चर्करीत^१- > ष्त-वत् अप्रा ३, २,
१७
चर्करीत-वृत्त- -त्तम् या २, २८,
६, २२
चिकीर्षित- पाग ५, ४, ३८, -र्षित
काश्रौ २५, ८, ६, -र्षितो वृदे
४, ६८, -र्षन् आपश्रौ १०, १३,
९, वैश्रौ
चैकीर्षित- पा ५, ४, ३८
चिकीर्षा- -र्षया मीस् ३, ७, ७,
-र्षा निस् ६, ५ २३
चिकीर्षित- पाग ५, ४, ३८^६, -त्
बौश्रौ २५, १६ ११, या ७,
२३, २४, -त्तम् निस् २, ११
१६, ६, ४ ४, ६ २३, ७ :
४१, ८ १८, ८, ४ : १८, वृदे
४, ५८, -ता निस् ६, ९ ३,
८, ४. ७, -तानि निस् ८, ३ :
२९, ४ १२
चैकीर्षित- पा ५, ४, ३८

चिकीर्षित-ज- ज या ६, १
कुक- पाउमो २, २, ५
कुकण- पाउमो २, ०, १२६^६, पाग ४,
३, ७६,
कार्कण- पा ४, ३, ७६
कुकणीय- पा ४, २, १४५^६
कुकण्डू^१- (> कार्कण्डेय- पा) पाग
४, १, १२३
कुकद- -दम् वाश्रौ ३, २, ५, ४०
कुकदावर^२- -रे वाश्रौ ३, २, ५, ३८
कुकला- (> कार्कलि- पा) पाग
४, १, ९६^{१०}
कुकलाश- कुरुलास- टि द्र
कुकलास^१- पाग ४, १, १२३^६, ६, ३,
१०८^{०१}, -स अप ६८, २, ५३,
५, ८, शंघ ३७८, वृदे ६, १०६,
-सम् कौस् ४७, ३९, -सा अप
६७, ७, २
कार्कलासेय- पा ४, १, १२३
कुकलास-शिरस्- -रः कौस् ८, १८
कुकलास-सर्प-नकुल-विडाल-गो(गो-
अ)जा-वध- -धे काध २७२
११,
कुकवाकु^१- पाउ १, ६, -कु. अप १,
३४, ३, या १२, १३^१, -कुम्
शाश्रौ १२, २४, ५^१, -कोः या
१२, १३, -कौ अप्रा ३, ४, १^१
कुक(ष>)वा^३- -वाया. पाग १, १९,
१०
कुकसा^३- (> कार्कसेय- पा)
पाग ४, १, १२३
कुकटा^१- -टम् अप्रा ३, ४, १^१
कुकिलास- कुरुलास- टि द्र
?कुकुन्धम्पात् अप ४८, ९^१

कूच्छ, च्छू^१- पाउमो २, ३, २८,
पाग ३, १, १८, ५, २, १३१, ६,
२, १७०, -च्छः कुंवाव २१,
१६, २०, २४, २, ३, शंघ
४३२, ४४८, बौध १, ५,
१३८, २, १, ६०, ६४, ६५,
२, ४९, ४, ५, ६, ७, १३,
१५, गौध २३, २, -च्छम्
आमिष्ट २, ४, ४ : ७, ३, १२,
१ ११, १२, काग ७, ३, वैष्ट
२, ८ ८, ३, ६ ४, ६, १३.
१, अप ४८, ६५^१, ६९, ८, ३,
७०, २, ३, वाध १९, ४२, २०,
६, ७, ९, १२, २१, १३, १८,
२४, २५, २७, २९, ३२, २३,
११, १९, २७, २०, ३०, ८,
शंघ ४११, ४१५, ४३०, ४३९,
आपध १, १३, १०, बौध २, १,
७^३, बौध ४, ५, ११, १६, विव
३८, ७, ५२, ५, ५४, ३०, वैध
२, १, २, हिध १, ४, २४, ६, ७७,
७, ५, काध २७१ ६, २७२
९, सुध ५३, ६२, वृदे ६,
१४०, या २, ८, शैशि ६९^१,
-च्छा आपध २, २९, १३,
-च्छाणाम् वाध २४, ४, -च्छाणि
शंघ ४१४, विध ४६, १, २८,
-च्छात् कप्र २, १, १३, -च्छान्
कप्र २, १०, ११, वाध २३,
१०, बौध २, १, २२, विध
५४, २६, गौध २६, १, २३,
काध २७५ ६, -च्छाम् बौध
३, ३, २१, -च्छे बौध २, १,
६८, गौध २७, २, -च्छेण

a) = कर्म-नामन्. b) = यङ्लुगन्त- इति कैयटः (तु पाम ६, १, ६)। c) तु पागम।

d) = मुनि-। e) भारद्वाजदेश-वाचिनश् छ प्र.। f) सुकण्ड- इति [पक्षे] पाका., सुकण्डु- इति भारद्वा
प्रम.। व्यप.। व्यु. ?। g) विप. (चर्मन्-)। व्यु. ?। h) व्यप.। व्यु. ?। i) वैप १ द्र.। j) पक्षे ल्लाश-,
किलास- इत्यपि। k) = पक्षि-विशेष-। व्यु. ?। l) नाप.। वैप १ द्र.।

आज्यो ५, ११, -च्छैः शध
१५९ : १३, ४४३, विध ५४,
२५
कृच्छ्र-गहन- -नयो पा ७,२, २२
कृच्छ्र-त्रय- -यम् सुध ४६, सुधप
८४. १२
कृच्छ्र-द्वय- -यम् सुव ५८
कृच्छ्र-द्वादशरात्र- -त्रम् आपध १,
२७,६, बौध ३, ७, १०, हिध
१, ७, ३१, -त्रस्य आपध १,
२७,७, हिध १,७, ३२, -त्रेण
बौध २, १, ३९
कृच्छ्रद्वादशरात्रा(त्र-अ)भ्यास-
-म् आपध १, २८, २०, हिध
१,७,५६
कृच्छ्र-पाद- -द. शध ३६२, सुध
४५, -दे शं व ४४६
कृच्छ्र-भूयस्त्व- -स्त्वम् कप्र २,
१,१३
कृच्छ्र-विधि- -धि वाध २३,
४०, -धिम् कागृ ५,१
कृच्छ्र-संवत्सर- -र आपध १,२७,
८, हिध १,७, ३३, -रम्
आपध १,२५,९
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)र्थे-
-र्थेषु पा ३,३,१२६
१ कृच्छ्रा(च्छ्र अ)तिकृच्छ्र- -च्छ्र
वाव २४,३, बौध २, १, ६७,
४, ५,९, विध ४६, १३, गौध
२६, १९^४, -च्छ्रम् आमिगृ ३,
१२, १ ९, विध ३९,२, ४१,
५, ५४,३०

२ कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)तिकृच्छ्र- -च्छ्रौ
वाध २०, ८, १०, १९, २२,
१६, बौध २, २, ६५, ३, १०,
१८, गौध १९,२०
कृच्छ्रातिकृच्छ्रा(च्छ्र-अ)दि-
-दीन् बौध २,२,५१
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)दि- -दि कप्र ३,
५,५
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)पत्ति- -त्ति या
२,७
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)ब्द- -ब्द गौव २३,
३३
कृच्छ्राब्द-पाद- -दम् वाध २०,
१६, बौध २, १, १८, ३८
√कृच्छ्राय पा ३,१, १८, कृच्छ्रा-
येत आपधौ १०, २६, १६,
हिश्रौ ७,२,८०
कृच्छ्रा(च्छ्र-अ)र्थ- -र्थे शं व ४४६
√कृड् पाधा तुदा पर घनत्वे
कृडु^५-(>कार्त्वि, कृडिमन्, कृडुत्व-
पा) पाग ५, १, १२२
कृणु- √कृ द्र
√कृण्व^० पाधा भ्वा पर हिसा-
करणयो, कृण्वति निघ २,
१९^१^६
कृण्वत्, कृण्वान- √कृ द्र
√कृत्^० पाधा तुदा पर छेदने, कृन्तनि
सु ५,४, अप ४८, १९^१^६, निघ
२, १९^१^६, कृन्तन्ति वाधुश्रौ
४, ५९^२:७, ऋन्तामि बौधौ
१७,४४ ५, बौध १, २, ३६,
कृन्तत गोघ २,७,२०^१

कृत्यते या ४, ३, ऋन्त्यात्मा
आपधौ ३, १,२, बौधौ १,१७ :
२८, भाश्रौ ३, २, ७, हिश्रौ २,
३, १
१ कर्त्तृ- तं निघ ३, २३, -तम्
बौधौ १८, ४४ ४, ९, वाधुश्रौ
२, २०.४, ४, ९० : ६, अत्र
४, १२^१, -तानि आपधौ २१,
१२, ३, हिश्रौ १६, ४, ३५^५,
-तै वाधुश्रौ ४, १८ ३०, लाश्रौ
८, ८, ३, -तैन आपध २, १७,
३^१^६
कर्त्तृ-पत्य^१- -त्यम् आपध १, ५, ३,
बौध १, १०, ३८, हिध १, २,
३^१^६
कर्त्तरि, री^१- पाउभो २, १, २३०.
-रि. माशि ९, ६^१^३, नाशि १,
६, ११^१^३, -री याशि २, ८.
२ कृतक- पाउ २, ३७
कृत्- -त्तम् वृदे ३, २३
कृत्-दतिन्^५- -ती या ६, ३०.
कृत्-दन्त^०- -न्तम् या ६, ३०
कृत्-नख^०- -खम् कौशु ५४, ४
कृत्ति- -त्ति अप ४८, ८९^१, निघ ३,
४, ४, २, या ५, २२^१^१, -त्तिम्
बौधौ १५, २८ : २३, २५, या
५, २२^१
ऋन्तित्ति-वासस्^०- -ससे गौध
२६, १२, -सा काश्रौ ५, १०,
१९, आश्रौ ८, १८, ९, बौधौ
५, १७ ७, भाश्रौ ८, २२, ५,
हिश्रौ ५, ५, २, द्राश्रौ १३, ३,

- a) तु जीसं । b) तु पागम । =मन्तु- । व्यु ? । c) पा ३,१,८० परामृष्ट द्र । d) वधे वृत्ति ।
e) या १,९,३, ११, ५-६, २२, ९, ३२ पा ७, १, ५९, २, ५७ परामृष्ट द्र । f) हिंसाया वृत्ति । g) वैप १ द्र ।
h) कर्त्वाभिश्च इति पाठः ? यनि शोध (तु आपधौ) । i) पासे पृ २७० f द्र । j) उप < √पत् [गती] ।
k) कर्त्तृप^० इति पाठः ? यनि शोध. (तु आपध) । l) नाप । अरि प्र उसं (तु. अशतः पाउभो, वैतु अभा
वैप ३ च) । m) णि इति पाठ ? यनि शोध । n) वैप १, १०९५८ द्र. । o) विप । बस । p) =गृह-
नामन्- । q) =यशस्-, अन्न- प्रमृ । वैप १ द्र ।

९, लाश्रौ ५,३,१२, आमिगृ २,
५,३ १५, वौगृ ३, ७,१४, या
३,२१, ५,२२
कृत्य(ति-अ)धि^१, धीवास-सम्
आपश्रौ १२, ८,११, १८, १८,
६, २०, १७,८, वायूश्रौ ३,७६
३६, हिश्रौ १०,४,१४,१३, ६,
१७, -से हिश्रौ १४,३,५६
रकृत्वा- पाठभो २,३,३
कृन्त^२ > कृन्त-विचक्ष(ण) > पा-
पा,पा २, १,७२
कृन्त^३ > पाठ ३,१०९, -त्रम् या
२, २२०, -त्रात् वृदे २, ५९,
या २, २२१, -त्रेण निस् ७,
११:१२
√कृत्^४ पाधा रुवा पर वेष्टने, कृणत्ति
वौगृ १, ७, ३२, ऋकृन्तन्
आपश्रौ १४,१२,४, माश्रौ ५,२,
१४,२०, हिश्रौ १०,६,९, दाश्रौ
५, ४,२३, लाश्रौ २, ८, २३१,
आपमं २,२,५१, पागृ १,४,१३,
आमिगृ, वागृ ५,९^{१०}, या ३,२१.
चकृत^१ कागृ ४१, ५१^{११}
अकृतन्^२ आपमं २,२,३१^{१२}
रकर्त्^३ > कर्त्-संसर्ग- गौ मागृ
२,१५,६
कृन्त(त >)न्ती- न्त्यो. कौस
१०७,११
कृन्दि > कृन्दि^४- विचक्ष(ण) >
णा^५- पा,पाग २,१,७२.
कृत्-, १-३कृत- प्रभृ, १कृतक-
√कृद्र

२कृतक- √कृत् (छेदने) द्र
३कृतक- -कानि या ५,११
कृतद्वसु^६- -सु आपमं १, ११,
१११
कृताद्^७- -तात् माश्रौ २, ५, ५,
२०१
१-३कृति-, कृत्- √कृद्र
कृत्त-, कृत्ति- √कृत् (छेदने) द्र
कृत्तिका^८- पाठ ३, १४७, पाग ६,
२, १९३, फि २०, -का वाशु
७, ३५, -का आपश्रौ १७, ५,
४, ६, ५१, वौश्रौ, अप १,३३,
११^{१३}, -कानाम् आपम १, ९,
७१, ऋआमिगृ, -कामि. वायूश्रौ
२,१८.२, अय, -काम्य वौश्रौ
२८, ३ ११, २०, शागृ १,
२६, १, वैगृ ३, २० ३, अशा
१२,१, -काम् अशा १, १, २,
-कालु आश्रौ २, १, १०,
आपश्रौ
कार्त्तिक >)की^९- -की विध
९०,१६, गौध १६ ३७, -क्या
कौसू ७५,२, -क्याम् शाश्रौ ३,
१५,१, काश्रौ ५, ६,१, काश्रौम
२८ २१, वाधूश्रौ ३, ६९
१०, वैश्रौ ९, १ १, हिश्रौ ५,
३, १, ४४, वैताश्रौ ९, १, कौगृ
३, ६,२, शागृ ३, ११, २, पागृ
३,९,३, आमिगृ १, ७, ४. २,
कागृ ५९, २, मागृ २, ७, ९,
हिपि १७ ५-७, गोगृ ३, ३,
२२, अप १८^{१४}, ९, १, १८^{१५}, १,

२, ५०, ९, ५, विध ८६, २, वैध
१, ७, ६
कार्त्तिक^{१६}- पा ४, २, २३;
-कृ विव ८९, १, -कम् विध
७८, ५३, ८९, ३, ४, -के
वायूश्रौ ४, ४० १, लाश्रौ ९,
१२, १३, अप ५५, २, १
कार्त्तिकि- पा ४, २, २३.
कार्त्तिकेय^{१७}- -य अप २०,
२, ९
कृत्तिका(का-आ)ख्या- -ख्या फि
२०
कृत्तिका(का-अ)जि^{१८}- -जिम् काश्रौ
२०, १, ३२
कृत्ति(का-आ)कादि- -दीनि अप
३०^{१९}, १, १८, अशा १, १
कृत्तिका-पुत्र- -त्रम् अप २०, ६,
४, -त्राय अप २०, ६, ५१
कृत्तिका-प्रभृति- -तीनि शाश्रौ २,
१, ९.
कृत्तिका-यु(त >)वा- -ता विध
९०, १६
कृत्तिका(का-अ)रोका(क-अ)रोधा
(अ-अ)वाप्य^{२०}- -प्येषु कौसू
४७, ११
कृत्तिना रोहिणी-मध्य- -ध्ये अप
१^{२१}, १, ७
कृत्तिका-रोहिणी-मृगशिर-फल्यु-
नी- -नीपु काश्रौ ४, ७, २
कृत्तिका-रोहिणी-ध्याख्या(त >)
ता- -ता: अप १८^{२२}, १९, ४.
कृत्तिका-रोहिणी-सौम्य^{२३}- -म्यम्

a) अधि^१ इति वाधूश्रौ । b) लोटि मपु१ अनुकरणम् । c) वैप १ द्र । d) पा ७, २, ५७ परामृष्टः
द्र । e) अकृतन् इति पाठः^२ यनि शोघ (तु पागृ प्रभृ) । f) पाठ^३ चकृतुः इति शोघ (तु सस्कृता) ।
g) परस्मै पाभे. । h) पाठ^४ । लुङि प्र३ इति सस्कृता [भू XXIII] । i) भाप (वेष्टन-) वा नाप (चर्खा[नभा]) वा ।
j) तु भागडा प्रभृ । द्विन्द्ववि^५ इति पाठा, ऽविक्षिणा- इति शाकटायन (तु पागम) । k) पाठः^६ = घृताद्-
> -तात् इति । l) उत्तरेण संधिरापः । m) = पौर्णमासी- । n) = मास-नामन्- । o) वैप २, ३खं. द्र. ।
p) आभिचारिककर्मसंपुक्काना कालाना द्रस । प्रतिशब्दम् अर्थः^७ । q) समाहारे द्रम. । सौम्य- = मृग-शिरसु- ।

अप ५६, १, १
 कृत्तिका-रोहिण्या (णी-आ) दि-
 -दीनि अप १८^२, १९, १
 कृत्तिका-स्वाति-पूर्व- न्वै कागृ
 १४, २, मागृ १, ७, ४, वागृ १०,
 ३
 कृत्नु- १कृत्या- प्रभृ √कृ द्र
 २कृत्या- √कृत् (छेदने) द्र
 कृत्रिम- √कृ द्र
 कृत्रिरासदिवाद्रभूतदिवा
 आज्यो ५, १८
 कृत्वस्, ०वा, ०वाय, ०वी √कृ द्र
 कृत्स- पाउ ३, ६६
 कृत्स्न, त्स्ना^१- पाउ ३, १७, -त्स्न
 भाश्रौ ८, १०, ७, निसू, -त्स्नम्
 शाश्रौ १२, १२, १०, आपश्रौ,
 -त्स्नस्य हिश्रौ २१, २, ९, मीसू
 ११, ३, ३१, -त्स्ना हिश्रौ ७, २,
 १२, ९, ६, ११, लाश्रौ ७, ८, १९,
 वप्र ३, १०, ३, -त्स्ना. मैश्र २१,
 -त्स्नान् निसू ८, ७ : २२,
 -त्स्नानाम् भाश्रौ ९, ८, २,
 -त्स्नाम् आपश्रौ ७, २०, ९,
 वैश्रौ, -त्स्नायाम् आपगृ ११,
 १२, बौगृ २, ५, ४०, -त्स्ने निसू
 २, ५ ९, -त्स्नेन वाधूश्रौ ४,
 ११ : ५, ७, ९, निसू २, १०
 १२, -त्स्ने शाश्रौ १२, १०, ७,
 -त्स्नौ निसू २, ५ १६, ९, १३
 २३
 कात्स्न्य- -त्स्न्यम् या १, १५,
 मीसू ९, ४, २५, -त्स्न्ये पा ५,
 ४, ५२, -त्स्न्येन अप ५२, १६,

४, ५८^२, १, २, ७०, ११, ५, मीसू
 ६, १, ५
 कृत्स्न-क- -के शाश्रौ १६, २९, ८
 कृत्स्न-ग्रास- -सम् वाध १२, १९
 कृत्स्न-त(म>)मा- -मा निसू ८,
 १३ ७
 कृत्स्न-तर- -र निसू ८, ११ २३
 कृत्स्न-ता- -तायै निसू ८, ११ ६
 कृत्स्न-त्व- -त्वान् मीसू १०, ८, ३७
 कृत्स्न-वचन- -नात् मीसू ९, ४, ८
 कृत्स्न-वत्^१ लाश्रौ १०, १६, २, या
 २, ५
 कृत्स्न-विकार- -राय निसू ७, ५ :
 २०
 कृत्स्न-विधान- -नम् मीसू ५, ४,
 १८, -नात् मीसू ८, १, ५, १०,
 ५, ३४
 कृत्स्न-विधि- -धि मीसू १०, ६,
 ७५
 कृत्स्न-शब्द- -ब्द मीसू ३, २, १८
 कृत्स्न-शस् (°) वृदे २, ५, ८, १३०
 कृत्स्न-संयोग- -गात् मीसू ६, ६,
 १०, ७, ३७
 कृत्स्न-संस्था- -स्था वैश्रौ १०,
 १८ ३, -स्थाम् आपश्रौ १३,
 २४, ११
 कृत्स्ना(त्स्न-अ)न्वित- -तानि निसू
 ६, ५ २०
 कृत्स्ना(त्स्न-अ)भाव- -वे हिश्रौ ३,
 १, २५
 कृत्स्नी/कृ > कृत्स्नी-चिकीर्षत्-
 -र्षत् निसू ६, १२. ३, ७, ९ :
 १८

कृत्स्नी/भू > कृत्स्नीभवति निसू
 ६, ६ १५
 कृत्स्नो(त्स्न-उ)पदेश- -शात् काश्रौ
 १, ७, ५, २, ७, १३, मीसू ३, २,
 १५
 कृदर^१- पाउ ५, ४१, -र निघ ३,
 ४, -रम् आपश्रौ २०, १७, ३,
 बौश्रौ १५, २८ ८, वाधूश्रौ ३, ८९
 १, हिश्रौ १४, ३, ५४, अप ४८,
 ८०, निघ ३, २९, या ३, २०^१
 कृधु^१- धु शाश्रौ १२, २४, २^१,
 निघ^१ ३, २^१, या ६, ३^१
 कृधुक- -कः अप ४८, ६७^१
 कृन्त-, कृन्तत्र- √कृत् (छेदने) द्र
 कृन्त(त् >)न्ती- √कृत् (वेष्टने) द्र.
 कृन्दि √कृत् (छेदने) द्र
 √कृप्^१ पाधा +वा आत्म सामर्थ्ये,
 तुरा उभ अत्रकल्कने, दौर्बल्ये
 कृप्- कृपा आश्रौ ४, ६, ३, शाश्रौ
 ५, ९, ७, बौश्रौ ६, १४ : १६,
 निघ ४, ३, या ६, ८^१, अप्रा २,
 २, १५
 कृपण^१- पाउभो २, २, १२४, पाग
 २, १, ५९, ३, १, १८, ४, १, ४५^१,
 ५, २, १३१, ६, २, १००, -णम्
 शाश्रौ १५, १७, १^१
 कृपणा-, कृपणी- पा ४, १,
 ४५
 कृपण-काशिन्^१- -शी वैगृ १,
 १८ ११
 कृपणा(रा-आ) तुरा (र-अ) नाथ-
 व्यङ्ग-विधवा बाल-वृद्ध- -द्वात्
 संघ २४७

a) वैप १ द्र । b) तदर्हीय वति प्र (पा ५, १, ११७) । c) व्यु पाभे च वैप १, ११६२
 p, r द्र । d) = शिश्र- । व्यु ? < √*कृधु [सृष्टौ] इति मतम् । एतदनु वैप १, ११६२ वृ प्रदर्शितोऽर्थो नेष्टः
 (तु टि अंहु-भेदि, दी- > -द्याम्) । e) विप (ह्रस्व-) । f) सपा कृधु <> कृधुक इति पाभे ।
 g) = √कृप् । = √कृप् इति BPG. । शौच १, ६४, ४, ८६ या ६, ८ पा ८, २, १८ परामृष्टः द्र । h) कृपाण-
 इति पाका ।

√कृपणाय पा ३, १, १८
 कृपणिन्- पा ५, २, १३१
 √कृपण्य^३, ऋकृपण्यति अप
 ४८, ९, निघ ३, १४
 कृपण्यु- ण्यव वृदे २, २७,
 ३३, -ऋण्युः अप ४८, ९७,
 निघ ३, १६
 कृपयत्- -यन् या २, १२^क
 १कृपा- पाग ३, १, १३^०, ३, १०४^०,
 -पया बौध ४, ५, ३२
 कृपा(पा-आ)दि- -दीनाम् शौच
 १, ६५.
 √कृपाय, कृपायति निघ ३,
 १४^०
 कृपायमाण- ण या २, १२
 रकृ(प>)पा^०- पा आपथ्रौ १०,
 १४, १^१
 कृपाण^६- पाउभो २, २, १२७, -ण.
 आपथ्रौ १८, १०, २१
 कृपीट^६- पाउ ४, १८५, -ऋटम् अप
 ४८, ७५, निघ १, १२, ऋप्रा ७,
 ४५
 कृमि^६- पाउ ४, १२२, पाग ५, २,
 १००, ८, २, ९, -मय अप ४६,
 ५ १^१, ६७, २, २, -मि वाध
 ४, ३२, १८, १६, शध ३७७.
 १६, विध ४४, ११, या १४,
 ११, -मिमि विध ४३, ४०,
 -मीणाम् अप ४६, ५, ५^१
 कृमि-कीट- -टानाम् विध ४१, २.
 कृमि-केश-कीट-युत- -तम् वैध २,
 १५, ३
 कृमि-जम्भन- -नम् अत्र २, ३१.

कृमि-ण- पा ५, २, १००
 कृमिण-त्व- -त्वम् अप ६८, २,
 ३९
 कृमि-इ(ष्ट>)ष्टा- -ष्टाः अप २६,
 ४, ५
 कृमिदष्ट-चिकित्सा- -त्सायाम्
 कप्र १, ५, ९
 कृमि-भूत- -त वाध २, ३०
 कृमि-मत्- पा ८, २, ९
 कृमि-योनि- -नय विध ४४, ३
 कृमुक^६- > कार्मु(क>)की- कीम्
 ऋश्रौ १६, ४, ३५
 कृमुक-शकल- -लम् कौसू २८, २
 कृचि- √कृ द्र
 √कृश् पावा दिवा पर तनूकरणे,
 कर्शेत् भाश्रौ १०, ८, १६
 कर्शयति वैश्रौ १२, १२. ९,
 कर्शयेत् आपध २, २७, १०,
 २८, ५
 कर्शित्वा पा १, २, २५
 कृश, शा^६- पाउना ४, ११६, पा ८,
 २, ५५, पाग २, ४, ६३^०, ५, १,
 १२३, -श काश्रौ ६, ७, १२,
 ऋआपथ्रौ १०, १४, ८-१०, २१,
 १, ९, हिश्रौ १६, १, ७, काय,
 ऋअ २, ८, ५५^१, -शम् अप १,
 ३७, ४^१, ३, २, ३, अशा ७, ४,
 -शा सु १०, ४, अप २६, २, ५,
 ३, १, ५८^३, २, ४, -शा भाय
 १, ७ : १३^१, -शास बौध १,
 ५, ८६
 कार्श्य- पा ५, १, १२३,
 पावा ५, ३, ९१.

कृश-कृत्स्न- (> काशकृत्स्न-
 पा) पाग २, ४, ६९.
 कृश-मध्य^१- -ध्य चव्यू ४
 १५
 कृश-वृत्ति^१- -त्तय वैगु ५,
 १३. ०
 कृश-हारीत^१- -तः गौपि १, ४,
 २२
 कृशाश्व^३- (> कृशाश्वक-, कृशा-
 श्विन्- पा यक्र) पाग ५, २,
 ६२, ४, ३, १११
 कृशो(श-उ)दर^१- -रम् याशि
 २, ८६
 कृशित्वा पा १, २, २५
 कृशन^६- -०न गोगु २, १०, २६^१;
 -नम् कौसू ५८, ९, ऋअप ४८,
 ७९^१, ९१, अत्र ४, १०, ऋनिघ
 १, २, ३, ७^६
 कृशम^१- -म अप ४८, ६७^१
 कृशर^३- -रम् कौसू ६६, १६, ८४, ३;
 अप १, २८, १, शंघ १३६
 कृशाकु- (> कृशाकवक- पा)
 कृशानु- टि द्र
 कृशानु^६- पाउ ४, २, पाग ५, २, ६२^०;
 -ऋनु^० आपथ्रौ ११, १४ १०;
 बौश्रौ ६, २९ : १६, वैश्रौ १४;
 १३ ३, हिश्रौ १०, ३, ४२,
 जैश्रौ १३ ५, -नुम् माश्रौ ४,
 २, ३४, शध ११६ ३७;
 -ऋ०नो शाश्रौ ६, १२, ३०, बौश्रौ
 ६, १५ १५, द्राश्रौ ५, ४,
 १२, लाश्रौ २, ८, १२, -नोः
 या ११, ८^१.

a) अर्चास्तुत्योर् वृत्तिः । b) तु पागम । c) < √कृप् इति पावा ।) अर्चायां वृत्ति ।
 e) = जल-विशेष- । कर्तरि क प्र । f) पाभे पृ ८४० । द्र । g) वैप १ द्र । h) व्यप । व्यु. ? ।
 i) = ऋषि-विशेष- । j) विप । बस । k) = रूप-नामन्- । l) = ह्रस्व-नामन्- । व्यु ? । m) कृसर-
 इत्यनेन स-न्यायता द्र । n) तु भारुडा. प्रम् । कृशाकु- इति [पक्षे] पासि, दृशान- इति पाका. । o) पाभे.
 वैप १, ११६४ । द्र. ।

कृशानवक- पा ५, २, ६२
 ✓कृष्^a पाधा +त्रा पर, तुदा उभ
 विलेखने, कर्षते आपश्रौ ११, २,
 १, १८, ५, भाश्रौ १२, २, ४,
 कर्षति बौपि १, १५. १८, कौसू
 ३९ २९, कर्षन्ति बौध १, ५,
 ८४, कर्षेत् आपश्रौ ११, ९, १०,
 बौश्रौ २०, ७ १७, २७ : २७,
 शंघ ८९, अत्र १५, १३१, १३,
 कर्षेयु. वाधूश्रौ ३, ४४ १३,
 लाश्रौ १०, १५, १५
 कृषनि काश्रौ १७, २, ११, २१,
 ४, १, आपश्रौ, कृषन्ति काश्रौ
 १७, २, १८, वाधूश्रौ ४, ७४ ६,
 हिश्रौ ११, ६, ३५, कृषतु आमिगृ
 ३, ८, २ : ६१, कृषेत् बौश्रौ २२,
 ५ : २४, २५, पागृ २, १३, ४
 ऋक्षयन्ति वाधूश्रौ ३, ४४ १६,
 अकृषत कौसू २०, १६१, अकृ-
 क्षाम कौसू २०, १७१
 कर्षयति बौश्रौ १८, २० ५,
 कर्षयेत् हिघ २, ५, २२९, ६,
 ५
 अचकृषु वाश्रौ १, ५, ५, ८१^b,
 ऋचकृषु आपश्रौ ६, ३०, २०^b,
 बौश्रौ ३, १२ २८^b, भाश्रौ ६,
 १८, ७^b, माश्रौ १, ६, ४,
 २४^b, पागृ ३, १, ६^b, जैगृ १,
 २४ ७^b
 कर्ष- पा ६, १, १५९, पाग २, ४,
 ३१, ५, १, ६४, -र्षे आपध २,
 १६, १४, हिघ २, ५, १४
 कार्षिक- पा ५, १, ६४

कर्षक^c- का अप ६३, ३, ३, वाध
 ११, ४२, -काणाम् अप ५८^२,
 ४, ४, शंघ २६२, -काय आमिगृ
 २, ५, १२ ५, -कै गौध १०,
 २३
 कर्षक-वणिक्-पशुपाल-कुसीदि-
 -कारु- रव गौध ११, २३
 कर्षण^d- ग शौच २, ३९, -गम्
 अप १, ४४, ५, शव १६६, बौध
 १, ६, १७, नाशि १, ६, १९,
 -णात् कौशि २०, -णे बौश्रौ
 २२, ५ २५
 कर्षण-करणा(ए-अ)र्थ- -र्थम्
 वाध १९, १२
 कर्षण-वपन- -नाभ्याम् बौश्रौ
 २६, २८. ८, -ने बौश्रौ २६,
 २८ ८
 कर्षण-शुश्रूषा(षा-अ)धिकृत-
 त्व- -त्वात् बौध १, ११, १५
 कर्षणा(ए-अ)दि- -दीनि
 आज्यो ५, ९
 कर्षत्- -र्षन् आश्रौ २, ३, ८,
 आपश्रौ
 कर्षमाण- -गम् वैताश्रौ २८, ३१^e
 कर्षयित्वा वैगृ २, १३ ८, कौम
 ८३ १८
 कर्षिन्- -र्षी बौध २, २, ७३, वाध
 २, ३२
 कर्षु^f- पाउ १, ८०, -र्षु माश्रौ
 २१, ४, १९, -र्षु बौश्रौ १०,
 १९ : ११, १८, १९, १ : १८,
 आमिगृ ३, ४, १ : १९×५, काय
 ६५, ३, ५, ६६, ४, बौपि १, ८.

१८×५, -र्षुणाम् गोगृ ४, २,
 ०३, ३, ३, कप्र २, ८, ४, -र्षुभ्यः
 आमिगृ ३, ७, ३ : ३१, बौपि २,
 ३, ५, -र्षुम् काश्रौ २५ ८, ३,
 माश्रौ, -र्षुषु आगृ २, ५, ६;
 पागृ, -र्ष्वी गोगृ ४, २, १८,
 -र्ष्वाम् माश्रौ १, १, २, १०;
 कप्रगृउ, द्रागृ ३, २, ३१^g
 कर्षु-त्रय- -यम् विध २१, १०^h;
 ७४, ७
 कर्षुत्रय-मूल- -ले विध
 ७४, ४^h
 कर्षुत्रय-सनिकर्ष- -र्षे विध
 २१, १८
 कर्षु-वीरणⁱ-वत्- -वति काश्रौ
 २१, ३, २५
 कर्षु समन्वित- -त्तम् कप्र ३, ५,
 १४.
 कर्षु-समीप- -पे विध २१, ५
 कर्षु(र्षु-आ)दि- -दि हिपि ९ :
 १३, १६ : १४
 कार्षिक- पाउ २, ३८.
 कार्षिक- पाउ ४, १२७, -र्षि^k
 काश्रौ ९, ३, ५, आपश्रौ १२, ५,
 १०, बौश्रौ ७, ३ : १६, माश्रौ
 २, ३, २, १७, वैश्रौ १५, ६ ६^m;
 हिश्रौ ८, १, ६७, शुअ १,
 ४२२ⁿ
 कार्गमन्^o- -र्ष्म शैशि ७७ⁿ
 १^oकृष- -षम् वाश्रौ २, १, ५, २२
 २कृष^p- (>कृषी-पा) पाग ४, १,
 ४१^o,
 कृषक- पाउ २, ३८.

a) या २, २०, ९, १९ [अणुभावे वृत्ति], पा ७, ४, ६४ पावा ३, १, ४४ परामृष्ट द्र. । b) पामे.
 वैप १, ११६४ ङ द्र । c) ऋ इति पाठ^१ यनि शोध. । d) चकृषु इति पाठ^२ यनि शोधः ।
 e) = कृषीबल- । f) करणे भावे च व्युद् प्र । g) कृष्यं इति ० शोध । h) = लेखान्, नालीन्, गर्तन् ।
 i) का इति पाठ^३ यनि शोधः । j) ऋषि इति चौरसं. । k) वैप १ द्र. । l) पामे वैप १, ११६५ b द्र. ‡
 m) ऋषी इति पाठः यनि शोधः । n) अर्थः व्यु च १ । o) तु. पागम. ।

कृष्ण-वन् बौध २५, ३० १
 कृष्ण- पाठ ४, १२०, पाग ४, ४,
 ६२^०, ५, २, ११२^०, -वि.
 ऋष्यापश्रौ १०, ११, १, १६, २८,
 १, वैश्रौ, -षिम् ऋष्याश्रौ २, १,
 २, ११, १३, बौध, -ऋषी
 अप ३७, १, २, सुप्रा ३, ३३,
 -बौ पा ५, ४, ५८, -ष्या वाध
 २, ३१, बौध १, ५, ८४, अत्र
 ११, ३(२)†, -ष्याम् कप्र ३,
 ७, १०, -ऋष्यै आपश्रौ १०,
 १०, १×४, बौश्रौ
 कार्ष- पा ४, ४, ६२.
 कृष्ण-कर- राणाम् मागृ २, १४,
 २१.
 कृष्ण-कर्मन्- माणि कौगृ ३,
 १३, १, शगृ ४, १३, १
 कृष्ण-गो-पाल- > ० पाल-क्षे-
 त्रिक-परिवारक-नापित-निवेदि-
 तात्मन्- स्मानः सुधप ८४ ३
 कृष्ण-गोरक्ष-वाणिज्य-कुसीद-यो-
 निपोषण- णानि विध २, १३
 कृष्ण-गोरक्ष-वाणिज्या(ज्या-अ)
 धिक- -कम् आपध २, १०,
 ७, हिध २, ४, ७
 कृष्ण-गोरक्ष-वाणिज्यो (ज्य-उ)
 षजीविन्- वी वैध १, ५, २
 कृष्ण-जीव^d- वान् वृदे ५, ९
 कृष्ण-पशुपाल्य-रत- -ता. अप
 ५१, ४, ५
 कृष्ण-प्रशंसा- -सा या ७, ३
 कृष्ण वणिक-पाशुपाल्य-कुसीद-
 -न्म् गौध १०, ४८
 कृष्ण-वन् मीस् ११, १, २०

कृष्ण-वाणिज्य- -उरे गौध १०,
 ५
 कृष्ण-विनाश- शाय बौध १,
 ५, ८५
 कृष्ण-सक्त- -क्तान् कप्र १, ६, ५
 कृष्ण(वि>)षी-वन्^a- > कार्षी-
 वण- -णा अप्रा ३, ४, १†
 कृष्ण(वि>)षी-वल्^a- पा ५, २,
 ११२, -ल, -लम् अप ६९,
 ५, ३
 कृष्ण(वि-आ)रम्भ- -म्भे कप्र
 ३, ७ २
 कृष्ण- (कार्षिक्य- पा) पाठ
 २, ४०, पाग ५, १, १२८
 कृष्ण, घा- पाग ५, १, १२३^०, -ष्ट
 लाश्रौ ७, ८, ५, -ष्टस्य हिपि
 १५. ८, -ष्टाम् वाश्रौ २, १, ५,
 १६, वैध ३, ५, ३, -ष्टे आपश्रौ
 १६, १९, १०, १४, वाश्रौ,
 आमिगृ २, ६, ८ : ६^६
 कार्ष्य- पा ५, १, १२३
 कृष्ण(ज>)जा- जानाम् विध
 ५०, ५०
 कृष्ण-पच्य^a- च्यस्य पा, पावा
 ३, १, ११४
 कृष्ण-मात्र- -त्रे काश्रौ १७, ३, ५
 कृष्ण-राधिक^a- -कम् भागृ १,
 ११ १२
 कृष्ण-शब्द- -ब्दं भाशि ३४
 कृष्ण(ष्ट-अ)कृष्ण- -ष्टयो काश्रौ
 १७, ३, ४
 कृष्णमन्- पा ५, १, १२३.
 कृष्ण- पाठभो २, १, १८९, -ऋष्य
 आश्रौ ९, ११, २१, अप ४८,

७८, निध २, ३, या १०, २२०^०,
 -ष्टि बौश्रौ १८, ४७ २२,
 -ऋषी आश्रौ २, १२, ५,
 ६, १४, १६, आपश्रौ ९, २, ६,
 भाश्रौ ९, ३, ८, माश्रौ ३, २, ८,
 हिश्रौ १५, १, ४५, अप्राय ४,
 ३, कृष्या १०, २२, २९, ३१,
 -ऋषीनाम्^h आपम २, २, ७,
 पागृ १, ४, १२^h, आमिगृ १,
 १, २ : ३१, ५, १ २३, बौगृ
 २, ५, १२, भागृ १, ५, १७^h
 १३ : ७, हिगृ १, ४, २, -ष्टे-
 बौश्रौ १८, ४७ २२
 कृष्णवा वाश्रौ ४, १९ ४४, ४५
 कृष्णमाण- -णाः विध ४३, ३३;
 ४३, -णे आपश्रौ १४, ८, ५,
 हिश्रौ १०, ८, १
 शुक्ल, षणा^a- पाठ ३, ४, पाग ४,
 २, ७७^h, ५, २, ९७, पागवा ५,
 ४, ३, फि ११, -ष्णः आपश्रौ
 ९, २०, १०, १४, ३४, २, १६,
 ३४, ५, १९, २५, २०, २७, १२,
 २०, २, ९, बौश्रौ १५, १ :
 १५×४, या १२, १३, -ष्णम्
 ऋष्याश्रौ २, १३, ७^k, ८, ८, ९,
 शाश्रौ, आपश्रौ १०, ९, ६^h,
 माश्रौ ५, २, ६, २०^h,
 वैताश्रौ ९, ५^h, अत्र ६,
 २२^h, १३, ३^h, अत्र
 ३. ६८^h, या २, २०^h,
 २१^h, ७, २४^h, -ष्णया
 बौश्रौ २५, ८. १५, गोगृ ४,
 ७, २५, -ष्णस्य बौश्रौ २२, ८ :
 ३६, कौगृ १, १६, १६, शाय

a) वैप १ द्र. । b) पृ ७७९ j द्र । c) तु पागम. । d) उस उप कर्तरि अच् प्र । e) आकृष्ट-
 टि. द्र. । f) ष्णे इति पाठ ? यनि शोध । g) पाभे वैप १, १२४५ ० द्र । h) आकृष्टीनाम् इति
 ऋष्याश्रौ १०, ११६६ h द्र । i) ष्ठीणाम् इति पाठ ? यनि शोधः । j) तु पाका । कृष्णकर्ण- इति भारुडा ।
 ऋष्ये .वैप १, ११६६ h द्र । l) कृष्णानाम् इति ० शोधः (तु भाश्रौ १०, ६, ७) ।

१, २४, ६, अप ६८, २, ५४,
 -ष्णा शाश्रौ ३, ५, १०^१,
 काश्रौ, या २, २०^१,
 -ष्णा काश्रौ १७, १, २३,
 आपश्रौ, -ष्णान् आपश्रौ १९,
 २०, ८, बौश्रौ १३, २१ १०,
 हिश्रौ २२, ३, २६, वाध २८,
 १८, -ष्णानाम् आपश्रौ १९,
 २०, १९, २६, १३, बौश्रौ,
 भाश्रौ १०, ६, ७, -ष्णानि
 वाधश्रौ ३, १०१ ३, अप
 ६४, ८, ३, -ष्णाम् आपश्रौ
 १०, २६, १३×५, बौश्रौ,
 -^१ष्णाय आपश्रौ २०, ६, ४,
 ११, १३, बौश्रौ १५, ७ ११,
 हिश्रौ १४, २, ३, गौध २६, १२,
 -ष्णाया काश्रौ १८, ४, २,
 माश्रौ २, १, ४, १४, ४, ६, ३,
 ६, २, ५, ११, शाश्रु ५, ५, ८,
 अप ३८, १, ५, ४६, ६, ५^१,
 -ष्णाये आपश्रौ १७, १५, २×५,
 बौश्रौ, -ष्णास ऋषा ४, ९८^१,
 -ष्णे काश्रौ १२, ६, १×५,
 बौश्रौ, ×२२, ९ ५^१, जैश्रु,
 -ष्णेन आपश्रौ १९, २६, १,
 बौश्रौ १३, ३७ ५, वाश्रौ ३,
 २, ७, २, हिश्रौ २२, ६, ६, विध
 ५८, ५, शुश्रु ३, २०२^१, -ष्णेषु
 आपश्रौ १७, ५, ३, वैश्रौ १९, ५,
 १२, हिश्रौ १२, २, १७, -ष्णौ
 बौध २, १, ५७
 कृष्णी^b -ष्णी वाश्रौ २, १, ५,
 २२
 कृष्ण-क^c - पा ५, ४, ३
 कृष्णक-तण्डुल- -लानाम् कौसू
 ८०, २६.

कृष्ण-कर्ण- (> कार्णकर्ण- पा)
 १ कृष्ण- टि द्र
 कृष्ण-केश^d -श. बौध १, २, ६
 कृष्ण-खर- -रम् वाध २१, १
 कृष्ण-खु(र>)रा- -राम् हिपि
 ४.५
 कृष्ण-गव^d -वम् हिपि २ : १०
 कृष्ण-ग्रीव,वा^d -व वाश्रौ ३, ४,
 ३, १३, हिश्रौ १४, ३, १४, शुश्रु
 ३, १३१, -वम् आपश्रौ १४,
 ६, १३, २०, १३, १२, बौश्रौ १०,
 ५७ ८, अप ६१, १, १४,
 -वा ^१आपश्रौ २०, १४, ७,
 ८, ११, १५, २, माश्रौ ५, २,
 १०, ४६, हिश्रौ १४, ३, १६
 -वौ आपश्रौ २०, १३, १०,
 बौश्रौ १५, २३. ६, २६ ७
 कृष्ण-चतुर्दशी- -शी आज्यो ४, ७
 कृष्ण-चतुष्पद- -दौ. अप ६८, २,
 ४३
 कृष्ण-चैल-परिहित- -त कौसू
 १८, १
 कृष्ण जन्मन्^d - -न्मभि, -न्मानम्
 जैश्रौ १ १४
 कृष्ण-जाति->^eती(य>)या-
 -या या १२, १३
 १ कृष्ण-तिल- -ला अशा १२, ५,
 -लैः गौपि १, ३, १०
 २ कृष्ण-ति(ल>)ला^d -लाम् अप
 १, ५०, ८.
 कृष्ण-तूष^d -षम् आपश्रौ १८, ८,
 १८, १९, २५, १७, बौश्रौ १२,
 १ १२, १८, १३, ३७ २, ५,
 १०, १८, २४. ५. २६, १ : ५,
 हिश्रौ २२, ६, २, आमिगृ २, ५,
 १०. २, ७

कृष्ण-त्रयोदशी- -शी विध ७६, १
 कृष्ण-सरु^d -रु. वाधश्रौ ३, ७६ :
 ३१, -रुम् बौश्रौ १५, १५ २
 कृष्ण-दन्त^d -न्ताः काध २७९ :
 ३, -न्ताय पागृ १, १२, ४
 कृष्ण-इ(शा>)श^d -शम् काश्रौ
 २२, ४, १५, बौश्रौ २६, १ : ६,
 हिश्रौ १३, ३, २१, लाश्रौ ८,
 ६, १३
 कृष्ण-द्वादशी- -श्याम् विध ९०,
 २०
 कृष्ण-धान्य- -न्यम् शध २७७,
 आपध २, १८, २, हिध २, ५,
 ५४
 कृष्ण-नीहार-तिमिर- -रे अप ६३,
 २, १
 कृष्ण-पक्ष- -क्षस्य आगृ ४, ५, १,
 अप ३१, ८, ६, विध ७३, २;
 हिध २, ५, ७^०, -क्षान् काश्रौ
 १५, १, १६, -क्षे वैगृ ६७ : १;
 कागृउ ४२ २२, अप ४३, ६,
 १, आज्यो ७, २०
 कृष्णपक्ष-द्वादशी- -श्याम् विध
 ९०, १९.
 कृष्णपक्ष(क्ष-आ)दि- -दौ वाध
 २३, ४५.
 कृष्ण-पञ्चदशी- -शी आज्यो ४, ९;
 ११
 कृष्ण-प(द>)दी- पाग ५, ४,
 १३९^f
 कृष्ण-पर्यन्त^d -न्ता अप ५२,
 ३, ४
 कृष्ण पासु^d -सु गोश्रु ४, ७, ७.
 कृष्ण पिङ्ग-दोष- -षे अप ७०,
 १०, २
 १ कृष्ण-पिङ्गल- -लन् आमिगृ २,

a) प्रकरणतः कृष्णाजिन-> -ने इति प्रतिभाति । b) = इष्टका-^१ । c) = तिल- । a) विप. ।
 दस. । e) पामे पृ २५३ k द्र. । f) तु. पाका. । कृष्णाप^० इति भाषा ।

६,८ ३६, अप ७०,१०,१
 २कृष्ण-विद्वल^०- पाग २,४,६९
 कृष्ण-पिपीलिका- -कानाम् कौसू
 ११६,३
 कृष्ण-पिशङ्ग- इम वाश्रौ ३,४,१,
 १४.
 कृष्ण-पुष्प- -ष्यै अशा १५,३
 कृष्ण-पृष्ठ-शिरस^०- -र अप २३,
 ४,३
 कृष्ण-ब्र[व]लक्ष- -क्षे काश्रौ २२,
 ४, १९, आपश्रौ २२, ५, ५,
 हिश्रौ १७, २,३३, लाश्रौ ८,६,
 १५.
 कृष्णबलक्षी- -क्ष्यौ बौश्रौ ६,
 १० २, १४ १, १८,
 २४ ५
 कृष्ण-मक्ष^०- -क्षः निसू ४,३ २,
 गोय ३,२,१०, द्राय २, ५,२४,
 कौसू ३१,२८
 कृष्ण-भूम- पावा ५,४,७५
 कृष्ण-भौम^०- -मम् शव ११६:४
 कृष्ण-मण्डल^०- -लम् लाश्रौ ९,
 ९, ४
 कृष्ण-मधु- -धु बौश्रौ १३, ३७ :
 २, ६, २६, ६ १७; आमिगृ
 २,५,१०-११ २
 कृष्ण-मधुस- -धुषा आपश्रौ १९,
 २६,१, हिश्रौ २२,६,६, आमिगृ
 २,५,१० १८
 कृष्ण-ल^०- पा ५, २,९७, -लम्
 आपश्रौ १९, २१, १०, बौश्रौ
 ११, ९ : ११, १३, २४ ५,
 ६, माश्रौ ५, १, ९, ३, हिश्रौ
 २२, ४,३, अप ४, २, ५, विध

४, ६, काशु ७, २८, लम्-
 लम् आपश्रौ १८, ५, ४, वैश्रौ
 १७, १४ : ४, हिश्रौ १३, १,
 ६२, -लान् विध ५, ८५,
 -लानाम् बौश्रौ १३, २३ : ५,
 -लानि बौश्रौ ११, १ ३, ९ :
 २×४, माश्रौ ५,१,९, ६, वाश्रौ
 ३,१,२,९, -ले विध ४, ११,
 -लेन काशु ७,२७, -लेषु हिश्रौ
 ३,८,४२, मीसू १०,२,१
 †कृष्णली- -लीम् अशा
 २१,१
 कृष्णलो(ल-ऊ)न- -ने विध
 ९,४५
 कृष्ण-ललाम^०- -मम् बौश्रौ १५,
 २३ ५, २६ ६
 कृष्ण-लोहित-रश्मि- -श्मय अप
 ५२,५,५
 कृष्ण-वर्ण, णी^०- -र्ण. अप २१,
 ७,५, २४,३,३, चव्यू ४ १५,
 -र्णम् आमिगृ २, ५, ६ ४,
 हिव १,७,३६, -र्णा वाध १८,
 १८, या २,२०
 †कृष्ण-वर्तनि^०- -ने आपश्रौ १६,
 ११, ११, वैश्रौ १८, ८ १३,
 हिश्रौ ११, ४,११^१
 †कृष्ण-वर्मन्^०- -र्मने आपम
 २, १४, २, आमिगृ २,१,३ :
 २५, भागृ १, २३ : १८; हिगृ
 २,३,७, -र्त्मा अप १,३७ १†,
 ७०^३,५,१, अशा ७,१†
 कृष्ण-वसन,ना^०- -न कौसू ३१,
 २८, -नम् कौसू ४७,४०, -नाः
 आपश्रौ १९ २६, १५, -नायै

कौसू ३४, ३
 कृष्ण-वस्त्र,स्त्रा^०- -स्त्र निसू ४,
 ३ : २, गोय ३, २, १०, द्राय
 २,५,२३, -स्त्राम् अशा १५,२
 कृष्ण-वा(ल>)ला^०- -लाम् हिपि
 ४ ५
 कृष्ण-वासस^०- -सा अप ३३, ४,
 ४, अशा १५,१
 कृष्ण-वासस^०- -सै अप ७०^३, ७,
 १७,७१,११,४
 कृष्ण-वीहि- -हय आमिगृ २, ५,
 १ २, -हीणाम् काश्रौ १५,
 ३, १४, आमिगृ २, ५, १० ०
 ३९, ११ १३
 कृष्ण-श^०- -शम् काश्रौ २२, ४,
 १४, आपश्रौ २२,५,५, लाश्रौ
 ८,६,१२
 कृष्ण-शकुन^०- -न बौश्रौ १४,
 ९ : २
 कृष्ण-शकुनि^०- -नि आपश्रौ ९,
 ११, २४, १४, ३१, १, वैश्रौ^१
 २०, १९ ३, हिश्रौ १५, ३,
 २५, ८,३१, अप १९, १, १०,
 काव २७६ : ५, -निना कौसू
 ४६, ४७, -ने. कौसू १८, १६,
 -नौ बौश्रौ २,५ ७†
 कृष्णशकुनि-मुखा(ख-अ)वसृष्ट-
 -ष्टम् शध १८०
 कृष्णशकुन्य (नि-अ) वसृष्ट-
 -ष्टम् आपश्रौ.९,१७,४
 कृष्ण-शब(ल>)ली^०- -ल्या
 माश्रौ ५,२,१, ३४
 कृष्ण-शिरस^०- -रसम् माश्रौ ५,
 २,१२,१७.

a) व्यय । व्यु. १ । b) विप । बस । c) °व इति काश्रौ हिश्रौ. लाश्रौ. । d) =पाताल
 विशेष- । e) वैप १ द्र । f) °वर्त्मन इति पाठ १ यनि. शोध (तु शौ १,२८,२ आपश्रौ. वैश्रौ.) । g) पाठ ३.
 °वर्त्मने (सं१) इति शोध (तु संस्कृता [भू. XXV]), यद्वा °वर्त्मन् (सं१) इति स्यात् । h) कस. समासान्तष् टच् ५.
 (पा ५,४,१०३) । i) स्वार्थे श प्र ङसं [पा ५,२, १०० (तु. आग्निस्वामी [लाश्रौ ८,६,१४])] ।

कृष्ण-शीर्ष^a - -र्षम् वाश्रौ ३, २, ६,
३२
कृष्ण-शीर्षन्^a - -र्षा वाश्रौ ३, २,
२, ४४
कृष्ण-शुक्ल, क्लृ - -कृयो माश्रौ २,
१, ४, १३, -क्लानाम् माश्रौ ५, १,
६, १५, -क्ले माश्रौ २, १ २, ४
कृष्णशुक्ल-सहत - -ते वाश्रौ ३,
२, ५, ३८^b
कृष्ण-श्वेत - -त हिश्रौ ७, ३, २१
कृष्ण-सारङ्ग - -ङ्ग आपश्रौ १०,
२९, ५, वैश्रौ १०, २० . १४,
-ङ्गम् काश्रौ ७, ९, १८, २०, १,
३४
कृष्ण-सीर - -रेण कौसू ३९, २९
कृष्ण-सुन्दर^c - (< > काष्णी-
सुन्दरि- पा,) पाग २, ४, ६९
कृष्ण-सूत्र - -त्रम् हिपि १७ . २०,
-त्रेण कौसू ३६, १७
कृष्ण-स्थाना(न-अ)सन-पन्थ-भक्ष-
-क्षेषु गोग् ३, २, २५
कृष्णा(ष्ण-अक्ष >)क्षी^a -
-क्षीम् हिपि ४ ५
कृष्णा-गोमय - -यम् आमिष्ट २,
७, ७ ६
कृष्णा(ष्ण-अ)क्षना(न-अ)भ्र^d -
-भ्रम् अप ६४, ८, ९
कृष्णा(ष्ण-अ)न्त^a - -न्तानि काश्रौ
२२, ४, २२
कृष्णा-प(द् >)दी - कृष्णपदी-
टि द्र
कृष्णा(ष्ण-आभा >)भ - -भा
अप ५२, ३, ४
कृष्णा(ष्ण-अ)भाव - -वे द्राश्रौ ७,
१, ६, लाश्रौ ३, १, ६

कृष्णा(ष्ण-अ)म्बर-धर - -र अप
३१, ९, ३
१कृष्णा(ष्ण-अ)यस^e - -सम् जैष्ट २,
९ ३४, शव २७७, आपध
२, १६, १८, हिध २, ५, १८.
काष्णायस^f - -सम् वाध
१७, ४५, -सेन बौष्ट १, ३, १८
काष्णायसी - -सीम् विध
५०, ३४
कृष्णायस-स्सर^h - -रव वाधूश्रौ
३, ७६ २९
२कृष्णा(ष्ण-अ)यस^a - -सा. वाधूश्रौ
३, ७६ . ३०
कृष्णा(ष्ण-अ)श्व - -श्व आमिष्ट २,
५, १० १
कृष्णा(ष्ण-अ)ष्ट(क >)का - -कासु
विध ७३, ८.
कृष्णा(ष्ण-अ)ष्टमी - -न्याम्
आमिष्ट २, ५, ४ : २, अप ३६,
२१, १
कृष्णो(ष्ण-उ)रभ्र - -अः आमिष्ट
२, ५, १० . २
कृष्णोरभी - -भी आमिष्ट २,
५, १० : ३१
कृष्णो(ष्ण-ऊ)र्णा - -र्णया कौसू
७१, १७, ८६, २०, -र्णाभिः
कौसू ३५, १०
कृष्णोर्णा-ज्य^g - -ज्येन कौसू
३२, ८
कृष्णो(ष्ण-उ)ष्णीष^a - -षाः आपश्रौ
१९, २६, १५
२कृष्ण^b - पागवा ५, ४, ३८, -फंष्ण
काश्रौ १, ७, १६, आपश्रौ १, ६,
१, २, २, ८, १, बौश्रौ १, २ २६,
१३ . ५, भाश्रौ १, ५, १३, १४,

२, ७, १३, माश्रौ १, २, ५, २२,
वाश्रौ १, २, १, ३२, ३३, ३, ३, ३६
वैश्रौ ३, ५ १, २, ५, ५ ३,
जैश्रौ १३ ९, हिश्रौ १, २, ६६,
६७, ७, ५३, वैष्ट १, १० ३,
वाध १, १५, ऋअ २, ८, ८५,
श्रुअ १, ९५, शुप्रा २, २५, बौध
१, १, २८
काष्ण - पा ५, ४, ३८
का(ष्ण >)ष्णीⁱ - -ष्णी आपश्रौ
१७, १३, २, वैश्रौ १९, २, ३,
१, ६ : ६६, तैप्रा ४, १२,
-ष्णीभ्याम् लाश्रौ ९, १, २४
कृष्ण-मार्ग^k - -जम् वाध २८,
२०
कृष्ण-मृग - -गः बौश्रौ २४, २३
२, कप्र ३, ८, ११, वाध १, १३,
शंघ ७, ८, -गस्य वैष्ट २, ४ २
कृष्णमृगा(ग-अ)जिन - -नम्
विध ८७, १
कृष्ण-रुह-बस्त - -रतानि शध ३५
कृष्णरुहवस्ता(स्त-अ)जिन -
-नानि बौध १, २, १५, गौध
१, १८
कृष्ण-विषाण, गा - -गम् भाश्रौ १०,
८, २, लाश्रौ ९, १, २३, -णया
काश्रौ ७, ४, ३१, आपश्रौ १०,
२३, ३, १८, १६, ९, बौश्रौ,
-गा बौश्रौ ६, ५ १५,
२१, ११ २४, शुअ १, २५२;
-गा आपश्रौ २१, ५ १३,
हिश्रौ १६, २, २१, -णाम् काश्रौ
७, ३, २५, आपश्रौ १०, ९,
१७, १३, ३, १३, ७, १६×५,
बौश्रौ, -णायः आपश्रौ १३,

a) विप । बस । b) सप्र आपश्रौ २१, १९, ९ विशिष्ट पाभे । c) व्यप । ल्यु १ । d) विप ।
कस > बस । e) कस समासान्तष् टच् प्र (पा ५, ४, ९४) । f) स्वार्थे तद्धित. प्र । g) विप. । बस उप
= ज्या- । h) वैप १, ११६८ ङ द्र. । i) विप (उपानह-) । j) विकारे ङञ् प्र । k) कस उप = मृग- ४

१८,७, बौश्रौ २१,७ २०,९ :
 १४,२१ : २२, २४ : १६
 कृष्णविषाणा-ग्रन्थि- -न्थिम्
 वैश्रौ १६,८ ८
 कृष्णविषाणा-मेखला- -ले काश्रौ
 १०,८,१५
 १कृष्णा(ष्ण-अ)जिन- -नम् शाश्रौ
 ३,११,१४,४,१४,३०, काश्रौ,
 -नयो बौश्रौ १८, २४ ६,
 २२, ९ १, -नस्य शाश्रौ
 १५, १३, १५, आपश्रौ, -नात्
 आपश्रौ १०, १५, ११, बौश्रौ,
 -नानाम् बौश्रौ २१, ७
 १८, बौध १, ५, ३२, ६, १३,
 -नानि आश्रौ ५, १३, १२,
 शाश्रौ, -ने आश्रौ २, ६, ७,
 काश्रौ, -नेन आपश्रौ १०, ८,
 ११×४, बौश्रौ
 कार्णाजिन^a- -नानि
 आपश्रौ १५, ५, १२, बौश्रौ ९,
 ५४, वैश्रौ १३,७ १८, हिश्रौ
 २४,२,६
 कार्णाजिनी- -नी बौश्रौ
 १०,३७ : २, वैश्रौ १९,४^c : १,
 ८,६ ५८^d, -नी बौश्रौ १०,
 २३ १४,३७ ९,३९ : ३,८१
 ३,४४ : ३,४९ : २, वैश्रौ १८,
 १४ ३१, -नीनाम् बौश्रौ २२,
 ५.६
 कार्णाजिनी-प्रभृति-
 -तीन् बौश्रौ २६,२८ ७
 कृष्णाजिन-कल्प- -ल्प वैश्रौ
 ४,८ २, हिश्रौ १,५,७७
 कृष्णाजिन-कण्ठ- -ण्ठाः निस्

५,१३.६
 कृष्णाजिन-दीक्षा- -क्षा काश्रौ
 २०,४,३
 कृष्णाजिन-दति- -नौ बौपि २,
 ७, ७.
 कृष्णाजिन-निष्यूत- -तम् काश्रौ
 १६,५,१
 कृष्णाजिन-पाद- -दम् माश्रौ
 २,१,२,३, लाश्रौ ९,१,२३
 कृष्णाजिन-पुट- -टानि माश्रौ
 ४,२,२, -टेन आपश्रौ १७,२०,
 १३[†] बौश्रौ २२, १० २१,
 २४,८ १२, माश्रौ ६, २,५,
 ३४, हिश्रौ १२,६,२१
 कृष्णाजिन-पुष्करपर्ण- -र्णे वैश्रौ
 १८,१ ३७, शुअ २,३३
 कृष्णाजिन-प्रभृति- -ति बौश्रौ
 २५,२९ १२
 कृष्णाजिन-प्रासन- -नात् बौश्रौ
 २१,१०.१
 कुःगाजिन-मात्र- -त्रम् बौश्रौ
 १८,७ ४
 कृष्णाजिन-लोम- -मै^b बौश्रौ
 ९,३ ८, १०,५ ४
 कृष्णाजिन-लोमन्- -मभि^b
 आपश्रौ १६,४, १, वाश्रौ २,१,
 १, ३४, हिश्रौ ११, ४४,
 -मानि आपश्रौ १५,२,१, बौश्रौ
 ९,१ ५,१७, १०,१ ५, १६,
 भाश्रौ ११,२, ७, वैश्रौ १३,२.
 ३, हिश्रौ २४,१,१०.
 कृष्णाजिन-वाचन- -नात् बौश्रौ
 २९,६ १०, वैश्रौ २१, १७ ६
 कृष्णाजिन-शेष- -षेण आम्रिगृ

३,४,२ १४
 कृष्णाजिना(न-आ)दान- -नम्
 काश्रौ २,४,१
 कृष्णाजिना(न-आ)दि- -दि
 काश्रौ ७, ४, १०, २०,४, ११,
 -दीनाम् बौध ३,१,१४, -दीनि
 काश्रौ २४,७,३
 कृष्णाजिनादि-र- -रः कप्र
 ३,४,१
 १कृष्णाजिना(न-अ)न्त- -न्तम्
 काश्रौ १०, ९, ४, -न्ते माश्रौ
 ४,१, १०, -न्तै बौश्रौ २३,
 ११ ६
 २कृष्णाजिना(न-अ)न्त- -न्तम्
 काश्रौ २०,४,५
 कृष्णाजिना(न-अ)वकृत्- -त्तैः
 काश्रौ २६,४,२
 कृष्णाजिना(न-अ)वधवन- -नम्
 बौश्रौ २५, ३१ ५, -नात्
 बौश्रौ २०,६ २६, -नेन बौश्रौ
 २५,९.१४
 कृष्णाजिना(न-आ)स्तरण- -णम्
 आपश्रौ १०, ३१, ३, ११,१७,
 १०, भाश्रौ ६, १६, २०, वैश्रौ
 १४, १६ : ५
 कृष्णाजिनो(न-उ)त्तरीय- -यः
 आम्रिगृ २, ७, १० ४, शंघ
 ३६२
 १कृष्णोस्या[†]- (> ष्यक- पा),
 कृष्णोस्याखरेष्ट[†]- (> ष्टक-
 पा.) पाग ५, २,६२
 ३कृष्ण[†]- पाग ४, १, ९६, १०५;
 पागवा ४, १, ९९, -०ष्ण विघ
 ९८, ९६, -ष्ण ऋअ २ १०,

- a) विप (धवित्- [व्यजन-]) । b) विकारे अञ् प्र । c) कृष्णा^० इति पाठः यनि शोष ।
 d) उत्तरेण संधिरार्षे । e) विप । बस. । f) तु. मैसू [१९२०] । ऽद्रुतौ इति मैसू [१९०४]! । ऽजिने घटे इति
 B. । g) षस. समासान्तष् टञ् प्र (पा ५, ४, १०३) । h) परस्परं पाप्मे. । i) तु पागम । j) <कृष्णः,
 अस्ति, भाखरेष्ट (सा २,१) । k) = ऋषि-विशेष- । वैप १ द्र. ।

४२, साअ १, ३७८, अअ २०,
९७, ८९, ९४, -ष्णा^a बौश्रौप्र
४८ २, १३
कार्णायन- पा ४, १, ९९
कार्णि- पा ४, १, ९६, -र्णि
ऋअ २, ८, ८६
कार्ण्य- पा ४, १, १०५
कृष्ण-द्वैपायन- नम् शंघ ११६
४१, -फनाय आमिष्ट १, २, २ :
१८, बौष्ट ३, ९, ५, भाष्ट ३, १०
३, हिष्ट २, १९, ६
कृष्णा(ष्ण-आ)त्रेय- या बौश्रौप्र
२७ . ५
कृष्णक- प्रष्ट १कृष्ण- द्र
कृष्णाङ्गहमिश्रम्^b लाश्रौ ८, ६,
१२
कृष्ण-मार्ग-^c, ष्टग- प्रष्ट २कृष्ण-
द्र
कृष्णाल- प्रष्ट १कृष्ण- द्र
कृष्ण-विषाणा- २कृष्ण- द्र
कृष्ण-त्रीहि- प्रष्ट. १कृष्ण- द्र
कृष्णाजिन- २कृष्ण- द्र.
२कृष्णा(ष्ण-अ)जिन^e- पाग २, ४,
६९, -ना.^d बौश्रौप्र ४८ : ९
कार्णाजिनि- नि. काश्रौ १, ६,
२३, मीस् ४, ३, १५, ६, ७,
३६
कृष्णाजनाभ-^f, प्रष्ट १कृष्ण- द्र
कृष्णोरभ्र- प्रष्ट १कृष्ण- द्र
कृष्णोस्या, ष्टरेष्ठ २कृष्ण- द्र
कृष्यमाण- √कृष् द्र
कृष्वा^g- ष्वा कौष्ट ५, ५, ६१
कृसर, रा^h- पाठ ३, ७३^g, -र गोष्ट

२, ७, ९, ९, ५, ७, द्राष्ट २, २,
२६, ३, १८, -रम् आष्ट २,
४, ४, ५, २, अष्ट १, ४८, ३,
अशा १३, १, १५, ४, -राम्
अष्ट ६८, ५, १
कृसर-पायसा(स-अ)पूष- पै शंघ
२१८
कृसरा(र-अ)ञ- ञम् विध ५०,
३१
कृसरा पायस- से अष्ट ७०, ६, २
कृसरा-पायसा(स-अ)पूष- पै अष्ट
४४, ३, १०
√कृ(स्तुतौ) > कीर्ति- पाठ ४,
११९^h, पा ३, ३, ९७, -र्ति
पाष्ट २, ५, ३१, आमिष्ट २, १,
४ १८, बौष्ट, -र्तिम् आश्रौ ८,
७, २३^h, शाश्रौ १०, १०,
६१, द्राश्रौ १०, ३, ४^h,
लाश्रौ ३, ११, ३^h, पाष्ट,
-र्त्या आश्रौ ९, ७, २२, कौष्ट
३, १०, ३५, शाष्ट २, १७, ४,
आमिष्ट, -र्त्यै आश्रौ १, ३, २३^h,
५, १३, १२, शाश्रौ १३, १४, ६,
आपश्रौ २१, ५, १०, वाश्रौ ३,
२, १, ३६^h, हिश्रौ १६, २, १९^h
√कीर्ति, कीर्तयति वैश्रौ १२,
१२ १३, वृदे ४, ३५, कीर्त-
यन्ति वृदे ५, १७१, अकीर्तयत्
वृदे ४, ६८, कीर्तयेत् आपश्रौ
१०, १५, १५, १६, १०, ६, बौश्रौ
कीर्तयिष्यामि अष्ट . १६,
कीर्तयिष्याम अष्ट २१, १, १.
कीर्त्यते अष्ट २२, ४, ४, वृदे,

कीर्त्यन्ते वृदे ५, १७२
कीर्तन, ना- नम् वृदे ४, ३१;
३२, -ना वृदे ५, ११४, -नात् सु
३१, ८, वृदे ४, ११९, ८, १२३
कीर्तयत्- यन् कौस् १९,
३१, वृदे ७, ५८, १०३, -यन्तः
आपश्रौ १४, २२, १, वैश्रौ
कीर्तयाम् √अस् (भुवि),
कीर्तयामास वृदे ६, २४
कीर्तित, ता- त आमिष्ट २,
८, १२ २, अष्ट २२, ७, ४×४,
शंघ ४५७ . १०, वृदे ३, ६१,
-तम् आमिष्ट २, ५, ६ : २१,
अप्राय २, १, अष्ट ६३, ५, २,
वृदे, -ता कप्र ३, ७, ४, अष्ट
२२, ५, ३, शंघ ६५, -ता
अष्ट ६८, ५, १७, शंघ २२४,
बौघ, -तानि अष्ट ४७, २, ४,
-तेन वृदे ४, १२०
कीर्त्यमान- नान् अष्ट ५८,
१, १, ६४, १, ४
कीर्ति-मत्- माश्रु अष्ट १, १८,
१, २, ४, २१, १, शंघ २१, १४
कीर्ति-युक्त- क्त विध ३, ९८.
कीर्ति-राजⁱ- जानाम् चाअ
४० . १६
√कृ^j पाधा तुदा पर विक्षेपे
इकर^k- पाग ५, ४, ३८
४कार- पा ५, ८, ३८
कार-नामन्- श्नि पा ६,
३, १०
करा (र-आ) दान- नम् विध
३, २६.

a) बहु < कार्णायन- वा कार्णि- वा । b) = कृष्णशम् । पाठ. ² । c) = ऋषि-विशेष- । बस ² ।

d) बहु < कार्णाजिनि- । e) पाठ ² । सपा शौ १८, ३, ६० पुष्वा इति, तैआ ६, ४, १ पुष्वा इति च पाभे ।

f) नाप (L तिलोदन-] खिचड़ी [नभा] । व्यु. ² । g) < √कृ इति । h) वैप १ द्र । < √कीर्ति इति &

४) = देव-विशेष- । j) या २, ८; ११, १२ ऋन ४, ६, २ पा ७, २, ७५ पावा ३, १, ८७ परामृष्ट द्र ।

k) = राजप्राह्व-भाग- । अप् प्र (पा ३, ३, ५७) ।

किर- पा ३, १, १३५

कीर्ण- णे अप ६३, २, १

कीर्ण-नामस्ति- -स्तिषु अप
६८, १, ३३

√कृ पाधा क्रया पर उभ हिंसायाम्

√कृत् पाधा तुरा पर संशब्दने

√कल्प् पाधा भ्वा आत्म सामर्थ्ये,

कल्पते शाश्रौ १०, १८, ८,

बौश्रौ, माश्रौ ६, २, ५, २६^३क^०,

वाश्रौ २, २, ४, ५क^०, निघ ३ १४,

कल्पन्ते बौश्रौ १३, १९ १३क^०,

वाश्रौ, कल्पताम् आपश्रौ १,

९, १२, १०, १२, १३, १०, ४,

१०, ९^३, १८, ५, १३^०, बौश्रौ १,

३ २७××, ११, ११ १५^०,

भाश्रौ, वैश्रौ १७, १५. १^०,

हिश्रौ १३, २, ४^०, चाश्र १४

३^०, कल्पेताम् आपश्रौ ४, १०,

९, ५, २०, ४, बौश्रौ, कल्पन्ताम्

शाश्रौ ४, ९, २^३××, आपश्रौ,

आश्र ३, ६, ८^०, हिश्र १, १७, ४,

कल्पस्व आपश्रौ ७, ४, ५, १९,

२, वैश्रौ, कल्पत > ता अप्राय ६,

६, अकल्पन शाश्रौ १०, १८, ८,

कल्पेत माश्रौ ५, १, ७, १६, चव्यू

२ ३४, मीसू १, २, २४,

कल्पेरन् आपश्रौ १२, १४, ४××,

बौश्रौ

कल्पयते विध ७७, ७, कल्पयन्ते

लाश्रौ १०, ९, १०, बृदे ३, ७४

कल्पयते बौश्रौ १, १५ १९, २,

११ : २१क^०, कल्पयति काश्रौ

२, ७, २५, आपश्रौ २, ९,

७××, ९, २, ६क^०, बौश्रौ,

हिश्रौ १५, १, ४५क^०, कल्पयत

आपश्रौ १४, ३३, ५, कल्पयन्ते

निसू ४, १३ : ७, आश्र १, २३,

६क^०, भाश्र ३, ९ : ६, कल्पयन्ति

काश्रौ २०, ७, १, आपश्रौ,

कल्पयामि आपश्रौ २, १०, ६क^०,

क^०बौश्रौ, कल्पयाम द्राश्रौ ८, १,

५, लाश्रौ ४, ५, ६, निसू ४,

१२ : १०, कल्पयति कौसू

५, १२, १०१, २, कल्पयताम्

कौसू २०, ५, १२४, २, ३,

कल्पयतु आपम १, १२, १,

कौश्र १, १४, १०, शाश्र १, २०,

१३, आमिश्र, कल्पयन्ताम् माश्र

१, ३, १, कल्पयस्व वाश्रौ १, ६,

१, २७क^०, कल्पय आपश्रौ ३,

१२, १^{२०}××, भाश्रौ ३, ११,

१^{२०}××, वाश्रौ, हिश्रौ २, ६,

४^०, १६^०, कल्पयतम् आपश्रौ

१२, २३, १^२, बौश्रौ ७, १४ १^२,

हिश्रौ ८, ७, १९^२, कल्पयध्वम्

आपश्रौ ६, २०, २क^०, कल्पयत

बौश्रौ ६, २३ : ६, १०, २३ १३,

आपम, कल्पयावहै या १२,

०८क^०, अकल्पयत् सु १, ४, शाश्र

१, १९, ९क^०, भाश्र ३, ९. ५क^०,

कल्पयन्त आपश्रौ २१, ११,

७, ८, हिश्रौ १६, ४, ३१^२,

कल्पयन् शाश्रौ ४, १०, १,

१२, २०, २; आपश्रौ, कल्पयेत

निसू २, ८ २५, ५, २:५; कल्प-

येत् आपश्रौ ६, ३०, २, बौश्रौ,

कल्पयेतु क्षुसू २, १४ २३,

आमिश्र ३, ५, १ २, बौपि १, १:२

चिकल्पयिषेत् बौश्रौ २४, १. ७.

कल्प- पाग ६, १, १९९, -ल्प:

आश्रौ १२, ६, १३, आपश्रौ ३,

१४, ७, १६, १६, ५, २६,

२, ६, १७, ११××, बौश्रौ, या

१३, ९, -ल्पम् आपश्रौ १५,

१६, ६, बौश्रौ २४, १ : १, १८

१७, २९ ११××, वाश्रौ, शध

११६. ३९, बौध ३, ५, १, विध

४३, २३, -ल्पस्य क्षुसू ३, ३ :

३, -ल्पा आपश्रौ १२, २१, १७,

बौश्रौ २३, ११ १५, २६, हिश्रौ

७, १, ०८, निसू २, १ ३४,

५, ५ ९, ६, १३ : २५, १०,

९ ३, -ल्पान् हिश्रौ २, ६, ४६;

आश्र ३, ३, १-३, आमिश्र २,

६, ४ ९, १२, -ल्पानाम् वौश्र

३, ९, १५, अप ४६, १, ३, ८, ३,

हिध १, ३, ८९, -ल्पानि चव्यू

४ : ६, -ल्पे आपश्रौ ६, ४, ३,

७, ९, जैश्रौका १२१, द्राश्रौ १२,

१, ३७, लाश्रौ ४, ९, २३, ६, १,

१०, निसू ८, २ ५७, १०, १२ -

११, १२, कौश्र ३, ९, ४८, शाश्र

४, ७, ५३, आमिश्र ३, ६, २. ३,

अप २२, १, २, विध २०, २४^२,

बृदे १, ४१, पावा ४, २, ६६, ३,

६६, -ल्पे-ल्पे चव्यू ४. ७,

-ल्पेन आपश्रौ ५९, ५××, बौश्रौ,

-ल्पेषु शाश्रौ १२, २१, २^६, ऋप्रा

७, ५०क^०, -ल्पै आपश्रौ १८,

५, १३, बौश्रौ ११, ११. १४,

२२, १५ ५, वैश्रौ १७, १५ :

१, हिश्रौ १३, २, ४, -ल्पौ

a) ऋप्रा १३, ३५ या ६, ८ पा १, ३, ९३, ७, २, ६० परामृष्ट द्र । b) पाभे वैप १, ११६९ h द्र. ।

c) एताम् इति पाठः ? यनि शोध (स. सप्र. हिश्र १, १७, ४) । d) पाभे वैप १ यातयति ऋ ३, ५९, १ टि द्र. ।

e) पाभे वैप २, ३ ख कल्पय तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि द्र । f) पाभे वैप १, ११७० ० द्र । g) भाप, नाप.

(वेदाङ्ग- पक्ष- कालमान- प्रश्न) । वैप १ द्र ।

भाश्रौ १, ६, ६, क्षुस् ३, १६ :
 १५, वैताश्रौ ४३, ४६
 काल्प्य^३- -ल्प्य. कौस् १४१,
 ३४
 कल्प-कारो (र-उ) क्त- -क्त
 शुश्र १, १७
 कल्प-दृष्ट- -ष्टम् आमिष्ट २, ७,
 ४ ६
 कल्प-प्रदेश- -श लाश्रौ १०,
 १०, ५
 कल्प-प्राय^४- -याणि निसू १०,
 १२ २०
 कल्प ब्राह्मण- -णे मैत्र ९, १४
 कल्प-मात्र- -त्रे पागृ २, ६, ७
 कल्प-विचारित- -वानि निसू
 ९, ११ : २८
 कल्प-विप्रतिषेध- -धे शाश्रौ
 १३, १४, ५
 कल्प-विरोध- -धात् मीसू ६,
 ६, २२
 कल्प-वृत्त^५- -त्तेन लाश्रौ १०,
 २, १३
 कल्प-व्रत- -ते अप ४६, २, ७
 कल्प-स-प्राय^६- -यम् निसू ६,
 २, ३१, -याणि लाश्रौ ६, ९,
 १२, निसू ६, २ २९
 कल्प सूत्र^७- (> काल्पसूत्र^८-
 पा) पाग ४, २, ६०
 कल्प-स्थाधिन्- -यिनः शंव
 ११६ : ६
 कल्पा (ल्प-अ) ख्यात- -ते
 निसू ५, ९ : ३
 कल्पा (ल्प-अ) दि- -दिभ्य
 पावा ३, ३, ५६, -दिषु विध १,
 २

कल्पा (ल्प-अ) ध्याधिन्- -थी
 बौगृ १, ७, ५
 कल्पा (ल्प-अ) तु(ग >) गा-
 -गा. वृदे ८, १०४
 कल्पा (ल्प-अ) न्त- -न्ते अप
 ७०^२, ३, ३
 कल्पा (ल्प-अ) न्तर- -रम् मीसू
 ६, ७, २२
 कल्पै(ल्प-ए) कत्व- -त्वात् शागृ
 १, १, १४
 कल्पत्- -ल्पत्^२ अत्र ११, ५†
 कल्पन- -नम् पाप्रवा २, २
 कल्पना- > नै(ना-ए) कदेशत्व-
 -त्वात् मीसू १, ४, ३०
 कल्पमान, ना- -न अप्राय २, ९†,
 -नम् आमिष्ट १, ५, ३ ४,
 हिष्ट १, १९, ७†, -नाः बौश्रौ
 १४, १७ : २६
 कल्पयत्- -यन् आपश्रौ २, २१,
 १†, ३, ११, २, बौश्रौ, -यन्त
 वैध १, १०, ९, -यन्तम् कौस्
 ९९, २†
 †कल्पयन्ती- -न्ती बौश्रौ ६,
 २५. २, १५, ३० : १४§, भागृ
 २, २ : ११, कौस् १०१, २,
 तैप्रा ४, १५
 कल्पयितव्य- -व्यः आपश्रौ ६,
 २, ३०, ४
 कल्पयितुम् बौश्रौ २४, १ ६
 कल्पयित्वा काश्रौ २१, ४, ८,
 आपश्रौ
 कल्पयिष्यत्- -ष्यन् क्षुस् २,
 ९ ९
 कल्पित- -तम् बौश्रौ २७, ३ : २.
 कल्पिता(त-अ) ङ- -ङम् कागृ

६३, १०
 कल्पुष- पाउभो २, ३, १६४.
 कल्प्य- -ल्प्यः वाध १९, ९, -ल्प्यान्
 तैप्रा १४, २†
 कल्प, सा- -स बौश्रौ १९, ७ : २५;
 क्षुस्, या १४, ५, -सम् शाश्रौ
 १७, ८, १४, १८, २१, १३;
 हिश्रौ १८, २, १, वैताश्रौ,
 -सा. शाश्रौ १०, १८, २, ८;
 जुसू, आमिष्ट ३, ७, १. ११†^३;
 बौपि १, १७ : १०†^३, -सान्
 आपगृ २१, ७, -सासु शाश्रौ
 ४, ९, २†, -से हिश्रौ २१,
 १, २, -सेषु शाश्रौ १०, १८,
 २, ८, लाश्रौ ८, ८, ३५, -सौ
 क्षुस् १, ४ १.
 कल्प-केश-इमश्रु- -श्रु अप
 ११, १, ३
 कल्प-केश-इमश्रु-रोम-नख-
 -खौ अप १३, १, ३
 कल्प-प्रमाण- -णानाम् ऋप्रा
 १७, १
 कल्प-शब्द- -ब्दे भाशि २६.
 कल्पि- -सय शाश्रौ १२, २०, १,
 -सि आश्रौ १०, ९, ७, शाश्रौ
 ४, ९, २, आपश्रौ ४, १०, ९^२;
 भाश्रौ, -†सिम् आपश्रौ १०, १,
 ४, बौश्रौ २, ४. २३, आगृ १,
 २३, १५, -सी. माश्रौ ६, २, २,
 ६, -प्त्या वृदे २, १४, -प्त्याम्
 निसू १०, १० : १२. -प्त्यै
 वाश्रौ १, ३, ७, ७†.
 कल्पि-सामनसी- -सीभ्याम्
 आपश्रौ ५, २०, ४, वाश्रौ १, ४,
 ४, २२, हिश्रौ ३, ५, ९.

a) विप । प्राग्दीव्यतीय ण्यः प्र । b) विप (सर्प-सामन्-) । बस उप = बाहुल्य- वा तुल्य- वा ।
 c) अर्थ. ? । पस वा समाहारे द्वस वेति अग्निस्वामी । d) विप. । बस. । e) तु पागम. । f) अण् प्र-
 (तु पाका प्रष्ट) । g) वैप १, ११७१ f द्र । h) पामे. वैप १ साक्कम् शौ १२, २, २५ टि. द्र. ।

कैकय^a- पाउभो २,३,७, पाग ४, १, १७६
 कैकय^b- अयः अप ५६, १, १०
 कैकय- पा ४, १, १७८, ७, ३, २, पावा १, १, ५७
 कैकर- पाउभो २, ३, ६४^e, पाग ४, १, ९९^d, -रः अप ३, ३, २९
 कैकरायण- पा ४, १, ९९
 कैका^c- (>केकिन्- पा) पाउभो २, २, ६, पाग ५, २, ११६
 ✓केत् पाधा चुरा. आत्म श्रावणे निमन्त्रणे च
 केत्- कित् द्र
 केतक- (>केतकी- पा) पाउभो २, २, ४३, पाग ४, १, ४१^f
 केता-, केतु- प्रसृ ✓कित् द्र
 केदार^g- पाउभो २, ३, ४५, पाग २, ४, ३१, -रे विध ८५, १७
 कैदारक-, कैदार्य- पा ४, २, ४०
 ✓केप् पाधा. भ्वा आत्म. कम्पने गतौ च
 केपि^h- -पयः अप ४८, ११५^f, निघ ४, २^f, या ५, २४^f, २५^f
 केरलⁱ- पाउभो २, ३, ९९, पावा, पावाग ४, १, १७३
 केरा^j- >केरा(रा-अ)र्क- -कौ कौस् ३८, ६
 केरु^k- >केरु-गुल्गुल^l- लु वाश्रौ १, ६, १, ३६
 ✓केल् पाधा. भ्वा पर चलने.
 कैलि- पाउ ४, ११८

केला (>✓केलाय^m- पा) पाग ३, १, २७
 रकेलिⁿ- -लिम् याशि २, ४८
 ऋकेवट^o- -रः अप ४८, ७७, निघ ३, २३
 रकेवल, ला^p- पाउभो २, ३, ९७, -ल बौश्रौ २५, १७ ८, वैताश्रौ, -लम् आश्रौ ६, ३, १६, काश्रौ, -लस्थ पा ७, ३, ५, पावा १, २, ४५, -ला वृदे ३, १०८, -लाः वृदे २, ८१, -लात् अप्रा २, ३, ७, पा ५, ४, १२४, -लान् या ८, २२^f, -लानि शध ४२८, विव ५१, ४२, आज्यो ७, २३, -लाम्याम् पा ७, १, ६८, -लायाः पावा ५, १, ३३^q, -ले या ८, २२^f, मीसू २, ३, २०, -लेन पावा १, २, ४५, -लेषु बौध ४, १, ६, -लै वृदे १, ८६
 केवली- पा ४, १, ३०, -ली ऋश्रौ ८, १५ १२, १३
 केवल-ग्रहण- -णम् पावा ७, १, ६८, -णात् पावा ७, ३, १.
 केवल-दृष्टत्व- -त्वात् पावा ३, १, २
 केवल-यु- पाउना १, ३७
 केवल-वेदि^r- -दि काश्रौसं २९:९
 केवला(ल-अ)शेय^s- -य कप्र ३, १, १५, -यम् वाधुश्रौ ४, ५ ११, १४, १६
 ऋकेवला(ल-अ)घ^t- -घः कौगृ ३,

१०, ३०, बौध २, ७, १६, या ७, ३
 ऋकेवला(ल-अ)दिन्^u- -दी कौगृ ३, १०, ३०, बौध २, ७, १६, या ७, ३
 केवला(ल-अ)घान- -ने जैश्रौका १६
 केवला(ल-अ)शन- -नम् मीसू ९, ४, ३६
 रकेवल^v- > कैवल्य- ल्या बौश्रौप्र १९ ५
 केवाल^w- (>केवाली- पा) पाग ४, १, ४१
 केवाली, ंसी (> ंली, ंसी ✓कृ पा) पाग १, ४, ६०
 रके(क-ई)श- रक- द्र
 रकेश^x- पाउ ५, ३३, पाग ५, २, २४; -श. आपध १, १६, २३, हिध १, ५, २२, -शा आपश्रौ ६, २०, २^f, बौश्रौ, या १२, २५^f, -शान् आश्रौ २, १६, २३, आपश्रौ, ऋआपमं २, १, १^f, ७^u, ऋआश्र १, १७, ७^t, १६^u, ऋआश्र २, १, ६^t, १९^u, कागृ ४०, १२^f, बौगृ २, ४, ८^f, ऋआश्र १, २१, ३^t, ६^v, ७^u, ऋआश्र ४, ८^f, १७^u, जैगृ १, ११. ९^f, -शानाम् शाश्रौ १८, २४, २३, शध ३९१, आपध १, १६, १४, हिध १, ५, १३, -शेन कौस् ५१, १९, -शेषु वैश्रौ १२, ६ ४,

a) = क्षत्रिय-विशेष-, तद्-देश-। व्यु ? । b) स्वार्थे ङण् प्र । c) = वक्त्र-। व्यु ? । <✓कि इति । d) तु पागम । व्यप । e) = मयूर-वाणी-। व्यु ? । f) तु पागम । g) = क्षेत्र-, तीर्थ-। व्यु ? । <✓कद् इति पाउभो. । h) वैप १ द्र । i) = जनपद-, तद्-राजन्-। j) = वनस्पति-विशेष- [पटेरक-] । व्यु ? । k) अर्थः व्यु च ? । l) समाहारे द्रस । m) विलासे वृत्तिः (तु पासि) । n) = ऊष्म-विशेष- । व्यु ? । o) विप । बस । p) = अप्याय-, सूक्त-। q) = ऋषि-विशेष-। व्यु ? । r) = बाल-। वैप १ द्र । s) = रश्मि-। t) पासे वैप १ इमश्रु शौ ६, ६८, २ टि द्र. । u) पासे वैप १ परि. केशइमश्रु शौ ८, २, १७ टि. द्र. । v) पासे. वैप १ विद्वान् शौ ६, ६८, ३ टि. द्र ।

हिश्रौ ६, ८, ८, १०, १, ३२,
मागृ २, १४, २६^१, कौसू ३३,
१३, पावा ६, १, ६१, -श्रौ द्रागृ
२, ३, २४, अप ६९, २, १
१कैशिक-, कैश्य- पा ४, २,
४८
केश-कलमल-शैवाल- -लाः शध
३७४
केश-कीट- -टान् वाध १४, २३,
-टैः शंघ ४३१, विध २३, ३८
केशकीट-युत- > °त-घ्रात-
वाससाहत^२- -तम् सुध ६०^१
केशकीटा(ट-अ)वपन्न,न्ना- -अम्
गौध १७, ९, -न्ना अप ३७,
७, १
केश-कीट-श्रुत-वचो(वस्-अ)भि-
हत- -तम् सुधप ८८ : ३
केश-जाह- पा ५, २, २४
केश-तुष-कपाला(ल-अ)स्थि-भस्मा-
(स्म-अ)ङ्गार- -रान् विध ६३,
२४
केश-नख- -खान् शंघ ४४३
केश-नख कीट-पतङ्ग- -ङ्गै आश्रौ
३, १०, २०
केश-निधान- -नात् आपगृ १२, ३,
१६, ८
केश-पक्ष- -क्षम् कौगृ १, २१, ८,
शागृ १, २८, ९, -क्षयो आगृ
१, ७, १६, -क्षस्य कौसू ५३,
२०, २३, -क्षान् आश्रौ १०, ८,
८, आपश्रौ १४, २२, १, २०,
१७, १३, वैश्रौ २१, ८ : ५,
हिश्रौ १४, ४, २, १५, ४, ३५,
हिपि २ : १३, १४ १०, -क्षे

आगृ १, १७, ८, -क्षौ कागृ
३१, ४
केश-प्रतिग्रहण^०- -णम् कौगृ १, २१,
६^१, -णाय शागृ १, २८, ७^१
केश-प्रतिग्राह^०- -हाय गोगृ ३, १,
७, द्रागृ २, ५, ५
केश-प्रसाधन- -नम् वागृ १६, ९
केश-प्रावरण- -णेषु अप ७०^३,
२१, ४
केश-मण्डल- -लानि कौसू ३६,
१७
केश-यत्न^१- -नान् वागृ ४, १८
केश-रोम तुषा(ष-अ)ङ्गार-कपाला
(ल-अ) स्थि-विण् मूत्र-पूय-
शोणित-रेत-इलेभ्यो (ष्म-उ)
च्छिष्ट- -ष्टान् वैध ३, ३, २
केश-ललाट-वक्त्रा (क्त्र-अ) न्त^४-
-न्ता शंघ ३६
केश-व- पा ५, २, १०९, -वात्
काश्रौ १४, १, १४
केशवा(व-अ)स्य- -स्ये काश्रौ
१५, ५, २२
केश-वत्- पा ५, २, १०९
केश-वपन- -नम् आगृ १, २२, २५,
आमिगृ ३, ७, ४ : ७, -नात्
आपश्रौ १०, ६, १०
केशवपन-वर्जम् बौध २, १, ७१^२
केशवपना(न-अ)र्थ- -र्थे काश्रौ
१५, ८, २४
केशवपनीय^५- -य आश्रौ ९, ३,
२४, शाश्रौ १५, १६, १, काश्रौ
१५, ९, १५, २१, बौश्रौ १२,
२० १७, २६, २ १०, ३
९, १६, हिश्रौ १३, ७, ३०, -यस्य

लाश्रौ ८, ११, १०, -याय बौश्रौ
१२, २० : ६, २६, २ : १४;
वाश्रौ ३, ३, ४, ४०, लाश्रौ ९, ३,
१, -ये आपश्रौ १८, ८, ४, निसू
७, ७ १६, लाश्रौ ९, ३, १४;
-येन आपश्रौ १८, २२, ९, हिश्रौ
१३, ७, २९, लाश्रौ ९, ३, ३.
केशवपनीया(य अ)न्त^१-
-न्तः बौश्रौ २६, २ २५.
केश-वर्जम् आपश्रौ ५, ४, ९, १०, ६,
३, बौश्रौ २, १२, २६, कौसू
६७, १६
केश-वर्धन-काम- -मः अत्र ६,
१३६
केश-वाप^०- -पाय आपश्रौ १८,
१५, ६, वाश्रौ ३, ३, २, ४५;
हिश्रौ १३, ५, २७, कागृ ४०,
१२, १८, मागृ १, २१, ७, १२,
वागृ ४, १७, २३.
रकेश-वाप-> °प-विधायक- -कः
भाशि ८
केश-वेश- -शान् आगृ १, १७, १८
केश-शब्द- -ब्दे आगृ १, १८, ३
केश-शेष-करण- -णम् पागृ २, १,
२१.
केश-श्मश्रु- पाग २, २, ३१, -श्रु^६
काश्रौ २, १, ९, ७, २, १३;
आपश्रौ, आमिगृ १, ३, २
१७^१, हिगृ १, ९, १६^१,
-श्रू भागृ ३, ६ २, -श्रूणि
शाश्रौ १८, २४, १९, आपश्रौ;
-श्रून् वागृ ९, ३^१.
केशश्मश्रु वापन- -ने कौगृ ३,
९, ३७

a) समाहारे द्वम ।

b) °त इति पाठ^१ यनि शोध. ।

c) = केशग्रहण-साधन- ।

उस उप करणे वा भावे वा ल्युट् प्र ।

d) परस्परं पामे ।

e) = नापित- । उस अणन्तम् ।

f) षस उप = रचना-^१ ।

g) विप । द्वस > बस ।

h) वैप १ द्र. । षि १ । बस ।

j) पामे. पृ ९३० u द्र ।

केश-श्मश्रु-नख- -खानाम् अप
 ६८, २, ३८
 केश-श्मश्रु-नख-लोम-निकृन्तन-
 -नानि काश्रौ २५, ७, १८
 केश-श्मश्रु-रोमन्- -म कौस् ५४,
 ११, -माणि वैश्रौ १, ४ ६
 केश-श्मश्रु-रोम-नख- -खानि गोष्ट
 ३, ४, २३; कौस् ६७, १५, ८०,
 १३
 केश-श्मश्रु-लोम-नख- -खानि
 आश्रौ ६, १०, २, आपश्रौ १५,
 २१, ७, बौश्रौ २८, ८ १२,
 आश्रु १, १८, ६, ४, १, १६, ६, ४,
 कौष्ट ३, १, २, आश्रिण, बौध २,
 १०, ११, ३, १, ८, ७, ६, ८, २
 केश-श्मश्रु-लोम-नख-कर्मन्-
 -मैम्य गौपि १, ७, २
 केश-श्मश्रु-लोम-नख-वापन- -नम्
 आपध २, ३, ६, बौध १, ३, ७,
 २, १, ७०, ३, १, २१, हिध २, १,
 ३७, -नेन बौष्ट २, ६, ९
 केश-संमित- -त. आश्रु १, १९,
 १३^१, शाश्रु २, १, २३, पाश्रु २,
 ५, २८, वाध ११, ५५
 केश-स्तुक- -कात् कौस् ३३, ४,
 ४२, १९
 के (श>)शा-केशि^६->^७शि-संघ-
 हण- -गात् शंघ ३२८
 केशा(श-अ)प्र- -आणि कौष्ट १, २१,
 १२, शाश्रु १, २८, १५
 केशा(श-आ)दि- -दि काश्रौ २५,
 ७, १९, -दीनि वैष्ट २, १३
 १२.
 १केशा(श-अ)न्त->^८न्तिक-कः
 कौष्ट २, १, २३, कप्र ३, ८, १२

२केशा(श-अ)न्त^८- -न्त पाश्रु २,
 १, ३, वैष्ट २, ४ १, -न्तम्
 बौश्रौ २, ८ : ६, २१, ९ : १६,
 वाश्रु ४, ८, १५, जैष्ट १, ७ : ६,
 ११ . १०, -न्ता कौष्ट १, १,
 ९, शाश्रु १, ५, ८, -न्तान् कौष्ट
 १, १०, ६, शाश्रु १, १६, ६, गोष्ट
 ३, १, ३, -न्ते माश्रौ २, १, १,
 २१, कौष्ट १, १, ५, शाश्रु १, ५,
 २, पाश्रु १, ४, २, २, १, ७, १७,
 १९, २३, २४, काश्रु ४०, ११,
 माश्रु १, २१, ४, वाश्रु ४, ९
 केशान्त-करण- -णम् गोष्ट ३,
 १, २, जैष्ट १, १८ ३, - णेन जैष्ट
 १, १९ ६
 केशान्त-ललाट-नासा-देश^९-
 तुल्य- -ल्या विध २७, २२
 केशान्ता(न्त-आ)यत्- -तम्
 वैध २, ३, २
 केशा(श-अ)ल्पत्व- -त्वम् शंघ
 ३७८.
 केशा(श-अ)वधि->^{१०}धि-ललाट-
 नास-तुल्य- -ल्याः शव ३६
 केशिन्- -शिन आपश्रौ १८, २२,
 १०, २२, २८, २१, बौश्रौ १८,
 १९ ४१, २६ १०, वाश्रौ ३,
 ३, ४, ४२१, हिश्रौ २३, ४, ४२१,
 कौम् ७९, ३०१, बौष्ट २, ४,
 ३१, वाश्रु ४, ५१, वाध २, २८,
 ऋअ २, १, १६४^२, वृदे १, ९४,
 ९५१, ऋअ ९, १०, १४, २,
 निघ ५, ६१, या १२, २७१,
 भाशि २७१, -शिनम् वृदे २,
 ६५, -शिना आश्रौ ६, ११, ९,
 -शिनाम् वृदे १, ९५, -शिनी

या १२, २६, -शी बौश्रौ १४, ७८
 २३१, १७, ५४ : ५, १८, ३८ .
 १६१, वाश्रुश्रौ ३, ४६ : २^१,
 ९४ : ४^१, ४, ३७ ३^१, १०२
 १३^२, १, अप ४८, १४२१, ऋअ
 २, १०, १३६१, वृदे १, ९४,
 ८, ४९, निघ ५, ६१, या १२,
 २५१, २६^१, -०शीन्
 वाधूश्रौ ४, ३७ ७
 केशिनी^{११}- पाग ४, १,
 १५१, -नी वाधूश्रौ ४, ३७
 ३०, ३१, आपम २, १३, १०१,
 आश्रिण २, १, ३ : १६१, काश्रु
 ३५, ११, भाश्रु १, २३ ५१,
 हिश्रु २, ३, ७१, -नी. वाधूश्रौ
 ३, ४६ : १६, वैष्ट ३, १५ ५,
 -नीम् आपश्रौ १०, १०, ६,
 हिश्रौ १०, २, १४
 केशिन्य- पा ४, १,
 १५१
 केशिन- पा ६, ४, १६५^१,
 -नम्^१ ऋअ २, १०, १३६, वृदे
 ८, ४९
 केशि-गृहपतिक^१- -कानाम्
 वाधूश्रौ ३, ४६ . १
 केशि-यज्ञ- -ज्ञ बौश्रौ १७,
 ५४ ४
 केशि-साध्य- -ध्या. वृदे २,
 १२
 केशी-ब्राह्मण^{१२}- -णम् अप ४६,
 २, ८
 केशर^१- पाग २, ४, ३१
 केशरिन्- -रिण. विध १, २, ६
 १केशबाल- -ले दंवि २, ९
 १केश-व- २केश- द्र.

a) समाहारे द्वस । b) तु आन. । c) पा ५, ४, १२७ । d) विप, नाप (शिरो-भाग-, चूडा-
 [संस्कार-विशेष-]) । बस । e) विप । द्वस. > कस । f) व्यप. । g) = वृप-विशेष- । h) = दीक्षा-, प्रजा-,
 राक्षसी- प्रभृ. । i) विप (सूक्-), । j) विप. । बस. । k) कौषि^{१३} इति मूको । l) तु, पागम । = केसर- ।

२केशव^a- -वम् आमिष्ट २, ४, १० :
 ३९, ५, ७ ९१, बौध १, ११,
 ७१, वैष्ट ३, १३ : ३, बौध २,
 ५, २४१, विध १, ३३, ४९, ८,
 -१वाय आमिष्ट २, ४, १० ८,
 ३, ११, ४ १३, १४
 केशवा(व-आ)दि- -दीनि आमिष्ट
 २, ७, ६ १७
 केशवादि-द्वादशनामन्- -मभि
 आमिष्ट २, ४, १० ३५
 केशवादि-नामन्- -मभि
 आमिष्ट २, ४, १० १६
 केशवा(व-आ)घ- -घै वैध ३,
 १०, १
 केशवा(व-आ)लय- -यम् विध १,
 ३९
 केसर^a- पाठभो २, ३, ६८
 केसर-पा(श>)शा^b- -शा आपश्रौ
 १८, १०, २१, हिश्रौ १३, ४, १०
 केसर-पुच्छ- -च्छेषु काश्रौ २०, ५,
 १६
 १केसर-प्राब(न्ध>)न्धा^a- -न्धाया
 अप्रा ३, १, ७, शौच ४, ९६
 १के(बधा) पाधा भ्वा पर शब्दे.
 १कायमान^c- -न^d जैश्रौका ५३,
 अप्राय ६, २, अप्र ४८, ११५,
 साअ १, ५३, निघ ४, १०, या
 ४, १४०
 १चकान- -नः आश्रौ ६, ३, १,
 शाश्रौ ९, ५, २
 कैकय- केकय- द्र
 कैकरायण- केकर- द्र

कैकस- , °सी- २क्रीकम- द्र
 कैकेय- केकय- द्र
 कैङ्करायण- , °लायन- १किङ्कर, ल]-
 द्र
 कैतकायनि- कितक- द्र
 कैतव- १कितव- द्र
 कैतवायन- , °यनि- २कितव- द्र
 कैतायन- कित- द्र
 कैदर्भ- किदर्भ- द्र
 कैदारक- , कैदार्य- केदार- द्र
 कैन्दर्भ- किन्दर्भ- द्र
 कैन्दास- , °सायन- किन्दास- द्र
 कैन्नर- किन्नर- द्र
 कैरणक- २किरण- द्र
 कैरव- (>°विन्>]णी- पा)
 पाठभो २, ३, १३५, पाग ५, २,
 १३५
 कैरात^a- -०त अअ ५, १३१
 कैर्भदुर^b- पा, पाग ४, ३, ९३
 कैलात- किलात- द्र
 कैलालप- , °पायन- किलालप- द्र
 कैलास^c->°स-मैनाक-मुख- -खान्
 शंघ ११६ ११
 कैवर्त^d->°र्ता(र्त-आ)दि- -दि अप
 ३६, १४, १
 १कैशिक- २केश- द्र
 २कैशिक^e- कम् नाशि १, ४, ९,
 ११
 कैशिक-मध्यम^f- -म नाशि १, ४,
 १०
 कैशिन- , कैशिन्य- २केश- द्र
 कैशिवायन^g- -ना बौश्रौप्र १७ १५

कैशोरि- २केशोर- द्र
 कैशोरिकेय- १केशोर- द्र
 कैशोर्य- २केशोर- द्र
 कैश्य- २केश- द्र
 कैष्किन्ध- किष्किन्धा- द्र
 कोक- पाठभो २, २, ४
 कोकण^h- (>°कणी- पा) पाग ४,
 १, ४१
 १कोकिल, लाⁱ- पाठ १, ५४, पा, पाग
 ४, १, ४, -लः माशि १, १०,
 याशि १, ९, नाशि १, ५, ४-
 -लम् शंघ ४२६, -लस्य अप
 ७०^j, ३, ४, -लाः अप ७१,
 ३, २, -लान् आमिष्ट २, ४,
 ८ ६
 १कौकिल- पावा ४, १, १२०
 २कोकिल- -लस्य चाअ ३८ १२
 कोकुवा^k- -वा या ५, २६^m
 कोकूयमाना- ✓कु द्र
 कोट- (>१कोटर- पा) पृ ८५९
 द्र
 २कोटरⁿ- पाठभो २, ३, ३८ पाग २,
 ४, ३१०, ६, ३, ११६
 कोट(र>)रा-व(न>)ण- पा ६,
 ३, ११६, ८, ४, ४
 कोटव- पाठभोवृ २, ३, १३५.
 कोटा->✓कोटाय पावा ३, १, १७.
 १कोटि^o- पाठ ४, ११८, -टिम् अप
 २, ३, १, ३१, ६, २, -व्य शंघ
 ८०, या १४, ७, -व्याम् अप
 २५, २, ५^p, ३०^q, २, १
 कोटि-भाग- -गम् अप २, ३, २

- a) वैप १ द्र । b) विप । बस । c) धा. कान्तौ वृत्ति । d) पामे वैप १, ११७३ । द्र ।
 e) < ✓चाय वा ✓कम् वेति या दे । f) = देश-विशेष- । व्यु ? । कौमदुरे- इति पाका ।
 g) = धीवर- । व्यु ? । के-वर्त- (<क- [जल-] + ✓वृत्) + मत्वर्थिय प्र (तु. अभा) । h) = राग-विशेष- । व्यु ? ।
 i) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । j) अर्थः व्यु च ? । काकण- इति [पक्षे] भाखडा, कण- इति पाका । k) = पक्षि-
 विशेष- । व्यु ? < ✓कुक् इति अभा प्रभु । l) = जिह्वा- । व्यु ? । m) < ✓कु । n) व्यु ? ।
 o) तु. पागम । p) = सख्या-वचन- । व्यु ? < ✓कुट् इति अभा ।

कोटि-मध्य- -ध्यात् अप ३, १, १५	कोपन-, कोपित- ✓कुप् द्र ?कोभागिनसत्र ^d - त्रेषु वैश्रौ २१, ६:५	१५, सुधप ८८: १०, -शान् कौसू १३९, २५, २६१, अप ४१, ३, २१, ६७, ६, ५, गौध १०, ४७, अत्र १९, ७२१, -शान् आपश्रौ ९, १९, २, वैश्रौ २०, ३८ ५, हिश्रौ १५, ८, २४, आज्यो ७, ५, -शे आपश्रौ ९, १९, १; वौश्रौ २, ५ १०१, १४, १४ १६२; वैश्रौ २०, ३८ ४, कौसू ४७, ४५, ४९, अप ७१, १९, ७, विध ३, ५७, पावा ६, ४, १४४, -शेन जैगृ २, ५ १३; कौसू २८, ९, -शेभ्य अप ७० ^२ , २१, २
कोटि-संमित- -त अप ३१, ४, २	कोमल- पाउ १, १०९	कोशी- > शी-धान्य- -न्यम् बौपि ३, १२, १ ^m कौशीधान्य ^o - -न्यम् बौश्रौ २, २०: ४, २४, २१: ९; २८, ८ ४
कोटि-होम- -म अप ३० ^२ , १, १, २, -मम् अप ३० ^२ , २, ९, ३१, २, २, ३, ३, ४, ५, ५, ३, ७, २, ८, ३, १०, ३, -मस्य अप ३१, ४, १, ५, ४, १०, १, -मे अप ३१, ७, ५, ३४, १, ६, -मेषु अप ७०, ४, ५	कोयष्टिक- पाउभो २, १, १८७	कौशेय- पा ४, ३, ४२, पा, पाग ५, ३, ११७, -यम् वाध ११, ६६, विध ४४, २६
कोटि-होम-फल- -लम् अप ३१, १०, ४	कोरक ^१ - पाउ ५, ३५, पाग ५, २, ३६	कौशेया (य-आ) विक- -कयो विध २३, १९, -कानि वैध ३, ४, २
कोटि-होम-समन्वित- -तै अप ७०, ४, ३	कोरकित- पा ५, २, ३६	कोश-का(र>)री- -रीम् आमिगृ २, १, १ १२, हिगृ २, २, ६
२कोटि ^a - -टया बौश्रौ १९, ६: ८, आपशु १६, १०, हिशु ५, ३१, -व्याम् वाध २, ४२, बौध १, ५, ७९, आपशु ३, २, १५, हिशु १, ४१, ५५, -व्यो. आपशु १५- १६, ९, हिशु ५, १६, ३०	कोरण्ड ^b - पाउना १, १२०	कोश-अय- -यम् अप ३, ३, २
कोटीर- पाउभो २, ३, ४८	कोरदूष ^b - पाउभो २, ३, १६७.	कोश-परिपालन- -नम् शध २५१.
कोण ^b - -णेषु अप ६, १, १४	कोलाहल- पाग २, ४, ३१ ^d	कोश-बिल- -ले आश्रौ ८, ३, १९, वैताश्रौ ३२, २५
कोद्रव ^c - पाउभोवृ २, ३, १३५	?कोलोष्ठा बौश्रौ २६, १७. १२	कोश-मिश्र- -श्रम् बौश्रौ १४, १४ ^e ३५
कोद्रव-चणक-माष-मसूर-कुलत्थो- (त्थ-उ) हालक-वर्जम् शध १३२	कौविदार ^e - पाउभो २, ३, ४५ ^f , पाग ४, २, ८० ^h , -रम् वैध ३, ५, ८	
कोद्रव-चीन-राजमाष-मसूर-कुलत्थ- वरक-वर्जम् आमिगृ २, ६, ४: १७	कौविदार्य- पा ४, २, ८०	
कोद्रवो (व-उ) दार-वरक-वर्जम् बौश्रौ २८, १३: २	कोविदार-वट-पिप्पल-शाण-शाक- -कम् विध ६८, ३१	
कोप- ✓कुप् द्र	कोविदार-शमी-पीलु-पिप्पल (ल-इ) जुद-गुग्गुल-ज- जम् विध ६१, ४	
को(क-उ)पध- प्रसृ. १क- द्र.	कोश ^१ - पाउभो २, ३, १४०, पाग २, ४, ३१, -श: वाश्रौ १, ६, ५, १०, बौगृ २, ५, ४११, अप ४८, १००१ ^m , विध ९, १०, ३१, १४, १, अत्र ११, २१, निध १, १०१ ^m , या ५, २६१ ^g , -शम् बौश्रौ १४, १४ १४, १९, ७: ३३१, १कौगृ १, ५, ४, ३, १०, ३, आमिगृ २, ५, १०. २८१, जैगृ १, ३: ५, कौसू ३६, १५, अप ४६, ५, २१, ६३, ३, ९, विध ९,	

a) = अग्रभाग-, कोण-विशेष-। व्यु ? < कुट इति अभा । b) वैप ३ द्र । c) = अत्र विशेष-। व्यु ? । d) पाठः? एकाहाहीनसत्र-> त्रेषु इति शोधुः? संस्कर्ता । e) काष्ठासु (मा २७, ३७) इत्यस्याद्यक्षरेण सह ओम् इत्यस्य योगः द्र । f) = कलिका । व्यु ? < ✓कुर इति पाउ । g) = वृक्ष-विशेष-। व्यु ? । h) नाप.। व्यु. ? । १) तु पागम । j) ✓कन् इति पाउभो, < कु- [भूमि-] + वि✓वृ इति अभा. । k) अर्थः ? । l) वैप १ द्र. । m) = मेघ-नामन्-। n) कौ^o इति B । o) स्वार्थे प्र. ।

कोशयी^३- यी ऋप्रा १४, ४३^१
 कोश-व(त>)ती- स्य. निस् २,
 ११ १५
 कोश-वर्जम् विध ९, १४.
 कोश वाहन-संक्षय- -य अप ३,
 ३, ५
 कोश-स्थान- -ने विध ९, १७
 कोशस्थानीय- -यानि या ५,
 २६
 कोशा(श-अ)पिधान- -ने हिश्रौ ५,
 ५, ६, -नेन आपश्रौ ८, १७, ७^१,
 भाश्रौ ८, २१, ४
 कोशल- कोसल- द्र
 कोशात(रु>)की^३- पाउभो २, ३,
 ४३, पा, पाग ४, १, ४१, पाग
 ४, ३, १६७, -क्या कौगृ १, १५,
 १, शागृ १, २३, १
 ? कोशवोच्यैः वैताश्रौ ३४, ९
 कोष- √कुष् द्र
 कोष्ठ^०- पाउ २, ४, -ष्टम् आशि
 ८, ७, -ष्टान् आज्यो ७, ५,
 -ष्टाभ्याम् कौसृ १८, १५, -ष्टे
 बौश्रौ २०, ६. ४, अप ७०^२,
 २, ५, आशि ८, ७
 कोष्ठा(ष्ठ-आ)गार-पति- -तिम् अप
 ५, ५, ३
 कोष्य- -स्यम् ऋप्रा १३, १
 कोष्ण- किम्- द्र
 कोसल, शालि^२- पाउवृ १, १०६^०,
 पाउभो २, ३, ९८
 कौसल^१- -ला अप १, ८, १०^०.
 कौसल्य- पा ४, १, १७१, -ल्य.
 शाश्रौ १६, ९, १३, -ल्यस्य
 शाश्रौ १६, २९, ६

कौसल्ययानि- पा, पावा ४, १,
 १५५
 कोसल-कौशाम्बी-तीर- -रम् अप
 ५६, १, २
 कोसल-तोसल-त्रेणातट-सज्जपुर- -रा
 अप ५६, १, ४
 कोहड^३- (>कौहड- पा) पाग ४,
 १, ११२, -डा. बौश्रौप्र ४३ १
 कोहल^३- पाउभो २, ३, ९९
 कौहलि->कौहली->ंली-पुत्र-
 -त्रः तैप्रा १७, २
 कौहलीय- -या. गोगृ ३, ४, ३३
 कौहलीय-मता (त-अ) नु
 (ग>)गा- -गाम् कौशि १
 कोहित^३- (>कौहित- पा) पाग
 ४, १, ११२
 कौकक्षि^३- -क्षय. बौश्रौप्र १७ १६
 कौकिल- १कोकिल- द्र
 रकौकिल(>)ली^३- -ली आश्रौ
 १९, १०, १३, हिश्रौ २३, १,
 ६०, द्राश्रौ १३, ४, १४, लाश्रौ
 ५, ४, २०, -लीम् आपश्रौ १९,
 ५, १, हिश्रौ २३, १, १, -ल्या
 माश्रौ ५, २, ११, १, -ल्याम्
 वाश्रौ ३, २, ८, १, द्राश्रौ १३, ४,
 १५, लाश्रौ ५, ४, २१
 कौकिली-याज्या- -ज्या मैअ ८
 कौकिली-सूक्त- -क्तानि बौगृ ३, १,
 २४
 कौकुण्डेय^३- -या बौश्रौप्र ४३ २
 कौकुशालि^३- -लयः बौश्रौप्र ४८: ७
 कौकृत्य^३- -त्या बौश्रौप्र ३५ २
 कौकृटाक्षिक- , टिक- कुक्कुट- द्र
 कौक्वायन- कुक्व- द्र

कौक्षक-, कौक्षेय- प्रभृ, कौक्षेयक-
 कुक्षि- द्र
 कौङ्कुम- कुङ्कुम- द्र.
 कौचवार- कुचवार- द्र
 रकौचवार- रकूचवार- द्र
 शकौचवार्य- कुचवार- द्र
 रकौचवार्य- १कूचवार- द्र
 कौचुक- कुचुक- द्र
 कौज- कुज- द्र
 कौज्जायन-, ंन्य- रकुज- द्र
 कौटजभारिक- कुटज- द्र
 कौट-तक्ष- कुटि, टी- द्र
 कौटभारिक- ४कुट- द्र
 कौटसाक्ष्य- कूट- द्र
 कौटायन- ३कुट- द्र.
 कौटि^३- (>कौट्या- पा) पाग ४
 १, ८०
 कौटिक- कूट- द्र.
 कौटिलिक-, १कौटिल्य- √कुट् द्र
 रकौटिल्य- रकुटिल- द्र
 कौटीगय-, ंन्य- कुटि, टी- द्र
 कौटीय- कूट- द्र
 कौटीर- रकुटीर- द्र
 कौटुम्ब- कुटुम्ब- द्र
 शकौट्य- ३कुट- द्र.
 रकौट्य- कूट- द्र
 कौठप^३- -पा बौश्रौप्र २२ २.
 कौठार- रकुठार- द्र
 कौठारिका- कुठारिका- द्र
 कौड्येयक- कुड्य, ज्या- द्र
 कौणप- कुणप- द्र
 कौणपतन्त्रि- कुणपतन्त्र- द्र
 कौण्येय- रकुणि- द्र
 कौण्डपायिन- प्रभृ. १कुण्ड- द्र

a) वैप १ द्र । b) = वनस्पति-विशेष- । व्यु ? < कोश- + √ अत् इति अभा. । c) नाप ।
 व्यु. ? < √ कुष् इति पाउ । d) = जनपद-विशेष-, तद्राज- । e) ंज्ञा इति पाठ स च वावि. द्र ।
 f) स्वार्थे प्र । g) = ऋषि-विशेष । व्यु ? । h) = याग-विशेष- [सौत्रामणी] । व्यु ? । i) संस्कृत-
 टि. भूयान पाभे ।

कौण्डल-^०लिक- २कुरण्डल- द्र
 कौण्डायन- ३कुरण्ड- द्र
 १कौण्डिन- १कुरण्डिन- द्र
 २कौण्डिन- २कुरण्डिन- द्र
 कौण्डिनेयक-^० १कौण्डिन्य-
 १कुरण्डिन- द्र
 २कौण्डिन्य- कुरण्डिनी- द्र
 कौण्डेयक- कुण्डया- द्र
 कौण्डोपरथ^ab- (> ^०थीय- पा)
 पाग ५,३,११६
 कौतप- कुतप- द्र
 कौतस्कुत-^०तादि- किम्- >
 कु-तस् द्र
 कौतस्त- कुतस्त- द्र
 कौताल^a- (> ^०लक- पा) पाग ४,
 २,५३
 कौतुक- प्रभु कुतुक- द्र
 कौतूहल-^०ल्य- कुतूहल- द्र.
 कौतोमत^०- तेन गोशु ४, ५, १८,
 द्राशु ४,१,११
 १-२कौत्स-^०त्सायन-^०त्स्य- कुत्स-
 द्र
 कौथुम- प्रभु कुथुमिन्- द्र
 कौदामिक- किम्- > कुदामन्- द्र
 कौहाली- कुहाल- द्र
 कौद्रा^०न्द्रायण^d- (> ^०णक^०-)
 पाग ४,२,८०
 कौद्रेय- कुद्रि- द्र
 कौनामि-^० कौनामिका-^०की-
 किम्- > कुनामन्- द्र
 कौन्त- कुन्ति- द्र.
 कौन्तायनि- २कुन्ती- द्र.
 ?कौपन^१- नम् आग्रिणु ३, १०, ४ :
 १७

कौपिञ्जल- कुपिञ्जल- द्र
 कौपीन^६- पा ५,२,२०
 कौपीना(न-आ)च्छादन^१- -ना. बौध
 २,६,२१
 कौपीना(न-आ)च्छादन-मात्र- -त्रम्
 विध ९६,१३
 कौपीना(न-आ)च्छादना(न-अ)र्थ-
 -र्थम् गौध ३,१८
 कौपुत्रक- किम्- > कु-पुत्र- द्र
 कौवाह्य^१- -ह्याः बौश्रौप्र १० ३
 १,२कौबेर-^०बेरक- कुबेर- द्र
 कौबेरिकेय- कुबेरिका- द्र
 कौवेरी- कुबेर- द्र
 कौभोजि^१- -जि बौश्रौप्र ४५ ४
 कौमण्ड- प्रभु कुमण्ड- द्र
 १,२कौमार- १कुमार- द्र
 ३कौमार- २कुमार- द्र
 कौमारवत्य^१- -त्या बौश्रौप्र १० २
 कौमारायण- २कुमार- द्र
 कौमारिक- १कुमार- द्र
 कौमारिकेय- २कुमारिका- द्र
 कौमारी- २कुमार- द्र
 कौमुदगन्धि- कुमुद- द्र
 कौमुदादि^१- -दय बौश्रौप्र ४८ : ३
 कौमुदिक- कुमुद- द्र
 कौमेदुर- कैमेदुर- टि द्र
 कौम्भ-^० कौम्भकारक-^० कौम्भायन-^०
 कौम्भायनि- कुम्भ- द्र
 कौम्भेयक- २कुम्भी- द्र
 कौम्भ्य- कुम्भ- द्र.
 †कौरयाण^१- -ण अप ४८, ११५,
 निघ ४,२, या ५, १५, -णस्य
 ऋश्र २,८,३^६.
 कौरव-^०वक-^०वायणि- प्रभु

१कुर- द्र
 कौरुपथि- कुरपथ- द्र
 कौरुपाञ्चाल- १कुर- द्र
 कौरुर्म्य- १कूर्म- द्र
 १कौल- १कुल- द्र
 २कौल- २कुल- द्र
 ३कौल- ६कुल- द्र
 कौलक- २कूल- द्र
 कौलटिनेय-^०टेय-^०टेर- १कुल- द्र
 कौलत्थ- कुलत्थ- द्र
 कौलनामिका-^०की-^०कौलपत-^०
 कौलपुत्रक- १कुल- द्र
 कौलव^१- नम् आज्यो ४, ५, -वस्
 आज्यो ५,१६, -वे आज्यो ५,५
 कौलायन- ५कुल- द्र
 कौलाल-^०लक- कुलाल- द्र.
 कौलाश्व- कुलाश्व- द्र
 कौलास- कूलास- द्र
 कौलि- ५कुल- द्र
 कौलिशायनि- २कुलिश- द्र.
 कौलिशिक- १कुलिश- द्र
 कौलुन- कुलुन- द्र
 कौलूत- कुलूत- द्र
 कौलून-^०नक- कुलून- द्र
 १कौलेयक- १कुल- द्र
 २कौलेयक- ३कुल- द्र
 ३कौलेयक- ३कुल्या- द्र
 कौल्मलवर्हिष- कुल्मल- द्र
 कौल्माष-^०षिक- कुल्माष- द्र.
 कौल्मुद- कुल्मुद- द्र
 कौल्व- कुल्व- द्र
 कौवाचर- कूवाचर- द्र
 कौविट्यासीय- कुविट्यास- द्र.
 कौविदार्य- कोविदार- द्र

a) तु. पागम. । b) ^०ण्ठो इति शाकटायन । c) = [कुतोऽमत इति शब्दवत्-] मन्त्र-विशेष- ।
 d) अर्थ व्यु. च ? । e) = देश-विशेष- ? । f) पाठः ? कौपी^० इति संभाव्येत । g) = पुरुष-लिङ्ग-^०, तदाच्छादन- ।
 व्यु ? । h) विप । बस । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । j) वैप १ द्र. । k) < कुरयाण- इति षड्गुरुशिष्य- ? ।
 †) = [ज्योति शास्त्र-प्रसिद्ध-] करण-विशेष- । व्यु ? ।

कौविद्यासीय- कुविद्यास- द्र
 कौविशाल^a- लम् अप २६, ५, ३
 कौवेणिकेय- कुवेणिका- द्र
 कौश- १कुश- द्र
 कौशल-^०लक- २कुशल- द्र
 कौशलि- ३कुशल- द्र
 कौशल्य- २कुशल- द्र
 कौशाम्बी-, १, २कौशाम्बेय-
 कुशाम्ब- द्र
 कौशिक-, ^०किन्-, ^०की- कुशिक-
 द्र
 कौशी- १कुश- द्र
 कौशीधान्य- कोश- द्र
 कौशीरकेय- कुशीरक- द्र
 कौशीलव- कुशीलव- द्र
 कौशेय- कोश- द्र
 कौशेरिकेय- कुशेरिका- द्र
 कौश्रि- कुश्रि- द्र
 १, २कौषीतक-, ^०कायन- ^०कि-,
^०किन्-, ^०केय- कुषीतक- द्र
 कौष्टचित्क- ^१मुष्टचित्- द्र
 कौष्टवित्क- ^१कुष्टविद्- द्र
^१कौष्ट^b चात्र ३८ १५१
 कौष्ठवित्क- २कुष्ठ- द्र
^१कौष्ठय^c आपश्रौ १६, ६, ४, माश्रौ
 ६, १, २, २६, वाधुश्रौ ३, ४९
 ११, वाश्रौ २, १, १, ५०, वैश्रौ
 १८, ३ १०, २१, ८ ३, हिश्रौ
 ११, १, ६९, हिपि १८ ११
 कौष्माण्डिक- कूष्माण्ड- द्र
 कौसल-, कौसल्य-, ^०व्यायनि-

कोसल- द्र
 कौसित- कुसित- द्र
 कौसुरविन्द- कुसुरविन्द- द्र
 कौस्तुभ^d- भम्^e आज्यो ४, ६, ५,
 १, -भस्य आज्यो ५, १५
 कौस्त्र- किम्-> कुस्त्री- द्र
 कौहक^f- कम् अप २६, ५, ३
 कौहड- कोहड- द्र
 कौहलि-, ^०ली-, ^०लीय- कोहल- द्र
 कौहित- कोहित- द्र
 ✓^१कनंस्^१ पाधा चुरा पर भाषायाम्
 ✓^१कनस्^१ पाधा दिवा पर हरणदीप्त्यो
 ✓^१कनू पाधा क्रया उभ शब्दे
 ✓^१कनूय^१ पाधा भ्वा आत्म शब्दे
 उन्दने च, क्रोपयति या ७, १४
 ✓^१कमर् पाधा भ्वा पर हृच्छने
 ण्व्याकु^१- कु आपध १, १७, २८,
 हिघ १, ५, ६०
 क्याम्बु^१- म्बु हिश्रौ १५, ४, २१^१
 ✓^१क्यु ✓^१ख्यु टि द्र
 ✓^१कंश्^१
 ऋकच^१- पाठभो २, २, ७६, पाग २,
 ४, ३१^m, -चै विघ ४३, ३५
 ऋकर- पाठभो २, ३, ३९
 ऋतु^b- पाठ १, ७६, पाग ६, २, ११८,
 -तव आश्रौ ५, १८, ५, बौश्रौ,
 -तवे आपश्रौ १४, २४, २०,
 बौश्रौ ९, ६ २७^१, हिश्रौ १५,
 ६, २०, -तु. आश्रौ ४, १३,
 ८x५, ५, १३, ६^१, शाश्रौ ७,
 १६, ८^१, बौश्रौ, णिघ २, १,

३, ९, -तुन आश्रौ ९, ११, १४;
 आपश्रौ, य १०, १०^१कृ;
 -ण्तुभिः आश्रौ ५, १४, १७;
 शाश्रौ, -तुम् आश्रौ ६, ५,
 १८x५, शाश्रौ, क्वाश्रौ २५,
 १२, ४^१, शध ११६, ५५^१, या
 २, २८^१कृ, -तुषु आश्रौ ४,
 १, २१, आपश्रौ, -त् हिश्रौ १५,
 ७, १२^१, वेज्यो ११, -तू शाश्रौ
 १५, १५, ६^१, आपश्रौ १०, २५,
 ११^१, बौश्रौ, -तूनाम् वाश्रौ १,
 १, १, १८, हिपि १९ : ६, अप
 ४१, २, १३, मीस् ५, ३, ३२;
 -०^१तो शुअ ४, १२८, -तोः
 आश्रौ २, ८, १४^१, आपश्रौ,
 -तौ आश्रौ ८, १२, २x५,
 आपश्रौ; पा ३, १, १३०, ६, २,
 ९७, पावा ४, २, ४३, -ण्त्वा
 आश्रौ ३, ८, १, शाश्रौ, -ण्त्वे
 आश्रौ ४, १२, २, शाश्रौ, -त्वोः
 शाश्रौ १४, ५१, ८.
 ऋतु^० पा ४, २, ६०
 ऋनु-करण^१- ग हिश्रौ ९, ७, ३६;
 १३, १, १६, -णम् आपश्रौ १२,
 ६, ५^१, १४, १, ५, बौश्रौ २४, ४ :
 १०, २६, २२ . ४, ८, वैश्रौ १५,
 ८ : ३^१, १७, २ ३, ९ ४, हिश्रौ
 ८, १, ८२^१, ९, ७, ५, १७; ३६,
 -णानि बौश्रौ २१, १७ ४,
 २२, ११ २४, -णे बौश्रौ २१,
 १७ . ३, २२, ११ : २४, १३:

a) = वृक्ष-विशेष-। व्यु ? । b) वैप १ द्र । c) शोघ. वैप १, ११७५ h द्र । d) पृ ९३६
 1 द्र । e) किस्तुन्नम् इति शोध प्रस्तावुक शिवदत्तः ? । f) ✓^१कुंस् इति पामे । g) पा ७, ३, ३६
 परामृष्ट द्र । h) = छत्राक-। व्यु ? । i) विप (शूर्प-)। व्यु ? । j) सप्र. क्याम्बू शूर्पे <> कम्बुशूर्पे इति
 पामे । k) प्रकाशने वृत्ति । या २, २५, १२, ८ परामृष्ट द्र । l) = करपत्र-। व्यु ? < ऋ- + ✓^१कच् इति
 अभा । m) तु पागम । n) पामे वैप १, ११७६ a द्र । o) शोधार्थ वैप १, ११५६ f द्र । p) ऋतु
 वसुम् इत्यस्य स्थाने अप २१९, २४ ऋतुश्रवसम् इति पाठ । q) शोधार्थ वैप १, १०११ c द्र । r) = मन्त्र-
 विशेष-, तत्कृतहोम-विशेष-। कास । s) सप्र ंरणम् <> ंरणम् इति पामे ।

२१, -जेन वैश्रौ १७, १. ३
 क्रतुकरण-यजुस्- -जुः वैश्रौ
 १७, ३. १०.
 क्रतु-करणि^a- -णिम् माश्रौ २, ३,
 २, २६^b
 क्रतु-काम- -म. निस् २, ४ ८,
 २३, -मम् आपश्रौ २४, ४, १०,
 बौश्रौ २, १ : ११, निस् २, ४ :
 ५, -मे निस् २, ४. २५
 क्रतु-तस् () मीम् ३, ३, २७
 क्रतु-दक्षिणा- -णा शाश्रौ १३, ६,
 ५, आपश्रौ १९, १५, १३, हिश्रौ
 २३, ३, ३३^c, निस् १०, १०.
 १२
 क्रतु-दन्त^e- -न्त विध १, ३^d
 क्रतु-दोष- -ष निस् २, ४ १५
 क्रतु-धर्म-त्व- -त्वात् मीस् ४,
 ३, ७^e.
 क्रतु-नामधेय- -येन काय ४१,
 १९
 क्रतु-निर्देश- -श्म माश्रौ २, १,
 १, ११.
 क्रतु-पशु- -शव आश्रौ ५, ३, ४, १२,
 ७, २, आपश्रौ १४, १, ५, ५, १;
 बौश्रौ २३, १९ २७, हिश्रौ ९,
 ८, १, -शून् आपश्रौ १८, २,
 १२, २१, २३, १३, माश्रौ ६, २,
 ६, १३, हिश्रौ १३, १, २०;
 -शूनाम् शाश्रौ १५, १, २१,
 बौश्रौ २३, १९ : २७.
 †क्रतु-पा^f- -पाभ्याम् बौश्रौ ७, १२ :
 २०, ३७, ५०
 क्रतु-प्रधान^g- -नम् मीस् २, ३, ३,
 ४, ३, ३
 क्रतुप्रधान-त्व- -त्वात् मीस्

१०, ३, ७३
 क्रतु-प्रवा(द>)दा^h- -दाः निस् २,
 ११ : ९
 क्रतु-यज्ञ- -ज्ञेभ्य पा ४, ३, ६८,
 पावा १, ३, १०
 क्रतु-युक्त- -क्तस्य मीस् १०, ५,
 ६१
 क्रतु-योग- -नाम् बौश्रौ २६, ३३
 २४, -गात् काश्रौ २२, २,
 १५
 क्रतु-राज्- -राट् विध ५५, ७, बृदे
 ८, ९२
 क्रतु-वत् मीस् ११, १, ५, २९
 †क्रतु-विद्ⁱ- -वित् आपश्रौ ३, १२,
 १, बौश्रौ ३, ३१ ४, भाश्रौ ३,
 ११, १, हिश्रौ २, ६, १७,
 आमिष्ट १, ५, ४ : २०, -विदम्
 आश्रौ ५, १०, २८, शाश्रौ ७,
 १२, ४, अश्र २०, ६
 क्रतु-शब्द- -ब्द. मीस् २, ३,
 २१
 क्रतु-संयुक्त, क्ता- -क्तम् मीस् ३, ४,
 १२, -क्ता हिश्रौ १०, ७, १५,
 २६, -क्ताभ्य हिश्रौ १०, २,
 ३८
 क्रतु-सयोग- -गात् मीस् २, ३, १,
 २३^h, ५, ३, ४३, १०, ३, ५७,
 ६, १५
 क्रतु-सामान्य- -न्यात् मीस् ११,
 २, ५०
 क्रतु-स्थ(ल>)लाⁱ- -ला शुभ्रा ३,
 ८१†
 क्रतु-स्पृश्^j- -स्पृक् आश्रौ ५,
 १९, ५†
 क्रतु, त्, -दक्ष^k- -क्षाभ्याम् शुभ्रा २,

४७†, -क्षौ शंघ २१०
 √क्रत्, क्रत्यन्ति ऋषा ९, १६†
 क्रत्व(तु-अ)भि-शेर- -ष मीस् ५,
 ३, १६
 क्रत्व(तु-अ)न्त- -न्तम् जैश्रौका
 ३६, -न्ते आमिष्ट ३, ९, ३ =
 २७, बौपि २, ७, २१, मीस् ५,
 ३, २७
 क्रत्व(तु-अ)न्तर- -रे मीस् १०,
 ७, ६९, -रेषु मीस् ६, ३, ५, ११,
 १, ११, १८
 क्रत्वन्तर-वत् मीस् ५, १, ११.
 क्रत्व(तु-अ)न्तराल- -लेषु हिश्रौ
 १७, ३, ३५
 क्रत्व(तु-अ)भाव- -वात् मीस् ६,
 ८, ५.
 क्रत्व(तु-अ)भिधान- -नात् मीस्
 ७, ४, १५
 क्रत्व(तु-अ)र्थ, र्था- -र्थः मीस् ४,
 ३, १८, -र्थम् काश्रौ ७, २, ५,
 मीस् १०, २, ४८, -र्थायाम्
 मीस् ११, ४, ११, -र्थे मीस् १०,
 ३, ६९
 क्रत्वर्थ-त्व- -त्वात् मीस् ८ १,
 २५, १०, ३, ७१
 क्रत्वर्थ-पुरुषार्थ- -र्थयो मीस्
 ४, १, १
 †क्रत्वा(तु-आ)दि^h- -दौ आपश्रौ
 २४, ४, १०, बौश्रौ २, १ : १
 †क्रत्वा(तु आ)दि^h- -दयः पा ६,
 २, ११८
 क्रत्वा(तु-आ)द्वृत्ति- -तिषु कप्र १,
 ८, २४ⁱ, ९, ९^j
 क्रत्वि(तु-इ)ष्टका- -का बौश्रौ १९,
 ३ : ३६

a) = क्रतुकरण-। कास. उप √कृ + भवि. प्र उसं (पाउ २, १०२)। b) पाभे. पृ ९३७ ४ द्र.।
 c) विप.। वस.। d) षक्त्रः इति जीसं ?। e) भे इति जीसं.। f) वैप १ द्र। g) तस्संयो इति जीसं.।
 h) षस.। i) सोमा इति BI.। j) कृत्वा इति BI.।

ऋत्वे (तु-ए) कव- -त्वे मीसू ५, १,
४, ६
ऋत्वास्थिर^० -र. वाधूश्रौ ३, ८८
४
√ऋथु^० पाधा भ्वा पर हिंसायाम्,
क्राथयेत् भाशि ५६१
ऋथ- पा ६, १, २१६
√ऋद्, न्द् पाधा भ्वा पर आह्वाने
रोदने च, आत्म वैक्लव्ये, ऋन्दति
वृदे २, ५६, या २, २७, ऋक-
न्दत् आश्रौ ३, १३, १२, काश्रौ,
ऋकन्द आश्रौ १०, ८, ५,
शाश्रौ, ऋन्देत् आपश्रौ १९, २५,
२२, हिश्रौ २२, ६, ४
ऋकान्^० निसू ३, १० २०,
गौपि २, ४, ८, जैग २, १ : ३५,
८ १५, सात्र १, ५२९, २,
६०३, या १४, १६०
अकन्दयत् अत्र ८, ९१
ऋचिकदत् काश्रौ २६, ७, १२,
वैश्रौ, अत्र ३, ३^०
कनिकृद्- (<ऋकदत्-)> ऋद-
आदि- -दिना वैगृ ३, २४, १०,
२२. ५
ऋनिकृदत्^० -दत् आपश्रौ ८, १,
४, १६, ३, १२, बौश्रौ, या ९,
४०, पा ७, ४, ६५
ऋकन्द^० -न्द अप ४८, १०५,
-न्दाय अत्र ११, २
ऋन्द-व (त् >) ती^१ - तीम्
माश्रौ ६, १, ४, ११, -त्या माश्रौ

६, १, ४, ३०
ऋन्दत्- -न्दति शागृ ४, ७, ३७^६,
-न्दन् वृदे २, ५७, -न्दन्तम्
वृदे ६, १२
ऋन्दती- -त्याम् कौगृ ३, ९,
३२^६
ऋन्दस्^० -न्दसी तैप्रा ४, २०^१
ऋधिष्टा^१ -ष्टानाम् चात्र १६. ७
ऋकन्द^१ -न्दा. अप १, ७, १०
√ऋप्^१ पाधा भ्वा आत्म कृपाया
गतौ
√ऋम्^१ पाधा भ्वा पर पादविक्षेपे,
ऋमते शाश्रौ ४, ११, ६, काश्रौ,
ऋमति आपश्रौ ४, १४, ६××,
या २, २७, ऋमत् ऋप्रा ६,
१५, ऋमन्ति वाश्रौ ३, २, १,
२४, ऋमताम् बौश्रौ २०, ५.
३१^१, ऋमस्व बौश्रौ २६, १२
१४^२, ऋमध्वम् काश्रौ १८,
४, १, बौश्रौ, ऋमत् बौश्रौ २०,
५ ३०, ऋमेरन् बौश्रौ २६,
१२ १३^२
ऋकस्त^१ आपश्रौ १, १७, ८,
भाश्रौ १, १९, ७, वैश्रौ ४, ४ ४,
हिश्रौ १, ५, १०, अकमीत् वैश्रौ
२१, ८ २, अकमिष्यत् निसू
८, ११. २५
ऋमयति हिश्रौ १६, १, ८, ३८,
हिगृ १, २०, ९^३, ऋमयन्ति ऋप्रा
१४, ५०, ऋमयेत् उस् ४, १५,
७, १६, ८, ७, ३२

चङ्कम्यते वाधूश्रौ २, १३ ३०
वैश्रौ, चङ्कम्येत माश्रौ ३, २,
१३, वाधूश्रौ
ऋम^१ - पाग ४, २, ६०^०, ६१, -म
काश्रौ १, ५, १७, ऋमापश्रौ,
-मम् जैश्रौका १७१, आमिगृ,
-मस्य ऋप्रा ११, ६३, कौशि
५५, -माः माश्रौ ६, १, ४,
२३, -माणाम् वाश्रौ २, १, ३,
१०, -मात् काश्रौ १, ५, ६,
वैश्रौ, -मान् बौश्रौ १४, २० :
२७, माश्रौ, -मे निसू २, १३ :
७××, ऋप्रा, -मेण आपश्रौ १३,
१८, ९^१, ऋबौश्रौ, -मेषु ऋप्रा
११, २४, ५८, -मै ऋमापश्रौ
२०, १६, १५××, बौश्रौ
ऋमिक- पा ४, २, ६०
ऋमक- पा ४, २, ६१
ऋमकाल- -ले उस् ८, २७,
३०, शैशि १५१
ऋमकाल-संयु(क्त>)का-
-का मीसू ५, १, २०
ऋमकोप- -प मीसू ५, ४,
१^०, ११, १, ५४
ऋमज- -ज नाशि २, २, १५;
-जम् शुप्रा १, १०४.
ऋमज(टा>)ट^१ -टः, ऋम-
दण्ड^१ -ण्डः चव्यू १५
ऋमपद^१ -द. चव्यू १ : ५;
-दम् शौच ४, ११०.
ऋमपार^१ -रः चव्यू १ ५,

- a) व्यप । व्यु ? । b) पा २, ३, ५६ परामृष्टः द्र । c) पामे वैप १, ११७८ d द्र । d) पामे.
वैप १, ११७८ f द्र । e) वैप १ द्र । f) विप (ऋच्-) । g) परस्परं पामे । h) पाठ ? कृधु->ऋधिष्टा-
इति संभाव्येत । १) = देश-विशेष- ? । व्यु ? । j) √ऋप् इति च √ऋप् इति च [पक्षे] BPG. । k) या ४,
२७, ६, १२ पा १, ३, ३८, ४३, ३, १, ७०, २, ६७, १५०, ४, ६५, ६, ४, १८, ७, २, ३६, ३, ७६ पावा १, १, ६३, ७, २, ३६
परामृष्ट. द्र । l) पामे वैप १, ११७९ g द्र । m) सप्र ऋमयति <> प्रकमयति इति पामे । n) माप.,
नाप (ऋम-पाट- [पाग. ऋप्रा याशि प्रभृ]) । वैप १ द्र । o) पद-, ऋम- इति पाका, पदऋम- इति भाष्यम् ।
p) ऋमको य- इति जीसं । q) = संहितापाठ-प्रसारविशेष- । बस. ।

२ १९

क्रम-प्रवक्तृ- -क्ता ऋप्रा ११,
६५.

क्रम-योग- -गात् काश्रौ १६,
६,२५

क्रम-वत् शौच ४,१२३.

क्रम-वात्सप्र^१- -प्रम् माश्रौ ६,
१, ४, ४०, -प्रे वाश्रौ २, १,
४,४,

क्रम-विक्रम-सत्कृता- -त. विध
१,५

क्रम विक्रम-संप(न्न>)न्ना-
-न्नाम् तैप्रा २३, २४, कौशि
६७

क्रम-वियु (क्क>)क्ता- -क्ता
नाशि २,६,६

क्रम-शास् () वैश्रौ १२, १ : १८,
शध २८, १५८, बौध ४, ५,
६, उनिसू ३ ६

क्रम-शास्त्र- -स्त्रम् ऋप्रा ११,
६४

क्रम-संयोग- -गात् मीसू २, ४,
३१, -गे अप्रा ३, २, ८

क्रम-संधि-समाकीर्ण- -र्ण.
याशि १, ३१

क्रमा(म-आ)गत- -तम् विध
५८, ९

क्रमा(म-आ)ध्ययन- -नम् शौच
४, १०८

क्रमा(म-आ)र्थ- -र्थम् कागृउ
४१. २३

क्रमा(म-आ)वसान- -नम् शुप्रा
४, ११७

क्रमा(म-आ)हित^१- -त दवि
१, ३

क्रमे(म-इ)तर-(> क्रामेतरिक-
पा) पाग ४, २, ६०.

क्रमो(म-उक्त>)क्ता- -क्ता शुप्रा
४, २१

क्रमो(म-उ)दित^१- -तौ भाशि
६४

क्रमण^१- -ण या १०, २२, -णम्
वाश्रौ २, १, ३, २०, ऋप्रा १४,
५८, शैशि ९५, -णे पा ३, १,
१४

क्रमणीय- -यम् काशु ७, ११

क्रममाण- -णाय आपश्रौ ५, २४,
४†

क्रममाण-धा^१- -धाः या ६,
२०.

क्रमयत्- -यन्त ऋप्रा १४, ४१

क्रमित्वा बौश्रौ १, ५. ११, २२,
४ १४, १८, २६, २८ : ४

क्रान्त- -न्तम् बौश्रौ १०, ५६.
१०, ११, ७ : २५, १२, १२ :

६, वाश्रौ, -न्तान् अप ४७, १,
६, -न्तानि या १०, २६, १४,
१९

क्रान्त-क- -कानि या ५, ११

क्रान्त-दर्शन^१- -न या १२, १३

क्रान्ता(न्त-आ)द्य (दि-अ)र्थ-
-र्थे पावा २, २, १८

क्रान्तु- पाउ ५, ४३

क्रान्त्वा या २, १५^३

क्रामत्- -मत्सु वाधृश्रौ ४, १०८ ५

चङ्क्रमा- -मया कौसू ३१, १८^१

चङ्क्रम्यमाण- -ण जैगृ २, ८ :
१५

†क्रमंतरिक्षक्रम^१- -मस्य चाअ ४२ :
११.

क्रमुक^१- पाउमो २, २, २५, -क
हिश्रौ १५, ६, १०, -कम् हिश्रौ
११, ३, ५

क्रमुक-ताम्बूल-शाक-काष्ठा (ष्ठ-आ)
दि- -क्रयविक्रयिन्- -यी वैध
३, १३, ५

क्रमेलक- पाउमो २, २, ३३

क्रय-, क्रयण- प्रसृ √की द्र

†क्रयी^१ आपश्रौ १८, १३, २२, बौश्रौ
१२, ११ : १४, हिश्रौ १३, ५,
३७, तैप्रा ३, १३

क्रय्य- √की द्र

†क्रविशः^१ कौसू ११७, २

क्रविस्^१- -विषा कौसू ११२, १†

१क्रव्य^१- -व्यम् या ६, ११†, -व्ये या
६, १२, -व्येण शाश्रौ ३, ४, ६.

क्रव्य-वाहन^१- -न आश्रौ २, १९,
२९†

क्रव्या(व्य-अ)मि-> †मि-व्याल-
रु(प>)पा^१- -पा अप ५८^२,
४, ११

क्रव्या(व्य-अ)दू^१- पा ३, २, ६९,
-†व्यात् बौश्रौ २, १० ८,

आमिगृ, -†व्याद् शाश्रौ ४,
१९, ८, आमिगृ १, ५, ३ :
५, कागृ ४५, ७^१, हिगृ १, १९,
७, कौसू ७१, ६, आपध १, १७,
३४^०, ३८, हिध १, ५, ७०,
-†व्यादम् काश्रौ २१, ४, २७,

a) = सूक्त-विशेष- । पूष. = विष्णु-क्रम- । b) विप । बस । c) उप <√वद् । d) भावे

करणाधिकरणे च ल्युट् प्र. । e) = किये-धा- । उस. । f) पाठ १ ० मृत्तिकया इति सा (शौ L भू ६, ८३ ।) ।

g) व्यप । प्राति व्यु च १ । h) = पूग-, काष्ठ-शकल- । व्यु ? < √क्रम इति अभा प्रश्न । ४) वैप १,

११८० c, d द्र । j) स्वरूप प्राति. च १ । k) वैप १ द्र. । l) पाभे. वैप १, ११०३ ऽ द्र । m) विप ।

द्रस. > बस. । n) सप्र. शौ १२, २, २० मागृ २, १, १० विशिष्ट- पाभे । o) सपा क्रव्यादः <> क्रव्यादाः इति पाभे ।

आपश्रौ, -व्यादि कौस् ७१, ३,
-†व्यादे गौपि १,५, २०, या
६,११, -व्याङ्गिः अप ६१,१,
११, विध २३,५०
क्रव्याद^३-दा कौस् ८२,२१,-दा
अप ६४,७,९, बौध १,५,१२८,
विध ४४,१०, हिध १,५,६५^b,
-दात् अशा १५,२, -दान् शंघ
११६ २४, -दानाम् अप ७१,
१५, ९, -दै अप ६४, ७, १,
६८,२,३९, ७०^३, १४, २, विध
४३,३४
क्रव्याद-मृग-पक्षि-मासा (स—
अ)शान- -ने विध ५१,२८
क्रव्याद-मृग-वध- -धे विध
५०,४०
क्रव्या(व्य-अ)दस^०-दसाम् आपध
१,२१,१५, हिध १,६,४५
क्रव्ये-ग्रहण- -गम् पावा ३,२,६९
२†क्रव्य^d-व्या बौश्रौ १०, ५०
२२, आपम २,१७,२५
क्राण- ✓कृ द्र
क्रान्त- प्रभृ ✓कम् द्र
क्रिमि^d- पाउ ४, १२२, -मय
आपश्रौ ९, २०, २, बौश्रौ ९,
१८ : २०, अत्र २, ३१†, या
६, ४, -†मिः गोग ४,९,१८^०,
बौध १,५,१२३, २,१,५२, या
६,१२४^० -मीणाम् वैगृ ३,७
२२, अत्र ५, २३†, -मीन्
आपश्रौ १५, १९, ५, भाश्रौ
११, २०, १, -†मे^० आपश्रौ

१५, १९, ५, बौश्रौ ९,१८
२०, भाश्रौ ११,२०,१
क्रिमि-जम्भन- नाय अत्र ५,२३
क्रिमि-ण,णा^३- -ण आपश्रौ ९,
२०, २^४, वैश्रौ २०,३९ ४,
-णा आपश्रौ १५,१९,५, भाश्रौ
११,२०,१^१^२
क्रिमि-दष्ट- -ष्टः बौध १,५,१२३
क्रिमि-मत्- -मन्तम् गोग ४, ९,
१८, द्रागृ ४,४,३
क्रिमि-लेप-वर्ज^१- -जान् वैश्रौ १,
७ ११
क्रिय- पाउमो २,३,१२.
क्रियमाण-, क्रिया- प्रभृ ✓कृ द्र
†क्रिवि^d-वि अप ४८,७७, निघ ३,
२३, -विम् शाश्रौ १८,१३,५,
ऋप्रा ८,३२
†क्रिविस्^d->क्रिविर्-द(त् >)ती-
-ती निघ ४,३, या ६,३०
✓क्री^१ पावा क्रया उभ द्रव्यविनि-
मये, क्रीणति काश्रौ १५,९,२३,
आपश्रौ, क्रीणन्ति आश्रौ ४, ४,
१, १२,४,३, शाश्रौ, क्रीणामि
काश्रौ ७, ८,११, †आपश्रौ १०,
२५, ४^६, ११, †बौश्रौ^६ ६,
१५ १, २,५, †भाश्रौ^६ १०,
१६, १६, १७,१, †वैश्रौ^६ १२,
१८ ८,१४, †हिश्रौ^६ ७,२, ६०,
६५×५, †क्रीणीहि काश्रौ ७,
८,५, भाश्रौ २,१,४,८, क्रीणानि
काश्रौ ७, ८, ४, ६†, आपश्रौ,
भाश्रौ २, १,४,८†^६, अक्रीणन्

लाश्रौ ८, ४, ८, क्रीणीयात्
आपश्रौ १०, २०, १२†×५,
बौश्रौ, क्रीणीयुः आपश्रौ ११,४,
१०, लाश्रौ ८,२,१६, १०,११,
७
चिक्राय वाध १७, ३२†,
†क्रेव्यामः आपश्रौ १०,२५,१,
भाश्रौ
क्रय- -य काश्रौ ७, १,२५, बौश्रौ;
-यम् आपश्रौ १८, २०, १७,
वाश्रौ, -यस्य बौश्रौ ६, १०
१, १०, १९ १, मीसू ६, १,
१६, -यात् काश्रौ ७, २, २,
११, १, ३, आपश्रौ, -ये माश्रौ
२, ३, ३, ४, हिश्रौ, -येण विध
२४,२४
क्रय-क्री(त>)ता- -ता काध
२८२ : १
क्रय-धर्म- -र्म आपध २,१३,
१०, हिध २, ३,१०
क्रय-परिक्रय-स्स्कार- -रेपु
आपश्रौ २४,२,८
क्रय-प्रतिकर्ष- -र्षात् मीसू ११,
२,५५
क्रय-प्रभृति- -ति लाश्रौ ८, ४,
४,१२
क्रय-वत् आपश्रौ १२,९,३, वैश्रौ
१५,११ ६
क्रय-विक्रय- -यम् आज्यो ५,
८, -याभ्याम् मीसू ६, १,११,
-यौ आज्यो ८,७
क्रयविक्रयिक- पा ४,४,१३.

a) विप, नाप । उस उप अजन्तम् (तु अजाद- [वैप ३]) वा अणन्तं वा १ । कैयट-नागेशौ अदन्त
प्राति नाद्रियेते । यत् पकमास-वाचिनः क्रव्य-शब्दाद् उपपदाद् धा अण् प्र इति केषाञ्चिदभिमत तदबोधान्चिन्त्यम्
(तु नागेश) । b) पाभे पृ ९४० ङ टि द्र । c) विप । बस उय भाप । d) वैप १ द्र । e) पाभे.
वैप १, ११८१ a द्र । f) मत्वर्थे नः प्र उसं (पा ५, २, १००) । g) क्रिष्णः इति पाठः ? यदि शोधः ।
h) मीणा इति पाठः ? यदि शोधः (तु आपश्रौ) । i) विप । द्रस >उस । j) पा ३, १, ८१ पावा १, १, ३९
परामृष्टं द्र । k) पाभे वैप १, ११८१ k द्र ।

३, २१, -ने बौश्रौ २१, ६ १८.
 क्रीडिन-प्रमृति- -ति
 वाश्रौ १, ७, ४, ७८^b
 क्रीडिन^c -नस्य माश्रौ ५, १, ४, ७
 √कुञ्च् पाधा भ्वा पर कौटिल्याल्पी-
 भात्रयो
 कुञ्च्^d - पा ३, २, ५९, ६, १, १८२,
 पाग ४, १, ४, ५, ४, ३८, कुङ्
 भाशि १६
 कुञ्चा^e - पा ४, १, ४, पाग
 ४, १, ११२^f, २, ९१, ६, ४,
 १५३, ८, २, ९, पावा ८, २, २२
 कुञ्चकीय- पा ४, २,
 ९१
 क्रीञ्चक- पा ६,
 ४, १५३
 क्रीञ्च^g - पा ४, १,
 ११२
 क्रीञ्चा(ञ-आ)-
 द्विरस- -सस्य चाञ्च ३८ ११२^h
 कुञ्चा-मत्- पा ८, २, ९
 २क्रीञ्चⁱ - पा ५, ४, ३८, -ञ्च
 विध ४४, २८, नाशि १,
 ५, ३, -ञ्चम् आपश्रौ २४,
 १४, ५१, हिश्रौ २१, १, १०, २,
 ४४^j, विध ५०, ३९, -ञ्चा
 याशि १, ८.
 क्रीञ्च-नकुल-प्रियवृक्ष-चैत्य-
 -स्यानाम् अप १, ३२, ४
 क्रीञ्च-नाद्- -द् माशि १, ९.
 कुञ्च^k -> ३क्रीञ्च^l -ञ्चम् द्राश्रौ ८,
 ३, ११, लाश्रौ ४, ७, १, लुसू १, ५
 २०, ३, २ १७, १० २२, -ञ्चस्य

लाश्रौ ६, ११, ३, क्षुसू २, ६ :
 १८, २४, ३, १० २४, -ञ्चे
 लाश्रौ ७, ८, ८, लुसू ३, ८ ७
 कुञ्च-क्रीञ्च-वाघ्राणस-लक्ष्मण-
 वर्जम् आपध १, १७, ३६, हिध
 १, ५, ६७
 √कुङ्^m पाधा तुदा पर निमज्जने.
 √कुध्ⁿ पाधा दिवा पर क्रोधे,
 कुध्यन्ति अप ६८, १, २४, अकु-
 ध्यन् या ४, २५, कुध्येत् वैश्रौ
 १२, ११ २, बौध १, ७, ३०
 कुध वाधूश्रौ ४, ३७ : १०, वुदे
 ५, ७८
 क्रोधयन्ति अत्र ४, ३६^o,
 क्रोधयेत् आपध २, १८, ३,
 हिध २, ५, ५५
 ऋकुधम् या ६, २४, नाशि २,
 ३, ११
 कुङ् -ङ् आश्रौ २, १०, १६^p,
 आपश्रौ ५, २७, १२^q, भाश्रौ,
 -ङ्म् आपध २३, २, हिगृ १,
 १५, ३, -ङ्स्य विध ७१, २२,
 -ङ्गा वैताश्रौ ५, १३^r, सु २,
 ४, कौसू ७०, ६^s, अप ६८, १,
 २४, ऋञ्च २, १०, ५६, अत्र
 १२, २^t.
 कुङ्-हृष्ट-भीता(त-आ) त्त-लुब्ध-
 बाल स्थविर-मूढ-मत्तो(त-उ)
 न्मत्त-वाक्य- -क्यानि गौध ५,
 २५
 कुङ्गा(ङ-अ)शानि-मुख- -खम्
 अप ४०, २, २
 कुङ्गा काश्रौ ७, ५, १

कुध्यति- > °ति-कर्मन्- -र्माण.
 निघ २, १२, या ३, ९
 क्रोध- -ध आपध १, २३, ५, विध
 ३३, ६, हिध १, ६, १३, अत्र ९,
 ७^u, -धम् आश्रौ १२, ८, ८,
 द्राश्रौ ७, ३, ८, आपमं २, २२,
 २^v, पागृ ३, १३, ५, हिगृ १,
 १५, ३^w, शध २५८, आपध २,
 १८, ३, हिध २, ५, ५५, -ः^xस्य
 पागृ ३, १३, ५^y, अप ४८, १८,
 निघ २, १३, -धात् सु १०, १,
 अप १९^z, ५, ६, ५२, १२, ५,
 वुदे ५, १६, -धाय आगिगृ १,
 २, २ २४; हिगृ २, १९, ६,
 -धे वैताश्रौ १२, १३^{aa}, अप
 ४८, १८^{ab}, -धेन सु २३, ६
 क्रोध-कर्मन्- -र्माण याः १०, २९
 क्रोध-तस् () बौध ४ ५, ४
 क्रोध-नामन्- -मानि निघ २,
 १३, या ३, ९
 क्रोध-लोभ मान-भय-दोषो-
 (ष-उ)पहत- -ता शध २५१-
 क्रोध-वश- -शो बौध २, ८, १५-
 क्रोध-विनयन- -नम् हिगृ १,
 १५, २
 क्रोध-विवर्जित- -ते विध ९९
 २०
 क्रोध-संभव- -वे कप्र १, २, १४-
 क्रोधा(ध-आ)दि- -दीन् आपध
 १, ३१, २३, हिध १, ८, ४२.
 क्रोधा(ध-अ)नृत्- -ते द्राश्रौ ७,
 ३, २४, लाश्रौ ३, ३, २५, गोपृ
 ३, १, १४

a) °नीयाय इति पाठः^१ यनि शोधः । b) °डिनि इति पाठः^२ यनि. शोधः । c) साऽस्यदेवतीय अच् प्र उरसं । d) वैप इ द्र । e) < कुञ्च- इति [पक्षे] पाम ४, १, १ । f) तु. प गम । g) व्यप. । h) °ञ्चा अ° इति पाठः^३ यनि शोध । i) < कुञ्च- इति भाण्डा । j) नाप. (कुञ्च्) व्यप च । k) = साम-विशेष- । l) √कुङ् इति BPG । m) पा १, ४, ३७; ३८ परामृष्टः द्र । n) पाभे वैर २, ३४, ३ खं शूरः तैत्रा २, ५, ३, १ टि द्र । o) रुपा आपमं २, २२, १ मृधस्य इति, हिगृ १, १५, ३ मृद्धस्य इति च पाभे ।

क्रोधन- पा ३,२,१५१
 क्रमुक^a- कः आपश्रौ १४, २४, ५,
 -कम् आपश्रौ १६,९, ६, बौश्रौ
 १०, १२:७, १३ २१, १४,
 २८ १२, माश्रौ ६, १, ३, २८,
 वाश्रौ २, १, २, २२, वैश्रौ १८,
 ६ ८^b, भाशि १७
 क्रमुक शकल- लम् बौश्रौ १४,
 २८ १३
 √क्रुश (बघा)^c पाघा. म्वा. पर
 आह्वाने रोदने च, क्रोशन्ति
 अप ७२, ४, ४, क्रोशतु कौसू
 ५८, ११, क्रोशेत् लाश्रौ ९, ८,
 १५, माग १, ३, ४
 अक्रुशत् भाशि १७
 कुश्वन्- पाउ ४, ११४
 क्रुष्ट^d- ष्टः वृदे ८, ११२, ११६,
 नाशि १, १, १२, ७, ३, १३,
 -ष्टम् वृदे ८, ११४, माशि २,
 १, -ष्टस्य नाशि १, ७, १, -ष्टे
 नाशि १७, १०, -ष्टेन आपश्रौ
 २४, १, १४, नाशि १, ७, ६
 क्रुष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-
 मन्द्रा(न्द्र-अ)तिस्वार्थ- -र्याः
 तैप्रा २३, १४
 १क्रोश^e- -शम् लाश्रौ ७, १, १,
 निस् ८, १० ३३
 क्रोशा(श-अ)नुक्रोश- -शे
 आपश्रौ १४, २०, १, हिश्रौ १५,
 ५, २१
 क्रोशत्- -शन्तम् कौसू ५८, १
 क्रोशन्^f- -नास वृदे ७, २६
 क्रोष्टु^g- पाउ १, ६९, पाग ४, १,

४१, ९९, -ष्टु पा ७, १, ९५
 क्रौष्टवायन- पा ४, १, ९९^h
 क्रोष्टु-कर्णⁱ-(> क्रौष्टुकर्ण-
 पा) पाग ४, ३, ९३
 क्रोष्टु-पाठ- पाग २, ४, ६३^j
 क्रोष्टु-मा(या>)य- पाग २, ४,
 ६३^k
 क्रोष्टु^l- -ष्टे अत्र ११, २
 क्रोष्टी- पा ४, १, ४१
 क्रूर^m- पाउ २, २१, -फ्र वैश्रौ १८,
 १४ २, बौग, -रम् काश्रौ ६,
 ६, ५, आपश्रौ, आपमं १, १७,
 ९, या ६, २२, -फ्रस्य
 काश्रौ २, ६, २४, बौश्रौ, -रा
 अप ३३, ७, ५, ६८, १, ४, ४०,
 वृदे ३, १३२, -राणि बौश्रौ ९,
 १८. ७, निस्, -फ्रे आपश्रौ
 १६, १५, ९, बौश्रौ १०, २२ :
 १५, हिश्रौ ११, ६, ७ -फ्रेण
 आपश्रौ १४, १४, १, बौश्रौ १४,
 १८ १४
 क्रूर-कर्मन्- -र्मा शंघ ३७७ : ६
 क्रूर-कृत्- -कृताम् बौश्रौ १४, २७
 २, वैश्रौ २१, ७ १०
 क्रूर-चर्मन्- -र्मणा बौश्रौ १६, २०
 १०
 क्रूर-र(क्षस् >)क्षो-भूत-गण-
 -गा आमिष्ट २, ५, ११ २३
 क्रूर-णि, निश्चन- -नम् निस् ७,
 ११. ६, १२ : १०
 क्रूरा(र-अ)पहनन- -नाय बौश्रौ
 २०, २ १८
 क्रोणि- पाउ ४, ४८

क्रेत्-, क्रेय-, क्रेव्यत्- √की द्र
 क्रैडिन- √कीड् द्र
 १क्रोडⁿ- पाउमो २, २, ११९, पाग
 ४, १, ४५, ५६, -ड अत्र ९,
 ७, -डम् काश्रौ ६, ७, ६, ८,
 १२, बौश्रौ १५, ३० २१, कप्र
 ३, १०, ४, -डस्य वाश्रौ १, ६,
 ७, १, वाधुश्रौ ३, ९७ १, -डात्
 आपश्रौ २०, १८, ७, बौश्रौ
 १५, ५ : १४, २४ १९, २१,
 ३० १३, १६, २३, माश्रौ १,
 ८, ५, १८, -डेभ्यः बौश्रौ १५,
 २४ ११, -डौ अत्र १०,
 १०
 क्रोडी- पा ४, १, ४५
 क्रोड-लोमन्- -मानि कौसू २६, २१
 २क्रोड^o-> क्रौडायाण- -णा बौश्रौ प्र
 १७ ११
 क्रौडि- (> क्रौड्या- पा) पाग ४,
 १, ८०
 क्रोथुनि^p- -नि बौश्रौ १६, २७
 २२
 क्रोध-, प्रसृ √कुष् द्र
 क्रोधा^q- -घा वृदे ५, १४४
 १क्रोश- √कुष् द्र
 २क्रोश^r- -श. आपध २, २६, ७, हिघ
 २, ५, २०२, -शम् बौश्रौ १८,
 २०:२०, -शात् अप १, २७-३०,
 ४^२, वैध ३, ७, ५, -शानि हिश्रौ
 १७, १, ३६, -शे आपश्रौ २२,
 २, २०, हिश्रौ १७, २, १७
 क्रोश-प्रत्ययाय- -येनऽ-येन काश्रौ
 २२, ३, ३३

a) = क्रमुक- । b) क्रौमु इति षसस्मर्ता । c) या २, २५, ९, १९ परामृष्ट द्र । d) = स्वर-विशेष- ।
 e) = साम-विशेष- । वैप १ द्र । f) वैप १ द्र । g) = शृगाल- । h) व्यप । ष्टु-(> क्रौष्टु) इति पागम ।
 i) = देश-विशेष- । ष्टुकर्णक- इति भोजमते, ष्टुकशब्द- इति वामनमते इति पागम । j) क्रोष्टुमान- इति केचित्
 इति पागम । k) तु पागम । l) पाप्र < क्रोष्टु- । m) पाभे वैप १, १४९७ । द्र । n) = ऋषि-विशेष- ।
 व्यु. १ । o) = दक्ष-सुता- । व्यु. १ । p) = अश्वपरिमाण-विशेष- । व्यु. १ ।

क्रोश-शत-> क्रौशशतिक- पावा
५,१,७४
क्रोशत्- , शन ✓ कुश् द्र
क्रोष्ट^३- छा बौश्रौप्र ४१: ६
क्रोष्टु- ✓ कुश् द्र
क्रोष्टुकि^३- -कि अप ५०, ४, ५,
-के: अप ६८, १, २, २, ८,
३९
क्रोष्टु- , क्रोष्टी- ✓ कुश् द्र
१-३ क्रौञ्च- ✓ कुञ्च द्र
४ क्रौञ्च^०-> क्रौञ्च-द्वीप- -पम् शध
११६ ४
क्रौञ्चायन- -ना. बौश्रौप्र ४ ३
क्रौञ्चोक्थ^३- -क्या: बौश्रौप्र ४६ २
क्रौडायण- , क्रौडि- , ंड्या- २ क्रोड-
द्र
क्रौडिल्य^३- -ल्या बौश्रौप्र १७ १२
क्रौष्टवायन- , क्रौष्टुककर्ण- ✓ कुश् द्र
१ क्रौष्टुकि^३- -क्य बौश्रौप्र १९ २,
-कि वृदे ४, १३७, या ८, २,
-के पि ३, २९
२ क्रौष्टुकि^३- (> ंकीय- पा) पाग
५, ३, ११६
क्रौष्ट्रायण^३- (> ंणक^३- पा) पाग
४, २, ८०
✓ कृत् पाधा भ्वा पर हिंसायाम्
✓ कृद् पाधा भ्वा आत्म वैक्लव्ये
कृदथु^३- -थु बौश्रौ २, ५ १११
✓ कृन्द पाधा भ्वा पर आह्वाने
रोदने च, आत्म वैक्लव्ये
कृ(न्द>)न्दा^३- -न्दा अत्र २, २१
✓ कृप् पाधा. चुरा पर व्यक्ताया वाचि

✓ कृम्^३ पाधा दिवा पर ग्लानौ,
हामयन्ति अप ६८, १, १९
कृमिन् पा ३, २, १४१
कृन्त- -न्तम् वाध ६, ३०
✓ कृिद् पाधा दिवा. पर आर्द्रभावे,
कृदयन्ति विध २०, ५१
कृिन्न, च्वा- -न्नम् आपश्रौ ५, २५, ७,
भाश्रौ ५, १६, २०, माश्रौ १, ५,
६, १६, वैश्रौ १, १८ ४, हिश्रौ
६, ५, २७, बौध १, ७, २०,
-न्नस्य पावा ५, २, ३३, -च्वा
अप २२, ३, २, ३, २३, ३, ५,
-न्नाया बौध १, ६, १८, -न्न
बौध ३, ५, २
कृिन्न-काष्ठा(ष्ठ-अ)भ्याधान-
-नम् वाश्रौ १, ४, ३, ४२
कृिन्न-वासस्- -सा बौध ४,
२, ८
कृेद- -द बौश्रौ २, ५ १३१
कृेद-वत्- -वताम् अप ६५,
२, ४
कृेदयिस्वा आपश्रौ १०, २६, १४,
हिश्रौ ७, २, ७८, भाग १, २५
१७.
✓ कृिन्द पाधा भ्वा परिदेवने
✓ कृिश पाधा दिवा आत्म उपतापे,
क्या. पर विबाधने, कृिशयत् सु
८, २
कृिशित- , ंत-वत्- , ंत्वा पा ७,
२, ५०
कृिशन्त्- -श्नन् वाधुश्रौ ३, ९४:
१६, १९

कृेश- -शम् अप २९, २, ५
कृेश-भाजन- -न आज्यो १३,
५६
कृेशा(श-अ)पह- पा ३, २, ५०;
-हम् आमिष्ट ३, २, १ ४.
कृेशा(श-अ)वह- -हम् हिष्ट २,
१४, ३.
कृेशक- पा ३, २, १४६
कृीतिक, का^३- -कामि.^३ आपश्रौ १५,
३, १६, भाश्रौ ११, ३, ९;
-कै^३ गोष्ट २, १, ९
✓ कृीव^३ पाधा भ्वा आत्म अधाष्टवे.
कृीव^३- -व अत्र ६, १३८;
-व बौश्रौ १२, १० ९×४;
वैश्रौ, -वम् बौश्रौ १२, १०:
१६, १७, ३१: २, अप;
-वस्य बौश्रौ २२, १९. १, शंघ
४३४, -वा: शंघ १३, नाशि
२, ८, २६, -वात् काश्रौ १५, ९,
२३, १९, १, १९, आपश्रौ, -वाय
हिश्रौ १३, ५, २८, -वे अप ३,
२, ५, -वेन हिश्रौ १३, ५, २८.
कृैव्य- -व्यात् बौश्रौ १३,
२६ १२
कृीव-कर्तु-काम- -म: अत्र ६,
१३६.
कृीव-ता- पावा २, ४, १७
कृीव-पद- -दे कौस् ३६, ३६.
कृीव-व्याधित- -तयो: बौध २,
२, १७
✓ कृीबाय पावा ३, १, ११.
कृीबो(ब-उ)न्मत्त- -त्तान् वाध

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु १। b) व्यप। व्यु १। c) = द्वीप-विशेष-। व्यु १। d) = ऋषि-
विशेष-, आचार्य-विशेष-। व्यु १ < क्रोष्टुक- इति MW.। e) तु पासि. पागम.। f) अर्थ- व्यु. च १।
g) = देश-विशेष-। h) वैप १ द्र। i) पा ३, १, ७०, ७, ३, ७४ पराम्ष्ट्र द्र.। j) उत्तरेण
संधिर्षः। k) ंजिन इति पाठ. १ यनि शोव। l) = यष्टि-मधुक- (तु रुद्रदत्तः)। m) विप.
[[उदकक्लिन्न- (= चूर्णित-द्रवीभूत-)] यव-माष- L तु भट्टनारायणः B.W.M.W. च]], नाप. (तन्मिश्रित-जल- [तु. Old.]।
n) < कृीव- इति पावा ३, १, ११।

वैप४-द्वि-२४

१९, ३५, -त्तानाम् वाच १७, ५४
 क्रीबो(ब-उ)न्मत्त-पतित- -ता
 वाच १७, ५३
 ✓क्लु पाधा भ्वा आत्म गतौ
 क्लेद- ✓क्लिद् द्र
 क्लेदन- पाउ १, १५९^२
 क्लेदयित्वा ✓क्लिद् द्र
 क्लेदु- पाउ १, १०
 ✓क्लेब् ✓क्लेव् टि द्र
 ✓क्लेश् पाधा भ्वा आत्म
 अव्यक्ताया वाचि
 क्लेश- प्रमृ, क्लेशक- ✓क्लिश् द्र
 क्लैव्य- ✓क्लीव् द्र
 क्लोक^१ -के बौश्रौ २, ५ : ८
 क्लोमन्^२ - पाउमो २, १, २८५, -म
 अप १, ७, ३, -मा आश्रौ
 १२, ९, १२, विध ९६, ९१,
 -कमानम् आपश्रौ ७, २२, ६,
 २४, १२, भाश्रौ ७, १७, ६, १९,
 ११, वाश्रौ १, ६, ७, १०, वैश्रौ १०,
 १७ : ८, १९ . ६, हिश्रौ ४, ४,
 ५९, आपम २, १४, २, आमिगृ
 २, १, ३ २५, भागृ १, २३
 १८, हिगृ २, ३, ७, -मनः गोगृ
 ४, १, ४, द्रागृ ३, ४, १६
 क्लोम-क्रीहा(ह-अ)ध्युष्नी-पुरीतत्-
 -ततम् काश्रौ ६, ७, ११
 क् किम्- द्र
 ✓क्कण् पाधा भ्वा पर शब्दे,
 क्कणन्ति या ५, १८
 क्कण- पा ३, ३, ६५
 क्कणत्- -गन् अप ४८, १००^१

क्कण- पा ३, ३, ६५
 ✓क्कथ् पाधा भ्वा पर निष्पाके,
 काथयति कौसू २६, २५
 काथ्यन्ते विध ४३, ३८
 कथ- पा ३, १, १४०
 कथत्- -थन् भाशि ५६^१
 कथन- > कथने(न-इ)ष्टका- -का
 बौश्रौ २९, ६ १८, वैश्रौ २१,
 १८ ३
 कथित- -तस्य विव ४६, २३
 काथ- पा ३, १, १४०
 काथयित्वा वाच २७, १२
 कल्^२ -ला आपश्रौ १, १४, १, -लै
 वैश्रौ ३, ८ ८, हिश्रौ १, ३, ५३
 कल्-सक्तु- -क्तुभिः आपश्रौ १९,
 २, १०, बौश्रौ १७, ३४ ६,
 हिश्रौ १३, ८, २३, -क्तून् वैश्रौ
 ११, ४ १
 काङ्स्वितदुर्गतिवचन- किम्- द्र
 कादि- रकु- द्र
 क्कित्^१ पाग १, ४, ५७
 क्कोसन^२ अप ४८, ९७^१
 ✓क्कशा, अक्शत्^१ माश्रौ ३, ३, ६,
 ६, १, १, १४
 क्कश- क्षम ऋत ५, ३, ७
 ✓क्कञ्ज पाधा भ्वा आत्म गति-
 दानयो
 ✓क्कण्^३ पाधा तुदा उभ हिंसायाम्,
 क्षणोति या ४, १८, ६, १
 क्षण- पाग ५, २, ३६, -ण आमिगृ
 ३, ३, २ : ९^१, ११, १२^१, १३,
 १४^२, १५^३, १६, बौगृ २, ११,
 १८^१, गौपि २, २, २२, या २,

२५^४, -णम् आमिगृ ३, ३, १ =
 ७, १६, २ ९, बौगृ २, ११, १७;
 -णात् वाच २६, १, ६, २८, १९,
 बौध ४, ६, ५, -णेन सु १५, ५.
 क्षणित- पा ५, २, ३६
 क्षणि^१- -णि या ६, १^२
 क्षणे > णे-पाक- पा, पाग ७, ३,
 ५३
 क्षत- पा ६, ४, ३७, पाग २, ४,
 ३१, -तम् सु ३, २
 क्षत-ज-प्र(भ>)भा- -भा अप
 ५८^२, ४, १४, १५
 क्षत-बद्ध- -द्धानि अप ६२,
 २, ७
 क्कण्वा कर्णवा वाक्श्रौ ३, ३९ ७.
 क्ष(त>)त्ता- -क्षत्- ✓क्कद् द्र
 क्कक्षत्र^२ - पाउ ४, १६७, पाग २, ४,
 ३१, -त्रम् आश्रौ ४, १२, २^१,
 शाश्रौ ३, ७, ४^१, काश्रौ ५, १२,
 १२^१, १७, ११, ११^१, अप
 ४८, ९०^१, कनिघ १, १२^३,
 २, १०^१, -त्रस्य काश्रौ १५,
 ५, १४×४, आपश्रौ, -त्रा वृदे
 ७, ९६^१, -त्राणाम् काश्रौ
 १५, ५, ३२, आपश्रौ, -त्राणि
 आपश्रौ १५, ११, २^३, बौश्रौ ९,
 ११ १^३, भाश्रौ ११, ११, २^३,
 कौसू २, ४१, १३७, ३०^०, अप
 ४६, २, १, या ३, २०, -त्रात्
 आपश्रौ १४, ६, ९, १७, १७, ४^१,
 वाश्रौ ३, २, ६, ३०, हिश्रौ ९,
 ८, २६, -त्राय काश्रौ १७,
 ११, ११, आपश्रौ, -त्रे शाश्रौ

a) <✓क्लिद् । b) नाप.। अर्थ. व्यु च^१ । c) वैप १ द्र । d) तु पागम । तदनु च
 भर्त्सनपादपूरणयो । e) स्वरूपं^२ । =स्तोत्र-विशेष-। ष्ट. इति संस्कर्ता^३ । f) पामे वैप १, ११८५ f द्र ।
 g) = अक्षर- । h) या २, २५, ६, १ पा ७, २, ५ परामृष्टः द्र । i) कर्तरि क्कृ । j) पामे वैप २, ३खं
 क्षत्रम्, मास ११, ४, ३, ७ टि. द्र । k) पामे वैप १, ११८५ l द्र । l) = धन- । m) = उदक- ।
 n) पामे. वैप १, ११८५ k द्र । o) पामे वैप १, ११८६ b द्र ।

छ, १०, ३, काश्रौ, -क्षत्रेण
 आपश्रौ १७, १७, ७, बौश्रौ ८,
 ३ १८, हिश्रौ १२, ५, ३४,
 गौध ११, २९, अन्न २, ६,
 -क्षत्रेभ्य आपश्रौ १६, ३०, १,
 वैश्रौ १८, २० ३४, हिश्रौ ११,
 ८, ४
 १क्षत्र- -त्र वाध १, २९,
 ३४
 क्षत्र-कर्मन्- -र्म वैध ३,
 १२, १२
 क्षत्र-हानि- -ति अप ७०^३,
 ११, २८.
 क्षत्र-धर्म- -र्म. बौध २, २, ७०,
 -र्मम् बौध २, १, १६, -र्मण
 बौध २, २, ६९
 क्षत्रधर्मा(म-अ)नुगत- -तौ
 बौध १, ११, १२
 क्षत्र-वृत्ति- -ति काश्रौ १५, ९,
 १९, वैताश्रौ ३६, १२
 †क्षत्र-पति- -ति काश्रौ ६, १३, १,
 १५, ५, ३२, आपश्रौ १८, १६,
 ६, बौश्रौ १२, ११ ६, हिश्रौ
 १३, ५, ३४
 क्षत्र-प्राय^३- -ये निसू ९, १० ३९
 क्षत्र-बन्धु- -न्धून् वृदे ५, १२६,
 -न्धो विध २७, २६
 †क्षत्र-भृत्^३- -भृत् आश्रौ छ, १,
 २२, १२, २, आमिष्ट २, ३,
 ५. २१, -भृत् आपश्रौ १६,
 ३३, १, वैश्रौ १८, १६ ६१,
 हिश्रौ ११, ८, ११, अप्राय ६,
 २, -०भृत्: बौश्रौ १३, ३८ :
 ९; -भृते शाश्रौ ९, २२, २,
 बौश्रौ २३, ९ : ११, वाधूश्रौ
 छ, १०८. ८

†क्षत्रभृत्-तम- -म. आपश्रौ
 २२, १२, २०, बौश्रौ १८, ७ :
 ७, हिश्रौ १७, ५, २३
 क्षत्र-मार्ग- -र्गेण निसू ७, ५ : ३४
 क्षत्र-वत्- -वते शाश्रौ ९, २२, २,
 बौश्रौ २३, ९. १०, वाधूश्रौ छ,
 १०८ ८, -वान् आश्रौ छ,
 १, २२
 क्षत्र-वध- -ध अप ५०, ७, २
 †क्षत्र-वनि^३- -निम् आपश्रौ ७,
 १०, १२, बौश्रौ छ, ४ ३३, ६,
 २७ ८, भाश्रौ ७, ८, १४,
 माश्रौ १, ८, २, २०, २, २, ३,
 १७, जैश्रौ ६ ११
 क्षत्र-विट्-शूद्र- -द्रेषु विध २२,
 २२
 क्षत्र-विट्-शूद्र-गो-वध- -ध विध
 ३७, १३
 क्षत्र-विद्या- (>क्षत्रविद्य- पा)
 पाग छ, ३, ७३
 क्षत्र-वृत्ति- -त्ति. गौध ७, ६०,
 -त्तिम् वैश्रौ १७, १८ ८, १०,
 लाश्रौ ८, १२, १०
 क्षत्र-वृद्धि- -द्धिम् आपध १, ३, ९,
 हिध १, १, ८१
 क्षत्र-संयमा(म-अ)र्थ- -र्थं निसू
 ७ ६ : २१^२
 क्षत्र-सामन्- -म निसू ५, १
 १९, ८, ७ ३८
 क्षत्रस्य-वृत्ति^३- -ति आश्रौ ९, ३,
 २७, बौश्रौ २६, ३ ११, १७,
 निसू ७, ६ : २०, -तिना शाश्रौ
 १५, १६, ८, ११, बौश्रौ २६,
 २ : २३, लाश्रौ ९, ३, ११,
 -तिम् वाश्रौ ३, ४, ५०, -तौ
 आपश्रौ १८, ८, ४.

क्षत्राणा-वृत्ति^३- -ति आपश्रौ १८,
 २२, १८, हिश्रौ १३, ७, ३४
 क्षत्रा(त्र-आ)यतन- >०नी(य>)
 या^३- -या लाश्रौ ६, ६, ८, १८,
 निसू १, १० २५, -याम् लाश्रौ
 ६, ८, ३
 क्षत्रिन्^३- >०त्रिणी- -णी आज्यो
 १२, १
 क्षत्रिय,या^३- पाग २, १, ५९, -यः
 शाश्रौ १४, २९, २×४, काश्रौ, -यम्
 शाश्रौ १६, १०, ९, काश्रौ, कौसू
 १७, २८^२, †, अप १८^३, १, ४†^३,
 -यस्य आश्रौ छ, १, २३, शाश्रौ,
 -या शंघ ६५^२, गौध छ, १९;
 -या. शाश्रौ १४, ३३, १२, वाश्रौ
 ३, २, ५, ४६, अप ३५, १, ८,
 -याणाम् आपश्रौ २४, १०, ११,
 बौश्रौप्र, -यात् शाश्रौ १५, २०,
 १, बौध, पा छ, १, १६८, पावा
 छ, १, १६६, -†यान् शाश्रौ ९,
 २४, ३, बौश्रौ १३, २१ १२,
 माश्रौ ५, १, ८, १६, हिश्रौ २२,
 ३, २७, †अप ५४, १, ३, ५८^२,
 ४, १५, -याम् वैष्ट ६, १२ : २,
 -याय आश्रौ १५, १६, ७,
 †बौश्रौ, -यायाम् बौध १, ९,
 ६, ७, शघ, -ये शाश्रौ १६, १७,
 २, गौध १२, ८, पागवा छ, १,
 ८०; १५१, १७२, -येण भाश्रौ
 १०, ७, १६, शघ ७५, -येषु
 शाश्रौ १४, ३३, १२, -यौ नास्ति
 १, ४, ३.
 क्षत्रिया,याणी- पावा छ, १,
 ४९.
 क्षत्रिय-कन्या- -न्यया विध २४,
 ६, -न्यायाम् वैध ३, १२, ४

a) विप । बस । b) वैप १ द्र । c) ०त्रियवृत् इति कचित्क. पाभे. । d) = एकवह-विशेष- ।
 e) = विष्टुति-विशेष- । f) = क्षत्रिय- । g) पाभे. वैप १, ११८७ f द्र. ।

क्षत्रिय-ग्रहणा (य-आ) नर्थक्य-
-क्यम् पावा ४, १, १६६
क्षत्रिय-नाशन- -नम् अप ७१,
१६, २
क्षत्रिय-प्रभृति- -तीनाम् आपघ
१, १८, ९, हिघ १, ५, ७८
क्षत्रिय-वत् आपघ २, १०, ७,
हिघ २, ४, ७, पाग १, १, ३७
क्षत्रिय-वध- -धे बौध १, १०,
२१, विघ ५०, १२, -धेन बौध
१, १०, २७
क्षत्रिय-वर्जम् विघ १८, ९
क्षत्रिय-वैश्य- -श्ययो काश्रौ
३, २, ११, ६, १०, वैध १, १, ६,
गौध १, १३, -श्यानाम् बौश्रौप्र
५४ : ३, -श्यौ वैश्रौ १२, १०
११, वैश्र ६, १२. ११, विघ
१८, १९, गौध १२, ११
क्षत्रियवैश्य-वध- -धे सुधप
८५ : १
क्षत्रियवैश्य-गो-श्रौ-ता-
-ता सुधप ८६ १
क्षत्रियवैश्या(श्य-अ)नुलोमा-
(म-अ) नन्तरो(र-उ)पञ्च-
ज^१-ज. शंघ ७६^०
क्षत्रियवैश्यो(श्य-उ)पक्रुष्ट- -ष्टा
आश्रौ २, १, १३
क्षत्रिय-शूद्र- -द्रौ विघ १८, २२
क्षत्रिय-श्रीकाम- -मयो काश्रौ
४, ७, ६
क्षत्रिय-समान-शब्द- -ब्दात्
पावा ४, १, १६६

क्षत्रिया(य-आ)दि- -दीनाम्
बौध १, १०, १९
क्षत्रिया-पुत्र- -त्र विघ १८, ३,
-त्रौ विघ १६, ५
क्षत्रिया(य-आ)र्ष^० पा२, ४, ५८
क्षत्रिया-वैश्या-शूद्रा-पुत्र- -त्रेषु
विघ १८, ११
क्षत्रिया(य-आ)शौच- -चे विघ
२२, ११, १४
क्षत्रियो(य-उ)च्छादक^१- पाग
२, २, ९, ६, २, १५१
क्षत्रियो (य-उ)च्छिष्टा (ष्ट-अ)
शन- -ने शंघ ३९६
रक्षत्र^० (>क्षत्रायण- पा) पाग
४, १, ११०^१
√क्षद्^१> क्ष(त्^१)त्ता- -त्तायाम्
बौध १, ९, ११
क्षत्त-संग्रहीतृ- -तारः बौश्रौ
१५, ३ ३, ५ २६, १८, १८
७, २५, ३४ : १०, -तारौ
बौश्रौ १२, १५ १८, २२, १८ :
६; -तृणाम् बौश्रौ १५, १ १९,
५ : १२, २५ ३, ९, २९ २८,
३० १९, -तृणाम् वाधुश्रौ ३,
७९ ६, ९०. ८, -तृन् वाधुश्रौ
३, ९२ : ५
क्षत्तृ- पाउ २, ९४, पा ६, ४, ११,
पावा ३, २, १३५, -०त्त
वाधुश्रौ ३, ७०. १, ९९ ७,
-त्ता शाश्रौ १६, ९, १६१^१,
आपश्रौ ५, २३, ९१, बौश्रौ १२,
१५ ७, २३, बौध १, ९, ६,

-त्तारम् आपश्रौ १८, १९, ६;
बौश्रौ १२, १५ : ६, हिश्रौ १३,
६, ३१, अत्र ९, ६(५)†, -त्तु-
काश्रौ १५, ३, ९, बौश्रौ १२, ५-
२७, -†तृभ्य बौश्रौ १०, ४८-
६, वैश्रौ १९, ६ ३७
रक्षत्र^१->क्षत्र-संग्रहीतृ-
-तृणाम् काश्रौ २०, १, १६
क्षत्तृ-वैदेहक- -रुयो. बौध १,
९, १०
क्षत्तृ-संग्रहीतृ- -तृभि आपश्रौ
२०, ४, ४, हिश्रौ १४, १, ३८,
-तृणाम् शाश्रौ १६, १, १६१^१,
वाश्रौ ३, ४, १, १७
†क्षत्रन्^१- -अ अप ४८, ७५, निघ
१, १२, २, ७
चक्षदान^१- -नम् या ५, २१†
√क्षप्^१ पाधा चुरा पर क्षान्त्याम्,
उभ प्रेरयो, क्षपेरन् कौस्र १४१, ५,
†क्षप्^१- क्षप अप ४८, ७५^१;
निघ १, १२^१, ऋप्रा १८, ५३
क्षपा मात्र २, ९८१
क्षप- पा ३, १, १३४^१
क्षपग^०- -णम् कौश्र ३, ७, १३;
शाष्ट ४, ५, १७, पाष्ट २, १२, ४,
गौध १८, १५.
क्षपणी^१- -ण्य बौश्रौ १९, १०-
५१
क्षपण-क^१- -कः शघ ३७७
७
†क्षपा^१- पाग ३, ३, १०४^१, -पा
अप ४८, ७४, निघ १, ७, -पाः

a) द्वस > उस । b) विप । षस > षस > सस > उस । c) °मान्तरो^१ इति पाठ^१ यनि. शोध.
(तु भार्घ्य [याज्ञ १, ९५]) । d) तु. पागम । e) व्यप । व्यु ? । f) तु पाका, ३क्षान्त- इति भाण्डा ।
g) वैप १ द्र । h) = क्षत्तृ- (तु काश्रौ २०, १, १६) । i) पाभे वैप २, ३ख क्षत्ता माश १३, ५, ४,
६ टि. द्र । j) समूहार्थे स्त्रार्थे वा अण् प्र (तु क्षत्तृ-संग्रहीतृ-) । k) क्षत्रसं इति पाठ^१ यनि शोधः ।
l) √क्षम् इति पाका ३, १, १३४ । m) = उदक्- । n) क्षम- इति पाका । o) घा. उपरमे वृत्ति. ।
p) = इष्टक-विशेष- । q) = भिन्नु- ।

बौध ४, २५७, -पाणाम् बौश्रौ
१९, ३०९, २०
क्षपा-शय- -य कागृ ५, ७
क्षपा-हास- -सः वेज्यो ८
क्षपे(पा-इ)ष्टका^१- -का बौश्रौ
१९, ३०९, १८

✓क्षम्^२ पाधा भ्रा आत्म, दिवा पर
सहने, क्षमिति पा ७, २, ३४,
क्षमन्ताम् जैश्रौका २१५,
क्षमस्व वृदे ५, ७८, क्षम वैताश्रौ
३७, २, चमेत विध ३, ९३
क्षाम्येत भाग ३, ८ १०
क्षन्तुम् अप ४०, ६, १२
क्षम्^३- क्षमि बौश्रौ १८, ४१०३
क्षम- पावा ३, २, १
क्षम- पा ३, १, १३४, -मम् अप
७०, २, २
क्षमा^४- पाग १, १, ३७, -मा
विध २, १६, -मायाम् पावा १,
३, २१, ३, १, ५
क्षमा(मा-अ)न्वित- -त विध
३, ९६, -ते विध ९९, २०
क्षमा-पर- -रम् सु १६, ३
क्षमा-वच्- -वन्ति अप ५८^२, १,
३, -वान् शध २४४
रक्षमा^५- -मा अप ४८, ७२, निघ
१, १
क्षमा-शय- -यः वाध ९, ६.
क्षम्य^६- आमिगृ १, २, १ ७, २
४२, हिगृ २, १८, ७, २०, ९
१क्षान्त, न्ता- पाग ४, २, ९०^१, ६,
३, ३४, -न्तः अप ३८, १, ३,
वैध ३, ५, ७, -न्तम् वाध ६, ३०.

क्षान्तीय- पा ४, २, ९०
क्षान्ति- -न्ति गौध ८, २१, -न्तिम्
शंघ ११६: ३०, -न्त्या विध
२२, ९०
क्षान्त्या (न्ति-आ) हुति- -तिः
वाध ३०, ८
क्षान्तु- पाउ ५, ४३
क्षामन्^७- -मन् भाशि २१, -मा
आपम २, ११, २४, ऋप्रा ७, ३३,
शुप्रा ३, १२९^२, तैप्रा ३, १०

क्षय- ✓क्षि द्र
रक्षय- ✓क्षि(निवासगत्यो) द्र
रेक्षय- ✓क्षि (ऐश्वर्ये) द्र
क्षयण- क्षि (निवासगत्यो) द्र
क्षयत्- प्रसृ ✓क्षि (ऐश्वर्ये) द्र
क्षयि- पाउभो २, १, २२३
क्षयिन्- ✓क्षि द्र
रक्षयिन्- ✓क्षि (निवासग^०) द्र
क्षय्य- ✓क्षि (क्षये) द्र
✓क्षर्^८ पाधा भ्रा पर संचलने, क्षरति
बौश्रौ १७, ३६: १०, वृदे २, ५८,
या ५, ३, ११, ४१^१, १३, १२,
क्षरिति पा ७, २, ३४, ऋरन्ति
बौश्रौ १८, ९ ३६, आमिगृ
३, ३, २: १, कौसू ९१, १, ९८,
२, विध ५५, १८^१, ऋरन्तु^१
आपमं २, २०, २८, आमिगृ ३,
१, २ ६, २, ५ १२, ७: ५,
मागृ २, १५: १३, १६ १४,
१७ ९, हिगृ २, ११, १, १५, ७,
क्षर > रा ऋप्रा ७, ३३^१,
अक्षरन् आपश्रौ १२, १९, ५
अक्षा लाश्रौ ७, ९, ८, १०, निस्

१, १ १६, निघ ४, २^१, या ५, ३^१,
ऋप्रा १, ७९, ४, ४०, ऋक्षा-
गोय १, ३, १९, द्रागृ १, ५, २०
क्षारयति वैताश्रौ १२, ६
क्षर, रा^१- पा ३, १, १४०, -रम्
पाप्रवा ८, १, विध ९७, १२,
-राः अप ४८, ७५
क्षर-क्षाम-महीरुह- -हा अप
७१, १९, ३
क्षर, रेज- पा ६, ३, १६.
क्षर(त >)न्ती- -न्ती माश्रौ ५,
२, ४, ३१
क्षरति- > ण्ति-निगम- -म या
५, ३
क्षार, रा^१- पा ३, १, १४०, पाग ४, २,
९०^१, -रम् हिगृ १, ८, १०;
-राभि बौध १, ५, १४, -रेण
शध १६४
क्षार-नदी- -द्यः शंघ ३७४
क्षार-मात्र- -त्रम् बौश्रौ २६,
३३: १५
क्षार-लवण- -गम् हिघ २, ५,
१४५, -णे मागृ १, १, १२, २,
२१, द्रागृ १, ४, ९
क्षारलवण-वर्जन- -नम्
आपगृ ८, ८, ११, २१; भागृ
३, १२ ५, आपध २, ३, १३^१
क्षारलवण-वर्जम् बौगृ २,
५, ५५
क्षारलवण-वर्जित-भोजन-
-नम् आमिगृ ३, ६, २ ५
क्षारलवण-वर्जिन्- -र्जी
कागृ १, ८.

a) = इष्टका-विशेष- । मलो कस । b) ✓क्षर् टि द्र । पा ७, ३, ७४ परामृष्ट द्र । c) वैप १ द्र ।
d) = क्षान्ति- । e) पा ७, १, ३८ । विश्रम्य इति Böht [ZDMG ५२, ८७] शोधक^१ । f) क्षान्त- इति पाका ।
g) या २, ५ परामृष्टः द्र । h) पाभे वैप १ स्रवन्तु मा ३५, २० टि. द्र. । i) विप, नाप. (उदक-) ।
j) विप., नाप. (रस-विशेष-) । k) क्षोध- इत्यन्ये इति पागम. । l) सपा. णवर्जनम् <> णमधुमांसव^०
इति पाभे. ।

क्षारलवण-होम- -म आपध
२, १५, १४, हिघ २, ३, ४८
क्षार-लवण-दुग्ध- -ग्धम् द्रागृ
२, ४, ३३
क्षार-लवण-मधु-मांस- -सानि
बोपि ३, १२, १, आपध १, २, २३,
४, ६, हिघ १, १, ५६, १२५
क्षारलवणमधुमांस-वर्जन-
-नम् हिपि ८: ११, हिघ २,
१, ४४^६
क्षार-लवणा(ण-अ)चरान्न-
ससृष्ट- -ष्टस्य आपगृ ८, ३,
बौगृ २, ८, ४
क्षारा(र-अं)श- -श कप्र ३,
८, ६
क्षारीय- पा ४, २, ९०
क्षर^b(>क्षर्य- पा)पाग ५, १, २
√क्षल्^० पाधा चुरा पर शौचकर्मणि,
क्षालयत् वैश्रौ १६, २६ ६,
क्षालयेत् वैध ३, ४, १
क्षालन- -नम् काण्ड ४६ १४,
कप्र ३, १०, १, हिघ २, ५, ९९,
-नात् वैध ३, ३, ११
क्षालित- > ंत-पाद- -दान्
आमिगृ २, ३, ३ ५
क्षव- √क्षु द्र
क्षवक- पाठभो २, २, ७
क्षवथु- √क्षु द्र
क्ष्मा^d- क्षा अप ४८, ७२, निघ १, १,
या २, ६०, क्षा: आश्रौ ३, ८,
१, आपश्रौ २४, १३, ३, क्षाम्
शाश्रौ ८, ११, १३, या २, ६५

क्षेत्र- १क्षत्र- द्र
क्षेत्र- √क्षद् द्र
क्षेत्राण^०- -णाय कौसू ५६, १३
क्षेत्रायण- २क्षत्र- द्र
क्षेत्रान्त- √क्षम् द्र
क्षेत्रान्त^१- -न्तम् या २, १०
क्षेत्रान्त- (> क्षेत्रान्तायन- पा)
२क्षत्र- टि द्र
क्षेत्रान्ति-क्षेत्रान्तु- √क्षम् द्र
क्षेत्र-पवित्र^६- -त्र आमिगृ २, ४, ५.
८^{१३}, -त्रम् बौध ४, ७, ५
क्षाम- √क्षै द्र
क्षामन्- √क्षम् द्र
क्षामा^b- (>क्षामा-प्रस्थ- पा) पाग
६, २, ८८
क्षारयायण^१- -णा: बौश्रौप्र १७. १
क्षार- प्रसृ √क्षर् द्र.
क्षारक- पाठभो २, २, ७
क्षारहरतिरात्रम् वैश्रौ २१, ३ १०
क्षारीय- √क्षर् द्र
√क्षि^१ पाधा म्वा पर क्षये, स्वा पर
हिंसायाम्, क्षयति अप ४८,
११६, क्षयन्ते अप ६८, १,
१९
क्षिणोति निघ २, १४^{१६}
क्षिणाति या ६, ६^१
क्षिणै जैगृ २, १ २८, २
२२^३, क्षिणै: आश्रौ १, ११,
६, १३, ४, शाश्रौ ४, ९, ४, ११,
३, काश्रौ ३, ४, २७, बौश्रौ २,
१० २१, २५, २८, ३, २०
१२, माश्रौ १, ४, २, १२, वाश्रौ

१, १, ३, १६, वैताश्रौ ३, २०^१,
आपमं
क्षीयते बौश्रौ १४, ४ १०,
वाधुश्रौ, या १३, १२, क्षीयन्ते
वाधुश्रौ ४, ५२: ७, ९, आमिगृ
२, ६, ५: २४, बौगृ २, ९, २३^१,
आपध २, ४, १४, हिघ २, १,
६७
क्षीयि आपश्रौ ४, १०, ९^१,
बौश्रौ ३, १० ३०^१, भाश्रौ ४,
१६, १^१, हिश्रौ ६, ३, ३^१, आपमं
२, १०, १५, बौगृ १, २, ५७,
आगृ २, २५ १६, ३, १२:
११, हिगृ १, १३, १५, आपध
२, ३, ११
क्षय^m- -य: अप ६४, ८, ५×५;
शध, -यम् निसू ७, १२: ७,
कप्र, या १३, १२, -यस्य अप
७२, ३, ५, -ये अप ४८, ४२^१,
७२, ३, ५, आज्यो ७, ७
क्षय-कर- -र अप २७, २, ३
क्षय-नाशा(श-अ)ग्निदाह-
-हेषु कप्र ३, १, ३
क्षया(य-अ)न्त^m- -न्ता कप्र ३,
३, ८^{१०}
क्षया(य-अ)मद- > ंयिन्-
-थी शंघ ३७६
क्षया(य-अ)र्थ- -थार्त् या ७,
२३
क्षयिन्- पा ३, २, १५७, -थी शंघ
३७७ ७, १८, काध २७८: ७^१
क्षय- पा ६, १, ८१.

a) पासे पृ ९४९ ११ द्र । b) अर्थ: व्यु च ? । c) √क्षर् परि टि द्र ।
d) वैप १ द्र । e) = रक्षो-विशेष- इति B W । व्यु. ? । f) वैप १, २३७ b द्र । g) = मन्त्रगण-
विशेष- । कस. पूष. < क्षाम् [तैत्रा २, ८, २, ४] । h) क्षामप^० इति पाठ ? यनि शोघ (तु सप्र बौध) ।
i) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । j) पा ६, ४, ५९, ६०, ८, २, ४६ परामृष्ट द्र । k) लघुकोशीय^० पाठ ।
l) पासे. वैप १, ११९० ० द्र । m) भाप, नाप । n) विप । बस । o) अक्ष^०- इति पाठ ? यनि.
शोघ । p) अर्थ: ? इति संस्कृती ।

क्षित- पा ६, ४, ६१, -तः वैश्रौ
२१, १४ ८
क्षिति- पावा ८, २, ४२
क्षिया- पाग ३, ३, १०४, -यायाम्
पा ८, १, ६०
क्षिया(या-आ)शी-प्रैष- षेबु
पा ८, २, १०४
क्षीण- पा ६, ४, ६१, -ण सु १०,
४, गौध १०, ६०, कप्र २, ६, ५,
-णम् अप ७०^३, ११, ४, ५, -णे
अप ७०, १, ८, विध २०, ४३,
कप्र २, ६, १, ३, ८, आज्यो
१३, ४
क्षीण-कोष^३- ष. वाघ २९, ७
क्षीण-सु(ण्य >)ण्या^३- णया
वाघ २१, ११, आपघ २, १७, ८,
हिध २, ५, ३७
क्षीण-मनुष्य-कोश^३- -शाः अप
७०^३, ११, १५
क्षीण-मेधा-जननी- -नी याशि
१, ३८
क्षीण-स्वरे(र-ई)ड^०- -डम् निस्
७, १२ ७
क्षीणा(ण-आ)युस^३- -युः वाघ
११, ३८, -युष. बौश्रौ १८,
४४-१९
क्षीयमाण,णा- -णा कप्र २, ६, २,
-णेषु आमिष्ट २, ७, ११. १८
√क्षि^३ पाधा तुदा पर निवासगत्योः,
क्षयन्ति बौश्रौ २, ८ : २६^३,
आमिष्ट २, ७, ४ ११, बौषि
२, ९, ११
क्षेति वृदे ५, ७५^३, ऋक्षेवत्
शाश्रौ १४, ५३, ७, वृदे ५,
१०५
क्षियति वृदे २, ५८, निघ २,

१४^३, या ५, ३, १०, २७,
ऋक्षियन्ति आपश्रौ ११, ९, १,
बौश्रौ २०, १६ ११
रक्षय,या^०- पाग २, ४, ३१^३, -यः
या ८, १८, पा ६, १, २०१,
-ऋयम् आश्रौ ४, ४, ७, ४,
८, १, २, आपश्रौ १४, १०, १,
१७, ३, ५, बौश्रौ १०, ४५ ८,
१४, २० ७, माश्रौ ५, २,
१६, १४, ६, २, २, ३, वाश्रौ,
-या अप ४८, ८९^३, -०^३या
आपश्रौ १२, ३, २, वैश्रौ १५,
३ ८, हिश्रौ ८, १, ४१, -ऋयाय
आश्रौ ५, १९, ३, शाश्रौ ८, ४,
३, आपश्रौ १४, १०, १, १७,
३, ५, बौश्रौ ४, १ ११ × ×,
-ऋये आश्रौ २, ११, १४, १७,
१५, ५, ५, १८, शाश्रौ २, ११,
६, आपश्रौ ९, १९, १३, १३,
१८, ९, बौश्रौ ३, ८ : २२ × ×,
वैश्रौ
क्षयण^३- णस्य या ६, ६
रक्षयिन्- पा ३, २, १५७
क्षिति^३- ऋतय अप ४८, ७८, निघ
२, ३, या ४, २४, -ति. हिश्रौ
१०, २, १४^३, वाघ २८, १७,
अप ४८, ७२^३, निघ १, १^३,
-तिभ्य वृदे २, ४१, -तिम्
अप ६८, २, १, ४, विध १, ३५,
वृदे २, ५०, ६३, -ते अप ६४,
६, ४, ९, ५, -तौ सु ९, १, अप
५८^३, १, ५, ४, १६, ६४, २, २,
वृदे २, ४१, -त्या वैताश्रौ १२,
१, -त्यै वाश्रौ ४, ३७ : ३
ऋक्षेत्^०->क्षेत्-वत्^०-वत्
आश्रौ ४, १३, ७, १० २, ५,

शाश्रौ ६, ४, ३, १०, ३, ३, ११,
१३, १८, १५, ३
क्षिति-गो-धन-धान्य-रत्ना (ल-
आ) दिक- -कम् अप ३, १, १७
क्षिति-त्राण- -णम् विध २, १२.
क्षिति-पति- -तय अप ५१,
४, १, -तेः अप ७०^३, ५, १
क्षिति-पाल-लक्ष्मी- -क्ष्मी अप
२४, ६, ४
ऋक्षिति-सृज्- -सृजे अप १, ३९,
२, अशा ९, २
क्षिति (स्थ >)स्था- -स्थाः
वाव ३, ४७.
क्षित्य (ति-अ)न्तरिक्ष-सु-स्था
(न >)ना- ना. ऋअ १, २, ८
ऋक्षियत्- -यत या ९, १०^३,
-यन्त शाश्रौ १८, १५, ५, गौषि
२, ४, ७, -यन्तम् आश्रौ ३, ८,
१, या १०, १२
क्षियति->^०ति-निगम- -म, -माः
या ५, ३
क्षेत्र^०- पाउमो २, ३, ८५, पाग ४,
२, ३८, -०त्र विध १, ५२, -त्रम्
आपश्रौ १८, १९, ७, बौश्रौ, अप
४८, ९०^३, या १०, १४^३, १४,
३, -त्रस्य आश्रौ ९, ११, १४^३,
शाश्रौ, निघ ५, ४^३, या १०,
१४, १५^३, -ऋत्रस्य आश्रौ ९,
११, १५, वाश्रौ ३, २, ५, २१,
आपमं २, १८, ४८, या १०, १६,
-ऋत्राणि काश्रौ १०, ५, ३,
आपश्रौ १६, २, १०, हिश्रौ ११,
१, २२, १५, ७, ८, -त्रात् लाश्रौ
९, ११, १^३, आश्रौ १, ५, ५, आपश्रौ
३, १५, कौसू ६३, ५^३, -त्रे
आपश्रौ १६, १, ३^३, बौश्रौ, वैश्रौ

a) विप । बस । b) विप । बस > दस । c) विप । कस > बम । d) या २, ६, १०, १४ परामृष्ट द्र । e) वैष १
द्र । f) तु पागम । g) = गृह- । h) वैष १, ११, ११ ह द्र । i) = धन- । j) शोधार्थं पृ २२५ ० द्र ।

२०, २९ लक्ष्मी, पा ४, १, २३,
 ५, २, १, पावा ५, २, २९, -त्रेण
 आपध १, ९, ७, हिध १, ३, ७,
 -त्रेषु बौध ३, २, ९, ११, १२
 †क्षेत्री^१ - †त्रियै^० आपमं
 २, १२, ६, आमिगृ २, १, ४, ५,
 बौगृ २, १, ३, ५, ३०, वैगृ ३,
 १५. १२, हिगृ २, ३, १०.
 क्षेत्र- पा ४, २, ३८
 क्षेत्र-कर- पा ३, २, २१
 क्षेत्र-करण- -गम् बौश्रौ १९,
 ५ ३१, ६-९ १.
 क्षेत्र-कर्मविशेष- -षे आपव २,
 २, ४, हिव २, १, २६
 क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विज्ञान- -नम् विध
 ९६, ९८
 क्षेत्र-ज^d - ज वाध १७, १४,
 शध २९१, बौध २, २, १७, विध
 १५, ३, -जम् बौध २, २, ३१
 क्षेत्रज-पुत्रिका-पुत्र- -त्रयो
 शध २६९, २९१
 क्षेत्र-ज्ञ- पाग ५, १, १२४,
 १३०, -०ज्ञ विव १, ५२, -ज्ञ
 वैध १, १०, ५, वृदे ४, ४०^१,
 या १४, १०, -ज्ञम् विध ९६,
 ९७, ९८, वैध १, ११, १३, या
 १४, ३, १०, -ज्ञस्य चाञ्च १६:
 २५
 क्षेत्रज्ञ- पा ५, १, १३०
 क्षेत्रज्ञ- पा ५, १, १२४.
 क्षेत्रज्ञ-द्वार- -रेण वैध १,
 ११, ३
 क्षेत्रज्ञ-परमात्मन्- -त्मनो.
 वैध १, ९, १५, ११, ३, ४
 क्षेत्रज्ञ-पृथक्त्व- -क्त्वाय

या १४, ३
 क्षेत्रज्ञ-योगा(ग-अ)न्त-
 -न्तम् वैध १, ११, ४
 क्षेत्र-ज्ञान- -नम् काशु २,
 ११, वृदे ४, ३६
 क्षेत्र-दार-हर- -र वाध ३,
 १६
 क्षेत्र-द्रव्या(व्य-अ)पहरण-
 -गम् शंघ २५५
 क्षेत्र-पति- पाग ४, १, ८४,
 -तये कौसू ५१, २१, -ति वृदे
 १, १२३
 क्षेत्रपत- पा ४, १, ८४
 क्षेत्रपती^० -त्या आपश्रौ
 ११, १०, १८
 क्षेत्रपत्य,त्या^१ -त्यम् बौश्रौ
 १२, १९ : २०, १३, २ : ११,
 हिश्रौ २२, २, ८, आपगृ १९, १३,
 २०, १८. भागृ २, १० : १७,
 हिगृ २, ९, ८, अप ७०^२, ६, ४,
 -त्यस्य हिश्रौ २२, २, ८, भागृ
 २, १० : १३, हिगृ २, ९, १२,
 -त्या ऋञ्च २, ४, ५७, वृदे
 ५, ७
 क्षेत्र-बीज-भक्त-गो-शकट-कर्षण-
 द्रव्य- -व्याणि शव २६२
 क्षेत्र-मध्य- -ध्ये आमिगृ २, ६,
 ८ ६
 क्षेत्र-मर्यादा- -दायाम् आपश्रौ
 ९, १२, ६, वैश्रौ २०, २५ : ८,
 कौगृ ३, १३, २, शागृ ४, १३, २
 क्षेत्रमर्यादा-भेद- -दे शंघ
 ३११
 क्षेत्र-वितृ(ण्ण>)णी^३ -ण्णीम्
 आमिगृ ३, ८, १ : ७, ११, ३.

३१, बौपि १, १४ ७, १५ :
 ३६, १६ १७, -ण्याम्
 आमिगृ ३, ८, २ २८
 क्षेत्र-साधस्^१ -धा या २, २^१.
 क्षेत्र-सारथि- -थिभि कौसू
 १०६, ७^१
 क्षेत्रा (त्र-आ) पण-गृहा(ह-आ)
 सक्त- -क्तम् विध २०, ४२
 क्षेत्र(त्र>)त्रा-सा^१ -साम् ऋप्रा
 ९, २४
 क्षेत्रिक^१ -कस्य शंघ २८७^२
 क्षेत्रिन्- -त्रिण वाध १७, ६,
 -त्रिणाम् शध २८८.
 क्षेत्रिय,या^१ - पा, पावा ५, २,
 ९२, -यः पावा ५, २, ९२, -यम्
 आपश्रौ १३, ७, १६, १८, ८,
 १३^१, †वाश्रौ ३, ३, १, ११,
 १२, हिश्रौ १०, ५, १, १३, ३,
 २४^३, †यात्^० आपमं २, १२,
 १०, आमिगृ २, १, ४ १०,
 हिगृ २, ३, १०, कौसू २७, ७,
 अप ३२, १, ७, अञ्च २, १०,
 अप २ २०
 †क्षेत्रिय-नाश(न>)नी^१ -
 -नी अपं १ १९
 क्षेत्रो(त्र-उ)दका(क्-आ)हरण-
 -णे शध ३११
 †क्षेत्रौ(त्र-ओ)षधि-वनस्पति-
 -तय अप ४३, २, ३०
 क्षेत्रौ(त्र-ओ)षधि-वनस्पति-
 गन्धर्वा(र्व-अ)प्सरस्- -रस
 आगृ ३, ४, १, कौगृ २, ५, १;
 शागृ ४, ९, ३
 क्षेम^१ - पाठ १, १४०, पाग २, ४,
 ३१, -म आपश्रौ ११, ४,

a) पाठः ? क्षेत्रे इति शोध (तु सप्र तैत्रा ३, ७, १०, ३) । b) वैप २, ३ख द्र । c) पासे वैप
 १, ११९३ k द्र । d) = पुत्र-भेद- । e) = [क्षेत्रपतिशब्दवती-] ऋच्- । f) वैप १, ११९२ m द्र ।
 g) = कृष्टक्षेत्र-मृद्- । h) वैप १ द्र । १) मत्वर्थीयप् ठन् प्र. ।

१४०, भाश्रौ, -०मम् शाश्रौ
 १२, १७, १०, अप, -मस्य
 पागु ३, ४, ४, -०माय काश्रौ
 ४, १२, २२, आपश्रौ, -०मे
 आपश्रौ २१, २०, ३, बौश्रौ
 क्षेम-कार- पा ३, २, ४४
 क्षेम-कृत्- -कृत् आपध २, २५,
 १५, हिध २, ५, १९५
 क्षेम-धृत्विन्^a- पाग ४, १,
 २६^b
 क्षेमधृत्वि- पा ४, १, ९६,
 (>क्षेमधृत्वीय- पा) पाग ४,
 २, १३८^b
 क्षेम-प्रापण^c- -णम् आपध २,
 २१, १४, १६, बौध २, २, ७६,
 हिध २, ५, १२३, १२५
 क्षेम-म्-कर- पा ३, २, ४४.
 क्षेम-वृत्तिन्^d->क्षेमवृत्ति^{b,e}-
 (>क्षेमवृत्तीय- पा) पाग ४,
 ३, १३१
 क्षेम-वृद्धिन्^f- पाग ४, १, ९६,
 २, १३८^f
 क्षेमवृद्धीय- पा ४, २,
 १३८
 क्षेमवृद्धि- पा ४, १, ९६,
 (>क्षेमवृद्धीय- पा) पाग ४,
 २, १३८^g, ३, १३१^g
 क्षेमा(म-आ)चार- -रे आश्रौ
 ४, १०, ५
 १क्षेमा(म-अ)व्यवस्यत्- -स्यत्
 बौश्रौ १६, २३ : ८
 क्षेम्य^h- पावा ५, ४, ३६,

-०म्य आश्रौ ३, १२, ७,
 आपश्रौ ९, ७, ६, भाश्रौ ९, ९,
 १७, माश्रौ ३, ३, ६, वैश्रौ
 २०, १३ : ५, हिश्रौ १५, २,
 २३, \$पागु ३, ६-७, ४, अप्राय
 ४, ४, -म्यम् आज्यो ९, ७,
 -म्ये आज्यो १०, ६, ११, ३
 √क्षि (ऐक्ष्ये), ०क्षयति अप ४८,
 २१, निघ २, २१, ०क्षयसि
 आपश्रौ ५, २३, ९, ०क्षयथ>था
 आश्रौ ४, १३, ७, ७, ११, ७,
 वैश्रौ १५, ४ २, पागु ३, ५, ३
 क्षेति बौश्रौ १८, ४१ : २०^h
 ३क्षयⁱ- -यस्य आपश्रौ ६, २३, १ⁱ
 ०क्षयत्- यन्तम् या ५, ९^h,
 -यन्ता आश्रौ ८, ११, १, शाश्रौ
 १०, ११, ५
 ०क्षयद्-वीर^j- -रस्य आपश्रौ
 १७, २२, १, हिश्रौ १२, ६, २६
 √क्षिण् पाधा तना उभ हिंसायाम्
 क्षित- √क्षि(क्षये) द्र
 क्षिति- √क्षि(निवासगत्यो) द्र
 १क्षितिकाम्^k कौसू ३२, १२
 क्षित्वन्- पाउ ४, ११४.
 √क्षिप्^l पाधा दिवा पर, तुदा
 उभ. प्रेरणे, १क्षिप्यन्ति^m विध
 ४३, ४२
 क्षिपति बौश्रौ ११, ७ : ३३,
 वैश्रौ, क्षिपन्ति अप १, ८, ५,
 क्षिपेत् बौश्रौ ९, १८ ९××
 वैश्रौ, क्षिपेयु विध १९, ९
 ०क्षिप्ति आमिगु ३, ६, १२,

बौपि १, ८ : २
 ०क्षिप्ⁿ- क्षिप. आश्रौ ५, १२,
 १५ⁿ, शाश्रौ ७, १५, ७ⁿ, आपश्रौ
 १४, ३०, ५, हिश्रौ १५, ७, २१;
 १६, ८, १९, निघ २, ५
 क्षिपक,का- पाउभो २, २, १०;
 पाग ४, २, ८०^m, पावा, पावाग
 ७, ३, ४५
 क्षिपकिन्ⁿ- पा ४, २, ८०
 क्षिपणि^o- पाउ २, १०७, -णिम्
 या २, २८^o
 क्षिपणु^p- पाउ ३, ५२, -णोः
 आपश्रौ १७, १८, १०,
 क्षिपण्यु- पाउ ३, ५१
 क्षिपा- पा, पाग ३, १०४
 ०क्षिपित- -त आपश्रौ ४, ११, ५;
 भाश्रौ ४, १७, २, हिश्रौ ६, ३, ८.
 क्षिस, सा- -सः याशि १, ३४;
 -सम् शैशि ९९, १०५; -सा
 या ६, ४०, -से याशि १, ४९;
 -सै. वृदे २, ४३.
 क्षिस-योनि^q- -नेः आगु १
 २३, २०
 १क्षिस-सर्वसाधन-सयुत^r-
 -तम् आमिगु ३, १०, ४. १८.
 क्षिप्त्वा वैगु २, २. १४, कप्र ३,
 २, ५, शंघ ४३९
 क्षिप्नु^s- पा ३, २, १४०
 क्षिप्र^t- पाउ २, १३, पाग ५, १,
 १२२, -प्रम् शाश्रौ १२, २३,
 ४०××, आपश्रौ, आपमं १, १,
 ८०, या ३, ९^h, ५, २; ३;

a) व्यप । व्यु ? । b) तु पागम । c) विप । उस । d) अर्थ व्यु. च ? । e) क्षेमवृद्धि-
 इति भाण्डा पासि BPG च । f) तु पाका । क्षेमवृद्धि- इति भाण्डा. प्रम् । g) वैप १, ११९३ इद्र ।
 h) पासे वैप १, ११९४ c, अत्रत्य स्थलमपि तत्र योज्यम् । i) वैप १ द्र । j) = अक्षतमैषज्य- (तु दारिद्र्यः) ।
 व्यु ? । k) पा १, ३, ८० परामृष्टः द्र । l) पाठः ? न्ते [कर्मणि] इति शोधः । m) अर्थः ? । n) = देश-
 विशेष- ? । o) विप । बस । p) विप । कस. > तुस. । q) ण्त्वाऽभावः (पा ८, ४, ३९) । r) पासे. वैप १
 पृषन् शौ १४, १, ३९ टि. द्र ।

८, १३, ११, ५०, १२, ४४,
-प्रमूऽ-प्रम् अप ६८, १, ३८,
-क्षिप्रस्य अप ४८, १०६, निघ२,
१५, -प्रा भाशि ६६, -प्राणि
आज्यो ५, २, -क्षिप्रे आपश्रौ
२२, १६, ९, बौश्रौ १६, २७
२०, वाधुश्रौ २, ९ ५, ३,
४४ १५, हिश्रौ १७, ६, ३३१,
-प्रेण सु २३, २

क्षैप्र^b- पा ५, १, १२२,
-प्र ऋप्रा ३, ३४, शुप्रा, -प्रस्य
माशि ७, ६, याशि १, ८०,
नाशि२, १, २, -प्रा ऋप्रा२, २३

क्षैप्र-नित्य-त्ययो तैप्रा
२०, ९

क्षैप्र-वर्ण- -र्णान् ऋप्रा
१७, २३

क्षैप्र-संयोगै (ग-ए) का-
क्षरीभाव- -वान् ऋअ १, ३,
६, शुअ ५, ६

क्षैप्रा(प्र-अ)मिनिहित-
-तेषु ऋप्रा ३, १३, -तौ ऋप्रा
३, १८

क्षैप्री/सू > क्षैप्रीभाव-
> व्य- -व्ये ऋप्रा ७, १०

क्षिप्र-सुवन^c- -नम् आपृ १४,
१३, भागृ १, २२. ८

क्षिप्र-कर्म-प्रसाधक- -०क अशा
४, ५

क्षिप्र-काम- -मः गौध २६, ६

क्षिप्र-कारिन्- -रिण या ९, ९,
आज्यो ७, ३

क्षिप्र-जन्मन्^d- -न्मा अप १७,
१, ५१

क्षिप्र-ता- पा ५, १, १२२

क्षिप्र-त्व- या ११, १६; -त्वेन
पा ५, १, १२२

क्षिप्र-द्रावि(र >)णी- -णी या
९, २६

क्षिप्र-धन्वन्^e- -न्वा सु २३,
१, २

क्षिप्र-नामन्- -म या ५, ३, १७,
६, १२, १२, २२, -मनी या
६, १, -मानि निघ २, १५, या
३, ९

क्षिप्र-प्रसवन^f- -नम् हिगृ २,
२, ८

क्षिप्र-प्रहारिन्- -री या ५, १२

क्षिप्र-यत्न^g- -त्ने वैशि २०१.

क्षिप्र-वचन- -ने पा, पावा ३,
३, १३३

क्षिप्र-वाहिन्- -ही अप १,
४३, ७

क्षिप्र-विपाक- > ऽकिन्-
-कीनि अप ७२, १, २

क्षिप्र-इयेने^h- -न अप १, ३२, ३
क्षिप्र-संस्कार^d- -रम् बौश्रौ २७,
९ ९

क्षिप्रसंस्कार-तम- -मम्
बौश्रौ २४, ९ ३

क्षिप्र-संज्ञकⁱ- -कम् अशा २, १

क्षिप्र-संधि- -धि शाश्रौ १२,
१३, ५, निस् १, ७ ३२

क्षिप्र-हन्तृ- -न्तारौ या १३, ५

क्षिप्र-होम^j- -मा कप्र ३, ८, २५
-मेषु कप्र १, ९, ५

क्षिप्रहोम-वत् कप्र ३, १०,
१७

क्षिप्रा(प्र-अ)भि- -भिम माश्रौ
१, ५, ३, १, ६, १, ३, २३

क्षिप्रे(प्र इ)षु^k- -षवे या १०, ६.
१क्षेप^l- -प वृदे १, ३९, ४९, याशि
१, ६८, -पम् याशि १, ७२, -पे
विध ५, ३१, ३३^j, पा २, १,
२६, ४२, ४७, ६४, ५, ४, ७०, ६,
२, ६९, १०८, पावा ५, २, १३१;
६, ३, ७४

क्षेप-संज्ञक^d- -का माशि १३, ५.
२क्षेप^h- > क्षेपिमन्^k-, क्षेपिष्ठ^k-,
क्षेपीयस्^k- पा ६, ४, १५६

क्षेपण- -गम् या २, २८

क्षिपस्ति¹- -स्ती निघ २, ४

क्षियत्-, क्षियति- √क्षि(निवास-
गत्यो) द्र

क्षिया- प्रमृ √क्षि(क्ष्ये) द्र

√क्षिष्^m पाधा +ना पर निरसने.

√क्षिष्^m पाधा क्रया पर हिंसायाम् -

√क्षीञ् पाधा भ्वा पर अय्यक्ते शब्दे-

क्षीण- प्रमृ √क्षि(क्ष्ये) द्र

√क्षीब् पाधा भ्वा. आत्म मदे
क्षीब^o- पा ८, २, ५५

क्षीयमाण- √क्षि(क्ष्ये) द्र

क्षीरⁿ- पाउ ४, ३४, पाग २, ४, ३१,
-रम् माश्रौ ५, १, ९, १६,
वाधुश्रौ, अप ४८, ७५^प, निघ
१, १२^प, या २, ५६, -रस्य

- a) = [रेफयकारसहितैकाक्षरवता] संज्ञा-विशेष-। b) भाप, नाप (स्वरितस्वर-भेद-, संधि-विशेष-)
c) = कर्म-विशेष-। उस । d) विप । बस । e) व्यप । बस । f) = पक्षि-विशेष-। g) = होम-
विशेष-। उस. । h) वैप १ द्र । i) = निन्दा-, विमोह- प्रमृ । j) ऽक्ताक्षेपे इति जीसं. ।
k) पाप < क्षिप्र- इति । l) = बाहु-नामन्-। व्यु ? । m) = √क्षीब् इति भाण्डा प्रमृ,
[पक्षे] BPG च । n) √क्षीष् इति भाण्डा प्रमृ, [पक्षे] BPG च । o) वैप ३, २६१ J द ।
p) = अज-।

अप ३६, १६, ३, ३८, २, १, शध
 ४०५, बौध ४, ५, १३, -राणि
 शंघ ४१८, ४२४, -रे आपश्रौ
 ३, ३, १३, x, बौश्रौ, -रेण वैश्रौ
 १, ४ ४, हिश्रौ, पात्रा २, १, १.
 -रेषु शध १५५, ४१८
 क्षैरेय- पा ४, २, २०
 क्षीर-क्षार-लवण-विक्रय- -ये सुध
 ५८
 क्षीर-दधि-मधु-घृत-पूर्ण- -र्णानि
 विध ८७, ६
 क्षीर-धारा- -रा वाध ११, २२
 क्षीर-धेनु- -नुम् अप ९, ३, २
 क्षीर-प^१- -प बौश्रौ १८, ४५ ६.
 क्षीर-पान^१- -नम् बौश्रौ २, ९ १६
 क्षीर-प्राशन- -ने शध ४२५, सुध
 ३४
 क्षीर-भक्ष- -क्ष कौसू २२, ८
 क्षीर-भक्षिन्- -क्षिण अप ३५,
 २, ६
 क्षीर-भाण्ड-भेदन- -ने काध
 २७६ ११
 क्षीर-मन्त्रा(धु-आ)ज्य- -ज्यै अप
 ३५, १, ११
 क्षीर-यव-पिष्ट-विकार- -रान् वाध
 १४, ३८
 क्षीर-लेह- -हम् कौसू ३०, ५
 †क्षीर-वत्- -वान् आमिष्ट ३, ८,
 २ : ६३, बौपि १, १५ : ६७,
 अत्र १८, ४
 क्षीर-विक्रय- -यात् वाध २, २७.
 क्षीर-विवर्जित(त>)ता- -ता सु
 ४, ३
 क्षीर-वृक्ष^१- -क्षां बौश्रौ २८, १३.
 १०, -क्षाणाम् अप ७०^१, २२, १

क्षीरवृक्ष-निषेवण- -णम् अप
 ६४, ७, ५
 क्षीरवृक्षा(र-अ)ङ्कर- -रा अशा
 १२, ५
 क्षीर-श्री^१- -श्री^१ अप्राय ३, ३१
 क्षीर-समायुत- -तम् अप ६५, ३, ८
 क्षीर-सर्पिस्- -र्पिः वाधूश्रौ ४,
 ९६ ८, ९
 ✓क्षीरस्य पा, पात्रा ७, १, ५१
 क्षीर-स्त्रव- -त्रे अप ७०^३, ८, ३
 क्षीर-हारिन्- -री शध ३७७ २०
 क्षीर-होतृ- पाग ६, २, ८१, -तृता
 काश्रौ ४, १४, ३१, आपश्रौ ६,
 १५, १६, भाश्रौ ६, ७, ३
 क्षीर-होम- -मात् अप ३६, १०, ३
 क्षीरहोमिन्- -मी काश्रौ ४, १०,
 १६
 क्षीरा(र-अ)क्ता- -क्ता अप
 २६, ३, ३
 क्षीरा(र-अ)णव^१- -त्रे आमिष्ट २, ४,
 १० ३८.
 क्षीरा(र-आ)सेचन- -नम् काश्रौ
 २५, १२, १३
 क्षीरिन्- -रिणः आमिष्ट ३, ५, ५
 २, बौपि १, ४. २, भाष्ट २,
 ३०:४, हिपि १. ६, अप २६,
 ५, ५, याशि १, ३७, नाशि २,
 ८, ४, -रिणाम् आपष्ट ६, ५,
 अप ५३, १, ५, ६८, २, १५.
 क्षीरिणी- -णी काश्रौ २५, ७,
 १६, आपश्रौ १४, २४, १२,
 हिपि १३ : ६, -ण्य आमिष्ट
 ३, ५, ५ ८, बौपि १, ४. ८
 क्षीरो(र-उ)स्त्रिक्त- -क्ते माश्रौ ५,
 १, ६, १७, कौसू ४८, ४१, -क्तेन

हिपि ९ : १, कौसू ८२, २७.
 क्षीरो(र-उ)द^१- -दम् विध १, ३३;
 -दे विध १, ३२
 क्षीरोद-नभस्- -भसि अप
 ५२, १३, ४
 क्षीरोद-शुक्तिपुटगर्भ-विकीर्ण
 सुक्तासंघात-पाण्डुररज^१- -जः
 अप २४, ५, ५
 १क्षीरो(र-उ)दक^१- -केन आष्ट ४,
 ५ ४; गौपि १, ५, २२, २, १, ३;
 -कै कौष्ट ५, ५, ५
 २क्षीरो(र-उ)दक^१- -काभ्याम्
 काश्रौ २१, ४, १९, -के काश्रौ
 १८, ५, ८, पाष्ट ३, १०, २८,
 जैष्ट २, ५ १२
 ३क्षीरो(र-उ)दक^१- -कम् शंघ
 ११६. ७
 १क्षीरो^१(र-ओ)दन^१- -नम् द्राश्रौ
 १३, १, १५^१, कौष्ट १, १९, ८,
 अप २०, ३, ४, वाध २१, ६,
 -नस्य द्राश्रौ १३, १, १३^१, -नेन
 बौष्ट २, ११, ५४.
 क्षीरोदन-हविस्- -विषु अप
 ७० ६, ४
 २क्षीरो(र-ओ)दन^१- -नः अप ४६,
 ७, ४
 क्षीरो(र-उ)दधित्- -धित् कौसू
 ३१, २४
 १क्षीरो^१(र-ओ)दन^१- -नम् शाश्रौ
 १४, १६, ४, लाश्रौ ५, १, १३^१;
 आमिष्ट २, ५, १. ३५; जैष्ट,
 -नस्य हिश्रौ ६, ८, १; लाश्रौ ५,
 १, ११^१, कौसू ४३, १३
 क्षीरोदन-पुरोडाश-रस- -सान्
 कौसू ७, ६

a) उप <✓पा(पाने)। b) मलो कस.। c) वैप १ द्र.। d) = क्षीर-सागर-।

e) विप । द्रस > बस । f) द्रस.। g) संहिताया वृद्धिविकल्पः । h) सपा. श्रोदनम् <> शौदनम् इति
 पाभे.। १) सपा क्षीरोदनस्य <> क्षीरोदनस्य इति पाभे.।

क्षीरौदना (न-आ) दि- -दीनि
कौस् ४९, २२.
क्षीरौदनो (न-उ) लुक-स्तम्ब-
पाटा-विज्ञान^१- -नानि कौस्
३७, १
२क्षीरौ(र-ओ)दन^२- -न कौस्
१२७, २, १३८, २
क्षीरकरा, ल^३म्भ^४- -म्भा बौश्रौप्र
११ १
क्षैरक्लम्भि- -म्भिः लाश्रौ १०,
१०, २०, १३, १८
क्षीरहृद्^५- (>क्षैरहृद्- पा) पाग
४, १, ११२
√क्षीष् √क्षिष् टि द्र
√क्षीष् √क्षिष् टि द्र
√क्षु पाधा अदा. पर शब्दे
क्षव^६- -वम् अप १, २६, ५१
क्षवथु- थुः बौश्रौ २, ५ १६१,
-थुम् आपव २, ३, २, हिध २,
१, ३३, -थौ आपघ १, १६,
१४, हिध १, ५, १३
क्षुत्वा आगृ ३, ६, ७, गोय
क्षु^७- ऋक्षु अप ४८, ८८, निघ २, ७
ऋक्षु-मत्- -मति अत्र १८, ३,
-मन्तम् आश्रौ ५, १२, ९, ६,
४, १०, शाश्रौ ७, १५, ३, ९,
१२, १, ऋत्र ३, २८
क्षुमती- -ती. आपश्रौ २४,
१३, ३१
क्षुच्छस्त्रमरण- प्रम् √क्षुष् द्र
√क्षुद् पाधा रुधा उभ सपेषये,
क्षोदति^८ निघ २, १४
१क्षुद्, द्रा^९- पाउ २, १३, पाग ४,
२, ९०^{१०}, ५, १, १२२, -द्रः अत्र
१०, १०, -द्रम् या १०, ४२१,

-द्रस्य या १३, ९, -द्रा बौश्रौ
१८, १५: १३१, -द्राणि बौश्रौ
१७, ३१: १७, -द्रान् आपघ
१, ३२, १८, हिध १, ८, ६०,
-द्राम्य पा ४, १, १३१,
-ऋद्रैभ्य अप ४६, ९, ६, १०,
२१, अत्र १९, २२, २३, -द्रेषु
अप २: ४, पावा ६, १, ६२
क्षुद्-कर्मन्^{११}- -र्मा चव्यू ४:
१९
क्षुद्-काण्ड-> ण्डा(खड-अ)र्ध-
सूक्त-मन्त्र- -न्त्राणाम् अत्रभू
८
क्षुद्-कीट-> ंट-मक्षिका-
पिपीलिका-वर्जम् बौश्रौ २७,
९ २
क्षुद्-जन्तु- -न्तव पा २, ४, ८,
-न्तनाम् शंघ ४०९
क्षुद्जन्तू(न्तु-उ)पताप-
-पयोः पागवा ५, २, ९७
क्षुद्-ता- पा ५, १, १२२
क्षुद्-तृण- -णानि बौश्रौ १४,
२९ १७
क्षुद्-त्व- पा ५, १, १२२
क्षुद्-धमनि- -नीनाम् विव ९६,
८४
क्षुद्-धान्य- -न्यम् अप ६३,
३, ३
१क्षुद्-पद्^{१२}- -दम् बौश्रु १: ३,
-दानि बौश्रौ ६, २२ १४, १६,
१७
२क्षुद् प(द>)दा^{१३}- -दा उनिस्
७ २२
क्षुद्-पशु- -शव शंघ ३०७
क्षुद्पशु-काम- -म गोय ४,

९, १३, द्राय ४, ३, १६
क्षुद्पशु-मत्- -मान् आपघ
२, १६, ११, हिध २, ५, १०
क्षुद्पशु-स्वस्थयन-काम-
-म. गोय ४, ५, ३०, द्राय ४,
१, १५
क्षुद्पशव(शु-अ)नृत- -त्ते गौध
१३, १५
क्षुद्-मिश्र- -श्रै आमिगृ ३, ६,
३: २२, बौपि १, ११ १८
क्षुद्-संज्ञा-> ऽसिन्- -सिनाम्
अप ६४, ५, ४
क्षुद्-समिध्- -मिधाम् बौध १,
६, २३
१क्षुद्-सूक्त- -क्तेषु कौय २, ४,
१८, शाय २, ७, २१
२क्षुद्-सूक्त- -क्ता आगृ ३, ४,
२, कौय २, ५, १
क्षुद्सूक्त-महासूक्त- -क्ताः
शाय ४, १०, ३, वृदे ३, ११६,
ऋत्र १, २, २, -क्तौ अप ४३,
४, १२१
क्षुदा(द-आ)चरित- -तान् आपघ
१, ३२, १८, हिध १, ८, ६०
क्षुदा(द-अ)न्त्र- -न्त्रम् विव
९६, ९१
क्षुद्री^{१४}√कृ > ंद्री-चिकी(र्ष>)
र्षा- -र्षया निस् ६, ११ १२
क्षुद्रीय- पा ४, २, ९०
क्षुद्री(द-उ)पद्रव- -वः अप ३५,
२, ११
क्षुद्रीपद्रव-नाशन- -नम् अप
७, १, ३
२क्षु(द्र>) द्रा^{१५}-> क्षौद्र- पा
४, ३, ११९, -द्रम् अप ६४, ८,

a) द्वस > षस. । षाठा^{१६} इति संस्कृते. टि । b) विप. । बस । c) ळ^{१७} इति लाश्रौ ।
d) = ऋषि-विशेष- । व्यु. १ । e) व्यप. । व्यु. १ । f) वैप १ द्र । g) संप्रेषणे इति दे १ । h) पृ ८६७ S
टि. द्र । i) = प्रमाण-विशेष- । j) = उष्णिग्-भेद- । बस. । k) = मधु-मक्षिका- ।

१, ७०^३, ७, ६, ७१, ९, २, १४,
१, -द्रे अप ७०^३, ७, ११, ७१,
१०, ४, विध ९९, १४, -द्रेण
वाध २८, १८

क्षौद्र-क्षीर-पलाश-धूम-दूर्वा-
रजत-कनक-विद्रुम-प्र(भा >)

म-भेषु अप ६५, १, ५

चौद्र-युक्त- -कैः विध ९०,
१०

क्षोत्- पाउट्ट २, ९४

क्षोद->क्षोदिमन्^३- पा ५, १,
१२२, ६, ४, १५६

क्षोदिष्ट^३- पा ६, ४, १५६, -ष्टा
वाश्रौ ३, ३, १, ५१, अप्राय ५,
३, -ष्टान् आपश्रौ १८, ११,
१४, हिश्रौ १३, ४, २२

क्षोदीयस्^३- पा ६, ४, १५६

†क्षोदस्^३- -द. अप ४८, ७५,
निघ १, १२, -दसा आश्रौ ३,
७, ६, ८, ९, २, शाश्रौ ६, १०,
२, १०, ९, ४, ११, ५, ऋत्र २,
७, ९५

क्षुद्रक^०- -कान् अप ५०, २, ५

क्षुद्रक-मालव-(>क्षौद्रकमालवी-
पावा) पागवा ४, २, ४५

√क्षुष्^० पावा दिवा पर
बुभुक्षायाम्, क्षुधेत् आमिष्ट २,
७, ८ ३

क्षुष्^०- पाग ४, १, ४^१, ५, २, ३६६,
पावाग ३, ३, १०८, †क्षुत्

काश्रौ १८, २, २, आपश्रौ १७,
१२, ५, बौश्रौ २, ५ १××,
वाधूश्रौ, †क्षुधः आपश्रौ ५, १, ७,
१०, १३, ११^३, बौश्रौ २८, ९

२२^३, वाधूश्रौ ३, ९ १४, हिष्ट
१, १७, ४^३, †क्षुधम् आपश्रौ
१९, १३, २०, बौश्रौ १९, ५

१६, वाधूश्रौ, क्षुधा आपश्रौ ९,
२०, ७^१, हिध २, ५, १९०,
†क्षुधे गोष्ट ४, ९, १४, द्राष्ट
४, ३, १५

क्षुत्-छस्त्र-मरण- -गै अप
७०^३, ९, ३

‡क्षुत्-छस्त्र-न्याधि-वर्षा (र्षा-अ)
क्षि-मृत्यु-सस्यानिलानयो अप
६३, ४, ६

क्षुत्-छवासा(स-अ)क्षि-भय-
-यम् अप ६३, ३, ५

क्षुत्-नृणा(ष्णा-अ)पनोदन- -ने
विध ६३, १८

क्षुत्-पाप्मन्- -प्मना माश्रौ ५,
२, १०, १६

क्षुत्-पिपासा- -साभ्याम् गोष्ट
४, ९, १४

क्षुत्पिपासा-सह- -हा अप
६८, १, २९

क्षुत्पिपासित- -त वाध
१६, ३३

क्षुत्-पिपासा-भय- -यम् अप
२२, १०, ५

क्षुत्-सहन- -ने अप ४८, ५३

क्षुद्-भय- -यम् अप १९, १,
८, ५१, ३, ५××, वृदे ६, ९०

क्षुद्-यु(क्त >)का- -क्तासु
बौश्रौ १६, ३१ : १०

क्षुद्-रोग- -ग अप ७०^२, ७,
६, ७१, ९, २

क्षुधा- पा ४, १, ४, -धया

विध ४३, ३६, -धा अप २३,
१४, ६, वाध १२, ४, आपध
२, २५, ११

क्षुधा-काल- ले अप २३,
७, ४

क्षुधा-परीत- -त वाध १२,
३

क्षुधा-रोग-मृत्यु-शस्त्रा-
(स्त्र-अ)क्षि-क्रोपन- -ना अप
५८, १, १०

क्षुधा(धा-आ)र्त- -र्त. विध
३, ७९

क्षुधित- पा ५, २, ३६, -तः कप्र
२, २, ९^१, वैध २, १५, ९, -तस्य
वैध २, १५, ८

क्षुधुन- पाउ ३, ५५

क्षुध्य(त् >)न्ती- -न्तीम् वाश्रौ २,
१, ५, १४

क्षोधुक, का- -क आपश्रौ १६, २६,
१०^१, वैश्रौ १८, १८ : १५^१,
हिश्रौ ११, ७, ५०^१, गोष्ट १, ६,
२, -का माश्रौ ६, १, ६, ५, बौपि
१, २ ७^१, हिपि ४, ३^१, -का-
आमिष्ट ३, ५, १ : २१^१

क्षुप- पाउमो २, २, २०९

√क्षुभ्^३ पाधा भ्वा आत्म, दिवा-
क्या पर सचलने, क्षुभ्यते यद्
५, १६

क्षुब्ध- पा ७, २, १८, -ब्धम् वृदे
४, ५३.

क्षुब्ध-डुन्दुभि-निनाद- -देषु
अप ६५, १, ६

क्षोभ- -भम्, -भे अप ६८, २, ३८

†क्षोभण^०- -ण. तैप्रा ९, ३

a) पात्र < क्षुद्र- । b) वैप १ द्र । c) = क्षत्रिय-, जनपद-विशेष- । व्यु १ । d) सेनायाम्,

अन्यत्र ष्वक- इति । e) पा ७, २, ५२ परामृष्ट द्र । f) तु पागम । g) क्षुधा- इति पाका । h) पामे
वैप १, अधिगम्यते शौ ७, १०६, १ टि द्र । i) क्षुदितम् इति पाठः^१ यनि शोध । j) पामे वैप २, ३ ख-

क्षोषुका टि. द्र । k) पा ८, ४, ३९ परामृष्ट. द्र ।

क्षुमा^a- पाउभो २, २, २४२
 क्षौम, मा^b- पाग ६, २, ८८०, -मम्
 काश्रौ ४, ६, १९, ७, २, १५, १५,
 ५, ८, आपश्रौ १०, ६, ४, २४,
 ७, बौश्रौ १८, १६ ३, १९
 २, भाश्रौ, निसू १, ११ ८,
 कौश्र १, ८, ८, शाश्र १, १२,
 ८, गोश्र २, १०, ११, जैश्र १,
 १२ ५०, विध ४४, २७,
 -माणाम् बौध १, ५, ३५, विध
 २३, २२, -माणि बौध १, ६,
 १०, -मे काश्रौ ४, ७, १२, १५,
 ९, २३, आपश्रौ ५, ४, १०, १९,
 १, १, ५, ७, भाश्रौ ५, २, २२,
 माश्रौ १, ५, १, १२, २, १, ४, ३,
 ५, वाश्रौ, -मेण आपश्रौ १०,
 २४, १४, १६, ३, ७, २०, १७,
 ९, १८, ३, भाश्रौ १०, ६, ८, १६,
 ११, हिश्रौ ७, १, ४८, २, ४४
 क्षौमी- मी आश्रौ ९, ४,
 १७, लाश्रौ ९, २, १५.
 क्षौमज- जानाम् वाध ३, ५५
 क्षौम-दशा- शाम् गोश्र ४, २,
 ३०
 क्षौम-वत् बौध १, ५, ४०
 क्षौम-शाण-कम्बल-वस्त्र- छम्
 कौसू ५७, १३
 क्षौम-शाण-कार्पास [श^d]-
 -सानाम् द्राश्रौ ५, २, ४, लाश्रौ
 २, ६, १
 क्षौम-शाण-कार्पासौ (स-श्रौ)ण-
 -र्णानि गोश्र २, १०, ७
 क्षौमा (म-अ)न्त- न्तेन काठश्रौ

७७, ७८.
 क्षौमि(क>)की- कीम् कौसू
 ५७, ३
 ✓क्षुम्प्, क्षुम्पति निघ २, १४[†]
 क्षुम्प^e- ङम्पम् अप ४८, ११५, निघ
 ४, २, या ५, १६ § १७
 ✓क्षुर् पाधा तुदा पर विलेखने
 क्षुरि(क>)का^f- पाउना २, ४४
 क्षुर^g- पाउ २, २८, -र शाश्रौ १२,
 १५, १[†], बौश्रौ, -रम् काश्रौ
 ७, २, १२, बौश्रौ, -रस्य वैश्र
 ३, २३ ४, -रे वैश्रौ १२, ६ ३,
 -रेण काश्रौ ७, २, ९, आपश्रौ
 १ चौर^h- -रम् शुभ्र १, २२७
 २क्षौरⁱ- -रम् आज्यो १०, ३
 क्षुर-कर्मन्- -र्म आज्यो १०, १
 क्षुरकर्मा(र्म-आ)दि- -दिना वैश्र
 ३, १८ ४
 क्षुर-कृत्य- -त्यम् गोश्र ३, १, २०
 क्षुर-कान्त^j- -न्ते अप ६३, १, ९
 क्षुर-तेजस्- -ज आश्र १, १७, १६
 क्षुर-धा(रा>)र^k- -रान् अप १,
 ५०, ८
 क्षुर पवि, वी^l- -वि सु २५, ३, २७,
 २, -वि वाश्रौ ४, १५ ४, सु
 २५, १, भाश्र १, १५ : १२[†],
 हिश्र १, २४, ५[†], भाशि १०३[†]
 -विना या ५, ५[†], -व्य. सु
 २५, ५
 क्षुर-पाणि^m- -णि गोश्र २, ९, ४
 क्षुर-वपिⁿ- > ऽपि-शीर्षच्छिद्-
 -च्छिदौ शाश्रौ १४, २२, ४
 क्षुर-सस्पर्श- -र्शे कौसू १४१, १५.

क्षुल^o- > ङक्षुल-क^o- -कः निघ ३,
 २, -काः अत्रा २, ३, १३
 क्षुलक-तापश्चित^p- तम् आश्रौ
 १२, ५, ९, शाश्रौ १३, २५,
 ६, निसू १०, ९:१, -ते काश्रौ
 २४, ५, ८
 क्षुलक-वैश्वदेव^q- पा ६, २, ३९;
 -वस्य बौश्रौ २५, २१ १६
 क्षुलक-वैष्टम्मा^r- -म्भम् निसू
 ५, ७ : १८
 क्षुलको(क-उ)पस्थान- -नम्
 शुभ्र १, १९९
 क्षुवका^s- (> क्षुवका-वत्, क्षुवकिल-
 पा) पाग ५, २, १००
 क्षूण- पाउभो २, २, १२३
 क्षेत्र-, ऽत्रिक-, ऽत्रिन्-, ऽत्रिय- प्रम्.
 ✓क्षि (निवासग^t) द्र
 १-२क्षेप- प्रम् ✓क्षिप् द्र
 क्षेम- प्रम् ✓क्षि (निवासग^t) द्र
 ✓क्षेव् पाधा भ्वा पर निरसने
 ✓क्षै पाधा भ्वा पर क्षये, क्षायति
 आपश्रौ ९, १५, ६, ७[†], बौश्रौ
 २७, १२ २, भाश्रौ ९, १७,
 ६, हिश्रौ १५, ४, २६, क्षायेत्
 भाश्रौ ९, १७, १०, हिश्रौ १५,
 ४, २८.
 क्षाम^u- पा ८, २, ५३, -म अप्राय
 २, १, -मयोः भाश्रौ ३, १, २२,
 -मा अप ६८, १, ४२, -माय
 आश्रौ ३, १३, ४, काश्रौ ३ ३२ :
 ५; -मे^v आश्रौ ३, १४, २, काश्रौ
 २५, ८, १७, बौश्रौ २७, २ :
 १२, वैश्रौ २०, २६ ८, बौश्र

- a) = अतसी-। व्यु ^१ < ✓क्षु इति प्रायिकम् । b) = वस्त्र-विशेष-। विकारे क्षण प्र । c) अर्थ ? ।
 d) लाश्रौ. पाठ ? । e) वैप १ द्र । f) = छुरिका- [छुरी-] । क्षुर->क्षुरक-> स्त्री यनि इति P.W प्रम् ।
 g) विप । साऽस्यदेवतीय अण् प्र । h) = संस्कार-विशेष-। i) विप । वस । j) = एकाह-विशेष-। व्यु ? ।
 k) = सत्र-विशेष-। कस. । l) = साम-विशेष-। m) अर्थ. व्यु च ? । तु पाका । धुवक- इति भाषणा. ।
 n) वैप १ निर्दिष्टयोरिह समावेशः द्र । o) धा दहने वृत्ति ।

४,९,४, आमिष्ट २,७,९ ६,
१३, भाग ३,१८ ९,१८, मीस्
६,४,१८
क्षाम-काष- -वम् बौश्रौ २,१४
११, ५, १०:१६, २०, २१,
२५:८
क्षाम-नष्ट-हत दग्ध-व(त् >)
ती- -ती आश्रौ २,१४,२३
१क्षाम-वत्- -वते शाश्रौ ३,४,
१३, आपश्रौ, -वन् आमिष्ट
२,७,९:२०, -वान् बौश्रौ २९,
१.१२, भाग ३,१९ ५, कप्र
२,९,१५
क्षामवती- -तीम् आपश्रौ
९, ३, २३, भाश्रौ ९, ५, २१,
वैश्रौ २०, ९:१, हिश्रौ १५, १,
७३, अप्राय ५,५, -वत्य- हिश्रौ
२२, २, १३
क्षामा(म-अ)भाव- -वे आश्रौ
३,१२,२२
२क्षामवत्- पा ८,२,५३.
क्षैतयत्^b- (>क्षैतयतायनि- पा)
पाग ४,१,१५४
क्षैतवत्- ✓क्षि (निवासग^०) द्र.
क्षैति- ✓क्षि(क्षये) द्र
क्षेत्र- ,°त्र- प्रभृ ✓क्षि(निवासग^०)द्र
क्षैप्र- प्रभृ ✓क्षिपु द्र
क्षैमवृत्ति- प्रभृ ✓क्षि (निवासग^०) द्र
क्षैमिति^०- -ति. बौश्रौप्र ४८ ८
क्षैरकर[ल,ल]ग्भि- क्षीरकर[ल]ग्भ- द्र
क्षैरहद- क्षीरहद- द्र
क्षैरेय- क्षीर- द्र
✓क्षोद्^d पाधा तुरा उभ क्षेपे

क्षोण^०- -णस्य निघ ४, ३, या ६, ६
क्षोणि,णी^०- पाउ ४,४८, -णि निघ
१,१^f, -णी अप ४८, ६०^g,
७२^f, निघ ३,३०^g
क्षोत्- , क्षोदस-,क्षोदिमन्,क्षोदिष्ठ-,
क्षोदीयस- ✓क्षुद् द्र
क्षोधुक- ✓क्षुद् द्र
क्षोभ- , क्षोभण- ✓क्षुद् द्र
क्षोम- पाउ १,१४०
क्षौणी^b- -णी विव ५,१८३, -णीम्
विघ १,६२
क्षौद्र- प्रभृ ✓क्षुद् द्र
क्षौद्रकमालव- क्षुद्र- द्र
क्षौम- , क्षौमिकी-, क्षौमी- क्षुमा- द्र
१,२क्षौर- क्षुर- द्र
✓क्षुण¹ पाधा अदा पर तेजने
क्षमा^०- पाउ ५, ६५, ऋक्षमया आश्रौ
२,१५,२, शाश्रौ १०,१०,८, या
१०,७७, ऋक्षमा अप ४८, ७२
निघ १,१, या १०,७७
✓क्षमाय¹ पाधा भ्वा आत्म विधूनने
✓क्षमील् पाधा भ्वा पर निमेषणे
✓क्ष्विद्^h पाधा भ्वा. पर अव्यक्ते
शब्दे
क्ष्वेड- >क्ष्वेड-घण्टा-त्राद्य-कर-
>°कर-नट-वृथाप्रव्रजित-रङ्ग-
वैताल-लेखनजीवक-देवलक-नक्ष-
त्रजीवक-ग्रामयाजक-पयिहित-
पर्याधारक(?) -परिषङ्ग-पौनर्भ-
व-दिधिषूपति-राजसेवक-तत्पुरो-
हित- -ता: काध २७९ २
क्ष्वेडन¹- -नम् ऋप्रा १४,२०
क्ष्वेडि(त>)ता- पाग २,४,३१

क्ष्वेडिता(ता-आ)स्फोटितो(ता-उ)
क्षु(ष्ट>)ष्टा- -ष्टा. अप ५८²,
४,१२
✓क्ष्विद् पावा भ्वा^m आत्म,
दिवा पर स्नेहनमोचनयो
क्ष्वेदित-, क्ष्वेदितवत्- पा १, २,
१९
✓क्ष्वेल् पाधा भ्वा पर चलने

ख

ख>ख-कार- -रे ऋप्रा ६,२१
खकार-यकार- -रौ ऋप्रा ६,
५५
ख-फा(फ-आ)दि- -दय पाशि
२४
ख-य- -यौ शुप्रा ४,१६७
ख-सवर्ण- -र्णम् याशि २,३६
१ख- ख^m वेज्यो १८, खे^० ऋत ३,
८,५
२ख^०- पाउभो २,२ ५१^p, खम्
आपश्रौ २, १० ४^f, ४,४,४,
भाश्रौ ४,५, ५, माश्रौ १,२,६,
१८^f, वाश्रौ १,१,२,१६,३,३,
२८^f, हिश्रौ १,८,२१^f, ६,१,
५१, द्राश्रौ ५,४,८, शंघ ११६-
६०^q, विघ ८,३३, बुदे ७,९३;
शुअ १, १२^f, ४, १३२, या
३, १३^f, पाग १, ४, ५७;
खस्य तैप्रा २२, ९, १०, खाल्
शुप्रा १,६, खानि वाग ६, ३६,
अप १, ३९, ३^f, अशा ९, ३,
वाध ३,२८, बौध १, ५, २१,
विघ २३, ५१, ६२, ८, ७१,

a) = [माण्डसंलग्न-] दग्धाश- । कस । b) व्यप । व्यु ? । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? ।
d) = ✓खोद्, इ इति [पक्षे] BPG । e) वैप १ द्र । f) पृथिवी-नामन्- । g) दावापृथिवी-नामन्- ।
h) = पृथिवी- । व्यु ? । i) पा १,३,६५ परामृष्ट द्र j) पा ७,३,३६ परामृष्ट: द्र । k) = ✓क्ष्विद् इति [पक्षे]
BPG । l) = ध्वनिदोष-विशेष- । m) = ✓क्ष्विद् इति [पक्षे] BPG भाण्डा. पासि । n) निर्विभक्तिक. पाठ: ।
= विशाखानक्षत्र- । o) दु ख- इत्यस्याऽन्तिमाक्षरस्य सप्त । p) <✓भश् (व्याप्तौ) । q) = एकादशस्त्रेऽवन्यतम- ।

७९, गौव १, ४१, अत्र १०, २१, या १०, ९१, ऋखे आपम १, १, ९३, लु ८, १, कौगृ १, ९, ७, शागृ १, १५, ६, कागृ २५, ९३, २६, ३५, मागृ १, ८, ११३, वागृ १४, १३, कौसू ३५, ७, अप ५८, २, ८, या १, ९, ऋप्रा २, ४५, १३ १, शैशि २२९, याशि २, ६८, खेन कौसू १५, ४, ७२, १६, खेभ्य या ३, १३
 ख-कोटि- -टिषु अप ६५, १, ७
 ख-ग- -गैः वाध ३, ४५
 ख-नाम^३- > खगमा(म-अ)गम्य-
 -म्यम् विव १, ३७
 ख-चर- -रा अप ५२, १२, ३
 ख-च्छ^३- -च्छः, ख-च्छद^३- द
 या ४, १८
 ख-द्योत- -त शंघ ३७७ १६,
 -तानि अप ६५, २, ४
 ख-मूर्ति- -मत्- -मान् विध ५५, १६
 १ ख-र- पावा ५, २, १०७
 ख-श(य>)या- -या या २, १९,
 -या या १, ४
 ख-शरीर^०- > शरीरिन्- -रिण
 कप्र १, १०, ९^d
 खे-चर-रा अप ५७, ३, ५,
 -राणि अप ७०^३, ११, १३
 ऋखगल्य^०- ल्यम् आपश्रौ १६, १८,
 ४, वैश्रौ १८, १५ १२, हिश्रौ
 ११, ६, २६
 ✓खच्^१ पाधा क्रया पर भूतप्रादुर्भावे.

✓खञ् पाधा भ्वा पर मन्थे
 ऋखज^६- -जे अप ४८, १०५, निघ
 २, १७
 खज-कर^६- -रम् बौश्रौ १८,
 १७ १३१
 खजप- पाउ ३, १४२
 खजाक- पाउ ४, १३
 ऋखजापो, बौ^३जा^३- -जा आपमं२,
 १३, १०, आमिगृ २, १, ३ १६,
 भागृ १, २३ ५
 खजूर- (> खाजुरायण-) रखजूर-
 टि द्र
 ✓खञ्ज पाधा भ्वा पर गतिवैकल्ये
 १ खञ्ज- पाग २, २, ३८, -ञ्ज.
 बौपि ३, ५, २.
 रखञ्ज^१- (> खञ्जा-गिरि- पा) पाग
 ६, ३, ११७
 खञ्जन^क- (> खाञ्जन- पा) पाग
 ४, १, ११०
 खञ्जर- पाग २, २, ३८
 खञ्जरीट^१- पाउभो २, २, १०४.
 खञ्जरीट-क- -कम् शध ४२६
 खञ्जाक- पाउभो २, २, १२
 खञ्जा[जे^३]र^क- पाग ४, १, ११०^३,
 ११२
 खाञ्जा, जे[र]- पा ४, १, ११२
 खाञ्जारायण- पा ४, १, ११०
 खञ्जाल^क-, -स^०-, -ह^०- (> खा^० पा)
 पाग ४, १, ११२
 खञ्जूल- (> खाञ्जुलायन- पा)
 पाग ४, १, ११०^३

✓खट् पाधा भ्वा पर काञ्जायाम्.
 खट्^३ बौश्रौ ९, १८०७
 ✓खट्ट पाधा चुरा उभ संवरणे
 खट्टवर^३प- (> खाट्टवेर- पा)
 पाग ४, १, १२३
 खट्टवा^१- पाउ १, १५१, पाग ५, १,
 ५०, -ट्टवा पा २, १, २६,
 -ट्टवाभि पावा ६, १, ८४,
 -ट्टवायाम् आपध १, ६, ४, १५,
 २१, हिध १, २, २९, ४, ८०
 खट्टवा(ट्टवा-अ)ङ्ग- -ङ्गम् अप ४०,
 ३, २, आपध १, २९, १, हिध
 १, ७, ५७
 खट्टवाङ्ग-कपाल-पाणि- -णि.
 गौव २२, ३
 खट्टवाङ्गिन्- -ङ्गी शध ३७९,
 ३८९, बौध २, १, ३
 खट्टवा-भार- > खाट्टवाभारिक-
 पा ५, १, ५०
 खट्टवा(ट्टवा-आ)रूढ- पाग ६, २,
 १४७
 खट्टवा-शयन- > न-दन्तधावन-
 प्रक्षालना(न-अ)भ्यञ्जनो(न-उ)
 पानच्-छत्र-वर्जिन्- -र्जी वाध
 ७, १५
 ✓खड् पाधा चुरा उभ भेदने
 खड्डा, डा^१]- (> खड्डा, डा]-वत्-
 पा) पाग ४, २, ८६
 २ खड्ड^क- पाग ४, १, ११०
 खाडायन- पा ४, १, ११०, पाग ४,
 २, ५४^६, ८०, १३८^६, ३, १०६

a) = ख-ग-। उप अच् प्र उसं (पा ३, २, ४७)। b) विप.। उस उप < ✓खट्ट (आच्छादने)।
 c) = [व्योमस्थित-] वायुमय-शरीर-। d) अशरीरिणः इति BI। e) व्यु. पामे च वैप १, १२०३ I, S द्र।
 f) = ✓खव् इति [पक्षे] पासि प्रभृ। g) वैप १ द्र। h) भागृ पाठ। i) तु टि ?बजाबोजा-।
 j) तु पागम। अर्थ व्यु च ?। k) व्यप। व्यु ?। l) = पक्षि-विशेष-। व्यु ?। m) भोजमते (तु.
 पागम.)। n) तु भाखडा। o) तु पासि। p) तु पाका। रखडूर- इति भाखडा, खट्टर- इति पागम।
 q) = पर्यङ्क-। व्यु ?। r) तु पाका पागम च। = तृणजाति-विशेष-। व्यु ?। s) खाडायन- इत्यन्य. इति
 पागम.। t) खाडायनि-, खाण्डायनी- इति पाका।

खाडायनक- पा ४, २, ८० ^a	खाड्ग- -ङ्गेन विध ७९, २४ ¹⁾	३, १० ^क , -ङ्गः आपश्चौ १७,
खाडायन-भक्त- पा ४, २, ५४	खाड्ग-कवच- -च. शाश्रौ	२२, ५, २२, ४, २४, वैश्रौ १९,
खाडायनिन्- पा ४, २, १०६	१४, ३३, २०	६ १४३, हिश्रौ १२, ६, २६;
खाडायनि- पाग ४, २, १३८	खड्ग-कृतप-कृष्णाजिन-तिल-सिद्धा-	-ण्डाम् आपश्चौ १६, १३, ९;
खाडायनीय- पा ४, २, १३८ ^२	थैका(रु-अ)क्षत- -तानि विध	बौशु ७ १, -ण्डेन आपध १,
खडण्ड ^b - (>खाडण्डक- पा) पाग	७९, १६	२४, १४, हिध १, ६, ६३
४, २, १२७	खड्ग-पात्र- -त्राणि विध ७९, २२,	खण्डी- पा २, ४, ३१ ^३ .
खडिक ^c - (>खाडिकि ^a - पा)	-त्रेण शंघ ११६. ७१, ११७	खाण्ड- पा ४, २, १३३
पाग ४, २, ८० ^d	खड्ग-प्रभृति- -तीनि अप १८ ^२ ,	१खाण्डक- पा ४, २, १३४.
खडिव ^e - (>खाडिव्य- पा) पाग	१९, १	२खाण्डक- पा ४, २, ८० ^a ;
४, २, ८० ^e	खड्ग-मास- -सेन आपध २, १७,	१२७
खड्- पाउ १, ८२	१, हिध २, ५, २८	खाण्डाय(न>)नी->नीय-
†१खडूर ^f - पाउभो २, ३, ५७, -रे	खड्ग-सृग-महिष-मेघ वराह-पृषत-	पा.) खाडायन- टि द्र
अत्र ११, ९, अपं ३ ४९	शश-रोहित-शाङ्ग-तित्तिरि-	खण्ड-क- पा ४, २, ८० ^a
२खडूर- (>खाडूरैय-)खट्वर-	कपोत-रुपिञ्जल-वाध्याणस-	खण्ड-कृष्ण लक्ष्म-वर्जम् माश्रौ
टि द्र	-नानाम् बौग २, ११, ५३	६, १, ४, ३९
खडूरक->खाडूरक-)रुदूरक-टि द्र	खड्ग-वर्ज- -र्जा बौध १, ५, १३१	खण्ड-ता-, खण्ड-स्व- पा ५, १,
खडोन्म(त>)त्ता ^f - (>खाडोन्म-	खड्गो(ङ्ग-उ)पस्तरण- -गे आपध	१२२
त्तैय- पा) पाग ४, १, १२३	२, १७, १, हिध २, ५, २८	खण्ड-परशु ^g - -०शो विध ९८,
खड्ग ^h - पाउ १, १२४, -ङ्ग बौग	खड्ग- पाउ १, ८२	७३
२, ११ ६५, -ङ्गम् अप ४,	खण ^{०:क} - (>खाण- पा) पाग ४,	खण्ड-र- पा ४, २, ८० ^a
१, १२ ^२ , १३ ^१ , १४, २३, २, १,	१, ११२	खण्ड-शस् () मैत्र ८
६, १, २, १३, २, -ङ्गस्य अप	✓खण्ड ^१ पावा +वा आत्म. मन्थे	खण्डा(एड-अ)जिन->नीय-
१, ४४, ४, ४५, ६, -ङ्गा अप	चुरा उम भेदने	पा) खलाजिन- टि द्र
१, ८, ६, ६७, ६, ५, ७० ^३ , ७, ८,	खण्ड, ण्डा ^m - पाग २, ४, ३१, ४,	१खण्डित- पा ५, २, ३६.
७१, ९, ५, विध ८०, १४,	२, ८० ^{३d} , ९०, १२७ ^३ , १३३ ^० ,	खण्डिमन्- पा ५, १, १२२.
-ङ्गानि अप ७० ^३ , ११, १३,	१३४, ५, १, १२२; २, ३६, -ण्ड	खण्डीय- पा ४, २, ९०.
-ङ्गे बौश्रौ २, ५. ६ ^१ , वाध	शाश्रौ १६, १८, १८, गौपि २,	खण्डन-> ०न-कारक- -क शंघ
१४, ४७, विध ९९, १२, -ङ्गेन	४, १०, -ण्डम् आपशु २, १६,	३७७. ८
शध ११६: ८१ ^१ , २८१	बौशु २ १०, हिशु १, ३७, या	खण्डल ^r - पाग २, ४, ३१

- a) =देश-विशेष-^१। b) =देश-विशेष। व्यु^१। खण्ड- इति [पक्षे] पाका, षडण्ड- इति भाण्डा पासि। c) अर्थ व्यु च^१। d) खण्डिक- इति पागम., गडिक- इति पाका। e) तु पाका., २खण्डित- इति भाण्डा। f) वैप १ द्र.। g) व्यप। व्यु^१। खरोन्म^० इति अभयनन्दी (तु पागम)। h) =असि-। शिष्ट वैप १ द्र.। i) सप्र खड्गेन <> खाड्गेन इति पासे। j) खड्गेन इति जीस। k) तु. पाका। रवण- इति भाण्डा। l) या ३, १० परामृष्ट द्र। m) बप्रा। =शकल-। n) अर्थ^१। सकृत् खण्ड-, वीरण- इति पाका., खाण्डवीरण- इति भाण्डा। o) पृ २०० f द्र। p) तु. पागम.। q) विप.। बम.। r) =खण्ड- इति पागम। व्यु^१।

खण्डिक^१- पाग ४, २, ३८^b, ४५^c,
८०^d, ५, १, १२८, -कः वाधुश्रौ
३, ४६ : ३^e, -कस्य वाधुश्रौ ३,
४६ . १५^f
१खण्डिक- पा ४, २, ३८, ४५
२खण्डिक^२- -कम् बौश्रौ १७,
५४ : ५, -कैभ्य- गोश्रु ३, ३, ८
खण्डिकीय- पा ४, ३, १०२
खण्डिकेय- -या चव्यु २: १४, १५
खण्डिकेयौ(य-श्रौ)खेय-
-यानाम् भासू ३, २६
खण्डिक्य- पा ५, १, १२८
खण्डित- ✓खण्ड् द्र
खण्डित- (> खण्डित्य- पा)
खडिव- टि द्र
खण्डिन- (खण्डिनि- पा) पाग
४, २, ८०
खण्डिमन्- ✓खण्ड् द्र.
खण्डिल^३- -लस्य मागु १, ६, ३^h
खण्डीय- ✓खण्ड् द्र.
खण्डु^४- पाठभो २, १, १११; पाग ४,
२, ७७ⁱ, ८०.
- १खण्डव^५- पा ४, २, ७७, -वे
बौश्रौ १७, १८ ८
खण्डवक^६- पा ४, २, ८०
खण्डु^७-> २खण्डव- -वम् विध
५१, ३५
खण्वखा^८- ०खाश्ङ् अश्र ४,
१५, शौच १, ९६, १०५
✓खद् पाधा भ्वा पर स्थैर्ये हिंसाया
भक्षणे
खद^९-(> खद्य-पा) पाग ५, १, २
खदा^{१०}- -दायाम् कौसू २४, २५, ३८,

७, ४५, १
खदा-शय- -यस्य कौसू ४६, ३३
खदिर^१- पाठ १, ५३, पाग ४, १,
११०^o, २, ८०^{३०}, ९०, ३, १३९,
५, २, २४, ६, ३, ११८, -र
वाधुश्रौ ४, ६४^५ २, वैश्रौ, -रम्
अश २१, ४, -रस्य द्राश्रौ ५,
२, २, लाश्रौ २, ६, १, कौश्रु १,
९, ३^१, शाश्रु १, १५, १०^१, अप
३६, २, ४, माशि ४, १
खदिर- पा ४, ३, १३९, -रः
काश्रौ १, ३, ३३, आपश्रौ, -रम्
आपश्रौ १, ५, ६××, काठश्रौ,
-राः शाश्रौ १६, ३, २××,
आपश्रौ, -राणि आपश्रौ १, १५,
१३××, भाश्रौ, -रान् बौश्रौ
१५, १४ ३××, गोश्रु, -रे
आपश्रौ १९, २३, १३××, बौश्रौ,
-रेण काश्रौ ८, ३, १२××,
वाधुश्रौ, -रै. आपश्रौ २०, १०,
५, वाश्रौ ३, ४, २, ४, हिश्रौ १४,
३, २, -रौ अप २२, ६, ५
खदिरि^२- पाग ४, २,
९७, -री बौश्रु १, ३, १३, -रीः
निस् १, ११ ७, अशा २१, ३^१,
-रीम् काश्रौ १५, ७, १, आपश्रौ,
-र्या माश्रौ ४, १, १०
खदिरिय- पा ४, २,
९७
खदिर-^३य(त्रि-अ)क-
समिध्- -मिधाम् अप ३६,
२४, २
खदिर- पालाशा(श-अ)

लाम- -भे गोश्रु १, ५, १६
खदिरा(र-अ)भि- -श्रौ अफ
३१, ९, ४
खदिरौ(र-श्रौ)दुम्बर- -रान्
काश्रौ २, ८, १
खदिरक- पा ४, २, ८०^{२k}
खदिरायण- पा ४, १, ११०
खदिरक- पा ४, २, ८०^k
खदिर-कुण- पा ५, २, २४
खदिर-बिब्ल-रौहितक- -कान् काश्रौ
६, १, ९
खदिर-व(त् >)ती- पा ६, ३,
११८
खदिर-शङ्कु-शत- -तम् गोश्रु ४,
८, १२.
खदिरा(र-अ)दि- -दीनाम् अप
३६, ७, १
खदिरा(र-अ)भाव- -वे काश्रौ ६,
१, १०
खदिरिय- पा ४, २, ९०
खदूर-(> खदूरेय-)खट्वर- टि द्र
खदूरक-(> खा^०-पा)कदूरक- टि द्र
खद्योत- रख- द्र
✓खन्^५ पाधा भ्वा पर अवदारणे,
खनति काश्रौ २, ६, १××^५
आपश्रौ, खनन्ति शाश्रौ १३, २९,
६, १७, ५, ८, काश्रौ २४, ५,
२९, आपश्रौ, ण्खनामि आपश्रौ
११, ११, ६, बौश्रौ ६, २८ ११,
वैश्रौ १४, ७: ९, हिश्रौ, ण्खना-
मसि कौसू ३३, ९^२, ४०, १४,
खनतु बौश्रौ १०, ६ ९^१, खन
बौश्रौ ४, २: ३३, ६, २६ ६^१,

a) बभ्र।। नाप। व्यु ?। b) तु पागम। = कलाय-। c) °का- इति पाका। d) पृ ९६१ d
द्र। e) व्यप। f) व्यप, नाप। g) अर्थ व्यु च ?। h) खण्डित- इति भाष्यम् ?।
i) तु. भाष्य। रकण्डु- इति [पले] पाका। j) = वन-विशेष-। k) = देश-विशेष- ?। l) वैप १ द्र।
m) = हिंसक- (तु पागम)। n) = गर्त-। व्यु ? < ✓खद् इति MW। o) अर्थः ?। p) विप, व्यप-
(नगरी- [पाग j])। q) या ३, १३ पा ३, ६७, ६, ४, ४३, ९८ परामृष्टः द्र।

१३१, २२, वैश्रौ, ऋखनतात्
आश्रौ ३, ३, १, शाश्रौ ५, १७, ७,
आपश्रौ ७, १६, १, बौश्रौ,
अखनत् कौस् ३३, ९, ४०,
१४१, अर्प २ : ३२१, खनेत्
आपश्रौ २, ३, ६, बौश्रौ २२, १
१२, २४, २४ : १४, २६, २४
२, भाश्रौ, खनेयु लाश्रौ १०,
१५, १७

खन्यात् द्रागृ ३, ५, ६

खायेत् वाधुश्रौ ४, २६. २६

खानयति बौश्रौ ४, २ ३४, ६,

२५ १३-१६xx, वैश्रौ १८,

१ : ८०, खानयन्ति बौश्रौ

१०, १९ : ११, १८, १९, १

१८, आमिगृ ३, ८, १ ३२,

बौषि १, १५ ११, खानयेत्

शाश्रौ १७, १०, २, ४, आगृ ४,

१, ६, गोगृ ४, २, १६, जैगृ

खनक- पावा ३, १, १४५, -क वैध

३, १५, ८, -कात् वैध ३, १५, ९

खनत्- नन् वैध ३, ४, ३, माशि

१६, ७, याशि

खनति-> णि-कर्मन्- मर्मा या २,

२६

खनन्- -नः वाश्रौ १, ६, १, २५,

-नम् वैश्रौ १४, ४ : १३, वैगृ

५, १३ १३, -नात् आपश्रौ २,

३, ६, बौश्रौ २०, ६ ३०, वैश्रौ,

-ने बौश्रौ २२, १ १२, अप

४८, ४६.

खनन-जीविन्- वी वैध ३, १५,

८

खनन-पुरी(ष>)षा^०- -षाम्

भाश्रौ २, ३, १.

खनन-मन्त्र- -न्त्रम् भाश्रौ २,

३, ३

खनना(न-अ)न्यमृत्पूरण-गोवास-

का(क-२आ)द्य- -चै वैध ३,

४, ३

खनना(न-अ)र्थ- -र्थम् वैश्रौ

११, ७ १३

खनातक^०- -केन आपश्रौ १७, २६,

१७

खनि^०- पाठ ४, १४०, -नि बौश्रौ

२२, १ १०१, -निम् आपश्रौ

२, २, ३१

ऋखनित्- -ता कौस् ३३, ९, -तार

कौस् ४०, १४.

खनिन्न^०- पा ३, २, १८४, -त्रेण

आपश्रौ १७, २६, १५, हिश्रौ १७,

१, १३, लाश्रौ ८, २, ४१, माशि

१६, ७, याशि २, १११, नाशि

२, ८, २७

ऋखनिन्नि(म>)मा^०- -मा

अप्रा ३, ४, ५

खनि वा वैश्रौ १३, १ : १०, वैगृ

खनिष्यत्- -ष्यन्त आपश्रौ १५,

१, ७xx, हिश्रौ ११, १४

खन्य- पा ३, १, १२३

२खर^०- -र. वाश्रौ ३, २, ७, १३,

काश्रु ७, २१, २२, ३८, शुअ ४,

९७, -रम् आपश्रौ ४, ६, १, ७, ४,

५, ३, १७, काश्रौ ८, ५, २५, १४,

१, १८, १९, २, ७, आपश्रौ ११,

१३, ८xx, -रयो काश्रौ १९,

२, १६, -रस्य बौश्रौ ७, २ :

८xx, -रा कागृ ६५, ४,

-रात् भाश्रौ ५, २, ४, १०, -रान्

आपश्रौ १५, ६, २०, भाश्रौ ११,

६, १५, वैश्रौ, -राय आपश्रौ

११, ७, ८, -रे काश्रौ १०, ६, ४;

२५, १४, १, २६, २५, १२,

१०xx, वाश्रौ ३, १, १,

४^१, -रेभ्य आपश्रौ १५,

५, २०, बौश्रौ ९, ५ ९;

१३ ३, भाश्रौ, -रौ शाश्रौ ५,

९, ४, काश्रौ १९, २, ३, २६, २,

३०, ७, ३०, आपश्रौ १५, १३,

७, १४, ५, बौश्रौ ९, १३ :

७, १४. १४, भाश्रौ

खर-काल- -ले आपश्रौ १८,

१, ११, वैश्रौ १७, ७ ९

खर-देश- -शे माश्रौ ४, १, २१;

६, १, २, १४

खर-पासु- -सुन् वैताश्रौ १६,

२३, हिश्रौ ९, ५, १२

खर-मध्य- -ध्ये काश्रौ १४, २, ९

खर-श्रोणी- -ण्याम् बौश्रौ ७,

२ १३, १४.

खर-स्थूणा-मयूख-कृष्णाजिना-

(न-अ)भ्युपशया(य-आ)सन्दी-

-न्दीनाम् काश्रौ २६, ६, २७.

खर-होम- -मान् हिश्रौ ३, ३, १७.

खरा(र-अ)स- -से वैश्रौ १५,

२ : ११.

खरा(र-अ)न्त- -न्ते वैश्रौ १५,

२ : १४

खरा(र-अर्थ>)र्था- -र्याः

काश्रौ २६, २, २३

खरो(र-उ)त्तर-पूर्वा(र्व-अ)-

र्वा^०- -र्वा काश्रौ ९, २, २.

a) कर्तरि भवि च प्र । b) विप । बम । c) = खनित्र- (तु. ता १६, ६, ५) । भातक. प्र. उस्. (पाठ ३, ८२) ? । d) वै १६ । e) = स्थण्डिल- । डर प्र. (पावा ३, ३, १२५) । f) क्से इति पाठः ? यनि- शोधः (तु. सप्र. काश्रौ १४, १, १८ ? संस्कर्तुं टि च) । g) षस. > षस. > षस. पूष. = स्थखिडल-, उष- = ईशान-कोण- ।

खरो(र-उ) त्तरा (र-अ)र्ध- -र्धे
काश्रौ ८,७,१३
खरो(र उ)परवो(व-उ)त्तरवेदि-
-दिम् माश्रौ २,२,४,१२
खात,ता^३- -तः निघ ३, २३^३,
-तम् लाश्रौ ३, ११, १^३, कप्र
१, ८, १३, -ता आपश्रौ ८,
१३, ४, -ते शाश्रौ ४, १५, ८,
काश्रौ १६, ८, १९, माश्रौ, -तेन
अप २३, २, २
खात-क- -कम् अप ३१, ५, ४
खात-ह्वन-छिन्ना(व-अ)वहत-
पिष्ट-दुग्ध-दग्ध- -ग्धेषु काश्रौ
१, १०, १२
खात्र^४- पाठ ४, १६२
खात्वा काश्रौ १९, २, ७, २१, ४, १९,
आपश्रौ २५, ८, ३×४, काठश्रौ.
खानयित्वा कौश्रौ ११, २ : ९, १६,
२० : १०, कौश्रु
खान्य- पा ३, १, १२३, -न्यम्
लाश्रौ ८, २, ४
खान्या(न्य-अ)भाव- -वे लाश्रौ
८, २, ५
खेय,या^५- पा ३, १, १११, -या
बौश्रौ २४, २४ : १०, ११^२,
-याम् वाश्रौ १, ३, १, ४५
चाखायितुम् पावा ६, ४, २२
चाखायितृ- -ता पावा ६, ४, २२
खन^६- > खन-खन^६- -नाय अप
३६, ९, १७, २४, १
खनन- प्रथ √खन् द्र.
खपुर^७- > ष-व(त >)ती- पाग ६,
३, ११८.

खमूर्तिमत्-, १ खर- २ ख- द्र
२ खर- √खन् द्र
३ खर^८- > खर-ता- -ता वैश्रु ३, १० :
२
४ खर, रा^९- पाग ५, १, २, पावा ५, २,
१०७, -रात् काश्रौ १६, ३, १०,
-रेण विध ५४, २३, -रै. अप
६१, १, ७, ६४, ७, ५
खरी- > ख(री >) रि-धम-,
ख(री >) रि-धय- पावा ३, २,
२९
खर-कण्ठ^१- -ण्ठ सु २३, ४
खर-करभ-महिष- -षाः अप ६७,
७, १
खर-करभ-मु(ख >)खा- -खा
अप ७०^३, ११, २६
खर-कुटी^१- पा, पाग ५, ३, ९८
खर-णस्-, °स- पावा ५, ४, ११८
खर-नादिन्^२- पाग ४, १, ९६
खारना[णा^१]दि- पा ४, १, ९६,
-दय बौश्रौ १७ ६^१
खर-यान- -नम् शं व ३२५^२, सुध
५१
खर-वध- -धे विध ५०, २७
खर-वृषो(ष-उ)ष्ट्रा(ष्ट्र-अ)श्च-
-श्चान् अप ७१, ७, ५
खर शाल- पा ४, ३, ३५
खरा(र-अ)जिन- -नम् आपध १,
२८, १९, २१, हिध १, ७, ५४,
५७
खरा(रा-अ)भिगामिन्- -मी शं व
३७८ : ७
खरा(र-आ)रोहण- -णम् शं व ३१३

खरो(र-उ)ष्ट्र- -ष्ट्रम् शं व ३०५^२
-ष्ट्रा अप ७१, ३, ५
खरो(र उ)ष्ट्र-काक-मांसा(स-अ)-
शन- -ने विध ५१, २६
खरो(र-उ)ष्ट्र-हय-मातङ्ग- -ज्ञाः
अप ७०^३, ११, ४
खर्य- पा ५, १, २
५ खर^३- -रे अप ४८, १०६.
खरप^४- पाठभो २, २, २१२, पाग २,
४, ६३, ४, १, ९९
खरपायण- पा ४, १, ९९
खरीखन्^५°, खरीजङ्घ^५- पाग २,
४, ६९
खरु- पाठ १, ३६
खरु-सयोगोपध-प्रतिषेध- -ध
पावा ४, १, ४४
खरेभ^६- -भा बौश्रौ ४१ : १५.
१ खर्ग(ल >)ला^७- -ला अप ४८,
११६, -ला कौसू १०७, २
√खर्जू पाधा भ्वा पर पूजने,
खर्जूत्^८ माश्रौ ६, १, ४, ३०
खर्जूत्- -र्जूति काश्रौ ८, ४, ४, १६,
६, २०
खर्जू- पाठ १, ८०
१ खर्जूर^९- पाठ ४, ९०
खार्जूर^९- > र-पानस- -से विध
२२, ८३
खर्जूर-कर्ण^९- (> खार्जूरकर्ण- पा)
पाग ४, १, ११२
खर्जूर-सक्तु- -क्तव आमिगृ २, ५,
१० : ३, ११ ३, १६, -क्तून्
आपश्रौ १९, २६, १, वाश्रौ १,
७, २, २३, हिश्रौ २२, ६, ६.

a) वैप १ द्र । b) = कूप-नामन्- । c) पाभे पृ ४८४ कद्र । d) = खनित्र- । e) = शब्दानुकरण- ।
व्यु ? । f) = पूग-वृक्ष- । व्यु ? । < ख- + √पृ इति अभा । g) = कठोर- । व्यु ? । h) वैप १, १२०१ f द्र ।
i) = सर्प-विशेष- । बस । j) = नापित-शाला- (तु पागम) । k) बौश्रौ पाठः । l) व्यप । उस ।
m) = क्षिप्र- । व्यु. ? । n) व्यप । व्यु ? । o) तु पागम । p) व्यप । खा^० इति पाका । q) = ऋषि-विशेष- ।
व्यु ? । r) कूजने वृत्ति । s) विप । विकारार्थे प्र । t) व्यप । बस ।

आमिष्ट २,५,१० १७
 २खजूर^a- (> खार्जूरायण- पा)
 पाग ४,१,११०
 ✓खर्व^b पाधा भ्वा पर दन्द्श्रुके
 ✓खर्व^c पाधा भ्वा पर गतौ
 ✓खर्व^d पाधा भ्वा पर दर्पे
 १खर्व^e- र्वः बौगृ १,७,३६, -र्वेण
 बौगृ १,७,३५
 ख(र्व-रु>)र्विका^f- -काम् आपश्रौ
 २४,२,२३१
 खर्वि (त>) ता^g- -ताम् कप्र २,
 ६,९०
 ✓खल्ल^h (बधा) पाधा भ्वा पर
 सचये
 १खलⁱ- पाग २, ४, ३१, ५, ३,
 १०८, पावाग ४, २, ५१, -ल
 आश्रौ २, ७, १४, काश्रौ २२,
 ३, ४२, आपश्रौ २२, ३, ४,
 ४, ९, अश्र ११, ३१, या ३,
 १०८, -लम् वाधूश्रौ ४, ६४^j
 ६, -ले हिश्रौ १७, १, ४२, २,
 १८, लाश्रौ ८, ३, ५, पागृ २, १७,
 १६, अप ४८, १०५^k, निघ २,
 १७^l, या ३, १०^m, -लेषु
 अप ५८ⁿ, ४, ४
 खालिक- पा ५, ३, १०८
 खल-क्षेत्र- -त्रेषु बौध १, ५, ५५
 खल-माला->°लि(न>)नी-
 -नीम् पागृ २, १७, ९१

खला(ल-अ)जिन^o- (>°नीय पा)
 पाग ४, २, ९०
 खलि(न>)नी- पा ४, २, ५१,
 पावा १, ३, १०, ४, २,
 ५१
 खले-डु[,श¹]स¹- पाग २, १,
 १७
 खले-यव- पावा, पाग २, १, १७
 खले-वाली²- -ली आश्रौ २, ७, १५,
 काश्रौ २२, ३, ४७, आपश्रौ २२,
 ३, ७, बौश्रौ २६, ३२ १६, १७,
 हिश्रौ १७, १, ४५, २, १८, लाश्रौ
 ८, ३, ६१, -लीम् बौश्रौ १८,
 २१ ४, -ल्या काश्रौस २८.
 २
 १खल्य- पा ४, २, ५०, ५, १, ७
 २खल³- पाउना ५, ८३
 ३खल⁴->खली⁵- पागम ५७
 खले(ल-इ)ष्टका- -का अशा १३,
 २
 खलकुल⁶- -लान् कौसू ८२, १८,
 -लै अप १, २९, १.
 खलत- पाउखे ३, १०५
 खलति⁷- पाउ ३, ११२, पाग २, २,
 ३८, ३, ४, ७४, -तिः शाश्रौ
 १६, १८, १८, बौश्रौ १५, ३७
 २, १८, १ ५, शंघ ३७७ १,
 -तिम् आपश्रौ २०, २२, ६,
 हिश्रौ १४, ५, ४, -तेः वाश्रौ ३,

४, ५, १७.
 खलतिन्⁸- -तिनः अप ६८, १,
 ११
 खलतिक⁹- पावा १, २, ५२
 खलतुल-प(र्ण >)र्णी¹⁰- -र्णीम्
 कौसू २९, १५
 खलीन¹¹- पाउभो २, २, १९७¹², पाग
 २, ४, ३१
 खलु¹³ आपश्रौ ८, ९, १२, २१, ५×४;
 बौश्रौ, या १, ५¹⁴, १३, १२, पाग
 १, ४, ५७
 २खल्य¹⁵- ,°ल्यका- (यक्र >खाल्या-
 यनि-, खाल्यकायनि- पा) पाग
 ४, १, १५४
 १खल्व¹⁶- पाउभो २, ३, १२९¹⁷, -ल्वान्
 कौसू ८२, १८.
 खल्व्वा (ल्व-आ) दि- -दीनि कौसू
 २७, २६
 २खल्व¹⁸- > खल्वायनि- -नय.
 बौश्रौ ४८ ५
 १खल्वका¹⁹ कौसू ८२, १८²⁰
 खल्वका-, खल्व्वा- (> खाल्व-
 कायनि-, ल्वायनि- यक्र)
 खल्य- टि द्र
 खल्वङ्ग²¹- -ङ्गान् कौसू २७, १४
 खल्व्वाट²²- पाग ५, १, १२७²³, -टः
 शंघ ३७८. १०, विघ ४५,
 २८
 ✓खल्व ✓खल्व टि द्र

a) व्यप । व्यु ? । खजूर- इति [पक्षे] भारुडा । b) वैप १, १२०११ द्र । c) वैप १ द्र ।
 d) = अमावास्या- । e) खर्विकाम् इति जीसं PW च । f) या ३, १० परामृष्टः द्र । g) = संप्राम-नामन्- ।
 h) खण्डाजिन- इत्यन्य इति पागम । i) तु पागम । j) = काल-विशेष- । k) वैप २, ३ख द्र ।
 l) = दुर्जन- । m) = तिल-कलक-, पिण्याक- [खल- नभा] इति । व्यु ? । n) तु पा ४, १, ४२ ।
 o) = धान्य-विशेष- । व्यु ? । p) मत्वर्थीय- इनि प्र. उर्स (पा ५, २, ११६) । q) = पर्वत- वा वन-
 वा । व्यु ? । r) = श्रोषधि-विशेष- । व्यु ? । पाठ- ? लकुल इति शोध (तु दारिल) । s) = कविका- ।
 व्यु ? । खलीन- इति अभा शक, खलिन- इति शाकटायनः इति पागम । t) < ✓खल्ल इति । u) व्यप । व्यु ? ।
 तु पाका । °का- इति भारुडा, °ल्वका-, °ल्व्वा- इति पागम । v) ऋषि-विशेष- । व्यु ? । w) अर्थ व्यु च ? ।
 = खल्व- (खल्वङ्ग- [कृष्ण-चरणक-]) इति संस्कृता (तु भू IL) । x) पृ ४४६ I द्र । y) = खलति- । व्यु ? ।

खश^a-> खश-भद्र- -द्राः अप ५६,
१,४
ख-शया-, खशरीरिन्- २ख- द्र
✓खष् पाधा +वा पर हिंसायाम्
खष्प- पाउ ३,२८
खस^b- पा, पाग ५, १, १७३
ख्वा^c- खाः अप ४८, ७६, निघ १,
१३, खाम् ऋप्रा ४, ६०
खाजुरायण- खजूर- द्र
खाञ्जन- खञ्जन- द्र
खाञ्जार-, खाञ्जारायण- खञ्जार- द्र
खाञ्जाल-, °स-, °ह- खञ्जाल-, °स-,
°ह- द्र
खाञ्जुलायन- खञ्जूल- द्र
खाट^d- -ट अप ४८, ७७
खाटि- पाउवृ ४, १२५
खादूर- वादूर- टि द्र
खाद्वरेय- खद्वर- द्र.
खाद्वामारिक- खद्वाम- द्र.
खाडण्डक- खडण्ड- द्र
खाडायन- प्रमृ २खड- द्र
खाडायनि- (खाडायनीय- पा)
२खड- टि द्र
खाडिकि- खडिक- द्र
खाडिव्य- खडिव- द्र
खाडूरक- खडूरक- द्र
खाडूरैय- २खडूर- द्र
खाडोन्मत्तैय- खडोन्मत्ता- द्र
खाड्ग- प्रमृ खड्ग- द्र
खाण- खण- द्र
खाण्ड-, १-२खाण्डक- खण्ड- द्र
१खाण्डव- १खण्डु- द्र.
२खाण्डव- २खण्डु द्र.
खाण्डवक- १खण्डु- द्र
खाण्डवीरण- (>खाण्डवीरणक-

पा) खण्ड- टि द्र
खाण्डायनी-, °नीय- खण्ड- द्र
१-२खाण्डिक- प्रमृ खण्डिक- द्र
खाण्डित्य- २खण्डित- द्र
खाण्डिनि- खण्डिन- द्र
खात- प्रमृ ✓खन् द्र
✓खाद^e पावा +वा पर भक्षणे,
खादति आपश्चौ १४, २९, ३१,
बौश्रौ १०, ५९ २४, भाश्रौ,
खादन्ति वाधूश्रौ ४, ११८ ९,
बौपि ३, ११, २, खादेन् बौश्रौ
२५, ३२ ३६, २९, ५ २१,
२३, वाधूश्रौ ४, ११८ : ११३,
आमिगृ
खादयन्ति शाश्रौ १४, २, ११४,
खादयेत् शध ३३१, गौध २४,
१४, खादयेयुः आमिगृ २, ५,
९ : १२, जैगृ २, ६ : १०
खाद- -दम् आपश्चौ २०, ५, १६,
हिश्रौ १४, १, ४७,
खादक- पा ३, २, १४६, -कः विध
५१, ७४
खादत्- -दत् विध ५१, ६२, -दन्
कौसू ३८, १७
खादत् > °त-मोदता-, °त-
वमता-, °ता(त-आ)वमता-
पाग २, १, ७२
खादति->°ति-कर्मन्- -र्मा या
४, १९
खादस्->°दो-अ(र्णं)>र्णा^f-
-र्णा अप ४८, ७६, निघ १,
१३
खादित->°ता(त-आ)र्ध- -र्धम्
शंघ २२६
खादितवत्- -वन्तः या १२, ४२

खादित्वा आपश्चौ १५, २१, ७, बौश्रौ
२६, ३३. १५, भाश्रौ ११,
२२, ९
खादायन- खाडायन- टि द्र
खादि->°खादिन्^g- -दिनम् आश्रौ
२, १६, ७, शाश्रौ ३, १३,
१७
खादिर- प्रमृ खदिर- द्र
खादूरक- खदूरक- द्र
खानयित्वा, खान्य- ✓खन् द्र
खाय-स्नेन^h- -ने अप ४८, १०५.
खार- पाग ४, १, ४१
खारीⁱ- पा ४, १, ४१, -र्नीम्
बौश्रौ ९, ४ ५, १०, ७ ६;
आमिगृ ३, ५, ७ १८, -र्नाम्
बौश्रौ ९, ४ २७, १०, ८:१०, वैश्रौ
१८, २ ८, आमिगृ
खारी(>)रि-धम-, °धय-
पावा ३, २, २९
°खारीक- पावा ५, १, ३३.
खारी-विवध- -धम् बौश्रौ
१६, ३० ७
खारीविवधिन्- -धी
बौश्रौ १६, ३० १
खारी-होम^j- -म बौश्रौ
१५, २० : ७, -मम् वाधूश्रौ ३,
७८ ४, ८३ ६-८, १२, १५;
१६^k, -मेन वाधूश्रौ ३, ८३ :
८
खारीहोमा(म-अ)नुवाक-
-कान् वाधूश्रौ ३, ८३ . १७
खार-शत->°तिक- पावा ५, १,
५८
खारणा, नादि- ४खर- द्र
खारपायण- खरप- द्र

a) = जनपद-विशेष- वा तद्वासिन्- वा । व्यु. ? । b) तु पागम् । c) वैप १ द्र । d) = शव-
शय्या- । व्यु ? । e) पावा १, ४, ५२ परामृष्ट द्र. । f) खाद्यम् इति ० । g) संग्राम-नामन्- ।
h) = अन्नहोम- वा तन्मन्त्रानुवाक- (तैस ७, ५, १२) वा ।

खारिग्रीवि^a- वय. बौश्रौप्र १७ ४
 खारी(री-इ)ण्डव^b- ण्डवम् बौपि १,
 ६ : १३
 खार्जूर- खार्जूरकण- १खर्जूर- द्र
 खार्जुरायण- २खर्जूर- द्र
 खार्दमायण^c- णा. बौश्रौप्र ४१ ७
 खार्दमायन^d- ना: बौश्रौप्र ९ : १
 खार्वमायन^e- ना बौश्रौप्र ४३ : ४
 खालिक- १खल- द्र
 ✓खिद् पाधा भ्वा पर त्रासे
 ✓खिद् ✓खेद् टि द्र
 ✓खिद्^f पाधा दिवा रुधा आत्म
 दैन्ये, तुदा पर परिघाते, खिदति
 वाधुश्रौ ४, ६४^g १२, अखिदन्
 वाधुश्रौ ४, ६४^g ११
 खिन्न- द्वा. वृदे ४, २१
 खेद- द. बौश्रौ २, ५ : ७^h
 खेदा(द-अ)नुकम्पा- ण्ययो या
 ६, २७
 खेदन- नम् या ११, ३७
 खेदाⁱ- पा ३, ३, १०४^o, -दया
 शैशि २२९
 खेदि^j- दय अप ४८, ११३,
 निघ १, ५
 खिदिर- पाउ १, ५१
 खिद्र^k- पाउ २, १३, -^lद्रम् आपमं
 २, १८, ९, या ११, ३७
 खिल^m- (> खैलायनⁿ- पा) पाग
 ४, २, ८०
 खिल^o- लः अत्र २०, १२७,
 -लानि ऋअ ३, ७, -ले आपश्रौ

१५, २०, २, ८, २१, २, १०,
 बौश्रौ ९, १९ ३, ३४, २० : ५,
 भाश्रौ ११, २१, २, ८, २२, ६,
 १३, हिश्रौ १०, ७, ६, भागृ ३,
 ६ ३, १५, ७ ८, -लेषु
 कौसू १४१, ३८, ऋअ ३, २६,
 -लौ अत्र २०, ४८
 खैलिक- -कानाम् ऋअ ३, १७,
 -कै. ऋअ ३, ३९
 खिव- (> खैवायन-) पाग ४, १,
 ११०^o
 खील^p- ल. १ आपश्रौ ४, १२, ८,
 भाश्रौ ४, १८, ४, वैश्रौ ७, ६
 १४, १२ २, हिश्रौ ६, ३,
 १७, ४, १०, -ला आपश्रौ
 २१, २०, ३, हिश्रौ १६, ६,
 ४१
 ✓खु पाधा भ्वा आत्म शब्दे.
 खुं शुप्रा ८, २४, याशि २, ९४
 ✓खुज् पाधा भ्वा पर स्तेयकरणे
 ✓खुइ पाधा तुदा पर संवरणे
 ✓खुण्ड पाधा चुरा पर खण्डने
 ✓खुद् [= ✓खुर्द] > चनीखुदत्-
 -दत् आश्रौ २, १०, १४^q
 खोदन- नम् शाश्रौ १२, २४,
 ८^r
 खुम् पाग १, ४, ५७
 ✓खुर् पाधा तुदा पर छेदने
 खुर^s-> खुर-खुर-> ✓खुरखुराय
 > ष्यमाण- ण वैगृ ५, १: २६
 खुर^t- पाउ २, २८ⁿ, पाग ४, १,

४५, ५६, -रै. काश्रौ १९, ४,
 १२
 खुरी- पा ४, १, ४५
 खुर-ण(<न)सू-, षस- पावा ५,
 ४, ११८
 खुर^u- > खुरी^v- यौ बौश्रौ
 १८, २४ १०
 ✓खुर् पाधा भ्वा आत्म क्रीडायाम्-
 ख-चर- २ख- द्र
 ✓खेद् पाधा चुरा पर भक्षणे
 ✓खेइ ✓खेद् टि द्र
 खेड^w- (> खैवायन- पा) पाग ४,
 १, ११०
 खेय- ✓खन् द्र
 ✓खेल पाधा भ्वा पर चलने
 खेला- (> ✓खैलाय पा) पाग
 ३, १, २७
 खेल^x- पाग २, २, ३८
 ✓खेव पाधा भ्वा. आत्म सेवने
 ✓खै पाधा भ्वा पर खदने
 खैम(ख>)खा^y- -०खाइ अत्र
 ४, १५, शौच १, ९६, १०५.
 खैलायन- १खिल- द्र
 खैलिक- २खिल- द्र
 खो पाग १, ४, ५७^o
 ✓खोद् ✓खेद् टि द्र
 खोड^z- पाग २, २, ३८
 खोदन- ✓खुद् द्र
 ✓खोर्, ल पाधा भ्वा पर गति-
 प्रतिघाते
 खना शैशि २१३

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु १। b) अर्थ- १। द्रस १, पूष = [संभारार्थ-] पिटक- इति, उप L परि-
 षेचनोपयोगिन्- जाल- इति U [तु भू X.I.]। c) पा ६, १, ५२, ७, १, ५९ पावा ६, १, १६१ परामृष्ट. द्र। d) वैप १ द्र।
 e) तु पागम। f) = रदिम-। g) अर्थ व्यु च १। h) = देश-विशेष- १। i) वैप १, १२०३ f, g द्र।
 j) पासे. वैप २, ३ख खील तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि द्र। k) पासे वैप २, ३ख कनीखुनत् तैत्रा २, ४, ६, ५ टि.
 द्र। l) = शब्दानुकृति-। व्यु १। m) = शफ-। व्यु १। n) < ✓खुर् (छेदने) इति। o) = खुराकृति-
 लोहमय-द्रव्य-। व्यु १। p) विप. (उपानह-। q) = ✓खिद्, ✓खेइ, ✓खोद् इति BPG। r) व्यप १
 व्यु. १। खेट- इति MW। s) = खज-। व्यु १।

√ख्या^१ पाधा अदा पर प्रकथने,
 †अख्यत्^२ काश्रौ १६, २, १४,
 २५, ३ १५, आपश्रौ ९, १, ११,
 ७, ६, ९, १, १६, २, ८, बौश्रौ २,
 १३ : ९××
 ख्यायते उनिसू ८ : ३६, ख्या-
 यन्ते या ३, २०^३
 ख्यापयन्ति अप ६८, १, २५
 ख्यात- पा ८, २, ५७, -तम् वृदे
 ६, १४६, आज्यो ५, १, -तान्
 अप ६४, १, ६
 ख्यातवत्- पा ८, २, ५७
 ख्याति- -ति विध ९९, ५, -तौ
 ऋत ३, ८, ६
 ख्याति-सदृश- -शेषु ऋप्रा ६,
 ५६
 †ख्यात्- -न्ने आपश्रौ २०, १, १७,
 बौश्रौ १५, ३ : ७, वाश्रौ ३, ४,
 १, ७, हिश्रौ १४, १, १२, पावा
 २, ४, ५४^४
 ख्यान- -नम् या २, २, १२, १६,
 -नैन या १२, २२^०
 ख्यापयत्- -यन् अप ६९, ७, ५,
 शव ३७२ : २, वृदे ५, ५१

ग

ग^१ पिं १, १०

ग^२ > ग-क-घा(घ-अ)क्षर- -रा शैशि
 २५४

ग-कार- -रम् या ७, १४
 गकार-लोप- -पम् निसू २, १० :
 ११
 गकारा(र-अ)न्त^१- -न्त निसू
 २, १० १०, -न्तात् अप्रा २,
 २, ५
 ग-ज-ड-द-ब- -बा याशि २, ९४
 ग-ड-द-ब- -बा नाशि २, ४, १०
 ग-न- -नौ भाशि ६०
 ग-प्रतिषेध- -धात् पावा ८, ४, ३
 ग-म- -मौ अप्रा ३, २, १५
 ग-र- -रौ भाशि ८८
 श्ग^२- ग वेज्यो १८
 र्ग^३- नाशि १, ४, १२
 गगन^४- पाउ २, ७७, -नम् निसू १,
 ५ ६^१, सु ४, २, अप ५०, ७,
 १, ५८^२, २, ४, ६८, १, ४६, -ने
 विध ९९, ९
 गगलनस्^५- -नाः वावूश्रौ २, १३
 ५.
 गगला^६- -ग्ला. हिश्रौ ५, २, ६२^१
 गङ्गा^७- पाउ १, १२३, पाग ४, १,
 ११२, १२३, १५४, ५, १, ३९^२,
 -ङ्गा शंघ ४५७ ९, विध २३,
 ६१, या ९, २६, याशि १, ३४,
 -ङ्गाम् अप ४२, २, ४, शध
 ११६ ११, -†ङ्गाया काश्रौ
 १३, ३, २६, आपश्रौ २१, २०,
 ३, बौश्रौ १६, २३ : ४, वाश्रौ

३, २, ५, ४३, हिश्रौ १६, ६, ४७;
 वैताश्रौ ३४, ९, विध २०, २३^३,
 -ङ्गायाम् जैश्रौका १९५, विध
 ८५, १०, -†ङ्गे आमिगृ २,
 १, २ १२^०, हिगृ २, १, ३^०, या
 ९, २६, शैशि १३१
 गाङ्ग^८- पा ४, १, ११२^१, -ङ्गम्
 विध ६४, १७
 गाङ्गायन्^९- -ना बौश्रौप्रा ९ : २;
 ४३ ४
 गाङ्गायनि- पा ४, १, १५४
 गाङ्गिक- पाग ५, १, ३९
 गाङ्गेय- पा ४, १, १२३^१, -०य
 वैगृ ५, २ ५^१, -या. ^१ बौश्रौप्रा ३ :
 १२, -यै वैगृ १, ५ ३^१
 गङ्गा-द्वार^{१०}- -रे शध १९४, विध
 ८५, २८
 गङ्गा-प्रवाह-वत् जैश्रौका ३
 गङ्गा(ङ्गा-अ)म्भस्- -म्भसि विध
 १९, ११, १२
 गङ्गा-यमुना- -नया अप ४०, ४,
 ४^१, -नयो वाध १, १२, बौध
 १, १, २६
 गङ्गा-सागर-सङ्गम- -मे विध ८५,
 २८
 √गच्छ, गम्^{११} पावा भ्वा पर गतौ,
 गच्छते बौश्रौ २८, १३ २१;
 गच्छति आश्रौ २, ७, १७, शाश्रौ,
 हिगृ २, ३, ७^१, गच्छत बौश्रौ

a) = √क्शा, √क्षा, √चक्ष् । या २, २, ४, ३ ऋप्रा ६, २१ शुप्रा ४, १६७ अप्रा ३, २, ११ पा ३, १, ५२ परामृष्ट द्र । b) पामे वैप १, ११८५ f द्र । c) °त्वेन इति शिव^१ । d) = गुरु-मात्रा- । e) = वर्ण-विशेष- । f) विप । वस । g) = भग- । h) गन्धर्व- इत्यस्याद्य-वर्ण- । v) वैप १ द्र । j) = कृत-च्छन्दो-विशेष- । k) व्यप । व्यु^१ । l) = गल्दा- । m) सपा गगलाः <> गल्गाः <> गल्दा <> वल्गा इति पामे । n) भङ्ग- इति पाका । o) सपा आपमं २, ११, १२ यमुने इति, आपमं २, ११, १३ पागृ १, १५, ८ विशिष्टश्च पामे । p) विप (जल-) । तस्येदमीयः प्र । q) व्यप । r) फक् प्र उस् (पा ४, १, ११०) । s) = तीर्थ-विशेष- । t) मलो कस । u) या ११, २४, २५ पा १, २, १३, २, ४, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५४, ६, ४, ४०, ९८, ७, २, ५८ पावा २, ३, १२, ३, १, ८६, ४, ४, १, ५, १, ७४, ६, ४, ४०, ७, २, ५८ परामृष्ट द्र । v) °न्ति इति पाठ^१ यनि- शोभ (द्र. सररुर्दुः टि., सपा गच्छति <> सर्पति <> गच्छन्ती इति च पामे) ।

२४, ४ : १२×, गच्छन्ति शाश्रौ
 ६, १२, १३, काश्रौ, आपम
 २, १३, ११^a, गच्छथः अप्राय
 ६, ९[†], गच्छामि बौश्रौ ३,
 ५ २१[†], गच्छाति बौपि १,
 ८ ४[†], गच्छान् अप १, ३२,
 ७, ऋषा ४, ७३, [†]गच्छासि^b
 आपमं २, २, ७, आमिष्ट १, १,
 २ : ३०, ५, १ : २२×, बौग,
[†]गच्छतु आपश्रौ ४, १२, ३,
 बौश्रौ १, १७ २१, भाश्रौ,
 गच्छताम् या १२, ४[†], गच्छन्तु
 बौश्रौ २, ८ २७, वाश्रौ, [†]गच्छ
 आश्रौ ८, १३, १०, काश्रौ,
 आपश्रौ ३, १४, ३^०, पाश्रु १, ४,
 १२^b, [†]गच्छतम् आपश्रौ ७,
 २१, ३, ११, ७, २, बौश्रौ,
[†]गच्छतु शाश्रौ ७, १८, ९, आपश्रौ
 १३, ६, १४, बौश्रौ, गच्छाव
 सु ६, ५, अगच्छत् शाश्रौ १४,
 १२, २^१, बौश्रौ २, ७ २^३†×,
 अगच्छन् वाधूश्रौ ४, २६^२ : ८,
 ५५ ४, ७, निस्, अगच्छ भाश्रु
 २, ७, १३[†], अगच्छतम् या १२,
 २[†], अगच्छम् शाश्रौ १४, १२, २,
 गच्छेत् अप १, ४९, ३, गच्छेत्
 काश्रौ १६, ६, १९, काश्रौसं, माश्रौ
 २, १, ४, ६[†], शाश्रु ४, ८, १८^०,
 गच्छेयु काश्रौ २, ३, ४, २२, ६,
 ७, आपश्रौ, [†]गच्छेयम् आपश्रौ
 १०, २०, १०, बौश्रौ १८, ३०
 १०, १२×, [†]गच्छेम बौश्रौ

१४, २१ २, ४, ९, ११, १६
 गन्ति निघ २, १४[†], [†]गन्त
 न्ता आश्रु ३, ५, ७, कौश्रु ३, ७,
 १०, शाश्रु ४, ५, ८
 गमति निघ २, १४, [†]गमाम
 हिश्रौ १५, ५, ४, जैश्रौप १२,
 आपमं २, ७, १५, गमे. अप ४८,
 २[†], गमेय माश्रौ १, १२, ५[†],
[†]गमेयम् आपश्रौ ४, १०, १^३,
 बौश्रौ, माश्रौ १, ४, ३, १^६, द्राश्रौ
 ९, २, ३^१, लाश्रौ ३, ६, ३^१,
[†]गमेम हिश्रौ ६, ६, १७, कौसू
 ७०, १
 जगति, जगन्ति निघ २, १४[†],
[†]अजगन् माश्रौ ३, ८, १, हिश्रौ
 १२, ६, ६, अप्राय ६, २, निघ
 २, १४, या ४, १४[†],
[†]अजगन्त आश्रौ ८, ३, ३०,
 अजगन्तन या १३, ३[†], जगम्याम्
 अप्राय ६, १[†]
[†]जगाम आपश्रौ ७, १८, ८,
 बौश्रौ, जगमु वृदे ४, ७६, या
 २, १, जगमु आपध २, १६, १,
 वैध, [†]जगन्थ आश्रौ १०, ९, २;
 शाश्रौ १६, ६, १, वैताश्रौ,
 गमिष्यति आपश्रौ ९, २०, ७,
 लुसू, गमिष्यन्ति शाश्रौ १४,
 ४०, १, गमिष्यसि पाश्रु ३, ७, २,
 गमिष्यामि बौश्रौ १७, ४५ : ६,
 गमिष्याम बौश्रौ १६, १६
 १०, [†]गम्यात्[†] आपश्रौ ४, १२,
 ६^२, माश्रौ १, ४, २, १७, [†]गम्या

हिश्रौ १२, ६, ६, [†]अगमत्
 आपश्रौ २०, १६, १६, बौश्रौ १५,
 ६ १५×, हिश्रौ, [†]अगन् आश्रौ
 ३, १३, १५[†], शाश्रौ २, ९, ७,
 काश्रौ, [†]अगाइन् काश्रौ ३, ६,
 १५, आपश्रौ ३, ७, ९, बौश्रौ;
 गन् शाश्रौ ७, १०, ९[†], [†]अगमन्
 द्राश्रौ १५, ४, ७, लाश्रौ ५,
 १२, १५, अगम या ४, १४;
 †गमः कौश्रु ३, २, ६[†], गमत पाश्रु
 २, १४, ११[†], [†]अगमम् आपश्रौ
 १०, ९, ४^२, हिश्रौ १०, २, ७^२;
[†]अगन्म आपश्रौ २, ५, १२, शाश्रौ
 ४, १२, ७, काश्रौ ३, ८, १३,
 १०, ९, ७^१, २५, ९, १५^m;
 आपश्रौ १८, ५, १४^m, माश्रौ
 २, ५, ४, ४०^१, वैश्रौ १७, १५ :
 २^m, माश्रु १, १०, १०^०.
 अजगमत या १३, ३
 गम्यते हिश्रौ ३, ८, २६; वृदे;
 गम्यति या ९, २[†], गम्यताम्
 वृदे ८, १३५, गम्येत आपश्रौ
 २४, ३, ४०, तैप्रा, गम्येरन्
 मीसू ८, ४, २५.
 गमयति बौश्रौ १४, १८ : २७[†];
 भाश्रौ, या १४, ३०, गमयत. तैप्रा
 ४, ५२, गमयन्ति आपश्रौ ६, १०,
 २३, बौश्रौ १८, २५ १८, वाश्रौ;
[†]गमयतु आपश्रौ ३, ७, ३, ४, १२,
 ७, बौश्रौ, [†]गमय शाश्रौ ६, ८, ९[†];
 आपश्रौ ३, ७, २, बौश्रौ, [†]गमय-
 तात्[†] आश्रौ ३, ३, १, शाश्रौ ५,

- a) पामे पृ ५८१ J द्र । b) पामे वैप १, १२०६ ० द्र । c) पामे. वैप १, १२०५ g द्र ।
 d) पामे वैप १, १२०५ J द्र । e) सप्र गच्छेत् <> गमयेत् इति पामे । f) पामे वैप १, १२०७ b द्र ।
 g) सपा. आपश्रौ ४, १३, २, ३ भूयासम् इति पामे । h) लघुवाखीय- पाठः । i) पामे. वै १, १२०५ l द्र ।
 j) पामे वैप १, १२०७ J द्र । k) पाठ १ । पामे वैप १ परि आ...अगुः शौ ३, १२, ७ टि. द्र । l) पामे. वैप
 १, १२०८ a द्र । m) पामे वैप २, ३ख अक तैप्रा ३, ७, ३, ६ टि. द्र । n) पामे. वैप १, १२०८ d द्र । o) पामे.
 वैप १ परि. अघ्नन् खि २, ११, १ टि. द्र । p) पाठः † गमयति इति शेषः समाव्यते । q) पामे. वैप १, १२०५ e द्र ।
 वैप-द्वि-२७

१७, ३, गमयन्त या १२, ४३,
अगमयन् वाधुश्रौ ४, ८८ : ७,
गमयेत् आपश्रौ ९, ११, १९,
बौश्रौ, कौश्रु ३, ९, ५८^३, गमयेयु
आश्रौ ६, १०, २९
गमयिष्याव वाधुश्रौ ४, ७५.
१७

†गामय आपश्रौ ९, २, ७, माश्रौ
३, २, १०, ऋप्रा ९, ५०
जिगामिषेत् द्राश्रौ ५, २, २४,
लाश्रौ २, ६, १७.

अजिगाहसन् तैप्रा १६, १३†
जङ्गन्ति निघ २, १४^३†

गच्छत्-च्छत् शाय १, ६, १,
आमिष्ट २, ६, ५ १०××, -च्छ-
ताम् आपश्रौ १४, ८, ६^२, १०,
१२, हिश्रौ १०, ८, २४, -च्छतो
निसू ६, ३ १, -च्छत्सु द्राश्रौ
१३, १, ८, लाश्रौ ५ १, ८, -च्छन्
काश्रौ ९, ३, २, १२, ५, १९××,
-च्छन्त वृदे ५, ७१, या १३,
८, -च्छन्तम् वैगृ २, १८ १५,
गौपि १, २, १०†, वाध
†गच्छन्ती-न्ती आमिष्ट २, १,
३ : २३^७, -न्ती हिश्रौ १०, ४,
४५

गत्- पा ६, ४, ४०

गत, ता- -तः आपश्रौ ६, २, ९, द्राश्रौ,
-तम् आश्रौ ५, १९, ५, बौश्रौ,
-तयो काश्रौसं ३२, ११, -तस्य
चात्र ३० १८, ऋप्रा ९, २८,
-†ता आमिष्ट २, ५, ६, ११, विध
१, ४५, ५२, ५, १४, -ता आश्रौ
५, ७, १०, वाधुश्रौ; -तानाम्
बौश्रौ २८, १० ४, अत्र ८, १†,
-तानि विध २३, ५३; या १०,

२६, १४, १९, -ताभिः बौध
१, ५, १८, -ताभ्याम् अप ६२,
२, ६, -ताम् वैगृ ५, १५, १७†,
-ते शाश्रौ २, ६, १३, बौश्रौ,
पावा ४, २, १०४, -तेन सु
८, ४, -तेषु द्राश्रौ १५, ४, ८,
लाश्रौ ५, १२, १५, कौश्रु १, ८,
१०

गत-तम- -मम् या ७, १३
गत-ताच्छील्य^८- -ल्ये पावा १,
३, २१

गत-प्र(ज>)जा- -जा बौध
२, २, ६३

गत-प्रत्यागत, ता- पावा २,
१, ६०, -ता बौध ४, १, १८
गत-भय^९- -येन या ६, १२
गत-भास^९- -सम् या ६, ३५
†गत-मनस^९- -ना आपश्रौ
१३, १४, ४, बौश्रौ ८, १४ : १३
गत-मात्सर्य^९- -र्यम् अप ६९,
१, १.

गत-श्री^९- -श्रिय आश्रौ २,
१, ३६, शाश्रौ २, ६, ५, काश्रौ
४, १३, ५, आपश्रौ, -श्री-
आपश्रौ २, १९, ३, ६, ४, १,
१६, ९, ७, बौश्रौ ३, ४ : १८,
१०, १३ . १७, भाश्रौ

गना(त-आ)गत- पाग ४,
४, १९, -तम् अप ५८, ४, १३,
-तैः नाशि १, ४, ७

गातागतिक- पा ४, ४, १९
गता(त-आ)द्य(दि-अ)र्थ- -र्थे
पावा २, २, १८

गता(त-अ)ध्वन्- > ध्वा^९-
-ध्वा गोश्रु १, ५, १०, -ध्वाम्
कप्र २, ६, ९

गता(त-अ)नुगत- (>गातानु-
गतिक- पा) पा ४, ४, १९

गता(त-अ)भ्यस्त- -स्तम्
वेज्यो ४३

गता(त-आ)युस्^९- -यु अत्र
८, १, -युषाम् अशा १७, १

गता(त अर्थ- पाग २, २, ३७
गता(त-अ)सु^९- -सुम् आपश्रौ
१५, २०, १९, अप ७२, ६, ६६

-सौ वृदे ७, ८९
गतासु-मांस- -सम् अप
३५, १, १३

गतो(त-उ)रुक्^९- -रः जैश्रौका
१६५

गतवत्- -वन्तम् या १३, ८
१गति- पाग ४, १, ४५, -तय-
आश्रौ १२, ६, २५, -ति आश्रौ
१, ९, ५†, शाश्रौ १, १४, १९,
बौश्रौ, ऋप्रा १८, ५९, ऋत^९ २,
३, ९, ३, ५, १०, -तिम् आश्रौ
२, ७, १७, १०, ५, १६,
वाधुश्रौ, -तिषु शाश्रौ ४, ६,
१२, -ती वैगृ ५, १ १२, -ती
आपध २, ४, २७^६, छुप्रा २,
५८, पा ३, १, २३, ७, ३, ६३,
८, ३, ११३, मीसू ६, ५, ४८,
१०, २०, ५५, -त्या माश्रौ ४, ४,
४, मुध ६५

गती- पा ४, १, ४५

गति-कर्मन्^९- -र्मण या १, ७,
२०××, -र्मणाम् या १४, १२

-र्मा या २, २××, -र्मण निघ
२, १४, या ३, ९

गति-कल्प- -ल्पौ द्राश्रौ १५, १,
११, लाश्रौ ५, ९, ८

गति-कुत्सना- -ना या २, ३

a) पाभे पृ ९६९ ० द्र ।

b) पाभे पृ ९६८ ७ द्र ।

c) पूष = वृत्त-(तु पासिवा) ।

d) विप. । बस । e) = [चतुर्दशीविद्धा-] अमावस्या- । बस । f) अर्थः ? ।

g) पाभे पृ ४९१ द्र ।

गति-चला-कर्मन्^a-र्मण या
 ४,३
 गति-चेष्टा-भाषिता(त-२आ)-
 छ-द्यम् विघ २८,२५^b
 गति-बुद्धि-प्रत्यवसाना (न-अ)
 र्थ- > र्थ-शब्दकर्मा (र्म-अ)
 कर्मक-काणाम् पा १,४,५२
 गति-बुद्धया(द्वि-आ)दि-
 -दीनाम् पावा १,४,१
 गति-मत्-मान् कौट ३, १२,
 १२.
 गति-युक्त-क्तेषु पावा १, ४,
 २४
 गति-हिसा(सा-अ)र्थ- र्थेभ्यः
 पा १,३,१५
 गति-हीन-नम् अप ६४,
 ३,३
 गत्य(ति-अ)र्थ- र्थस्य या १,
 १७, -र्थेभ्यः पा ३, ३, १२९,
 -र्थेषु पावा १,४,५२
 गत्य(ति-अ)र्थ^c पा १, ४,
 ६९, ८,१,५१
 गत्यर्थ-कर्मन्-र्मणि पा २,
 ३,१२
 गत्यर्था(र्थ-अ)कर्मक^d पा ३,
 ४,७२
 गत्य(ति-अ)र्थवाद^e-दात् मीप्
 ७,३,२४
 गत्या(ति-आ)नुपूर्व्ये-व्येण
 द्राश्रौ ३, ३, १७, लाश्रौ १,
 ११,९
 रगति^d-ति पा १,४,६०, ६,२,
 ४९, ८,१,७०, पावा ६,२,४९,
 ८,१,७१, -ते पावा ६,२,४९^f,
 ८,१,७०, -तौ पा ८, १, ७०,

पावा ६,२,४९, -त्यो पा ८,३,
 ४०
 गति-कर्मप्रवचनीय-प्रतिषेध-
 सप्रत्यया(य-अ)र्थ- र्थ पावा
 ६,१,७३
 गति-कारक-पूर्व-र्वस्य पावा
 १,४,१३, -र्वे पावा २,१,४७
 गति-कारके(क-इ)तर-पूर्व-
 पद^g-दस्य पावा ६,४,८२
 गति-कारको (ऋ-उ) पपद-
 -दात् पा ६,२,१३९, -दानाम्
 पावा ४,१,४८
 गति-ग्रहण-णे पावा ८,१,५७
 गतिग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-
 -क्यम् पावा ८,१,७०.
 गति-त्व-त्वात् पावा ६, २,
 १३९
 गति-दिव.कर्म-हेतुमत्-मत्सु
 पावा १,४,१
 गति-सज्ञा-सनियुक्त-क्तम्
 पावा १,४,७४
 गत्या(ति-आ)दि-दिभ्यः पावा
 ६,२,१३९
 गत्यु(ति-उ) पसर्ग-सं(ज्ञा >)
 ज्ञ-ज्ञाः पावा १,४,६०
 गत्यु(ति-उ)पसर्ग-संज्ञा-ज्ञे
 पावा १, ४, १
 गत्यु-पाठना ४,११२
 गत्वर- पा ३,२,१६४
 ङगत्वा शाश्रौ २, १४,४××, काश्रौ,
 आपश्रौ १७,१४,९^f, हिघ २,१,
 ९६^h
 गत्वाय शाश्रौ १२, २०, ५^f, सु
 ३१,९
 गन्तव्य-व्यम् वैध ३, ७, ४,

आज्यो १०, ९
 गन्तव्य-पण्य-ण्यम् पा ६,
 २,१३
 गन्तु-पाठ १,६९, -न्तु या ५,
 १८
 गन्तुम् वाध २५, ७, बौध २, २,
 ७७, आज्यो २,९
 गन्तु-न्ता या ५,१८.
 गन्त्री-न्त्री कप्र ३, ३,६.
 ङगन्तोस() आपश्रौ १४,१६,१;
 वाधुश्रौ ३,४-१२, हिश्रौ.
 रगम- पा ३,३,५८.
 गमथ-पाठ ३,११३
 गमध्ये भाश्रौ ७,८,१०^h.
 गमथ्यै या २,७^h^h
 गमन-नम् काश्रौ १९, ५, ११;
 कौट, -नात् पाठ ३, १०, १०;
 या ९, २६××, -नानि या ४,
 ७, -नाथ या २, ७; -ने काश्रौ
 २५, ४, १७, कौट ३, ९, ६०;
 बौट, -नेषु जैश्रौका ४२; -नौ
 आपश्रौ १, ५, १, हिश्रौ १,
 २,५४
 गमन-पातिन्-तिनौ या ६,
 ३३
 गमन-वेधिन्-धिनौ या ६,३३.
 गमन-संयुक्त-क्तम् हिश्रौ ५,
 ३,४८
 गमना(न-आ)गमन-नम् बौध
 १,११,२१
 गमनागमना(न-अ)योग-
 -गात् काध २८१ ७
 गमयत्-यन् अप्रा २,४,१५^f.
 गमयित्वा आपश्रौ १४, २१, ९;
 बौश्रौ.

a) विप । मलो कस > वस । b) तादिवम् इति जीस । c) मलो. कस । d) = पारिभाषिक-
 संज्ञा- । e) तु पासि । द्वस > पंस > कस । f) पाभे. पृ ५८१ h द्र. । g) पाभे. पृ ७३४ k द्र. ।
 h) पाभे. वैप १,१२१० i द्र. ।

गमयिष्यत्- -व्यन् द्राश्रौ ११, २,
११, लश्रौ ४, २, १०.
गमयिष्यन्ती- -न्तीम् द्राश्रौ
११, २, ११, लश्रौ ४, २, १०
गमिन्- पाउ ४, ६, पाग ३, ३, ३
गमि-गाम्या(मि-आ)दि-
-दीनाम् पावा २, १, २४.
गमिष्यत्- -व्यन् द्राश्रौ ३, ४, ९,
वैगृ ६, १६ १२
गम्य, म्या- -म्य ऋप्रा १४, ६३,
-म्या वैगृ ३, ९: ८
गा- पा ३, २, ६७
गामिन्- पाउभो २, १, २८७,
-मिनम् विध २०, ४०
गामिनी- -नीम् आज्यो १, ९
गामुक- पा ३, २, १५४, -कः बौश्रौ
१८, १५ २०
गमन्ता ऋप्रा ८, ३०५.
जमि- पा, पावा ३, २, १७१,
-ङमय आपश्रौ १४, १६, १,
हिश्रौ १५, ५, ११^३, अप्राय ६, १,
-मि. या ५, १८५
जमिष्वस्- पा ७, २, ६८, -ग्मुष या
१२, ४३, -ग्मुषे या २, १४५
जग्मु- -ग्मवे आपश्रौ १४, २९,
२५^३
जङ्गम^०- -मस् सु १६, १^३, १७, ३,
अप ७०^३, १२, ४, ७१, ६, १,
या ५, ३, ९, १३, -मस्य या १२,
१६, -से अप ७०^३, १२, ४
जङ्गम-स्थावर- रस्य वृदे १,
६१, ८, ११६
जिगन्तु- पाउ ३, ३१

जिगन्तु- पाउभो २, १, ७६
जिगमिषु- -षो वृदे ४, ९३
ङ्जिगांसत्- -सन् कौस् १३५, ९.
गच्छ- पाउभो २, २, ८३
गच्छत्-, °न्ती- ✓गच्छ् द्र
✓गज् पाधा भ्वा पर. शब्दे मदने
च, चुरा पर शब्दे
गज^०- -जः अप ७०^३, ७, ९×४, वृदे ५,
१२३, याशि १, ९, -जम् अप
१, ३१, ३, ७×४, विध ४४,
३८, ५०, २५, -जस्य वैश्रौ
११, ७: ५, अप १, ४४, ४,
-जा अप २०, २, २, ५७, २,
६×४, -जान् अप ६८, ३, ११
गाज^०- > गाज-वाज- गज-
वाज- टि द्र
गज-क्षय- -ये अशा १७, ५
गज-ता- पावा ४, २, ४३
गज-वैवत्त-वाजिन्- -जिनाम् अप
६४, ६, १
गज-पुरोहित- -ते अप ७०^३, ११,
३५
गज बन्धन- -नम् आज्यो ८, ८
गज-भङ्ग-कृत- -ते विध ७०, ८
गज-रोहण- -गम् आज्यो ८, ७
गज वाज^०- पाग २, २, ३१
गज-वाजिन्- -जिन अप ६७, १, ४
गज-विषाण- -णेन अप १, ४५, ४.
गज-वीथी^१- -थीम् अप ५०, ४, ४
गज-व्यवेषिन्^२- -षी माशि १२, ६
गज-संमित- -तम् आम्रिगृ ३, ४,
५०१०, बौपि ३, १०, ३
गजा(ज-अ)यक्ष- -क्षम् अप ५,

५, ३
गजा(ज-अ)नन^३- -नाय शैशि १
गजा(ज-अ)श्व- पाग २, २, ३१^१,
-श्वस्य शंघ ३९५
गजा(ज-अ)श्व-मरीचि- -चय विध
२३, ५२
गजा(ज-अ)श्वो(श्व-उ)ष्ट-गो-घाति-
न्- -ती विध ५, ४८
गजे(ज-इ)न्द्र^०- -न्द्रे विध ९९, ११.
गजेन्द्र-दन्ताग्र-कम्पित-महा-
र्णववीचि-वृ(क्ष >)क्षा^१-
-क्षाम् अप २४, ६, २
गजेन्द्र-बलाहकौ(क-ओ) घ-
स्वन-दुन्दुभि^३- -भीनाम् अप
२४, ५, १
गजेन्द्र-मद-संयुक्त- -क्तम् अप
३५, २, १
गजो(ज-ओ)ष्ट^१- -ष्टम् अप २३,
३, १
गजोष्ट-सदशा(श-आ)का(र>)^३
रा- -रा अप ३०^३, १, १२
✓गड् पाधा. भ्वा पर सेचने
गडिक- (>गाडिकि- पा) खडिक-
टि द्र
गडु- पाउभो २, १, ५४, पाग ५, २,
९७
गडु-कण्ठ- पावा २, २, ३५
गडु-ज- (>°जी- पा) गडुल-
टि द्र
गडु-मत्- पा ५, २, ९७
गडु-ल- पा ५, २, ९७, पाग २, २,
३८, ४, १, ४१^३, ५, १, १२४
गडुली- पा ४, १, ४१

a) °युः इति पाठ^३ यनि शोध (तु ऋ १, ८९, ७)। b) पामे वैप १, १२१० p द्र। c) वैप १ द्र। d) समूहार्थे अण् प्र. इति पागम। e) तु पाका। गोजवाज- इति भारुडा, गाजवाज- इति पासि, -पागम। f) =व्योममार्ग-विशेष-। g) विप (अथ्येत्-। उप अर्थ^१। h) व्यप। बस। i) तु पागम। j) विप। षघ > नृस > बस। k) द्रस > बस > कस। ओघ- =जलौघ-। l) विप (यज्ञपात्र-। बस। m) गडुज- इति पाका।

गाडुल्य- पा ५, १, १२४
 गडुल-गालव- पा २, २, ३८
 गडु-शिरस्^२- पावा २, २, ३५.
 गड्वा(डु-आ)दि- -दिभ्य पावा
 २, २, ३५
 गडुक^१- पाग २, ४, ६९
 गडेर- पाठ १, ५८
 गडेर-क- > गडेरक-दशेरक^२- पाग
 २, ४, ६८
 गडोल- पाठ १, ६६
 ✓गण^० पाधा चुरा पर सख्याने,
 गणयेत् शध १०७
 गण^१- पाग ४, १, ९८^०, २, ६०, ३,
 ५४, ४, १०२, ५, १, ३९, -ण
 आपश्चौ १४, ३, १०, १५, १९, १,
 बौश्रौ, अप ३२, १, २१, २३-२५,
 निघ १, ११^१, या ६, ३६^१,
 -णम् आपश्चौ १४, २, २, १७,
 १६, १५, बौश्रौ १०, ५३ ९×४,
 हिश्रौ, -णम्-णम् वैश्रौ १९, ६
 १०६, -णस्य हिश्रौ १२, ५, ३२,
 ३७, वृदे ५, ४७, -णा आपश्चौ
 २१, १५, १९, बौश्रौ ७, ५
 ४^१×४, आमिष्ट, -णात् बौश्रौप्र
 २५, याशि २, १०१, नाशि २,
 ८, २५, मीस् ८, ३, ११, -णान्
 आपश्चौ १७, १७, ४, बौश्रौ,
 माश्रौ २, ४, १, ३५^१, वैताश्रौ
 १९, १८^१, -णानाम् आश्रौ ४,
 ६, ३, ऋशाश्रौ ५, ९, १८, १४,
 १९, काश्रौ २०, ६, १३^१, आपश्चौ,
 पाग १, ५, १०^१, -णाभ्याम्
 आपश्चौ १४, ३, १४, -णाच

आमिष्ट २, ४, ५ ६^१, -णे आपश्चौ
 १४, १, १०, २, १३^१, ऋश्रौ
 १७, ३ ३, ६, हिश्रौ, पावा
 १, १, ३४^१, -णेन आपश्चौ १७,
 १६, १५, बौश्रौ १०, ५३ ९,
 माश्रौ, -णेन-णेन आपश्चौ १७,
 १६, १६, वैश्रौ १९, ६ १०६,
 -ऋणेभ्यः बौग २, ८, ९, अप
 ४६, ९, १६, अशा २४, ६, -णेषु
 आपश्चौ १६, २१, ९, वैश्रौ, -णै.
 आपश्चौ १७, १६, १५×४, बौश्रौ,
 -णौ वैश्रौ १५, ३७ : १४,
 आमिष्ट २, ४, ५.८^१, अशा २३,
 २^१, बौध ४, ७, ५
 गाणायन- L > न्य- पा
 ५, ३, ११ ३] पा ४, १, ९८
 गाणिक- पा ४, २, ६०, ४,
 १०२
 गण-कर्मन्^१- -र्मि कौस्
 १३९, ७, -र्मा अप ३२, १, २४
 गण-काम- -सम् कौग २, २,
 ८^१, -मान् शाग २, २, १३^१
 गण-गणिका-स्तेन-गायना (न-
 अ)ब- -न्नानि विध ५१, ७
 गण-चोदना- -नायाम् मीस् ८,
 ३, ३.
 गण-तिथ- पा ५, २, ५२
 गण-(त्व>)त्वा- -ऋत्वायै कौस्
 २४, २०, अप १८^१, १, ११
 गण-द्रव्या(व्य-अ)पहर्तु- -र्ता
 विध ५, १६७
 गण-ना(मन् >)म्नी^१- -मन्य
 क्षुस् ३, ७ ५

गण-निघन^३- -नम् निस् १०,
 १२ २२, -ना निस् ८, ९ २२
 गण-पति- पाग ४, १, ८४, ५,
 १, १२४, -तिभ्य बौग २, ८,
 ९^१, -ऋतिम्^२ आपश्चौ २०, १८,
 १, बौश्रौ १३, २६ : १५, वाश्रौ
 ३, ४, ४, १३, हिश्रौ १४, ४, ३,
 २२, ४, १०, आमिष्ट १, १, ३ :
 ५४, २, ६, ३. २८, वाग ५,
 २२, हिग १, ६, ११.
 गाणपत- पा ४, १, ८४
 गाणपत्य- पा ५, १, १२४;
 -ऋत्यात् तैपा १३, ९^०
 गण-पाद- पाग ६, २, ८१^१
 गण-प्रशंसा- -सयो पा ३, ३,
 ८६
 गण-बलि- -लिम् अप १९^२,
 ५, ४
 गण-मध्य- -ध्ये काश्रौ १७,
 ११, ६
 गण-मुह्य- -ह्यम् वैग २, ६ :
 १७^१
 गण-यज्ञ- -ज्ञ काश्रौ २२, ११,
 ५१
 ऋगण-वत्- -वते बौश्रौ १८,
 २८ १४, -वान् आश्रौ २,
 ११, ८
 गणवती- -ती बौश्रौ १३,
 २६ : १४
 गणवत्सवनमुखीयेषु^१ जैश्रौ १४ :
 १५
 गण-शब्द- -ब्दम् जैश्रौका
 १४५

a) तु पागम । b) व्यप । व्यु^१ । c) पा ७, ४, ९७ पावा ७, ४, ८२ परामृष्टः द्र । d) मन्त्र-
 गण-विशेष- [अअमू, अप ३२ प्रमृ] । वैप १ द्र । e) व्यप । f) वाङ्-नामन् । g) पामे वैप १,
 १२११ e द्र । h) पामे वैप १, १२११ f द्र । i) = गण-पाठ- । j) = मन्त्रगण-विशेष-, भैषज्य-गण-
 [अप.] । बस । k) परस्परं पामे । l) विप । बस । m) बस पूष अर्थ^१ । n) पामे वैप १, १२११ 1
 द्र । o) पामे वैप १, १२११ j द्र । p) शणपाद- इति पाका । q) अर्थः व्यु च^१ ।

गण-शस्() आश्रौ २,९,१६,
बौश्रौ
गण-श्रि,श्री- -श्रिमि या ८,
२, -श्रिये आपश्रौ १४, २५,
११, -श्रियै द्विश्रौ १५, ६,
२९
गण-सवत्सर- -राणाम् निसू
१०,९ १६
गण-समय-श्रेणी-पूग-चरण-व्य-
वहार-निष्ठा^a- -ष्टा शध
२५५
गण-सामन्- -मानि निसू ६,
११ : १०
गण-स्थान- -नम् निसू १०,
८ : २१, -नात् वृदे ५,
१७२
गणा(ण-आ)देश- -शे वाश्रौ १,
१,१,७१
गगा(ण-अ)धिपति- -तिम्
बौध ३,६,२०
गगा(ण-अ)न्त- -न्तेषु अप ३३,
६,३, अशा २४,५१
गगान्त-त्व- -त्वात् पावा
७,४,७५
गगा(ण-अ)ञ- -ञम् वाध १४,
१०, शध ४३४, विध ४८,
२१, बौध ३,६,१०
गणिका^b->गाणिक्य- पावा
४,२,४०
गणिका-धूर्तचारिणी(णी-ई)
क्षणिका-मायाविनी-कुहुकशीला-
विप्लुता- -ताभि शध ७९
गणिका-धूर्ता-व्यभिचारिणी-
प्रव्रजिते (ता-ई)क्षणिका-माया-

मूलकुहुककारिका-दु शीला(ला-
आ)दि- -दिभि. शध ७७
गणिका(का-अ)ञ- -ञम्
वाध १४, १०, शध ४३४,
बौध ३, ६, १०, विध ४८,
२१
गणिका-पाद- पाग ५,४,१३८
गणिन्- पा ६,४,१६५, -गिनः
बौश्रौ ७,७ १०१
गागिन- पा ६,४,१६५
गणी√कृ>गणी-चिकीर्षा-
-र्षया निसू ६, ११ १०, -र्षा
निसू ६,६ २१, ८ : ३५
गणे(ण-इडा)>ड^c- -डा. निसू
८,९ : २१
गणे(ण-ई)श- -शम् भाशि १,
-शानाम् अप ७०^d, १०, ५,
-शेन कप्र १,१,१२
गणेश-रूप- -पाय शैशि २
गण्य- पा ४, ३, ५४, ४, ४,
८४
गणक^d- -का अप ५२,४,२
गणन- -नात् या ६,३६
गणना- -ना अप ४.२०
गणयितुम् विध २०,२३
गणित^e- पाग ४, २, ६०^f, ५, २,
८८, -तम् वेज्यो ४
गाणित-, गाणितिक- पा
४,२,६०
गणितिन्- पा ५,२,८८.
गणकारि- (>गाणकार्य- पा)
पाग ४,१,१५१^g.
√गण् पाधा. भ्वा पर वदनैकदेशे.
गरड^h- पाड १, ११४, पाग ५, २,

१७, ४, १३८, -ण्डौ विध ९६,
९२ⁱ
गण्ड-पाद- पा ५,४,१३८
गण्ड-माला^j- >गण्डमालिन्-
-ली शध ३७७ ५
गण्ड-ल- पा ५, २,९७
गण्डयन्त- पाड ३,१२८
गण्डयितु- पाडभो २,१,८३
१गण्डु- पाडवृ १, ७, पाग ५, २,
९७^k
गण्डु-ल- पा ५,२,९७
२गरडु^l- [>गाण्डव्य- (>गाण्ड-
व्यायान>]नी- पा यक्र]पाग
४,१,१०५,१८
गण्डूष- पाड ४,७८
गण्डोल- पाड १, ६६, पाग ५, ४,
१३८
गण्डोल-पाद- पा ५,४,१३८
गण्डोलक- (>गण्डोलक-पाद- पा)
पाग ५,४,१३८
गत^m,-गत-, १-२गति- प्रम् √गच्छ
द्र
गति(ल>)ला- पाडवृ १,५७
गत्रु-, गत्वर-, गत्वा, गत्वाय
√गच्छ द्र
गथुनसⁿ- -नस वाश्रौ २,१३ : २.
√गद्ⁿ पाधा. भ्वा पर व्यक्ताया
वाचि, चुरा उभ देवशब्दे,
गदति अप ४८,९१
जगाद वृदे ३,१२६, १३७, ४,
३, ९५××
१गदित- -तम् अप ७, १, १३;
वृदे ७,९५, -ता. अप ६९,६,१.
गद्य- पा ३,१,१००.

a) द्रस > षस > द्रस > सस । b) नाप । मत्वर्थे ठन् प्र. । c) विप. । बस. । d) = प्राजापत्य-
प्रह-विशेष- । e) शास्त्र-विशेष- । f) तु पागम । g) गणकार- इति पागम । h) व्यु ? < √गम् इति
पाड, √गण् इति भ्रमा. । i) = गरड-स्थल- । j) = व्याधि-विशेष- । पूष = गण्ड-प्रन्थि- । k) पामे पृ ८३१
d द्र । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । m) व्यप. । व्यु. ? । n) पा, पावा ८,४,१७ परामृष्ट द्र. ।

१ गद्^a- ऋदाय आपर्षं २, ३, १९, आमिष्ट १, १, ३ ४३, हिष्ट १, ६, ५
 गदा(द-अ)पनुत्ति- -त्तये वैताश्रौ ४३, २
 ऋगद्^b- पाग ४, १, ९६, १०४, -०द् बौश्रौ १८, १७, २२, आमिष्ट २, ७, ३ ३, ३, १०, ३. ११
 गाद्-> गादायन- यक पा ४, १, १०४, १००
 गादि- पा ४, १, ९६
 गदयित्तु- पाउ ३, २९
 १ गदा^c- पाग ५, २, १३६, -दया अप ३६, १, ९, -दा अप ७०^३, ५, २
 गदा-रूप- > ०रूपिन्- -पि विध ९८, २
 गदा-वत्-, गदिन्- पा ५, २, १३६
 २ गदा^d-> गदा-कर्ण^e- -र्णे माश्रौ ५, २, ६, ८^f
 गदिक^g- (> गादिकि^h- पा) पावा ४, २, ८०.
 १ गदित- √ गद् द्र
 २ गदित, वⁱ- (> गादित्य^j [व्य^k]- पा) पाग ४, २, ८०
 १ गद्गद्- पाग ३, १, २७, ५, २, ६४
 गद्गद्-क- पा ५, २, ६४
 √ गद्गद् घ पा ३, १, २७
 २ गद्गद्^l- -द् शैशि १६१, पाशि २७, माशि १५, २, याशि १, २७, नाशि २, ८, १२.

गद्य- √ गद् द्र
 √ * गद्^m > १ ग्धिताⁿ निघ ४, २
 ऋगद्ग- -ध्यम् निघ ४, २, या ५, १५४
 गद्गति- > ०ध्यत्यु(ति-उ)त्तरपद- -दम् य ५, १५
 गद्गा^o- -धायाम्^p आपश्रौ १९, २६, ४, बौश्रौ १३, ३८ : १२
 गन्तव्य-, गन्तु- प्रष्ट √ गच्छ् द्र
 गन्दिक्^m- (> गान्दिक- पा) पाग ४, ३, ९३
 √ गन्ध^q पाधा चुरा आत्म अर्दने
 गन्धन- -ने पा १, २, १५
 गन्धना(न-अ)वक्षेपण-सेवन-साहसिक्य-प्रतियत्न-प्रकथनो-(न-उ)पयोग- -गेषु पा, पावा १, ३, ३२
 गन्ध^r- पाग ५, २, ९५, ४, ३६, -ऋन्ध. बौश्रौ २, ५ ८, ११×४, -न्धम् आपश्रौ २०, २१, ८^f, हिश्रौ १४, ४, ५३, आगृ ३, ६, ७, आमिष्ट, -न्धस्य बौश्रौ २६, १० २४, पावा ५, ४, १३५, -ऋन्धाः बौश्रौ २, ११ १, वैश्रौ १, ४ ११, आमिष्ट, -न्धान् बौश्रौ १५, २४ १८, २३, १ ३१, पागृ १, १९, ४, भागृ १, १० १२, भागृ, -न्धानाम् आपव १, २०, १५, -न्धे आपध २, २८, १०, हिध २, ६, १०, -न्धेन हिश्रौ १०, ६, ४, या १४, ४,

-न्धै. आपश्रौ १४, १२, लाश्रौ २, ६, १, निष्
 गन्ध-क^o- पा ५ ४, ३
 गन्ध-तोय^p- -धै वैष्ट ४, १ १८
 ऋगन्ध-द्वा(र>)रा^o- रा अ २, ७, ७. १३, अप ३८, २ बौध ४, ५, १२, -राम् अ २, ४, १० : १८, ६, १ मागृ २, १३, ६, वैष्ट ४, १४
 गन्ध-पान^p- -नम् मागृ २, १४,
 गन्ध-पुष्प- -ष्पाणि अप १, ३, -ष्पे आमिष्ट १, ६, ३ बौपि २, ९, ११, मागृ १, ११
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप- -धै अ १, २, २ ३६, ७, १ ८
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नैवेद्या(द्य-दि- -दिभि विध ९०, ३
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-माल्य- -हिपि १७ १९
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-वासस्- -ससाम् गौपि २, ३, २७
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीपा(प-अ)ल्ल-प (ल-उ)दक- -कै भागृ ३, १
 गन्ध-पुष्प-धूप-दीपौ (प-अ) पायस-यावक-लाजा (ज-इ दि- -दि अप ४०, १, १०.
 गन्ध-पुष्पा(ष्प-अ)क्षत-धूप- -आमिष्ट २, ४, ६ : १९
 गन्ध-पुष्पा(ष्प-र-अ)द्य- -आमिष्ट २, ३, ३ ९

a) = रोग-। व्यु^१ < √ गद् इति अभा । b) = ऋषि-विशेष-। व्यु^१ । c) = आयुध-विशेष व्यु^१ < √ गद् इति शक । d) = रथावयव-विशेष-। व्यु^१ । e) षस उप. = प्रान्त-। f) स गदाकर्णे <> पूर्वस्या गदायाम् <> प्रथमायां गदायाम् इति पाभे । g) तु पागम । अर्थः व्यु च^१ h) = देश-विशेष-^१ । i) तु पाका । j) कर्तरि भवि य-लोप (पा ६, ४, ४९) । k) वैप १ द्र । या ५, परामृष्ट द्र । l) = ग्धित्- > -ता इति संभाव्येत । m) = जनपद-विशेष-। व्यु^१ । गदिक- : पाका पागम । n) वैप १ द्र । इह गन्धवत्यपि वृत्तिरिति विशेष । घा शिङ्गने वृत्ति । तु वैप ३ । o) = ध विशेष-। p) मलो. कस । q) विप । बस ।

गन्ध-अवा(द>)दा^a-दाभिः
 वैताश्रौ १०, ५, कौसू १३, १२,
 ५४, ५
 गन्ध मादन^b-नम् शंघ ११६ : ९,
 -नात् माय १, १०, १७^c
 गन्ध-माल्य-ह्यम् अप ७०^२, ९,
 ४, आमिगृ २, ५, १ १३,
 -ह्यानाम् कौगृ ४, १, १, -ह्यानि
 अप ४, १, १५, -ह्येन अप ४,
 ३, १, -ह्यै अप ७०^१, ९, १,
 आमिगृ ३, १०, ४ ४
 गन्ध-माल्य-तिल-लै. अप ४४,
 ३, ३
 गन्ध-माल्य-धूप-वैः शंघ २१५
 गन्ध-माल्य-धूप-दीप-पानाम् कौगृ
 ३, १३, ४
 गन्ध माल्य-धूप-दीपा(प-आ)च्छा-
 दन-नानाम् आयु ४, ७, १७
 गन्ध-माल्य-धूप(प-आ)च्छादन-
 सिद्धोपहार-रैः शंघ १९६
 गन्ध-माल्य-धूप(प-आ)ञ्जना(न-आ)
 दर्श-प्रदीप-पस्य अप ४४,
 ३, ६
 गन्ध-माल्य-वस्त्रा(ब्र-अ)लङ्कारा(र-
 आ)दि-दिभि विध २१, १
 गन्ध-माल्या(ल्य-आ)भरण-गानि
 शंघ ७८
 गन्ध-रस-साः वाघ २, २६
 गन्ध-रस-कृतान्न-तिल-ज्ञाण-क्षौमा-
 (म-अ)जिन-नानि गौघ ७, ९
 गन्ध-रस-दुष्ट-ष्टम् वैश्रौ ११,
 ११ १३
 गन्ध-लिस-स आपगृ ८, ९
 गन्ध-लेप-क्षय-कर-रम् आमिगृ

२, ६, ८ ८, विध ६०, २४
 गन्ध-वत्-पा ५, २, ९५, -वन्तः
 बौश्रौ २३, १ ३१, -वन्तम्
 बौगृ १, ६, २२
 गन्धवती-तीभि द्राश्रौ ५, २,
 ४, गोगृ ३, ४, १०, -त्य जैगृ
 १, १ १३
 गन्ध-वर्ण-रसा(स-अ)न्निव(त>)
 ता-न्ता बौघ १, ५, ५७
 गन्ध-वह-ह नाशि १, ५, ९^०
 गन्ध-चारि-रिणा कप्र ३, ४, ११
 गन्ध-शुक्ल-पुष्प-वै. आमिगृ २,
 ५, ६ १४
 गन्ध-शेष-वै आमिगृ २, ५,
 १२ ५
 गन्ध सज्-सज अप ११, १, ९
 गन्ध-सज्-दामन्-मभि. माय २,
 ६, ६
 गन्धसज्गदाम-व(त् >)ती-
 -त्याम् माय २, ६, ४
 गन्धा(न्ध-आ)घ्राण-गे गौघ २३,
 ७
 गन्धा(न्ध-आ)च्छादन-ने वागृ
 १२, २.
 गन्धा(न्ध-आ)त्मक^a-कम् वैगृ ५,
 १ : १७
 गन्धा(न्ध-आ)दि-दि आमिगृ २,
 ५, १२ ५, ३, ११, २. ६,
 -दिना आमिगृ १, ६, १ २२
 -दिभि आमिगृ २, ५, १२ : ४,
 ३, ३, १ : १२, २ ७, १८,
 -दीन् कप्र १, ४, ३
 गन्धा(न्ध-आ)द्य-वै वैगृ ४, ३ :
 १०

गन्धा(न्ध-अ)लुलिस,सा-स बौगृ
 १, १, २४, ५, १५, -साम् बौगृ १,
 १, २४
 गन्धा(न्ध-अ)पहारिन्-री शघ
 ३७८
 गन्धा(न्ध-आ)भरणा(ण-आ)दि-
 -दीनि वैगृ २, १४ : १
 गन्धा(न्ध-आ)मलका(क-आ)दि-
 -दिभिः वैगृ ३, ९ : ४
 गन्धा(न्ध-आ)हुति-तिभिः काय
 १९, ७
 गन्धो(न्ध-उ)त्सादन^d-ने मागृ
 १, ९, २६^e
 गन्धो(न्ध-उ)दक-कम् कप्र २,
 ८, ८, अप २०, ३, २, -केन
 काय १७, २, विध ७३, १२, -कैः
 बौगृ ३, १०, ४, गौपि १, ४, १९;
 २, ३, १६
 गन्धौ(न्ध-ओ)षधी-धीभि. जैगृ
 २, ५. १३
 गन्धक-प्रसृ गन्ध-द्र
 गन्धन-प्रसृ √गन्ध् द्र
 गन्ध-पान-गन्ध-द्र
 गन्धपिङ्गला^f-(> गान्धपिङ्गलेय-
 पा) पाग ४, १, १२३
 गन्ध-पुष्प-प्रसृ गन्ध-द्र
 गन्धरायण^g-णा बौश्रौप्र १९ १.
 गन्धर्व^h-पाउमो २, ३, १२६, पाग
 ५, ४, ३८ⁱ, -०र्व पागृ १, ११,
 २, -र्व आश्रौ ४, ७, ४. शाश्रौ
 ५, १०, २५, १२, २०, २, काश्रौ
 २, ८, १, आपश्रौ २, ९, ५, १५,
 १६, ९, बौश्रौ १, १३ २०, ३,
 १३. १२, ६, १६ ७, ९, १६ :

a) विप । बस । b) = पर्वत-विशेष- । उस । c) नासा गन्धवह इत्यस्य स्थाने नासा गन्धावहः
 इति लासं । d) विप (वासस्-) । द्रस मत्वर्थे अच् प्र । उप = उद्वर्तन- । e) ञ्धोत्सद् इति पाठ^१ यनि. शोघः
 [तु. मूको , भाष्यकार , Knauer (पक्षान्तरोत्तु. पदसूची)] । f) व्यप । व्यु^१ । शुद्धपिङ्गला- इति पाका. ।
 g) = ऋषि-विशेष- । व्यु^१ । h) वैप १ द्र । i) तु. पागम. ।

१६, ११, २ ३, १८, ४६ ६५,
 भाश्रौ २, ९, ३×४, माश्रौ १, २,
 ६, ८, वाधूश्रौ ४, ४७ ३५, वाश्रौ
 १, ३, ३, १४, वैश्रौ, या २, ६.-र्वम्
 बौश्रौ ८, १४, ४०, १८, ४६ ८,
 वैश्रौ १६, १८ १७, काग २५,
 ३५, वैग ३, ४ ३, अप १, ४५,
 ५, वृदे ७, १३०,-र्वस्य आश्रौ
 ४, ७, ४, शाश्रौ ५, १०, २३, कौग
 १, १२, २, शाग १, १९, २,
 अश्र १४, २, नाशि १, ४, १२^{१६},
 -र्वा आश्रौ १०, ७, ३, शाश्रौ
 १६, २, ८, आपश्रौ २२, ११,
 ८, १, बौश्रौ ११, ६ : २२, २४,
 २७ १२, वाधूश्रौ ४, ४७ १,
 २, ११६ . १, हिश्रौ १७, ५,
 ५, वैताश्रौ ३६, २७, आपम
 १, ७, ८, माग २, १८, २, अप
 ३३, ७, ५, ४८, १३७, ७१, १८, ३,
 हिध १, ६, २०, वृदे ७, ६८, अश्र
 १२, १, या ३, ८, अप्रा ३, ४,
 १, नाशि १, २, १३, २, ७, १२,
 -र्वाणाम् शुश्र १, १६४, -र्वान्
 वैश्रौ २१, १५ : ७, १, हिश्रौ
 ७, १, ६०, १५, ७, १०, आमिग
 २, ५, ३ ३१, पाग २, १२, २,
 बौग ३, ७, २१, कौस् १०६, ७, १,
 कप्र २, २, ३-८, नाशि १, २, १५,
 -र्वाम्यम् शाश्रौ ४, १०, १,
 -र्वाय द्राश्रौ ३, ४, ३०, लाश्रौ
 १, १२, १६, आपम १, ३, २,
 ४, २, कौग १, ७, १, शाग १,
 ११, ४, पाग १, ४, १६, आमिग,
 -र्वे काग १९, ३, -र्वेण वृदे
 ८, ५२, -र्वेभ्य माग २, १२,

१७, अप २०, ७, ३,-र्वेषु बौश्रौ
 १७, ४१ २, आपम २, ४, ६, ७,
 २४, आमिग १, १, ४. ३७,
 काग ४१, १८, भाग २, २० ५,
 माग १, २२, ११, वाग ५, ३०,
 हिग १, ८, ४, १०, ४, जैग १,
 १२ ४०, अप ७१, १७, ९५
 गन्धर्वाणी^१ - णी काग
 २०, २
 गन्धर्व, र्वा^२ - र्वा आग १, ६,
 ५, वैग ३, १ : २, १०, वाध १,
 २९, ३३, आपध २, ११, २०,
 बौध १, ११, ६, विध २४, १८,
 २३, २८, हिध २, ४, ३५, गौध
 ४, १०, -र्वम् अप ७०^३, १०,
 ५, बौध १, ११, १६, -र्वाः नाशि
 १, ७, १८, -र्वान् वैग ६, १२
 १०, -र्वे वैग ६, १२ . १०, -र्वेण
 वैग ६, १२ ७, विध २४, ३७
 गन्धर्वी^४ - र्वा अप
 ४८, १०२, अशा १६, १, निध
 १, ११^०, -र्वाम् अशा १७, ५,
 -र्व्याम् अशा १८, ७, १९, ८
 गन्धर्व-वेद- द चव्यु ४
 ११, -दम् शंध ११६ ३८,
 -दे याशि १, ६
 गन्धर्व-गण- णा. बौश्रौ १९, १०
 २६
 गन्धर्व-नगर- रम् अप ६४, २, ८,
 ७२, ३, ६
 गन्धर्व-नामन्- मभिः माश्रौ ४,
 ४, २६.
 गन्धर्व-पद- दम् अप ७०, १२, ५.
 गन्धर्व-यलुस- जूषि बौश्रौ ९, १६
 १५.

गन्धर्व-राज- जस्य चाश्र १४ :
 १, -जाय काग १७, १
 गन्धर्व-लोक- कम् बौपि १, ७ :
 १५, विध २४, ३७, ९१, १२
 गन्धर्व-सेना- नया सु २६, २
 गन्धर्वा (र्व-अ) प्सरस्- -रसः
 आपश्रौ २२, ११, ६, वाधूश्रौ ४,
 ११६ २, हिश्रौ १७, ५, ४, १,
 वैताश्रौ ७, २२, निस् ७, ७ :
 २६, र्वाप ४३, २, ३१, ४५, २,
 १०, शध ११६ १६, वृदे ७,
 ७१, ८, ११४, शुश्र २, ३३२, अश्र
 २, २, ८, १० (५) नाशि १, ७,
 ६, -रसाम् बौश्रौ १४, १८ : ९;
 चाश्र ३९ ११, -रोभ्य. शाश्रौ
 ६, २, २, वाधूश्रौ ४, १०४ : १०,
 कौस् ४९, १२
 गन्धर्वाप्सरो-देवता- > ण्य-
 -त्यम् अश्र २, २
 र्वागन्धर्वा (र्व-अ) प्स (र>) रा-
 -राभ्यः आपश्रौ १४, ११, ३,
 बौश्रौ १९, ७ : ५७, हिश्रौ १०,
 ६, ९
 गन्धर्वा (र्व-अ) प्सरौ (रा-ओ) षधि-
 -धी अश्र ४, ३७^{१६}.
 गन्धर्वा (र्व-अ) हुति- -ति आमिग
 २, ५, ३ : ४६, बौग ३, ७, २८;
 -ती. बौश्रौ १०, ५० १५;
 वैश्रौ १९, ६ : १३४
 गन्धर्वे (र्व-इ) तरजन- -नेभ्यः माश्रौ
 १, ६, १, ४७
 गन्धर्वे-ष्टा^५ - ष्टाम् माश्रौ २, ५,
 २, २१
 गन्धर्वी (र्व-उ) रग-राश्रस- -साः वृदे
 ५, १४५, ७, ६८.

a) पाठ १ गाध^० इति शोधः (तु. लास) । b) स्त्री. ङीष् प्र. आनुग्-आगमश्च उस. (पा ४, १, ४९) ।

c) विप, नाष (विवाह-विशेष-). तस्येदमीयस् तत आगतीयो वा अण् प्र. । d) = शान्ति-विशेष- । e) = वाच्- ।

f) षधि. इति पाठ १ यनि शोधः । g) वैप १ द. ।

वैप-द्वि-२८

गन्धर्वार्यण^a- ण बौश्रौ १८, २६
१३, -णा. बौश्रौ १८, २६ २०.
गन्धर्वार्यण^b- प्रभृ गन्धर्व- द्र
गन्धार^c- पाग ४, २, १३३, १३४, ३,
१३
१गन्धार^d- पा ४, २, १३३, ३, ९३,
-रा: अप ५६, १, ४, ५७, २, ५
ग[ग]न्धारि^e- पावा ४, २, ५२,
-रय: बौश्रौ १८, ४४ २३,
-रिभ्य: अप ४६, ५, ५१
२गन्धार- पा ४, १,
१६९^f, पावा ४, २, ५२^g, -रान्^h
बौश्रौ १८, १३ : १
गन्धार-कलिङ्ग-
मागध- -धान् हिश्रौ १७, २,
६२^h.
गन्धारि-कलिङ्ग-मगध-
-धान् आपश्रौ २२, ६, १८ⁱ
गन्धारक^j- पा ४, २, १३४.
गन्धिक- (> गान्दिक- पा)
गन्दिका- टि द्र
गम^k- भे आश्रौ १०, ८, १०,
शाश्रौ १६, ४, १
गमस्ति^l- पाठभो २, १, १८५^m, पाग
६, ३, १०९ⁿ, -फस्तय अप ४८,
११२, निघ १, ५, २, ५, -फस्तौ
अप ४८, ८१, निघ २, ४, -फस्तौ
आपश्रौ १२, १४, १५, हिश्रौ ८,
४, १७, -स्त्यो. या ५, ४^o
गमस्ति-पूत- त बौश्रौ ७, ५.
३३, या ५ ६
गमस्ति-माला->लिन्- -लिनि

अप ६५, २, २
गभीका¹- पाग ४, ३, १६७^m.
गभीर, रा¹- पाठ ४, ३५ⁿ, -र: अप
४८, ६८, निघ ३, ३, या ११,
२०, -रम् निघ १, १२,
या १४, ११, -रा अप ४८,
१०२, निघ १, ११, -रा
आश्रौ ३, ८, १, -रे अप ४८,
६०, निघ ३, ३०
√गम् √गच्छ द्र
रगम- ग द्र
रगम- √गच्छ द्र
गम्भन्¹- म्भन् काश्रौ १७, ५, १ⁿ,
शुअ २, १६१
गम्भ- -ष्ठम् बौश्रौ १०, ५६: १२
गम्भर¹- -रम् निघ १, १२^o
रगभीर, रा¹- पाठ ४, ३५, -र
शध २४४, -रम् आपश्रौ १६,
२५, २^o, बौश्रौ ७, ५: ७^o, वैश्रौ
१८, १७: ५३^o, हिश्रौ ११, ७,
४२^o, अप ३, १, १३, ४८,
७५^o, ६२, ४, २, ७०^o,
४, ३, अत्रा २, ४, ६, -फरा
बौश्रौ ८, १९ . १४^o, अप ४८,
१०२, निघ १, ११, -फरे अप
४८, ६०, निघ ३, ३०, -फरेभि
आश्रौ २, ७, ९^o, -फरे^o
बौश्रौ ३, ११: २२, आमिगृ
३, १, १: ८, ३ ३४, बौपि २,
९, १३^o, भागृ २, ११ ५, १४
१४, हिगृ २, १०, ५^o, १३, २
गम्भीर्य- पा ४, ३, ५८

गम्भीर-कर्मन्¹- -माण: या ११,
१७
गम्भीर-प्र(ज्ञा >)ज्ञ¹- -ज्ञा: या
११, १७.
गम्भीर-वेपस्¹- -पस या ११,
१७^o
२गम्भीर¹- (> गाम्भीर- पा) पाग
४, २, ७५
रग्य¹- पाठभो २, ३, ७, पाग ६,
१, २०३, -य: जैश्रौ ११:
१८^o, अप ४८, ८७^o, ऋअ २,
५, ९, १०, ६३, वृदे ३, ५५;
शुअ २, ४५३, साअ १, ८२, ८४,
फनिघ २, २, १०, ३, ४, -यम्
सु १९, ६, बौगृ २, २, १०^o,
-यस्य चाअ ४२: ६, -ये वृदे
२, १३०.
गय-साधन¹- -नम् ऋप्रा ७, ५३^o
गय-स्फान¹- पावा ६, १, ६५, -फान-
आश्रौ २, १, २७, ४, ८, ८, शाश्रौ
३, ७, ३, १५, ८, काश्रौ ५, १२,
१०, बौश्रौ
रगय, या¹- पाग ४, २, ८२, -याम्
अप ४२, २, ४, विघ ८५, ६७,
-यायाम् कागृठ ४५ ६, शंघ
१९४
गय-शिरस्¹- -रसि या १२, १९
गया(या-आ)दि- -दौ कप्र ३,
१०, ९
गया-शीर्ष¹- -र्षम् शंघ ११६:
१३, -र्षे विघ ८५, ४, ६६
गया-स्थ- -स्थ वाघ ११, ४२

a) व्यप । व्यु ? । b) =देश-विशेष- । व्यु ? । c) =तद्देश-वासिन्- । d) =[गन्धारि-प्रजाया]
विषय-देश- । वैप १ द्र । ग^o इति आपश्रौ अप । e) =तद्-राज- । f) = गन्धारि- । g) परस्परं
-पामे । h) =१गन्धार- । i) वैप १ द्र । j) < √भस् इति । k) तु. पागम । < गो- [पृथिवी-]
+ √भस् [दीप्तौ] इति । l) = वृद्ध-विशेष- । व्यु ? । m) गर्गरिका- इति पाका । n) पामे वैप १, १२१४ p द्र ।
o) पामे वैप १, १२१४ k द्र । p) पामे वैप १, १२१५ g द्र । q) 'र. इति पाठः ? यनि शोघ ।
r) विप. । बस. । s) अर्थः व्यु च ? । t) = नगरी-विशेष- । व्यु ? । u) = स्थान-विशेष- । पूप ? ।

२गर- ग द्र
 २गर- पाग ३, १, १३४
 ३गर^a- पाग ५, २, ३६, ६, १, १६०,
 पावाग ८, २, १८^b, -र अप
 ४८, ७५^c, -रम् बौश्रौ १८,
 ४७. १, २, २३, -रस्य निस् ७,
 ७ ३२
 गर-गिर्- -गी काश्रौ २२, १०,
 १६, आपश्रौ २२, ११, १, हिश्रौ
 १७, ५, ७, बौध ४, ८, १
 गर-गोर्ण^a- -गोम् आश्रौ ९, ५, १
 गर-द्- -द वाध ३, १६, शध
 २०१, विध ४५, १६, -दा शंघ
 ४४०
 गरदा(द-अ)मिद- -दौ शंघ
 ३७७ २
 गरदा(द-अ)मिद-प्रसह्यतस्कर-
 -रान विध ५, ११
 गरित- पा ५, २, ३६
 गरण-वत्- √गृ(निगरणे) द्र
 गरभ- पाउना ३, १२१
 गरमाण-रोहिन्- √गृ(निगरणे)द्र
 गराजि^d- -जि आज्यो ४, ५, १७,
 -जिना आज्यो ५, ८
 गरि- (>गारेय- पा) पाग ४, २,
 १७^b
 गरित्-, √गृ, गृ(शब्दे) द्र
 गरिमन्- गुरु- द्र
 गरिष्ठ- गुरु- द्र
 गरी- पाग ४, १, ४१^b
 गरीयस्- गुरु- द्र
 गरीर- पाउना ४, ३१
 गरुड^a- पाउ ४, १५६, -ड सु १३,

१, १४, ४, १७, ५, २०, २, ४,
 २१, ४, २२, १, २५, २, २६,
 ५, ३४, ३, -डम् सु ४, ४, ५,
 १, ३१, १, शध ११६ ३३,
 -डस्य सु ४, १, २२, ३, २४, १
 गरुड-हंस-वत् माशि १५, ८, नाशि
 २, ८, २४, याशि २, १०२
 गरुडे(ड-इ)न्ड-> ०न्द्र-ताक्ष्य-
 -क्ष्यि. सु १, ५
 गरुत्^e- पाउ १, ९४, पाग ८, २, ९
 गरुन्-मत्^f- -न्मत् बौश्रौ ३, २५
 ४, भाश्रौ ३, १७, ७, माश्रौ, चाश्र
 १६ १४^g, -मत्सि सु २२, २,
 -०मन् सु ७, ३, ११, २, ४, १३,
 ५×५, -मन्तम् सु ३१, १, कप्र
 २, १, १६, बौध २, ५, २४^h, या
 ७, १८, -न्मान् शाश्रौ १७, १७,
 १, आपश्रौ १६, १०, १२ⁱ, १७,
 १५, ४, बौश्रौ, ^hअश्रौ ४, ६,
 ५, १३, ६, १२, १००, ७,
 ८८, १०, ४, या ७, १८^h
 गरुमती- -ती सु १९, २
 गरुम(त>)नी^h- -ती
 शुभ्र २, ८१^h
 गरुमत्-संभव- -वे सु ४, ५
 गरुथ- √गृ, गृ(शब्दे) द्र
 गर्ग^a- पाउ १, १२८, पाग ४, १,
 १०५, १५१ⁱ, -र्ग अप ५१,
 १, २, ६२, १, १, ऋअ, -र्गस्य
 अप ५०, ४, ४, ५१, ५, ६ⁱ×५,
 -र्गाⁱ बौश्रौ १ ४, १९, १, ६,
 -र्गाणाम्ⁱ आश्रौ १२, १२, २,
 आपश्रौ

गार्थ- पा ४, १, १०५, १५१;
 -०र्ग्य आश्रौ १२, १२, २ⁱ;
 आश्रौ, -र्ग्य. बौश्रौ १६, २७:
 २३, लाश्रौ ७, ९, १४ⁱ, कौसु:
 -र्ग्यम् कौगृ २, ५, ३, शागृ,
 -र्ग्यस्य ऋप्रा ६, ३६, ११, २६;
 पा ८, ३, २०, -र्ग्याणाम् वैध ४,
 ३, ३, -र्ग्येण अप ७०ⁱ, २३, १
 गर्गी- -र्गी आगृ ३,
 ४, ४^h, कौगृ २, ५, ३, शागृ ४,
 १०, ३, अप ४३, ४, २२
 गार्थ-मालव- -वयो पा ७,
 ३, ९९
 गार्थ-पार्थश्रवम्- -सौ कौसु
 १७, २७.
 गार्थ-पार्थश्रवस-भारलि-का
 द्वायनो(न-उ)परिवभ्रव-कौशिक-
 जाटिकायन-कौरुषधि- -थय
 कौसु ९, १०
 गर्ग-त्रिरात्र¹- पाग ६, २, ८१;
 -त्र शाश्रौ १६, २, २, बौश्रौ
 १६, २७ २६, -न्त्रम् आश्रौ
 १०, २, ६, -त्रेण आपश्रौ २२,
 १५, १, १८, ७, बौश्रौ २६,
 १८ १०, हिश्रौ १७, ६, १९;
 ७, २
 गर्गत्रिरात्र-शस्य- -स्या. आश्रौ
 १०, २, १५,
 गर्ग वैद-च्छन्दोमा(म-अ)न्तर्वसु-
 पराक- -का काश्रौ २३, २, ८.
 गर्ग-भार्गव- > ०विका^m- >
 ०विका-ग्रहण- -णम् पावा ४,
 १, ८९.

a) वैप १ द्र । b) तु पागम । c) = जल- । d) = [तदाख्य-]ररण-वशेष ।
 व्यु । e) वैप १ गरुत्-मत्- टि. द्र । f) = ऋषि-विशेष- । g) विप (ऋच्-) । h) ०स्मी इति पाठः ?
 यनि शोष (तु उ [मा १२, ४]) । i) तु पाका । गर्गर- इति भाखडा पागम । j) बहु < गार्थ- ।
 k) गर्गी इति पाठः ? यनि शोष. (तु कौगृ प्रन्) । l) = ग्रहीन-विशेष । m) मैथुनिके अर्थे तुच् प्र-
 (पा ४, ३, १२५) ।

गर्ग-वत् आपश्चौ २४, ७, ९, १०,
 बौश्रौप्र १९ ८, ९, हिश्रौ
 गर्ग-वत्स- पाग ६, २, ३७
 गर्गर^भ- पाउभो २, ३, ३५, पाग ४,
 १, १५१^०, -रस्य हिश्रौ १, ७,
 २५
 गर्गर्थ- पाग ४, १, १५१.
 गर्गरिका- गभीका- टि द्र
 ✓गर्ज, पाधा भ्वा चुरा पर शब्दे,
 गर्जते अप २९, २, २, ७१, १४,
 ३, गर्जन्ति अप ७०^२, २१, ५
 गर्ज^०- (> १ गर्जित- पा) पाग
 ५, २, ३६
 गर्जन- नम् अप ६१, १, १९, २१,
 ७०^२, २, २, -ने अप ६१, १,
 २४, ७१, १, ४, ५, २, १
 गर्जमान- -न- अप ६२, ४, २,
 -नेषु अप ६१, १, २१
 २ गर्जित- -तम् अप ७०^२, १७, ३
 गर्त^०- पाउ ३, ८६, पाग ४, २, ७७,
 ८०^२, ९०, १२७^०, -र्त माश्रौ
 ४, १, २१६, अप ४८, ८९^५, निघ
 ३, ४^५, या ३, ५६, -र्तम् काठश्रौ
 ६३, ९८, बौश्रौ ६, ८ ६××,
 माश्रौ, या ३, ५६, -र्ता कप्र
 १, १०, ६, -र्तान् बौश्रौ ६, २५
 १६, -र्ते माश्रौ १, ८, ४, ४१,
 आगृ २, ८, १५, ४, ५, ७, कौश्रु,
 कौसू ४९ २३^१, -र्तेषु आगृ २,
 ८, १४, -र्तौ बौश्रौ १७, ३५ ३
 गर्त^१- पा ४, २, ७७
 गर्तक- पा ४, २, १२७
 गर्त-कूल^१- (> गर्तकूलक- पा)

पाग ४, २, १२७
 गर्त प्रस्त्रवण- णे अप ४२, १, २
 गर्त-मित^०- -र्मित बौश्रौ १७,
 १३ ३, २६, २३:१७, -मितम्
 आपश्चौ १४, ६, ७, बौश्रौ १७,
 १३ १, २६, २३ १५, हिश्रौ
 ९, ८, २१
 गर्त-सद्^०- -सदम् आगृ ३, १०,
 १०^१
 ऋगर्ता(त-आ)रुह^०- -रुक् या ३,
 ५६
 गर्ता(ते-आ)रोहि(न् >)णी- णी
 या ३, ५
 गर्तिक^१- पा ४, २, ८०
 गर्तिन्^१- पा ४, २, ८०
 गर्तीय^१- पा ४, २, ९०
 गर्ते-छा- -छा: या ३, ५६
 गर्तो(ते-उ)त्तर-पद- -दात् पा, पावा
 ४, २, १३७
 ✓गर्द पाधा भ्वा चुरा पर शब्दे
 गर्दन^१- -नम् अप ४८, ८०^१
 गर्दम^०- पाउ ३, १२२, -भ आपश्चौ
 ९, १४, १४^१, बौश्रौ २४, ५
 १९, २५, २९:४^२, भाश्रौ ९, १६,
 १७, वाधुश्रौ, -भम् आपश्चौ ९,
 १५, १××, बौश्रौ, -भस्य
 आपश्चौ १६, २, २, ३, १०, हिश्रौ
 ११, १, १३^१, ३७, -भात् लाश्रौ
 ९, ८, १६, -भान् मागृ २, १४,
 ११, बैगृ ६७ ११, -र्भे
 बौश्रौ २, ५. ३, १०, ४: १२,
 माश्रौ, -भेन आपध १, २६, ८,
 हिब १, ७, १९, गौध २३, १७,

-भौ शाश्रौ १२, २४, ३६
 गर्दभी- -भी कौसू ११०, १.
 १ गर्दभी-मुख^१- > गर्द-
 भीमुख- -खा बौश्रौप्र ४३. ५.
 १ गर्दभ^०- -भम् आपध १, ३२,
 २५, हिघ १, ८, ६६
 २ गर्द(भ >)भी^०- -भीम् शुभ्र
 २, १७
 गर्दभ-कश्य-भास- -सानाम् अप
 ७०^३, ६, ६
 गर्दभ-चर्म-वासस^०- -सा बौध २,
 १, ३
 गर्दभ-प्रथम- -मा आपश्चौ १६,
 २, ४
 गर्दभ-प्रवेश- -शे काध २७६ ८
 गर्दभ-मन्त्र- -न्त्र बौश्रौ २२, १
 २०.
 गर्दभ-मुख- -खेन अप १, ३२, १०
 गर्दभ-रशना- -नाम् वैश्रौ १८, १
 १७^०, -नाया बौश्रौ २२, १. ६
 गर्दभ-सुग्रीव^०- -व: भागृ २, २१
 ८, ९^१
 गर्दभा(भ-अ)जिन- -नम् विध २८,
 ४९
 गर्दभाजिनिन्- -नी शंघ ३७९
 गर्दभे(भ-इ)ज्या- -ज्या काश्रौ १
 १, १३
 १ गर्दूल^१- -ल वाधुश्रौ ३, ६९ ३८
 ✓गर्ध पाधा चुरा पर अभिकाक्षा
 याम्
 गर्ध- , गर्धन- , गर्धित- ✓गृध् द्र
 गर्भ^०- पाउ ३, १५२, -र्भ शाश्रौ
 १५, ७, ८, १७, १^१, काश्रौ २६

a) = राजर्षि विशेष- , कलश- । b) वैप १ द्र । c) पृ ९७९ J द्र । d) 'र्जा- इति पागम ।
 e) वैप १ निर्दिष्टयोरत्रसमावेशः द्र । f) 'र्थ ? । सङ्कृत तु पागम । g) वर्चगर्त- इति पाका ? । h) = गृह- ।
 i) 'ते इध्मौ इत्यत्र संघिरार्ष (तु सस्कर्तु टि, भू LVIII च) । j) = देश-विशेष- ? । k) = उदर- । व्यु ? ।
 l) व्यप. । बस । m) विप. । तरयेदमीय. अण् प्र । n) विप. (ऋच्-) । o) विप । बस > बस । p) 'नम्
 इति पाठ ? यनि. शोध- । q) विप (मणि-) । बस । r) अर्थ व्यु. च ? ।

४, १३[†], आपश्रौ ९, १९, २[†],
१४, २९, १[†], १६, ३, ९, ३२,
४[†], बौश्रौ ५, ९ १९××,
माश्रौ, आपम १, १२, ५, ८^३,
२, ११, १७^०, १८^०, २६^०,
पाय ३, ३, ५[†], हिण्ट १, २५,
१[†], या २, १९, १०, २३^०, १,
१३, ३०^३, ३९, १४, १६[†],
-[†]भूम्य आपश्रौ २, ७, १३, ३,
१०, ३१^०, १०, ९, ५, शाश्रौ,
आपश्रौ ५, ८, ८^१, ९, ४, १^०, १८,
१२^०, आपम १, १२, १^६,
६^३, ७^१, पाय १, १३, १^६, माय
२, १८, २^०, हिण्ट १, २५, १^६,
या ३, ६, ४, २१^३, ६, १२,
-[†]भूम्य शाश्रौ १३, ३, ५, काश्रौ
२५, १०, ६, आपश्रौ ९, १९, ८,
१२, बौश्रौ, चाश्र २ १४^१,
या १०, ३९, -[†]र्भा शाश्रौ १४,
४९, ३ काश्रौ २५, ११, १९,
बौश्रौ २, १० : ३२, १०, ४२.
६; माश्रौ, या ४, २१, १४, २९,
-^०र्भा आपश्रौ १२, ३, २,
वैश्रौ १५, ३. ९, हिश्रौ ८, १,
४१, जैश्रौ ९ ८, -[†]र्णाम् बौपि
३, ६, २, वृदे ५, ८६, ८, ६६,
-[†]र्भात् बौश्रौ १०, ३४ १७,
वाध ११, ५०, ५१, अश्र १०,
१३, पागवा ५, २, ३६, -[†]र्भान्
शाश्रौ ३, १८, १४^६, आपश्रौ
६, ११, ५, १३, ९, ११, भाश्रौ,
-[†]र्भे आपश्रौ ९, ७, २, शाश्रौ १२,

३, ११, आपश्रौ १, ८, ७, २०, २०,
९, हिश्रौ १४, ४, ३८, कौय १,
१२, ६^३, शाश्रौ १९, १२^३, आपय,
-[†]र्भेभ्यः आपश्रौ ६, ११, ५,
भाश्रौ ६, १३, ६, वाश्रौ १, ५, २,
४५, हिश्रौ ३ ७, ९३, -[†]र्भेषु
कौस् १२४, ३[†], -[†]र्भौ बौश्रौ
२६, ८ १२
गर्भ-कर्तृ- -र्ता ऋश्र २, १०, १८४
गर्भ-कर्मन्- -र्भणि वृदे ५, ९२
गर्भ-का(म>)मा- -मा कौय १,
१०, २४^१, शाश्रौ १, १७, ९, पाय
१, ९, ५, -[†]र्भै शाश्रौ ५, १४,
१२
√गर्भकाम्य > गर्भकाम्या-
-स्यया वृदे ७, ५
गर्भ-कारम्^m आश्रौ ९, ११, ४,
वैताश्रौ २७, १८, निस् ८, २
२७
गर्भ-गृह- -हे आमिण्ट २, ६, ४
२३, शंघ १३२
गर्भ-ज- -ज. अप १३, ४, १
गर्भ-वृतीय- -ये जैय १, ११ १
गर्भ-दशम- -मेषु कौय २, १, २,
शाश्रौ २, १, ३
गर्भ-दृहण- -णानि कौस् ३५,
१२, -णाय अश्र ६, १७
गर्भ-दृहण-देवता- > षत्य-
-त्यम् अश्र ६, १७
गर्भ-द्वादश- -शे^m विध २७, १७,
-शेषु^m कौय २, १, ४, शाश्रौ २, १,
५, आपय १०, ३, बौय २, ५,

२, भाय १, १. ५, वाय ५, २;
गोय २, १०, २, आपध १, १, १९,
हिध १, १, २१
गर्भ-ध^० -धम् बौश्रौ १५, २९ :
३५^३.
गर्भ-नवम- -मेषु भाय १, १ ६
गर्भ-निधा(न >)नी^m -नीम् या
३, ६
गर्भ-पतन- -ने वाध ४, ३४
गर्भ-पुरोडाश- -शम् आपश्रौ ९,
१९, ६, ७, १३, वैश्रौ २०, ३८ :
७, हिश्रौ १५, ८, १९, २६, २८,
-शेन आपश्रौ ९, १९, ७
गर्भ-भर्तृ-संयोग- -गे पावा ४, १,
३२
गर्भ-भूत- -ता अप ६५, १, ७,
-तानि निस् ८, २ ५१
गर्भ-मास- -सस्य गोय २, ६, १, -से
आय १, १३, २, १४, १, काय ३१,
१, माय १, १५, १, १६, १, वाय
१६, ५, ७, -लेषु काय ३२, २
गर्भमास-तुल्य- -ल्याः सुधष
८४ : २, -ल्यानि सुध १९
गर्भमास-स(म>)मा- -माः
गौव १४, १६
गर्भमास-समि(त>)ता- -ताः
बौध १, ५, १११
गर्भ-रक्षण- -णम् कौय १, १३, १,
शाश्रौ १, २१, १
गर्भरक्षणा(ए-अ)र्थ- -र्थम् अश्र
८, ६
गर्भ-रस- -सम् आपश्रौ ९, १९, ९;

a) सपा गर्भ <> गर्भे इति पाभे । b) पाभे वैप १, १३७७ h द्र । c) पाभे वैप १, १२१७ h
द्र । d) पाभे वैप १, १२१७ j द्र । e) पाभे वैप २, ३ खं गर्भम् तैत्रा ३, ७, ३, ६ टि द्र । f) पाभे.
वैप २, ३ खं गर्भम् तैत्रा १, २, १, १४ टि द्र । g) पाभे वैप १, ११८५ ० द्र । h) पाभे वैप १ पुत्रम् खि
४, १३, ३ टि द्र । i) पाभे वैप १, १२१८ d द्र । j) = ऋषि विशेष- । k) गर्भम् इति साधीयानिति ० (तु
तैत्रा २, ४, ५, ७) । l) षमः इति पाठ ? यनि. शोध. (तु शाय पाय च) । m) = शस्त्र-विशेष- इति MW १
n) परस्परं पाभे । o) वैप १ द्र । p) विप । उस उप अधिकरणे कृत ।

-साय आपश्रौ ९,१९,५
 गर्भ-लम्भन^a- -नम् आगृ १,१३,१
 गर्भ-वत् वैगृ ६,३ २, वृदे ५,८५
 गर्भ-वत्- -वन्ति निस् ८,२ : २६,
 २७,४४
 गर्भवती- -ती बौश्रौ २४,१८
 १६
 गर्भ-वास- -से शव ३७०
 गर्भ-वासिन्- -सी शंघ ३७७ : २३
 गर्भ-विधान- -नम् निस् ८,२ ४७
 गर्भ-विनि स्त- -तानाम् काघ
 २७४ २
 गर्भ-वेदन-> ^१न-पुसवन^b- -नै
 वैताश्रौ १२,१४
 गर्भ-वेदि(न>)नी^c- -न्य मागृ
 २,१८,२
 गर्भ-शातन- -नम् आपघ १, २१,
 ८, हिध १,६,३८
 गर्भ-संस्कार- -रा वैगृ ६,३ १२,
 -रान् वैगृ ६,३ : ९
 गर्भ-संस्त्राव- -वे ऋअ २, १०,
 १६२, अअ २०,९६^d
 गर्भ-सङ्ग- -ङ्गे वैगृ ३,१४ ४
 गर्भ-स्पन्दन- -ने शघ १५
 गर्भ-स्त्रमन- -ने सुव १९, सुवप
 ८४ २
 गर्भ-स्त्रत्रण- -णे बौषि ३,६,२
 गर्भ-स्त्राव- -त्रे बौध १, ५, १७,
 विध २२,२५
 गर्भस्त्रावि(न>)णी- -णी ऋअ
 २,१,१०१, ५,७८
 गर्भा(र्भ-आ)दि- -दिः बौध १,२,
 ८; गौध १,९, -दिभिः वैगृ ३,
 ९. १२

गर्भा(र्भ-आ)धान^e- -नम् कागृ ३०,
 ८, ऋवैगृ ६, ३ ४, कप्र १,
 ५, ५
 गर्भाधान-काल- -ले वैगृ ६,
 ३ : १
 गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-
 जातकर्म-नामकरणो(ए-उ)पनि-
 ष्कामणा (ए-अ)न्नप्राशन-चौलो-
 (ल-उ)पनयन व्रतचर्या (र्या-अ)
 ध्ययन-समावर्तन-विवाह-यज्ञ-
 दाना (न-आ) दि- -दीनि
 रुध ५
 गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-
 जातकर्म-नामरक्षणा (ए-अ)न्नप्रा-
 शन-चौलो(ल उ)पनयन- -नम्
 गौध ८,१३
 गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-
 विष्णुबलि-जानकर्म-नामकरणो
 (ए-उ) पनिष्कामणा(ए-अ) न्न-
 प्राशन-चौलो(ल-उ)पनयना (न-
 आ) दि- -दि बौगृ ४,६,१
 गर्भाधान-वत् वैगृ ६, ३ ६
 गर्भाधाना(न-आ)दि- -दि वैगृ
 ६,७ ४, -दिपु शंघ २८,
 -दीन् वैगृ ६,६ ७
 गर्भाधानादि क्रिया- -याम्
 वैगृ २,१,२
 गर्भाधानादि-चतुर्थ- -र्थे वैगृ
 ३,११ : १
 गर्भाधानादि-चौडका(क-अ)
 न्त- -न्तेषु वैगृ ६,६ ३
 गर्भाधानादि-वर्ष- -र्षे वैगृ
 २,३ १
 गर्भाधानादि-सस्कार- -रम्

वैगृ ६, ७ ६, -रान् वैगृ २,
 ३ : ८, -रेषु वैगृ ६, २ १०.
 गर्भाधानाद्य (दि-अ)ष्टम-
 -मे वैगृ ३, १२ १
 गर्भा(र्भ-आ)धानक^f- -कम् आज्यो
 ९,५
 गर्भा(र्भ-अ)र्थ- -र्थम् वृदे ५, ८२;
 ८५, ८, ८३, अअ ५, २५
 गर्भार्था(र्भ-आ)शिस्र- -शी.
 ऋअ २, १०, १८४
 गर्भा(र्भ-अ)ष्टम- -मे^g आगृ १, १९,
 २, पागृ २, २, १, शघ ३१-३३,
 विध २७, १५, -मेषु^h कौगृ
 २, १, १, शागृ २, १, १, आपगृ
 १०, २, बौगृ २, ५, २, भागृ १,
 १ ५ⁱ, वागृ ५, १, गोगृ २, १०,
 १, वाघ ११, ४९, आपघ १, १,
 १९, हिध १, १, २१
 ✓गर्भि, गर्भयेत् अप ७०^j, ७, १.
 गर्भित- पा ५, २, ३६
 १गर्भिन्^k- -र्भिण लुस् २, ६ १.
 २गर्भि(न>)णी^l- -पाग २, १, ७०;
 ४, २, ३८^l, -णय^k आपश्रौ १९,
 १६, १०^l, -णी आपश्रौ २२,
 १०, १८, बौश्रौ १२, १९ ७, १८,
 ३० ६, वाश्रौ ३, ३, ४, ४४^m,
 निस् १, १० २५, आपम, हिगृ
 १, २५, १ⁿ, -णी हिश्रौ १०,
 ४, १४, -णीनाम् काश्रौ २४, ५,
 २८, काश्रौसं २१ २२, २९ २०,
 २२, मागृ १, ४, १५, -णीभि.
 बौश्रौ १२, २ १४, -णीभ्याम्
 शाश्रौ १५, १४, १३, काश्रौ १५,
 ९, १२^o, -णीम् काश्रौ २५, ११,

a) = कर्म-विशेष-। उस । b) = मन्त्र-विशेष-। द्वस । c) = ऋग्-विशेष-। उस । d) °स्नावे
 इति पाठ ? यनि शोधः । e) = संस्कार-विशेष-। f) विप । बस । g) परस्पर पामे । h) अर्थ. ? ।
 i) विप. (योषित्- प्रमृ.) । वैप १ द्र । j) = क्षेत्रभक्ति- (तु. पागम) । k) वैप १, १२१९ । l) पामे.
 वैप १ पुत्रम् शौ ३, २३, ४ टि. द्र । m) ष्याम् इति पाठः ? यनि. शोध. (तु चौसं) ।

१९, आश्रौ १८, २१, १३,
 बौश्रौ १२, १९ ६×४, हिश्रौ,
 -णीषु लाश्रौ १०, १७, ३, -ण्य
 आश्रौ ९, ४, १४, काश्रौ १२, ५,
 १४, बौश्रौ २४, ३८ ४, -ण्या
 पा २, १, ७१, -ण्याः आश्रिण्य
 ३, १०, २ १, वैण्य ६, ३ : ११,
 ७, ५. ६, -ण्याम् बौषि ३,
 ९, १, -ण्यै बौध २, ३, ५७
 गर्भिण- पा ४, २, ३८
 गर्भिणि-प्रायश्चित्त^०- -त्तम्
 आपश्रौ ९, १९, १४
 भि-नुत्^०, गर्भे-द्वस^०, गर्भे-
 धीर^०, गर्भे-शूर^०- पाग २, १,
 ४८, ६, २, ८१
 भि(भि-ऐ)कादवा- -शे^० विध २७,
 १६, हिध १, १, २१^१, -शेषु^०
 कौण्य २, १, ९३, शाण्य २, १, ४,
 आपण्य १०, ३, बौण्य २, ५, २,
 भाण्य १, १ : ५, वाण्य ५, २,
 गोण्य २, १०, २, आपध १,
 १, १९
 भौ(भि-उ)ञ्जव- -वा. अप ६४, ८,
 १०.
 भौ(भि-उ)पपत्ति- -त्तिः निस् ८,
 २. ४८
 रू^०- पाउ १, १५
 श्रुत^०- -त. हिश्रौ २२, ५, २३,
 -तम् बौश्रौ १३, ३६ १, ३,
 -ता बौश्रौ २४, ५. १८, -ते

माश्रौ ५, १, ९, २४, २५
 गार्भुत-सप्तम^०- -माः आपश्रौ
 १६, १९, १४
 √गर्व^० पाधा भ्वा पर दर्पे, चुरा
 आत्म माने
 गर्व^०- पाउ १, १५५, पाग ३, १, १३^०,
 ५, २, ३६, -र्वम् माशि १२, ६
 √गर्वाय पा ३, १, १३
 गर्वित- पा ५, २, ३६
 गर्वर- पाउ २, १२१
 √गर्ह^० पाधा भ्वा आत्म कुत्सायाम्,
 चुरा उभ विनिन्दने, गर्हते आपश्रौ
 २०, १८, ४, ६, बौश्रौ, गर्हन्ते
 आपध १, २०, ७, हिध १, ६,
 २१
 गर्हते विध ९३, १२
 गर्हणा- -णाम् विध ५५, १४
 गर्हमा(ण >)णा- -णाम् बौश्रौ
 १५, २९ ३१
 गर्हा- -र्हायाम् या २, २, पा ३,
 ३, १४२, १४९, ६, २, १२६,
 पावा ३, ३, १४२
 गर्हा-प्रभृति- -तौ पावा ३, ३,
 १४१
 गर्हित, ता- -त कप्र २, २, १२,
 वाध २, ४१, बौध १, ५, ७९,
 -तम् आण्य २, ८, ३, ५, भाण्य,
 -ता आपण्य ३, १२, -तेन विध
 ५४, २८
 गर्हिता(त-अ)ध्यापक-याजक-

-काः वाध २३, ३६
 गर्ह^०- -हं या १, १४, -हंम् पा
 ४, ४, ३०, -ह्यं पावा ४, ४,
 ३०
 गर्ह^०-पणितव्या (व्य-अ)निरोध-
 -धेषु पा ३, १, १०१
 √गल्^० पाधा भ्वा पर अदने, चुरा.
 आत्म स्रवणे
 गलन, ना^०- -नम्, -ना या ६, २४^१.
 गालन^०- -नेन या ६, २४
 जलालयमान- -न या ७, १३^१
 गल^०- पाग ४, १, ४५, ५६, २, ४९^१,
 पावा ८, २, १८^०, पागवा ५, २,
 ९७, -ले गोण्य १, २, २६, कौशि
 ३
 गली- पा ४, १, ४५
 गल-बिल- -लस्य आशि ८, ७.
 गल-ल- पावा ५, २, ९७
 गल-शु(ण्डक >)ण्डिका^०- -के विध
 ९६, ९२^०
 गले-चोपक^०- पावा २, १, ३३
 ग(ल्य >)ल्या- पा ४, २, ४९
 गलडा^० (>)गालडि- पा) पाग
 ४, १, ९६
 गल्गा^०- -ल्गा आपश्रौ ८, ७, १०^१
 †१गल्दा^०- -ल्दायां निघ ४, ३, या
 ६, २४^१; शैशि ९२, -ल्दा
 निघ १, ११.
 †२गल्दा- -ल्दा^१ माश्रौ १, ७, २,
 १८; या ६, २४^०

a) पूष ह्रस्वः (तु पाग ७, ३, १०७) । b) तु पागम । c) परस्परं पाभे । d) वैप १ द्र । e) विप ।
 । f) = दर्प- । व्यु^१ < √गृ [शब्दे] इति पाउ, √गर्व इति अभा MW । g) वैप ३, २७१ h द्र ।
 = रस- । भावे कर्तरि च प्र । i) पृ ५५६ p द्र । j) भाप (क्षरण-) । k) = कणठ- । व्यु^१ । l)
 त्यबन्धन-विशेष- इति पागम, = वनस्पति-विशेष- इति MW । m) = शरीरावयव-विशेष- । षस । n) 'ल्लगु'
 जीर्ण । o) = आभरण-विशेष- (तु नागेशः) । उत्स । p) व्यप । व्यु^१ । q) = २गल्दा- । वैप १ द्र ।
 गभे पृ ९३८ m द्र । s) = वाच्- । व्यु^१ < गल- + √दा इति दे । t) वै १, १२१९ t द्र । u) अर्थः
 च^१ । गल- + धा- (< √धा अधिकरणे) > नैप्र यनि धमनि-पर्याय इति (तु केचित् मूको, SEY १०९ च) ।
 गल्दाः (आगलना) इति या प्रभृ पदमेकं बुवायाश्चिन्त्या (तु स्वर, पृ ५५६ p, BNM च) ।

✓गल्भ् पाधा भ्वा आत्म धाष्टवे
 ✓गल्ह् पाधा भ्वा आत्म कुत्सायाम्
 ग(ल्ह् >)ल्हा^a -ल्हा अप्रा ३, २,
 १३†

गव- गो- द्र

गव्य^b - पाउभो २, ३, ७, पाग ४, १,
 ४१, -यः शाश्रौ १६, ३, १४,
 १२, १३, वाधूश्रौ ४, १९ १९,
 ३० ८, -यम् बौश्रौ १०, ३४:
 १०†, -या अप १, ८, ६, -ये
 बौश्रौ २, ५ : ६†
 गवयी- पा ४, १, ४१, पावा
 ४, १, ६३, -यी वाधूश्रौ ४,
 ३० : ८.

गावय^d - ज्येन विध ८०, ९

गवल- पाउभो २, ३, ९८

गवाग्र- प्रसृ गो- द्र

गवादन- (> नी^e - पा) पाग ४, १,
 ४१

गवादिदक्षिणा- प्रसृ. गविनी-,
 गविष्-, गविष्टि- प्रसृ गो- द्र.

गवि-ष्टुत^f - ताय अप १, ४१, ५,
 अशा ११, ५

गवीडा- गो- द्र

गवीधुक, का^g - का आपश्रौ १६,
 १९, १३, बौश्रौ २४, ५ १७,
 भाशि ५०†, -कै. आपश्रौ १५,
 ३, १६, भाश्रौ ११, ३, ९

गवीधुक^h - कम् आपश्रौ १७,
 १२, १, १८, १०, २०, बौश्रौ
 १०, ४७ १५××, भाश्रौ ६, २,

४, ६, वैश्रौ १९, ६ ४७,
 वाश्रौ २, २, ३, ९, हिश्रौ १२,
 ३, ८, १३, ४, १०, भाशि
 ५२†

गवीधुक-यवागू- न्वा आपश्रौ
 १७, ११, ३, वैश्रौ १९, ६ : ३४,
 हिश्रौ १२, ३, ४

गवीधुक-सक्तु- -क्तुभि आपश्रौ
 १७, ११, ३, वैश्रौ १९, ६ ३५,
 हिश्रौ १२, ३, ४

गवीधुका-ग्रहण- -णम् पावा ४,
 ३, १३४.

गवीधुका-सक्तु- -क्तुन् माश्रौ ६,
 २, ४, ३, वाश्रौ २, २, ३, ३^h

†गवीनी^b - न्याम्ⁱ आपमं १, १२,
 ६, मागृ २, १८, ४, -न्यौ
 बौश्रौ १४, १४ २१ⁱ

गवेधु(क >) का^j - पाउभो २, २, २६,
 पाग ४, ३, १३६, -काः काश्रौ
 २६, १, ३, ११, -कानाम् काश्रौ
 १५, ३, १२, -काभि. काश्रौ
 २६, १, २३

गवेधुक- पा ४, ३, १३६,
 -क काश्रौ १५, १, २६, -कम्
 शागृ ५, ६, २, -के काश्रौ १,
 १, १२

गवेधुका-सक्तु- -क्तुर् काश्रौ १८,
 १, १

गवेर- पाउभो २, ३, ६०.

✓गवेष् पाधा चुरा उभ मार्गणे

गवेष- (> गवेष- पा) पाग ४,

२, ७५^k

गवेषण-, १, २ गव्य- प्रसृ गो- द्र

✓गह्^l

गहन^m - पाउभो २, २, १९२^m, पाग
 ३, १, १८, ६, २, १७०, ८, ४,

३९, -नम् आपश्रौ २१, १२,
 ९†, वाश्रौ ३, २, २, ३६†, हिश्रौ

१६, ५, ३†, वैताश्रौ ३४, १†,
 अप ४८, ७५, निघ १, १२, या

१४, ११, -†नेⁿ आपश्रौ २;
 ११, १०, बौश्रौ १, १० १६,

भाश्रौ २, ११, ११, हिश्रौ १,
 ८, ३१

✓गहनाय पा ३, १, १८, पावा
 ३, १, १४

†गहन्^b - हन्^o माश्रौ ६ १, ७,
 २२, वाश्रौ २, १, ६, ३६, -हना

आपश्रौ २२, २६, १२, बौश्रौ
 १८, ९ : ३८, हिश्रौ २३, ४, २७

गह्^p - -०ह बौश्रौ १०, ४१ १०†.

१गह्^r - पाउ ३, १, -र आपमं
 २, १७, २२†, -रम् अप ४८,

७५†, या १४, ११, याशि २,
 ६०, -†रेषु आपश्रौ २, ११,

१०, बौश्रौ १, १० १६, भाश्रौ
 २, ११, ११, माश्रौ १, २, ४, ४;

वाश्रौ १, १, २, १९, हिश्रौ १,
 ८, ३१

†गहरे- (छ >) छा^p - छा^p बौश्रौ
 ६, २१ १९, वाधूश्रौ ४, ६० :
 ७, वैगृ १, २१ २

a) स्वरूपं पासे च वैप १, १२६९ 1, j द्र । सा. [शौ ६, २२, ३] तु = [स्तनयित्नुलक्षण-] वाच्- इति कृत्वा

<✓गल्ह् [कुत्सायाम्] + कर्तरि कृदिति । संस्कृते टि अपि द्र. । b) वैप १ द्र । c) गोरिवाडय (गमनम्) यस्येति

कृत्वा बस नैत्र > यनि. इति पाउट्ट [२, ६७] । d) विप. (मास-) । विकारे षण् प्र । e) = इन्द्रवास्ती-

[लता-विशेष-] इति पागम । व्यु ? । f) पाठ. ? । कवि-ष्टु (<स्तु) त- इति संस्कृता [अशा] शोधुक. । g) 'वेधु'

इति संस्कृते. टि । h) पासे. वैप १, १२२० f द्र । i) पासे वैप १, १२२०, ० द्र । j) = गवीधुका- । k) तु.

पाका । ष- इत्यपि भाण्डा. । l) वैप १, १२२० g द्र. । m) = वन- । n) सपा काठ ३१, १४ भाश्रौ

१, २, ४, ४ विशिष्ट. पासे । o) पासे. वैप १, १२१४ p द्र । p) पासे. वैप १, १२२० m द्र. ।

गह^१- (> गहीय- पा) पाग ४, २,
१३८

गहन- प्रभु √ गह् द्र

गह्न- (> २गह्न-^२ पा) पाग ४,
२, ८०

१गह्न- √ गह् द्र

√ गा^० पावा भ्वा आत्म गतौ, जु
पर स्तुतौ, गाति निघ २, १४^१
जगाति निघ २, १४^१, ङिगाति
आश्रौ ४, १०, ४, शाश्रौ ५, १४,
१५, आपश्रौ, ङिगासि कौस्
४, २, जिगातु^० अप ४६, ३,
२^१, जगायात् निघ २, १४^१
जगौ शाश्रौ १५, २६, १, ङिगम्^१
आपश्रौ १९, २४, १०, आमिग
२, ५, ३ : ४०, बौग ३, ७, २६,
ङिगात् आश्रौ ३, १४, १२,
शाश्रौ ३, २०, ४^१, काश्रौ,
ङिगात् आपश्रौ ९, १२, ४, १४,
२२, ३^१, बौश्रौ १८, १९ : ७^१,
भाश्रौ; आमिग ३, ७, २ २^१,
बौग २, ४, १४^१, बौपि १,
१७ : २३^१, माग १, २१,
८^१, वाग ४, १४^१, या ३, ४^१,
गु बौश्रौ ६, १० : २०^१,
गा वृदे ८, २८, ङिगात् आश्रौ
५, २, १४^१, शाश्रौ ६, ८, ६^१,
बौश्रौ १४, ९ २९^१, भाश्रौ
१०, २२, ५, हिश्रौ १०, ८,

४४^१, जैग १, १२० २४,
ङिगाम वाश्रौ २, २, ४, ५^१,
३, १, २, १९^१, द्राश्रौ ७, २, ७,
लाश्रौ ३, २, ७, आमिग ३, ७,
१, २०, बौपि १, १७ : १८.

गाङ्ग- ङ्गायन- प्रभु गङ्गा- द्र.

गाज- गाजवाज- गज- द्र

गाडिकि- गडिक- द्र

गाडुल्य- गडु- द्र

गाढ- √ गाह् द्र

गाणकार्य- गणकारि- द्र.

गाणगारि^१- ङिः आश्रौ २, ६, १६,
३, ६, ६, ११, १८, ५, ६, २५, १२,
१४, ६, ७, ४, ७, १, २१, ८, १२,
१९, १२, १०, १

गाणपत- ङ्ये- प्रभु √ गण् द्र

गाणिस्पति^३- तय बौश्रौ प्र २७ ४

गाण्डव्य- ङ्यायनी- २गरण्डु- द्र

गाण्डि, ङडी^०- > ङण्डि, ङडी^०- च^०-
पा ५, २, ११०, पाग २, ४, ३१

गातागतिक- ङुगतिक- √ गच्छ्
द्र

गातु^०- पाठ १, ७३, -तु^१ द्राश्रौ १२,
२, ५, लाश्रौ ४, १०, ४०, -तु
ङिआश्रौ २, १९, ३२, ५, १, ८,
शाश्रौ ३, १७, १^१, काश्रौ २५,
६, ७^१, अप ४८, ७२^१, ऋअ
२, ५, ३२^१, साअ १, ३१६^१, निघ
१, १९^१, ४, १, या ४, २५^१, -ङितुम्

आपश्रौ १, १, ४, ७, १६, ७^१;
बौश्रौ १, २१ ३१^१××, भाश्रौ ४,
१, ३, माश्रौ १, १, १, १२^१××;
वाश्रौ १, २, १, २, वैश्रौ २०,
३६-५, हिश्रौ १, ४, ५५, ६,
८, ४^१, कौस् ८१, ३५, अप ४६,
३, २^१, असा १४, २, या ४,
२१^१, २५

ङिगातु-म(त् >)ती- ङ्या आपमं
२, १५, १९, पाग ३, ४, ७, काग
१२, १; माग २, ११, १९

√ गातुय, गातुय > या ऋप्रा ८,
३३^१

ङिगातु-विद्^०- वित् आश्रौ ४, १०,
४, आपश्रौ १, १, ४××, बौश्रौ
६, ३१ ८, वैश्रौ १४, १६ २;
हिश्रौ ६, ८, ४××, -विद माश्रौ
५, २, १३, १^१, -ङि-विद-
काश्रौ ३, ८, ४, ५, २, ९, आपश्रौ;
-विदौ माश्रौ ५, २, १३, १^१.

ङिगातुवित्-तम- ङमः आश्रौ
४, १३, ७, माश्रौ १, ५, ३, ५;
वाश्रौ १, ४, ३, २, ७, जैश्रौ २२ ६.
√ गातुय, गातुयन्ति ऋप्रा ९, ४६^१.

गातव्य- √ गै द्र

१गातृष्णुयम् वाश्रौ ३, २, २, २

१गात्यादस^०- ङम् शंघ ११६ ५१.

१गात्र^०- पाठ ४, १६९, -ङि-त्रम्
आमिग ३, ६, ३ १५, बौपि १, ११:

a) अर्थ व्यु च^१ । = ग्राम- (तु पागम) । b) = देश विशेष-^१ । c) पा १, २, १, २, ४, ४५,
४९-५१, ७७ पावा १, १, ५९, २, ४, ४९, ७७ परामृष्टः द्र । d) लघुशास्त्रीयः पाठ । e) वैप १, १२२० w द्र ।
f) पाभे वैप १, १२२० x द्र । g) पाभे वैप १, १२०७ j द्र । h) पृ १७० अनुगात् इत्यत्र जु, गात् इति
शोधः (तु ऋ १०, १८, ४) । i) पृ १७० अनुगात् इत्यत्र अनु (कप्र), गात् इति शोधः (तु सा L तैत्रा २, ७,
१७, २) । j) पाभे वैप १ १२२१ ० द्र । k) पाभे वैप १, १००८ d द्र । l) = आचार्य-विशेष- । व्यु.^१ ।
m) व्यप । व्यु.^१ । n) = [मुष्टिप्राह्व-] दारु-खण्ड- (तु पागम) । व्यु.^१ । o) तु- पाग । p) = धनु-
विशेष- । q) वैप १ द्र । r) गातुमिन्तम (ऋ ८, १०३, १) इत्यस्य प्रतीकमात्रम् । s) = पृथ्वी- । t) = ऋषि-
विशेष- । u) = गमन- (तु या ४, २१) । v) गातुवित् [प्र १] > ऊह-विषया यनि. (तु. मै १, २, १५) ।
w) = मरुद्-विशेष- । व्यु.^१ ।

वैपङ्गि-२९

१३, - \ddot{a} त्रम्-त्रम् आश्रौ ३, ३,
१, शाश्रौ ५, १७, ६, -त्रस्य वृदे
४, ३०, आशि ८, २०, २१, - \ddot{a} त्रा
आपश्रौ १२, २४, १३^a, माश्रौ
२, ४, १, ३५^a, हिश्रौ ८, २,
२३^a, जैश्रौ १४ १८^a, वैताश्रौ
१९, १८^a, कौसू ६२, १७, अप्रा ३,
१, ७, -त्राणाम् बौश्रौ १४, १५
१६[†], अप ६८, ५, ११, -त्राणि
शाश्रौ १०, १७, ४, काश्रौ ९,
१२, ४[†], आपश्रौ; -त्रे कौशि
३, -त्रै अप ७०^३, ९, १, ७१,
६, ४
गात्र-प्रहरण-ध्वज- -जान् अप
७०^३, ८, ४
गात्र-भाज्- -भाजः बौश्रौ १४,
१५, १७[†]
गात्र-भेद- -द अप ३, ३, १
गात्र-शुद्धि- -द्धिस् वैश्रु १, ३, २
 \ddot{a} गात्र-शुभ- -भाः आशिष् ३, ४,
२ : १६, बौपि ३, २, ३, गौपि
१, २, ४१
गात्रा(त्र-आ)दि- -दे कौशि ४
गात्रा(त्र-अ)नुलेपन- -नम् शंध
१९७
गात्रो(त्र-उ)त्सादन- -नम् कप्र ३,
६, १५
गात्रोत्सादना(न-अ)ञ्जन-केश-
संयमन-पादप्रक्षालना(न-आ)
दि- -दीनि विध ३२, ६
२^aगात्र^o- > गात्र-वीणा^d- -णा नाशि
१, ६, १^३; २.
गाथक-, गाथा- \checkmark गै द्र

१गाथिन्^o- -थिनि वृदे २, १३१, -थी
ऋअ २, ३, १, १९
गाथिन[†]- पा ६, ४, १६५, -०न
आश्रौ १३, १४, ६^१, -नः ऋअ
२, ३, १, साअ १, ५४, ६२,
७९×४, - \ddot{a} ना शाश्रौ १५, २७,
१^{३६}
गाथिन-भार्गव- -वौ वृदे
८, ७०
०गाथिनः-सामन्- -म जैश्रौ
२२ ६, जैश्रौका २१
गाथिनः (सामन्-) आपश्रौ
५, १०, ११
गाथिनौ(न-श्रौ)वैश- -शौ
वृदे ३, ५६
गाथि-पुत्र- -त्र वृदे ४, १५
गाथि-सूनु- -नवे वृदे ४, ११२
२गाथिन्- \checkmark गै द्र
गाद्-, गादायन-, गादि- रगद्- द्र.
गादिकि- गदिक- द्र
गादित्य[व्य]- रगदित[व]- द्र
 \checkmark गाध् (= \checkmark गाह्) पाधा ऋवा
आत्म प्रतिष्ठालिप्सयोर्धन्वे च
गाध, धा^b- -ध या २, २, - \ddot{a} धम्
आपश्रौ २१, २०, ७, पाश्रु ३,
३, ५, भाशि ४८, -धा या
२, २४, -धे आपश्रौ ६, ४,
७
गाध-लवण- -णयो पा ६, २,
४
गाधेर[†]- (> ँधेरकायनि- पा.)
पाग ४, १, १५८.
गान- प्रभृ. \checkmark गै द्र.

गान्तु- पाउ ५, ४३
गान्त्र- पाउ ४, १६०
गान्दिक- गन्दिका- द्र
गान्धपिङ्गलेय- गन्धपिङ्गला- द्र
गान्धर्व-, ँर्वी- प्रभृ गन्धर्व- द्र.
१, २गान्धार- गन्धार- द्र
३गान्धार[†]- -र माशि १, ११, १३[†]
२, १, नाशि १, २, ५, ७, १५[†]
४, १, ४, ६, ८, ५, १, ५, ९[†],
१३, १६, ७, ३, भासू ३, २१,
-रम् याशि १, ८, नाशि १,
५, ३, -रस्य नाशि १, ४, ७,
-रे माशि १, ९, नाशि १, २,
११
गान्धार-ग्राम- -मम् नाशि १,
२, ८.
गान्धारक-, गान्धारि- गन्धार-
द्र
गान्दिक- गन्दिका- द्र
गामि[†]- (> गामि-शाला- पा)
पाग ६, २, ८६.
गामिन्-, गामिनी-, गामुक- \checkmark गच्छ
द्र
गाम्भीर- रगम्भीर- द्र
गाम्भीर्य- रगम्भीर- द्र
गायत्-, ँन्ती-, गायत्र-, ँत्री- प्रभृ-
 \checkmark गै द्र
गारित्र- पाउ ४, १७१
गारुत्मती- गरुत्-मत्- द्र
गारेट- पाउभो २, २, ११०
गारेटकायनि- गाधेर- टि द्र
गारेध- > ँधकायनि -गाधेर- टि-
द्र

a) पामे वैप १, १२२२ ० द्र । b) पामे वैप १, १२२२ h द्र । c) अर्थ व्यु च^१ । d) = वीणा-
विशेष- । e) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । f) = विश्वामित्र- । g) पामे वैप २, ३खं गाथिनाम् ऐत्रा ७, १८
टि द्र. । h) वैप १ द्र. । १) तु पागम । व्युप । व्यु ? । गारेध- इति पाका., गौधेर- इति भाण्डा,
गारेट- इति [पक्षे] पागम. । j) = स्वर-विशेष- । व्यु ? । k) ग^o इति लासं । l) = आचार्य-विशेष- । व्यु ?
गौमि- इति पाका., गोमि- इति पासि. ।

गारेय- गरि- द्र
 गार्ग्य- गर्गर- द्र
 गार्गी- गार्ग्य- प्रसृ गर्ग- द्र
 गार्त- गार्तक- गार्तकूलक- गर्त- द्र
 गार्त्समद- गृत्समद- द्र
 गार्दभ- गर्दभ- द्र
 गार्भिण- गर्भिणी- द्र
 गार्मुत- गर्मुत- द्र
 गार्हपत- प्रसृ √गृभ्, ह् द्र
 गालडि- गालडा- द्र
 गालन- √गल् द्र
 गालव^०- व वृदे १, २४, ५, ३९,
 ६, ४३, ७, ३८, छुअ २, ३४०,
 या ४, ३, शैशि ५, -वस्य पा
 ६, ३, ६१, ७, १, ७४
 गालव-गडुल- पा २, २, ३८^b.
 गावय- गवय- द्र
 गावामयनिक- गाविष्ठिर-, रायण-,
 गाविष्ठिल-, लायन- गो- द्र
 गावीधुक- गवीधुक- द्र.
 गावेधुक- गवेधुक- द्र.
 गावेश- गो- द्र
 √गाह^०, पावा भ्वा आत्म विलोडने,
 गाहेते हिश्रौ १०, ५, २६
 गाढ- ढम् कप्र १, ८, २.
 गाढ-तर- रम् काश्रौ ८, २, ४,
 वैश्रौ १२, २४ १^{२d}
 १गाह- (> ०ही- पा) पाग ३, १,
 १३४^०, ४, १, ४१
 गाहन- नम् माश्रौ २, १, २,
 ३२
 गाहमान- न कौसू २६, ३१
 गाहि- (> २गाह-) गोह- टि द्र

गिद्- ००द् द्राश्रौ ५, ४, १०,
 लाश्रौ २, ८, ११
 गिध्र- पावाग ३, २, ५
 गिर्- √गृ, गृ (शब्दे) द्र
 गिरण-, गिरति-कर्मन्- √गृ
 (निगरणे) द्र
 १ गिरस्योः चात्र ३० २३.
 १ गिरि^०- पाठ ४, १४३, पाग ४, २,
 ९७^b, ५, २, १००, -रयः
 बौश्रौ २५, १० : ३, आगृ ३,
 ४, १, कौगृ २, ५, १, ३, १५,
 ५^१, शागृ ३, १३, ४^१, ४, ९,
 ३, अप, -रि आपश्रौ १४,
 २०, ४^१, वैश्रौ २१, ६ ४, अप
 ४८, १०१, निघ १, १०^१,
 या १, २०^१, -रिभि सु ९,
 ३, -^१रिभ्य या ६, ३३, उस्
 २, २३, -रिम् माश्रौ ५, १, १०,
 ६४, पागृ ३, १५, १२, आमिगृ
 ३, ९, ३ ११, बौपि, -रिषु बौश्रौ
 १५, १६ ८, वैताश्रौ ३०, १३^१,
 अप ३२, १, ७^१, ६५, १, २, ^१अअ
 ५, ४, ९, १, अप २ ४१, -रीणाम्
 सु ९, ३, या २, २४; -रीन्
 आपश्रौ २१, १२, ३^१, बौश्रौ २५,
 १० २, हिश्रौ, -रे आपमं
 २, २२, ५^१, पागृ ३, ७, २,
 बौगृ, या ५, १६^१, पा ५,
 ४, ११२, -रौ आश्रौ १०, ८,
 १२, १३, शाश्रौ १६, ४, २^१,
 काश्रौ, आपश्रौ १४, २९, ३^१,
 हिश्रौ १५, ७, १६^१
 गैरिक^k- > का(क-आ)दि-

-दयः वृदे ७, ८०.
 गैरेय- पा ४, २, ९७, -यान्
 बौश्रौ १५, १६ : ८
 गैरेयी- -यी बौश्रौ १८,
 २ : ५.
 गैरेय-कविमती- -त्यौ बौश्रौ
 १८, ३९ : २.
 गिरि-क^१- पाग ५, ४, २९^b
 गिरि-गह्वर-कानन- -नाः अप ६८,
 १, ४७.
 गिरि-गुहा- -हायाम् अप ४०,
 १, ६
 गिरि-ज^१- -जाय आश्रौ १२, ९,
 १८
 गिरि-ण, नख- पावा ८, ४, १०.
 गिरि-ण, नदी- पावा ८, ४, १०;
 पा, पाग ८, ४, ३९
 गिरि-ण, नद- गिरि-णि, नि-
 त्म्ब- पावा ८, ४, १०.
 गिरि-नगर- पा, पाग ८, ४, ३९
 गिरि-निकाय- -ययोः पा ६, २,
 ९४.
 गिरि-निलया(य-अ) णि-जीविन्-
 -विनः अप ५१, ४, १.
 गिरि-मिद्- -मिव काश्रौ २५, १४,
 २२, आपश्रौ १४, २०, ४^१;
 हिश्रौ १५, ५, २३, -मिदाम्
 आपश्रौ ११, २०, ५
 गिरि-राजे(ज-इ)न्द^m-पुत्री->
 ०त्री-महेश्वर-प्रियसूनुⁿ- -नुम्
 ऋअ ३, १.
 गिरि-वर-पतन- -नम् अप ७०^३,
 ११, १४.

a) = आचार्य-विशेष-। व्यु ?। b) तु पागम । c) या २, २ परामृष्ट द्र. । d) सप्र गाढतरम्
 <> संतराम् इति पाभे । e) तु पासि । गाहा- इति भाण्डा, ग्राह- इति पाका. । f) वैप २, ३ खं. द्र ।
 g) अर्थः व्यु च ?। h) वैप १ द्र. । i) सप्र. गिरयः <> पर्वतैः इति पाभे. । j) पाठ. ? शिरः इति श्लोचः
 (तु शौ ६, ४९, २) । k) = धातु-विशेष- । तान्रभविष् ठञ् प्र. उस् (पावा ४, ३, ६० । l) = [कुमार्याः]
 क्रीडनक-विशेष-, पाषाण- । m) = हिमाचल- । n) = गणेश- ।

गिरि-शर्मन्^a- -र्मा कप्र २, ९,
१६
गिरि-श्रद्ध-ज- -ज अप ५१,
१,४
†गिरि-ष्ठा^b- -ष्ठा आश्रौ २, १०,
१४, आपश्रौ ११, ९, १, हिश्रौ
७, ५, २५, अप १, ३६, ४, या १,
२०^cक, उस् ५, १.
गिरि-स्थायिन्- -थी या १, २०
गिर्यो(रि-ओ)षधि- -थ्यो पावा
३, ३, १०४
‡गिरि^e-> †गिरि-त्र- -त्र शुप्रा
५, १७†
गिरि-श^d- पा ५, २, १००, पावा ३,
२, १५, -†श^d शुप्रा ५, १७†
गिरि-षद्- -षदे पाय ३, १५,
१२
‡गिरि^e- (> गैरायण- पा) पाग
४, १, ११०
? गिरिददाय वाश्रौ ३, ४, १, ५
गिर्वणस- √गृ, गृ (शब्दे) द्र
गिल-, गिल-गिल- √गृ (निगरणे)
द्र
? गी कोइवोष्यौ^f वैताश्रौ ३४, ९
गीर्त्वा √गृ (निगरणे) द्र
√गु, गु पाधा भ्वा आत्म अव्यक्ते,
शब्दे गतौ [निघ] , तुदा पर
पुरीषोत्सर्गे, गवते निघ २,
१४†.
गून- पावा ८, २, ४४
†जोगू^h-गुवाम् आपश्रौ १९, १७,

१३, बौश्रौ ३, ३० : १३, अप्राय
१, ३.
गुं^g याशि २, ९४, शुप्रा ८, २४.
गुग्गुल^b- -लम् वैगु ६७ • १४, अप
१९ⁱ, ३, २, विघ ७९, १०, वैघ
२, ४, २
गुग्गुल-गन्धि^h- -न्धयⁱ वाश्रौ ३,
२, ५, ४२
गुग्गुल-सुगन्धितेजन- -ने^j वैश्रौ
१०, ६ • १^k
गुग्गुलि^l- -लिः बौश्रौ ४६ : १
गुग्गुल^m- पाग ४, ४, ५३, -लु अप
३३, ७, १, -लु वृदे ७, ७८,
-लुम् अप ४०, २, ४, ६६, २, २,
अशा २०, ५†, शंघ १९७
गुग्गुल- पावा ४, १, ७१
गौगुलव- (> षी- पा.)
पाग ४, १, ७३.
गुग्गुल-क, की- पा ४, ४, ५३
गुग्गुल-कुष्ठ-धूप- -पम् अप ४, ४,
७, ५, १०, ६, २, २, १७, २, १४
†गुग्गुल-गन्धि^h- -न्धयⁱ बौश्रौ
१६, २३ • १, वैताश्रौ ३४, ९
गुग्गुल-लवण- -णे कौसू १९, १९,
२०, २५
गुग्गुल-सुगन्धितेजन- -नम्^j भाश्रौ
७, ५, २, हिश्रौ ४, २, १५
गुग्गुल-सुगन्धितेजन-पैतुदारु-
-रुभि आश्रौ ११, ६, ३
गुग्गुल-सुगन्धितेजन-वृष्णेस्तुकाⁿ-
-का काश्रौ ५, ४, १५

गुग्गुल-होम- -म अशा २४, ६†
√गुड् पाधा भ्वा आत्म अव्यक्ते
शब्दे, शब्दे च
गु(ङ्गु>)ङ्गू^b- -ङ्गू वैगु १, ६ :
११०, वृदे ८, १२५
गुङ्गवा(व्यू-२आद्य >)घा-
-घा वृदे ४, ८७
गुच्छ- पाउभो २, २, ८३
√गुज् पाधा तुदा पर शब्दे
√गुञ्ज् पाधा भ्वा पर अव्यक्ते शब्दे-
गु(टक>)टिका^p- -काम् अप ३६,
१७, १
√गुड् पाधा तुदा पर रक्षायाम्
गुड, ल^q- पाउ १, ११५†, पाग
४, २, ८०^r, ४, १०३, ६, २,
१९४^s, -ड शंघ १८१, बौध
१, ५, १४, -डम् विघ ४४, ३०-
गौडिक- पा ४, ४, १०३
गौ(ड>)डी^t- -डी विघ २२,
८२
गुड-कार्पास-धान्य- -न्यानि शंघ
३९५
गुड-तिल-हिरण्य-वस्त्र-गो-धान्या-
(न्य-आ)दि-प्रतिग्रह^v- -हेषु
शंघ १७
गुड-धेनु- -नुम् अप ९, ३, १
गुड-पायस- -सम् आमिगु २, ५,
७ : १५, ३, ११, ४ १३, बौगु
१, ११, ११
गुड-प्रिय- पावा २, २, ३५
गुड-मिश्र- -श्रम् हिपि १७ : ८-

- a) = आचार्य-विशेष-। b) वैपश् ६.। c) वैप १, १२२४ f द्र। d) पाभे वैप १, ११६१ k द्र।
e) व्यप.। व्यु ?। f) पाठ ? (तु. पाभे पृ ४७९ h)। g) = यम-विशेष-। h) विप। बस.।
i) सपा गुग्गुल^o<>गुग्गुल^o<>गुग्गुल^o इति पाभे। j) सप्र लसुगन्धितेजने <> लसुगन्धितेजनम्
<>गुग्गुलसुगन्धितेजनम् इति पाभे। k) ऽजिने इति पाठ ? यनि शोघ.। l) = ऋषि-विशेष-। व्यु ?।
m) = गुग्गुल-। व्यु ?। n) ष अलुक द्र o) ङ्गु इति पाठ ? यनि शोघ (तु ऋ २, ३२, ८)। p) = वटिका-।
व्यु ?। q) आमिगु बौध वैघ. पाठः। r) <√गु इति पाठवृ। s) अर्थ ?। t) तु पाका.। गुध-
इति भाष्य.। प्रसृ.। u) = सुरा-। v) द्रस > बस. > षस.।

गुड-र^a- पा ४, २, ८०
 गुडा(ड-अक्ष)क्ता- -क्तया अप
 ३५, १, ८
 गुडा(ड-आ)ज्य-फल-युक्त- -क्तम्
 वैध ३ १०, ३
 गुडा(ड-आ)दि- -दीनाम् विध २३,
 ३१
 गुडौ(ड-ओ)दन- -नम् आमिगु २,
 ५, १ : ३४, अप २०, ३, ४.
गुडूची^b- पाठमो २, २, ८०^c, पाग ४,
 १, ४१
गुडेर- पाठ १, ५८
 ✓गुण पाधा चुरा उभ आमन्त्रणे
शुण^d- पाग ४, २, ६०^e, ६३^f, ४, १०२,
 ५, २, ९५, ६, २, १०६, -ण. अप्राय
 ४, २, अप ६८, २, ५६^g, वृदे २,
 १०८, या ३, १४, ६, ३६, आशि
 ४, ७, याशि १, ४८, मीसू २, १,
 ८, १८, २, ५××, -णम् भाश्रौ १,
 ४, ८, ७, ९, ३, हिश्रौ ४, २, ६६,
 वैगु ५, १ : १७, अप ६३, १,
 ६, शुअ ३, ११७, -णस्य पा ५,
 २, ४७, पावा, -णाः शागु १,
 २, २, बौध ४, १, २७, वृदे २,
 १०८, या १०, २३, शैशि,
 -णात् पावा २, २, ९, ६, २,
 ९३, मीसू १, २, ४७××,
 -णान् शध २२६, आपध २,
 १०, २, हिध २, ४, २, वृदे ८,
 ६३, या १०, २३, १४, ५,
 -णानाम् काश्रौ १, ५, ९, ८, १,
 मीसू १, ४, १६, २, २, ६, ३, १,
 १५, २१, ४, ४, ४०××, -णे
 बौश्रौ ४, ४, ४०, माश्रौ १, ८,
 २, २८, वैश्रौ, पावा १, ४, ५१,

३, २, १२६, -णेन बौश्रौ
 ४, ४. ३६, वैश्रौ १०, ९ ९,
 या ३, १३, पावा १, २, ४५,
 मीसू १०, ३, ६, -णेषु काश्रौ १,
 ६, १०, आपश्रौ १२, २८, १५,
 काठश्रौ ३, १२, -णै द्राश्रौ १,
 १, ८, लाश्रौ, पावा २, २, ८, ९,
 -णौ शौच १, १
 गौण- -णः मीसू ३, ३, १५, ८,
 २४, १०, ३, ७१, -णा वैश्रौ
 ११, १०० १४, ११ : ३
 १ गौण-मुख्य- > ण्य-
 प्रभेद-तस () शंध
 १००
 १ गौणिक- पा ४, २, ६०, ६३, ४,
 १०२
 गुण-कर्मन्- -र्मणि पावा १, ४, ५१,
 २, ३, ६५
 गुण-काम- -मेषु मीसू ८, १, २३
 गुण-कास्त्व्य- -स्त्व्यै पा ६, २,
 ९३
 गुण-काल-विकार- -रात् मीसू
 १२, १, २
 गुण-ग्राम- पावा ४, २, ३७
 गुण-तस () ऋअ २, १०, १०५^h,
 वृदे ५, १५६, साअ १, १९७,
 २३१
 गुण-स्व- -स्वम् मीसू १०, ४, ५४,
 -त्वात् काश्रौ १५, ९, २८, २२,
 ८, १४, मीसू ३, ८, १२××,
 -त्वे मीसू ३, ८, ६, ९, १, ९,
 -त्वेन मीसू ६, १, १, ६, ११, ८,
 १, ३४
 १ गुण-दोषⁱ- -षः अप ५८^j, १, ७,
 ६३, १, ६.

२ गुण-दोष- -षान् अप २२, १, १;
 शंध २१८, -बौ विध ३२, १३,
 कौशि ४१
 गुण-द्रव्य- -व्ययो काश्रौ १, ४,
 १७
 गुण-प(द>)दी^k- पाग ५, ४,
 १३९
 गुण-प्रधान- -नेषु मीसू ११, १, ९.
 गुणप्रधान-त्व- -त्वात् पावा ५,
 ३, ५७
 गुणप्रधान-भूत- -तानि मीसू
 २, १, ६
 गुण-भाव-> णिन्-> णि-स्व-
 -त्वात् मीसू ९, ४, ३६
 गुण-भूत- -तानाम् आश्रौ ३, १४,
 ५, -तेषु वृदे ५, ९६
 गुणभूत-ता- -ता मीसू ४, १,
 २०
 गुणभूत-त्व- -त्वात् मीसू २,
 १, १४, २, २०, ४, ७, ३, ४, ४०,
 ४२, ४, १, ११, ७, १, ३××.
 गुणभूत-विकार- -र मीसू १०,
 १, ३०, -रात् मीसू १०, १, २२.
 गुण-भेद- -दात् वृदे ५, ४९
 गुण-भोक्तृ- -क्तृ विध ९७, १७.
 गुण-मात्र- -त्रम् मीसू ६, ३, २, ४२,
 ९, ३, २०.
 गुण-मुख्य^l- (> २ गौणमुख्य-
 पावा) पावाग ४, ३, ८८
 गुणमुख्य-विशेष- -षात् मीसू
 १०, १, ३९
 गुणमुख्य-व्यतिक्रम- -मे मीसू
 ३, ३, ९
 गुण-युक्त- -क्ता शुअ ३, ४२
 गुण-योग- -गात् काश्रौ १, ५, १३.

a) = देश-विशेष- । b) = ओषधि-विशेष- c) < ✓ गुड [रक्षणे] इति । d) बप्रा । = गौण-, भाग-,
 घर्म-, रज्जु- प्रभृ । वैप १ द्र । e) गण-, गुण- इत्यस्य स्थाने गुणागुण- इति पाका । f) गुण-, चरम- इति
 द्विपदस्य स्थाने चरम-गुण- इति [पक्षे] पागम. । g) मलो कस । h) पूष = तन्तु- (तु पागम) । i) तु पागम. ।

गुण-ल्लोप- -वे शाश्रौ ३, २०, १७,
मीस् १०, २, ६१, ४, ३४.
गुण वचन- -नम् पावा १, ४, १, ६,
४, ५५, -नस्य पा ८, १, १२,
पावा २, १, ५५, ४, १, ३, ६, ३,
३४, -नात् काश्रौ २०, ७, २०,
पा ४, १, ४४; ५, ३, ५८, पावा
४, १, ४४, -नेन पा २, १, ३०,
पावा २, २, ७, -नेभ्य पावा ५,
२, ९४, -नेषु पा ६, २, २४,
पावा २, २, २४
गुणवचन-स्व- -त्वात् पावा ८,
१, १२
गुणवचन-ब्राह्मणादि- -दिभ्यः
पा ५, १, १२४
गुणवचन-वत् पावा १, २, ६४
गुण-वत्- -वत् विध ७७, ९, पा ५,
२, ९५, -वत् माट् १, १६, २,
वाध ११, १८, -वति आमिष्ट
२, ७, १० ३, शंघ १५८, -वते
शंघ १३५, बौध २, ३, १२, ४,
१, १२, विध २४, १९, ९२, ३२,
-वत्सु विध २८, ९, -वन्त
शंघ ४२, -वन्तम् गौध १५,
२१, -वान् शध ७, बौध २, २,
१२, १३
गुणवत्-ता- -तया शंघ ८५
गुणवत्-सहायो (य-उ) पाय-
सपञ्च^a- -ञ्च गौध ११, ४
गुण-वर्जित- -त आज्यो १३, ५
गुण-वाक्य- -क्यात् मीस् २, ३, २^b
गुण-वाद- -दः मीस् १, २, १०
गुण-विकार- -रा. आपश्रौ १४, १,
१, हिश्रौ ९, ७, १; आपश्रु १२,
१, हिश्रु ४, २१, -रे मीस् १०,
३, ३०.

गुण-विकृत- -तम् आपश्रौ २१,
२४, १
गुण-विग्रह- -ह वृदे २, १०२
१गुण-विधान- -नम् काश्रौ ४, ४,
३
१गुण-विधि- -धि मीस् ७, ३, १७,
११, ४, ४८
गुण-विशेष- -षात् मीस् ३, ६, ४६,
-षे काश्रौ १, १०, ११
गुणविशेष-योग- -गात् ऋप्रा
१३, १३
गुण-वृत्ति- -त्तिः नाशि १, ३, १
गुण-शब्द- -ब्दः मीस् ९, १, ३७,
-ब्देन मीस् १०, ३, ५६.
गुणशब्द-त्व- -त्वात् मीस् १०,
५, १५
गुण-शासन- -नम् मीस् १०, ४,
२६^०
गुण-शास्त्र- -स्त्रम् आपश्रु १३, ७,
१४, ११, हिश्रु ४, ५०, मीस्
१०, ६, ६४, ७, ६४
गुणशास्त्र-त्व- -त्वात् आपश्रु
१२, १, हिश्रु २, २१, मीस् १०,
४, ५८
गुण-श्रुति- -ति मीस् ३, १, २६,
६, ४०, ४, २, २५, -ते मीस्
१, ४, ६, -तौ मीस् १०, ४, २४
गुण-सयुक्त- -क्त मीस् ३, १, २५
गुण-संयोग- -गात् मीस् ७, ३, ४,
१०, ३, २१, ६, ६८
गुण-सस्कार-विधि- -धीन् गौध
१५, ६
गुण-सपञ्च- -ञ्च गौध २८, ३६
गुण-समित- -ता. अप ५७, २, ७
गुण-स्थान- -ने मीस् १०, ४, ३४
गुण-हानि- -नौ काश्रौ १, ६, ५,

-न्याम् आपघ २, १७, ५, द्विघ
२, ५, ३४.
गुण-हीन- -न. वाध १५, १२;
-नम् बौध ४, १, १६, -नाय
बौध ४, १, १२
गुणा(ण-श्च)गुण- (> गौणागु-
णिक)- गुण- टि द्व
गुणा(ण-श्च)चार-परिभ्रंश- -शात्
वाध १८, ७
गुणा(ण-श्च)दि- -द्वय. पा ६, २,
१७६, -दिभ्य पावा ४, २, ३७.
गुणा(ण-श्च)नुग्रह- -हात् काश्रौ १,
४, १९, ६, १
गुणा(ण-श्च)न्त^d- -न्तायाः
पा ५, ४, ५९
गुणा(ण-श्च)न्वित- -त कप्र २, ५,
८, -तम् जैश्रौका ७, -ताय
कप्र २, ५, ८
गुणा(ण-श्च)पाय- -यात् मीस् ९,
३, ४२^०
गुणा(ण-श्च)भाव- -वात् मीस् ३,
२, ७
गुणा(ण-श्च)भिधान- -नम् मीस् ८,
४, ५, -नात् मीस् ३, २, २६, ७,
१०
गुणा(ण-श्च)भिधायक- -कानि वृदे
५, ९५
गुणा(ण-श्च)र्थ, र्था- -र्थ मीस् २,
१, ४१, -र्थम् काश्रौ ५, ४, ६,
वृदे ८, १७, मीस् २, १, १५, ६,
१, ४८^१, ७, ३, २२, १०, ५, ७७,
-र्था मीस् २, ४, २९, ३, ६, २०;
७, ३, ५, -र्थायाम् मीस् १०,
८, ४२, -र्थे मीस् १, ४, २२^५;
८, ४, २१, २३; १०, ४, ५६,
-र्थेन मीस् १, २, ४१, २, २, १६;

a) विप. । कस > द्वस. > तृस. । b) ञ्यत्वात् इति जीसं. । c) ञ्शास्त्र- इति जीसं. । d) बस.

पूप. = आश्रुति- । e) ञानपा० इति जीसं ? । f) ञेन इति जीसं ? । g) ञ्येः इति जीसं ? ।

१७, ३, ६, २७	१, ४५	गुत्स- पाठ ३, ६८
गुणार्थ-ता- -ता मीस् ६, २, ५	गुण-पर-त्व- -त्वात् पावा ७, २,	✓गुद् पाधा भ्वा आत्म क्रीडायाम्.
गुणार्थ-त्व- -त्वम् मीस् ६, ४, ६,	१००	गुद, दा ^६ - पाठमो २, २, १६५, पाग ४,
१०, ७, ६८, -त्वात् मीस् ६, १,	गुण-प्रतिषेध- -ध पावा ३, २,	१, ४५, ५६, १२३ ^६ , २, ८० ^१ , -द.
३४ ^६ , १०, ४, ४०××, -त्वेन	१३९××, -धे पा ६, २,	आपश्रौ २०, १८, १४, हिश्रौ ४,
मीस् ६, ४, १२ ^६	१५५	४, ५८, कौस् ४५, ४ ^१ , -दम्
गुणार्थ-वत् ^० मीस् ४, ३, १२	गुणप्रतिषेध-प्रसङ्ग- -ङ्ग पावा	शाश्रौ १६, ३, ३६, आपश्रौ
गुणा(ए-आ)वेश- -श मीस् ८, ३,	७, ३, ८५	७, २२, ७ ^१ , २४, ६, बौश्रौ,
२९	गुण-भूत- -तस्य पावा ७, ३, ८१	-दस्य आपश्रौ ७, २४, ३,
गुणि(त>)ता- -ता माशि १६, २,	२गुण-विधान- -नम् पावा ७, ३,	बौश्रौ ४, ८ ६, ९: ९, १०:
याशि २, १०४, १०५	८५, -ने पावा ७, ३, १११, ४,	७, भाश्रौ, -दात् भाश्रौ ७,
गुणिन्- -णिनः पावा १, २, ४५,	१०	१९, १०, -दानाम् माश्रौ
-णिनि पावा ५, २, ४७, -णी	२गुण-विधि- -धिः पावा ७, १,	५, २, १२, ३२, -दाभ्यः
मीस् ६, ७, ३८	६	आपमं १, १७, ३ ^१ , -दे काश्रौ
गुणि-द्वैध- -धे विध ८, ३९	गुण-वृद्धि- -द्धी पा १, १, ३, पावा	६, ७, १२, विध ६०, २५, वैध
गुणी✓भू > गुणी-भाव- -व	६, ४, १४८, ७, १, १०२, पाग	२, ९, ५, -दै हिश्रौ ९, ८, ४१
मीस् ४, १, २०	२, २, ३१, -द्धयो. पावा १, १,	गुदी- पा ४, १, ४५
गुणे(ए-इ)दन्ता ^६ -विकार- -र मीस्	५१	गौदेय- पा ४, १, १२३
१०, ३, ६४	गुणवृद्धि-प्रतिषेध- -धः पावा	गुद-काण्ड ^१ - -ण्डम् आपश्रौ ७,
गुणे(ए-उ)क्लृष्ट- -ष्टान् विध ८,	१, १, ५६, ५७, -धे पावा १, ३,	२६, ११ ^२ , माश्रौ ७, १९, ४,
३९.	१०.	वाश्रौ १, ६, ७, २३, वैश्रौ १०,
गुणे(ए-उ)द्वेक- -कात् वैगृ ५, १.	गुणवृद्धि-प्रसङ्ग- -ङ्गे पावा १, १,	२०: १५, हिश्रौ ४, ५, ८, १२,
१९	५०	३७, -ण्डयो हिश्रौ ४, ५, ९,
गुणे(ए-उ)पदेश- -शः मीस् १,	गुणवृद्धि-विषय- -ये पावा ६,	-ण्डस्य काठश्रौ ७०, -ण्डानि
४, ३, -शात् मीस् १०, ८,	४, ८	भाश्रौ ७, २१, ११, -ण्डै आपश्रौ
१९	गुण-वृद्धि-दीर्घत्व- -त्वेभ्य पावा	१४, ७, ११
गुणे(ए-उ)पबन्ध- -न्धात् मीस् २,	६, ४, ४८	गुद-कोष्ठ- -ष्ठम् विध ९६, ९१
२, ११	गुण-वृद्धि-द्विर्वचना(न-अ)छोप-	गुद-जाघनी- -नी माश्रौ २, २,
२गुण ^६ - -णः पा १, १, २××, -णयो.	स्वर- -रेभ्यः पावा १, ४, २.	५, २३
पावा १, २, ३१, -णस्य पावा १,	गुणा(ए-आ)गम- -मात् ऋप्रा ११,	गुद-तृतीय- -यम् काश्रौ ८, ८, ३,
२, ६४, ३, १, ४५, -णात् पावा	१०	आपश्रौ ७, २२, ६ ^२ , वाश्रौ;
१, २, ५××, -णे पा ६, १, ९६,	✓गुण्ट ^६ पाधा चुरा पर वेष्टने	-यस्य काश्रौ ६, ९, १०;
पावा	रत्तये च	-यानि बौश्रौ ११, १३-३५××,
गुण-दर्शन- -नात् पावा १, १, ६	गुणित- -ता अप ५२, ६, १.	-ये काश्रौ ६, ८, ९, बौश्रौ २०,
गुण-निमित्त-त्व- -त्वात् पावा ३,	✓गुण्ट ✓गुण्ट टि द्र	३० १९, २२, १५. १६, -येन

a) श्रिं इति जीसं । b) श्रें इति जीसं । c) तु जीसं । d) उप इदम् + ता ।

e) = पारिभाषिक-संज्ञा- । व्यु १ । f) = ✓कुण्ट, गुण्ट इति [पक्षे] भाण्डा । चूर्णकिरणोऽपि इति BFG. ।

g) वैप १ निर्दिष्टयोरत्र समावेशः द्र । h) व्यप. वा नाप. वा ? । i) अर्थः ? । j) = गुदैकदेश- ।

बौश्रौ ४, १० ५, ८, १६ ४,
-येषु बौश्रौ २२, १५ १६,
२३, १३ ३५, -चै बौश्रौ
११, १३ ३५, १७, १० २४
गुदतृतीया(य-अ)णिष्ठ- -ष्ठम्
काश्रौ ६, ७, ७

गुद-मध्य- -ध्यम् काश्रौ ६, ७, ६
गुद-मेदस्- -दसो वैश्रौ १०,
१९ ५

गुद-र- पा ४, २, ८०
गुद-वनिष्ठ- -ष्ठु काठश्रौ ६३
गुद-श्रोणि- -णी कौसू ४५, ३१
गुद-हीन- -न विध ५, २२
गुदा(द-आ)दि- -दीनाम् वाश्रौ
३, २, ६, ५४

√गुध् पाधा दिवा पर परि-
वेष्टने, क्रया. पर-रोषे
गुधित्वा पा १, २, ७

गुध- गुड- टि द्र

गुधेर- पाउ १, ६१

गुन्द्र- पाउभो २, ३, ३०

√गुप्^० पाधा भ्वा आत्म गोपने, पर
रक्षणे, दिवा पर. व्याकुलत्वे,
चुरा उभ भाषायाम्, गोपायति
आपश्रौ ११, २१, १४^२ × ×, १३,
२०, ११^०, माश्रौ, कौश्र ३, ५,
९^{१०}, गोपायन्ति बौश्रौ ६,
३४ : ११, १५, ८ . ९, वाधुश्रौ,
गोपायताम् माश्र २, १५, १^{१६},
गोपायतु हिश्रौ ६, ६, १७^१ १,
या ११, ४६, गोपायन्तु बौश्रौ
३, २८ : २, हिश्रौ ६, ६,

१७, पाश्रु, गोपायस्व शाश्रु
२, १८, ३^६, आमिश्रु, कौसू
५५, १५^१, गोपाय आश्रौ १,
१२, ९ × ×, शाश्रौ, आपश्रौ
५, १८, २^१, ६, २४,
६^३, बौश्रौ^१ २, १८ : १५,
१७, १८, २०, २२, ३, १४
११, १२^२, १३^२, माश्रौ ५, ११,
७^१, माश्रौ १, ६, ३, ७^३,
वैश्रौ १, १४ १५^२, हिश्रौ ६,
५, १६^१, आपमं २, ३, ३१^६,
४, १४, आश्रु १, २०, ७^६,
कौश्र २, ८, ९^६, या २, ४^१,
गोपायतम् आश्रौ २, ५, २,
आपश्रौ ६, २४, ४, माश्रौ
६, ४, ११, माश्रौ, गोपायध्वम्
काश्रौ २५, १३, २५^६, गोपायत
आपश्रौ ६, २१, १, १४, २०, ७^६,
बौश्रौ, गोपायेत् पाश्रु २, ७,
१८, आपध १, ४, २३, विध,
गोपायेताम् हिश्रौ ६, ६, १७,
पाश्रु ३, ४, १०-१३, १४^२, १५^२,
१६^२, १७^२
जुगुषु अश्र १९, २७^१, गो-
प्स्याम् वाधुश्रौ ४, ६१ ३, ८६ ५
गोपयेत् अप ६२, २, ४, आज्यो
१०, ६, अजुगुपः शाश्रौ २,
१५, २^१, ४^२, ५^२, माश्रौ १, ४,
३, १७, ६, ३, १४^१, वाश्रौ १, ५,
४, ३६^१, हिश्रौ ६, ७, ७^१, अजु-
गुपः आश्रौ १, १३, ६, आपश्रौ ६,
२५, १० × ×, २६, ५^१, माश्रौ,

अजुगुप अजुगुप वाधुश्रौ २, ७ :
१, अजुगुपतम् वाश्रौ १, ५,
४, ३७, हिश्रौ ६, ७, ७, जुगुपतम्
माश्रौ १, ६, ३, १५^१, अजुगुपतम्
आश्रौ २, ५, १२, ६, २६, ३,
माश्रौ ६, ६, १
जुगुप्सते भाश्रौ ४, ४, ५, जुगुप्सते
आपश्रौ ८, ४, ८, माश्रौ, जुगुप्सेत्
वाधुश्रौ ३, १०१ ४, जुगुप्सेयाताम्
गोश्र १, ६, ७, जुगुप्सेरन् दाश्रौ ३,
३, १४, जुगुप्सीत काश्रौसं ३३ ५
गुगुपित- -त् कौश्र १, १६, ७, शाश्रु
१, २४, ४
गुपिल- पाउ १, ५६
गुप्त, सा- -स^२ पाश्रु २, १७, ४, -सः
आश्रु १, १५, ११^३, हिश्रु १, १६,
६^{१०}, अप ४१, ३, ७, बृदे ७, ९९,
-सम् बौश्रौ १, २, २४, ३७, वैश्रौ
३, ८ १२, हिश्रौ, -सा गौध
२२, ३७, -सा आपश्रौ ५,
१८, २^१, हिश्रौ ६, ५, १६^१, या
२, १७, -साम् आपश्रु ३, ११,
-सायाम् शंघ ४००, -सासु
बौश्र २, ७, ३.
गुप्त-तम- -मे वाध ६, ९
गुप्त-तीर्था(र्थ-आ)यतन- -नेषु
अप ४१, १, २
गुप्ति- -सिः वैश्रौ २०, १ ३;
-सिम् आपध १, ३१, १९, हिश्रु
१, ८, ३८, -सि^१ आपश्रौ ५,
१२, २, १३, ८, १५, ६, बौश्रौ
२, १६ : ४०, १७ ३७, हिश्रौ.

a) = देश-विशेष-?। b) मल्लो कस । c) पा ३, १, ५, २८ पावा १, ३, ६२ परामृष्ट द्र ।

d) पाभे. वैप १, १२६२ f द्र । e) सपा गोपायति <> गोपायनम् इति पाभे । f) पाभे वैप १, १२२५ m
द्र. । g) पाभे वैप १, १२२५ ० द्र. । h) पाभे वैप १, १२२५ f द्र । i) पाभे वैप १ पाहि मा ३, ३७^३
टि. द्र. । j) पाभे वैप १, १२२५ t द्र । k) सपा. गोपायध्वम् <> गोपायत इति पाभे । l) पाभे.
वैप १, १२२६ c द्र. । m) सप्र गुपित <> गुप्त. इति पाभे. । n) = वैश्य-संज्ञा-। अविभक्तिको निर्देशः।
o) सपा. शौ ६, १२४, १ विशिष्टः पाभे. ।

गुप्त्वा आपध १,४,२४^h
 १गोप- पाग ३,१, १३४
 गोपन- ने अप ४८,३४
 गोपयत्य^h- त्यम् या ५,१^hकुं
 गोपायत्- -यन् बौश्रौ १०, १
 ११, वैश्रौ १४,२० १०, अप्रा
 ३,४,१^h
 गोपायन- नम् शाग ३,१०,२^h
 गोपायमान,ना- नम् पाग ३, ४,
 १५^h, माग २, १५, १^h, -ना
 वाधूश्रौ ३,७९. १३
 गोपायितव्य- -व्यम् या ५, १
 गोपायित्- -त्ता या ३, १२^h, ७,
 ९, -नार या ५,१
 ङगोप्त्- -प्ना बौश्रौ २०, ६ ११,
 द्राश्रौ १०,२,७, लाश्रौ ३,१०,६,
 आपमं, अअ १७, १^h, -पतारः
 आपश्रौ २०,५, १४, बौश्रौ १२,
 १८ १०, वाधूश्रौ, -सारम्
 आपश्रौ ५, १२, २××, बौश्रौ,
 -प्तुणाम् बौश्रौ १५, १ : १७,
 ७ १९, -प्तुणि या १२,३८,
 -प्तुन् वाधूश्रौ ३, ७५ : २,
 -प्त्रे कौग २, ८,९^h, शाग २,
 १८,३^h
 ङगोप्त्री^h- -प्त्रि कौग २, ८,
 ४, शाग २, १३, ५, -प्त्री
 आपमं २, २, १०, काग ४१,
 ११, बौग २, ५, १४, माग,
 -ष्य आपश्रौ ६,२१,१
 गोप्य->गोप्या(प्य-अ)र्थ- -थान्
 आज्यो १०,६

जुगुप्सा- >प्सा-विराम-प्रमादा-
 (द-अ)र्थ- -थानाम् पावा १,
 ४,२४
 जुगुप्सित- -तम् विध २७,९
 जुगुप्सु- -प्सु शाश्रौ ३, २०,५
 √गुप्, स्फ पाधा तुदा पर ग्रन्थे
 √गुर्^h पाधा तुदा आत्म उच्यमाने
 गूर्,ती^h- पा ८, २, ६१, -र्ती
 या १०,४७^h
 गुरिचीत^h- >१गौरिचीत- -०त
 हिश्रौ २१,३,१४, वैध ४,३,०
 गुरिचीत-वत्^h हिश्रौ २१, ३, १४,
 वैध ४,३,७^h
 गुरु^h- पाउ १,२८, पा ६,४,१५७,
 पाग ५,१,१२२, -रव जैग २,
 ८ १८, आपध १, १४, ७,
 बौध ३,९,१०, हिघ १,४,४०,
 -रवे आपश्रौ १५,२०,१०,२१,
 २, माश्रौ ११, २१, १२, २२,
 ६, माश्रौ ४, ७, ५, आग ३,
 १०,१, कौग २,३,१९, आमिग
 १, १, ४ : ९, २, ३ २५××,
 आपग ११, १८, बौग ३, २,
 ५६, बौपि ३,४,९, माग, -रु
 आश्रौ ६,१२,३^h, माश्रौ २, ५,
 ४,९^h, वैताश्रौ २३,१२^h, निस्
 ४,९. २,११, कप्र २, ४, १८,
 ऋप्रा, पा १, ४, ११, पावा १,
 ४, १, -रुः बौश्रौ १८, ४७
 १, २, २३, जैश्रौका १७२; कौग
 २, ४, १९, ७, १४, शाग २,^h
 ७,२२,११,१०, काग; अपग, १,

७^h, -रुणा आग ४,६, १, कौग
 २,३,१७, साग २, ६, ७, पाग;
 -रुभिः बौध २,२,६२, -रुभ्य
 कौग ३,११,२, शाग ४,१२, २;
 आमिग ३,११, ४ २९^h, बौग
 २,११,३४^h, वैग २,१२. १०;
 अप ४३,१, २६^h, ऋअ ३, ३;
 -रुम् आग ३, ९, ४, पाग २,
 ६, ९, गोग २, ३, १३, ३, २,
 ३६,४०, गौपि १,१,३, जैग, या
 २,४^h, -रुषु हिपि ८:९, वाघ
 २२, १५, आपध १, १०, २;
 बौध, -रु निस् ४,२-१६, १८;
 २१, १०,११ ४, वृदे ४,६०,
 -रुणाम् बौश्रौ २०,१२ २९,
 वैग ३, २२ : १२, ५, १३ : २;
 शघ ३७, ११६. ७६^h, ११८^h;
 आपध १,१५,१, विघ ३२, ८;
 हिघ १, ४, ६०, गौध २, ५७,
 -रुणि वाघ २२, १५, बौध ३,
 १०,१७, गौध १९, १९, ऋप्रा
 १, २०; तैप्रा २२, १४, -रुन्
 आमिग २,६,३. ५२, माग १,
 २, १८; वाग ९, १८; गोग २,
 ४, १०, द्राग, -रौ आश्रौ १,
 ९, ५, आमिग २, ६, ५. २०;
 काग ३, १६; बौग, अप ५१,
 ४, ३^h, ५२, १६, ४^h, या २,
 ४^h, पा ३,३,१०३, ८,२,८६;
 पावा ८,२, ८६, -रौ आग ४,
 ४, १९, पाग २, ११, ७, अप;
 आज्यो ६, १२.

a) सप्र गुप्त्वा <> गुह्यात् इति पामे. । b) वैप १ द्र. । c) पामे वृ १९२ e द्र ।
 d) पामे वै १, १२२६ k द्र. । e) पामे वैप २, ३खं सवित्रे माश ११, ५, ४, ३ टि द्र । f) विप.
 (मेखला- स्वस्ति-प्रमृ) । g) या ३,५ परामृष्ट द्र । √गुर् इति कचित्क पाठः । h) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
 2) सप्र गुरि<>गौरि इति पामे । j) गुरु इति पाठः ? यनि. शोध. (तु. तत्रैव गौरि) । k) = परिभाषिक-
 सज्ञा- (ऋप्रा. पा. प्रमृ) । l) = बृहस्पति- (देवगुरु-) । m) = बृहस्पति- (ग्रह-) । n) = बृहस्पति-
 (आचार्य-) ।

गुर्वी^a > गुर्वी-सखि, खी-
-खिम् आपध १, २१, ९, -खीम्
वाध २०, १६^b, बौध २, १,
४४, हिध १, ६, ३९^b
गौरव- पा ५, १, १२२, पाग ५,
२, ३६, -वम् निस् १, १ २५,
आपध १, ६, ३५, हिध १, २,
५७, -वेण वाध १३, ४८
गौरवित- पा ५, २, ३६
गरिमन्- पा ५, १, १२२, ६, ४,
१५७, -ग्णा बौधौ ३, १४ १.
गरिष्ठ- पा ६, ४, १५७, -ष्ठम् शध
११६ ६१.
गरीयस्- पा ६, ४, १५७, -यः
शगृ ४, ११, १४, विध ३२,
१६, गौध, -यस्सु बौध ४,
१, २, २, २, -यासि बौध
४, १, १, २, १, -यान् वाध १३,
५७, १७, ७९, विध, हिध २,
४, ५९^c, पावा ४, २, २१,
-यान्-यान् आपध २, १२,
२२^f
गुरु-कर्मन्- मंसु आपध १, ५,
२४, हिध १, २, २५
गुरु-कुल- ले बौध २, १, ४७,
विध २८, ४३, वैध १, ३, ३, ६,
-लेषु माशि १६, ४
गुरुकुल-वर्जम् विध २८, ९
गुरुकुल-वास- स बौधौ २९,
८: २, विध २८, १
गुरु-कृत- तम् माशि १४, १०
गुरु ग(त>)वा- ताम् माशि
१६, ७, याशि २, १११, नाशि
२, ८, २७
गुरु(ग>)गा- गा वाध २१, १०.

गुरु-गीति^d- तीनि निस् २, ३ ३,
९, १३
गुरु-गौरव- वात् याशि २, ११७
गुरु-तल्प- पावाग ४, ४, १, -ल्पम्
वाध १, २०
गौरुतल्पिक- पावा ४, ४, १
गुरुतल्प-ग- गः वाध २०, १३,
४४××, शंघ ३७८, ३८५××,
बौध २, १, १२, विव ४५, ६,
५५, ६, गौध २३, ९
गुरुतल्प-गमन- नम् बौध ३,
५, ६, ६, १८, -ने विध ५, ७
गुरुतल्प-गामिन्- मी आपध
१, २५, १, २८, १५, हिध १, ६,
७५, ७, ५०
गुरुतल्पिन्- ल्पी बौध २, २, ६८
गुरु-त्व- त्वम् कागृ ४५ १८,
विध ४२, २, तैप्रा २४, ५
गुरु-दक्षिणा- णा वाध १७, ६९,
-णाम् बौध ३, ३, ३१
गुरु-दर्शन- ने गौध २, २०, ३३
गुरुदर्शना(न-अ)र्थ^d- र्थं हिध
१, २, १०५
गुरु-दार- रम् आपध १, २५, ११,
हिध १, ७, ७, -रेषु विध २८,
४५, ३२, १५
गुरुदार-गमन- नम् विध
३५, १
गुरुदारगमन-सम- मम्
विध ३६, ४
गुरुदारा-निषेवण- गम् अप ९,
३, ५
गुरुदारा(रा-अ)भिगामिन्- मी
सुध ५६
गुरु-द्रुह- ध्रुक् अत्र ८, १

गुरु-नियोग- गात् बौध ३, ३, १६-
गुरु-निवासिन्- सिनाम् शंघ ५३.
गुरु-पत्नी- त्नी विध ३२, १३,
-त्नी आप्ति २, ६, ३: ५२,
बौध २, ५, २९^f, -त्नीनाम् बौध
१, २, ३४, विध ३२, ५, ६, १४,
-^fत्नीभ्यः आप्ति ३, ११, ४:
२९, बौध, -त्नीम् काध २७५ ४-
गुरु-पर-वश्यता^e- ताम् विध ९६,
३४.
गुरु-परिचारक- पाग २, २, २^f
गुरु-पुत्र- त्रस्थ वाध १३, ५४, -त्रे
विध २८, ३१, ४४^f, पावा १, १,
५६
गुरु-पूजन- नात् शंघ ४१
गुरु-पूर्व- वात् पावा ६, ४, ५६.
गुरु-प्रयुक्त- क्तः वाध २३, १०^f
बौध २, १, २२
गुरु-प्रसाद- द वाध २४, ७^f
बौध ४, ४, १०^f.
गुरु-प्रसादन- > नीय^e- यानि
आपध १, ५, ९, हिध १, २, ९
गुरु-प्रसू (त >) ता^b- ता गौध
१८, ५
गुरु-बुध- धयोः वैध ४, १४ ७
गुरु-भार्या- र्याणाम् गौध २, ४०
गुरु-मत्- मत पा, पावा ३, १,
३६
गुरुमद्-वचन- नम् पावा ३,
१, ३६
गुरु-मध्य- पावा २, ३, ३५^f
गुरु-लघु-संज्ञा- ज्ञे पावा १, ४, १
गुरु वत् वाध १३, ५४^f, विध, पावा
१, १, ५६
गुरु-बधू- धू मागृ १, २, १८^f.

a) = मातृ- । b) गुर्वी सखीम् इति पाठे । c) परस्परं पाठे । d) विप । बस । सपा आपध
१, ८, १७ गुरुं दर्श^e इति पाठे । e) कस. > षस । f) तु पागम । g) विप (कर्मन्-) । h) उप < √सू
(प्रियो) । i) बन्धून् इति बडोदासं ।

गुरु-वर्ण- -र्ण. नाशि २, ६, ४
 गुरु-विधि- -धि: पावा १, १, ५७
 गुरु-वृत्ति- -त्ति: बौध ३, ३, २५,
 ऋप्रा १८, ६०, -त्ती निस् १, १
 २६
 गुरु-वृद्ध-दीक्षित- -तानाम् वैध
 १, २, १०
 गुरु-शासन- -नात् आमिष्ट १, ६,
 १ २
 गुरु-शिष्य- -व्ययो विध ३०,
 ३०
 गुरु-शिष्य(व्य-ऋ)त्विज्- -त्विज
 वैष्ट ७, १ ६
 गुरु-शुश्रूषा- -षया विध ३१, १०,
 याशि २, ११३, -षा कौष्ट २,
 ३, १८, शाय २, ६, ८, पाष्ट,
 -षाम् कौष्ट २, ७, २१, शाय
 २, १२, ६
 गुरु-शुश्रूषिन्- -षी बौध २, ६, १५
 गुरु-सखि, खी- -खिम् आपध १,
 २१, ९, -खीम् वाध २०, १६,
 बौध २, १, ४४, हिध १, ६, ३९
 गुरु-सङ्कर- > णिन्- -रिणः बौध
 २, ३, ९
 गुरु-संज्ञक- -कम् माशि १२, ४
 गुरु-संज्ञा- -ज्ञा पावा १, १, ८, ५७
 गुरु-संनिधि- -धौ आपध १, १०,
 १५, हिध १, ३, ४३, नाशि २,
 ८, १९
 गुरु-समवाय- -ये आपध १, ७, १४,
 हिध १, २, ७१
 गुरु-समीप- -पे शाय ४, ८, ५,

वाध १३, २४
 गुरु-स्तव- -व. वृदे ४, १०३
 गुरु(रु-उ)दर^b- -र सु १७, २
 गुरुदरी- -री सु ३, १
 गुरु(रु-उ)पोत्तम- -मयो पा ४, १,
 ७८, -मात् पा ५, १, १३२
 गुर्व(रु-अ)क्षर- -राणाम् ऋप्रा
 १८, ६०
 रगुर्व(रु-अ)क्षर^b- -रम् ऋप्रा १८,
 ६०
 गुर्व(रु-अ)धीन- -नः वाध ७, १०,
 -नान् वाष्ट ९, १८
 गुर्व(रु-अ)नुज्ञात- -तः विध २८,
 ४२, अञ्जम् ८, -तम् विध २८,
 १०^c
 गुर्व(रु-अ)न्त^d- पावा २, ३, ३५
 गुर्व(रु-अ)भाव- -वे वैध १, २, ११,
 गौध ३, ७
 गुर्व(रु-अ)भिवादन- -नम् विध
 २८, १४
 गुर्व(रु-अ)र्थ- -र्थम् वाध १४,
 १३
 गुर्वर्थ-निवेशौषधार्थ-वृत्तिक्षीण-
 यक्ष्यमाणा(ण-अ)ध्ययनाध्व-
 सयोग-वैश्वजित- -तेषु बौध २,
 ३, १९, गौध ५, २२
 रगुर्व(रु-अ)र्थ- -र्थेषु गौध २३,
 ३१
 गुर्वा(रु-अ)त्मन्- -स्मा या ७,
 १८
 गुर्वा(रु-अ)दि- -दौ ऋत ५,
 २, ७.

गुर्वा(रु-अ)भरण-स्यु(त>)वा^e-
 -ताम् अप ६९, ६, ३
 गुर्जर- पाठभो २, ३, ३७
 ✓गुर्द् पाधा भ्वा आत्म कीडायाम्
 चुरा पर पूर्वनिकेतने.
 गुर्द^f- (> र्दी- पा) पाग ४, १,
 ४१
 ✓गुर्व पाधा भ्वा. पर उद्यमने.
 गुर्वि(न>)णी^g- पाठ २, ५४, -णीम्
 विध ५०, ८, ६७, ३९, ६९,
 १७
 गुल- गुड- द्र
 गुलगुधा, ला^h(> ष्वा, ला) ✓क
 पा)पाग १, ४, ६१,
 गुलⁱ- (> गौलव्य- > ष्वायनी-
 पा) पाग ४, १, १८;
 १०५
 गुलगुधा (> ष्वा ✓क) गुलगुधा
 टि द्र
 गुलगुलु- पाठभो २, १, १०६.
 गुलुच्छ- पाठभो २, २, ८५
 गुलुगुधा (> ष्वा ✓क) गुलगुधा
 टि द्र
 गुलगुलु^j- लु आपधौ ७, ६, १;
 बौधौ ४, १ २, ३: १४.
 गौलगुलव^k- -वेन आपधौ २०,
 १५, १२, १३, २३, ७, ९, बौधौ
 १५, २५. १, हिधौ १४, ३,
 २३, १८, ३, ३, वाधौ ३, ४,
 ३, ४४.
 गुल्गुलु-गन्धि^l- -धयः^m काश्रौ
 १३, ३, २६; आपधौ २१, २०,

a) विप ([एनस्विन्-] द्विज-) । b) विप.। बस.। c) ष्तः इति जीसं.। d) तु. पागम.।
 e) विप । कस > तुस । f) अर्थः व्यु च^१ । गुर्द- इति पाका । g) = गर्भिणी- । व्यु ^२
 < ✓गर्व इति पाठ, < गुरु- इति Pw. प्रष्ट, उभयथेति अभा । h) पीडार्थे अव्य । तु पाका ।
 गुलगुला, गुलुगुधा इति पागम, गुलुगुधा इति भाण्डा. । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ^३ । तु पाका. । गुलुलु-
 इति भारुडा । j) वैप १ द्र. । k) विप । तेन संस्कृतमित्यर्थे अण् प्र. उत्सं. (पा ४, ४, ४) । l) = गुगुलु-गन्धि- ।
 m) पाभे पृ ९८८ १ द्र. ।

३, हिश्रौ १६, ६, ४१
 गुल्गुल-सुगन्धितेजन- -नम् आपश्रौ
 ७, ६, १^a
 गुल्गुलवा(लु-आ)दि- -दय शुअ
 १, ३१६
गुल्फ^b- पाउ ५, २६, पाग ४, १, ५६,
 ५, २, २४, -ल्फ अप ४८,
 ११६^क, -ल्फात् शध ७७,
 -ल्फान् कौसू ३९, १३, -ल्फेषु
 विध ९६, ६२
 गुल्फ-जाह- पा ५, २, २४
 गुल्फ-द्व- -न्नम् बौश्रौ १७, ३०
 ५^२, हिश्रौ ४, १, २२, आमिपृ
 ३, ८, १ ३०^३, बौपि १, १५
 ९^२, -न्ने आपश्रौ ७, २, ६,
 बौश्रौ १०, ४८ : १३, भाश्रौ
 ७, १, १४, वैश्रौ १९, ६ ४३,
 हिश्रौ ४, १, २०
 गुल्फ-देश- -शे बौश्रौ २१, ८ :
 १८
 गुल्फ-मात्र- त्रे वैश्रौ १०, १ :
 १५
 ङ्गुल्फित- -तम्^० आपश्रौ १०,
 १०, ३^२, १३, ७, १६^३, भाश्रौ
 १०, ६, १७^३, हिश्रौ १०, २,
 १२^०.
गुल्म^b- पाउभो २, २, २४३^०, पाग
 २, ४, ३१^१, ५, २, २४^६, -ल्मान्
 अप ६८, २, २२^४
 गुल्म-कृत, ता- -ताः बौश्रौ १०,
 ४५ : २३, ११, २ २९, वैश्रौ

१९, ५ १६, -तान् बौश्रौ ११,
 ३ : ११
 गुल्म-वल्ली-लता- -तानाम् विध
 ५०, ४८, -तासु अप ७०^३,
 ८, ५
 गुल्मवल्लीलता-युक्त- -क्ते अप
 २१, ४, १
 √गुल्माय, गुल्मायते अप ७०^३,
 ११, ९
गुवाक^१- पाउभो २, २, १४
गुवेर- पाउभो २, ३, ६०
गुष्पित^b- -तम् अप्राय १, ५^क
 √गु, गूह्^१ पावा भ्वा उभ सवरणे,
 गूहते या ५, १९^क, गूहति वाश्रौ
 १, ६, ६, १९, गूहत > ता ऋप्रा
 ७, ३३^क
 गूहयति कौसू ४८, १९, गूहयेत्
 वैश्रौ १२, ६ ९, वैगृ २, १३
 १२
 ङ्गुगुत्त. ऋप्रा ४, ९८^क, उस्
 ६, ६^क
 गुहा^b- पाग ३, ३, १०४, ५, १, ६६,
 ६, १, २०३, -ङ्हा आपश्रौ २,
 ११, १०, ५, १, ७, १०, २०, ८^१,
 बौश्रौ, कौसू ११७, ४^m, या
 १३, ९^क, -हायाम् सु ११, १,
 १२, १, या १३, ९, -हासु
 आपश्रौ ५, १, ७^क
 गुहा-कारम् आपश्रौ ५, १,
 ७^क
 गुहा शय- -यम् आपध १,

२२, ५, हिध १, ६, ५, आशि
 १, २, -यस्य आपध १, २२, ४;
 हिध १, ६, ४, -याः अप १,
 ८, ५^०
 ङ्गुहा-हि(त >)ता- -नाम्
 माश्रौ १, २, ४, ४, वाश्रौ १, २,
 १९
 गुह्य, ह्या^b- पा ५, १, ६६; पावा ३,
 १, १०९, -ह्यम् शाश्रौ १८,
 १, ८^क, आपश्रौ, -ङ्हा आश्रौ
 २, ८, ३, शाश्रौ, -ह्या वृदे ८, ९८,
 -ह्यात् हिध १, १४३^०, -ङ्हानि
 शाश्रौ २, ४, ३^०
 ङ्गुह्य-क^२- -कम् कप्र १, ७, ९;
 गुह्य-प्रदेश- -शे वैध ३, ८, २.
 गुह्य-स्थान- -ने आमिपृ ३, १०,
 ४ : १६.
 गुह्यो(ह्य उ)पनिषद्-आसन^०-
 -नः विध १, ९
 २गुह्यक- -केभ्य मागृ २, १२, १७^०-
 गुह्यमान- -नम् आपश्रौ १७, १८,
 १^क
 गुह्, ह्य^१- -ढ कप्र ३, ६, ६, -ङ्ढम्
 अप्राय ६, ९, या ७, ३, -ढात्
 वैव ३, १२, १३, १३, ६, १२,
 -ढे विव १, २५, शुप्रा ४,
 १७६^५
 गूढ-ज^१- -जः बौध २, २, २२,
 -जम् बौध २, २, ३१
 गूढ-मन्त्र- -न्त्रस्य काशु ७,
 ३९

a) पामे ष्ट ९८८ j द्र । b) वैप १ द्र । c) पामे वैप १, १२२७ p द्र । d) °दम् इति पाठ.^१
 यनि. शोध । e) =सेनाङ्ग- । f) =जुप- वा आश्रयस्थान- वा । <√गूह् इति पागम । g) तु पागम । =गुल्फ- ।
 h) =जुप- । i) गुपाक- इति पाउनाट्ट । j) या ११, ३२, १३, ९ पा ६, ४, ८९, ७, २, १२, ३, ७३ पावा १, १, ४९
 परामृष्टः द्र । k) शुष्ण इति पपा । l) सप्र गुहा वने <> गुहाक्ये इति पामे । m) पामे वैप १, १२२८ 1
 द्र । n) गूहा इति पाठः^१ यनि शोध (तु तैत्रा १, २, १, २) । o) उत्तरेण संधिरार्षः । p) पामे ष्ट ९९३ a
 द्र । q) पामे. वैप १, १२२८ n द्र । r) =धारीराङ्ग- । s) विप. । बस पूष = तदाख्योपनिषद्- ।
 t) =देवयोनि-विशेष- । व्यु^१ । u) =पारिभाषिक-संज्ञा- । v) =अपत्य-विशेष- ।

गूढ-मन्त्र-प्रचार^a->०र-सं-
वृत्त-रन्ध्र^b- -न्ध्र शब्द २४४
गूढा(ढ-आ)चार- -राव् वैध ३,
१४,२
गूढो(ढ-उ)स्पन्न^c- -न्नः वाध
१७, २४, शंघ २९१, बौध २,
२,२२, विध १५, १३, वैध ३,
११,६,१२,६
१गोह^d- -ह्य. पाग २,६,१०
गुह^e- पाउना ५, ५२, पाग ४, २,
८०^f, ५, २, १००^g, -हस्य
वैगु ३, २२ ६^h, ७, -हाⁱ
बौश्रौप्र १४ २
गुह-र- पाग ४, २, ८०
१गुहिल- पा ४, २, ८०, ५, २,
१००
गुहलु- पाउभो २,१,१०६
गौह-लव्य- > व्यायनी- गुलु-
टि द्र
गुहाक्य- क्ये हिश्रौ १०,१,२७^j
रगुहिल- पाउ १,५६
गुहेर- पाउ १,६१
√गू √गु द्र.
गूढ- √गू द्र
गूथ- पाउ २,१२, पाग २,४, ३१
गून- √गू, गू द्र
√गूर पाधा दिवा आत्म हिंसागत्यो,
चुरा आत्म उद्यमने
गूर्जर^k- पाउना ३, १३२
गूर्त- √गूर द्र

१गूर्द^l- -र्द. आपश्रौ १६, ३०,
१, वैश्रौ १८, २० ३२, हिश्रौ
११, ८, ४, लाश्रौ ७, १, १^m,
-र्दस्य लाश्रौ ७,१,२ⁿ, -र्दर्य,
-र्द, -र्दभ्य आपश्रौ १६,
३०, १, वैश्रौ १८, २० : ३२,
हिश्रौ ११,८,४
२गूर्द^o-(>गूर्दी-) गुर्द- टि द्र
√*गूर्ध^p, गूर्धयति अप ४८,९, निघ
३, १४, गूर्धय, >या ऋत्र २,
८,१९, ऋत्रा ८,१३,१८,२.
गूह^q-(>गूहिल^r- पा) पाग ४, २,
८०
√गृ पाधा भ्वा पर सेचने, चुरा
आत्म. विज्ञाने
√गृ^s>जागृ(अवबोधने) पाधा अदा
पर निद्राक्षये, जागर्ति आपश्रौ ४,
३, १३, ५, ८, ३××, भाश्रौ, आमिगृ
२, १, ३: २४^t, हिगृ २, ३, ७^u,
जागृत माश्रौ १, ५, २, ६, मागृ
२, १, ४, या १२, ३७^v, गृजागरत्
आमिगृ १, १, २ ४६, ४७, ४९,
कागृ, अप्रा २, ३, १९^w, गृजागरात्
हिगृ १, ४, ८, जैगृ, गृजाग्रथ^x
आपश्रौ १, १४, ३, भाश्रौ १,
१४, ९, हिश्रौ १, ३, ५५, पागृ
१, १६, २२^y, हिगृ २, ४, ५^z,
गृजाग्रत^{aa}, आमिगृ २, १, ४.
२२^{ab}, २३^{ac}, बौगृ २, १, १२^{ad}, भागृ
१, २५ १३^{ae}, हिगृ २, ४, ५^{af},

गृजागृहि आपश्रौ ५, १४,
५, १०, १८, १, २२, १२,
२०, बौश्रौ, गृजागृत, > ता
आपश्रौ १, १४, ३^{ag}××, बौश्रौ,
भाश्रौ १, १४, ९^{ah}, माश्रौ
१, १, ३, ३७^{ai}, वाश्रौ १, २, २,
३४^{aj}, हिश्रौ १, ३, ५५^{ak}, अजागः
ऋत्रा १, १०३^{al}, जागृयात्
गो १, ७, अप्राय १, ५
गृजागार कौगृ ३, १२, ३३^{am},
अप्रा ३, १, ७, शौच
जागरयन्ति आपश्रौ ५, ८, २,
११, २१, १२, २०, १, १५,
भाश्रौ, जागरयित कागृ ४६, २,
जागरयेत् कप्र २, ९, १६, जागर-
येयु. मागृ २, १, २
जागरण- -णम् आपश्रौ ४, ३, १६;
१०, ४, १२, वैश्रौ, -णात् या
९, ८
जागरण-धारण- -णे काश्रौ ४,
८, ११
जागरण-संतति- -तौ पावा ३,
२, ११०
जागरयत्- -यन्तः बौश्रौ २, १५ :
१७, १५, ३. ५, १८, १८. ९,
वाधुश्रौ ३, ७० : ९^{an}
जागरा- पावा ३, ३, १०१, -रायै
वाधुश्रौ ३, ७० : ९
जागरूक- पा ३, २, १६५, -क या
१, १४

a) विप । बस > द्रस । b) कस उप. बस । c) = अपत्य-विशेष- । d) = अग्नि-विशेष- । वैप २, ३खं द्र ।
e) = स्कन्द- । कर्तरि कः प्र (तु अभा) । f) तु भाण्डा पासि । सकृत् गुहा- इति भाण्डा । अर्थ १ ।
g) तु पागम । अर्थ १ । h) = ऋषि-विशेष- । i) पाभे पृ ९९६ । द्र । j) = देश-विशेष- । व्यु १ ।
k) वैप १ द्र । l) = साम-विशेष- । m) वैप १, १२२९ h द्र । n) अर्थ व्यु च १ । तु पाका । अह-
इति भाण्डा । o) = देश-विशेष- १ । p) पा ३, १, ३८, ६, १, ६, १९२, ७, २, ५, ३, ८५ पावा १, २, १, ६,
१, ८, ७, २, १० परामृष्ट द्र । q) सप्र जागर्ति <> बोधयति इति पाभे. । r) पाठ १ जागार इति शोधः
(तु संस्कृतं टि) । s) Böht [ZDMG ५८, ८६] जागृथ, जागृत इति यक शोधकः १ । लेटि अडागमे यनि रूपे
स्याताम् । t) पाभे वैप १, १२२९ s द्र । u) सपा. जाग्रत [लोडर्थे लेटि द्र] <> जागृत इति पाभे ।

जागर्या- पावा ३, ३, १०१
जागृत- -तम् अप ४८, ८०^a
‡जागृवस्^b- -वद्भि आश्रौ ४, १३,
७, १५, ८, ऋअ २, १०, ९१
जागृवि^b- पाउ ४, ५४, पावा ६,
१, ६६, -‡वि आपश्रौ १२, ८,
३, ११, ११, बौश्रौ, -‡वि.
आपश्रौ १४, १२, १, बौश्रौ २,
१४ १८, हिश्रौ, या ९, ८^c
जाग्रन्- -ग्रत् काश्रौ ९, १, १३,
माश्रौ २, २, ५, ३, अग्र १६, ७[†],
-ग्रत् वैताश्रौ ५, ८, आमिगृ
३, १२, २ : १०, अप, -ग्रतम्
काश्रौ २५, ३, ११
जाग्रद्-दुष्वन्त्य^b- -न्त्यम् अग्र
१६, ६[†]
जाग्रन्-मिश्र- -श्रौ गोगृ १, ६, ६
√गृ, गृ^० पाधा क्र्या पर शब्दे,
गृणाति निघ ३, १४[†], या ४,
२४, ‡गृणन्ति अप १, ३७, ४,
अशा ७, ४, गृणीषे या १०, ४४[†],
‡गृणे आश्रौ ६, २, ६, ८, १२,
२४, ९, ५, ५, शाश्रौ ९, ६, ६,
१४, ३, १२, साअ १, ३९१,
‡गृणामि या ५, ९[†], गृणीमसि
आश्रौ ७, ८, २, चुसू १, ६
१५, २३, ‡वैताश्रौ ३९, २, ४१,
१, ५
गरित्- -त्ता या १, ७
गरुथ^d- -थम् या ६, १७
गिर^b- पाउभो २, १, ३०३,
‡गिर. आश्रौ २, ८, ३××,

शाश्रौ, या १, १०^३, ५, १७,
१०, ६, १२, ३६, पावा ८, २,
२२, गिरम् वाध २८, ६, बौध
२, २, ५८, ‡गिरा आश्रौ ६, ४,
१०, ८, १२, २४, ९, ५, ५,
शाश्रौ, या ६, २४[†], १०, ५[†],
‡ गिराऽगिरा आपश्रौ १७,
९, १, वैश्रौ १९, ६ : १,
गिरि शाश्रौ ८, २५, १[†],
गिरौ पावा ८, २, २२, ‡गी
बौश्रौ ५, ८ २, वाधूश्रौ ४,
११५ १५[†], वैताश्रौ ३४, ९,
अप्राय ६, ९, अप ४८, १०२,
निघ १, ११, ऋप्रा ७, २६,
‡गीर्भि आश्रौ १, ५, ३५, ६,
१^६××, ३, ७, १३[†], शाश्रौ,
या ६, १४, १४, ३२
गिरा- पाग ४, १, ४^b
‡गिर-वणस्^b- -०ण आश्रौ ४,
६, ३, ९, ६, ६, १, २^२, शाश्रौ
५, ९, १२, १३, १०, आपश्रौ
११, ८, ४, बौश्रौ ६, २७ : २१,
माश्रौ २, २, ३, २६, ४, २, २८,
वैश्रौ १४, ६ . १४. हिश्रौ ७,
५, २९, ७, २१, वैताश्रौ ३९,
७, ४०, ४, आपमं १, २, ६[†],
आमिगृ १, २, ३ ८, साअ १,
१९५, शुप्रा २, १०, शैशि २३६,
नाशि २, १, ९, -णसे या ६,
१४[†], -णा अप ४८, ११५,
निघ ४, ३, या ६, १४[†]
गी-पति^d-, गी-पुत्र-, गीर-

पति-, गीर-पुत्र- पावा ८, २,
७०
गृणत्- -‡णते आश्रौ २, १६, ११;
७, ११, ७, शाश्रौ ९, १६, ३;
आपश्रौ १३, १८, १, माश्रौ २,
५, ४, १२, पागृ ३, ५, ३, -णन्
वृदे ४, ७८, -‡णन्त आश्रौ
२, ८, १४, ९, ९, ७
गृणाति->^eति-कर्मन्- -र्मा या
६, ८
गृणात्य(ति-अ)र्थ- -र्थे या ९,
४, १०, २३.
‡गृणान, ना- -नः आश्रौ १, २, ७;
शाश्रौ १४, ११, ९, काश्रौ २५,
११, ३४, बौश्रौ १३, २७ ८;
निसू २, १३ ३०, आपमं २,
२, १[†], आमिगृ १, १, २ : ४[†];
बौगृ २, ५, ९[†], भागृ १, ५ : ९[†];
हिगृ १, ३, ५[†], अप्राय २, ७;
अप ४६, ३, ५, ऋप्रा ७, २६;
-ना आश्रौ ५, ५, १२, शाश्रौ
७, २, ७, आपश्रौ १६, २९, २;
वैश्रौ १८, २० : २८, हिश्रौ ११,
८, ४, आगृ ३, ५, ७, कौगृ ३,
७, १०, शागृ ४, ५, ८, या ११,
४९, -ना^k आमिगृ ३, ७,
१ ८, बौपि १, १७ ८
√गृञ्, ङ्ग पाधा भ्वा पर शब्दे.
गृञ्^l-> गृञ्-क- -कम् वैध ३,
५, ८^m
गृञ्जन्ⁿ- पाउभो २, २, १९२, -नम्
वैध २, १५, ५

a) = उदर-। घा अर्थ-^१। b) वैप १ द्र। c) या १, १०, २, २८, ३, ५^९, ६, १७, ९, ५, ८ परामृष्टः
द्र.। d) = स्तोत्र-। जथन् प्र. उसं (पाउ २, ६ [तु स्क])। e) पामे वैप १, १२३२ g द्र। f) 'अस्य
(सोमस्य) मदे(मदाय) गिरि (स्तुतौ सत्या [तत् कालमेव]) इन्द्र षउपस्थात् (उपतिष्ठेत)' इति वा द्र (वैतु ? C गिरि-ष्ठाः
इति)। g) पामे. वैप १, १२३३ e द्र.। h) तु. पागम। i) गीष्पति- इति केचित् (तु पागम.)।
j) पामे. वैप १, १३८४ i द्र। k) पामे. वैप १ वृणानाः ऋ १०, १८, ६ टि. द्र। l) = गृञ्जन्-। व्यु^१।
m) ऋजकलिम् इति C., वृञ्जक- इति मूको.। n) = कन्द-विशेष-। व्यु^१।

गृणत्- प्रसृ √गृ (शब्दे) द्र
 गृत्स^१- पाठ ३, ६९, -त्स. अप ४८,
 ८५^{१०}, निघ ३, १५^{१०}, या
 ९, ५^{१०}
 गृत्स-मद^१- -द आगृ ३, ४, २,
 कौगृ २, ५, १, शागृ ४, १०, ३,
 अप ४३, ४, ३^१, ऋअ २, २,
 १, ९, ८६, वृदे २, ५५××,
 शुअ, अअ २०, २०, ३४^{१०}, या
 ९, ५^{१०}, -दम् वृदे ४, ७०,
 या ९, ४, -दस्य चाअ १६ २,
 -दा. वृदे ४, ९८, -दे वृदे २,
 १५५, ३, १२८, -देन वृदे ३,
 २७
 गार्त्समद^१- -०द आश्रौ
 १२, १०, १३^{१०}, आपश्रौ २४,
 ६, ४, बौश्रौ ९ ४, हिश्रौ
 २१, ३, ७, वैध ४, २, ८, -द.
 शाश्रौ १०, ३, ४, ऋअ २, २,
 २७, वृदे ४, ७८^{१०}, शुअ ३,
 २११, ४, ३६, -दम् आश्रौ
 ७, ६, ३, ८, ८, ८, या
 ८, २२, -दा आपश्रौ २४,
 ६, ३, बौश्रौ ९ : १, हिश्रौ
 २१, ३, ७, -दानाम् शाश्रौ ११,
 १०, ५, वैध ४, २, ८, -दानि
 शाश्रौ ११, १०, ४, -दे शाश्रौ
 ११, ७, ३, वृदे ३, ३६
 गृत्समद-वत् आपश्रौ २४, ६, ४,
 बौश्रौ ९ : ४, हिश्रौ २१, ३,

७, वैध ४, २, ८
 गृत्स-मदन- न या ९, ५
 ङ्गृद^१- -दम् आपश्रौ २०, १८, ४, ४,
 हिश्रौ १४, ४, १०
 √गृध्^१, पाधा दिवा पर अमि-
 काक्षायाम्, जागृधु ऋप्रा ९,
 ५२^१
 गर्ध- (>गर्धित- पा) पाग ५,
 २, ३६
 गर्धन- पा ३, २, १५०
 गृधु- पाठ १, २३
 गृधन^१- -ध्नः शध २४३^१.
 गृधु- पा ३, २, १४०, -धु
 आश्रौ ६, ३, १^१
 गृधु-परिवार^१- र शोध
 २४३^१
 ङ्गृध्व^१- -ध्वै अअ १२, २^१
 गृध्^१- पाठ २, २४, -अः आपश्रौ
 १५, १९, ४, बौश्रौ ९, १८ ११,
 भाश्रौ, वाध १६, २३^१, या १४,
 १३, -भ्रा ङ्गृध्व १, ३६, ५, १^१,
 १, ७, ५१, ७××, -भ्राणाम्
 अप ७०^१, ११, २६, विघ ४८,
 ६^१, या १४, १३३^१, -भ्राणि या
 १४, १३
 गृध्-गोमायु-वायस- सै अप ६१,
 १, ११
 गृध्-परिवार^१- -रम् वाध १६, २१,
 २२, २३^१
 गृध्-इयेना(न-आ)रोहण- -णे काध

२७६ : ७
 गृध्-सङ्घ- -ङ्घै अप ७०^१, ११, २९
 √गृभ्, ह्, अस्, ह्^१ पाधा भा
 लुग आत्म ग्रहणे, कया उभ
 उपादाने, गृह्येत् कौसू ८२, २१.
 ङ्गृभ्णामि आपमं १, ३, ३^१, १५,
 ४^१, आगृ १, ७, ३^१, कौगृ
 १, ८, १७^१, शागृ १, १३, २^१,
 पागृ, अमत् आश्रौ ६, ५,
 १८^१, अम. शाश्रौ ९, २०,
 २६^१, गृभ्णातु वाश्रौ २, १, १,
 ३८^१, ङ्गृभाय शागृ १, १९,
 ६^१, ऋप्रा ८, २, ङ्गृभ्णत या
 ७, २६^१, ङ्गृभ्णत् आपश्रौ
 १६, २, १, २०, ३, ३, बौश्रौ,
 ङ्गृभ्णाम् शैशि ६६
 जअ(भ>)भा ऋप्रा ८, ३३^१,
 ङ्गृभ्ण > भा ऋअ २, १०,
 ४७^१, वृदे ७, ५६^१, ऋप्रा ७,
 ३३^१, शैशि ६६^१, पा ७, २,
 ६४^१, ङ्गृभ्णीत् आश्रौ ३, ४,
 १५, शाश्रौ, ङ्गृभ्णमं २, ३, ३^१,
 ५^१, ८^१, आगृ १, २०, ५^१, कौगृ
 २, २, ११^१, शागृ २, ३, १^१,
 भागृ १, ७ १०^१, वैगृ २, ६ :
 ३^१, हिगृ १, ५, ९^१, ङ्गृभ्ण, ङ्गृभ्ण
 १, १२ : २८^१, २९^१, अअ-
 भीष्टाम् माश्रौ ५, २, ९, ६, अअ-
 भीषु शाश्रौ ६, १, ५, माश्रौ ५,
 २, ९, ६, ङ्गृभ्णीत् कौसू ७१,

- a) वैप १ द्र । b) मेधावि-नामन्- । c) ंदा इति पाठ १ यनि शोधः । d) तस्यापत्यीयस्
 तेनदृष्टीयो वा अण् प्र । e) सकृत् गृत्स^१ इति पाठ १ यनि. शोधः । f) पाभे वैप १, १२२५ । द्र । g) या
 १४, १३ पा १, ३, ६९ परामृष्ट. द्र । h) विप । न (क्) प्र उसं (पाठ ३, १२) । १) सप्र गृध्. <> गृध् इति
 पाभे । j) विप । बस । k) सप्र गृध्नुपरिवार <> गृध्नुपरिवारम् इति पाभे । l) या २, २८, ५, १५, ९,
 ८, १०, २३ पावा ८, २, ३२ परामृष्टः द्र । m) पाभे वैप १, १२३६ । द्र । n) पाभे. वैप १, १२३६ । द्र ।
 o) पाभे. वैप २, ३ खं अमत् ऐत्रा ४, १० टि द्र । p) पाभे वैप १, १२३६ । द्र । q) सप्र पतिरेतो गृभाय
 <> प्रति रेतो गृहाण इति पाभे । r) पाभे वैप १, १२३६ । द्र । s) पाभे. वैप १, १२३६ । द्र ।
 t) पाभे वैप २, ३ खं अमहीव मन्ना १, ६, १५ टि द्र । u) पाभे. वैप १, १२३६ । द्र ।

६, ऋग्रभैषम्^a बौश्रौ १७,
४१ १६, आपमं २, ८३, माण
२, २१ १७, अग्रभिसम् हिण् १,
१०, ६†^a, अग्रभम् अग्र १२,
३८†, ऋग्रहम् आमिण् १,३,
४ २^b, १०

जग्रभम् पाण् १, १३, १†^a
गृह्णीते आपश्रौ १६, २१, ८,
बौश्रौ १, १२ ५०, ५२, ५४,
५५×, माश्रौ, गृह्णाति शाश्रौ
३, १७, ८×, काश्रौ, आपश्रौ
१८, २, १^b, हिश्रौ ८, २, ३२^c,
आमिण् १, १, ३: ६†^d, हिण् १, ५, ६,
या १०, २३, गृह्णाते भाश्रौ
५, ४, ११, गृह्णीतः काश्रौ
९, १३, ५, बौश्रौ, गृह्णन्ति
शाश्रौ १८, २४, ९, आपश्रौ,
ऋगृह्णे कौस् ३, ११-१५,
ऋगृह्णामि आश्रौ २, ९, ९, काश्रौ,
आपश्रौ १२, ७, १८^e, २१, २१,
४†, माश्रौ १, ४, १, १५^f, २,
२, १, २^b, आपमं २, ५, २२^g,
माण् १, ७: ८†, वाण् ५, १९†,
हिण् १, २०, १^h, गृह्णातु ऋगृह्णश्रौ
१, १६, ३, ८, ६, २१, १५, ३,
४†, १६, ५, ३†, काठश्रौ, बौश्रौ
९, ३ १९†×, ऋगृह्णीष्व आपश्रौ
१, २५, ७, बौश्रौ १, १० ६†,
भाश्रौ, माश्रौ १, २, ३, ३०^m,
वाश्रौ १, ३, १, २६^m, ऋगृह्णाण

बौश्रौ ७, १६ ४६, ८, ७ ७,
आण्, अगृह्णत आश्रौ ८, १३,
१०, वाधूश्रौ ४, २६: ३, या
७, २६, अगृह्णन् आपश्रौ १८,
१३, १९†^b, बौश्रौ, गृह्णीत बौश्रौ
२५, ११ १६, हिश्रौ, आपम
२, १३, १२†^c, भाण् १, २३
११†^c, गृह्णीयात् आश्रौ १, १०,
३×, शाश्रौ, गृह्णीयाताम् भाश्रौ
८, ७, ५, बौध २, २, ७१,
गृह्णीरन् बौश्रौ २२, ८ २५,
जुस्, गृह्णीयु आपश्रौ १९, २,
१४×, बौश्रौ
जग्राह शाश्रौ १५, १८, १, बौश्रौ,
जगृहु वृदे ३, १३६, जगृह्ण
जुस् ३, १० ३८, साश्र १,
३१७†^b, ग्रहीष्यसि सु १३,
१, ग्रहीष्यामि बौश्रौ ७, ६
३५×, वैश्रौ, अग्रहीत् आमिण्
१, १, ३ १३†^b×, काण् ४१,
१६†^b, माण् १, १०, १५, २२,
५†^b, ऋगृही. कौस् ८७, १२,
अग्रहैषम् सु १४, १
गृह्णाते बौश्रौ १४, २६ १९×,×,
वाधूश्रौ, गृह्णाते आपश्रौ १२,
२७, २, बौश्रौ, गृह्णन्ते आपश्रौ
१२, १८, ११×, बौश्रौ, या १,
२३, गृह्णाते अप ५७, १-४, ३,
गृह्णेरन् आपश्रौ १२, २१, २२
ग्राहयति आपश्रौ ८, ६, २२, ९,

१५, ७†, बौश्रौ, ग्राहयतु वृदे ३,
२१, ग्राहयेत् बौश्रौ २६, ५:
१४, बौण्, ग्राहयेयम् वाधूश्रौ
४, १० २४
जिगृहीषेत् वाधूश्रौ २, १०
६, ९

ऋगृभीत-त या १४, २३, -तान्
कौस् ५, १
गृह्-पा ३, १, १४४, पाण् २, ४,
३१, ४, २, ७५, -ऋ आश्रौ ३,
६, २४, अप ३२, १, ५, अग्र ५,
६, -ऋम् आपश्रौ ११, ७, २,
वाश्रौ, या १३, ३†, -हम्-हम्
शाण् ३, १, ९†, -हस्य हिश्रौ ३,
८, १, ६, ७, १, वाण्, -ऋ
आश्रौ १, ११, ७×, शाश्रौ,
बौण् ३, २२^b, या ३, १३†^b,
-ऋगृह्णामि आश्रौ २, ५, १७, काश्रौ,
-ऋगृह्णामि आपश्रौ ५, १८,
२×, वैश्रौ, -हाणि अप ५५,
६, ३×, -हात् शाश्रौ ४, ५,
१, आपश्रौ ५, ७, ६×, बौश्रौ,
-ऋगृह्णामि आश्रौ २, ५, २, १२,
१७†, शाश्रौ, आपश्रौ ६, २७,
३†^b, १६, १६, ४†, वैश्रौ†^b
१८, १४ १२, १५, हिश्रौ
६, ७, ८†, दाश्रौ ७, ३, ११†^b,
लाश्रौ ३, ३, १३†^b, आपम १,
८, २†, कौण् ३, ४, ३†, ५†^b,
शाण् ३, ५, ३†, ७, २†^b,

- a) पांमे वैप १, १२३६ p द्र । b) पांमे पृ ५६९ ० द्र । c) पांमे पृ ३११ d द्र ।
d) निगृह्णाति इति पाठ ? यनि शोचः (तु हिण् १, ५, ६) । e) पांमे. वैप १, ६५४ m द्र । f) पांमे वैप १,
१२३८ b द्र । g) पांमे वैप १, ६२७ ० द्र । h) पांमे वैप १, १२३७ l द्र । i) सपा गृह्णामि <>
प्रतिगृह्णामि इति पांमे । j) पांमे पृ ६९५ ० द्र । k) पांमे वैप १, १२३६ f द्र । l) पांमे
वैप १, १२३६ j द्र । m) पांमे. वैप १, १२३६ k द्र । n) पांमे वैप १, १२३६ n द्र । o) सपा. हिण् २,
३, ७ बन्नीत इति पांमे । p) पांमे वैप १, १२३६ q द्र । q) पांमे वैप १, १२३८ h द्र । r) वैप १ द्र ।
s) पाठ. ? अहा इति शोच । सपा. गृह्णा दाक्षिणानि <> अहादाक्षिणानि इति पांमे । t) पांमे वैप १,
१२४० n द्र । u) पांमे. वैप १, १२४१ b द्र ।

बौगृ १, ५, ३^{2a}, ६^{2b, 2c}, बौपि २,
४, १८^{2a}, भागृ १, २७ ३^b, मागृ १,
१४, ६^b, हिगृ १, २९, १^{2b, 2c}, २^b,
या छ, ५, शुप्रा ३, १५^{2b, 2c},
-फहाय आगृ १, २, ४, बौगृ २,
८, १९, -हास आमिगृ ३, ८,
२ : ३६, बौपि १, १५ ४३, -हे
शाश्रौ १५, १७, १×४, काश्रौ,
फआपमं १, ९, ४^d, २, ८, ८^e,
फहिगृ १, ११, १^e, १९, ७^d, या
छ, २५^f, ७, ६^f, ८, ५, ११,
१६^f, ४६, -फहेड-हे शाश्रौ
१५, २३, १, आपश्रौ १६,
२६, १, बौश्रौ, या ९, २१,
-हेण वाश्रौ ३, ४९ ४^f,
-फहेभ्य आपश्रौ ५, १, ७×४,
भाश्रौ, -फहेषु आश्रौ ३, ११, ७,
काश्रौ, मागृ २, १७, १^g, हिगृ
२, ४, ५^g, -फहै बौश्रौ १४, २१
१३, माश्रौ १, ४, ३, १, वाश्रौ
गार्ह- पा छ, २, ७५
गार्ह^h- ह्यणि वैध ३, १, २
गृह-कर्मन्- मं आज्यो १०, २,
-मंण आमिगृ २, ५, ९ १, जैगृ
२, ६ : १, -मंणि अप २८, २, १.
गृह-कलविङ्कⁱ- पाग २, १, ४८.
गृह-कारिन्^j- री विध छछ,
३६
गृह-कोष्ठ-प्रवेशन- नम् शंघ
१२
गृह-क्षेत्र- त्रयोः शंघ ३०९
गृह-क्षेत्र-विरोध- खे वाध
१६, १३

गृह-गोधा- -घा काघ २७६:५
गृह-ग्राम-पुर- -राणि अप ६८,
२, ३३
फगृह-^k(घ- >)घी- घी पागृ १,
११, २, ४, जैगृ १, २२ : २०
गृह-दाह- -हे शाश्रौ ३, ४, १३,
आपश्रौ ९, ३, १७, वैश्रौ २०,
७ ९
गृहदाह-वह्नि- -ह्निना वैश्रौ
२०, ८ : ८,
गृहदाहा(ह-अ)भि- -भिना
कप्र २, ९, १५
गृह-दीपक^l- पाग २, २, ९
गृह-देव- -वा अप १९^l, ५, ४,
-वान् अप छ, २, १४
फगृह-देवता- -ताभ्य आगृ १,
२, ४, आमिगृ १, ७, २ ८, वैगृ
३, ७ : ९, ५, २ : १२, वाघ
११, ४, गौघ ५, १४
गृह-द्वार- -द्वार या ८, १०,
-द्वारि आमिगृ २, ६, ४ २२,
बौघ १, ५, ११०
गृह-द्वार- -रम् गोगृ छ, ७, १८,
-रे आमिगृ २, ६, ७ : ५, बौपि
३, ४, २०, शंघ १३२, ३४५,
३४६, -रेड-रे बौघ ३, २, ६
गृहद्वार-पार्श्व- -श्वं गौपि
१, ४, १७.
गृह-धर्म- -र्मम् आमिगृ २, ७,
१० १
गृह-नमन- पा, पाग ८, ४, ३९
गृह-नामन्- -म या छ, ५²,
-मानि निघ ३, ४, १३

गृह-निहित- -तानाम् विध २३,
३१
फगृह-प^m- -०प, -पाय आपमं
२, १८, ३३, भागृ २, ९. ९;
हिगृ २, ९, २
फगृहपी- -०पि, -प्यै आपमं
२, १८, ३४, भागृ २, ९ : ९;
हिगृ २, ९, २
गृह-पति- पाग छ, १, ८४;
६, २, १६०, -तये आश्रौ २,
४, ८, छ, १०, ९, शाश्रौ, -फतिः
आश्रौ १, १०, ५×४, शाश्रौ;
बौगृ ३, १०, ६^{2a}, -फतिना शाश्रौ
छ, १२, १०²¹, आपश्रौ ६, २६,
१²¹×४, बौश्रौ, कौस् ७०,
९²¹, -तिभ्य भागृ ३, १३ :
९^f, -तिम् आश्रौ १, १०,
४, ८, १३, १४, शाश्रौ १, १५,
२^f×४, काश्रौ, आपश्रौ छ, १,
१०²¹फ^m, भाश्रौ छ, २, २²¹फ^m;
हिश्रौ १, २, ५²¹फ^m, -ती निस्
१०, ८-१९, -तीनाम् बौश्रौ
१०, ५६ १^f, चाश्र १८ : २²¹;
-फंते आश्रौ २, ५, १२, शाश्रौ
१, १५, ४, २, १५, ५×४, काश्रौ;
-तेः आश्रौ १, १०, ६×४;
आश्रौ, -तौ आश्रौ ६, १०, २६;
शाश्रौ छ, ९, ७×४, दाश्रौ.
फगृहपत्नी- -नी
आपमं १, २, ८; कागृ २५, ५;
बौगृ १, ५, ३^{2a}, जैगृ
गार्हपत- पा छ, १, ८४;
-ते काश्रौ १, ६, १६, २२, ४, ७;

a) ग्रं इति पाठः यनि शोष । b) पामे वैप १, १२४० ऽ द्र. । c) पामे. वैप १, १२४१ ऽ द्र. ।
d) पामे वैप २, ३ख गृहेषु मंभा १, १, १३ टि द्र. । e) पामे. वैप १, १७४५ ऽ द्र. । f) पामे वैप १, १२४०
k द्र. । g) सपा. गृहेषु <> देवेषु इति पामे. । h) विप. । तस्येदमीयः ष्यः प्र उसं (पावा छ, १, ८५) ।
2) तु पागम । j) = वरटा- (कीट-विशेष- [तु मनु १२, ६६]) । k) वैप १ द्र. । l) पामे. वैप १, १२४२ ऽ
द्र. । m) पामे वैप १, ११२८ ऽ द्र. । n) ०तीना इति पाठः यनि. शोषः ।

लाश्रौ ८, ६, १, पावा ६, २, ४२,
मीसू ६, ६, २१

१ गार्हपत्य^२ - पा ४, ४, ९०,
-१०त्य आपश्रौ २, ५, ९, बौश्रौ
१, १२ ३१, भाश्रौ, -त्यः आश्रौ
२, २, १३, ५, १२१^३××, काश्रौ,
-त्यम् आश्रौ २, २, १, ३, १५,
१७, ५, २, ७, ११, १९, ३५,
३७, शाश्रौ, काश्रौ १७, १, ३,
वैताश्रौ २८, २४, -त्यस्य आश्रौ
१, १०, ४××, शाश्रौ, -त्यात्
आश्रौ १, ११, ४, ९, २, २,
१, १४, शाश्रौ २, ६, २××,
१५, ५^४, काश्रौ, -१त्यानि
शाश्रौ ४, १२, १०, माश्रौ,
-त्याय माश्रौ १, ५, २, ९,
आपमं ११, ३, ३, ९, ४, पाग्य,
-त्ये आश्रौ १, १२, ३२××,
शाश्रौ, -१त्येन शाश्रौ २, ८, ८,
आपश्रौ ६, ५, ६, आमिगृ

गार्हपत्य-कर्मन्-

-मैभ्य हिश्रौ ७, ८ १३, -मार्णि
वाश्रौ १, ६, २, ५, हिश्रौ ७, ८: १३

गार्हपत्य-ऋव्याद्-

-व्यादौ कौसू ७०, १०

गार्हपत्य-चित्ति-

-तिः वाधूश्रौ ४, ११५: २, १४,
-तिम् आपश्रौ १६, १५, ५
वैश्रौ १८, १२ २६, -तीः
वाधूश्रौ ३, ७९ . १४, -ते
आपश्रौ १६, १४, १, ४, वैश्रौ
१८, १२ . ७, ११, हिश्रौ, -तौ
आपश्रौ १६, १४, ५, बौश्रौ २२,
४ . ४, वैश्रौ, -त्याम् वाधूश्रौ
४, ११५: १६, -त्यै वाधूश्रौ
४, ११५: ६

गार्हपत्य-दक्षिणामि-
-श्री आपश्रौ ९, ३, २१, हिश्रौ
३, ६, २८××, -ग्न्यो वाश्रौ १,
३, २, २६, हिश्रौ १, ८, १९××

गार्हपत्यदक्षिणा-
मि-स्थान- > णीय- -यम्
वाश्रौ १, २, ३, ३८

गार्हपत्य-देश- -शम्
आपश्रौ १, १०, ८, -शे वैश्रौ
३, ४ २२, ८ ११, हिश्रौ १,
२, ५७××, कौसू २२, १४

गार्हपत्य-पश्चात् अप
४५, २, १७

गार्हपत्य-प्रवाद- -द्
हिश्रौ २, ७, ६८

गार्हपत्य-लक्षण^०-
-गस्य माश्रौ १, ५, २, ९, ३, १,
अप्राय ५, १, -णे माश्रौ १, ५,
२, २०, वाश्रौ १, ४, २, १०

गार्हपत्य-लोक-
मृण्णा^१- -णा काश्रौ १७, ७,
२६

गार्हपत्य-विधान-
तस्र (.) अप २३, १०, ४

गार्हपत्य-शब्द-
-ब्द् आपश्रौ १, १०, २१, भाश्रौ
१, १०, १५, -ब्दम् वैगृ ४,
६ १२.

गार्हपत्य-श्रुत- -तम्
कौसू २२, १४

गार्हपत्य-श्रोणि-
-णिम् वैश्रौ २, २ . १८

गार्हपत्य-सयुक्त-
-कानि हिश्रौ ५, २, ४

गार्हपत्य-सकाश-
-शात् बौश्रौ २६, ५ ९, -शे

बौश्रौ २५, ११ २७

गार्हपत्य-स्थान- -ने
काश्रौ ४, ११, ८, मागृ १, ६, २.

गार्हपत्यस्थानीय-
-यम् भाश्रौ १, १०, १३

२ गार्हप(त्य >) त्या^०-
-त्याः वाधूश्रौ ४, ११९: २

गार्हपत्या(त्य-अ)-
गार- -रे काश्रौ ४, ७, १४, ८,
१, आपश्रौ ४, ३, १७, भाश्रौ

गार्हपत्या (त्य-अ)-
मि- -मिम् वैश्रौ ४, १० १२;

-शौ वैध २, ६, ३

गार्हपत्या(त्य-आ)-
ज्य- -ज्यम् अप्राय २, ३

गार्हपत्या(त्य-आ)-
दि- -दीन् वैध २, ३, ४, ४, ३,
७, ५

गार्हपत्या(त्य-अ)न्त-
-न्ते माश्रौ १, २, ५, २०, ७, ४,
११, ६, १६, २, २, १, ४१××

गार्हपत्या (त्य-अ)
न्वाहार्यपचन- -नौ आपश्रौ १,
७, १३

गार्हपत्या(त्य-अ)न्वा-
हार्यपचना(न-आ)हवनीय-सभ्या
(भ्य-आ) वसथ्य- -थ्यानाम्
वैश्रौ १, ८ ९

गार्हपत्या (त्य-आ)यतन-
-नम् काश्रौ ४, ८, २१, आपश्रौ
५, ४, २, १२××, बौश्रौ, -नात्

भाश्रौ ५, २, १८, हिश्रौ ३, ३,
९, -ने आश्रौ ३, १२, २५;
आपश्रौ

गार्हपत्या(त्य-अ)-
चिस- -चिं वैश्रौ २, ४: ३

a) = तत्स्थान- [काश्रौ १७, १, ३ प्रष्ट.] शिष्टं वैप १ द्र । b) पाभे. वैप १, १२४२ p द्र. । c) चस-
रूप. = कुरुड-चिह्न- । d) मलो वस पूष. = चिति-, उप = इष्टका- । e) विप (इष्टका- [तु ०.] ।

गाहृपत्या(त्य-आ)
हवनीय- -ययो आश्रौ ३,
१०,१५, १३, ६, आपशु ४,१,
५^२, काशु, -यौ आश्रौ २, ५,
२, १२, ४, २, १२, शाश्रौ २,
१२, ६, काश्रौ १, ८, २३, २६,
२, ३८, आपश्रौ
गाहृपत्याहवनीय-
संब(न्ध>)न्धा^१- -न्धाम्
वैश्रौ १, २. १२
गाहृपत्ये(त्य-इ)
ष्टका- -काः वैताश्रौ २८, २५
गाहृपत्यो(त्य-उ)प-
स्थान- -नात् भाश्रौ १, १०,
१२
गाहृपत्योपस्था-
ना(न-अ)न्त^२- -न्तम् भाश्रौ
८, २०, ६
गाहृपत्यो(त्य-उ)
रुमुक- -कात् शाश्रौ ३, १९, १४
गृहपति-गोत्रा(त्र-अ)न्वय-
-याः आश्रौ १२, १०, ३.
गृहपति-भक्त- -क्तम् अप
१, २७, २
गृहपति-मरण- -णे आश्रौ
१२, ६, ३४^२, काश्रौ २४, ६, १८.
गृहपति-महानस- -सात्
गोश्र १, ४, २४
गृहपति-मुख- -ख्यात् वाश्रौ
३, २, १, १२
गृहपति-यविष्ट- -ष्टयो.
ऋअ २, ८, १०२
गृहपति-वत् मीसू १०, ६,
५५
गृहपति-वदन- -नम् शाश्रौ

१०, २०, १
गृहपति-वर्जम् काश्रौ १२,
१, १८
गृहपति-सप्तदश- -शा
आश्रौ ४, १, ८, शाश्रौ १३,
१४, १
गृहपत्य (ति-अ)न्वारम्भ-
-म्भ काश्रौ १२, १, १३
गृहपत्या(ति-आ)हवनीय^३-
-ये काश्रौ १२, १, १६
गृह-पोषण- -णे आज्यो ४, ८
गृह-प्रद- -द. वाघ २९, १४
गृह-प्रपदन- -नम् आश्र २,
१०, १
गृह-प्रवेश- -न्त आज्यो ८, ८
-शम् आज्यो ५, ९
गृह-प्रवेशन- पाग ५, १, १११^०,
-नम् कौश्र ३, ३, ८
गृहप्रवेशनीय- पा ५, १,
१११
गृह-भू-कुड्या(ज्य-आ)द्यु(दि-
उ)पमेत्- -त्ता विध ५, १०८
गृह-मन्थ- -ध्ये माश्र २, १२,
६, वैश्र ३, ७ : ११
गृह-मध्य(म>)मा- -मायाम्
माश्र २, १२ ५
गृह-मही-रथ- -थाः अप १४,
१, ८
†गृह-मेघ^४- -घम् आपश्रौ ५,
२६, ५, भाश्रौ ५, १८, १, -घान्
माश्रौ १, ७, ५, २३^०, -०घास
आश्रौ २, १८, ४, शाश्रौ ३, १५,
९, -घे आपध १, ४, २९, २,
२५, ७; हिघ, -घेभ्यः आश्रौ
२, १८, ३; शाश्रौ; माश्रौ १,

७, ५, ११, २२[†]
गृहमेधीय^५- पा ४, २, ३२;
-य शाश्रौ १४, १०, १६, बौश्रौ
५, १० १५, २५, २ १७;
भाश्रौ, -यम् बौश्रौ ५, १० ९,
हिश्रौ ३, ६, ५[†], -यस्य आपश्रौ
८, ९, ९, बौश्रौ २१, ३ १४;
१६×५, भाश्रौ, -यात् भाश्रौ ८,
१२, १७, -यस्य भाश्रौ ८, ११,
९, माश्रौ १, ७, ५, १०, हिश्रौ
५, ३, २, -ये बौश्रौ २१, ६ :
१८, माश्रौ १, ७, ५, ५, -येन
आपश्रौ २२, ८, १६, काश्रौसं
२९ : ७, बौश्रौ.
गृहमेधीय-प्रभृति-
-त्तिनि बौश्रौ १७, ६० १०.
गृहमेधीय-वत् मीसू १०,
७, ५०
गृहमेधो(ध-उ)पदेशन-
-नम् आपध १, २, ७, हिघ १,
१, ४०
गृहमेध्य- पा ४, २, ३२.
गृह-मेधिन्^६- -धिनः आश्रौ
१०, ७, १, शाश्रौ १६, २, २;
आपश्रौ, -धिनम् कौश्र ३, १०,
३५, शाश्र २, १६, ६, -धिनाम्
वैताश्रौ ९, २, आज्यो ५, ८;
-धिनो आपध २, १, १, १५, हिघ
२, १, १, १४; -धिन्य आपश्रौ
८, ९, ८, २०, १४, १०[†];
काश्रौ ५, ६, ६, बौश्रौ, -†धी
आपश्रौ १७, १६, १८, वैश्रौ १९,
६ : १०८, हिश्रौ.
गृहमेधिनी- -†नी
आपश्रौ ३, १०, ९, भाश्रौ ३,

a) विप । बस । b) मलो. कप. । c) तु. पागम. । d) = औपासन-होम- । वैप १ द्र. ।

e) पाभे वैप २, ३खं. गृहमेधिन. टि. द्र. । f) पाभे. वैप २, ३खं. गृहमेधिभ्यः टि. द्र. । g) वैप १ द्र. ।

h) पाभे वैप १, १२४३ । द्र. .

१२,८, -नीनाम् वाध २१,१४
 गृहमेधि-व्रत- -तम् गोष्ट १,
 ४,१८
 गृहमेधि-स्विष्टकृत्- -कृतौ
 काश्रौ ५,६,१७
 गृह-यु^१- पाठना १,३७.
 गृह-राज^२- -जाय बौष्ट २, ८,
 १९†
 गृह-लाभ- भ. वाध २९,१३.
 †गृह-वत्- -वान् आपश्रौ १,
 २,११^३, भाश्रौ १,३,४^३
 गृह-वृद्धि- -द्धिम् आमिष्ट २,
 ५,९ : १, जैष्ट २,६ १
 गृह-शयना(न-अ)लङ्कार-
 वासस्- -सासि शंघ २६२
 गृह-शान्ति- -न्तिम् आमिष्ट २,
 ५,९ : २, जैष्ट २,६ २
 गृह-संकाश- शे कौस् २४,
 ११, ७७,१४.
 गृह-सर्प- पाग २,१,४८^०
 गृह-स्थ- -स्थ आमिष्ट ३, १०,
 १.६××, बौष्ट; -स्थस् बौपि ३,
 १,१०, वैष्ट ७,१ १४, गौपि,
 -स्थस्य आमिष्ट २, ७, ३ : १,
 ३, १०,४ ३०, बौष्ट, -स्था
 वैध १, ५, १, -स्थान् आमिष्ट
 ३, ११, १ ११, वाध ११,
 १७, -स्थानाम् अप ५३, ५,
 २, वाध ६, १९, शंघ, -स्थे
 वाध ८,१५, -स्थेन आमिष्ट २,
 ७,११ ९
 गार्हस्थ्य^४- -स्थस्य गौघ
 ३, ३६^२
 गार्हस्थ्य^५- -स्थस्य वैष्ट

३,४ १४, ४,२ १०, आपघ
 गार्हस्थ्य-नैयमिक-
 -केषु वाध १९, ३
 गार्हस्थ्य्या(स्थ्य-अ)
 ङ- -ज्ञानाम् वाध १९, १३
 गार्हस्थ्य्या(स्थ्य-अ)
 लुसरण- -णस् वैध १,३, ३
 गृहस्थ-धर्म- -र्माणि वैष्ट ६,
 १८ ८, -मान् आमिष्ट ३, ७,
 ४. ३२ बौपि
 गृहस्थधर्म-वृत्ति- -त्तौ
 शंघ ४६१^०
 गृहस्थ-वत् वैष्ट ५,७ : १३
 गृहस्थ-साधु- -धून् गौपि
 २,२,१०
 गृहस्था(स्थ-आ)श्रम->
 °मिन्- -मी वैध ३,१,१
 गृहा(ह-आ)गत,ता- -तम् वैध
 १,४, १, -ता. गौपि १, ७, ९,
 -ताम् गोष्ट २,४,६
 गृहा(ह-आ)नन्^१- -नौ सु २,३
 गृहा(ह-आ)वश्यक- -कानि शंघ
 ३३५
 गृहा(ह-आ)श्रम- -मात् विध
 ५९, २७
 गृहाश्रमिन्- -मिण विध
 ३३, २, ५८, १, -मी विध ५९,
 १, २८, २९
 गृहा(ह-अ)श्व-रथ-भूम्य(मि-अ)
 र्थे- -र्थे शंघ १४४
 गृहिन्- -ही आमिष्ट ३, १०, ४ :
 २३, कप्र ३, २, २, शंघ
 गृहिणी- -णी कौस् ७३, १†,
 -णीम् अप २०, ७, १०

गृहिणी-भक्त- -क्तम्
 अप १, ३०, २
 गृहो(ह-उ)त्सर्ग- -र्गः शाष्ट ५,
 ११, १
 गृहो(ह उ)पकरण- -णानि वाध
 १७, ४५
 †गृह्य, ह्या^६- -ह्य शाष्ट ५, २, ४;
 गोष्ट १, १, २१, ३, १६, द्राष्ट,
 -ह्यम् आष्ट १, ९, १, कौष्ट
 ३, ४, ५, शाष्ट, -†ह्या आपश्रौ
 ८, ११, २, बौश्रौ ५, १६ :
 ६, भाश्रौ, -ह्याणि बौश्रौ २९,
 १२ : ६, आष्ट १, १, १, आमिष्ट
 २, ७, २ . १××, हिष्ट, -ह्यात्
 द्राष्ट ३, २, १, -ह्यान् काश्रौ ४,
 १२, २३, वाध ११, ८, -ह्यानि
 बौष्ट २, ६, १७, -ह्याभ्यः पाष्ट २,
 ९, २, काष्ट ५४, ४, बौष्ट, -ह्ये
 आष्ट १, २३, २५, कौष्ट, -ह्येषु
 कौस् ८९, १६
 गृह्य-पुरुष^७- -ष वाष्ट १, १
 गृह्य-प्रायश्चित्त- -त्तानि
 आमिष्ट २, ७, ४ १, भाष्ट ३,
 १८ १
 गृह्य-स्थालीपाक- -कानाम्
 पाष्ट १, १, १
 गृ(ह्य >)ह्या-कर्मन्^१-
 -र्माणि गोष्ट १, १, १, द्राष्ट १,
 १, १
 गृह्या(ह्य-अ)भि- -भिम् बौष्ट
 ३, ५, ९, अप २२, १, ३, -मौ
 कौष्ट १, १७, ७, वाध ११, ३,
 वैध ३, १, २
 गृह्यालु- पा ३, २, १५८

a) = गृह-गति- । b) वैप १ द्र । c) तु पागम । d) = आश्रम-विशेष- । e) °वृत्त इति-
 मिताक्षरा [याज्ञ ३, २९०] । f) विप (ऋषि-) । बस । g) विप, नाप (बाल-, देवता-, कर्मन्- प्रसृ) ।
 h) = परिशिष्ट-विशेष- । i) कस पूष छान्दसो दीर्घः (तु गृह्यासंग्रह [१, ३३-३८], भट्टनारायणः, MW,
 वैतु छरस्कन्दः द्वे पदे इति) ।

गृहीत, ता- पाग ५, २, ८८, -त
काश्रौ १०, ७, ८, बौश्रौ, -तम्
आपश्रौ ९, ४, १३, १६, ९, भाश्रौ,
-तम् ऽ-तम् बौश्रौ ३, १६: १९,
-तस्य आपश्रौ २, ७, १२, भाश्रौ,
-तानाम् आश्रौ १०, १, १७,
-ताम् अप्राय २, ५, -तायाम्
अप ३७, ६, १, वैध ३, ११, ३,
-ते शाश्रौ ३, २०, २०, ७, १५,
१७, हिश्रौ, -तेन अप १, ३१, ७,
३५, ३, विध ६६, १, ७९, १,
-तेषु जैश्रौ ९. २५, वैताश्रौ
३०, १०
गृहीत-नार्भा-लिङ्ग- -ज्ञानि
वैगृ ३, १० १
गृहीत-ग्रन्थ^१- -न्थ. नाशि १,
६, २२
गृहीत-दर्भ^२- -र्भ अप १८^३,
८, १
गृहीत-धन-प्रवेश- -शे विध
६, ९
गृहीतधनप्रवेशा(श-अ)र्थ-
-र्थम् विध ६, ९
गृहीत-पाणि^४- पावाग २, २,
३६
गृहीत-पा(द>)दा^५- -दाम्
विध ९९, १
गृहीत-मधुपर्क^६- -र्क आम्रिगृ
१, ६, १ ९
गृहीत-मूल्य^७- -ल्यम् विध ५,
१२७.
गृहीत-शिश्न^८- -श्न विध ६०,
२४
गृहीत-सोम^९- -सम् काश्रौ ७,
९, १

गृहीत-स्तोत्र^{१०}- -त्र: जैश्रौका
१८०
गृहीता (त-अ)नुगमन- -ने
काश्रौ २५, ३, १५
गृहीता(त-अ)स्तमित- -तयो:
अप ५३, ६, ४
गृहीतिन्- पा ५, २, ८८
गृहीत्वा आश्रौ १, ११, ९××, शाश्रौ,
गृहीत्वाऽगृहीत्वा काश्रौ ९, ५,
९××
गृह्णत्- -ह्णत् बौगृ १, ८, ६, -ह्णता
जैश्रौका १०४, -ह्णत्सु जैश्रौ
८ ४, -ह्णत् आश्रौ ३, ६, १६,
आपश्रौ, -ह्णत्. बौश्रौ २६, १२
२३, -ह्णत्सु वैताश्रौ ५, ७,
३०, १०
गृह्णती- -तीम् कागृ १४, ८
गृह्णन्ती- -न्तीम् गोगृ २, १, ७
गृह्णाति-> >ति-कर्मन्- -र्मा या द,
८
गृह्णान- -न: बौश्रौ १, १२ :
५४××, -ना काश्रौ ८, १, १८,
बौश्रौ
गृह्य आम्रिगृ २, ६, ६ : २०, द्रागृ
३, १, १४, बौध १, ४, ९××.
गृह्य- पा ३, १, ११९
गृह्यमाण, णा- -ण अप ५३, २, ३,
शुअ १, ४९०, -णम् निसू १०,
८ ३६, -णान् माश्रौ ५, २, १६,
१२, -णानि माश्रौ ५, २, १६,
१०, हिश्रौ ६, २, ९, -णासु
माश्रौ १, ४, १, १२, बृदे ५,
१५४, -णे आपश्रौ १३, ९, ४,
जैश्रौका, -णेषु शाश्रौ ७, १५,
१५, आपश्रौ १४, ९, ४, बौश्रौ

गृभ्- -भय या ३, ३६
ग्रहण^१- पाउभो २, २, १९४, -णम्
काश्रौ ३, ६, १८, ५, ४, ६××,
९, ५, १५^२, आपश्रौ, पा ५, २,
७७, पावा १, ४, ५१××,
-णस्य तैप्रा १, २२, मीसू १०,
७, ३३××, -णा माश्रौ २, ४,
२, २^३, -णात् काश्रौ ७, ५, २४,
१२, ६, २४, आपश्रौ, -णानि
आपश्रौ १३, २, ५, हिश्रौ ८, ४,
६, -णे आपश्रौ १८, १३, १९,
बौश्रौ, पावा २, ४, ७७, -णेषु
हिश्रौ ९, ७, २१, पावा १, १,
५७
ग्रहणी- -णी^४ कौसू २९, २,
-ण्यौ^५ आपश्रौ १८, २, ६, हिश्रौ
१३, १, १८
ग्रहण-काल- -ले अप ११, १,
२, १३, १, २
ग्रहण-निर्वाप- -पे बौश्रौ २७,
४ २१
ग्रहण-प्रतिषेध- -धाम् पावा १,
३, ९
ग्रहण-प्रदान- -ने आपश्रौ १२,
२७, ३
ग्रहण-भेद- -दात् काश्रौ ९,
४, २३
ग्रहण-मन्त्र- -न्त्र बौश्रौ २५,
२३, ६
ग्रहण-लवन-स्तरणा(ण-आ)ज्य
ग्रहण- -णेषु काश्रौ १, ७, ९
ग्रहण-विशेषण-त्व- -त्वात् पावा
१, १, १२
ग्रहण-विसर्ग- -र्गौ वैगृ २, १३ :
१७

a) विप । बस. । b) तु पागम । c) वैप १ द्र. । d) भाप, नाप (उपराग- [अप]) ।

e) ग्रहग्रहणम् इति Web । f) = मन्त्र-विशेष- (तु. मै १, ३, १६ प्रसृ) । g) = कटक-बन्ध- । h) = ऋग्-
विशेष- (तु मै १, ११, ४) ।

अहण-शक्ति- -क्तिः माशि १६,४
 अहण-सयुक्त- -क्ते आपश्चौ १८, १३, २०
 अहण-सादन- -ना आपश्चौ १२, १५, १०, -नौ आपश्चौ १२, १५, ११, १८, १०××, वैश्रौ
 अहण सादन-प्रत्यसन- -ना आपश्चौ १६, ३३, १, वैश्रौ १८, १६ ६८
 अहण-सादन-स्तोत्रोपाकरण- होम-भक्षाहरण-भक्षण- -गानि काश्रौ १२, ४, १५^०
 अहण-सादना(न-अ)वदान- प्रदान- -नेषु काश्रौ १, ५, १२.
 अहणा(ण-आ)च्छादन- -ने अप ६१, १, २४.
 अहणा(ण-आ)दि- -दि काश्रौ २५, ७, ७, -दिभि शंघ ११५
 अहणा(ण-आ)नर्थक्य- -क्यम् पावा १, १, ३४
 अहणा(ण-अ)न्त^०- -न्तम् आगृ १, २२, ३, भागृ ३, ५ : २, बौध १, २, ४, गौघ २, ५४
 अहणा(ण-अ)र्थ, र्था- -र्थम् मीस् ९, २, १३, -र्था मीस् ७, २, १५
 अहणा(ण-आ)सादन- -ने आपश्चौ ८, १४, ७.
 अहणा(ण-आ)सादन-प्रोक्षण- -गानि शागृ १, ३, ४
 अहणो(ण-उ)पाधि- -धीनाम् पावा १, १, ७२

अहणि^०- पाउ ५, ६७
 अहणि- पाउभो २, २, १९४
 अहीतव्य, व्या- -व्यः आपश्चौ १२, ८, १२, बौश्रौ २४, २५ १^२××, या ३, ३, -व्या जैश्रौका १७०, -^०व्या बौश्रौ १४, ११ : २८, २९××, भाशि ८८, -व्यौ आपश्चौ १२, ८, १३, १४^२
 अहीतुम् आपश्चौ १२, ८, १०, हिश्रौ ८, २, ३२^०, वैश्रौ १५, ९ ७
 अहीतु-काम- म. अप ५३, १, २
 अहीव्यत्- -व्यत् द्राश्रौ १५, २, ७, लाश्रौ ५, १०, ७, -व्यन् आपश्चौ १, १६, ४, बौश्रौ
 अहीव्यमाण- -ण बौश्रौ २९, ४ १, -णेषु द्राश्रौ १५, २, ११, लाश्रौ ५, १०, ११.
 आह- पा ३, १, १४३, पाग ३, १, १३४^०
 आहक- -क अप ४७, १, १४
 आहम् माश्रौ २, ३, ८, २××
 आहयित्वा बौश्रौ ५, १ ३१, ५ : १९××, वागृ १४, ३
 †आहि^०- -हिम् कौस् ६१, २२, -ह्या अप्रा २, २, १९^३, -ह्याः आपमं २, १२, १०, आम्रिगृ २, १, ४ ९, हिगृ
 आहिन्- पा ३, १, १३४
 आहुक- -क भाशि ६४^०, -का हिश्रौ ११, ३, १९
 आह्य, ह्या- -ह्यः आपश्चौ १२, ८, ६, १४, २६, १^०××, हिश्रौ, -ह्यम्

कप्र २, ५, २१, अप ३८, १, ६, याशि २, ११७^२, -ह्या कप्र १, ८, १७, -ह्या वैश्रौ ११, १० ६, १४××, कप्र ३, ७, ३; अप, -ह्याणि वैश्रौ ११, ११ : ८, -ह्याम् विव ५७, ११
 आह्य-क- -कम् आम्रिगृ २, ७, ७. ९
 आह्य-लोक^०- -क बौश्रौ २१, २१ ४
 जिघृक्षत्- -क्षन् गोगृ १, १, ८, २०.
 गृष्टि^०- पाउभो २, १, १८८^०, पाग ४, १, १३६, -ष्टि माश्रौ ५, २, १०, १३, अप १, ५०, ३, -ष्टे जैगृ १, ५ १, कौस् १९, १५, -ष्ट्यै बौश्रौ २८, ४ ८.
 गाष्ट्य^०- पा ४, १, १३६
 गृष्टि-दामन्- -म कौस् २४, ७.
 गृह- प्रष्ट √गृभ्, ह् द्र
 √गृ (शब्दे) √गृ द्र
 √गृ^१ पावा. तुदा पर निगरणे, गिरति या ९, ४, १०, २३, १४, १८^२, २१^२, गिलति या ९, २४
 †जगार बौश्रौ १४, ७ ४, भाश्रौ ६, १, ९, या १४, १८^०, अगारीः या ६, ८
 †अजीग^१ निघ ४, ३, या ६, ८^०, ऋप्रा १, १०३, शुप्रा १, १६८, तैप्रा ८, ८
 गरण-> गरण-वत्- -वान् या ७, १८
 गरमाण-> ण-रोहिन्- -हि या ६, १७

a) तु. चौसं. web च, वैतु कासं णप्रदानस्तो^० इति । b) विप । बस. । c) = [शरीरस्थ-] कला- विशेष- (तु अष्टाङ्गहृदये शारीरस्थानम् [३, ५०]) तात्स्थ्यात् = प्रहृषी- [रोग-] । d) गृही^० इति पाठः^१ यनि शोध^१ । e) तु पाका । गाह- इति भाण्डा । f) वैप १ द्र । g) सङ्कत् पाभे. वैप १, १२४५ अ द्र । h) <√गृ [निगरणे] । i) या २, २८, ६, ८, ९, ८ पा ८, २, २०, २१ पावा १, ३, ५१, ७, २, ११४; ८, २, २१ परामृष्ट द्र ।

गिरण- षे अप ४८, ४९[†]
गिरति-> ण्ति-कर्मन्- -र्मा या ६,
८
गिल- -ले पावा ६, ३, ७०
गिल-गिल- -ले पावा ६, ३, ७०
गीर्त्वा बौश्रौ १८, ४७ • १, २[†], २४,
आपगृ ७, १९, ७
गेप् पाधा भ्वा आत्म कम्पने
गतौ च
गेव् पाधा भ्वा आत्म सेचने
गेष् पाधा भ्वा आत्म अन्वि-
च्छायाम्
ग- , गेषु- √गै द्र
ह- पाग २, ४, ३१, फि ३, -हम्
पावा १, ४, १, -हाव वागृ ४,
२१, वैगृ ५, २ १, -हे वैगृ ६,
१८ ३, पा ३, १, १४४
गेहा(ह-अ)धि- -श्रौ कागृउ ४०
११
गेह-दाह- -हे काश्रौ २५, ४, ३६
गेह-द्वार- -रम् द्रागृ ४, २, १३.
गेहा(ह-अ)न्तर- -रम् आमिगृ २,
४, ६ • ४२
गेह-क्ष्वेडिन्-, °तृस- , °दाहिन्-,
°दस-, °धृष्ट-, °नन्दिन्- ,
°नर्तिन्- , °नर्दिन्-, °पडु- ,
°पण्डित- , °प्रगल्भ- , °भेलि-
न्- , °मेहिन्- °विचितिन्-
°विजितिन्-, °व्याड-, °शूर-
पा, पाग २, १, ४८, ६, २, ८१
गै^d पाधा भ्वा पर शब्दे, गायते
माश्रौ ४, ४, ३२, वैश्रौ,
गायति शाश्रौ ५, १२, ३, १६,
१७, ४, काश्रौ, गायत बौश्रौ

१५, ९. १०, हिश्रौ १४, २, ६,
१८, १६, ६, ४०[†], बौगृ,
गायन्ति आश्रौ ७, ८, ३[†],
†शाश्रौ ११, ११, १२, १२,
२६, २२××, काश्रौ, गायसि
आपम १, १३, १[†], बौगृ, †गाये
जैश्रौ ८. १६, द्राश्रौ २, ४, ११,
†गायत् शाश्रौ १०, ११, ६, ११,
११, ९, ऋअ २, १, १७३,
गायात् आश्रौ ९, ९, ८, १०, ७,
९, शाश्रौ, †गायतु आपश्रौ
२१, २०, २[†], हिश्रौ, †गाय
आश्रौ ८, १, १८, ९, ११, २१,
शाश्रौ, वैताश्रौ १७, २[†], कौस्
२३, २[†], ५०, १३[†], ५२,
२५[†], अअ ६, १[†], †गायतम्
आपगृ १४, ४, बौगृ १, १०,
१०, †गायत, > ता आश्रौ
७, ३, २××; शाश्रौ, अगायन्
वाधूश्रौ ४, ४७ १, ६, गायत
नाशि १, ६, १५, गायत्
आपश्रौ १५, १९, ११, भाश्रौ,
जैश्रौ २२: १६[†], २५: ३[†],
गायेताम् आपश्रौ २०, ७, १, २१,
२०, १[†], गायेयु आपश्रौ २१,
१९, १९[†], जैश्रौका १८५
जगौ वृदे २, ३८, ४०××, जगु
वृदे ७, १०१, गास्यामि वाधूश्रौ
४, ४७ ६, पागृ १, ७, २[†],
†गास्याम् मागृ १, १०, १५,
वागृ १४, १३
गीयते शाश्रौ १६, ८, २८××, वैश्रौ
८, १४ ३, हिश्रौ, गीयन्ते माशि
१, ७, गीयताम् जैश्रौका ५४

गापयेत् द्राश्रौ २, १, ११, लाश्रौ
१, ५, ८[†], कौगृ
गातव्य- -व्यम् जैश्रौका ४०, ५४
गाथक- पा ३, १, १४६.
गा(थ>)था^a- पाउ २, ४, -थया
बौश्रौ १६, ६: ५, निस् २, ११:
३०[†], अप, -था भागृ २, २१:
१०, अप ४८, १०२[†]××, विध
८०, १३, ८३, २०, ८८, ३, निघ
१, ११[†], -था काश्रौ २०, २,
७[†], बौश्रौ, -थानाम् काश्रौ
१५, ६, ३, -†थाम् शाश्रौ १८,
१५, ५[†], वाधूश्रौ ४, ४७ ५, ६;
१२, पागृ, -थाया आश्रौ ९,
३, ११, शाश्रौ, -थासु वाश्रौ ३,
३, ३, ३३, ४, १, ३६, ऋत २, ४,
८, -थे विध ७८, ५१
गाथा-कार- पा ३, २, २३
गाथा-मिश्र, आ- -अम् या ४,
६, -आ आपश्रौ १८, १९, १०;
हिश्रौ १३, ६, ३५.
गाथिक- -कम् नाशि १, १, २.
†रगाथिन्^b- -थिनः आश्रौ ६,
४, १०, ७, २, ३, शाश्रौ, या ७, २.
गान- -रम् काश्रौ ४, ९, ५, जैश्रौका
११९, १५९, द्राश्रौ, -नस्य
नाशि १, ३, ११[†], -नेषु कप्र ३,
८, २१
गान-काल- -रम् जैश्रौ २२ १;
२३: १, जैश्रौप १, -ले द्राश्रौ
१५, ४, १२
गान-जाति- -तिषु निस् १, ६: १.
गान-संयोग- -गात् मीस् ९, १,
५५

a) वैप १ द्र । b) तु पाका । c) तु पागम । d) या १, ८, ७, १२ परामृष्ट द्र । e) सप्र
त्यतः<>गायेताम् इति पाठे । f) शोघार्थं वैप १, ६२६ । द्र । g) गं इति पाठः^१ यनि शोघ ।
१) परस्परं पाठे । २) गायत् इति पाठः^२ यनि. शोघः (तु द्राश्रौ अग्निस्वामी च) । j) थम् इति पाठः^२ यनि.
शोघ (तु ऐआ ५, २, १०) । k) थनं इति लासं^१ ।

गायत्-यत् आश्रौ ८, ७, २३,
वाधूश्रौ ४, ४७ ९, द्राश्रौ,
-यत्सु कौसू ९३, १३, अप ७२,
२, २, -यन् माश्रौ ६, १, २, २७,
लाश्रौ १०, १९, १०, -यन्तः
पागु ३, १०, ९, -यन्तम्
वाधूश्रौ ४, ४७ : ९
गायन्ती-न्त्य आपश्रौ २१,
१९, १८, बौश्रौ
गायत्र^३- पा ५, ४, ३८^b, -त्र
आश्रौ ४, १२, १, शाश्रौ,
वैध^c १, ३, १, २, -त्रम्
आश्रौ ४, १३, ७××, शाश्रौ,
या १, ८^f, ऋत्रस्य बौश्रौ १३,
३२. १०^d, द्राश्रौ ९, ३, ४,
लाश्रौ, -त्राः आश्रौ ६,
४, १२, निस् ४, १० ३, पि
३, २६, -त्राणाम् शाश्रौ ७,
२६, १२, -त्राणि शाश्रौ १२, २,
१७, जैश्रौ ११ १३, चुसू २,
९ २, निस्, -त्रात् शाश्रौ ९,
२०, ८, ऋबौश्रौ १०, ३५ ५,
१४, २२. १०, निस् २, ७.
२४, -त्रान् आश्रौ ८, ८, १,
बौश्रौ १०, ५६.९, ५८ ६××,
-ऋत्राय शाश्रौ ९, २७, १, १७,
१३, १, आपश्रौ २०, ९, २,
बौश्रौ १५, १७ ११, माश्रौ,
शुअ ३, १३२^{१०}, -ऋत्रे आश्रौ ८,
२, १२, आपश्रौ ५, १६, ४, बौश्रौ,
-ऋत्रेण आश्रौ १, ३, २२, ६, ५, २,
शाश्रौ ४, १२, ४××, काश्रौ, -ऋ
उनिस् १ ५३, ५६-५८, पि

३, २३, ४८, -ऋ आश्रौ ६,
१३, ५, आपश्रौ २२, ६, ३,
वाधूश्रौ ४, ९८ ८, १३, हिश्रौ
गायत्री^१- पाग ४, १, ४१^b,
५, ४, ३८^b, -०त्रि मागु १,
२, २, -त्रिय वाधूश्रौ ४, ९१ ३,
११५ ११, १२, -त्रिया ऋआपश्रौ
१, ६, ८, ५, २, ४, ऋबौश्रौ १३,
७ १८^६, १४, २४ : ३५^६,
२८ १५^६, १७, १७ : १०, २७,
१० ६^६, वाधूश्रौ ४, १०५ : १,
हिश्रौ ३, १, ११××, -ऋत्रिया.
आपश्रौ १४, १९, १^३, बौश्रौ
१४, ४ : १७, हिश्रौ १५, ५,
१६, -ऋत्रियै आपश्रौ ३, १८,
४^१, बौश्रौ ३, २३ १८^१, १४,
२२ : १०, माश्रौ ३, १४, २^१,
वाधूश्रौ, हिश्रौ २, ८, १^१, -त्रियौ
वाधूश्रौ ४, ८५ : ३, -ऋ आश्रौ
२, १४, १९, ४, १२, २, शाश्रौ
७, २७, १××, काश्रौ, या ७,
१२^१, -ऋ. शाश्रौ १८,
१३, १, ८, काश्रौ, आपश्रौ
२२, ११, २२^१, हिश्रौ १७, ५,
१४^६, २१, २, ६^६, -ऋणाम्
शाश्रौ ९, ६, ११, निस् ४, ९
२, ७, २.६, -ऋत्रिभिः आपश्रौ ५,
६, २××, बौश्रौ, -ऋत्रिभ्य काश्रौ
१७, १२, १२, -ऋत्रिभ्याम्
माश्रौ ६, १, ४, २०, वाश्रौ,
-ऋत्रिम् आश्रौ १, ४, ९, शाश्रौ
१४, ३३, ७, १८, ७, २, १६, २,
आपश्रौ १०, ९, १, १३, २२,

१^१××, बौश्रौ, या ७, १२, -ऋषु
आश्रौ १०, २, २०, बौश्रौ १८,
१ ८, लाश्रौ, -ऋ आश्रौ
६, २, ३, ३, ५, शाश्रौ, -ऋ
आश्रौ ३, १२, २२^६, १४,
१०, आपश्रौ ९, १३, ८^१××,
बौश्रौ, माश्रौ ९, १२, १२^६,
कौसू १३३, ६^६, -ऋत्र्या
आपश्रौ १४, २६, २, वैश्रौ,
-ऋत्र्याम् छुसू २, १४. ६, द्राश्रौ
८, ४, १३, लाश्रौ ४, ८,
१२, ६, ३, १८, निस्, -ऋ
शाश्रौ १३, ५, ४^३, ऋकाश्रौ
२, १, १८^१, २५, १४, १५^३,
बौश्रौ, -ऋत्र्यो ऋअ २, १०,
१०१, -ऋत्र्यौ शाश्रौ १६, २२,
१२, आपश्रौ ५, २८, २××,
माश्रौ

गायत्रि-या(मन्>)ऋ-
-ऋत्री वैश्रौ ५, ७ ८, हिश्रौ
६, २, १७

गायत्री-ग(र्मे>)र्भा-
-र्भा अअ १०, ८

गायत्री-जप-निरत-
-त विध ८३, १४, ८९, ३

गायत्री-तृतीय-सवन^३-
-न. बौश्रौ १६, १० : ८

गायत्री-त्रिष्टुम्-
-ष्टुभो लाश्रौ ७, १३, ११;
-ष्टुभौ शाश्रौ १, १७, ९, शुअ
२, ६९××

गायत्री-त्रिष्टुब्-उ-
-ष्णिह्- -ष्णिहः शुअ २, १३७.

a) वैप १ द्र । b) तु पागम । c) = ब्रह्मचारि-विशेष- । d) पामे वैप १, १२४७ & द्र ।
e) ऋत्र्या इति पाठः^१ यनि शोध (तु. मा २९, ६०) । f) वैप १ द्र । g) पामे वैप १, १२४७ &
द्र । h) पामे वैप १, १२४७ f द्र । i) पामे वैप १, १२४८ 1 द्र । j) गायत्री संपूर्णा. > गायत्री-
संपन्नाः इति शोधः (तु ० [तु लाश्रौ ९, ४, ३१]) k) गं इति पाठ^१ यनि शोध । l) पामे वैप १,
१२४६ 1 द्र । m) सपा. ऋत्रियाम्नी <> ऋत्रियाम्नी इति पामे । n) विप. । बस. > कस. ।

गायत्री-त्रिष्टुब्-जगती-
-तीभि. बौध १,२,१२, -तीषु
दिश्रौ २१,२,५१
गायत्री-दश-साहस्र-
जप- -वेन विध ५५,५
गायत्री-पाद- -दम्
लाश्रौ १०,६,९
गायत्री-प्रतिपत्क^३-
-त्कम् लुस् १,१ २३
गायत्री-प्रात सवन^३-
-न. बौश्रौ १६, १० ५, -ने
बौश्रौ २६,१५.४
गायत्री-बृहती- -स्थौ
शुभ ४,१०१.
गायत्री-बृहत्य (ती-अ)-
ष्टुम्- -ष्टुप्सु मीस् ५,३,१४
गायत्री-माध्यन्दिन^३-
-न बौश्रौ १६,१० ७
गायत्री-या(मन् >)
ञी- -ञी^३ आपश्रौ ४,७,२
गायत्री-शसम् शाश्रौ
१८,१६,१
गायत्री-शत-पञ्चरु-
-कम् विध २२,१४
गायत्री-सप(ञ>)ञा-
-ञाः काश्रौ २२, ११, १७,
लाश्रौ ९,४,३१
गायत्री-सामन्- -म
द्राश्रौ २, २, २४, लाश्रौ १, ६,
२२, ६, १२, १४, निस्सू,
-मनी लाश्रौ ७,२, १, निस्सू
७, ५ २९, -मसु लाश्रौ
७, ६, ८, -मानि लुस् २, ९
४,७, -मनो लाश्रौ ६,१२,५
गायत्रीसामा(म-आ)
पञ- -ञम् निस्सू ७, १ १८,

८,६ ५०
गायत्री-स्थान- -नम्
निस्सू ७,८ : ८, ११ ३२
गायत्र्य(त्री-अ)ष्ट-शत-
-तम् आमिष्ट ३, १२, १ ४,
अप ६७,८,२, शंघ २२६, विध
२२,१५
गायत्र्य (त्री-अ) ष्ट-
सहस्र- -सन् विध २२, १०,
६३, सुध २२, २५, २६, ३५
गायत्र्य(त्री-अ)सपत्ना-
-त्ना. काश्रौ १७,११,६
गायत्र्या(त्री-आ)दि-
-दय आपश्रौ १७,१०,५, -दि
अशा १८,३, अत्रभू १-३, अप
११^२, ३, ४९, ऋप्रा १६, ११,
-दि ऋप्रा १८, ५, -दीनाम्
उनिस्सू १ ६, -दीनि शुभ १,४
गायत्र्यु(त्री-उ)त्त^३-
-र निस्सू ४,१० ७.
गायत्र्यु (त्री-उ)ष्णिग्-
अनुष्टुब्-बृहती-पङ्क्ति-
-ङ्क्तय अत्रभू ३
गायत्र्यु(त्री-उ)ष्णिग्-
अनुष्टुब्-बृहती-पङ्क्ति- त्रिष्टुब्-
जगत्य (ती-अ) तिजगती-शक्यं-
(री-अ) तिशाक्यं (री-अ)ष्टय(ष्टि-
अ)त्यष्टि-धृति-कृति-प्रकृत्या (ति-
आ) कृति-विकृति-संकृत्य (ति-
अ)भिकृत्यु(ति-उ)कृति- -ति
अत्रभू १
गायत्र्यु(त्री-उ)ष्णिग्-
अनुष्टुब्-बृहती-पङ्क्ति-त्रिष्टुब्-
जगत्य (ती-अ)तिजगती-शक्यं-
(री-अ)तिशाक्यं (री-अ)ष्टय(ष्टि-
अ)त्यष्टि-धृत्य (ति-अ)तिधृति-

-तयः ऋय १,३,२, शुभ ५,२.
गायत्र्यु (त्री-उ) ष्णिह्-
-ष्णिहौ शाश्रौ ७,२७,३०
गायत्र-काकुभ^८- -भ. ऋपा
१८,६
गायत्र-च्छन्दस्^३- -न्दस शाश्रौ
१४, ३३, ८, ९, काश्रौ २५,
१२, ५१, बौश्रौ, -न्दसम्
काश्रौ १२,५, १६१, -न्दसा
बौश्रौ २६, १५ १०, १९, २८;
द्राश्रौ, -न्दस शाश्रौ ६,८,१०;
काश्रौ १३,१,११, आपश्रौ.
गायत्र-(नि>) णिधन- -नम्
निस्सू ३,३.२, -नानाम् निस्सू
३,३ २६
गायत्र-ता- -तया निस्सू १,
१२ ३
गायत्र-त्रैष्टुभ-जागत- -ताः
उनिस्सू १ ३६
गायत्र-धर्म- -र्मन् निस्सू २,
७-२२
गायत्र-पार्श्व^३- -र्श्वम् द्राश्रौ ८,
४, १४, लाश्रौ ४, ८, १२, ८,
५,२०, २२, निस्सू ८,६.७
गायत्र-बाहृत^८- -तः ऋप्रा १८,
५
गायत्र-वत्- -वन् निस्सू ३,५ :
११.
गायत्र-वर्तनि^८- -नि जैष्ट १,
४ ८, कौस् ५, ७.
गायत्र-वैराज- -ञौ ऋप्रा १७,
३७
गायत्र-सहित- -ते लुस् १,
८. १२, २, ९ : ६
गायत्र-सज्ञा- > ऽङ्कित- -तम्
जंश्रौला १०४

a) विप । बस. । b) पामे. पृ १००८ IB द्व । c) मलो. कस पूष = प्रगाथ- । d) विप.>

नाप । बस. । e) वैप १ द्व ।

वैप४-द्वि-३२

गायत्रा(त्र-आ)महीयव- -वे
 छुसू २,९-४
 ऋगायत्रिन्^१- -त्रिण आश्रौ ७,
 ८, ३, शाश्रौ १८, ६, २, बौश्रौ.
 गायत्री/√क>^२त्री-कारम्
 आश्रौ ७, २, १६, द्राश्रौ २, ४,
 १४
 गायन- पा ३, १, १४७^३, -नम्
 कागृ ३, १७, अप ६८, ५, १३
 गायन-प्रहास- -सै अप ६८,
 ४, २.
 गायमान- -नः आपश्रौ १२, ८, ५,
 बौश्रौ १४, १२ २५, वैश्रौ
 ऋगायिषे^४ आश्रौ ७, १२, ७, ऋप्रा
 १८, २
 गीत, ता- -त निस् २, ८ २९,
 नाशि १, ५, १३, १४, -तम्
 लाश्रौ ७, ७, ३३, ८, ५, निस्
 ३, ८ : ६, पागृ, -ता आपश्रौ
 २१, २०, २^५, हिश्रौ १६, ६,
 ३९^५, वृदे ३, १५५, -तानाम्
 लाश्रौ १०, ९, ८, निस् ६, ७ :
 ५४, अप ६४, ४, २, -तानि
 शघ १०५, विघ ५६, २७,
 -तायाम् हिश्रौ १२, ७, ६, -ते
 जैश्रौका १९३, पागृ २, ७, ४,
 -तौ नाशि १, ५, १४
 गीत-क- -कम् अप ७०^३, ३, ३
 गीत-कारिन्- -री निस् ३, ८
 १७
 गीत-गान्धर्व-निस्वन- -ना
 अप ७०^३, २, ४
 गीत-नुत्य- -त्यम् अप ७०^३,
 ९, ३.
 गीत वादित-रुदिता(त-अ)ति-
 वात- -तेषु गोयृ ३, ३, २७

गीत-वादित्र-निर्वोष- -ष. अप
 ६४, ९, ८
 गीत-वादित्र-निस्वन- -नाः
 अप ५८^३, ४, १२, ७१, १५, ५
 गीत-वादित्र-शब्द- -ब्दा अप
 ७१, २, २
 गीतिन्- -ती शैशि २०९, याशि
 २, ८२
 गीति- -तिषु मीसू २, १, ३४, -त्या
 छुसू ३, १० ४६, निस् २, ३
 ११, या ६, २४, १०, ५
 गीति-तस्र () निस् ५, ५ ६.
 गीति-दोष- -षाः नाशि १, ३,
 ११, १२
 गीति-विकार- -र लाश्रौ ७,
 १२, १
 गीत्वा जैश्रौका ३०, १७९, १९५,
 द्राश्रौ २, १, २६××, लाश्रौ
 गीयमान- -ने आपश्रौ ५, ११, ६,
 १३, ८, १५, ६, बौश्रौ २, १७
 ३८, भाश्रौ
 गेय- -यम् जैश्रौका ४६, ८१××,
 लाश्रौ, -यानि जैश्रौ २४ १,
 २, २६ ९, जैश्रौका ८३, १०३,
 लाश्रौ ४, ७, १
 गेया (य-आ) दि-निर्वोष- -यु-
 क्त- -क्तै आम्रिगृ २, ४, ६ ३९
 गेष्णु- पाउ ३, १६
 गैरायण- ३गिरि- द्र
 गैरिक-, गैरेय- प्रभृ १गिरि- द्र
 गो^५- पाउ २, ६७, पाग ४, २, ४९^६,
 ५, १, २, गवा आश्रौ १२, ६,
 ३४, शाश्रौ ४, १७, १, १६, २२,
 १९, काश्रौ, गवाम् आश्रौ ९, ९,
 १४, १२, ६, ३२, ३४, शाश्रौ
 ७, १७, १७××, काश्रौ, या ६,
 २, ९, २३^५, २४^५, गवि शाश्रौ
 ५, १०, १^३, काश्रौ २५, २, ३;
 आपश्रौ १७, १८, १^५, बौश्रौ, पावा
 ६, ३, ४५, ऋगवे शाश्रौ ९, २८,
 ५, १७, १२, ३, आपश्रौ, गवोः
 माश्रौ ३, २, ११, ३, ६, वाश्रौ
 १, ५, ३, ५, अप्राय ४, ४,
 गाः आश्रौ १, ७, ८, ४, १२, ३;
 ८, १, ८, शाश्रौ ७, १८, २××;
 काश्रौ, माश्रौ ६, १, २, २६^९, ऋया
 ६, २^५, १४, २५^५, गाम्
 आश्रौ ३, १०, १३××, शाश्रौ,
 आपमं १, ९, १०^५, हिगृ १,
 १८, ५^५, पावा १, ४, १,
 ऋगावः आश्रौ १, ७, ७^३, ३,
 ११, ६, ४, ७, ४^१, ५, ७, ५,
 शाश्रौ १, ११, १^३, ५, १०,
 ८^१××, काश्रौ, अत्र ४, २१^६,
 या १, १७, २, ७, १७, ६, ५,
 ८, ३२, १०, २१, १२, ७, १४,
 १४, १५^५, ऋगावः शाश्रौ
 ९, २८, ८××, आपश्रौ, गावः
 या ९, ३९^५, ऋगावौ काश्रौ ७,
 ८, १४, आपश्रौ ५, २०, ११××,
 बौश्रौ, या ९, ३९, ऋगो
 आश्रौ ३, ५, ९, ९, ८, ३××-
 शाश्रौ, या २, ६, ४, २५, ६, २,
 १९, २०, पा ४, ३, १४५××,
 गोनाम् शाश्रौ १२, १४, ३^५,
 ऋगोभिः आश्रौ २, ११, ३,
 शाश्रौ ३, ७, ४, काश्रौ, या
 २, ५××, ऋगोभ्य शाश्रौ ९, २८,
 ५, बौश्रौ २८, १ २; शागृ,
 गोभ्याम् हिश्रौ ७, २, ७०^५, वृदे
 ५, ३१, गोषु शाश्रौ १३, २९,
 १६, काश्रौ ४, १५, ५, आपश्रौ,

a) वैप १ द्र । b) नाप । c) =स्तोम-विशेष- इत्यपीह द्र । d) तु पागम । e) पाभे वैप
 १, १२५० ० द्र. । f) पाभे वैप १, १८५५ h द्र । g) सकृत् पाठ १ ।

द्राश्रौ ७, ३, ४^१क^१, लाश्रौ ३, ३,
४^२क^१, क^१गौ आश्रौ १, ७, ७^२xx,
शाश्रौ, वाश्रौ ३, २, २, १५^१,
या १, १, १२, २, ५^१, १४^१
गव^०-वस्य अप ६८, २, १४
गवा-व्रत^१-तम् द्राश्रौ १२, २, ५,
लाश्रौ ४, १०, ५, लुसू १, ३
१९, २२
गवा(व-अ)ग्र-अे पावा ६, १, १२१
गवा(व-अ)व्रात-तम् शध ४३१,
वैध २, १५, ३
गवा(व-अ)जिन-नम् कागृ ५, ९
गवा(व-अ)दि-दक्षिणा-गाम्
वैगृ ३, २३ १५
गवादिदक्षिणा-करण-गम् वैगृ
३, २३. ६
गवा(व-अ)धिपत्य-स्यम् विध
९०, ११
गवा(व-अ)नुगमन-नम् विध ५०,
१६
गवा(व-अ)नृत^०-ते वाध १६, ३४,
बौध १, १०, ३५
गवाम्-अयन-नम् आश्रौ ११,
७, १, २०, १२, ५, ७, शाश्रौ १३,
२८, १, काश्रौ २४, ४, ४९,
आपश्रौ २१, २४, १, २३, १४,
१०, २४, ४, ५, बौश्रौ, -नस्य
आश्रौ १२, ५, १०, शाश्रौ
१३, १९, १, १७, २४, १९७,
२५, ४, २७, ५, २८, १, बौश्रौ,
निसू १०, ९ ४७, -नानाम् निसू
१०, १३ १४, -नानि बौश्रौ
२४, ५ १२^१, -नाय काश्रौ १३,
१, २^१, -ने शाश्रौ १२, ९, ८,

बौश्रौ २४, १०:१८xx, लाश्रौ,
-नेन आश्रौ १२, १, १, ५, १२, ६,
२२, काश्रौ २४, ५, २, आपश्रौ
गवामयनिक-क
काश्रौ २४, ३, १६
गवाम् (अयन-) लाश्रौ १०,
१३, १२
गवामयन-न्याय-येन लाश्रौ
१०, ३, १३
गवामयन-पक्ष-क्षयो काश्रौ
२४, ५, ९
गवामयन-प्रकृति-तीनि काश्रौ
२४, ४, २, हिश्रौ १८, १, २
गवामयन-विकल्प-स्याः काश्रौ
२४, ७, २२, द्राश्रौ ८, १, १,
लाश्रौ ४, ५, १
गवामयन-शस्य-स्या आश्रौ
१२, ५, १३, १४.
गवामयनो(न-उ)ष्पाद^१-दौ
निसू १०, १२ ७
गवा(व-अ)युस-युषी वैताश्रौ
३१, १४
गवा(व-अ)र्थ-थे शंघ १४४, बौध
२, २, ७१, विध १६, १८
गवा(व-अ)विक-पाग २, ४, ११.
कंगवा(व-अ)शिर^१-शिर आश्रौ
७, ६, २, हिश्रौ १२, ६, ६
गवा(व-अ)श्व-पाग २, ४, ११,
-श्वम् वृदे ५, ६४, -श्वस्य वाध
१७, ४३
गवाश्व-प्रभृति-तिषु पावा २,
४, ११, -तीनि पा २, ४, ११.
गवा(व-अ)श्वा(श्व-अ)ज-महिष-
मण्डल-लेषु वैगृ ५, १५.

१६.

गवा(व अ)श्वा(श्व-अ)जा(जा-अ)
विक-हस्ति-दासपुरुष-त्रीहि-यव-
माष-तिल-दण्डो(ण्ड-उ)पानच्-
छत्र-कमण्डलु-याना(न-आ)सन-
शयनो(न-उ)पधान-नै. बौगृ
२, ११, ४४
गवा(व-अ)हिक-कम् शंघ ३९०.
गवि(न >)नी-पावाग ४, २, ५१.
गवि(गो-इ)ष^१-विषे आगृ १,
१, ४^१
कंगवि(गो-इ)ष्टि^१-ष्टये^१ आश्रौ ३,
१३, १२, आपश्रौ १९, २५, १२,
-ष्टौ शाश्रौ ८, १६, १, शुप्रा ३,
१२९^१, अप्रा ३, १, १५, शौच
२, २३
गवि-ष्टिर[ल^१]^१-पा ८, ३, ९५, पाग
४, १, १००, १०४, पावा ६, ३, ८,
-र शुप्रा ५, ३, ७^१, -रम् अप्रा
३, ४, १^१, -रस्य^१ चाअ १६:
३, १९, -रगाम्^१ आश्रौ १२,
१४, १, आपश्रौ २४, ८, १२;
बौश्रौ २९. १, हिश्रौ २१, ३,
११; वैध ४, ५, ३
गविष्टिर[ल^१]^१-पा ४, १,
१०४, -०र आश्रौ १२, १४, १;
आपश्रौ २४, ८, १२, बौश्रौ २९:
२, हिश्रौ २१, ३, ११, वैध ४, ५,
३, -राः बौश्रौ २७ ५
गविष्टिलायन-पा ४,
१, १००
गविष्टिर-वत् आपश्रौ २४, ८,
१२, बौश्रौ २९: २, हिश्रौ
२१, ३, ११, बौध ४, ५, ३.

a) पाभे वैप १, १२५३ a द्र । b) पाठ १ गो इति शोध. (तु कौ १, ४५८) । c) स्वार्थे अच्
प्र उसं (पा ५, ४, ३८) । d) =साम-विशेष- । e) मलो. कसु । f) तु. चौस. । g) विप ।
बस । h) वैप १ द्र । i) पाभे वैप १, १२५४ b द्र । j) पाभे. वैप १, १२५४ d द्र. । k) तु पागम ।
l) ष्टर^० इति पाठ. ? यनि. शोध । m) बहु. < गविष्टिर- ।

१गवीडा^a- -डाम् वैताश्रौ ७, २,
 ४३, ६
 गवीडा(डा-आ)दि-श्रेष- -षे
 वैताश्रौ ७, २५
 गवे(व-इ)न्द्र- पा ६, १, १२४.
 १गवे(गो-ए)षण^b- -ण. अप्रा ३, १,
 १५, -णे शौच २, २३
 ✓गव्य> १गव्यत्- -व्यता शाश्रौ
 १८, ९, ४, -व्यन्त आश्रौ २,
 २०, ४^c, शाश्रौ १४, ११, ८,
 ९, आपश्रौ
 १ग(व्य>)व्या^d- -व्या साअ
 १, १८६^e
 गव्यु^f- -व्युः या ६, ३१^g
 २गव्य, व्या^h- पा ४, २, ५०, ३,
 १६०, ५, १, २, ३९, पावा ४,
 १, ८५, -व्यः वाधुश्रौ ४, ९६.
 ५, अअ ९, ७, -१व्यम् आश्रौ
 २, १०, ४, शाश्रौ १४, ११, ९,
 आपश्रौ १७, १८, १, बौश्रौ,
 -व्यस्य मीसू ८, १, १८^d, -व्या
 या २, ५^e, -व्या आपश्रौ १९,
 १६, १६, -व्यात् बौध १, ५,
 १३८, -व्यान् आपश्रौ २०, २२,
 ४, २१, २३, ४, १०, बौश्रौ,
 -व्यानि आपश्रौ २०, १२, २,
 बौश्रौ १५, ३७ : १२, बौश्रु,
 -व्याम् शुअ १, १८५,
 -व्यायै बौश्रौ १५, २६ १^h,
 -व्ये आश्रौ ४, ७, ४, बौध १,
 ५, १३९, ऋअ, शुप्रा २, २०^e,
 -व्येन काश्रौस ३६ ९, कौश्रु,
 २, १, ४, शाश्रु २, १, ५, कप्र,
 -व्यैः अप १, ३०, २

गव्य-घृत-पूर्ण-कुम्भ- -म्भेन
 विध ९०, ३
 गव्य-मांस-तस् () अप ३६,
 १७, १
 गव्यूति^b- पावा ६, १, ७९, -ति
 अप्रा ३, ४, १^g, आपध १, १८,
 १, हिध १, ५, ७१, -तिम्
 बौश्रौ १८, २० : १९
 गो-अ(प्र>)आ^b- -आः आश्रौ
 ९, ११, १८^g.
 गो-अर्ष^b- -र्षम् तैप्रा ११, १६^g
 गो-अश्व- -श्वम् बौश्रौ ११, ६
 ३१, १२, ७ ४२××, भाग
 १, २७ ८^g, -श्वा बौश्रौ २८,
 ६ : १५, वैश्रौ, -श्वानाम्
 आपश्रौ १९, ६, ८, हिश्रौ २३,
 १, १८
 गो-अश्वा(श्व-अ)वि-मिथुन- -नानि
 द्राश्रु २, ५, ३
 गो-आयुस^b- -युस्यम् आश्रौ
 १२, ६, २०^h, काश्रौ २४,
 ७, १७, बौश्रौ २६, १६ : ३,
 १८, -युष निस् ६, ३ १६,
 -युषी आश्रौ ९, १, ४, ११,
 १, ११××, शाश्रौ, -युषो द्राश्रौ
 ८, ३, ३५, लाश्रौ ४, ७, १३, ८,
 १, १८, शुअ ४, १८५
 १गो-ऋजीक^b- -ऋम् वाश्रौ ३, ३,
 ३, १, ऋप्रा २, ७४
 गो-ओप(श>)शा^b- -शा ऋप्रा
 २, ७४^g
 गो-कङ्काला(ल-अ)धिरोहण- -णम्
 अप ३६, ३, १
 गो-कर्ण-वत् वैश्रौ ११, ८ १०,

वैश्रु १, २ ६, नाशि १, ६, १३
 गो-कर्णा(र्ण-आ)कृति- -वत्
 आम्रिग २, ६, १ : ३
 गो-कुल- -ले अप ६६, ३, ४, ७०^g,
 २३, ९
 गोकुला(ल-अ)न्तिक- -के अप
 ६६, १, ५
 गो-क्षीर- -रम् शंध ४१८, वैध २,
 १५, ५
 गोक्षीर-कुमुद-प्रख्य- -ख्याः
 अप ५२, २, १
 गो-गजा(ज-अ)धा(ध-आ)दि-
 घृष्ट- -ष्टेषु शध १९२^h
 गो-गमन- -ने विध ५, ४२;
 ५३, ३
 गो-गामिन्- -मी शंध ३७७
 २२
 गो(गो-अ)ग्न्य(ग्नि-अ)र्थ- -र्थे गौघ.
 १२, २५
 गो-ग्रहण- -णे पावा ६, १, ९३
 गो-ग्रास- -सम् कौश्रु ३, १५, ७,
 शाश्रु ३, १४, ४, बौश्रु २, ११,
 ५७, गोश्रु ४, १, २०
 गो-घ्न^b- पा ३, ४, ७३^g, -घ्न. शंध
 ३७५, ३७७ २××, विध ४५,
 १९, -घ्नस्य सुध ३६.
 गो-चर^b- पा ३, ३, ११९, -र अप
 ७०^g, २३, १०, वाध ६, ४२,
 -रम् वैश्रौ ३, ३ ५, हिश्रौ १,
 २, १६, -राय आपश्रौ १,
 २, ४
 गोचरा(र-आ)दि- -दीनाम् पा ३
 ३, ३, ११९
 गो-चर्मन्- -र्म वैश्रु ६, १ ३^h,

a) = अग्निहोत्री-। व्यु. ?। b) वैप १ द्र। c) वैप १ निर्दिष्टयोरिहैकत्र समावेश द्र।
 d) = गवामयन-। e) पाभे. वैप १, १२५५ ८ द्र. f) 'युषीभ्याम् इति पाठ ? यनि शोध। g) 'दिवृक्षेषु
 इति पाठः ? यनि. शोध (तु स्मृतिचन्द्रिकायां श्राद्धकाण्डम्। पृ १४३)। h) उस उप. कर्तारि क प्र.
 (पावा ३, २, ५)। i) = अतिथि-। संप्रदाने टक् प्र। j) = व्रज- विषय-। k) = प्रमाण-विशेष-।

गौपि १, ७, ५, -र्मणा शंघ
३९३
गोचर्म-मात्र,त्रा- -त्रम् आभिगृ
१,७,१ ५, २,४,५ १३××,
बौपि, -त्रा विघ ५, १८३,
-त्राम् अप १०, १, ८, विघ
९२, ४, -त्रेण वाघ २९,
१६
गोचर्ममात्रा (त्र-अ)धि-
(क>)का- -काम् विघ ५,
१८१.
गोचर्ममात्रो(त्र-उ)पलिस-
-से वैगृ ६, १ : ३
गो-चिति^०- -विम् आपश्रौ १७, ४,
११, वैश्रौ १९, ५ ११, हिश्रौ
१२, १, ४५
१ गोच्छगल^०- -ला बौपि २, ३,
१४
गो(गो-अ)ज- -जयोः काश्रौ १७,
५, १६
गो-जा^०- -जा या १४, ३१
गो(गो-अ)जा-महिषी-वजैम् विघ
५१, ३८
गो(गो-अ)जा(जा-अ)श्च-मृग-
पक्षिन्- -क्षिषु अप ६४, ८,
१०
गो-जित्^०- -जित् आपश्रौ १६,
१८, ६, २१, ४, २, माश्रौ ६, १,
५, ३८, वैश्रौ
गो-तर्पण- -णम् अप ४, ६, ५, ६९,
७, ४.
गो-तृप्ति- -सि बौघ १, ५,
५७
गोतृप्ति-कर- -रम् वैघ ३, ४, ४
गो-त्र,त्रा^०d- पाठ ४, १६७, पाग
८, १, २७, -त्रः अप ४८,

१०११, निघ १, १०१, -त्रम्
आपश्रौ १७, २१, ७१, बौश्रौप्र
५४ १४, माश्रौ १, २, ५, ४१,
२, १, २, २३, ३, ३, ६, हिश्रौ
१२, ६, २६१, आगृ ४, ४, १०,
कागृउ ४२ २०, कौसू ४,
२१, अप ४१, ५, २, वैघ ४,
१, २, चव्यू ४ : २५, याशि
१, १८, पा ४, १, १६२, पावा
४, १, १६३, -त्रस्य अप्रा ३,
४, ११, पावा २, ४, ६२, ४,
१, ८९, -त्रा आपश्रौ ३, १२,
१, भाश्रौ ३, ११, १, हिश्रौ
२, ६, १४, अप ४८, ७२०,
निघ १, १०, -त्राणाम् आपश्रौ
२१, २, ५, ७, २४, ११, १५,
१६, बौश्रौ, -त्राणि साअ २,
१२०५, पि ३, ६६, -त्रात् वैश्रौ
६, ५ ३, हिश्रौ २, १, ५६, पा
४, १, ९४, ३, ८०, पावा, -त्राय
वागृ ५, १३१, -त्रे वैघ ४, १, २,
पा २, ४, ६३, ४, १, ७८, ८९, ९३,
९८, २, १११, ८, ३, ९१, पावा
४, १, ८९, ९३, -त्रेण गोगृ २,
३, १३, ४, १०, अप ४१, ६, ५,
आपघ १, ६, ३०, हिघ १, २,
५३, गौपि १, २, ७, ४, ९,
द्रागृ १, ४, ५
गौत्रक- पा ४, २, ३९
गोत्र-कल्प- -ल्प जैगृ १, ११ :
२२
गोत्र-क्षत्रिया (य-आख्या >)
ख्य- -ख्येभ्य पा ४, ३, ९९,
पावा ४, २, १०४.
गोत्र-ग्रहणा(ग-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा ४, १, १६३

गोत्र-चरण- -णात् पा ४, ३,
१२६, ५, १, १३४, पावा ४,
२, १०४
गोत्र-ज- -जै शध २८०
गोत्र-तत्स (.) शंघ ३६१, ३६६.
गोत्र नामन्- -म वैगृ १, ७ : ८;
कप्र ३, ३, २, -मसि कप्र १,
२, ७, -मानि शागृ १, ६, ४.
गोत्रनाम-पूर्व- -वैम् वैगृ
५, ६ ११
गोत्रनाम-युक्त- -क्तम् वैगृ
३, १९ ७
गोत्रनामा(म-आ)दि-
-दिना वैगृ ५, १३ : १५
गोत्रनामा (म-अ)नुवादा
(द-अ)न्त- -न्ते कप्र ३, ३, २
गोत्र-पूर्व- -वैम् वैश्रौ १२,
१०. १०
गोत्र-प्रकृति- -तौ पावा ८, ३,
९१
गोत्र-भाग-विभागा (ग-अ)
र्थ- -र्थे शंघ २८०
गोत्र-भाज्- -भाजः बौघ
२, २, ३२, गौव २८, ३४
गोत्र-भाव- -वे पावा ४, १,
९६
गोत्र-भिद्^०- -मित् बौश्रौ
१०, २४ ११
गोत्र-मूल- -लानि बौश्रौप्र ५४:
१८.
गोत्र-मैथुन^०- -न बौपि ३, ४,
१६.
गोत्र-वचन- -नम् पावा ५, ३,
११८.
गोत्र-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा ४,
१, १६२

a) मलो कस. । b) पाठ १ गौ., छ^० इति द्विपदः शोघ (तु बौपि १, २. १४, छ च) । c) वैप १
द. । d) नाप (अपत्यसामान्य-, पौत्र-प्रकृति- (पा. १.) इतीह विशेषः । e) = पृथिवी- । f) विप । बस ।

गोत्र-स्त्री- -स्त्रियां पा ४, १, १४७
 गोत्रा(त्र-आ)ङ्गिरस-वासिष्ठ^ab-
 -ष्ठम् अप ३, ३, ६
 गोत्रा(त्र-आ)दि- -दिषु पावा
 ८, १, २७, -दीनि पा ८, १, २७
 गोत्रादि-ग्रहण- -जे पावा
 ८, १, २७
 गोत्रा(त्र-अ)न्त- -न्तात् पावा
 १, १, ७३
 गोत्रा(त्र-अ)न्तेवासि-मानव-
 ब्राह्मण- -णेषु पा ६, २, ६९
 गोत्रा(त्र-अ)वयव- -वात् पा,
 पावा ४, १, ७९
 गोत्रा(त्र-आ)श्रय^a- -यम् गोष्ट
 २, १०, २१
 गोत्रिन्- -त्रिण अप्राय ३, ७
 गोत्रो(त्र-उ)त्तरपद- -दस्य
 पावा १, १, ७३
 गोत्रो(त्र-उ)त्पन्न- -न्नात् वैध
 ३, ११, ३
 गो-त्व-वत् मीसू ६, ३, १२, ८,
 ३, १८
 गो-दक्षि(णा>)ण^a- -ण बौश्रौ
 १३, १ १८, २४, २९ १०
 गो-दक्षिणा- -णाम् कौसू ६३,
 २७
 गो-दशक- -कस्य विध ८, १७
 गो-दान- -नेन विध ९०, १४
 गोदान-फल- -लम् विध ५२,
 १५, ९१, १७
 गोदान-सम- -सम् विध ६७,

४६०
 गो-दुह^d- -दुहे माश्रौ १, १, ३,
 १६, -धुक् हिश्रौ १, ३, ३९,
 या ११, ४३[†], -[†]धुक् आश्रौ
 ४, ७, ४०, शाश्रौ ५, १०, १०,
 आपश्रौ
 गो-देव-गृह-वासिन्- -सी
 आश्रिण २, ७, ११ १५
 गो-दोह- -हात् कौष्ट ३, १०, २१
 गोदोह-मात्र^a- -त्रम् शध १३२
 गो-दोहन- > 'न-काल-मात्र-
 -त्रम् वैध ३, ७, १
 गोदोहन-मात्र^a- -त्रम् शध
 १३२, बौध २, १०, ४४
 २गो-दोहन^f- -न. पावा ३, ३,
 १२३, -नेन आपश्रौ १, १६, ३,
 माश्रौ १, १७, १२, माश्रौ १, २,
 १, ८, वैश्रौ ४, २ ९
 गोदोहनी- -नीम् बौश्रौ ९,
 ५ : २, १४, ३०
 गोदोहन-संनेजन- -नेन हिश्रौ
 ३, ७, ३२
 गो-द्विजोत्तम- -मौ शध ४११
 गो-धायस्^d- -यसम् भाशि ४७[†]
 गो-धेनु- -न्वा अप १, ५०, ५६
 गो-नाम^d- -मेषु माष्ट १, ४, १२
 गो-नामन्- -म कौसू २७, २१, या
 ४, १९, -मभि हिश्रौ ९, ८,
 ४८, द्राश्रौ ९, २, ३, लाश्रौ ३,
 ६, ३, गोष्ट, -मसु कप्र ३,
 ६, ५[†], -मानि लाश्रौ ९, ६, १७,
 माष्ट १, ४, १५, निघ २, ११,
 या ३, ९

गो-निर्हार-मुक्त^h- -क्तानाम् विध
 ४८, १६[†]
 गो-निष्काल-प्रवेश- -शयोः कप्र
 १, ५, ६
 गो-निष्कान्त- -न्तानाम् बौध ३,
 ६, २०[†].
 गो-न्यास-प्रमृदित- -तानाम् बौश्रौ
 २२, १७ १६
 २गो-प^l- > गोप-शौण्डिक-शैल्य-
 रजक-व्याध-स्त्री- -स्त्रीणाम्
 विध ६, ३७
 गो-पक्ष^aक- -क्ष काश्रौ २३, ५,
 २९
 गो-पक्षि-शब्द- -वृद्धि- -द्धिः
 अप ६४, ९, २
 गो-पति^d- -त्ये आपश्रौ ४, ३, ६;
 माश्रौ ४, ५, ४, हिश्रौ, -तिः
 आश्रौ २, ५, १७, ८, २, २१, १२,
 २०, शाश्रौ, -तिना अप १६, १,
 १३, -तिम् आश्रौ ६, ४, १०;
 शाश्रौ ९, १३, १, १८, ७, १५;
 आपश्रौ १, १३, ११, माश्रौ;
 -तेः कौष्ट ३, ५, ४[†], शाष्ट ३,
 ९, १, -तौ आश्रौ ३, ११, ६[†];
 आपश्रौ १, २, ९, बौश्रौ
 गो-पत्य^d- -त्य गोष्ट ४, ५,
 १७[†], -त्यम् बौश्रौ ७, १४ २३;
 १४, ५. २७, -त्येन शाश्रौ २,
 १२, १, बौश्रौ ३, ८ २४, १३ :
 १४
 गो-पद^o- -दे बौष्ट २, १, ८^p
 गोपद-मा(त्र>)त्री^a- -त्रीम्
 आपश्रौ ७, ५, १

a) विप. । बस । b) गोत्र-इत्यस्य पूर्वनिपात उंसं (पा २, २, ३७) । c) गोप्रदा^o इति जीस ।
 d) वैप १ द्र । e) तु आन । f) = पात्र-विशेष- । कास उप अधिकरणे ल्युट् प्र । g) निर्विसर्ग पाठ² यनि.
 शोधः । h) षस > वृस. पूष = गोमय- । i) सप्र ऽमुक्तानाम् <> ऽनिष्कान्तानाम् इति पाभे । j) = जाति-
 विशेष- । k) पूष = गोष्टोम- । l) ऽते इति पाठ² यनि शोधः । m) पाभे वैप १, १२५७ p द्र । n) विप.
 प्राग्दीव्यतीयः ष्यः प्र (पा ४, १, ८५) । o) = गोष्ट- । p) सप्र गोपदे <> गोष्टे इति पाभे । q) पूष. = गोशफ- ।

गो-पयस्- -य आपश्चौ १५, १०,
१, १४, १०, बौश्रौ ९, ४ : ४,
९ २६, १०, ७ : ५, भाश्रौ, -यसा
बौश्रौ ९, ४ १९, १०, ८ : ३,
वैश्रौ १३, ६ : ५, १८, २ ७
गो-पशु- -शुः कौश्रु ३, १५, ७,
शाश्रु ३, १४, ३, -शुम् कौश्रु ३,
१०, ३१, शाश्रु २, १५, १, -शुन्
बौश्रौ २१, २६ १
१ गोपाल-ल- पा ६, २, ७८, -ल
हिय १, १८, ११
गौपाल्य- -ल्यम् निसू १०,
११ ३, ४
गोपाल-धानी^b -> णी-पूला-
स- पाग २, २, ३१^०
गो-पा(लक^d>)लिका- पाग ४, १,
४^०, ११२
गौपालिक- पा ४, १, ११२
गोपालिका (का-आ) दि-
-दीनाम् पावा ४, १, ४८.
गो-पितृ- -ता या ६, १५
गो-पीठ^f- -ठे अप १, ४३, ५
१ गो-पीथ^e- पाठ २, ९, -पथाय
कौसू १२७, ७, या १०, ३६६
गो-पुच्छ- पाग ५, ३, १०७, -च्छम्
माश्रौ १, ८, १, १४, वाश्रौ १,
६, १, १५, हिश्रौ ४, १, ३१
गौपुच्छ- पा ५, ३, १०७
गौपुच्छक- पा ४, ४, ६
गोपुच्छ-वत् वैश्रौ १०, २ ७
गोपुच्छ-सदृश- -श अप २१,
२, ५
गोपुच्छा (च्छ-अ) प्रा (प्र-आ) कृ-
ति- -तिः अप २७, २, ४
गो-पुरीष- -षात् शंघ ४४८

१ गो-पोष^a- -षम् आश्रौ १, १०,
३७, आपश्चौ ९, ३, १, भाश्रौ
गो-प्रकाण्ड- पाग २, १, ६६^०
गो-प्रकृति-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ-
-र्थम् पावा १, १, ६१
गो-प्रद- -द अप १६, २, १
गो-प्रदान- -नेन विध ९२, ५
गो-प्रयुक्त- -क्ते वाध २९, ११
गो-प्रलून- -नै वाध १०, १०
गो-प्रवाद- -दात् निसू ७, ८ :
३८
गो-बलीवर्द्ध-महिष-धूर्या(र्थ-अ)
विक-हिंसा(सा-अ) वासि-
-सौ काध २७१ ३
गो-बाल- गो-वाल- द्र
गो-बिडाल-सिंह-सैन्धव- -वेषु पा
६, २, ७२.
गो-बीज-काञ्चन- -नै विध ८, २२
गो-ब्राह्मण- -णम् शाश्रु ४, ९, ३,
अप ६८, २, १९, सुधप ८४ ६,
-णान् अप ४३, २, ५१, -णाय
अप ७, १, ९, -णेषु सुधप
८४ ६, -णेषु शंघ ३९४
गोब्राह्मण-क्षय- -यः अप ६४,
८, ६
गोब्राह्मण-परित्राण- -णम् शंघ
२५१
गोब्राह्मण-शरीर- -रे सुध ५०
गोब्राह्मण-हृत्^g- -तानाम् गौध
१४, ९.
गोब्राह्मणो(ण-उ) पराग- -णं
विध ६८, ४
गो-ब्राह्मण-नृप-मित्र धन-दार-जीवि-
त-रक्षण- -णात् विध ३, ४५
गो-ब्राह्मण-विधवा-पतित- -तेषु

आश्रिय ३, ११, ४ : ४३
गो-ब्राह्मण-सूत-सावत्सर-वैद्य-
-द्यानाम् अप ७२, ४, १
१ गोभाजश बौश्रौ २, ११. १६
गो-भू-तिल-सुवर्ण- -र्णम् अप
३०^१, २, ६
गो-भू-तिल-हिरण्य- -ण्यानि
आश्रिय २, ४, ५ : २६^d
गो-भूमि-काञ्चना (न-अ) श्व-
-श्वानाम् अप ७०, ३, २
गो-भूमि-तिल-हेम- -मानि बौध
४, ७, ९^d
गो-भू-हिरण्य-वस्त्रा(त्र-अ)न्न- -न्नैः
अप ६९, ६, ३
गो-भृत्^h- (> गौभृत्- पा) पाग
४, २, ७५
गो-मखⁱ- -खेन विध ३७, ३५.
गो-मचर्चिका- पाग २, १, ६६^०
१ गो-मत्- -मत् आश्रौ ४, १५, २;
शाश्रौ ६, ६, २, १०, ८, आपश्चौ;
-मत आश्रौ १०, २, २२;
आपश्चौ १४, ३३, ६, १७, २१, ७;
माश्रौ, -मता आश्रौ ३, ८, १;
८, ९, २, शाश्रौ, -मताम् काण्ट
५८, १५, या ६, १७, -०मन् शुअ
३, ५९, -मन्तम् शाश्रौ ११, ८,
३, आपमं, -मान् शाश्रौ ४,
१२, १०, आपश्चौ
१ गोमती- -ती कौश्रु ३, २, ६;
शाश्रु ३, ३, १, पाश्रु २, १७,
९, ३, ४, ४, आश्रिय, -तीः
आपम १, १४, ७, -तीम्
आपश्चौ ४, १६, १३, २०;
भाश्रौ ४, २२, १४
२ गोमती^a- पाग ४, २, ८२

a) वैप १ द्र । b) = गोपाल-स्थान- । c) गौपालिधान-पूलास- इति पागम । d) = गो-पाल- ।

e) तु. पागम । f) = गो-स्थान- । g) वृस. वा चस वा । h) सप्र. °भूतिलहिरण्यानि <> °भूमितिल-
हेमानि इति पागे । i) व्यप. । उस ? । j) = गो-मेघ- ।

११०, -त्याम् विध ८५, ४३
 गौमत- पा ४, २, ११०
 गो-मतल्लिका- पाग २, १, ६६^६
 गो-मधुपर्का(क-अ)र्ह- -र्हः आपध
 २, ८, ५, हिध २, १, १०७
 १गो-मय^७-पा ४, ३, १४५, पाग २,
 ४, ३१, -०य अप ४२, १,
 ८१, -य गोय २, ९, ५,
 द्राय २, ३, १८, -यम् आय १,
 १७, ३, ४, ४, १३, ६, ४, कौय
 १, २१, ६, ५, ४, २, शाय,
 -यानि भाय २, २९ : १६,
 अप २६, ५, ७, -ये शाश्रौ
 ४, १५, ५, आय १, १७, ११,
 आम्रि २, ६, ८ ६, गोय, -येन
 शाश्रौ १८, २४, २७, आपश्रौ
 १, ६, १३, भाश्रौ, -यैः गोय ४,
 ८, १५, द्राय ४, ३, ३
 गोमयी^८- -यी वैश्रौ २०,
 ११ : ११, १९ : ६.
 गोमय-गर्त- -र्ते वाध २१, ८
 गोमय गौरसर्षप- -पम् गौपि
 १, ४, १६
 गोमय-परिचय^९- -ये कौसू १५,
 १, १९ ८, २२, १२
 गोमय-पर्युषित^{१०}- -ते वाध १३,
 १२
 गोमय-पायस- > (०यसीय^{११}-)
 पाग ५, ३, १०६
 गोमय-पावक- पाग २, २, ९^{१२}.
 गोमय-पिण्ड- -ण्डम् पाग २,
 १, २२, भाय १, २८ ८, १९,
 -ण्डान् वाय १०, १४, -ण्डे

पाय २, १, १२, भाय १, २८ :
 ९, १८
 गोमय-लोष्ट- -ष्टम् भाय १,
 ११. ९, ११, माय १, ७, ९,
 वाय १०, ९
 गोमया(य-अ)भि- -भिना
 वाध २०, ४२
 गोमया(य-अ)नुलेपन- -नम्
 शंघ ३१३
 गो महिषी-रक्षण- -णम् बौध २,
 १, ४४
 गो-महिष्य(षी-अ)जा- -जानाम्
 वाध १४, ३५
 गो-महिष्य^१(षी-अ)जा(जा-अ)वि
 (क >)का- -कानाम् सुध ३४
 गो-मास-तुल्य- -ल्यम् वैध ३,
 ५, ९
 गो-मास-भक्षण- -णै वाध १४,
 ३०
 गो-मात्र- -त्रम् वाध २१, २५
 गो-मायु^{१३}- पाउभो २, १, १,
 -प्रव. आपश्रौ ९, १२,
 ४, वैश्रौ २०, १५ : ३, -यु
 अप ५३, २, १, ६७, ७, २, -यू
 †कौसू ९६, १, ३
 गोमायु-लोक- -का वाध २१,
 १४
 गोमायु-वदन^{१४}- -ने कौसू ९३, ४
 गो-मार्ग- -गार्त अप १, ४३, ५
 गो-मिथुन- -नम् आय १, ६, ४,
 १८, ८, माय १, ७, १२, वाय,
 -नेन वैय ३, १ ७, वाध १,
 ३२, शंघ ६७, -नौ शाश्रौ ३,

१४, १७
 गोमिथुन-ग्रहण- -णेन विध २४,
 २१
 गो-मिन्- पा ५, २, ११४, पाग
 ४, १, ११०^१, -मिनः अप ५७,
 ३, ४, -मिनाम् अप ५८^१, ४,
 ४, वाध १७, ८
 गौमायन- पा ४, १, ११०;
 -नाः बौश्रौप्र ४१ : १५
 गो-मुख^१- पा ६, २, १६८, -१^१ख
 काय १७, २, वाय १३, ४
 गो-मूत्र- पागवा ५, ४, ३, -त्रम्
 आम्रि २, ७, ७ ६, १३, काय
 ७, ३, अप, -त्रस्य माश्रौ ५, १, ६,
 ३९, ९, २५, वाश्रौ ३, ३, २, २२;
 -त्राः बौश्रौप्र ४३ : ६^६, -त्रे
 बौध १, ६, ३८, ४, ६, ५, -त्रेण
 बौश्रौ २९, ११ २, बौपि २, ८, ७;
 कौसू ४१, १९, विध ५०, २२
 गोमूत्र-क^१- पा ५, ४, ३
 गोमूत्र-गोमय-क्षीर-दधि-सर्पि-
 कुशोदक- कानि विध ४६,
 १९, सुव ६४
 गोमूत्र-गोमया(य-आ)हार->
 ँरिन्- -रिणः वैध १, ९, ४^{१३}
 गोमूत्र-भाग- -ग बौध ४,
 ५, १३
 गोमूत्र-मिश्र- -श्रेण काश्रौ २५,
 ११, १७
 गोमूत्र-यावक- -कम् शंघ ३९०,
 ४२३
 गोमूत्र-वर्णक^{१५}- -का अप ९,
 १, १

- a) तु पागम । b) = गो-पुरीष- । c) विप ([गोमयसंमिश्रिता-] रअप्-) । d) उप = राशि-
 -e) उप = उपलिप्त- (तु आपध १, ९, ५) । f) महिषाजा^१ इति पाठ^१ यनि शोधः (तु वाध १४, ३५) ।
 g) = शृगाल- । विप (मयल्लक- [कौसू १]) । h) उप = रत- । i) व्यप- । j) = वाय-विशेष- । उपमाने बस ।
 k) = ऋषि-विशेष- । l) = [गोमूत्र-वर्णक-] आच्छादन-विशेष- । मूत्रिका- इति पागम । m) 'मयहा' इति
 पाठः ? यनि. शोध (तु ०) । n) विप. (तिल-) बस ।

-०न्द^० जैश्रीका १११^१, विध
१,५१, -^१न्दम् आप्रिगृ २,५,
७ ९, बौध १,११,७, वैगृ ३,
१३ ४^१, बौध २,५,२४
गो-विप्र-पितृ-देव- -वेभ्यः बौध ४,
५, ५
गो-विप्रो(प्र-उ)दका(क-अ)भि-वायव
(यु-अ)र्क-तारे(रा-इ)न्दु- -न्दून
वैध २,९,४
गो-विराड्-अध्यात्म-देवता->
त्य- -त्यम् अत्र ९,१०
गो-विषाण- -णात् अप ६४, ८,
६
गो-विसर्ग^१- -र्गे अप ६८,२,५९
गो-वीथी^२- -थी, -थीम् अप ५०,
४,४
गो-वृन्दारक^३- -पाग २,१,६२
गो-वृष- -ष गौध २८, ५, -षम्
अप ३०^३, २, ७, ६८, २,
० ३४
गो-वृज- -जे विध ६०,१९
१गो-व्रत- -तम् विध ५०, २४,
५३,३
२गो-व्रत^४- -त हिश्री १७, ५,
२४
गो-व्यच्छिन्(न्>)नी^५- -नी आप्रश्री
१८, १०, २३, हिश्री १३, ४,
१०^६
गो-शकृत्- -कृत् वैगृ ३,२३ ३,
बौध १,६,३६
गोशकृत्-सुवर्णा(र्ण-अ)पो(प-अ)
भि-गौरसर्षप- -पान् बौपि ३,

४,२०^७.
गोशकृद्-मृद्-भस्मन्- -स्मभिः
बौध १,५,२६^१
गोशकृद्-युक्त- -क्ते वैगृ २,
५ ८
गो-शफ- -फ आश्री ८, ३, २३,
शाश्री १२, २३, ३, वैताश्री ३२,
२५, -फे शाश्री १२, २४, २^१,
लाश्री ९,१०,५
गो-शब्द- -ब्दः ऋत ३, २, ९
गो-शरण्य- -ण्यम् वाध ६,३०
गो-शान्ति- -न्ति अप ६६, ३, ३,
-न्तिम् अप ६६, १, ३, -न्ते
अप ६६, ३, ३
गो-शाल, ला- -पा ४, ३, ३५^१,
-लाम् कौसू २४,१०,८१,२८
गो-शिरस्- -रः वाश्री २, १, ७,
११
१गो-शृङ्ग- -ङ्गम् अप ३६, २९, १,
-ङ्गेण जैगृ २, ५ १३, कौसू
३१,६, अप ३६, ११, १, शंघ
१७८
गोशृङ्ग-तस् (.) अप ३६, ३, २
२गो-शृङ्ग^२- > गौशृङ्ग^१- -ङ्गम्
जुसू ३,१० ४३, लाश्री ७, २, १
गौशृङ्ग-सञ्जय- -यशो
लाश्री ६,१०,११^२
गौशृङ्ग-हारायण-कौलमल-
बर्हिष-वैतहव्य- -व्यानाम्
लाश्री ७, २, १३
गो(गो-अ)श्व-धुरुष-भूमि- -मिषु
गौध १३, १६

गो(गो-अ)श्व-वाल- -वाल^३- -लेन
काश्री १९, २, ९
गो(गो-अ)श्व(श्व-उ)श्र(जा अ)वि-
-त्रयः बौध २, २, ९, -वीनाम्
कौसू ६९, १६
गो(गो-अ)श्वो(श्व-उ)ष्ट-गजा(ज-अ)-
पहारिन्- -री विध ५, ७७
गो-(<स)ष^४- > ष-तम- -मा
ऋप्रा ५, ३०^१
गो-षा(<सा)^५- -षाः अप्राय
६, ३^१
गोषु-चर- -रे पावा ६, ३, १
१गो-षू, सू, क्त- -क्तैः कौगृ ४,
१, ९^२
गोषूक्तिन्^६- -क्ती सात्र १, १२३;
१२४, ३८२, ३८३, २, ९९५
गौषूक्त^७- -क्तम् लाश्री
७, २, १
२गोषू, सू, क्त^८- -क्तम् जैश्री
२२: १६, निसू ८, ९: ३३,
वाध २८, १४, शंघ १०५, विध
५६, १८, -क्तेन आप्रश्री ६, १९,
९
गोषूक्ता(क्त अ)श्वसूक्त-
-क्ते जैश्री २२ १५, निसू १०,
१३ १
गोषूक्त्य(क्ति-अ)श्वसूक्तिन्-
-क्तिनौ ऋत्र २, ८, १४, सात्र
१, २१२, अत्र २०, २७, ६१,
६४, १०६
गो-ष्टो, स्तो^९]म^{१०}- -म हिश्री १८,
४, ३२, लाश्री १०, १६, १;

- a) व्यप. (पुरुष-). b) = रात्रि-याम-विशेष-। बस । c) = आकाश-मार्ग-विशेष-। d) तु पागम ।
e) विप । बस । f) नाप (गो-हन्त्री-] रज्जु-) । उस उप. <√व्यच्छ [व्यथने] । g) °व्यच्छ^० इति पाठः? ।
h) °पतिलान् इति B । i) °कृद्म^० इति मैसू । j) = गोशाल-जात-। k) = ऋषि-विशेष-। व्यु^१ ।
l) = साम विशेष-। m) गो^० इति पाठ ? यनि शोध । n) द्वस > षस > षस उप = पवित्र-।
o) वैप १ द्र । p) °सू^० इति पाठ । q) = ऋषि-विशेष-। r) पृ ४३३ ० द्र. । s) पृ ४३३ १ द्र ।
°सू^० इति वाध. शंघ विध । t) इति आश्री ।

लुसू २, १६. १४, -मम् आपश्रौ
 २३, १२, १८, -मे लाश्रौ १०,
 १६, १, ६, -मेन आपश्रौ २२,
 १३, २२, हिश्रौ १७, ५, ४२
 गोस्तोम-भूमिस्तोम-वनस्पति-
 सव^१- -वानाम् आश्रौ ९, ५, २
 गो-ष्ट^२- पा ८, ३, ९७, -ष्टः द्राश्रौ
 ८, ४, १३, लाश्रौ, -फंष्टम् काश्रौ
 ८, ४, ४, आपश्रौ, -ष्टस्य आपश्रौ
 १५, १९, १०, भाश्रौ, -ष्टा^३ माश्रु
 २, १८, २, -ष्टात् बौश्रौ २६,
 ५ २७^४, वाश्रौ १, ४, २, ८, आश्रु,
 -फंष्टे शाश्रौ २, ११, ६, आपश्रौ
 ७, १७, १×४, बौश्रौ, आश्रु २,
 १०, ६^०, कौसू ८९, १^१, -फंष्टेन
 कौसू १९, १४, अप १६, १, ६,
 -फंष्टेषु हिश्रौ १७, ६, ३८, अप
 ४, ६, ५, ५८^२, ४, ४, ६९,
 ७, ४.
 १गोष्ठी- पा ४, १, ८२^६
 गोष्ठ-कर्मन्- -र्माणि कौसू १९,
 १४
 गोष्ठ-क्षेत्र-परिष्कन्द^५- -न्दा.
 बौध ३, १०, १३
 गोष्ठ-गत, ता- -तम् बौध १,
 ५, ५५, -ता. कौश्रु ३, ५, ७,
 हिश्रु १, १८, ४
 गोष्ठ-ज- फि ७०
 गोष्ठ-देवताक^६- -कम् अग्र ३,
 १४
 गोष्ठ-मध्य- -ध्ये अप २६, २, ३,
 ६६, १, ५
 १गोष्ठवतीय- -यम् अप २

९१
 गोष्ठ-श्व- पा ५, ४, ७७
 गोष्ठा(ष्ट-आ)दि- -दय पावा
 ५, २, २९
 गोष्ठीन- पा ५, २, १८
 गोष्ठे-क्ष्वेडिन् -, -र्दिन्-,
 -पटु-, -पण्डित-, -प्रगल्भ-,
 -विजित- > -जितिन्-,
 -व्याड^७-, -शूर- पाग २, १, ४८
 गोष्ठे-शय- -यः शध ३९३
 गोष्-पद^८- पाग ६, १, १५७^६,
 -दम् ऋत ४, ६, ९, पा ६, १,
 १४५, -दे सु २, ४
 गोष्पद-मा(त्र>)त्री- -त्रीम्
 हिश्रौ ४, १, ६३
 गो-सस्तव- -वे शाश्रौ १४, ११, ९
 गो-सखि^९- -खायम् ऋप्रा ५, २७^१
 फंगो-सनि^{१०}- पाग ८, ३, ११०, -नि
 तैप्रा ६, १२, -नि आश्रौ ६,
 १२, २, ११, शाश्रौ, -निम् काश्रु
 ३२, ३, अप ४६, ५, २, अप्रा
 ३, १, ७.
 गोसन्धा(नि-आ)दि- -दीनाम्
 शौच २, १०३
 गो-समानाक्षर-नान्त- -न्तात् पावा
 ३, १, ८
 गो-समास-निवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा १, २, ४८
 गो-सव^{११}- -व काश्रौ २२, ११, ६,
 आपश्रौ २२, २५, १८, बौश्रौ,
 -वस्य शाश्रौ १४, १५, ६, -वे
 शाश्रौ १४, ११, १०, आश्रु,
 -वेन शाश्रौ १४, १५, १,

आपश्रौ
 गोसव-विवध- -धौ आश्रौ ९,
 ८, १२.
 गोसव-विवध-वैश्यस्तोम- -मेषु
 वैताश्रौ ३९, १०
 गोसवा(व अ)भिषेचनीय-
 ययो वैताश्रौ ३९, ४
 गो-सहस्र- -स्रम् अप १६, २, ३;
 ४×४, शध ३७९, ३८२; बौध
 १, १०, २१, सुध ४८, ५९.
 गोसहस्र-प्रद- -दः अप १६,
 २, २
 गोसहस्र-विधि^{१२}- -धि अप
 १६, १, १.
 गो-साद- -गो-सादिन्-, गो-सारथि-
 पा ६, २, ४१
 गो-स्तेन- -ना अप ५०, ५, २
 गो-स्त्री- -स्त्रियो पा १, २, ४८
 गोस्त्री-जन्मन्- -न्म अप ६७,
 ३, २
 फंगो-स्थान^{१३}- -नम्^१ आपश्रौ २, १,
 ५, बौश्रौ १, ११ : ८, १३, १८,
 भाश्रौ
 गो-स्थायिन्^{१४}- -यी अप ५०, ६, १
 गो-स्पर्शन- -नम् अप ६८, २, ६१.
 गो-स्रोतस्^{१५}- -तासि कप्र ३, १०, २.
 गो-स्वामिन्- -मिने काश्रौ १५, ६,
 २२.
 गो-हन्तृ- > -न्तृ-ब्रह्मोज्झ-तन्मन्त्र-
 कृद्-भवकीर्णि-पतितसावित्रीक-
 -केषु गौध २१, ११.
 गो-हर्तृ- -र्ता शध ३७७ : १७.
 गो-अग्र- प्रभृ. गो- द्र

a) एकाहविशेषाया द्रस. । b) वैप १ द्र । c) = [तत्स्थ-] रक्षो-विशेष- (तु Knauer) ।
 d) गौ इति पाठ ? यनि शोध । e) पामे वैप १ परि. गोत्रे खि ४, १२, २ टि द्र । f) पामे. वैप १
 लोके मा १९, ४६ टि द्र । g) तु. पागम. । h) परिष्कन्द- = देवालय- । i) विप. । बस. । j) षस. ।
 उदकमाने (ऋत), सेवितासेवितप्रमाणेषु (पा.) सुह् आगम । k) = परिशिष्ट-ग्रन्थविशेष- । l) पामे. वैप १,
 १२६१ f द्र. । m) उस पूष. = रश्मि- । n) षस । उप = छिद्र- ।

गोकक्ष^a - पाग ४, १, १०५, १५४^b
 गोकक्षायणि- पा ४, १, १५४^b
 गोकक्षय- पा ४, १, १०५, पाग ४,
 १, ८०^c, १५४, पावाग ४, १, ७९.
 गोकक्षया- पा ४, १, ८०, पावा
 ४, १, ७९
 गोकक्षी-पति-, पुत्र-पागम
 ३७
 गोकक्षयायणि- पा ४, १,
 १५४.
 गोख- गोखा- टि द्र
 गोखा^d - पाग ४, १, ५६^e
 गोज-वाज- गज-वाज- टि. द्र
 गोण^f -> गोणी^g - पा ४, १, ४२, ५,
 ३, ९०, पाग ५, ३, १०८, -ण्याः
 पा १, २, ५०, पावा १, २, ४९.^h
 रगौणिक- पा ५, ३, १०८
 गोणी-त(र>)री- पा ५, ३, ९०.
 गोत्व- गो- द्र
 गो-तमⁱ - पा, पाग २, ४, ६३^j, ६५,
 -म शाश्रौ १४, ६१, १, ६३, २,
 ऋअ २, ९, ३१, ६७, वृदे, -मस्य
 शाश्रौ १४, ६१, १, १५, १, ८, १६,
 ३, ७, -मा^k शाश्रौ ६, ४, १५,
 लाश्रौ ४, ७, १५, वृदे ४, ९८, पा
 २, ४, ६५, -मात् वृदे ३, १२५,
 -मानाम्^l आश्रौ १२, ११, १,
 -मे वृदे १, ५८, २, १२९, ऋप्रा
 २, ६३, -मेभि^m शाश्रौ १४,
 ५७, १५५.
 गौतमⁿ - पाग ४, १, ४१,
 -०म आश्रौ १२, ११, १६, ३,
 आपश्रौ २४, ६, ११, १३, बौश्रौप्र

१०: ६××, हिश्रौ, -म आश्रौ
 १, ३, ३३××, आपश्रौ, -मम्
 द्राश्रौ ८, २, २३, लाश्रौ ४,
 ६, १६, वैगृ, -मस्य बौश्रौ
 १८, ५२. ११, द्राश्रौ १, ४,
 १७, लाश्रौ १, ४, १३, -माः
 आपश्रौ २४, ६, १०××, बौश्रौ,
 निसू ५, १० १२^o, -मात् ऋअ
 ३, २१, -मानाम् बौश्रौप्र १६
 ५, -माय आम्रिगृ १, २, २
 १६, २१, बौगृ, -मे लाश्रौ
 १०, ४, ६.
 गौतमी- पा ४, १, ४१,
 ७३, -मी अप १, ३, १
 गौतम-धानज्जय- -य्यौ
 लाश्रौ ६, ३, ६, ७, १०, ९, ९,
 ३, १४, १०, २, ७, निसू ३, २
 २४, ४ ९, ४, १ ४
 गौतम-पुत्र- -त्रस्य चाअ
 ५. २
 †गौतम-ब्रुवाण^p - ०णद्राश्रौ
 १, ३, ३, लाश्रौ १, ३, १
 गौतम-भरद्वाज- -जौ शुअ
 ४, १९८
 गौतम-भारद्वाज-याज्ज-
 वल्क्य-हारीत-प्रभृति-
 -तीनाम् वैध १, ९, २
 गौतम-वत् वैध ४, ४, १-७^q
 गौतम-वार्कखण्डि- -ण्डी
 गोयृ ३, १०, ६.
 गौतम-शाण्डिल्य- -ल्यौ
 द्राश्रौ २, ३, १६××, लाश्रौ १,
 ७, १४, ३, ९, २, ४, २, ३,

कप्र २, ८, २१
 गौतम-शाण्डिल्यायन- -नौ
 द्राश्रौ ५, ३, २, लाश्रौ २, ७, १
 गौतम-सार्दागव- -वौ लाश्रौ
 ७, ९, १३.
 गौतमे(म-इ)च्छा- -च्छायाः
 वैध ४, ८, ८
 गौतमीय- -यम् द्राश्रौ १,
 ४, ४, २, ३, २०, लाश्रौ १, ४, २,
 ७, १८, ९, ९, २, शुअ ४, १६२,
 -ये द्राश्रौ २, १, २५, लाश्रौ १,
 ५, १९, -येन लाश्रौ ८, २, २०-
 गौतमि- -मिम् शाण्डि, १०, ३
 गौतम-गौर- पाग २, २, ३८^m.
 गौतम-चतुष्टोम- -मयो आपश्रौ
 २०, ९, १२, हिश्रौ १४, २, ४२,
 -माभ्याम् आपश्रौ २२, ११,
 १५, हिश्रौ १७, ५, ८.
 गौतम-वत् आपश्रौ २४, ६, ११^l,
 १३, बौश्रौप्र १० ६^l, ११:
 ४××, हिश्रौ २१, ३, ९^l
 गौतम-स्तोमⁿ - म आश्रौ १०,
 ४, १, ८, २, -मम् आश्रौ ९,
 ६, १, -मेन आश्रौ ९, ५, १४.
 गौतमा(म-आ)दि- -दिभि
 कप्र ३, ७, १४
 गौतमाद्यु(दि-उ)क्त- -क्तः कप्र
 २, ४, ८
 गोत्र- प्रभृ, १गोत्व- गो- द्र
 रगोत्व- पाउना ४, ११६
 गोद्- पा, पाग ४, २, ८२
 गोदन्त^a - (> गौदन्तेय- पा) पाग
 ४, १, १२३

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु^१ । b) तु पासि। गोकक्षय- इति पागम, गोकक्षय- इति पाका भारुडा च, मौकुक्षय- इति [पक्षे]भाण्डा । c) गौलक्षय- इत्यपि पाका । d) = पञ्च-विशेष-। व्यु^१ । e) गोख- इति पागम । f) = धान्याद्यावपन- [शाण-कोष- प्रभृ.]। व्यु^१ । g) वैप १ द्र । h) तु. पागम । i) बहु < गौतम- । j) पाठः^१ गौतमाः इति शोध (तु संस्कृटि टि) । k) वैप २, ३ खं द्र । l) सप्र गौतमवत् <> गौतमवत् इति पामे । m) गौतमगौर- इति [पक्षे] पागम । n) = ऋतु-विशेष-।

१गो-दान- गो- द्र
 २गोदान^a- पावाग ५, १, ९४, -नम्
 काश्रौ ५, २, १४x, आपश्रौ,
 -नयो बौश्रौ २५, १० २,
 -नस्य कौश्र २, ७, १५, -नात्
 पाश्र ३, ६, २, -नै गोश्र १, ९,
 २४, द्राश्र २, ५, १, -नेन कौस्
 ५४, १५
 गौदानिक^b- पावा ५, १, ९४,
 -कम् आश्र ३, ८, ६०, -कै
 काश्र १७, १.
 गौदानिक-व्रातिकौ(क-श्रौ)
 पनिषद- दा जैश्र १, १६: १
 गोदान-करण- णम् जैश्र १,
 १८ ३
 गोदान-कर्मन्- मै कौश्र १, २१,
 १७, शाश्र १, २८, १९, आमिश्र
 २, २, ५ २१, हिश्र २, ६, १५;
 -मैण भाश्र १, ९. १३, १०
 १२, -मैणि कौश्र १, २१, १६;
 शाश्र १, २८, १८
 गोदान-व्रत- तम् आपश्र १६,
 १४
 गोदान, निक^d]-व्रातिका (क-श्रा)
 दित्यव्रतौ(त-श्रौ)पनिषद-
 ज्ये L, ज्यै^e]-ष्टसामिक- -का: गोश्र
 ३, १, २६, द्राश्र २, ५, १७
 गोदाना(न-श्रा)दि- दि गौध २,
 १५
 गोदानिक^b- क माश्र १, २१,
 १३
 गोदावरी^g- -र्या: पावा ५, ४, ७५,

-र्याम् विघ ८५, ४२
 गोघ^h- -घान् अप ५०, २, ४
 १गोघा^h- पाग ३, १, २७, ३, १०४,
 ४, १, १२३, -घा अप १, ३०, २,
 ६८, ५, ८, वृदे ६, १०६, शुप्रा
 ५, ३७^f, अप्रा ३, ४, १^f, -घाम्
 विघ ४४, २९, -घाया वैश्रौ
 १८, १९: २९, -घायाम् बौश्रौ
 २, ५ ७^f
 गौघार- पा ४, १, १३०
 गौधेय- पा ४, १, १२३
 गौधेर- पा ४, १, १२९.
 गोधा-कच्छप-श्वाविट्-क (<श)र्यक
 L, शल्यक^m]-खड्ग-शश-पूति-
 L, तीकⁿ]-खष-वर्जम् आपघ १,
 १७, ३७, हिघ १, ५, ६८
 गोधा-प (द>) दी- पाग ५, ४,
 १३९
 गोधा-वीणा-(क>) का^l- -का
 काश्रौ १३, ३, २१
 गोधा-शलभ-शल्यक-मत्स्य-कूर्म-
 सिञ्जुमार- -राणाम् सुघ ३९
 गोधो (धा-उ)ल्लूक-काक-क्षष-वध-
 -धे विघ ५०, ३२
 २गोधा^l- -घा ऋश्र २, १०, १३४,
 वृदे २, ८२, साश्र १, १७७, २,
 ४५७
 गोधाशन- (> गौधाशनिक-)
 गो-वासन- टि द्र
 १ गोधुकसा- -सा अप ४८, १३९^f.
 गोधूम^h- पाउ ५, २, पाग ४, ३, १३६,
 १५२^k, -मम् काश्रौ १४, ५, ९,

बौश्रौ २२, १३ १८, -मा:
 आपश्रौ १६, १९, १३, बौश्रौ,
 -मान् आज्यो ३, ३, -मानाम्
 हिश्रौ १७, २, १८, -मै विघ
 ८०, १
 गौधूम^h- पा ४, ३, १३६, १५२,
 -मम् बौश्रौ २२, १३: १८,
 भाशि ५२^f
 गौधूम-चषाल^l- -ल: काश्रौ
 १४, १, २२
 गोधूम-कलापि, पी^m- -पि शाश्रौ
 १४, ४१, ८, -पी आपश्रौ १८,
 १, ८, -पीम् बौश्रौ ११, १: ५,
 २. १७
 गोधूम-कुवल-चूर्ण- -र्णानि काश्रौ
 १९, २, १७
 गोधूम-खल- -ल: शाश्रौ १४, ४१,
 ७
 गोधूम-चषाल^l- -ल. ⁿ शाश्रौ १५,
 १, १६, वैश्रौ १७, १ ६
 गोधूम-पिष्ट- -ष्टानाम् श्रौश्रौ २२,
 १३ १८, वाश्रौ ३, १, १, ८,
 -ष्टै: हिश्रौ १४, ४, १८
 गोधूमपिष्ट-चषाल^l- -ल. ⁿ
 आपश्रौ १८, १, ८, हिश्रौ १३,
 १, ७
 गोधूम-सक्तु- -क्तुभि आपश्रौ
 १९, ७, १, माश्रौ ५, २, ११, १६,
 वाश्रौ ३, २, ७, ६३, हिश्रौ २३,
 १, २५
 गोधूमो(म-उ)र्वरा- -रा शाश्रौ
 १४, ४१, ६, हिश्रौ १७, २, १८.

a) =(गाव- [केशाः] दीयन्ते L < √दो अवखण्डने] अत्र) शिरोभाग-, [तत्स्थ-] केशसमूह- (तु.
 काश्रौ प्रश्र), =[तदधिकृतकर्मन्-] संस्कार-विशेष-। b) विप । तदस्य प्रयोजनमित्यर्थे ठञ् प्र (पा ५, १,
 १०९) पक्षे वृद्धयभावश्च उरसं (पा ७, २, ११७)। c) विप । तस्येदमीयः प्र । d) गोश्र पाठः। e) =नदी-
 विशेष-। व्यु ?। f) =देश-विशेष-। व्यु ?। g) वै १ द्र । h) हिघ पाठः। i) =वीणा-विशेष-।
 हस्ते प्र । पूष =गोधा-वर्मेन्-। j) =ऋषिका-विशेष-। व्यु ?। k) तु पागम । l) विप । वम ।
 m) उप. =सुष्टि-। n) सप्र गोधूमच <> गोधूमपिष्टच इति पामे ।

गोनर्त- (> गौनर्तिक- पा) पाग
 ५,१,६४^८
 १गोप- √गुप् द्र
 २गोप- गो- द्र
 ३गोप^८ - -०प वैताश्रौ १०,१७^८
 गौपायन^८ - -नः साञ्ज १,४४९-५०,
 २,४५९, -नाः ऋञ्ज २,५,२४,
 वृदे ७,९०, -नान् ऋञ्ज २,१०,
 ५६, वृदे ७,६७, ९७, -नानाम्
 निसू ९, ९ २६, -नै वृदे ७,
 १००
 ४गोप^८, ७ > पा-गिरि- ऋत ४,
 ७,१०
 गो-पथ^८ - थ अप २८, १, २, अञ्ज
 १९,२५,४७, -थात् अप ३१,
 १०,५, -थेन अप २७,२,५
 गोपथो(यउ)क्त- -क्तैः अप २०,
 ६,२
 गोपन- , गोपयत्य- √गुप् द्र
 गो-पयस्- गो- द्र
 गोपवन्^८ - पाग २,४,६७,४,१,१०४,
 -न. ऋञ्ज २, ८, ७३, साञ्ज १,
 २९,८९, -ना^८ बौश्रौप्र २७ ८
 गौपवन- पा २, ४,६७, ४, १,
 १०४
 गोपवना(न-आ)दि-प्रतिषेध- -धः
 पावा २,४,६७
 १गोपा^८ - -पा आश्रौ ८,१०,१, आपसं
 १, ७, ११, अप्रा २, २, १३^२,
 -पा आश्रौ ४,१२,२, १३, ७x५,

शाश्रौ, या ३, १२, ७, ९६, १२,
 ३८, -०पा आपश्रौ १२, ३, २,
 हिश्रौ ८, १, ४१, -पाम् आश्रौ
 ४, ६, ३, आपश्रौ, या १४, ३
 गोपानसि^८ - पाउभो २, १, २३ ८
 गोपायत् - प्रभृ √गुप् द्र
 १गो-पाल- गो- द्र
 २गोपाल^८ - > गौपालायन^८ - -न
 बौश्रौ १८, २६०७, १५
 गोपालि^८ - -लि बौश्रौप्र ४८ २
 गोपि^८ - -पयः बौश्रौप्र ४८ ५
 गोपिका^८ - (> गौपिक- पा) पाग
 ४,१,११२^८
 गोपिल- (> गौपिलेय^८ - पा) पाग
 ४,२,८०^८
 १गो-पीथ- गो- द्र.
 १२गोपीथ^८ - थ अप्रा ३,४, १
 १३गोपीथ^८ - थाय आपश्रौ १, २०,
 ११, बौश्रौ १, १४. १९, वाश्रौ
 १,२,४,३०, हिश्रौ १, ५, २०,
 बौग्य १,७,३६
 गोपीथ^८ - थ्याय ऋप्रा ८,४७
 गोपुर^८ - -रे अप ७०^३, ११, २६
 गोपुरा(र-अ)हाल-शैल-प्रासाद-
 वेद्मन् - -श्मनाम् अप ६४,
 ३,९
 गो-पुरीष- प्रभृ गो- द्र
 गोप्त- , गोप्री- , गोप्य- √गुप् द्र
 गोफिल- (> गौफिलेय-) गोपिल-
 टि द्र

गोफिल, मिजिल, लिजक^८ - (> गौफि-
 L, मिजिल, लिजक- पा) पाग ४,
 १,११२०
 गोबल^८ -> गोबल-दशरात्र- -त्रः
 बौश्रौ २३, १३ : ८
 गोभिल^८ - (> गौभिलेय- पा)
 पाउभो २, ३, १०८, पाग ४, २,
 ८०^८, -ला^८ बौश्रौप्र ४३ : ४;
 -लेन कप्र ३, ७, ६
 गोभिल-गौतम- -गौ कप्र २, ८,
 २४
 गोभिलो(ल-उ)क्त- -क्तानाम् कप्र
 १, १, १
 √गोम् पावा चुरा उभ उपलेपने
 गोमठ- (> गौमठिक-), गोमथ-
 (> गौमथिक-) २गोमय- टि द्र.
 १गोमय- प्रभृ गो- द्र
 २गोमय- (गौमथिक^८ - पा) पाग.
 ४, २, ८०^८
 ?गोमह मैञ्ज १
 गोमहिषी- प्रभृ गो- द्र
 गोर- (> गौर- पा) पाग ५, ४,
 ३८^८
 गो-रथ- प्रभृ गो- द्र
 ?गोर्मायूक^८ - -कस्य चाञ्ज ४० :
 १७
 गोल^८ -> गौलायन- गोलङ्क- टि.
 द्र
 गोल-वत्- अप ५८^३, २, ९, ४, ९.
 गोलक^८ - -कः वैध ३, ११, ४^८, -काः

- a) तु. पागम । b) वैप १, १२६१ ९ ९ द्र । c) अपत्ये फक् प्र उस (पा ४, १, ९९) ।
 d) = पर्वत-विशेष- । e) = [आथर्वणा-] ऋषि-विशेष- । व्यु^२ । f) = [तत्प्रोक्त-] ब्राह्मणग्रन्थ-विशेष- । g) वैप १
 द्र. । h) बहु. < गौपवन- । i) = सौधाग्र-वृद्धिस्- । व्यु^२ < √गुप् वा गो- + √पा [पाने] इति वा
 अभा । j) = ऋषि-विशेष- । व्यु^२ । k) व्यप । व्यु^२ । l) = देश-विशेष-^२ । व्यु^२ m) गोहित-, गोहिल-
 इति पाका, गोफिल-, गोभिल- इति पागम । व्यु^२ । n) = पुर-द्वार- । o) तु पागम । °लि°- इति भाण्डा,
 °भिलिक्- इति पाका । p) < √*गुम् (शब्दे [तु MWA]) । q) बहु. < गौभिलेय- r) गोमथ- इति
 पाका, गोमठ इति पागम । s) = मण्डलाकार-, व्यप च । व्यु^२ < √गुङ् [रञ्जायाम्] इति अभा. प्रभृ ।
 t) बप्रा । व्यु^२ । u) = (विधवाया) जारज- ।

शाघ ४, १९, ४^a, काघ ७०, ५^a,
कघ ३, ९, १८^b, -कानाम्^b गोघ
४, ४, २५
गो-लक्षण- गो- द्र
गोलत्तिका^c- का शुभ्रा ५, ३७
गोला, लु^dन्द- (> गौला, लु^dन्ध-
पा) पाग ४, १, १०५
गोलाङ्क^e- (> गौलाङ्कायन- पा)
पाग ४, १, ११०^f
गोलाङ्गल- प्रभृ गो- द्र
गोषद्^g- (> गोषदक- पा) माश्रौ
१, १, १, २४, वाश्रौ १, २,
१, १३, चाश्र १:२, पाग ५, २,
६२^h
✓गोषट् पाधा भ्वा. आत्म सञ्जाते
गो-ष्टोम- प्रभृ, १गोष्ठी- गो- द्र
२गोष्ठीⁱ- (> गौष्ठ- पा) पाग ४,
२, ११०
गोष्-पद- प्रभृ गो- द्र
गोह^j- (> गौह- पा) पाग ४, २,
७७
गो-हनृ- प्रभृ गो- द्र
गोहित- (> गौहितेय-), गोहिल-
(> गौहिलेय-) गोपिल-
टि द्र
१गोह्य- ✓गुह् द्र
२गोह्य- (> गौह्य-) गोह- टि द्र
गौकक्षायणि-, गौकक्षी^k-, गौकक्ष्य-,
गौकक्ष्या-, गौकक्ष्यायणि-
गौकक्ष- द्र
गौकुक्ष्य- (> गौकुक्ष्यायनि-) गो-
कक्ष- टि द्र

गौग्गुलव- गुग्गुलु- द्र
गौड-> ष-युर- पा ६, २, १००
गौडिक-, गौडी- गुड- द्र
गौण-, १, २गौणमुख्य-, गौणागुणिक-,
१गौणिक- गुण- द्र
२गौणिक- गोणी- द्र
गौतम- प्रभृ गौतम- द्र
गौतमगौर- गौतमगौर- टि द्र
गौदन्तेय- गोदन्त- द्र
गौदानिक- प्रभृ २गोदान- द्र
गौदेय- गुद- द्र
गौघार- १गोघा- द्र
गौघाशनिक- गोघाशन- द्र
गौधूम- गोधूम- द्र
गौधेय-, गौधेर- १गोघा- द्र
गौपत्य- गो- द्र
गौपवन- गोपवन- द्र
गौपायन- ३गोप- द्र
गौपालायन- २गोपाल- द्र
गौपालिक-, गौपाल्य- गो- द्र
गौपिक- गोपिका- द्र
गौपिलेय- गोपिल- द्र
गौपुच्छ-, गौपुच्छिक- गो- द्र
गौफि, मि, लि, लि, लि, लि- गोफि, मि, लि,
लि, लि- द्र.
गौफिलेय- गोफिल- द्र
गौभिलेय- गोभिल- द्र
गौभृत- गो- द्र
गौमतायन^k- (> ंनक^l- पा)
पाग ४, २, ८०
गौमायन- गो- द्र
गौमि- (गौमि-शाला-) गामि- टि

द्र
१गौर- गोर- द्र
२गौर, रा^m- पाउ २, २८, पाग ४,
१, ४१, ६, २, १९४,
-फं०रⁿ जैश्रौ ३ १५, द्राश्रौ
१, ३, ३, लाश्रौ १, ३, १, -र:
आश्रौ ७, ४, ४, शाश्रौ, या ११,
३९, -रम् बौश्रौ १०, ३४ ६फं,
-रा. उनिसू ८ ९, -राय हियु
२, १६, ४फं, -फंरे बौश्रौ २, ५:
६, द्राघ ४, २, ६, -रै अप ३६,
८, ३, १२, १
गौरी^o- पा ४, १, ४१, -री
बौश्रौ १९, १००२६फं, बाधूश्रौ ४,
३०:७, हिश्रौ १७, ५, २६, वैश्रु ६,
१३ ३^o, कप, या ११, ३९^o,
-फंरी बौश्रौ १९, १० २६^o,
आमिष्ट २, ५, १: २४^o, शंध
११६ २२^o, ऋश्र २, १, १६४,
या ११, ४०, -रीम् वैश्रु ६, १२-
१, वृदे २, ८१, ४, ३६, -फंर्यम्
आपश्रौ ६, २२, १, आमिष्ट १,
१, ४: ३२, ३४, हियु १, ८-
३
गौर-खर- -रम् वाध २१, २
गौर-गत्रय-शरभ- -भा वाध १४,
४३
गौर-गो, गौ, तम- पाग २, २,
३८
गौर-श्रीव, वि^o- (> गौरश्रीवीय-
पा) पाग ४, ३, १३१
गौर-पांसु^r- सु गोघ ४, ७, ५

a) = यवादिमय-पिरड- । b) = पलाशवृत्त- । c) वैप १ द्र । d) तु पाका । e) व्यप । व्यु. १ ।
f) गोलाङ्गय- इति पाका, गोल-, अङ्ग- इति [पक्षे] पागम । g) स्वरूपम् १ वैप १, १२६३ n, १२८१ r
द्र. । h) षद- इति पाका । i) तु पाका पागम च । गौष्ठी- इति भारुडा प्रभृ । j) गाहि-,
२गोह्य- इति पाका । k) अर्थ व्यु च १ < गौमत- इति पागम, < गो-मद्- इति PW प्रभृ । गोमतायण-
इति पाका । l) = देश-विशेष- १ । m) < ✓गु इति । n) गौरावस्कन्दन्- इति BW १ ।
o) = कन्यावस्था-विशेष- । p) श्री इति पाठ ? यनि शोध । q) व्यप । बस । r) विप । बस ।

गौर-मृग- -ग कप्र ३,८,११
 गौर-वर्ण^०- -र्ण अप ७०^३, २३, १
 गौर-सर्षप- -पः विध ४,४, -पाः
 अप १,३१, ४, ४३, १०, अशा
 २२, १, -पाणाम् आपध २,
 १९, १, हिध २,५, ७३, -पान्
 पागृ ३, १०, २४, बौगृ, -पै
 अप १, ४३, ६, विध २३, २२
 गौरसर्षप-कल्क- -ल्केन वाध
 ३, ५५, बौध १, ५, ३५, -ल्कै
 कौगृ ४, १, १
 गौरसर्षपकल्को(ल्क-उ)द्वर्ति-
 त-शरीर- -र विध ९०, ३
 गौरसर्षप-दूर्वा-त्रीहि-यव- -यान्
 कौगृ ४, १, १
 गौरसर्षप-सर्पिः-पयस्- -योभिः
 अप ३७, ८, १
 गौरा(र-आ)त्रैव^०- -याः बौश्रौप्र
 २७. ५
 ३गौर^०- -र साअ १, ४५९, -रा
 बौश्रौप्र ३१: ४, ४८ ४, १३
 गौर-स्वर- प्रष्ट २गौर- द्र
 गौरव-, गौरवित- गुरु- द्र
 गौरवीति^०- -ति हिश्रौ १८, ४, १८^०
 गौरवीत^०- -तम् हिश्रौ १५, ५,
 ४०^१, १६, २, १६^६, -तेन हिश्रौ
 १५, ५, १२^{२०}, १५^१
 गौरव्य^०- -व्या बौश्रौप्र ४५ ६
 गौरषकथ- गौरषकथ- टि. द्र
 गौराङ्गिरस^१- -सस्य लाश्रौ ६, ११, ३
 गौरात्रेय- २गौर- द्र

गौराग्नि^०- -ग्नि बौश्रौप्र ५ २
 गौरिकि^०- -कयः बौश्रौप्र ३० २
 गौरिग्रीवि^०- -वय बौश्रौप्र २७ ४
 गौरिमत्^०- (> ंमती-पा) पावा
 ४, १, ७३
 गौरिवायण(, <न)^०- -णाः बौश्रौप्र
 १७, ५, ४१: ९
 १गौरिवीत- गुरिवीत- द्र
 गौरिवी [त^१,]ति^०- -ति आपश्रौ
 २३, ११, १४^०, ऋअ २, ५, २९,
 ९, १०८^१, १०, ७३
 २गौरिवीत- -०त आश्रौ १२,
 १२, ५, ६, आपश्रौ २४, १०, ८,
 बौश्रौप्र २३ ५, -तम्^० आपश्रौ
 २१, १३, २२^६, बौश्रौ १४, २५:
 २६^०, वाश्रौ ३, २, ५, ९, -तेन^०
 आपश्रौ १४, १८, ६, १०^०, १४^१,
 वैश्रौ २१, ४ १०^१
 गौरिवीत-सामन्^०- -मा
 वैश्रौ २१, ९ ४^१
 गौरिवी [त^१,]ति-वत्^० आपश्रौ २४,
 १०, ८, बौश्रौप्र २३. ५
 गौरिश्रवस^०- -सा बौश्रौप्र ४५ २
 गौरिषकथ^०- पागवा ८, ३, ९८^०
 गौरी- २गौर- द्र
 †गौरीचिति^१- -ति शुअ ३, १८९,
 २२७, साअ १, ३२०, ३३१,
 ५७९, २, ३०२
 गौरीवित^०- -तः निसू ९, ९ १९,
 -तम् लुसू २, १५: ८×४, लाश्रौ,
 -तस्य लाश्रौ १०, ३, १२, ८, ८,

निसू ९, १० २२, -तानि निसू
 १०, ८ २५, -तेन काश्रौ २५,
 १२, ६, १३, ८, माश्रौ ३, ७, १०^३;
 छुसू १, १० ९, १६, निसू ९,
 ९: ६, अप्राय ६, ६
 गौरीविति- -स्य निसू २,
 १२ ३६.
 गौरीवित-बृहत्- -हती द्राश्रौ
 ८, २, १८, लाश्रौ ४, ६, १४.
 गौरीवित-लोक- -कम् छुसू
 ३, २ २४
 गौरीवित-श्यावाश्व- -श्वयोः
 लाश्रौ १०, ८, ९
 गौरीवित-स्वर^०- -र लुसू २,
 १० ४, ८, -रा. छुसू २, १६:
 ४, ७, १०, ३, १: १३
 गौरीविता(त-अ)पाय- -यान्
 निसू ८, ११ २७, ९, ५ २२.
 गौरीवितौ(त-श्रौ)दल- -ले
 लाश्रौ ७, ९, १३
 गौरीषित^०- -षितः बौश्रौप्र ३०:
 २
 गौरुण्डि^०- -ण्डिम जैगृ १, १४. ९.
 गौरुतल्पिक- गुरु- द्र
 गौरुगुलवि^०- -विम् जैगृ १, १४. ९.
 गौलक्ष्य- (> गौलक्ष्या-) गोकक्ष-
 टि द्र
 गौल [L, लु]न्ध- गोल [L, लु]न्द- द्र
 गौलव्य-, °व्यायनि- गुलु- द्र.
 गौलाङ्क्यायन- गोलाङ्क- द्र
 गौलाङ्क्यायन- गोलाङ्क- टि द्र.

a) विप । बस । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । c) = गौरिवीति- (वैप १ द्र) । d) सप्र.
 गौरिवीति: <> गौरिवीति: इति पाभे । e) = गौरिवीत- (वैप १ द्र) । f) सप्र गौरिवीतम् <>
 गौरिवीतसामा इति पाभे । g) सप्र गौरिवीतम् <> गौरिवीतम् इति पाभे । h) सप्र गौरिवीतेन <>
 गौरिवीतम् <> गौरिवीतेन इति पाभे । i) सप्र गौरिवीतेन <> गौरिवीतेन इति पाभे । j) = साम-विशेष- ।
 व्यु ? । k) व्यप । व्यु ? । l) बौश्रौ पाठ । m) वैप १ द्र । n) = साम-विशेष- । वैप १, १२६४ पृ द्र. ।
 o) पाभे पृ ९९३ i द्र. । p) = मुनि-विशेष- । व्यु. ? < गौरी-सकथ- (बस) इति पाका पागम । q) ऋष^०
 इति [पक्षे] पागम । r) वैप १, १२६४ f द्र । s) उप = सामन्- । t) = आचार्य-विशेष- । व्यु ? ।

गौलोमन- गो- द्र
 गौल्गुलव- गुल्गुलु- द्र
 गौवासन- (> णिका-, की-) गो-
 वासन- टि द्र
 गौशृङ्ग- गौशृङ्ग- गो- द्र
 गौष्ट्रायण- णा बौश्रौप्र ३ ५
 गौष्ठी- (> गौष्ठ-) रगोष्ठी- टि द्र
 गौहलन्य- न्यायनि- गुहलु- द्र
 गौहितेय- गोहित- द्र
 गौहिलेय- गोहिल- द्र
 ग्ना^a- ग्ना शाश्रौ १, १५, ४, ८,
 २१, १, आपश्रौ १४, १२, ४,
 काठश्रौ १३०, बौश्रौ १०, ७
 १, माश्रौ ५, २, १४, १०, वाश्रौ,
 अप४८, ८६, १०२, वृदे ८, १२८,
 निघ १, ११, ३, २९, या ३,
 २१६, १०, ४७६, १२, ४६,
 ग्रामि ऋप्रा ८, ४४
 ग्नाव^b- व वाधुश्रौ ४, ८४ : ८,
 -वो(?) वम्)० काश्रौ ९, ८, १२,
 आपश्रौ ११, १९, ८, बौश्रौ ७,
 ९ : ११, २५, २१ : १०, माश्रौ
 २, ३, ६, १७, हिश्रौ ७, ८, ४२^d
 ग्नास्-पति^c- -ति ऋप्रा १३, ३०,
 उसू ८, १९
 ग्मन्ता √गच्छ् द्र
 ग्मा^e- ग्मा अप ४८, ७२, निघ
 १, १
 √ग्रभ्, न्थ् पाधा +वा आत्म
 कौटिल्ये, क्रया पर सन्दर्भे,
 चुरा उभ बन्धने सन्दर्भे च,
 ग्रन्थाति बौश्रौ ६, ५ ८, वैश्रौ,

ग्रन्थन्ति वाश्रौ ३, ४, ३, ४५,
 ग्नात् आपश्रौ १, ४, १३,
 बौश्रौ १, २ २०, भाश्रौ,
 ग्रन्थीयात् आपश्रौ ११, ८, ७
 ग्नाग्रन्थ माश्रौ १, ३, ५, १७,
 वाश्रौ १, ३, ७, १७, माश्रु १, ११,
 २०
 ग्रथ^f- >ग्रथि(व>)नी^g- नी
 काश्रु ७, १२
 ग्रथित- -त् अप २०, ७, १, -त्म्
 वैश्रौ ११, १० : ३, माश्रु २, १४,
 २८, वैश्रु १, ८ : ६, -त्ते वैध १,
 ६, ४
 ग्रथित्वा जैश्रु १, ५ ५
 ग्रथ^h- -थनः कप्र ३, ६, ७.
 ग्रन्थ- -न्थः अप ३१, १०, ५,
 -न्थम् या १, २०, -न्थान् वाश्रौ
 ३, ४, ४, १३ⁱ, -न्थे ऋअ ३,
 १७, वृदे ५, २३, भाशि १०७,
 पा ४, ३, ८७, ११६, पावा ४,
 ३, ८७, १०१, ११६, -न्थेषु
 वृदे २, ९०, ९२, या १, ९
 ग्रन्थ-परिसमाप्ति- -सेः अश्र १,
 ३२.
 ग्रन्थ-संख्या- -ख्यया अपं
 ३ : १
 ग्रन्था(न्थ-अ)न्त- -न्ते पावा ६,
 ३, ७८
 ग्रन्थान्ता(न्त-अ)धिक- -के
 पा ६, ३, ७९
 ग्रन्थो(न्थ-उ)च्चारण-शिक्षक-
 -कान् नाशि १, ६, २२

ग्रन्थि^j- पाउ ४, १४०, पाग ५, २,
 ९७, -न्थि- कौश्रु ३, ५, २१;
 शाश्रु २, २, २, ३, ८, ५१;
 आशिग्रु, -न्थिभि- वाश्रौ ३, २,
 ५, २५, अप २३, ३, ५ -न्थिम्
 काश्रौ २, ७, ३, ८, ४, १९;
 ग्नापश्रौ १, ४, १३^k × ४, १०,
 १०, ३^l, १३, ७, १६^m, काठश्रौ,
 भाश्रौ १०, ६, १७ⁿ, हिश्रौ १०,
 २, १२^o, -न्थी वैश्रौ १४, ६ : १६;
 ११ १, हिश्रौ ७, ५, १८, ३३, ७,
 २१; -न्थीन् आपश्रौ ११, ६, ३;
 १३, २४, १४, काठश्रौ ९०;
 बौश्रौ, -न्थे आश्रौ ८, ३, १९;
 वैताश्रौ ३२, २५
 ग्रन्थि-करण- -णम् आपश्रौ ११,
 ८, ६, बौश्रौ २१, ९. ११, -णे
 बौश्रौ २०, ३ १, १० १५.
 ग्रन्थि-छेद्- -दाः अप ५०, ५,
 २
 ग्रन्थिन्^p- -न्थिनम् आशिग्रु ३,
 १२, १ १५
 ग्रन्थि-भेदक- -कानाम् विध ५,
 १३६
 ग्रन्थि-ल- पा ५, २, ९७.
 ग्रन्थि-सयु(क>)का- -क्त्
 अप २६, ४, ३^q
 ग्रन्थि-समन्वि(त>)ता- -त्ता
 अप २६, १, ४
 ग्रन्थि-ही(न>)ना- -ना अप
 २६, ४, २.
 √ग्रभ् प्रभृ √ग्रभ् द्र

a) वैप १ द्र । b) =त्वष्ट्र-देव-। ग्ना- + (*भृत्- > [नैप्र]) *व- (भाप [इति-]) > बस.
 यनि । पाप्र मत्वर्थाय वप् प्र उरसं । c) पाठः? यनि शोधः (तु वैप १, १२६८ f, सजात्य- > -स्यम् इत्यत्रापि
 टि द्र, वैतु ० ग्ना-वत्->प्र३ इति [वाधुश्रौ], द्वि. वा सं वेति [आपश्रौ] च) । पाम ३, १, ३४ गा वो नेष्टार इत्यस्य
 स्थाने ग्रावं नेष्टार इति शोध । d) ?ग्रा^o इति पाठ ? यनि. शोध । e) =पृथिवी-। व्यु १ < √ग्रभ्
 इति दे । f) भाप । घञर्थे क प्र. । g) विप (रज्जु-। h) =स्तवक-। कर्मणि नक् प्र. बसे (पाउ ५, ३) ।
 i) =ग्रन्थि-। j) पामे. वैप १, १०४१ ० द्र । k) =ग्रन्थि-रोगयुक्त । मत्वर्थे इति: प्र. (पा ५, २, ११६) ।
 वैप४-द्वि ३४

√ग्रस् पाधा. भ्वा आत्म अदने,
 चुरा उभ ग्रहणे, ग्रसते अप
 ५०, ५, १, ६४, ८, ८, ६८, ३,
 १०, १२, असति अप १८, ३,
 ७, ५३, ३, ५, ६७, ६, १,
 ग्रसन्ति वैगृ ५, १ १८, ग्रसेत्
 वाध १२, १९, ग्रसेत् माशि १०,
 ७, याशि २, ६९.
 ग्रसीत् आपध २, १९, ५, हिध
 २, ५, ७७
 ग्रस्यन्ते या ४, २७, ६, १९
 ग्रसयेत् काश्रौ २५, १, १८,
 आपश्रौ २, ५, ४, वैश्रौ २०, ९
 ८, हिश्रौ १५, २, ३
 ग्रस- > ग्रसिष्ठ- -ष्ठः या ६, ८१
 ग्रसत्- -सन्त अप ६२, ३, ३
 ग्रसित, वा- पा ७, २, ३४, -ताम्
 आपश्रौ १५, ८, १२१, बौश्रौ
 ग्रसित्- > ग्रसित्-तम- -म या
 ६, ८
 ग्रसिष्णु- -ष्णु विध ९७, १९
 ग्रस्त- -स्त. आ ३६, २४, ११;
 -स्तम् अप ७२, १, २, ऋप्रा
 १४, ८^a
 ग्रस्त-दोष- -धम् शैशि ११८,
 १८७, याशि २, १७, नाशि
 २, ६, ९
 आस^b- -स बौध ३, ८, २४, ऋप्रा
 १४, १२^a, २२^a, -सम् आपध
 २, १९, ५, बौध ४, ५, ८, विध
 ८, १७, हिध २, ५, ७७, -सा
 शध ४५२, वाध, -सान् वाध
 २३, ४५, शोध १५९. ७, बौध,
 -से आपध २, २८, १०, हिध २,
 ६, १०.

आस-कर्म-कर्तृक- -कस्य पावा
 ८, २, ४४
 आस-प्रदान- -नेन विध २३, ६०
 आस-प्रमाण- -णम् गौध २७,
 ११
 आस-मात्र^c- -त्रम् विध ५९,
 १६^d
 आस (स-अ) वरार्ध^e- -धर्मम्
 आपृ २१, ९, आपध २, १७,
 १६
 आस-संसृष्ट- -ष्टम् सुध ६१
 आसा(स-आ)च्छादन- -नम् वाव
 १९, ३३, -नै. बौध २, २, ३८
 आसा(स-आ)च्छादन-स्ताना
 (न-अ)नुलेपन- -नेषु वाध १७,
 ६२
 आसा(स-अ)नुमन्त्रण- -णम्
 गौध २७, ९
 आसा(स-अ)वरार्ध^e- -धर्मम्
 गौपि २, ५, १८
 आसो(सउ)पचय-भोजिन्-
 -जी वाध २३, ४५
 आसयित्वा आपश्रौ ६, ३०, १४
 जग्रसान- -न सु १७, २, -नान्
 ऋप्रा ४, ६६
 √ग्रह √ग्रह द्र
 ग्रह^f- पा ३, १, १४३, ३, ५८, पाग
 ४, २, ८०, ५, २, १००^g, ६, १,
 २०३, -हः आश्रौ ५, ५, २१,
 शाश्रौ १, १४, ५××, आपश्रौ,
 माश्रौ २, १, ४, २^h, -हम्
 आश्रौ २, ९, ९^h, ५, १७, ३, ८,
 १३, १०, २०, शाश्रौ ८, ५, २××,
 काश्रौ, आपश्रौ १९, १४, २०ⁱ,
 -हयो आश्रौ ५, ५, ६, बौश्रौ

२१, २० १, अप ६३, ३, ६;
 -हस्य आपश्रौ १२, २८, ३;
 बौश्रौ ७, ५ ४६××, हिश्रौ,
 -हा शाश्रौ १३ ११, ७, आपश्रौ
 १२, १९, ५^h, १८, १२, १६, बौश्रौ
 १०, ५७: ६××, माश्रौ, -०^hहा:
 शुअ १, ५५६, -हाणाम् आश्रौ
 ३, ९, ३, शाश्रौ ७, ४, १५;
 काश्रौ, -हान् काश्रौ २५, १२,
 १२, बौश्रौ १०, ५७: ६××,
 -हान् शाश्रौ १३, ११, २,
 काश्रौ ९, ७, ८××, आपश्रौ,
 -हाभ्याम् आपश्रौ १२, २१, ७,
 -हाय आपमं २, ७, २१, वैगृ २,
 १४, २^h, हिगृ १, १०, ४^h, -हे
 शाश्रौ ७, १५, १७, बौश्रौ, -हेऽहे
 बौश्रौ २२, १८ १३, २३, ५:
 २०, -हेण आश्रौ ५, १४, १,
 १८, १, ६, ५, २३, आपश्रौ १२,
 २६, १६××, काठश्रौ, -हेभ्यः
 काश्रौमं ३३: ९, माश्रौ, -हेषु
 शाश्रौ ७, १५, १५; १४, ५७,
 १६, आपश्रौ १४, ९, ४××;
 बौश्रौ, -है आपश्रौ १४, २४,
 ७××, वाश्रौ, -हौ आपश्रौ १२,
 २२, ६, ८^h, बौश्रौ ७, १२
 २१^h××, माश्रौ
 ग्रह-वक्ष- -क्षाणि अप ४, ६, ४;
 ६९, ७, ३
 ग्रह-काल- -काल हिश्रौ १०, ८,
 ४१, -ले आपश्रौ १३, १०, ११,
 १८, २, १
 ग्रह-कल्सि- -सि. आपश्रौ २१,
 १३, ६, २१, २, -से बौश्रौ १६,
 १०: १, १६ ७.

a) = उच्चारणदोष-विशेष- । b) = कवल- । c) विप । बस । d) तन्मात्रम् इति जीस ।
 e) छान्दसो ह्रस्वः इति हरदत्त । f) वैप १ द्र । पाप्र < √ग्रह इति । g) तु पागम । h) पाभो वैप
 १, १२६५ f द्र. । i) प्रतिग्रहम् इति ० शोध (तु ZDMG [५७, ७४२] ।

ग्रह-गण- गान् अप ३१, ७, ५,
७०, ९, ५
ग्रहगण-खचित- -ता अप ७०^३,
११, २९
ग्रहगण-भिन्न-भूमिकम्प^४-
-म्पा, -म्पान् अप ५१, ५, ४
ग्रह-गृहीत- -तम् वाधुश्रौ ४, २६ ४,
-तानाम् आमिष्ट २, ५, ३.
४३, बौध् ३, ७, २७
ग्रह-ग्रहण- -णम् काश्रौ १३, २,
१४, -णात् आश्रौ ५, १२, ११,
६, १०, १३
ग्रहग्रहण-प्रतिगर-होम- -मेषु
काश्रौ ३, ८, १८
ग्रहग्रहणा(ग-आ)दि- -दि
काश्रौ २४, ३, ३९
ग्रह-ग्रहा(ह-अ)न्त- -न्ते जैश्रौका
१०५
ग्रह-चमस- -सेषु वैश्रौ २१, १४ :
४, -सै वाश्रौ ३, १, २, ३८
ग्रह-जात- -त जैष्ट २, ९ . २१^{१०}
ग्रह-जात-क- -कम् अप ५१, १, ४^{१०}
ग्रह-त्व- -त्वम् वाधुश्रौ ४, ८३ : ४.
ग्रह-दाक्षिण^१- -गानि आमिष्ट १, २,
१ . १०^६
ग्रह-देवता- ताः जैष्ट २, ९ १७
ग्रह-दैवत-पूजा- -जाम् अप १,
४२, १
ग्रह-नक्षत्र-ज- -जा आज्यो १४,
९
ग्रह-नक्षत्र-तारा- -राणाम् अप ६४,
९, ७
ग्रह-नक्षत्र-पीडा- -डायाम् अप
२६, ५, ९

ग्रह-नक्षत्र-माला- > ँलि(न् >)
नी- नीम् अप ४, ३, ५
ग्रह-नाराशस- -साः आपश्रौ १२,
२८, ९, १३, ८, ३, ६, १३,
१३, वैश्रौ १५, ३६ : १७,
-सानाम् वैश्रौ १५, ३६ ९,
हिश्रौ ८, ८, ३४, ३९, ९, २,
२७
ग्रह-पार्त्र- -त्रम् आश्रौ ५, ५, ७,
-त्रे वाश्रौ ३, २, ५, ९
ग्रह-पुत्र- -त्रा अप ५२, १, १.
ग्रह-पूजा- -जाम् वैष्ट ४, १४ १७
ग्रह-प्रभेदन- -ने काध २७६ . १
ग्रह-मोक्ष- -क्षौ याशि १, ४७
ग्रह-याग- -गाः अप १८^३, १९, ३
ग्रह-युद्ध- -द्धम् अप ५१, २, ३
ग्रहयुद्ध-तन्त्र- -न्त्रम् अप ५१,
१, २
ग्रह-रूप- -पेण आमिष्ट २, ५, १
५६
ग्रह-वत् मीसू १०, ७, २
ग्रह-वत्- -वान् निम् २, १३ . १३
ग्रह-वर्जम् आमिष्ट ३, ४, १ ३०
ग्रह-वर्ण- -र्णानि आमिष्ट २, ५, १
१२, जैष्ट २, ९ ६
ग्रह-वैषम्य- -म्यम् अप ७२, ३, ६
ग्रह-शस्त्रा(स्त्र-अ)भाव- -वात्
द्राश्रौ २, ४, ६
ग्रह-शान्ति- -न्तिम् वैष्ट ४, १३ १
ग्रह-शेष- -षम् काश्रौ ९, १४, १४,
वाश्रौ ३, २, २, ३१, वैश्रौ १५,
३७ ९, ३८ १२
^१ग्रहशेषान् वाश्रौ ३, २, ६ २८
ग्रह-संछादन- -नम् अप ६१, १,

१९
ग्रह-सपात- -नम् हिश्रौ ८, ८, ४८;
५५, ६१
ग्रह-सादन- -नम् काश्रौ ९, ५, २३.
^१ग्रह-स्थ- -स्थान् बौश्रौ २३,
११ : ८
ग्रह-स्थाली- -स्त्रीः काठश्रौ ११७.
ग्रह-स्थिति- -तिम् वैष्ट ३, १४ ७
ग्रहा(ह आ)गम- -गम् अप ५८,
१, ११
ग्रहा(ह-अ)ग्र- -ग्रम् माश्रौ २, ३,
५, ३, -ग्राणि आपश्रौ १२, १४,
४, माश्रौ २, ३, ५, १, वाश्रौ ३,
२, ३, ३३, -ग्रे हिश्रौ १५, ५,
४०, -ग्रै. बौश्रौ २६, १५ : १.
ग्रहाग्र-तसः(ः) वैश्रौ २१, ९ . ४.
ग्रहा(ह-आ)तिथ्य- -थ्यम् जैष्ट २,
९ . ३, अप ७०, २, ४
ग्रहातिथ्य-बलिकर्मो (म-उ)
पहार- -रान् आमिष्ट २, ५,
१ : १
ग्रहातिथ्य-विधि- -धौ अप २४,
१, २
ग्रहा(ह आ)दान-प्रभृति- -तिः
माश्रौ २, ४, २, ४१, ५, १, ४९.
ग्रहा(ह-आ)धान^१- -नेषु बौश्रौ
२३, ११ . १३
ग्रहा(ह आ)न्तर्-उक्त्य^१- -क्त्यः
आश्रौ ९, ६, २, -क्त्ये शाश्रौ
११, २, १४
ग्रहा(ह-अ)न्तर्गत-स्तनित-
गम्भीरनिस्वन^१- -नेषु अप ६५,
१, ६
ग्रहा(ह-अ) भाव- -वे मीसू १०,

a) विप । पस > बस । b) परस्पर पाभे । c) पाठ. ^१ ँता. इति शोषः । ँहा., जाताः इति C.
शोषः ? । d) कारडविशेषयोः द्वस (=तै १, ४, १-४२, ४३) । e) पाभे पृ १००० B द्र. । f) पूष = सोम- ।
g) पाठ ? ग्रहान् इति शोषः । h) उस. उप. अधिकरणे कृत् (तु भवस्वामी) । १) विप. । तुस. > बस. ।
j) विप. । षस > कस > तुस > बस ।

१,२८.
 ग्रहा(ह-आ)म्नान- नम् मीसू रे,
 ६,३०, १०,४,३^a
 ग्रहा(ह-आ)यतन- > °न-भूता-
 यतना(न-अ)भ्यायतन- नेषु
 आमिगृ २,६,७ ३७
 ग्रहा(ह-आ)य(त>)त्ता- -त्ता वैगृ
 ४,१३:१.
 ग्रहा(ह-अ)र्थ- -र्थम् मीसू १२,१,
 २४
 ग्रहा(ह-अ)वकाश^b- -शै आपश्रौ
 १३, २, ७, १४, १०, ६, वैश्रौ
 १५, २१ १३×४, हिश्रौ ८,५,
 १५, ९,१,१७, ३,३४
 ग्रहिल- पा ४, २, ८०^c, ५, २,
 १००.
 ग्रहे(ह-इ)ष्टका^d- -का: बौश्रौ १९,
 ७ ५०
 ग्रहे(ह-इ)ष्टका- > °क^e- -कम्
 मीसू ५,३,१५
 ग्रहो(ह-उ)ख्य-याज्या-पृच्छ-हिरण्य-
 वर्णीय^f- -षेषु तैप्रा ९,२०
 ग्रहो(ह-उ)च्छेषण- -णस्य हिश्रौ
 १३,८,२८
 ग्रहो(ह-उ)दय- -यम् आमिगृ २,
 ७,६ २८
 ग्रहोदय-निमित्तक^g- -कम् अप
 ६३,५,४.
 ग्रहो(ह-उ)पस्थान- > °न-कल-
 शोपस्थाना(न-अ)न्त^h- -न्तम्
 वाश्रौ १,१,६,६.
 ग्रहो(ह-उ)पस्पृष्ट- -ष्टानाम् जैगृ
 २,९. ३६

ग्रहो(ह-उ)पहत- -तम् अप ७२,
 १,२.
 ग्रहो(ह-उ)ल्ला(ल्ला-अ)शानि-
 निर्घात- -तैⁱ आज्यो ११,
 १
 ग्रहण- प्रभृ √गृभ्, हृद्
 √ग्राम^j पाधा जुरा पर आमन्त्रणे,
 उभ संघाते
 ग्राम^k- पाउ १,१४३, पाग ४,२,९५,
 -म: बौश्रौ १८,२५ १५,२४,
 १४:५, जैश्रौ १:८, निसू रे,
 ३ १०, कौगृ, पा ६, २, ६२,
 -मम् शाश्रौ १५, १८, १, १९,
 १६,२०,१, आपश्रौ १५,२०,६,
 २०,२२,९,२४,१७, बौश्रौ ९,
 १९. ३१, २०. २६, भाश्रौ,
 आपम २,१३,११^l, आमिगृ २,
 १,३ १८^l, या ९,३०^l, नाशि
 १, ५,१७^l, -मस्य भाश्रौ ११,
 २२, ११, माश्रौ, पावा १, ४,
 २३, -मा निसू ७,७:९, गोगृ
 ४, ८, १६, द्रागृ ४,३, ४, अप
 ५७, १, ४, अश्र १२, १, नाशि
 १, २,४^l,६^l, -मात् आश्रौ ८,
 १४, ३, काश्रौ २१, ३, १८,
 आपश्रौ १२, १५, २^l, बौश्रौ,
 - या ९, २९, -मात् लाश्रौ ९,
 १, २१, हिगृ २,३,७^l, कौसू,
 -^lमाय कौगृ ३, ४, २, शागृ ३,
 ५, २, अप ३२, १, १२, अश्र ६,
 ४, -^lमै काश्रौ ५, ५, १०, २१,
 १, १८, आपश्रौ, पा ६, २, ८४,
 -मेऽ-मे विव ५०, ३, -मेण

आपश्रौ २१, २०, ३^l, बौश्रौ १८,
 २५:१५, हिश्रौ, -मेभ्यः
 आपघ २, २६, ७, हिब २,५,
 २०२, -मेषु बौश्रौ १५, १६
 ७, हिश्रौ, -मौ या ३, ९
 ग्राम-काम- -म: आश्रौ ९, ७, २८,
 काश्रौ ४, १५, २१, आपश्रौ ८,
 ०२, ५×४, बौश्रौ, -मम् आपश्रौ
 २२, ६, १०, माश्रौ ५, १, ५,
 १६×४, हिश्रौ १३, ८, ४४, १७,
 ४, २४, गो १, २६, -मस्य काश्रौ
 २२, ५, ९, ८, ७, आपश्रौ ६, १०,
 ३, १५, १, बौश्रौ, -मा आगृ
 ४, १, २^l, -माय बौश्रौ १४,
 १७ १०^l
 ग्रामकाम-तन्त्र- -न्त्रेण माश्रौ:
 ५, १, ५, ६
 ग्रामकाम-भूतिकाम- -मयो
 माश्रौ ५, १, ५, ५
 ग्रामकाम-भूतिकाम-पशुकाम-
 -मानाम् माश्रौ ५, १, ५, ४
 ग्रामकामा(म अ)न्नाद्यकामे(म इ)
 द्विद्यकाम-तेजस्काम- -मानाम्
 आश्रौ २, ३, २
 ग्राम-कुक्कुट- -टम् विध ८१, ९
 ग्राम-कुण्ड्या-(> °कुण्ड्येयक-पा)
 पाग ४, २, ९५^m
 ग्राम-कुमार- (> °रकⁿ- पा),
 ग्रामकुल- (> °लक^o- पा),
 ग्राम-कुलाल- (> °लक^o- पा)
 पाग ५, १, १३३
 ग्राम-खण्ड^p- (> °ण्डक^q- पा)
 पाग ५, १, १३३

a) °त्वम् इति कासं । b) षम उप = मन्त्र-विशेष- । बस वा (तु भाष्यकार [हिश्रौ ८, ५, १५]) ।
 c) = देश-विशेष- । d) मलो कस । e) विप (औपातुवाक्य-) । द्वस > मत्वर्थे अक्ष प्र । f) द्वस । ग्रह-
 = तै १, ४, १-४२ । g) विप । बस । h) विप । द्वस > बस । i) √ग्राम इति [पक्षे] BPG । j) वैप १
 अ । k) सप्र. ग्रामम् <> ग्रामान् इति पाठे । l) = सामस्वर-भेद- । m) तु पागम । n) °रिका- इति
 ग्रामम् । o) °लिका- इति पागम । p) तु पाका । °षण्ड- इति भाण्डा । q) °ण्डिका- इति पागम ।

ग्राम-गवा(व-अ)श्वा(ध्व-आ)दि-
-दि अत्र ४, २२
ग्राम-गो-दुह- पाग ६, २, ८१
ग्राम-चतुष्-पथ- -थे मागृ २, १४,
२८
ग्राम-च(र्य>)र्या- र्याम् आश्रौ
१२, ८, ३
ग्राम-चारिन्- -रिण वाध १४, ४८
ग्राम-जनपद-मनुष्य- -ष्येभ्य. पावा
४, ३, १२०
ग्राम-जनपदा(द-आ)ख्यान-चान-
राट- -टेषु पा ६, २, १०३
ग्राम-जनपदै(द-ए)कदेश- -शात्
पा ४, ३, ७
ग्राम-जित्- -जित आश्रौ २, १३,
७१
ग्रामट-(>दी- पा) पाग ४, १,
४१^d
ग्राम-णी- पाग ४, ३, ९३^e, पावा
३, २, ६१, -णी शाश्रौ २, ६, ५,
काश्रौ १५, ७, १२, बौश्रौ १७,
४९ १, २३, १७ ८, भाश्रौ
१, १५, ११, माश्रौ १, ६, १, ६,
वाश्रौ १, २, २, ३८, ३, ३, ३,
२२, वैश्रौ ३, ९: ६, हिश्रौ
१, ४, ९, भागृ २, २३ ७,
१३, अत्र १९, ३१^f, पा ५, २,
७८, -ण्य. काश्रौ ४, ९, ३, १५,
३, ८, आपश्रौ ५, ११, ७, बौश्रौ
२, १६: ४७, १२, ५० २६,
भाश्रौ ५, ६, ७, हिश्रौ ३, ४,
१०, तैप्रा ७, २, -ण्ये वाश्रौ
३, ३, ३, २२
ग्रामण- पा ४, ३, ९३

ग्रामणि-कुल- -लम् पावा १, १,
३९
ग्रामणि-पुत्रा(त्र-आ)दि- -दिषु
पावा ६, १, ७०
ग्रामणी-सर्व- -व शाश्रौ १४,
२२, ३, बौश्रौ १८, ४: १३
ग्रामण्य- -याय जैश्रौ ११ ७
ग्रामण्य(णी-अ)प्रतिचार-तस्()
अप ७०^g, ६, ७
ग्राम-तक्ष- पा ५, ४, ९५
ग्राम-तस्() काश्रौ २१, ३, २६
ग्राम-त्ता- पा ४, २, ४३
ग्राम-देश- -शात् कौसू ८६, १४
२ग्राम देश- -शयो. विध ५, ३२
ग्राम-दोष- -षाणाम् विध ३, ११
ग्राम-द्वार- -रे अप ७०^h, ६, ८
ग्राम-धर्म- -र्माः आगृ १, ७, १,
-र्मण वैगृ ५, ६ ३
ग्राम-नगर- -राणाम् पा ७, ३, १४
ग्रामनगर-वृद्ध-> °द्व-श्रेणि-
विरोध- -धे शंध ३०९.
ग्रामनगरवृद्ध-श्रे [णिⁱ,]णी-
प्रत्यय- -य. वाध १६, १५,
शध ३०९
ग्राम-न्याय- -यम् बौश्रौ २४, १
१४.
ग्राम-पशु- -शूनाम् वाध २, २८
ग्राम-पिष्ट- -ष्टानाम् काश्रौ २६,
४, ७
ग्राम-पुत्र-(>त्रक^j- पा) पा ५,
१, १३३
ग्राम-प्रतिषेध- -धे पावा २, ४, ७.
ग्राम-बहिष्कृत- -त. वैध १, ७, ३.
ग्राम-मध्य- -ध्ये अप ३६, १६,

१, बौध ४, १, २२, -ध्येन अप
७०^k, ७, ५
ग्राम-मर्यादा- -दा हिपि २३ ६,
-दाम् बौश्रौ २९, १२ १७,
आभिगृ ३, ९, १ २०^l, बौधि
२, ६, ८, ९, हिपि २३ २, ७;
-दायाम् वैश्रौ २०, २३ ५,
आभिगृ ३, ९, १ १८, बौधि २,
६, ७, हिपि २३ १
ग्राम-याजन- -नम् बौध २, १, ४४.
ग्राम-याजिन्- -जिन. विध ८२,
१३
ग्राम-योनि- -नि बौश्रौ २०, १ :
२२, २३, ४ २१, १९. १९
ग्राम-राग- -गा नाशि १, २, ७.
ग्राम-वचन- -नम् पागृ १, ८, ११.
ग्राम-वध- -ध अप ७०^m, ६, ८
ग्राम वर- -रः कौसू १७, १०;
-रम् कौसू ९४, १७, १२०, १३,
१२६, १३, अप ११, १, १३×५.
ग्राम-वासिन्- -सी अप ७०ⁿ, ११,
२६^o.
ग्राम-शमशाना(न-अ)न्तर- -रे
काश्रौ २१, ४, २४
ग्राम-षण्ड-(> ण्डक-) ग्राम-
खण्ड- टि द्र
ग्राम सकर- -रम् शंध १०२
ग्राम-सण्ड-, °साण्ड-(> ण्डक-,
> ण्डिका- पा.) पाग ५, १,
१३३^d
ग्राम-सद्- -सदे मागृ १, १३, १०^f.
ग्राम-समीप- -पम् काश्रौ २१, ३, ७.
ग्राम-सांपद- -दानाम् कौसू ५९,
८, -दानि कौसू ११, ७.

a) द्वस । पूष द्वस । >षस । b) वैप १ द्र । c) = ग्रामटिका- । d) तु पागम. ।
e) = नगर-विशेष- । f) ह्रस्व. (पा ६, ३, ६१) । g) = एकाह-विशेष- । h) भावे ढक् प्र. उंसं (भा ५, १,
१२७) । i) उप = स्थल- । j) शंध पाठ । k) पूष = लौकिक- [=अमन्त्रक-] । l) ण्डिका- रति
पागम । m) विप । बस. । n) पूष = स्वर-भेद- ।

ग्राम-सीमा(मा-अ)न्त-न्ते बौश्रौ
 २९,९:१३, बौध २,१०, १३,
 ३, १, १३
 ग्राम-सूकर- -र काध २७८ ८
 ग्राम-खुव^१- -व अप ३६,३०,१
 ग्रामा(म-अ)ग्नि^२- -ग्निना काश्रौ २५,
 ४,३०, बौश्रौ २२, २ १९, पाण्ड
 ३,१०,१२, -ग्निम् काश्रौ ४,८,
 १०, -ग्ने बौश्रौ २०, १७
 १७×४, -ग्नी बौश्रौ २१, ३
 ३०
 ग्रामा(म-आ)दि- -दीनाम् फि ३८,
 -दौ वैध ३,१४,७
 ग्रामा(म-अ)व्यक्ष- -क्षः विध ३,
 ११
 ग्रामा (म-अ) ध्ययना (न-अ) नन्त-
 हित^३- -तानि शाण्ड ६, १, ८
 ग्रामा(म-अ)न्त-न्ते बौश्रौ २९,
 ९ १३, पाण्ड २,११, ६, वैश्व
 ग्रामा(म-अ)न्तर- -रम् पाण्ड २,७,
 ५, गोण्ड ३,५,३२, जैण्ड १,१९ :
 २५
 ग्रामा(म-अ)भिमुख- -खेन आग्नि
 ३,४,१ ११
 १ग्रामा(म-अ)रण्य^४- -ण्ये कौण्ड ३,
 ९,२१, शाण्ड ४,७,२३
 २ग्रामा(म-अ)रण्य- -ण्ययो आपध
 १,११,९, हिघ १,३,६६
 ग्रामा(म-अ)शन- -नम् वैध २,४,५
 ग्रामिक- (>ग्रामिक्य- पा) पाग
 ५,१,१२४^०.
 ग्रामिन्- -मिणाम् माश्रौ ५,२,१,
 ११, -मी बौश्रौ १४, १७

१३१, अप ३६,१६,२, तैत्रा ४,
 ५३१
 ग्रामीण- पा ४, २, ९४, -णेभ्यः
 कौसू ११,९
 ग्रामीण-घात- -तम् अप ७०^३,
 ६,७
 ग्रामे-गेय- -य^१ लुसू ३,१० : १५,
 -यम्^२ द्राश्रौ ७, ४,१६, लाश्रौ
 ३,४,१५, गौपि १,३,१५
 ग्रामेगेय-इयेन- -नः लाश्रौ ७,
 ४,१
 ग्रामे(मे-अ)नुवाक्य^३- -क्यस्य
 आपश्रौ १७,१७,१^२, हिश्रौ १२,
 ५,३२^१,३३, -क्येन हिश्रौ १२,
 ५,३५
 ग्रामेयक- पा ४,२,९५
 ग्रामो (म-उ) घान- -नम् आज्यो
 २,२
 १ग्राम्य,म्या^४- पा ४, २, ९४,
 -म्य वैश्रौ १९, ६ १०९,
 कौसू १३३, १, वाध ६, २७,
 -म्यम् जैण्ड २,४ ११, -म्यस्य
 आपश्रौ १५, २१, ८, बौश्रौ,
 -कम्या आश्रौ २,२,१७, आपश्रौ
 ६, ५,७×४, बौश्रौ, -म्याणाम्
 बौश्रौ १५,२६ : १३×४, वैश्रौ,
 -म्याणि वाश्रौ २, २, ४, ९,
 -म्यात् आपश्रौ ४, ३, ६१,
 -म्यान् बौश्रौ १५, १६.८,
 भाश्रौ ४, ५, ४१, वाश्रौ, -म्ये
 हिश्रौ १२, ५, ३२, कौसू २७,
 ३२, ९३, ४०, -म्येण आश्रौ
 ३, १३, ७, शाश्रौ, -म्येन

हिपि १ : २०, -म्येभ्य वाधूश्रौ
 ४, १०४.३, ११, -कम्यैः
 आण्ड ३,९,१, काण्ड ४१,२३.
 ग्राम्य-कुक्कुट सूकर- -रयोः
 गौध २३, ६, -रौ गौध १७,
 २७
 ग्राम्य-घृष्ट- पाग २,१,५३^०
 ग्राम्य-पशु- -शूनाम् वाध १०,
 १६
 ग्राम्यपशु-घातिन्- -ती विध
 ५,५०.
 ग्राम्यपशु-पीडा-कर- -राः
 विध ५, ७६
 ग्राम्यपशु-सध- -वेषु पा १,
 २,७३
 क^१ग्राम्यमङ्गीरदाशकौ^२ आपश्रौ
 २१, २०, ३, बौश्रौ १६, २३ :
 ७^१, हिश्रौ १६, ६,४१
 क^१ग्राम्यमनिरसाकसै^३ वाश्रौ ३,
 २,५,४३.
 ग्राम्य-वादिन्- -दिन. माश्रौ ५,
 १,८, १२, -दी^४ आपश्रौ १९,
 २०, ७, बौश्रौ १३, २१.९;
 माश्रौ ५,१,८,११
 ग्राम्या(म्य-अ)भोजन- -नम्
 काश्रौ २२,१,३०
 ग्राम्या(म्य-आ)रण्य- -ण्यान्
 आश्रौ ११, २, १८, -ण्यानाम्
 हिश्रौ १३, २, २१, आपध २,
 १६,२८, विध ३९,१
 ग्राम्यारण्यौ (ण्य-आ) षधि-
 बीज- -जानि वैश्रौ १, ११ :
 १५.

a) =दवी-। b) पूर =लौकिक-। c) विप (अहन्-। सस >तुस । d) षस । e) तु पागम ।
 f) विप (श्येन- [साम-विशेष-] । g) विप > नाप (सामन्-। h) =मन्त्रगण-विशेष-। i) ष्ये^० इति पाठः ?
 यनि शोधः । j) वैप १ द्र । k) अत्रग्रह^२ ग्राम्यमङ्गीर-दा^३ [द्वय] इति ० । ग्राम्य-मङ्गीर-दा^३ (कस.
 > द्रस) इति सभाव्येत । सपा न्यात्र मङ्गी^० (यद्र) इति पाठे । l) ग्राम्यं म^० इति पाठः ? यनि शोधः
 (तु ० आपश्रौ) । m) पाठः ? शोधः (तु k टि) । n) शोधः वैप १, १२६७ d द्र ।

ग्राम्या(म्य-अ)लकरण- -णम्
वैगृ ५, २. २
२ग्राम्य^a- पाग ४, १, १५४
ग्राम्यायण- -णा बौश्रौप्र ५ १
ग्राम्यायणि- पा ४, १, १५४
ग्रावन्^b- पाउभो २, १, २७८, -वणि
काश्रौसंरे १३, -वमि आपश्रौ
१२, १२, ३, बौश्रौ, -फवभ्य
बौश्रौ ९, ११ ८, वैश्रौ १३, १३
१०, या ९, ९, -वभ्याम् अप
११, १, ७, -वसु आपश्रौ १२,
३, १३, काठश्रौ १४, बौश्रौ,
-फवा काश्रौ २, ४, ४, आपश्रौ
१२, ९, २×, बौश्रौ, -वाण
आश्रौ ५, १२, २१, २४, शाश्रौ
४, १४, २६, आपश्रौ, या ९,
८, -वाण. आश्रौ ५, १२,
१०, काश्रौ २३, ३, १, आपश्रौ,
-वाणम् आश्रौ ५, २, ३, आपश्रौ
१२, १, ९×, बौश्रौ, -फवाणा
आश्रौ ४, ६, ३, १५, २, शाश्रौ
६, ६, ६, ऋअ २, ३, ९, -वाणौ
वैश्रौ ११, ९ ६, फकौसू ६१,
१८, १९, अअ ११, १, -ण
आश्रौ ५, १२, ७, काश्रौ ८,
५, २४×, आपश्रौ, -फणा
आपश्रौ १३, २०, ८, बौश्रौ ६,
२८. ४५×, माश्रौ, -णाम्
बौश्रौ ७, ५. ५, हिश्रौ ८, १,
४०, वृदे ७, ११६, ८, ७४,
-णि शाश्रौ १३, १२, ३,
छसू १, ११ २७, अप्राय ६, ३
ग्रावणी^c- -णी ऋअ २, ७,

१०४, वृदे ६, ३०
ग्राव-बोध- -षम् शाश्रौ ७, १५, २
ग्राव-द्रोणकलश-सोमपात्र- -त्राणि
काश्रौ ८, ७, ५, ८
ग्राव-मुख- -खेभ्य बौश्रौ ७, ६
१७, ८, १ २१
ग्राव-वायव्य^d- -व्यानि काठश्रौ
१०५, माश्रौ २, २, ४, २६, २९
ग्राव-स्तुत्^e- पा३, २, १७७, -स्तुत्
आश्रौ ४, १, ६, ५, १२, १, शाश्रौ
७, १५, २, १३, १४, १, २४,
१०, आपश्रौ २३, १०, १२, बौश्रौ
२, ३. ११×, माश्रौ, -स्तुत्
वैश्रौ १६, १ : २, -स्तुतः
आश्रौ ९, ४, २०, १२, ९, ११,
शाश्रौ १०, १३, ५, बौश्रौ ८,
६ : ११, १६, २. ५, वाश्रौ ३,
३, ४, २०, मीसू ३, ५, २८,
-स्तुतम् आपश्रौ १०, १, ९, फ,
बौश्रौ ७, १ : ४, ८, १ : ३, फ,
११, ६ : ५, १६, १ १५, वैश्रौ
१६, १ १, हिश्रौ १६, १, ३६,
-स्तुते काश्रौ १०, १, २, आपश्रौ
१३, १, ५, १८, २१, ७, काठश्रौ
१४, बौश्रौ ८, १ : ९, माश्रौ
२, ४, ४, २, वैश्रौ १६, १ ७,
हिश्रौ ९, १, ६, ३, २८, १३, ७,
१५, लाश्रौ ९, ६, १
ग्राव-स्तुति- -ति या ७, ७
ग्राव-स्तोत्रि, त्री(य >) या^f-
-या माश्रौ २, ४, ४, ३,
आपश्रौ १३, १, ६, वैश्रौ १६,
१ ८

ग्राव-हस्त^g- स्तास या ८, २, फ
१ ग्रावस्^h- > ग्रावो-वायव्य^d- -व्यम्
बौश्रौ ६, ३० २८, २५, १४ :
११, १५ ९×, -व्यस्य बौश्रौ
२१, २४ २१, -व्यानि बौश्रौ
२५, १२ ३, ४, -व्येन बौश्रौ
२१, २४ : १९
१ ग्रावाणकौⁱ वैगृ ५, ४ २९
ग्रास-, ग्रासयित्वा- √प्रस् द्र
ग्राह-, ग्राहक- प्रस् √गृम्, ह् द्र.
१ ग्री(व>)वा^j- पाठ १, १५४, -वा
वैश्रौ १, १ १८, १३, १७ ५,
अप २२, ४, ५, विध ९६, ७०,
या २, २८, फ, -फवा काश्रौ
४, २, १२, ७, ९, आपश्रौ १०,
२६, १४, बौश्रौ, -वाणाम् आपश्रौ
१५, १५, १, माश्रौ ११, १५, ८,
हिश्रौ २४, ६, १२, -वाभ्य
आपम १, १७, २, फ, पाठ, ३, ५७,
-वाम् आपश्रौ ९, ११, २३,
आमिगृ, -वायाम् शाश्रौ ४,
१५, १२, बौश्रौ २०, २७ १५,
वैश्रौ, या २, २८, फ, -वासु
आपश्रौ ७, १७, ६, २०, १२,
१३, १३, ४, १२, बौश्रौ
ग्रीव- पा ४, ३, ५७, -वम्
शाश्रौ १८, ३, १
ग्रीवेय- पा ४, ३, ५७
ग्रीवेयक^k- पा ४, २, ९६.
ग्री(व्य>)व्या^l- -व्या अअ
७, ७६, फ
ग्रीव-छि(व>)ञा- -ञा सु २५,
६

a) व्यप । व्यु ? । b) वैप १ द्र. । c) विप (ऋच्-) । साऽस्यदेवतीयेऽणि प्रकृतिभावाऽभाव-
उसं. (पा ६, ४, १६७ [तु षड्गुरुशिष्य.]) । d) द्वस. उप = दारुपात्र- (तु ऋगृ. [माग ३, ६, ३, १०]) ।
वैप १, १२६८ d टि परिहर्तव्यम् । e) = ऋत्विग्-विशेष- । f) षस । उप. = ऋच्- । ग्री इति माश्रौ ।
g) = ग्रावन्- । व्यु ? । h) स्वरूपम् ? = ग्रावाणौ । व्यु ? । i) = घमनी- (तु पाका) । j) पाभे वैप १,
१२६८ h द्र. । k) = अलकार-विशेष- ।

ग्रीव-द्वन्- -द्वम् बौश्रौ १७, ३० :
३, २२, ४ : १०, आसिगृ ३,
८, १ २९, बौषि १, १५ ८,
-द्वे बौश्रौ १०, ४८ : १५, २०,
१७ : २
ग्रीवा-न्तस् (-) बौश्रौ २०, ७ ११,
माश्रौ १, २, २, ५
ग्रीवा-व्यादेश- -न् या १४, ६
२ ग्रीवा^b - (> ग्रीवायण- पा) पाग
४, १, ११०
ग्रीवाक्ष^{b7c} - (> ग्रीवाक्ष- पा) पाग
४, १, ११२
१ ग्रीष्म^a - पाठ १, १४९, पाग ४,
१, ८६, २, ६३^d, पागवा ४,
१, ८६, -ष्म काश्रौ ४, ७,
६, आपश्रौ, या ४, २७६, ७,
१०, -ष्मम् बौश्रौ ३, १८ ८,
माश्रौ १, ४, १, २७, वाश्रौ १,
१, ३, १, -ष्मस्य बौश्रौ ११,
१ : १३ x x, माश्रौ, -ष्माय
आपश्रौ २०, १४, ५, २०, ६,
हिश्रौ १४, ४, ४६, -ष्मे शाश्रौ
२, १, २, १६, ९, २८, काश्रौ
ग्रीष्म^{7a} - पा ४, १, ८६, -ष्म
आश्रौ ४, १२, १, -ष्माः आपश्रौ
२०, २३, ११, बौश्रौ १५, ३८
१२^क, वाधुश्रौ ४, २९^२ ७,
-ष्माय शाश्रौ ९, २७, १,
-ष्मौ वैश्रौ १२, २ : १०, अश्र
१५, ४^२.
ग्रीष्मी- पावा ४, १, ८६,
-ष्मी भाशि ३३
ग्रीष्मक- पा ४, ३, ४६, ४९

ग्रीष्मिक- पा ४, २, ६३, -कानि,
-कै बौगृ २, १०, ३
ग्रीष्म-प्रतिपद्- -पदि अप १८^१,
१३, १
ग्रीष्म-वर्षा-शरद्- -रत्सु आश्रौ २,
१, १३
ग्रीष्म-वसन्त- पाग २, २, ३१^१
ग्रीष्म-हेमन्त- -न्तौ वृदे १, १३१.
ग्रीष्मा(ष्म-आ)दि- -दौ बौगृ २,
१०, ३
ग्रीष्मा(ष्म-अ)न्त- -न्ते या ६, ३६
२ ग्रीष्म^b - (> ग्रीष्मायण- पा)
पाग ४, १, ११०
✓गृच्^६ पाधा भ्वा पर स्तेयकरणे
†गृ-मुष्टि^a - -ष्टि भाशि २२, -ष्टिम्
बौश्रौ ९, १३ २, १६ : ९,
१०, ५० : ५, १२, २४
ग्रीव- १ ग्रीवा- द्र
ग्रीवाक्ष- ग्रीवाक्ष- द्र
ग्रीवायण- २ ग्रीवा- द्र
ग्रीवेय- प्रसृ १ ग्रीवा- द्र
✓ग्लस् पाधा भ्वा आत्म अदने
✓ग्लद् पाधा भ्वा आत्म ग्रहणे
✓ग्लह् (*देवने)^a > ग्लह- पा ३,
३, ७०
ग्लव^b - -व बौश्रौ १७, १८ : २,
बौगृ ३, १०, ६
✓ग्लुच्^६ पाधा भ्वा पर स्तेयकरणे
✓ग्लुच्^६ पाधा भ्वा पर गतौ
✓ग्लेप् पाधा भ्वा आत्म दैन्ये
✓ग्लेव् पाधा. भ्वा. आत्म सेवने
✓ग्लेष् पाधा भ्वा. आत्म
अन्विच्छायाम्

✓ग्लै^१ > पाधा भ्वा पर हर्ष-
क्षये, ग्लायते अप ६८, १, १२;
ग्लायति पागृ १, १६, २५,
ग्लायेत द्राश्रौ ४, ४, १६, ५, ४,
१६, लाश्रौ २, ४, ९, ८, १६;
ग्लायेरन् शागृ ६, ३, ८
ग्लान-> °ना(न-आ)घ(दि-अ)र्थ-
-र्थे पावा २, २, १८
ग्लानि- पाठ ४, ५१, पावा ३, ३,
९५, -नि अप ५५, ४, २.
ग्लायत्- -यन् काश्रौ ६, १०, ४;
-यन्तः या १, २०
ग्लान्तु- पा ३, २, १३९
ग्लौ^६ - पाठ २, ६४, ग्लौ बौश्रौ
२, ५ १९, कौसू ३१, २०
१ ग्वा^१ वाश्रौ २, १, १, ३५

घ

घ^a, > घा आश्रौ २, ९, १४, ३, ७, १४;
१६, २, शाश्रौ, या ४, २०^क;
पाग १, ४, ५७^म
✓घंष्, स्^१ पाधा भ्वा आत्म.
कान्तिकरणे
✓घष् पाधा भ्वा पर हसने
✓घट्^१ पाधा भ्वा आत्म चेष्टायाम्,
चुरा उभ संघाते, भाषायाम्.
१ घट^० - पाग ५, २, ११७, ४, २९^१, ६,
२, ८५^०, -ट कप्र ३, ९, १,
-टम् वैगृ ५, ५ ८, अप ७०^५,
३, विध २२, ५७, -टान्
आपश्रौ १२, २, १३, वैश्रौ १५,
३. ७, ६ : २, कागृ ५७, २,
-टे जैगृ २, ५ : १५, अप १८^२,

- a) वैप १ द्र । b) व्यप । व्यु ? । c) °वा-अ° > बस इति MW. । d) = प्रन्थ-विशेष- ।
e) विप (ऋतु- मास- पशु- प्रसृ) । f) तु. पागम । g) पा ३, १, ५८ परामृष्टः द्र । h) = सर्प-विशेष- ।
व्यु ? । i) ✓क्लेव् इति [पक्षे] पासि । j) पा ३, ४, ६५ परामृष्टः द्र. । k) = चन्द्र- गणद्वयाधि- । व्यु. ? ।
l) पाठः ? । उखाम् इति संस्कृतं. टि. (तु माश्रौ ६, १, २, ६) । m) हिंसा-प्रातिलोम्य-पादपूरणेषु इति पागम. ।
n) तु BPG । o) = कुम्भ- वैप ३ द्र. । p) कट- इति [पक्षे] भाण्डा. प्रसृ ।

१५, १, -टेन बौपि २, ७, ५^५,
-टेषु जैट् २, ९ २०, -टै वैश्रौ
१५, ७ १
घटी- पा ४, १, ४१
घटि-धम-, घटि-धय-
पावा ३, २, २९
घटी ग्रह- पावा ३, २, ९
घट-क- पा ५, ४, २९^५
घट-ग्रह- पावा ३, २, ९
घट-वत्- पा ५, २, ११७
घट-शरावा(व-आ)दि- -दीनि
वैगृ ५, २ ८
घटा (ट-आ) सिक्त-द्रुम-ज-
-जे विध ७०, १२
घटिक-, घटिन्-, घटिल- पा
५, २, ११७
घटो(ट-उ)दक- -कम् अप ३७,
१८, १
२घट^०- ट पा ५, २, ३५
घटा- पाग ५, २, १२७, पागवा
५, २, ९७^५
३घट- पा ५, २, १२७
घटा-ल- पा ५, २, ९७
घटि, टी^०- पाठ ४, ११८
घटिका^०- -का. कागुड ४४ ८,
आज्यो ५, १४
घटप्रत्ययण^१- -णस्य चात्र ३० ४
✓घट् पाधा भ्वा आत्म, चुरा पर
चलने, घट्टयति काश्रौ १७, ५,
२
घटना- पावा ३, ३, १०७
✓घण् ✓घृण् टि द्र

✓घण्ट् पावा चुरा उभ. भाषायाम्
घ(ण्ट्)>ण्टा^५- पाठभो २, २, ९६
वाण्टिक^५- -ऋ शंघ २०१, विध
४५, २५
घण्टा-निर्हाद-वत् आशि ८, १२
घण्टा-पताका- >०कि(न्->)
नी- -नी अप २०, २, ५
घण्टा-पताका-स्रज्- -स्रज. अप
२०, १, ३
घण्टा(एटा-आ)भरण-भूषित- -तम्
अप ६८, ५, ३०
घण्टा(एटा-अ)वसान->०सा-
निक^१- -के वैगृ ५, १ १३
घतन- पाठना ५, ५०
१घन, ना^१- -न अप ७०^३, २, ५ या
२, १, ९, २३, १४, ६, -नम्
वैश्रौ ११, ७ ४, ६, ९, ८. ६,
विध १, २६, -ना शैशि ३२०^१,
-ना कप्र ३, ९, १०, अप ६१,
१, ६, ६५, २, २, -नानाम् वाघ
१४, २६, -नाया बौध १, ६,
१६, -नैः कप्र २, ८, ४, अप
६४, १, ८, ६८, १, ४६, काश्रु ७,
१८
घन-निचय- -यम् अप ६५, १, ९
घन-बन्ध^५- -न्धा. शैशि ६४
घना(न-अ)नुया (त>)ता- -ता
अप ७०^३, ११, ८.
घना(न-अ)स्थि(क>)का^५- -का
विध ९६, ७५
२घन^१- -न अप ५२, ५, ३
घनघन^५- -नाय अप ३६, ९, १८^१

घनाघन- ✓हन् द्र
घर्घर- पाठभो २, ३, ३५
१, २घर्म-, घर्म- ✓घृ द्र.
घर्ष-, घर्षण- ✓घृष् द्र
✓घष्^५ पाधा भ्वा पर कान्तिकरणे.
✓घस्^० पाधा भ्वा पर अदने,
फंसत् आश्रौ ३, ४, १५, ८,
८, माश्रौ ५, २, ९, ६, या १२,
९, घसन् माश्रौ ५, २, ९, ६;
घस्तु शाश्रौ ६, १, ५, घस्ताम्
माश्रौ ५, २, ९, ६; घसन्तु शाश्रौ
६, १, ५.
जग्धि निस् १, २ ५
जश्रु. शाश्रौ १४, ७, १, द्राश्रौ ७,
३, २०, वृदे ६, ५८, अघसत्
शाश्रौ ६, १, ५, माश्रौ ५, २, ९, ६;
अघत् आश्रौ ३, ४, १५^१, शाश्रौ
६, १, ५, अघस्ताम् माश्रौ ५,
२, ९, ६, अघसन् शाश्रौ ६, १, ५;
माश्रौ ५, २, ९, ६, फंसन् शाश्रौ
३, १७, २, ६, १ ५^१, काश्रौ ५,
९, १६, १९, ३, २१, आपश्रौ
१, १०, १४, ८, १६, ९, बौश्रौ.
फंसि^०- -सि. बौश्रौ २, ५ २;
-सिना काश्रौ २, २, १८, आपश्रौ
३, २०, १^१, माश्रौ ३, १८, १^१,
वैश्रौ ७, १ : ७^१, द्विश्रौ २, ८,
३१
घस्मर- पा ३, २, १६०.
घञ- पाठभो २, ३, २१.
घास^०- पा २, ४, ३८, -सः कौस्
२१, ११^१, -सम् आपश्रौ १२,

- a) ष्टम् इति B । b) तु पागम । c) कर्त्तरि कृत् । d) षघाटा- इति पागम । e) वैप ३,
२८६ B द्र । f) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । g) = वाद्य-विशेष- । व्यु ? । h) विप. । तेन जीवतीत्यर्थे प्र. ।
i) विप > नाप (काल-) । मत्वर्थायिष् ठन् प्र । j) विप., नाप. (या, वैश्रौ, अप प्रम्) । व्यु. ? ।
k) विप । बस । l) = ग्रह-विशेष- । व्यु ? । m) = रुद्राणाम् अन्यतम- । व्यु ? । n) = ✓घुष् इति BPG.,
[पक्षे] भाषा । o) या २, ५ पा २, ४, ३७, ६, ४, ९८, १००, ८, ३, ६० पात्रा २, ४, ३७, ७, २, ६२ परामृष्ट- द्र ।
p) वैप १ द्र । q) ष्सी^० इति पाठ ? यनि शोध- ।
वैप४-नु-३५

१२, १११, बौश्रौ २२, ८.४,
वाश्रौ १,७,२,२०, मागृ १,२३,
१६, वागृ ७,१५
घास-दान- -नम् निसू २,४ १७
घासे-अज्र- -ज्राणाम् शुभ्रा ४,
८५१
घासो(स-उ)क्त- -क्ता- बौश्रौ
२१,२ २७
घासि- पाउ ४,१३०; -सि अप
४८,८८१
जक्षिवस्- पा ७, २, ६७, -वासः
या १२,४२, तैप्रा १६,१३१
जग्ध,ग्धा- -ङ्घ आपमं २, १६,
१५३, १६३, १७३, हिगृ २,
१६, ५६, -ग्धम् या ४, ७,
माशि १५,५, नाशि २,८,११,
-ङ्घा आपमं २, १६,१५,१७,
हिगृ २, १६, ५.
जग्ध-पाप्मन्- -प्मा अत्र ९,
६ (२)१
जग्ध-सारङ्ग- पाग २, २, ३७^d
जग्धि- -ग्धिम् विध ६७,४०
जग्ध्या (ग्धि-आ) दि- -दिषु
पावा १,१,५७, २,४, ३५
जग्ध्वा बौश्रौ १३, ९, ५, ४३:१, माश्रौ
१घाट- १घाटा- द्र
२घाट- २घाटा- द्र
घाटकर्करी- -री शाश्रौ १७,३,१२
घाटरी- -री शाश्रौ १७, ३, १६,
-री: शाश्रौ १७,३,१५^f
१घाटा- (> १घाट-) घटा- टि द्र
२घाटा- (> २घाट- पा) पाग ५

२,१२७
घाण्टिक- घण्टा- द्र
घात-, घातक- ✓हन् द्र
घातकि- (> °तक्य- पा) पाग ४,
१,१५१
१,२घातन-, घातयित्वा-, घाति-,
घातित-, घातुक-, घातिन्-
✓हन् द्र
घातैय- पाग ४, १, १७६^f, ५, ३,
११७^g
घातैयी- पा ४,१,१७६
घास- प्रमृ ✓घस् द्र
घासकुन्द- (> °न्दि- पा) पाग
४,२,८०
✓घिण्ण् पाधा भ्वा आत्म प्रहरो
✓घु पाधा. भ्वा आत्म शब्दे.
घुं^h शुभ्रा ८,२४, याशि २,९४.
✓घुष् ✓घष् टि द्र
✓घुट् भ्वा आत्म परिवर्तने, तुदा
पर. प्रतिघाते
✓घुण् भ्वा आत्म, तुदा पर, अमरो
घुण- -ण: जैगृ १,३ २ⁱ.
घुण्ड- पाउ १,११५
✓घुण्ण् पाधा भ्वा आत्म प्रहरो
घुम् पाग १,४,५७
✓घुर् (बधा) पाधा तुदा पर
भीमार्थशब्दयोः
घुरण- पाउ २,८३
✓घुष् पाधा भ्वा पर. अविशब्दने,
चुरा उभ विशब्दने, घोषेत्
आपश्रौ ३,१६,२
घोषेत् अप १९^j, ५,६.

घुष्ट-, घुष्टवत्- पा ७,२,२३
१घोष- पाग ४, २, १२७^o, ६, २,
१८५, -ष: वाधुश्रौ ३,९४ ८;
११, ४, ३३ १, २, द्राश्रौ,
आपमं १, ४, ९^k, आमिगृ १,
५, २ ५४^k, बौगृ १,४, २२^k,
भागृ १,१४ ६^k, हिगृ १,१९,
७^k, जैगृ १,२० २२^k, अप,
४८, १०२^k, निघ १, ११^k,
या ९, ९, -षम् शाश्रौ १७,
१४, १२, १७, ७, आपमं
२, २०, ३४^k सु २२, ५,
आमिगृ ३, २, २.४^k, भागृ २,
१५ ६^k, मागृ २,८,४^k, हिगृ
२,१४,४^k, अप, या ९,९^k,
१३, -षा: आपश्रौ २१, २०,६,
बौश्रौ ११, ८ १६××, हिश्रौ,
-षाणाम् अप ४७, २,९, -षात्
शैशि २१७, -षान् आपश्रौ २०,
१६, १०^k, वाश्रौ ३,४,३, ३४,
हिश्रौ, -षाय आश्रौ ५,९,२६,
शाश्रौ, -षे ऋत ३, ६,५, -षेण
आपश्रौ १२,३, २^k, हिश्रौ ८,१,
४१^k, वृदे २,६०
घौषक- पा ४,२,१२७
घोष-कृत- -कृत: शाश्रौ १७,
१४,१२,१७,७
घोष-ग्रहण- -णम् पावा ४, ३,
१२७
१घोषदा- (> °दक- पा) पाग
५,२,६२^d
घोष-बु(द्ध)द्धा- -द्धा दंवि २,

a) वैप १ द्र । b) सस पूष वरुणप्रवास- इत्यस्याऽवयवः । c) विप । बस । d) तु पागम ।
e) =नीणा- । व्यु ? । f) सप्र बौश्रौ १६,२० : ५ आघाटी इति पाभे । g) अर्थः व्यु च ? । h) व्यप ।
व्यु. ? । i) = आयुधजीविसघ-विशेष- । व्यु ? । j) तु भाण्डा (पक्षे) । घातैय- इति पाका पासि, घातैय- इति
भासडा पासि च । k) = [वर्ण-विशेष-] यम- । l) घुण, ज्यम्बुका इति ० पदच्छेदः, वैतु श्रीनिवासाध्वरिः घुणस्त्री,
ष् इति । m) या ९,९ परामृष्टः द्र । n) भाप, नाप । o) = देश-विशेष- ? । p) पाभे वैप २, ३ खं मत्रा १-
१,१३ द्र । q) वाङ्-नामन्- । r) पाभे. वैप १, ११४९ f द्र ।

७१
घोष-वत्- -वत् अप ४७, १,
१७, उस् १, ८, आशि ८, १५,
शैशि २४, -वताम् ऋप्रा १३,
१५, १४, १८, -वति शौच २,
११, ४३, ५४, याशि २, ९८,
-वन्त बौश्रौ ८, १ : १२,
आशि ४, ४, -वान् आपश्रौ
१३, १, ८, सु १३, २, आपघ
घोषवत्-पर- -र ऋप्रा ४,
२४, तैप्रा २, ८, -रा ऋप्रा ४, २
घोषवत्-स(ज्ञा >)ञ-
-ज्ञम् अप ४७, १, १६
घोषवत्-स्वर- -रेषु शौच १,
१३, २, २
घोषवद्-आदि- -दि आगृ
१, १५, ४, कौगृ १, १६, ९, शागृ
१, २४, ४, पागृ १, १७, २, बैगृ
६४. ५, आमिगृ २, १, ५ २९,
आपगृ १५, ९, कागृ ३४, २, बौगृ
घोषवद्-युक्त- -क्त भाशि
५१
घोष-सं(ज्ञा >)ञ- -ज्ञे शैशि
१०२
घोष-स्थल- -ली- (>घोष-
स्थलक- पा) पागृ २, १२७
घोषा(ष-आ)दि- -दि ऋत ५,
३, २
घोषा(ष-अ)नासिक्य-नासिक्य-
-क्या शैशि ३४४
१घोषिन्- -विण ऋप्रा ६, ४७,
१२, ६, १२, १४, ३५, -विणा
ऋप्रा १३, १७, -विणाम् ऋप्रा

१३, ६, १७
घोषो(ष-ऊ)ष्मन्- -ष्माण अप
४७, २, ९, -ष्माणौ अप ४७,
२, १०
घोषयित्नु- पाउभो २, १, ८३
घोषयित्वा आमिगृ २, ४, ३. १८.
२घो(ष >)षा^१- -षा ऋअ २, १०,
३९, वृदे २, ८२, ७, ४२, -षाम्
शाश्रौ ६, ६, १२, -षायै वृदे
७, ४८
घोषय^२- -य ऋअ २, १०, ४१
घोषि^३- -षि आश्रौ ४, १, २३^४
घोषित- -तम् आमिगृ ३, १०,
४ : ६
१२घोषिन्^५- -०विण, -विभ्य
आपमं २, १८, ३५, भागृ २, ९ :
११, हिगृ २, ९, २
१घोषिणी- -०णी आगृ ४, ८,
२७, २८, -णीभ्य^६ अप ३२, १,
१२, ४६, ६, ४, अअ ११, २, अपं
३ ४८, -ण्य^७ कौगृ ३, ५, ४,
शागृ ३, ९, १
घुसुघुस^८- -साय अप ३६, ९, १९^९
घुसृण- पाउभो २, २, १२३
घूक- पाउभो २, २, ३
√घूर पाधा दिवा आत्म. हिंसा-
वयोहान्यो.
√घूर्ण पाधा भ्वा आत्म, तुदा पर
अमणे
घूर्ण- -र्णम् भाश्रौ ७, १, ९
घूर्णा(र्ण-अङ् >)ञी^१- -ञी कप्र
१, ७, १४
घूर्णि- पाउवृ ४, ५२

√घृ^१ (बधा.) पाधा जु पर क्षरण-
दीप्त्यो, चुरा पर. प्रसवणे,
१जिघर्ति अप ४८, ३२, ४९;
१जिघर्मि आपश्रौ १६, ३, १;
बौश्रौ २, १४ १७××, वैश्रौ.
घारयति बौश्रौ ११, ५ १२
१घर्म^२- पाउ १, १४९, -१र्म
आश्रौ ४, ७, ४, शाश्रौ ५, १०,
३१, काश्रौ, आपश्रौ १५, १७,
१०^३, १७, २०, १६^४, बौश्रौ ९,
१७ : १८^५, भाश्रौ ११, १८, १६,
माश्रौ ४, ४, ३९^६, -१र्म आश्रौ
३, १४, १०, ४, ७, ४^७××,
शाश्रौ ५, ९, २५, १०, २३^८××,
१३, १२, १३^९, काश्रौ, आपश्रौ
११, २०, १०^१, या ११, ४३;
१४, २०, ११, -१र्मम् आश्रौ
४, ६, ३^२, ७, ४^३, ८, १६, ८,
१०, ३^४, शाश्रौ, या ६, ३२^५,
११, ४२^६, -र्मस्य आश्रौ ४, ७,
४^७१, १शाश्रौ ५, १०, १७××,
काश्रौ, -१र्मि ऋअ २, १०,
११४, वृदे ८, ३८, -१र्मि
आपश्रौ ६, २१, १, वाघृश्रौ ३,
५४. १; -र्मि वैश्रौ ९, ५.
३^१, -र्मि व हिश्रौ ३, ८, २३,
-१र्मि काश्रौ २६, ५, ४××,
आपश्रौ; -१र्मिस्. आपम २, २०,
३२, तैप्रा ११, ५, -१र्मि आश्रौ
४, १, २७××, शाश्रौ ५, १०,
१०^२, काश्रौ, -र्मिण आश्रौ ५,
१३, २, आपश्रौ, वैताश्रौ १३,
२७^३

a) = देश-विशेष- । तु पागम । b) वैप १, १२७२ e द्र. । c) व्यप । ढक् प्र (पा ४, १, १२१) ।
d) वैप १ द्र । e) वैप १, १२७२ h द्र । f) नाप (सर्प-) । g) नाप (सेना-) । h) = रुद्राणामन्यतम- ।
व्यु १ । i) त्रिप । बस । j) या ७, २४ परामृष्ट द्र । k) पामे. वैप १, १२७२ q द्र । l) पामे. वैप १, १२७२ r
द्र. । m) सकृत् पामे वैप १ यज्ञः शौ ७, ७७, ३ टि द्र । n) पामे वैप १, १२७२ s द्र । o) पामे वैप १, १२७२ t
द्र । p) सकृत् पामे वैप १, १२७३ q द्र. । q) पामे वैप १, १२७३ o द्र । r) पामे वैप १ प्रवर्षेण मै ४, ९, २ टि. द्र ।

घर्म-कपाल- -ले माश्रौ ४, १, १४
 घर्म-कार्य-विपर्यास- -से बौश्रौ ९, १७ ३१
 घर्म-दुघ- -दुघ बौश्रौ ९, ५ ३२, ९ ७, वैश्रौ, -दुघम् आपश्रौ १५, ९, ३×४, बौश्रौ, -दुघि माश्रौ ११, १८, ५
 घर्म-दु(घ>)घा^१- घा अत्राय २, ४^२, -घाम् आश्रौ ४, ७, २, काश्रौ २६, ७, ४२, वैताश्रौ १४, ४, -घे बौश्रौ ९, ५ : ७
 घर्मदुघा(घा-अ)र्थ- -र्थ वैश्रौ १३, ७ १३
 घर्म-दुह- -दुह काश्रौस ३६ ६, वैश्रौ १३, ८ : १३, -दुहि आपश्रौ १५, १८, २, -धुक् काश्रौ २५, ६, ८, आपश्रौ, या ११, ४२, ४३.
 घर्मधुग्-ध्वा(<ह्वा)ल^२- -ले काश्रौ २५, ६, २^{१०}
 घर्मधुग्-दोह- -हाय वैताश्रौ १४, ३^{११}
 घर्म-देवता-> ^{१२}त्य,त्या- -त्यम् शुअ ४, ९४, -त्या शुअ १, ५४८, -त्याः शुअ ४, ८१, -त्यानि शुअ ४, ७७, -त्ये शुअ ४, ८६, ९२
 घर्म-दैवत- -तम् शुअ ४, ११२
 ङ्घर्म प^१- -पान् बौश्रौ ९, १०. २३, २४, १९ : १८^३, बौगृ ३, ४, ११, १२, -पेभ्य बौश्रौ ९, ११. १४, १९ ९, १०, वैश्रौ

१३, १३ १३, बौगृ ३, ४, ५, ६
 घर्म-प(र>)रा^१- -रा वृदे ८, १५,
 घर्म-पात्र- -त्रम् वैश्रौ १३, १४ : १०, -त्राणि माश्रौ २, २, २, २×४, द्राश्रौ.
 ङ्घर्म-पावन्^२- -वभ्य माश्रौ १, २, ५, २७, वाश्रौ १, ३, ३, ६.
 घर्म-प्रायश्चित्त- -त्तानि आपश्रौ १५, १७, ४, बौश्रौ ९, १२ २, १७ १, ३१, भाश्रौ ११, १७, ४
 घर्म-भेद- -दे काश्रौ २६, ७, ४६
 ङ्घर्म-रुचि^३- -चि. आमिगृ २, ५, ३ : १८, बौगृ ३, ७, १५
 घर्म(र्म-ऋ)त्विज्- -त्विजः काश्रौ १०, १, २३
 घर्म-वत् वैताश्रौ २१, १९, २५, १५
 ङ्घर्म-वत्- -वते बौश्रौ १३, ११ : ४, ९, माश्रौ ५, १, १, ३८
 घर्म-वृद्धि- -द्धिः वेज्यो ८
 घर्म व्रत^४- -ते जैश्रौ २३ ८, जैश्रौका ५२
 घर्म-व्रत-दुह^५- -दुहो. काश्रौस ३६ ८
 घर्म-शिरस^६- -र^६ बौश्रौ २४, १९ : १, -रसा आपश्रौ ५, ११, ६×४, भाश्रौ, -रांसि आपश्रौ ५, १२, १, ३, १६, २, हिश्रौ ३, ४, १२.
 घर्म शेष- -षस्य द्राश्रौ १४, ३, ७, लाश्रौ ५, ७, ६

घर्म-सस्तव- -व वृदे ६, १३४
 ङ्घर्म-सद्^७- -सत् माश्रौ १, २, ४, २१, वाश्रौ १, ३, १, ४४, वागृ १, ७
 घर्म-सादन- -ने जैश्रौका ६१
 घर्म-सूक्त- -क्तम् अत्र ७, ७३, अयं २ : ८९, -क्तेन वैताश्रौ १४, ५
 ङ्घर्मस्य-तनु^८- -नु जैश्रौ २३ : ८, जैश्रौका ५२, -नवौ द्राश्रौ २, २, २७, लाश्रौ १, ६, २५
 ङ्घर्मस्य-रोचन^९- -नम् द्राश्रौ २, २, २८, लाश्रौ १, ६, २६, जैश्रौ २३ : ९, जैश्रौका ५५
 घर्मा(र्म-आ)दि- -दि आश्रौ १, १२, १८
 घर्म(र्म-इ)न्धन- -नानि आपश्रौ १५, ५, ११, भाश्रौ ११, ५, १५, हिश्रौ २४, २, ५, -ने जैश्रौ २३ : ८
 घर्म(र्म-इ)ष्टका^{१०}- -काः वाश्रौ २, १, ६, ३५^६, -काम् आपश्रौ १५, ३, १३×४, बौश्रौ, माश्रौ ६, १, ७, २०^६
 घर्मो(र्म-उ)च्छिष्ट- -ष्टम् बौश्रौ २५, १६ २, -ष्टे बौश्रौ १६, २ : १०, बौघ १, ६, ३०
 घर्मो(र्म-उ)पसद्- -सदौ वैताश्रौ १५, ५
 घर्म्य- -र्म्यम् काश्रौ २५, ५ ३०, २६, ६, १६
 २घर्म^{११}- -र्म ऋअ २, १०, ११४, १८१.

a) वैप १ द्र । b) षस उप भाप <√हृल् । c) दुग्ध्वा^{१२} इति पाठ. ^{१३} यनि शोधः (तु चौस) । d) ओहाय इति पाठ. ^{१४} यनि शोधः । e) विप । बस. । f) = साम-विशेष- । g) वैप २, ३खं द्र । h) विप । चस > उस । व्रत- = दुग्ध- । i) = सन्त्र-विशेष- । <घर्मं दिग् (तैत्रा १, १, ७, १) । j) = इष्टका-विशेष- । k) परस्पर पाभे. । l) = ऋषि-विशेष- । धा. अर्थ १ ।

घृण,णा^२- पाउभो २, २, १२३,
पाग ५, २, १३६^b, -ण. निघ
१,९[†], -णा वाध ६,२३.
घृणा(ण-अ)विध- विधम् ऋअ
३,१
घृणा-वत्- पा ५, २, १३६,
-वन्त वैगृ ५,१३ २
घृणिन्- पा ५,२,१३६, -णिने
गौव २६,१२[†]
घृणि^०- पाउ ४,५२, -[†]णि आश्रौ
२, १९, ३२, शाश्रौ ३,१७,१,
काश्रौ २५,६,७, आमिगृ
[†]घृ(रि>)णी-वत्^०- वान्
शुप्रा ३,९७^d, तैप्रा ५,२१
घृत^०- पाउ ३,८९, पाग २,४,३१,
फि २१, -[†]तम् आश्रौ २, ५,
१७^०,८, ३, १०, ४×४, शाश्रौ,
आपश्रौ ६,२७,५^०, आपमं १,८,
२^०, आगृ २,९, ५^०, कौगृ ३,४,
३^०, शागृ ३,५, ३^०, कागृ २७,
३^०, बौगृ १,५, ६^०, मागृ १,१४,
६^०, २,११,१७^०, वागृ १५,१७^०,
अप्राय ६, ६^{३†}, अप ४८, ७५^६,
निघ १, १२^६, पावा ६, ४, ६६,
-[†]तस्य आश्रौ २, ८, ३×४,
शाश्रौ, काश्रौ १३, ३, २६^५,
आपश्रौ ४,७,२^१, २१, २०,३^५,
माश्रौ १,८,४,३६^१, वैताश्रौ ३४,
९^५, आगृ १,१५,१^५, मागृ २,४,
५^१, कौस् ४५,११^१, या ७,१७^६,
-तात् भाश्रौ १०, १५,२, वैश्रौ,
-ते आश्रौ ५, १९, ३, काश्रौ,

हिश्रौ ७, १, १७^१, -[†]तेन आश्रौ
२, ५, १४×४, शाश्रौ, आपश्रौ
४,१३,४^५, ७,६,५^१, माश्रौ १,
४, ३, २^५, ७,३, ४०^१, या ७,
२४^६, ८, १७, १८^६, १०,
४०^१, १४,२७, -[†]तेभि आश्रौ
७, ८, १, शाश्रौ १२, ११, १९,
-[†]तै आपश्रौ ५, ६, ३, १४,
१७,१, बौश्रौ
घृत-कद्वला(ल-अ)गार^२-
-राणाम् सुध ८७ १८
घृत-कम्बल^०- ल अप ३१,८,
१,२, ३३, १,१०, ३,१, -लम्
अप १९,१,११, ३१,७,५, ३३,
१,१×४, -लस्य अप ३३,१,९
घृतकम्बल-घृ(ष्ठ>)ष्ठा^२-
-ष्ठा अप ३१,८,३
घृतकम्बल-संयु(त>)ता-
-ता अप ३१,८,१,२
घृत-कुण्ड- -ण्डे बौपि ३,७,४
घृत-कुम्भ- -म्भम् अप ३३, १,
७, ५, ७, विध ५०, ३६, सुध
३८, -म्भात् हिपि २३: ३२.
घृत-कुशा-हिरण्यो(ण्य-उ)दक-
प्राशन- -नम् सुध १८
घृत-क्षीर- -रम् वैध ३, ८, ४,
-राभ्याम् वैगृ ५,१० . ३,५
घृत क्षीर-फला(ल-अ)स्त्राव-
-वे अप ६४,८,५
घृत-क्षीरा(र-अ)म्भस- -म्भसाम्
अप ६४,८,५
घृत-गौरसर्षप- -पै शंघ ३४५

घृत-घट- -ट गौध २२,२६
घृत-चर्मन्^१- -र्मणाम् बौश्रौ १५,
१९: २, -र्माणि बौश्रौ १५,
१६ २
घृत-तिल-तैल-पत्र-पुष्प-मूल-
फल-केश-गु^२-रक्तवस्त्र-पक्वान्न-
विक्रय- -ये सुध ५८
घृत-तिल-मिश्र- -अम् बौपि २,
१०,२
घृत-तुला- -लाम् विध ९०,२१.
घृत-तैल- -लम् विध ६६, ११,
-लानाम् शंघ १८३
घृत-दधि- -ध्ना अप २६,३,५
घृत-दधि-पयस्-तक्र- -क्राणाम्
शध १८१
घृत-दान- -नम् वैगृ ५,४ २०.
घृत-द्रोण-शत- -तेन अप ३३,
३, ६
घृत-धारा-पातना(न-अ)र्थ-
-र्थम् वैश्रौ ११,७: ५
घृत-धेलु- -नुम् अप ९,३,१
[†]घृत-निर्णिज्^०- -र्णिक आपश्रौ
५,६,३, हिश्रौ ३,२,५५
घृत-पक्क- -क्कान् बौगृ ३,१०,४.
घृत-पट- -टम् वाध २१,८
घृत-प(द्>)दी^०- पाग ५, ४,
१३९, -[†]दी आश्रौ १, ७, ७,
शाश्रौ १, १२, १, वागृ १३, २,
-दीम् आपश्रौ ३, १, ७, बौश्रौ
१, १८ ३, भाश्रौ ३, १, १,
हिश्रौ २,३,८.
घृत-पात्र- -त्रम् शंघ ४०१

a) वैप १ निर्दिष्टावत्र समाविष्टौ द्र । b) तु पागम । c) वैप १ द्र । d) पामे वैप १,१२७४ ० द्र । e) घृ ६२४ k घृतमु^० इत्येवं द्र । f) सङ्घत् पामे वैप १,६२२ a द्र । g) = उदक- । h) पामे वैप १,१२७५ f द्र । i) पामे वैप २, ३ ख घृतस्य तैप्रा ३, ७, ६, ११ टि द्र । j) पामे वैप १, १२७५ e द्र । k) सप्र गागृ १, २४, ४ मखाय इति पामे । l) घृतेचरम् इति समस्त व्याचक्षाणो गोपीनाथश्चिन्त्य. (तु सप्र काठ २२, १३ चरुष्टे, आपश्रौ १०,४,२-४ प्रसृ. च) । m) पामे वैप १ घृतेन खि ४,८,४ टि द्र । n) द्रस कद्वल- = तक्र-अगार- = अर्थ.^१ । o) = महाभिषेक- । मलो कस^१ । p) विप । बस । q) उप = [चर्ममय-]पात्र-विशेष- । r) पाठ^१ गुड-^१ ।

घृतपात्र-स्थ- -स्थम् अप ८, १, ८
 घृत-पायस- -सः अशा १२, १, २, -सम् आमिष्ट २, ५, १:३४, जैगृ २, ९ २६, अप १, २७, २
 ङ्घृत-पावन्- -वान काश्रौद्, ८, १६, आपश्रौ ७, २५, १०, बौश्रौ ४, ९. २४, भाश्रौ, पावा ६, ४, ६६
 घृत-पिण्ड- -ण्डम् पागृ २, १, ८, -ण्डान् आपश्रौ १७, ५, ८^{१०}, बौश्रौ २२, ८ २३, वाश्रौ २, २, २, ११, कौसू ५२, १९, ५४, १४
 घृत-पीत- पाग २, २, ३७
 घृत-पू- -पुव बौश्रौ ६, २ : ८^{१०}
 घृत-पूर्ण,र्णा- -र्णम् अप ८, १, ५, विध ९०, १५, -र्णान् अप १९^३, २, ३, -र्णम् काश्रौ १७, ४, १२, २५, ७, २१
 ङ्घृत-पृष्ठ,ष्टा- -ष्ट आश्रौ ५, १९, ३^६, आपश्रौ १४, १७, १^६, आपमं २, २, १^६, आमिष्ट १, १, २ : ४^६, बौगृ २, ५, ९^६, भागृ १, ५. १०^६, हिगृ १, ३, ५^६, वृदेष्ट, ३३, या ४, २६, ५, ७, -ष्टा आपश्रौ १, १६, ८, भाश्रौ १, १८, ६, हिश्रौ १, ४, ५४
 ङ्घृत-प्रतीक,का- -क. आश्रौ २, १०, ४^६, आपश्रौ ५, ६, ३, १४, १७, ७^६, बौश्रौ, आपमं २, २, १^६, कौगृ १, १७, ६^६, शागृ १, २५, ७^६, हिगृ १, ३, ५^६, -कम् आपश्रौ ५, ६, ३, हिश्रौ ३, २, ५६, -का आपश्रौ ४, ५, १×, भाश्रौ, -के

आपश्रौ ७, ५, १, भाश्रौ ७, ४, १, हिश्रौ ४, १, ६२
 घृत-प्रदीप-माल्य- -ल्यै अप १९^३, ३, २
 घृत-प्रमाण- णम् अप ३३, ३, २
 घृत-प्रस्नावि(न् >)नी- -न्यः या १२, ३६
 घृत-प्रस्नावि(न् >)णी- -ण्य या १२, ३६
 घृत-प्रार्श- -श. वाध २३, ३०, विध ५०, ४९
 घृत-प्रार्शन- -नम् शध ४०२, बौध ३, १०, १२, विध, -नेन शध ४१२
 घृतप्रार्शाना (न-अ) न्त- -न्तम् वैगृ ३, १५ १५
 ङ्घृत-प्रुष्- -प्रुष आश्रौ ५, १९, ३, आपश्रौ ५, ६, ३, १४, १७, १, हिश्रौ ३, २, ५५, १५, १, भाशि २१.
 घृत-प्लुत- -तम् विध १३, ४, ७३, १२
 ङ्घृत-बोधन- -न अप १^३, १, ५
 ङ्घृत-भाग- -नौ अप ३३, ५, ७
 ङ्घृत-भाग- -गा. आमिष्ट ३, ८, २ ५८, बौपि १, १५ ६३
 घृत-मधु-तैल-प्रदान- -नेन विध ९२, १६
 घृत-मास- -सम् कागृ ६६, ४
 घृत-मात्रा- -त्रा अप ३३, २, ५, ३, ५
 घृत-मिश्र- -श्रम् वैश्रौ १, ४ ४, आमिष्ट २, ५, ७ १५, ३, ११, ४ १३, बौगृ १, ११, ११,

-श्रान् कौसू २७, १४
 घृत-या(ज्य >) ज्या- -ज्या आश्रौ ५, १९, २, -ज्यायाम् आश्रौ ४, १, १४, -ज्ये आश्रौ ९, २, १७
 घृतयाज्या-स्थान- -ने आश्रौ ८, १२, ७
 घृत-युक्त- -क्तम् शंघ १९७, -क्तै. शध ४४१
 ङ्घृत-योनि- -नि आश्रौ २, १०, ४^६, आपश्रौ २, १०, ४×, भाश्रौ, कौगृ १, १७, ६^६, शागृ १, २५, ७^६, -निम् आपश्रौ ५, ६, ३, हिश्रौ ३, २, ५६, -०ने^६ आश्रौ ५, १९, ३, शाश्रौ ८, ४, ३, बौश्रौ ४, १ ११, ६, ३०-३०
 घृत-लिङ्ग- -ङ्ग अप ३३, १, ९, -ङ्गौ अप ३३, ६, ३
 घृत-लि(स >)सा- -सा वैश्रौ १५, ६ : ७
 ङ्घृत-वत्- -वत् आश्रौ २, २, १७, ६, १४, १६, शाश्रौ ५, १३, ५×, आपश्रौ, या १०, २२, -वता मागृ १, २३, ११, वागृ ७, १०, -वति आपश्रौ २, १७, १×, बौश्रौ, -वद्दि मागृ १, २३, १२^६, -वन्तम् आश्रौ १, ११, १, शाश्रौ, -वन्ति शाश्रौ ३, १८, १५, आपश्रौ ८, २०, ५, वृदे २, ५१^६, -वान् आश्रौ १, १२, ३७^६, काश्रौ, आपश्रौ ९, ३, १^६, भाश्रौ ९, ४, २^६, हिश्रौ १५, १, ४^६, -वान्ति ऋप्रा ९, ४^६

a) वैप १ द्र । b) शोध पृ ५१६ m द्र । c) पामे वैप १,१२७७ k द्र । d) पामे वैप १,१२७७ n द्र । e) पामे वैप १,१२७७ p द्र । f) उप माप । g) विप. । बस । h) = ऋग्-विशेष- । i) पामे वैप १,१२७८ j द्र । j) = मन्त्र-विशेष- । बस । k) पामे वैप १,१२७८ o द्र । l) पामे वैप १,१२७८ n द्र ।

घृतवती- ँती आश्रौ ४,
१२, २४, शाश्रौ, निघ ३, ३०^a,
-तीभि. आपश्रौ ५, ६, २,
-ंतीम् आश्रौ १, ४, ११, शाश्रौ
१, ६, १६, काश्रौ
घृत-वर्ण-निभ- -भ अप ७०^३,
५, ३
घृत-व्यञ्जना (न-आ) दि- दि
विघ ७९, १३
घृत-व्रत^b- -त आपश्रौ २२, ९,
१३, हिश्रौ १७, ४, ७, लाश्रौ ८,
९, ८
घृत-शब्द- -ब्दः काश्रौ १०,
६, १०.
घृत-श्चुत्^c- -श्चुत आपश्रौ
१४, २८, ४^d, वैश्रौ २१, १५:
१२, हिश्रौ १५, ७, १२, आपमं
१, २, ५, या १०, २४
घृत-श्च्युत्^e- -श्च्युतः कप्र ३,
७, १५
घृत-श्च्युन्-निघन^f- -नम्
जैश्रौ २५. ७
घृत-श्री^g- -श्रियम् माश्रौ ५,
१, २, १७^h
घृत-संयु(त>)ता- -ता अप
३१, ६, २, ६५, ३, ५
घृत-संस्कार- -र अप ३३, ५, १
घृत-सानि(न्>)नीⁱ- -न्य- या
१२, ३६
घृत-सारि(न्>)णी- -ण्य या
१२, ३६
घृत-सूक्त^j- -क्तेन बौश्र ३, ७,
२७, आमिश्र २, ५, ३ ४३
घृत-सुदन^k- -न आपश्रौ ९,
१७, ४, ५, माश्रौ ३, ५, १५,

हिश्रौ १५, ७, २४, २५
घृत-स्तुति- -ति ऋअ २, ४,
५८, शुअ २, ३२१, चाअ ४०
१२, -तिम् वृदे ५, ११
घृत-स्तोम->मीय- -यम्
शाश्रौ १५, १, ३३.
घृत-स्तु^l- -स्तु आश्रौ ३, ८,
१, -स्तू आश्रौ ३, ८, १, या
१२, ३६^m, वैशि ७७
घृत-होम- -म गौध २२, ३८ⁿ
घृत-ह (द>)दा^o- -दा अअ
४, ३४^p
घृता(त-अ)क्त, क्ता- -क्तः वाध
२०, ४२, -क्तम् माश्रौ ६, १, ३,
२८, वाश्रौ २, १, २, २२, आश्रु,
-क्तया अप ३५, १, ८, -क्ता
काश्रौ ४, ८, ३, बौश्रौ १९, २
१२, वाश्रौ १, ४, ४, ४, वैश्रौ,
-क्तान् काठश्रौ १३९, पाश्रु २,
१४, ८, अप ८, १, ४, -क्तानि
काश्रौ १६, १, ३०, पाश्रु ३, ७, ३,
वैश्र २, ७, ६, -क्तम् माश्रौ ६, १,
४, २०, २१, वाश्रौ २, १, ३, २१,
अप २६, ३, ४
घृता(त-अ)क्षत- -ता. अशा
१२, ४
घृता(त-अ)क्ष् > ची^q- -ची
आश्रौ ४, १२, २^r, काश्रौ २, ८,
१२, ३, ६, १८^s, आपश्रौ २, ९,
१५××, बौश्रौ, -ची आपश्रौ
५, ६, ३, ७, १७, १^t, बौश्रौ
२, १४ १४, ४, ६ ३५^u,
११, ४ : १९^v, हिश्रौ ३, २, ५३,
५४, -०ची आपश्रौ २, ४, २,
वैश्रौ ५, २. १२, हिश्रौ १, ७, ५,

-चीनाम् आपश्रौ २, १०, ३;
बौश्रौ १, १४ २७, माश्रौ २,
९, १६, हिश्रौ १, ८, १६, -च्य-
आश्रु २, १०, ६, कौश्र ३, ५, ६,
शाश्रु ३, ९, ३, -च्या हिश्रौ ३,
२, ५३, -च्यौ^w माश्रौ १, ३, ४,
२८, ७, २, १२
घृता(त-आ)दि- -दीनि वैध ३,
४, २
घृतादि-दान- -ने विव ७९,
२२
घृतादि-द्रव्य-सर्व^x- -र्वेषु
अप ३५, १, ५
घृता(त-अ)नुषिक्त, क्ता^y- -क्तम्
बौश्रौ ७, १. ३१, -क्तम्
आपश्रौ १६, १२, ८, १०, बौश्रौ
१०, १७ १०, वैश्रौ १८, ११ :
८, ११, हिश्रौ ११, ५, ५, ६
घृता(त-अ)न्न- -न्नेन आमिश्र
२, ४, ५. ७
घृता(त-अ)न्न^z- -न्नः आपश्रौ
१४, १७, १, हिश्रौ १५, ५, १
घृता(त-अ)न्वक्त, क्ता^{aa}- -क्तम्
वैश्रौ १२, १७ : २, -क्ता
आपश्रौ ५, १७, ४, १५, २०, २;
बौश्रौ, -क्तानाम् आमिश्र २, ५,
१ ३२, -क्तौ अप १८, १, ८
घृता(त-अ)न्वीक्षण- -णम् शंघ
२५०
घृता(त-अ)भ्यक्त, क्ता- -क्त वाध
२०, १४, -क्ता बौश्र ३४, १५, ३१
घृता(त-अ)मृतौ (त-ओ)व-
कुल्या- -ल्याभि. कप्र २, ४, १३.
घृता(त-अ)म्भस्- -म्भसो^{ab}-
अप ३८, २, १

a) = यावा-पृथिवी- । b) विप । बस । c) वैप १ द्र । d) पाभे, वैप १, १२७९ k द्र ।

e) = साम-विशेष- । f) उप < √सानि < √सन् । g) = सूक्त-विशेष- । h) वैप १, १२७९ u द्र ।

i) पाभे वैप १, १२८० e द्र । j) पाभे, वैप १, १३५३ a द्र । k) कस > कस. उप परनिपातः ।

घृता(त-अ)चित्त- -तम् अप
३३,७,५
घृता(त-अ)चिस^३- -०चि विघ
९८,७२
घृता(त-अ)थै- -थै अप ३१,
९, १
घृ(त>)ता-वृध^३- -वृधा ऋप्रा
९,२३१
घृता(त-अ)वेक्षण- -णम् अप ८,
१,१, -णस्य अप ८,२,१
घृता(त-अ)शिन- -शी अप ५,
३,३
घृता (त-अ) सुति^३- -ति
आश्रौ ८,१२,७१
घृता(त-अ)हवन^३- -नः आश्रौ
१,३,६,५,१९,३०, शाश्रौ १,४,
१९, ८,२४,१
घृता(त-अ)हुत^३- -त माश्रौ
३,१,२८^d
घृता(त-अ)हुति^३- -तिभि
आप ३,३,२, -तिम् कप्र २,९,
१३
२घृता(त-अ)हुति- -तिः,
-तिम् कौसु ७२,३२१
घृते(त-इ)ष्टका^३- -का आपश्रौ
१६,१३,१०, १७,५,७, बौश्रौ
१०,४५ २८, वैश्रौ, -कानाम्
बौश्रौ २२,८ २१
घृतो(त-उ)दक^३- -कम् शघ
११६ ७
घृतो(त-उ)द्व,ञा^३- -द्वम् काश्रौ
१५,५,१०, -द्वाम् काश्रौ १६,
४,३५

घृतो(त-उ)षि(त>)ता^३- -ता
काश्रौ १८,३, १४, आपश्रौ १७,
१४,५, माश्रौ ६,२,५,३, हिश्रौ
१२,५,१
घृतौ(त-ओ)दन- -नः काय २४,
२१, -नम् आय १, १६, ४,
कौय १, १९, ५, साय १, २७,
५, आमिग २,५,१. ३५, -नेन
बौघ ४,७,६
√घृण्^३ पाधा तना उभ दीतौ
घृण,णा-, घृणि- √घृ द्र
√घृण् पाधा भ्वा आत्म ग्रहरो
घृत- प्रसृ √घृ द्र
घृताचि^३- -चे. जैश्रौ २२ ४,
जैश्रौका १९
घृता(च्>)ची- प्रसृ √घृ द्र
√घृष् पाधा भ्वा पर संघर्षे,
घर्षेत् शंघ १६७
घर्ष- -र्षात् वाघ ३,५७
घर्षण- -णम् काघ २७७ ८
घृष्वि^३- पाठ ४,५६
घृष्वचमस- -साय वाघश्रौ ३,
९८ १
घोट^३- >घोट-प्रकार^३- -रे आपश्रौ
१५,३,१२, माश्रौ ११,३,७
घोणा- पाग ४,१,५६
१घोर,रा^३- पाठ ५, ६४, पाग ८,
१, ६७, -रः काय २८. ४१^३,
कौसु, -रम् वाश्रौ १, २, ३,
२९१, आमिग, -कृरा शाश्रौ
१०, ३, ५, ६, ७, बौश्रौ १७,
४४ ५, बौय, -कृरा आपश्रौ
५, १५, ३, १७, ८×४, बौश्रौ,

-राणि सु ५, ४, वैय १, ६:६१,
कौसु, -कृरा आमिग २, ५,
३ १९, बौय, -रान् वैघ ३,
१५,१२, -रामि भाश्रौ ५,१०,
१३, वैश्रौ, -कृराम् द्राश्रौ १०,
३,४, लाश्रौ ३,११,३, -कृराय^३
आश्रौ २,७,७^३, शाश्रौ ४,५,१,
बौश्रौ, -रे अप ९,४, १, बौघ,
-कृरे माश्रौ ५, १, ८, १३;
अशा १५,५, -रेभ्यः अप ४०,
३,३१, -रेषु अप २४, १, ५;
३१,८,५, ६९,४,३, -रै विघ
४३,३३, ३६
घोर-ख्यान^३- -नाय या ६,११
घोर-चक्षस्^३- -क्षसे या ६,१११
घोर-तारक- -का. अप ५२, ७,४.
घोर-रूप^३- -पम् बौश्रौ २, १५:
४^३, २०, १६ ३, -पा अप
३,३,७
घोर-वृक्ष- -क्षाणाम् अप ३१,
९, २
घोर-स्तनित-दीर्घता- -ता अप
६४,७,२
घोरा(र-अ)चार->°रिक- -कः
वैघ १,५,१,५
घोरा(र-अ)न्त^३- -न्तम् वैय ३,
४. ३
२घोर^३- -रम् आश्रौ १०,७, ४, शाश्रौ
१६, २,१२
३घोर^३- -रः ऋअ २, ३, ३६, -रम्
आश्रौ १२, १३,१, -राणाम्
चाअ ३ २, ४२:२.
घौर- -०र आश्रौ १२, १३,१;

a) विप । बस. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे वैप १,१२७७ p द्र । d) पाभे वैप १,१२७८
० द्र. । e) विप. >नाप (समुद्र-) । f) तृस उप <√उद् । g) उप <√वस [निवासे] । h) =√घण्
इति BPG । i) व्यप. । व्यु ? । j) नाप (अश्व-) । व्यु ? <√घुद् इति अभा । l) पाभे वैप २,३ खं.
बोधः संशा १,१,३ टि द्र. । l) पाभे वैप १, ११८३ ४ द्र. । m) अघोराय इति पाठ ? यनि. शोधः
(द. मा २, ३२ मै १,१०,३) । n) वा क्वि । o) =मन्त्र-विशेष- । p) =ग्रन्थ-विशेष- । व्यु ? ।

-र ऋअर, १, ३६, ८, १, बृदे ६,
३९, शुअ छ, ३९, साअ १, ५४,
५९, १३६, १८६, २२१, ५४०.

घोर-पुत्र- -त्रौ बृदे ६, ३५

१-२घोष- प्रभृ ✓घुष् द्र

१/घोषत्^a आपश्रौ १, ३, ३, ९, ९, ६,
बौश्रौ १, २, ३, भाश्रौ

घोषि- प्रभृ ✓घुष् द्र

घौर- ३घोर- द्र

घोषक- घोषस्थलक- , घोषेय-
✓घुष् द्र.

घनत्- प्रभृ ✓हन् द्र

घंस^a- -स अप छ८, १११^b, निघ
१, ९^b, या ६, १९^क, -सम् या
६, ४^क, ३६^क, -से या ६,
१९^क

घस-विलीन- -नेन कौसू छ८, ३९

घस-श्रुत- -तम् कौसू छ८, ३९

घ्रन्^a वैताश्रौ छ, ८^क

✓घ्रा^a पाधा. भ्वा पर गन्धोपादाने,
जिघ्रति वैगृ ३, २२ ९, जिघ्रेत्
शाश्रौ छ, ८, १२

घ्राण^a- पा ८, २, ५६

१घ्राण^a- -णम् कप्र १, १, ६, २, १, ९,
शंघ ९७, चव्यू २ २६, शैशि
३५८, -णयो आमिगृ ३, ४,
२ १०, -णे अप ९, १, ४;
-णेन वैध १, ११, ८

घ्राण-वत् कप्र १, ८, १३.

घ्राण-समित- -नः पागृ २, ५,
२८, वाध ११, ५७

घ्राणा(ण-अ)न्त- > णन्तिक-
-कः कौगृ २, १, २१.

घ्राणवत्^a- पा ८, २, ५६.

घ्रात^a- पा ८, २, ५६, -तम् शंघ

१८३, विध २३, ३८, ५१,
१७

घ्रातवत्^a- पा ८, २, ५६

घ्राति- -तिः विध ३८, २

जिघ्र^a- पा ३, १, १३७, -घ्रेण
बौश्रौ १, १८ ८

ङ

ङ^a शुप्रा ८, ८

ङ-कार- -रः ऋप्रा ६, १५, तैप्रा
९, १८, -रस्य माशि १४, २,

-रे ऋप्रा छ, १६, माशि १४, २

ङकार णकार-नकार- -रेषु हिश्रौ
२१, २, ३३

ङकार-परिवर्जित- -त याशि
२, ७०, -ता माशि १०, ९

ङकार-श्रवण- -णम् शैशि ३०२

ङकारा(र-अ)न्त^a- -न्तम् शैशि
३०१, ३११, भाशि ५९, -न्ते
याशि २, ४१

ङकारा(र-अ)वग्रह^a- -हाणि
अप्रा २, ३, २४.

ङ-ज-ण-न-म- -मा याशि २, ९४.

ङ-ण- -णे याशि १, ६२.

ङ-ण-न- -ना शौच ३, २७,
-नानाम् शौच १, ४७, -नेभ्य
शौच २, ९.

ङणना(न-अ)न्त- -न्ते माशि
छ, ११

ङ-ण-न-म- -मम् माशि १४, ६.

ङ-न- -नौ शैशि २९३, २९४.

ङन-वत्- -वन्तौ उस् ७, १६

ङ-पूर्व- -र्वः तैप्रा ५, ३२

ङ-श्च- -शयो शैशि ३१३.

✓ङ्ग पाधा. भ्वा आत्म. शब्दे.

च

च^a, > चा शाश्रौ १, १, ९, काश्रौ १, १, ७;

आपश्रौ, आपम २, २, ८^क, या

१, ४, ऋप्रा ८, ३२^क पाग १,

४, ५७, पाप्रावा ८, १, फि ८४;

चे शुप्रा छ, ७, ऋत छ, २, ४

च-कार- -रः शैशि २६३, २७३;

३१९, -रम् ऋप्रा छ, ११, १८;

तैप्रा ५, २२, ऋत छ, ५, ७;

-रेण शुप्रा छ, २५

चकार-करण- -णम् पावा ५, १,
१२०

चकार-प्रतिषेध- -धः पावा १,
३, ७

चकार-वर्ग- -र्गम् शुप्रा छ,
९६, -र्गे शुप्रा छ, ९६

चकारवर्गीय-> °र्गीयो(व-

उ)दय^a- -यौ ऋप्रा ५, १३.

चकारा(र आ)दि- -दय याशि
२, १.

च-ङ- -ङयोः शुप्रा ३, ७, १३४.

च-ज-ज- -जेषु शैशि ३०९.

च-ट-त-वर्ग- -र्गेषु शौच २, २६;
-र्गे शौच ३, ९४.

च-ट-वर्ग- -र्गीयो. शौच २, १४.

च-पर^a- -र तैप्रा ५, ४, २०;
-रे उस् ६, २, अप्रा १, १, १४.

च-योग- -गात् अप्रा १, १, २१

चयोग-वाचचना(न-आ)नर्थ-

क्य- -क्यम् पावा २, १, १.

च-ल-मो(म-उ)दय- -यम् ऋत
छ, ४, ५.

च-वर्ग- -र्गः शुप्रा ८, ९, शौच १,
७, -र्गे तैप्रा २, ३६, शौच २,

a) वैप १ द्र. । b) अहर्-नामन्- । c) पा २, ४, ७८; ७, ३, ७८, ४, ६, ३१ परामृष्ट द्र । d) निघ्रायां
वा नत्वम् । e) = नासिका- । f) विप. । बस । g) पा. कर्तरि, बौश्रौ. भावे कृत् । h) = वर्ण-विशेष- ।
i) = वर्ण-विशेष- । समुच्चयार्थे अन्व्य. । j) पाप्ने वैप १, १३१८ j द्र. ।

३९, शैशि ९७, याशि २, ३५
 चवर्गीय- ये शौच २, ११.
 च-वा-योग- -गात् अप्रा १, १, १४,
 -नो अप्रा १, १, १५, पा ८, १,
 ५९.
 च-वा-हा(ह-अ) है(ह-ए)व-युक्त-
 -क्ते पा ८, १, २४
 ? चवैवाह्यतानि^३ अप्रा १, १, १४
 चा(च-आ)दि- -दिभिः पावा २,
 १, १, -दिषु पा ८, १, ५८.
 चादि-लोप- -ये पा ८, १, ६३
 चा(च-अ)नुबन्ध^४- -न्ध. पावा ८,
 १, ६९
 चा(च-अ)ह-लोप- -ये पा ८, १, ६२
 ✓चक्^५ पाधा भ्वा. आत्म तुलौ प्रति-
 घाते च
 चकित^६- -त् कप्र २, १, १६.
 चकद्र- , चकद्राति ✓कद्रा द्र
 चकन^७- पाग ६, २, १३४
 चकमान- ✓कम् द्र.
 चकान- ✓कै द्र
 च-कार- प्रसृ च द्र.
 ✓चकास्^८ पाधा अदा पर दीप्तौ,
 चकासति सु ४, २.
 चकृवस्- ✓कृ द्र.
 १चकोर^९- पाउ १, ६४.
 २चकोर^{१०}-> चकोर-भीमा[गं]रथ^{११}-
 -था. अप ५६, १, ५.
 ✓चक् पाधा चुरा उभ. व्यथने.
 चकन- चकन- टि द्र

चक्र^{१२}- पाउना ५, ५३, पाग २, ४,
 ३१, ४, १, ११०^१, २, ८०^३, ३,
 १०४^५, ५, १, १२३^०, पावा ६, १,
 १२, -क्र. बौगृ ३, १०, ६^३, -क्रम्
 आश्रौ ९, ९, ८, शाश्रौ ७, १५, २,
 आपश्रौ ५, १४, ६, १८, ४, १०,
 बौश्रौ १४, १२ ३१^५××, भाश्रौ,
 कागृ २९, १^५, वागृ १५, २२^५,
 याध, २७^५कृ, -क्रयोः कौगृ १, ९,
 ४, शागृ १, १५, ४, -क्रस्य आश्रौ
 ४, ९, ३, अप ७२, २, ६, -^५क्रा
 शाश्रौ ५, १३, ३, बौपि १, १०
 १८, -क्राणि आपश्रौ ११, ७,
 २^५, माश्रौ २, २, २, १३, हिश्रौ
 ७, ५, ११^५, लाश्रौ १०, ५, १३^५,
 -क्राम्याम् आश्रौ ९, ३, ५, अप
 २३, ५, २, -क्रे आपश्रौ १, १७,
 ८, बौश्रौ, या ४, २७^५, -क्रेण
 अप १३, ३, ९, विध ८६, १०.
 १चक्री^{१३}- -क्रिया या ३,
 २२^५.
 चक्री-वत्^{१४}- पा ८, २,
 १२, -वत् आश्रौ ३, १०, १०,
 शाश्रौ १३, २९, ३, आपश्रौ १५,
 २०, १८, भाश्रौ ११, २१, १८,
 माश्रौ २, ४, ५, १२, -वति शाश्रौ
 ३, ४, २, काश्रौ २५, ४, २०,
 -वती बौश्रौ १६, २९:७, हिश्रौ
 १७, ८, ५, -वन्तम् भागृ ३, ६,
 २२, -वन्ति आश्रौ १२, ६, ५,

काश्रौ २४, ३, २६, ५, २६, आपश्रौ
 २३, १२, १३, हिश्रौ १८, ४,
 २८, लाश्रौ १०, ५, १३.
 चक्रीवत्-ता- -ता
 लाश्रौ १०, १५, ९
 २चक्री^{१५}- -क्री मागृ १, १४,
 १२^५
 चाक्र- पा ४, ३, १०४
 चाक्रायण- पा ४, १, ११०.
 चाक्रेय- पा ४, २, ८०
 चाक्रय- पा ५, १, १२३
 चक्र-काल-वृद्धि- -द्धि गौघ १२,
 ३१.
 चक्र-कृत^{१६}- -तान् कौसू ८३, २.
 चक्र-चर-त्व- -त्वम् बौध ३, १, ३^५.
 चक्र-ण(, न)दी-, चक्र-णि(, नि)
 तम्बा- पावाग ८, ४, १०^५.
 चक्र-तुण्ड^{१७}- -ण्डः सु २३, ४.
 चक्र-दुन्दुभि- > °भ्य^{१८}- -भ्याः
 काश्रौ १४, ३, १३
 चक्र-धर- पाउवृ २, २२
 चक्र-ध्वज-वेरमा (श्म-आ) वसथ-
 प्रासादा(द-अ)अ- -भे अप ७२,
 २, २
 चक्र-पाणि^{१९}- -णिः अप ६७, ६, ७.
 चक्र-पाल^{२०}- (> चाक्रपालेय- पा)
 पाग ४, २, ८०.
 चक्र-पिशङ्ग- -ङ्गौ बौश्रौ १७, १८ :
 ५.
 चक्र-युक्त- -क्ते या ३, २२.

a) पाठ. ? च-वै-वाव-युतानि इति संस्कृते टि शोध । b) विप. । बस । c) या ४, २७ परामृष्टः
 द्र. । d) = भीत- (=परिवर्तुक्त- [तु अकर्तृ- इति काचित्क मूको]) । e) अर्थ व्यु. च^१ । तु. पाका.,
 चकन- इति भाण्डा , चकन- इति [पक्षे] पाका । f) पा ६, १, ६ पावा ३, १, ३५ परामृष्ट द्र । g) = पक्षि-
 विशेष- । व्यु. ? । h) = देश-विशेष- । व्यु. ? । i) द्रस. उप. स्वरूपम् ? । j) वज्रा. । k) वैप १ द्र ।
 l) = ऋषि-विशेष- । m) अर्थ ? । चर्क- इति पाका. । n) तु पागम । o) तु पाका , चक्र- इति भाण्डा ।
 p) = सर्प-विशेष- । q) सपा. चक्रमिवानुडुह < > चक्रीवानुडुहौ इति पामे. । r) वैप १, १२९५ b द्र ।
 s) विप , नाप. (रासभ- , शकट- प्रसृ.), व्यप [पा] । t) = चक्र- । u) पूष. = [पंजा.] चक्री । v) = °भ्य-
 इति भाण्डा. । w) विप. (मन्त्र-) । x) अर्थः व्यु. च^१ ।

चक्र-रूप- -पम् अप ७०^३, ५, २
 चक्ररूपिन्- -पी विध ९८, २
 चक्र-वत् अप ५८^२, २, ७, ६४, १, ५,
 आपध २, २, ३, हिध २, १, २५,
 वृदे ४, ३५
 चक्र-वत्- -वत्सु बौध १, २, ३५
 चक्र-वर्तिन्- -तिनाम् वृदे ५, १२३
 चक्र-वर्त्मन्- -र्त्सनी द्राश्रौ ५, ४, ११
 चक्र-वर्मन्^१-> चाक्रवर्मण^१- -णस्य
 पा ६, १, १३०.
 चाक्रवर्मायण^१- -णा बौश्रौप्र
 ३२: १
 चक्र-वाक^१- पाग ४, २, ८०^०, ६, ३,
 ११८, -कम् शंघ ४२६
 षं चाक्रवाक- -कम् आमिष्ट
 १, ५, ४ ४०, काग २९, १, बौग,
 १, ४, ५, भाग १, १७ १४, माग
 १, १४, १२, वाग १५, २२, हिग
 १, २४, ६, २५, १
 चाक्रवाक्ये- पा ४, २, ८०
 चक्रवाक-व(त>)ती- पा ६, ३,
 ११८
 चक्र-वाल^०-(> चाक्रवालेय- पा)
 पाठभो २, ३, १०५, पाग ४, २,
 ८०
 चक्र-संस्था(न>)ना^१- -ना: अप
 ५८^२, ४, ७
 चक्रा(क्र-अ) क्लित- -त शंघ १२९
 च(क्र>)क्रा-वत्- -वत्सु वाश्रौ १,
 ५, ४, ४०^{१०}
 चक्रा(क्र-आ)ह्वय^१- -यै माशि ४, ५

चक्रिन्- -क्रिणः^० हिग २, ७, २६,
 -क्री^० आपमं २, १६, ९६, भाग
 २, ७: २४६
 चक्रि-दशमीस्था(स्थ-अ)नुग्राह्य-
 वधू-स्नातक-राजन्- -जम्य: गौघ
 ६, २५

चक्रत्- ✓कृ द्र
 चक्रति अप ४८, ५२^१
 चक्रि- ✓कृ द्र
 चक्रिक^१- -क वैध ३, १४, ६
 रचक्रिन्^१- -क्री वैध ३, १३, १२.
 चक्री-वत्- चक्र- द्र
 चक्रु- ✓कृ द्र
 चकन- चकन- टि द्र.

✓चक्ष^१ पाधा अदा आत्म व्यक्ताया
 वाचि, दर्शने, चष्टे अप ४८, २^१,
 निघ ३, ११^१

चक्षस्- पाठ ४, २३३, -षक्षसा
 आश्रौ ३, ८, १, शाश्रौ ११, १४, ४,
 या १२, २२-२५, ऋप्रा १, १००,
 -षक्षसे^१ आश्रौ ८, ६, ८, बौश्रौ
 ६, १६ १३, भाश्रौ १०, २०, ४,
 हिश्रौ १०, ३, ३०, जैश्रौ ६: ४^६,
 १२: ३; द्राश्रौ २, ३, ५^६, लाश्रौ
 १, ७, ५^६, आपमं २, ७, १३, या
 १, २७^६

चक्षु^१- -क्षो: आमिष्ट २, ७, ८. १२^१
 चक्षु-निरोध- -ध आपध २, २७,
 १७^१

चक्षु-निष्पत्ति- -त्ति: आज्यो
 १२, ११.

चक्ष्वा(क्षु-आ)दि- -दि आमिष्ट
 १, ६, ३ १४.

चक्षुस्^१- पाठ २, ११९, पाग ५, ४,
 ३८^१, ५१, -षक्षु आश्रौ १, ४, ९;
 १३, १, ३, ३, १^१××, शाश्रौ १, ६,
 २××; ५, १७, ३^१, काश्रौ, आपश्रौ
 ५, १२, १^०, ६, १९, १^१, ७, १, २^१;
 १६, ३२, ३^१, बौश्रौ २, १७ ३९^०;
 हिश्रौ ३, ४, १२^०, ४, १, ४^१, ६,
 ६, १७^१, वैताश्रौ २६, १^१;
 आमिष्ट ३, ६, १ ६^१, या ४,
 ३^१, -क्षुमि अप ४८, ३९^१;
 -क्षुभ्यर्त्सम् आपश्रौ १२, १८,
 २०^१, बौश्रौ, -क्षुष. आश्रौ ८,
 १४, १८, काश्रौ, -षक्षुषा आश्रौ
 १, १३, १××, शाश्रौ, माश्रौ १,
 ६, ३, १८^१, आपध २, ५, १९^१;
 -क्षुषाम् वैताश्रौ ९, २७^१;
 -क्षुषि वाधुश्रौ ४, ३७ १८;
 जैश्रौ १९ ५, आमिष्ट १, १, ३:
 ३१^१, हिग १, ५, १३^१, -क्षुषी
 आश्रौ ६, ९, ३, शाश्रौ, पावा ५,
 २, ३३, -षक्षुषे आश्रौ ६, ९, १;
 काश्रौ, -क्षुषो: आपश्रौ १०,
 १४, ९^१, १२, २५, १; माश्रौ;
 -क्षुषि शैशि २७^१.

चक्षुष- पा ५, ४, ३८;
 -०ष अग्रा ३, १, १३^१, -ष:
 वृदे ८, ११९.

षं चक्षु: -श्रोत्र- -त्रे वाश्रौ १, १,
 ३, १६, वाग १२, २.

a) व्यप । b) वैप १ द्र । c) अर्थ: व्यु च^१ । d) विप । बस । e) पाठ: ? ऋ^० इति
 संस्कर्तुरभिमतः शोधः । f) = चक्रवाक-। बस । g) परस्परं पामे । h) = [चौर्यादि] शूद्राया ज्ञत-। व्यु: ? ।
 i) = [गुडाद्] ब्राह्मणयामुत्पन्न-। व्यु: ? । j) या १, ९, ४, ३ पा, पावा २, ४, ५५ परामृष्टः द्र । k) पामे, वैप १,
 १२९६ c द्र । l) सपा. °क्षुति <> °क्षुनि इति पामे । m) वक्षस्- इति [पक्षे] पाक । n) पामे,
 वैप १, १२९६ j द्र । o) पामे वैप १, १२९७ d द्र । p) पामे वैप १, १२९५ s द्र । q) पामे, वैप १,
 १२९७ b द्र । r) पामे वैप १, १२९६ m द्र । s) पामे, वैप २, ३खं. ज्योतिषा तैत्रा १, २, १, २७ स्ति. द्र. १-
 t) सपा. चक्षुषा त्वक् <> चक्षुस्त्वक् इति पामे । u) पामे, वैप १, १२९८ d द्र ।

चक्षुरा(र-आ)दि-विनाशि(न>)
नी- नी अप २३, ३, ५.
चक्षुर-णो^१-कर्ण-वक्त्र- क्त्राणि
जैश्रीका १४१^{१०}
†चक्षुर-दा- -दाः आपश्रौ १७,
५, १६, वैश्रौ १८, २१ : १६^{१०},
हिश्रौ ११, ८, १०
चक्षुर-निमित्त, ता- -ता बौश्रौ
२०, २५ : ३१, -ते बौश्रौ २,
१२ २४, माश्रौ ५, २, १७
चक्षुर-निरोध- -धः हिध २, ५,
२३६^६
‡चक्षुर-मुख- -खौ सु २४, २
चक्षुर-विषय^०- -ये शाश्रौ २,
१४, १०, विध २८, २३
चक्षुर-श्रोत्र-त्वग्-घ्राण-मनो-
व्यतिक्रम- -मेषु बौध ४, १, ५
चक्षुष्-काम- -म. आपश्रौ ७,
१, १६, ८, १९, ५, बौश्रौ १३,
६. ११, -१५ : ९, ३० २,
-मस्य माश्रौ ५, १, ६, २७, २,
२, १९, हिश्रौ २२, ३, ५, ४, १९,
माश्रु १, ४, १६
†चक्षुष्-पा- -पा आश्रौ ५, ६,
७, शाश्रौ ४, ७, १२^१, ८, ४, ६^१,
काश्रौ ३, ६, १४, बौश्रौ १, १९,
३२××; माश्रौ, -पाभ्याम् बौश्रौ
७, १२ ३७.
†चक्षुष्-मत्- -मते^१ आपश्रौ

२१, ४, १, आमिष्ट २, ४, २ : ५,
माश्रु २, १८, २, याश्रु ११, ७, -मान्
आपश्रौ ४, ९, ९, ११^{११}, बौश्रौ
३, १८ १२^{११}, माश्रौ ४, १३, ४^{११},
१४, १^{११}, २^{११}, माश्रौ १, ४, २,
१^{११}; वाश्रौ १, १, ३, २^{११}, हिश्रौ
६, ३, २^{११}, विध ९१, १५^{११}
चक्षुस्-त्वक्-शिओ(श्र-उ) दरा-
(र-आ)रम्भण^१- -गान् हिध
२, १, १०१^{११}, १०, १५८.
रचक्षुस्^१- -क्षुः ऋअ २, ९,
१०६
रचाक्षुष- ऋअ २, ९, १०६,
-ष. साअ १, ५६७, २, ११२,
११७६, -क्षुषम् शंघ ११६:
४५^{११}.
चक्षुस्- चक्षु- १चक्षुस्- ✓चक्षु
द्र.
चङ्कुण^१-> चाकुङ्ण- -णस्य चाअ
३८ १३.
चङ्कुर- पाठ १, ३८
चङ्क्रमा- , म्यमाण- ✓कम् द्र.
चङ्- चञ्ज- च द्र
✓चञ्च पाधा भ्वा पर गतौ
चञ्च^१- (> चञ्च-क- पा), चञ्चत्-
(> च्च-क- पा) पागवा ५, ४, ३
चञ्चरीक- ✓चर् द्र
चञ्चलीक- ✓चल् द्र
चञ्चा^०- पाठभो २, २, ८२^१, -ञ्चा

पा ५, ३, ९८
चञ्चु- पाठभो २, १, ७
✓चद् पाधा चुरा उभ भेदने
१चटक, का^१- पाठभो २, २, ७, पा,
पाग ४, १, ४, पावाग ७, ३, ४५.
चाटकैर- पा ४, १, १२८
चटक^१-विद्युद्-वज्र-निर्घात-
प्रपतन- -ने काध २७५ १०.
२चटक^१- (> चाटकायन- पा.)
पाग ४, १, ९९
चटर- पाठभो २, ३, ३८
चटतवर्ग- , चट-वर्ग- च द्र.
चटस- पाठभो २, ३, १७३
चटाकु- पाठभो २, १, ४०
चटु^१- पाठभो २, १, ७^१, पाग १, ४,
५७^१, ५, २, ९७.
चटुल- पा ५, २, ९७
चण^१ पाग १, ४, ५७
✓चण^१ पाधा. भ्वा. पर गतौ दाने च.
चणक^१- (> चाणक्य- > चाणक-
पा. यक] पाठभो २, २, ७, पाग
४, १, १०५^१, २, १११^१
✓चण्ड पाधा भ्वा आत्म कोपे
१चण्ड^१- पाठ १, ११४^{११}, पाग ४, १,
४५, ५, १, १२२, ४, २९, -ण्डाः
अप ६४, ३, १०, माशि १६, ५,
याशि २, १००, नाशि २, ८, १४,
-ण्डात् चव्यु ३ १२
चण्डी- पा ४, १, ४५,

a) = नस्- । ओत्वं छान्दसं द्र । b) ऋणि इति पाठ^१ यनि शोध । c) ऋ इति पाठ^१ यनि. शोधः (तु. हिश्रौ) । d) पाभे पृ १०४३ । द्र । e) षस । f) पाभे वैप १, १२९८ h द्र. । g) पाभे वैप १, १२९९ ० द्र. । h) पाभे वैप १ परि. अच्चाहू तै १, ६, २, ३ टि. द्र । i) विप. (आसाव-) द्रस. > बस. । j) पाभे. पृ १०४३ ट द्र । k) ऋभाणि इति पाठ. १ यनि शोधः । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु^१ । m) = मन्वन्तराऽन्यतम- । n) तु पागम । o) = तृणमय-पुरुष- । व्यु^१ । p) < ✓चि इति । q) = पक्षि-विशेष- । व्यु^१ < ✓चद् इति अभा प्रभु । r) = ध्वन्यनुकरण- [चटचट] । s) व्यप. । व्यु^१ । t) = प्रियाऽऽलाप- । व्यु^१ । u) < ✓चद् इति । v) तु पाका । चाटु- इति भारुडा. । w) अण्य. । = चेद् इति पासित. । x) ✓वण् इति विभाषयेति पावाग ७, ४, ३ । y) वण- इति पाका. । z) चणक- इति [पक्षे] भारुडा. । z) विर, नाप. । a^१) < ✓चण् इति^१ ।

-ण्डि सु ३,४.
 १ चण्ड- पा ५,१,१२२.
 चण्ड-क- पा ५,४, २९
 चण्ड-ता-, चण्ड-त्व- पा ५,
 १,१२२
 चण्ड-पवन- -ने विध ३०,७
 चण्डिमन्- पा ५,१,१२२
 २ चण्ड^a- (> २ चण्ड- पा) पाग ४,
 १,११२
 चण्डातक^b- पाउभो २, २, ४२,
 -कम् काश्रौ १४, ५, ३
 चण्डाल^c- पाउ १, ११७, पाग ४,
 १,७३, ३, ११८, -ल बौध १,
 ९, ६, वैध ३, १४, ७, -लम् कौगृ
 २, ७, २३, शागृ २, १२, १०, ६,
 १, ३, बौध १, ५, ५२, १२२,
 -लात् वैध ३, १५, ११,
 -लानाम् विध^d १६, ११, १४,
 -लैः सुध १६
 चण्डाली- पा ४, १, ७३,
 -लीम् शध ४४९^e, बौध २, २,
 ६७.
 चण्डाली-गमन- -ने विध
 ५३, ५
 चण्डाली-व्यवाय- -यः
 बौध २, २, ६६.
 चण्डाल्य (ली-अ) वकी-
 गिन्- -र्णी शध ३७८
 चण्डाल- पावा ५, ४, ३६,
 -लः वाध १८, १, आपध २,
 २, ६, द्विध २, १, १२८
 चण्डाली- > ली-
 पुक्कसी-गमन- -ने शंघ ३७७

१८
 चाण्डाली-व्यवाय-
 -यः वाध २३, ४१
 चाण्डाल-स्लेच्छ-संभाषण-
 -गे विध २२, ७६
 चाण्डाल-सयुत- -ने कौसू
 १४१, ३८
 चाण्डाला(ल-अ)भि- -भौ
 अप ३१, ९, २
 चाण्डाल-पतिता(त-अ)ञ्ज-
 भोजन- -नेषु वाध २०, १७
 चाण्डाला(ल-अ)ञ्जा(ञ-अ)
 द- -द अप २, ६, ३
 चाण्डालो(ल-उ)पस्पर्शन-
 -ने द्विध २, १, ३०^o
 चाण्डालक- पा ४, ३, ११८.
 चाण्डालकि- पावा ४, १, ९७
 चण्डाल-दर्शन- -ने सुधप ८६
 १४^f
 चण्डाल-पतित-स्पृष्ट- -हृ ३ बौध
 १, ५, ५४
 चण्डाल-पतिता(त-आ)दि- -दर्श^g-
 -शौ आमिगृ २, ७, ८ : ९
 चण्डाल-प्रेक्षित- -तम् सुध ६१.
 चण्डाल-वत् वैध ३, १५, ११
 चण्डाल-वैदेहक-सूत- -ता विध
 १६, ६^d.
 चण्डाल-शव-यूपा(प-आ)दि- -दि
 शंघ १००
 चण्डाल-सूतिक-पतितो(त-उ)दक्या-
 शव-स्पर्शन- -ने सुध ३२.
 चण्डाला(ल-आ)दि-स्पृष्ट- -द्यानाम्
 काध २७८ : ५.

चण्डाला(ल-२आ)घ- -है विध
 २३, ५०^d
 चण्डाला(ल-अ)न्त^h- -न्तै वैगृ ७,
 ४ १०.
 चण्डाला(ल-अ)ञ्ज- -ञ्जम् विध ५१,
 ५७^d
 चण्डाला(ल-अ)वेक्षित- -तम् सुधप
 ८८ : ४
 चण्डालो(ल-उ)पस्पर्शन- -ने आपध
 २, २, ८^e
 चण्डिला- पाउवृ १, ५७
 ✓ चत्(बधा)ⁱ पाधा भ्वा उभ याचने,
 नाशनो[या], चतति निघ२, १४^h
 चातयसि या ४, २५, चात-
 याम या ६, ३०, चातया-
 मसि या ६, ३०^f, चत्
 यत^k आपश्रौ १२, ३, २, द्विश्रौ
 ८, १, ४१
 चत्, चा- पा ७, २, ३४, -चत्ता
 वृदे ८, ६०^l, -चत्ताय आपश्रौ
 २१, १२, ९, वाश्रौ ३, २, २, ३६,
 वैताश्रौ ३४, १
 चत्स- पावा ३, १, ९७.
 चातन^m- -न अप ३२, १, ३, ३३,
 ६, २, अशां २३, १, अश्रभू २,
 अश्र १, ८, १६, २८××, -नम्
 अप १९ⁿ, ४, २, -नानाम् कौसू
 २५, २२, ८०, १२, -नानि कौसू
 ८, २५, १३६, ९, अप ३२, १,
 ३, -नेन अप २१, ६, ८, अशा
 २१, १, -नै वैताश्रौ ५, १०,
 अप ३३, ५, ६
 चातन-गण- -णस्य अश्रभू २.

a) व्यप । व्यु ? । b) = [अर्थोरक-] वस्त्र-विशेष- । व्यु ? । c) नाप. । व्यु ? ।
 d) चा° इति जीतं । e) सपा. चाण्डा° <> चण्डा° इति पासे । f) पासे पृ ४०४ d द्र ।
 g) द्रस. > बस. > षस. उप. = दर्शन- । h) विप । बस । i) वैप १ द्र. । या ६, ३० परास्पृष्ट- द्र । j) गतौ
 वृत्तिः । k) पासे वैप २, ३खं. चातयत तैश्च ३, ७, ९, १ टि. द्र । l) वैप १, १२९९ k द्र । m) = ऋषि-विशेष-
 [अश्र], गया, सुरू- प्रभृ. [अप. अशां. कौसू] ।

चतुर्^a -> चतस्र- पा ७, २, ९९,
पाग ४, १, १०, -सरि पावा ७, २,
९९, -सृणाम् काश्रौ १७, ७, १४,
बौश्रौ ८, १० १४××, माश्रौ,
पा ६, ४, ४, -सुभि. आश्रौ २,
१३, ९, शाश्रौ ४, ११, ६××,
काश्रौ, -सुभि ऽ-सुभिः आपशु
२०, २, हिशु ६, ३९, -सुभ्य
आपश्रौ १३, १०, ११, १९, ६,
बौश्रौ, -सुषु शाश्रौ १४, ६१,
२, आपश्रौ, -सुषुऽ-सुषु काश्रौ
१७, ३, ३, आश्रु ४, ८, २२,
-स्र आश्रौ २, ४, १३××, शाश्रौ,
-स्र ऽ-स्र काश्रौ १०, २, २४,
बौश्रौ १५, २२ : १६××,
माश्रौ ६, २, ५, २७, हिश्रौ
चतुर्^b - पाठ ५, ५८, पाग ५, ४,
१०७, -तुर आश्रौ २, १६,
९, ११, ७, १०, शाश्रौ ५,
१, २××, काश्रौ, -तुर.ऽ-तुर
आपश्रौ १७, २६, ४, २३, ११,
३, बौश्रौ, -तुर्णाम् आश्रौ ७,
५, ९××, शाश्रौ, -तुर्भिः आश्रौ
८, १, ११, १०, ३, २२, काश्रौ,
-तुर्भि ऽ-तुर्भिः बौश्रौ २१, १ :
३३, वैताश्रौ १६, ६, -तुर्भ्य
आश्रौ २, १०, १८, आपश्रौ,
-तुर्भ्याम् हिशु ६, २४, -तुर्षु
आश्रौ १०, २, ३०, शाश्रौ,
-तुर्षुऽ-तुर्षु बौश्रौ २८, ८ : १३,
वैश्रौ
चतु-कृष्णलो(ल-ऊ)न- न्ने
विध ९, ८
चतुःपारायण- -णम् चव्यू
१ ६
चतु-प्रमा(ए>)णा^b -णा
काशु ३, ६

चतु-प्रस्थ^c - स्थम् अप ३३,
३, ३
चतु प्रस्थो (स्थ-उ) दक-पू-
(र्ण>)र्णा^c -र्णा वैश्रौ ११,
९. ८
चतुर्-अक्ष^d - क्ष. बौश्रौ १५,
१ १५, वाधूश्रौ ३, ६९ ३८,
-क्षम् काश्रौ २०, १, ३६१,
आपश्रौ, -क्षौ हिपि १८ ८१
चतुरक्षी- -क्षी अश्र ५,
१९१
चतुर्-अक्षर- -रम् ऽ-रम्
निसू ४, १०. ५, -राणि आश्रौ
६, ४, ६, शाश्रौ ९, १८, २, तुसू
१, ५ ५, २५, ६ २६, -रात्
ऋप्रा १७, १९, ४४
चतुरक्षर-द्वासः (ः) लाश्रौ ७,
७, ९, ९, ११
चतुरक्षरा(र-अ)धिक^b -
-कानि उनिस् १ : ४
२-चतुर्-अक्षर, रा^a - र- लाश्रौ
६, १०, २, ऋप्रा १६, ३३, -रम्
आश्रौ ६, ३, ८, ७, १, १२,
वाधूश्रौ, -रा वाधूश्रौ ४, ५० :
१, निसू १, ५ ९, -राः आश्रौ
७, १०, ६, -रे शाश्रौ ९, ५,
१३, -रेण शाश्रौ ९, ६, ७-१०,
वाधूश्रौ ४, १०० २३, निसू
२, १० १६
चतुरक्षर-ता- -तायाः निसू
१, १ : ७
चतुर्-अङ्ग, ऋ^b -ङ्गम् अप २६,
२, १, -ङ्गाम् अप ६८, २, २
चतुर्-अङ्गुल, ला^c - ल- काशु
७, २२, -लम् शाश्रौ १७, १०,
४, आपश्रौ, -लम् ऽ-लम् काश्रौ
१६, ८, १८, -लाम्याम् शाश्रौ

१७, १०, ४, -लाम् आपश्रौ २,
२, ७, हिश्रौ १, ६, ९४, -ले
शाश्रौ १७, १०, ४, बौश्रौ ९,
३ १८, १०, ५. १७, हिश्रौ
४, ४, १३, -लेन बौश्रौ ४, २ :
३३, ६, २६ २३, वैश्रौ
चतुरङ्गुल-पृथ्वी- -थ्वी-
काशु ६५, ३, गोश्रु ४, २, १७;
विध २१, ४
चतुरङ्गुल-मात्र- -त्रम् माश्रौ
१, २, ६, १२, -त्रेण बौश्रौ २६,
२३ : ७
चतुरङ्गुल-मान^d - नेन अप
२५, १, १२, ३०^a, १, ९.
चतुरङ्गुल-विस्तार, रा^d - रम्
वैश्रौ ११, ८ ९, -राम् वैश्रु
१, ८ ११
चतुरङ्गुलविस्तारो(र-उ)
अ(त>)ता- -ता वैध १, ६, ५.
चतुरङ्गुला(ल^d-अ)अ^b -
-अम् वैश्रु १, ८ ६
चतुरङ्गुलो(ल-उ)च्छ(य>)
या^b - या अप २२, २, २, -याः
माश्रौ १, २, १, ६.
चतुरङ्गुलो(ल-उ)स्से(ध>)
धा^b - धा वैध १, ६, ५
चतुरङ्गुलो (ल-उ)अ(त>)
ता- -ता वैश्रौ ११, ८. ४,
-ताम् वैश्रौ १, १ १६.
चतुर-अङ्गुलि- > °लि-
स्तार- -रम् वैश्रौ १, २. ५.
चतुरङ्गुलि-विस्तारो-
(र-उ)अ(त>)ता- -ताः वैश्रौ
१, ३ : ७, -ताम् वैश्रौ १, २ :
७, १२; वैश्रु १, ८ : १२
चतुरङ्गुलि-विस्तारो(र-आ)
यत- -तम् वैश्रौ ११, ८ : ७.

a) वैप १ द्र । b) विप. । बस । c) विप. । तद्विधितार्थे द्विस. । d) समाहारे द्विस. ।

चतुर्-अञ्जलि-मात्र- -त्रान्
गोष्ट २, १, १४
चतुर्-अनीक^a- -क ऋप्रा ५,
५३^f
चतुर्-अनुतोद^b- -दम् निसू ३,
१२ १३, १७^c
चतुर्-अनुवाक^b- -कम् अत्र
१८, १
चतुर्-अनुष्टुब्-अन्त^d- -न्तम्
ऋप्रा २, ४, ३७, ६, ५९, ९, ५,
१०, १६, ८७
चतुर्-अन्त, न्ता^b- -न्तम् माश्रौ
१, ३, ३, २०^e, -न्ता विघ
८७, ९
चतुर्-अपस्त्राव^b- -वम्^f आपश्रौ
१८, १८, ५, बौश्रौ १२, १४ १५
चतुर्-अभिष्टव^b- -वान् आश्रौ
११, ७, २, १०
चतुर्-अरलि, ली^b- -लि काश्रौ
५, ३, १२, ६, १, २४, आपश्रौ
७, २, १७, बौश्रौ, -लिम् हिश्रौ
४, १, ४०; -लीम् वैश्रौ २, ४ :
२, -ली वैश्रौ १०, २० ६
चतुर्-अवत्त, ता^b- -त्तम् काश्रौ
३, ३, ११, आपश्रौ ११, १, १,
बौश्रौ, -त्तस्य बौश्रौ १३, २३
९, २३, ३ : १६, -त्ताम्
आपश्रौ ३, १, ६, वैश्रौ ६, ११ :
२, हिश्रौ २, ३, ७
चतुर्-अवत्त-पञ्चावत्त- -त्ते
वाश्रौ १, १, १, ४४.
चतुर्-वत्तिन्- -त्तिन् आपश्रौ
२, १८, ९, ७, २०, ११;
वैश्रौ ६, ८ : ६, ९, ७ ११;

१२, -त्तिनाम् आपश्रौ ८, १५,
५, बौश्रौ २०, ५ ३२, माश्रौ
८, १८, ३, वैश्रौ ९, ७ ८,
-त्ती माश्रौ ७, १६, ५, गोष्ट
१, ८, ७, मीसू १०, ७, ७०^g
चतुर्-अवदान^b- -नस्य माश्रौ
२, १८, १२, १९, ३×४, वाश्रौ
चतुर्-अवर^b- -रान् वाग ११,
२२.
चतुर्-अवराध^b- -धान् गोष्ट
४, २, ६.
चतुर्-अवराध^b- -ध्यां द्राश्रौ
३, ४, १, -ध्यान् लाश्रौ १, ११,
२५
चतुर्-अवसा(न >)ना^b- -ना
शुश्र १, ३०४, २, ८१, अत्र
१०, ५, १३, ३, -ना अत्र १३,
३^h, १९, ३९, अयं ३ : ६९
चतुर्-अवस्त्राव^b- -वम् हिश्रौ
१३, ६, १७ⁱ
चतुर्-अशीति- -तिः अप ५२,
२, २, ऋप्रा १६, ९०
चतुर्-अश्र, आ- पा ५, ४, १२०,
-श्रः शाश्रौ १५, १, १६, आपश्रौ,
-श्रम् काश्रौ १६, ४, ९,
आपश्रौ, कौष्ट १, ३, २^k, -श्रयो
आपश्रु २, ६^l, हिश्रु १, २६,
२७, -श्रस्य आपश्रु १, १०,
७, ९, १३, ३, हिश्रु २, ५९,
४, ३५, -श्रा वैश्रौ ११, ८ : ५,
अप, -श्राः आपश्रौ १७, २१, ५,
माश्रौ ६, १, ४, ३९, वाश्रौ,
-श्राणाम् बौश्रु १८ ६, २१ :
६, -श्राणि बौश्रौ २७, ४ २९,

हिश्रौ १२, ८, ९, आपश्रु, -श्रात्
आपश्रु २, ८, बौश्रु २ ३, हिश्रु
१, ३० -श्रान् वैश्रौ १४, १२ :
४, हिश्रौ ७, ७, २७, बौश्रु १९ :
१, -श्राभि वैश्रौ १८, १६ :
३७, ७६, आपश्रु, -श्राम् आपश्रौ
१६, ४, ७, ५, ४, बौश्रौ,
-श्रासु बौश्रु ६ २१, -श्रे
बौश्रौ २०, २५ ११, आपश्रु
८, ३
चतुर्-अ-करणी^l- -णी बौश्रु
२ २४
चतुर्-अ-कृत, ता- -तस्य
बौश्रौ २६, १० : ३, -ता बौश्रु
८ २३
चतुर्-अ-चवा(ल >)ला^b-
-ले बौश्रौ २०, २५ ११
चतुर्-अ-पा(घ >)घा^b- -घाः
बौश्रु १० १९, २२, १२ ११;
१३ ६
चतुर्-आ(श्र-अङ्ग >)ङ्गी^b-
-ङ्ग्याम् काश्रौ १६, ५, ५
चतुर्-आ(श्र-आ)स्मन्^b-
-स्मा बौश्रु ८ : २^m.
चतुर्-ओ(श्र-उ)पलिस- -से
वैघ २, १४, ७.
चतुर्-अश्रिⁿ- -श्रिः बौश्रौ २५,
३४ : १, वैश्रौ १७, ७ ६;
-श्रिम् बौश्रौ ४, १ : ३०, ११,
१ : ५
चतुर्-अष्ट(का >)क^b- -क गोष्ट
३, १०, ३.
चतुर्(र-अ)ष्टादश- -शः हिश्रौ
१७, २, ४.

a) वैप १ द्र । b) विप । बस । c) उप अनु/तुद् + घञ् प्र । d) विप । कस > बस ।

e) सपा चतुरन्तम् <> चतुर्षी इति पाठे । f) सपा. ष्पञ्चावम् <> ष्पञ्चावम् इति पाठे । g) विप. †
तद्धितार्थे द्विस. । h) मलो कस. । i) तु. जीसं । j) ष्थि- इति MW । k) सपा. अश्रम् <> अश्रम् इति
पाठे. । l) मलो. कस. उप. = रज्जु-विशेष- । m) श्राश्रा° इति पाठ ? यन्नि शोध ।

चतुर्-अक्ष,स्रा- -स्र. वाश्रौ ३,
१,१,७, काशु ७, २१, -स्रम्
काश्रौ ८, ५, २५, १७, ५, ३^७,
आपश्रौ १६, १४, १, माश्रौ,
शाश्रु १, ७, २^७, -स्राणि कौसू
८५, ८, -स्राव काशु ३, १,
-स्राम् माश्रौ १,७, ३, २१, ६,
११, -स्रे काश्रौ १६, २, २^०,
कौसू १३७, १७
चतुर्-अह^d- -ह काश्रौ २४,
३, २५, ५, ११, वाधूश्रौ,
-हम् आपश्रौ २१, ४, १३,
बौश्रौ १८, ३२ ५x४, वैश्रौ,
-हम्-हम् आपश्रौ २१, ४,
१०, माश्रौ ४, ३, ५१, -हस्य
क्षुसू २, १२ १०, -हा आश्रौ
१०, २, २६, काश्रौ २३, २,
११, -हाणाम् वैताश्रौ ४१, १०,
-हाव आमिगृ २, ७, ४ १०,
-हे शाश्रौ १३, १९, ५, काश्रौ
१३, १, ५, आपश्रौ ८, २०, १, ९,
८, ५, २१, १५, ५, बौश्रौ, -हेण
बौश्रौ १८, २३: १६, -हौ वाध
२३, ४३
चतुर्ह-तन्त्र- -न्त्राणि निसू
८, ९ ६.
चतुर्ह-पञ्चाहा(ह-अ)हीन-
दशाह-छन्दोमदशाह- -हेषु
वैताश्रौ ४०, ४
चतुर्हा(ह-अ)थै- -थै आश्रौ
११, १, ११, शाश्रौ १३, १५, ७,
काश्रौ २४, १, १०, निसू ९, १०:
८.
चतुर्हो(ह-ऊ)न- -नान् बौश्रौ

२६, २६: १२, १३, -नान्
-नान् बौश्रौ २६, २६ ७
चतुर्हो(ह-उ)पजन^०- -ना:
आश्रौ ११, ६, १५
चतुर्-भाण (व>) वा^०- -वा
याशि १, ११
चतुर्-भावृत्- -वृताम् निसू १०,
१ ३३
चतुर्-भावृत्त- -त्त बौश्रौ २६,
१६: ९
चतुर्-भाश्रम- पावाग ५, १,
१२४
चातुराश्रम्य- पावा ५, १,
१२४; -म्यम् वैध १, ९, ८
चातुराश्रमी->^०श्रमि-
न्- -मिणाम् वैगृ १, २ १
चतुर्-भाहाव^r- -वा: शाश्रौ ७,
१४, ४, -वानि आश्रौ ५, १०,
११
चतुर्-उकथ्य^०- -कथ्यम् काश्रौ
२४, ७, २३
चतुर्-उत्तर^०- -र: अप ४: २९,
-रम् ऋप्रा १६, ८, १७, १९,
-रा निसू १, ५: १५, ९:
७-१०, -राणाम् शाश्रौ ७, २७,
३०^३, -राणि शाश्रौ १८, ६, १,
बौश्रौ, -रे अप ५२, ४, ३,
-रै लाश्रौ १०, ६, १२, निसू
५, ३ २८, -रौ निसू १, ५:
२; ऋप्रा १६, ७९.
चातुर्हृत्तय^०- -र्यम् निसू
५, ४ १
चतुर्हृत्तर-छन्दस्- -न्द.
निसू २, १३: ७.

चतुर्हृत्तर-प्रयोग- -ग लाश्रौ
१०, ७, ४
चतुर्हृत्तर-संपन्न- -न्ने लाश्रौ
८, ५, २५^७
चतुर्हृत्तर-स्तोम^b- -म: शाश्रौ
१५, १, ८, १६, ३, ७, -मम्
शाश्रौ १४, ६१, ११
चतुर्हृत्तरीय- -य बौश्रौ २६,
१० २६^१; ३३ ९.
चतुर्-उदकुम्भ- -म्भान् माश्रु
२, १४, २४.
चतुर्-उदय- -य बौश्रौ २६,
१६: ९
चतुर्-ऋच^r- च वृदे ६ १८;
-चम् शाश्रौ १२, ८, ३, निसू;
-चान् अप २ ४५, -चानाम्
लाश्रौ ६, ४, १०, -चानि अप^०
२. ६०, ८०, -चे अश्र १९,
३, -चेन अश्र १, १^३, -चैवेभ्य:
अप ४६, १०, १, अश्र १९, २३.
चतुर्ऋच-प्रकृति- -ति अश्र
२, १
चतुर्ऋच-स्थ- -स्थे निसू ६,
३. १६
चतुर्-औदुम्बर- -रान् अप १८,
१, १२
चतुर्-ग(ए>)णी^k- -गीम् अप
३१, ५, ५
चतुर्-गव^r- -वाणि काश्रौ २२,
११, २, -वानि लश्रौ ९, ४, १९.
चतुर्-गायत्र्य (त्री-अ) न्त^m-
-न्तम् ऋश्र २, ३, ५९.
चतुर्-गुण,णा- -ण: अप ३६,
१५, १, -णम् काश्रौ ७, ७, ९;

a) *अन् इति चौसं । b) पाभे. पृ १०४७ k द्र । c) *श्रे इति चौसं । d) पृ ८०५ b द्र ।
e) विप. । बस. । f) विप. (द्वित्रक, शस्त्र-) । बस । g) *ओ इति पाठः^१ यनि शोधः । h) = एकाह-विशेष-
बस. । i) *अरी^० इति पाठः ? यनि शोध (दु. उत्तर स्थलम्) । j) विप, नाप । वैप १ द्र. । k) समाहारे
द्विस. । l) विप. । बस. अष् प्र उस. (पा ५, ४, ७५) । m) विप. । कस > बस. ।

हिश्रौ ७, २, ३९, वाघ, -णा
विघ ६, १३, -णा वैताश्रौ ३७,
९, या १४, ४, उनिसू ३ १७,
-णानि विघ २०, ९, -णे विघ
९, १४

चतुर्गुणो(ण-उ)च्छ्रय^०- -या
अप २१, ५, २

चतुर्-गृहीत, ता^०- -तम् आश्रौ
२, ५, १४, ३, १२, ३, १७, शाश्रौ,
-तस्य माश्रौ १, ७, ४, ३८, ५,
३३, -तानि काश्रौ १५, ४, ३७,
२५, १, ९, आपश्रौ, -ताभ्याम्
आपश्रौ २, १८, १, -ते आपश्रौ
३, १०, १, ९, ८, १, बौश्रौ, -तेन
काश्रौ १०, ८, २४××, आपश्रौ,
-तै काश्रु ४३, ६, हिपि २३
१७

चतुर्गृहीत-हवन- -ने चाअ
३० २

चतुर्गृहीता(त-आ)ज्य- -ज्ये
हिश्रौ २, ५, २७

चतुर्-जगत्या(ती-अ)न्त^०-
-न्तम् ऋअ २, १०, ८४

चतुर्-जगत्या(ती-आ)दि^०- -दि
ऋअ २, १, ९२

चतुर्-ज्योतिष्^०- -तिषम् शंघ
११६ ५०

चतुर्-ण(<न)वत^०- -तानि
काश्रौ १६, ८, १८

चतुर्थ^०- पा ५, २, ५१, -र्थः
आश्रौ १, ५, २४, ३, ९, २,
शाश्रौ, अप १ : ३५१६; -र्थम्
आश्रौ ५, १२, १९××; शाश्रौ,
आपश्रौ १३, ५, ११, १२, वैश्रौ

१६, ७ : २, मीसू २, १, ३६^६,
-र्थस्य आश्रौ ७, ७, २, शाश्रौ,
-र्था. बौश्रौ २६, ११ : २७,
शुप्रा, -र्थात् आश्रौ ११, ६, २,
आपश्रौ, पावा ५, ३, ८३, -र्थान्
आपश्रौ १४, ४, १४, हिश्रौ ९,
७, ४२, ऋप्रा ४, ५, -र्थानि
वैश्रौ १, १ १९, -र्थाभ्याम्
आपश्रु १९, ४, ६, ७, हिश्रु
६, २०, २६, -र्थाय बौश्रौ ३,
२१ : ३, १०, १६ : ३, वैश्रौ
१८, ८ : ५, -र्थे आश्रौ ७, ११,
१××, शाश्रौ, -र्थेऽर्थे आपश्रौ
२२, १४, १५, भाश्रौ ७, ११, १०,
८, २, २४, माश्रौ १, ८, ३, १८,
वाश्रौ १, ६, ४, २१, -र्थेन आश्रौ
८, १२, २५, शाश्रौ, -र्थेभ्य. वैश्रौ
१६, ७ २, -र्थेषु वैताश्रौ ४१,
११, अप ४७, २, ९

चतुर्थी- -र्था आश्रौ
५, ३, ३, शाश्रौ, -र्थीम् आश्रौ ५,
१२, १५××, शाश्रौ, -र्थ्यः आपश्रु
१७, १, ७, बौश्रु, -र्थ्या शाश्रौ
१६, ४, ८××, आपश्रौ, पावा २,
२, १८, -र्थ्या. आश्रौ ८, १, २२,
काश्रौ २०, १, १६, वाघ ११,
१६, पा ६, ३, ७, -र्थ्याम् काश्रौ
१५, १०, २××, काठश्रौ, -र्थ्यौ
आपश्रु १६, १४, १७, ३, ९,
हिश्रु ५, ३६, ४१, ५१

चतुर्थि-प्रभृति^०-
-ति आपश्रु ९, ११

चतुर्थी-कर्मन्^०-
-र्म शाश्रु १, १८, १, गोश्रु २, ५, १;

कप्र २, ९, ५.

चतुर्थी-निर्देश-

-श पावा ४, ४, ६५, -शात्
पावा ५, १, ८०

चतुर्थी-पञ्चमी-

-मीभ्याम् गोश्रु ४, १, १६, -म्यौ
अअ २०, १२५

चतुर्थी-प्रभृति-

-ति बौश्रु १, ७, ४५^१.

चतुर्थी-वचन-

-चम् पावा २, ३, ६२.

चतुर्थी-वत् वैश्रु

४, १ : ७.

चतुर्थी-वास-

-सः वैश्रु ३, ५ : १.

चतुर्थी-विधान-

-ने पावा २, ३, १३

चतुर्थी-व्रत-

क्रिया-हीन- -ने वैश्रु ६,
१८ : ८.

चतुर्थी-षष्ठी-

-ष्वौ शुअ २, १२

चतुर्थी-षष्ठ्य(श्री-

अ) इमी-दसमी- -म्यः ऋअ
२, ३, ३३.

चतुर्थी-होम-

-मम् वैश्रु ६, १८ १०.

चतुर्थ्य(र्थी-अ)

न्त-पर- -र. भाशि ४६.

चतुर्थ्य(र्थी-अ)र्थ-

-र्थे पा १, ३, ५५, २, ३, ६२;
पावा ५, १, ४७.

चतुर्थ्य-त्रे-

क्षा- -क्षा या १, १७

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र. । c) विप । कस. बस । d) = मरुद्-विशेष- । व्यु ? ।

e) पृ ७९७ द्र. । f) कचिद् भागे अन् प्र. (पा ५, ३, ४९) । g) पाठ ? र्थे इति संस्कृते. भाष्यानुसारी पाठः
प्रतीयते । h) र्थे. ? इति कासं. । i) पूष. हस्वः । j) सपा. र्थिप्र° < > र्थिप्र° इति पाषे. ।

k) = संस्कार-विशेष- ।

वैप-दि-३७

चतुर्थ्या(र्था-आ)-
 दि-दि ऋअ २,८,६३
 चतुर्थ्या(र्था-रआ-
 य>)द्या-द्याः ऋअ २, १,
 १३५, ३,६२, ७, ६६, ८, ६९,
 १०, ५६, अअ २०,६४,९५
 चातुर्थिक^१-कम् निसू
 ५, २ २९, -कस्य लाश्रौ ७,
 ७, २९
 चातुर्थ्य^२-थ्यात् निसू
 ३,६ : ३५
 चतुर्थ-क-क याशि २,
 ९४, भाशि ४३, नाशि १, १,
 १२, -कम् याशि २,२१
 १चतुर्थ-काल-ले आपध
 १, २७, ११, बौध २, १, ४२,
 हिध १,७,३६
 चतुर्थकाल-पान-भक्ष^३-
 -क्षः काष्ठ ४,१०
 चतुर्थकाल(ल-आ)हार^४-
 -र शंघ ४०१
 चतुर्थकालिक-कः शंघ
 १५९ १२
 २चतुर्थ-काल^५-ला आपध
 १, २५, ११, बौध २, १, ४१,
 हिध १,७,७
 चतुर्थ-नवम-मयो काश्रौ
 १२, ६, २२, -मे आश्रौ ४,
 १३,७
 चतुर्थ-पञ्चम-मयोः निसू
 ९,२०१३, -माभ्याम् काश्रौ
 ३,३, ६, -मे आश्रौ ८,९, ४,
 निसू ३,७ : ११, ८,१००१८
 चतुर्थ-प्रतिपद्-पदम् निसू
 ८,९०८

चतुर्थ-प्रभृति-तिषु वैश्रौ
 १८,१२ ३०, हिश्रौ ४, ५,४०,
 आपशु १०,१३०
 चतुर्थप्रभृत्या (ति-आ)
 हार-रेषु हिशु ३, ५३०.
 चतुर्थ-भाग-भागिन्-नी
 वाध १५,९
 चतुर्थ-भागो(ग-ऊ)न-कला
 (ला-अ)वशिष्ट-ष्ट कप्र २,
 ६,७
 चतुर्थ-विसर्ग^६-नी कौगृ ३,
 १४,१८, शाष्ट ४,२,८
 चतुर्थ-वेला-लयाम् बौशु
 १६ १८
 चतुर्थ-व्या(स>)सा^७-साः
 बौशु १९ ७
 चतुर्थ-षष्ठ-ष्ठयोः शाश्रौ
 १२,३,१९, लाश्रौ ७, ४, १९,
 ऋप्रा ११,१२, -ष्टे निसू ८,३.
 २८, -ष्टौ आश्रौ ५, १५, ६
 चतुर्थ-षष्ठा (छ-अ)ष्टम-
 काल-भोजिन्-जी वाध
 ७, ८
 चतुर्थ-सप्तम-माभ्याम्
 आपशु १९,८, हिशु ६,२८
 चतुर्थ-सविशेष-षेण
 आपशु १९,३,४, हिशु ६,२०.
 चतुर्थसविशेष-सप्तम-
 माभ्याम् आपशु १९,८, हिशु
 ६,२८
 चतुर्थसविशेषा(ष-अ)र्ध-
 -र्धाभ्याम् आपशु १९,५, हिशु
 ६,२२^६
 चतुर्थ-स्वर-जीविन्-विन
 नाशि १,७,७

चतुर्था(र्थ-अ)श-शम्
 आमिष्ट २,४,१० ३९
 चतुर्थाशिन्-शिन गौध
 २८,३५
 १चतुर्था(र्थ-आ)दि-दौ
 भाष्ट १,२२ १
 २चतुर्था(र्थ-आ)दि^८-दि
 नाशि २,२,१०
 चतुर्था(र्थ-अ)नुवाक-के
 वैश्रौ १९, ६ : ३७
 चतुर्था(र्थ-अ)ष्टम-मयो
 आपश्रौ ७,१४,८, बौश्रौ ४, ६ :
 १५, ५, ३ ८, ८ : १२, ११, ४ :
 ८, १५, २८. १०
 चतुर्था(र्थ-अ)हन्->चातु-
 र्थाहिक^९-के शाश्रौ १५, ७,
 १, ८, १
 चतुर्थो(र्थ-उ)त्तम-मौ
 शाश्रौ ३,१३, १९, आपश्रौ ८,
 २,१५
 चतुर्थो(र्थ-उ)त्पाद^{१०}-दम्
 निसू २,१३ ४
 चतुर्-दंष्ट^{११}-ष्टान् अअ ११,
 ९†
 चतुर्-दशन-श आश्रौ ८,३,
 ८, ११,६,१५, शाश्रौ, -शभिः
 आपश्रौ १६, १९, ११, २०,
 २१,९, बौश्रौ, -शशु आपश्रौ
 १२,२७,४, हिश्रौ ८,८,१
 चतुर्दश-शः शाश्रौ १४,
 ७२, २, ऋप्रा १७, ३६, -शम्
 अप ४१, ५, ७, आज्यो ९, ७-
 -शस्य वेज्यो २७, -शौ बौश्रौ
 १२, २ ६×४, बौगृ, -शेन बौशु
 १९ १०, -शौ काशु ७,३७

a) विप । भवार्थे ठञ् प्र । b) भवार्थे ण्य प्र उस (पावा ४,१,८५) । c) विप । बस >द्वस ।
 d) विप । बस । e) पाभे पृ ५७९ ८ द्र । f) षस (तु Old, वैतु भवत्रातः तुस इति) । g) षाभ्याम्
 इति पाठः? यनि शोध (तु सप्र. आपशु) । h) विप (सूक्-). i) वैप १ द्र ।

चतुर्दशी- पाप ४, ३,
१६, -शी बौश्रौ २४, २१ ४,
आमिगृ २, ७, ६ ९^६, कप्र २,
६, २, बौध १, ११, ४०, विध
७८, ५०, ऋअ २, ६, ५२, वृदे
५, १३२, आज्यो ६, ५, १०,
-शीम् शाश्रौ ९, ८, ३, आपश्रौ,
-श्या कप्र २ ६, ५, ९, -श्याम्
आश्रौ ८, ३, १२, आपश्रौ, -शयो:
वैध २, ११, ७

चातुर्दश- पा ४,
३, १६

चतुर्दश्य (शी-अ)
मेक्षा- क्षया कप्र २, ६, ४
चतुर्दश्य (शी-अ) मा-
वास्या- -स्यथो कौगृ ३, ९, ७,
शागृ ४, ७, ७

चतुर्दश्य (शी-अ)
ष्टमी- मीषु विध ३०, ४
चतुर्दश्या (शी-
२आद्य >) द्वा^७- -ये ऋअ
२, ८, ९

चतुर्दश-क^०- -कम् अअ ५,
६, २२, ९, ६ (६), अप ५ : ७
चतुर्दश-गुण^७- -गम् अप
२३, ८, ३

चतुर्दश-गृहीत- -तम् अप
२३, ८, २, -तानि बौश्रौ २८,
१२ : २१

चतुर्दश-प(द >) द्वा^७- -दा
उनिस् ६ २८

चतुर्दश-मा(त्रा >) त्र- -त्रः
जैश्रौका ११६

चतुर्दश-रात्र^७- -त्रः बौश्रौ
१६, ३३ : १, २, -त्रस्य आश्रौ

११, २, ९, १०, १२, -त्राः
आपश्रौ २३, १, १२, हिश्रौ १८,
१, १६, -त्राणि आश्रौ ११, २,
४, काश्रौ २४, १, १८, -त्राभ्याम्
काश्रौ २४, १, २७, -त्रे निस्
९, १० २९, १२. १०

चतुर्दश(श-ऋ) च^७- -चम्
अअ ५, २८, -चैभ्य. अप ४६,
१०, ११^१

चतुर्दश(श-अ) क्षर- -रम्
वाधूश्रौ ४, १०० : ८, २०

चतुर्दश(श-अ) इगु (ल >)
ला- -लाम् अप ३०^२, १, ११

चतुर्दश(श-अ) इगुष्ट- -ष्टम्
आमिगृ २, ३, १ १४

चतुर्दश(श-अ) भिष्ठव^७-
-वम् काश्रौ २४, ३, २५.

चतुर्-दिश- -दिक्षु वैश्रौ १,
२ ९, अप ५, ३, २, ४, ५,
१९^२, २, २

चतुर्-दि(शा >) श- -शम्
वैश्रौ १, ८ १२×४, हिश्रौ.

चतुर्-दिष्टि^०- -ष्टिम् माश्रौ १,
७, ३, १४

चतुर्-दी(क्षा >) क्ष^७- -क्षः
काश्रौ १५, १, ३.

चतुर्-द्रो(ण >) णा^०- -णा अप
९, १, २

चतुर्-द्वार^७- -रम् अप १९^२,
२, ३, २१, ४, ५, ६६, २, १.

चतुर्-धा आश्रौ ६, ३, ९,
शाश्रौ, काश्रौ ३, ४, १०^२, बौश्रौ

१, १८. १२^२, चतुर्धाऽचतुर्धा
बौश्रु १६ : १७.

चतुर्धा-करण- -गम् बौश्रौ

२४, २९ : ६, ३७ ५, -णानि
बौश्रौ २४, २८ ९, -ये मीस्
१२, ४, ४६

चातुर्धाकरणिक^०-
-कानि वैश्रौ ६, ६ ७, हिश्रौ
२, २, १३, ३, ५, १७

चतुर्धाकरण-काल- -ले
आपश्रौ ५, २२, ३; १९, २१, ६;
२३, ४, भाश्रौ ५, १५, ३, हिश्रौ
२२, ४, २, १९

चतुर्-नव(क >) का^०- -का ऋअ
१, ७, ९, शुअ ५, ५०

चतुर्-नवति- -ति ऋअ ४, ९
चतुर्-निधन^७- -नम् निस् ७,
११ १५

चतुर्-न्यून- -बम् काश्रु ७,
२६

चतुर्-बहु^७- -हुम् विध १,
६१^६

चतुर्-बिल^७- -लम् आपश्रौ
१, १३, १, ७, १७, १; भाश्रौ.

चतुर्-भाग^१- -ग अप ३३, ३,
७^२; उनिस् २ : २३, -गम्ऽगम्
काश्रौ २४, ५, १६, -यो अप
२२, ३, १

चतुर्भाग-मात्र- -त्रम् याशि
१, ५७.

चतुर्भाग-त्रत- -तम् वैश्रौ
१९, १ १९.

चतुर्भागी(य >) या- -या
आपश्रु ११, ३, १६, ६; हिश्रु
४, ४, ५, २७, -याः आपश्रु १५,
६, बौश्रु ८ : १९, १७ : १२;
हिश्रु ५, ७; -यानाम् वैश्रौ १८,
१६ : ७८, आपश्रु ११, ५, हिश्रु

a) अत्र सप्तम्या लुक्। b) विप. । बस । c) विप । परिमाणे कन् प्र. (पा ५, १, ५८) ।

d) वैप १३ । e) विप । तद्वितार्थे द्विस. । f) पाप्ने. पृ १०४७ e द्र. । g) विप । तस्येदमीथषू ठक् प्र ।

h) श्रवकत्र- इति जीसं. । १) = चतुर्ध-भाग- । वैप २, ३खं. द्र. ।

४,६, -यानि. वैश्रौ १८, १६ :
 ८१, आपञ्च ११,८, बौशु १०
 २४, ३३, २०. १९; २५, हिशु
 ४,११, -ये बौशु १७ १३
 चतुर्भागीया(या-अ)
 क्षणयो(या-उ)भयतो-भेद- द
 आपशु १६,११; हिशु ५,३२
 चतुर्भागीया-मात्र- -त्रम्
 आपशु १६,६; हिशु ५,२७
 चतुर्भागीया (या-अ) धं-
 -र्धम् आपशु १६, ७, हिशु ५,
 २८
 चतुर्भागो(ग-ऊ)न,ना- -न
 आपशु १२, १, हिशु ६, १६,
 -नाः आपशु १५, ८; हिशु ५,
 १३, -ने बौशु १ : १८.
 चतुर्-भुज^१- -जम् वैशु ४,११ :
 ४, विघ १७, १०, आमिण् २,
 ४,१० १३
 चतुर्-महाराजिक^१- -०क विघ
 १८,४१
 चतुर्-मात्र,त्रा- -त्र आश्रौ १,
 २,१४, शाश्रौ १, २, १३, शैशि
 ३४६, ऋषा १५,५, -त्रा शाश्रौ
 १,२,३
 चतुर्-मास- > चतुर्मा(स>)
 सी^१- पावा ५, १, १४, -सी
 द्रायु ३, २, २८, -सीषु आपघ
 १,१०,१, हिघ १,३,३०
 १चतुर्मास्य^१- पावा ५,
 १, १४, -स्यम् आमिण् २, ४,
 ४ : २१, शंघ २५२, वैध २,५,४,
 ३,६,८, -स्यात् वैध ३, ६, ७,
 -स्यान् वैश्रौ १,१८ १, -स्या-
 नाम् शाश्रौ ३, १३,१, काश्रौसं
 २८. १४, २४, २९ : ११;

बौश्रौ ३, २६ १४×४, भाश्रौ,
 -स्यानि आश्रौ २, १५, १,
 २०,६^२, ९, २, १,३,३, शाश्रौ,
 -स्यानिऽ-स्यानि वैश्रौ ९,१२
 १५, -स्येभ्य वाधुश्रौ ४,
 १०३^२ ७, -स्येषु आश्रौ २,
 १५, ७, शाश्रौ, -स्यैः आपश्रौ
 ८,२१,२, बौश्रौ.
 चातुर्मासक- पावा
 ५,१,१४
 चातुर्मासिक^१-
 -कानाम् बौश्रौ २१, १ : २८,
 २६,१० १८, -कानि बौश्रौ
 २१,१ : ८
 चातुर्मासिन्- पावा
 ५,१,१४.
 २चातुर्मास्य^१- स्याः
 काश्रौ २२, ७, १, आपश्रौ २०,
 १५, ३, बौश्रौ १५, १२ ९,
 १७, ६२ : २२^२, -स्यान् हिश्रौ
 १४,३,१८
 चातुर्मास्यक^१- -कान्
 वाश्रौ १,७,५,१३
 चातुर्मास्य-पशु-
 -श्रुनाम् बौश्रौ २४,१० ११
 चातुर्मास्यपशु-
 दक्षि(णा>)ण^१- -णै शाश्रौ
 १४,१०,२३
 चातुर्मास्य-दक्षिणा-
 -णाः बौश्रौ २१,६ २०
 चातुर्मास्य-देवता-
 -ता शाश्रौ १४, १०, ४; १६,
 ३, १६, १२, १५, काश्रौ २०,
 ७, २२; -ताभ्यः शाश्रौ १६,
 ३,१५,१२,१४
 चातुर्मास्य-पर्वन्-

-वैणाम् शाश्रौ १३, २४, ४=
 -र्वभि. काश्रौ २४, ४, ३०,
 -र्वसु माश्रौ ५,१,७,२८
 चातुर्मास्य-पशुबन्ध-
 सौत्रामणी- -णीषु वैश्रौ २०,
 २२. ९
 चातुर्मास्य-प्रयोग-
 -ग काश्रौ ५,१,१, १५,१,१५.
 चातुर्मास्य-मध्य- -ध्ये.
 हिपि २१ : १.
 चातुर्मास्य-मन्त्र-
 -न्त्राः शुश्रू^१, २२९
 चातुर्मास्य-याजिन्-
 -जिनः आपश्रौ ८, १, १, २२,
 ८,१, हिश्रौ ५, १, १, १७, ३,
 २५, -जी आपश्रौ ८, ४, १२;
 १३, वैश्रौ ८, ८ : ७, वैध १,
 ५,३
 चातुर्मास्य-वत्
 आपश्रौ २२,९,४
 चातुर्मास्य-वैश्वदेव-
 >^१व-गर्ग-वैद-च्छन्दोमवत्-
 पराका(क-अ)न्तर्वस्व(सु-अ)श्वमे-
 धन्यह- -हाणाम् वैताश्रौ ४१,२.
 चातुर्मास्य-व्रत-
 -तानि आश्रौ २,१६,२२
 चातुर्मास्य-संयोज-
 न^१- -न. बौश्रौ २६,२९ : ९.
 चातुर्मास्य-हविस्-
 -वीषि शाश्रौ १४, ५,५.
 चातुर्मास्या (स्य-अ)
 न्तराल- -लेषु भाश्रौ ८, ३, २९.
 चातुर्मास्यान्तरा-
 ल-व्रत- -तानि बौश्रौ २८,८ : १-
 चतुर्मास-शस् (:) काश्रौ
 २४,५,८

a) विप । बस । b) = पौर्णमासी- । c) = इष्टि- , व्रत-विशेष- । वैप १ द्र । d) विप । भवेऽर्थे ।
 ङ् प्र. (पा ४,३,११) । e) विप । तस्येदमीयः अण् प्र. । f) विप । तस्येदमीयः वुष् प्र. उसं. (पा ४, ३, १२६) ।

चतुर्मासो(स-उ)पसत्क^a-क्के
काश्रौ १७,७,१२.

चतुर्-मुख^a- -खम् आश्रित्य २,
५,६ ४, बौध २,५,२०

चतुर्मुखी- -खीम् अप ६,१,
१४

चतुर्-मुहूर्त^b- -तेम् गौध १६,
४५

चतुर्-मेघ^a- -ध आपध २,१७,
२२०.

चतुर्-मेघस^a- -धा. वाध ३,
१९०

चतुर्-यम- -मम् तैप्रा २३,२०,
२३.

चतुर्-युक्त- -क्त नाशि २,
४,७, -क्तस्य अप १,३२,१

चतुर्-युग- -गम्^b विध २०,
१०,४३,२६^d, -गानाम् विध
२०,११

चतुर्थ्युग-सहस्र- -स्रम् विध
२०,१२.

चतुर्थ्युग(ग-अ)न्त- -न्ते अप
५२,१४,१

चतुर्-युक्- -युक् काश्रौ २२,
५,१०, १०,३०, आपश्रौ २२,
१२, ४, बौधौ १८, २० ६,
१९; लाश्रौ ८, ७, ३, -युज

काश्रौ १४, ३, ११, बृदे ३,
१४७, १४९, -युजा आपश्रौ

२२, २, २०, हिश्रौ १७,१,३६,
-युजाम् वाधुश्रौ ३, ७९. ३,

-युजौ लाश्रौ ९,४,१३.

चतुर्-व(क्त्र>)क्त्रा^a- -क्त्रा
वाध २८,२१

१चतुर्-वर्ण^a- -णीम् वैष्ट ३,
१९ ६

२चतुर्-वर्ण^a- पावाग ५, १,
१२४

चातुर्वर्णिक^b- -का वैध ३,
१२,२

चातुर्वर्ण्य- पावा ५, १,
१२४, -र्ण्यम् वाध ४,१, मीस्

६, १, २५, -र्ण्यस्य विध १,
६१,६३

चातुर्वर्ण्य-न्यवस्थान-
-नम् विध ८४,४

चातुर्वर्ण्य-संकर- -रेण
वैध ३,११,१.

चतुर्-वार- -रम् आश्रित्य २, ३,
२-४,

चतुर्-विंशत्^a- -शत् अप ५२,
८,४

चतुर्-विंशति- -ति आश्रौ ४,
८, १५, शाश्रौ, -तिःऽ-तिः

शाश्रौ १६, १५, १८, -तिम्
शाश्रौ १०,१२, ९, १४,७७, २,

काश्रौ, हिश्रौ १६, १, ११²,
-ते. विध २७, २६, -त्या

आपश्रौ १०, २६, ५, हिश्रौ,
-त्याम् आपश्रौ ५,४,४, भाश्रौ

५, २, १५, आपशु ४, ३, हिशु
२,२

चतुर्विंश¹- -श. आश्रौ १०,
३,११, आपश्रौ २३, ४, २, ७,

१३; ८, १०, बौधौ १०, ४२
५××, हिश्रौ, -शम् आश्रौ ८, १३,

३१××, शाश्रौ, -शस्य द्राश्रौ ११,
४, १, लाश्रौ ४,४,१, निस् ४,

५.५, -शा शाश्रौ १४,४२,३;
बौधौ १६,२८ ३,३४ ७,३६ :

२०, हिश्रौ १७, ७, ८, -शात्
शाश्रौ ११, ५, ७××, बौधौ,

-शानाम् आश्रौ १२, ५, १२,
-शानि आपशु ५,१३, हिशु २,

२४, -शे आश्रौ ७, २, १××,
शाश्रौ, -शेन आश्रौ ७,६,१,८,

७,२, ९,१०,१, आपश्रौ, -शेषु
लाश्रौ १०, ८, २, -शौ शाश्रौ

१४, ३३, २, बौधौ १८,२३ :
५, २५,३३ : ३, हिश्रौ १७,२,

५, निस् ७,६ : १३

चतुर्विंशी- -शी
शाश्रौ १८, १४, ४, -शीम्
वाधुश्रौ ३,५८ ७.

चातुर्विंशिक^b- -कम्
आश्रौ ७,६,६, ८,५,९, -कानि
शाश्रौ १२,२७,४

चतुर्विंश-चतुश्चत्वारिंशा-
(श-अ)ष्टाचत्वारिंश- -शाः

वैताश्रौ ३५,२०

चतुर्विंश-त्रिणव- -वौ
निस् ७,९. ४

चतुर्विंश-बहिष्पवमान^a-
-नः हिश्रौ १७,२,४

चतुर्विंश-महाव्रत- -ते
शाश्रौ १६,२०,१८

चतुर्विंश-महाव्रता (त-अ)
भिजिद्-विश्वजिद्-विषुवत्-

-वत्सु आश्रौ ७,२,१०.

चतुर्विंश(श-ऋ)र्च^a-
-र्चम् अश्र ४, १७,९,१
चतुर्विंश-वत् वैताश्रौ ३३,

a) विप । बस । b) समाहारे द्विस । c) परस्परं पाप्ने । d) चा° इति जीसं । e) उप.
=अक्षर- । f) कप. उप. =जाति- । g) तत्रजातार्थे ठक् प्र उस्. (पा ४,३,२५) । h) उप. =विंशति-
(तु. वैप ३) । i) पाठ. ? पति. इति शोधः (तु. सप्र. काठ ३४,९ तां १०,३,३) । j) विप. (सूक्त- [अश्र ८,८]),
चाप. (स्तोम-, एकाह- प्रष्ट.) । इ ७९४ C प्र. । k) विप. । तेननिर्वृतमित्यर्थे ठक् प्र. (पा ५,१,७९) ।

१, ३७, ४
 चतुर्विंश-षष्ठ- -ष्ठान्
 निसू ७, ९ : २.
 चतुर्विंश-स्तोम- -मम्
 शाश्रौ १०, ९, १, १२, १, ११,
 २, १
 चतुर्विंशा (श-अ)क्षर-
 -रम् अप ३१, ४, २.
 चतुर्विंशा (श-अ)ङ्गुल,
 ला^० -लः काशु ७, २५, -ला
 अप २२, २, २
 चतुर्विंशै (श-ए)कविशत्-
 -शद्-ग्राम् अप ४ १९
 चतुर्विंशक^० -कम् अग्र २, ४
 चतुर्विंशिका^० -का ऋअ
 २, ८, ४६
 चतुर्विंशति-कृत्वस् ()
 शाश्रौ १८, १४, ९, आपश्रौ १५,
 १२, ५, भाश्रौ ११, १२, ५, हिश्रौ
 २४, ५, ६
 चतुर्विंशति-नाव- -वम्
 आपश्रौ १६, १८, ५, हिश्रौ ११,
 ६, २७; हिपि १५ ३
 चतुर्विंशति-परम- -मा
 आपश्रौ २३, १, १
 चतुर्विंशति-पार्श्व-भाग-
 -गः काशु ७, ३७
 चतुर्विंशति-पिण्ड- -ण्डान्
 बौपि २, ११, ८,
 चतुर्विंशति-भाग- -गेन हिपि
 १५ : ५
 चतुर्विंशति-मान- -नम्
 बौश्रौ १८, ३७. ८, -नानाम्
 बौश्रौ १८, ३७ १२, लाश्रौ ८,

१०, २, -ने बौश्रौ १८, ३७ ८
 चतुर्विंशति-रात्र- -त्र शाश्रौ
 १३, १६, ५, बौश्रौ १६, ३४ १, ४,
 -त्रम् ऋश्रौ २४, २, १३, -त्रेण
 आपश्रौ २३, ४, १, हिश्रौ १८,
 २, १, -त्रौ आश्रौ ११, ३, ६,
 आपश्रौ २३, ३, १४, हिश्रौ १८,
 १, २९
 चतुर्विंशति-वर्ग, गां- -गां
 काश्रौ २२, १०, २७, -गान्
 लाश्रौ ९, ४, १२
 चतुर्विंशति-वर्ष- -र्षाणि
 आमिष्ट ३, ९, ३ १६, बौपि २,
 ७, १५
 चतुर्विंशति-स्तोत्रीय- -येण
 हिश्रौ १७, २, १८
 चतुर्विंशत्य (ति-अ) क्ष (र>)
 रा- -रा शाश्रौ १४, ४२, ११,
 वाधूश्रौ ४, ५८ : ५×५, निसू,
 -राम् वाधूश्रौ ४, १००^२ ७
 चतुर्विंशत्यक्षरा (र-आ)
 दि- -दीनाम् शाश्रौ ७, २७,
 ३०, -दीनि ऋअ १, ३, ३, शुअ
 ५, ३
 चतुर्विंशत्य (ति-अ)ङ्गुल-
 -लम् वैश्रौ ११, ७ : १, अप २३,
 ३, ४, ५, ५, -लस्य वैश्रौ ११,
 १० : १५
 चतुर्विंशत्य (ति-अ)ङ्गुला-
 (ल-आ)यत्, ता- -तम् वैश्रौ
 ११, ८ ११, -ताम् वैश्रौ १,
 १ : १५
 चतुर्विंशत्य (ति-अ)ङ्गुलि-
 -लय आपशु १५, ७, हिशु ५,

११
 चतुर्विंशत्य (ति-अ) ह- -हः
 वाध २२, १३, बौध ३, ७, ७;
 १०, १६, गौध १९, १८, -है
 पाय २, ३, ६, शुअ ४, १७८
 चतुर्-विद्या- (> १ चातुर्वैद्य-
 पा) पाग ७, ३, २०
 चतुर्-विद्य^d - पागवा ५, १,
 १२४^e
 चातुर्वि, वै^० ष^० - पा
 ५, १, १२४, -द्यम् वाध ३, २०४.
 चतुर्-विध^० -ध काय १३, २;
 माशि २, ५, ५, ५, याशि २,
 ८, -धम् शाश्रौ १६, २३, १;
 ४, २६, कप्र, -धस्य अप २,
 १, ७, गौध ८, २, आज्यो ७,
 १७, -धाः वैध १, ३, १, ५,
 १, ७, २, ९, १, १०, २, -धानाम्
 वृदे २, ३५, -धे अप ३, ३, ८, ६१,
 १, २०, -धै अप ३६, १, ३.
 चातुर्विध्य- -ध्यात् निसू ८,
 ९ २३
 चतुर्-वीर^० -र निसू ८, ९ :
 १, -रे निसू ९, ४ २८
 चतुर्-वृत्^० -वृत् बौग १, २,
 १२
 चतुर्-वृष^० -ष अग्र ५, १६.
 १ चतुर्-वेद^० -दात् बौग १,
 ७, ७.
 चातुर्वैद्य^० -द्यम् चव्यू
 १ : २
 २ चतुर्वेद^d - पागवा ५, १,
 १२४
 २ चातुर्वैद्य^d - पा ५, १,

- a) विप । बस । b) विप । तद्धिताथे द्विस । c) पृ ७९४ f द्र । d) अर्धातार्थीयस्य प्र लुक् ।
 e) तु पासि । f) स्वार्थे ष्यञि प्र उप वा वृद्धि उसं (पा ७, ३, २५) । g) सपा चातुर्विद्यम् <>
 २ चातुर्वैद्यम् इति पाभे । h) = अहीन-विशेष- । बस उप = पुत्र- । i) = मधुपर्क-विशेष- । उस. उप. अधिकरणे ।
 क्तिप् प्र । j) वैप १, ५०२ i द्र । k) समाहारे द्विस ।

१२४, -घम् बौध १,१,८^a
 चतुर्वेदा (द-आ) दि-मन्त्र-
 -न्त्रान् वैगृ ६, ११. ३, वैध २,
 १३, ६^b, -न्त्रै. वैगृ ६, १७ ४
 चतुर्-हविस्^c -विः बौध्रौ
 १७, ५३ : ५, १०, माश्रौ ५,
 १, १, ३२, १०, ३८, २, २, १५,
 हिश्रौ १३, ३, ३०, -विष माश्रौ
 ५, १, १, ३४, २, ३, १०, १,
 -विषम् बौध्रौ १८, ६ : ७,
 -विषा आपश्रौ १८, ९, ६, माश्रौ
 ५, १, १०, १०
 चतुर्-हस्त, स्ता^d -स्तम् वैश्रौ
 ११, ९ : १, वैगृ ६, १.३, कागृउ
 ४५ ४, अप ३०^e, १, ३, ४,
 -स्ताम् अप १८, १, १०.
 चतुर्हस्ते (स्त-इ) डा-डा-
 बौध्रौ १, २० : १५
 चतुर्-हस्तो(स्त-उ)च्छ्रुत^f-
 -त. विध १०, २
 चतुर्-हाय(न>)णी-णीम्
 माश्रौ ५, २, १०, २
 चतुर्-हायन^g-पाग ८, ४, ३९,
 -नाः वाश्रौ ३, ४, ३, १९.
 चतुर्-होतृ^h-तरि शाश्रौ १०,
 १५, १, -ता बौध्रौ १७, २१
 ८, माश्रौ ५, २, १४, २,
 हिश्रौ २१, १, २१, -तारः
 आपश्रौ १४, १३, २×११, बौध्रौ,
 -तारम् शाश्रौ १०, १५, २,
 आपश्रौ ४, ९, ७, ५, २४, ७×५,
 बौध्रौ, -तु आपश्रौ २१, १०,

७, बौध्रौ १९, ७ : ५२, २६,
 २९ १, हिश्रौ १६, ४, २४,
 -तृभिः कागृ ४३, ६, -तृणाम्
 आपश्रौ १४, १३, १, बौध्रौ १९,
 ७ १४, हिश्रौ १०, ७, १,
 चाश्र १० ३, -तृन् आश्रौ ८,
 १३, ६, आपश्रौ ५, ११, १×५,
 बौध्रौ, -त्रा आपश्रौ २, ११, ५,
 ४, ८, ७×५, काश्रौस
 चातुर्होतृⁱ-कम् कागृ
 ४३, १
 चातुर्होतृ, होतृकी-
 -की मागृ १, २३, १^h, वागृ ७,
 १^h
 चातुर्होत्रⁱ-त्र आपश्रौ
 १९, १४, १८, २७, १५, ११,
 हिश्रौ २३, ३, १६, २१, ३१,
 -त्रम् अप २३, १०, ७^h, ११,
 २^h
 चातुर्होत्र-विधान-
 -नेन अप ५, ३, २
 चातुर्होत्रीयⁱ-यम्
 आश्रिगृ १, २, १ : १२, बौगृ
 ३, १, २३
 चतुर्होतृ-व्याख्यान^k-नम्
 काश्रौ १२, ४, १६
 चतुर्-हो(त्रा>)त्रⁱ-त्रम्
 वैगृ ५, ४ : २, ४
 चतुर्होत्रे(त्र-इ)ष्टका^m-का
 बौध्रौ १९, ७ ११
 चतुर्-चक्रⁿ-क्रः बौध्रौ १७,
 ५३ १, ५४ १, २; -क्राणि

बौध्रौ १५, १४ ७, -के बौध्रौ
 २३, १७ २८, बौध्रौ १, ६, ३०
 चतुर्-चत्वारिंशत्-शत् शाश्रौ
 १२, २, १७, वाध्रौ ४, ४६ ५,
 ६५^r : ५, अश्र १०, १०, ११,
 निघ ३, १४, या ३, १९, ऋषा
 १६, ६४, -शतम् आपश्रौ २१,
 १, १४^l, बौध्रौ २६, ४ : ९,
 हिश्रौ १६, १, ११^l
 चतुश्चत्वारिंश-श आपश्रौ
 १७, ३, २, बौध्रौ, -शम्
 आपश्रौ २१, ८, ११×५, बौध्रौ,
 -शा बौध्रौ १६, ३४ १४,
 ३६ २०, -शे आश्रौ ७, ५,
 ११, १२, ७, १२, लाश्रौ ६, २,
 २१, -शेन लाश्रौ ६, ७, १९
 चतुश्चत्वारिंश-स्तोम-
 -मम् शाश्रौ १०, १०, १.
 चतुश्चत्वारिंशद्-अक्ष(र>)
 रा-रा वाध्रौ ४, ६५^r ६,
 १००^r : ९, निस् १, ४ १
 चतुश्चत्वारिंशन्-शी
 माश्रौ ६, २, २, १, वाश्रौ २, २,
 १, २०.
 चतु, श-शत^p-तम् शाश्रौ
 १८, १३, १, ८, बौध्रौ, -तान्
 आपश्रौ १८, १९, ५, हिश्रौ १३,
 ६, २९, -ते लाश्रौ १०, ७, ११.
 चतु शता(त-अ)क्ष(र>)
 रा^o-रा निस् १, ५ २
 रचतु-शत^q-ता आपश्रौ
 २०, ५, १२

a) पाभे पृ १०५४ पृ ६ । b) ञ्त्रम् इति पाठः[?] यनि शोधः (तु ०) । c) विप. । बस । d) विप ।
 तद्धितार्थे द्विस । e) कस. पूष. समाहारे द्विस । f) वैप १ द्र । g) विप । भवार्थे ङक्>कः प्र. (पा ४, ३, ७२)
 उप. वृद्धिर्वा उस. (पा ७, ३, २५) । h) हो^o इति वागृ. । परस्परं पाभे । i) = यज्ञ-, अग्निचयन- । तस्येदमीयः
 अण् प्र । j) = ग्रन्थ-विशेष- । = तैत्रा ३, १२, ५ । स्तार्थे छ > ईय. प्र । k) = शस्त्र-विशेष- । तु आश्रौ ८,
 १३, ८ । l) = मन्त्र-विशेष- । बस । m) = इष्टका-विशेष- । n) विप., नाप (यज्ञ-) । बस. । o) शोधः
 पृ ४३९ पृ ६ । p) = १०४ । मलो कस. । q) बस. समासान्तष् ङक् प्र. (पा २, २, २५, ५, ४, ७३) ।

चतु-शमी^a-मीम् कौसू १३७,
५
चतु-श(य>)या^a-याम् माश्रौ
१,७,३,१३
चतु-श(य>)यी^a-य्या
काठश्रौ ९२
१चतु,श-शराव^b-वः बौश्रौ
१४,१८ : २८, भागृ २, १५ :
९१, हिगृ २, १४, ४१, -वम्
आश्रौ ३,१४,१, आपश्रौ ५,५,
१×४, बौश्रौ, -वस्य आगृ २,
४,५
२चतु-शराव-वैः वैश्रौ १,५
१०
चतुः-शाख^c-खाः आश्रौ ६,
४,७
चतु-शिल (ण्ड>) ण्डा^b-
-ण्डा^d आपश्रौ ४, ५, १, ६,
२, ११, ५, ३, भाश्रौ ४, ६, ४,
८, ३, वैश्रौ ४, ११४, ५, ६ ३;
१४, ४ १३, हिश्रौ ६, २, २,
१०, -ण्डे आपश्रौ ७, ५, १,
भाश्रौ ७, ४, १, वैश्रौ १०, ४.
१३, हिश्रौ ४, १, ६२
चतु-शि(ला>)ल^e-ले कौसू
३६, १८१
चतु-शुक्ल^f-ह्रम् वैगृ २, १.
८, -ह्रान् जैगृ १, ६ ४
चतुः-शुक्ल^e-ह्र आपश्रौ ५,
१७, ४, हिश्रौ ३, ४, ४८
चतुष्-क^g-कः लाश्रौ ६, ७,
१, ऋश्र, -कम् लाश्रौ ६, ७,
३, वाघ २, ४८, विघ ६, २;
ऋश्र २, १, ४९×४, अश्र.

चतुष्क-प्रभृति-तयः निसू
१, ९. ३, १०, २१
चतुष्क-षट्क-ट्काभ्याम्
उनिसू १. ५२, -ट्कौ पिं ३,
४७
चतुष्-कप(र्द>)र्दा^h-र्दा^h
उसू ५, ६^d
चतुष्-कपाल^b-ल आपश्रौ
२२, १८, १८, हिश्रौ १७, ७,
१०, -लम् बौश्रौ १६, २८
१४ अप्राय ४, १, -ला बौश्रौ
१३, ४१ : ११, -लान् बौश्रौ
१३, ३३ १×४, माश्रौ
चतुः-ष्-कर(ण>)णी^h-णी
काश्रु ३, ६४, आपश्रु २, १२,
हिश्रु १, ३२
चतुष्-क(ल>)ला^e-ला ऋत
२, ४, २
चतुष्-काल->चतुष्कालिक^l-
का वैघ १, ८, १
१चतुष्-कोण->ण-वनस्पति-
शाखा-खायाम् मागृ २, ६, ४
चतुष्कोणा (ण-अ) ध्वीत^l-
-तम् अप २३, १, ५
२चतुष्-कोण^e-णम् अप ३०,
१, ५, शंघ १४१
चतुष्-क्रम-म ऋप्रा ११, १९
चतु-ष्ट(<स्त)न^e-ने वाश्रौ ३,
२, ५, २१
चतुष्-ट(<त)य-यः बौश्रौ
१७, ४४ : १७, -यम् शाश्रौ १,
१, ३९, काश्रौ ८, १, ११; आपश्रौ,
-या शाश्रौ १६, २३, २, -यानि
बौश्रौ ५, १. ४, ५ ३; १० :

२, -ये कौगृ १, १६, १६, शागृ
१, २४, ७, -येन बौश्रौ १३,
२५ १७, २४, १ १६, निसू
१, ६ : ७
चतुष्टयी-यी बौश्रौ १५,
२ १×४, -यीनाम् बौश्रौ १८,
१८ १०, -यीषु बौश्रौ १५, ३;
१२, वाश्रौ ३, ४, १, ११, -य्य
आपश्रौ २०, २, ३, ९, १०.
हिश्रौ १४, १, १६, २, ४१
चतुः-ष्टोम^h-मः शाश्रौ १५,
१२, ४×४, आपश्रौ, -मम्
आपश्रौ २२, ६, ८, १०, बौश्रौ;
-मयोः लाश्रौ ६, ८, १, ९, ४, ८,
-मस्य शाश्रौ १६, २४, ९;
-मा आपश्रौ २२, १८, १४;
बौश्रौ १६, २८ : ८, -मात्
शाश्रौ १६, २९, १२, -मान्
बौश्रौ १६, ३५ ८, १८, ४९ :
११, १९, -मे बौश्रौ १८, ४८ :
१८, १९, निसू ८, ७. ३२;
-मेन शाश्रौ १४, ५१, ३×४;
बौश्रौ, -मेषु निसू १०, ५ : २३;
-मौ काश्रौ २२, १०, १८;
आपश्रौ २२, ११, १४, बौश्रौ
१८, ४८ २७
चतुष्टोम-कारि(त>)ता-
-ता निसू ८, ८ : ७
चतुष्टोम-त्रिककुम्^h-कुष्
आश्रौ १०, ३, २२
चतुष्टोम-न्याय-येन निसू
९, १ : ३५
चतुष्टोम-सर्वस्तोम-मयोः
लाश्रौ ९, ११, १३, १४

a) विप. 1 पृ ४३९० द्र । b) वैप १ द्र । c) विप । बस उप. <✓शंस [स्तुतौ] । d) पाभे.
वैप १, १३०३ d द्र. । e) विप । बस । f) विप । तदस्य परिमाणे कन् प्र (पा ५, १, ५८) । g) *र्दाः इति
पाठः ? यनि. शोधः । h) = रज्जु-विशेष- । i) = वानप्रस्थ-विशेष- । j) विप. (शर्प-) । कस । k) हिश्रौ
१७, २, ५३, ५८ *शुःष्टो इति पाठ । l) = अहीन-विशेष- ।

चतुष्टोम-स्तोम-सपद्-
 अतिरेक- कात् द्राश्रौ २, ४,
 ६
 चतुष्-द्व(<त्व)- -द्वम् या
 १, २
 चतुष्-पद्व्य(द्वि-अ)न्त^१-
 -न्तम् ऋअ २, ८, ३१
 चतुष्-पञ्च-कृत्वस् () शाश्रौ २,
 ८, १७
 चतुष्-पथ- -थः बौश्रौ ५, १६ :
 ८, -थम् भाश्रौ ८, २१, ९,
 वैश्रौ ९, १० १५, हिश्रौ,
 -थात् आगृ १, ५, ५, कागृ १४,
 ५, गोगृ २, १, ४, कौसू ३७, ९,
 -थान् गोगृ २, ४, २, -थे काश्रौ
 ५, १०, ७, आपश्रौ ८, १७, १२,
 बौश्रौ २, ८ १४, २४, ८ : ३,
 भाश्रौ, -थेषु कागृ २६, ७, अप
 ४, ६, ५, ६९, ७, ४
 चातुष्पथ^२- -थम्
 आपश्रौ ८, १८, १
 चतुष्पथ-सद्- -सदे मागृ १,
 १३, १३, वागृ १५, ६.
 चतुष्-पद्^३- -पत् आपश्रौ १८,
 १९, ७^४, वावृश्रौ ४, १००
 ३०, बौगृ ४, २, ९^५, -^६पद्ः
 शाश्रौ ४, २०, १, आपश्रौ,
 -पदाम् आमिगृ २, ५, ९ : १५,
 जैगृ २, ६. १२, गौघ २८, ७,
 -^७पदे आश्रौ २, ९, १०,
 शाश्रौ
 चतुष्पदा- -दया आपश्रौ
 ३, १४, ४, -दा शाश्रौ ७, २७,

६, बौश्रौ, -दा निसू १, ३
 २२, ७, ८ ६, ऋअ १, ३, १२,
 शुअ ५, १३, अअ २, २४, ऋआ
 १७, ५०, -दानाम् ऋआ १८,
 ४७, आज्यो ४, १०, -दायाम्
 निसू १, ७ ७, -दे अअ १८,
 ४, १९, १६, उनिसू १ ५४
 चतुष्पदा (दा-अ)ति-
 शक्करी- -र्यं अअ ५, २४^१
 चतुष्पदी- -^२दी बौश्रौ
 १४, १४ ३१, आगृ १, ७, १९^३,
 कौगृ १, ८, २८^४, शागृ १, १४,
 ६^५, या ११, ४०, -दीम् उसू
 ५, ६^६, -द्या आपश्रौ १८, २०,
 ५, वाश्रौ ३, ३, ४, ४, हिश्रौ १३,
 ६, ४६
 चतुष्पत्-पक्षि-भुजग- -गान्
 अप ७०^७, १२, ३
 चतुष्पत्-पक्षि-मानुष- -षा
 अप ७०^८, २१, ३
 चतुष्पत्-पक्षि-सदृश-
 -शानि अप ७०^९, १०, ४
 चतुष्-पद- -दम् आज्यो ४, ६,
 ९, -दे निसू ६, ३ : १०, आज्यो
 ५, १५
 चातुष्पद^{१०}- -दौ निसू ५,
 ८ ५
 चतुष्-पर्याय^{११}- -यः बौश्रौ
 १७, ९ : १७, -या लाश्रौ ६,
 ८, १, -यान् निसू ७, ८. २
 चतुष्-पञ्च^{१२}- -ञ्चुः बौश्रौ १७,
 ३२ ८
 चतुष्-पाणि^{१३}- -णि अप २५,

२, ५
 चतुष्-पात्र^{१४}- -त्रम् बौश्रौ २९,
 १० १९
 चतुष्-पाद्- -पात् आपश्रौ ४,
 ११, १^{१५}, बौश्रौ १२, ७ ४४, १६ :
 ५, भाश्रौ; कौसू ३३, ९^{१६};
 -पात्सु भाश्रौ ५, २, १, ३, बौगृ ३,
 ५, १२, -पाद् बौश्रौ १४, ९ ३;
 माश्रौ १, ८, ३, ३^{१७}, आमिगृ २, ५,
 ५ ३^{१८}, मैअ १०, अअ ८, १०
 (३, ४^{१९}), पा २, १, ७१, -पादि
 बौश्रौ २८, ११ : ५, -पाद्भ्यः
 या १२, १३, पा ४, १, १३५.
 चतुष्पाच्-छ (<श)कुनि-
 -निषु पा ६, १, १४२
 चतुष्-पाद्, दा^{२०}- -द विध ८६,
 १५, -दा शाश्रौ १६, २३, ३;
 निसू ७, ८ ३, बौश्रौ २७, ४ :
 १, -दाभ्यः निसू १, ४ : २५;
 -दे कागृ १७, १.
 चतुष्-पा (द >) दी^{२१}- -दी
 वेज्यो ३०
 चतुष्-पुट^{२२}- -टम् आपश्रौ १२,
 २, १४
 चतुष्-पुरुष^{२३}- -षः आपश्रौ
 १६, १७, ११, माश्रौ ६, १, ५,
 ३१, वाश्रौ, -षम् जैश्रौ ७ : ५.
 चतुष्-प्रकार^{२४}- -रः अप ७०,
 १०, १, -रम् अप ४४, १, २.
 चतुष्-प्राश्य-> चातुष्प्राश्य^{२५}-
 पावा ५, ४, ३६, -श्यम् काश्रौ
 ४, ६, ११, ८, २, १०, द्राश्रौ १२,
 १, १६, ४, ८; लाश्रौ ४, ९, १०;

a) विप । कस् > बस । b) विप । तत्रमवीयः अण् प्र. । c) वैप १ द्र । d) पाभे. वैप २, ३खं.
 चतुष्पात् ऐत्रा ८, २० टि द्र । e) पाभे वैप १, १३०३ k द्र । f) कस् । एतदनु पृ ९० अतिशक्क्यं इत्यत्र
 यनि शोध । g) पाभे वैप २, ३खं चत्वारि तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. । h) विप । तस्येदमीयः अण् प्र ।
 x) विग, नाप (अतिरात्र-) । बस । j) विग. । बस. । k) तद्वितार्थे द्विस. । l) पाभे. वैप १,
 १३०३ ll द्र. । m) समाहारि द्विस. ।

१२,८, -इयात् बौश्रौ २०,६ :
३, २३, २-३.३; -इयाम्
वैताश्रौ ६,६^a

चातुष्प्राश्य-पचन-वत्
पायु १,२,४

चातुष्प्राश्य-प्राशन-नम्
द्राश्रौ १२, २, ११, लाश्रौ ४,
१०,११.

चतु-षष्टि- -ष्टि बौश्रौ २१,
६ : २०, अप ३३, ३, २, विघ,
-ष्टिम् बौश्रौ १८, ३७ १२,
१७, विघ ५, ६७, बौशु १६,
१०, १६, १९.

चतु षष्ट^b- -ष्टम् काश्रौ २४,
५, ११, लाश्रौ १०, १४, १३^c

चतुः, ष-षोडशिन^d- -शी
आपश्रौ २२, ५, १४, हिश्रौ १७,
२, ४२

चतुस् () पा ५, ४, १८, ८, ३,
४३; आश्रौ ७, ११, ११, १६,
शाश्रौ, जैश्रौ २६ : १२^e, चतुः-
ऽचतु. भाश्रौ ७, २२, ११, निस्
७, ८.४, कप्र ३, ६, २

चतुस्-त्रिंशत्- -शत् शाश्रौ १६,
३, २४, वाधूश्रौ ३, ८२ ३,
द्राश्रौ, -शतम् काश्रौ २३, ४,
४^f, २५, ६, १, वाश्रौ, -शताम्
काश्रौसं २९ : २३

चतुस्त्रिंश- -श बौश्रौ १०,
४२ : ८, -शम् निस् १०, ७
१, -शानि लाश्रौ ८, १२, १४.

चतुस्त्रिंश-पवमान- -न
बौश्रौ १२, १६ २८, -ना
बौश्रौ १६, २८. १९

चतुस्त्रिंशद्-अक्ष (र >) रा-
-रा निस् ३, ४ २९, -रा निस्
२, १२ २३, २७, ४, १० : १३

चतुस्त्रिंशद्-धो (< हो) म-
-म काश्रौ २५, १२, १७

चतुस्त्रिंशद्-रात्र^g- -त्रः
बौश्रौ १६, ३५ १३, -त्रम् आश्रौ
११, ४, ५, काश्रौ २४, २, ३२,
आपश्रौ २३, ५, १२, हिश्रौ १८,
२, ११

चतुस्त्रिंशद्-वाच्य- > ंच्य-
त्व- -त्वात् मीस् ९, ४, १७

चतुस्-त्रि-द्वि-भाग- > ंगी-
√कृ > ंगी-कृत- -तान् विघ
१८, ७

चतुस्-त्रिष्टुब्-अन्त^h- -न्तम्
ऋअ २, १, ५८, १०१

चतुस् ज्ये(त्रि ए)क- -कै कप्र
१, ७, १०.

चतु-सं(स्था >)स्थ- -स्थ
वैताश्रौ २६, १५

चतु-सप्त(क >)का- -का ऋअ
१, ५, ८, ऋअ ५, ३१

चतु-सहस्रⁱ- -स्रम् ऋप्रा ५,
२७^f

चतु-सी(ता >)त^j- -तम्
बौश्रौ १७, २८ : ११, हिश्रौ
१२, ८, ५

चतु-सुवर्णक^k- -कः विघ ४,
१०.

चतु-सूक्त^l- -क्तानि शाश्रौ
१२, ३, ४, -क्तौ ऋअ ३, १५^l.

चतुः-स्तन, ना^m- -नम् आपश्रौ
१७, २६, ७, २१, ४, १४, २३,

११, ६, भाश्रौ १२, ४, ५, वैश्रौ
१२, २४ ६, हिश्रौ १०, ३,
३९, -नानि आपश्रौ १६, ३५,
१०, वैश्रौ १९, १ १७, हिश्रौ

१२, ८, २६, १२, ८, २०, १६,
१, ४७, वाधूश्रौ ४, १०६ ४,
६, -ने माश्रौ २, २, १, ४९

चतु-स्तम्भⁿ- -म्भम् अप २१,
६, १

चतुः-स्तोत्र^o- -त्र. काश्रौ १२,
६, ६

चतु-स्थान- -ने काश्रौ २०,
४, ९

चतु, -स्थू(या >)ण^p- -णम्
आपश्रौ ११, ९, ४, माश्रौ २,
२, ३, १२, वैश्रौ १४, १० १

चतुः-क्षक्ति^q- -क्ति आपश्रौ
१२, २, १×४, बौश्रौ, -क्ति
काश्रौ २६, ७, १४^q, आपश्रौ

१५, १४, ५^q, २२, ९, १८;
बौश्रौ, -क्तिना काश्रौ १२,
५, २, ७, १७, ३, ३, -क्तिम्

काश्रौ ५, ३, ३१, आपश्रौ ७, ५,
१×४, काठश्रौ, -क्तीन् काश्रौ
१८, ६, ७, -क्तौ बौश्रौ १२, ६ २.

चतुस्-स्वर- > चातुस्स्वर्य-
-र्यम् भास् ३, २६.

चतु (< तुर्)-रात्र^r- -त्र.
शाश्रौ १६, २३, ७, हिश्रौ १७,
७, ६, निस् ८, १० : १७, शौच

४, ८०^r, -त्रम्^r काश्रौ १९, १,
१४, वैश्रौ २०, १५ ७, आभिष्ट

१, २, १ २०, बौश्रु ३, १, २६;
गौपि १, ५, १, -त्रस्य आपश्रौ:

a) = ब्रह्मौदननिर्वर्तिका- धेनु- (तु गो १, २, २१ प्रष्ट) । b) विप । अधिकार्थे ङः प्र उसं (पा ५, २, ४५, ४६) ।

c) ष्टमिति पाठः ? यनि शोध- । d) = व्रात्य-स्तोम-विशेष- । बस । e) तु. भाष्यम्, वैतु. सस्कृत् सूची उत्तरेण
सप्तमस्तम् इति ? । f) = सत्र-विशेष- । g) विप । कस. > बस । h) वैप १ द्र । i) विप । बस. ङ

j) चतुष्कौ इति संस्कृत्. टि द्र । k) समाहारे द्रस ।

२२, १४, ५, हिश्रौ १७, ६, ३,
-त्राः आपश्रौ २२, १८, ११,
बौध २, १, ६५, -त्राणाम् निसू
३, ७ ८, -त्राय बौश्रौ १६,
२८ : १, ६, १०, -त्रे बौश्रौ
१६, २८ १२-१४, -त्रेण शाश्रौ
१६, २३, १, २६, निसू ८, १०
१४, २१, -त्रेभ्यः लाश्रौ ९,
५, ६.

चतुरात्र^३- -त्राय निसू
८, ४. २९

चतुरात्र-प्रभृति- -तय निसू
९, ८ १९, -तिषु आपश्रौ २२,
१४, १५, हिश्रौ १७, ६, ५

चतुरात्रा(त्र-त्रा)दि- -दिषु
काश्रौ २२, १, ७

चतुरात्रो(त्र-उ)पजन^०- -नम्
आश्रौ ११, २, १४, ३, ४, ११,
४, ५, ८

चत्वार^०- पाठ ५, ५८^d, पा ७, १,
९८, -त्वार. आश्रौ ४, १, ४××,
शाश्रौ, माश्रौ १, ६, ४, २१^०,
वाश्रौ १, ५, ५, ७^०, पागृ ३,
१, २^०, कागृ २६, ७^०, वैगृ
४, २ : ५^०, बौध २, ६, १३^०,
अश्र १६, ८^०, या १, ४, ३,
८, १०^०, ११, १९, -त्वारि
आश्रौ ३, ८, १^०××, शाश्रौ,
आपश्रौ १०, २२, १२^०, आपमं
१, ३, १०^०, पागृ १, ८, १^०,
आमिगृ १, ५, ४ ४३^०, कागृ
२५, ४२^०, भागृ १, १७ :
२^०, मागृ १, ११, १८^०, वागृ
१४, २३^०, हिगृ १, २१, १^०,

जैगृ १, २१. २८^०, या १,
१, १२, ३, ११, १३, ७^०,
९^०, -त्वारिऽत्वारि आश्रौ ९,
४, ५, काश्रौ २२, ११, १, बौश्रौ
१३, २३ ८, २३, ३ १५,
माश्रौ १, १, १, ३, २, १, १, १७,
५, १, ९, ६, लाश्रौ ७, ५, १३,
१२, ९^०

चत्वारिन्-> ँरि-शत्^०- पा ५,
१, ५९, फि ७, -शत् शाश्रौ
४, १५, ११××, आपश्रौ, -शतम्
आपश्रौ १७, ३, ४, २१, १, १४^०,
बौश्रौ, हिश्रौ १६, १, ११^०,
-शतम्ऽशतम् शाश्रौ १६, ८, ९,
-शता आपश्रौ ९, ११, २३, निसू
५, १२ १४, आमिगृ ३, १०, ५ :
५, बौपि ३, ८, १, हिपि २३ :
२१, गौपि २, १, ८, गौध ८, ८,
-शते तैत्रा १६, २४^०

चात्वारिशा^१- पा ५, १,
६२.

चत्वारिशा- -शम् आपश्रौ
२३, ९, ८, १४, हिश्रौ १८, ३,
१६, -शा बौश्रौ १६, ३४.
१३, -शे लाश्रौ ६, ६, १९, -शौ
बौश्रौ १८, २३ : ९

चत्वारिशाच्-चतु पञ्चाशत्-
-शतम् निसू ५, १२ : ६

चत्वारिशाच्-छ(< श)त-
-तानाम् बौश्रौ १६, २५ १९

चत्वारिशात्-कर(ण>)णी^१-
-णी काश्रु २, ९

चत्वारिशात्-प(द >)दा-
-दाम् काश्रौ १७, ३, १४.

चत्वारिशात्-प्रभृति- -तौ पा
६, ३, ४९

चत्वारिशाद्-अच्च (र >)रा^०-
-रा वाधुश्रौ ४, १००^१ ८, ११५ :
१०, निसू १, ३ : १

चत्वारिशाद्-अन्त^०- -न्तानि
काश्रौ २४, १, २.

चत्वारिशाद्-दिवस- -सात्
वैगृ ३, १९ : १.

चत्वारिशाद्-रात्र^०- -त्रम्
आश्रौ ११, ४, ८, काश्रौ २४, २,
३६, -त्रात् शाश्रौ १३, १४, ९;

काश्रौ २४, २, ३१, निसू ९, १० :
११; -त्रेण आपश्रौ २३, ६, ११;
हिश्रौ १८, २, १७.

चत्वारिशाद्-वर्ष- -र्षः बौश्रौ
२६, ६ १३

चत्वारिशाद्-मान^०- -नम्
आपश्रौ ५, २१, ९, वाश्रौ १, ४,
४, २६, वैश्रौ १, १६ : १३;
हिश्रौ ६, ५, १८.

तुरीय,या^०- पावा ५, २, ५१, -^०यः

आपम १, ३, १^१, पागृ १, ४,
१६^१, कागृ २५, २२^१, बौगृ १,
४, ७^१, भागृ १, १६ : २^१, हिगृ
१, २०, २^१, जैगृ १, २१ : ६^१;

अपं ४ ४^१, -यम् वाधुश्रौ ३,
१७ : ८^१××, कौगृ, या ६,

२१^०, १३, ९^१, ऋ, ऋ, -य
आपश्रौ १९, १७, १०^०, बौश्रौ

१४, १५. ११, हिश्रौ २२, १,
२१^०, पागृ ३, ३, १३, अश्र ५,

६, १३, १, -ये कश्र २, ६, १३;
वृश्र ६, १२९, -येण शाश्रौ १५,

a) स्वार्ये अण् प्र । b) विप । बस । c) वैप १ द्र । d) <√चत् । e) पाभे वैप १,
१३०५ j द्र । f) चत्तरा. इति पाठः? यनि शोचः । g) पाभे वैप २, ३खं. चत्वारि तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि द्र ।
h) शोचः पृ ४३९ w द्र । i) = ब्राह्मणग्रन्थ विशेष- । j) चतुष्करणी- इत्यनेन स-न्यायता द्र । k) = सत्र-
विशेष- । l) पाभे. वैप १, १३०६ c द्र ।

३,७१, ऋषा १८,४५
 तुरीय-क^३- -कम् शंघ २७३
 तुरीयो(य-ऊ)न- -नम् कप्र २,
 ५,१५
 तुर्य^४- पावा ५, २, ५१, -र्य
 आग्रिण १, ५, ३ १५१^६, वागृ
 १४,१०^६, अप ५.१७, -र्यम्
 माश्रौ २, ४, ५, ७, -र्ये भाशि
 १०९, -र्येण जैश्रौ ९ २०.
 तुर्य-पुरुष^५- -षम् माश्रौ ६, १,
 ५,३३
 तुर्य-वाह^६- -वाहः वाश्रौ ३,४,
 ३,१९^१
 तुर्यौही- -ही शुभ्रा ५,४०^१
 चतुर^७- पाठ १,३८^१, पा,पमा ५, २,
 १२७, पाग ५,१,१२४^६
 चातुर्य- पा ५,१,१२४
 चतुरानर्तनम्^८ कौट १,७,२, शागृ
 १,११, ५
 चतुरोर्नर्तनम्^९ कागृ २२, १
 चतुस् प्रथ चतुर्- द्र.
 चत्त-, चत्य- √चत् द्र
 चत्र^१- -त्रम् कप्र १,७,२,५,८,४.
 चत्र-बुध्न- -भे कप्र १,८,२.
 चत्रा(त्र-अ)प्र-कीलका(क-अ)प्र-
 (स्थ>)स्था^१- -स्थाम् कप्र १,
 ८, ३^६
 चत्रौ(त्र-ओ)वीलीक^१- -कम् कप्र ३,
 २,११^३.

चत्वर^२- पाठ २, १२१^१, -रे अशा
 १५,१
 चत्वाभ्याम्^० वैगृ ६३ ४
 चत्वार- चतुर्- द्र
 चत्वारभाग- -नो कौशि २
 चत्वारम् जैश्रौका २०९
 चत्वारिंशत्- प्रथ चतुर्- द्र
 √चद् पाधा भ्वा उभ याचने
 √चन् (बधा) पाधा भ्वा पर
 हिंसायाम्^१, चुरा उभ श्रद्धोपह-
 ननयोः
 चनस्^२- पाठ ४,२००, पावा १,४,
 ६०, -त्न आपश्रौ १६, ७,४,
 वैश्रौ १८,४ २१, हिश्रौ ११,२,
 २, निघ ४,३^१, या ६, १६^६,
 -नसि वाधुश्रौ ४,९४^१ ३,४.
 √चनस्य > चनसित^५- -०त
 आपश्रौ १०,१२,८, भाश्रौ १०,
 ७, १५, माश्रौ २, १, २, २९,
 -तम् आपश्रौ १०,१२,७, भाश्रौ
 १०,७,१४, हिश्रौ १०,२,३७
 चनसित-व (त् >) ती-
 -तीम् बौश्रौ ६,६ ७, १९, वैश्रौ
 १२,११. २
 चनसिता(त-अ)न्त^१- -न्तम्
 वैश्रौ १२,११ ३
 चनसितो (त-उ) त्तर^१- -रम्
 वैताश्रौ ११,१९
 चनो-हित^६- -त वाधुश्रौ ४,

९४^५. ५,८, -तम् वाधुश्रौ ४,
 ९४^५: ६
 चन^६ आश्रौ १, ३, १३××, शाश्रौ,
 आपश्रौ ६,१७,१०^६, भाश्रौ ६,
 ४,४^१, या २,१४, ११,३८^१,
 १३, १, ४८^३, पा ८, १, ५७,
 पाग १,४, ५७^१, आज्यो ५,१२.
 चनीखुदत्- √खुद् द्र
 √चन्द^७ पाधा भ्वा पर आह्लादे-
 चन्दन^८- पाठ २,७८, पाग २,१,
 ५६, -नम् आम्रिण १,३,१: ३,
 भाग २,१८ ३, हिगृ १,१०,४,
 अप ९,२, १, ३६, २८, १, या
 ११,५^६, -नस्य आम्रिण १, ३,
 ३: १५, -नेन आपगृ १२,
 ८, भाग २, २०: ७, अप १८,
 ३, १, विघ ९६, २३, -नैः
 जैश्रौका १२, अप १,४५,२
 चान्दन^९- -नः अप २१,
 ३, ३
 चान्दन-मणि- -णिम् हिगृ
 १,१०,६^१
 चान्दन-सुरोदका(क-अ)-
 क्षताक्षत-गोमय-दूर्वास्तम्बो(म्ब-
 उ)दुम्बर-पलाश-शमी-वैकङ्कता-
 (त-अ)श्वत्थ- -स्थेन हिगृ २,
 ९,७^४
 चान्दन-कानन- -नम् अप ६८,
 १,२९

a) = तुरीय- । b) वैप १ द्र. । c) पाभे वैप १,१३०६० द्र । d) विप । तद्धितार्थे द्विस. । e) विप
 > नाप (प्रवीण-) । व्यु १ । f) < √चत् । g) तु पागम । h) पाठः चतुरम्, नर्तनम् (०रन्नं > ०रा नं वा
 ०रो नं वेति वावि) इति शोध । कागृ ? कुर्यात् > कुर्यु इति शोध (तु सकक्ष गायेयुः इति, वैतु Old 'शागृ' चतुर,
 आनं इति) । i) = मन्थन-दण्ड- । व्यु १ । चात्र- इति BI । j) विप । षस > सस > षस > उस । k) ०त्राघ
 कीं इति जीसं., चात्रोर्ध्वकीं इति BI, चक्राघ कीं इति अस्मृ पाभे । l) समाहारं द्रस । m) ०विलीकम्
 इति अस्मृ । n) = अङ्गन- । = चतुष्पथ- [अशा] । व्यु १ । o) स्वरूपम् ? सप्र आपगृ १४, ११ विशिष्टः पाभे ।
 p) तु BPG । q) वैप २, ३ख द्र । r) विप । बस । s) पाभे वैप १,१३०७० द्र । t) तु पाका ।
 वन इति भारुडा । u) या ११, ५ परामृष्ट द्र । v) विकारार्थे अण् प्र. । w) ०नम्, मं इति Boht
 ZDMG ५२,८२ । x) चन्दं इति Böht [ZDMG ५२,८७] ।

चन्दन-कुङ्कुम-कर्पूर-सृगमद-
जातीफल-वर्जम् शंघ १२८
चन्दन-कुङ्कुम-कर्पूरा(र-अ)गुरु-
पञ्चक- -कानि विध ७९, ११
चन्दन-सृगमद-दारु-कर्पूर-कुङ्-
कुम-जातीफल-वर्जम्^a विध ६६,
२
चन्दना(न-अ)गुरु- -रु अप ३६,
१५, १, -रुम् अप ६६, २, २^b
चन्दनागुरु-सयुत- -तम्
आमिगु २, ४, ६ २४
चन्दना(न-आ)दि-प्रदीपान्त^c-
-न्तै आमिगु २, ४, १० ९
चन्दना(न-आ)दि-विलेपन-
-नम् कप्र २, ८, ५
चन्दनो(न-उ)क्षित-सर्वाङ्ग-
-ङ्गम् कप्र ३, २, ४
चन्द्र, चन्द्रा^d - पाठ २, १३, पाग ५,
२, ३६^e, -चन्द्र बौश्रौ ८, ६
६, पाग, -न्द्र शाश्रौ ६, ३, १^f,
जैश्रौप ९, सु, या ११, ५^g,
-न्द्रम् शाश्रौ ६, ३, १^f, चक्राश्रौ
७, ८, १४, २६, ४, १, आपश्रौ २०,
१८, १०, -न्द्रस्य अप ५०, ४,
५, बौध ४, ५, २०, बुदे १, ८८,
आज्यो ७, २३, -न्द्रा बौश्रौ ६,
१३ १^f, भाशि १२०^f, नाशि
१, २, १०^h, -चन्द्रा बौश्रौ १२,
९ : ७, भाशि ११५, -चन्द्राणि
आपश्रौ १०, २६, १०, बौश्रौ ६,
१५ ३, वैश्रौ १२, १९ : ३,
हिश्रौ ७, २, ७४, -चन्द्रात् काश्रौ
२५, ६, ८, अप्राय २, ९,

-चन्द्राय आपश्रौ १४, २५, ११,
कौसू ४९, १२, १००, २, १३५,
९, -न्द्रे अप ६८, २, ४, ७०ⁱ,
११, २३, विध १, ३६, शुभा
३, ५४^f, ऋत ४, ७, ३^f,
-चन्द्रे द्राश्रौ ९, २, ३, लाश्रौ
३, ६, ३, -चन्द्रेण बौश्रौ ६, १५
२, १२, ९ ७, कौगु १, १०,
१, शागु १, १६, ३, अप १, ५,
६९
चान्द्र^b - न्द्रम् अत्र २, १९,
या ११, ५, -न्द्रे विध ७८, २
चन्द्र-क- (>चन्द्रकित-)
चन्द्र- टि द्र
चन्द्र-कला(ला-अ)मिबुद्धि-
-द्वौ विध ४७, ३
चन्द्र-ग्रह^c - हे आमिगु २, ५,
१. ६
चन्द्रग्रह-निमित्त- -त्तानि
अप ५३, २, २
चन्द्र-चार-विद्- -विद् कप्र
२, ६, ६
चन्द्र-दक्षि(णा>)ण^d - गण
बौश्रौ ८, ५ २१, वैश्रौ १६,
७ ३, हिश्रौ १०, ४, ४५
चन्द्र-दर्शन- -नम् कागु ३८, १,
-ने कप्र १, ९, ७
चन्द्र-निर्णिज्^e - -र्णिक् ऋप्रा
१४, ४५, उसू ५, १.
चन्द्र-पर- -र. तैप्रा ५, ५
चन्द्र-प्रमाण^f - गण. लाश्रौ १०,
१६, १३
चन्द्र-बृहस्पति- -ती विध ४९, ९.

चन्द्र-भाग^g - >णा^h - पाग ४,
१, ४५, -गायाम् विध ८५, ४८.
चन्द्रभागीⁱ - पा ४, १, ४५
चन्द्र-भास^m - -सः अप ५२,
१०, १
चन्द्र-भास्कर- -रौ अप ६२, ३,
३, ६४, ३, ८
चन्द्र-मस^o - पाठ ४, २२८;
पाग ६, २, ४२, -मस शाश्रौ
४, ८, ४^f, -मस बौश्रौ १८,
५२ १५, निसू २, ५ ३०,
कौसू ९३, ८, कप्र, या ४, २५^f,
११, ३, ४, १४, ८, पावा ४, २,
३, -मसम् शाश्रौ ३, ८, १५^f;
आपश्रौ १, ७, १, बौश्रौ, या २,
६, ११, ४, १४, ८, १८, २३,
-मसा आश्रौ ३, १३, १३, काश्रौ
२५, ४, ३७, आगु ३, ११, १^f,
अप्राय ५, ६, या ७, ११, १३,
३६, १४, २३, -मसि चन्द्राश्रौ
५, ९, ७x, बौश्रौ, -मसे
आपश्रौ ६, ८, १^f, १०, १०, ६^f,
बौश्रौ, -मसौ अप १, ४१, ६,
अशा ११, ६, -मा^o चन्द्राश्रौ
५, १३, १४; १०, ९, २, चन्द्राश्रौ
५, १, ३, १६, ५, ४, आपश्रौ,
वैगु ५, ४ ३६^h, या ११,
५^g
चान्द्रम^o - -म निसू ५, १२:
१९
चान्द्रमस^o - -स. द्राश्रौ
८, ४, ६, लाश्रौ ४, ८, ६, निसू
५, ११ : ७, साअ १, १४७,

a) 'मदागुरुक' इति जीस । b) मलो कस । c) विप । बस > कस । d) = ग्रह-, हिरण्य-, मेदस्-,
साम-विशेष- प्रसृ । e) वैप १ द्र. । f) तु पाका । चन्द्र-क- इति भाण्डा । g) = मूर्च्छना-विशेष- ।
h) विप । सास्यदेवतीयः तस्येदमीयश्च अण् प्र । १) उप = उपराग- । २) विप । बस । k) = पर्वत-
विशेष- (तु पागम) । व्यु.^१ । l) = नदी-विशेष- । चान्द्र^o इति केचिदिति पागम । m) = ग्रह-विशेष- ।
n) 'मा इति पाठ. ^२ यनि. शोधः । o) = चान्द्रमस- । डण् प्र उस् इति विशेषः ।

-सम् बौश्रौ १८, ३७ ५, २६,
३३ : ६, वैगृ ५, १ ११, अप्राय
३, ४, अत्र, -सा निसू ५,
११० ३१, -से या १३, ५,
-सैल आमिगृ ३, ९, ३ २४,
बौपि २, ७, १९, -सौ वृदे ७,
१२५

चान्द्रमसी^a- सी शाश्रौ
१४, ३२, ३, अत्र १८, ४,
-सीमि बौध ३, ८, १८, -सीम्
बौध ३, ८, ९, शुअ १, ८६,
-स्य निसू ४, ९ ५, या ५,
११, -स्या आश्रौ ९, ८, २,
-स्यौ अत्र ६, ६८

चन्द्र-रथ^b- रथम् आपश्रौ ५,
१०, ४, माश्रौ १, ५, २, १४,
वाश्रौ १, ४, २, ५, हिश्रौ ३, ३,
३६

चन्द्र-रश्मि-मनोहर- रम् विध
१, ३४

चन्द्र-राहु- पाग २, २, ३१^c

चन्द्र-ललाट^d- टाय गौध २६,
१२^f

चन्द्र-वत् अप ४, २, १२

चन्द्र वपा- पयो. आपश्रौ २०,
१९, ३^e, हिश्रौ १४, ४, २७^g,
-पानाम् वाश्रौ ३, ४, ४, २२^f

चन्द्र-वरुण-विश्वेदेव- वा

अत्रभू ३

चन्द्र-वल्ल(भ>)भा^d- भाम्
अशा १, ३

चन्द्र-शब्द- ष्दे ऋप्रा ४, ८४,
उसू ६, ५

चन्द्र-सामन्^e- म विध ५६, १४.

चन्द्र-सालोक्य- क्यम् विध

९२, १२

चन्द्र-सूक्त- क्ते विध ५६,
२०

चन्द्र-सूर्य- र्ययो अप ६७, ६,
४, ७०^h, ३, १, वृदे ६, १२६

चन्द्रसूर्य-ग्रहⁱ- हे कप्र १,
१०, ७, अप ५३, ६, ५.

चन्द्रसूर्यग्रहो(ह-उ)

पग- गान् विध ९०, २९

चन्द्रसूर्य-तला(ल-आ)अय-
-या. ^h अप ५२, ७, ५

चन्द्रसूर्यो(य-उ) पराग- नो
वाध १३, ३४

चन्द्रा(न्द्र-अप्र>)मा^b- आ
या १२, १८^f

चन्द्रा(न्द्र-अ)दर्शन- ने काश्रौ
४, १, १, माश्रौ १, १, २, १,
-नेन वाश्रौ १, १, २, १

चन्द्रा(न्द्र-आ)दित्य- पाग २,
२, ३१^g, -स्यौ आमिगृ २, ६,
१ : १७

चन्द्रादित्य-गत- तम्
आज्यो १, २

चन्द्रा(न्द्र-आ) न(न>)ना-
-०ने विध ९९, ३

चन्द्रा(न्द्र-अ)यण-> १ चान्द्रा-
यणⁱ- पाग ४, २, ५४^j, -ण वाध
२३, ४७, २७, २१^k, विध ४७,
३६^l, गौध २७, १६, -णम्

बौश्रौप्र ५४ ५, आमिगृ ३,
१२, १ : ७, वैगृ, -णेन शंध
४४९, सुध ४४, -णै विध

९५, १३

चान्द्रायण-कल्प- ल्पम्
बौव ३, ८, १.

चान्द्रायण-द्वय- यम्
विध ५३, ६

चान्द्रायण-भक्त- पा ४,
२, ५४

चान्द्रायण-विधि- धिः
वाध २३, ४४

चान्द्रायण-व्रत- तम्
वाध २३, १६, वैध १, ७, ८.

चान्द्रायणा(ण-अ)ब्द-
फल- लम् शुअ ४, २२१

चान्द्रायणिक- पा ५, १,
७२

चान्द्रायणो(ण-उ)त्तर-
-रम् वाध २१, १३.

चन्द्रा(न्द्र-अ)र्क- पाग २, २,
३१, -र्कयो अप ७२, ३, १५;
शंध ४६, -र्कौ अप ६७, ६, १;
७२, २, १.

चन्द्रार्क-सैनिकर्ष-विप्रकर्ष-
-र्षयो विध ५९, ४

चन्द्रार्को(र्क-उ) पराग- नो
विध ६८, १

चन्द्रा(न्द्र-अ)र्क-तार(क>)
का- काः विध ६८, ३७

चन्द्रा(न्द्र-अ)र्को(र्क-उ) ल्का-
प्रभेद- दा अप ६४, ६, ६

चन्द्रा(न्द्र-अ)र्ध- र्धः काशु ७,
२१

चन्द्रित- पा ५, २, ३६

चन्द्रे(न्द्र-इ)न्द्रध्वज-सूर्य-

-र्याणाम् अप ६८, २, ३७

चन्द्रो(न्द्र-उ)त्तरपद- दे पा
६, १, १५१.

चन्द्रो(न्द्र-उ)द्वय- ये विध
९०, १

a) विप (इष्टि, ऋच्-प्रभृ)। b) वैप १ इ। c) तु पागम। d) विप। बस। e) ंन्द्रस्य
वपयो. इति पाठः? यनि. शोध (तु सपा आपश्रौ)। f) = साम-विशेष-। g) उप. = उपराग-। h) विप।
वस. > बस। i) = व्रत-विशेष-। j) = राज-विशेष-।

चन्दन- ✓चन्द् द्र
 चन्द्रिर- पाठ १, ५१^०
 चन्द्र-, १चन्द्र-मस- ✓चन्द् द्र
 रचन्द्रमस्^०- पाग ४, १, १५४
 रचन्द्रमस- -सा बौश्रौ ३ १२
 चान्द्रमसायनि- पा ४, १, १५४
 ✓चप् पाधा भ्वा पर सान्त्वने,
 चुरा पर परिकल्पने
 च-पर- च द्र
 रचपल, ला^०- पाठ १, १११, पाग
 २, १, ४०, ५९, ७०, ३, १, १२,
 ५, १, १२४, १३०, ६, २, २४, ३,
 ३४, -लः कागृ ३५, १^१फं
 चापल- पा ५, १, १३०, -ले
 पावा ८, १, १२
 चापल्य- पा ५, १, १२४
 चपल-मध्य^d- -ध्वे विध ७०, १४
 ✓चपलाय पा ३, १, १२
 रचपल^b- (>चापलायन- पा)
 पाग ४, १, ११०
 चपेट- पाठमो २, २, १०९
 चप्पट्टक^b- (>चाप्पट्टक्य- पा.)
 पाग ४, १, १५१^०
 चाफट्टक^b- (>चाफट्टकि->चाफट्ट-
 कायन- पा) पाग २, ४, ६१
 चिञ्चाम् वाधुश्रौ ४, २६ १
 ✓चम्^f पाधा भ्वा. पर. अदने, स्वा.
 पर भक्षणे, चमन्ति या १०,
 १२, चमताम् वाश्रौ १, १, २,
 ३^१फं.
 चमस^h- पाठ ३, ११७, पाग २, ४,
 ३१, ४, १, ४१^०, १०५^०, -सः
 ङ्ङाश्रौ १, ३, ६××, शाश्रौ, ङ्ङ्या
 १०, १२^०, १२, ३८, -सम्

आश्रौ ५, ७, ७, ९, ३, १८, शाश्रौ,
 बौपि १, ५ १८^३, ङ्ङ्या १०,
 १२^१, -सस्य आपश्रौ १२, २४,
 ५, बौश्रौ १४, २ २५, हिश्रौ,
 या ११, १६, -सा आश्रौ ५, ६,
 २३, ६, १२, ६, काश्रौ ९, १४, ६,
 २४, ४, ४०, आपश्रौ, -सात्
 बौश्रौ ३, २९ १५, लाश्रौ ९, २,
 ४, -सात् आश्रौ ५, ६, १३××,
 शाश्रौ, -सानाम् बौश्रौ २१, १९,
 २६××, माश्रौ, -सायऽसाय
 बौश्रौ ८, १२ ४२, २५, २३
 ७, -से शाश्रौ १३, १२, ११,
 काश्रौ ११, ४, ९, २५, ११, ३३,
 आपश्रौ, -सेन काश्रौ १०, ५, १,
 आपश्रौ ८, ३, ८, बौश्रौ, -सेभ्यः
 आश्रौ ५, १७, ५, ६, १२, ७,
 बौश्रौ, -सेषु आश्रौ ६, ४, १०,
 १२, ११, काश्रौ, -सैः काश्रौ
 १०, ५, ८××, आपश्रौ, -सौ
 आपश्रौ १२, २६, ८, बौश्रौ ५,
 ९ १०, माश्रौ
 चमसी- पा ४, १, ४१,
 पाग ६, २, १३४.
 चामस्य- पा ४, १, १०५
 चमस-गण- -गा बौश्रौ १७,
 ९ : १६, माश्रौ २, ५, ३, १३,
 वैश्रौ १७, ५ ५, हिश्रौ ९, ७,
 ५९, -गाम्याम् बौश्रौ १७, ९ :
 १५, -गाय आपश्रौ १४, २, २,
 २१, १०, ३, वैश्रौ १५, ३८ ३,
 हिश्रौ ८, ८, ५४, ९, ७, २२, १३,
 २, २८, १६, ४, १५, -गेभ्यः
 आपश्रौ १४, १, ६, ३, ८, ४, १२,

हिश्रौ ९, ७, ८, ३८, ५८, -गेषु
 वैश्रौ १७, ४ : ६, -गौ बौश्रौ
 १७, ७ १४
 चमस-ग्रह-पात्र- -त्राणि अप
 २३, १, २
 चमस-दर्वी- -व्यौ गोश्रु ३, ७,
 ११, १५
 चमस-निधान- -नात् काश्रौ
 १०, १, २६
 चमस-पात्र- -त्राणाम् बौध १,
 ५, ४४
 चमस-रस- -सम् आपश्रौ १३,
 १७, ९
 चमस-वत् काश्रौ १८, ५, ४;
 शंघ १६७, मीसू ३, ५, ८
 चमस-श्रुति- -तिः मीसू ३, ५, ३१
 चमसा(स-आ)कृति- -ति काश्रौ
 १, ३, ४०
 चमसा(स-अ)ध्वर्यु^h- -र्यव
 काश्रौ ९, ११, २, २२, १०,
 ६, आपश्रौ १०, १, १४^१××;
 बौश्रौ, -ङ्ङ्यौ^१र्यव काश्रौ ९,
 ११, ३, आपश्रौ १०, ३, १;
 १२, २३, ४^२, बौश्रौ, -र्यवे
 आपश्रौ १४, २८, १, वैश्रौ १५,
 ३० ११, हिश्रौ ८, ७, ३३;
 -र्यु वैश्रौ १५, ६ १, -र्युभ्यः
 आपश्रौ १३, ६, ६, हिश्रौ १०,
 ४, ५९, ६१, -र्युन् आपश्रौ १०,
 ३, १, बौश्रौ, -ङ्ङ्यौ काश्रौ
 ९, ३, ३, आपश्रौ १२, ५, २;
 २६, ४, बौश्रौ.
 चमसाध्वर्यु-प्रसर्पक-सदस्य-
 -स्येभ्य आपश्रौ १३, ६, ७

a) = चन्द्र- वा हस्तिन्- वा । b) व्यप । व्यु^१ । c) विप, नाप (बासग्रह-[कागृ]) । व्यु^१ । <✓चुप्
 इति अत्रा प्रसृ, ✓कम्प इति MW । d) पूष = दुर्व्यसनिन्- । e) तु पागम । f) वृदे ७, १२९या ११, ५
 परामृष्टः द्र । g) पाभे. वैप २, ३ख रमताम् तैत्रा ३, ७, ४, ३ टि द्र. । h) वैप १ द्र । १) पाभे.
 पृ ५८६ १ द्र ।

चमसिन्- पाग ४, १, ९९^a,
-सिन आश्रौ ५, ९, २७,
आपश्रौ, -सिनाम् वैश्रौ १५,
३१ ८, हिश्रौ ८, ७, ३८, मीस्
३, ५, ३०, -सी वैश्रौ १५, ३१
९, हिश्रौ ८, ७, ३९.

चामसायन- पा ४, १, ९९
चमसो(स-उ)अयन-काल- ले
काश्रौ १०, ९, ३०

चम्^b- पाउ १, ८०, -फंमू शाश्रौ
१०, ४, ५, आपश्रौ १९, ३, २७^c,
शुप्रा १, ९६, -म्वा कौस् ४८,
४, -फंम्बो शाश्रौ १५, २३, १,
या ४, २१^d, -फंम्बौ अप ४८,
६०, निघ ३, ३०

चम्-पाल- -लान् अप ६३, ३, ९

चमकुटिल- -लानि या १४, ३१

चमर^d- पाउ ३, १३२, पाग ४, ३,
१५०^e

चामर- पाउ ३, १५०, -रम् विघ ६५,
१४; -रै आमिग २, ४, ६ ३८

चामर-आह- (> ण्हिक- पा.)
पाग ४, १, १४६

चामर-छत्र-संयुक्त- -क्तम् अप
५, ४, ४

चमूर- पाउमो २, १, १०४.

✓चम्प^f पाघा जुरा पर. गल्याम्

चम्पा- पाउमो २, २, २०९, पा, पाग
४, २, ८२.

चम्पू- पाउमो २, १, १२४.

✓चयू पाघा भ्वा आत्म गतौ.

श्चय^g- (> णचाय- पा) पाग ४,
३, १५२^h

श्चय- चय-क- , चयन- प्रम्
✓चि द्र

चयमान^b-> णचायमान- -न बुदे
५, १२४, -नस्य ऋअ २, ६,
२७, -नेन बुदे ५, १३८

च-योग- च द्र

✓चर्ⁱ पाघा भ्वा पर गतौ भक्षयो
च, जुरा उभ संशये, चरते
माग १, २२, २०, बौध २, १०,
३०, या ६, ११, चरति फंआश्रौ
८, १४, ४, १०, ९, २ⁱ, शाश्रौ,
बौश्रौ १०, ४ ५ⁱⁱ, पा ४, ४,
८, ४१, पावा ५, १, ९४, चरत
शाश्रौ १५, १९, १ⁱⁱⁱ, काश्रौ,
चरन्ति आश्रौ १, ५, १××,
शाश्रौ १५, १७, १^{iv}, या १४,
१०, चरसे वाश्रौ १, २, १,
३३^v, चरसि काश्रौ ५, ५,
५^{vi}, विघ, चरथ या १२, २^{vii},
फंचरथ^{viii} शाग ३, ११, १४, पाग ३,
९, १६, विघ ८६, १६^{ix}, फंचरामि
आपश्रौ ५, २५, २०××, बौश्रौ,
फंचरावः आश्रौ २, ५, १०,
बौश्रौ, माश्रौ २, ५, ५, १८^x,
फंचराति शाश्रौ १५, १९, १,
आपमं २, १, ५, जैग १, ११
१७, चरान् कौस् १०४, २^{xi},

फंचरतात्^o आपमं २, ३, १;
आमिग १, १, २, २, हिग १, ५, १;
कौस् ५६, १४, जैग १, १२ २७;
चरन्तु अप १ⁱⁱ, १, ७ⁱⁱⁱ, फंचर, >
रा शाश्रौ १५, १९, १^{iv}, हिश्रौ,
चरतम् माश्रौ २, ३, ७, २^v;
फंचरत, >ता माश्रौ २, १, २,
२७^{vi}, कौग ३, ६, ९, माग १,
२२, २^{vii}, वाव ३०, १^{viii}, चराणि
कप्र २, २, १०, चराम हिग १,
१५, १^{ix}, फंअचरत् आपश्रौ ४,
८, ३, बौश्रौ १८, ४७ . ८;
भाश्रौ, अचर आपश्रौ ५, १, ७^x,
वाश्रौ १, ७, २, २७, चरेत् शाश्रौ
९, २८, १८, काश्रौ, हिघ १, ८,
४३^{xi}, या १४, ३१^{xii}, चरेयाताम्
शाग १, १७, ५, आमिग, चरेयुः
आश्रौ ३, ५, ५××, काश्रौ
चचार शाश्रौ १४, ५०, १××;
आपश्रौ १, ९, ९^{xiii}, बौश्रौ;
चरिष्यति शाश्रौ १४, ५०, १;
फंचरिष्यामि आश्रौ ८, १४,
६, शाश्रौ ४, ८, ३^{xiv}, आपश्रौ
४, ३, २^{xv}××, बौश्रौ, अचारीत्
बौश्रौ २४, १२ : ६, फंअचा-
रिषम् शाश्रौ ४, १२, १०^{xvi};
आपश्रौ ४, १६, ११^{xvii}, बौश्रौ.
चर्यते वाश्रौ ४, ७४ : ७;
फंचर्यताम् कौस् १७, १९, बौध
१, ११, ३, गौध ४, ७.

a) व्यप । b) वैप १ द्र c) पाभे वैप १ परि चर्चिक् ऋ १०, ९१, १५ टि द्र । d) = पशु-
विशेष-। व्यु ? < ✓चम् इति पाउ । e) तु. पागम । f) = ✓छम् इति BPG । g) अर्थः
व्यु. च ? । h) चर्ग- (तु भाण्डा), चाप- इति पाका । i) या २, ५, ४, २७, ६, ११, ८, १५ पा ३, १, २४, ७, ४,
८७ पावा ६, ३, ५३ परामृष्ट द्र । j) पाभे. वैप १, १३११ d द्र । k) पाभे वैप २, ३४ मिथुनीभवन्ति
ऐवा ७, १३ टि द्र । l) पाभे वैप १, १३१२ q द्र । m) चरत इति Jolly । n) शोधार्थं वैप १,
१३१२ k द्र । o) सपा. चरतात् (मंत्रा १, ६, १४) < > चरता इति पाभे p) पाभे वैप १,
११४२ j द्र । q) सपा न चरेत् < > वर्जयेत् इति पाभे । r) चरत् इति RN । s) सपा. चचार <
> चरती < > विचरन्ती इति पाभे । t) पाभे वैप १, १३१३ a द्र ।

चारय>या शुभा ३, ९७^क,
 चारयेत् आपश्रौ १०, १९, ५^क,
 १३, ७, १२, हिश्रौ १०, ३,
 १०
 चञ्चरीक- पाउ ४, २०
 चर^ब- पाग ३, १, १३४, ४, १, ४१,
 ९९, ५, ४, ३८^क, -रम् विध ९७,
 १८, -रा शुभा ६, २८, -राणि
 अप ४, ३, ६
 चरी- पा ४, १, ४१
 १ चार^द- पा ५, ४, ३८
 चार-चक्षुस्^क-क्षु विध
 ३, ३५
 चार-प्रतिचार- रौ शंघ
 २५१
 चार-भट^क- -टे अप ९,
 ४, ५
 चारायण- पा ४, १, ९९,
 -णा बौश्रौ २३: २
 चारायणीय- था चव्यु
 २ ३
 चर-कर्मन्- मंसु अशा ३, ३,
 ५, ३^क
 चरकर्म-प्रसाधक- -०क अशा
 १, ६, ५, १
 चरकर्म-प्रसाधकी- -०कि
 अशा ५, २
 चर-वृत्ति^क- -त्ति हिध १, ७,
 ५५
 १ चरण^क- पाग २, ४, ३१, ३, १, २७,
 ५, ३, १०३, -णम् शाश्रौ १५,
 १, २०, १६, ३, ६, १२, ७, काश्रौ
 ५, ८, १, काश्रौस ६: ९, बौश्रौ,

-णस्य काश्रौस ६. २०, -णान्
 जैश्रौका ९६, -णाय काश्रौस
 ६ १९^क, या ४, १९, ६, २०,
 -णे शाश्रौ ५, ११, १५, या ५,
 १^क, -णेन वाश्रौ ३, २, ६, ४९,
 -णौ गोय १, २, २७, वृदे
 ४, २
 १ चारण^क^द- -ण. आपद्यु ६,
 ९^क, हिशु २, ३८^क
 चरण-चारण^क- -णान् अप ५३,
 २, ५
 चरण-मध्य-गत-भू- भुवम्
 विध ९७, १०
 चरण-शब्द- -ब्दे काश्रौ ३,
 ७, ६
 चरण-हत्- -त्त: हिश्रौ १७, २,
 ५३, आपव २२, ६, ८
 ✓चरण्य पा ३, १, २७
 चरण्य- पा ५, ३, १०३.
 चरत्- -रत्त शाश्रौ १५, १९, १^क,
 काठश्रौ १३६^क, निस्, -रत्ताम्
 नाशि १, ६, १६, -रत्ते या ६,
 ११^क, -रत्सु काश्रौ ८, ६, ३६,
 आपश्रौ १५, १७, २×५, भाश्रौ,
 -रन् शाश्रौ १५, १९, १^क,
 काश्रौ, -रन्त अप १, ७, ४, ७,
 ४०, ५, ३, वैध १, ९, २, -रन्तम्
 बौश्रौ १४, ५. ३६, १५, २४
 २^क, १९, ७ ३४^क, वैताश्रौ.
 ऋचरती- -ती^क बौश्रौ २, १०: ७,
 आपमं २, १९, १, ३, ५, कौय ३,
 १५, ५, आमिगृ ३, १, १. २०,
 हिगृ २, १०, ७

चरन्ती- -न्ती शध ३०४;
 -न्ती वैताश्रौ ३८, ५, -न्तीनाम्
 अप ४२, १, ८^क, -न्तीम् भागृ
 १, ११. ७, विध ७१, ६१, वैध
 ३, २, १५, -न्त्या या १०,
 २१
 चरति->°ति-कर्मन्- -र्मा या ११,
 १८
 चरथ^क- -थाय या ४, १९^क^क
 चरथ्यै^क या ६, २०^क^क.
 चरस^क^क- -रा. पाय २, १, १६^क^क
 चराचर^क- पावा ६, १, १२, -र:
 अप्रा ३, ४, ५^क, -रम् आश्रौ
 २, २, १७^क, आपश्रौ ६, ५, ७^क,
 भाश्रौ ६, १०, ५^क, माश्रौ १, ६,
 १, १५^क, वाश्रौ १, ५, २, १७^क,
 हिश्रौ ३, ७, २८^क, भागृ २, २:
 ४^क, हिगृ २, १७, २^क, शध ४५७
 १८^क, -रे विध ५१, ६७;
 -रम्भ्य. बौगृ २, ८, ३३, शुभा
 ५, ३७.
 चराथ^क- था या १०, २१^क
 चरि- पाउ ४, १४०.
 चरित- पाग ३, १, १३, -रम् जैश्रौ
 १२: १, निस् ४, २: ३३,
 कौगृ, -ते काश्रौ ५, ५, २०×५,
 हिश्रौ, लाश्रौ ९, १०. ८
 चरित-निर्वेश^क- -शम् बौध
 २, १, ३७, हिध २, ५, २१९;
 -शस्य आपध १, १८, १२, हिध
 १, ५, ८१^क
 चरित प्रायश्चित्त^क- -त्त हिध
 १, ७, ३४^क

a) सपा ०र<>° इति पाभे । b) विप, नाप, व्यप । c) तु. पागम. । d) स्त्रार्थे
 अण् प्र । e) विप । बस । f) कस उप = वन्दिन्- । g) भावे वा करणे वा ल्युट् प्र । h) =रथ-
 विशेष- । i) द्वस पूष अर्थः ? । j) पाभे पृ १०६४ ४ द्र । k) वैप १ द्र. । l) =वायु- । m) सप्र.
 आपम २, १, ५ आगृ १, १७, १३ प्रम् विशिष्ट पाभे. । n) पाभे. वैप १ सरीसृप् शौ ३, १०, ६ टि द्र. ।
 o) विप । बस. उप. = प्रायश्चित्त- । p) षस्य इति पाठ ? । q) सप्र. आपध. कृत-आ° इति पाभे. ।

चरित-ब्रह्मचर्य^a - र्यं काण्ड ४,
२२, २३, -र्यम् आपध १, ८,
३०, हिध १, २, ११८, -र्यं कौशु
२, ७, १७.
चरित-व्रत^b - त्त भाण्ड १, ८,
१२, -तानाम् वाध १५, १७,
-ताय आण्ड १, २२, २०.
✓चरिताय पा ३, १, १३
चरिता(त अर्थ >)थी^c - थी
कप्र ३, १०, ६
चरित्र^d - पा ३, २, १८४, पाग ५,
४, ३८०, -त्रा आपधौ ७, १८,
१०, बौधौ ४, ६ : ५३, भाश्रौ
७, १४, ७, वैश्रौ १०, १४ ११,
-त्राणि कौसू ४४, २४, -त्रान्
माश्रौ १, ८, ४, ५
१चारित्र- पा ५, ४, ३८
चारित्र्य- न्यम् शध ७७,
७९, ३४१
चरित्र-वत् - वन्तम् आण्ड ४, ८,
१५
चरित्वा आश्रौ ३, ५, ५××, शाश्रौ
चरिष्णु- पा ३, २, १३६, -ष्णु^e
शाश्रौ १, ११, १^२, बौश्रौ ३,
२९ ८^३, शाण्ड २, १, ३०, काण्ड
४१, १३, वाण्ड ५, ९, -ष्णू या
७, २९६.
चरिष्यत् - ष्यत्सु आश्रौ ४, ६, १,
द्राश्रौ १३, ३, १६, १५, २, २,
लाश्रौ ५, ४, १, १०, १, -ष्यन्
काश्रौ ६, ६, २२, काश्रौसं,

-ष्यन्ऽ-ष्यन् काश्रौ २६, २, १,
-ष्यन्तः काश्रौ ५, ९, २, काश्रौस
चर्य- पा ३, १, १००
चर्यमाण- णम् आपध १, २०, ३,
हिध १, ६, १७
चर्या^f - र्यया आपध १, ३१, १९,
-र्या आपधौ ११, ४, ४, १२,
२८, १५, २०, २१, ४, बौश्रौ,
-र्याम् निसू ९, ८ : १३, -र्याया
आपधौ १३, २०, ६, बौश्रौ २५,
२३ १, ३२ . १, -र्यायै बौश्रौ
२०, ३० १३××
२चार- र कौसू १०१, २^१, -रम्^g
कप्र २, ६, ८, अप ५३, ६, ७,
-रे^h कौसू ५१, २, २०
२चारणⁱ - > ण-दार- -रेषु बौध
२, २, ५६
चारयित्वा आश्रौ ८, १४, १, लाश्रौ
२चारित्र- पाउ ४, १७२
चारित्र- -री आपध १, १८, ३०,
हिध १, ५, ९७^१
चर- प्रभु ✓चर् द्र
१चरक^j - पाउ २, ३२, पा ४, ३,
१०७, पाग २, ४, ३१०, -का
चव्यू २ २, ३, -काणाम् भासू
३, २५
चारकीण- पा ५, १, ११
चरक-सौत्रामणी^k - णी द्राश्रौ १३,
४, १४, लाश्रौ ५, ४, २०, शुअ
१, ६३५
२चर(क >)का^l - पावाग ७, ३, ४५

१चरण- ✓चर् द्र
२चरण^m - णम् कौसू १४१, ९;
-णात् पावा ४, ३, १२०, -णानाम्
पा २, ४, ३, -णे पा ६, ३, ८६;
-णेभ्य पा ४, २, ४६.
३चारणⁿ - णः गौध ६, १७,
-णम् आपध १, १४, १३, हिध
१, ४, ४५
चरण-वत् - वतः बौध २, ८, ६;
-वन्त वावूश्रौ ४, १८ २४,
२७, -वान् वावूश्रौ ४, १८ :
२०, २१, ३१
चरण-विद्या^o - > चारणविद्य^p-
-द्या चव्यू ४ ३
चारणवैद्य^q - द्यैः अप २२, २,
४
चरण-व्यूह^r - हम् चव्यू १ : १,
४ २९, ३१, ३३, ३५
चरणव्यूह-श्राद्धकल्प-शुल्ब-
-त्वानि चव्यू २ ३०
चरण-सबन्ध- न्धेन पावा ४, २,
१३८
३चरण^s - (> चरण-स-, चरणिल-
पा) पाग ४, २, ८०^२
✓चरण्य प्रभु ✓चर् द्र
चरम, मा^t - पाउ ५, ६९, पाग ४, २,
६३^१, -म वैश्रौ ८, ७ १५, -मम्
लुसू १, १ . ३, विध २८, १३,
-मया बौश्रौ १०, ४८ २,
-मायाम् बौश्रौ १०, ४८ १८,
१९, ४ : २४, वैश्रौ १९, ६ ३२,

a) विप । बस । b) वैप १ द्र । c) तु पागम । d) सपा चरिष्णु <> जरिष्णु <>
जरिष्णुः इति पाभे । e) शः प्र यगागमश् च उरसं (पावा ३, ३, १०१) । f) =सूर्य-। कर्तरि णः प्र ।
g) भाप । h) = गोचर-प्रदेश- । i) = कुशीलव- । गिजन्ताल् व्यु प्र (पा ३, १, १३४) । j) काऽऽर्यं
इति पाठः ? यनि च अविधि° (पृ ४०९ f द्र.) च शोध (तु आपध) । k) = याग-विशेष- । l) अर्थः-
व्यु च ? । m) = शाखा- । व्यु ? । n) = समानशाखाव्यायिन् । o) = अथर्वशाखा-विशेष- । p) अणि
प्र. (पा ४, २, ५९) उप. वृद्धिर्विभाषया उरसं (पा ७, ३, २०) । q) = परिशिष्ट-विशेष- । r) = [प्रकरणातः] ग्रन्थ- ।
पृ ९८९ f द्र. ।

४८, -मे काठश्रौ ५८, वैश्रौ
 १४, ४ १७, काय ५१, ११,
 -मेण बौश्रौ ६, १५. ५१
 चारमिक- पा ४, २, ६३
 चरमगुण-(>चारमगुणिक-)
 १गुण- टि द्र
 ✓चरम्य पाग ३, १, २७
 चरस्- प्रसृ ✓चर् द्र.
 चरु^१- पाठ १, ७, पाग ३, ४, ७४^b,
 -रव काश्रौ १५, २, १६××,
 हिश्रौ, -रवे बौश्रौ ५, १ १९,
 -रु आश्रौ २, ९, ८, शाश्रौ,
 काश्रौ १५, १, २६^c, अप
 ४८, १०१^d, निघ १, १०^e,
 या ६, ११^f, -रुणा शाश्रौ ५,
 ५, १, आपश्रौ, -रुभि. काश्रौ
 २०, ३, १२, -रुभ्य आमिष्ट
 ३, ८, ३:२, बौपि १, १५ ७४,
 -रुम् आश्रौ १२, ६, ९, शाश्रौ,
 -रुषु माश्रौ १, ७, १, १२, -रु
 काश्रौ २५, ५, ६, आपश्रौ २२,
 २, १२, माश्रौ, -रुणाम् बौश्रौ
 २०, १२ ११, भाश्रौ, -रुन्
 बौश्रौ ५, २ १७, २७, १४
 २३, वैश्रौ, -रो: आश्रौ २, ७,
 ३, आपश्रौ २, ७, ९^g××,
 बौश्रौ, -रौ काश्रौ २०, ८, १,
 वाश्रुश्रौ ४, ४४ ४, वैश्रौ
 चरव्य^१- न्यान् बौश्रौ १, ७ १७,
 ५, १ २५, २६, भाश्रौ ५, १४,
 ६, १४, ८, १, २१, माश्रौ १,
 ७, १, १८, वाश्रौ १, ४, ४, ३१.
 चरु-कपाल- लम् माश्रौ १, ७,
 १, १४.
 चरु-कल्प- ल्प आपश्रौ १३, १३,

१५, १९, १, ६, आमिष्ट २, ५,
 ३ १०, बौष्ट १, ६, ९, ३, ७,
 ११, -ल्पान् हिश्रौ ३, ८, ५५,
 -ल्पेन वैश्रौ ११, १ ८, हिश्रौ
 ५, १, १७, १३, ८, ५
 चरु-तन्त्र- -न्त्रम् अप ६७, १, ८,
 २, ४, ७, ५, -न्त्रेण अप ३९,
 १, ४
 चरु-द्वय- -यम् काश्रौस ४ ६, ७,
 चरु-निष्काष^१- -वम् माश्रौ २, १,
 ३, २८
 चरु-पयो-वत् मीसू ९, ४, ४१
 चरु-पशु- -श्रौ काश्रौ १९, १, १७
 चरु-पशुपुरोडाश- -शौ बौश्रौ १८,
 २४ १७
 चरु-पाकयज्ञ- -ज्ञानाम् कौष्ट १,
 ६, २, शाग १, १०, ४
 चरु-पात्र- -त्रम् कौष्ट ५, २, १२
 चरु-पुरोडाश- -शान् वैध ३,
 ५, ७
 चरुपुरोडाश-गण- -णे आपश्रौ
 २४, ३, २०
 चरुपुरोडाशीय- -यान् आपश्रौ
 २४, ३, २०, बौश्रौ १, ७ १७
 चरुपुरोडाश्य- -श्यान् हिश्रौ ३,
 ८, ६३
 चरु-भैक्ष-सक्तु-कण-यावक-शाक-
 पयो-दधि-घृत-मूल-फलो (ल-उ)
 दक- -कानि गौध २७, १२
 चरु-मुख^१- -खानि बौश्रौ २०,
 २२ : ३, -खेषु बौश्रौ २०, ८ :
 १०.
 चरु-मेक्षण-बर्हिस- -र्हि काश्रौ ७,
 ५, १४
 चरु-शब्द- -ब्दात् मीसू ८, १, ३८.

चरु-शेष- -षम् वाश्रौ ३, ४, ५, ७,
 -षेण बौपि २, १०, ३, वैष्ट ४,
 ४. १५
 चरु-स्थाली- -ली वैश्रौ ११, ९ १२;
 कप्र २, ५, १२, अप, -ली: बौश्रौ
 ५, १ ५, २३, ५ ३, १० : ३;
 १८ ३, २०, ८ ८, भाश्रौ ८, १,
 १७, -लीम् आश्रौ २, ६, ५;
 आपश्रौ १, ७, ५, बौश्रौ, -ल्यः
 गोष्ट १, ३, ९, ७, २, द्राष्ट १, ५,
 १२, अप, -ल्या: अप ४५, २, २;
 -ल्याम् भाश्रौ ५, १४, १२,
 माश्रौ २, १, ३, ४२, कौस् ८९,
 २, अप्राय, -ल्यौ माश्रौ १, ७,
 ३, ८, गोष्ट ४, २, २६
 चरुस्थालि^१-शूर्प-स्फयो(स्फय-उ)
 लखल-मुसल-ध्रुव^१-कृष्णाजिन-
 सकृदाच्छिन्ने (व-इ) धम-मेक्षण-
 कमण्डलु- -लन् आश्रौ २,
 ६, ४
 चरुस्थाल्या(ली-आ)ज्यस्थाली-
 सुक्-सुवे (व-इ) धम-मेक्षणे (ए-इ)
 डापात्र-स्फय शूर्पो (प-उ) लखल-
 मुसला(ल-आ) दि-पात्र-
 -त्राणि वैष्ट ४, ५, ४
 चरु-सुक्-सुव- -वाणाम् विध २३,
 ९
 चरु-हविस्- -विषाम् बौश्रौ २५, ८ :
 १२
 ?चरु (रु-ऊ) जम् आमिष्ट २, ५,
 १२ : ७
 चर्व(रु-अ) र्थ- -र्थात् काश्रौसं ४ : ५
 चर्क- (> चार्केय-) चक- टि. द्र.
 चर्करीत- प्रसृ. ✓कृ द्र.
 चर्ग- (> चार्ग-) १चय- टि द्र.

a) वैप १ द्र । b) वहचरु- इति [पक्षे] भारुडा । c) च इति चौस । d) पर्वत-नामन् । e) मेघ-
 नामन् । f) यत् प्र (पा ५, १, २) । g) = [सलेप-] चरुस्थाली- (तु. सप्र. काश्रौ ७, ५, १४) । उष-
 उप. अधिकरणे घञ् प्र । h) विप. । बस. । ४) हस्तछान्दसव इति गर्गनारायणः ।

✓चर्च पाधा. भ्वा पर. परिभाषणहिंसा-
तर्जनेषु, तुदा पर परिभाषण-
भर्त्सनयो, चुरा उभ. अध्ययने,
चर्चयेयु ऋद्रा १५, १६, २०
चर्चक^१ -क. चव्यू १ ५
चर्चा^२ - पा ३, ३, १०५, पाग ४, २,
६०, ३, ७३०, -र्चा चव्यू १ ५,
-र्चयाम् शुप्रा ३, २०, ४, १८,
९५.
चार्च - पा ४, ३, ७३
चार्विक - पा ४, २, ६०
चर्चा-पद - दानि ऋद्रा ३, ४६
चर्चा-परिहास^३ - सयो शौच
४, ७४
चर्चा-पार - पावाग ३, २, १
चर्चा-मन्त्र - मन्त्रेषु कप्र ३, ८,
२१.
✓चर्चाय, चर्चायते ऋद्रा ३,
१८
चर्चित - तानि ऋद्रा ३, ४५.
चर्चट - पाउष्ठ ४, ८१.
✓चर्च पाधा भ्वा पर गतौ.
चर्मक - पाठभो २, २, ११
चर्मन्^४ - पाठ ४, १४५; पाग २, ४,
३१०, ४, २, ३८, ९०, ५, २,
११६, -र्म शाश्रौ ४, १६, २,
१४, २२, १७, काश्रौ, या २,
५^५, -र्मणः बौश्रौ ६, १४ ९,
माश्रौ २, २, ३, ३८; वैश्रौ,
पा ५, १, १५, -र्मणा शाश्रौ
१७, ३, ५, ५, ६, ९, काश्रौ,
-र्मणाम् बौध १, ५, ३७,

-र्मणि काश्रौ ४, ८, २××,
आपश्रौ, -र्मणी द्राश्रौ १०, २,
१२, लाश्रौ ३, १०, ११, -र्मन्
आपश्रौ १३, २१, ३१, बौश्रौ ६,
२८: ४५××, -र्मणि काश्रौ
१, १०, ४, बौश्रौ १५, १९: १,
अप
चार्म - पावा ६, ४, १४४
चार्मण - पा ४, २, २८
चर्म-कर्त^६ - तं बौश्रौ १६, २०
३, २१: १, ३, -र्ते आपश्रौ २१,
१८, ४, १९, ९६, बौश्रौ १६, २२
४^६, हिश्रौ १६, ६, २८^७
चर्म-कर्त^६ - तं विध ५१, ८
चर्म-कार - र. वैध ३, १५, ५,
-रस्य शंघ ४३४
चर्म-चीर-वासस् - सा विध ९४, ८
चर्म-जीव - वात् वैध ३, १५, ६
चर्म-जीविन् - वी वैध ३, १५, ५^१
चर्मण्य - ण्यम् बौश्रौ १५, १४
११, द्राश्रौ ५, ४, २, लाश्रौ २,
८, २
चर्मण्य-वत्^८ - वते तैप्रा १३, १३,
भाशि ६३
चर्मण्वती^९ - पा ८, २, १२, पाग
४, २, ९५^१
चार्मण्वतेयक - पा ४, २, ९५
चर्म-तूणी^{१०} - ण्यः काश्रौ १५, ३,
१९
चर्म-नद्ध - द्ध आपश्रौ १९, ६, २
चर्म-पद् - क्षे आपश्रौ १०, २०,
१३.

चार्मप (क्ष>) क्षी^{११} - क्षीभ्याम्
बौश्रौ १२, १६. २३, १८, १९:
२, -क्ष्यौ बौश्रौ १२, १६ २२,
१८, १६. २
चर्म-पूरस् पा ३, ४, ३१
चर्म-प्रशंसा - सा ऋद्रा २, १, २८
चर्म-मण्डल - ले वाश्रौ ३, २, ५,
३८^६
चर्म-मय - य वाध ३, ११, बौध
१, १, ११, -यम् वैध ३, ४, १;
-याः आपश्रौ १८, १०, २७;
हिश्रौ १३, ४, १३, -यै बौश्रौ
१८, २४ ८
चर्म-मन् - मन्म् शुप्रा ३, ९२^१
चर्म-वारवाण-वाणिज्य-कारिन्-
-री वैध ३, १५, ११
चर्म-हविस - वि कौस् ६१, ६
चर्मा(र्म-अ)न्तर्() वैश्रौ १५, ३: ९
चर्मा(र्म-अ)वनद्ध - द्धम् विध ९६
४५
चर्मिक - पा ५, २, ११६, पाग ५, १,
१२८
चार्मिक्य - पा ५, १, १२८
चर्मिन् - पा ५, २, ११६, पाग ४,
१, १५८^०, २, ३८^०
चार्मिकायणि - पा ४, १, १५८
चार्मिण - पा ४, २, ३८
चार्मिणि - पा ४, १, १५८
चर्मिय - पा ४, २, ९०
चर्मशिरस्^{१२} - रा या ३, १५
चर्च - प्रष्ट ✓चर् द्र
✓चर्च पाधा भ्वा पर अदने

a) =संहिता-पाठप्रकार-विशेष-। b) भाप, नाप (चर्चक-। c) तु पागम । d) द्रस उप.
=क्रम-पाठ-। e) वैप १ द्र । f) =चर्म-खण्ड-। उप <✓कृत् [छेदने]। g) सपा चर्मकर्ते <>
चर्ममण्डले इति पाठे । h) श्रै (°कृते) इति पाठः १ यनि शोघ (तु आपश्रौ बौश्रौ) । i) =चर्म-कार-, °जीव-,
°जीविन्-। उस्. । j) तु ० मूको च । k) =नदी-विशेष-। l) तु पाका, पागम । चर्मती- इति
अण्डा, । m) =इषु-घानी-। n) विप । विकारे अण् प्र । o) व्यप । p) तु पाका । q) =ऋषि-
विशेष-। व्यु ? ।

चर्षणि^a- पाठभो २,१, २१४\$,
-णय अप ४८,७८, निघ २,
३, -णि निघ ४, २, या ३,
११,५, २४०, -णिभ्यः आश्रौ
३,७,१३, शाश्रौ १, ८, ११, ६,
१०,९, माश्रौ, -णी ऋप्रा २,
६१, -णीनाम् आश्रौ ७,४,
४, शाश्रौ

चर्षणि-प्रा^b- प्रा शाश्रौ १७, ९,
५, बौश्रौ २५, २२ १०, २६,
१५ : ६, माश्रौ

चर्ष (णि >) णी-धृत्^c- धृत्तः
आश्रौ ७,५,९, शाश्रौ ३,१७,१२,
आपश्रौ, -०धृत्त शाश्रौ ७,१०,
१४ १०,९, १६, आपश्रौ १२,
२८,४, बौश्रौ, या १२,४००,
-धृत्तम्^d आश्रौ ६,१, २, शाश्रौ
९, २, ३, ऋप्रा २, ३, ५१, साअ
१, ३७४, -धृतौ अप १,४१,८,
अशा ११,८

चर्ष (णि >) णी-सह^e- -सहम्
ऋप्रा ५, २८, ९, ८, -सहाम्
शुप्रा ३, ८३, १२९

चल् पाधा भ्वा पर कम्पने, तुदा
पर विलसने, चुरा उभ मृतौ,
चलते अप ५७, १-३, २, ४, २,
६, चलति या ४, ३, चलन्ति
अप ७०^f, २, २, चलेत् अप
५७,४,६

चालयति वैगृ ४, १ १७,
चालयन्ति बौध २,२,५६, चाल-
येत् भाश्रौ १०, १२, १३, माश्रौ

चञ्चल- पाठभो २, ३, ९८^g

चञ्चलीक^h- पाठना ४, २०

चलⁱ- पाग ३, १, १३४, -ल आग्निगृ

२, ६, १ ६, -लम् अप ७०^j,

२, ५^k, आपध १, १९, ६, हिघ

१, ५, १०८, -ला अप ६८, १,

३८, -लानाम् अप ६४, ३, ४,

-लानि आज्यो ४, ४, ७, ४

चल-त्व- -त्वम् अप ६४, ३, ४

चल-दर्शन- -नम् अप ५७,

१-२, ८, ३, ६

चल-निकेत^l- -त्तम् आपध १,

२२, ४, हिघ १, ६, ४

चल-विक्रान्त^m- -न्ता. अप ६८,

१, ३८

चलत्- -लत् गौध ११, १०

चलत्-कर्मन्- -र्म आज्यो ६, ५

चलत् तुन्द- > ⁿन्दिन्- -न्दी

बौध १, ५, ८६

चलन- > ^oन-पतन-सर्पण-

-णानाम् गौध ८, २

चलन-शब्दा(ब्द-अर्थ)- -र्यात्

पा ३, २, १४८

चलन-समर्थ- -र्थ या १४, ६

चलना- -नायाम् गौध २२, २८

चलाचल^p- पावा ६, १, १२, -लास

या ४, २७^q

चलित- -ते अप ७०, ७, २

चलित-त्(म >)मा- -मा या

३, १०.

चलित-दन्त^r- -न्तम् अप ३७,

८, १

चाचलि- पावा ३, २, १७१

चाल- पाग ३, १, १४०

चालयित्वा वैगृ १, २० : ११

चलमोदय-, चवर्ग-, चवायोग-,

चवाहाहैव-युक्त- च द्र

चव्य^s- > चव्य-दाडिम- -मम् शंघ

२२०

चष^t पावा भ्वा उभ भक्षणे

चप^u- -षः वावृश्रौ ४, १९ २९, ३०.

चषक^v- पाठ २, ३२, पाग २, ४, ३१.

चषाल^w- पाठ ४, १०७, पाग

२, ४, ३१, -ल आश्रौ ९,

७, १८, -लम् शाश्रौ १४,

४०, ९, ४१, ८, काश्रौ ६, १, २७,

३, १४, ३, ३, १२, आपश्रौ,

-लस्य बौश्रौ ४, १ : २८,

-लात् आपश्रौ ७, ३, ६, भाश्रौ

७, २, ११, माश्रौ १, ८, १, १७,

वाधूश्रौ, -लानि आपश्रौ १४, ६,

११, हिश्रौ ९, ८, २८, -लाय

बौश्रौ ४, १ : ३०, -ले बौश्रौ

११, २ १८, २८, ७:१३, वैश्रौ

२०, २४ : ३, -लेन वाधूश्रौ

४, ६३ ९, -लेषु बौश्रौ १७,

१२ : ८

चषाल मा(ग >)गा^x- -गा लाश्रौ

८, ३, ६, ८

चषाल-आजन- -नम् बौश्रौ १८,

२१ १४, २६, ३२ १७

चषाल-मुख^y- > ^zख-तरसपुरोडा-

शोर(१)^z निष्ठुसव-अह्नसव-क्षत्र-

सव-भूमिसवौ (व-ओ) षधिसवौ

(व-ओ) दनसव-वनस्पतिसव-

-वानाम् शाश्रौ १४, ७३, ३

चषाल-वत्- -वन्त आपश्रौ ७,

२८, २, हिश्रौ ६, ८, ६, -वान्

बौश्रौ २०, २५ : ७

चषाल-संमि(त >)ता- -ताम्

आपश्रौ १४, ६, १०, बौश्रौ १७,

१२ ७, २६, २३ ९, हिश्रौ ९,

८, १८

a) वैप १ द्र.। b) पांशे वैप १, १३१७ ८ द्र। c) < ^zचञ्च् इति। d) = चञ्चरीक-।
e) भावे कर्तारि च कृत्। f) विप.। बस। g) = ओषधि-विशेष-। व्यु १। h) = षष- [मन्त्य-विशेष-]।
व्यु. १। i) = पात्र-विशेष-। व्यु १। j) = एकाह-। k) पाठः १ षास-वनि^o इति शोधः।

चपाल-होम^a - > चपालहोमीय-
 -यम् बौश्रौ १०, ५० : ८
 चपाला(ल-अ)थै- थै काश्रौ २२,
 ३, ४८
 चपाले(ल-ई)क्षण- -णात् काश्रौ
 ८, ८, १३
 ✓चह पाधा. म्वा पर, चुरा उभ
 परिकल्कने
 चाकशत्-, श्यमान- ✓काश् द्र
 चाकुपान- -न आपश्रौ १४,
 २८, ४^b, १६, २६, ६०, १२०,
 वैश्रौ १८, १९ : १^b, २१, १५ :
 १५^b, हिश्रौ ११, ७, ५१^c
 चाक्र- चक्र- द्र
 चाक्रपाण- -णः हिश्रौ १५, ७, १२^b
 चाक्रपालेय- प्रभृ चक्र- द्र
 १, २ चाक्षुष- ✓चक्ष् द्र
 चाखायितुम्, यित्- ✓खन् द्र
 चाङ्कुण- चङ्कुण- द्र
 चाचलि- ✓चल् द्र
 चाटकायन- २चटक- द्र
 चाटकैर- १चटक- द्र
 चाट्ट- पाउ १, ३, पाग १, ४, ५७
 चाट्ट-कार- पा ३, २, २३
 चाणक-, क्य- चणक- द्र
 चाण्ड- ✓चण्ड् द्र
 २चाण्ड- २चण्ड- द्र
 चाण्डा- -ण्डा अप ४८, ११५^f
 चाण्डाल-, लक-, लकि-, ली-
 प्रभृ चण्डाल- द्र
 चातन- प्रभृ ✓चत् द्र
 चातप- पाउभो २, २, २१२
 चातुराश्रमिन- प्रभृ चतुर- द्र
 चातुर्य- चतुर- द्र.
 चातुर्वर्णिक- प्रभृ चतुर- द्र

चात्र^d -त्रम् अप २२, ७, १, ८, २,
 १०, १, -त्रस्य अप २२, ८, १,
 -त्रात् अप २२, ६, ५, -त्रे अप
 २२, ७, ३
 चात्र-पीडक^e -कौ अप २२, ६, ५
 चात्वारिंश- चतुर- द्र
 चात्वाल^f - पाउ १, ११६, -ल
 आपश्रौ ७, ४, १, ११, ५, ४, ५,
 माश्रौ १२, ५, ५, वाधुश्रौ,
 -लम् आश्रौ १, १, ६, शाश्रौ ६,
 १०, ८, काश्रौ, -लस्य काश्रौ
 ९, ३, ९, बौश्रौ ५, ५ २५××,
 माश्रौ, -ला आपशु १४, ३^f,
 -लात् काश्रौ १, ८, ३८, आपश्रौ
 ११, ५, ४××, बौश्रौ, -लान्
 बौश्रु १८ १०, -ले आश्रौ ३,
 ५, १, ५, ३, १३, शाश्रौ ५, १८,
 १२, ६, ११, १७, काश्रौ
 चात्वाल-ग (त >) ता- -ताभ्यः
 काश्रौ २५, १३, २३
 चात्वाल-देव(ता>)व- -त्वम् शुअ
 १, ४६९
 चात्वाल-देश- -शम् द्राश्रौ ३, ३,
 २७, लाश्रौ १, ११, १८, -शात्
 काश्रौ १७, १, १८, माश्रौ ६,
 १, ५, ८, वाश्रौ २, १, ४, १५,
 -शे बौश्रौ १६, ९ ११, २५,
 २४ : २४, द्राश्रौ ६, ३, २२,
 लाश्रौ २, ११, १६.
 चात्वाल-भूमि- -मौ जैश्रौका १२७
 चात्वाल-मार्जन- -नात् आश्रौ ५,
 ३, ५
 चात्वाल-वत्- -वत्सु आश्रौ १, १, ६
 चात्वाल-समीप- -पे द्राश्रौ १५, १,
 ३, लाश्रौ ५, ९, २

चात्वाल-सारि(न >)णी- -गीः
 बौश्रौ २५, ५ ४
 चात्वाल-स्थान- -नात् आपश्रौ १६,
 १५, १
 चात्वाला(ल-अ)वेक्षण-प्रभृति- -ति
 द्राश्रौ ३, ४, ३४, लाश्रौ १, १२,
 १९
 चात्वाला(ल-अ)न्त- -न्ते माश्रौ २,
 ३, २, ९, १२, १५, ५, २, ३३;
 ३, ३०, ४, ५, १२
 चात्वाला (ल-अ) वट- -टान् हिश्रु
 ४, ४४
 चात्वालोल(ल-उ)त्कर- -रयोः वैश्रौ
 १४, १८ १, -रौ शाश्रौ ५,
 १४, २××, काश्रौ
 चात्वालोल(ल-उ)त्कर-शामित्रो(त्र-ऊ)
 वध्यगोहा(ह-आ) स्तावा (व-आ)
 मीश्रीया(य-अ)च्छावाकवाद-
 -दम् वैताश्रौ १८, १३
 चादि-, चानुबन्ध- च द्र
 चान्दन-, चान्द्र-, १चान्द्रमस-
 ✓चन्द् द्र
 २चान्द्रमस-, चान्द्रमसायनि-
 २चन्द्रमस- द्र
 १चान्द्रायण- ✓चन्द् द्र
 २चान्द्रायण^g- -णा बौश्रौप्र ५ १;
 २३ : ३
 चान्द्रायणिक- ✓चन्द् द्र
 १चाप- १चय- टि द्र
 २चाप- पाग २, ४, ३१^h.
 चापल- १चपल- द्र
 चापलायन- २चपल- द्र
 चापल्य- १चपल- द्र.
 चापट्टक्य- चपट्टक- द्र
 चाफट्टकायन-, ट्टकि- चफट्टक- द्र.

a) सप्त पृष = [उपचारात्] रथाप्र- (तु संस्कृतः सूची) । b) पामे वैप १, ११७१ III द्र. ।

c) पामे वैप १, ११७१ II द्र । d) चत्र- इत्यनेन सन्ध्यायता द्र । e) = पात्र-विशेष- । f) वैप १ द्र. ।

g) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । h) तु पागम. ।

चामत्त^० जैगृ २, १ २७

चामर- प्रभृ चमर- द्र

चामरज्जु^b- पा, पाग ५, ३, १००

चामसायन-, चामस्य ✓चम् द्र.

✓चाय^० पाधा स्वा उभ पूजानिशा-
मनयो

चायत्- -यन् वृदे ७, १२९, या ६,
२८, ११, ५

चायन- > णीय- -य वृदे ७,
१२९, -यम् या ४, ४, १२, ६,
१६

चायनीया(य-अ)अ^d- -ग्राणि
या १२, १८

२चायमान- न या ४, १४

चायितृ- -ता या ५, २४

चौचाय्य- -य्य^० वागृ ५, ९, १२,
३, हिगृ १, ४, ३

१चाय- १चय- द्र

२चाय- ✓चि द्र

१चायमान- १चयमान- द्र

चैचायि अप ४८, २१

१-२चार- प्रभृ ✓चर् द्र

चारकीण- चरक- द्र

चारचक्षुस्-, १-२चारण- प्रभृ
✓चर् द्र

३चारण-, चारणविद्य- वैद्य-
२चरण- द्र

चारमगुणिक-, 'मिक- चरम- द्र

चारयित्वा, चारायण-, चारायणीय-,
१-२चारित्र-, चारिच्य-,

चारिन्- ✓चर् द्र

चारु^१- पाठ १, ३, पाग ५, १, १२२^६,

६, ३, १६०, ८, २, ९^६, -चरव^१

आपश्रौ ६, २३, १, भागृ २,

२० १२, -चरु^१ आपश्रौ २,

१०, ४, आपश्रौ १४, २, १३,

बौश्रौ, ङ्या ८, १५^६, ११, ५,

-चरु आपश्रौ ६, ३, १, शाश्रौ ९,

५, २, आपश्रौ, या ८, १५,

-चरुम् आपश्रौ २, १३, २,

शाश्रौ १, ५, ९^१, आपश्रौ १९,

३, २, २४, १२, ६^१, वाश्रौ, या

१०, ३६, -रौ पावा ३, २, ४९

चारिमन्- पा ५, १, १२२

चारुचामर-ह (स्त >) स्ता-

-स्ताभि अप १९^१, ४, ४

चारुता-, चारुत्व- पा ५, १, १२२,

-चरुम् आपश्रौ ३, ८, १, शाश्रौ १३,

४, ३

चारुदर्श(न >)ना^d- -नाम् अशा

५, ६, -०ने अशा ५, ८

चारुदेष्ण- पाठभो २, २, १२९

चारुनद^d- पाग ८, ४, ३९^६

चारुना(स >)सा^d- -साम् विध
१, २३

चारुपर्व-मनोरम- -मः अप १८,
३, ५

चारुबुद्धिमत्- -मन्तम् आश्रिगृ २,
७, ६ : ३६

चारुमत्- पा ८, २, ९

चारुलोच(न >)ना^d- -०ने अशा
४, १

चारुसर्वा(र्व-अङ् >)ङ्गा^d- -०ङ्गे
अशा १, ५

चार्व- पा ५, १, १२२

चार्व(रु-अङ् >)ङ्गी^d- -०ङ्गि विध
१, ३२

चार्वी(रु-आ)वाट, त- पावा ३, २,
४९

चार्वेय- चर्क- द्र

चार्वी- चर्ग- द्र

चार्वी-, चार्विका- ✓चर्च^१ द्र

चार्वी-, 'र्मण-, 'र्मण्वलेयक- प्रभृ.
चर्मन्- द्र

चाल्यकम् अप्राय ६, २

चाव^१- -ष अप १, ३२, ३, ऋप्रा १३,
५०, माशि १३, ३, याशि १,

१७, माशि ९६^१, -षस्य अप
७०^३, ३, ५, -वे बौश्रौ २, ५ :
२२

चाष-काक-कलापिन् - -पिनाम्
कौशि ६९

चाहलोप- च द्र

✓चि^१ पाधा स्वा चुरा उभ. चयने,
चयसे अप ४८, ११५, निघ

४, १, या ४, २५^६

चिनुते बौश्रौ १०, ३५ २६××;
वाधुश्रौ, चिनोति काश्रौ १२, १,

२५, १८, ६, ७, २५, ७, १५,
आपश्रौ, चिन्वते आपश्रौ १९,

१४, ४, बौश्रौ, चिन्वन्ति काश्रौ
१६, ५, ९, वाधुश्रौ ३, ८१ ६,

वाश्रौ, चिनवत् हिश्रौ ११, ८,
१४^१, चिन्विन् आपश्रौ १६,

३४, ४, हिश्रौ ११, ८, १५^१;
चिनुष्व अश्र ११, १^१; चिनुत

a) स्वधा चामत्त इति पाठ १ ०धाऽऽचामत्त इति शोष । ०धा, अत्त इति ० १ । b) अर्थ व्यु च १ ।

तु पाका । वायरज्जु- इति भारुडा, वामरज्जु- इति पागम । c) या ३, १३ पा ६, १, ३५ परामृष्ट द्र । d) विप ।

बस । e) पामे वैप १, १३ १८ j द्र । f) वैप १ द्र । g) तु पागम । h) पामे वैप १ बह्वी पै १९, २८,

११ टि. द्र । i) क्वचित् वा क्वि । j) पामे वैप १ शुश्रूषण्याम् तै ३, ३, २, २ टि द्र । k) पा ६, १,

५४, ७, ३, ५८ पावा १, ४, ५१ परामृष्टः द्र । l) पामे वैप १, १३ १९ g द्र । m) चिन्वन् इति पाठ १ यनि.

शोष (तु. आपश्रौ) ।

बौश्रौ १५, १४ : २, ऋचिचिनुत
भाशि ७, १०३, चिन्वीत आपश्रौ
१४, २३, ९××, बौश्रौ, चिनुयात्
बौश्रौ २३, १४ : २१, वाधूश्रौ,
चिनुयु वाधूश्रौ ३, ८१ . ७,
लाश्रौ ८, ८, ४५
चिकाय बौश्रौ १८, ४५ : ५,
वेष्णे बौश्रौ २, १ १५
चीयते आपश्रौ १६, १५, ६१,
१९, ११, २, बौश्रौ
अचिक्रीषत भाशि १०३१
२चय- पाग ५, २, ६४, ६, १,
१९९
चय-क- पा ५, २, ६४
चयन- -नम् काश्रौ १६, ७, १२,
१७, १, ११, आपश्रु १२, ४,
हिशु ४, २६, -ने वाश्र १७ .
१७
चयन-पुरीषनिवपन- -ने काश्रौ
१७, ७, ३
चयना(न-अ)न्त^१- -न्तम् हिपि
१२ . ९^१
२चाय- पा ३, ३, ४०
चिकया/कृ, चिकयामक पा ३,
१, ४२१.
चिक्रीषमाण- -णः काश्रौ १६, १, ५०
चिचि^१- चित् काश्रौ १७, १,
१२, आपश्रौ १, २२, ३, १६,
१४, ७, बौश्रौ, चित काश्रौ २,
४, ३३××, आपश्रौ, चिते आपश्रौ
१७, १३, ३, बौश्रौ १०, २३ :
१४, १६^१, वैश्रौ १८, १४ . ३२,
३३, १९, ६ : ६७
चित, वा^१- -त् हिश्रौ १२, ७, २४;

कौसू ८५, ११, -तम् आपश्रौ
१६, ३४, ४१, वैश्रौ, कौसू ८०,
५२^१, -ता आपश्रौ १४, २३,
६, -ता वाश्रौ ३, २, २, १५^१,
या ५, ५, -ताम् लाश्रौ ८, ८,
१५, आमिगृ, -तायाः आमिगृ
३, १०, २२, -तायाम् आमिगृ
३, ४, २. १५××, बौपि ३, ६, ४^१,
-ते आपश्रौ १४, २३, ९, माश्रौ,
-तेन अप १, १०, ५
चित-तूल-भारिन्- -रिषु पा ६,
३, ६५, पावा १, १, ७२
चिता(ता-अ)भि- -भौ अप ३१,
९, २
चिता-धूम-सेवन- -ने विध २२,
६६
चिता-पूर्व- -र्वम् वैगृ ५, ३ १७
चिता-प्रमाण- -णम् वैगृ ५, ३
७
चिता(ता अ)स्थि- -स्थीनि वैगृ
५, ६ २२, ७, ६ १०
चितो(ता-उ)देश- -शम् वैगृ ५,
३ ४
चितवत्- -वति वैश्रौ १८, १२ :
२४
चिचि^१- -तयः आपश्रौ १९, १५,
४, बौश्रौ १९, ८ . ४, १०
५४, माश्रौ, -तिः आपश्रौ १४,
२३, ६××, बौश्रौ, -तिभ्य
शाश्रौ ९, २४, ९^१, -तिम्
शाश्रौ ४, १४, ९, काश्रौ १७,
३, २२××, आपश्रौ, ऋसाश्रौ ६,
१, ७, ११^१, २, १, १४^१, ३,
१५^१, ५, १३^१, ऋहिश्रौ ११,

७, २९^१, १२, १, ४३^१, -तिम्
ऽ-तिम् आपश्रौ १६, ३५, १, २,
माश्रौ, -तिषु बौश्रौ १९, ५ :
१७, ८ ४, हिश्रौ १२, १, १,
द्राश्रौ १४, ४, ९, लाश्रौ ५, ८,
९, -ती बौश्रौ १९, ८ ५,
१० ५४, माश्रौ, -तीनाम्
माश्रौ ६, १, ६, १३, वाश्रौ २,
१, ६, ५, -तीभ्याम् तैप्रा ३,
७^१, -ते आपश्रौ १६, २१, २,
१७, ४, ९, वैश्रौ १९, ५ १;
हिश्रौ, -तेऽ-ते आपश्रौ १४,
८, ५, -तौ शाश्रौ ४, १४,
१२, काश्रौ २२, ६, १५,
२५, ७, १९, आपश्रौ १६, १५,
१××, माश्रौ, -त्या आपश्रौ
१५, १७, ५, १७, ११, ३;
बौश्रौ, -त्या आमिगृ ३, ७,
३ ३१, बौपि २, ३, ५;
-त्याम् आपश्रौ १६, २४, ४;
१७, ४, १३, वाधूश्रौ ४, ११९ :
३, वाश्रौ २, १, ८, ६, वैश्रौ १९,
५ १३, हिश्रौ ११, ७, ३६;
१२, १, ४६, आमिगृ २, ६, ८ :
५, -त्याम्ऽ-त्याम् माश्रौ ६,
१, ५, ७××, वाश्रौ
चिति-क्लृप्ति- -सि बौशु ७ :
२०, -प्त्या आपश्रौ १६, ३४, ३;
बौश्रौ १०, ३६ १७××, वैश्रौ
१८, २१ . २९, हिश्रौ ११, ८,
१४.
चिति-पुरीष- -षे काश्रौ १७, ७,
१०, १४
चिति-प्रणयन- > °नीय- -यम्

a) विप । बस. । b) सपा चयनान्तम् <> चित्यन्तम् इति पाप्मे । c) °कीर्षं इति पाठः
यनि शोध । d) वैप १ द्र । e) विप, स्त्री नाप (श्व-चित्या- L लाश्रौ आमिगृ प्रभृ ।) । f) °त्तम् इति
पाठः यनि. शोधः (तु सप्र शौ १८, ४, १४) । g) पाप्मे वैप १, १३२० ८ द्र । h) चिताया इति B ।
i) माघ., नाप. । j) सपा. चितिभ्यः <> चित्यभिभ्यः इति पाप्मे. । k) पाप्मे वैप १, १३२० f द्र. ।

बौश्रौ २४, १८ : १५
 चिति-भस्मन्- स्म अप ३५,
 १, १३
 चिति-वत् काश्रौ २१, ३, २१
 चिति-स्तोम- म आपश्रौ २२,
 ६, १, हिश्रौ १७, २, ४६
 चिति-होम- मा वाश्रौ २, १, ८,
 १५, -मान् माश्रौ ६, १, ८, १५
 चि(ति>)ती-मुख- ख विध
 १, ३
 चित्य(ति-अ)दिन^b- ङविनभ्य °
 आपश्रौ १६, २१, ३, माश्रौ ६,
 १, ६, १४, वाश्रौ २, १, ६, ५,
 वैश्रौ १८, १६ . २८, हिश्रौ ११,
 ७, ४, -नीनाम् आपश्रौ १४,
 ८, ६, हिश्रौ १०, ८, २३
 चित्य(ति-अ)न्त- न्ते बौश्रौ
 २२, ७ : १८, २०, हिश्रौ ११, ८,
 २२, आमिगृ ३, ६, १ : ८, ७, ३ :
 ३१, बौपि १, ८ . ७, २, ३, ४
 चित्य(ति-अ)न्त^a- न्त
 आपश्रौ १७, १, १०××, हिश्रौ
 १२, १, ७, २०, २९, -न्तम्^d
 आमिगृ ३, ७, ३ २९, बौपि २,
 ३, २
 चित्य(ति-अ)न्वारब्ध- षध.
 काश्रौ १८, ५, ९
 चित्या(ति-आ)दि-लक्षण- णे
 कप्र ३, २, ८
 चित्य^e- त्य-ऽत्य बौश्रौ १४, १९:
 १२, -त्यम् काश्रौ १८, २, १,
 १३, ३, १९, ४, १, मागृ १,
 ३, ४, -त्यस्य शाश्रौ ९, २५, १,
 १०, ७, १०, काश्रौ १६, ७, ३१,

१८, ६, ३४, चात्र ४० : ११,
 -त्ये काश्रौ १८, ५, १४.
 चित्य-नामन्- म काश्रौ १८,
 ६, २२
 चित्य-यूपो(प-उ)पस्पर्शन- >
 ंन-कणक्रीशा(श-अ)क्षिवेपन-
 -नेषु गोयु ३, ३, ३२, द्रागृ २, ५,
 ३५
 चित्या(त्य अ)ग्निचित्या- त्ये पा
 ३, १, १३२
 चित्या(त्य-आ)रोहण- -णम्
 काश्रौ १८, ३, ४
 चित्या(त्य-अ)शक्ति- -कौ काश्रौ
 १८, ६, ३२
 चित्यो(त्य-उ)पस्थान- -नम्
 काश्रौ १७, ६, १
 चित्या^f-> चैत्य^g- त्यम् आगृ ३,
 ६, ८, वागृ १५, ४, -त्यस्य
 माश्रौ १, ५, १, २४, ४, ७, ३,
 वाश्रौ १, ४, १, १०^h, -त्याय
 आगृ १, १२, १ⁱ, -त्येषु अप
 ७०^३, २१, १.
 चैत्य-तैल-परिस्त्रव- -वा.
 अप ६४, ६, ८
 चैत्य-हुम- -माणाम् अप
 ७०^३, ११, १९, २४
 चैत्य-यज्ञ- -क्षे आगृ १,
 १२, १.
 चैत्य-वृक्ष- -क्षः अप ७०^३,
 ७, १०, १५, ७१, १०, ३, ११, ३,
 -क्षम् बौध १, ५, ५२, -क्षाः
 अप ७१, १०, १
 चैत्यवृक्ष स्तम्भ-पतन-
 -ने अप ७२, ३, ९

चैत्यवृक्षा(क्ष-अ)भिघात-
 -नेषु अप ५८^३, ४, ३.
 चैत्यवृक्षो(क्ष-उ)द्भव-
 -वानि शंघ १९७.
 चैत्य-शुष्क-विरोहण- -षे
 अप ७१, १, ४, १६, ३.
 चित्वा काश्रौ १८, ४, १३, २५, १४,
 १, आपश्रौ
 चिन्वत्- न्वते लाश्रौ ८, २, २३;
 -न्वन् आपश्रौ १६, २१, ८;
 वैश्रौ १९, १. १, हिश्रौ ११, ७, ७.
 चिन्वान- न आपश्रौ १६, १३,
 ११××, बौश्रौ, अप्राय ६, २^३.
 चीयमान- नम् जैश्रौप १९, -चे
 काश्रौ २२, २, १; माश्रौ ५, २,
 १६, २३; वाधुश्रौ ४, ११४ . ४;
 द्राश्रौ २, १, ८, १२, लाश्रौ १, ५,
 ५, ९.
 चेतव्य, व्या- न्यः आपश्रौ १९,
 १४, ६, बौश्रौ १९, १ : ११;
 हिश्रौ २३, ३, ४; -व्या आपश्रौ
 १७, २६, १
 चेतु- तार वृदे ६, ७^३, -तु हिश्रौ
 २३, ३, ३३
 चैत्यत्- -व्यत. बौश्रौ १०, २१ :
 १३, -व्यत्सु द्राश्रौ १४, ४, १;
 लाश्रौ ५, ८, १, -व्यन् माश्रौ ६,
 १, ५, ३.
 चैत्यमाण- -णः आपश्रौ १६, १, १;
 १९, ११, ३, बौश्रौ, -णस्य शाश्रौ
 ९, २२, १, -णाः काश्रौ १२, १,
 १५, हिश्रौ १६, १, ३५;
 -णानाम् शाश्रौ ९, २२, ६.
 चि^k वेज्यो १८

a) विप. । बस. । b) नाप । 'अग्न्यर्था चिति [=इष्टका]' इति कृत्वा कस. परनिपातः । c) पामे.
 पृ १०७२] टि द्र. । d) पामे पृ १०७२ b द्र e) वैप १ द्र. । f) = चत्वर- । g) विप., नाप ।
 तत्रभवार्थे ण् प्र । h) ंव्य° इति पाठः! यनि. शोध(तु. माश्रौ.) । i) अर्थस्य कृते तु. Old टि. द्र 4
 j) पामे. वैप १, १३२० h द्र. । k) चित्रा-नक्षत्र-बोधक- ।

चिकियां ✓कृ ✓चि द्र
 चिकार- (> चैकार्य- पा) पाग
 ४, २, ८०
 चिकित^a- (> चैकित्य- L > चै-
 कित-] पा.) पाग ४, १, १०५,
 २, १११, -ता: ^b बौश्रौप्र ३१ ३
 चिकित-कालबव-मनुतन्तु-बभ्रु-यज्ञ-
 वल्कौ (लक-श्रौ) लोन्त्ये (न्य-ई)
 मंरि-बृहदग्नि-साशित्य-वारकि-
 तारकायण-शालावत- -ता
 हिश्रौ २१, ३, १२
 चिकित-गालब-कालबव-मनुतन्तु-
 कुशिक- -कानाम् आश्रौ १२,
 १४, २
 चिकित-मनुतन्तौ(न्तु-श्रौ)लकि-
 वालकि-यज्ञवल्को(लक-उ)लक-
 बृहदग्नि-बभ्रु-गालवि-शालावत-
 शालङ्कायन-कालबव- -वा.
 आपश्रौ २४, ९, १.
 चिकितान-, फिकिति-, चिकित्व-,
 °त्वस्-, °स्सक-प्रभृ ✓कित् द्र.
 चिकिन- पा ५, २, ३३
 चिकीर्षत्- प्रभृ ✓कृ द्र
 चिकीर्षमाण- ✓चि द्र
 चिकुर- पाउभो २, ३, ५२.
 ✓चि L, चु] कक् पाधा चुरा. पर.
 व्यथने.
 चिकक- पाका ५, २, ३३.
 चिककण- (> ण-कन्थ- पा.) पाग
 ६, २, १२५.
 चिककश^c- शेषु कौस् २१, १४.
 चैककश- शम् कौस् ४८, ४१.

चिक्यत् ✓कि द्र
 चिक्रि^d- -कि: अप ४८, ११६†
 चिखल्ल- पाग ६, ३, १०९°.
 चिञ्चा^e- पा, पाग ४, ३, १६५
 ✓चिद् पाधा भ्वा पर परप्रेष्ये
 ✓चित्^f पाधा भ्वा पर संज्ञाने, चुरा
 आत्म संचेतने, षचेतति आश्रौ
 ८, २, २१, ऋप्रा ८, ४५; अचेतत्
 आश्रौ ३, ७, ६†
 षअचेति वृदे ६, ८५, साञ १,
 ४४७, उनिस् ५ १६
 चेतयसे या ५, ५, चेतयध्वम् या
 ७, २†, चेतयानि बौश्रौ ७, १२ :
 ३०, ४३, ५५
 २ःचित्^h- चित् काश्रौ ७, ६, १३,
 आपश्रौ ४, १०, ४, १०, २२, ८;
 बौश्रौ
 षचित्-पतिⁱ- -ति: काश्रौ ७,
 ३, १, आपश्रौ १०, ७, १०,
 १२, बौश्रौ ६, २२०, २०, ८ :
 २१, भाश्रौ १०, ५, १, माश्रौ
 चिदा(द्-आ)नन्द- न्दाय शैशि
 ४
 चितयत्- -यन्तम् आमिष्ट २, ५, १.
 ३१†
 षचितयम् लाश्रौ ९, १०, ९†
 षचिता(न >) ना^l- -ना बौश्रौ
 १२, ८ : ६, १७, ९ ७
 २ःचिति^m- -तयेⁿ आश्रौ १०, ९, २,
 शाश्रौ १६, ६, १, वैताश्रौ ३७, १.
 चित्त^o- पाउभो २, २, १३३, -त्तम्
 आश्रौ ८, १३, ९, शाश्रौ १०,

१४, ४, आपश्रौ, षया १, ६, ३;
 ९, ३३^k, -त्तस्य कागृ ४१,
 १३†, -ःत्तानि आपमं १, ३,
 १४, आमिष्ट १, १, ३ २५,
 हिष्ट १, ५, ११, या ९, ३३,-
 -ःत्ताय आपश्रौ ५, २४, २,
 हिश्रौ २२, १, ३०, आमिष्ट
 १, १, २ : १६, ५, २ १८, ६, २
 ३, हिष्ट १, ३, ९, -ःत्ते आमिष्ट
 १, ५, ४ ३९, बौष्ट १, ४, १,
 भागृ १, १७ ९, -ःत्तेन आमिष्ट
 १, १, ३ : २३, हिष्ट १, ५, ११
 चित्त-वत्- -वति पा ५, १, ८९.
 चित्तवत्-कर्तृक- -कात् पा
 १, ३, ८८
 चित्त-विनाशन- पाग ३, १,
 १३४
 चित्त-विराग- -गो पा ६, ४, ९१.
 चित्त-व्यापल्युः^h अप्राय ३, ५
 चित्ता(त-आ)दि^l- -दि वैष्ट १,
 १७ ५
 चित्तै(त-ए)कीकरण-काम- -मः
 अश्र ६, ४३
 चित्तिⁿ- षत्तये हिश्रौ २२, १, ३०;
 आमिष्ट १, १, २ १६, ५, २ :
 १८, ६, २ ३, हिष्ट १, ३, ९;
 -त्ति: आश्रौ ८, १३, ९, शाश्रौ
 १०, १४, ४, आपश्रौ, -ःत्तिभिः
 अप १, ४१, ७, अशा ११, ७,
 या २, ९६, -ःत्तिम् आपश्रौ
 १६, २३, २०, ३४, ३, ४, १७, १,
 १३०, ३, ९०; १५, ७६, बौश्रौ,

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु^१। तु पाका । चे^० इति भारुडा पासि च । b) बहु < चैकित्य- ।
 c) = यव-चूर्ण-। व्यु^१। = ष- इति कृत्वा < ✓चिकक् इति शक । d) अर्थः व्यु च^१। e) तु. पागम । f) नाप.
 (तिन्तिडी-) । चिम्पा- इति [पक्षे] पासि. भारुडा च। व्यु^१। g) या १, ६ परामृष्टः द्र । h) वैष १ द्र. ।
 १) वैष १ निर्दिष्टाना समावेशः द्र । j) पाभे. वैष १, १३२२ ० द्र । k) पाभे वैष १, १३२२ १ द्र ।
 l) पाठः ? उप. = व्यापतिः ? । m) पूष < चित्त च (तै ३, ४, ४, १) इति । n) वैष १ निर्दिष्टयो समावेश-
 द्र. । o) पाभे. वैष १, १३२० १ द्र. ।

शंघ ११६: ५७५^३, शुभ्र २, ३१३, -०न्ते^३ आपश्रौ ४, १०, ४, भाश्रौ ४, १५, २, हिश्रौ ६, ३, २, -त्या कौसू ४२, १०^३, -त्यै आपश्रौ ५, २४, २^३
 चेतत्- -तत्. वाधूश्रौ ३, ५८: ८^३
 चेतन^०- -नस्य^५ आपश्रौ १४, ३०, २, बौश्रौ २९, ५ ३, हिश्रौ १५, ७, १८
 चैतन्य- > न्या (न्य-आ)
 धार- -०२ विघ १, ५६
 चेतना- न्ना-वत्- -वान् या २, ११, ८, ५
 चेतनावत्-त्व- -खात् पावा ३, १, ७
 चेतनावद्-वत् या ७, ६, ७
 चेतय- पा ३, १, १३८
 चेतय(त्>)न्ती- -न्ती या ८, १३४^३
 चेतयमा(न>)ना- -ना या ८, १३
 चेतस्- -०त्. अप ४८, ८४, वृदे ४, ११३५, अत्र ९, ७, निघ ३, ९, -तस: वृदे ७, १०१, -तसा बौध ४, ७, २, -०त्से कौसू ५४, ११, अप्राय २, ५, अत्र ६, ४१
 चैत्- -त्ता बौश्रौ ३, १६-२१, २२, २४, १८, १० १८, १७ १८, -त्तारम् हिश्रौ २१, १, २
 चित्- √चि द्र
 चित्- प्रम् √चित् द्र.

चित,ता- √चि द्र
 चितयत्-, चितयम् √चित् द्र.
 चितवत्- √चि द्र
 चितान- √चित् द्र
 चित्ति- √चि द्र
 चित्ति- √चित् द्र.
 चित्ति^०-> चित्ति-प्रायश्चित्ति-शमी-शमका-सर्वशा-शाम्यवाका-तला-शा-पलाश-वाशा-शिशपा-शिव-ल-सिपुन-दर्भा(भे-अ)पामार्गा- (र्ग-आ)कृत्तिलोष्ट-वल्मीकवपा-दूर्वाप्रान्त-द्रीहि-यव^१- -वा कौसू ८, १६
 चित्या(ति-आ)दि- -दिभि- वैताश्रौ ५, १०
 चित्कण- (> ण-कन्थ- पा) पाग ६, २, १२५
 चित्त- √चित् द्र
 चित्ता- > च्त्ता/कृ चिन्ता- टि द्र
 चित्तानसि- पाठभो २, १, २३९
 चित्ति- √चित् द्र
 चित्य- √चि द्र
 चित्र पाधा. चुरा उभ चित्रीकरणे.
 चित्र^३- पाठ ४, १६४^३.
 चित्र-कर- पा ३, २, २१.
 चित्र-संनिभ- -भ नाशि २, ८, १८.
 चित्र- (> ञ्र-क- पा) पाग ५, ४, ३^१, -त्र अप १, ३४, ३^१
 चित्र^०-> चित्र-क- -कम् वैध ३, ५, ८
 चित्र^३- -त्रम् बौध २, २, २५; -त्राय आमिष्ट २, ६, ८: ३५, अप ४३, ५, ४७

चित्र-गुप्त^३- -स: जैष्ट २, ९ १६;
 -सम् शंघ ११६ २०, बौध २, ५, २५, -साय आमिष्ट २, ६, ८ ३५, अप ४३, ५, ४८
 चित्र,त्रा^३- पावा ४, ३, ३४^३, -०त्र आश्रौ ४, १, २३, ७, ८, ३; शाश्रौ ११, ११, १५××, आपश्रौ, या ४, ४, -०त्र: आश्रौ २, १७, १५××, शाश्रौ, वैष्ट ४, १४: ४^०, या २, १९^३, -त्रम् ०त्राश्रौ २, १६, ११××, शाश्रौ; या २, १९, ४, ४^३, १२, ६^३, १६^३, सुप्रा ६, २०^३; -त्रया बौश्रौ १३, ३६ ४, ५, १५, २: ५, १८, ३६ ६, ४०: १८, अप १, २८, २, -त्रा काश्रौ ४, ७, ४, आपश्रौ २०, १, २; माश्रौ १, ५, १, ५, हिश्रौ, नाशि १, २, ९^३, वेज्यो ३६, या ४, १९^३, -त्रा: शाश्रौ ८, २०, १^३; बौष्ट ३, १०, ४, ०गो २, ९, १०; अप ६४, ८, १०, -०त्राणि अप १, ११, १××, अशा ६, ७, १२, ५, चात्र १५ ७, अत्र १९, ७; -त्रान् बौश्रौ १०, २४: १२^३, गो २, ९, -त्राभि: शाश्रौ ८, १६, १, १९-२०, १^३; -०त्राम् आपश्रौ ५, १७, ५^३, १७, १५, ६^३, १९, २५, १४, बौश्रौ १०, ५२ २२^३, १५, २: ४, १८, १६: ५, ४०: १७, भाश्रौ ५, १०, १०^३, वैश्रौ १९, ६-९२^३; हिश्रौ ३, ४, ४९^३, ११, ३, १५^३;

a) वीतिहोत्रम् इति अपु २१९, २६। b) = देवगवी-। c) वैप १ द्र। d) पाभे. वैप १, ११७१ h द्र। e) = ओषधि-विशेष-। व्यु १। f) वृक्षौषधीना द्वस। g) = आलेख्य-। व्यु. १। h) < √चि [चयने]। i) तु. पागम। अर्थ: १। j) = पक्षि-विशेष-। व्यु. १। k) = [तदाख्य-] यमगया-विशेष-। व्यु १। l) = ग्रहदेवता-विशेष- [जैष्ट]। व्यु १। बस. उप. भाप. इति शक.। m) = इष्टि-विशेष-। शिष्ट वैप १ द्र.। n) जातार्थे विहितस्य प्र. लुक्। o) उत्तरेण संचिरार्थे। p) = मूर्च्छना-विशेष-। q) पाभे. वैप १, १३२५ a द्र.।

१२,५, १०^a; भाग्य ३,१ : २६^a,
 गो २,७, अप १,१०,१,३९,२,
 अशा ३,२, ९,२, -त्राय आपग्य
 १३, २०, -त्रायाः माश्रौ ५,२,
 १०,४२, अप १,७,४, -त्रायाम्
 आपश्रौ ५,३,१३, बौश्रौ २,१२
 १३[†]××, भाश्रौ, -[†]त्रायै शाग्य
 १, २६, १२, वैगृ ३, २० : ६,
 अशा १२, २, -त्रासु अप ६५,
 १, ७, -[†]त्रे शाश्रौ ८,१९,१,
 काश्रौ १७,४, ४, भाग्य १,१२
 १४, अशा ३, २, -त्रेण या ६,
 १७[†], -त्रै हिश्रौ ८,६,३३[†],
 अप ७१,११,५
 १चै(त्र>)त्री^b-त्री काश्रौ १३,
 १,६, वैगृ १,१ ७,४,८.१, विध
 ९०, ९, गौघ ८, १६, मीसू ६,
 ५, ३१, -त्र्या वैगृ ६, २० ३,
 -त्र्याः हिश्रौ १६, ५, १७;
 वैताश्रौ ३६,१०, ३७,११, हिपि
 १३ २, -त्र्याम् आश्रौ २,१४,
 ३, शाश्रौ ३,१३,२, काश्रौ, -त्र्यै
 आपश्रौ २१,१५,६, बौश्रौ १२,
 १ : २, १६, १३ ७, १७,
 ५५ : ३
 २चैत्र^c- पा ४, २, २३,
 -त्रस्य आपश्रौ २१, २, ११,
 काश्रौ २४,७,२, -त्रे विध ३,
 ४०
 चैत्र-पक्ष- -क्षस्य वाश्रौ
 ३,२,१,१०
 चैत्र-वैशाख- -खयो
 लाश्रौ ९,९,८, अप ५५,५,१

१चैत्रिक^d- -कानि-, कै.
 बौगृ २, १०, ८
 चैत्र्य^e- -त्र्याणि वैगृ ४,
 ८ ११
 २चैत्रिक- पा ४,२,२३
 चैत्री-पक्ष- -क्षस्य लाश्रौ
 १०, २०, २, -क्षेण लाश्रौ १०,
 ५,१८
 चैत्री-प्रयोग- -गस्य शाश्रौ
 ३,१४-१५,२
 चैत्री-यज्ञ-विहीन- -ने वैगृ
 ६,२० : २
 चैत्री-समापन^f- -नौ वाश्रौ
 १,७,५,९
 चैत्र्या(त्री-आ)रम्भण^g-
 -गौ वाश्रौ १,७,५,९
 †चित्र-ज्योतिस^h- -ति बौश्रौ १०,
 ५३ : २, माश्रौ ६,२,५,२३
 चित्र-तन्तुⁱ- -न्तवः बौश्रौ ३१
 ७
 चित्र-तम- -तम शाश्रौ ११, ११,
 १२[†]
 चित्र-ता- -तया वाश्रौ ३,२,२,१४
 चित्र-दण्ड- -ण्डैः अप १९[†],४,४
 चित्र-द्वन्द्व-विचर्चिका- -का अप
 २६,१,५
 चित्र पक्ष^j- -०क्ष पागृ ३, ६, ३,
 -क्षा अप २०,२,३
 †चित्र-भानु^k- -नु बौश्रौ १८,१६
 १०, -नु शाश्रौ ८, २४, १,
 आपश्रौ १६, ३५, ५[†], हिश्रौ ११,
 ८, २३[†], कौसू १३५, ९, अप
 ७०[†], ५, ३, -नुम् वाश्रौ २,१,

८, १६[†], -०नो शाश्रौ ७,१०,
 १३, वैताश्रौ ३१, १६, ३३,
 १४, ४०, ११, छसू २, १० :
 २६, ११ : १६, बुदे ७, ६५[†],
 शुप्रा ३,९२, अग्रा ३,१,७
 चित्र-महस^l- -[†]हसम् आश्रौ ४,
 १३,७, शाश्रौ १०,८, २०, १४,
 ५७, ४, -हाः ऋश्र २, १०,
 १२२^m
 चित्र-माल्य- -ल्यै अप १,४४,२
 †चित्र-रथⁿ- -थ अश्र ८,१०(५),
 -थम् आश्रौ ४,५,३, शाश्रौ ५,
 ७,४, -थाय कौसू ७४,८[†]
 चैत्ररथ^o- -थम् आश्रौ १०,
 २,३, -थेन आपश्रौ २२, १४,
 २२, हिश्रौ १७,६,१७
 चित्ररथ-वा, वा[†]ह्रीक- पा,
 पाग २,२,३१.
 चित्र-रू(प>)पा^r- -पाम् अशां ३,
 २.
 चित्र-व(त>)ती^s- -ती नाशि १,
 २,९^m, -तीषु आश्रौ ९, ९, ९,
 शाश्रौ १५,३,३, -स्य निसू २,
 ११ २४, -स्या बौश्रौ १०,
 ५७ : १४
 चित्र-वर्ण^t- -र्णम् आमिगृ २,५,६ -
 ४
 चित्र वस्त्र-प्रदान- -नेन विध ९०,९
 चित्र-वासस^u- -ससः बौध १,६,९.
 चित्र-शिखण्ड-धर- -०र विध ९८,
 ६५.
 चित्र-श्याम-श्यावदन्त-कुनखि-
 जटिल^v- -लः अप १,३२,५

a) पामे वैप १, १३२५ a द्र । b) = चैत्रपौर्णमासी, [तत्रविहित-] पाक्यज्ञ-विशेष- । c) = मास-
 विशेष- । d) = अश्र- । भवार्थीयष् टक् प्र । e) भवार्थीय- यत् प्र । f) विप । बस । g) वैप १ द्र ।
 h) = ऋषि-विशेष- । i) पामे वैप १, १३२५ 1 द्र । j) = सर्प-विशेष- । k) = अहीन-विशेष- । तेनदृष्टीयः
 अण प्र । l) तु. पाका. । m) = ऋच्- (<चित्रं देवानाम् [ऋ १, ११५, १]) । n) = मूर्छना-विशेष- ष
 o) द्रस.>मचो. कस. ।

†चित्र-श्रवस्-तम^०- -०म आश्रौ
१०,६,७, शाश्रौ ३, १५, १०, ५,
५, ६, आपश्रौ, -मम् बौश्रौ ९,
४: ७, १०, ७ ९
चित्र-संनाह^०- -हम् अप २०, २, ३
चित्र-सेन^०- -ना बौश्रौ ६ ३,
-नाय कौसू ७४, ८^d
चित्रसेन-प्रमुख^०- -खान् शध
११६ १६
चित्रसेनि^०- -नयः अप ७२,
१८, ३
चित्रा-कर्मन्- -र्म कौसू १८, १९
चित्राकर्म-निशा- -ज्ञायाम् कौसू
२३, १२
चित्रा-नाग^०- -गः अप ३२, १, १८^३,
अशा १८, २, २४, २†
चित्रा(त्र-अ)न्त^०- -न्तम् आपश्रौ
१९, २०, २, हिश्रौ २२, ३, १९.
चित्रा-पक्ष- -क्षम् कौसू ७५, ४
चित्रा-पूर्णमास- -से आपश्रौ १९,
२५, १४, हिश्रौ २२, ५, २५
†चि(त्र>)त्रा-म(घ>)वा^०-
-वा अप ४८, ११०, निघ १, ८
चित्रा-यु(त>)ता^०- -ता विघ
९०, ९
†चित्रा(त्र-आ)युस्^०- -युः आश्रौ
२, ८, ३, ३, ७, ६, ५, २०, ६
चि(त्र)त्रा-वसु^०- -सुना^१ आपश्रौ ६,
१६, ११, भाश्रौ ६, २, २,
-†०सो शाश्रौ २, ११, ४, काश्रौ
४, १२, ३, बौश्रौ, -सोः^१
आपश्रौ ६, १६, १०

चित्रा-विशाखा- -खयो वैगृ २,
१३ २
चित्रा-विशाखा-स्वाति-बहुला(ला-
अ)षाढा(ढा-आ)हिर्बुध्न्य-
याम्य- -न्यस्य अप ६५, २, ५
चित्रा(त्र-आ)मङ्ग^१- -ङ्गा बौध १,
६, ९
चित्रा-स्वाति- पाग २, २, ३१,
-त्यो बौश्रौ २५, ५: ८, काश्रु
७, ३५
चित्रिय^०- -यम् आपगृ ९, ३,
-यस्य आपश्रौ ५, ५, १०, बौश्रौ,
-याणाम् बौगृ ४, २, १५,
-याणि बौगृ २, २, १३, -†यात्
आपश्रौ ५, ६, १, बौश्रौ
चित्रिया(य-आ)वृत्थ- -वृत्थस्य
भाश्रौ ५, ३, १२
चित्रो^१√कृ>चित्रो-करण- -णे पा
३, ३, १५०, पावा ३, १, २६, ३,
१५१
√चित्रोय पा ३, १, १९
चित्रो, श्रौ^१ (त्र-ओ)दन- -नम्
आमिगृ २, ५, १ ३६, जैगृ २,
९: २८.
चित्र्य^०- -व्यम् भागृ २, ३१: १.
दचित्र^०- पाग ४, १, ९९^०, २, ८०,
-त्र बुदे^० १, ४८†, २, १३७†,
६, ६०, -त्रम् बुदे ६, ५९^०,
-त्रस्य ऋअ २, ८, २१^०.
३चैत्र- -त्रस्य चाअ ३९: १८
चैत्रायण- पाग ४, १, ९९, २, ८०
चैत्रेय^०- -याः बौश्रौ ३१ ७

चित्वा √चि द्र
चिद्^० आश्रौ २, १, ११, शाश्रौ, या
३, १६, ४, १७†, पा ८, १,
५७, २, १०१, पाग १, ४, ५७^०,
चिद्-उत्तर^०- -रम् पा ८, १, ४८
†चिदाको^० आपश्रौ २१, ९, १५,
हिश्रौ १६, ४, १३
†चिनुही^० वैगृ १, १४: १३
√चिन्त् पाधा जुरा पर स्मृत्याम्,
चिन्तयन्ति वृदे ७, ४६, चिन्त-
येत् आमिगृ २, ४, १० ५,
अप २३, ४, १, ४३, ६, ३, विघ
९६, २३, ९७, १, नाशि २, ८, १
चिन्तयत्- -यत् वृदे ५, ६७, -यन्
आपध १, २३, १, हिघ १,
६, ९, -यन्तम् आश्रौ ४, १, २३.
चिन्तयन्ती- -न्ती सु ३, ३
चिन्तयाम् √अस्, चिन्तयामास्
विघ १, १९
चिन्तयित्वा वैगृ ५, ६: २५
चिन्ता- पा ३, ३, १०५, पाग १,
४, ७४^०, -न्ताम् अप ३३, १,
३, विघ १, २०, वृदे ७, ४३.
चिन्ता√कृ पा १, ४, ७४
चिन्तित- -तः मैअ ३३, -ताः
आज्यो २, २
१ चिन्ति- पाउभो २, १, १९०
२ चिन्ति-> ०न्ति-सुराष्ट्र^०-पाग ६,
२, ३७
चिन्वत्, चिन्वान- √चि द्र
चिपिट- पा ५, २, ३३, -ट अप
६८, २, ३१

a) वैप १ द्र । b) विप । बस । c) = ऋषि-विशेष- । d) = सर्प-विशेष- । e) बस पूष.
= गन्धर्व-राज- । f) = गन्धर्व- । इति प्र आदिबृद्धयभावः उसं (पा ७, २, ११७) । g) = मन्त्रगण-विशेष- ।
h) = चैत्री- । i) = मन्त्र- । j) विप । बस उप. = उत्तरीय- । k) वैप २, ३खं द्र. । l) आग्निगृ. पाठ ।
m) बरा । व्यु. ? । n) = नृप-विशेष- । o) तु पागम । p) पाठ. ? चित्ता गोः इति शोध (तु.
वैप १, १३२० e) । q) = सूर्यरश्मि-विशेष- । व्यु. ? । ०. टि. अपि द्र । r) चित्ता- इति भाण्डा. ।
s) जनपदयो द्वस ।

चिबुक^१- पाउभो २, २, २६, -कम्
विध ९६, ९२

चिम्पा- चिन्ना- टि द्र

चिर^२- रम् आपश्रौ १३, ९, ९, १७,
१४, ३१, बौधौ, कौट १, ८,
२३^{१०}, शाट १, १४, १^{१०},
या १०, ४०×४, पाग १, १, ३७,
-रस्य पाग १, १, ३७, -रात्
शाश्रौ १४, १४, १, अप, पाग
१, १, ३७, -राय सु ३३, ३,
पाग १, १, ३७, -रेण या १४,
८, पाग १, १, ३७.

चिर-कृच्छ- -च्छयो पा ६, २, ६

चिर-जीवि-त्व- -स्वम् वाध २९, २.

चिर-ल- पावा ४, ३, २३

चिरन्त- पा ४, ३, २३

चिर-मरन-गात्र-मात्र- -त्र अप
६८, ३, १२

चिर-रात्र- -त्राय पाग १, १, ३७

चिर-लब्ध- -ब्ध या १०, ३९.

चिर-लोपिन्- -पी आमिष्ट २, ७
१ : २.

चिर-स्थान- -ने गौध १२, २८.

चिरा(र-अ)चिर-वचन- -नात्
पावा १, १, ७०

चिरा(र-अ)युस^३- -यु माष्ट १,
१२, ३

चिरन्त^४- (> चैरन्त्य- पा) पाग ४,
२, ८०

?चिरस्या आमिष्ट २, ६, १-१६.

√चिरि पाधा स्वा पर हिंसायाम्
? चिरोणु^५ या १४, ५

√चिल् पाधा तुदा पर वसने
? चेल- पाग ३, १, १३४^६

चिलिचिम^७- -म^८ बौध १, ५, १३४

√चिल्ल पाधा भ्वा पर शैथिल्ये
भावकरणे, हावकरणे^९ च.

चिल्ल- पावा ५, २, ३३

चिश्चा^{१०} या ९, १४^{११}

चिश्चिषा^१ > षा/कृ > षा-कारम्^१
आपश्रौ १३, १७, ६, वैश्रौ १६,
२१ : ४, हिश्रौ ९, ४, ५१

चिहण^{१२}- (> चिहण-क(न्था)>) न्य-
पा) पाग ६, २, १२५.

चिह्न^{१३}- -ह्म काध २७८ : ६, -ह्नाणि
अप ७०^३, ११, १३, -ह्नै विध
७, १२

चिह्न-युक्त- -क्त वैध ३, १५, ११

√चीक् पाधा चुरा उभ आमर्षणे

चीपु-दु^{१४}- -दु अप्रा ३, ४, १^{१५}

√चीब् √चीव् टि द्र

१चीबा, व^{१६}र- -रम् गोष्ट ४, ९, ७,
कप्र ३, ९, १८.

√चीस् पाधा भ्वा आत्म कथने

√चीय् √चीव् टि द्र

चीयमान- √चि द्र

चीर^{१७}- पाउ २, २५, पाग ४, २, ८०^{१०},
-रम् बौष्ट २, ६, ९, वैध २, २,
२, पा ६, २, १२७

चैरेय- पा ४, २, ८०

चीर-चर्म-जल-प्रिय^{१८}- -य बौध
३, ३, १९

चीर-वल्कल-वसन^{१९}- -न वैध १,
७, ६

चीर-वल्कल-वासस्^{२०}- -सा शंघ
४४२

चीर-वासस्^{२१}- -सा जैष्ट २, ८ : २;
बौध ३, ९, २, विध ५३, १

चीरा(र-अ)जिन-वासस्^{२२}- -साः
बौध २, ६, १७, गौध ३, ३४.

चीरा(र-अ)जिन-वासिन्^{२३}- -सी
वाध ९, १

चीर्ण- √चू द्र

√चीव्^{२४} पाधा भ्वा उभ आदानसं-
वरणयो, चुरा पर भाषायाम्.

१चीवर- चीवर- द्र.

२चीवर^{२५}- पाउ ३, १, -रम् शाश्रौ २,
१६, २, या ११, ४७

√चीवरि पा ३, १, २०

चीवि-वाच्^{२६}- -वाक्^{२७} विध ४४, २४.

√चुकक् √चिकक् टि द्र

चुकत्^{२८}- -क्तै काश्रौ २५, १२, २^{२९}.

चुक^{३०}- (> चुक-ता-, चुक-त्व-,
चुकिमन्-, चौक्य- पा) पाग
५, १, १२३

चुक्षा^{३१}- पाग ४, ४, ६२^३

१चौक्ष- पा ४, ४, ६२, पाग ५, १,
१२४.

चौक्य- पा ५, १, १२४.

√चुच्य् √१-२शुच्य् टि द्र.

a) वैप १ द्र । b) पाभे. वैप १, १६३९ p द्र. । c) विप बस । d) तु. पासि । विरत- इति पाका.,
विरत- इति भाण्डा. । e) अर्थः व्यु च^{३२} । f) तु पागम । g) = मत्स्य-विशेष- । व्यु १ h) तु. BPG ।
i) = शब्दानुकृति- । व्यु १ । j) सप्र. चिश्चि <> चुक्चू इति पाभे । k) वैप ३ द्र । l) कप्र पाठः ।
m) = लोहचूर्ण- । व्यु १ । n) = वस्त्र-खण्ड- । व्यु १ । o) चीर- इति भाण्डा प्रमृ । p) विप । द्वस >
बस । q) विप । द्वस > उस. । r) √चीब्, √चीय् इति BPG. । s) = वस्त्र- । व्यु १ < √चि इति
पाउ. । t) = झिल्लिका- (नभा झिगुरी) । व्यु १ । u) तु MW । चीरी^{३३} (बस) इति कृष्णपरिडत्, वीचि^{३४} इति
जीसं, चीरी वाक- इति मनु (१२, ६३) । v) तु चौस । चुक्नु^{३५} (तु कास), चुक्नु^{३६} इति BC ।
w) = झम्ल- इति पागम. । x) = शौच- इति पागम । y) चो^{३७} इति वामन. (तु. पागम) ।

✓चुद् पाधा तुदा चुरा पर. छेदने
 ✓चुद्, चुद् पाधा चुरा पर
 अल्पीभावे
 ✓चुद् पाधा तुदा पर संवरणे
 ✓चुद् पाधा म्वा पर भावकरणे
 ✓१चुद् पाधा चुरा पर छेदने
 ✓२चुद् ✓चुम् टि द्र
 ✓चुण् पाधा म्वा पर अल्पीभावे
 ✓२चुण् ✓१चुण् टि द्र
 ✓चुत्, फुत्तत् आश्रौ ३, १०, ३१,
 काश्रौ २५, ९, १५
 ✓चुद् पाधा चुरा पर सचोदने,
 चोदत् बौश्रौ १८, ४१ : ४१.
 चोदयति वैश्रौ १०, ११ ५,
 १६ : ११, हिश्रौ ४, ३, ३१×४;
 या ७, १३, चोदयत्. आपश्रौ
 ७, २७, २, चोदयसि या ११,
 २४फु, चोदयत् आश्रौ ४,
 १८, ५, ६, ३, आपश्रौ १२, १४,
 १३फु, बौश्रौ ७, ६. ४७फु, या
 १०, ३९, फुचोदय वाश्रौ ३, १, २,
 २, या ४, २५, ९, २०, चोदयेत्
 आपश्रौ १५, १४, ३, बौश्रौ २,
 ३ : १८, २९, २ : १, भाश्रौ,
 चोदयेयुः आश्रौ २, ११, १९, १८,
 १३
 चोदयिष्याम. बौश्रौ १६, ३ : ८
 चोद्यते शाश्रौ १, १७, ७, लाश्रौ,
 चोद्यन्ते शाश्रौ १, १, २४, आपश्रौ.
 चोद- > द-प्रवृद्ध- द्धः शैशि
 ३१०फु
 चोदक- क ऋप्रा १०, १५, ११,
 २७
 चोदन- नम् हिश्रौ १६, १, ६, -नात्
 वाश्रौ १, १, १८, हिश्रौ १३, ३,

९, मीस् ४, ३, ३९, ८, ३, ४
 चोदना- ना काश्रौ २५, १, २,
 वाश्रौ १, १, १, ६५, हिश्रौ,
 -नाः मीस् ७, ३, ७, -नानाम्
 मीस् ४, ४, १, १०, ३, ५८,
 -नाम् मीस् १०, २, ६४, १२,
 ३, ८, -नायाम् शाश्रौ १३, १५,
 ५, १४, ३, १३, कौगृ, पावा १,
 २, ६४, -नासु मीस् १०, ५,
 १२, पावा १, २, ६४
 चोदना-गुण- णेषु काश्रौ १, ८,
 २२
 चोदना-गुण- त्व- त्वात् काश्रौ
 ५, १२, ८
 चोदना-तस्() मीस् ४, ४, ४,
 ९, १, ५, १२, १, १
 चोदना(ना-अ)नुपूर्व्य- न्येण
 शाश्रौ १, १७, २
 चोदना(ना-अ)नुबन्ध- न्धः
 मीस् ९, २, ४०
 चोदना(ना-अ)न्तर- रम् मीस्
 २, ३, ५, -रात् मीस् १०, ४, ३७
 चोदना-पृथक्त्व- त्वम् मीस्
 ११, २, ४९, -त्वात् मीस् ११,
 ३, ५१, -त्वे मीस् ११, ४, २३
 चोदना-प्रकरण- णे शाश्रौ १,
 १७, १.
 चोदना-प्रतिभाव- वात् मीस्
 ३, ८, ७^१
 चोदना-प्रभुत्व- त्वात् मीस् १०,
 ३, ३.
 चोदना(ना-अ)भाव- वात्
 मीस् १०, ६, ३८
 चोदना(ना-अ)भिसंबन्ध-
 न्धात् मीस् १०, २, ६५

चोदना-भूत- तम् मीस् ९,
 १, १
 चोदना-भेद- दात् काश्रौ ६,
 ७, २७
 चोदना(ना-अ)र्थ- र्थेन मीस्
 ४, ३, १०
 चोदनार्थ-काल्स्व- त्स्वर्थात्
 मीस् ३, ६, ८
 चोदनार्था(र्थ-अ)विशेष-
 षात् मीस् ६, ३, १५
 चोदना-लक्षण- णः मीस् १,
 १, २
 चोदना-लिङ्ग-सयोग- ने
 मीस् १०, ४, २
 चोदना-विधि-शेषत्व- त्वात्
 मीस् ११, २, ९,
 चोदना-विरोध- षात् मीस् ३,
 ५, ९, ६, ४, ९, ८, ३४
 चोदना-विशेष- षात् मीस् ३,
 ८, ४२, ५, ३, ४४.
 चोदना-व्यवाय- यात् मीस्
 ११, १, ६८
 चोदना-शब्द- ब्दस्य काश्रौ
 २०, ७, २०, -ब्दात् काश्रौ १,
 १०, १
 चोदनाशब्द-सामान्य-
 न्यात् मीस् ७, ४, १२
 चोदना-शेष-भाव- वात् मीस्
 ७, १, ३.
 चोदना-संयोग- नात् हिश्रौ १,
 १, ६०
 चोदना-संदेह- हे शाश्रौ ६,
 १, ७.
 चोदना-समुदाय- यात् मीस्
 ९, १, २८

a) तु. BPG. । b) ✓२चुण् इति BPG. । c) = ✓च्युत् । d) पाप्मे. वैप २, ३६.
 अच्युत् चोत् तैत्रा ३, ७, ३, ६, ७ टि. द्र । e) पाप्मे. वैप १, १३२९ ० द्र. । f) वैप १ द्र. । g) = अवग्रह- ।
 h) विप. । बस । i) चोदनां, प्रति, भावात् इति जीर्ण. । j) षस. उप. = व्यवघात्- ।

चोदना-सामान्य- -न्यात् मीसू
७,३,२७
चोदनै(ना-ए)क-काल- -लम्
मीसू ११,४,५०
चोदनै(ना-ए)कत्व- -त्वात्
मीसू ४, ३, १२, ६, २, ६, ८,
१, २६××
चोदनै(ना-ए)क-वाक्य-त्व-
-त्वात् मीसू ११,२,५३
चोदनै(ना-ए)कार्थ्य- -थ्यात्
मीसू ३,६,५
चोदयत्- -यन् लाश्रौ १०,११,५,
-यन्ता अत्राय ६,९१
चोदयन्-वत्- -वति आपश्रौ ५,
६,३, हिश्रौ ३,२,६
चोदयित्वा लाश्रौ १०,५,२
चोदित,ता- -त द्राश्रौ १,३, २८,
-तम् जैश्रौका ३७, अप २३,
११, ३, माशि ५, ५, ६, ६,
आज्यो ११,६, मीसू १,३, १०,
-तस्य मीसू १०, ४, ३८, -ता
काश्रौ २२, १, १३, -ता वृदे
५, २४, -तान् अप २२,१, २,
-तानाम् लाश्रौ ९, ६, २१,
-ताभ्यः शाश्रौ ३,२०,२०, -ते
काश्रौ ४,३,२०, अप ७०, ११,
२, मीसू २, २, ६, ३, १, १४,
९,१, ३९, -तेन मीसू १०, ४,
२६
चोदित-त्व- -त्वात् काश्रौ १,
८,१, ४,३,२४, ५,८,२०, मीसू
३,२,६,२५××.
चोदिता(त-अ)तिक्रम- -मे वैगृ

२,८:७
चोदिता(त-अ)भाव- -वे काश्रौ
१,४,१
चोदिता(त अ)भिधान- -नान्
मीसू ९,१,३६
चोद्यमान- -नम् लाश्रौ ६,१, १,
-नानाम् शाश्रौ ५,१९, ५, १३,
२०,११, -नानि शाश्रौ ९,२७,
३, आपश्रौ २४, २,२६, -ने
आपश्रौ ६,१६, २, २४,१, २३,
हिश्रौ ३,८,१६
चुनम^{a,b} (>चौनमायन- पा) पाग
४,१,११०
√चुद् √बुन्द टि द्र
√चुप् पाधा भ्वा पर मन्दाया गतौ
√चुप् √बुप् टि द्र
चुप^{b,c} (>चौपायन- पा) पाग ४,
१,११०^d.
चुपुणीका^f- -का विध ६७,७^g, तैप्रा
१३,१२१
चुपणीमुख^h- -ख कागृ ३५,१
चुप्र- पाउना २,२८
†शुबुकⁱ- -क दंवि २,११, -कात्
आपमं १,१७,१^h
चुबुक-दघ्न- -घ्न आपश्रौ १०,१०,
५, हिश्रौ ७, १, ५५, -घ्नम्
आपश्रौ ७,८, ३, वाश्रौ २,२,२,
२१
चुबुक-प्रतिष्ठित- -तम् आपश्रौ १०,
२४,४ⁱ
चुबुका(क-अ)न्त^j- -न्तम् वैश्रौ १०,
७.४
२चुबुक^k- -कयोः बौशु १५, ३,

-कात् बौश्रौ ६,२५ १२, -के
बौश्रौ ६, २५:६××, वैश्रौ
१४, ६:३^l, बौशु १४ ४,
६
चुब्र- पाउ २,२८
चुमुरि^m- -रि वृदे ४, ६७, -रिम्
आश्रौ ९,८,४ⁿ
चुम्प- (>चौम्पायन-) चुप-
टि द्र
√चुम्बू पाधा भ्वा पर वक्त्रसयोगे;
चुरा^o पर हिंसायाम् चुम्बते
याशि २,६३.
चुम्बुक^p- -काय हिश्रौ १४, ५,
४ⁿ
चुम्प- पाउना २,१६.
√चुर^o पाधा चुरा पर स्तेये
चुरण-(> √चुरण्य पा) पाग ३,
१,२७
चुरा- पाग ३, ३, १०४^p, ४, ४,
६२
१चौर- पा ४,४,६२
चौर- पाग ३, १,१३४,४,१,४१^p;
५,१,१२४,१३३, ४,३८, -०र
वाध २०,३०, -रः अप ६८,२,
५५, शंघ ३२८, -रम् वाध
२०, ३०, -रस्य वाध १४,१७;
शंघ ४३४, बौध ३,६,१०
चोरी- पा ४, १,४१.
२चौर- पा ५,४,३८, -रः
विध ५, १९६; -रस्य विध
४८, २१; -राणाम् अप १,
४४, १; -रे पा ५, १,
११३

- a) तु. पाका. । b) व्यप । व्यु ? । c) चुम्प- इति पाका (तु BPG) । d) चुपदासक- इति [पक्षे] पागम ।
e) = बलिदेवता-विशेष- । व्यु. ? । क्षिप्रणिका इति जीसं । f) वैप १ द्र. । g) = बालग्रह-विशेष- । व्यु. ? ।
h) पाभे. वैप १, ७३७ h द्र । i) सप्र. चुबुकप्रतिष्ठितम् <> मुखेन प्रतिष्ठाय इति पाभे. । j) विप. ।
बस. । k) = वेदिभाग-विशेष- । व्यु ? । l) = हविर्धानशकटभाग-विशेष- । m) = √२चुप् इति BPG. ।
n) = जुम्बक- [तु वैप १] । पाभे. वैप १,१३८१ p द्र. । o) पा ३,१,२५ परामृष्टः द्र. । p) तु. पागम. ।

चौर-भय- -यम् अप
६०,१,२
चौर-वत् विध ५,१६०,
१६६,१७०
चौर व्याधि-भय- -यम्
अप ७०^३,२,१२
चौर-शाखा(ल-अ)भि-
मृत्यु- -मृभि अप ६३,२,४.
चौर-हृत- -तम् विध ३,
६६
चौरक- पा ५,१,१३३^३
चौर्य- पा ५,१,१२४, -र्यम्
आज्यो ८, ४, -र्यात् वैध ३,
१४,६
चोर-भक्त-प्रद- -द. वाध ३,४
चोर-राजा(ज-अ)न्यु(भि-उ)
दक- -केभ्य कौगृ ३,१२,३०
चोर-वृत्त- -त्तात् वैध ३,१४,४
चोर-सम- -मः गौध १२,४६
चोर-हस्त-ग(त>)ता- -ता
वाध २८,२
चोर-हृत- -तम् गौध १०,४६
√चुल पाधा चुरा पर समुच्छ्राये.
चुल^b- (>चुल्य- पा) पाग ४,२,
८०
चुलु^c- लु याशि १, ४४, माशि २,
११^३
चुलुक- (>चौलुक्य- पा) पाउना
२,२९, पाग ४,१,१०५^३
√चुल्ल पाधा भ्वा पर भावकरणे
चुल्ल- पावा ५,२,३३
चुली^d- ली शंघ १३१, विध ५२,
१९, -ल्ल्या. वैगृ ३,७ : १९^३

-ल्ल्याम् वैगृ ३,१५. १
चुरचूषा^h >षा/√कृ > षा-कारम्ⁱ
माश्रौ २,५,४,७
चूचुक- पाउना २, २९; -कात् वैध
३,१४,१०^j
चूडा,ला^k- पाग ३,३, १०४, ४, १,
९६^l, ५,२,९७^m,१३६, पावाग
५,१,११०, -डाः कागृ ४०,१,
मागृ १, २१, १, वैगृ ३, २३.
११, हिगृ २,६,११, -डाम् वैगृ
३,२३ १०
चौड,लⁿ- पावा ५, १, ११०,
-डम् आगृ १,१७,१, आमिगृ
२,२,५. १७, आपगृ १६,३,
बौगृ १,१,५, भागृ १,२८ : १,
द्रागृ २,३,१६, -डात् आमिगृ
३,७,४ : ५, बौपि २,३,१०,३,
६,१, -डेन भागृ १,१० : १०.
चौड-क- -कम् वैगृ ३,२३
१, ६, ५ ८, -कात् वैगृ ५,
११ ६, ७, ५ ४, ७ १,
-के वैगृ ६, ५ ५
चौड-करण- -गेन जैगृ १,
१८ ४
चौल-कर्मन्- -र्म आमिगृ २,
२,५ १
चौडकर्मो(र्म-उ)पनयन-
गोदान-विवाह- -हा आगृ १,
४,१
चौल-वत् बौगृ २,५,७,३,२,
५३, द्रागृ २,५,१
चौलो(ल-उ)पनयन-गोदान-
-नेषु द्रागृ १,३,१०

चौडि- पा ४, १, ९६
चूडा-करण- -णम् कौगृ १, १, ५;
शागृ १,५,२, पागृ २,१, १, वैगृ
६५ २, ३, गोगृ २,९, १, कौसृ
५४, १५; विध २७, १२, -जे
पागृ १,४,२, -गेन गोगृ ३,
१,२
चूडा-कर्मन्- -र्म कौगृ १, २१, १;
१७, शागृ १, २८, १, १९, बौगृ
२,४,१, हिगृ २,६, १, शध २५-
२७, -र्मणि गोगृ १,९,२४.
चूडा-ल- पा ५,२, ९७
चूडा-वत्- पा ५,२,१३६.
चूडिक- (>चौडिक्य- पा)
पाग ५,१,१२८
२चूडि(क>)का^o- -कायाम् वैगृ
५,४ ३५
चूडिन्- पा ५, २, १३६.
चूडो(डा-उ)पनयन- -नानि आज्यो
२,५, १०, १०, -ने आज्यो ५,
३, -नेषु अप २४,१,३
चूडार- (>चौडार्य- पा) पाग ४,
२,८०
चूडारक¹- पाग २,४,६९
चूडा(ल>)ला¹- (>चौडालि-
पा) पाग ४,१,९६
चूडितिक- (>चौडितिक्य- पा.)
पाग ५,१,१२८
√चूर् पाधा. दिवा आत्म दाहे
√चूर्ण पाधा चुरा. पर प्रेरणे,
संकोचने.
चूर्ण^३- पा ३,१,२५, पाग २,४,३१^m;
५,४,३^m, -र्णाः अप ४८,७५^३;

a) चौरिका- इति पागम । b) चुल- इति पाका. । c) = हस्ताकार-विशेष-। व्यु. ? । d) च इति पाठः ? यनि शोघ (तु संस्कर्तुः टि, याशि च) । e) पृ ८२७ II द । f) नाप [चुल्हा इति नभा] । व्यु ? । g) ल्या इति पाठः ? यनि शोघः । h) चुरचू इति MW. । i) पागे पृ १०७८ I द । j) = वर्षसंकर-विशेष-। k) = शिखा- । व्यु. ? । l) < √चुड [समुच्छ्राये] इति अभा । l) व्यप । व्यु. ? । m) तु. पागम. । n) = कर्म-विशेष-। o) = चूडा-। p) = पिष्ट- । व्यु ? । q) = उदक- ।

-र्णानि आपश्चौ १९, ५, ८,
हिश्रौ २३, १, ७, हिगृ १, १४,
७, कौस् ११, १७, आपध २,
१९, १, हिध २, ५, ७३, -र्णेन
अप ३५, १, १३, २, ९, -र्णेषु
कौस् ४१, २२, -र्णे काश्रौ १९,
१, २०, बौश्रौ १७, ३१ २०,
कौस् ४१, २५, अप ३६, ७, ४.
चूर्ण-क- पा ५, ४, ३
चूर्ण-कृत- -तम् बौश्रौ १७, ३१ :
३, -तैः वाश्रौ २, १, १, ३४^१
चूर्ण-पेषम् पा ३, ४, ३५
चूर्ण-मासर- -रै काश्रौ १९, १,
२१
चूर्णा(र्ण-आ)दि- -दीनि पा ६, २,
१३४.
✓चूर्णि पा ३, १, २५, चूर्णयेत्
माश्रौ ३, ८, २
चूर्णयित्वा वैश्रौ १३, ६ : ८.
चूर्णित- > °त-लवण- -णस्य
विध ९०, १
चूर्णिन्- पा ४, ४, २३
चूर्णी/कृ > चूर्णी-कृत- -तै माश्रौ
६, १, २, ३^१
चूर्णी-कृत्य काश्रौ १५, ९, २४
चूर्णि- पाठ ४, ५२
✓चूर्ष् पाधा भ्वा पर पाने
✓चूर्त् पाधा. तुदा. पर हिंसा-
श्रन्थनयो.
✓चूर्प् पाधा नुरा पर संदीपने
✓चूर्(समाश्रौ) > चूर्ण- -र्णेषु बौगृ २,
६, ५
चूर्ण-निर्णय- -य बौपि २, ७,

१४
चूर्ण-पितृ-व्रत- -त. वैगृ ५,
७ : ५
चूर्ण-प्रायश्चित्त- -त्तौ कप्र १,
६, ३
चूर्ण-व्रत- -तः बौध ३, ५, ८
चूर्ण-व्रता(त-अ)न्त- -न्तेन बौगृ
४, १२, २.
चूर्णा(र्ष-अ)न्त- -न्ते काध
२७१ : ७, २७२ १, ६, १०,
१२
चेकित- (> रचैकित-, रचैकित्य-)
चिकित- टि द्र
चेकितत्-, °तान- ✓कित् द्र
१चेट- -ट आपध १, १७, ३८, हिध
१, ५, ६९
चेट-गवय-शिशुमार-नक्र-कुलीर-
-राः वाध १४, ४१
२चेट- (> चेटी- पा) पाग ४, १,
४१
चेतत्-, चेतन- ✓चित् द्र
१चेतना^१ कौगृ ५, ४, ७
चेतना- प्रष्ट ✓चित् द्र
चेतव्य- ✓चि द्र
चेतस्- ✓चित् द्र
चेत्- ✓चि द्र
चेत् ✓चित् द्र
चेद् पाग १, ४, ५७, आश्रौ १, १,
११, शाश्रौ, या १, ११^१, पा ३,
३, १५४, चेत्ऽचेत् पागृ १,
१६, २४
चेद्-अर्थ- -र्थे पावा ८, १, ३०
चेदि- पाग ४, २, ११६^१, -दय अप

१, ७, २^१
चैदिका-, चैदिकी- पा ४,
११६
चैद्य^१- -द्यस्य ऋअ २, ८, ५
चैरु^१- -रवे आश्रौ ५, १५, ३, शा
७, २०, ४, लुसू २, ११ : ४
✓चेल पाधा भ्वा पर चलने
१चेल- ✓चित् द्र
२चेल- -लानाम् शंघ १७४, १७
बौव १, ५, ३६
चैल- -ले वाध १०, २३
चैल-वत् वाध ३, ५३, क
२७७ १२
चैल-शिरस्- -रसो बौ
२७, ९ २
चेल-वनोपम् पा ३, ४, ३३
चेल-खेट-कटुक-काण्ड- -ण्डम्
६, २, १२६
चेल-पिण्ड- -ण्डात् गौध १
२४
चेल-राज्या(ज्य-आ) दि- -दिभ्
पावा ६, २, १३०
चेल-वत् शंघ १७४, बौध १,
३७, गौध १, ३५
चेलो(ल-उ)पमार्जन- -नै वैगृ
३ १
चेलक^१- -का^१ बौश्रौप्र १७ : ५
चैलकि- -कि शुअ १, १७६
✓चेष्ट^१ पाधा भ्वा आत्म चेष्टाय-
चेष्टते वैश्रौ १२, १२ : २
अप ७०^२, ७, २०, ७१, १२,
चेष्टति बौश्रौ ४, २, ३५, ५, १६
१×४, बौगृ, चेष्टन्ति बौश्रौ^१

a) ष्णीं इति संस्कृता । सपा ष्णीं < > ष्णीं इति पासे । b) पा ७, २, ५७ परामृष्टः द्र । c) विप बस । d) = मत्स्य विशेष- । व्यु ? । e) = नाटकीय-पात्र- । व्यु. ? । f) पाठ. ? चेद्, अनया (ऋचा) इति द्विपदः शोधः । g) ब्रमा । व्यु. ? । h) वैदी- इति [पक्षे] पाका., १वेदि- इति पासि । २) = चेदि-निवासिन्- । वैप १ द्र. । k) समाहारे द्रस. । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । m) बहु < चैलकि- । n) प ७, ४, ९६ परामृष्ट द्र. ।

२७ : १४, ७, १ २६, २० : ७,
८, १४. १४, ११, २ १८,
चेष्टताम् हिण् १, २३, १, चेंष्टे-
ताम् द्राश्रौ १२, २, ३३, ३४,
लाश्रौ ४, ११, ३२, चेंष्टत द्राश्रौ
१२, २, २, लाश्रौ ४, ११, ५,
चेंष्टत् गोण् १, ६, २१, चेंष्टेरन्
माश्रौ ३, ६, २२.
चेंष्टिषि हिण् १, २३, १
चेंष्टयति शाण् ४, १५, ७, चेंष्ट-
यन्ते शाश्रौ ८, ९, २
चेंष्ट- वेष्ट- टि द्र
चेंष्ट- -ष्टि आपध १, ६, २८,
हिध १, २, ५१, -ष्टन्तम् बौश्रौ
२४, ३७ : १४, वाधूश्रौ ४, ६९
४, ७६ ६, ८० ४, कौसू ८०, ११
चेंष्टा- -ष्टया मीसू ३, १, ९, -ष्टा
आश्रौ १, १, ८, -ष्टानाम् आपध
६, ३, हिण् २, ३१, -ष्टाम् कौसू
४८, १४, याशि १, २३, नाशि
१, ६, १२, -ष्टायाम् पा, पावा २,
३, १२, -ष्टासु आश्रौ १, १२, ५
चेंष्टा-दष्टि-पर- -रम् माशि २,
१२
चेंष्टा-भोजन-वाग्-रोध- -धे
विध ५, ६९
चेंष्टित- -तम् वाधूश्रौ ४, ३६ ७, ५०.
१३, द्राश्रौ ११, २, १०, कप्र,
-तानि अप ६४, ३, ६, शुअ ३, ६
चेंष्टित्वा बौश्रौ २, १८. ३३, ६,
६ १३, ९, ११ २५.
चेंष्ट्यत्-, चेंष्ट्यमाण- ✓चि द्र
चेंष्टयत^{ab}- (> ष्यत-विध-, ष्यत्या-
पा) पाग ४, १, ८०^d, २, ५४.

चैकार्य- चिकार- द्र
१चैकित- चिकित- द्र
२चैकित- चैकित- द्र
१चैकित्य- चिकित- द्र
२चैकित्य- चैकित- द्र
चैकित्सित-, ष्यित्य- ✓कित >
चिकित्सित- द्र
चैकीर्षत-, ष्यित- ✓कृ द्र
चैकश- चिकश- द्र
चैटयत^b- (> चैटयत-विध-, चैट-
यतायनि-, चैटयत्या- पा)
पाग ४, १, ८०^d, १५४, २, ५४^e
चैतन्य- ✓चित द्र
चैत्य- प्रमृ ✓चि > चित्या- द्र
१, २चैत्र- षचित्र- द्र
३चैत्र- षचित्र- द्र
चैत्ररथ- षचित्र- द्र
चैत्रायण- षचित्र- द्र.
१, २चैत्रिक-, चैत्री- षचित्र- द्र
चैत्रेय- षचित्र- द्र
चैत्र्य- षचित्र- द्र
चैदिका-, षकी-, चैद्य- चेदि- द्र
चैरन्त्य- चिरन्त- द्र
चैरन्दि^f- -न्दिः बौश्रौ ४४. ४
चैरेय- चीर- द्र
चैल- रचेल- द्र
चैलकि- चेलक- द्र
चौड, ल^g- पावा, पावाग ४, १, १७३.
चौद-, चौदक- प्रमृ ✓चुद् द्र
चोपन- ✓चुप् द्र.
चोर- प्रमृ. ✓चुर् द्र
चोलपल^f- -लाः बौश्रौ ४४. ४
चोष्क्यति-, चोष्क्यमाण- ✓स्कृ द्र
चौक्रय- चुक्र- द्र

१चौक्ष- चुक्षा- द्र
२चौक्ष^f- -क्षा बौश्रौ ९ : २.
चौक्षय- चुक्षा- द्र
चौटयत- (> ष्यत-विध-) चैटयत-
टि द्र
चौड-, चौडक- प्रमृ चुडा- द्र.
चौडकायन^f- -ना बौश्रौ ४५ : ६.
चौडार्य- चुडार- द्र
चौडालि- चुडाला- द्र
चौडि-, चौडिक्य- चुडा- द्र.
चौडितिक्य- चुडितिक- द्र.
चौडहल^f- -ला बौश्रौ ३४ : १.
चौनमायन- चुनम- द्र
चौपदासकायन- चुपदासक- द्र
चौपयत^b- (> ष्यत-विध-, ष्यतायनि-,
ष्यत्या- पा) पाग ४, १, ८०;
१५४, २, ५४
चौपायन- चुप- द्र
चौम्पायन- चुम्प- द्र
१-२चौर- प्रमृ ✓चुर् द्र.
चौल- पाग ६, २, १३४.
चौलि^f- -लि बौश्रौ ४८ : १२.
चौलुक्य- चुलुक- द्र.
चौवल^f- -ला बौश्रौ ३१ : ५.
✓च्यु^h पाधा. भ्वा आत्म. गतौ,
च्यवते अणाय १, ५, अप ३७,
३, १, वाध ८, १७, शंघ ११;
बोध, चाअ ४० : १८^h, निघ
२, १४^h, च्यवन्ते बौश्रौ ८, २१ :
९, लाश्रौ १०, ८, निस् ६, ५ :
१२, १४, भाशि ७०, च्यवताम्
हिण् १, २३, १^h, च्यवेरन्
वाधूश्रौ ४, १०० १३, च्यवेयुः
भाश्रौ ९, १४, १५.

a) तु पागम । b) व्यप । व्यु ? । c) चैटयत- (< ✓चित्) इति पाणिनिः (तु. पागम) ।
d) तु पाका । चैट इति ? [पक्षे] भारडा प्रमृ. । e) तु. पाका । चौट इति [पक्षे] भाण्डा. । f) ऋषि-
विशेष- । व्यु ? । g) = जनपद-विशेष- । व्यु ? । h) पा ७, ४, ८१ परामृष्ट. द्र. । i) च्यवते इति
पाठ. ? यनि. शोध ।

चिच्युषे पा ६, १, ३६, च्योष्यते
वाधुश्रौ ४, १०१-१११, १२,
च्योष्यन्ते शाश्रौ १५, १६, ११,
†च्योष्वम् हिण् १, १८, ३, भाशि
१९, च्योषि हिण् १, १८, ३^२,
२३, १

च्यावयते या ११, ७, च्यावयति
आपश्रौ ९, ९, ६, बौश्रौ, या ११,
६, च्यावयन्ति निस् ५, ६ . २४,
च्यावयामि आपश्रौ १२, १६,
८^१, †च्यावयतु कौण् ५, २,
६^१, हिपि २ : १२, च्यावय
ऋप्रा ९, ३२^१, च्यावयेत् निस् ९,
१ : ३४, १०, २ . २४
अच्युच्योत् वैताश्रौ २४, १,
†अच्युच्यु हिश्रौ ९, १, १०,
५, ३६

‡च्यवन^१ - नः आपमं २, १३, ८,
९, पाण् १, १६, २३^२, आमिण्
२, १, ३ १३, भाण् १, २३ ४,
हिण् २, ३, ७, जैण् १, ८ : १५

२च्यवन^१ - न काण् ४, १५, अप
४८, ११५^१, ऋअ २, १०, १९,
निघ ४, १^१, या ४, १९^१,
-नम् अप १, ४१, ७^१, अशा
११, ७, या ४, १९, -नस्य चाअ
२ : ८, ४२ ३, -†नाय काण्
४, २०, वैण् २, १२ : १३

च्यावन- ०न आश्रौ १२,
१०, ६-९; आपश्रौ २४, ५, १२,
१५, बौश्रौप्र ३ : १६, ४ ४,

५ ३, हिश्रौ २१, ३, ७^२, वैध
४, २, २, ३, -नम् लाश्रौ ६, १२,
१४^१, -ने लाश्रौ ६, १०, ९^१

च्यावनी^१ - नीभ्याम्

वाण् २, २^१
च्यवन-वत् आपश्रौ २४, ५, १२,
१५, बौश्रौप्र

च्यवान^१ - नम् या ४, १९^२, †

-†ना^१ अप ४८, ८१, निघ २, ४

च्यावयत् - यन् निस् ४, ४ . १०,

कौसू १३५, ९^१, ऋप्रा ८, ३^१

च्यावयित् - ता या ४, १९

च्युत- त नाशि १, ६, २०, -तम्

अप ३७, १९, २, -ता विध

२३, ५१, -तेषु गौध १, ४६,

-तै वैण् १, ५ ३

च्युति- ति कप्र १, ८, ४, -तेः

गौध १, ४५

च्यौत्^१ - पाठ ४, १०४, -लः ऋप्रा

४, ७४^१; -†लम् अप ४८,

१०३, निघ २, ९

✓च्यु^१ पाधा. चुरा उभ सहने हसने
च

च्युकन- पाठना ४, ११५

✓च्युत् पाधा भ्वा पर आसेचने,

च्योतन्ति कौसू १०५, १

च्युतत् आपश्रौ ९, १८, १२^१.

च्योतत् - तसु कौसू ९३, १३

च्युप- पाठ ३, २४.

✓च्युस् ✓च्यु टि द्र

च्यौत्नी- पाठभो २, २, १८४

छ

छ^१- शुप्रा ८, ९, ऋत ५, ६, २, छम्

शुप्रा ४, ९८, ऋत ४, ४, ४

छ-कार- -र ऋप्रा ६, ३, १२, शौ

२, १७, १८, -रम् ऋप्रा ४,

१२, तैप्रा ५, ३, ४, याशि :

४१, -रे शुप्रा ४, २५

छकार-वत्- -वत् ऋप्रा ५, ५९

छकारा(र-आ)दि- दि उस् ८,

छ-त्व- -त्वम् शैशि ३१४, ३१^१

छ-पर- -रम् नाशि २, ६, १०

छंवद्, °ट छंभद् टि द्र

१छगल^१- पाठ १, ११३, -

आपश्रौ २०, २२, १३, हिः

१४, ५, ९, -छम् बौश्रौ ९, ५

३४, -ला आमिण् ३, ५, २

१०^१, बौपि १, २ : १४, ३

१४, २१, २९, -लान् आदि

३, ५, २ . १०^१, बौपि १, २

१४, -लानाम् बौपि १, ३

१४, २१, २८

२छगल, ला^१- पाठ ४, १, ९६^१,

८०, ३, ९३

छगल- पा ४, १, ११७, ३, ९^१

-ला बौश्रौप्र २७ २

१छगलि- पा ४, १, ९६

१छगलेय- पा ४, २, ८०

२छगलेय^१- -या. चव्यू २

छगलेय-ब्राह्मण^१- -गम्
बौश्रौ २३, ५ १५

a) चौषी इति पाठ^१ यनि शोध (तु उत्तरीयं स्थल सस्फुटं टि च)। b) पामे वैप १, ९०५ b द्र ।
c) च्यातय^१ इति पाठः^१ यनि शोध (तु हिपि.)। d) = बालग्रह-विशेष-। e) = ऋषि-विशेष-। f) = साम-
विशेष-। g) = ऋषय-विशेष-। h) वैप १ द्र । i) = बाहु-। j) शौच ४, ९१ परामृष्टः द्र । = ✓च्युस्
इति BPG.। k) पामे वैप २, ३ख अच्युच्योत् तैत्रा ३, ७, ३, ६, ७ टि द्र । l) = वर्ण-विशेष-
m) शकलाः इति पाठः^१ यनि. शोध [तु. बौपि]। n) छकलान् इति पाठ^१ यनि शोध [तु बौपि]
o) बप्रा.। व्यु ?। p) व्यप । q) = ऋषि-विशेष-। अपत्यार्थे दक् > एय प्र (पा ४, १, १२०)
r) उप. = प्रन्थ-।

छगलिन्^१->छागलेयिन्- पा ४, ३, १०९
 ✓छञ्ज पाधा सुरा पर कृच्छ्रजीवने
 छटा- पाउभो २, २, ९६
 ऋ^१छत् आपम २, १६, ३, ६, ९-११,
 भाग्य २, ७. १२, १८, २३, २४,
 २७, हिय २, ७, २५
 १छत्र^२->छात्रि^०- (>छात्रि-
 शाला- पा) पाग ६, २, ८६
 छत्राक^३-कम् आमिग्य २, ५, २ ४,
 बौग्य ३, ६, १
 छत्राक-कवका(क-अ)शन- ने विध
 ५१, ३४
 छ-त्व- छ- द्र
 छत्वर- पाउ ३, १
 ✓छद्, न्द^४ पाधा भ्वा पर ऊर्जने,
 सुरा उभ अपवारणे, पर
 सवरणे, ऋ^१छन्दति अप ४८, ९,
 निघ ३, १४
 ऋ^१छन्सत् आपश्रौ २१, १२, ९,
 वाश्रौ, अप ४८, ३, निघ २, ६,
 अछ्छान् या ९, ८^५, अछ्छान्सु^६
 अप ४८, ३^५.
 छदयते निघ ३, १४, अछ्छ-
 दयत् वाधुश्रौ ४, २९ २०
 छन्दयाते वैताश्रौ ३८, ५^५
 छादयति काश्रौ १७, १, ५, ३, १५,
 ६, १०. कौग्य ३, ६, ३, शाग्य,
 ऋ^१छादये हिश्रौ २१, १, १, ३,
 छादयामि अप ३७, १, ११^५,
 छादयेत् काश्रौ ४, ६, ६, पाग्य ३,
 ९, ६, काग्य ५२, ५, अप

अचछदत् या ९, ८
 छाद्यते शाग्य ३, ११, ९, अप ६४,
 १, १०, या ४, १८
 २छत्र^६- पाउ ४, १५९, पाग २, ४,
 ३१, ४, ४, ६२, -त्रम् आपश्रौ
 १५, २०, १७, बौश्रौ ९, १९ :
 ४२, १७, ३९ ६, ४२९, भाश्रौ,
 -त्राणि काश्रौ २१, ३, ६; अप
 ६४, ७, ६, -त्रे अप ७०^३, ११,
 १५, विध ९९, १०, -त्रेण जैग्य
 १, १६.४, १७ ७, कौसू ३३, ९
 छात्र^७- पा ४, ४, ६२, पाग
 ५, १, १३३
 छात्रक- पा ५, १, १३३
 छात्र-व्यसक- पाग २, १,
 ७२
 छत्र-दान- -नात् वाध २९, १३
 छत्र-धारिन्- -री काग्य ३, ११
 छत्र-व्वज- -जम् अप ७०^३, ९, २
 छत्र-ध्वज-पताका- -का अप
 ६७, ४, २, -कासु अप ७१, १९, २
 छत्र-प्रदान- -नेन विध ९२, २९
 छत्र-भङ्ग- -ङ्गः अप ६४, ६, ७
 छत्र-वत् अप ५८^२, २, ७
 छत्र-वस्त्र-ध्वज- -जानाम् अप
 ६४, ५, ६
 छत्र-व्यसक- पाग २, १, ७२^१
 छत्रा(त्र-आ)का(र>)रा^१- -रा
 अप ५८^३, ४, ७
 छत्रा(त्र-आ)दर्श-फलो(ल-उ)
 णीष-शुक्कमाल्या(ल्य-आ)
 गम- -मे अप ६८, २, १२

छत्रा(त्र-आ)दान- -नात् बौग्य
 २, ६, ९.
 छत्रा(त्र-आ)दि- -दीनि अप ४,
 २, १४
 छत्रा(त्र-अ)पहारिन्- -री शंघ
 ३७८
 छत्रा(त्र अ)सि-धनुस- -नुषाम्
 अप ६८, २, १३
 छत्रिक- (>छात्रिक्य- पा)
 पाग ५, १, १२८
 छत्रिन्- -त्रिणम् आमिग्य २, २,
 ३ ३
 छत्रो(त्र-उ)पानह^६- -हम् कौग्य
 २, ३, १९
 छत्रोपानह-प्रदान- -नेन विध
 ९०, ११.
 छद्^१- -देन आपश्रौ २२, ११, ९
 छदि^२- -दिम् आमिग्य २, ७, १० :
 १२
 छद्य(दि-अ)न्तराल- -लेषु
 आपश्रौ ११, ८, २
 छदिस्^३- पाउ २, १०८, -दि काश्रौ
 ८, ३, २०××, आपश्रौ, -दिषः
 निस् १, ११ ११, -दिषाम्
 हिश्रौ ७, ५, २७, ७, २१, -दिषि
 शाश्रौ ५, १३, ६, हिश्रौ २२,
 ६, ७^५, द्राश्रौ, -दिषी आपश्रौ
 ११, ८, २, वैश्रौ १४, ६. १४;
 -दीषि काश्रौ ८, ४, १७;
 आपश्रौ ११, १०, ८, १९, २६, ३;
 बौश्रौ ६, २६. ८^२, माश्रौ २, २,
 ३, २४, हिश्रौ.

- a) =कलाप्यन्तेवास्यन्यतम-। मत्वर्थे इनिः प्र (तु Pw प्रभृ)। b) व्यप। c) =आचार्य-विशेष-।
 d) नाप। व्यु^१<छत्र-+✓अक् इति अभा शक, छत्रा-+✓कै इति [पत्ते] शक, ✓छद् इति Pw. प्रभृ।
 e) वैप १ द्र। f) पा ६, ४, ९६, ९७ परामृष्ट. द्र। g) =आतपत्र-। h) व्यु?। 'गुरुश्छत्रम्, गुरुणा शिष्य-
 श्छत्रवच्छाय. शिष्येण च गुरुश्छत्रवत्परिपाल्य' इति पाम। ✓शास्त्र> *शास्त्र-(=शिष्य-)>नैप्र यनि इति तु मतम्।
 i) तु पागम.। j) विप। बस। k) समाहारे द्रस. समासान्तष् टच् प्र (पा ५, ४, १०६)। l) =उपच्छद-।
 m) =छदिस्-। इ प्र उसं. (पाउ २, १०८)। n) सप्र. आपश्रौ १९, २६, ४ प्रभृ. विशिष्टः पासे (तु. पृ ९७५ f)।

छादिषेय- पा ५, १, १३
 छदिर-अन्त- न्तम् माश्रौ २,
 १, ४, २९, -न्तेषु माश्रौ २, २,
 २, २८
 छदिर-दर्श^१- शौ आपश्रौ ६,
 २५, ६, वैश्रौ २, १० : ७
 छदिष्-मन्- मन्वाश्रौ १, २, ४,
 १९, -मता आपश्रौ १०, २४,
 २, हिश्रौ ७, २, ३६, -मती
 भाश्रौ १२, ६, ९, हिश्रौ ७,
 ५, १
 छद्मन्- पाठ ४, १४५, -फँच्च द्राश्रौ
 २, ३, १७, लाश्रौ १, ७, १५,
 आण ३, ८, १९, -च्चता विघ ९३,
 १२, अत्र ८, १
 छात्रिक^२- क. विघ ९३, ८
 छन्दयाम्/अस्, छन्दयामासु वृदे
 ७, १५७
 छन्दस्^३- पाठ ४, २१९०, -न्द
 आश्रौ ४, १२, २, ६, २, ९,
 शाश्रौ, हिश्रौ ९, ५, ४३^४, या
 ७, १२, १३, पा ५, २, ८४, पावा
 ६, ४, १०६, -न्दस आश्रौ २,
 १४, २०××, बौश्रौ, पा ४, ३,
 ७१, पावा १, १, ६, ५, २, ८४,
 -न्दस ऽ-न्दस शाश्रौ १६,
 ८, ९, -फँन्दसा आश्रौ १, ३,
 २२, ६, ५, २^३, शाश्रौ, आण
 १, २४, १८^०, कौसू ६८, १^०,
 २^{३०}, -न्दसाम् आश्रौ ४,
 १२, २, १५, २, शाश्रौ, -न्दसि
 आपश्रौ ५, १६, ४^३फँ, बौश्रौ,
 पा १, २, ३६, ६१, ४,
 ९××, पावा १, ४, ६०, ८०,
 २, १, २××, -न्दसी लाश्रौ
 १०, ६, ९, निस् ५, ३ : २३,

२७, -न्दसे शाश्रौ १३, ५,
 ४-६, काश्रौ, -न्दसोः निस्
 ५, ४ : ८, -न्द सु वाधूश्रौ ४,
 २९ : ४, अशा १८, ३, या
 १३, १३, -न्दसि आश्रौ १,
 २, १^१, ४, ९^१, ५, १४, ९,
 शाश्रौ १६, २६, २, आपश्रौ १३,
 २२, १^१××, बौश्रौ, या ७,
 १२^०, ८, २२^२फँ, १३, ७,
 -न्दोमि. आपश्रौ १३, २१, ३,
 १६, २९, १, बौश्रौ, -न्दोभ्य
 बौश्रौ १४, २९. ३०, ३४,
 वाधूश्रौ, या १, १
 छान्दस- पा ४, ३, ७१,
 पाग ५, १, १३३, -सः निस्
 ३, १२ : १२, ४, २ ६, कौसू
 १४१, ३४, -सम् निस् ३,
 ११ २३, जैगृ २, ८ १४,
 वृदे २, १०१, अत्र ८, ९, १९,
 २१, -सस्य निस् २, १ : ३१,
 -सानि निस् ४, १२ : १५, २१,
 ५, २ २३, -सेन निस् २, २ :
 ४, ११
 छान्दमी- सी निस्
 २, १० २२
 छान्दसक- पा ५, १,
 १३३
 छान्दस-बठर^५- पा २, २,
 ३८
 फँछन्दः-प(क्ष>)चा^६- क्षे^६
 अत्र ८, ९, अप्रा ३, ३, ५
 छन्द-पवित्र- श्रै वाधूश्रौ ३,
 १६ ४
 छन्दःपाद- दाः निस् १,
 १ : २
 छन्द पादा(द-अ)क्षर-

संयोग- गात् नाशि १, ३, २.
 छन्द-पुरुष- षम् शुभ्र ४,
 १९६
 छन्द-प्रत्यय-ग्रहण- णम् पावा
 ६, १, ७.
 छन्द-प्रमाण-लिङ्ग-दैवत-
 -तानि आश्रौ ५, १०, २६
 छन्दश्-चित्^७- -चित् बौश्रौ
 १७, २८. २, -फँचितम् आपश्रौ
 १७, २६, २, बौश्रौ
 छन्दश्-चिति^८- -तिम् वाश्रौ २,
 २, १, २९, -तीः माश्रौ ६, २, २,
 २१
 छन्द-संयोग-रूप- -प निस्
 ५, ४. १
 छन्द-सवनो(न-उ)पदेश-
 -शम् जैश्रौ १४. १५
 छन्द-सूक्त- -क्तम् वृदे १, १६.
 छन्दस-तस् () लाश्रौ ६, १,
 १९
 छन्द-स्तोम-रोह- -हम् निस्
 ३, १२ ४६
 छन्दस्-त्व- -त्वम् उनिस् ८ :
 ३५
 छन्दस्य, स्या^९- पा ४, ३, ७१;
 ४, ९३, पावा ४, ४, १४०^९, -स्यः
 अप ४८, ९७, -स्यम् लुस् ३,
 ८. २, -स्या काश्रौ १७, ९,
 ९, १२, ४, आपश्रौ, -स्यानि
 निस् ९, ३ २८, -स्ये निस्
 ९, ३ ४०
 छन्दस्या-पशु- -शूनाम् चाअ
 १६ २९
 फँछन्दस्-व(त>)ती- -ती^{१०}
 आपमं २, २०, ३१; तैप्रा ४,
 २०

a) वैप १ द्र. । b) ठक् प्र (पा ४, ४, ८) । c) <√चन्द इति । d) पाभे. वैप १, १३३२ b द्र. ।
 e) सप्र. शाश्रौ ४, २१, १२ विशिष्टः पाभे. । f) तु पागम. । उप. = मूर्खे- । g) पाभे. वैप १, १३३३ g द्र. ।

छन्दो-ग^१-ग लाश्रौ ८, ८,
३५, अप २, २, ४, ४, ३, ४४, २,
४, वाध ३, १९, -गम् शाश्रौ
१३, १, ४, -गा आश्रौ ६, ३,
२१, १०, १५, शाश्रौ, -गात्
आश्रौ ५, २, ४, -गान् बौश्रौ
१६, २८, ४, ९, २१, वैश्रौ २१,
१६ १, -गानाम् वाश्रौ ३, २,
२, ४२, लाश्रौ, -गेभ्य आश्रौ
५, १९, ६, शाश्रौ १७, १४, १,
लाश्रौ ९, ६, २, -गै आश्रौ
१०, ५, २०

छन्दोग्य- पा ४, ३,
१२९, -ये आश्रौ ८, १३, ३२,
काश्रौ २२, ५, १, ६, २५

छन्दोग्य-श्रुति- -ति:
वैध ४, ८, ८

छन्दोग-गुरु- -रुणा अप २,
५, १

छन्दोग-तस् () बौश्रौ १४,
४. २८, ३१

छन्दोग-प्रत्यय- -यम् आश्रौ
८, १३, ३३

छन्दोग-बह्वृच- -चा बौश्रौ
२३, ११ ४, १८ : १७, -चेषु
बौश्रौ १४, २६ १, २३, ८
२०, २२

छन्दोगबह्वृच-तस् (.)
बौश्रौ १६, १० ५

छन्दोग-बह्वृचा(च-अ)
ध्वर्यु-प्रत्यय- -येन बौश्रौ २४,
१ १३

छन्दोग-ब्राह्मण- -णम्
आपश्रौ १०, १, ३, २, ५, बौश्रौ
२, २. २०, २५, ४ : ६†

छन्दोग-वश- -शेन शाश्रौ

१०, ८, २१

छन्दोग-सूत्र-मानवसूत्र-
-त्रयो काश्रौस २७ १

छन्दो-गण- -णः अशा १८, ३
छन्दो-ग्रहण- -णम् पावा ४, ३,
१०४

छन्दो-देव(ता>)त^०- -ताः या
८, २२

छन्दो-देवता- -ता शुअ ४,
१३३

छन्दोदेव(त्य>)त्या- -त्या
लुसू १, ८ १८

छन्दो-दैवत-प्रतिरूप- -प
वैताश्रौ ३५, ५

छन्दो-दैवत-सामान्त-योग-
-गान् लाश्रौ ६, ९, १

छन्दो(न्दस्-अ)नन्तर- -रेण
शाश्रौ ६, ६, १७

छन्दो-नामन्- -मिन् पा ३, ३,
३४, ८, ३, ९४

छन्दोनामानाम्^० माश्रौ २, १,
४, ६†

छन्दो-निषेध- -ध. मीसू ३, २,
३८

छन्दो(न्दस्-अ)नुक्रम->^०क्रम-
लक्षण- -णम् मैअ १

छन्दो(न्दस्-अ)नुक्रमण- -णम्
अअभू १

छन्दो(न्दस्-अ)नुक्रान्ति-
विज्ञान- -नाय अअ १८, २१.

छन्दो(न्दस्-अ)न्त- -न्तै माश्रौ
६, १, १, २२

छन्दो-ब्रह्मवर्चस-काम- -मस्य
अशा १७, २

छन्दो-ब्राह्मण- -णानाम् पावा
४, २, ६६, -णानि पा ४, २, ६६,

पावा १, ३, १०

छन्दो-भक्ति- -क्ति निसू ३,
४ : १

छन्दो-भाषा- पाग ४, ३, ७३;
-षा चव्यु २ : २९, -षाम्
तैप्रा २४, ५.

छान्दोभाष- पा ४, ३,
७३.

छन्दो-म^१- -मम् बौश्रौ १६, ६ :
१-३, निसू ९, ६ ३४, १०,

६ : २२, -मयोः शाश्रौ १२, ४,
५××, -मस्य निसू ९, ६ -

३४, -मा आश्रौ ८, ७, १८××,
शाश्रौ, -मात् शाश्रौ ११, १३,

१३××, -मान् आश्रौ ११, २, २,
शाश्रौ, -मानाम् शाश्रौ १०,

११, १०, बौश्रौ, -मे शाश्रौ
१२, ३, १७××, आपश्रौ, -मेभ्यः

निसू ५, ६ ६, -मेषु शाश्रौ
१०, ९, ५××, वैताश्रौ, -मौ

शाश्रौ १४, ३९, २

छान्दोम- -म शाश्रौ
१६, २२, ६, -मा शाश्रौ १५,
६, १, -मात् निसू १०, ६ २१

छान्दोमिक^०- -कम् या
७, २३, २४, -कस्य आश्रौ ८, ७,

२०, शाश्रौ १०, ९, ६, -कानि
निसू ५, २ : २०, ७ १७, -कै

काश्रौ २२, ६, २३, वृदे ६,
१०८

छन्दोम-चतुरह- -ह निसू
३, ६ : २३.

छन्दोम-ता- -तायै निसू
१०, ७ : २

छन्दोम-त्रिककुद्^१- -द्
शाश्रौ १६, २९, १४

a) वैप २, ३ख द्र । b) विप. । बस. । c) शोध. पासे च वैप १ द्र । d) = एकाह-विशेष,
स्तोम-विशेष- प्रभृ. । वैप १ द्र. । e) विप । तात्रभविकृष् ठक् प्र । f) = त्र्यह-विशेष- ।

छन्दोम-व्यह- हे निसू ८,
६ : ७

छन्दोम-दशरात्र^a- -त्र
आपश्रौ २३, ९, ८, १४

छन्दोम-दशाह^a- -ह काश्रौ
२३, ५, ३१, २४, ४, १०, १५,
-हम् शाश्रौ १३, २१, १३,
-हयोः लाश्रौ १०, १०, १, -हे
छुसू ३, १ १६, १० : ४१,
१२ : २३

छन्दोम-पवमान^b- -नम्
आश्रौ १०, ३, १०, आपश्रौ २२,
२२, १८, हिश्रौ १७, ८, २२,
निसू ८, १३. २५, -नेन आपश्रौ
२२, १८, ८, २२, १७, हिश्रौ
१७, ७, ३, ८, २२

छन्दोमपवमान-व्रत^c-
-तम् आश्रौ १०, ३, ६

छन्दोमपवमाना (न-अ)
न्तर्वसु- -सू आश्रौ १०, २,
१२

छन्दोम-प्रथमा(म-अ)न्त्य-
-न्त्ययोः वैताश्रौ ४२, ७.

छन्दोम-भक्ति- -क्तयः बौश्रौ
२६, २१ ११

छन्दोम-वत्- -वता आपश्रौ
२२, २४, ३, -वति छुसू ३, १ :
१३, निसू ९, १३. ३१, -वन्तम्
आश्रौ १०, ३, २४, -वान् निसू
९, ५ १

छन्दोम-विलोप- -पः निसू
६, २ २१.

छन्दोम-साहस्य- -श्यात्
निसू ९, १ : ३९, ४६

छन्दोम-सामन्- -म निसू
८, ४ १९

छन्दोम-स्तोम- -मम् निसू
१०, ६. ११, ७ ५

छन्दोमे(म-इ)डा- -डाम्
जुसू ३, १२ १९

छन्दो-मय- -यम् वाधूश्रौ ४,
७२ : १, ६, सु १, २, -यौ
बौश्रौ १८, ३८ ५, १४

छन्दो-मान- पाग ४, ३, ७३,
-नम् हिश्रौ २१, १, १४^r, २,
३२, नाशि २, ६, १, -नस्य
शाश्रौ १, १, १९, -नेन नाशि
२, ६, २

छान्दोमान- पा ४, ३, ७३

छन्दो-योग-पर्वन्^d- -वैणि निसू
९, १० १९

छन्दो-योग-विकार- -र निसू
६, ११ १०

छन्दो-रथ- -थः वाधूश्रौ ४,
२६^v १७, -थेन वाधूश्रौ ४,
२६^v १८

छन्दो-रुद् (<ह)-स्तोम^e-
-मस्य शाश्रौ १०, ८, २१

छन्दो(न्दस्-अ)र्थ- -र्थम् पावा
४, ३, १०१, ८, १, ७०

छन्दो-वा-वचन- -नम् पावा ६,
४, १०६

छन्दो-विचिति^f- पाग ४, ३, ७३,
-ति आपध २, ८, ११ हिध २,
१, ११३, -तिम् शध ११६ ३९

छान्दोविचित- पा ४, ३, ७३

छन्दो-विजिति^f- (> छान्दोवि-
जित- पा) पाग ४, ३, ७३

छन्दो-विद्- -वित् उनिसू ८-
४१

छ दो विषय-त्व- -त्वात् पावा
१ १, ६, २, ६

छन्दो-व्यतिक्रम- -मात् मीसू
१० ५, ८८

छन्दो-व्यूह- -हे निसू ४, ९ :
२३

छन्न, न्ना- पा, पावा ७, २, २७, -[†]न्न.
वैश्रौ २०, २४ १; इश्रौ २१,
१, १, ३, -न्नम् शाश्रौ १४, २२,
९, काश्रौ, -न्ना काश्रौ ५, ४, १,
-न्ना वाधूश्रौ ४, ५७. ४,
-न्नाम भाश्रौ १२, ५, १०, वैश्रौ.

छन्न-पाप- -पा अप ५१, ५, १.

छन्नो(न्न-उ)पन्न- न्नाः वाध
१८, ७

छान्न-पाप- -पा अप ५१, ५, १.

छन्नो(न्न-उ)पन्न- न्नाः वाध
१८, ७

छान्न-पाप- -पा अप ५१, ५, १.

छन्नो(न्न-उ)पन्न- न्नाः वाध
१८, ७

छान्न-पाप- -पा अप ५१, ५, १.

छान्नो(न्न-उ)पन्न- न्नाः वाध
१८, ७

छान्न-पाप- -पा अप ५१, ५, १.

छान्नो(न्न-उ)पन्न- न्नाः वाध
१८, ७

छान्न-पाप- -पा अप ५१, ५, १.

छान्नो(न्न-उ)पन्न- न्नाः वाध
१८, ७

छान्न-पाप- -पा अप ५१, ५, १.

छान्नो(न्न-उ)पन्न- न्नाः वाध
१८, ७

छान्न-पाप- -पा अप ५१, ५, १.

छान्नो(न्न-उ)पन्न- न्नाः वाध
१८, ७

छान्न-पाप- -पा अप ५१, ५, १.

छान्नो(न्न-उ)पन्न- न्नाः वाध
१८, ७

a) = व्यह-विशेष-। b) = अहीन-विशेष-। c) = सप्तरात्र-विशेष-। d) बस > कस । e) = याग-विशेष-। f) = शास्त्र-विशेष-। g) छादयन्तोत्[†] इति पाठ ? ०यन्, आ, उक्तं इति त्रि-पद शोध (तु. मूको, सप्र. गोयु जैयु च)। h) वैप १ द्र । i) तु पाका.। छंबद्, ० इति भाण्डा । j) पाभे वैप १ परि छम्बद्कुर्वन्ति तै ७, ४, ८, २ टि द्र ।

छम्बल^a- ल ह्रि २,७,२^b
 छय^c- यम् शध ११६ ५७^d
 ✓छर, छरति अप ४८,९^e
 ✓छर्द् पाधा चुरा उभ वमने, छर्द-
 यते कौस् २८,३, छर्दयति काश्रौ
 २५, ११, ३२, छर्दयेत वाधूश्रौ
 ३,१०४ १, ३, लाश्रौ ८,१०,
 ९, छर्दयेत् आमिगृ ३,१२,१:२
 छर्दन- नम् गौध २३, २७, -ने
 वैध २,१२,३
 छर्दयित्वा बौश्रौ २८, ९.९, वैश्रौ
 २१,१ ६, आपध १,१०,२२,
 हिध १,३,४९
 छर्दि^f- छां काश्रौ २५,११,३२
 छर्दि-ज्वरा(र-अ)तिसार- रा
 अप ५५,४,२
 छ(र्दक>)र्दिका^g- का वाधूश्रौ ३,
 १०४.१
 छर्दित- तस्य वाध १३,२८
 छर्दित्वा आपश्रौ १०,१३, ११
 छर्दिस^h- पाठ २, १०८, -ⁱर्दि.
 आपश्रौ ५,१२,१, ६,१७,१०ⁱ,
 बौश्रौ, -^jर्दिषा बौश्रौ १०,
 ३१ ६, ३९ १५,४६: ३८
 छर्दिष्-पा^k- पौ शैशि १२५^l
 छल^m- पाठवृ १,१०४, पाग २, ४,
 ३१
 छल-दूत-व्यवहार- रे बौगृ ४,
 ३, ९
 छुचका- काम् अप १,६,५
 छुवि,वीⁿ- पाठ ४, ५६; -विम् पागृ

३,१२,६, -वी निसु ६,६ ११.
 छुचिका- पाठभोवृ २,२,१८
 ✓छुप् पाधा भ्वा. पर हिंसायाम्
 १छुग,गा^o- पाठ १, १२४, -^pंग
 आपश्रौ ९, १८, २, बौश्रौ, -ग
 बौश्रौ ६,८ २^q, २८,६ १६,
 हिश्रौ ४,३,१, मीस् ६,८,३३,
 -गम् काश्रौ ६,३, १८, आपश्रौ
 ९,१८,२, बौश्रौ, -^rंगस्य काश्रौ
 १६,३,१०××, आपश्रौ, -^sंगा
 काश्रौ ७, ८, १४, आपश्रौ १०,
 २६,७, बौश्रौ, -गा बौश्रौ २६,
 ११: २३, ३२: १९, -गानाम्
 आपश्रौ २०, १९, ५^t, काश्रौसं
 २६ ५^r, बौश्रौ, -गाम् बौश्रौ
 ६,१० २,१४.१××, -गायै
 बौश्रौ ९,५ २××, वाधूश्रौ ३,
 १०० १०, -गेन मीस् ६, ८,
 ४०, -गौ बौश्रौ १५,२८ १६^u
 २छाग^v- गेन विध ८०,६
 १छाग-काल- ले माश्रौ २,५,५,८
 छाग-पक्ष- -क्षे कप्र ३,१०,६.
 छाग-मित्र^w- (>^xत्रि।क>।का,
 ँकी- पा) पाग ४,२,११६.
 छाग-मेष- -वाभ्याम् वागृ ३, १२
 छाग-लक्षण^y- -गम् चव्यू २ ३०
 छाग-वृषभ- -भा शध ३०६
 छाग-स्थान- -ने आश्रौ ३,४, १०
 छागा-पयस्- -य^z बौश्रौ ९, १
 ४××, -यसा बौश्रौ ९,४, १५,
 १०,७ १३, वैश्रौ १८,२: ६,

-यसि बौश्रौ ९, ४ २२, १७:
 ९, १०,८: ६
 छागो(ग-उ)ख-मेष- -वा: काश्रौ
 २०,७,१९
 ३छाग¹-(>छागयायनि- पा) पावा
 ४, १,१५५
 छागरि²- रय³ बौश्रौप्र ४१: १.
 छागल- १छागलि- २छगल- द.
 २छागलि⁴- लय: बौश्रौप्र २६: ३.
 १,२छागलेय-, ँयिन्- प्रयु.
 २छगल- द.
 १छागल्य⁵ अप ३६, २५, ४
 छागव्य⁶- न्या: बौश्रौप्र ४१: ५.
 छागसि- सय बौश्रौप्र ४१: ४.
 १छागुश्चतेस्य⁷ वाश्रौ ३,३,१,३८
 छात- पाठवृ ३,८६
 छात्र-, छात्रक- प्रयु ✓छद् द.
 छात्रि- १छत्र- द
 छात्रिक्य-, छादन- प्रयु ✓छद् द.
 छान्दि⁸- न्दि बौश्रौप्र २७: १.
 छान्दोगि⁹- गि बौश्रौप्र २७: १.
 छान्दोग्य-, ँन्दोभाष-, छान्दोम-,
 ँमिक-, छान्दोमान-, छान्दो-
 विचित-, ँजित-प्रयु ✓छद् द.
 छाया¹⁰- य अप ७२, ३,९.
 छायाक¹¹- कात् अपरा ३, ४,१¹².
 छा(य>)या¹³- पाठ ४,१०९, पा २,
 ४, २२, -यया विध ९१, ७;
 बौश्रु ८: ७, -या आपश्रौ ११,
 १०, ९¹⁴, बौश्रौ, निध ३,४¹⁵;
 आज्यो १, ८, -यानाम् शाश्रौ

a) = बालप्रह-विशेष-। व्यु ?। b) सपा. छम्बल.<> शम्बल इति पामे.। c) साध्यदेव-विशेष-।
 व्यु ?। d) साध्यम् इति अपु २१९, २६ पाठः। e) अर्चाया वृत्तिः। f) = रोग-विशेष-। इः प्र. उर्स.
 (पाठ २,१०८)। g) = रोग-विशेष-। ण्वुल् प्र (पा ३, ३, १०८)। h) वैप. १ द.। i) पामे.
 वैप १, १३३४० द.। j) = छुदान-। व्यु ?। <✓छिद् वा ✓छे (तु. अभा.) वा इति पाठवृ, <✓स्वल्
 इति P.W. प्रयु.। k) विप. (मास-)। l) ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। m) = परिशिष्ट-विशेष-। n) प्रकरखतः
 ँली->-ल्या. ५१ इति स्यात् ?। o) पाठः ? सप्र. आपश्रौ १८, १०, २५ पालाकलस्य इति पामे.। p) अर्थः
 व्यु. च ?। q) गृह-नामन्-।

२, ६, २; अप्राय १, १, -याम्
 आपश्रौ ५, १८, २१, हिश्रौ,
 -याया हिश्रौ ७, ८, ५०,
 -यायाम् आपश्रौ १०, १३, ८×४,
 काठश्रौ, -यायै आपश्रौ ११,
 २०, ७, बौश्रौ ६, ३२ ६, १६,
 ३ ६
 छाया(या-आ)तप- -पयो माश्रौ २,
 २, ५, १५
 छायातपो(प-उ)प(मा>)म-
 -मम् माशि ३, ६, नाशि १, ६,
 १८.
 छाया-दर्शन- -नम् अप ६४, ४, ३.
 छाया-पत्नी-सहाय^२- -य विघ
 १, ९
 छाया-प्रमाण-तस् (:) आज्यो
 १, ५.
 छाया-शुष्क^३- पा २, १, ४०
 छाया-संभेद- -दात् भाश्रौ ६, ७, ५
 छाया-संभेदन- -ने अप ४१, ४, २
 छाल- पाग २, ४, ३१.
 छित्ति- √छिद् द्र
 छित्त्वर- पाउ ३, १.
 छित्त्वा √छिद् द्र
 ?छित्त्वा^० पाग ३, ७, ३.
 √छिद्^४ पाधा रुधा उभ द्वैधीकरणे,
 ?छित्स्व बौश्रौ २९, ११ : २
 छिनन्ति काश्रौ २, ३, ३०, ४, २,
 १; आपश्रौ, पावा १, ४, १,
 छिन्दते बौश्रौ १५, १४ १,
 छिन्दन्ति बौश्रौ १५, १ ३,
 वाश्रौ, ऋछिनन्ति काश्रौ ४, २, २,
 आपश्रौ, छिन्धि सु २७, ५, पाग

२, १, १८, छिन्दत^० बौश्रौ १५,
 १४ : १, २, अछिन्नत् वाधूश्रौ
 ४, ६४^५ १, वृदे ५, १५,
 छिन्दीत् बौश्रौ ३, ११ : १०^६,
 २४, ३२ : १९, भाश्रौ, छिन्द्यात्
 बौश्रौ २४, २३ ६, जैगृ, छिन्द्युः
 लाश्रौ ९, २, २६
 ऋचिच्छिदु बौश्रौ १७, ४५ :
 ९×४, वैश्रौ, छेस्स्यसि वाधूश्रौ ४,
 ४९ ३, अछिदत् वृदे ६, १५०,
 छित्याः आपश्रौ ६, २२, ११, छिद
 बौगृ २, १, १३^७, छेस्सी. आश्रौ
 १, ३, २२^८, वाधूश्रौ ३, ९६
 २, ऋछित्सि शाश्रौ १, ५, ९, ४,
 १३, १, आपश्रौ, छेस्सि^९ जैश्रौ
 १९ : ५, छिस्महि बौश्रौ ६,
 १७ : १९^{१०}, अछेस्स्यताम्
 वाधूश्रौ ४, ९९ . ८
 छिद्यते आपश्रौ १२, ५, ६, हिश्रौ,
 छिद्यन्ते वाध १६, ३५, अछिद्यत
 बौश्रौ १४, २९ . २०, वाधूश्रौ,
 छिद्येत आपश्रौ १४, २६, ३,
 बौश्रौ
 ऋछेदि शाश्रौ १०, १८, ६,
 आपश्रौ ४, १६, ४, भाश्रौ.
 छेदयति बौश्रौ १८, २० १,
 छेदयन्ति शाश्रौ १७, १, १५,
 छेदयेत् गोश्रु ४, २, १२
 छित्ति- पावाग ३, २, १०८^{११}.
 छित्त्वा काश्रौ ६, ६, ८, ७, २, १०,
 आपश्रौ, कौगृ १, २१, ९^{१२}
 छिदक- पाउ २, २७.
 छिदा- पा ३, ३, १०४

१ छिदि- पाउ ४, १४३
 २ छिदि-> छिदि-क्रिया- -या पावा
 १, ४, २३
 छिदिर- पाउ १, ५१
 छिदुर- पा ३, २, १६२
 छिद्यमा(न>)ना- -नासु कौस् ३३,
 ३
 १ छिद्^{१३}- पाउ २, १३, -ऋद्रम् आश्रौ
 ३, १४, १०^१, आपश्रौ, -द्रयोः
 कौगृ १, २०, ७, आपश्रु ९, १,
 हिश्रु, -द्राणि माश्रौ ६, १, ७,
 २६, निसू २, ११ : १७-१९,
 २१, अप, -द्रे आपश्रौ ७, ३, ८,
 आपगृ, -द्रेण काश्रौ १६, २,
 १४, -द्रेभ्यः शंघ ४६२, -द्रेषु
 वाश्रौ २, १, ७, ५, कप्र ३, २, ५,
 आपश्रु ८, १३, हिश्रु ३, २०.
 छिद्-प्रन्थि-विवर्जि(त>)ता-
 -ता अप २२, ३, १
 २ छि(द्र>)द्रा- -द्रा अप २३,
 ३, ३, -द्राम् काश्रौ १६, २, ३,
 १७, ४, १५, -द्रे काश्रौ १७,
 १२, २४
 छिद्रा(द्र-अ)पिधान- -नाय वैश्रौ
 १७, ६ : २
 छिद्रापिधाना(न-अ)र्थ-त्व-
 -त्वात् मीस् १२, २, ८
 ?छिद्रावर्त- -र्ताः अप ७०^३, १८,
 ४.
 छिद्री√सू, छिद्रीभवेत् अप
 ७०^३, १५, २.
 छिन्दत्- -न्दत् भाश्रौ ९, १५, १०^४;
 हिश्रौ १५, ४, १^{१५}, -न्दन् आश्रौ

a) विप. कस > बस । b) तु. पागम c) पाठ. ? शिक्त्वा (<√*शिक्[बन्धने] तु. शिक्त्वा-1),
 स्वा इति द्वि-पद- शोधः (तु सत्य टि. ?परित्वाह^०) । d) पा ३, २, ६१ परामृष्टः द्र । e) लोटि मपु३ विकरण-
 द्वयोपेतं रूपम् । f) छे इति पाठ ? यनि शोध- (तु सपा पै २०, ४८, ५) । पासे वैप १, १३३६ अ द्र ।
 g) सप्र. शागृ १, २८, ११ विशिष्ट पासे । h) वैप १ द्र । i) पासे वैप १, १३३६ e द्र । j) = छिन्दत्-
 आपिन् । k) सप्र. छिन्दत् <> छिन्दत्-प्राणि <> वैश्रौ २०, २७ १ अजाम् इति पासे ।

९, ७, ११, निस् ५, ५ २५
 छिन्दत्-प्राणिन्- -णि आपश्चौ
 ९, १३, १३, १६, ८, भाश्चौ ९,
 १५, ८, वैश्चौ २०, २७ : २,
 हिश्चौ १५, ४, १
 छिन्धि > ँन्धि-विचक्षणा- पा २,
 १, ७२
 छिन्न, च्चा- -ञः अप ५०, ८, १,
 -ञम् शाश्चौ १३, १२, १३[†],
[†]बौश्चौ ३, १५ : १८, २४,
 वाधुश्चौ, -ञया आपशु २, ११,
 बौशु २ ५, हिशु १, ३१,
 -ञस्य हिश्चौ ४, ४, १५, -ञा
 आपशु २, १२, हिशु, -ञाम्
 हिश्चौ ७, ४, ५०, -ञे बौश्चौ २७,
 २ १२, हिश्चौ ३, ८, ५३, बौशु,
 -ञौ वैश्चौ १३, ७ १२.
 छिन्न-क^० > ँक-तरा(र-आ)
 दि- -दय पावा ५, ३, ७२
 छिन्न-पक्ष^० -क्षाय शाश्चौ १२,
 १६, १[†]
 छिन्न-मूल^० -लेषु अप ६५, १, ६
 छिन्न-शीर्ष^० -पाग २, २, ३७^०
 छिन्न-स्तुक^० -कस्य भाश्चौ ७,
 ५, २[†]
 छिन्न हस्त^० -स्त शध ३७७
 १०
 छिन्ना(ञ-अं)श-द्रव्य-
 दर्शन^० -नम् अप ६८, २, ५१
 छिन्ना(ञ-अ)प्र^० -प्रः वैश्चौ
 १३, ७ १९, -प्रम् वैश्चौ १०,
 १५ : १४
 छिन्ना(ञ-अ)अ- -त्रेषु अप

६५, १, ६
 छिन्नो(ञ-ओ)ष्ट^० -ष्ट- शंध
 ३७७ : १०
 छेत्तव्य, व्या- -व्यम् बौश्चौ २४,
 ३२ १९, २१, शंध २६०,
 ३२९, -व्या बौश्चौ २४, २३ ५
 छेत्स्यत्- -स्यन्त् हिश्चौ ४, १, १०
 छेद- पाग ४, १, ४१, ५, १, ६४,
 -द. शैशि १८१, माशि ९, ६,
 याशि २, ८, नाशि १, ६, ११,
 -दम् आपशु ५, ९, हिशु २,
 १८, -दे माश्चौ ६, १, २, २४,
 वैशु ६, १ १८, सुध ४७
 छेदी- पा ४, १, ४१
 छैदिक- पा ५, १, ६४
 छेद-दाहो(ह-उ)पघात- -तेषु
 बौश्चौ २७, १० २३
 छेद-संहि(त >)ता- -ते बौशु
 २० २२
 छेदा(द-आ)दि-पथिन्- -थिभ्य
 पावा ५, १, ६७
 छेदन- -नम् या ११, ३७, पावा
 १, ४, २३, -ने विध ५०, ४८,
 पावा १, ४, २३
 छेदन-ज्ञान- -नाय बौश्चौ २६,
 २३ ४^{१६}
 छेदन-भेदन-खनन-निरसन-
 पित्र्य^१-राक्षस-नैर्नैत-रौद्रा(द्र-अ)-
 भिचरणीञ- -येषु बौशु ३, १३,
 ४, बौध १, ७, ६
 छेदन-भेदन-भोजन-मैथुन-
 -नानि अप ४१, ३, ३
 छेदन-भेदन विलिखन-विमर्दना-

(न-अ)वस्फोटन- -नाभि गौध
 ९, ५१.
 छेदन-भेदना(न-अ)चदारण-
 दहव- -नेषु अप्राय ६, ९
 छेदन-मन्त्र- -न्त्र हिश्चौ ३, ८,
 ५३
 छेदन-समार्गा(र्ग-अ)वदान-
 -नेषु मीस् ११, १, ३६.
 छेदम् लाश्चौ ८, ५, ४
 छेदयत्- -यन् अप १, ९, ८.
 छेदयित्वा शाश्चौ १७, १, ८, वैश्चौ.
 छेदि- पाठ ४, ११९
 √ छिद् पाधा चुरा उभ. कर्षभेदने,
 करणभेदने इत्येके
 छिन्दत्-, छिन्न- प्रभु √ छिद् द.
 छुच्छुन्दरि^० -रि विध ४४, ३१.
 √ छुद् पाधा तुदा, चुरा पर छेदने.
 √ छुद् पाधा तुदा पर संवरणे
 √ छुप् पाधा तुदा पर स्पर्शे
 छुबुक^० -कात् पाग ३, ६, २, दंवि
 २, ९
 √ छुर् पाधा तुदा पर छेदने.
 छुरि(क >)का- पाठनाट्ट २, ४४.
 √ छृद्^१ पाधा रुधा उभ दीप्ति-
 देवनयो., चुरा. उभ संदीपने,
[†]चृणत्तु बौश्चौ ९, ४. १७^३;
 माश्चौ ४, १, २९, [†]चृन्धि बौश्चौ
 ९, २ : १८, ४, १८^३
 √ छृप् पाधा चुरा. उभ संदीपने.
 छेक- पाठमो^१ २, २, ६
 छेत्तव्य-, छेत्स्यत्-, छेद्- प्रभु,
 छैदिक- √ छिद् द.
 √ छो^१ पाधा. दिवा पर. छेदने,

a) पाभे. पृ १०९० k टि द्र । b) पाभे वैप १, १३३६ e द्र । c) कन् प्र (पा ५, ४, ४) ।
 d) विप । बस । e) तु पागम । f) सप्र. आपश्चौ ७, ६, १ लूनस्य इति पाभे । g) बस. > कस > षस. ।
 h) ञ्जायाय इति पाठ^१ यनि शोषः (तु. भवस्वामिभाष्यम्) । i) ँपितृरा इति पाठः^१ यनि. शोष. [तु. बौध ।।
 j) = प्राणि-विशेष- [छुन्दुर इति नभा ।। व्यु^१ । k) वैप १ द्र. । l) पा ७, २, ५७ परामृष्ट. द्र. । m) पा २,
 ४, ७८, ७, ३, ३७, ४, ४१ परामृष्ट. द्र ।

†छयति आपश्रौ २०, १८, ९,
वाधूश्रौ ३, ९४ : १५, हिश्रौ
१४, ४, २०, शुप्रा ४, १५५.
✓क्यु^१ पाधा. म्ना आत्म. गतौ.

ज

१ज- शुप्रा ८, ९^b, पि १, ६०.
२ज^a- जौ वेज्यो १८
जौ > जावा(जौ-आ)घं(दि-अं)वा-
-शै वेज्यो १७
१ज^b- ज शुप्रा ४, १६६, शैशि
२०५, भाशि २.
ज-कार- -रम् तैप्रा ५, २३.
जकार-लकार- -रयो. ऋप्रा ४, १०
जकारा(र-आ)दि- -दिषु अप्रा
२, ४, १५.
ज-ज- -जौ भाशि ६०.
ज-पर- -रः तैप्रा ५, २३
ज-भाव- -व. पावा ६, ४, २२.
ज-शब्द- -ब्द. याशि २, ५२.

२ज- ✓जन् द्र
✓जंस पाधा नुरा पर. रक्षणे.
✓जक्ष^० पाधा. अदा पर. भक्तहसनयो,
जक्षति अप ४८, ५३†
जक्षिवस्- ✓घस् द्र
†जक्षु^१ शाश्रौ १८, २१, ११, काश्रौ
१३, २, २४
जगत्^६- पाठ २, ८४, पावा ३, २,
१७८, -†गत् आश्रौ ४, २, ५,
आपश्रौ ९, १७, १^b××, बौश्रौ,
हिश्रौ १५, ७, २३^b, आपमं १, ९,

१०^१; हिष्ट १, १८, ५^१; या ५,
३६, ९, १३६, -†गत् आश्रौ
४, १२, २, शाश्रौ, अप ४८,
७८^१, निघ २, ३^१, या १२, १६६,
-†गति बौष्ट २, ८, २९, भाष्ट ३,
१३ १०, अप १, ३८, ५, अशा ८,
५, विघ २०, २७\$, बुदे ४, ३७\$,
जगती^६- पाग ४, १, ८६, शाश्रौ
७, २७, ९××, काश्रौ, या ७,
११, १३६, -†ती काश्रौ १७,
१२, ७, आपश्रौ, -तीनाम् शाश्रौ
१३, १०, ५, ऋअ ४, ५, -तीभि
आश्रौ ६, ३, ९, शाश्रौ ८ ९, २†^६,
आपश्रौ, बौश्रौ १, ९ ८†^६, -तीम्
आश्रौ १, ४, ९†, शाश्रौ, -तीषु
जुसू ३, ११ : १६, निसू ५, ९
१, १०, -त्यः आश्रौ ६, २, ६,
शाश्रौ; अश्र ३, २६^१, -†त्या
आश्रौ ३, १२, २२^m, ४, १२, २†^m,
काश्रौ, कौसू १३३, ६^m, -त्या
शाश्रौ ७, २७, १७, २६, आपश्रौ,
-त्याम् निसू ५, ३:३३, ३७, अप
२०, ७, ११, ऋअ २, ६, ७५, -त्यै
शाश्रौ १३, ५, ६, काश्रौ, -त्यो
निसू ९, २ १३, -त्यौ भाश्रौ
९, १६, १४, हिश्रौ
जगत^६- पा ४, १, ८६,
-तः शाश्रौ १५, १०, ३, आपश्रौ,
-तम् आश्रौ ४, १३, ७××,
शाश्रौ, -तस्य शाश्रौ ९, ८, ३××,
लाश्रौ ७, १०, १२, निसू ८, ४

६, -ता आश्रौ ४, १२, १^m
-तात् शाश्रौ ९, २०, १८, ऋप्रा
१७, ४४, -तात् आपश्रौ १३,
१८, ८, २०, २०, ११, वाश्रौ ३,
४, ५, ६, हिश्रौ, -तानि शाश्रौ
१०, ११, ११, १२, १०, २, जुसू
३, १० २८, १२. १६, निसू ९,
५ २८, -ताभ्याम् पिं ३, २४,
उनिसू १ ५८, -ते शाश्रौ ७,
२६, ६, आपश्रौ, -†तेन आश्रौ
६, ५, २, शाश्रौ, कौसू ३, १०^०,
-†तेभ्यः शाश्रौ ९, २७, १†,
-तै पिं ३, ३५, -तौ ऋअ १,
६, ३××, शुअ
जगत^६- -ती
निसू १, १ २३^p, -तीम् अप्राय
२, ९†, शुअ १, ४४८
जगत-गायत्र-
-त्राभ्याम् उनिसू १ : ४०, फिं
३, १६, -त्रौ ऋअ २, ३, ५१.
जगत-ता- -त्या
निसू १, १२ ५
जगत-प(द >)दा^१-
-दा ऋअ १, १०, १, शुअ ५, ७१.
जगता(त-अ)नुग-
-गाम् पाशि ८
जगती-ना(र्भे >)र्भा^१- -र्भः
अश्र ८, ५, १०, ५, ११, २
१जगती-छन्दस्- -न्दसा
बौश्रौ २३, १३ : ३३, २६, १५ :-
११, १८, २७, जैश्रौका १४६

a) ✓क्यु, ✓कळ, ✓उ, ✓ज्यु, ✓इयु इति BPG । b) = वर्ण-विशेष- । c) = ज-गण-
[छन्दो-गण-] । d) = अश्वयुज्- [अश्विनी-नक्षत्र-] । e) पा ६, १, ६, ७, २, ७६, ३, ९८, ९९ परामृष्ट द्र ।
f) पाठः ? चक्षु इति शोधः (तु BC) । g) वैप १ द्र । h) पामे वैप १ हवि काठ ३५, ४ टि द्र ।
i) पामे वैप १ पशुम् शौ ८, ७, ११ टि द्र । j) मरुष्य-नामन्- । k) पामे वैप १, १३३८ ४ द्र ।
l) ल्यौ इति पाठः ? यनि. शोधः । m) पामे वैप १, १३३८ d द्र । n) ल्येन इति
पाठः ? यनि शोध (तु. तै ४, ४, १२, २) । o) पामे पृ २०१ a द्र । p) = छन्दोवृत्ति-विशेष- ।

२^१जगती-छन्दस्^१ -न्दस.
बौश्रौ ८, १२ ३७××, वैश्रौ १६,
१४ १०, -न्दा आपश्रौ १९,
४, ९, बौश्रौ, जैश्रौ ११:
१८^b.

जगती-त्रिष्टुप्- -ष्टुभौ
शुभ्र २, ४४४

जगती-त्रिष्टुब्-अन्त^१-
-न्तम् ऋअ २, ६, ६१

जगती-प्रातः-सवन- -ने
बौश्रौ २६, १५ १२

जगती-शंसम् शाश्रौ ११,
१५, ११

जगती-संप(ञ>)ञा-
-ञाः लाश्रौ ९, ४, ३१

जगत्य- पा ४, ४, १२२

जगत्य(ती-अ)न्त^१- -न्तम्
ऋअ २, १, ८२××, अअभू १,
ऋप्रा १६, ११

जगत्य(ती-अ)र्ध^१- -र्धे ऋअ
२, ६, ७५, -र्धेन शुभ्र ३, १२०

जगत्या(ती-आ)दि- -दि
ऋअ २, १०, ८३, १७७

जगत्यु(ती-उ)त्तर^१- -रः
ऋप्रा १८, २९

जगत्-छन्दस्^१ -न्दस शाश्रौ १४,
३३, १४, १५, काश्रौ २५, १२,
६, माश्रौ २, ५, १, ३३, ५०,

-न्दसा निसू ३, ६, २९, -^१न्दा.
शाश्रौ ६, ८, १२, काश्रौ १३, १,
११, माश्रौ २, ५, १, २२

जगत्-कारण-कारण- -णम् विध
१, ६१

जगत्-नृतीयसवन^१- -नः बौश्रौ

१६, १० : ६

जगत्-पति- -०ते विध ९८, १९

जगत्-परायण- -०ण विध ९८,
१००.

जगत्-प्रभु- -भुः अप ४, १, २१

जगत्-प्रात-सवन^१- -न बौश्रौ १६,
१० ६

जगत्-सभूति-संरक्षा-सहारै(र-ए)
कविनोद^१->^१दिन्- -दिने

शैशि ३

१जगत्-सामन्^१- -मिन् मीस् १०,
५, ५८

२जगत्-सामन्^१- -मा आपश्रौ १२,
१४, १, माश्रौ २, ३, ५, २

जगत्-स्वामिन्- -मिति अप ७१,
१९, ६

जगद्-(हि>)धित- -ताय अप
५१, १, २

जगद्-बीज- -जम् शुभ्र ३, १३७,
अअ ३, ६

जगद्-वृत्ति^१- -त्तयः निसू ५, ९ : ४

जगन्-नाथ- -०थ विध १, ५०, ५८

जगन्-माध्यदिन^१- -न बौश्रौ १६,
१० : ८

जगता^१ आपम २, १५, ४, आमिष्ट २,
४, १ १५, काष्ट ११, २, भाष्ट २,
३ : ८ माष्ट २, ११, १२; हिष्ट
१, २७, ४.

जगति निघ २, १४^१
जगदै^१ पाष्ट ३, ४, ४^१; ८.

जगति निघ २, १४^१.
जगुरि^१- -रि या ११, २५^१कृ

जग्घ- प्रभु. √घस् द्र
जग्मि-, जग्मिवस्-, जग्मु- √गच्छ

द्र

जग्रसान- √प्रस् द्र

जघन^१- पाठ ५, ३२, पाग ४, ३,
५४, ५, ३, १०३, -न्तम् कौस्

१३९, १५^१, अप, या ९, २०^१,
-नान् या ९, २०^१, -नानि या

९, २०^१, -ने बौपि ३, ३, १२^१,
वैष्ट ३, १४ ४, कौस् २५, १७,

८०, ३३, माशि ९, ३, -नेन
शाश्रौ १६, १, ७, १७, ५, ८, १०,

४, आपश्रौ, बौपि १, १४:
१३^१

जाघ(न>)नी^१- -नी मीस् ३,
३, २०, -नी बौश्रौ १७, ५

८^१, २६, २२ १२, -नीनाम्
वाश्रौ ३, २, ६, ५४, -नीभि

आपश्रौ १४, ७, ११, हिश्रौ ९,
८, ४२, -नीम् आश्रौ १२, ९,

१०, काश्रौ, -न्या काश्रौ ६, ९,
१४, १९, आपश्रौ, -न्या भाश्रौ

७, २२, १०, वैश्रौ १०, २१ :
१७, -न्याम् वैश्रौ १०, २१ :

१९, -न्यै आपश्रौ ७, २७, १०,
बौश्रौ ४, १० १६, १७;

२०, ३१ : ५, ७, ८, १०, हिश्रौ
४, ५, ४९, ५०

जाघनी-गुद्- -दम् काश्रौ
६, ८, १३

जाघनी-शेष- -षम् भाश्रौ ७,
२२, १४, हिश्रौ ४, ५, ५१.

जघन-च्युति^१- -तिम् आश्रौ २,
१०, १४^१

जघन-तस् () कौस् ७५, १३, १८;
८१, २१^१.

a) विप. । बस । b) पामे वैप २, ३खं. जगच्छन्दा ता १, ५, १५ टि द्र. । c) = [जगतीछन्दस्क-] अर्धर्व- । d) षस > द्रस > कस । e) मलो. कस । f) पाठः ? पामे ?जगता<>?जगदै<>?जायताम् इति, तच्छोधार्थं तु सस्थ टि वत्स-> -त्सः ? । g) लघुशास्त्रीयः पाठः । h) वैप १ द्र. । i) ०नेन इति पाठ. ? यनि. शोधः । जठरे इति R. । j) पामे. घृ २५३ a द्र. । k) = पशु-पुच्छ- । l) उत्तरेण संधिरार्थः (तु. संस्कृतां [M. LVIII]) ।

जघन-देश- -शे कौस् ४४, ७
जघना(न-अ)र्ध- -र्धात् वाश्रौ १, ६,
७, ४, आमिष्ट ३, ९, ३ ९, बौपि
२, ७, ८, बौध ३, ४, ७, -र्धे
आपश्रौ १९, ११, ११, हिश्रौ
२३, २, ११, जैश्रौ १९: १४,
आपष्ट १२, ४
जघन्य, न्या¹⁰- पा ४, ३, ५४, ५, ३,
१०३, -न्य. आश्रौ १, १३, ७,
शाश्रौ ३, ८, २६, आपश्रौ, -न्यम्
शाश्रौ १३, १२, ८, आपश्रौ, -न्यम्
ऽ-न्यम् आपघ २, ११, ११,
-न्यस्य शंघ ३३२. -न्या आपमं
२, १४, ११, आमिष्ट २, १, ३:
२३, भाष्ट १, २३ १५, हिष्ट
२, ३, ७, शघ ८५, -न्या वैष्ट
३, १: १२, -न्यान् गौघ ५,
२६, -न्यानि आपघ २, १६, ६,
हिघ २, ५, ६, -न्याम् आमिष्ट
३, ५, ३: २, कौस् ८१, २०,
-न्यायाम् आपश्रौ १९, २६, १०,
-न्ये हिश्रौ २२, ६, १०, -न्येन
वाश्रौ ३, ३९ २३
जघन्य-ज- -ज वृदे २, ६१
जघन्य-तर- -रे लाश्रौ ८, ४, ८
जघन्य-वाप्य^०- -प्यान् बौश्रौ
१८, २०: ५
जघन्य-विधि- -धे लाश्रौ ९,
७, ७.
जघन्य-व्रज्या^d- -ज्याम् लाश्रौ
८, १२, २
जघन्य-सवेदिन्- -शी काष्ट १,

११, आपघ १, ४, २८, बौघ १,
२, २२, हिघ १, १, १४७, गौघ
२, २७
जघन्य-सम-समाना(न-आ)सना
(न-अ)नुचरण- -गानि वैश्रौ
१७, १८ ९^०
जघन्य-स्तवन- -नम् लाश्रौ
१०, ९, ४
जघन्या(न्य-अ)हन्- -ह सु बौश्रौ
११, १ १३, १८, २० ८, २२,
१३ ९, २६, ३२ १
जघन्यो(न्य-उ)दक^१- -के बौश्रौ
१६, २९ ८, ३० २
जघन्वस्-, जग्नि-, जग्निवस्- ✓हन
द्र
जघ्नु- पाउमो २, १, २०
जङ्गम- प्रमृ ✓गच्छ द्र
जङ्गल^१- पाउमो २, ३, ९५, -लम्
अप ५७, ३, ४^१
जाङ्गल- -लम् विघ ३, ४,
-लानि अप्राय ३, १०, -ले अप
६२, ३, ४
जङ्गल-धेनु-वलजा(ज-अ)न्त-
-न्तस्य पा ७, ३, २५
जङ्गल-पथ->जाङ्गलपथिक-
पावा ५, १, ७७
जङ्गिड^१- -डः अशा १९, ६^२, अश
१९, ३४^२, -डम् अशा १९,
६
जङ्गिड-देवताक- -कम् अश २, ४.
जङ्गिड-मणि- -णिम् अश २, ४
जङ्गनत्-, जङ्गन्थति- ✓हन् द्र.

ज(ङ्ग>)ङ्गा^१-पाउ ५, ३१, पाग^१ ४,
१, ९६^१, ५, २, ९७, -ङ्गयोः
वैताश्रौ ३, १४, आष्ट ४, ३, १४;
वैष्ट १, २ १२, अप ९, २,
१, शघ १०२, विघ ९६, ६४;
-ङ्गा अप २२, ४, ४, -ङ्गाभिः
भाशि ३९, -ङ्गाभ्याम्
आपश्रौ १९, १०, २, वाश्रौ ३,
२, ७, ३८, हिश्रौ २३, १,
५२, आपमं १, १७, ४^६, हिपि ९:
१०, -ङ्गाम् दाश्रौ ३, ४, १७;
५, १, २५, लाश्रौ १, १२, २, २,
५, २०, -ङ्गाया आपघ २, २०,
१४, हिघ २, ५, १०१, -ङ्गे
शाश्रौ १५, १९, ११, वैश्रौ
जाङ्गिक^१- कम् शघ २५५.
जङ्गा-कर^१- पा ३, २, २१.
जङ्गा-द्वय- -यम् विघ ९६, ९०.
जङ्गा-प्रहत- (>जाङ्गाप्रहतिक-
पा), जङ्गा-प्रहृत^२- (जाङ्गाप्रहृ-
निक- पा), जङ्गा-प्रहत-
(>जाङ्गाप्रहतिक- पा) पाग
४, ४, १९
जङ्गा-मात्र- -त्रम् अप ३०, १, ४
जङ्गामात्री- -त्रीम् काश्रौ १६,
८, २३
जङ्गा-रथ^१- पाग २, ४, ६३.
✓जङ्ग पाधा भ्वा पर युद्धे
✓जङ्ग, >जङ्ग(त्>)ती^१-
-ती निघ ४, ३, या ६, १६.
रजज्ञान- ✓जन् द्र
रजज्ञान- ✓शा द्र

a) वैप १ द्र । b) = पश्चिम-, नीच- । c) विप (यव-) । उस । d) तृस उप भाप. ।
e) द्रस. >वस >द्रस । जघन्यसमासना^० इति संस्कर्तुरभिमत ? । f) विप । बस. । g) = अररय- । व्यु. ?
<✓गल् इति शक., ✓जन् इति पाउमो । h) अर्थः ? । i) तु पागम । j) व्यप. । k) पाभे. वैप १
प्राणिभ्याम् ऋ १०, १६३, ४ टि द्र । l) विप > नाप ([जङ्गाजन्यदेय-] राजशुल्क- [तु. विवादरत्नाकरः
पृ ६६२]) । तस्येदमीयष्ट ठक् प्र डसं (पा ४, ३, १२४) । m) = दूत- (= जाङ्गिरु- [तु. राजतरङ्गिणी ७, १३४८
अभा. शक. च] इति, जङ्गारिक- [तु. कौटिल्यार्थशास्त्रम् २, १, १९] इति च) । उस । n) तु पाका ।

जज्ञि- $\sqrt{\text{जन् द्र}}$
ज-ज- ज-द्र.
 $\sqrt{\text{जञ्ज}}$ पाधा भ्वा पर युद्धे
जञ्ज- पाग ६, १, १६०
जञ्जण^१-> जञ्जणा $\sqrt{\text{भू}}$ >
 $\sqrt{\text{जञ्जणा-भवत्}}$ - वन् अप ४८,
२०, निघ १, १७.
जञ्जप- ^०पूक- $\sqrt{\text{जप् द्र}}$
जञ्जभत्- ^०भान- ^०भ्यमान-
 $\sqrt{\text{जम् द्र}}$
 $\sqrt{\text{जट}}$ पाधा भ्वा पर संघाते.
जटा^१- पाठ ५, ३०^०, पाग ५, २,
९७, १००, १२७, -टा कौशि
५४, -टा वागृ ४, १, जैगृ १,
११.१, शंघ १५९ ८, -टाम्
कौशि ५३, ५७, -टायाम् कौशि
५५, -टायाम् कौशि ५६
जाड्य^१- ^०व्यः या १, १४
जट- पा ५, २, १२७
जटा-करण- ^०गम् वागृ ५, ४,
-गेन वागृ ९, २
जटाकरणीय- ^०यान् वागृ ५,
१०
जटा-धर- ^०रः वैध १, ७, ६
जटा-धारिन्- ^०री शघ ३८१.
जटा-ल- पा ५, २, ९७
जटा-लोम-नख- ^०खानि पागृ २,
६, १७
जटा-श्मश्रु-रोम-नख- ^०खानि
वैध ३, ५, ७
जटा-श्मश्रु लोम-नख- ^०खम्
कागृ ३, ५, -खान् विध ९४, ९
जटिन्- ^०टी आमिगृ १, १, ४ :

४६, २, ७, १० : ४, वैगृ २, ८ :
११, हिगृ १, ८, १०, अप ४०,
२, ९, शंघ ३६९, वैध १, ३, ६
१जटिल, ला- पा ५, २, १००,
-ल सु १६, ५, कागृ १, २४,
वाध, -लान् मागृ २, १४, ९,
अप ५३, २, ३, -^०लाय अप ६६,
२, ६, ३, २, -^०ले अप ३६, १,
४, १३, -लेन विध २८, ४१
जटायु- पाठमो २, १, ४.
जटायुस्- पाठगृ २, ११८
जटालि- पाठदु ६, २२
जटि- पाठ ४, ११८
२जटिल- पाठदु ५, ५३.
जटिलक^१- पाग २, ४, ६९.
जटिलिक^१- (> जाटिलिक- पा)
पाग ४, १, ११२^१
जठर^१- पाठ ५, ३८^०, पाग २, २,
३८, ४, ३१^१, -रम् आश्रौ ६, ३,
१^१, शाश्रौ, या ४, ७^१, -^०रा
आपश्रौ ६, २१, १, बौश्रौ
१४, ७ १३, २६, ७ १६,
वाधूश्रौ ३, ५४ : १, ४, १०२ :
३, -^०रे आश्रौ १, १३, १, ६,
३, १६, शाश्रौ, वैताश्रौ १२, ८^१
जाठर- ^०रम् नाशि २, ८, ७^१
जठर-तस् (:) आमिगृ ३, ९, १ : १०,
बौपि २, ६, २
१जड^१- पाग ५, १, १२३, -ड
आमिगृ ३, १०, १ ४, बौपि ३,
५, २, शघ ३७८, -डम् अप
३, २, ४; -डस्य गौध २८, ४५,
-डे अप ३, २, ५.

जाड्य- पा ५, १, १२३
जड-क्रीब- ^०बौ गौध २८, ४४
जड-मूका(क-अ) ^०ध-बधिर-कुब्ज-
वामन-कुण्डक- ^०कान् कप्र १,
६, ५
जडिमन्- पा ५, १, १२३
२जड^१- (> जाडायन- पा) पाग ४,
१, ११०
जटु- ^०व अप ४८, ११५^१.
जट^१- (> १जातायन- पा) पाग ४,
१, ९९.
जटु^१- पाठ १, १८, पाग ४, २,
८०, -तु वाध २, २६, -तुना
कौसू १३, ३, २६, २१.
जत्- पावा ४, १, ७१
जतविल- पा ४, २, ८०
जतु, तू, कर्ण^१- पाग ४, १, १०५^१;
२, १११, -र्णाय आमिगृ १,
२, २ : १८
जातुकर्णि- ^०र्णि^१ वाधूश्रौ ४,
१०८ ३, ५.
जातुकर्ण्य- ^०र्णाय बौगृ ९, ५,
१जातूकर्ण- पाग ४, १, १०५^१;
-^०णम् शागृ ४, १०, ३, -^०र्णः
बौश्रौ ४५ ३, -^०र्णाय मागृ
३, १० ३
जातूकर्ण्य- पा ४, १, १०५, -^०र्णः
शाश्रौ १, २, १७, ३, १६, १४;
२०, १९, १६, २९, ६, काश्रौ ४,
१, २६, २०, ३, १७, २५, ७,
३७, अप १, ३, १, -^०र्णम् अप
४३, ४, ४०, -^०र्णस्य शुभा ४,
१२५; १६०; ५, २२, -^०र्णाय

a) वैप १ द्र । b) = दीर्घकेश-सघात-, आनृतपद-संघात- [जटापाठ-] । c) $\sqrt{\text{जन्}}$ ।
d) मत्वर्थीय यण प्र डसं. (पा ५, २, १२०) । e) व्यप । व्यु १ । f) तु पाका । णिका- इति भारुडा ।
g) तु. पागम । h) पाभे. वैप २, ३खं गोत्रा १, २, ७ टि द्र. । i) जठरम् इति कालिस, लासं । j) = मूर्ख- ।
व्यु. ? $\sqrt{\text{जळ}}$ इति अभा । k) = जळु- । सपा जडवः <> जळहव इति पाभे. । l) = लाक्षा- ।
m) तु. पाका । जातूकर्ण- इति भारुडा । n) उत्तरेण संधिरार्षः ।

हिय २, १९. ६
 २जातुर्कण- पा ४, २, १११
 जतुक^a- पाग २, ४, ६९^b
 जतुरक^a- पाग २, ४, ६९^b
 जतु^c- पाठ ४, १०२, -ब्रु. विध
 ९६, ७१, -फुभ्यः काश्रौ २५, ५,
 ३०^d, काग २७, २^d, -ब्रूणाम्
 आपश्रौ १५, १५, १, भाश्रौ ११,
 १५, ९, -ब्रूणि वैश्रौ १३, १७,
 ५, -त्रो वैगृ २, ५: ८
 √जन^e पावा जु पर जनने, दिवा.
 आत्म प्रादुर्भावे, फजनिष्व>
 ष्वा आपश्रौ १६, ३, ७^f, वैश्रौ
 १८, १. ४३^g, हिश्रौ ११,
 १, ३२^h, ऋप्रा ७, ५६, तैप्रा
 ३, ८ⁱ
 जननव शाश्रौ १०, १५, ६^j
 जायते फआश्रौ २, १६, १९××,
 फशाश्रौ, आपश्रौ २, १, ३^k,
 बौश्रौ १, १० : २०^k, भाश्रौ
 २, १, ४^k, हिश्रौ १, ६, ६१^k,
 बौपि ३, १२, ३^l, जायेते बौश्रौ
 १८, ५० २६, वाधूश्रौ ४, ८३ :
 ९××, जायन्ते शाश्रौ १५, १८,
 १^m, आपश्रौ, फजायसे आपमं
 २, ११, ३३, १४, ३, आगृ,
 फजायत आश्रौ ८, १, ९, शाश्रौ
 १०, ८, १, १८, २३, ११, ऋअ
 २, १, १२८, जायते वैश्रौ १८,
 १५ ५ⁿ, जायाते वाधूश्रौ ३,

१२ १०, जायाते बौश्रौ १०,
 २४ : १९ⁿ, फजायथाः आश्रौ
 ८, ५, १२, १०, २, २२, शाश्रौ,
 फजायताम् शाश्रौ ४, १४, ३६,
 १५, १८, १, काश्रौ, आगृ २, ८,
 १६^o, आगिमृ १, ५, ५ १४^k,
 हिय १, २५, १^o, जायेताम्
 हिश्रौ १५, ४, १४^l, फजायन्ताम्
 शाश्रौ १५, १८, १^m, भागृ,
 फजायस्व आपश्रौ ५, १०,
 ९, भाश्रौ, फअजायत बौश्रौ १०,
 २२ ८, वाधूश्रौ, अजायेताम्
 ऋअ २, १, १६६, फअजायन्त
 बौश्रौ ७, ४, २०, शुप्रा ४,
 ७८, फअजायथाः आगृ ४, ३,
 २७, कौसू ८१, ३०, जायेत
 शाश्रौ १५, १८, १, काश्रौ,
 जायेयाताम्¹ आपश्रौ ९, १४,
 ७, भाश्रौ ९, १६, १३, वैश्रौ
 २०, ३० १, अप्राय ५, ५,
 जायेरन् काश्रौ २२, ३, २, आगृ
 १, ७, ३, भागृ
 फज्जे आश्रौ ३, १२, २२××,
 शाश्रौ, वाश्रौ १, ४, २, १०^o,
 अप्राय ५, १^o, फजजान आश्रौ
 ६, १४, १६, शाश्रौ, जज्ञाते वृदे
 ३, ११, ६, १६३, या १२, १०,
 जज्ञतुः आश्रौ ३, ८, १ⁿ,
 जज्ञिरे शाश्रौ १५, १८, १ⁿ,
 वाधूश्रौ, फजज्ञिषे या १, १५,

अप्रा १, १, १२, फजनिता माश्रौ
 ५, २, ४, ६, ११, ५, फजनिष्यते
 काश्रौ १२, २, ८, आपश्रौ, जनिष्ये
 शाश्रौ १, ५, ९, वृदे ४, १३०,
 जनिषीय अश्र ९, १ⁿ, फअजन्^o
 आपश्रौ ५, ११, २, वैश्रौ १, ११ :
 १, फअजनि शाश्रौ १५, १८, १,
 आपश्रौ, अप १, १७, १^o, जानि
 ऋप्रा ९, ४७ⁿ, फअजनिष्ट आश्रौ
 ३, ७, ८××, शाश्रौ, या २ १९;
 जनिष्टो(ष्ट-उ) या ११, ३६ⁿ,
 अज्ञत शाश्रौ १५, १८, १ⁿ, भाशि
 ६०, फअजनिष्ठा कौसू ६०, २३;
 ७०, १, गो २, ६, ७, बौध १, १०,
 ३२^o, अश्र ११, १, फजनिष्ठाः
 आश्रौ ५, १४, १९, ९, २, ५;
 शाश्रौ, फअजनिद्वम्, जनिद्वम्
 गो २, ९, १०
 अजायिष या ६, १५
 जनयते अप ५३, ५, १, ६५, १,
 ३, पाशि ९, जनयति फआपश्रौ
 ९, ९, ११××, बौश्रौ, कौसू
 ५२, १९^o, जनयत आपध १,
 १, १८, हिव १, १, १७;
 जनयन्ति वाधूश्रौ ३, १३ :
 १४, ४, ११६ : ३; निसू;
 फजनयथ.^f आपश्रौ ५, ८, ६;
 बौश्रौ २, १५ : ९, हिश्रौ ६, ५,
 १०, फजनयथ>था जैश्रौ
 १२ : ५, आपमं, जनये आपश्रौ

- a) व्यप.। व्यु ?। b) तु पागम। c) वैप १ द्र। d) शोध वैप १, १३४०
 म द्र। e) पा १, ३, ८६, २, ४, ८०, ३, १, ६१, ६, १, १९२, ४, ४२, ४३, ९८, ७, २, ७८, ३, ३५, ७९ पावा
 ६, १, १९१ परामृष्टः द्र। f) पामे वैप १, १३४१ d द्र। g) पामे वैप १, १४५४ ० द्र। h) सकृत्
 प्रत्रियते इति B। i) पामे. वैप १, १३४२ d द्र। j) पाठ. ? पृ १०९३ g द्र। k) सपा.
 जायताम् <> धीयताम् इति पामे। l) सप्र ष्येताम् <> ष्येयाताम् इति पामे। m) यज्ञे इति
 पाठ ? यनि. शोध. (तु मै १, ६, १)। n) जाज्ञे इति पाठ. ? यनि शोध. (तु तै २, २, ४, ८)। o) पामे. वैप
 १, १३४४ b द्र। p) = फजारयाधि। कर्मणि लुकि रूपम्। q) पामे वैप १, १३४४ 1 द्र.। r) पामे.
 वैप १, १३४५ 1 द्र.।

१९, ३, २^{१०}, ऋजनयामि कौश्रौ
१, १२, ६^{१०}, या ६, ९, ऋजनयन्त
आपश्रौ १४, १६, १, बौश्रौ,
जनयासि^० शाश्रु १, १९, ६^१,
ऋजनयतु शाश्रु २, १०, १^०,
भाश्रौ ९, १४, १७, अप ४५, २,
३^०, ऋजनयन्तु आपमं १, १३, २,
हिश्रु १, २५, १, ऋजनय > या
शाश्रु १७, १३, १०, बौश्रौ
३ ३० १३, कौश्रु १, १२, ६^{१०},
शाश्रु १, १९, ६^{२०}, अप्राय १,
३, ऋप्रा ८, २८, तैप्रा ३, १२,
ऋजनयतम्^० माश्रौ १, ५, २, ३,
वाश्रौ १, ४, १, २०, ऋजनयत्
शाश्रु ४, १४, ३६×५, आपम,
ऋजनयन्त आपश्रौ ३, ८, १,
आश्रु ३, १०, ९, पाश्रु, ऋजनयन्
वैताश्रौ ३०, १६^१, या ७, २८,
ऋजनयम् आपम १, ११, ९,
बौश्रु १, ७, ४३, माश्रु,
जनयेत् आपश्रौ ३, १३, १२,
शाश्रौ, जनयेयुः लाश्रौ ८, ५,
१७, ऋजनयेयम् बौश्रौ १०,
१३: १६, १३, १८ ९ वैश्रौ
जनयिष्यति कौश्रु १, १, १०,
शाश्रु १, ५, १०, भाश्रु,
ऋजनयिष्यत्^१ माश्रौ १, ५, २,
४, वाश्रौ १, ४, १, १९,
ऋजनयिष्यत्^२ आपश्रौ ५, ८, ८,
बौश्रौ २, १५: १३, हिश्रौ ६,

५, १०, जनयिष्यामि जैश्रौ
११ ३, वृदे ८, १९, ऋजी-
जनत् आपश्रौ २, १५, २, ८, ९, ७,
शाश्रौ, जीजनत् शाश्रौ १०, ९,
१७^१, ऋजीजनन् आपश्रौ
१६, १५, ५, बौश्रौ २, १६.
३५, भाश्रौ, ऋजीजनथा पाश्रु १,
१६, १९^१, ऋजीजन. शुभ्र ३,
१०, ऋप्रा १६, ४८
२ज, जा^१- जा: अप ४८, ८७^१, निघ
२, २, या ६, ९, जाम् या ३,
६, जासु ऋप्रा ८, ४५^१, जे पा
७, ३, १८
१^१जज्ञान- -न आपश्रौ ६, ४, १०,
आपश्रौ १६, ३५, ५×५, वाश्रौ,
या १४, २४, -नम् आपश्रौ ४,
६, ३, ९, १, १२, शाश्रौ
जजि^१- पा, पावा ३, २, १७१,
-ऋञि आपश्रौ २०, ८, १३, १२,
८, बौश्रौ १५, २६ १५, हिश्रौ
१४, २, ३०
१जन^१- पाग ४, २, ८०, ६, १, १९९,
-ऋन शाश्रौ १२, १५, १×५,
काश्रौ २२, १, २९^१, आपश्रौ
१०, ७, १३^१×५, बौश्रौ, लाश्रौ^०
४८, २, १०-१२, -ऋनम् आपश्रौ
३, १३, १५^१×५, आपश्रौ
९, १०, १६^१, १३, ५^१, १०,
१५, ११^१, १४, २८, २^१, २२,
६, ७८^१, बौश्रौ, आपश्रु २, ७, ९

१०^{१०}, भाश्रु ३, १८: १४^१,
चाश्रु ३०: १२^१, या २, १०;
१२, १४^१, -ऋनस्य आपश्रौ ४,
१३, ७, ७, ७, ४, शाश्रौ, -ना:
आश्रौ ७, ४, २^१, आपश्रौ, या
१०, २७, १४, ४, -^०ऋना: आपश्रौ
८, ३, १०, शाश्रौ, -नात् कौश्रु
३६, २५^१, अश्रु ७, ४५^१; अपं
२ ६७^१, या २, १०, माशि १५,
१०, -ऋनात् आपश्रौ ३, ११,
२२, आपश्रौ, आपमं १, ६, ९^१,
बौश्रु १, ५, २^१, भाश्रु १, १८:
५^१, या १, १५^१, १०, २२;
१२, २२ २५, -ऋनानाम् आपश्रौ
१, ११, १, आपश्रौ, या १०,
२०, -ऋनाय बौश्रौ १, १७:
२४×५, वैश्रौ, या ४, २५, १४,
२६, -ऋनास आपमं १, ३, ४;
या १०, २७^१, -^०ऋनास कौश्रु
६, १७, ३४, १, ५९, ३, अश्रु १,
३२, या १०, १०, -ऋने आपश्रौ
४, ११, ६, ६, ४, १०, शाश्रौ;
काश्रौ^१ २२, १, २७, २८;
आपश्रौ १, ११, ४^१, भाश्रौ ९,
१४, १६^१, वैश्रौ २०, २०-४^१,
हिश्रौ १५, ३, ३०^१, ३१^१,
आपमं १, १५, ४^१, हिपि २२:
८^१, १२^१; -नेन बौश्रौ १३,
२६: १६, माश्रौ ५, १, ५, १६;
-नेभ्य. वैताश्रौ १७, ७, -ऋनेषु

- a) पाभे वैप १, १३४५ a द्र. । b) पाठ. ^१ जनयासि इति शोधः (तु. C टि) । c) जनयासि इति पाठ. ^१ यनि. शोध (तु पाभे वैप १, १३४५ h) । d) पाभे वैप १ रमयतु का ३, २, ५ टि द्र. । e) सकृत् पाभे. वैप १ विन्दस्व शौ ३ २३, ४ टि द्र । f) जनयत् इति पाठ. ^१ यनि. शोध । g) पाभे वैप १, १३४५ i द्र. । h) पाभे. वैप २, ३खं जनयिष्यथ तैप्रा १, २, १, १४ टि द्र । i) पाभे वैप १, ११७१ a द्र. । j) वैप १ निर्दिष्टयोरत्र समावेशः द्र. । k) वैप १ द्र । l) बप्रा । प्रायेण = मनुष्य- । वैप १ द्र. । m) = वैश्य- । n) पाभे. वैप १, १३४७ h द्र । o) = राजन्य-, जनपद- प्रसृ । p) शोध वैप १, १३४७ j द्र । q) जन इति पाठ. ^१ यनि शोधः (तु मै १, ४, ४) h- r) पाभे वैप १, १३४८ f द्र । s) णाम् इति पाठ. ^१ यनि. शोध (तु आपमं, प्रसृ. BC. च) । t) पाभे. वैप १, १३४८ d द्र. । u) पाभे. वैप १, १३४९ d द्र. । v) = देशान्तर- । w) पाभे. वैप १, १३४९ e द्र. ।

आश्रौ ३, १२, २७^{३०}; शाश्रौ ३,
१९, १६^{३०} × × आपश्रौ ९, ९,
३^{३०} × ×, बौश्रौ, हिश्रौ १५, ३,
२^{३०}, अप्राय ५, १^{३०}
जनक(ल्प >) ल्या^{३०} - ल्याः
शाश्रौ १२, २१, १
जनकीय- पावा ४, २, १३७,
३, ६०
जनक्षय- -यः अप ५१, २, ४,
३, २, ५८^३, ४, २, -यम् अप
६१, १, ९, ७०^३, ११, ३५
जनक्षय-का(रक >) रिका-
-का अप ५८^३, ४, ११
जनन्ता^३ - पा ४, २, ४३, -ता
वाधुश्रौ ३, ७९ ११, -ताः
अप्रा ३, ४, ११, -^३ता.
आपश्रौ १८, १२, ७, हिश्रौ १३,
५, ४, -ताम् बौश्रौ १३, २ :
८ × ×, माश्रौ, -तायाम् आपश्रौ
५, २४, ४^३, भाश्रौ, -^३तायै
आपश्रौ ५, २४, ४^०, वाश्रौ ३,
३, २, ३६^३, हिश्रौ ३, ५, २५^०,
-०ते वाश्रौ ३, ३, २, ३६^३
^३जन-धा^० - धा^३ आपश्रौ १०,
१०, ६, १२, २२, १^३, १८,
१६, ९, बौश्रौ
^३जन-धायस्^३ - या बौश्रौ ९,
१४ : ११^३, माश्रौ २, ४, १,
६^३.
जन-पद- पाग ४, १, ८६, -दः
लाश्रौ ८, २, १२, कौसू ९४, १,
अप ३०^३, १, २ -दम् काश्रौ
२२, ११, ३०, माश्रौ, -दयोः
बौश्रौ २३, ५. १३, -दस्य

बौश्रौ १०, ३० १३, वैश्रौ,
पा ७, ३, १२, पावा १, १, ७२,
-दा बौश्रौ २६, ५ २०, अप
१, ७, ८, ८, ५, ५, ५, २, -दात्
हिश्रु १, २३, १^३, पावा ४, १,
१६६, २, १२४, १३७, -दान्
आपश्रौ २२, २८, २४, वाधुश्रौ,
-दानाम् पावा ४, २, १०४,
-दे काश्रौ २२, २, २२, माश्रौ,
पा ४, २, ८१, पावा ४, २, ५२,
-देन पा ४, ३, १००, -देभ्य
बौश्रौ १५, १६ ७, -देषु
आपश्रौ २२, २८, १, हिश्रौ २३,
४, ४१
जानपद- पा ४, १, ८६,
-दम् अप ७१, ३, २, ११, २,
१४, २, ७२, ४, ५
जानपदी- पा ४,
१, ४२, पा, पाग ४, २, ८२^१,
-दी लाश्रौ ८, ३, ९, -दीभि-
वाश्रौ ३, ४, ३, १७, -दीषु या
१, १६
जानपदिक- -कम् अप
७१, १७, ५
जनपद-तद्वधि- -ध्यो
पा, पावा ४, २, १२४
जनपद-धर्म- -र्मा आश्रु १,
७, १
जनपद-वत् पा ४, ३, १००
जनपद-शब्द- -ब्दात् पा
४, १, १६८.
जनपद-स्त्री- -स्त्रीणाम् अप
७०^३, ११, ३५
जनपदा(द-आ) ख्या-

-ख्यायाम् पा ५, ४, १०४
जनपदिन्- -दिनाम् पा ४,
३, १००
जन-प्रथन^३ - नाय बौश्रौ ८,
१२ २७^३
^३जन-भृत्^३ - भृत आपश्रौ
१८, १३, १६, बौश्रौ १२, ८ :
१४, वाश्रौ ३, ३, २, २४, हिश्रौ
१३, ५, १४
जन मरण- -णे काश्रौ २५, ४,
२४
जन-मार- -रेण अप ५०, ७, ३,
७०^३, १५, ४
जनमारी- > ०री-भय-
-यम् अप ७०^३, १८, २
जनमार-भय- -यम् अप
७०^३, ६, १
जनमारभयं-कर- -रा.
अप ७०^३, ७, ४
जन-म्-एजय^३ - य शाश्रौ
१६, ९, १, बौश्रौ १७, १८ ७^३.
बौश्रु ३, १०, ६^३, -यम् शाश्रौ
१६, ८, २७
जनमेजय-राज्य- -ज्ये
वाधुश्रौ ३, ७९ २५
^३जन-योपन^३ - नः या १३,
३^३
जन-राज- पाग ५, १, १२४^३
जन-राजन्^३ - श ऋप्रा १८,
३०^३
जानराज्य^३ - पा ५, १, १२४,
-ज्याय बौश्रौ १०, ५६ ५^३
जन(न-ऋ)र्षि- -र्षीन् बौध २, ५,
२७

- a) पामे. वैप १, १३५२ f द्र. । b) = ऋच्- । c) वैप २, ३ख. द्र । d) वैप १ द्र । e) पामे.
वैप १, १३५० ० द्र । f) पामे. वैप १, १३५० e द्र । g) पामे वैप १, १३५० g द्र ।
h) पामे. वैप १, १३५० j द्र । i) अर्थः ई । जालपद- इति पाका., जालपदी- इति [पक्षे] भाण्डा. पासि च ।
j) सर्ष-विशेष- । k) तु पागम. ।

जन-वाद- पाग ४, ४, १०२,
-दम् जैगृ १, १९ २९

जानवादिक- पा ४, ४, १०२
†जन-विद्^a- -वित् कौसू ७८,
१०, -विदे^b मागृ १, १०, ८^३,
वागृ १४, १०^३, कौसू ७८,
१०

जन-श- पा ४, २, ८०
जन-श्री^a- -श्रियम् या ६, ४†
जन-समवाय- -यम् कौगृ ३,
११, ७, शागृ ४, १२, ९

†जनस्य भद्रे मे वतम्^c वाश्री
३, २, ५, ४३

जन-हित- -त वृदे २, ३८
जना(न-अ)र्द्धन^d- पाग ३, १,
१३४, -नम् विध १, ३१, -ने
विध १, १९

†जने(न-इ)च्छ^e- -च्छम् निसू ८,
१ : २१

जने-वाद-(>जानेवादिक- पा)
पाग ४, ४, १०२

†जन्य, न्या^a- पा ४, ४, ९७,
-न्य वाश्री ३, ३, २, ४८†, वृदे
२, ३८, या १०, १०†, -†न्यम्
आश्री ४, ४, २, शाश्री, -न्या
छसू १, ३ : १६, निसू २, ४ .
१२, -†न्यानि आश्री ५, १,
१७, शाश्री ६, ७, १०, -न्याय
बौश्री १२, ९ : १३.

जन्य-मित्र- -त्रम् आपश्री
१८, १६, ५^१, हिश्री १३, ५,
३३^१

२जन^b- पाग ४, १, ९९^b, ११०

†जान- -नः ऋञ्च २, ५, २, वृदे
५, १४, -नम् वृदे ५, १८

जानायन- पा ४, १, ११०, -नाः
बौश्रीप्र ३ ६

†जनक^c- -क बौध २, २, ३४,
-क वाधूश्री ३, ४० . १६,
आपध २, १३, ६, हिध २, ३,
६

जानकि^d- (> जानकीय-
पा) पाग ५, ३, ११६^b

जनक-गोत्र- -त्रम् शंघ ३५०
जनक-ससरात्र^e- -त्रः शाश्री १६,
२६, ७, काश्री २३, ५, ११, बौश्री

२३, १३ ३, -त्रम् आश्री १०,
३, १४, -त्रे निसू ९, १ ४,
-त्रेण आपश्री २२, २३, ५, हिश्री
१७, ८, २३

††जनत्^f- -नत् वाधूश्री ४, ९८ ५,
वैताश्री १, ३, १८, २, १, ८,
३××, आपम

जनद्-वत्- -†वते शाश्री ३,
१९, १५, आपश्री ९, ९, १, ९;
१३, १४, भाश्री, -वान् आश्री
३, १२, २६, निसू ३, १२ . ३८.

जनद्वती- -त्य निसू ६, ९ .
१, -त्याम् निसू ३, १२ : ३८

२जनत्^g- -नत् चाञ्च ४० . ३
जनन^h- -ना आश्री ३, ८, १†,
-नात् वैगृ ७, ५ ३, गोगृ, -ने

वैगृ ६, ४ १, कौसू, -नेन मीसू
६, २, २३

जननी- -नी शाश्री १५, १७,
१†, मागृ १, १४, १८†, कप्र
२, २, ९, -नीम् अप ४, ३,
४

जनन-मरण- -णयो बौध १, ५,
९०, १०३, ११, ३९, विध २२,
१, -णे विध २२, ३९

जननमरणा(ण-अ)न्तर- -रे
विध ८, २६

जनन-मारक- -के भागृ ३, १४ :
२२†

जनना(न-अ)शौच- -चम् विध
२२, ३५

जननाशौच-मध्य- -ध्ये विध
२२, ३५

जनमान- पाग ४, १, १०५^g††;
-ने या ६, ८†.

जानमान्य- पा ४, १, १०५

†जनयत्- -यत्^h आपश्री १४, १२,
१, हिश्री १०, ६, ९, -यन् आश्री
२, १९, ३२, शाश्री, -यन्तः
हिश्री १४, ४, ३८, -यन्तौ आपम
१, ११, ७

जनयन्ती- -न्ती आपम १, ८,
३†

†जनयतिⁱ- -त्यै काश्री २, ५, १४;
आपश्री १, २४, ५, बौश्री.

जनया✓कृ, जनयांचकार बौश्री १८,
१३ : ८, वाधूश्री, जनयांचकुः
वाधूश्री ४, ९७^२ १.

जनयाम् ✓अस्, जनयामास वृदे
४, २५

a) वैप १ द्र । b) सप्र. जनविदे<>जनिविदे <>वसुविदे इति पामे । c) पाठः ?

जनः, स, भद्रम्, पृथति इति चतुष्पदः शोधः (तु. शाश्री १२, १७, १ वैताश्री ३४, ९) । d) = विष्णु- ।

e) = सामन्-^१ व्यु. ? । f) पाठः ? जन्य-, मित्रम् इति द्विपद शोध (तु मै ४, ४, २, C. च) ।

g) व्यप । h) तु. पागम । i) = पितृ- । j) = सोमयाग-विशेष- । k) = व्याहृति-

विशेष- । वैप ३ द्र. । l) = ऋषि-विशेष- । m) तु. पाका. । †जरमाण- इति भाएडा. । n) पामे.

वैप १, १३५१ III द्र. ।

जनयित्-ता वृद्धे २,३८, या ४,
२१, १०, १०, १४, १२^०, -तु
सु १३, ५; वाच, या ३, १
जनयित्री- -ञ्य भाशि ६फं,
-ञ्यौ या ८, १४
जनयित्सु- पाउभो २, १, ८३
जनयित्वा हिश्रौ ९, ४, ५५, कौसू
१३३, ६
†जनस^१- -न माश्रौ १, ६, १,
२६, वैश्रौ १, ३, ५, आग्निष्ट २,
६, ३ १३, ८ २६, कप्र २, १,
६, शघ १०७, बौघ २, ५, २०,
१०, ३२
जनो-लोक- -कम् शंघ ११६:
६६
रजनस^२>जनो-वाद->जनो-
वादिक-)जनवाद- टि. द्र.
जनस्य^३- -स्यान् अप १७, २,
१३
‡जना संस्तथे बौश्रौ १८, ४१ १४
जनि, बी^४- पाउ ४, १३०, -†नय
बौश्रौ १०, ७: २, वैश्रौ १८,
१: ८५, आपमं १, १, ६^०,
आग्निष्ट ३, ७, २: १०, बौगृ १,
६, २६^०, ४, १, ११^०, बौधि १,
१७ ३०; या ८, १०, -†निभ्य
आपमं १, ११, ९, कौसू ३०, ३,
बौगृ १ ७, ४३, मागृ १, १४,
१६; -निम् वैताश्रौ ३२, २५फं,
-निषु अप्राय ५, १फं, -नीनाम्
या १०, २१, १२, ४६, -नीम्
आश्रौ ८, ३, १९फं.

जनि-कर्तृ- -र्तु पा १, ४, ३०
†जनि-त्व- -त्वम् आग्निष्ट ३,
५, ६: १७, बौधि १, ५: ४
†जनि-मत्- -मन्तम् कौगृ १,
५, २६, शागृ १, ९, ९, कागृ २५,
३१, ३६, -मान् कौगृ १, ५,
२६, शागृ १, ९, ८, कागृ २५,
३१^२.
√जनिय, जनियन्ति अप्रा ३,
१, १४फं
जनि-वत्- -वतः या ३, २१फं
†जनि-विद्- -विदे आपमं १, ४,
१-३^१, आपगृ ५, २, कागृ.
जनी-मत्- -मान् आश्रौ ८, ३,
१९फं
√जनीय > †जनीयत्^५-
-यन्त^६ आश्रौ ३, ८, १, शाश्रौ
२, ४, ५, ६, ११, ८, वृद्धे ६, १९,
साअ २, ८१०, ऋप्रा ९, १६.
रजन्य, न्या^७- पा, पावा ४, ४,
८२, पाग ४, २, ९०, -न्या वागृ
१०, १३, १५, -न्यान् वागृ १०,
१३, -न्यानाम् गोगृ २, १, १२
जन्य-यात्रा^८- (> जान्यया-
त्रिक- पा) पावाग ४, ४, १
जन्यीय- पा ४, २, ९०
जनित- -तौ अप्राय १, ५^१
जनितु^९- -०त् ऋप्रा १, १०१, -ता
आश्रौ ३, ८, १, आपश्रौ, या ४,
२१, १४, १२^०, पा ६, ४, ५३,
-तारा आश्रौ ६, ७, ६
†जनित्री- -०त्रि आपश्रौ १४,

३३, २, हिश्रौ १५, ८, ३५^{१०};
अप्राय ६, १, -त्री आश्रौ ३, ८,
१×४, शाश्रौ, या ८, १४, -त्री:
भाश्रौ ७, १३, ४, -त्रीम् कौसू
८०, २३, ८१, ४५, कप्र २, २, ९६,
-ञ्या गोगृ २, ८, ४
जनितोस् () वाधुश्रौ ३, ३० २
जनित्र^{१०}- -त्रम् शाश्रौ १२, ९,
१७, काश्रौ ५, १, २२फं, आपश्रौ,
-†त्रे आपश्रौ ९, १, १७^०;
भाश्रौ ९, १, १७^०, माश्रौ ३, ४,
१^०, हिश्रौ १५, १, १८^०, लाश्रौ-
जनित्र-स्थान- -नम् लाश्रौ ९,
१२, ८.
रजनित्व^{११}- पाउ ४, १०४;
-†त्वम् या ४, २३, १०, २१;
अप्रा ३, ४, १, -स्वै आपमं २,
११, २९
जनिमन्^{१२}- पाउ ४, १४९, अप्रा ३,
३, १९फं, -मा ऋप्रा ८, १०फं,
-मानि कौसू ६, ११फं.
जनिष्यत्- -ष्यत् सु २३, २
जनिष्यमाण, णा- ण या १०, २१;
-†णा आपश्रौ ४, ६, ५, ७, २,
भाश्रौ, -†णानाम् जैश्रौ ७: ६;
द्राश्रौ, -णाम् बौश्रौ २, १८^०
१५, -†णाय आपश्रौ २०, १,
१७, बौश्रौ, -णे आश्रौ १, २,
१फं, या ६, ८
†जनुस्^{१३}- पाउ २, ११५\$, -नुष:
ऋप्रा २, ४४, -नुषम् आश्रौ ८,
१, २, आगृ ३, १०, ९; या ९, ४;

a) = व्याहृति-विशेष-। वैप ३ द्र । b) = १जन-। c) = जनता-। समूहार्थे यः प्र उंसं (पा ४, २, ४९) । d) वैप १ द्र । e) पामे. वैप १, १३५२ ० द्र । f) पाठः ?। वैप १ परि √*आञ्जन्व टि द्र । g) पामे वैप १, १३५२ f द्र । h) पामे. वैप १, १३५२ m द्र । i) पामे वृ १०९९ ० द्र । j) बप्रा । = जामातृ-वयस्य, कन्या-ज्ञातिजन-। गोश्रु. संस्कर्तु. टि], प्रश्रु । k) तु. पागम । l) णिता वयम् इति पाठ^१ यनि. शोधः । m) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र । n) ःश्री इति पाठः ? यनि. शोधः (तु आपश्रौ) । o) = सामन्-श्रौ. प्रश्रु । p) पामे. वैप १, १३५३ f द्र । q) पामे. वैप १, १३५४ ० द्र ।

-नुषा आश्रौ ४, ६, ३^३, वाश्रौ
३, ३, ३, १, आपम १, १०, २,
कौश्र, -नुषे आश्रौ ४, ६, ३,
शाश्रौ ५, ९, ६
जनुषा(षा-अ)न्ध- न्ध पावा
६, ३, ३
जनुषे(षा-ए)कच्^०- -चौं निस्र २,
२ २०, ७, ८ ३०, ८, ४. ६,
९ : १५

जन्तु- पाउ १, ७३, -न्तव
नश्रौ २, १६, ७×४, शाश्रौ,
निघ २, ३१, -न्तवे आपश्रौ
१४, १२, १, हिश्रौ १०, ६,
९, -न्तु कौस्र ८३, २३,
विघ २०, २९, ८५, ६५, या
१४, ६१, आज्यो १४, २,
-न्तुभि बौश्रौ २७, ७ १,
वैश्रौ २०, ३१ ६, अप २२,
९, १, -न्तुर् वाध २८, १५,
शंघ १०५, विघ ५६, २७,
वैध ३, ६, १०, -न्तुनाम् अप
६४, ५, ४, विघ ४४, ४५, -न्तो
बौपि २, १०, ६, या ४, १९१

जन्तु-प्रतिम- -मस् वैश्रौ १५,
२ : ४, ११ ३, १२, १५ २,
२२ ३
जन्त्य^०- -न्त्याः बौपि १, ७ : ७१
जन्मन्- पाउ ४, १४५, -न्म अप
६३, ५, ४, आपध, निघ १,
१२१^०, या ९, ४, -न्मन्
आपश्रौ ५, १७, ५, १७, १५, ५,
बौश्रौ, -न्मन आश्रौ २, १६,
४, ६, ५, १८१, शाश्रौ, -न्मना
आश्रौ ४, ८, २५, शाश्रौ, या
१४, १, २, -न्मनि आमिष्ट २, ५,

६ : १२, वैध १, ११, १३^३,
बुदे ४, ७३^३, आज्यो ११, २,
-न्मनिऽ-न्मनि चव्यू ४ २६,
-न्मनी तैप्रा ४, १२१, -न्मने
आश्रौ ८, ९, ५१, -न्मभ्याम्
वैष्ट ६, ७ : ३, -न्मसु अप ४१,
४, ७, या ११, २३१, -न्मानि
कप्र ३, १, १३, अप १४, १, ४,
या ९, २८^३, १२, २३१^०
जन्म-कर्मन्- -र्मणि आज्यो ९,
३, ११
जन्म-कर्म(र्म-ऋ)त्विज्-
-त्विज् जैश्रौ १. ५
जन्म-कर्म-व्रतो(त-उ)पेत- -ता
विघ ३, ७
जन्म-कर्म-श्रुत-शील-शौचा(च-
आ)चार-वत्- -वन्त शंघ
२५८
जन्म-कर्म-साधातिक-सामुदा-
यिक-वैनाशिक(क-ऋ)र्क्ष-
संस्थ- -स्थेषु वैष्ट ४, १४ १५
जन्म-तस्(.) कप्र १, ८, ६,
आपध १, १, ५, बौध
जन्म-तिथि- -थिम् कौष्ट १, १७,
३, ६, शाष्ट १, २५, ५, १०
जन्म-त्रय- -यम् आमिष्ट २,
७, ६ : १९
जन्म-दिन- -ने अप १८^३, १, १
जन्म-नक्षत्र- -त्रम् वैष्ट ३, २०
१, अप ७२, १, २, -त्रात्
आज्यो ९, ५, -त्रे बौश्रौ २८,
३. ८, आमिष्ट २, २, १ २×४,
बौष्ट
जन्मनक्षत्र-याग-होम-
-म. अप १८^३, १८, १.

जन्म-प्रभृति- -ति बौष्ट ३,
१३, १
जन्म-मरण- -णम् या १४, ६^०.
जन्म-मृत्यु-जरा(रा-आ)दि-
-दीन् वैध २, ६ १
जन्म(न्म ऋ)र्क्ष- -र्क्षम् विघ
७७, ५
जन्म-वार- -रे आमिष्ट २, ५,
४ : २
जन्म-शरीरलक्षण-गुणो(ख-उ)
पेत- -तान् शंघ १९८
जन्म-सम्पद्-विपत् चैम्य-
-म्या आज्यो ९, ४^१
जन्मा(न्म-आ)दि- -दि बौष्ट ३,
१३, ८
जन्मा(न्म-अ)न्तर- -रेषु अप
९, २, ७, वैध १, ११, १२, १३.
जन्मा(न्म-अ)न्ध- -न्ध. अश्रभू
८
इजन्त्य^०- पाउ ४, १११, पा ३, ४,
६८, पावा ३, १, ९७, -न्ये
गौध २२, २
जन्त्यु- पाउ ३, २०
१जात, ता^०- पा ३, ४, ७२, -०त्
आपमं २, १७, २१, -न्तः आश्रौ
३, १, ९×४, शाश्रौ, पा ४, ३,
२५, -तम् आश्रौ २, १६, ५,
आपश्रौ, वैताश्रौ ६, १^१, आपमं
१, १७, ६^१, -तम्ऽ-तम् काश्रौ
१२, २, ६, -तस्य शाश्रौ १५,
१७, ११, काश्रौ, -ता काष्ट ४१,
१११, भाष्ट १, २७ १९१,
कप्र ३, ९, ४, वाध १८, ८, या
१२, ३१, -न्ता आपश्रौ १,
५, ५×४, बौश्रौ, -न्तान् काश्रौ

a) पामे. वैप १, १३५४ m द्र । b) = साम-विशेष- । c) = २जन्तित्वन्- । वैप २, ३खं द्र ।
d) = उदक- । सपा. जन्म<>जह्न इति पामे. । e) ष्णे इति राज । f) ष्पद्विपक्षे^० इति पाठः ? यनि शोधः ।
g) = युद्ध- । h) वैप १ द्र. । i) पामे. वैप १, १३५४ a द्र । j) पामे वैप १, १३५६ f द्र ।

१७, ११, ३, आपश्रौ, -तान्-
तान् बौश्रौ १८, ४४ १६, १८,
-तानाम् कौश्र १, १२, ६१,
शाश्रु १, १९, ६१, अप, -तानि
आश्रौ ४, ३, २, १०, ६, ९, शाश्रौ,
आपमं २, २२, १९^३, आमिगृ^३ १,
५, ४: १३, ३, २, २: ९, जैगृ १,
४. १३^३, या ७, १९^३, १०, ४३^३,
१२, २३^३, -तानाम् आपश्रौ
५, १, ४, बौश्रौ २, ६: ३३
१८ १५, हिश्रौ ३, २, ३, गो
२, २^३, या ३, ४, -ताय शाश्रौ
३, १३, १७, काश्रौ, -तासु
आमिगृ १, २, १ १, भाग ३, ८:
२, हिगृ २, १८, २, -ते आश्रौ
१, २ ११, काश्रौ, तया ३, २२,
६, ८, पा ६, २, १७१, -तेऽ-ते
या १, ८, ७, १९, -तेन आपमं
२, ११, २९^१, कागृ ३२, ३^१,
शंघ २८२, २८५, -तेभि शाश्रौ
१८, ९, ७, -तेभ्यः बौश्रौ २०,
२० ३८, ३९, -तेषु द्राश्रौ ६,
३, ११, लाश्रौ २, ११, ५, कागृ,
-तैः अप ११, २, ४, वृदे १, ९२,
शैशि १०१^१, -तौ आपश्रौ २०,
२, ११, हिश्रौ १४, १, २३, या
१२, ३
जात-क^३ -कम् वैगृ ७, ४ ८,
-काव वैगृ १, १ १२, -कौ
कौसू १११, ४
जातक-संस्कार- -रः वैगृ ७,
१ १
जातका(क-अ)मि- -मि बौगृ
४, १०, २, -मिना वैगृ ७, २
४; -मिम् वैगृ ३, १५ १, १८ .

१, ६, ४: १०, ७ ८, -श्रौ
वैगृ ६, ४ ५, ८, ५. २, ६,
७, ४: ८
जात-कर्म^३ -र्म कौगृ १, १६,
१, शागृ, -र्मण बौपि २, ७, ८,
-र्मणा कागृ ३६, १२, ४४, २
जातकर्म-नामकरण- -णयो
आमिगृ २, ३, २ १५
जातकर्म-प्रभृति- -ति आमिगृ
३, ९, ३ १०, बौपि २, ७, ९,
हिपि २३ ३३.
जातकर्म-वत् वागृ ३, १०
जातकर्म(र्म-आ)दि-
संस्कार- -रान् बौपि ३, ७, ४
जातकर्मो(र्म-उ)व्यान-
-नयोः वैगृ ६, २ १६
जातकर्मो(र्म-उ)पनयना
(न-आ)दि- -दि वैश्रौ २०,
२३: ७
जात-तुष- -षेषु माश्रौ १, २,
२, १८
जात-दन्त- पाग २, २, ३७,
-न्तम् वैगृ ७, २: ७, -न्तस्य
वैगृ ७, २ ५, ७ १, -न्ते वागृ
३, ८
जात-दुः(ख>)खा^३ पाग २,
२, ३७^०
जात-धन^३ -न या ७, १९
जात-पक्ष^३ -क्षाः वाघ ६, ३
जात-पुत्र^३ -पाग २, २, ३७^०; -त्र
भाश्रौ ४, २१, ७, माश्रौ १, ५,
१, ४, वैश्रौ २, ८: ५, ७, १३:
१२, हिश्रौ ६, ४, २७, ६, १७
जातपुत्र-कल्प- -ल्प भाश्रौ
६, ३, ६

जात-प्रज्ञान^३ -न या ७, १९.
जात-प्रतिषेध- -ध पावा ४, १,
५२
जात-बल^३ -लः वाघ २७, २.
जातमर्क^३ -र्क जैगृ २, ९:
१८
जात-मात्र- -त्रः वैगृ १, १.
१२, वृदे ४, १३१, -त्रस्य सु ४,
१, वैगृ ६, ७ १, -त्रेण सु ३, ४.
जात-मृत- -ते विध २२, २६
जात-मृतक-सूतक- -के काघ
२७३: ३
जात-रूप- -पम् शाश्रौ ३, १९,
९, वाश्रौ, -पेण वैताश्रौ ५,
१६, कौगृ १, १६, ७, शागृ,
-पेभ्य पा ४, ३, १५३
जातरूप-भय- -यम् अप
१४, १, २
जातरूप-शकल- -लेन कौसू
१०, १६, १९, २३
जात-वित्त^३ -त्त या ७, १९.
जात-वि(द्या>)घ^३ -घ वृदे
२, ३०, या ७, १९
जात-विद्या^३ -द्याम् या १, ८^१.
जात-वीर्य^३ -र्य बौघ १, २,
३४
जात-वेदस्^३ -पाठ ४, २२७,
-तं०द आश्रौ १, २, १×४;
शाश्रौ, कौसू ७२, १३^३, १४^३;
-तंस कौसू ८१, ४५, ८७,
२३, अप ४०, ३, ४, या ७,
१९^३, -तंसम् आश्रौ ६, ५,
१८, शाश्रौ, -दसा वृदे ८, ७;
-दसि शाश्रौ १५, १७, ११, कप्र
३, १, १९, -दसी वृदे १, ९७;

a) पाभे. वैप १, १३५७ h द्र । b) = अपत्य-, संस्कार-विशेष- । c) = संस्कार-विशेष- । d) विप.
बस. । e) तु. पागम । f) पाठ. ^१ जात, अर्क इति द्विपदः शोध- । g) वैप १ द्र । h) पाभे वैप १
परि. अक्षि मा १२, ८ टि. द्र ।

या ७, २०, -तदसे आश्रौ ५, ५,
१९, ७, १, १४, बोश्रौ, -तदसौ
माश्रौ ५, १, ३, २७, कौसू १०८,
२, -तदा आश्रौ १, ६, ५, १२,
३७^a × ×, शाश्रौ ८, २४, १^{2b},
आपश्रौ ९, ३, १^a, भाश्रौ, माण्ड
१, १०, १०^c, या ७, १९^d §, §,
-दोः शाश्रौ ७, ९, ३^f

जातवेदस- -सम् या ७,
२०, अश्र ५, १२, २९, -सानाम्
या ७, २०, -से अश्र ७, ३४

जातवेदसी- -सी शुश्र
४, ५६, अश्र १८, २, -स्याम्
या ७, २०, १४, ३३

जातवेदसीय- -यम् शाश्रौ
८, ६, ६, १०, ८, २० × ×

जातवेदस्-त्व- -त्वम् या ७,
१९

जातवेदस्य^d- -स्यम् आश्रौ
८, १२, २४, ऋश्र २, १, ९९, १०,
१८८, वृदे, -स्यानाम् आश्रौ
७, १, १४, -स्ये आश्रौ ८, ८, ६
?जात-शिला^e- -ला कप्र ३, ९,
१०, -लासु गोण्ड ३, ९, ६

जात-श्मश्रु- पाग २, २, ३७
जात-श्री- -श्रियम् या ६, ४

जात-श्रुति- -तेः काश्रौ ५, ३, ४
जात-संवत्स(र>)रा^f- पाग २,
२, ३७

जात-संस्कार- -र, -रेण बोपि
३, १, ४

जात-सु(ख>)खा^g- पाग २, २,
३७

जा(त>)वा-ज्वाल^h- -लेन कौसू

३०, ८
जाता(त-अ)धिकार- -रः मीसू
३, ३, १

जाता(त-अ)र्थ- -र्थे पावा ४, ३,
३६

जातो(त-उ)क्ष- पा ५, ४, ७७

जाति- -तय विध १६, १७, वृदे
५, १४६, -ति अप ५३, ४, ४,
ऋत ४, ६, ५, अप्रा १, २, ५,
याशि १, १८, पा २, १, ६५, ४,
६, ६, १, १४३^h, पावा १, ४, १,
४, १, ४, मीसू १, ४, २४, -तिम्

आपध २, २, ३, ६, १, विध,
-तीनाम् हिश्रौ १०, ३, ३, अप
७०, ७, ३, -तेः काश्रौ १५, ४,
१७, पा ४, १, ६३, ६, ३, ४१,
४८, ८, १, ४, पावा ४, १, १४ⁱ,
मीसू ६, ८, ४५, -ते ऽ-तेः काश्रौ

१४, २, ३२, -तौ पा ४, १,
१६१ × ×, -त्यै हिपि १७, १६^j
जाति-कल्प- -ल्प. लाश्रौ १०,
१, ९

जाति-काल-सुखादि- -दिभ्यः
पा ६, २, १७०, पावा २, २, ३६
जाति-ग्रहण- -णम् पावा ४, १,
१३७

जाति-नामन्- -न्नः पा ५, ३, ८१.
जाति-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ- -र्थम्
पावा १, २, ५२

जाति-नैमित्तिक- -कम् मीसू ९,
३, ३
जाति-परिग्रह- -भे पा २, १,
६३, ५, ३, ९३

जाति-परिवृत्ति- -त्तौ आपध २,
३०, ८

११, १०, ११, हिध २, ४, २५;
२६

जाति-पूग- -गानाम् विध ५,
३१

जाति-पूर्व- -र्वात् पावा ४, १,
५२

जाति-भेद- दे आपश्रौ २४, ४,
१७

जाति-भंश-कर- -रम् विध
३८, ७, -रस्य विध ५, १७३,
-राणि विध ३८, ६, -रेषु विध
३३, ४

जाति-मात्रो(त्र-उ)पजीविन्-
-विनाम् बौध १, १, १०, वाध
३, ५, सु १८, ३

जाति-वाचक-त्व- -त्वात् पावा
१, २, १०, ४, १, १४.

जाति-विद्- -वित् कौसू ७८,
१०^k, -विदे कौसू ७८, १०

जाति-विशेष- -वात् मीसू ३, ५,
११

जाति-शब्द- -ब्द मीसू ६, ८,
४१, -ब्देन पावा १, २, ५८,
-ब्देभ्यः पावा ४, १, १४.

जाति-सहार- -र. लाश्रौ ६, ६,
१४, -रम् लाश्रौ ६, ७, १०, १७.
जाति-संज्ञा- -ज्ञयो पा ५, ४,
९४

जाति-स्मर^l- -रः चव्यू ४ २६.

जातिस्मर-त्व- -त्वम् अप
४२, २, १३, वाध २८, १५, शंघ
१०५, विध ५६, २७

जाति-स्वर-प्रसंग- -ना पावा
२, १, २४

a) पाभे. वैप १, १३६० c द्र. । b) सप्र जातवेदा <> वैश्वानर इति पाभे. । c) सप्र. आपसं
१, ४, ७ पाण्ड १, ५, ११ हिपि १, १९, ७ विशिष्ट पाभे । d) प्राग्दीव्यतीयेऽर्थे यत् प्र उसं (पा ४, १, ८५) ।
e) = [शर्करा-भिन्न-] शिला-विशेष- । f) तु पागम । g) [वृक्षभूमौ] 'जाताभिः [ओषधीभिः] ज्वालः (तपनं) यस्य'
इति कृत्वा विप. > नाप. (उदक-). । h) तु. पाका प्रमृ. । तौ इति भाण्डा BPG. च । i) उप कर्तरि ऋच् प्र ।

१जात्य^० - त्यम् अप ४०, १, १४, -त्यानाम् माशि १५, ९, याशि २, १०९, नाशि २, ८, २३
 २जात्य^० - त्य ऋप्रा ३, ३४, शुप्रा १, १११, शौच ३, ५७, शैशि २३३, २३४, माशि ७, २, ५ ८, २, याशि १, ७६, ७८, नाशि १, ८, १०, २, १, १, ८, -त्यम् ऋप्रा ३, ८, -त्यस्य याशि १, ५६, -त्ये याशि १, ६८
 जात्य-वत् ऋप्रा ३, २६
 जात्य-वर्ण- -र्णानाम् नाशि २, १, १०
 जात्य-स्वर- -र शैशि २३४.
 जात्या(ति-आ)दि- -दिः शैशि २३८, याशि १, ५६
 जात्या(त्य-अ)भिनिहित-श्रैप्र-ग्रच्छिष्ट- -ष्टा भास् १, १०
 जात्य(ति-अ)धिकार- -रात् पावा ४, १, १५.
 जात्य(ति-अ)न्त- -न्तात् पा ५, ४, ९
 जात्य(ति-अ)न्तर- -रात् मीस् ४, २, २, -रे बौश्रौ २८, २ ५४, मीस् ११, ४, ३८
 जात्य(ति-अ)न्ध- > ०न्ध-मूक-बधिर- -रै अप २३, १२, ४
 जात्य(ति-अ)पहारिन्- -रिणा विध ५, ९९.
 जात्य(ति-अ)भाव- -वात् काश्रौ १, ४, १०
 जात्य(ति-अ)र्थ- -र्थस्य मीस् ६, १, ८
 जात्या(ति-आ)ख्या- -ख्यायाम् पा १, २, ५८, पावा १, १, ५६;

८, १, ४.
 जात्या(ति-आ)चार-संज्ञय- -ये आपध २, ६, १, हिघ २, २, १
 जात्या(ति-आ)दि-निवृत्त्य- (ति-अ)र्थ- -र्थम् पावा ४, १, ९३
 २जान^० -ना या १४, ३६
 १जानु(क >)का^० -का आपश्रौ १, १०, ११, भाश्रौ १, १०, ९, ३, ९, १०.
 जायमान, ना- -फंन आश्रौ २, १९, २४××, आपश्रौ, -नम् वाधुश्रौ ४, ६८ ६८, वैश्रौ १, १० ११, -नस्य आपश्रौ १६, १६, ११, वैश्रौ १८, १४ ८, वैश्र २, १८-१६, -फंनाः आपश्रौ १, ११, १०, ७, १२, ८, बौश्रौ, -नात् वाधुश्रौ ३, १५-१, या ८, १५, -फंनयै कौस् ६६, २, अत्र १०, १३, -ने वैश्र ३, १४ ८, कौस् ७२, ३९, या १०, ४७
 जाया- पाउ ४, १११, -यया शाश्रौ १२, १७, ११, कौश्र, -फंया शाश्रौ १०, १, ११, १२, १७, १, १५, १७, १३, आपश्रौ, -याः शाश्रौ १५, १७, १, बौपि २, ४, २, या ७, ६, ८, १०, -यानाम् या १०, २१, १२, ४६, -याभि. बौश्रौ १५, २४. २१××, वाधुश्रौ ३, ९० ५, ९, -याम् शाश्रौ ३, १३, ३०, १५, १७, ११; काश्रौ, -याया बौश्रौ १८, ४६ : ७, गोश्र, पा ५, ४, १३४, -यायाम् आमिष्ट ३,

७, ४ : २७, बौपि, -यायै वाग १५, २२, कौस् ३६, ३५; -ये बौश्रौ १७, १३ : ८, आमिष्ट ३, ७, ४ १९, बौपि २, ४, २, -फंये काश्रौ १४, ५, ६, आपश्रौ १८, ५, ९, बौश्रौ. जाया-काम- -मः कौस् ५९, ११, अत्र ३, २५, ६, ८२
 जाया-ज्ज- पा ३, २, ५२
 जायान्य^० > ०यान्ये^०(न्य-इ)-न्द्र-दैवत- -तम् अत्र ७, ७६.
 जाया-पति- -ती काश्रौ ५, ५, १०, ३०, आपश्रौ, पाग २, २, ३१, -त्यो बौश्रौ २९, ९ २; आमिष्ट ३, ७, ४ २२, बौपि.
 जायापति-कर्मन्- > ०र्मण्य- -ण्यम् जैश्र १, २२: १३.
 जाया(या-अ)भिवृद्धि- -द्धयै अत्र ६, ७८.
 जाया-वर्जम् विध २० ३९
 जास्-> जास्-पति-> जास्पत्य^०- -फंत्यम् आपश्रौ ३, १५, ५; आपर्म, -त्ये शुप्रा ४, ४१.
 जिजनिषमाण- -णस्य निस् ७, १ : ५
 फंजन्य^०- -न्य आपश्रौ १६, ३, ७; वैश्रौ १८, १ ९३, हिश्रौ ११, १, ३२
 १-२जन-, जनक-, १-२जनत्-जनन- प्रभृ. √जन् द.
 जनंधर- (> जानंधरायण-)जलंधर-टि द.
 जनपलण्डुकुम्भीक^१- -कः सुध २१.
 जनमान- √जन् द.
 जिनयति^० हिश्रौ १, ६, ३२.

a) विप. (स्वम-, ह्य-) । b) = स्वरि १-शिञ्ज- । c) वै १ द. । d) ०न्धे इति पाठः १ यनि. शोष । e) दैव यम् इति प । f) पाठः १ लघुनपलाण्डुकुम्भीक इति संस्कृतः टि. । g) पाठः १ जनयति-> -त्यै इत्यरयैव विकृतां ९५ द ।

जन्तु- ✓जन् द्र

जन्तुक^०- पाग २,४,६९

जन्त्य-,जन्मन्- प्रभृ ✓जन् द्र

✓जप्^b पाधा भ्वा पर व्यक्ताया वाचि, मानसे, जपति आश्रौ १, १,१६××, शाश्रौ, बौपि २, ५, ७^०, जपत काश्रौ २०, २, ९, आपश्रौ, जपन्ति आश्रौ ५, ३, २२, ६, १३, १४, काश्रौ, जप काश्रौ १८, ३, १७^०, जपेत् आश्रौ १, ४, ८××, शाश्रौ, जपेरन् शाश्रौ ३, ६, ३, जपेयु शाश्रौ १०, २१, १५, द्राश्रौ जेषु ऋअ २, १०, ५८, ५९, वृदे ७, ९०, ९१ जापयेयुः आश्रौ ९, ९, ८

जज्जपूक- पा ३, २, १६६

जप- पा ३, ३, ६१, पाग ६, १, १५६, -प आश्रौ १, २, २४, ५, १०, २२, आपश्रौ, -पम् आश्रौ १, २, ६, २, ९, ९, काठश्रौ, -पा. आश्रौ ४, ८, २, आपश्रौ १४, १५, ४, बौश्रौ ३, ३० २३, हिश्रौ ६, १, ७, ११, १०, ७, २६, विध २०, ४५, मीसू १२, ४, १, -पात् कप्र २, २, १, -पान् शाश्रौ १७, १२, ४, -पानाम् शाश्रौ ३, १६, १९, -पे वृदे ८, १३४, -पेन आश्रौ ६, ३, १५, -पेभ्यः शाश्रौ १, १, १८, -पैः अप्राय ६, ९, अप. जाप^d-प आपगृ १५, १ जप-कर्मन्-र्मणि हिध १, ४, ६०^e, अत्र ११, ३ (२) जप-नैत्यक^f-कम् वाध २६,

१९

जप-मन्त्र^r-न्त्राणि शाश्रौ ३, १६, २०

जप-यज्ञ-ज्ञ वाध २६, ९, विध ५५, १९, -ज्ञस्य वाध २६, १०, विध ५५, २०

जप-सत्कार-रम् मीसू १०, २, ४७

जप-हवना (न-अ) ध्ययन-ब्रह्म-चर्य-पर- र सुधप ८५: ५

जप-होम-म. अप ७०^३, ९, ४, १०, १, -मै सु २, २, -मौ अप ५३, ६, ४जपहोम-तस् ()अप ७, १, १ जपहोमा(म-आ)दि-दि शुअ ४, १९५^f

जपहोमादि-कर्मन्-र्मसु

कप्र १, १, ९

जप-होम-पितृकिया-या अप २३, १०, ७

जप-होम-प्रतिग्रह-हान् बौध २, ८, १६

जप-होमे(म-इ)ष्टि-यन्त्र-न्त्राणि बौध ४, ५, ३

जपहोमेष्टियन्त्र-स्थ-स्थः बौध ४, ५, ५

जपहोमेष्टियन्त्रा (न्त्र-२आ) अ-अै बौध ४, ५, २

जपा(प-आ)दिक-कम् शंघ १०१

जपा (प-अ) ध्याय-तपो-दान-नै अप २३, १२, ३

जपा(प-अ)नुमन्त्रणा(ण-आ)प्या-यनो (न-उ) पस्थान-नाति आश्रौ १, १, २०.

जपा(प-आ)वृत्ति-स्या अप ३६, ८, ४.

जपत्-पता जैश्रौका १६९, -पताम् वाध २६, १४, -पत्सु काश्रौ ९, ६, ३४, -पद्भिः अप ६८, ४, ५, -पन् आश्रौ २, ५, ४, आपश्रौ; -पन्त आश्रौ २, १९, ३६××; शाश्रौ, -पन्तम् जैगृ १, २ १९^f.

जपन-नम् वैगृ ३, २२ १

जपित्वा आश्रौ १, २, ५××, शाश्रौ.

जस,सा-सम् अप ३६, २४, १^f; -सा शंघ ४५४, -सानि वाध २८, १५, -सै अप ३६, १२, १.जसव्य,व्या-व्यम् अप ३६, ८, ५; -व्याः अप ७०^३, ३, ५

जप्तुम् > ष्तु-काम-म शघ १००.

जप्त्वा आशिगृ २, ५, ६ २६××, वैगृ

जप्य^b-प्यम् शाश्रौ १७, १४, ४, अशा २३, ३, शघ ११४, विध ५०, ४८, -प्याः कागृ ४१ ६;

बौध ४, ६, १, -प्ये शंघ १०६; विध ६४, ४०, -प्येन विध २२, ९०, ५४, २८, ५५, २१, -प्यैः अप ५४, २, ५

जप्य-कर्मन्-र्मणि आपध १, १५, १^e

जप्य-होम-तपस्-पासि विध ८५, २.

जप्या(प्य-अ)शिपरिमृजन-ने हिध २, १, ९७

जप्या(प्य-अ)भिहवना(न-आ)दि-दिषु शंघ १००

जापिन्-पिनम् वाध २६, १२.

a) व्यप । व्यु १ । b) पा ३, १, २४, ७, ४, ८६ परामृष्ट. द्र । c) जपेत् इति R. । d) =जप- ।

e) सपा. जपक<>जप्यक इति पाभे । f) विप. । बस. । g) तप इति पाठ. ? यनि शोघः । h) कर्मणि यत् प्र. (पा ३, १, ९८) ।

जाप्य- -प्येन वाध २६, ११
जाप्य-पर^२- -रः वाध २६, १३.
ज-पर- ज द्र
जपा^१- -पाया याशि २, ७५
जपारूप^१- > ^{००}फ-काकुल्या भण्डी^१-
कुरण्डक-वर्जम् जैगृ १, १ १२
जपित्वा- प्रभृ √जप् द्र
जंजवार^१- -रु अप ४८, ११५, निघ
४, ३, या ६, १७, उसू २, ११
√जम्, म्^१ पाधा म्वा आत्म
गात्रविनामे, चुरा पर विनाशे,
जंजम्भयामसि आमिगृ ३, ७, २
६, बौपि १, १७ २७, जंजम्भ-
य>या आपम २, १७, १, या
३, ११, ऋप्रा ७, ३१
जंजभत्- -भतौ शाश्रौ ४, २०, ११
जंजभा(न>)ना- -ने कौसू ११४,
२१
जंजम्भयमान- -न आपश्रौ ४, ३,
१२, हिगृ १, १६, २
जम्भ^१- पाग ४, १, ११२^६, -जंम्भे
वाश्रौ २, १, ८, १^६, आपम १,
१०, ७×४, याशि २, ९४
जाम्भ- पा ४, १, ११२
जम्भ-गृहीत- -ताय कौसू ३२,
१, ३५, १३
जम्भय- -भ्यान् तैप्रा २, १७
जम्भय^१- -जंम्भयेभि. आपश्रौ
२०, २१, ९^१, बौश्रौ १५, ३५ :
५, हिश्रौ १४, ४, ५५
जम्भक^१- -क मागृ २, १४, २९१
जम्भन-> ^०न-नर्तन-गान-कृत्य^१-

-स्यः वैध ३, १४, ४
जंजम्भयत्- -यन्त या १२, ४४,
ऋप्रा २, ४३, शुप्रा ४, ६५
जम्भन्- -म्भिन. अप ६८, १, ४१
ज-भाव- ज-द्र
√जम्^१ पाधा म्वा. पर अदने,
जमीत निघ २, १४^१
जंजम्भ^१- -मत् अप ४८, २०,
निघ १, १७
जम्भ-अग्नि^१- पाग ४, १, १०५,
२, १११, -अय^१ वृदे ४, ११४,
या ७, २४^१, -अये आमिगृ १,
२, २ १५, बौगृ ३, ९, ३१,
भागृ ३, १० ११, हिगृ २, १९,
३१, -मि शाश्रौ १४, ६७, १,
१५, २१, ११, बौश्रौ १७, ४२
३१, १९, १० : २८१, बौश्रौप्र
५४ : १२, आपम २, ८, १०१,
शागृ ४, १०, ३, पागृ २, ६, २३१,
भागृ २, २२ ५१, हिगृ १, ११,
४१, २, १९, २, कौसू ३१, २८१,
ऋअ, -जंमिना आश्रौ ५, ५, १२,
शाश्रौ ७, २, ७, आगृ ३, ५, ७,
कौगृ ३, ७, १०, शागृ ४, ५, ८,
-जंमिभि^१ आश्रौ ८, ९, ७, शाश्रौ
१०, १०, ८, या ७, २४, -मिम्
वैगृ १, ४ १५१, -मीनाम्^१
काश्रौ १, ९, ३, आपश्रौ २, १८,
२, ६, ८, २, भाश्रौ २, १७, ६,
वाश्रौ १, १, १, ३०, वैश्रौ ६, ६
५, हिश्रौ २, २, ९, -जंमैः बौश्रौ
१७, ४० : ४, १८, ५२ १०१,

आपमं २, ७, २, कौगृ
१जामदग्न्- -म काश्रौ
२३, २, १२, -मम् आश्रौ १०,
२, २३, ३, ६, वृदे ८, ३७,
-माय लाश्रौ ९, १२, १
जामदग्न्^१ पा ४, १,
१०५, -ग्न्य आपश्रौ २४, ५,
१२, १३, बौश्रौप्र ३. १६,
हिश्रौ २१, ३, ७, वैध ४, २, २;
-ग्न्य. आश्रौ ३, २, ८, वृदे ५,
२५, -ग्न्यम् आपश्रौ २, १८,
२, भाश्रौ २, १७, ७, माश्रौ १,
३, २, ५, वाश्रौ १, १, ३०,
हिश्रौ २, २, १०, -ग्न्यस्य माश्रौ
१, ३, २, ५, ७, ६, ३१, -ग्न्याः
आपश्रौ २४, ५, ११, हिश्रौ २१,
३, ७, -ग्न्यानाम् आगृ १, ७, ९,
कौगृ १, ५, १२, जैगृ १, ३ २३,
द्रागृ २, १, १७, -ग्न्याय निगृ
८, ४ : २९^१, बौगृ ३, ९ : ३,
-ग्न्येन आपश्रौ २२, १८, १६,
हिश्रौ १७, ७, ९
२जामदग्न्- पा ४, २,
१११, -मा आश्रौ १२, १०, ६.
जमदग्न्-वत् आपश्रौ २४,
५, १२, १३, बौश्रौप्र ३ : १७,
हिश्रौ २१, ३, ७^१, वैध ४, २, २.
जमदग्न्-चत्तूत्र- -त्र
शाश्रौ १६, २३, ७
जमदग्न्या(मि-आ)र्ष^१- -र्षः
ऋअ २, ३, ६२
जम्-पति^१- -ती पाग २, २, ३१

- a) विप । बस । b) नाप । व्यु ? । c) द्रस (तु ०, वैतु भाष्यम् जपा-रूप- इति) ।
d) चण्डी- इति ० । e) वैप १ द्र । f) पा ३, १, २४, ७, १, ६१, ४, ८६ परामृष्ट द्र । g) व्यप ।
h) पाभे वैप १, १३६३ ० द्र । i) = विनायक-विशेष- । j) विप । द्रस > बस । k) या २, ६ परामृष्ट. द्र ।
= √जिम् इति BFG । l) गती वृत्ति । m) ज्वलने वृत्ति । n) बहु < जामदग्न्- । o) = अहीन-
विशेष-, [आप्री-] सूक्त- । p) = अहीन-विशेष, ऋषि-विशेष- प्रभृ. । q) षन्त्ये इति पाठ ? यदि शोध-
(तु. मूको) । r) नाप. । व्यु ? (तु. वैप १ द्रम्-पति-) ।

जम्ब- पाठवृ ४, ९५
जम्बाल- पाठभो २, ३, १०५
जम्बीर- पाठभो २, ३, ५०
जम्बु, म्बु^a- पाठ १, ९३, पा ४, ३,
१६५, १६६, पा, पाग ४, २,
८२, पाग ४, २, ८०
जाम्बव- पा ४, ३, १६५
जाम्बवक- पा ४, २, ८०
जम्बु-द्वीप- -पम् शंभ ११६ ४
जम्बु-फल- -लानि शंभ २३२
जम्बुक^b- पाठभो २, २, २६, -क अप
७०^३, ६, ८, -कम् अप ७०^२, २,
७, -काय वाश्रौ ३, ४, ५, १७^१
जम्बुक-प्रवेश- -शे काध २७६ ७
जम्भ- प्रभृ √जम् द्र
जम्भल- पाठवृ १, १०६
जम्भिन्-, १, २जम्भ्य- √जम् द्र
१, २जय-, जयत्- प्रभृ √जि द्र
१जयन- पाठभो २, २, १८५
२जयन-, ०यन्त- प्रभृ √जि द्र
१जयमने या १३, ५
१जयाहे नाष्ट्यं तु (१) कल्पयते^c
आमिष्ट २, ५, ५ १
१जयेते^d या १४, ७
जर-, जरठ-, जरण- प्रभृ √जू
(वयोहानौ) द्र
जरति^{e,f}- (>जारतेय- पा) पाग
४, १, १२३
जरतिन्-(>जारतिनेय-)जरति-
टि द्र
जरन्त- पाठ ३, १२६

१जरमाण- पाग ४, १, १०५^६
जारमाण्य- पा ४, १, १०५, -ण्य
बौश्रौप्र ४१ १२
२जरमाण- जरयितृ-, जरस्- √जू
(वयोहानौ) द्र
जरसान- पाठ २, ८६
१जरा- √जू (वयोहानौ) द्र
२जरा- √जू द्र
३जरमाण- √जू द्र
१जराध्य अप ४८, ११५^१
जरायु^h- पाठ १, ४, -ःयु आपश्रौ
१४, २९, ३, १६, ३२, ४^१, बौश्रौ,
बौपि १, १७ : १३^१, या १०,
३९, १३, ५, -युणा बौश्रौ १०,
४८ ३५^१, माश्रौ, -युणि कौस्
३३, १५, -यो बौश्रौ २६, २ ४
जरायु-गर्भ-शब्द- -न्दाभ्याम् वृदे
५, ८७
जरायु-ज- -ःज कौस् २६, १,
३८, १, अप ३२, १, ७, अअ
१, १२, -जम् या १३, ५
जरायु-स्थान- >नीय- -यः या
१०, ३९
१जरिताम् √जू (वयोहानौ) द्र
१जरितृ^g- -ता ऋअ २, १०, १४२
२जरितृ- √जू द्र
जरित्वा-, जरिमन्-√जू(वयोहानौ)द्र
१जरिमाणेयोⁱ आमिष्ट १, १, २ ४५,
४७, ४९
जरिष्णु- √जू (वयोहानौ) द्र
जरूथ^j- पाठ २, ६, -ःथम् निघ ४,

३, या ६, १७
जरूथ- पाठभो २, ३, १६६.
√जर्च् √जर्च् टि द्र.
√जर्च् पाधा भ्वा पर परिभाषण-
हिंसातर्जनेषु, तुदा परिभाषण-
भर्त्सनयोः
जर्जर- √जू (वयोहानौ) द्र
√जर्म् √कर्म् टि द्र
जर्ण- पाठ ३, १०
जर्त- पाठना ५, ५८, पाग ४, १,
१७३^१
जर्तिल^k- -ला आपश्रौ १६, १९,
१३, बौश्रौ २४, ५ : १७, -लैः
आपश्रौ १७, ११, ३, हिश्रौ १२,
३, ४
जर्तिल-तैल- -लम् बौश्रौ २८, १३ : ६
जर्तिल-मिश्र- -श्रान् काश्रौ १८,
१, १
जर्तिल-यवागू- -वा आपश्रौ १७,
११, ३, वैश्रौ १९, ६ ३४;
हिश्रौ १२, ३, ४
जर्तु- पाठ ५, ४६
१जर्तुभ्य^m आपमं १, ७, ११^१
√जर्त्स् √जर्च् टि द्र
जर्मरि- √मृ द्र.
जर्वरⁿ- -रः बौश्रौ १७, १८ : १०.
जर्हषन्त, जर्हषाण- √हृष द्र
√जल् पाधा भ्वा. पर घातने, चुरा.
पर. अपवारणे
१जल^p- -लम् वैश्रौ १२, ६ १२;
जैश्रौका, वेज्यो १०^१, -लात्

a) = वृक्ष-विशेष-, तत्फल-। b) = शृगाल-। व्यु ?। c) पाठ ? जयान्, होष्यन्, उपकल्पयते
इति त्रि-पद शोधः (तु सप्र बौश्रौ १४, १६ १)। d) पाठः ?। जायेते इति तु प्रभृ, जायते इति निरु २,
५। e) तु पागम। जरतिन्- इति भाण्डा प्रभृ। f) व्यप.। व्यु. ?। g) पृ १०९९ M द्र.।
h) वैप १ द्र। १) ०य इति पाठः ? यनि शोध.। j) पाठः ? सपा. शौ १९, २ ४, २, ३ कम् ४१, ७२ हिष्ट
१, ४, ८^२ प्रभृ विशिष्ट पासे (तु वैप १, १३८८ p, १८४५ g)। k) = √जर्च्, जर्त्स् इति [पक्षे] BPG.।
l) तु पागम.। m) शोधः वैप १, १३४० M द्र। n) = सर्प-विशेष-। o) सपा. जर्वर. (ता २५, १५, ३ च)
<> जीर्वर. इति पासे.। p) = वारि-। व्यु. ?। q) देवतात्वेनोपचारः।

काशु ७, ४, -लानाम् अप ६८,
२, १३, -लानि अप ५५, ६, ३,
-ले आमिगृ २, ६, १ २, बौपि,
या ६, २७, -लेन वैश्रौ १२,
१९: ८, वैगृ, -लेषु अप ६५, १,
६, विध ९९, १७, -लै वैध २,
९, ५

जल-क्रीडा- डाम् कप्र ३, ६, १५
जलक्रीडा-रुचि-शुभ- -भम्
विध १, २^a

जल-क्लिन्न-वासस्- -सा गौध
२४, ७

जल-क्षय- -यम् अप ५८^३, ४, ८

जल-गत- -तयो शंध २८८

१जलगोत्रसाभूत- -तम् अप ६५,
२, ९

जल-चर- -रम् विध ५०, ४५, या
६, २७, -राणाम् विध ४१, १.

जलचर-गति^b- ति या ७, १३

जलचर-योनि- -नय विध
४४, ६

जल-ज- -जम् विध ६६, ९, ७१,
१२, -जा गौव १७, २७,

-जान् शंध ४२६, -जानाम्
विध ४१, १, -जानि विध ७९,
६, -जै अप ६५, २, ३

जलज-योनि- -नय विध ४४, ५

जल-जाति^c- -ति अप ६०, १, ३

जल-ज्वलन-चौर- -राणाम् अप ६३,
२, ८.

१जल-द- -दा: अप ६१, १, ७

जल-दु(र्ग>)र्गा- -र्गाम् या ७,
२०, १४, ३३

जल-धेनु- -नुम् अप ९, ३, २,

विध ९०, १३, काध २७१
८

जल-पथ- पा, पाग ५, ३, १००.

१जल-पवित्र^d- -त्रम् आमिगृ २, ४,
६. ८, -त्रे आमिगृ २, ४,
६ ९

२जल-पवित्र^e- -त्रम् बौध २, १०,
१२, ३२^२

जल-पिण्ड-दाना(न-आ)दि- -दि
वैगृ ५, १५ १२

जल-पूरित- -तान् जैश्रौका २००

जल-पूर्ण-कुम्भ- -म्भम् वैगृ ५,
५: ६

जल-पूर्ण-पात्र- -त्रे वैगृ ४, १०:
१२.

जल-प्रद- -द: विध ९१, ३

जल-प्लव^f- -व शंध ३७७ १४.

जल-बिन्दु- -न्दव अप ४१, ४, ३

जल-बुद्बुद-सनिभ- -भे कप्र ३,
३, ५.

जल-भय-जल-संक्षय- -ययो अशा
१७, ४

जल-भाण्ड- -ण्डै अप ६८, २,
४९

जल-वत् बौध १, १, १५

जल-वेग-समाहि(त>)ता- -ता
अप ५५, १, ७

१जल-शयन- > न-पञ्चतपो-
(पस्-अ)भावकाश- -शान् शंध
३९०

जलशयन-पञ्चतपो^g(पस्-अ)

भावकाश-नियम-पर^h- -र:
शध ३६९

२जल-शय(न>)नीⁱ- -नी वैगृ ३,

१६: ८

जल-सनिधि- -धौ अप ६८, ५,
२२

जल-स्थल- -लेषु वैगृ १, २ ३

जल-स्त्राव- -वे अप ७०^३, ८, ४.

जल-स्रुति- -तौ अप ७०^३, ९, १

जल-हारिन्- -री शध ३७७ २०

जल-होमा(म-आ)दि-कर्मन्-
-र्मणि कप्र १, ८, २४

जल-हृद^j- (> जालहृद- पा)
पाग ४, १, ११२

जला(ल-अ)जल-ज-सतान^k-
-नान् अप ६५, २, ७.

जला(ल-अ)जलि- -लिम् वैध २,
७-८, ६, -लीन् विध ८५, ६५

जलाजलि-त्रय- -यम् शंध
१२२

जला(ल-आ)दिक- -कम् आमिगृ
३, ३, ३ १२

जला(ल-अ)नु(ग>)गा- -गाम्
विध १, १

१जला(ल-अ)न्त- -न्ते वैव २, १२,
७

२जला(ल-अ)न्त^b- -न्तम् वैगृ ५,
७. ३.

जला(ल-अ)भ्याश- -शौ बौध ३,
२, ३

जला(ल-अ)र्थ- > र्थिन्- -र्थिन
वैगृ १, ४ २३, कप्र १, १०, ८;
अप ४२, २, ५

जला(ल-आ)शय- -यम् विध ८६,
१९, -ये आमिगृ २, ४, ७:

१४x४, वाध २७, १७, विध-
८६, १९, -येषु विध २३, ४६

a) ँचि, शुभम् इति जीसं । b) विप । बस । c) उप = जीव- । d) = [जलपात्र] मणिक- ।

e) = जलपावन-वस्त्र- । उस. उप करणे कृत् । f) नाप । उस । g) षाभ्रा^o इति पाठः ? यनि शोध ।

h) विप । द्वस > बस. । i) = व्याहृति-विशेष- । उस उप कर्त्तरि कृत् । j) व्यप । व्यु । k) द्वस >

उस. > षस. पूष = जलचर-स्थलचर-, उप. = समूह- ।

ज(ल>)ला-बाह^१- पाग ८,३,
१८^b
जले-चर- -रान् शब्द ४२६
जले-भव- -वम् या ६,२७
जले-शय- -यम् या ६, २७^क
जलेशय-बिलेशय- -यम् शब्द
४१०
जलो(ल-उ)दर^०- > ०रिन्- -री
शब्द ३७७. ९
जलो(ल-उ)द्रव- -वानि शब्द १९७
जलो(ल-उ)पजीविन्- -विनः अप
५७,३,५
जलौ(ल-ओ)घ- -घैः अप ७०^३,
११,१६
२जल^d-ल शाश्रौ १६,२९,६
जलडा^d- (> जालडी- पा) पाग
४,१९६
१जल द- १जल- द्र
२जलद^d-> ०द^f, -द अप २,५,२
जलदायन^f- -नैः अप २२,२,४
जलन्दू^d- -न्द्व हिश्रौ २१,३,१०
जलंधर^d- पाग ४,१,९९
१जलंधरायण- पा ४,१,९९, पाग
४,२,५३
जलंधरायणक- पा ४,२,५३
जलंधरि- -रि बौश्रौ ४३. ६
१जलाली अप ४८,११६^क
१जलाष^h- -षम् अप ४८,६४^१, ७५^१,
निघ १,१२^१, ३,६^१, ४२
१जलाष-भेषज^h- -ञ अप ३२,१,

१७,१८
जलिक^१- (> जालिक्य- पा) पाग
५,१,१२८
जलू(क>)का^m- पाउभो २,२,२७
जलूका-वत् वैगृ ५,१ : २७.
जले-चर- प्रमृ १जल- द्र
जलाल्यमान- √गल् द्र
√जल्^m पाधा भ्वा पर व्यक्ताया
वाचि, †जल्पति^० अप ४८,९,
निघ ३,१४, जल्पन्ते अप ७०^३,
१२,२, जल्पन्ति अप ७०^३,९,
१, ७१,४,१, जल्पेत् कागृ १,
१९, मागृ १,१,९, वागृ ६,८
जल्प^२- पाग ६,१,१५६
जल्पत्- -ल्पन् आमिगृ २, ६, १
४, बौध १,५,१५
जल्पन- पाग ३,१,१३४, -ने अप
७०^३,८,५
जल्पाक- पा ३,२,१५५
जल्पि^h- -ल्प्या या १४,१०^क
ज(ल्य>)ल्प्या^१- -ल्प्या बौश्रौ
२,५ २२^क
१जल्हु^h- -ल्हव निघ ४, ३, या ६,
२५^क, शैशि ११३
१जव- (> जावायनि- पा) पाग
४,२,८०
२जव- √जु द्र
१जवन^r- पावा, पावाग ४,१,१७३
२जवन- , जवमान- प्रमृ √जु द्र
जवी/भू, जवीयस्-, ०सी √जू द्र

√जष् पाधा भ्वा पर. हिसायाम्
जष^h- -ष भौशि १६६^क.
√जस्^१ दिवा पर मोक्षणे, चुरा पर.
हिसायाम्, उभ ताडने, जसति^१
निघ २,१४^क
जसुरि^h- पाउ २, ७३, -†रि अप
४८, ११५, निघ ४,१, -रिम्
या ४,२४^क.
जस्त- -स्तम् या ४,२४
जस्यत्यम्^१ अप ४८,११६^क
जहा-, जहजोड-, जहि-स्तम्ब-
√हन् द्र
जह्नु^h- पाउ ३, ३६, -हूनाम्^१
शाश्रौ १५, २७,१
जहमन्^१- -ह्म अप ४८,७५^क
जा- √जन् द्र
१जावुक- -कम् वाश्रौ ३,४,५,१२.
जागत- प्रमृ जगत- द्र.
जागर-, ०ण- प्रमृ √गृ (निद्राक्षये)द्र.
जाघनी- जघन- द्र
जाङ्गल-, ०ल्पथिक- जङ्गल- द्र
जाङ्गाप्रहतिक- प्रमृ जङ्गा- द्र
जाङ्गि^१- पाग ४,१,९६^क
जाङ्गिक- जङ्गा- द्र
जाङ्गिघ्र- जाङ्गि- टि द्र
जाङ्गमायन^१- -नम् कौसू ३, २, ६८,
१७
१जाजल^d- (> जाजलायनि- पा)
पाग ४,१ १५४
जाजलिन्^d-> २जाजलय- पावा ६,

a) विप वा नाप वा । उस । b) तु. पाका प्रमृ । ०षाडम् इति [पक्षे] भारुडा., ०षाडम् इति [पक्षे]
पासि । c) = रोग-विशेष- । d) व्यप । व्यु ? । e) तु पागम । f) = तत्प्रोक्तशाखाभ्यायिन्- । g) जलंधर-
इति पागम, जनंधर- इति भोज्यमते । h) वैप १ द्र । i) = सुख- । j) = उदक- । k) ०शम् [दु] इति पाठ ?
यनि शोध । l) अर्थः व्यु च ? । m) = जलौका- । व्यु. ? । n) पावा १,४, ५२ परामृष्टः द्र । o) अर्चने
वृत्तिः । p) तु. पाका भारुडा. प्रमृ । तल्प-, नल्प- इति पासि । q) भावे क्यप् प्र उसं (पा ३,३,९८) ।
r) तु पागम । = देश-विशेष- । s) पा २, ३, ५६ परामृष्टः द्र । t) गतौ वृत्तिः । u) बहु < जाह्व- ।
v) पामे पृ ११०१ d द्र । w) < जङ्घ- वा जङ्घा- वेति P.W. । जाङ्गिघ्र- इति पासि. जाङ्गि- इति पाका ।
x) = जलपात्र- विशेष- इति संस्कृता [भू L], जाङ्गमायन- इति केशव । y) = शाखाभ्यायिन्- ।

४,१४४, -लैः अप २२, २, ३
 जाज्वल्यमान- √ज्वल् द्र
 जाटिकायन^a- न अत्र ६, ३५,
 ११६
 जाटिलिक-, जाक्य- √जट् द्र
 जाठर- जठर- द्र
 जाडायन- २जड- द्र
 जाड्य- १जड- द्र
 ?जाणवत्पलाशशाखावन्ति-
 -तय बौश्रौप्र १९०४
 जाणवत्स^a- स्साः बौश्रौप्र ४३
 ३
 जाण्ट- पाउभो २, २, ९५
 १जात- √जन् द्र
 २जात- (> २जातायन- पा) पाग
 ४, १, ११०.
 ३जात- (> ३जात्य-> ४जात-)
 अभय जात- टि. द्र
 ?जातमर्क^b जैगृ २, ९, १८
 १जातायन- जत्- द्र.
 जाति- √जन् द्र
 जातु^c वैताश्रौ ३८, ६५, कागुड ४२
 १९, वाघ १०, २, विध ९९, २३,
 या ४, २, पा ८, १, ४७, पाग १,
 ४, ५७, पावा ८, १, ७२
 जानु-यद्- यदो पा ३, ३, १४७.
 जातुकर्णि-, ष्य- जतु- द्र
 जातूकर्ण- प्रभृ जतु- द्र
 १-२जात्य- √जन् द्र.
 ४जात्य^d- त्यम् भागृ २, १, २,
 ११
 १, २जान-, जानकि- प्रभृ √जन् द्र
 जानत्- √ज्ञा द्र
 जानन्तरि^e- रिः बौश्रौप्र ४३ : ६.

जानन्ति^a-> ण्ति-बाह्वि-गायर्थ-
 गौतम-शाकल्य-बाभ्रव्य-माण्ड-
 व्य-माण्डूकेय- -याः आगृ ३,
 ४, ४, कौगृ २, ५, ३
 जानंधरायण- जनंधर- द्र
 जानपद्-, ण्दिक-, ण्दी-, ण्मान्य-,
 ण्शज्य-, ण्वादिक- √जन् द्र
 ?जाना वाश्रौ ३, ४, २, ४
 जानान- √ज्ञा द्र
 जानायन- √जन् द्र
 जानु^c- पाउ १, ३, पाग ५, ४, २९,
 -नु आश्रौ १, १२, ३१, २, ३,
 १५××, शाश्रौ, आपश्रौ २०,
 ३, ९०, -नु बौशु १ ५, -नुन
 कप्र १, २, ६, -नुना शागृ २, ७,
 ५, -नुनि आपध २, २०, १४,
 हिध २, ५, १०१, -नुनी काठश्रौ
 १५६, माश्रौ १, २, ५, ११,
 वाश्रौ, -नुनो अप २२, ५, १,
 याशि १, १९, पा ५, ४, १२९,
 -नुभि विध ४३, ४३, -नुभ्याम्
 आश्रौ ६, ५, ४, आमिगृ २, ४
 ९ : १५, गोगृ ३, १, ३१, अप,
 -नुम् हिश्रौ १४, १, ३००,
 आमिगृ ३, ४, ४ १९, ११, १ :
 ५, बौगृ, बौपि ३, ४, १७१,
 -नु शागृ ४, ८, ९, शंघ २१६,
 २१८, -नुनि आमिगृ ३, ५,
 ६ २, बौपि १, ४ १८,
 हिपि ५ : २, -नोः वैश्रौ १८,
 १६ ७४^g, आपशु ९, १५,
 बौशु ५ ९, ७ : ३, -नुवो जैगृ
 १, १६ ५, बौध १, २, २८,
 वैध २, १०, ७

२जानु क- पा ५, ४, २९
 जानु कपोल- लयोः विध ९६, ६५
 १जानु-जङ्घा- -ङ्घयो. जैगृ २, ४ :
 ५
 जानुजङ्घा(ङ्घा-अ)धीवत्- -वतोः
 शाश्रौ ४, १५, १९, कौगृ ५,
 ६, ५
 जानु-दघ्न^h- -घ्नम् आपश्रौ ७, ४, २;
 १६, १३, ११, काठश्रौ, -घ्ने
 आपश्रौ ५, १४, ८××, बौश्रौ,
 जानुदघ्नी- -घ्नीम् बौश्रौ १९,
 १० ४, आपशु १०, १०
 जानु-प्रहत- (> ण्तिक- पा)
 पाग ४, ४, १९
 जानु-मात्र- -त्रम् आगृ २, ८, २, ४,
 ४, ८, -त्रे काश्रौ १८, १, २
 जानुमात्र-पा(द< >)की^h- -दीम्
 काश्रौ १९, ४, ७
 जानु-शिरस्- -रसा आश्रौ १, ४,
 ८
 जानु-हस्त^h- -स्तेन अप १, २८, ४.
 जान्व(नु-अ)क्त- -क्तⁱ आपश्रौ १०,
 ९, २५, भाश्रौ १०, ५, १५, वाश्रौ
 १, १, १, २९
 जान्व(नु-अ)स्थि- -स्थि आपश्रौ
 १, ३, १७
 १जानु-क- √जन् द्र
 जानेवादिक-, जानोवादिक- √जन्
 द्र
 जाप-, ण्पिन्-, ष्य- √जप् द्र.
 जाबाल^{a, j}- -ला चव्यू २ : ३६;
 ४ : २
 जाबालि^a- -लयः बौश्रौप्र ३१ : ५;
 -लि. बौश्रौप्र ३ १३

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु^h। b) पाठ १ जात अर्क इति शोध (तु सपा अप ५१, १, ३)।
 c) वैप १ द्र। d) = अजन-विशेष-। व्यु.^h। e) सप्र णु <> णुम् इति पाभे। f) णु इति ऋ.।
 g) जनो. इति पाठ १ यनि शोध (तु. आपशु)। h) विप.। बस। i) पाभे वैप २, ३खं काश. जान्वण्ण.
 ४, २, १, ३ टि द्र। j) <जबाला- इति सभाव्येत (तु वैप ३)।

जाबालेय^d-पा, पाग ५,३, ११७^d
 १-२जामदग्-^०ण्य-^०जम् द्र
 जामलायन^०-ना: बौश्रौप्र ४ ३
 जामालि^०->^०ल्यै (लि-ऐ) तिशायन-
 विरोहित-माण्डव्या(व्य-अ) वट-
 मण्डु-वैद-रेतवाह-प्राचीनयोग्य-
 न्यानाम् हिश्रौ २१,३,७
 जामातु^d-पाठ २,९५, -^०त ऋप्रा
 १,१०२ शुप्रा १, १६८, -ता
 विघ ८३,१७, वृदे ५, ५७-५९,
 या ६, ९६, -तरम् आमिगृ १,
 ७,१-१५, -तु: या ६,९
 जामि^d-पाठभो २,१,१६८, -^०मय
 आश्रौ ५,७,३२,शाश्रौ, अप ४८,
 ८२^०, निघ २,५^०, या ३, ४^१,
 -^०मये वृदे १,५७,या ३,६६, -मि
 आपश्रौ ९,९,९,भाश्रौ, अप ४८,
 ७५^०, निघ १,१२^०, -^०मि.
 शाश्रौ १४,५२,५, ७, अप ४८,
 ११५, निघ ४,१, या ३,६६, ६,
 ४, २०, १०, १६, -^०मिम
 आपश्रौ ३, १३,५^०, भाश्रौ^० २,
 ८,८,३,१२, ३, माश्रौ, -मिषु
 ऋप्रा ९, ४५^०, -^०मी आपश्रौ
 १२, ७, १०^१, द्राश्रौ १३,३,
 ३६, हिश्रौ ८, २,९^{११}, बौगृ ३,
 ११,४, -मीनाम् अत्र १६,८^०,
 -म्या. शाश्रौ १२, २०,२^०, या
 ३,५, -म्यै कौस् ३४,१५,२०
 जामि-करण-^०ण निस् १,१३:९
 जामि-कल्प-^०व्य लाश्रौ ९, ११,
 १५
 जामि-कलस-^०सा क्षुस् २,६ १४

जामि-ता-^०ताया तुस् ३,११:३२
^०जामि-शंस^d-^०सात् आपम २,
 १२,१०, आमिगृ २, १, ४
 १०, हिगृ २,३,१०
 जाम्बव-^०वक-^०जम्बु-^०द्र
 जाम्बवतL,न्त^d-J(>^०तक-
 L,न्तक-J पा) पाग ४,२,८०
 जाम्बि-^०जाहि-^०टे द्र
 जाम्बील^d->^०ल-स्कन्दन-^०ने
 वैताश्रौ १२,८
 जाम्भ-^०जम् द्र
 जायमान-^०, जाया-^०प्रभु ^०जन् द्र
 जायु-^०, जायुक-^०जि द्र
 जार^d-पावा ३, ३, २०, -^०फर
 जैश्रौ ३ १५, द्राश्रौ १, ३, ३,
 ८, ४,७, लाश्रौ १,३, १, ४,४,
 -र शाश्रौ १४, ५६, ११^०,
 आपश्रौ ८,६,२२, बौश्रौ ५,७
 ६, ७, माश्रौ ८,८, ५, वैश्रौ ८,
 १२:३, मागृ २, १८, २^०,
 या ३, १६६, ५, २४^०, १०,
 २१^०, -रम् आपश्रौ ८,६,२२,
 बौश्रौ ५,७ ७, भाश्रौ ८,८,५,
 वैश्रौ ८, १२ २, हिश्रौ ५, २,
 ४६, कौस् ३६, ३५, -रा^१
 आपश्रौ ८,६,२०, भाश्रौ ८, ८,
 ४, वैश्रौ, -रात् वैव ३, १२,२,
 ११, १३, ४, -रे लाश्रौ १, ३,
 ८, -रेण वाघ २८, १, वैघ ३,
 १३, १०, -^०रेभ्य भागृ १,
 १५ १२, हिगृ १,२४,५
 जार-ग(र्भ>)र्भा-^०र्भा: नाशि २,
 ८,१९.

^०जार-(हन >)श्री-^०श्री कौगृ १,
 १०, २, -श्रीम् आपम १, १०,
 ३, ६, शागृ १,१६, ४, पागृ १,
 ११, ४, बौगृ १, ६, १२, भागृ
 १,१९ १५, हिगृ १,२४, ५.
 जार-भर-^०पाग ३,१, १३४.
 जार-स्त्री-(> जारस्त्रैण्य- पा)
 पाग ४, १, १२६^०
 जारिणी-^०णी या १२,७^०.
 जारो(र-उ)पन्न-^०न्न. वैघ ३, १३, २.
 जारतिनेय-^०जरतिन्-^०द्र
 जारतेय-^०जरति-^०द्र
 जारत्कारव-^०जृ (वयोहनौ) द्र
 जारयन्ति-^०जृ द्र
^०जारयायि^d निघ ४,३, या ६,१५.
 जारी-^०जृ (वयोहानौ) द्र
 जाल^d^०- पा ३, १, १४०, ३, १२४;
 पाग २,४,३१, ४, १०, १२, ५,
 ४, १३८, -लम् काश्रौ ७, ४, ७,
 काठश्रौ, या ६, ५, १२, २७^०,
 -लानि कौस् १६, १६, -लेन
 आपश्रौ १६, २५, २, वैश्रौ १८,
 १७ ५१, हिश्रौ ११, ७, ४२,
 पागृ १, १६, २४, आपगृ १८, १;
 अप ६३, २, ६
 जाल-नद्ध-^०द्धा ऋअ २, ८, ६७.
 जाल-पाद-^०पाग ५, ४, १३८, -दान्
 शंघ ४२६^०.
 जाल-स्था (स्थ-अ) क-मरीचि-
 गत-^०त्तम् विघ ४, १
 जाल-हस्त^d-^०स्तेन अप १, २९, ४.
 जाला(ल अ)ध्यास^d-^०स वाधूश्रौ
 ४, ९८ २०

a) = आयुधजीविसघ-विशेष-। व्यु^१। b) तु पाका । ज्याबाण्य- इति भाषणा । c) = ऋषि-
 विशेष-। व्यु^१। d) वैप १ द्र । e) = अङ्गुलि-। f) पामे वैप १, १३६६ I द्र । g) = उदक ।
 h) पामे वैप १, १३१० J द्र । i) पामे वैप १, १३६६ J द्र । j) ^०मीनम् इति पाठः^१ यनि शोध
 (तु आपश्रौ) । k) तु. पाका । l) पामे. पृ ८४१ C द्र । m) तु पागम । n) पाप्र < ^०जल्
 (घातने) । o) = पक्षि-विशेष-। p) मलो. कस । q) = अन्वाख्यान-विशेष-।

जालिक- पा ४,४,१०, १२.
 जालकीट- पा, पाग ४,२,११०.
 जालडी- जलडा- द्र
 जालधर- > (२जालधरायण-)
 जलधर- टि द्र
 १जालधरायण- णक-, धरि-
 जलधर- द्र
 जाल-पद- (> षदी-) जानपदी-
 टि द्र
 जालमानि^०-(> नीय- पा) पाग ५,
 ३,११६
 जालहद- १जल- द्र
 जालागत^०- ता बौश्रौप्र ४७ . १
 जालिक्य- जलिक- द्र
 जालम^०- पाउमो २, २, २४७, -लमः
 वाश्रौ १,६,५,१०^१
 †जालमो- -०लमि वाश्रौ ३, २, ५,
 ३२, द्राश्रौ ११, ३, १०, लाश्रौ
 ४,३,११
 †जालिम- अप १,३१,८
 जावन्य- √जु द्र
 †जाष्कमद^०- दा अप १, ३६, ५,
 अप्रा ३,४,१
 जास्पत्य- √जन् द्र
 जाहृषाण- √हृष् द्र
 √जि^१ पाधा. भ्वा पर जये, अमि-
 भवे, चुरा उभ. भाषार्थे,
 जयति आश्रौ ९, ९, ८, काश्रौ,
 या ९, १४^१, पा ४, ४, २,
 जयन्ति आपश्रौ ५, २०, २××,
 हिश्रौ, जयथ या ५, २६,
 †जयामि आश्रौ २, २, ४^०, ११,

८^{२१}, शाश्रौ, जयाम या १०,
 १५, †जयामसि वाश्रौ १, ५,
 २, ५, आपमं २, १८, ४७, या
 १०, १५, †जयाति बौश्रौ १३,
 २८ १६, १७, वैताश्रौ, जयात्
 वाधूश्रौ ४, ९४ ८, ९४^२ ९,
 ९४^३ ८, ९४^४ : ९, जयाथ या ५,
 २६, †जयतु आश्रौ ८, १४, ४^३,
 बौश्रौ ६, ३० : २४, गोग्र ३, ४,
 ३१, या ९, १२, जयताम् आपश्रौ
 १६, २६, १^१, †जय, > या वाश्रौ
 १, ३, ४, ५, ३, ३, २, ५५, माश्रौ,
 †जयत, > ता आश्रौ ५, ७,
 ३^{२६}, ९, ९, ८^१, शाश्रौ १६,
 १७, ६^१, बौश्रौ, †जयानि^०
 शाश्रौ २, ६, ७, आपश्रौ ६, १,
 ८, भाश्रौ, अजयत् शाश्रौ १४,
 ४३-४८, १, बौश्रौ, या १,
 १५^१, अजयन् बौश्रौ १४, १६
 १३^१, वाधूश्रौ, †अजय आश्रौ
 ५, १९, ४^१, आपश्रौ ५, ९, ११^१,
 माश्रौ १, ५, २, १५^१, वाश्रौ,
 जयेत् बौश्रौ १८, ४९ : ५,
 वाश्रौ १, ४, ४, १७, हिघ २, ५,
 १७८^१, अज, जयेरन् बौध २,
 २, ४८, जयेवहि वृदे ५, १ २६,
 †जयेम काश्रौ २, १, ३, आपश्रौ,
 वैताश्रौ २७, ९^१, या ५, २,
 ९, १७^३
 जेत माश्रौ १, ५, ५, १३^१
 †जिगाय आश्रौ २, २, ४, शाश्रौ,
 जिग्युः बौश्रौ १८, ४६ : २०^१,

†जिग्यथु आपश्रौ २२, १६, ४;
 बौश्रौ, जेष्यन्ति बौश्रौ १८, ४६ :
 १६, †जेष्यसि बौश्रौ १५, २७
 २, ८, वाधूश्रौ ३, ८८ ३, २०;
 †जेष्याम काश्रौ १२, २, ८,
 बौश्रौ, जेषथ शाश्रौ ७, ६, ३^१†^१,
 †जेषम् आपश्रौ १८, ४, ८, १७,
 ५^१, बौश्रौ ३, १८ २३××,
 १२^१, १२. ९, १३ २४, माश्रौ,
 हिश्रौ १३, ६, ४^१, जेषम बौश्रौ
 १, ६ २१^१, †अजैत् आश्रौ
 ३, २, १०, शाश्रौ, अजयित^०
 बौश्रौ ११, ८ १४^१, †अजैषीत्
 आपश्रौ २२, १६, ९, हिश्रौ १७,
 ६, ३३, †अजै^० माश्रौ १, ३, ४,
 २, वैताश्रौ ४, २, अजेषीः वाश्रौ
 १, ३, ५, १६^१, †अजैष्म कौसुध ९,
 १९, अज १६, ६, ऋप्रा १४, ४४,
 अजयिष्यत् वाधूश्रौ ३, २२ १४.
 जीयते प्रमृ √*जी द्र
 जापयत् बौश्रौ ११, ८ १४^१
 अजीजिपत् बौश्रौ ११, ९ ८^१†^१;
 १जय^१- पाग ४, २, ८०^१, ५, २,
 ६४, -यः अप ५४, २, १, ६३,
 ५, १, आज्यो ५, १३, पा ६, १,
 २०२, -यम् अप २४, ५, ४;
 २६, ५, ४, ५१, १, २, ७०^३, २६,
 १, वृदे ८, १३, -याः बौश्रौ
 २६, ९ : ३^१, माश्रु १, ११,
 १५^१, वैग १, १७ : ६, -यान
 आपश्रौ ५, २४, १, ३, बौश्रौ;
 -यानाम् बौश्रौ १४, १६ : १;

a) = आगुधजीविसंघविशेष-। व्यु ?। b) व्यप। व्यु ?। c) वैप १ द्र। d) या ९, १७ ऋप्रा
 १४, ४४ पा ३, २, ६१; ६, १, ४८, ७, ३, ५७ परामृष्ट द्र। e) सप्र जयामि <> जयानि इति पामे.।
 f) पामे. वैप २, ३ख जयतु तैत्रा २, ४, ६, १२^२ टि द्र। g) पामे वैप २, ३खं जेषथ शाब्रा २८, ६ टि द्र.।
 h) पामे वैप १, १३६९ d द्र। i) पामे. २, ३ख आ. अजयत् ता १, ५, १९ टि द्र। j) पामे. वैप
 १, ११७० d द्र। k) पामे. वैप १, १३६८ l द्र। l) पामे. वैप १, १३७० l द्र.। m) वैप १
 निर्दिष्टयोः समावेश. द्र। n) तु पागम.।

१३, आम्निष्ट २, ५, ५ : १, १०^{फं},
माष्ट १, १०, ११, वाष्ट १४, १२,
-येषु बौश्रौ २३, ७. १०, -यैः
वाश्रौ १, ४, ४, ४४
जय-क- पा ४, २, ८०, ५, २,
६४
जय-काम- -मेन अप २, ४, २
जय-घोष- -वै अप २१, ६, ६
जय-त्व- -त्वम् बौश्रौ १४, १६ :
१४, आम्निष्ट २, ५, ५ १०^{फं}.
जय-प्रभृति- -त्य काष्ट २५,
२६, -ति आम्निष्ट १, ७, ३ :
३८, २, ४, ४१७××^{१२}, बौष्ट
१, ६, १९, ११, १०××, माष्ट,
-तिभि. काष्ट २३, २, २८, ४××,
माष्ट.
जय-शब्द- -ब्देन आम्निष्ट ३,
१०, ४ ६
जय-होम- -मम् आम्निष्ट २, ७,
७ : २
जया(य-आ)दि- -दि आम्निष्ट
१, २, २. ४१, आपष्ट, -दीन्
बौश्रौ २९, १२ ८
जया(य-अ)भ्यातान- -न्ता
आपश्रौ १९, १७, १८, माष्ट १,
११, १४, -नान् हिश्रौ २२, १,
२९^{फं}, पाष्ट, वैध २, २, ३^०,
-नानाम् वाष्ट २, ७
जया(य-अ)र्थ- -र्थम् अप १,
७, ५
जयार्थिन्- -र्थी अप ६८,
४, २
जया(य-आ)वह, हा- -हा अप

२६, ४, ३, -हाः आज्यो ६, १२
जये(य-ई)प्सु- -प्सु अप ६९,
५, ३
२जय, या^८- -य^८ ऋअ २, १०, १८,
शुअ २, ३५४, -यम् शंघ
११६ ५४^०, -या आज्यो ६,
८, १०^०, कप्र १, १, ११^६, विघ
९९, ४, -याम्^१ आम्निष्ट २, ५,
३ २२^{फं}, शंघ ११६ ३७,
आज्यो ६, १२^०, -यायाम्
आज्यो ७, ३^०, -^०यायै माष्ट १,
१०, ११, २, १३, ६
जय-विजय^१- -याय अप ६६,
३, २^०
जया(य-अ)धिपति- -त्ये ६६,
३, २^०
जयत्- -^०यताम् बौश्रौ १८, ४१
१२, माश्रौ, या ९, २१, -यते
आपश्रौ २०, ७, १६, २२, २१,
७, -^०यन्तम् बौश्रौ १८, ५ :
१२, आम्निष्ट २, ५, ३ २०,
बौष्ट ३, ७, १६, उनिस् ४. ११
१जयन्ती- -न्ती आपम १,
१६, ५^०
२जयन्- -नम् या ५, २६, -नात्
या ९, २४.
जयन्त^१- पाठ ३, १२८, -^०न्त
आपमं २, १८, १३^०, भाष्ट २,
८-९ : १०, -न्त हिष्ट २, ८,
५^०^०, -न्तम् आपष्ट २०, ३,
भाष्ट २, ८. ७, हिष्ट २, ८. ४,
बौध २, ५, २२, -^०न्ताय
आपमं २, १८, १३, ३०, बौष्ट

२, ८, ९, भाष्ट २, ८ १०, ९ =
५, १०, हिष्ट २, ८, ५, ८^०.
२जयन्ती- -न्त्या बौश्रौ १८,
४६ : १७
३जयन्ती^१- -न्ती अप ५, २, १.
जयिन्- पा ३, २, १५७, -यो विघ
८, ३८
जय्य- पा ६, १, ८१
जायु- पाठ १, १
^०जायुक^०- -कम् आपश्रौ १६, ९,
८, भाश्रौ ६, ३, २७, वैश्रौ १८,
७ ११
^०जि [गि^०,] गीवस्- -वास बौश्रौ
११, ९ : ५, तैप्रा १६, १३;
-वासम् आपश्रौ ३, ४, ७, बौश्रौ
१, १९ ६, भाश्रौ ३, ४, ८;
वाश्रौ १, ३, ५, १६, वैताश्रौ ४,
२, -वान् अप्रा ३, ४, १, वैशि
२९०, -ग्युष. बौश्रौ १३, २ :
१४^०, -ग्युषाम् कौस् ४६, ५४;
-ग्युषे आपश्रौ १७, ८, ७, वैश्रौ
१९, ५. ५३
जिगीषत्- -षतः शाश्रौ १४, ४२,
१६, -षन् शाश्रौ १४, ४३, १^०;
४४, १^०, ४५-४८, १^०, माश्रौ ५,
१, ९, १७.
जिगीषमाण- -णौ बौश्रौ १८, ५० :
३०.
जिगीषु^०- (> जैगीषव्य-> ^०व्या-
य(ण>)णी- पा) पाग ४,
१, १८, १०५
जित, ता- -^०तम् अप ३२, १,
१५, अअ १०, ६, १६, ८, ९,

- a) व्याप्र^० इति पाठ^१ यनि शोघ. (तु बौष्ट. प्रभृ)। b) जयान्, अम्यातानान् इति ० ।
c) बप्रा । व्यु ?। d) = ऋषि-विशेष- । e) = मरुद्-विशेष- । f) = तिथि-विशेष- ।
g) = मातृदेवता-विशेष- । h) = [लक्ष्म्यादिसाहचर्यात्] देवी-विशेष- । i) मलो कस. । j) पाठ.
विहाय व्यप । k) सपा जयन्त <> जयन्त इति पाभे. । l) = ओषधि-विशेष- । m) वैप १ इ. ।
n) बौश्रौ तैप्रा. पाठ । o) व्यप. ।

पा ४, ४, २, -ता सु ७, १, -ते
शाश्रौ २, ९, ७, -तौ बृदे ५,
१२४
जित-काम-राग-द्वेष-लोभ-
मत्सर- -र शंघ २४४
जित-वर- -स्म् बौश्रौ १८,
४९ २
जित-स्थाना(न-आ)सन- -नम्
अप ३, १, १३
जित-स्थाना(न-आ)सन-हिमा-
(म-आ)तप- -य शंघ २४४
जिता(त-अक्ष >)क्षी^१-क्षी
ह्रिय १, १५, ७
जिते(त-इ)न्द्रिय, या- -य. कौश्र
३, १२, ३१, अप ४, ६, ६, ६९,
७, ५, बौव, -यस्म अप ३, ३,
८, ४, ६, ३, ६९, ७, २, -यस्य
वाघ १०, १७, -या वाघ ६,
२५, -यासु विघ ९९, २२
जिति- -तिम् वाधूश्रौ ४, ३. ५,
६, १३, १४, -†स्यै शाश्रौ २,
६, ७, काश्रौ १९, ५, ४, आपश्रौ
जिति-नामन्^२- मसु निसू ६,
६ : १४
जिति-प्रवाद^३- -दानि निसू ६,
४ १०
जित्य^४- पा ३, १, ११७.
जित्वन्- पाउ ४, ११४
जित्वर- पा ३, २, १६३
जित्वा आपश्रौ १८, १७, ८, २०,
५, १६, बौश्रौ
जिष्णु- पा ३, २, १३९; -ष्णवे
कौसू ४९, ४१, -†ष्णुः वैताश्रौ
३७, १^५, कौसू ९८, २^६, या
१२, ३; -†ष्णुम् शाश्रौ ८,

१८, १, आपश्रौ ९, ८, ८, बौश्रौ
१३, ४३ : १३, बौश्रौ १, ६, १८,
-०ष्णो विघ ९८, ९४, -ष्णोः
अप ४६, ३, ४१
जितव्य- -व्यानि या ९, १२
जतुम् अप २, १, २
१जित्- पाग ५, ४, ३८^७, -ता शाश्रौ
८, २४, ११, गौघ १०, १९, बृदे
२, ३८, या १०, १०, १४, २८,
१जैत्र- पा ५, ४, ३८
२जैर्त्- -ता ऋअ २, १, ११, शुअ
२, ११६, साअ १, ३४३,
३५९
†जैत्व^८- -त्वानि गोश्र ३, ४, ३१,
या ९, १२
१†जैमन्^९- -मानम् बौश्रौ ३, १८
१९, भाश्रौ ४, १४, ८, माश्रौ १,
४, २, ६, वाश्रौ १, १, ३, ५
२जैमन्^९- -मना, -मने या १३,
५१.
जैव्यत्- -व्यन् वाधूश्रौ ३, ६९
१५, १६, -व्यन्तः आपश्रौ १८,
४, १४१, बौश्रौ ११, ७. २३,
कौसू १५, १६; -†व्यन्तम्
आपश्रौ २, १३, १, बौश्रौ १,
१५ १२, भाश्रौ २, १२, १०,
वाश्रौ १, ३, ४, ५, हिश्रौ २, १,
११, वैताश्रौ २, १३
†जैव्यन्ती- -न्ती आपश्रौ ८,
८, २, वैश्रौ १६, २५ २.
२जैत्र^९- -त्राय शाश्रौ १२, १६, ११,
या ४, ८, वाश्र ५, १३१
जैत्री- -त्रीम् आश्रौ ४, १३,
२
†जैत्रिय^{१०}- -याय आपश्रौ ६,

२०, २, हिश्रौ ६, ६, २४, म
२, २१ : १४
†जैत्र्य^१- -न्याय बौश्रौ १,
४१ १४, आपमं २, ८,
आमिगृ १, ३, ४ : ८, ह्रिय
१०, ६
?जिका- -का अप ३५, १, ५
जिगलु- , जिगलु- , जिगमिषु- ,
जिगासत्- √गच्छ् द्र
जि [गि,] गीवस्- , षत्- षमाण
√जि द्र
जिघांसत्- प्रभृ √हन द्र
जिघृक्षत्- √गृभ् द्र
जिघ्र- √घ्रा द्र
जिजनिषमाण- √जन् द्र
जिजीविषु- √जीव् द्र
जिज्ञास- प्रभृ √ज्ञा द्र
?जिज्ञास्थि- पाग २, २, ३१
जिज्यासत्- √ज्या द्र
जित- , प्रभृ √जि द्र
जित्वा, त्वन्^१-(> जैत्वायनि- पा
पाग ४, २, ८०
१जिन- पाउ ३, २
२जिन^{११}- > °न-वचना(न-अ)
धीन- पाग २, १, ४०^{१२}
जिनत्- , जिनाति- √ज्या द्र
√†जिन्व^१ पाधा भ्वा पर प्रीणं
जिन्वति हिश्रौ ११, ३, २४
अप ४८, ३१^{१३}, निघ २. १४^{१४},
३, अप्रा १, १, १५, जिन्वति
या ६, २२^{१५}, ७, २३^{१६}, जिन्वा
शाश्रौ १७, १३, १०, जिन्वा
ऋपा ४, ५३, जिन्वथ जै
१२ ५, आपमं २, ७, १
जिन्वत् आश्रौ ६, २, ११, जिन्

a) विप. । बस. । b) = जित्- । तु. भभि-जित्- प्रभृ । c) = हलि- । d) पासे. वैप १ परि
बुष्ट टि. द्र । e) तु पागम । f) व्यप. । g) वैप १ द्र । h) पृ ६७६ c द्र । i) भावे ष्यन् प्र. ।
j) तु. भाष्ठा. । k) = जिन-सुनि- । l) या ६, २२ परामृष्ट द्र. । m) पाने वृत्ति. । n) गतौ वृत्ति ।

ताम् हिश्रौ ६, ३, २, जिन्वतु
बौश्रौ २, ४ २५, जिन्वताम्
आपश्रौ ५, १५, २^५ बौश्रौ, वाश्रौ
१, ४ ४, ४१^४, जिन्व, >न्वा
आश्रौ १, ७, ८, शाश्रौ, आपश्रौ
३, २, ११^{२०}, ६, १२, ४^०,
माश्रौ ३, २, ४^{२०}, हिश्रौ ६,
३, २^{२०}, लाश्रौ ५, ११, ३१^०,
वैताश्रौ ३३, २७^०, जिन्वेथाम्
हिश्रौ ८, ७, १५, जिन्वतम्
आपश्रौ १, १३, १^१, १२, २२,
६८, ८८, बौश्रौ ७, १३
१६३-१८^३, माश्रौ, हिश्रौ १,
३, ३६^१, ८, ७, ११^८, जिन्वत
आपश्रौ १६, १, ३, अजिन्वत्
शाश्रौ ८, २५, १
जिन्विष्यामि बौश्रौ १८, ४५
१५

जिन्वमान- -नस्य वाश्रौ १, ३, १, २४
†जिन्वर्- -न्व. बौश्रौ १३, ३८ :
६, आमिण् २, ५, ११ : १२

√जिन्व् √जुञ्च टि द्र

√जिम् √जम् टि द्र

√जिरि पाधा स्वा पर हिंसायाम्

जिबि- √जू (वयोहानौ) द्र

√जिष् पाधा म्वा पर सेचने

जिष्णु- √जि द्र

जिह्रिषु- √ह द्र

जिहीति- -तय. बौश्रौ ३ ७

जिहीरिषु- प्रथ √ह द्र.

जिह्वा, ह्या^६- पाठ १, १४१, पाग ३,
१, १३^१, -ह्वा आपश्रौ १२,

११, ९, १३, १८, ५, १६, १, ५,
हिश्रौ २, ६, २४, ९, ४, ६१,
-ह्वा माश्रौ १, ६, २१, आपश्रौ
२, १८, २, २४, १२, ६१, माश्रौ
३, ६, ४, हिश्रौ २, १, ३१, या
८, १५^८, -†ह्वा नाम् आपश्रौ
१६, ७, ४, वैश्रौ १८, ५ २,
हिश्रौ ११, २, २, या ८, १५
जैह्वय- -ह्वयम् बौध २, २, ७८,
विध ३८, ३

जिह्व-(ग>)गा^१- -गा अप ५८^१,
३, ७

†जिह्व-सा^१- -सौ अप १, ४१, ४,
अशा ११, ४

√जिह्वाय, पा ३, १, १३, जिह्वा-
येते वैताश्रौ १०, १७

जिह्वाय(त्>)न्ती- -न्त्य. या
१, ११^१

जिह्वा(ह्वा-अ)शिन्^६- पाग ४, १,
१२३^१

जैह्वाशिनेय- पा ४, १, १२३,
६, ४, १७४

जिह्व^६- -ह्वय माश्रौ २, ३, २, ३३^३†

जिह्वरतम् √ह द्र

जिह्वा^६- पाठ १, १५४, -†ह्वया
आश्रौ ६, १२, ३, शाश्रौ, -ह्वा
आश्रौ २, ८, ३१, †शाश्रौ, या
५, २६^२८, १४, ७, -†ह्वा
आपश्रौ ५, १८, १××, बौश्रौ,
-ह्वाम् काश्रौ ६, ७, ६, बौश्रौ,
-ह्वाया. आपश्रौ ७, २४, २,
बौश्रौ, -ह्वायाम् अप ९, १, ४

जैह्व^१- -ह्वः सु १७, १

जिह्वा(ह्वा-अ)अ- -अम् तैप्रा २,
१८, शौच १, २२, २४, -अ
बौश्रौ ३, २५ ५, वैश्रौ; -अण
तैप्रा २, ३७, ३८, आशि २, ८
जिह्वाअ-करण^०- -णा शुप्रा १,
७६.

जिह्वाअ-मध्य- -ध्येन तैप्रा २,
४१

जिह्वाप्रा(अ-अ)धस()आशि
२, ७

जिह्वाप्रीय- >प्य-फलित-
-तम् शैशि ३३२

जिह्वा-च्छेद- -द गौध १२, ४;
-दम् आपध २, २७, १४^०.

जिह्वा-च्छेदन- -चम् हिध २, ५,
२३३^०

जिह्वा(ह्वा-आ)दी (दि-इ)न्द्रिय-
-याणि वैगु २, १८ : ४.

जिह्वा(ह्वा-अ)न्त- -न्ताभ्याम् ऋप्रा
१४, २७

जिह्वा-प्रथन- -नम् ऋप्रा १४, २१

जिह्वा(ह्वा-अ)भिमर्शन- -नात् शंघ
६२, गौध १, ४४

जिह्वा-मध्य- -ध्यम् तैप्रा २, २२;
-ध्येन तैप्रा २, ३६, आशि २, ५.

जिह्वा-मध्या(ध्य-अ)न्त-
-न्ताभ्याम् तैप्रा २, १७, ४०

जिह्वा-मूल- -लम् अप ४७, १, २०,
ऋप्रा; -ले शुप्रा १, ६५, ऋत
२, १, ४, पाशि १७, याशि २,
४९, ९३, -लेन तैप्रा २, ३५;

- a) पाभे वैप २, ३ख जिन्वतम् तैप्रा ३, ७, ४, १६ टि द्र । b) पाभे वैप २, ३खं. जिन्व तैप्रा ३, ७,
५, ७ टि. द्र । c) सकृत् सप्र माश्रौ १, ६, १, ४८ प्रीगामि इति पाभे. । d) जिस्वा इति पाठ. ? यनि शोघः ।
e) पाभे. वैप १, १३७४ ४ द्र. । f) पाभे वैप २, ३खं जिन्वत तैप्रा ३, ७, ४, १६ टि द्र । g) वैप १ द्र. ।
h) तु पागम । i) उप. <√गम् । j) विप । उस. उप <√सन् (वैतु. संस्कर्ता । अशा. I) जिह्व-ग-
[=मन्दगति-] इति । k) व्यप. । l) शिन- इति पाका ? यनि. शोघ (तु स एव पा ६, ४, १७४) । m) पाभे.
वैप १, १३७४ ० द्र । n) =अभि- । o) विप. । उस. । p) परस्परं पाभे. ।

आशि २,४
जिह्वामूल-निग्रह- हे ऋप्रा १४,
८
जिह्वामूल-प्रयोज(न>)ना^२-
-ना नाशि १,८,९
जिह्वामूलीय- पा ४, ३, ६२,
-यः अप ४७, १, १०, २०,
शुप्रा ८,१९, शैशि २९, याशि
२,१, आशि १,९, -या ऋप्रा
१,४१, शुप्रा ८, ३८, याशि २,
१,९४, -यानाम् शौच १,२०
जिह्वामूलीय-नासिक- के
पाशि २१.
जिह्वामूलीया(य-अ)नुस्वार-
-रा शुप्रा १,८३
जिह्वामूलीयो(यउ)पध्मा-
नीय- -याम्याम् शुप्रा ४,
-१०५, -यौ शुप्रा ३,१२
जिह्वो(हा-उ)पाप्र- अण आशि २,
६.
जिह्वय- ह्वय आशि १,९, -ह्वयाः
आशि १,१०, -ह्वयानाम् आशि
२,४
√जिह्वय-तालव्य-मूर्धन्य-दन्त्य-
-न्त्यानाम् आशि २,२
जिह्वाकात्य^b- > °त्य-हरितकात्य-
वर्जम् पावा १,१,७४
जिह्वाग्र- प्रसृ जिह्वा- द्र
√जी,जीयते^c आपश्रौ ९,८,२, वाधुश्रौ
३, ७९ १९, अप ३१, १, २,
३६, २४, १, जीयन्ते हिश्रौ १८,
४, ३९^d, लाश्रौ १०, १७, ७,

जीयेत आपश्रौ ९, २०, ६, २२,
४, २६, जीयेरन् आपश्रौ २३,
१३, ४, बौश्रौ १६, २९: १५,
हिश्रौ १७,८,११
जीन-, जीनवत्- √ज्या द्र
जीमूत^e- पाठ ३, ९१, पाग ६, ३,
१०८, -०त् विध १, ५५,
-०त्स्य आपश्रौ २०, १६, ४,
बौश्रौ १५, २४. ७, वाश्रौ ३,
४, ३, २८, हिश्रौ १४, ३, २७,
ऋअ २, ६, ७५, वृदे ५, १२८,
शुअ ३, ११४, -ता आपश्रौ
१७, ५, ३, वैश्रौ १९, ५. १९,
हिश्रौ १२, २, १७, चाअ ४० :
५, अप्रा ३, ४, ११, -०त्सु
आपश्रौ १७, ५, ३, वैश्रौ १९,
५ : १८, १९, हिश्रौ १२, २,
१७^f
?जीमूतस्य^g चाअ ४२ : ८
?जीयान् वागृ ५,९^h
?जीयाम् वागृ १२,३ⁱ
जीर् √जू द्र
जीर^j- पाठ २, २३, पावा १, १, ४,
-र आश्रौ ८,९, २१, -०त्सु
अप ४८, १०६, निघ २, १५
जीर-दालु^k- पाठवृ २, २३, -०त्सु
आश्रौ ३, १४, १०, आपश्रौ २,
३, १०^l, ८, १, ४, ९, १३, ९,
बौश्रौ १, ११ : ३५^m, ३, १५ :
१४, भाश्रौ ९, १६, २, वैश्रौ २०,
२८ : ३, बौगृ ४, १, ५, पावा ६,
१, ६५, -०त्सु आश्रौ १, ९, १ⁿ,

शाश्रौ १, १४, ४^o
जीर्ण- प्रसृ √जू (वयोहानौ) द्र
जीर्वर^p- -र बौगृ ३, १०, ६^q
जीर्वि- पाठ ४, ५४
जील^r- -ल गौध २२, २८
√जीव्^m पाधा भ्वा पर प्राणधारयो,
जीवति वाधुश्रौ ३, ४५ ४,
लाश्रौ, पा ४, १, १६३, १६५,
४, १२, ५, २, २१, पावा ४, १,
१६३, जीवतः आपश्रौ १७, २६,
१५, हिश्रौ, जीवन्ति गौपि १,
४, १, अप, जीवथ वृदे ६, १३७,
जीवामि पागृ २, ६, २०^१;
आमिगृ २, ६, १ २६, जीवामहे
वृदे ६, १३८, ०जीवाति कागृ ३१,
२, मागृ १, ११, १२^०, या ४, २५^०,
जीवात् आपश्रौ १४, २९, ११,
अप्राय ६, ३१, या १४, २५,
जीवतु कौगृ १, ८, २३^१,
शागृ १, १४, २१^१, बौपि, या ४,
२५, ०जीवातु आपमं १, ५, २,
बौगृ १, ४, २६, वागृ १६, १०,
०जीवन्तु आपश्रौ ९, १२, ४, १४,
२२, ३, भाश्रौ, ०जीव आपमं
२, २, ७×४, आगृ, वागृ १२,
३^१, जीवतात् आमिगृ ३,
१०, २ ४^१, ०जीवाहि जैगृ
१, ८ ३, १२ : ६, ८, ११,
०जीवानि आपश्रौ १, ५, ५,
भाश्रौ १, ५, १, हिश्रौ २, ७,
५, जीवेत् शाश्रौ १४, २२, २१,
काश्रौ २२, ६, ५, १९, २५,

a) विप । बस । b) व्यप । व्यु ? । c) वैप १, १३७५ ४ द्र । d) °यन्ति इति पाठ ? यनि
शोघः (तु लाश्रौ) । e) वैप १ द्र । f) पाठ ? जीमूत- > -त्स्य इति शोघ (तु ऋ ६, ७५, १) ।
g) सपा. शौ १९, २४, ६ पै १५, ६, ३ आपमं २, २, ८ जीवन् इति पामे । h) पामे वैप १, १३७६ d द्र ।
i) पामे. वैप १, १३७६ e द्र । j) = सर्प-विशेष- । व्यु ? । k) पामे पृ ११०७ ० द्र. । l) = दृति- ।
व्यु ? । m) पा ७, ४, ३ परामृष्टः द्र । n) सप्र जीवामि <> जीव <> जीवेम इति पामे । o) पामे-
वैप १, १३७६ l द्र. । p) पामे. वैप १, १६३९ p द्र. ।

७, २, काठश्री, जीवेयुः बौश्री
 १८, १३: १४, द्राश्री १, ३,
 २१, लाश्री १, ३, १९, ?जीवेत^a
 अप्राय ६, ६^b, जीवेव आगृ १,
 ७, ६^c, †जीवेम आपश्री ५, १,
 ७^d, २, ४, बौश्री, मागृ १, ९,
 २७^e
 जीव्यासम्^o कौसू २४, १३,
 जीवीत् अत्र १६, ७^f, अजी-
 विष्यत् बाधूश्री ३, ७७ ४
 †जीवयत आश्री ६, ९, १^g,
 आपश्री १४, २०, ८^h, माश्री
 जिजीविषत् काश्री २२, ६, २०,
 लाश्री ८, ८, ४१
 जिजीविषु- -बु अप १, ९, २,
 विध ६९, १७, ७१, ७६
 जीव, वा^d- पाग ५, २, १७^o, -†वः
 आपश्री १, १२, १४ⁱ, १४, २९,
 १, -वम् माश्री १, ८, ३, ३^h,
 वाश्री, आगृ १, ८, ४ⁱ, कौगृ १, ९,
 २ⁱ, शागृ १, १५, २ⁱ, कौसू ७९,
 ३०ⁱ, -†वा आश्री २, ७, ७,
 ६, ९, १, आपश्री, माश्री १, १,
 ३, १८^h, ६, ४, २१ⁱ, -†वान्
 आपश्री १४, २९, १, अप्राय ६,
 ३, या ६, २७^h, भाशि ११७,

१२०, -वानाम् अत्र १२, २^f,
 -वाभि^k वैताश्री १, १९, कौसू
 ३, ४, ५८, ७, ९०, २२, -†वाम्ⁱ
 आपम १, १, ६, बौगृ १, ६,
 २६, ४, १, ११, -†वाय^l आश्री
 २, ७, ७, शाश्री ४, ५, १,
 बौश्री ३, ११ १२, वैगृ ५,
 ३. २१, गोगृ ४, ३, १८, गौपि
 २, ४, १६, जैगृ २, २ १८,
 द्रागृ ३, ५, २४, -वे आश्री ३,
 १३, ११^f, -†वेभ्यः §आश्री २,
 ६, २०, २२, शाश्री ४, १६, ५,
 काश्री २१, ४, २४, आपश्री
 ९, १२, ४, १३, २२, ५, १४, २२,
 ३, बौश्री ४, ११: १५, २७,
 २:२, भाश्री ३, १०, २, वैश्री
 २०, ७ १, २५ ६, आपमं
 २, २२, २४, आगृ ४, ६, ९,
 कौगृ ५, ८, ५, आम्रिगृ ३, ७, २.
 १, बौपि १, १७ २२, द्विपि
 ११ १०, कौसू ७२, १७,
 वृदे ७, ११, शुभ्र ४, ५२,
 अत्र ८, १, -वेषु आपश्री १,
 १०, १२, बौश्री ३, ११: ३,
 भाश्री १, ८, ७, माश्री ५, २, ११,
 ३, द्विश्री २, ७, ६२, शागृ ५, ९,

४, भागृ १, २७. ५, गौपि २,
 ६, २१, जैगृ २, २. २६, कौसू
 ७०, १, ८९, १, अप ५८^z, २,
 २§
 जीव-कोष(रा>)णी^m- ण्याम्
 कौसू २६, ४३
 †जीव-गृभ^d- -गृभः या ३, १५,
 शुप्रा २, ९
 जीव-ग्राहम् माश्री ५, १, १, ५१,
 पा ३, ४, ३६.
 जीव-वात्ⁿ- -त्यम् कौसू ७,
 २४
 ?जीवघात्याया^o कौसू १८, ५
 जीव-चर्म-करण्ड- -ण्डै. शंघ
 २३४
 जीव-छत्र-पताका- > °ताकि-
 (न >)नी- नीम् अप ६८,
 २, २
 जीव-ज- -जम् विध ७९, ९
 जीव-जात- -तम् विध ६६, १०.
 जीव-जीवक^p- -क विध ४४,
 ३७^d
 जीव-तण्डुल^d- -लम् आपश्री १,
 ७, १२^f, ५, ५, ७, भाश्री १, ७, ७,
 ५, ३, ९, ९, १८, ६, माश्री १,
 १, २, ५, ५, १, १९, ६, १०, ६,

a) पाठः ? जीवयत इति शोध । b) पाभे पृ १११६ n द्र । c) पाभे पृ ५३३ f द्र. ।
 d) वैप १ द्र । e) तु पाका । बीज- इति भाण्डा प्रम् । f) तु C, BC । g) पाभे वैप १, १३७७ p
 द्र. । h) पाभे वैप १, १३७७ k द्र । i) पाभे वैप १, १३७७ l द्र । j) पाभे वैप १ परि अजीता तै ५,
 ७, २, ४ टि. द्र । k) = ऋग्-विशेष- [शौ १९, ६९, १-४ (तु B LJAOS ११, ३८०), वैतु Garbe = उदक- इति] ।
 l) पाभे वैप १, १३७७ j द्र । m) नाप [जीवत (सत [चर्मैकदेशे कृता-]) कोषवती- (Lवस्तुधारणार्थविहितरिक्त-
 स्थानवती-] = स्थाली-स्थानीया-)] । षम. उप = [√कुष् (निष्कर्षे [खनने, रेचने] > कर्मणि) कोष- (= खात-
 रिक्तस्थान-) > *कोष-वन्ती- (= कोषवती-) > नैप्र. यनि (तु [शोधितः सन्] दारिल = चर्माङ्क^l स्थ^l स्थालिका-
 इति, वैतु B. तात्पर्याऽग्रहण ?)] । n) नाप [सजीव (समर्थ-पशु-)] *वर्मन्-] । षम. उप < √हन [°आच्छादने
 (हन्यते आच्छाद्यतेऽनेन [तु. दारिल-केशवौ पूष, वैतु B. पूष = जीवत्- इति, सर्वे च ते उप < √हन
 'हिंसायाम्' इति ?)] । o) पाठ. ? जीव-वात्थ-वासस-> -सा (= अहताऽन्यवसन सशर्ममात्रवसन) इति
 शोधः । °त्यवासा. > नैप्र. °स्यायाः इति दिक् (वैतु. अन्येऽसगतवदा[?]) । p) = पक्षि-विशेष- । q) जीव-
 जीवकः, जीवजीविकः इति पाठान्तरौ । r) नाप ।

२, ५, २७, वाश्रौ १, २, ३, ६, ४,
१, ७, हिश्रौ २, ७, १३, कौष्ट ५,
१, १०, माष्ट २, २, ३, वैष्ट ४,
५ १३, गौपि १, ५, १७
‡जीव-दानु^१- -नव काष्ट ४०,
१०, वाष्ट ४, ८
‡जीव-धन्य, न्या^२- -न्य आश्रौ
२, १४, १२, आपश्रौ २०, २०,
९, हिश्रौ १४, ४, ३८^३, -न्या
आश्रौ ५, १, १९
जीव-नाशम् पा ३, ४, ४३
जीव-पति^४- -त्य आष्ट १,
१४, ८
‡जीव-प(नी>)त्ति^५- -त्ति
काष्ट २५, ३१, ३६, ३८
‡जीव-प(ति>)त्ती- -त्ती
आपमं १, ४, ९, आष्ट १, ७, २२,
आमिष्ट १, ५, २ • ५५, बौष्ट १,
४, २२, भाष्ट १, १४ : ७, वाष्ट
१४, १९^६, हिष्ट १, १९, ७,
गोष्ट २, ७, १२, जैष्ट १, २०
२३, -त्त्याः आष्ट १, ७, २१
जीव-पितामह^७- -हः बौश्रौ २४,
३२ ३
जीव-पितृ^८- -ता आपश्रौ १, ९,
८, बौश्रौ २४, ३२ २, भाश्रौ
१, ८, १०, हिश्रौ २, ७, ३२, -तुः
शाश्रौ ४, ४, ७^९, बौश्रौ २४, ३२
१^०, भाश्रौ ५, २, ९, हिश्रौ २, ७,
३५^{१०}, ३, १, १६, आमिष्ट ३, ९,
३ : ६, बौपि २, ७, ५
जीवपितृ-क- -क काश्रौ
४, १, २३, वाष्ट ११, ३, -कम्
वाष्ट १५, १९, -कस्य काश्रौ ४,

१, २४
जीव-पुत्र, त्रा^{११}- -त्र. काष्ट २०,
२, पाष्ट २, ४, ३, -त्रा काष्ट २८,
४^{११}, -त्राया. आपष्ट ६, ११
जीव-प्र(ज>)जा^{१२}- -जा आष्ट
१, १४, ८, -जाया आष्ट १, ७,
२१
जीव-भर्तृ(क>)का^{१३}- -कायाम्
वैध ३, ११, ४
‡जीव-भोजन^{१४}- -न शाश्रौ १६,
३, ३६, -नम् वैताश्रौ ३६,
३०
जीव-मातृ^{१५}->^{१६}लृक- -कम् वाष्ट
१५ १९.
जीव-मृत- -तानाम् आश्रौ २,
६, १९, -तेभ्यः आश्रौ ६, १२,
१०
‡जीव-ल, ला^{१७}- पा ५, २, ९७,
-ला अष्ट १९, ३९^{१७}, -‡ला.
आपश्रौ ७, ९, ९, भाश्रौ ७, ७,
११, अप्राय ६, ६, अष्ट १९, ६९,
-लाम् अष्ट ८, २
‡जीवर्ल^{१८}- -लं शुअ १, १७६
‡जीव-लोक- -कम् आष्ट ४, २,
१८, आमिष्ट ३, ५, ६ १५, ७,
४ : १०, बौपि १, ५ ३, २, ४,
१, अष्ट १८, ३, -के आमिष्ट
३, ८, २ • १९, बौपि १, १५
२९, अप १, ५०, १०^{१८}
जीव-वत्- -वन्तौ आपश्रौ ८,
१४, २३, २४, बौश्रौ २८, ३ :
९, वैश्रौ ९, ७ • ४
जीव-व(त्स>)त्सा^{१९}- -त्सायाः
काष्ट ५९, ५, पाष्ट ३, ९, ६

जीव-विषाण- -णे पाष्ट ३, ७, २;
आपष्ट २३, ६, भाष्ट २, २७ १२.
जीव-शृङ्ग- -ङ्गम् हिष्ट १, १४,
३, -ङ्गे हिष्ट १, १४, २
जीव-संयोग- -गात् मीसू १०,
२, ५५.
जीव-सचर- -र कौसू ८३, २६
‡जीव-सू^{२०}- -सू : आपमं १, १,
४^{२०}, बौष्ट १, १, २५, भाष्ट १,
१५ १२, हिष्ट १, २०, २, गोष्ट
२, ७, १२^{२१}, जैष्ट १, ५४, २१ ९.
जीव-सूवरी^{२१}- -री माष्ट २, १८,
२^१
जीवा(व-आ)दान^{२२}- -नम् विध
६५, २
जीवा(व-अ)न्त- -न्त आश्रौ २,
६, १८
जीवा(व-अ)न्तर्हित- -त्ताय
शाश्रौ ४, ४, ८, -ते काश्रौ ४,
१, २३, -तेभ्यः आश्रौ २, ६,
२१.
जीवा(व-आ)वृत्ति- -त्तिः वृदे
७, ८५
जीवो(व-रु)र्णा- -र्णया माष्ट १,
१२, ४, वाष्ट १६, ११, -र्णानाम्
काश्रौ ९, २, १६, आपश्रौ १०,
९, ६, भाश्रौ १०, ६, ७
‡जीव^{२३}- -वम् ऋषा १७, ५, निसू
१, ५ १९
‡जीव- पाग ४, १, १२३^{२३}, २, ८०;
-वम् शंघ ११६ : ४८^{२४}
जैव- -वे विध ७८, ५
जैवि- पा ४, २, ८०
जैवेय- पा ४, १, १२३

a) वैप १ द्र । b) ँव इति पाठ ? यनि शोघ (तु आपश्रौ) । c) विप , बस । d) ँत्तीः इति पाठः ? यनि. शोघः । e) सप्र ँवपि<> ँवत्पि इति पाभे. । f) = वैप २, ३खं द्र. । g) विप । उस. । h) पाभे वैप १ वीरसू ऋ १०, ८५, ४४ टि द्र । i) ँकरी- इति बसं ? । j) = प्रायप्रतिष्ठापन- । k) = [छन्दो-विशेष-] द्रापर- । व्यु ? । l) व्यप । व्यु ? । m) = नक्षत्र- ।

जीवत्-वत् आमिष्ट ३, ८,
१: २६^१, बौपि १, १५०५,
-वत् शाश्रौ ४, १४, १, १५,
१७, १, जैश्रौका, या ६, २७,
-वत्ता आमिष्ट ३, १०, २५, बौपि
३, ९, ३, -वत्ताम् आपमं १, ४,
८, पागृ, -वति वैश्रौ १०, ११
२, शघ, पा ४, १, १६३, १६५,
मीसू १०, २, ५८, -वते भागृ
२, ५: १३, -वतो आपम १, ८,
५१, -वन् माश्रौ २, ५, ५, १८१,
आपमं २, २, ८१^०, आमिष्ट १, १,
२ ३४^१, कागृ ४२, ७१^०, बौगृ
२, ५, १२१^०, बौपि ३, ७, ४, भागृ
१, ६ ३१^०, हिगृ १, ४, ३१^०,
कौसू ८२, २११^०, अप्राय, -वन्तः
आश्रौ २, ७, ७^०, आपश्रौ, आमिष्ट
३, ८, २ ४४^०, कागृउ ४० १,
बौपि १, १५: ५१^०, कौसू ८९,
१२, अप १८^१, १, ४, -वन्तम्
काश्रौ ४, १, २७, आपश्रौ
जीवती- वन्ती^० आमिष्ट १,
५, १: २६, भागृ १, १३: ११,
-व्याम् कागृउ ३९ १
१जीवन्ती- वन्ती आपश्रौ
१, १२, १४, भाश्रौ, -वन्तीम् मागृ
१, १४, ९, भाशि ७९, -वन्त्याः
शाश्रौ ४, १४, १४, आपमं,
-व्याम् कप्र ३, १, ७
जीवत्-पितामह^०- ह वाश्रौ
१, २, ३, २२, -हस्य माश्रौ १,
१, २, २१

जीवत्-पितृ^०- तु. ^१ माश्रौ १, १,
२, २१, वाश्रौ १, २, ३, २०
जीवत्पितृ-क- क मागृ १,
९, ४
जीवद्-आत्मन्^०- र्मानम् सु
१८, ५
जीवद्-व्यंश्य^०- श्यम् पावा ४,
१, १६२, -श्यात् पावा ४, १,
१६३
जीवद् व(त्स>)त्सा^०- त्सायाः
विघ ८६, ४
जीवथ- पाउ ३, ११३
जीवन^०- न् या १, १४^०, -नम्
आपमं १, ९, ९१, वभागृ २,
३१ ६×४, हिगृ, -नाय शाश्रौ
१६, १३, ४१, आगृ, या १,
१०१, १०, ४०, १२, ३६, ३९
जीवन-कर्मन्^०- र्मणः या ११,
४७
जीवन-क्षय- यात् शंघ २७९
जीवन-वत्- वन्तौ शाश्रौ ३,
१६, २४.
✓जीवनस्य^१> वजीवनस्या-
-स्यायै बौश्रौ १३, ३२: ११,
१२, १५
जीवना(न-अ)र्थ- र्थम् वृदे ७,
११०
जीवना(न-आ)शा- शा वाघ
३०, ९
१जीवन्त^१]- पाउ ३, १२७
२जीवन्ती^१- वन्तीम् कागृ
२५, ४५, मागृ १, १४, ९, वागृ

१५, २१, शौच ३, ६१^१
जैवन्तायन- पा ४, १, १०३.
जैवन्ति- पा ४, १, ९५
२जीवन्त^३]- ३जीवन्ती^३-(>जैव-
न्तायनि- पा) पाग ४, २, ८०;
वजीवयत्- -यन् अप १, ३९, ३,
अशा ९, ३
वजीवसे आश्रौ २, ५, १०, ३, ८,
१, १२, १४, शाश्रौ, आपमं २, १,
२०, मागृ १, २१, ३०, या १२-
३९, भाशि ४३.
वजीवातु^१- पाउ १, ७८६, -तवे
बौश्रौ १३, ३२ ११×४;
माश्रौ, या १०, ४००, -तुः
वृदे ७, २९, -तुम् आश्रौ ६,
१४, १६, शाश्रौ, या ११, ११०,
-वै आपश्रौ ४, ११, २^१, ५,
११, ५, बौश्रौ
जीवातु-मत- मन्तौ आश्रौ २,
१०, २, १९, १६, हिश्रौ ५,
४, ४७
जी(वक>)विका- वका आश्रौ
६, ९, १, आपश्रौ, -काम् या
११, ११.
जीविका✓कृ पा ४, १, ७९.
जीविका(का-अ)र्थ- र्थं पा ५,
३, ९९, ६, २, ७३
जीवित- -तम् सु १२, २; कप्र:
-तस्य बौध १, २, ५, -ते आपध
१, २३, ३, हिध १, ६, ११.
जीवित-परिमाण- णे पावा ५,
१, ५८^२

a) जीवम् इति पाठ. ^१ यनि शोधः (तु बौपि.) । b) सपा वन् (शौ १९, २४, ६) <> वती इति पाठे । c) पाठ. ^२ जीवन्तः इति शोध. (तु वैप १ परि. ^३ ज्योग्जीवन्त [काठ ९, ६] । d) पाठे. वैप १ परि जीवम् शौ १८, ४, ५१ टि द्र । e) विप । बस । f) पाठे वृ १११८० द्र । g) भाप, नाप. । h) = इत्तु-रस- इति दु । i) वैप १ द्र. । j) नाप, व्यप । k) = तारा-विशेष, ओषधि-विशेष- [शौच] ^१ । l) पाठे. वैप १, १३७९ k द्र. । m) अर्थ. व्यु. च ? । n) तु पाका. । o) पाठे वैप १ वृत्तसा शौ ६, ६८, २ टि द्र. ।

जीवित-वत्- -वन्तौ माश्रौ ५,
१,४,१६, ५, ४७, -वान् माश्रौ
५,१,५, ४५, ४९××
जीवित-विज्ञान- -नम् कौस्
१५,१२
जीविता (त-अ) वभृथ- -थात्
गोयु १,३,१४
जैवात्क- पाउ १,७९^३
जीवति^१ - तयः बौश्रौ प्र ४१ ७
१ जीवितु अप ३७,१४,३.
जीव्य (वी-अ) लाका^० - काभ्याम् कौस्
३१,२८
जीह्वरतम् √हृ द्र
√जु, जू^१, जवते या ३, १८, जवति
निघ २,१४^१
जुनाः बौश्रौ ७,४ ३^१
रजव^१ - पावा ३, ३, ५६, -व.
काश्रौ १४,३, ८^१, वैताश्रौ ३,
१४, सु १०, ४, -वम् बौश्रौ
११,६ २२^१, -वात् सु २५,२,
-वानि अप १, ११, १^१, -वे
पायु २,१७, १६, पा ६,४,२८,
-वेन शाश्रौ १६, १, १५, बौश्रौ
३,११ २२^१, हिश्रौ, -वेषु या
१३,१३^१
जवा(व-अ)र्थ- -थान् अप १,
१०,२
जवी √भू > जवी-भाव-
-वानाम् या १४,७
जवीयस्- -य सु २५,३; -यान्

सु २५,२, अप्राय ६,९^१
जवीयसी- -सी सु २५,१
रजवन^१ - पा ३, २,१५०, पाग ३,
१,१३४^६, ५,१,१२३.
जावन्थ- पा ५,१,१२३
जवन-काम- -म शायु १,२७,
४^१, -मस्य^१ कौयु १, १९, ४,
पायु १,१९,९
जवमान->जवमान-रोहिन्- -हि
या ६,१७
जू^१ - पाउ २,५७, पा ३,२, १७७,
पावा ३,२, १७८, ऋजुव शाश्रौ
१०, ७,३, ऋअ ३, १९, ऋ
काश्रौ ७,६,७, आपश्रौ
१जूति^१ - पा ३, ३, ९७, -^१ति
लाश्रौ ४,१२,१^१, अप, या १०,
२८^१, -तिम् माश्रौ ६,१,७,२८,
वाश्रौ २,१,७,११
१जुगु. अप ४८,११६^१
जुगुप्सा- प्रभृ √गु^१ द्र.
√जुहुन् पाधा भ्वा पर. वर्जने >
जुह्वित->^०तो(त-उ)पग(त>)
ता- -ता वाघ २१,१०
जुजुर्वस्- √जू (वयोहानौ) द्र
जुजुषाण- √जुष् द्र.
√जुञ्च^१ पाधा चुरा पर भाषार्थे
√जुद् पाधा तुदा पर बन्धने
√जुद् पाधा तुदा^१ पर गतौ, चुरा
उभ प्रेरणे
√जुत् पाधा भ्वा आत्म भासने

√जुन् √जुट् टि द्र
१जुम्बक^१ - -काय काश्रौ २०,८,१६,
आपश्रौ २९,२२,६, बौश्रौ १५,
३७. ३, २६, ११ १६, वाधुश्रौ
३,९९ ५, हिश्रौ १४,५, ४^१,
वैयु ६,८ ४, शुअ ३,४७
√जुष् पाधा तुदा आत्म प्रीतिसेव-
नयो, चुरा पर. परितर्कणे,
जोष>षा ऋपा ७, ३३^१
१जुजोषति शाश्रौ १८, १५, ५,
आपमं १,१,१, बौयु १, १,१४;
जुजोषत् पावा ७,३,८७
१जुषते अप ४८,३, निघ २,६,
जुषन्ते कौस् ७३,१८^१, बौघ १,
५,६२,६,१, वृदे, १जुषे^१ आपश्रौ
७,२,२, बौश्रौ, १जुषताम् आश्रौ
१,६,५,२,५,१४, ३,४,१५××,
शाश्रौ, आपश्रौ २२,१९,१^१, हिगु
१,८,४^१, १जुषेताम् माश्रौ ५,
१,३,२७, वाश्रौ १, ४,४,४१^१,
भाशि, १जुषन्ताम् आश्रौ १,७,
७, ३,९, ३^१, शाश्रौ, १जुषस्व
आश्रौ १,७,८, २,२,१७^१, १४,
३१, ३, २, ६, ४, १^१××,
शाश्रौ, आपश्रौ ६, ५, ७^१,
१जुषेथाम् आश्रौ २, २०, ४,
शाश्रौ, आपश्रौ १४, ३०, २^१,
१जुषध्वम् शाश्रौ ४, १९, ८,
आपश्रौ, १अजुषत आश्रौ १,९,
१,५, शाश्रौ १,१४,६××, बौश्रौ

a) वैप १ द्र. । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु १ । c) ओषधि-विशेषयो द्वस । d) गतौ वेगे च वृत्ति (तु
पासि प्रभृ ३,२,१५०) । या ५,१, ६,४,८,९ परामृष्ट द्र । e) वैप १ निर्दिष्टयो समावेशः द्र. । f) भावे कर्तरि
च कृत् । g) तु पागम । h) परस्पर पाभे । i) पाभे वैप १,१३८१ ण द्र. । j) √जिन्व इत्यपि BFG ।
k) √जुन् इत्येके । l) ष्चु इति पाठः १ यनि शोधः । एतदनु वैप १, १३८१ p शोधार्हः । m) पाभे वैप
१,१३८२ e द्र । n) पाभे वैप २, ३खं जुहुता ता २१, १०, ११ टि द्र । o) पाभे वैप १,७०९ f द्र ।
p) जुषेत इति पाठः १ यनि शोधः (तु प्रकरायाम्, सप्र तै ३,५,१,२ जुषेथाम् इति पाभे च) । q) पाभे वैप १,
१३८२ k द्र. । r) पाभे. वैप १ प्रति "गुभाय शौ ३, १०,६ टि. द्र । s) तु आन । BL पाठः ?
t) पाभे. वैप १,६२२ d द्र. ।

अजुषत् आपश्रौ १९, २५, १३१,
 †अजुषेताम् शाश्रौ १, १४, ९,
 ११, १२, †अजुषन्त आपश्रौ
 १, ९, ५, शाश्रौ १, १४, १४,
 आपश्रौ, अजुषन् ऋषा १४,
 ५८†
 जुजोष बौश्रौ ३, ३. ४†,
 †जोषिषत् आपश्रौ १६, ७, ४,
 वैश्रौ १८, ५. १^२, हिश्रौ ११,
 २, २, †जोषि बौश्रौ १६, ५
 ११, १२^३
 जोषयते आपश्रौ ७, १, १९, बौश्रौ
 ६, १ १०××, माश्रौ, जोषयत
 बौश्रौ २६, १०. ८, जोषयन्ते
 काश्रौ ७, १, १०, जोषयध्वम्
 बौश्रौ ६, १२: १८, जोषयेत
 गोगृ ४, ७, १, जोषयेत् बौश्रौ
 २०, २७ ४, आमिगृ ३, ४, १
 १३××, बौषि
 जोषयिष्यन्ते शाश्रौ ३, ८, २२
 जुजुषाण- णास या ६, १६††
 †जुषमाण- णा आपश्रौ ५, १३,
 ४, बौश्रौ, -णा आपश्रौ ८, १५,
 १७
 †जुषाण, णा- ण आपश्रौ १, ५,
 २९, २, १०, ४^b××, शाश्रौ,
 आपश्रौ १३, १९, १०^b, पा
 ६, १, ११८, -णा आपश्रौ २,
 ८, ३^c××, शाश्रौ २, ४, ३^c××,
 काश्रौ, -णा: आपश्रौ १, ५, २४,
 ४, ७, ४, शाश्रौ, या १२, ४२,
 -णानि शाश्रौ ६, ३, ८, -णे कौस
 २२, ९, -णौ शाश्रौ १, ८, ७
 जुषाण-या(ज्या>)ज्य^d- ज्यौ

हिश्रौ २१, २, ४६^{२०}
 †जुष्ट, ष्ट^f- ष्ट आपश्रौ २, ११,
 ९××, शाश्रौ, -ष्टम् शाश्रौ ४,
 १७, ७××, आपश्रौ, -ष्टा बौश्रौ
 ३, १८ २६, ६, १२ ९,
 -ष्टा बौश्रौ ६, २७ २२,
 आपम, -ष्टात् आपश्रौ ४, १२,
 ६, -ष्टान् बौश्रौ ७, ३: १८,
 माश्रौ, -ष्टाम् शाश्रौ १, ४, ५^g,
 आपश्रौ २, २, ६××, बौश्रौ, -ष्टे
 बौश्रौ २, १२: २१××, शाश्रौ,
 -०ष्टे हिश्रौ ६, ३, २, लाश्रौ ३,
 ६, ३^२
 †जुष्ट-तम- -मम् काश्रौ ९, ८,
 १५, बौश्रौ १, ४. ३०, ५ १०,
 -मात् हिश्रौ ६, ३, १४
 जुष्ट-त(र>)रा- रा आपश्रौ
 ४, १२, ६†
 जुष्ट-व(त>)ती- ती आपश्रौ
 २, १४, २०
 जुष्टा/कृ>जुष्टा-कार->°का-
 रा (र-आ) दि-संवापनान्त-
 -न्तम् वैगृ ५, १४: ८
 जुष्टा(ष्ट-अ)पित्त- -त्वे पा ६, १,
 २०९
 †जुष्टि- ष्टय बौश्रौ ६, २७: २२,
 आपम, -ष्टि बौश्रौ ३, १८
 २५, वैश्रौ ७, १ १३, -ष्टिम्
 शाश्रौ १, १२, ५, बौश्रौ ३, १८:
 २६, भाश्रौ
 जुष्य- पा ३, १, १०९
 †जोष- -षम् बौश्रौ १, १९:
 ३४, माश्रौ १, ३, ४, २६,
 वाधूश्रौ, पाम १, १, ३७^h.

†जोष-वाक^h- -कम् अप ४८,
 ११५, निघ ४, २, ५, २२
 जोषण- णेन वाश्रौ ३, २, ६, ५
 जोषणा(ण-आ)दि- -दि माश्रौ
 ५, २, १२, ३.
 जोषणा- > जोषणा-श्रुति- -त्ते:
 काश्रौ ५, १२, ७
 जोषयमाण- -णा: या ६, १६
 जोषयितव्य- -व्यम् या ५, २१.
 जोषयि(तृ>)त्री- -व्यौ या ९,
 ४१, ४२
 जोषयित्वा हिपि १०: ६, २३: ८.
 †जोष्ट^h- -ष्टम् मागृ १, ४, २^३;
 वागृ ८, २
 †जोष्टी- -ष्टीम् कागृ ९, २^४;
 मागृ १, ४, २^३, वागृ ८, २.
 †२जो(ष्ट>)ष्टी- -ष्टीम् आश्रौ
 २, १६, १२, शाश्रौ, वृदे १,
 ११४^h
 जुहवां/कृ √हु(दाना) द.
 जुहुराण- √हु द
 जुहुरे अप ४८, ११५†
 १जुह^१- हू ऋअ २, १०, १०९, वृदे
 २, ८२, ३, ५८, ८, ३६.
 २जुह^२- पाउ २, ६०, पावा ३, २,
 १७८, -†हु आपश्रौ २, १३,
 २, ४, ७, २, बौश्रौ, -हु हिश्रौ ४,
 २, २७, -हु: आश्रौ १, ३, ६†;
 शाश्रौ १, ४, २१†, ३, १९, ५;
 काश्रौ, -हुम् शाश्रौ ४, ९, ५;
 १४, १८, काश्रौ १, १०, ९××;
 आपश्रौ, हिश्रौ २, ६, ५४^१;
 -†हु: शाश्रौ २, २, १७, आपश्रौ;
 -हु शाश्रौ १०, १६, ६†, काश्रौ

a) ज्योतिषत् इति पाठ ? यनि शोष (तु. आपश्रौ) । b) पामे वैप १, १३८५ 1 द्र । c) पामे.
 वैप १, १३८५ b द्र । d) त्रिप । बस । e) जुषाणा या इति पाठ ? यनि. शोष: (तु. आपश्रौ १, ५, २९) ।
 f) वैप १ निर्दिष्टानां समावेश द्र । g) वैप १ द्र । h) माप. । i) जुष्टीयम् इति पाठ ? यनि.
 शोष (तु मागृ वागृ) । j) व्यप । व्यु. ? । k) जुहु इति पाठ ? यनि. शोष: ।

१,८,४४××, आपश्रौ, या १२,
३६१, -ह्रा आपश्रौ २,१०,२,
माश्रौ, -ह्राम् काश्रौ २, ७,
९××, आपश्रौ, -ह्रै वाश्रौ १,६,
२,११^{२०}, -ह्रौ बौश्रौ ५,६:६
जौहव^१ -वम् मीस् ४,१,४३,
-वस्य आपश्रौ ११, ३, ११,
मीस् ४, १, ४७, -वानि काश्रौ
६,७,६
जुहू-दर्शन-नात् काश्रौ ६,१०,१८
जुहू(हू-उ)पभृत्-भृत् भाश्रौ ७,
२२,३, -भृताम् वैश्रौ १०,२१:
१४, -भृतो काश्रौ ६, ८, ८,
आपश्रौ ७,२३,११,१२, काठश्रौ,
-भृतौ काश्रौ ३, १, १६, ५,
१७, आपश्रौ
जुहू(हू-उ)पभृद्-ध्रुवा-वा शुभ्र
१,१०७
जुहू-प्रतिषेध-धात् मीस् ४, १,
४५
जुहू-वत् काश्रौ २,७,१५, आपश्रौ
३,१६,१६××, वैश्रौ
जुहूवद्-भाया(म>)मा^०-
मा वैश्रौ ११,८ १
जुहू-षट्कपाल^d-लौ आश्रौ ८,
१५,३
जुहू(हू-अ)भ-अे काश्रौ ६,४,१०.
जुहू(हू-आ)दि-दीनाम् वैश्रौ ११,
७.१. मीस् ६,६,३३
√जुहू(हू-आ)स्य^०-स्य. कौस्
१०८,२, अप्राय २,७
जुहूत्-ह्रान-√हु (दाना°) द्र

√जू,जू-√जु द्र
जूटा-पाठमो २,२,९५
१जूति-√जु द्र
२जूति^१-ति. ऋअ २,१०,१३६
√जूर् पाधा दिवा आत्म हिंसा-
वयोहान्यो
१जूर्णि^०-पाठ ४, ४८, -र्णिः अप
४८, १०६, निघ २, १३, १५,
४,३; या ६,४४^१
२जू(रि>)र्णि^०-०णि अय २,
२४
√जूष् पाधा म्वा पर हिंसायाम्
जूष-पाठना ४,८१
√जूम्भ पाधा म्वा आत्म गात्र-
विनामे
जूम्भ-पाग २, ४,३१
जूम्भ(ण>)णी^१-णी बौगृ २,
१,१९
जूम्भमा(ण>)णा-णाम् वैघ ३,
१,९
जूम्भत्वा आगृ ३,६,७.
√जू^१ पाधा दिवा क्र्या पर, चुरा
उभ वयोहानौ, जीर्यते विध
१३,५, जीर्यति बौश्रौ ३,८
१५^२××, जीर्यन्ति वाधूश्रौ ४,
१० १, वाघ ३०,९^२
जूर्यन्ति अप्राय ६,९१
जरयसि पागृ ३,३,५१^१
जर^१-पाग ३, १, १३४^१, -राय
आमिगृ १,२,२ : २४^१, या ४,
२७१.
जरठ-पाठवृ १, १००, -ठम् काशु

७,७
जरण-णम् वाधूश्रौ ४,१०२ २.
जरत्^१-पा ३,२,१०४, -रत् अप्रा
२, ४, १५१, -रन् शाश्रौ १२,
१५,११, -रन्त कौस् ८,१७
जरती-पाग ४, १, १२६,
-तीम् आमिगृ ३, ५, ३ १;
बौपि १, ३. १, हिपि ४ ४,
कौस् ७१,५१^१
२जारतिनेय-पा ४, १,
१२६
जरत्-छत्र-त्रम् कौस् १८,१०
जरत्-कद्रथ-थः बौश्रौ १८,
२५ ६,९
जरत्-कर्ण-र्ण ऋअ २,१०,७६
१जरत्-कार-सूतु^०-नो अप
१,३८,२१, अशा ८,२
१जरत्-कार^०(>)जारत्कारव-
पा) पाग ४, १, ११२
जरत्-कोश-बिल^१-ले बौश्रौ
५,१६.३.
जरत्-कोष्ठ-घात् कौस् १८,
१३, -ष्ठे कौस् ७१, ९
जरत्-वात-ते कौस् २७,३
जरत्-पर्वन्-र्वसु शौच ४,
५३
जरत्-पु(र्व>)र्वि^१-र्वैया बौश्रौ
१५, ५ ८^१, २६, १० १२,
-र्वि बौश्रौ १५, १ १६, वाधूश्रौ
३,६९:३९
जरत्-प्रयोग^०-ग्याभ्याम्
बौश्रौ १८,२५ ७,९.

a) पाठ १^०ह्रौ इति शोध । b) तस्येदमीय अण् प्र । c) विप । बस । d) उप = [षट्कपाल-
संस्कृत-] पुरोडाश- । e) वैप १ द्र । f) व्यप । व्यु १ । g) वैप १,१३८७ d द्र । h) = मातृ-विशेष- ।
धा. अर्थ १ । i) पा ३,१,५८,६,४,१२४ परामृष्ट द्र । j) पाभे वैप १, १३८७ h द्र । k) भावे कर्तरि
व कृत । l) तु. पाका । रज- इति भारुडा । m) व्यप । n) वैप १ निर्दिष्टानामेकत्र समावेश द्र ।
o) पूष. व्यप. । व्यु १ । p) = जीर्ण-मञ्जूषा- । q) = बन्धन-रज्जु- । व्यु १ । r) सपा आपश्रौ २०,३,९
बेक्षसा इति पाभे. । s) कम उप. = प्रयुभ्य- [बलौवर्द-] ।

जरत्-संख्याय- -यः शाश्रौ २,
५, २७
जरद्-अश्न- -श्नः वाधूश्रौ ३,
६९ ३७, -श्नम् वाधूश्रौ ३,
७५ २
जरद्-अष्टि- -ष्टय आगृ १,
७, ९९, कौगृ १, ८, १८, वागृ १,
१३, ४, पागृ १, ६, ३, -ष्टि
बौश्रौ १३, ३२ १८, १८, ९
३२, आपमं १, ३, ३, २, १, ३^b,
४, २, आगृ १, १७, १०^b,
कौगृ, पागृ २, १, ११^b, मागृ १,
२१, ६^b
जरद्-उपानह- -नहा कौसू ८४,
९, -नहौ आपश्रौ १८, २२, २,
कौसू १८, १०
जरद्-दास- -सः आगृ ४, २, १८
जरमाण- > ण-रोहिन्- -हिया
६, १७
जरयिन्- -ता या ३, १६, ५, २४,
१०, २१
जरस्- पा ७, २, १०१, पागवा ५,
४, १०७, -जरस आगृ ३,
५, ६ ३, बौपि १, ४ २०,
हिपि, -जरसम् आपश्रौ १४, १६,
१, माश्रौ २, ५, ४, २०^d, वाधूश्रौ,
आपमं २, २, १^d, ४, ३, आगृ, कागृ
४१, ७³⁰, बौगृ २, ५, ९^d, भागृ
१, ५, ९^d, हिगृ १, ३, ५^d, -रसा
बौश्रौ १७, ४० ११, वाधूश्रौ,
आगृ १, ५, १ २०^क, कागृ
२५, ४^क, बौगृ २, ५, ११^क,

हिगृ १, ४, २^क, जैगृ १, २० :
१५^क, या ११, ३८^क, -जरसे
आपम २, २, १, ५^क x x, पागृ १,
४, १३^क, आगृ १, मागृ १, १०,
८, २२, ३
जरसान- पाठ २, ८६
जररा- -रया आगृ ३, ५, १
१, बौपि, या १०, ३९^३, ११,
३८, -रा आपश्रौ १३, ३, ३^क,
बौश्रौ, -जराम् आश्रौ २, ९, १०,
आपश्रौ, -राया पा ७, २, १०१,
पागवा ५, ४, १०७, -रायाम्
बौश्रौ २, ५. ७^क, -रायै जैगृ
१, ८. ९, अग्र ३, ११^क.
जरा-मरण-श्रुत्-पिपासा-शोक-
क्रोध-लोभ-मोह-भय-मत्सर-हर्ष-
विषादे(द ई)ष्या(ष्या-अ)सूया-
(या-आ)त्मक- -कै या १४, ७
जरा-मर्ष- -र्षम् अप्राय ३, ६,
वाध १९, २.
जरा-मृत्यु- पाग ६, २, ३७
जरिताम्^h मागृ १, १३,
१८^क
जरिमन्- -मन् कौसू ५४,
१३, -मा वैताश्रौ ३६, १९,
आगृ १, १, २. ४५, ४७,
४९, हिगृ १, ४, ८^{३०}, जैगृ^{३०}
१, १२ ६, ८, १०, अपं ३
२६, अग्र ३, ४, १, -माणम्
अप्राय ६, ९, अग्र २, २८^२
जरिमा(म-आ)श्रु-दैवत- -तम्
अग्र २, २८.

जरित्वा पा ७, २, ५५
जरिष्णु- ण्णु आपमं २, २, ११;
आगृ १, १, २ ४१, बौगृ २,
५, १६, भागृ १, ६ : १२, हिगृ
१, ४, ६, -ण्णु. पागृ २, २, ११^१.
जरीत्वा- पा ७, २, ५५
जरैर- पाठवृ ३, १३१.
जरैर-ग्रह- -हा. अप ५२,
१३, १
जा(रि)री- -री वाधूश्रौ ४,
१०२ १७, -रै बौश्रौ १४,
७ २४, २६, ७ २१, वाधूश्रौ
४, १०२. १६
जि, जी^म जि- पाठ ५, ४९, पावा
८, २, ७८, -त्रय या ३, २१^क;
-रै आपम १, ९, ४^२, जैगृ १,
२२ ५
जीर्ण, र्णा- पा ३, ४, ७२, पाग ५, ४,
३, -र्णः आपश्रौ ३, १४, १३;
वैश्रौ ३, १ ३, या ३, १८;
-र्णम् आपश्रौ १९, १७, ३, हिश्रौ;
-र्णस्य बौश्रौ २९, ५ : २०, -र्णा
अप ३७, १७, १, -र्णा. बौश्रौ
१६, ९ २, या ३, २१, -र्णानि
गौघ १०, ५८, -र्णाम् बौश्रौ
२७, ७ ६; अप, बौश्रु ७ : २;
या १४, ३३^क, -र्णाय शाश्रौ
१४, १२, २, -र्ण आपश्रौ १९,
१७, १, बौश्रौ
जीर्ण-क- पा ५, ४, ३
जीर्ण-पर्णा(र्ष-आ)हार- र.
आगृ ३, ७, १० : ९.

a) कम् उप. करणे घञन्तम् = पठ- । b) पामे वैप १, १३८८ d द्र. । सपा. शौ ६, ६८, ३
विशिष्ट पामे । c) वैप १ द्र । d) पामे वैप १, १३८८ m द्र. । e) पामे वैप १, १३८८ p द्र. । f) पामे.
वैप १, १३८८ O द्र । g) वैप २, ३६. द्र । h) पाठ. ? जरताम् इति संस्कृतुः टि ? । i) जरिमाणे यो
इति पाठ ? जरिम्णे नयेत् इति शोध [तु j टि.] । j) पाठ. ? जरिम्णे नयेत् इति Böhlt LZDMG ५२, ८१ शोधः ।
k) पाठः ? जरिम्णे इति शोधः (तु. j टि.) । l) पामे. पृ १०६६ d द्र. । m) आपमं. जैगृ. पाठः ।
n) पामे. वैप १, १३८९ k द्र. ।

<p>जीर्ण-मलवद्-वासस्- -साः विध ७१, ९, गौध ९, ३ जीर्ण-मल-वासस्- -सा. वैध ३, २, १६ जीर्णा(र्ण-आ)हार- -र नाशि २, ८, १ जीर्यत्- -र्यत् वाधूश्रौ ४, १० १, वाध ३०, ९३, १० जीर्यद्-रक्षेश्वर- -रम् जैश्रौका १. जुजुर्वस्- -वान् ऋप्रा ४, ६८† √जू^{ब०}, †जरते आपमं २, ११, २१^d, अप ४८, ९, निघ ३, १४, ४, १, या ४, २४^d ‡जरमाण- -णः आश्रौ ९, ११, १४, शाश्रौ १५, ८, ७. रजरा^b- -रा या १०, ८ ‡जरा-बोध^b- -ोध आश्रौ ९, ११, १४, शाश्रौ १५, ८, ७, वृदे ३, ९९, सात्र १, १५, या १०, ८^क जराबोधीय^e- -यस् बौश्रौ १८, १५ १६, छुस् ३, १२ १८, निस्, -यस्य निस् ८, २ : ५३ ‡जरितृ^b- -त आश्रौ ८, ३, १९^e××, शाश्रौ, -ता अप ४८, ९७, निघ ३, १६; या १, ७, -तार. भाशि ९३, -तारम् आपश्रौ ७, ६, ७, बौश्रौ, -तृणाम् आपश्रौ १७, ७, ८, -त्रे या १, ७, ऋप्रा ७, ३५ जारय(त् >)न्ती- -न्ती ऋप्रा ९,</p>	<p>४८ जैतव्य-, जेतुम्- प्रमृ √जि द्र. जेन्य- √जन् द्र १-२जेमन्- √जि द्र √जेष् पाधा भ्वा आत्म गतौ जेष्यत्- प्रमृ √जि द्र √जेह् पाधा भ्वा आत्म प्रयत्ने, जेहते निघ २, १४† जेहमान- -ना आश्रौ २, १९, २४ √जै पाधा भ्वा पर क्षये, जायति निघ २, १४† जैगीषव्य-, जैगीषव्यायणी-, १-२जैत्र- √जि द्र ३जैत्र- (>जैत्रायणि- पा) पाग ४, २, ८० जैत्रिय-, जैत्री- प्रमृ √जि द्र जैमिनि^{g,h}- -निः जैश्रौका १७१, जैगृ २, ८ १७, अप ४३, ४, १४, मीसू ३, १, ४, ६, ३, ४, ८, ३, ७, ९, २, ३९, -निम् जैगृ १, १४. ८, -नेः मीसू १२, १, ७ जैमिनि-वैशम्पायन-पैल सूत्र-भाष्य- गार्ग्य-बभ्रु-बाभ्रव्य-मण्डु-माण्ड- व्य- -व्या शारु ४, १०, ३ जैमिनीय- -यै जैश्रौका १७२ जैव-, जैवन्ति-, जैवन्तायन-, जैवावृक-, जैवि-, जैवेय- √जीव् द्र जैह्लाशिनेय-, जैह्वय- जिह्व- द्र जैह्व- जिह्व- द्र जोगु- √गु (शब्दे) द्र. ‡जोवत्का^h- -का आपश्रौ १९, १२, १२, बौश्रौ १९, ३. ३२, हिश्रौ,</p>	<p>२३, २, २३ जोष- प्रमृ √जुष् द्र जोहु(व >)वा- -वा या ५, २६† जोह्व- √हे द्र. जौलायन- (> जौलायन-भक्त- पा) पाग ४, २, ५४ जौहव- रजुह्व- द्र जौह्वत- √हु (दाना°) द्र ज्ञ-, ज्ञका- √ज्ञा द्र √ज्ञप्^l पाधा चुरा पर. ज्ञाने ज्ञापने च, अजिज्ञपत् भाशि ६० ज्ञीप्सति वाधूश्रौ ३, ६९ १७; ज्ञीप्सन्ति वाधूश्रौ ४, १०८ : १५, १९ ज्ञपित-, ज्ञप्त- पा ७, २, २७ ज्ञीप्समान- पा १, ४, ३४ √ज्ञा^k पाधा भ्वा पर मारणतोषण- निशामनेषु, क्रया पर अवबोधने, चुरा उभ नियोगे, जानाति बौश्रौ ३, २७ ९, २५, ३१. १, वैश्रौ, या १४, २०^३, जानते या ४, १०†, जानन्ति शाश्रौ १५, १७, १†, आपश्रौ २३, ७, ८, हिश्रौ, जानीषे विध १०, १०, १३, ६, जानामि या २, ८, जानीम. निस् २, ३ २४, ३, ३ ३४, १२ २९××, जानातु गौपि १, १, २७†, †जानन्तु आपश्रौ ६, २७, ३, हिश्रौ, आमिगृ ३, ९, १ : ५^१, बौपि २, ५, १^१, जानीष्व सु १२, २, †जानीतात् माश्रौ २, ५, ५, २१, अप्रा २, ४, १८, जानीतम् या ४, ६, ५, २१.</p>
---	--	---

a) उप व्यप । d) वैप १ द्र । c) या १०, ८ परामृष्ट. द्र । b) पाप्मे वैप १, १३४० ङ द्र ।
e) = साम-विशेष- । f) गतौ वृत्ति. । g) = ऋषि-विशेष- । h) वैप २, ३खं द्र । i) = जिह्वा- । व्यु ?
<√हे (तु. SBY 1७४) वा √हु वेति । j) पा ७, २, ४९, ४, ५५ पावा ७, ४, ५५ परामृष्ट द्र ।
k) या १४, १० पा १, ३, ७६; ३, ४, ६५, ७, ३, ७९ परामृष्ट द्र । l) जाय° इति पाठः ? यनि शोघ (तु हिप्ति
२१ : १६; B [बौपि.]) ।

जानीध्वम् आगृ २, १०, ८^१,
जानीत माश्रौ २, ५, ५, २१^१,
जानीयात् बौश्रौ १३, १:१०××,
वाश्रौ, जानीरन् आश्रौ ११,
६, ४, काश्रौ २४, ३, १४,
जानीयु आपश्रौ २३, ७, ८,
हिश्रौ १८, ३, ३
जहे या २, ८, जञ्जु बौगृ ३, ११,
३^१, ज्ञास्यामि कौगृ ३, १२, ८
ज्ञायते बौश्रौ २४, १४ ६,
निसू ९, ६: ३, अप, पावा १,
२, ६४, ज्ञायेत वैश्रौ २०, २^१
१०, बृदे ३, ७८
ज्ञापय अप ७०^३, १, २, ज्ञापयेत्
आपध १, ८, १६, हिध १, २,
१०४, ज्ञापयेयु आश्रौ २, ५,
१८.
जिज्ञासेत निसू १, ६ - ७, ८
२जज्ञान वैगृ २, १ ५^१^b
जानत्- -^१नतः^० आपश्रौ ६, २७,
३, हिश्रौ ६, ७, ८, द्राश्रौ ७,
३, १, लाश्रौ ३, ३, १^१, शागृ
३, ७, २, कागृ २७, ३, भागृ
१, २७ ५, हिगृ १, २९, १,
-^१नता बौगृ २, २, ८, कौसू
७३, १७, -नते या १, १६^१,
-नन् शाश्रौ ३, २, ३, काश्रौ ९,
६, २३××, बौश्रौ, या १४, २२,
-नन्तः विध ८, ३७, -नन्तम्
या १, १५, १६
जानती- -^१ती आपश्रौ १२,
१५, ६, हिश्रौ ८, ४, २१.
जिज्ञासा- -सा मीसू ४, १, १,

-सायाम् पावा १, ३, २१
जिज्ञासित- -तम् भासू २, ११,
-तयो भासू ३, २
जिज्ञासु- -सु: बृदे २, ११९
ज्ञ, ज्ञा- पा ३, १, १३५, ७, ३, ४७,
ज्ञाय अप ६६, २, ६^१, ज्ञेभ्यः
कौगृ १, ८, ३७^०
ज्ञ, जि(क>)का- पा ७, ३,
४७
ज्ञ-समवाय^१- -ये गौध ६, ५
ज्ञात- पाग ५, ४, २९, -त बौध
२, २, २२, ३, ५, ८, गौध २६,
२३, -तम् रुप्र २, ९, १२,
कौशि ५८, -ते मीसू ३, ८, १८,
-तेषु बौश्रौ २९, १३: १७
ज्ञात-क- पा ५४, २९
ज्ञात-प्रिया(य-अ)नूचान- -नान्
काश्रौ ९, ७, १५.
ज्ञातव्य- -व्य याशि १, ४२,
-व्यम् जैश्रौका १३२
ज्ञाति^१- -तयः शाश्रौ ३, ६, १,
आपम, -तये काश्रौ १०, २, ३३,
आपश्रौ, -ति: वैगृ ४, ७: ७,
या ४, २१^१, -तिभि: भागृ २,
५ - ११, -^१तिभ्य काश्रौ ५,
५, ८, वैताश्रौ ३७, १४, १७,
आपम २, २२, ५^१, कौगृ, हिगृ
१, १४, २^१, -तिम् आपश्रौ ८,
६, २२, बौश्रौ, -तिषु आपध
१, १०, ३, हिध १, ३, ३२,
-तीन् बौश्रौ २८, २ ५४,
द्राश्रौ, या ४, २१, -तीनाम्
आपश्रौ १, ८, ७, लाश्रौ, -ती

आगृ ४ ४, २२
ज्ञानि-कर्मन्- -मं गोगृ १, १०.
ज्ञाति-कुल- -लम् भागृ १, १३:
११
ज्ञाति-धन- -नम् आपप २,
१४, ९, हिध २, ३, २०
ज्ञाति-नामन्- -मानि शाश्रौ ६,
१, ६
ज्ञाति-पत्नी- -नी आमिगृ २,
६, ३ ५४, बौध २, ५, २९^१,
-^१नीभ्य. आमिगृ ३, ११, ४ -
३२, बौगृ २, ११, ३४
^१ज्ञानि-मत्- -मन्तम् कौगृ १,
५, २६, शागृ १, ९, ९, -मान्
कौगृ १, ५, २६^१, शागृ १, ९, ९^१;
कागृ २५, ३६^१
ज्ञाति-मरण- -णम् विध १४,
४, -णे विध २२, ३८
ज्ञाति-वर्ग- -र्गा वैगृ ५, १५:
७, -^१र्गभ्य वैगृ १, ४ १९;
४, ४ ९
ज्ञातिवर्ग-पत्नी- -^१नीभ्यः
वैगृ १, ४: २०, ४, ४. १०.
ज्ञातिवर्गपत्न्य(ली-अ)-
न्त^१- -न्तेभ्य वैगृ ३, ७: १४.
ज्ञाति-विद्- -वित्^१, -विदे
कौसू ७८, १०^१
ज्ञानि-श्रैष्ठ्य- -ष्ठ्यम् विध ७८,
१८
ज्ञाति-सभाष- -षौ आमिगृ १,
६, ३ ४२
ज्ञातेय- पा ५, १, १२७.
ज्ञातुम् बृदे ३, ३९; ११०

a) पामे वैप १, १३९१ १ द्र । b) नम् (मा १३, ३) इत्यस्य प्रतीकं द्र । c) पामे वैप १,
१०२६ ११ द्र । d) जान इति पाठः ? यनि शोध (तु. द्राश्रौ) । e) सपा. शागृ १, १४, १७ याज्ञिकेभ्य
इति पामे. । f) अज्ञस^० इति ST । g) वैप १ द्र । h) सप्र. पागृ ३, ७, २ विशिष्ट पामे. ।
i) सप्र. ज्ञातिमान् <> ज्ञातिविद् इति पामे. । j) विप. । बस । k) जाति^० इति पाठः ? यनि. शोधः
(द्व. BC) ।

ज्ञात्-त्ता विध १, ३२ या १४,
१०, -तारम् आगृ ३, १०, ११,
-तु. वैध ४, ८, ८
ज्ञान^१- त्रम् गो २, ७, १०, १,
-त्रेण निसू ५, ९. २३
ज्ञात्वा काश्रौसं ३३ १६, सु
ज्ञान-नम् निसू १, ६ ९, कप्र २,
६, ३, वाध, -नस्य गोगृ १,
५, १३, या ३, १२, आज्यो
७, १७, -नात् अप ४, २, १०,
आपध, -ने शुप्रा ८, २९,
पाप्रवा ६, -नेन भागृ १, ११
१६, वाध ३, ६०, शध
ज्ञान-कर्मन्^२-र्मणः या १४,
१३.^३
ज्ञान-कृत-त या १४, १०,
-तेभ्य बौध ३, ५, ५
ज्ञान-नाम्य-०म्य विध ९८,
३३, -म्यम् विध ९७, २०
ज्ञान-तस्() विध ३२, १८
ज्ञान-दुर्बल-ल सुध १३
ज्ञान-नृम्ण^४-म्णः या १४, २४
ज्ञान-पति-(>०त- पा) पाग
४, १, ८४
ज्ञान-पूर्व-र्वम् गौध २०, ९
ज्ञान-प्रद-दम् काध २८२ ६
ज्ञान-प्रशंसा-सा या १, १७
ज्ञान-मोक्षा(क्ष-अ)क्षर-प्रशसा-
सा ऋअ २, १, १६४
ज्ञान-राशि-शिना वेज्यो ४२.
ज्ञान-लोचन^५-न अप ३०, १,
२
ज्ञान-विधूत-पापमन्-प्मा या
१, १८, १.

ज्ञान-विषय-ये शाश्रौ १३,
५, १
ज्ञान संस्तव-व वृदे ८, ९३
ज्ञाना(न-अ)ज्ञान-ने वैगृ ५,
१ २८
ज्ञाना(न-अ)पहारिन्-री शंघ
३७७ १८
ज्ञाना(न-अ)भिनिवेश-
-शाभ्याम् गौध २८, ५४
ज्ञानो(न-उ)क्त-क्तानि या १४,
९
ज्ञापक-क पावा १, १, ४५, ३,
१, ३६××, -कम् पावा १,
१, ११, १९××, -कात् पावा
१, २, १८
ज्ञापित, ता-तान आगृ ४, ७, २,
-ताया वाधूश्रौ ३, १५. ४
ज्ञाप्यमान-ने पावा २, ३, १३
ज्ञाय^६-(>०य- पा.) पाग ४, ३,
५४
ज्ञायमान-ने आपध १, ९, ८, १४,
१४, हिध १, ३, ८, ४, ४६
ज्ञेय, या-यः कप्र ३, ८, ११, अप,
-यम् वैश्रौ १, १ १३, कप्र २,
८, ५, अप, -या कप्र १, ७, ९,
अप, -याः जैश्रौका १६८, अप,
-यात् आपध १, २३, २, हिध
१, ६, १०, -यानि आपशु ५, ७,
हिशु २, १६, ऋअ ३, ४६,
-याभि. आपशु १, ९, हिशु १,
१४, -ये वृदे ५, ८६, -यौ ऋअ
३, ४०, वृदे.
ज्ञेय-राशि-शिम्व वेज्यो ४२
ज्ञात-√ज्ञा द्र

ज्ञातल^७-(>०लेय- पा) पाग ४,
१, १२३
ज्ञाति-प्रभृ, शिका-√ज्ञा द्र
ज्ञीप्समान-√ज्ञप् द्र
जु^८->जु-बाध^९-बाध भाशि ५९१
जृज्मन्^{१०}-ज्मन् आश्रौ ३, ८, १;
आपश्रौ २०, ३, १५, बौश्रौ १५,
६. ११, हिश्रौ १४, १, ३६,
शुअ २, २७३.^{११}
ज्मय^{१२}-या^{१३} या १२, ४३१.^{१४}
जृज्मा^{१५}-ज्म आश्रौ ४, १५, २;
वैताश्रौ ३३, १९, साअ १, ५२;
ज्मा आश्रौ २, ९, १४, ३, ७,
१०, शाश्रौ ६, १०, ६, अप ४८,
७२, निघ १, १, या १२, ४३१.^{१६}
√ज्या^{१७} पाघा क्रया पर वयोहानौ,
जिनाति वाश्रौ ३, ३, ३, २१,
हिश्रौ १३, ६, ८, जिनासि आश्रौ
२, १०, १६१.^{१८} जिनामि काश्रौ
१५, ६, २११.^{१९} ज्मजिना आपश्रौ
२०, ६, १४, बौश्रौ १५, ९. ८,
हिश्रौ १४, २, १७, जिनीयात्
लाश्रौ ९, १, १५, जिनीयुः
वाधूश्रौ ३, ७९ १६, १८
ज्यास्यते वाधूश्रौ ३, ७५ ११,
७९ २०, ज्यास्यन्ति बौश्रौ
१५, ४ ११, ८:४, !अज्यासिषि^{२०}
बौश्रौ २४, १२: १५, १८. २.
जृज्यासत्-सत् बौश्रौ ७, ४
१७, अप्रा ३, ४, १.
जिनत्-नताम् अअ १२, ५(६).^{२१}
जीन-, जीनवत्-पा ८, २, ४४.
ज्यानान-न बौश्रौ १७, १७ ३
ज्यानि^{२२}-पाउ ४, ४८, पावा ३, ३,

a) वैप १ द्र. । b) विप । बम. । c) तु पासि । न्याय- इति भारुडा प्रभृ । d) ज्ञातल-
इति पागम, [पक्षे] भारुडा च । e) पामे वैप १, १३९२ III द्र । f) या ९, १७ पा ६, १, १६, ७, ३, ८० पावा
७, ३, ५७ परामृष्टः द्र । g) पामे वैप २, ३खं जहृथं तैत्रा २, ५, ३, १ टि द्र. । h) ण्शिषि इति पाठ. १ यनि.
शोधः (तु. छदत्त, संस्कृतः [आपश्रौ ५, २६, ३] टि च) ।

१५, -निम् हिश्रौ ३, ६, २, १८,
४, ३९, -न्या बौश्रौ १८, ३०
८, -न्याः आपश्रौ ३, १५, ७,
-न्याम् आश्रौ १२, ६, ३४,
आपश्रौ ५, २६, ३, भाश्रौ ५,
१७, ५
ज्या^{१०}- ज्या वेश्रौ २०, ३३ १११,
सु २२, ४, आपध १, २, ३४,
हिष १, १, ६६, काशु ७, ३८,
बुदे १, १११, अश्र ५, १८१, निष
५, ३१, या २, ५१, ९, १७१,
†ज्या या ९, १८, ऋप्रा २,
५९, शुप्रा ४, ८७, १५५, तैप्रा
१०, १३, ज्याम् आपश्रौ २०,
१६, ६, वाश्रौ ३, ४, ३, ३०,
हिश्रौ १४, ३, २९, वेताश्रौ
१२, १३१, आपमं २, २२, ३१,
आमिष्ट १, १, १७, हिष्ट १,
१, १७, कौसू २६, ३, ६, ३५,
१३, ३६, २८१, अप ३२, १,
७१, ऋश्र २, ६, ७५, अश्र ६,
४२१, ज्याया. या ९, १५१
ज्या(ज्या-अ)भिमन्त्रि(न् >)णी-
-णी बुदे ५, १२९
ज्या-मौर्वी- -र्वीम् बौष्ट २, ५, १३
ज्या-स्तुका-ज्वाल^१- -लेन कौसू
३२, १०
ज्या-होड^१- -ड काश्रौ २२, ४, १२,
आपश्रौ २२, ५, ५, हिश्रौ १७,
२, ३३, लाश्रौ ८, ६, ८.

ज्यानान- ज्यानि- √ज्या द.
ज्याबाणेर्य^१- (>°वी-पा) पाण
४, १, १७६
†ज्यायम् निस् १०, ११ १३
ज्यायस्^१- पा ६, ४, १६०, -य
आश्रौ १, ३, १४१, ९, १, ५१,
शाश्रौ, -यसः आपश्रौ २४, १३,
३, बौश्रौ, पावा २, २, ३४,
-यसा या ३, १३, -यसि द्राश्रौ
९, ३, २०, लाश्रौ, पा ४, १,
१६४, -य सु लाश्रौ ६, ६,
१७, -यास शाश्रौ १५, २६,
१३, बोश्रौ, -यासम् आपश्रौ
४, १४, ६××, बौश्रौ, आपश्रु
१०, १११, -यासि बौश्रौ २४,
२८ : ८, -यान् बौश्रौ १३,
२८ १३××, लाश्रौ, या ३,
१४, -यान्-यान् आश्र २,
३, ९
ज्यायसी- -सीम् काठश्रौ ८३,
वाध २, २३, १७, ५८, -सीम्-
सीम् बौश्रौ २०, १३ २,
-स्य. निस् १, ६ : ३
ज्यायस्-वत्- -वन्त अश्र ३, ३०१
ज्यायु^१- -युम् कौसू २३, १०
√ज्यु पाधा भ्वा आत्म गतौ
√ज्युत्^१ पाधा भ्वा आत्म भासने,
†ज्योतते अप ४८, २०, निष १,
१६.
†ज्यो(त>)ता^१- -ते^१ द्राश्रौ ९,

२, ३, लाश्रौ ३, ६, ३, शुप्रा ४,
६५
ज्योति^१- -तेः अप ५२, ८, २
ज्योतिस् (> ३, ४)^१- पाठ २,
११०, -तिः †आश्रौ २, ३,
१६, ४, २५, ५, १४××,
शाश्रौ, काश्रौ २५, १०, २५१,
आपश्रौ १५, १०, १०१,
†द्राश्रौ ६, ४, ९, १२, ४, १,
†लाश्रौ २, १२, १०, वेताश्रौ
४, ३१, ऋश्र १, ९, ८, शुश्र
५, ६७, या २, १, १९१, ४,
१९××, ऋप्रा १६, ७०,
-तिभिः या २, १४, -तिष
शाश्रौ ९, २१, ७, बौश्रौ १७,
२२ ४××, माश्रौ, कौसू
१४१, २२, गौध २, १७, या
२, १६, १०, ४१××, -तिषम्
आपश्रौ २१, १५, १०, निस्^१
५, ११ २६, २७, ८, १२ :
६, ९, ६ १८, या १४, ४,
-तिषा आश्रौ २, ५, ७१, ५,
१३, ६, ८, १०, ३, शाश्रौ,
आपश्रौ ६, २५, २, आपमं
२, २०, ३२१, शुश्र २,
१७२१, या २, २११, ६, २६;
१०, २९१, ३११, १२, १;
-तिषाम् काश्रौ २५, ११, २५,
आपश्रौ ४, १, ८××, बौश्रौ;
या २, १३, १४, १९१; २१;

a) वैप १ द्र । b) = धनुर्गुण- । c) पामे. वैप १, १३९३ d द्र । d) विप > नाप. । षस > बस.
(तु. जात-ज्वाल-) । e) वैप २, ३४ द्र. । f) = आयुषजीविसंघ-विशेष- । व्यु ? । आबाणेर्य- इति पाका. ।
g) °यासा इति पाठ^१ यनि शोध । h) = ज्या- (तु. भू L) । i) तु BPG. । j) पामे. वैप १, १३९४ e ।
द्र. k) = ज्योतिस्- । l) भाप, नाप. (छन्दस्-, एकाह-, स्तोम- प्रष्टु) । m) पामे वैप १, १३९१ n द्र ।
n) पामे वैप २, ३४ ज्योतिः तैत्रा ४, १०, ४ टि द्र । o) पामे. वैप १, १३९४ g द्र । p) = अष्टाक्षर-वाद- ।
q) उत्तरेण सधिरार्ष, °तिष इति वा °तिषाम् इति वा शोधः (तु संस्कृतं टि) । r) = एकाह- [याग-] ।
s) पुं इति संस्कृतं सूची । t) पामे. वैप २, ३४. ज्योतिषा तैत्रा १, २, १, २७ टि. द्र । u) पामे. वैप १,
१३९६ ० द्र. । v) पामे. वैप १, १३९६ b द्र. ।

पावा १,३,४०, वेज्यो २, -तिषि
शाश्रौ १८, १, ८, आपश्रौ, -तिषी
बौश्रौ २४, ३० : २, ६, निसू ४,
६ १३, ऋअ २, ८, २२, या ७,
१६, १८, २०^३, २३, ३१, १२,
२६, -तिषे काश्रौ ३, ८, २३,
आपश्रौ, -तिषो द्रागृ ३, २,
३०, गौध १६, १६, -तिषु
वृदे ३, १२, -तिषि शाश्रौ ९, ५,
१, १६, २१, २, आपश्रौ, या २,
१४, १०, २६, १४, १९

ज्यौतिष-षाः निसू ८, ३

११

ज्योतिर्-अतिरात्र^३- -त्र. बौश्रौ
१७, ६१ १, ६२ ९

ज्योतिर्-अनीक^३- -कः ऋप्रा ५,
५३†

ज्योतिर्-अयन- -नम् बौश्रौ
१६, ३२ ८, १७, ५९ १

ज्योतिर्-आयतन- -नम् कौसू
१६, ३१, -नस्य कौसू ३८, १६

ज्योतिर्-उदयन^०- -न निसू ५,
२ १४, १६

ज्योतिर्-उद्गमन- -ने पावा १,
३, ४०

ज्योतिर्-गण- -गेषु अप ६५,
१, २

ज्योतिर्-गणना (ना-आ) दिका
(क-अ)धिक-वृत्ति^१- -त्ति वैध
३, १२, ८^०

ज्योतिर्-जरायु^३- -यु या १०,
३९†

ज्योतिर्-भाग- -गः या १२, १,
†ज्योतिर्-भास्^१- -भाः बौश्रौ

९, १४ २२, वैश्रौ १३, १६ .
१९.

ज्योतिर्-मध्य- -ध्ये आमिगृ २,
४, १० . ७

ज्योतिर्-मय- -यम् अप १३,
५, ६

ज्योतिर्-लोक- -कम् अप १५,
१, ९

ज्योतिर्-वर्ण^०- -र्णस्य या ७,
३१

ज्योतिर्-विचार- -रान् निसू ४,
७ २६

ज्योतिर्-विध- -धानि निसू ५,
८ . ९

ज्योतिश्-चक्र-विद्- -विद्. कप्र
२, ६, ७

ज्योतिः-शब्द- -शब्दैः आश्रौ ५,
९, ११

ज्योतिः-शास्त्र-प्रयुक्त- -क्तानाम्
आज्यो ७, ६

१ज्योतिष^६- पाग ४, २, ६०^३,
-षम् अप १, १५, १, शंघ ११६:
३९, आपध २, ८, ११, हिध.

ज्योतिषिक^१- -कः अप ७,
१, १०

ज्यौतिषिक- पा ४, २, ६०

२ज्योतिष^१- > षी-> षी-
मत्^१- -मान् अप्रा ३, १, १८†

ज्योतिषाम्-अयन- -नम्^६ चव्यू
२ २५, वेज्यो २, -नेन बौश्रौ
२८, ४ ३१.

ज्योतिषामयन-विकल्प-
-ख्या. लाश्रौ ४, ८, १

ज्योतिष्-कृत्^३- -कृत् शैशि

१२५†
१ज्योतिष्टोम^३- पा ८, ३, ८३;
-म. आश्रौ ९, १, ३××, शाश्रौ;

-मम् द्राश्रौ ८, २, १६, लाश्रौ,
-मस्य लाश्रौ ६, ९, १××, लुसू,

-मा. काश्रौ २४, ७, ३०, ३२;
लाश्रौ १०, १३, ४, -मात्

द्राश्रौ २, ४, २३, लाश्रौ, -माय
लाश्रौ ९, १, २, -मे आपश्रौ १४,

८, १, हिश्रौ, -मेन काश्रौ १४,
१, ३, २२, ११, ३२, आपश्रौ;

-मै वाश्रौ ३, २, २, ४७, -मौ
लाश्रौ ८, ११, ११, निसू ८, ९ :

१६

ज्यौतिष्टोम- -मम् निसू
६, ८ . २६, ७, ४ : ३२, ८,
३ . १०

ज्यौतिष्टोमी- -म्यः
मीसू १०, ६, ६५

ज्यौतिष्टोमिक^३- -कात्
मीसू ७, १, १६, -कानि मीसू ७,
३, ६, -कै काश्रौ २४, ५, १६.

२ज्योतिष्टोम^३- -मानाम्
निसू ३, १० ४०, ४, १२ १२;
-मानि निसू ३, ९ ३××

ज्यौतिष्टोमी- -मीभि
निसू ६, १३ १, -मीम् निसू
४, ७ : २७

१ज्योतिष्टोम-तन्त्र- -न्त्रे
लाश्रौ ४, ५, १७, ८, ११, ६.

२ज्योतिष्टोम-तन्त्र^०- -न्त्रः
निसू ९, ६ ३४, १०, १३ २१.

ज्यौतिष्टोम-दक्षि (या >)
ण^०- -णा. बौश्रौ २३, १९ . १२.

a) = महायज्ञ-। मलो कस । b) वैप १ द्र । c) विप । बस । d) विप । षस > बस >
बस > कस । e) षका वृत्ति इति रगा । f) वैप २, ३ खं द्र । g) = वेदाङ्ग-। अन् प्र (पा ५, २, १२७) ।
h) तु भारुणा प्रसू । षि- इति पाका. ? । i) = ज्यौतिषिक- । j) वैप १, १२९७ f, g द्र. । k) = ज्योतिः-
शास्त्र- । l) = क्रतु-विशेष- । m) विप. । तस्येदमीय प्र. । n) विप । तान्नभविक्तस्य प्र लुक् (पाम ४, ३, ६६) ।

३, -छे आश्रौ ३, ८, १, ८, ८, ६, वैगृ ६, १३ : ६, १४ : १, ४, शंघ २७०, -०छे असां १, २, ४, १, -छेन कौसू ८०, ४६ ज्यैष्ठिनेय^३ - पा ४, १, १२६, -यः आपश्रौ २२, १३, २१, हिश्रौ १७, ५, ४१, -यस्य काश्रौ २३, १, १५, आपश्रौ २, १९, ३, ६, ४, १, बौश्रौ ३, ४ १८, भाश्रौ ६, ९, १, २, वाश्रौ १, १, १, ४०, ५, २, १२, वैश्रौ २, २ ७, हिश्रौ २, २, १८, ३, ७, १९, गौघ २८, १५ ज्यैष्ठि^४ - छी विघ ९०, ११, -छया वैताश्रौ ३६, १२ ज्यैष्ठ^५ - छे अप ५५, ६, १ ज्यैष्ठ्य^६ - छयम् शाश्रौ १४, ३१, १, ङकाश्रौ, -छयात् हिश्रौ १०, ५, २५, ङ, -छयाय शाश्रौ १०, १६, २, ८, १५, २६, १, आपश्रौ, -छये शाश्रौ १५, २७, १०. ज्यैष्ठ्य-काम- -म. आपश्रौ १९, १४, ११, हिश्रौ २३, ३, ९, -मम् अप १, ४४, ६, -मस्य जुसू १, ६ २० ज्येष्ठ-ज्वन्य^७ - न्या आगृ ४, ४, १२ ज्येष्ठ-तम- -माय शाश्रौ १४, ३१, ३१ ज्येष्ठ-तस्र^८ आपश्रौ ६, ७, ८, अत्र

११, ३(१)† ज्येष्ठ-ता- -ताम् बौश्रौ १८, १४. १३ ज्येष्ठ-ताति- पा ५, ४, ४१ ज्येष्ठ-दक्षिण^९ - ग्ना. कौगृ ४, ४, १०^{१०}, शागृ ४, १८, ६ ज्येष्ठ-पुत्र-प्रसूत- -तस्य शंघ २८४. ज्येष्ठ-प्रथम^{११} - माः आगृ ४, २, ९, -मान् मागृ २, ७, ४ ज्येष्ठ-बन्धु- -न्धु. बौश्रौ १४, १८ २३, २४, १८, १४. १२; माश्रौ २, ३, ५, ३†, हिश्रौ ८, ४, ५† ज्येष्ठ-भार्या- -र्या वैध २, ११, २, -र्याम् शघ ३९७ ज्येष्ठ-भ्रातृ-> °तृ-इत्रसुर-पितृव्य- मातुल- -लान् कप्र २, २, ३-८ ज्येष्ठ-यज्ञ- -ज्ञ निसू ६, १२ १, -ज्ञम् निसू ६, १२ ३, -ज्ञे निसू ६, २ : १९, १२ : ४ ज्येष्ठ-राज^{१२} - राजम् वागृ ५, २२† ज्येष्ठ-लक्ष्मी^{१३} - क्षमीम् वावृश्रौ ३, १९ : ६† ज्येष्ठ-वत् वृदे ४, ११२. ज्येष्ठ-शब्द-त्व- -त्वात् मीसू ४, ४, ९^१ ज्येष्ठ-सामन्^{१४} - म्नः गोगृ ३, २, ४७, -म्नाम् बौध ३, १०, ११, गौघ १९, १३ ज्येष्ठसाम-ग^{१५} - ग^१ अप ४४,

२, ४, वाघ ३, १९, शंघ १९९; २००, आपव २, १७, २२, विघ ८३, ४, गौव १५, २८ ज्येष्ठसामिक^{१६} - क^१ बौध २, ८, २, हिघ २, ५, ५० ज्येष्ठ-स्तोम^{१७} - म. शाश्रौ १४, ३१, १ ज्येष्ठा(छ-अं)श- -श बौध २, २, ९, -शम् बौध २, २, १२ ज्येष्ठाश-हीन- -नम् गौघ २८, ३७ ज्येष्ठानाम्-अग्निष्टोम^{१८} - म बौश्रौ १८, २६ १, २६, ३३ १ ज्येष्ठा(छ-अ)भिव्याहार- -रे शाश्रौ १४, ३१, ५ ज्येष्ठा-यु(त>)ता- -ता विघ ९०, ११ ज्येष्ठा(छा-अ)वकाश^{१९} - शे बौगृ २, ८, ३० ज्येष्ठो(छ-उ)त्तर-कर^{२०} - रान् कप्र १, २, ९ ?ज्येष्ठद्यथ^{२१} हिश्रौ १७, ६, २७ ज्यैष्ठ-, °ष्ठिनेय-, °ष्ठी-, °ष्ठ्य- ज्येष्ठ- द्र ङज्योक्^{२२} आपश्रौ ५, ८, ८, १०, ८, ९; बौश्रौ, माश्रौ १, ६, ४, २१^२; वाश्रौ १, ५, ५, ७^२, पागृ ३, २, २^२, जैगृ २, ३ ६^२, पाग १, १, ३७ ज्योग्-आमयाविन्^{२३} - विन बौश्रौ १४, १९ : ३, वाश्रौ, -ङ्वी

a) वैतु सा [ता २०, ५, २], विद्यावर [काश्रौ २३, १, १५], MW <ज्येष्ठिनी- इति । b) = पौर्या-मासी- । c) = ज्येष्ठ-मास- । d) वैप १ द्र । e) पामे वैप २, ३खं छत्यै ऐत्रा ७, १८ टि द्र । f) विप । बस । g) उप. = सव्येतर- । h) °णापा° इति पाठः ? °णाः पा° इति द्विपद. शोघ. (तु शागृ) । i) °शब्दात् इति जीसं. । j) = साम-विशेष- । k) उप <√गै । l) सप्र °सामग <> °सामिक इति पामे । m) विप । तदर्धति इत्यर्थे ठन् प्र उसं (पा ४, २, ६३) । भक- इति Hul पामे । n) = एकाह- [याग-] । o) पूष. = अगारैकदेश- । p) विप । त्रिपदः बस । q) पाठः ? ज्येष्ठम्, अथ इति द्विपद शोघ. संभाव्येत । r) पामे. वैप १ परि. ?अुजीताः तै ५, ७, २, ४ टि द्र ।

आपश्रौ १९, २३, १०, बौश्रौ
१३, ६ ७××, माश्रौ
?ज्योक्ति^a- क्त्यै आपश्रौ १३, ३, १
ज्योना-, ण्ति-, ण्तिष्- ✓ज्युत् द्र
ज्योतिषा^b- षाया विध ८५, ३३
ज्योतिषिक- षी-मत्- ज्योतिस्-,
ज्योत्स्न- ✓ज्युत् द्र
?ज्योत्स्नस्य वाश्रौ ३, ४, १, ४३
ज्योत्स्ना- ✓ज्युत् द्र
ज्योन्ताक- पाउभो २, २, १४.
ज्यौतिष-, षिक- प्रम् ✓ज्युत् द्र
✓ज्जि पाधा भ्वा पर. अभिभवे,
चुरा उभ वयोहानौ, ज्रयति
निघ २, १४^c
✓ज्वल्^d पाधा भ्वा पर रोगे
ज्वर^e- पाग ५, २, ३६, ६, १, १९९,
-र कौस् १३, १२, अप ३६,
८, १, -रम् अप ५३, ५, १,
शध ११६ २१^f, -राय हिगृ
२, १९, ६^g, -रेण अप ३६,
१०, २
ज्वर-गृहीत- तानाम् बौगृ ३,
७, २७
ज्वर-ह(त>)वा- ताम् वैश्रौ
१२, १४ ६.
ज्वरा(र-आ)गम- मम् अप ६८,
२, ४०
ज्वरित- पा ५, २, ३६
✓ज्वल् पाधा भ्वा पर दीप्तौ,
ज्वलते अप २९, २, १××,
ज्वलति आपश्रौ १६, ११, २,
भाश्रौ, ज्वलन्ते अप ६७, ४, २,
ज्वलन्ति अप ७०^h, २१, २, ७०ⁱ,
११, ७, ज्वलतु जैश्रौका २१५,

भागृ २, ३१ १^j; ज्वलेयु
अप ७१, १९, ५
ज्वलिष्यन्ति पावा १, ४, २३
ज्वलयन्ति आपश्रौ १३, १५, ४,
अप ५८^k, १, ४, ज्वलयेरन् बौश्रौ
२६, १२ २३
जाज्वलयमान- नम् या ५, ३
ज्वल- पा ३, १, १४०
ज्वलत्- लत् हिश्रौ ३, ७, ४७^l,
-लतः आश्रौ २, ५, ९, ३, १२,
९, आपश्रौ, -लता आश्रौ २,
३, ७, आपश्रौ ६, ६, ६, आपगृ
१, २२, -लताम् अप ७०^m,
२०, ५, -लति माश्रौ १, ३, १,
५, वाश्रौ ३, ३२ १, -लत्सु
काश्रौ १६, २, ११, बौश्रौ २३,
९. ७, -लन् वैश्रौ २, ६ ९,
आपध २, ६, ३, हिघ, -लन्तम्
आश्रौ २, २, १, काश्रौ.
ज्वलन्ती- न्तीम् माश्रौ १, ६,
१, ३६, वाश्रौ १, ५, २, ३४,
बौध २, १, १३, विध; -लन्त्यः
आपध २, २४, १३, हिघ २, ५,
१७७, -न्त्याम् आपश्रौ ६,
१०, ३, हिश्रौ ३, ७, ६३, गोगृ
४, ८, १६.
ज्वलति-> ण्ति-कर्मन्- म्गः या
२, २०, ६, १, १३, ८, ११, ११,
३९, -र्मणि निघ १, १६, या
२, २८
ज्वलनⁿ- पा ३, २, १५०; -नं
अप १, ३७, १, अशा ७, १; -नम्
अप ६४, ३, ९, ७०^o, ११, १८,
मीस् १०, १, ५७; -नाणि अप

६४, ६, ३, -ने अप ७१, १, ५;
-नेन या ६, २५
ज्वलन-क्रिया- पावा १, ४, २३.
ज्वलन-च्छ(व>)वा^p- वा अप
५०, ९, २
ज्वलन-मरण-काल-वृद्ध-योग-
-गान् अप ६८, ३, ११
ज्वलन-रवी(वि-इ)न्दीवर करण्ड-
तपनीया (य-अ) कौदिय-हरिताल-
नीलोत्पल-घृन-मधु-बन्धुजीवक-
जपापुष्प-किञ्चुक-राशि-
सनिका(श>)शा- -शा अप
६५, २, १
ज्वलन-वहन- नौ मागृ १,
१०, ७
ज्वलना(न-अ)र्क-सम- म वाध
२७, ९
ज्वलयत्- -यन्तः बौश्रौ २, १६ :
५, १०, १९. १४
ज्वलित, ता- -तः या १, १७, -तम्
अप ६८, ५, १, -ताम् आपध
१, २५, २, हिघ १, ६, ७६, -ते
द्रागृ ४, ३, ४, अप ७०, ७, २.
ज्वलिता(त-अ)न्नर-कुण्ड-
-ण्डा शंघ ३७४
ज्वलिता(त-अ)ङ्गार-संका(श-
>)शा- -शा अप ५८^q, ३, ७.
ज्वाल, ला- पा ३, १, १४०; -ला
आमिगृ ३, ६, ४ : ८, बौषि १,
१३ ८, अप २३, १२, २××;
-ला अप ७०^r, ४, ४; -लान्
माश्रौ १, २, ३, २९, वाश्रौ १, ३,
१, २६, -लाम् वैश्रौ २, ५ : ६;
-लै- आपश्रौ १, २५, ९.

a) स्त्री नाप । अर्थ. व्यु च ? । < ज्योक् इति MW. । b) = नदी-विशेष- । व्यु. ? । c) गतौ
वृत्तिः । d) पा ६, ४, २० परामृष्टः द्र । e) = रोग-विशेष- । f) = ज्वराधिदेवता- । g) = व्याहृति-विशेष- ।
सप्र. आपश्रौ ६, ८, ३ पृथक् इति पाणे । h) भ वे कर्तरि च कृत् । i) रिप । कस. उप. छवि- + समासान्तः
अच् प्र. उर्स. (पा ५, ४, ७५) ।

ज्वाल-भार- -रै अप २४, ४, ४
 ज्वाला(ला-अ)प्र- -अै अप
 ७०^३, ३, २
 ज्वाला(ला-अ)इकुश-धर- -राः
 अप ५२, १३, १
 ज्वाला(ला-अ)द्भुत- -तानि
 अप ६९, ६, १
 ज्वाला-पिण्ड- -ण्डः याशि २,
 ९१, -ण्डान् याशि २, ९३
 ज्वाला-भङ्ग- -ङ्गम् अप ३६,
 ३, २
 ज्वाला-भार-विमर्षि(न्)णी-
 -ण्यः अप ५८^२, २, २
 ज्वाला-मा(ला)ल- -लाः अप
 ५२, ३, ५
 ज्वाला-माला(ला-आ)कुल-
 -लः अप २४, ३, ४
 ज्वाला-मुख-भयान(क)का-
 -का अप ३६, २५, ३
 ज्वाला-रूप- -पेण अप ७०^३, २, ३
 ज्वाला-विमु(चि)ची^६- -ची
 अप ७०^३, ११, ३०
 ज्वालयित्वा अप ३६, २५, १
 ?ज्वसेन^७ शाय ३, ८, ३

झ

झगिति झटिति टि द्र
 झञ्झा- पाठभो २, २, ९३.
 झटिति^८ पाग १, १, ३७^८
 √झर्झ^९ पाधा तुदा पर परिभाषण-
 भर्त्सनयो
 झर्झर- पाठभो २, ३, ३५
 √झष्^{१०} पाधा भ्वा उभ आदानंसव-

रणयो

ज

ज^{११}->ज-कार- -रः शौच २, १०,
 -रम् ऋप्रा ४, ६

ट-ठ

ट^{१२}->ट-कार- -रात् शौच २, ८
 टकार-नकार- -रयोः ऋप्रा ४, १७
 टकार-वर्ग- -र्गम् ऋप्रा ५, ११
 टकारा(र-आ)दि- -दयः याशि
 २०१
 टकारा(र-अ)न्त- -न्तम् उस्
 ७, २०, -न्तात् शैशि ३०७,
 -न्ते माशि १४, ३, याशि १,
 ६२, २, ३७
 टन-कार-पूर्व- -र्वः तैप्रा ५, ३३
 टवर्ग- -र्गं शुप्रा ८, १०, तैप्रा १४,
 २०, -र्गस्य शौच २, ३९, -र्गं
 तैप्रा २, ३७, भाशि ४१
 टवर्ग-पर- -र तैप्रा १३, ११
 टवर्गीय- -यम् उस् ५, १, -ये
 शौच २, १२
 टा(ट-अ)न्त- -न्तम् ऋत ४, ५, ४.

√टङ्क् पाधा चुरा पर बन्धने
 १टङ्क^{१३}- पाग २, ४, ३१
 २टङ्क^{१४}->टाङ्क- -ङ्कम् विध २२, ८३
 √टल् पाधा भ्वा पर वैकल्ये
 √टिक् पाधा भ्वा आत्म गतौ.
 टिक^{१५}-(> टैकेय- पा) पाग ४, १,
 १२३
 टिट्ठिभ- पाठभो २, २, २३४
 √टीक् पाधा भ्वा आत्म गतौ.

टीकाः हिश्रौ २२, ३, १९
 टेक^{१६}- -कः हिश्र २, ७, २१
 टोट- (> टी- पा) पाग ४, १, ४१.
 √ट्वल् पाधा भ्वा पर वैकल्ये
 ठ^{१७}->ठ-कार- -रेण याशि २, ८८.

ड

ड, ङ^{१८}-ळ, डम् तैप्रा १३, १६
 ड-कार- -र ऋप्रा १, ५२, शैशि १४;
 -रम् शुप्रा ३, ४५, -रस्य ऋप्रा
 १, ५१
 ड-ढ- -ढयो. शैशि २२, -ढौ शुप्रा
 ४, १४६
 ङ-कार- -र. ऋप्रा १, ५२;
 -रेण उस् ७, २०
 ङ-ळ- -ळद्वौ शुप्रा ४, १४६
 √डप्^{१९} पाधा चुरा आत्म. संघाते.
 डमर- पाठभो २, ३, ३९
 √डम् √डप् टि द्र
 डम्बर- पाठना ३, १
 √डम् √डप् टि द्र
 डहर- पाठभो २, ३, ३९
 डहल्^{२०}-(> डहल-पा) पाग ५, ४, ३८
 डाक^{२१}- (> डाकि(न्)नी- पावा.)
 पावाग ४, २, ५१.
 डामर- पाठभो २, ३, ३९
 डिकम् पाग १, ४, ५७
 डिण्डिम- पाठभो २, २, २५१
 डिण्डीर- पाठभो २, ३, ५०
 √डिप् पाधा दिवा तुदा पर क्षेपे;
 चुरा^{२२} आत्म क्षेपे, सङ्घाते
 √डिम् √डिप् टि द्र
 डिम्ब- पाठभो २, २, २२२

a) विप. । उस्. । b) पाठ ? पागे वैपश् अवसुम् मा ३, ६१ द्र । c) तु पागम । d) झगिति इति केचित् । e) √जर्झ इति [पक्षे] BPG । f) √जर्ष् इति [पक्षे] BPG । g) = वर्ण-विशेष- । ह>ळ इति ऋप्रा. प्रथ, ङ>ड इति तैप्रा. । h) = पाषाण-छेदन- (तु. पागम) । व्यु. ? । i) = कपित्थ-विशेष- । व्यु. ? । j) = बालप्रह-विशेष- । व्यु ? । k) √डम्, √डम् इत्यधिकः BPG । l) ड्क-> ड्कनी- इति [पक्षे] भाण्डा. । m) √डिम्, √डिम् इति [पक्षे] BPG. ।

√डिम् √डिप् टि द्र

√डी पाधा भ्वा दिवा आत्म विहाय-
सागतौ, डीयते निघ २, १४५डुपद्- (> डौपदायनि- पा) पाग
४, २, ८०

डुमल- पाउभो २, ३, १२०

डुल-> डुल्य- पा) पाग ४, २, ८०

डूक-> डूकिर-> [नी-]टाक-टि द्र

ढ

ढ, ळ्ह- > ढ-कार- -र ऋप्रा १, ५२

ढ्हकार-ता- -ताम् ऋप्रा १, ५२

ढ्ह ळ-जिह्वामूलीयो (य-उ)पध्मानी-

य-नासिक्य- -क्या शुप्रा ८, ३५

√ढौक् पाधा भ्वा आत्म गतौ

ण

ण- > ण-कार- -र शौच २, १२,

-रम् शुप्रा ३, ८४, तैप्रा ७, १,

१३, ६, -रस्य माशि १४, ३,

-रे माशि १४, ३, -रेण शैशि

७१, याशि २, ८९

णकार(र-ऋ)कार- -रौ शुप्रा १,

८८

णकार-षकार(र-आ)देशा(श-

आ)दि- -दे पावा ६, १, १, ४,

१२०

ण-य- -यौ अप्रा ३, २, २३

त

श्त्व- > त-स्-ल- -लाः ऋत २, १, ७

२त्व- पि १, ५

श्त्व- > त-कार- -र ऋप्रा ४, १०,

शुप्रा ४, १३, तैप्रा ५, २२, ३३,

अप्रा, -रम् ऋप्रा ४, १७,

-रस्य शौच २, १३, -रात् ऋप्रा

१२, २, -रे ऋप्रा ५, ३१, शुप्रा

३, ८०, याशि १, ६२, पावा ७,

२, ४८, ३, ३२, -रेण शौच २,

८, -रौ माशि १४, १

तकार-नकार- -रयोः शुप्रा ३,
१११

तकार-पर- -र तैप्रा ६, ५, १४

तकार-वर्ग- -र्ग ऋप्रा १, ४४,

५, ११, शुप्रा ४, ९६

तकार-सकार- -राभ्याम् शौच
४, ४७

तकारा(र-आ)दि- -दयः याशि

२, १, -रौ शौच २, ८३, ४, ६१

तकारा(र-अ)न्त- -न्त अप्र

३४, १, २, -न्तम् अप्रा १, १,

२, -न्तानि अप्रा २, ४, १८, ३,

२, ३, -न्ते अप्रा २, ४, १५,

माशि ४, १०, १४, ४, याशि २,

३५, ३९

तकारा(र-आ)बाध- -धे अप्रा २,

३, २१, ३, १९

तकारे(र-इ)स्व- -त्वम् पावा १,

२, १७

त-च- -चयो शैशि २२१

त-त्व- -त्वे पावा ७, ४, ४७.

तत्व-निपातना(न-आ)नर्थक्य-

-क्यम् पावा ६, ४, १७४

तत्व-प्रतिषेध- -धस्य पावा ६,

४, १७४

त-थ- -थयो शुप्रा ३, ८, १३५,

-थौ शुप्रा ३, ७९, शैशि ३०८

त-पर- -रः पा १, १, ७०, भाशि

८२, -रम् पाप्रवा ६, १, -रे

उसू ५, २

तपर-करण- -णम् पावा ७, १,

९०; पाप्रवा १, १४, -णे पावा

१, १, ७०, ४, १०९

तपर-निर्देश- -शात् पावा १, १,

६९, २, २७, ८, ४, ६८

तपरो(र-उ)चारण- -णम् पाप्रवा

४, १

तपरो(र-उ)पदेश- -श पाप्रवा
४, १

त-म- -मौ अप्रा ३, २, १४

त-य-कार- -रयोः उसू ८, ३

त-लोप- -य शुप्रा ३, ५२, पा ४,
३, २२ पावा ६, १, ६७, -पस्य

पावा ६, ४, १०४, -पे पावा १,

१, ६३

तलोप-वचना(न-आ)नर्थक्य-

-क्यम् पावा ४, ३, २२

त-वर्ग- -र्ग शुप्रा ८, ११, -र्गस्य

अप ४७, २, १, -र्गौ शुप्रा ३,

९३, तैप्रा २, ३८, अप्रा ३, ३, ३-

तवर्ग-पर- -रः तैप्रा १४, २०

तवर्ग प्रतिषेध- -धः पावा १,

३, ४

तवर्गीय- -यम् उसू ५, १, -यस्य

शौच २, १५, -यात् शौच २, १७.

त-वर्ण-लोप- -पः अप्रा १, २, १६.

त-स- -सौ अप्रा ३, ३, २१

त-स-वर्ण- -र्णम् याशि २, ४१.

ता(त-आ)दि- -दे पावा ६, ४, १४९,

-दौ ऋत ५, २, १०, पा ६, २,

५०, पावा ६, २, ५०, ८, ३, ४१,

१०१.

ताद्य(दि-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६,

२, ५०.

तो(त-उ)प(धा>)ध- -धात् पा

४, १, ३९.

२त्, ता- तद्- द्र

√तस् पाधा. भ्वा. पर., चुरा उभ.

अर्लकारे, ऋतस्यत् आश्रौ १०,

a) तु. पाका. । हुपद्- इति भाण्डा. । b) =वर्ण-प्रतिषेध- । ढ> ळ्ह इति । c) =तगण- ।

d) विप. । बस । e) विप. । पंस. वा बस. वा । f) तु. BPG. ।

८, १०, शाश्रौ १६, ४, १, तैप्रा
१६, १३, भाशि ६१.
√तक्^१ पाघा. भ्वा पर हसने, तक्त्ति
निघ २, १४^१, या ६, २२^२
तक्त्तुम् या २, ३
तक्त्त- पावा ३, १, ९७
तक्त्तन्^३- क्वा अप ४८, ८३, निघ
३, २४.
तक् पाग १, ४, ५७
तक्त्- तद्- द्र
तक्त्करी^४- नीम् आपश्रौ ९, १९, ३,
बौश्रौ १४, १४. २०, वैश्रौ
२०, ३७. ७, हिश्रौ १५, ८, १७
तक्त्कार- प्रभृ. १त- द्र
तक्त्किला- पाउवृ १, ५७
तक्त्कोल- पाउनावृ १, ६३
तक्त्कमन्^५- क्म अप ४८, ८७, निघ
२, २, या ११, २५^६, -०क्मन्
अप्रा ३, ३, ३, -क्मा अत्र
११, २, -क्मानम् कौसू २९,
१८, अप ३२, १, ७, अत्र ५,
२२, अप २ ५०
तक्त्कमनाशन^६- न अप ३२, १, ७,
-नम् अत्र ५, ४, २२, -नानि
अप ३२, १, ७
तक्त्कमनाशन-गण- गणस्य अत्रभू
२
तक्त्कमनाशन-देवता- > ०वत्य-
-त्यम् अत्र ५, २२
तक्त्कमा(क्म-अ)पबाध- -धाय
अत्र ५, २२^७
तक्त्क^८- पाउ २, १३, पाग ७, ३, ५३^८,
-क्म शघ १४०, १८१; -क

पाशि १९, -क्रीं शैशि २२८
√तच्^९ पाघा भ्वा पर तन्करणे,
त्वचने, तक्त्ति आपश्रौ १४, ५,
८, वाश्रौ १, ६, १, १५, कौसू ८,
१२, तक्षत् सात्र १, ५३७^९,
तक्त्तन् आश्रौ ५, १८, ५, शाश्रौ
८, ३, १४, तक्षत्^१ या ४, १९^१,
अतक्षन् शाश्रौ ८, २०, १^२^१
तक्ष्णोति हिश्रौ ४, १, ३०,
तक्त्तयु लाश्रौ ८, ८, १०
तक्त्तक्ष कौसू ७६, ३२, अत्र
११, ५, १४, २, तत्क्षु वृदे ३,
८७^१, या ६, २७^१, तत्क्षथुः
या ४, १९, तक्षथुः या ४,
१९^१^१
तक्त्तयति वैश्रौ १०, २ ८, तक्ष-
येत् अप १, ९, १०
तक्ष^२- > तक्ष-क^३- पाउ २, ३२,
-०क आपम २, १७, ९, -तकः
बौश्रौ १७, १८ ३, बौगृ ३,
१०, ६, वैघ ३, १४, १०^४,
अत्र ८, १० (४), १४, -तकाय
कौगृ ४, ४, ९, सागृ ४, १८,
३, भागृ १, ८. २, कौसू २८,
१, २९, १, ३२, २०, ५६, १३.
तक्षक-देवता-> ०त्य-
-त्यम् अत्र ४, ६, ५, १३, ७, ८८
तक्षक-दैवत- -तम् अत्र ६,
१२, १०, ४
तक्षका(क-अ)न्त^५- -न्तम्
विघ ५१, ८
तक्ष-शिला^६- पाग ४, २, ८२,
८६, ३, ९३

ताक्षशिल- पा ४, ३, ९३.
तक्षशिला-वत्- पा ४, २,
८६
तक्षो(क्ष-उ)पतक्ष- -क्षाम्याम्
कागृ ५४, २, कौसू ७४, ८, विघ
६७, ५^१
तक्षण- -णम् काश्रौ २२, ६, १०;
बौघ १, ५, २९, सुघ, -णात्
शंव १६४, वैघ ३, ३, ११;
-णानाम् हिश्रौ ४, १, ३६^२;
-णेन विघ २३, ४, २७.
तक्षण-शस्त्र- -स्त्रम् भाश्रौ ७,
१, ३
तक्षत्- -क्षत्. विघ ९६, २३, -क्षन्
ऋत्र २, १, १११^३
तक्षती- -ती या ११, ४०^४^३
तक्त्तन्^५- पाउ १, १५६, पाग ४,
१, ४१, ११२, १५१^०, पागवा
४, २, ९१, ६, ४, १५३, -क्षभ्यः
आपश्रौ १७, ११, ४, -क्षा
आपश्रौ ७, १, १३, ९, ९^१, बौश्रौ;
शुत्र १, १७५^५, या १, १४;
-क्षान् बौश्रौ १५, १३ १४;
-क्षान् बौश्रौ ४, १ १३;
-क्षण आपश्रौ १८, १०, १९;
बौश्रौ, पा ५, ४, ६५, पावा ४,
१, १५३, -क्षणम् वाघृश्रौ ३,
७६ ४, -क्षण शाश्रौ १६,
११, ११, -क्षणे हिश्रौ ४, १,
१०.
तक्षणी- पा ४, १, ४१.
१ताक्षण- पा ४, १, ११२;
पावा ४, १, १५३

a) या ११, २५ परामृष्ट द्र । b) गतौ वृत्ति । c) वैप १ द्र । d) व्यु पाभे. च वैप १, १४०१८, f
द्र । e) ंधयो इति पाठः? यनि शोधः । f) = उदरिवत्- । व्यु ? < √तन्च् इति पाउ । g) तत्र- इति
[पत्ते] भाषण्डा. । h) या ४, १९ पा ३, १, ७६ पावा ३, १, २६ परामृष्ट द्र । i) करणे वृत्ति । j) = वर्षोत्सङ्कर-
विशेष- । k) पूष. = वर्षकि- । l) = नगरी-विशेष- । पूष अर्थ. ? । m) मह्योपमह्याभ्याम् इति जीसं. ?
(द्र. काय प्रभृ.) । n) = काष्ठ- । o) द्र. पागम. । p) = ऋषि-विशेष- ।

रता(हण >)क्षणी^a-
 -क्षणीनाम् शाश्रौ २,३,१४
 ताक्षण्य- पा ४,१,१५१
 तक्षकीय- पा ४,२,११
 ताक्षक- पा ६,४,१५३
 तक्ष रथकार- -रयो आपश्रौ
 १८,१०,१७, हिश्रौ १३, ४, ८,
 -रौ हिश्रौ १३,४,८
 तक्षणवत्- -वन् या ५,२१
 तष्ट- -ष्टस्य वाश्रौ १,६,३,१४, -ष्टे
 आपश्रौ ११,१३, १, हिश्रौ ७,
 ६,२८, -ष्टेषु या १३,१३[†]
 तष्टृ- ऋषा आश्रौ ७,४, ९, शाश्रौ
 १२,५,३, ऋष २, ३, ३८, या
 ५,२१
 तगर^b- पाउभो २,३,३९^c, पाग ४,
 ४,५३, -रम् अप ३५,१,१४,
 २,३,९
 तगरिक- पा ४,४,५३.
 तगरो(र-उ)शीर- -रेण कौस् १६,१
 √तङ्क् पाधा भ्वा पर कृच्छ्रजीवने
 तङ्क- पाग २,४,३१
 √तङ्ग् पाधा भ्वा पर गतौ
 तङ्ग(ण>)णा- पाउभो २,२,१२४
 तच्च- १त- द्र
 √तञ्च् पाधा भ्वा पर गतौ,
 रुधा पर संकोचने^d
 √तञ्ज् √तञ्च् टि द्र
 √तट् पाधा. भ्वा पर उच्छ्राये
 तट^e- पाउनावृ ४, ११६^f, पाग ४,१,

४१, ५,२,१३५
 तटी- पा ४,१,४१
 तटि(न्>)नी- पा ५,२,१३५
 तटाक^g- पाग २, ४, ४१, -कम्
 आमिगृ २,५,११ : ६, -के वैगृ
 ४,१० ११
 तटाक कल्प- -ल्पम् आमिगृ २,
 ४,३ १
 तटित्^h- पाउना १,९५ⁱ
 √तड्, ळ पाधा चुरा उभ आघाते,
 भाषायाम्, ताडयति आमिगृ
 २, ४, ९ १४, या ३, १०,
 ताडिह निघ २, १९[†], ताड-
 येत् आमिगृ २, ४, ७ ११,
 विघ ५,१०५,७१,८१
 ताड्यन्ते विघ ४३,३८,४२
 तडि- पाउ ४,११८.
 ताड->ताड-घ- पा ३,२,५५
 ताडन- -नम् शंघ ३१३, वैघ ३,
 ३,७
 ताड्यमान- -ना विघ ४३,३७
 तड- २तलु- टि द्र
 शतडाक^k-(>ताडाक- पा)पाग ४,
 १,११२
 २तडा(क>)का- पाउ ४,१५
 तडाग^l- पाउभो २, २, ५८, पाग २,
 ४,३१, -गम् अप ७१,१२, ५,
 -नानाम् अप ७०[†], ७, २२, -नो
 अप ४२, १, २, ३, वैघ २,
 १३,८

तडाग-कर्तु- -र्तु अप ४२,१,३.
 तडाग-कूप- -पान् अप ६५,२,५.
 तडाग-कृत- -कृत विघ ११,२
 तडागा(ग-आ)राम-कूप- -पानाम्
 अप ६८, २, ३०
 तडि- √तड् द्र
 तडित्^m- पाउ १,९८, -डित् ऋष
 ४८, १९, ७३[†], ऋषिघ २,१६;
 १९, या ३,१०, ११[†][†].
 तडित्-प्रकाश- -शो विव ९९,९.
 तडुल- पाउना ५,८
 तणाधीतासम्ⁿ वाश्रौ ३, ३, ३,
 १३
 √तण्ड् पाधा भ्वा आत्म ताडने
 तण्ड^o- पाग ४,१,१८, १०५
 ताण्ड्य- पा ४, १, १०५, पाग
 ४,३,१०४,१०६[†], -ण्ड्य जैश्रौ
 १ : १८
 ताण्ड^p- -ण्डम् लाश्रौ ७,
 १०,१७
 ताण्डक^q- -कम् आपश्रौ २१,
 १६, ५, १४, हिश्रौ १६, ६, २,
 ऋष २,७,३२, अञ्ज २०,७९
 ताण्डित्^r- पा ४,३, १०४,
 १०६, -ण्डिन आपश्रौ २४,
 १०, १८, हिश्रौ २१, ३, १८,
 उनिसू १,४२,४९,८,२९,पिं ३,
 ३६, -ण्डिनाम् बौश्रौ २६:२.
 ताण्डिनाम्-अयन्^s- -नो
 बौश्रौ २३,१९ ३५

a) = इष्टि-विशेष-। तस्येदमीय अण्। b) = सुगन्धिद्रव्य-विशेष-। व्यु ?। c) <√तङ्ग् इति।
 d) √तञ्ज् इति [पक्षे] BFG। e) = तीर-। व्यु ?। f) <√तन् इति। g) = जलाशय। व्यु ? <
 तट- + √अक इति अमा। h) = तडित्-। व्यु ?। i) <√तट् [आघाते] इति। j) लटि मपु१ इति दे।
 k) व्यप। व्यु ?। l) = जलाशय-। व्यु ?। m) वैष १ द्र। n) पाठः ? तृण- + अधी-धास- (भाष
 < अधि/ धास [धारणे]) > बस > °धा(स >)सा- (विप [आसन्दी-]) -साम् इति शोध-। o) = ऋषि-
 विशेष-। व्यु ? √तण्ड् + अच् प्र इति (पाका ६, २, ३७)। p) = ताण्डक-। अण् प्र. उसं इति ततो विशेष-।
 q) = ताण्ड्य-ब्राह्मण-। तस्येदमीय- बुञ् प्र यलोपश्च (पा ४,३,१२६, ६, ४,१५१)। r) = ताण्ड्य-शाखिन-।
 s) = सत्र-विशेष-।

ताण्डि-भाल्लविन्-
-विनाम् नाशि १, १, १३, भास्
३, १५
ताण्ड्याय(न>)नी- पा ४,
१, १८
तण्डक^a- पाग २, ४, ३१
तण्ड-वतण्ड- पा, पाग ६, २, ३७
तण्डि^b- णिड बौश्रौप्र ३१: २३
तण्डिन्^c- (>ताण्डिन्य- पा)
पाग ४, १, १०५
तण्डु- पाठभो २, १, ५१
तण्डुल^e- पाठ ४, १०७, ५, ९, पाग
२, ४, ३१, ५, १, ४, -ल अशा
१२, १, -लम् आमिग २, ३, ३
१८, ५, २, २४, -ला आपश्रौ
१, ८, ५×५, बौश्रौ, -लान्
काश्रौ २, ५, ६, १५, ३, २८, २५,
४, ३८, आपश्रौ १, २०, ११, २१,
२१^d, ××, बौश्रौ, -लानाम्
बौश्रौ २६, ६ ६, भाश्रौ, -लेन
वैग ४, २ २, -लेषु भाश्रौ १,
२१, ८, वैश्रौ, -लै काश्रौ ४,
१५, २३, आपश्रौ
तण्डुल-किण्व- पाग २, २, ३१
तण्डुल-चर्मन्^f- -र्माणि बौश्रौ १५,
१६ ३
तण्डुल-प्रक्षालन- नम् बौश्रौ १,
६० ३०, भाश्रौ १, ०२, १२
तण्डुल-प्रक्षेप- न्य अप ३६, १९, १
तण्डुल-भाव- वात् मीस् ५, २,
१५
तण्डुल-भूत- -तेषु आपश्रौ ९, ४,
८, ११, मीस् ६, ५, १६

तण्डुल-मिश्र- -श्रम् कौस् २२, ७
तण्डुल-सपात- -तान् कौस् २१, २४
तण्डुला(ल-आ)दि- -दि कप्र ३,
५, ३
तण्डुला(ल अ)पनय- -य काश्रौ
२५, ४, ४१
तण्डुला(ल-अ)भाव- -वात् अप्राय
५, ३, -वे आपश्रौ १, १४, २
तण्डुलीय-, -लय- पा ५, १, ४
तत्- √तन् द्र
श्तत्^e- पाग ५, ४, ३८^d, -न्त
आश्रौ २, ६, २४, शाश्रौ, -तः
या ६, ५^f, -तस्य कौस् ८८,
१०, -न्ता पाग १, ५, १०,
कौस् ८८, २४, -न्ता आमिग
१, ५, २ ३४^f, -तान् अश्र ५,
२४, -न्ताय बौश्रौ २, १०
२१, आमिग ३, १, ३ २४, २, ३
१४, -ते आपश्रौ २१, १९, १५
तात- पा ५, ४, ३८
रतत्-, ततन- प्रमृ √तन् द्र
ततस्() तद्- द्र
ततामह^g- -हस्य कौस् ८८, ९, -हा
पाग १, ५, १०, कौस् ८८, २४,
अप ४६, ५, ५, अश्र ५,
२४, अप्रा ३, ४, १, -न्हा
आमिग १, ५, २: ३४, कौस्
८८, २५
तति- √तन् द्र
ततुरि- √तृ द्र
ततृषाण- √तृष् द्र
तत्तन्त अप ४८, १०७^f
तत्त्व^h- -त्वम् पावाग ४, २, ३७ⁱ,

अप ५१, १, १, ६८, १, ५५;
वृदे ८, १३०, मीस् १, ३, २७,
९, ३, २९, १०, २, ७२, -त्वात्
या १, २, -त्वेन अप २६, १,
१, ७१, २, ३, वृदे ३, ३९;
माशि १५, ३, १६, १६, -त्वे:
विध ९७, १
तत्त्व-चिन्तक- -कै विध ९७,
१५
तत्त्व-ज्ञ- -ज्ञै अप ५२, ६, ४
तत्त्व-तस्() अप ३९, १, १, ६८,
३, १, २, वृदे ३, १३४, ४, ४७;
आज्यो १४, ११
तत्त्व-दर्शिन- -र्शिभि हिपि १९ ३;
ऋश्र ४, ११, वृदे १, १०
तत्त्वा(त्त्व-आ)ख्यान- -ने पावा ३,
२, १२६
तत्त्वा(त्त्व-आ)त्मन्- -त्मानम् विध
९७, १७
तत्त्वा(त्त्व-अ)र्थ-चिन्तक- -का:
याशि १, ६०
तत्य- √तन् द्र
तत्त्र^k, तत्रते अप ४८, ९^l
तत्र तद्- द्र
तत्रु- पाठभो २, १, २०
तत्त्व- १त- द्र
तत्त्वञ्जीति-, तत्त्वाय √तन् द्र.
त-थ- १त- द्र
तथा तद्- द्र
तथा पूत ह्यातन वैग १, ९ ४^m.
तद्-
रत,ता- तम् आश्रौ १, ३, २२;
शाश्रौ १, १, २१, आपश्रौ १,

a) = प्रत्य-विशेष- (तु. पागम) । तेन प्रोक्तमित्यर्थे वुन् प्र. उस् (पा ४, ३, १०१) । b) व्यप.
व्यु ? । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । d) तु पागम । e) वैप १ द्र. । f) तु इति पाठः ? यनि.
शोध । g) उप = [चर्म-मय-] मान-पात्र- । h) वैप ३, ३३९ d द्र । z) तु पाका. ।
j) विप । बस । k) धा अर्थ. ? । l) पाठ. ? अक्षानहो नह्यतन (ऋ १०, ५३, ७) इति U.
समाधायुक. ? ।

३,८, २,१३,१, बौधौ १०,१ :
 १२, भाश्रौ, हिगृ २, १३, १^३फ^३,
 पा ५, १, ८०, तम्स्तम् बौधौ
 २५, ३० ५, वैताश्रौ ३४, १,
 आपशु ७, २, तथा आश्रौ २,
 २, ४^३फ^३, ३, २५, शाश्रौ २, ६,
 ७^३फ^३, आपश्रौ १, २, २, ६, १,
 ८^३फ^३, माश्रौ, हिगृ २, ११,
 १^३फ^३, तयो आश्रौ १, ५,
 ७, आपश्रौ, पा ५, ३, २०, ८,
 २, १०८, पावा ३, ३, १३२, ५,
 ३, २०, तयो ऽतयो ऋप्रा ११,
 ५८, तस्मान् आश्रौ २, २, ३^३फ^३,
 आपश्रौ, तस्मिन् आश्रौ १, ७,
 ७^३फ^३, काश्रौ, तस्मै आश्रौ १,
 ११, १५^३फ^३, शाश्रौ ९, २८, ३^३फ^३,
 आपश्रौ, आपम २, ११, २^३फ^३,
 शागृ १, २२, ८^३फ^३, तस्मैऽतस्मै
 आश्रौ २, ६, १६, मागृ २, ९, २,
 तस्य आश्रौ १, १, ८, काश्रौ,
 हिगृ २, ११, ४^३फ^३, कौसू ११७,
 ४^३फ^३, तस्यऽतस्य काश्रौ १७,
 ५, २१, आपश्रौ १, २३, ४, हिश्रौ
 ९, ८, ३८, ४०, ११, ७, ६२^३,
 अप ६८, १, ५१, तस्या आश्रौ

१, ७, ८, शाश्रौ १८, २२, ७^३फ^३,
 आपश्रौ, या ११, ४१^३फ^३, तस्याम्
 आश्रौ २, १, ३३. आपश्रौ,
 तस्याम्ऽतस्याम् अप ६४, २,
 ६, तस्यै आश्रौ १, १०, ८^३फ^३,
 आपश्रौ, तस्यैऽतस्यै आश्रौ ३,
 १३, १४, बौधौ २७, ३ : १०,
 आगृ १, १०, ६, ता आपश्रौ
 १३, १८, २^३फ^३, माश्रौ १, ८, २,
 १८^३फ^३, आपम १, ६, १२^३फ^३, या
 २, ७^३फ^३, १४, २०^३फ^३, २३, ऋप्रा,
 ताऽता शाश्रौ १२, २१, १-६^३फ^३,
 ता आश्रौ १, २, ८, आपश्रौ,
 कौगृ ५, ३, ३१^३फ^३, अप्राय २,
 ९^३फ^३, ताऽत् शौच १, १०५^३फ^३,
 तान् आश्रौ १, ३, १५, २, ६,
 २^३फ^३, ५, ५, २१, आपश्रौ, लाश्रौ
 ९, १०, १२^३फ^३, बौपि ३, ५, २^३फ^३,
 तानि आश्रौ २, १०, १६^३फ^३, शाश्रौ,
 तानि आपश्रौ ४, ४, ४^३फ^३, हिश्रौ,
 आपमं २, २२, ७^३फ^३, ताभ्य.
 आश्रौ ५, १, २, वाश्रौ, ताभ्याम्
 आश्रौ २, ४, २१, काठश्रौ, या
 ७, २३, पा ७, ३, ३, ताम्
 आश्रौ १, ८, ७^३फ^३, आपश्रौ, पागृ

३, २, २^३फ^३, ताम्ऽताम् आश्रौ १,
 २, १७, ऋप्रा १७, २४, तासाम्
 आश्रौ १, ६, १, आपश्रौ, तासु
 आश्रौ ५, १, १५, लाश्रौ, १ते
 शाश्रौ १, ३, ५, १०, १५, २^३फ^३,
 काश्रौ, आपश्रौ ७, १०, ८^३फ^३,
 दाश्रौ ९, १, १६^३फ^३, लाश्रौ ३,
 ५, १५^३फ^३, तेन > ना आश्रौ ३, ४,
 १२, शाश्रौ १, १, ८, ५, ८, ४^३फ^३,
 आपश्रौ, वैश्रौ १६, ७-६^३फ^३,
 आपम २, १४, ५^३फ^३, आगृ ६,
 १५, १२^३फ^३, पागृ १, १६, ६^३फ^३,
 तेनऽतेन आपश्रौ १३, ६, ४, हिश्रौ;
 ऋतेभि आश्रौ ३, १४, १०^३फ^३,
 काश्रौ, कौगृ १, १२, ६^३फ^३, शागृ
 १, १९, ६^३फ^३, तेभ्य आपश्रौ ३,
 ४, ३, काठश्रौ, तेषाम् आश्रौ २,
 १४, ३, काश्रौ, शागृ १, १९, ७^३फ^३,
 तेषु आश्रौ २, २, १६, ५, १७^३फ^३,
 आपश्रौ १, १२, १, ६, २७, ५^३फ^३,
 बौश्रौ, लाश्रौ ९, १०, ९^३फ^३,
 १०^३फ^३, आपम १, ८, २^३फ^३, मागृ^३फ^३,
 १४, ६, २, ११, १७, हिगृ १, २९,
 २^३फ^३, तेषुऽतेषु बौध ४, १, १;
 २, १, तै. आश्रौ २, १, २, आपश्रौ;

a) सपा तम् <> त्वम् इति पामे । b) सपा तथा <> त्वया इति पामे । c) पाठः ? त्वया
 इति शोध (तु आपमं २, १९, ७, Old च) । d) पामे वैप १, १४१२ J द्र । e) द्विः तस्य इति पाठः ?
 तस्याः इति शोध (तु C, Boht [ZDMG ५२, ८७]) । f) पामे वैप १, १४१४ f द्र । g) पामे वैप १,
 १४१५ J द्र । h) सपा सत्या, ता <> सत्यादा इति पामे । i) पामे वैप १, १४१६ g द्र । j) पामे. वैप
 १, १४१७ g द्र । k) वैप १, १४१६ h द्र । l) शोधः वैप १, १४१७ I द्र । m) ंस्था इति पाठः ? यनि.
 शोध (तु तैआ ६, ३, २) । n) सकृत् ता इति पाठः ? यनि. शोधः । o) शोधः पृ ३७ e द्र । p) पामे.
 वैप १ त्वा मा २३, ५२ टि द्र । q) ता इति पाठ ? यनि शोधः (तु. B) । r) पामे. वैप १, १४२१ e द्र ।
 s) पामे. वैप १ त्वा तै ५, ७, २, १ टि द्र । t) पाठ ? तम् इति शोधः [तु C] । u) पाठ ? तेत् (=ता [आपः]
 इत्) कृण्वन्तु इषमूर्जं रायस्पोष तद्-विदे इति पादशोधः । v) पामे. वैप १, १०६६ a द्र । w) तेषु इति पाठ ?
 यनि. शोधः । x) पामे. वैप १, १४१४ d द्र । y) तेषुभि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. मै १, ७, १ । तै
 १, ५, १०, ४ तु तेषाम् इति पामे) । z) तेषुभि इति पाठः ? यनि शोधः । a¹) सपा. खि २, १०, ५ तैः इति
 पामे. । b¹) पामे वैप १ पुत्राणाम् शौ ३, २३, ३ टि. द्र । c¹) सपा. शागृ ३, ५, ३ अन्वेषु इति पामे. ।
 d¹) सकृत् तेषु इति पाठः ? यनि शोधः (तु. मा २२, ४९) ।

तौ आश्रौ १, ५, २९, आपश्रौ
 त(क>)का- पा ७, ३, ४५,
 -का. काश्रौ १३, ३, २६^१
 त-त्सु(०) आश्रौ १, ५, ३३,
 शाश्रौ, अप्राय २, ५^२ ५^३, तत ५
 ततः अप ५८^१, ४, १९
 ततो बृहतीक- -क. शाश्रौ
 ११, १२, १.
 तत्र, त्रा आश्रौ १, १, ३, शाश्रौ,
 मीसू ३, ७, २९, तत्रऽतत्र बौश्रौ
 १९, ६. ४, २६, ५ २५, वैश्रौ
 तत्र-ग्रहण- -णम् पावा ३,
 १, ९२
 तत्र-चक्षुर-मनस्^१- -ना
 गौध १, ५३
 तत्र-जाता(त-आ)दि- -दिषु
 पावा २, १, २४, ४, ३, २५
 तत्र-त्य^१- -त्यं शुभ्र ४,
 १२०, -त्येन वैध १, ११, २^१
 तत्र-प्रकरण- -णे पावा ४,
 ३, ५३
 तत्र-भत्र- -वेन पावा ४, ३,
 ३९, ५, १, ९६
 तत्र-वचन- -नम् पावा ३,
 १, ९२
 १तत्र-लोक- -क्वात् हिपि
 १८: २५
 तत्र-स्थ- -स्थ जैश्रौका ९,
 २०३, -स्थाः अप्राय ३, १०,
 -स्थै. जैश्रौका २१०
 २तथा आश्रौ १, ३, १९, शाश्रौ
 १, २, २८, काश्रौ
 तथा-काम- -मः निस् २,

४: १५
 तथा-कृत- तेन बौश्रौ १४,
 २७: ८.
 तथा(था-आ)कृति^१- -तिम्
 काशु ४, ३
 १तथा-केतु-वसुन्धरा^१-
 राम् अप ६८, २, २.
 तथा-गत- -तम् विध ७२,
 ६, -तात् ऋप्रा ३, १०
 तथा-गुण^१- -णा. आपध २,
 २६, ५, हिध २, ५, २००
 तथा-जात- -त बौध १, ५,
 १४२
 तथा-त्व- -त्वम् मीसू १, २,
 २३, ९, १, २८^१, १०, २, ३१
 तथा-दृष्ट-त्व- -त्वात् आश्रौ
 १२, ४, ११.
 तथा(था-अ)न्वय^१- -यम्
 आश्रौ २, १९, ५
 तथा(था-अ)पवर्ग^१- -र्ग
 बौध १, ७, २
 तथा भाव- -वात् मीसू ९,
 ४, २५
 १ताथाभाव्य^१- >
 २ताथाभाव्य^१- -व्य शुप्रा
 १, १२०, माशि ७, १०, ८, १,
 याशि १, ७७, ८५, ८६.
 तथा-भूत- -त याशि १, ८९,
 -तम् मीसू १०, ३, ४, -तस्य मीसू
 ९, ४, ३२, -तेन मीसू १०, ३, १०
 तथाभूत-विवक्षा- -क्षा
 मीसू १०, ८, ३३
 तथाभूतो(त-उ)पदेश-

-शः मीसू ९, १, ५३, -शात्
 मीसू ६, ३, १, ७, ३, ३४
 तथा-मित- -तम् वैश्रौ १६,
 १ १०
 तथा-मुख^१- -खाः आपश्रौ
 ८, ७, २०, वैश्रौ १६, २४. ७,
 -खै. गोग् ४, २, ५
 तथा(था-आ)यत- -तम् गोग्
 ४, २, ४
 तथा-युक्त, क्ता- -क्तम् ऋप्रा
 २, ३६, पा १, ४, ५०, -क्तान्
 शाश्रौ १३, १९, ९, १६,
 -क्तभ्याम् आश्रौ ३, १, १७,
 -क्तम् आपशु ५, ९, हिशु २,
 १८
 तथा-रूप^१- -पम् बृदे ५, ८७,
 ६, ९४, ८, ६२, -पान् बौश्रौ
 १५, १६ ७, लाश्रौ ९, १२, १२.
 तथा-लिङ्ग-दर्शन- -नात्
 मीसू ३, ८, २३^१.
 तथा(था-अ)वस्वा (त>)
 ता^१- -ता गोग् ४, २, १७
 तथा-वादिन्- -दी विध ५,
 २७
 तथा-वि(धा>)ध^१- -धम्
 विध ५८, १२
 तथा-श्रुति- -ते ऋअ ३
 १३
 तथा(था-आ)सीन, ना- -नस्य
 वैग् ३, १९ ३, -नाथाः वैग् ३,
 १२. ४
 तथा-सूर्य^१- -र्या बौश्रौप्र.
 ४१: १६

a) पामे. पृ ५९४ e द्र । b) भत इति पाठः ? यनि. शोघ (तु अप ३७, ५, २) ! c) अतव्य^० इति जीसं. । d) विप. । बस । e) भवार्ये^० त्यप् प्र (पा ४, २, १०४) । f) तत्रस्थेन इति O.। g) वा. ? । बस. > कस । h) तथा इति जीसं । i) बस वा किवि । j) स्वाथ प्यञ् प्र. । k) = स्वरित-विशेष- । मत्वर्थे अच् प्र. (तु. भाष्यम् [याशि १, ८५]) । l) दर्शनात् इति कालिसं. & ३३) व्यप. ।

तथा-स्वर^a- -रम् लाश्रौ ७,
१०,२०, -रा लाश्रौ ७,५,३
तदा आपश्रौ २२,७, २५, वैश्रौ,
पा ५, ३, १५, १९, तदाऽतदा
भाश्रु १,२५ १७
तदानीम् आपश्रौ ८, १३, १,
बौश्रौ, या १३, ४८, पा ५,३,
१९, पाग १,४,५७^b
तमुद्दहीय^c- -यात् शाश्रौ १०,
११,१३
तथा-देव(ता>)त^ad- -तम्
आपश्रौ १६,१४, १०, १५,१०,
बौश्रौ, -तेन आपश्रौ २४, ३,
१६, बौश्रौ २२,६ १३,१६
तथादेवत-सूदोहस- -हसः
बौश्रौ २२, ६ २०, ८:४,
-हसे बौश्रौ २२,४ २८
तर्हि आपश्रौ ६,२,९, बौश्रौ
तद्- पाठो २,१,२७०, पाग १,१,
२७०,४,५७, तत् आपश्रौ १,२,
१, शाश्रौ, ऋआपश्रौ^f ६,२२,
१, ९, १२, १०, भाश्रौ ५,
१२, ११^g, माश्रौ २,५, ५,१८,
जैश्रौ ८:३^h, हिश्रु १, ८, ३ⁱ,
तत्ऽतत् या ३,१०, १०,१७
तच्-चमस- -सान् काश्रौ २०,
४,२९
तच्चमस-ता- -ता आश्रौ ५,
६,२५
तच्-चर- -रम् वैश्रु २,२: १५.
तच्-चर्या- -र्या निश्रु ३, ३:
३४

तच्-चिकीर्षा- -र्षा मीश्रु ६,३,
१७,२७
तच्-चोदक- -केषु मीश्रु २, १,
३०
तच्-चोदना- -ना मीश्रु ८, ४,
१८
तच्-छक्ति-विषय- -ये आपघ
१,६,२८, हिघ १,२,५१
१तच्-छन्दस-> छन्दस्य^a-
-स्यानि निश्रु ५,५ ४,५
२तच्-छन्दस^a- -न्दस शाश्रौ
१५,९,४
तच्-छ [, छा^b]न्दस^a- -न्दसम्
जैश्रु २,८ १४, बौघ ३,९,९^m
तच्-छन्दस(क>)का- -काभिः
कप्र ३,८,२०
१तच्-छन्द- -न्दाⁿ मीश्रु ५,
३,५, -ब्दात् काश्रौ २४,४,१७.
ताच्छब्द- -ब्दम् पावा १,
२,४३, ४, ३, ६६, मीश्रु ११,
१,८, -ब्दात् मीश्रु ८,२,१
२तच्-छन्द- -ब्दात् काश्रौ
१४,१,२४
तच्छब्द-त्व- -त्वात् मीश्रु
७,३,३२, १०,४,३२
तच्-छमन- -नम् अप ७०,८,५
तच्-छिष्ट- -ष्टम् वैश्रौ १३, ३:
६, -ष्टेन वैश्रु ३,२२ ६
तच्-छील- -लम् शघ ३३३
ताच्छीलिक- -के पावा
४,१,१५
ताच्छील्य- -ल्ये पा ३,

२,११,७८,६,४,१७२.
ताच्छील्य-व्ययवचन-
शक्ति- -क्तिसु पा ३,२,१२९.
तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुका-
रिन्- -रिषु पा ३,२,१३४
तच्छीला(ल-आ)दि- -दिषु
पावा १,३,१०.
तच्-छुद्धि- -द्धये कप्र १,६,८.
तच्-छेष- -ष हिश्रौ १, १, ९;
मीश्रु १,४,१९, -षम् वैश्रौ ९,
०.२, जैश्रु १,१३ ९, -षेण
आपश्रौ २४, ३, ५४, कौश्रु ३,
१३,९, आमिश्रु २,४,१०. २०;
वौघ २,८,८
तच्-छमश्रु- -श्रुणा पावा ८,
४,६३
तच्-छापिन्^o- -पिण काश्रौ
२,५,१८, ७,६
तच्-छुत्- -तेन मीश्रु ६,६,१४
१तच्-छुति- -ति मीश्रु ६, ३,
२०, -तौ मीश्रु ७, ३, १, १०,
१,४०, ३,१६, ७,६८
२तच्-छुति^a- > छुति-त्व-
-त्वात् मीश्रु ६,७,२१, १०,८,
३४.
तच्-छूलोक- -केन पावा ८,४,
६३
तच्-ज- -जम् शंघ १६३.
तच्च-सन्न- -न्नानि अप
३६, २६,१
तच्-जघन- -नेन वैश्रौ १८,

a) विप । बस. । b) तु पागम. । c) = सूक्त-विशेष- । <तमुद्दही (ऋ ६,१८,१) । d) <तथा
दैवतया (तै ४,२,४,४) । e) <तन् इति पागम । f) पासे वैप १,१४३८ dं द्र. । g) पाठः ? तथा
इति शोधः (तु माश्रौ १,५,५,१६) । h) तद्ध (त्वद्धं मूले) इत्युभयविधः सामासिकः पाठः ? तद् (= तथा हि)
इति वर्चः इति च द्वे पदे पृथक् द्र । शेषं सत्यं वर्चस्वन्त् इत्यत्र द्र. । i) विप. । मवार्ये यत् प्र । j) विप.
(मामातान- [सामप्रगाथ-]) । k) जैश्रु पाठः । l) तस समासान्तषु टच् प्र (पा ५,४,१०३) । m) छ्व
इति मीश्रु । n) छ्व. इति जीसं. । o) विप । उस. उप. <आ[पाके] ।

१७ : २७
 तज्-जघ(न्य >)न्या- न्याम्
 बौपि १,२. २, हिपि ४ ४
 तज्-जघे(प-इ)ज्या-होम- माः
 वैश्रौ २०, १ : ७
 तज्-जाति^१-> जातीय^२-यम्
 बौश्रौ १८, ११ २३, २८, ६
 १३, १५, वैश्रौ १८, १९ २८,
 हिश्रौ १५, ८, ६, ११, -यस्य
 बौश्रौ २४, ३५ ३, -यानि
 निस् २, ४ १०, -ये हिश्रौ
 १५, ८, ७, ११
 तजातीय-विवेक- क निस्
 १, ९ २४
 तज्जातीय-व्यवाय- यात्
 पावा १, १, ७.
 तज्-जीवन- नम् विध १६,
 १२
 तज्-ज्ञ- ज्ञा वैगृ ३, १४ २,
 आज्यो ७, ७, -ज्ञै शंघ ३७२,
 नाशि १, ८, २
 तज्-ज्ञान- नात् या १४, ३
 तज्-ज्योतिस्^३- तिषम् निस्
 १, २ : १५
 तज्-ज्वाला-रूप^४- पम् वैश्रौ
 २, ६. १२
 तज्-कर^५- पा, पावा ३, २, २१,
 -र. या ३, १४६
 तज्-कर(ण >)णी^६- णी काशु
 २, ७.
 तज्-कर्तृ- र्ता वैध ३, ८, ३
 तज्-कर्मन्- र्म काश्रौ १५, ६,
 २८, बौश्रौ २९, ११ ७
 तज्-कर्म-जनम्-माहात्म्य-
 -स्यम् अप ५२, १४, १५.

तज्-कारित-> त-त्व- स्वात्
 हिश्रौ ३, १, ७
 तज्-कारिन्-> रि-त्व- स्वात्
 मीस् ६, ५, १७, ९, ४, ५४
 तज्-कार्य- र्यम् शंघ ३०२
 तज्-काल- लम्^१ पागृ २, ११,
 ५, ६, बौगृ, -लात् काश्रौ १, ४,
 १५, -ले शव ४६२, मीस् ३,
 ८, ३९
 तात्कालिक > का, की-
 पावा ४, २, ११६, -की शंघ
 २३६
 तत्काल-प्रसङ्ग- ङ्ग. पावा
 १, १, ५०
 तज्-काल, ला^२- लः मीस्
 ११, ३, १०, -लम् काश्रौ १, २,
 २२, २५, १, १, -लस्य पा १, १,
 ७०, -ला मीस् ५, १, १९, ११,
 ३, २१, -ला आश्रौ १२, ४,
 १६, मीस् ११, ३, ५, -लानाम्
 पाप्रवा ५, १६
 तज्-काल-स्थान^३- नम् ऋप्रा
 ६, ३९
 तज्-कीर्तन- ने पावा १, १, ४४
 तज्-कुल-> त्-कुलीन- नम्
 विध ३, ४७, -नेषु शंघ ३२१
 तज्-कृत- त विध २३, ३९,
 -तै विध ७, १२
 तज्कृत-त्व- स्वात् मीस् ९,
 २, ४१
 तज्कृत-प्रसङ्ग- ङ्गः पावा ४,
 १, ३६
 तज्कृता(त-अ)र्थ- र्थेन पा
 २, १, ३०
 तज्-क्रम- मात् कप्र २, ९, २२

तज्-क्रिया- -या कप्र १, ३, ६.
 तज्क्रिया-परिसमाप्ति- सेः
 वैगृ ६, १३ : ५
 तज्-क्षण^४- णम् अप ६८, २,
 २२, -णात् अप १६, २, १,
 ३८, ३, ५, ७०, ७, ६, वृदे ७,
 ३२, -णेन सु ४, ५
 तज्-क्षीर-व्रत- -तौ काश्रौ ७,
 ४, २०
 तज्-तज्-> त-कर्मन्- र्मणि
 आमिगृ २, ३, ४ : २
 तज्-कर्म(र्म-अ)पन्न-
 -न्न जैश्रौ २६ ५
 तज्-कर्म(र्म-अ)र्ह-
 -र्हाणि वैश्रौ ११, १० : २
 तज्-काल- ले वैगृ ६, ५ -
 ४, वैध २, १२, ३
 तज्-काल-निबन्धन^५-
 -नम् याशि २, ५१
 तज्-प्रसङ्ग- ङ्गे वैश्रौ २१,
 १८ ६
 तज्-संभार-सप्रहण-
 मन्त्र- -न्त्रैः वैश्रौ १, ९ १३
 तज्-संस्था-चमस-गण-
 -णानाम् वैश्रौ १६, १८ ५.
 तज्-स्थान- ने वैगृ ४,
 १४ ९, ६, १ : १८
 तज्-स्थान > ना^६-
 -ना ऋअ १, २, १२
 तज्-आधान-मन्त्र- -न्त्रैः
 वैश्रौ १, ११. १५
 तज्-दिक्-पति- -तिभ्य
 वैश्रौ २०, २९ ५
 तज्-देवता- -तायै वैश्रौ
 ९, ७ : १०

a) विप । बस । b) स्वार्थे छ > ईयः प्र (पा ५, ४, ९) । c) विप । षस > बस । d) पा.
 टः प्र., पावा. अच् प्र. इति विवेकः । e) = रज्जु-विशेषः । f) कचित् वा. क्विपि । g) विप । बस. > द्रस. ।
 h) कस. वा. क्विपि. ।

तत्तद्देवत्य- -त्यम् बौषि
२, ७, १७, -त्या बौश्रौ २६,
९: १६
तत्तद्-ध(<ह)विस्- -विष
वैश्रौ ९, ७: १०
तत्तद्-धो(<हो)म- -म-
-तानि वैश्रौ २०, ७ ६
तत्तद्-यजुस्- -युषा वैश्रौ
१४, ८ ५
तत्तद्-योनि-तस्() वैश्रौ
२०, १६. १०
तत्तद्-रूप- -पान् शध
११६. २४
तत्तद्-न्नत- -तानि वैश्रौ २०,
७. ८
तत्तद्भव-सूक्त- -क्तानि
वैश्र ३, २१: ३
तत्-त(न्त्र >) न्ना- -न्ना
मीस् १२, २, १७
तत्तन्-नामन्- -म्ना वैश्र ३,
१३: ६
तत्-तीर- -रे वैध २, १४, २
तत्-त्य- -त्य या ८, १५
तत्-त्रय- -यम् विध ४, ३,
४, ६.
तत्-पञ्चक- -कम् विध ४, ७
तत्-पञ्चाह- -ह द्राश्रौ ८, ४, ६,
लाश्रौ ४, ८, ६
तत्-पत्नी- -त्नी वैध २, ३, १,
-त्नीनाम् शश्रु ४, १, ११,
-त्नीभ्य वैश्र ४, ७: ५, -त्नीम्
शध ११६: ३५, ३६^१, ३७,
-त्न्याम् बौध १, २, ३८
तत्-पत्र-त्रि-सहस्र- -तस्(:)
अप ३५, २, ५

तत्-पद- -दानि वैश्र ६, १ १७
१तत्-पर, रा- -रा अश्र ५, ३,
-रौ याशि १, ८९
२तत्-पर- -पाग ५, १, १२४,
-र आपश्रौ १४, १३, १२,
पावा १, ४, ११०, -रम् ऋत
४, ४, १४, -रस्य पावा ७, ३,
५४, -रे पावा ८, ४, ४८
तात्पर्य- पा ५, १, १२४
तत्पर-त्व- -त्वान् काश्रौ १,
४, १६, ५, ५
तत्पर-विज्ञान- -नम् पावा
१, १, २७
तत्-परिग(त >)ता- -ता वैध
१, ६, ५, -ताम् वैश्रौ १, २ ६,
वैश्र १, ८ १२.
तत्-परिग्रह- -हान् अप ५२,
१४, ५
तत्-परिपूर्ण- -नेत्र-वदन- -न
बौध २, ३, ५३
तत्-परिमाण- -णम् काश्रौ १, २,
२३
तत्-परिवार- -रम् शध २४३
तत्-परिहरण- -णात् बौध १,
५, १०६
तत्-पश्चात् शाश्रौ १७, १०, ४
?तत्पातपरित्यक्त^० अप ७०^२,
२३, १४
तत्-पात्र- -त्रेण काश्रौ १५, ३,
२७
तत्पात्र-क्षालन- -नेन कप्र १,
३, १४
तत्पात्रो(त्र-उ)दक- -केन वैश्र
४, ४ १४
तत्-पाद- -द ऋपा १६, १०.

तत्-पाप- -पम् वाव ३, ६
तत् पाल- -ल विध ५, १४०^१.
तत्-पावन- -नाय विध ८, १६.
तत्-पितामह- -हाय विध २१,
१२.
तत्-पितृ- -ता वैश्र ६, ३: १०,
-तु कप्र २, ८, २०, -त्रे विध
२१, १२
तत्-पित्रा(तु-२आ)घ- -घैः
वैध ३, ३, ८
तत्-पुट- -टयो. वैश्रौ ११, ७: ९.
तत्-पुत्र- -त्र वैश्रौ २०, ३:
११, वैश्र ७, ९. २, हिपि २:
३, २२: ३, -त्रा. विध १५,
३८, -त्रान् बौश्रौ १८, २६.
१८, विध ८२, ११, -त्रे बौध
१, २, ३७, वैध १, २, ११, -त्रैः
विध १८, ४३
तत्पुत्र-वर्जम् बौध १, ५, ९५.
तत्-पुत्रा(त्र-आ)दि- -दीन् वैध
२, १, २
तत्-पुत्र-पौत्र- -त्रै. विध ६,
२७
तत्-पुनराधान- -नम् वैश्र ६,
१५: ८
तत्-पुरीष- -षे गौध १५, २२
तत्-पुरुष- -ष. वृदे २, १०५;
पा १, २, ४२, २, १, २२, ४, १९;
पावा १, ४, १, -षस्य लाश्रौ
१०, १३, ४, पा ५, ४, ८६, पावा
५, ४, ७३, -षा काश्रौ ७, १, ८,
बौश्रौ २, ३ २१, वाश्रौ ३, २,
१, ५, -षात् पा ५, १, १२१, ४,
७१, -षाय वाश्र १७: १४^१,
-षे पा ६, १, १३; २, २; १२३;

a) विप. । बस. । b) वैप १, ७१२ d) यद् उक्तं तद् दु मतेन द्र । c) पाठ. ^१ उत्पातपरित्यक्तस्य
इति शोध (तु. संस्कृत. टि.) । d) श्लकः इति जीसं । e) षस. > बस । f) =समास-विशेष- [वृदे, पा] ।
बस. वा कस वा ।

१९३, ३, १३, १०१, पावा २,
४, ६४, ६, ३, २, -वेभ्य आग्निष्ट
२, ६, ४ : २४^१
तत्पुरुष ग्रहण- -णम् पावा
१, ४, १
तत्पुरुष-त्व- -त्वे पावा १,
४, १
तत्पुरुष-वचन- -नात् पावा
१, ४, १
तत्पुरुष-विज्ञान- -नात् पावा
४, १, २७
तत्पुरुषा(घ-ञ)न्तोदात्तत्व-
-त्वम् पावा १, ४, २
तत्पुरुषा(घ-ञ)हृत- -ते
जैश्रौका १०
तत्-पुष्प- -ष्पाणाम् अप ३५,
२, ६
तत्-पूर्व, वा- -र्वम् वौश्रौ २६,
३२. ३, वैश्रौ ४, ९ ६, भाग्य
२, ५ १, अत्रा १, १, २८,
-र्वस्य शैशि ७९, २५२, -र्वा
ऋञ्च २, ८, ४, २६, -र्वाणाम्
कौष्ट ३, ९, १२, शाग्य ४, ७, ११
-र्वात् शुप्रा ३, ५७, -र्वे ऋञ्च
२, ८, १९, वृदे ४, ८७
तत्पूर्व-मृत- -ता. वैगृ ५,
१५ ६
तत्-पूर्वक-त्व- -त्वात् मीसू ७,
३, ६
तत्-पूर्वपदो(द-उ)त्तरपद-ग्रह-
ण- -णम् पावा २, ४, २, ६, ३,
२३.
तत्-पृथक्-त्व- -त्वम् मीसू
१० ३, २८
तत्-पृष्ठ- -ष्ठ शाश्रौ १४,
२२, ६

तत्-प्रकरण- -णे लाश्रौ १०, २,
१, मीसू ३, ४, ६
तत्-प्रकीर्तन- -ने पावा १, १,
४४
तत्-प्रकृति- -ति या १, २०,
१३, १२, -तीनि शाश्रौ १३,
१९, १८, -ते मीसू ५, ३,
४०
तत्प्रकृति-त्व- -त्वम् मीसू
३, २, २८, -त्वात् मीसू ७, ३,
१६××
तत् प्र(ख्या>)ख्य- -ख्यम्
मीसू १, ४, ४
तत्-प्रजा- -जाम् शध ११६
३५^२, ३६^३, ३७
तत्-प्रतिनिधि- -धि काश्रौ
२५, ५, ४
तत्-प्रतिपादना(न-ञ)गम-
-मम् वैध १, ११, ६
तत्-प्रतिषिद्ध- -द्धम् या २,
१४
तत्-प्रतिषेध- -ध या १, ८,
९, २६, ११, १८, -धात् पावा
१, ४, ३, -धे मीसू ९, ४, ३२
तत्प्रतिषेध-विज्ञान- -नम्
पावा ६, ३, ३३
तत्प्रतिषेधा(घ-ञ)र्थ- -र्थम्
पावा २, ३, १
तत्-प्रत्यय- -यम् आपध २,
१५, ९, बौध १, ५, ११०^b,
-यस्य पा ७, ३, २९, -यात् पा,
पावा ४, ३, १५५
तत्प्रत्यय-त्व- -त्वात् बौध
१, ११, १२
तत्प्रत्यय-विज्ञान- -नात्
पावा ७, २, ११४

तत्प्रत्यया(य-ञ)न्त- -न्तात्
पावा ४, ३, १५३
तत्-प्रथम- पा ६, २, १६२
तत्-प्रदान- -नम् याशि २,
११५, -नात् कप्र २, ४, १२;
-नेन विध ९२, २
तत्-प्रधान, ना- -ना अप २२,
४, ३, या १०, २१, -नानि विध
२६, ७, -नायाम् मीसू ४, ३, ३;
-ने मीसू ३, ४, ७, ९, १, ४०
१ तत्प्रधान-त्व- -त्वात् मीसू
३, ४, १, ८, ४, ४, २, ११, २६, ३,
३५
२ तत्-प्रधान-त्व- -त्वम् मीसू
९, १, १०, -त्वात् मीसू ४, २,
७××
तत्-प्रपितामह- -हाय विध २१,
१२
तत्-प्रभव- -त्व- -त्वात् मीसू
८, २, १३, २२^c
तत्-प्रभृति- -ति^d शाश्रौ ५,
१४, २, छुसू ३, १३ : ८, ९;
गोगृ २, ३, १५, -ति लाश्रौ
६, ६, १; -तिम् वाधुश्रौ ३,
८३ १८, -तीनाम् लाश्रौ ७,
४, १५, ९, ५, ७, -तीनि द्राश्रौ
५, १, २९, लाश्रौ २, ५, २४
तत्-प्रमाण, णा- -णः विध ५,
३७, -णम् वैगृ ५, १०. ३;
-णा अप २२, ३, ५, -णा वैगृ
१, ८ - ८, -णै वैगृ ५, ३ : १४.
तत्प्रमाण-त्व- -त्वात् मीसू
४, १, १४, ५, १, १
तत्-प्रमाणा(ण-ञ)कार- -रौ
वैश्रौ ११, ८. १०
तत्-प्रयाज- -जस्य शाश्रौ ५,

a) विप । बस । b) वा. क्वि (वैतु. भाष्य णमुलन्तम्) । c) प्रधानत्वात् इति जीस. ।
d) क्वित् वा. क्वि । e) षस > द्रस ।

१६,७
 तत्-प्रयुक्त- -क्त मीसू ९, १,
 १; -क्तम् मीसू ९, १, २
 तत्प्रयुक्त-त्व- -त्वे मीसू ९,
 १, १५
 तत्-प्रयोग- -गे हिश्रौ १२, ८,
 २, कप्र ३, ६, १
 तत्-प्रयोजक- -क पा १, ४, ५५
 तत्-प्रयोजन- -त्व- -त्वात् शंघ
 २५१
 तत्-प्रयोजन-मात्र- -त्रम् अप
 २३, ९, १.
 तत्-प्रयोज्युग- -गा- बौश्रौ २८,
 १२ २०
 तत्-प्रवाद- -दौ आपश्रौ १९,
 १८, ४, हिश्रौ २२, २, ४
 तत्-प्रवृत्त- -त्ते विध ९१, १
 तत्-प्रवृत्ति- -त्ति मीसू ८, १,
 १५, -त्त्या मीसू १२, २, ३५
 तत्-प्रसव-मरण- -गे विध
 २२, ३४
 तत्-प्रसाद- -द शंघ ३१२.
 तत्प्रसाद-तस्र(-) विध १,
 ३२.
 तत्-प्रसूत- -त गौध ११, १५,
 वैश्रौ २१, ६ ९
 तत्-प्राची- -च्याम् वैश्रौ १,
 ३ ८
 तत्-प्राधान्य- -न्यात् काश्रौ
 १६, ६, ७
 तत्-प्रायवचना(न-अ)र्थवत्त्व-
 -त्त्वाभ्याम् मीसू ६, ८, ४५
 तत्-प्रेप्सु- -प्सु या ६, २८.
 तत्-फल- -लम् अप ६८, २,
 ५७, वैध १, ९, ९, -लस्य अप
 ६२, ४, ७, -लेन शुभ्र १, ११.

तत्-षट्क- -कम् विध ४, ५
 तत्-षोडशक- -कम् विध ४, १०
 तत्-संयुक्त- -कम् मीसू १, ३,
 १५, ३, ४, ६, -क्ता शाश्रौ १,
 ३, ९
 तत्-संयोग- -ग विध ३५, २,
 -गात् हिश्रौ ३, ८, ४१, मीसू
 २, ४, ३० × ×, -गेन मीसू ४, ३,
 २०
 तत्-सशय- -यात् गौध २८, २०
 तत्-सस्कार- -र मीसू १०, १,
 २३, -रात् काश्रौ ६, १, २१,
 मीसू ४, ४, २३, ११, ४, ४६
 तत्संस्कार-कृत्- -कृत वैश्र
 ५, ८ ११.
 तत्संस्कार-श्रुति- -ते मीसू
 १०, ८, २९
 तत्-संस्तव- -वात् मीसू ३, ४,
 ४९
 तत्-सं(स्था>)स्थ- -स्थम्
 हिध २, ३, ३७^७
 तत्-सस्था-श्रुति- -ते काश्रौ
 २५, ७, १
 तत्-सकाश- -शे वैश्रौ २, १० ३
 तत्-सख- -खः या ३, ११
 तत्-सं(ख्या>)ख्य- -ख्यम्
 मीसू १०, ५, ५७,
 तत्-सद्- -सदे भाश्रु २, ३०
 ३, ४, हिश्रु १, १६, १३^२
 तत्-सदृश- -शम् या ३, १३,
 -शात् पावा ४, १, ९६; -शेषु
 कप्र १, ८, २३
 तत्-सधि- -धि भासू १, ४.
 तत्-संनिधि- -धे मीसू २, २,
 १६, -धौ मीसू ४, ४, ३४
 तत्-सम- -मम् अप ३१, ७, ४,

४६, ८, २, वाध, -मेन काध
 २७३ ७.
 तत्सम-त्व- -त्वात् मीसू ९,
 ३, १७
 तत्-सम-काल- -लम् विध
 १२, ४
 तत्-सम(र्थ>)धां- -र्थां शंघ ५
 तत्-समवाय- -यः मीसू ६, ८,
 १४
 तत्-समाहार- -र- शैशि १२८.
 तत् समिध्- -मिधाम् अप ३५,
 २, ४
 तत्-समीप- -पम् अप ४२, २, ५,
 -पे आपश्रौ १८, १, १३, १५
 तत्समीप-वर्तिन्- -वर्ति-
 नाम् विध ५, ७४
 तत्-समुत्थान- -नम् शध ३२७.
 तत्-समुदाय- -ये पावा ८, ४, २.
 तत्समुदाय-ग्रहण- -णम्
 पावा ६, २, १३६
 तत्-समूह- -हम् वेज्यो २१
 तत्-संपातिन्- -ती या १२, २२ .
 तत्-संप्रत्यया(य-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ४, १, १.
 तत्-संबन्ध- -न्धात् मीसू ५,
 १, २२, -न्धेन या ११, २
 तत्-संबन्ध- -न्धे पावा ५,
 ३, ६७
 तत्-सबन्धि-बान्धव- -वानाम्
 शध ११८
 तत्-सवर्णे- -र्णः शैशि २८२
 तत्-सस्थान- -नम् कप्र ४, ३१
 तत्-सहि(त>)ता- -ते काश्रौ
 ७, ३, ८
 तत्-सामर्थ्य- -र्थ्यम् मीसू १,
 ४, १७.

a) विप । बस. ।

b) सप्र. आपध २, १५, ७ विशिष्ट- पाभे. ।

c) तस. समासान्तषु टच् प्र. ।

d) बस (तु. नागेशः) ।

तत्-सामान्य- -न्यात् या २, २,
मीसू १, २, २३, ४, ३, ३९, १०,
३, ५६, -न्येन मीसू ६, ३, ३२
तत्-साम्य- -म्यम् विध ५३, ५
तत्-सायुज्य- -ज्यम् बौश्रौ
१८, ५३. २०
१तत्-सिद्धि- -द्धि मीसू १,
४, २३
२तत्-सिद्धि^a-> ंद्धि-त्व-
-त्वात् काश्रौ १, ४, १.
तत्-सुत- -तः अप ६७, ८, ४,
ऋअ २, १०, ११०
तत्-सेवा (वा-अ)शक्ति- -क्तौ
विध ९६, ४२
तत्-स्तेय- -येन कप्र २, ५, ७
तत्-स्तोत्र- -त्राय आश्रौ ५,
२, ७
तत्-स्थ- पाग ५, १, १२४^b,
-स्थम् या ६, ३२, -स्थस्य पावा
८, ४, १४, -स्थे पावा २, ३,
२१, -स्थै पावा २, २, ८
तात्स्थ्य- पा ५, १, १२४
तत्-स्थान- -नात् वैगृ ५, १५ :
२, ऋप्रा ४, ८०, -ने आश्रौ २,
१, २३, ३, १०, २६, आपश्रौ, या
१४, ३०
तत्स्थानीय-> ंथ-त्व-
-त्वात् मीसू ६, ५, १९
तत्-स्नानो(न-उ)दक- -कात्
विध १४, २
तत्-स्नेह- -हात् ऋअ २, १०,
३३
तत्-स्पृष्ट-प्रपद^c- -दम् वैश्रौ
६, ३ ७
तत्-स्वामिन्- -मिनाम् विध ५,
५९, -मी अप ७१, ४, ३.

तद्-अंस- -सस्य वैश्रौ १४, ४
११
तद्-अ-कर्मन्^d- -र्मणि मीसू ६,
३, ३
तद्-अग्नि- -ग्नयः वैगृ २, ७ :
१४, -ग्निना वैगृ ७, २ २, -ग्नेः
वैगृ ४, ५. १८, -श्रौ वैगृ ७,
४ : १९
तद्-अग्र- -ग्रेण वैश्रौ १०, १०
९, -ग्रे कप्र २, ८, ४
तद्-अङ्ग- -ङ्गम् काश्रौ १, २, ३,
४, आपश्रौ, -ङ्गस्य कप्र १, ३,
६, -ङ्गानाम् मीसू ३, ८, ३६,
-ङ्गानि वाश्रौ १, १, १, ६२,
-ङ्गेषु मीसू ३, १, १७
तद्-ङ्ग-त्व- -त्वात् मीसू १०,
२, ३७, ५, ५०
तद्-ङ्ग-भाव- -वेन मीसू ७,
२, ३
तद्-ङ्ग-वत् मीसू ४, ४, २६
तद्-अङ्गुष्ठ- -ष्ठेन वैगृ २, २ १४
तद्-अतिक्रम- -मे आपध १,
५, २, विध ३२, ९, हिध १, २, २.
तद्-अतिक्रम(ण>)णी- -णीम्
विध ५, १८
तद्-अधस्तात् शाश्रौ १७, १०,
१४
तद्-अधिकरण- -णानाम् पावा
१, ४, १०
तद्-अधिकार- -रात् मीसू ६,
७, ३३, १०, ३, ६७.
तद्-अधिदेवता- -ताः वैगृ ३,
२० : २, -ताम् वैगृ ४, १३
१०
तद्-अधिप- -पान् वैगृ ४,
१४ : १

तद्-अधिष्ठान- -नेषु या ४, १५.
तद्-अधीन, ना- -न जैगृ १, २० :
१, -नम् गौध ११, १८, १३,
२४, -ना आपध १, ७, १४,
हिध १, २, ७१
तद्-धीन-वचन- -ने पा ५,
४, ५४
तद्-अध्यक्ष-कर- -चिहित-
-तम् विध ७, ३
तद्-अध्ययन- -नेन विध ३०,
३१
१तद्-ध्याय- -यम् बौश्रौप्र
५४ ८
तद्-अनन्तर- -रम् अप ३३, ५,
२, ३६, १६, ३, ४६, ८, ३,
याशि १, २२, नाशि १, ६, ४,
७, ३
तद्-अनुकारिन्- -रि कप्र २, ५,
२१
तद्-अनु-चक्षुस्^e- -क्षुष माश्रौ
४, ८, ३
तद्-अनुमान-ज्ञ- -ज्ञाः बौध
१, १, ६
तद्-अनुयायिन्- -यिना अप
५८^f, २, १.
तद्-अनुरूप-गर्भ- -र्भम् निस्
८, २ : ३१, ३४, ३७, ४०.
तद्-अनुरूप-त्व- -त्वात् मीसू
१, ३, २८^f
तद्-अनुवत- -तेभ्यः ऋप्रा
१५, १
१तद्-अन्त- -न्ते काश्रौ १०,
९, २१×४, कप्र २, ६, ४, ७
तद्-अन्त-तस् (.) बौश्रौ २६,
२९ : ७.
२तद्-अन्त,न्ता^g- -न्तः काश्रौ

a) विप. । बस. । b) तु. पागम । c) विप. । तृस. > बस. । d) उप. तस. । e) विप. । सस.
> बस. । f) अनु^० इति जीसं. ।

२२, १, १२, मीस् ६, ७, ८,
-न्तम् काश्रौ ८, ९, ४, २२, ६,
६, आपश्रौ १९, २२, १, मीस्
५, १, २४, २, ६^५, आज्यो ४,
१२, -न्तस्य पा १, १, ७२,
पावा १, १, ७२, ३, १, ३, ४, १,
१, ७, ३, ८, -न्ता माश्रौ १, ७,
४, ४१, -न्तात् पावा ३, ३,
२१, ४, १, १५, ५, १, २०, २,
१३५; ३, ५५, ४, ४
तदन्त-कर्म-कर्तृ-स्व-
-त्वात् पावा २, ३, ६५
तदन्त-ग्रहण- -णम् पावा
५, १, २०, ७, ३, १
तदन्त-स्व- -स्वे पावा १, १,
५, १९, २१
तदन्त-द्विवचन- -नात् पावा
७, २, १०
तदन्त-निर्देश- -शात् पावा
७, १, ३७
तदन्त-प्रतिषेध- -धात् पावा
६, १, १३
तदन्त-विधि- -धिः पावा ४,
३, १२१
तदन्तविधि-प्रतिषेधा
(ध-अ)र्थ- -र्थम् पावा १, ४,
१४
तदन्ता(न्त-अ)ग्रहण- -णम्
पावा ४, १, १७५, -णात् पावा
७, ४, ८३.
तदन्ता(न्त-अ)न्त-वचन-
-नात् पावा १, १, ७२.
तदन्ता(न्त-अ)प्रतिषेध-
-धस्य पावा ४, १, १४.
तदन्तो(न्त-उ)पाधि-प्रसङ्ग-
-ङ्गः पावा १, १, ७२.

तद्-अन्तर () कौस् ६६, २६.
तद्-अन्तर- -रम् बौध २, ८,
१४, काश्रु १, ३, -रान् काश्रौ
८, ५, ६, -रे वैश्रौ १, २ : १३
तद्-अन्तेवासिन्- -सिनम्
आपध १, ६, ३४, हिध १, २, ५६.
१ तद्-अन्न- -न्नम् वैश्रौ १, १५ :
३
२ तद् अ(ल>)ज्ञा^५- -ञ्चा निस्
१०, ९ १९
तद्-अन्य- -न्य भाशि ३९,
-न्येषु जैश्रौका १२०.
तदन्य-परिसंख्यान- -ने
मीस् १०, ७, ६
तदन्य-वनस्पति- -तीनाम्
वैश्रौ ११, १० - १३
तद्-अन्यत्र भाशि ४८
तद्-अन्वय- -यात् ऋप्रा ११, ९
तद्-अन्वारोहण- -णम् विध
२५, १४
तद्-अपचार- -रे निस् २, ११
२२
तद्-अपत्य- -न्यम् सुधप ८५ .
३, या ६, ३२, -त्याय कौस्
४६, ३६, -स्ये गौध ३, ७
तदपत्य-त्व- -त्वम् बौध
२, १, ४१
तद्-अपवाद-निवृत्त्य(त्ति-अ)
र्थ- -र्थम् पावा ६, २, ३३
तद्-अपे(क्षा>)क्ष^५- -क्ष. गौध
८, ७, -क्षम् मीस् ११, ४, २०.
तदपेक्ष-स्व- -त्वात् मीस् ९,
२, ३२०.
तद्-अभाव- -व. मीस् ११, २,
३, -वात् मीस् ६, ३, ३६, १०,
२, ५२, -वे काश्रौ ४, २, २३×४,

आपश्रौ, पा १, २, ५५, पावा १,
१, ८६, ७, ४, ६०.
तद्-अभिधान- -ने पावा ५, १,
११९^२
?तदभिप्र-य^५- -यात् लाश्रौ १०,
५, १३
तद्-अभिप्राय- -यान् बृदे १, ३.
तद्-अभिमन्त्रण- -णम् अप ३६,
५, २
तद्-अभिवादि(न्>)नी- -नी
या २, १६, ५, १४, ९, ४, ६, २३;
१०, २६, ३२, १२, १०.
तद्-अभिहार^५- -रम् बौश्रौ
२४, ९ - ५
तद्-अभिहित-ओतृ- -तारः^०
विध ८, १२.
तद्-अभीज्या- -ज्या मीस् ९,
२, ५१
तद्-अभ्यास- -सः मीस् ८, ३,
९, ९, २, २१, २४, १०, ६, २९.
तद्-अर्थ, र्थी पावाग ५, १,
१२४, -र्थ. हिश्रौ १, १, २३;
निस् १, १३ : ९, गौध; -र्थम्
आमिष्ट १, ५, १ : २८, हिपि; पा,
पावा ५, १, १२; पाप्रवा ८, १;
-र्था मीस् ३, ५, ३१, ५, ३, ३०;
-र्थान् आपध २, ६, १६; हिध
२, २, १७, -र्थे पा ६, १, ८२; २,
४३, मीस् ३, ८, २०^६, ९, ४,
२६; १२, २, १९, -र्थेन आपश्रौ
२४, ४, १९; मीस् ५, ४, ६; १३;
११, २, ६६, ४, ४४, -र्थेषु
आपध २, १४, ३, हिध २, ३, १४;
पा ६, २, ७१; मीस् ९, १, ४१.
तादर्थिक- -कौ कौस्
६०, ५.

a) ऋम् इति जीसं. । b) विप । बस. । c) षेक्षः इति जीसं. । d) पाठः! तदभिप्रायागात् इति
बौधः (उ. सप्र. ता २४, १९, ३) । e) षद्वि-ज्ञात्वारः इति जीसं. । f) चस. वा बस. वा । g) र्थः इति जीसं. ।
वैप४ द्वि-४९

तदर्थ्य- पावा ५, १,
१२४, -र्थ्यम् मीसू ९, ४, ४८,
१०, १, ९, ७, २७, १२, १, १,
-र्थ्यात् पावा १, २, ४३, ४, ३,
६६, मीसू ६, १, २×४, -र्थ्ये पा
५, ४, २४, पावा २, ३, १३, मीसू
६, २, ५, २२, -र्थ्येन मीसू ५,
४, ९
तदर्थ-गति- -त्ते पावा २,
१, १
तदर्थ-ज- -जम् ऋषा ११, ६
तदर्थ-त्व- -त्वम् मीसू ५,
४, ७, -त्वात् आश्रौ २, ६, १६,
आपश्रौ, पावा ३, १, १३१, ६,
१, १२, ८, २, ४८
तदर्थ-निर्देश- -शात् मीसू
९, १, ४६
तदर्थ-प्रतिषेध- -धः पावा
२, २, १९
तदर्थ-प्रत्यय-प्रतिषेध- -ध
पावा १, ३, १.
तदर्थ-मात्र- -त्रेण पावा २,
१, ३६
तदर्थ-वचन- -नात् मीसू ५,
४, ७
तदर्थ-वत्^a- -वत् मीसू ४,
४, २४, ६, ७, २५, ९, १, २२
तदर्थ-वाद-वदन- -नात्
आश्रौ ५, १३, ९
तदर्थ-शास्त्र- -स्मात् मीसू १,
२, ३१
तदर्थ-सूक्त- -क्तानि अपं २
९०.
तदर्था(र्थ-अ)ध्यवसान- -नम्
पावा २, १, ३५.

तदर्था(र्थ-अ)र्थ-बलि-हित-
सुख-रक्षित- -त्तै. पा २, १, ३६
तद्-अर्ध, धर्मा- -र्धम् शध ३८२^२,
४१०, ४४०, विध, -र्धा अप
२२, ३, ५, -र्धे कप्र २, ३, ८,
काशु ७, ३३, बौशु १ : २८,
-र्धेन अप २१, ५, २, ३
तदर्ध-पूर्ण- -र्ण. वैश्रौ ११,
९. १५
तदर्ध-भाज्- -भाक् अप
६८, २, ५८
तदर्ध-विस्तार^b- -रम् वैगृ
५, ३ : ७.
तदर्ध-व्या(स>)सा^c- -सा
बौशु १४ : २
तद्-अर्पित- -तम् निसू २, १०.
११.
तद्-अर्ह- -र्हम् वैगृ ३, १९ : ७,
४, १४. १४, -र्हेण वैगृ ४,
१४ १
तद्-अलाम- -मे आपश्रौ २२,
२, १२, ३, १५, वैश्रौ
तद्-अवसान- -नात् द्रागृ १, २,
३.
तद्-अवासि- -सौ विध ९६,
३६.
तद्-अशक्ति- -क्ति मीसू १, ३,
२८.
तद्-अज्ञ(न>)ना^d- -ना बौश्रौ
१८, ४४ : १३
तद्-अश्मन्- -श्मनि वैगृ ७,
६ : ३
तद्-अश्रु-पात- -कारिन्- -री
विध २२, ६०
तद्-अष्टक- -कम् विध ४, २.

तद्-अष्टम- -मेषु बौध १, २, ८.
तद्-असयोग- -गात् मीसू १०,
५, ६८
तद्-असंभव- -वे वैगृ ६, ७ ५.
तद्-असहन^e- -ने पावा ५, २,
१२२
तद्-अस्थन्- -स्थनाम् वैगृ ७,
३. ८.
तद्-अस्थि- -स्थि विध २२,
७०, -स्थिभि वैगृ ७, ३ : १२,
-स्थीनि वैगृ ७, ३ : ४, ७
तद्-अह(न>)स्- -हस्सु
काध २७३ : ८
तद्-ह-स्नात- -तानाम्
आमिगृ १, ३, २ २^०
तद्-हर्-जन-सभा(र>)रा-
-राम् बौध ३, ३, २१
तद्-आकृति^f- -ति अप २३,
२, १
तद्-आक्षेपण- -णे विध ५४,
१४
तद्-आख्य, ख्या^g- -ख्य. मीसू
२, ३, २३, ३, २, २१, -ख्यम्
काश्रौ २२, ४, १३, १५, मीसू ७,
४, १३, ९, ३, २८, १०, ५, ५८,
-ख्या काश्रौ १६, ३, २०, -ख्याः
काश्रौ २२, ४, ७, -ख्यानि काश्रौ
२२, ४, २२, -ख्याम् अत्र ५,
१७.
तदाख्य-त्व- -त्वम् मीसू ८,
३, १३, -त्वात् मीसू ८, ४, २.
तदाख्या-मिष^h- -तस्स (:) अत्र
५, १०^६.
तद्-आगम- -मे मीसू ४, १,
१५, ४, २२.

a) तु. गङ्गा । यद्वा ष्वत् इति अर्हार्थीयः वतिः प्र. (पा ५, १, ११७) इति विमृश्यम् । b) विप. ।
वस. । c) विप. । वस. उप. < √अश्न [भोजने] । d) तु. पासि । तन्न सहते इति पाका. भारुडा. ।
e) सपा. भागृ २, १८ : ८ ष्वत्दह^० इति पागे. । f) षस उप. = छसन्- । g) ष्वत्ता इति पाठ ? यनि. शोध. ।

तद्-आज्य^a- -ज्यम् शाश्रौ ११,
१३, १८
तद्-आत्मक^b- -कम् याशि १,
४३, नाशि २, ७, ११
तद्-आदान- -नम् विध ३०,
४२
तदा(द्-आ)दि- दि आश्रौ १,
१२, २६, शध २६७, पा १, ४,
१३, वेज्यो ६, मीसू ५, १, २४,
-दिषु भाशि ५, मीसू ८, १,
१८^c, १०, ५, ६७, -दीनि बृदे
८, ९३, -देः पावा ३, १, ३^d, ४,
३, ६०, ५, २, ४६; ३, ८३, -दौ
पावा १, १, ७०, ६, १, १३, ३,
११५, -द्योः वैताश्रौ ३२, १४
तदादि-ग्रहण- -णम् पावा
७, ३, १, -णस्य पावा ७, ३, ८.
तदादि-तदन्त-विज्ञान-
-नात् पावा १, ४, १३, ७, १, ९६
तदादि-त्व- -त्वात् मीसू
१०, ५, ६, -त्वे पावा १, १, २१
तदादि-वचन- -नम् पावा
१, ४, १३.
तदादी(दि-इ)तिहास- -सः
ऋञ्ज २, ५, ४०
तदाद्या(दि-आ)दि-वचन-
-नात् पावा १, ४, १३
तदाद्या(दि-आ)चिख्यासा-
-सायाम् पा २, ४, २१
तद्-आदेश- -शम् द्रागृ ३, ४,
२८, -शात् काश्रौ १, ७, २७
तद्-आनन्तर्य- -र्यात् मीसू १०,
६, २७.
तद्-आनुग- -नाम् शंघ ३६१.
तद्-आपत्ति- -त्ते. मीसू १०,

२, ६७
तदापत्ति-वचन- -नात् मीसू
१०, ८, ३०.
तद्-आयतन^b- -नानाम् अप
४८, ७२, ९८, १०८
तद्-आया(य-अ)पाय-व्यथन-
-नानि ऋप्रा १४, १
तद्-आयुस^b- -युषाम् मीसू ६,
७, ३१
तद्-आरम्भ- -म्भात् द्रागृ १,
२, ३
तद्-आरूढ- -ढे हिश्रौ ७, १,
४७
तद्-आवपन-श्रुति- -ते काश्रौ
२५, १४, १३
तद्-आवृत्ति- -त्ति मीसू ८, ३,
३, -त्तिम् मीसू ८, ३, ७
तद्-आवेश- -शात् मीसू ९, २,
४३.
तद्-आशि(त>)वा- -ताया
काश्रौ ४, ६, १३^d
१ तद्-आशिस- > तदाशिष्-
द्व- -द्वात् मीसू ९, ३, ३८,
१०, २, ५४.
२ तद्-आशिस^b- -शिषः ऋञ्ज
२, ८, ३१
तद्-आशौच-व्यपगम- -मे
विध २२, २१
तद्-आश्रम- > ^०मिन्- -मिण
वैध १, १, १३
तद्-आश्रय, या- -यम् पावा २,
४, ८, ३, २, १२४; -या शंघ
३५०, -या बौपि ३, ७, ३,
-ये पावा १, १, १.
तदाश्रय-त्व- -त्वात् पावा

१, १, ५०, २, ६४.
तद्-आसत्ति- -त्ति मीसू १०,
६, १०^e, -त्ते मीसू ११, १, ४५
तद्-आसन^b- -न. आपध २,
१९, १; हिघ २, ५, ७३.
तद्-आहार- -र. बौध ४, ५, १४.
तद्-इच्छा- -च्छया विघ २२,
५२.
तद्-इति-कर्तव्यता- -तया
काश्रौस ३५ ३
† तद्-इद्(द्-अ)र्थ- -र्याः
आश्रौ ६, ४, १०, वैताश्रौ २६, ५.
तद्-इदासीय^f- -यम् शाश्रौ ११,
२, ६, १५, ८, १.
तद्-ईप्सा- -प्सा मीसू ६, ३, ३५
तदीय- पा १, १, ७४, -यम्
वैगृ ५, १३ २०, शुञ्ज ३, १४३.
तद्-उक्त- -क्ते मीसू ४, २, २८.
तदुक्त-दोष^b- -षम् मीसू ९,
२, २
तदुक्त-प्रतिषेध- -भात् मीसू
९, ४, ३६
तदुक्त-संख्या-प्रमाण^g-
-णानि वैश्रौ ११, ९ १०.
तदुक्त-हेतु- -तु मीसू ९, ३,
७^f, १२, ४, २०.
तद्-उक्ति-त्व- -त्वात् मीसू
६, १, ७
तद्-उत्तर(>)रा- -रे बृदे ४,
८८.
तद्-उत्तरपद^b- -दस्य पावा १,
१, ७२.
तद्-उत्थान-व्यय- -यम् विघ
५, ७५.
तद्-उत्पत्ति- -त्ते. मीसू ६, ३,

a) षस उप = स्तोत्र-। b) विप । बस । c) एतदा^० इति कासं. । d) ^०त्वा इति पाठः ?
यनि. शोष. (तु. चौसं) । e) ^०त्ते इति जीसं. । f) वैप १ द्र. । g) < तद्-इदास (ऋ १०, १२०, १) ।
h) कस. > बस. । i) ^०क्तो हे^० इति कासं. ।

४०, ९, २, ४१, १०, ३, १२,
१२, ३, २४
तद्-उत्पात- -ताः अप ५४, २,
५, ५५, १, ६
तद्-उत्सर्ग- -र्गो मीस् ४, १, ३
तद्-उद्गतो(त-ऊ)भ- -हर्तु-
-र्तार कौस् ८४, ७
तद्-उपकृत- -ता निस् ६, ८:४
तद्-उपक्रम- -मात् मीस् ५,
१, ८
तद्-उपदेश- -श- मीस् १२,
१, ४३, -शे पावा ७, १, ५८.
तद्-उपनयना(न-अ) गि-
-गिनना वैग् ७, १ १५
तद्-उपरि गौपि १, ४, १८,
वैध १, ९, ४
तद्-उपरिष्ठात् आमिग् ३, ८,
१ १५, १६, बौपि १, १४ १४
तद्-उपलेपन- -नात् विध ९१,
१८.
तद्-उपसृष्ट- -ष्टा निस् २,
१२ : २४
तद्-उपा(ख्या >)ख्य- -त्व-
-त्वात् मीस् ८, १, ३२
तद्-ऊन- -नस् ऋप्रा १३, ३३,
मीस् १०, ३, ७२
तद्-ऊर्ध्व- -ध्वम् बौपि २, ५, ४.
तद्-ऊर्ध्वो(र्ध्व-उ)पयम- -मस्
आमिग् २, ७, ६ . १२?^b
तद्-ऊतु-फल- -मिश्र- -श्रेण
आमिग् १ ७, ४ ९
तद्-एकदेश- -श- मीस् ४, २, ३.
तदेकदेश-त्व- -त्वात् मीस्
११, २, ६१
तदेकदेश-विज्ञान- -नात्

पावा १, १, ७२, ४, १३
तद्-एकान्त-ग्रहण- -णम्
पावा ४, २, १०, ५, ४, १३५
तद्-एव (> एव- वा) पा ५,
२, ६२^c
तद्-ऐक्य- -क्यस् शैशि १२८
तद्-ओजस्^d - -जा बौश्रौ २८,
२ ४६
तद्-नाण- -ण अप ७०^e, १३, ३
तद्-नात, ता- -ता विध १, १३,
-तानि वृदे ५, ९५
तद्-नामिन्- -मी बौध १, ५,
९७
तद्नामि-त्व- -त्वात् वाध
१९, ३६
तद्-नीति- -तिः मीस् ९, १,
५४
१तद्-गुण^f - -णाः आश्रौ १२,
४, १६, -णान् अप ५२, १४, ५,
-णे पावा १, २, ३१, -णैः बौश्रौ
२९, ८ २५
ताद्गुण्य- -ण्यम् मीस्
९, १, ५
तद्गुण-त्व- -त्वम् मीस् १०,
२, ६, -त्वात् मीस् ५, १, ४××
तद्गुण-दर्शन- -नात् काश्रौ
१२, १, १, १३, १, १, २३, १, ५,
२४, ४, २
तद्गुण-भाव- -वात् आश्रौ
७, १, १९
तद्गुण-विका(र >)रा- -राः
वैश्रौ १७, १ १.
तद्गुण-व्यतिषङ्ग- -ङ्गात्
काश्रौ १६, १, १.
तद्गुण-शास्त्र- -शात् मीस्

१०, ६, ४०.
तद्गुण-संविज्ञान- -नात्
पावा ६, १, १
तद्गुणा(ण-अ)नुरोध- -धात्
वैताश्रौ २८, ४
तद्गुणा(ण-अ)न्वित- -तम्
वैग् ३, १४ ८
तद्गुणा(ण-अ)भाव- -वे
काश्रौ १४, २, १४, १५, १०, ४.
तद्गुणा(ण-अ)यत्त- -त्तः
वृदे २, ९९
तद्गुणा(ण-आ)श्रित- -त्तः
उनिस् ८ ४२.
तद्गुणी√भू > तद्गुणी-
भूत- -त पावा १, १, २०.
२तद्-गुण^g - -णा मीस् १, ४, ९.
तद्-गुरु- -रुणाम् गौध ६, ३.
तद्-गृह- -हम् अप ३६, ६, ३;
-हे अप ३६, ६, २; वैग् ७, ५.
१२
तद्-ग्रह- -हाणाम् आमिग् २, ५,
१ ७
तद्-ग्रहण- -णात् पावा ७, ३, १;
मीस् ३, ७, ५२, -णे मीस् १०,
७, ३२, -णेन पावा १, १, २०.
तद्-ग्राम- -मे वैग् ७, ५ ११.
तद्-द^h - -द या ३, १०
तद्-दक्षिण-पार्श्व- -श्वे वैग् ४,
१३ १०.
१तद्-दक्षिण^h - -णस्याम् वैग्
४, ४ : १
२तद्-दक्षिण^h - -णाम् वैश्रौ
२०, ३८ : ६
तद्-दर्शन- -नाय अप १, ३२,
११.

a) विप । वस. । b) भः इति पाठः ? यनि शोध । c) भोजमते इति पागम. । d) षस वा
वस. वा । e) वस. पृष. = कर्मन्. । f) उप. <√दा[दाने] । g) षस उप. = दिश्. । h) तस. उप.
= दान- ।

तद्-दातृ- -तृन् ऋअ २, १०,
१०७
तद्-दासी- -सी हिश्रौ १, ५,
७२.
तद्-दिन- -ने वैगृ ५, १४. १
तद्-दिवस-शेष- -ष बौध १,
११, २६.
तद्-दी(क्षा>)क्ष- -क्ष काश्रौ
१५, ८, ९
तद्-दुःख- -खे विध ३, ९८
तद्-दूषक- -कान् विध ३, ३४
तद्-देव- -व वृदे १, ६
१तद्-देवत, ता- -तः आपश्रौ
७, २२, ४, -तम् कौसू ९२, २१,
-तया कागृ ५७, ११, -ता या
१२, ३०, -ता. आपश्रौ २०,
२४, ११, हिश्रौ १४, ६, ९, या ७,
४, -ते शाश्रौ १, १६, ८, १७, ९,
१८, काश्रौ २५, २, २३, -तेन
काश्रौ २४, ६, ४०, -तौ आपश्रौ
१९, १८, ४, हिश्रौ २२, २, ४
तद्देवता-त्व- -त्वात् मीसू
९, ४, ५६^b.
२तद्-देवता- -ताः शाश्रौ १५,
९, ४
तद्देवत्य, ल्या- -स्य. काश्रौ
८, ७, २५, बौश्रौ २४, १०. ६,
वैश्रौ १४, १७ १५, अप्राय ३,
३, -त्यम् शाश्रौ १३, २, ७,
काठश्रौ ६३, निस् २, १३ २३,
-स्ये बौश्रौ १३, १०: १६, *अप
१, ३८, ४, ५, *अशा ८, ४, ५,
-स्यैः द्राश्रौ ११, ४, २२, लाश्रौ
४, ४, २१; १०, २०, ९.
तद्-देवयजन- -नः वाधूश्रौ

४, १८. ३१
तद्-दैवत- -त या ७, १, -तम्
आश्रौ ७, २, १४, काश्रौ २५, २,
२३^०, आपश्रौ, पागृ ३, ११,
१०^१, -ता वृदे ८, १०३, -ते
आश्रौ ६, ६, १८
तद्-दैवत्य, ल्या- -स्यम् बौश्रौ
१८, ११ २३, २८, ६ १२,
आमिगृ ३, ९, ३ २०, -त्याम्
अप्राय ६, ८
१तद्-देश- -शो काश्रौ २५,
१३, २२
तद्देश-धर्म- -र्मान् विध ३,
४२
तद्देश्य- -श्यानाम् अप
५८^१, ४, ५
२तद्-देश- -शानाम् मीसू ९,
१, २५, १०, ५, ६६.
१तद्-द्रव्य- -व्याणाम् काश्रौ
१४, १, १५, आपध १, ८, ६,
हिध १, २, ९४, -व्याणि शेष
१७६.
तद्द्रव्य-संस्पर्श- -र्शात् अप
३५, १, १६.
२तद्-द्रव्य- -व्य. मीसू ७, ३,
१६
तद्-द्वादश- -शम् विध ४, ८.
तद्-द्विगुणा(या-आ)याम- -मम्
बौश्रु २०: १०
तद्-धर्म- -र्मः मीसू ३, ४, २०,
६ ७, १४^१, २८, १०, ३, ३५,
-र्मण मीसू १०, ६, ५६.
तद्-धर्मन्- -मे मीसू ९, ४,
३०^१, -र्मा काश्रौ १, ६, १२;
आपश्रौ २४, ३, ५३, मीसू ६, १,

४१, ३, २६, -र्मणि वाध १५,
१६
तद्धर्म-त्व- -त्वात् मीसू १०,
५, २९
तद्-ध(< ह)विस्- -विषः
आपश्रौ ८, १५, २१
तद्-ध(< ह)स्त- -स्तम् वैगृ
२, १६ ३.
१तद्-धि(< हि)त- -तान् वृदे
१, ३, -तेषु आपध २, २९, ४;
हिध २, ६, १७
२तद्-धि(< हि)त- -त पा
१, १, ३८, ४, १, १७, पावा ३, २,
१५, ६०, -तम् शाश्रु १, २४, ४^१;
पागृ १, १७, २^१, ३, वैगृ ६४ ६^१;
वागृ ३, १^१, -तस्य पा ६, १,
१६४××, -ता पा ४, १, ७६;
६, २, १५५, पापवा १३, -ते वृदे
२, १०६, शुप्रा ५, ८, २९, अप्रा
३, ३, २१, शौच २, ८३, ४, १३;
पा ६, १, ६१××, पावा ३, १,
९४××, -तेषु पा, पावा ७, २,
११७××.
तद्धित- -तम् या २, ५;
६; -तेन या २, ५.
तद्धित-ग्रहण- -गम् पावा ७,
४, १३.
तद्धित-पूर्वपद-स्या(स्थ-अ)-
प्रतिषेधा(ध—अ)र्थ- -र्थम्
पावा ८, ४, ३
तद्धित-बलीयस्त्व- -त्वम्
पावा ४, १, १
तद्धित-छोप- -ये पावा ८,
३, ५६.
तद्धित-वचन- -नम् पावा

a) विप. । बस. । b) 'तत्त्वात् इति जीसं. । c) 'देवतम् इति कासं. । d) तस । e) भवार्थे यत् प्र. ।

f) 'र्मा इति जीसं. । g) दु. गङ्गा. (वैदु. प्रयासं. उत्तरेण समस्तमिति) । h) तस. उप १-२ हित-द्र. ।

i) = प्रत्ययसंज्ञा- वा तदन्त- वा । j) पामे. पृ ८१ b द्र. ।

४,१,१७
 तद्धित-विधाना(न-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ४,१,१
 तद्धित-समास-सान् या २,
 ३, -सेषु या २,२
 तद्धिता(त-अ)नुत्पत्ति- -त्तिः
 पावा २,१,५१, ४,१,१
 तद्धिता(त-अ)न्त- -न्तम्
 कौट १,१६,१३, अप्रा १,२,१२
 तद्धिता(त-अ)र्थ- -र्थम् पावा
 २,१,५१
 तद्धितार्थ-निर्देश- -शे
 पावा ४,१,९२
 तद्धितार्थ-प्रतिषेधा-
 (ध-अ)र्थ- -र्थम् पावा २,४,१
 तद्धितार्थो(र्थ-उ)त्तरपद-
 समाहार- -रे पा २,१,५१
 तद्धितो(त-उ)त्पत्ति- -त्तिः
 पावा २,१,५१
 तद्धितो(त-उ)व्य- -व्यः
 अप्रा १,१,११
 तद्-धु(<हु)त- -तौ माय २,
 ४, ८
 तद्-धे(<हे)तु- -तु मीस्
 ११,२,२८
 तद्-धो(<हो)म- -मात् अप
 ३६,१८,१
 तद्-बन्धन-त्व- -त्वात् मीस्
 ८,१,२०
 तद् बन्धु- -न्धुन् संघ ७७
 तद्-बुध्न- -ध्नम् कप्र १,८,२.
 १तद्-ब्राह्मण- -णम् बौध ३,
 १, ९.
 २तद्-ब्राह्मण- -णम् जैय २,
 ८ : १४.
 तद्-भ- -भम् वेज्यो २६.

तद्-भ(क>)का- -काः बृदे
 १,७२
 १तद्-भक्ति- > °किन्-
 -क्तिनाम् अप ५८^२,४,४
 २तद्-भक्ति- -क्तीनि अप ४८,
 १३६, १४१, १४६
 तद्-भक्ष- -क्ष कौस् १८,२४
 तद्-भगिनी- -न्य. लुघप ८५.२
 तद्-भय- -यम् अप ६४, ८,५,
 ७१,१८,३
 तद्-भर्तृ- -र्तु विघ १७,१९
 तद्-भस्मन्- -स्म वैय ६, ४ :
 ८, १५ ९, -स्मना अप ३६,
 २५,४
 तद्-भार्या-पुत्र- -त्रयो वैध २,
 १२,१, -त्रेषु गौध २,३८
 तद्-भार्या-पुत्र-सब्रह्मचारि-
 सद्- -सद्भ्यः गौध २,४७
 तद्-भाव- -वम् बृदे ४, ५०,
 ऋप्रा १,५६, -वात् काश्रौ ४,
 ३,१३
 ताज्ञान्य- -व्यम् या १३,
 १३
 तद्-भावि(त >)ता- -ताम्
 बौश्रौ ९,१ : ८, १०,१०७
 तद्-भूत- -तानाम् मीस् १,
 १,२५, -तेषु मीस् ८,२,२९
 तद्भूत त्व- -त्वात् मीस् ५,
 ३,२२
 तद्भूत वचन- -नात् मीस्
 १०,१,२०
 तद्भूत-स्थान- -नात् ११,
 ३,२४
 तद्-भेद- -दात् मीस् २, २,
 १९; ७,१,३, ११,१,५३,२,१०,
 ४,२४, -वे काश्रौ १,७,४

तद्-आत्- -तर. लुघप ८५ : २.
 तद्-याजिन्- -जिन विघ ८२,
 १७
 तद्-युक्त- -कम् मीस् १२, १,
 १७, -कस्य मीस् ३, ४, १५;
 ९, १, १६, -कात् पा ५, ३,
 ७७, ४, ३६, पावा २, ३, २८;
 ३५, ४, २, ३, ५, ३, ७४;
 -कानाम् ऋप्रा १, ५८, -क्ते
 मीस् ३,७,९, ५, ४,१९, ६,७,
 २७, १०,५,६६^१
 तद्युक्त-त्व- -त्वात् आग्रिगृ
 ३,१,१ ५
 तद्-युक्ति-प्रतिरूपक- -कै
 विघ ७,१२^०
 तद्-योग- -गा आपश्रौ १८,
 १९, २ आपध २, १०, १०;
 हिघ २,४,१०
 तद्-योनि-पूर्व-त्व- -त्वात्
 मीस् १०,४,४२
 तद्-रक्षण-धर्म-> °घ(मिन्-
 >)मिन्-त्व- -त्वात् गौध १०,
 २७.
 तद्-रस- -सान् वैध ३,१४,५.
 तद्-(र>)रा- -रा या ५,१३.
 तद्-राज- -जः पावा ४, १,
 ९५, -जस्य पा २, ४, ६२;
 -जा पा ४, १, १७४, ५, ३,
 ११९, -जात् पावा २,४,५८.
 तद्राजा(ज-आ)दि- -दीनाम्
 पावा २,४,६२
 १तद्-रूप- -पस् लाश्रौ १०,५,
 १३; निस् ३, १२ : ३२, ४३;
 १०,१३. ६, वैय ४, १० : ४;
 वैध ३,९,४
 २तद् रूप- -पः निघ ३,१३^१

a) विप. । बस. । b) उप. = २ब्राह्मण- । c) उप = नक्षत्र- । d) युक्तम् इति जीस । e) °पितैः
 इति जीस । f) मत्वर्थीय रः प्र. । g) = प्रत्ययसंज्ञा- । षस समासान्तष् टच् प्र ।

—यस् शांश्रौ १३, २, ७, बौश्रौ,
—मा वैगृ ५, १३ २५, चाअ
१: ८, —पान् अप ५२, १४, ५
तद्रूप-त्व- -त्वात् मीस् २,
१, ३८, ६, ५, ३
तद्-रूप-वर्ण-वयस्^१- -यसम्
आपश्रौ ९, १८, ५, ८
तद्-वश-विनाश- -श वैगृ ७,
८: ११
तद्-वक्तृ- -क्तृन् वाध ३, ६
१ तद्-वचन- -नात् मीस् १०,
२, ६८, ५, १, १७, ९, ३, २४
तद्वचन-त्व- -त्वात् काश्रौ
१, ३, ४, २, ८, ४, ७, ९, १०,
८, ३, २८, मीस् ३, ५, ३५
२ तद्-वचन^२- -ना आश्रौ १, ३,
१५
तद्-वत् काश्रौ १०, ९, ३०, १७,
१२, १८, आपश्रौ, पावा १, १,
६९, २, १, ७, १, ९५, पाप्रवा
१, १४.
तद्वद्-अतिदेश- -शे पावा
१, २, १
तद्-वत्- -वत् या १२, ३०,
—वतः पावा १, १, ५९, —वति
शुप्रा ५, ८, —वन्तः या ३, ८,
—वान् या ३, १९, ४, ८, १२,
२५; ३०, पा ४, ४, १२५
तद्वती- -ती या ९,
२६.
तद्वद्-अर्थ- -र्थे या ६, ३१
तद्वद् (>) न्-निर्देश- -शात्
पावा ५, २, ७९
तद्-वयस्^३- -यसम् काश्रौ २५,
९, १, बौश्रौ १८, ११: २३,

२८, ६: १२, माश्रौ ३, ५, २,
हिश्रौ १५, ८, ६, ११
तद्-वर्जम् काश्रौ ४, ११, १०,
पावा ६, १, १५४; मीस् ३,
६, ३
तद्-वर्ण^४- -र्णं निच ३, १३५,
—र्णम् काश्रौ २५, ९, १०, बौश्रौ
१८, ११: २३, २८, ६: १२,
माश्रौ ३, ५, २, हिश्रौ १५, ८, ६,
११, अप्राय २, ९, ५, ५
तद्-वर्ण-वर्ण^५- -र्णे वैगृ ४,
१३: १४.
तद्-वर्ण-संकरा(र-अ)भक्ष्य-
नियम- -म गौध ७, २४
तद्-वर्तन- -नात् बौध ३, १, २
तद्-वर्ष- -र्षात् अप ७१, ५, २
तद्-वश- -शेन निम् ९, २
१६, १०, २: २९
तद्-वस्त्रा(स्त्र-आ)दि- -दीन्
वैध ३, १५, ११०
तद्-वहन- -नम् वैध ३, ८, ७
तद्-वाचक- -कम् मीस् ७, १,
१६
तद्-वाचक-त्व- -त्वात् पावा
२, १, ५५
तद्-वाचिन्- -चिन. पावा १,
१, ६८
तद्-वाद- -द काश्रौ १२, ४,
२१
तद्-चामिन्- -मिन काश्रौ १९,
२, ११
तद्-विकार- -र मीस् ३, ६,
१०××, —रात् मीस् ९, २, ४८,
—रे मीस् ५, ३, १२, —रेषु हिश्रौ
४, ५, ६४, ६५, ६६.

तद्विकार-तस् () पावा २,
३, २०
तद्विकार-त्व- -त्वात् मीस्
८, १५
तद्विकारा(र-अ)शन- -ने
शंघ ४१८, ४२४
तद्-विघात- -तस्य पावा १,
१, ३९
तद्-विद्^६- -विद् विध ९६,
९७, —विदाम् गौध १, २, —विदि
मीस् ३, ३, ५, —विद्भ्य गोष्ट
१, ५, १३
तद्-विध, धा^७- -धा बौध १,
२, ४९, विध २९, ८, —धेषु
बौध ३, ७, १०
तद्-विधान- -नस्य पावा ३,
२, ८४, ३, १३२, —नात् पावा
३, ४, ११४, ८, ४, ३०
तद्-विधि- -धि पावा ५, १,
१९, पाप्रवा ४, ९, मीस् ८, ४,
१८^८
तद्विधि-निर्णय- -ये इति
१, ३.
तद्-विन्यास- -सः कप्र २,
४, १.
तद्-विपर्यास- -सम् कौष्ट ५,
२, ९, —से पावा २, ३, ३६.
तद्-विप्रुष्- -प्रुष वैध ३, ४, ९.
तद्-विभक्ति^९- -क्तीनि निम् ५,
१ १३.
तद्विभक्ति-पर-पूर्व^{१०}- -र्वम्
अप्रा २, ४, ३.
तद्-विभाग- -गे पावा ३, ३,
१३७, मीस् १०, ६, ५.
तद्-विभावित- -तः विध ६, २०

a) विप. । बस > द्वस. । b) विप. । बस. । c) तु चौस. । d) विप. । तस. > बस. ।

e) श्दीन् गृ इत्यस्य स्थाने तद्वस्त्रादिग्राही इति ०. । f) उप. < √विद् [ज्ञाने] । g) विधि इति जीस. ? ।

h) समानविभक्ति परो वा पूर्वो वा यस्माद् इति बस. द्र. ।

तद्-विमोक्त-के मीसू १२, २, १३
 तद्-विद्योग-गात् या ३, १५
 तद्-विवृद्धि-द्धेः लाश्रौ ५, ११, ११
 तद्-विवृद्धि-हात् कौसू ७५, १०
 तद्-विशिष्ट,ष्टा-ष्टम् मीसू ९, १, ४१, -ष्टा मीसू ८, ३, १०
 तद्-विशेष-ष ऋप्रा १३, ८, -षम् आपञ्च २, २, हिशु १, २३, -षाणाम् पावा १, १, ६८^३, -षेभ्य पावा ४, ३, ११६
 तद्-विशेषक-क पावा ८, ३, ६५
 तद्विशेषक-स्व-त्वात् पावा २, १, ५७
 तद्-विशेषण-णम् पावा ३, ४, १०२, -णै पावा २, २, ८
 तद्-विषय-ये पावा ३, २, १०८, ४, २, १०४
 तद्-विषय-य पावा ४, २, ६६, -यम् पावा १, २, ७१, २, २, २९; -यात् पा ५, ३, १०६, -याणि पा ४, २, ६६, -यौ मीसू ९, २, ५८
 तद्-विषय-ता-ता पावा १, १, ४४
 तद्विषय-दर्शन-नात् पा १, २, ७१, २, २, २९
 तद्विषय-प्रसङ्ग-ङ्ग पावा ४, २, ६६, ४, २०
 तद्विषय-वचन-नम्, -नात् पावा ४, २, ६६
 तद्-विस्तारो(र-उ)च्छ्रय-यम् वैगृ ५, ३ १५

तद्-वृत्ति-त्ति गौध ८, ७, -त्त्या गौध १०, १८
 तद्-वृद्धि-द्धेः द्राश्रौ १५, ३, ११
 तद्-वेद-वर्ण-ञ-ञः शैशि ३५५
 तद्-वेला-लायाम् या १२, १३
 तद्-व्यञ्जन-नम् आपञ्चौ १७, १७, १०, हिश्रौ ३, ८, ८६, १२, ६, ४
 तद्-व्यतिक्रम-मे आपञ्च २, २७, ६, हिघ २, ५, २२५
 तद्-व्यपदेश-शम् मीसू १, ४, ५
 तद्-व्यवगृहीत-तानि बौश्रौ २३, ३ : १७, १९
 तद्-व्यवेत-तै लाश्रौ ८, ११, ६
 तद्-व्रत-तम् काश्रौ ७, ४, २२
 तद्-व्रत-श्रुति-ते काश्रौ १८, ६, ३१
 तद्-व्रत-त-तः काश्रौ २५, ४, ३७, माश्रौ ३, १, १५, गौध २४, १२
 तद्-नपात्-पातम् वृदे ७, ३५
 तद्-नाद-दः कौशि ७३
 तद्-नामन्-म वैगृ ३, २२ : ७, -म्ना वैगृ २, १०, १०, ५, १५ : ३, ७, ६-८ ४, अप ३६, १७, १
 तद्नामा(म-आ)दि-दिना वैगृ १, ३. २२, ४ : ६
 तद्-नामन्-मा वृदे २,

१२८, -म्नि पा ४, २, ६७
 तद्-नाम-नोत्र-त्राभ्याम् विध २१, ३
 तद्-ना(मक>)मिका-काभ्यः पा ४, १, ११३
 तद्-नाश-शो वैश्रौ १८, १९ : २७
 तद्-निकामन-नात् द्राश्रौ २५, ३, १२, लाश्रौ ५, ११, १२
 तद्-निधान-नात् या २, ७
 तद्-निभ-भैः अप ७०^३, १५, ४
 तद्-निमग्न-न्न विध २२, १०, ६३
 तद्-निमित्त-त्तः आपञ्च १, ६, हिशु १, १०, -त्तस्य पा ६, १, ८०, -त्ते गौध २२, ६
 तद्विमित्त-ग्रहण-णम् पावा १, १, ५, २, १, २, ४, १, ८८
 तद्विमित्त-त्व-त्वात् वाध ४, २२, पावा ५, १, २८, ६, ४, ५२, ८, २, २, मीसू १, १, २५३ ३, ९×४
 तद्-नियुक्त-कायस्थ-कृत-तम् विध ७, ३
 तद्-नियोग-गाय निस् ३ १० : १८
 तद्-निर्देश-श पावा ५, २, ४८, ६, १, ८४
 तद्-निर्मातृ-ता या ६, ९
 तद्-निर्वृत्ति-त्ते काश्रौ १, ७, १७, ४, ३, १०^{१६}, -त्त्या मीसू ११, १, २७, ४, २
 तद्-निवास-सात् या १०, ४४, ११, ४५

a) षस उप = विच्छेद- । b) विप । बस । c) विप । बस > दस । d) निवृत्ते. इति पाठः ! यनि शोधः (तु. चौसं) ।

तन्-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ-र्थम्
सुध ४
तन्-निष्कृत्य(ति-अ)र्थ-र्थम्
विध ५२, २०
तन्-निष्, ष्टा^१ - ष्टः या १४,
३, - ष्टया हिश्रौ ४, ४, १६
तन्-निसर्ग^२ - गार्त् वागृ ६, १७
तन्-न्याय-येन आश्रौ ६, ५,
१५
तन्न्याय-त्व-त्वात् मीसू
१, ३, १६××
तन्-मत-तेन अप २२, ८, ४
तन्-मध्य-ध्यस्य पावा १, १,
७१, -ध्ये काश्रौ ५, ८, २१,
वैश्रौ १४, १०. ७××, कौगृ
तन्-मनस्-ना शघ ८९,
बौध २, ७, ६, विध
तन्-मन्त्र-न्त्रम् बौश्रौ २९,
११ : ७, अशा २०, ४^१, -न्त्रेण
बौपि २, ११, ८
तन्मन्त्रा(न्त्र-अ)हो-मुच-
-चैः अप ४६, ७, ३.
तन्-मन्यु-न्युम् हिध १, ७,
६४.
तन्-मय-यः वैगृ ५, १० १६,
-यम् पागृ २, १७, २, अप ३६,
२६, १, -यान् अप ५२, १४, ५.
तन्मयी-थी कप्र १, ७,
२^२
तन्मय त्व-त्वात् शंघ
३४०
तन्-मरण-दिन-ने वैगृ ७, ७ : ९
तन्-मात्र-त्रम् विध २३, ३५,
माशि २, ११, याशि १, ५३.
तन्मात्री-त्री जैगृ १,
२० : ११

तन्मात्र-च्छेद-द. शंघ
१७५.
तन्-मास-सम् बौध ४, १,
२०
तन्मास-तुल्य-ल्यैः वैगृ
७, ५० ६
तन्-मिश्र-श्रम् निसू १, १
४, -श्रै पागृ २, १७, ८
१तन्-मुख-खे कागृ ३४, ६
तन्मुख-निःसृत-तम् अप
८, २, ३
२तन्-मुख^३ -खाः आश्रौ ४, १,
८
१तन्-मूल-लम् वैश्रौ ११,
७ ८, -ले विध २६, ७३,
-लैः भाश्रौ २, ४, ४
तन्मूल-स(कृ>)का-क्ता
कप्र १, ६, ९
२तन्-मूल, ला^४ -ला शंघ
२६२
तन्मूल-त्व-त्वात् गौध ६,
२३.
तल्-लक्षण-त्व-त्वात् मीसू
३, ७, १८, ९, ३, ४०.
तल्-लक्ष्मन्-क्ष्म बौश्रौ २८,
३ : ६
तल्-लिङ्ग, ङा^५ -ङ्गा निसू ५,
२ ५, -ङ्गानाम् अप ६५, २, ९,
-ङ्गे शाश्रौ १, १७, ५, -ङ्गेन निसू
५, ४ : ३
तल्लिङ्ग-त्व-त्वात् आपश्रौ
१९, १८, ४, २४, १२, ४; मीसू
१०, ६, २३
तल्लिङ्ग-दर्शन-नात् लाश्रौ
९, ६, १९
तल्लिङ्ग-संयोग-गात् मीसू

६, ४, २२; ४२.
तल्लिङ्गीय-यान् निसू २,
११० २२
तस्य-निमित्त-प्रकरण-ये पावा
५, १, ३८
तस्य-पुनर्-वचन-नम् पावा
४, ३, १३२
तस्य-प्रकरण-ये पावा ४, ३,
१३२.
तस्ये(स्य-इ)दं-वचन-नात्
पावा ४, २, ९२, ३, १३२
तस्ये(स्य-इ)दं-प्रत्यय-यस्य,
-यात् पावा ४, २, ६०
ता-दृश-दृक् आश्रौ १२, ९,
१७, आपश्रौ
तादृग्-विध^६ -धेन विध
७, ९
ता-दृश-श निसू ३, १२ :
३१; ४२, भाशि १२८, आज्यो
१२, ७, -शम् वैश्रौ २०,
३५० ३, ५, निसू, या ७, ७;
-शम्. माशि १६, ४, -शानाम्
सु ७, ३, -शानि आपश्रौ ९, ९,
११, भाश्रौ, -शे निसू ३, १२ :
२९, ४, ७ २१, -शेन अप
३१, २, ३
तादृशी-शी वैगृ ३, ९ : ६.
ता-वत्-पा ५, २, ३९, पागृ १,
४, ५७^७, -वत् आश्रौ ७, १, २२;
शाश्रौ, बौपि ३, ७, ३^०, -वतः
काश्रौ १४, २, ४××, आपश्रौ;
पावा १, ३, ११, -वतः-वतः
काश्रौ २०, २, ११, आपश्रु,
-वता आपश्रौ १६, १७, ८; वैश्रौ;
-वताम् आश्रौ ४, १, १९, शंघ;
-वति आपश्रौ ११, ५, ४, बौश्रौ;

a) विप । बस. । b) चस. उप. = दान- । c) तस. वा बस. वा । d) तु. पागम. । e) वानि

इति B. ।

वैप-द्वि-५०

-वसु द्राश्रौ ६, ४, १५, लाश्रौ
२, १२, १६, -वसि- लाश्रौ १०,
२०, ९, वृदे २, १०२, -वद्म्य
वैगृ ३, ७ १५, या १, १२,
-वन्त शाश्रौ ८, २१, १^३फं,
आपश्रौ, -वन्त ऽ-वन्त काशु
३, ७, -वन्तम् बौश्रौ ८, ३
४फं, माश्रौ, -वन्ति आपश्रौ ८,
५, ४१, बौश्रौ, -वान् आपश्रौ
७, २, १३, वाघुश्रौ
तावती- -ती बौश्रौ २,
१० २०, २३, २७, भाश्रौ,
-ती शाश्रौ ८, २१, १फं, आपश्रौ,
-तीभिः माश्रौ ३, ७, १, छुसू
१, ७ : १९, २५, -तीम् आपश्रौ
२, २, ७, बौश्रौ, -त्य शाश्रौ ८,
७, ५x, बौश्रौ, -त्याम् बौशु
१ २१
तावतिथ- -थम् पा, पावा
५, २, ७७, -थेन काश्रौ ३, १,
९फं, पावा ५, २, ७७
?तावति-सूक्त^{१७}- -क्ता
आश्रौ ८, ५, ७
तावत्-काल- -लम् बौपि
२, ८, ७, वैगृ
तावत्-कृत्वस् (:) आपश्रौ
१४, ७, १४, बौश्रौ
तावत्-प्रमाण^{१८}- -णौ वैश्रौ
११, ९ : २.
तावद्-अधः-खा (त >)
ता^{१९}- -त्ता विध २१, ४^०

तावद्-अन्तर, रा^{२०}- -रम् विध
११, २, -रा कागृ ६५, ३, विध
२१, ४
तावद्-अन्तराल^{२१}- -ले बौशु
८, ११, हिशु ३, १७
तावद्-अवखा(त >)ता^{२२}-
-ता. कागृ ६५, ३^०.
तावद्-अवर्ध^{२३}- -धं
बौश्रौ २४, २३ : २
तावद्-द्वन्- -द्वम् बौश्रौ
१०, ४६ : ३१.
तावद्-वर्ध^{२४}- -र्धन् लाश्रौ
९, १२, १२
तावन्-मात्र- -त्रम् बौश्रौ
२९, १२ : १२, -त्राः बौश्रौ
२६, २३ ९, १०, -त्रेण बौश्रौ
१७, २८ : १२
तावन्मात्री- -त्री बौश्रौ
१९, २ . ११
तावन्-मान^{२५}- -नम् आपश्रौ
१९, २३, १२, बौश्रौ १३, ३१
६, २६, ६ १२, हिश्रौ २२,
५, १
तैस्-स्वम्-आदि- -वर्जम् शौच
२, ८४
१स, सा- ण्स आश्रौ १, २, १, ४,
७, ४^०, शाश्रौ, आपश्रौ १२, १९,
५^१, २३, ८^६, आमिगृ ३, १०,
५ : १०^{२५}, हिगृ १, ५, १^१, कौसू
११९, २^१, ४^१, पा ५५, १,
५६x, स ऽस आपश्रौ १२,

२५, ३, बौश्रौ १२, ५ : १५;
सा आश्रौ १, १०, ८^१, शाश्रौ,
काश्रौ ९, ११, १^{१६}, पागृ ३, ३,
५^६, हिगृ, सो (सः-उ) भासू १,
११
स(क >)का- पा ७, ३, ४५
?तदर्पिथ उद् √अर्प > उदर्पित
टि द्र
?तदहर्तो अप्राय ६, ८
?तदुरि^१ शौच १, १०५फं
तद्- पाउभो २, १, ११३
?तद्विदेय^{२६} द्राश्रौ ९, १, १६, लाश्रौ
३, ५, १५
√तन्^{२७} पाधा तना उभ विस्तारे,
चुरा उभ. श्रद्धोपकरणयो,
?अततनन्त^{२८} मागृ १, १०, ८;
२२, ३
तनुते या छ, ११फं, तनोति
अप्राय १, ५, या १०, २९,
ण्तन्वते पागृ ३, ३, ५, वागृ;
ण्तनुताम्^{२९} बौश्रौ ३, १८ २८,
२९ २१; वाश्रौ १, ३, ५,
११, ण्तनोतु^{३०} द्राश्रौ १२,
४, १, लाश्रौ छ, १२, १,
तन्वताम् माश्रौ ५, २, ८,
२०फं, ण्तनुहि द्राश्रौ ६, ३, ९,
लाश्रौ २, ११, ३, अतनुत
भाशि १०२फं, ण्तनन्वत
आपश्रौ १४, १२, ४, बौश्रौ;
ण्तनन्वन् मागृ १, १०, ८,
२२, ३, वागृ ५, ९, तन्वीत

a) विप । बस । b) ण्ति इति पाठः ? ण्व इति शोध- संभाव्येत (तु भाष्यम्) । c) सप्र.
अधः सावाः <> अवसाता. इति पामे । d) तद्धितार्थे द्विस । e) पामे वैप १, १४४९ C द्र । f) पामे.
वैप १, १४४८ h द्र । g) पामे. वैप १, १४४७ a द्र । h) पाठ ? ते इति शोध (तु. सपा आपश्रौ ९, ११,
२३) । i) सप्र आपमं २, ३, १ सु इति पामे । j) पामे वैप २, ३खं त्वम् तैत्रा ३, ७, ११, ५ टि द्र । k) पामे.
वैप १, १४५१ h द्र । l) वैप १ द्र । m) पाठः ? तद्विद्- > -विदे इति शोध (तु सस्थ टि तद्-> ते) ।
n) या २, १६; २८, ३, १४; १०, ७ पा २, ४, ७९, ३, १, ७९, ६, ४, १७, ३७, ४४, ९९ पावा ६, ४, ७७, ७, २, ४५
परामृष्टः द्र । o) पामे. वैप १ परि अद्वन्त शौ १४, १, ४५ टि. द्र । p) पामे वैप १, १४५३ j द्र ।

आपश्रौ २, १५, १५, बौश्रौ,
तनुयात् कप्र २, २, १२, तनुयु
आश्रौ २, १, १८
ऋततान आपश्रौ १०, २७,
१०, या १०, २९, ऋततान
ऋप्रा २, ४६, ऋततन्थ पाण्ड १,
४, १३^a, भाशि ५४, अन्त
या १२, ३४^क, अतनिषत्
या १२, ३४
तायते आपश्रौ ३, ११, २^क, १३,
१, १, बौश्रौ, माश्रौ १, २, ४, ५^क,
वाश्रौ १, १, २, २०^क, तायन्ते
वाधुश्रौ २, १० २, कौसू १२७, २
तत् > तत्-वत् > ^ववन्-नीति-
-ति: पावा १, ४, १०९.
२तत्, ता- ऋत शश्रौ २, १२,
१०, काश्रौ ३, ८, २२, ऋतम्
आश्रौ ७, ७, ३, शश्रौ, -ता:
या ८, ५^३.
तत्-वत्-वत् या ४, ९.
तत्तन^१-नात् या ५, १९, ६, २८.
ऋततनुष्टि^१-ष्टिम् अप ४८, ११५,
निघ ४, ३, या ६, १९०.
तत्तन्वस्-न्वत्^१ या ५, १५
तति-ति बौश्रौ २४, ५ १×५,
निसू, -तौ शश्रौ ६, १, ३, बौश्रौ
तत्य आमिष्ट २, ४, ९ ५
ऋतत्वाय वाधुश्रौ ४, १०३ : ८
ऋतन्^१-ऋतना^१ बौश्रौ ११, ३: १४,
१७, ३४ : ३, निघ २, १०,
ऋप्रा ७, ३१, तने^१ आश्रौ ७,
१२, ७, ऋप्रा ६, १२
तनन-नात् वृदे २, २६

तनय^१, या^१- पाठ ४, ९९, पाग ६,
३, ३४, -य निघ २, २^क,
-ऋयम् अप ४८, ८७, या १०,
७^क, १२, ६, -ऋयाय आपश्रौ
५, १२, १^३, बौश्रौ २, १६ :
४२, १७ : ४, हिश्रौ ३, ४,
१२^३, -ऋये आश्रौ ३, ३, १,
शाश्रौ ५, १७, ९, आपश्रौ ४,
१६, ५, भाश्रौ ४, २१, ४, हिश्रौ
६, ४, २६, भाण्ड ३, १२ २०,
-येषु या १०, ७^क, -यै: वृदे
५, १६४
तनय-लाभ-भाय आज्यो ६, ३
ऋत(न >) ना^१-नाया. आश्रौ ४,
७, ४, शाश्रौ ५, १०, १८
तनि(तु >) त्री-त्री या १२, ३०
१तनु^१-(>तनु-क-पा) पा ५,
४, २९
२तनु^१-पाठ १, ७, पाग २, २,
३८^१, ५, १, १२२, -नुना अप
६३, २, ६, -नुभ्याम् गौध २,
५०, -नुन् काश्रौ ८, ५, २२
तनिमन्-पा ५, १, १२०, -म^१
बौश्रौ ४, ८ : ४, ९ : ११, वैश्रौ
१०, १७ ६, १९ ५, -म^१
बौश्रौ ४, ९ २
तनिष्ठ-छे माश्रौ १, ८, ४, १२,
वाश्रौ १, ६, ५, २५, आपश्रौ ७,
१९, १, भाश्रौ ७, १४, १४
तनु-ता-पा ५, १, १२२.
तनु-नृणबिन्दु-पाग २, २, ३८^क
तनु-त्व-पा ५, १, १२२, -त्वे
पा, पावा ५, ३, ९१.

तनु-त्वङ्-नख-रोमन्^१-माणः
अप ६८, १, ११.
तनु-पुरीष-वम् बौश्रौ १०,
२१ १०, ३७ : ५, ४६ : २४;
१९, ४ १६, वैश्रौ १८, १२ :
२१, बौपि १, १६ : १२, बौशु
२१ ९
तनु-म(भा >) म^१-भा: अप
५२, १३, ३.
तनु-मध्य-ध्यानि हिश्रौ ५, ४,
४.
तनु-मिश्र-श्रेण माश्रौ २, १, १,
८
तनु-शि(र >) रा^म-रा ऋअ
१, ५, ५, २, १, १२०, अअ ५,
२८, ऋप्रा १६, ३५
तनु^१/कृत > तनु-करण-णे पा
३, १, ७६, पावा ३, १, २६
३तनु, नू^१-पाठ १, ७, ८०, -नवः
शध २८६, -नु. वृदे २, २६;
-नुभि वाधुश्रौ ३, १३ १६;
-ऋनुभ्य आपश्रौ ३, ७, ५;
भाश्रौ ३, ६, ९, वैश्रौ ७, ६ :
१२, हिश्रौ २, ४, २७, -नुम्
आपश्रौ ८, ४, १, बौश्रौ २७, ७ :
६^क, अप ३६, ५, १, ३, विघ
१, ३७, वृदे ३, १, -ऋनुवः
आपश्रौ २, २०, ६; ५, १०, २^१;
३×५, १६, १४, ४^१, १९, ११, ९^१;
बौश्रौ २, १६ १३^१×५, १०, २० :
७^१, १९, २ : २४^१, भाश्रौ ५, ५,
१५×५^१; वाधुश्रौ: हिश्रौ ३, ३,
३९^१, ११, ५, २८^१, २३, २, ९^१;

- a) घृ ११५४ ० द्र । b) पामे वैप १, १४५४ ० द्र । c) तु. पाम । = तन्वन्-नीति- यद्र. ।
d) = तनन- (आप [तु दु.]) व्यु. ? । e) वैप १ द्र । f) पाग पाठ । g) = सूत्र- । h) = कृश-,
सूत्रम- । i) तनुतड- इति (काचित्क पामे. [तु भाखडा]), तड-, तनु- इति पासि । j) = यकृत्- ।
k) तु पागम. । l) विप. । बस. । m) = उष्णिक्-छन्दो-विशेष- । बस. । n) अप २२, ९, २ ल्वचम् इति पामे. ।
o) पामे. वैप १, १४५५ ० द्र. ।

आमिगृ ३, ६, १ : १०^a, बौपि
१, ८ ९^a, -तनुवम् आपश्रौ
१, २५, ९^b, १०, ६, ६, बौश्रौ
१, १०-९^b×५, भाश्रौ १, २६,
७^b×५, वैश्रौ, हिश्रौ १, ६,
५२^b, भागृ २, ३० : १४^c,
-तनुवा आपश्रौ १०, ३, ८,
बौश्रौ, -तनुवे आपश्रौ ४,
१६, ५^d, ५, १५, ५, बौश्रौ
३, १२ २३^d, भाश्रौ ४, २१, ४^d,
हिश्रौ ६, ४, २६^d, पागृ ३, १,
४^d, जैगृ १, २४ : ६^d, -तनुवै
आपश्रौ २, १, १७^e, १४, २९,
३^f, भाश्रौ २, १, १७^e, हिश्रौ
१५, १, १८^e, ७, १६^f, आमिगृ
३, ६, ३ १९^e, ७, १ : १३^f,
बौपि १, ११ १६^e, १७
१२^f, हिगृ १, १६, ७, -तनुवौ
आपश्रौ ५, १५, २^g, बौश्रौ; -नू
जैश्रौ २३ ८, जैश्रौका ५२,
आपमं १, ११, २^h, कागृ ३०,
३^h, वागृ १६, १^h, तैत्रा ४, ५२,
-तनु आपश्रौ ३, १०, ६, ८,
१३, १२, शाश्रौ, या ८, ५,
-तनुनाम् आपश्रौ १४, १६, १,

१७, ९, १, बौश्रौ, -तनुभि
आश्रौ २, ११, १२, शाश्रौ,
-तनुभ्यः आपश्रौ ३, ११, २,
बौश्रौ, -तनुम् आश्रौ २, १९,
३^h, शाश्रौ ३, १७, १^h, काश्रौ
५, २, १४ⁱ, २५, ६, ७^h,
आपश्रौ, बौश्रौ १, १२ : २१^j,
वाश्रौ १, ३, २, २१^j, आपमं १,
२, ७^j, पागृ २, १, ९ⁱ, -तनुषु
शाश्रौ १८, ११, २, आपश्रौ,
-०नो या २, १२, -तन्वः
आश्रौ २, ५, ९×५, शाश्रौ २,
११, ३^k, ४, ११, ६ⁱ, काश्रौ,
माश्रौ १, ६, ४, २५^d, वाश्रौ १,
५, ५, ८^d, द्राश्रौ ४, १, ८^m,
लाश्रौ २, १, ७^m, कौसू ४६,
१४ⁱ, ७४, १९^d, या ८, ५,
-तन्वम् आश्रौ ३, ११, ११,
शाश्रौ, आपश्रौ ७, ६, ५ⁿ, ९,
६, ३^l, भाश्रौ ९, ८, ६^l, माश्रौ
१, २, ३, २८^o, ७, ३, ४^o,
वाश्रौ १, ६, २, १ⁿ, ६, ११ⁿ,
वैश्रौ २०, ११ ४ⁿ, या १,
८, १९, ३, २१, १०, १८^p,
४^o, -तन्वा आश्रौ २, ५, १०,

३, ८, १^q, शाश्रौ, माश्रौ १, ३,
५, १८^r, ८, ३, २९^s, ४, ३६ⁿ,
वाश्रौ १, ५, ४, २९^t, ६, ४, ३४^s;
मागृ २, ४, ५ⁿ, कौसू ४४, १४^s,
४५, ११ⁿ, या २, १२^q, १२,
३, -न्वा पागृ २, ४, ७^k,
-तन्वाम् आश्रौ २, १९, ३२^u,
शाश्रौ ३, १७, १^u, काश्रौ २५,
६, ७^u, माश्रौ, -तन्वी ३^v ऋषा ८,
१५^w, -तन्वे माश्रौ ३, ४, १ⁱ,
या १४, २६, -न्वै^x कौगृ ५,
५, ६^v, -न्वौ शाश्रौ १४, २९,
३, ६, काश्रौ २६, ४, १२^k,
वाश्रौ १, ५, ४, ३८^k

१तान्व^z-न्व या ३, ६^zतु
तनु-कृत्^{a1}-कृद्भ्य वैश्रौ १४,
१४ १३^{b1}
तनु, [नू^{c1}]-त्यज्- -त्यक् या ३
१४, -त्यजः आमिगृ ३, ४, ४-
११, बौगृ १, ५, २९^{d1}, बौपि
३, ४, १४, १५, आपघ २, २६,
३, हिघ २, ५, १९३, -त्यजा
या ३, १४^zतु
तनु-त्याग-सदृश- -श. विध ३,
४४.

a) सपा. ऋ १०, १६, ४ तन्वः इति पाभे । b) पाभे वैप १, १४५५ I द्र । c) सपा शौ ६, १२४, २ तन्व इति पाभे । d) पाभे वैप १, १४५६ K द्र । e) पाभे. वैप १, १४५७ J द्र । f) पाभे वैप १, १४५८ a द्र । g) सहिताया सानुनासिकत्वं द्र । h) =सपा तै १, ७, १२, २ मै १, १०, ३ ऐआ १, ३, ४ । काठ ९, ६, १४, ३, ४५, १२ तु तनु इति, शौ ७, ३, १ तन्वा इति च पाभे । i) पाभे वैप १, १४५८ U द्र । j) पाभे वैप १, १४५७ a द्र । k) पाभे. वैप १, १४५६ g द्र । l) पाभे. वैप १, १४५५ l द्र । m) सप्र. शौ १०, ५, २३ विशिष्टः पाभे. । n) पाभे वैप १, १४५५ m द्र । o) पाठः ? ञ्वाम् इति शोध (तु माश्रौ ३, २, ५ हिश्रौ १५, २, ११) । p) पाभे. वैप १, १४५८ w द्र । q) पाभे वैप १, १४५९ k द्र । r) पाभे. वैप १, १४५६ b द्र । s) पाभे वैप १, १४५६ c द्र । t) पाठः ? तव इति शोध (तु तै १, ५, १०, १) । u) =सपा. मै १, १०, ३ ऐआ १, ३, ४ । काठ ९, ६, १४, ३, ४५, १२ शौ ७, ३, १ तु तन्वम् इति, तै १, ७, १२, १ तनुवाम् इति च पाभे । v) ञ्वि इति पपा. । w) पाभे. वैप १, १४५६ i द्र । x) उत्तरेण संघिरार्थः । y) पाभे. वैप २, ३खं तनुवे तैआ ६, ४, १ टि द्र । z) वैप १, १४६० f द्र । a¹) =तनु-कृत्- । b¹) सपा. ऋ ८, ७९, ३ प्रभृ तनुकृद्भ्यः इति पाभे । c¹) या. पाठः । d¹) पाठः ? तनुत्वच्- > -त्वचः इति शोधः (तु. सपा. हिगृ १, २४, ४ त्वच् इति पाभे) ।

तनु-हविस्^a -विभि. भाश्रौ ५, १३, १५, -विभ्यं भाश्रौ ५, १४, २, -वीषि भाश्रौ ५, १३, २०, १४, १.

तनु-कृत^b -कृत. शाश्रौ ७, १०, १४, -कृतभ्य. आपश्रौ ११, १६, १६, बौश्रौ ६, ३०. १६, माश्रौ २, २, ४, २४, हिश्रौ ७, ८, १७, चाश्र ३. २

तनु-ज^c -जम् सु २७, ५

तनु-त्यक्त्^d -क्ता या ३, १४

तनु-द्विपि^e -वि पाठ २, ६, १०

तनु-देवता -ता. शाश्रौ २, ३, १०, -ताभि शाश्रौ २, ३, १४, -ताभ्यः काठश्रौ १७

तनु-नपात्^f -पाग ६, २, १४०, -पात् ङाश्रौ १, ५, २१, २, ८, ६, शाश्रौ, बौश्रौप्र ५४: ३०, वैष ४, ८, १३०, ऋश्र २, १, १३, या ८, ५, ६, -०पात् या ८, ६, १, -पातम् आपश्रौ २, १७, २, भाश्रौ २, १६, ७, वैश्रौ ६, ७: ४, हिश्रौ २, २, ३१

१तानूनपा(त>)ती^g -ती निस् ४, ८. २, -तीम् बौश्रौ १०, ११ ८, ९, लाश्रौ ६, ४, १३, निस् ४, ८ ४, ९

२तानूनपात^h -तेषु निस् ४, ८ ४

तानूनपातिन्ⁱ -

-तीनि निस् ४, ८. ३, ६.

तनूनपात्-वत् -वन्ति या

८, २२^j

तनूनपाद^k -दानाम् वैध ४, ८, ९

तनूनप्त्^l -प्त्रा या १०, १८, -प्त्रे काश्रौ ८, १, १५, बौश्रौ ६, १९: १, माश्रौ २, २, १, २, वाघश्रौ ४, ५४: ५, वैताश्रौ १३, १६, शुभ्रा २, ४७, याशि १, ८५

तानूनप्त्र^m -प्त्रम् आश्रौ ४, ५, ३, शाश्रौ, काश्रौ ८, १, १९, हिश्रौ १०, ३, ३१ⁿ, -प्त्रस्य बौश्रौ १४, २ ५, ९, २१, १३: १९, -प्त्रे अप्राय ३, १

तानूनप्त्र-पात्र -त्रे वैताश्रौ १३, १६

तानूनप्त्रिन्^o -प्त्रिण. आपश्रौ ११, ११, ११, १३, १८, २, वैश्रौ १२, २३ ६, १६, २२. ६^p

तनु-प^q -पात्^r आश्रौ ५, २, १४, बौश्रौ १४, ९ २९, हिश्रौ १०, ८, ४४, वैताश्रौ १७, ४, कौस् १०८, २

तनु-पा^s -पा. शाश्रौ २, ११, ३, ४, १२, १०^t, ६, ८, ६^u; आपश्रौ, -पा^v शाश्रौ १, ६, ११

तनु-पावन्^w -वानः आश्रौ ५, ६, १^x, ७^y, ११^z

तनु-पृष्ठ^{aa} -ष्ठ लुस् २, १४: १५, -ष्ठस्य शाश्रौ १०, ८, २१, -ष्ठे वैताश्रौ ४२, ९; -ष्ठौ क्षुस् २, ९: २४

तनु-पृष्ठ^{ab} -ष्ठ आश्रौ ८, ४. २७.

तनु-शुभ्र^{ac} -भ्रम् या ६, १९^{ad}

तनु-शोभयितृ -तारम् या ६, १९

तनु-हविस्^{ae} -वीषि काश्रौ ४, ५, ८, १०, ७, बौश्रौ २, ७: २३.

तनुस्^{af} -पाठ २, ११७

तन्ति, न्ती^{ag} -न्ति हिश्र १, २३,

१, गो २, २०, -न्तिम् आपश्रौ २१, ८, २, हिश्रौ १६, ३, ३७, हिश्र १, २३, १, गो २, २०, १, -न्ती गोश्र ३, ६, ७, द्राश्र ३, १, ४९, -न्तीम् गोश्र ३, ६, ७, द्राश्र ३, १, ४९

तन्ति-चर^{ah} -र आपश्रौ ३, ४, ८, बौश्रौ १, १९ ८, भाश्रौ ३, ४, ९, माश्रौ १, ३, ४, ३, वाश्रौ १, ३, ५, १७, हिश्रौ २, ३, ४९, गोश्र १, ८, २७; द्राश्र २, १, २६.

तन्ति-पाल -पा ६, २, ७८.

तन्ती-विहरण -णम् गोश्र ३, ६, ८.

१तन्तु^{ai} -पाठ १, ६९, -तन्त्व.

आश्रौ ३, १४, १०, शाश्रौ, -तन्त्वे काश्रौ ३, ८, २३.

आपश्रौ; -न्तु शाश्रौ २, १२, ९, १४; काश्रौ, या ६, १२;

-न्तुना अप ५८^{aj}, ३, २, -तन्तुभि. द्राश्रौ ११, १, ६;

लाश्रौ ४, १, ६, -तन्तुम् आश्रौ १, ११, ९, १४; शाश्रौ, -न्तु

a) = तनु-हं । न्त्वं इत्यपि मूको । b) वैप १ द्र । c) = प्रवर-विशेष- । d) = ऋन्- । साऽऽस्यदेवतीय अण् प्र । e) = तानूनपातिन्- । मत्वर्थीयः अच् प्र । f) मत्वर्थीयः इनि प्र । g) मत्वर्थे अच् प्र । h) = आज्य-विशेष- [आश्रौ. काश्रौ प्रसु.] । शेष वैप १ द्र । i) 'प्रम् इति पाठ १ यनि. शोषः । j) तनु इति पाठ. ? यनि. शोषः (लु. आपश्रौ.) । k) पाभे. वैप १, १४६० S द्र । l) पाभे. वैप १, १४६१ G द्र । m) = सोमयाग-विशेष- । बस पू. अर्थः ? । n) = [तनुशब्द-युक्त-] हविर्-विशेष- ।

कौसू १०७, १, -न्तु आपश्रौ
२१, १७, ९, हिश्रौ, -न्तुनाम्
आपश्रौ १, १२, ८, हिश्रौ १, ३,
२९, -न्तो शाश्रौ १५, २४, ११,
-न्त्वा शुश्र १, १६८, -न्त्वोः
कौसू ९३, १५

तान्तव^१-वम् वाध २, २५,
११, ६७, -वे पावा ७, ३, ४५
तन्तु-त्रय-यम् कप्र १, १, २
तन्तु-मत्-मते आपश्रौ ९, ८,
५, बौश्रौ, -मान् बौश्रौ २७, ६:
२३, वैश्रौ २०, १५: १०, ३२:
५.

तन्तुमती^२-ती बौश्रौ
२७, ११ १८, २०, २९, १:
१२, -तीः आमिष्ट २, ६, ५
५×५, बौष्ट, -तीम् बौश्रौ २७,
४. १८, वैश्रौ २०, ३९: २,
-त्व बौश्रौ २८, ११: १०,
-त्वा बौश्रौ २९, ७ ६, ८:
१६, -स्यौ माश्रौ ५, १, २, १६

तान्तुमत्^३-त् आमिष्ट २,
६, ५: ७, बौष्ट २, ९, १०,
भाष्ट ३, १५ १६, २१: १०
तन्तु-वाय^४-यः वैध ३, १४, १
तन्तु-शब्द^५-ब्दा बौश्रौप्र
३१: ८

तन्तु-शुक्लपटो(ट-उ)पम^६-मा
अप ५२, १३, २

?तन्त्व(न्तु-अ)प्र-(> तन्त्वप्री-
य- पा) पाग ४, २, १३८

१तन्त्र^७-पाउभोर, ३, ८५, पाग ५,
२, ३६^८, -न्त्र^९ काश्रौ १, ७, ७,

-न्त्रम् शाश्रौ १४, ३९, ५×५,
काश्रौ, -न्त्रयोः निस् ६, २
२३×५, -न्त्रस्य आश्रौ १, १,
३, बौश्रौ, -न्त्राणाम् आश्रौ
१२, १०, २, कौशि ७५, -न्त्राणि
बौश्रौ २०, १९ ८, २४, ११
९, निस्, -न्त्रात् बौश्रौ २३,
६ १२, पा ५, २, ७०, -न्त्राय
बौश्रौ २०, ३: २१, -न्त्रे आश्रौ
४, १, ९, शाश्रौ, -न्त्रेऽन्त्रे
बौश्रौ २०, ३. २२, २१, ८
३९, -न्त्रेण काश्रौ १६, ७,
१७×५, बौश्रौ २३, १९. १७,
निस् ८, २ ११, -न्त्रेभ्यः निस्
८, ११ २२, -न्त्रेषु बौश्रौ २०,
१८. ७, निस् ८, ५: ६.

तान्त्र^१-न्त्राणि या ८, ७

तान्त्री-न्त्री आपश्रौ
१४, १२, ६, -न्त्रीणाम् आपश्रौ
१४, १२, ५, हिश्रौ १०, ६, ८,
मीसू १०, ८, ४९^२

तान्त्रिक-क अप्राय २, ५

तन्त्र-क-पा ५, २, ७०

तन्त्र-करण-णे बौश्रौ २०,
१८ १०, १९: ७, २२ १४

तन्त्र-ज्ञात्र^३-न्त्रेण निस् ३, ६
३४, ५, ९ २४

तन्त्र-तर-रम् निस् ५, ८ ७^४,
६, ७: ३३, ७, ४: ४३.

तन्त्र-ता-ताम् आश्रौ ११,
१, १५

तन्त्र-नियम-मः मीसू १२,
३, ३.

तन्त्र-भाव-व मीसू ११, २
११, ४, ३१

तन्त्र-भू(त>)वा-ताम् अशा
२०, ११.

तन्त्र-भूय-यम् बौश्रौ २४, ३:
९

तन्त्र-भूयस्-त्व-त्वात् मीसू
१२, ३, १

तन्त्र-भेद-दः मीसू ११, ४,
१४, १२, १, २, २, १५

तन्त्र-मध्य-ध्ये मीसू १२,
१, ३, २, १७, ३२

तन्त्र-लक्षण-णम् शाश्रौ १,
१६, ६, लाश्रौ ६, ९, १३

तन्त्र-विकार-रः आश्रौ २,
१४ १४

तन्त्र-विधान-नात् मीसू ११,
२, १४, २०

तन्त्र-विलोप-पः लाश्रौ ९,
११, १३, १५

तन्त्र-शेष-षम् आमिष्ट २,
५, ४ १५

तन्त्र-समास-स बौश्रौ २०,
१८ २३, २२ १, -से बौश्रौ

२, ७: २०, २०, १८ २३;
२२ १

तन्त्र-स्थ-स्थः निस् ९, २:
३२

तन्त्र-स्थान-नम् बौश्रौ २४,
३: ६

१तन्त्र-स्वर->२तन्त्रस्वर^५-
राणि आश्रौ २, १५, १६.

तन्त्र-हर, रा-र्या बौश्रौ २२,

a) विकारार्थे अण् प्र.। b) = आहुति-विशेष-। c) विप.। तस्येदमीयः अण् प्र। d) नाप। उस्.।

e) विप। बस। f) विप। द्वस > बस.। g) भाप, नाप. (शास्त्र-, सामन्-, प्रवासी- [पा ५, २, ७०.]।
वैप १ द.। h) तन्त्र-, विघ्न- इति भाषा.। [पक्षे], पागम, विघ्नतन्त्र- इति भाषा. पासि.। i) = तन्त्रेण।
j) विप.। तस्येदमित्याद्यर्थे प्र.। k) ँद्री° इति जीसं.। l) उप √ज्ञा + ष्टृन् प्र (पाउ ४, १५९.)। m) शोचार्थ
ष्टृ ८१० b द.। n) मत्वर्थीयः अण् प्र.।

१२ ११, -राणाम् बौश्रौ २१,
१ : २९
तन्त्रा(न्त्र-आ)कूपार^३-रम्
निसू ९,५ ३४
तन्त्रा(न्त्र-आ)दि-दिषु वाश्रौ
१,१,५,१
तन्त्रा(न्त्र-अ)न्तर-रे कप्र ३,
७, ८,
तन्त्रा(न्त्र-अ)न्वित-तानि
निसू ४,१२. १४, ५, २ १९,
७ : १६, -ते निसू ९, २ : २९
१तन्त्रा(न्त्र-अ)पवर्ग-र्गौ बौश्रौ
२०, ३ २३
२तन्त्रा(न्त्र-अ)पवर्ग^४-र्गौ
मीसू ११, ३, ७
तन्त्रा(न्त्र-अ)पेत-तः निसू ९,
२ ३३
तन्त्रा(न्त्र-आ)यिन्^५-यिणे
शाश्रौ ८, १५, १२^६, द्राश्रौ १४,
३, ५^६, लाश्रौ ५, ७, ४^६
तन्त्रा(न्त्र-अ)र्थ-र्थस्य मीसू
१२, १, ३
तन्त्रा(न्त्र-अ)विलोप-प
निसू ५, ११ : १९, ८, ८ : २०
√तन्त्रि>तन्त्रयित्वा वैश्रु ६,
६ ४, ७, ७, ४ ९
तन्त्रित-पा ५, २, ३६
तन्त्रिन्->न्त्रि-समवाय-ये
मीसू १२, १, १
तन्त्री/भू>तन्त्री-भाव-
-वात् आपश्रौ २१, ३, २, भाश्रौ
६, १७, ४, हिश्रौ १६, १, ३६.
तन्त्रै(न्त्र-ए)क-कम् वाघ

२३, ४३.
तन्त्रो(न्त्र-उ)पधि-धिना निसू
९, ७ १६
तन्त्र्य, न्या-न्त्र्यम् निसू ६,
८ ६, -न्या माश्रौ १, ५,
५, ४
२त(न्त्र>)न्त्री^७-पाउ ३, १५८,
-न्त्रीभि बौश्रौ २३, ११ २९;
-न्या कौसू ३२, १२
३त(न्त्र>)न्त्री^८-न्त्रीम् काश्रौसं
२८. १, -न्त्र्य द्राश्रौ ११,
१, २, लाश्रौ ४, १, २
१तन्त्रतु-पाउ ४, २
१तन्त्रत्-न्त्रन् आश्रौ^९ १, ११,
९x४, शाश्रौ, आश्रु ४, ६, ७^९,
-न्त्रन्त्रम् बौश्रौ १, ९ : १४,
नाशि १, ६, १९
तन्त्रत्-श्यामाक-कम् कौसू
७४, १६
तन्त्रान-नस्य निसू २, ७ : १७
तान-पावा ३, १, १४०, -न
काश्रौ १, ८, १८^{१०}, भासू ३,
२७^{११}, २८^{११}, -नाः नाशि
१, २, ४^१, -नान् नाशि १, २,
८^१, -नेन वैताश्रौ ३०, २७^{११}.
तान-राग-स्वर-ग्राम-मूर्च्छना-
-नानाम् नाशि १, २, २
तायमान->न-रूप^{१२}-पाणाम्
आश्रौ ७, १, ११, -पाणि शाश्रौ
१३, २४, १६, १८
तितनिषु-भुम् या ६, १९.
√तन् (=√स्तन् [शब्दे])>२तन्त्र-
तु^{१३}-तु. या १२, ३०^{१३}

तन्त्रु^{१४}-न्त्र्य या ४, १९^{१४}
तन्-प्रसृ, १-३तनु-√तन् द्र
४तनु^{१५}-[>तानन्त्र्य-(>न्त्र्याय-
[न>]नी-) पा] पाग ४, १,
१०५, १८
तनुतड-२तनु-टि द्र.
तनुल-पाउना ५, ८
तन्त्रस्-(>√तन्त्रस्य पा.) पाग ३,
१, २७
तन्त्रि, न्त्री-, १तन्त्रु-प्रसृ. √तन् द्र
२तन्त्रु^{१६}-[>तानन्त्र्य-(>न्त्र्याय
[न>]नी-) पा] पाग ४, १,
१०५, १८
√तन्त्र पाघा चुरा आत्म. कुटुम्ब-
धारयो
१-३तन्त्र-प्रसृ √तन् द्र
तन्त्री (>तन्त्री/कृ पा) पाग १, ४,
६१.
√तन्द् >तन्द्->तन्द्^{१७}-पाउना
२, १५, पाग ५, २, ३६, -न्द्
नाशि २, ८, २९^{१७}
तन्द्-विन्^{१८}-विणम्
बौश्रौ ९, ८ : २०^{१८}
तन्त्रित-पा ५, २, ३६.
√तन्द् >तन्द्^{१९}-पा ३, २,
१५८.
√तन्द्, तन्द् यते शाश्रौ १५,
१९, १^{१९}.
तन्द्^{२०}-पाउ ४, ६६, -न्द्ः बौश्रौ
२, ५ : २^{२०}
तन्द्नी-पाउभो २, १, २४२,
-न्द्नी आज्यो १२, १०, -न्द्नीम्
गौपि १, ५, ६

a) साम-विशेषयोः द्वस । b) विप. । वस । c) वैप १ द्र । d) ष्यणे इति पाठः ? यनि. शोधः
(तु मा ३८, १२) । e) =वीणा-, वीणा-गुण- । <√तन्त्र इति पाठः । f) =स्नायुमयरज्जु- । g) पाभे.
वैप १, १४५४ f द्र । h) =एकश्रुति- । i) तत्. इति पाठः ? यनि शोधः । j) =सगीत-स्वर- ।
k) =ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । l) पाप्र. < त (द्र) > न् + √द्रा इति । m) तन्त्रीम् इति कालिंसं. ।
n) विनि. प्र. उसं (पावा ५, २, १२२) । o) पाप्र. <√तन्द्वा इति ।

इतन्नोक्तस्यामानोः वाषुश्रौ ४, ६४ ४

इतन्न्यतु- √तत् द्र

इतन्न्यतु- √तत् (=√स्त्त्) द्र

इतन्न्यन्तः अप ४८, ११६

तन्व^a->रतान्व^a- न्वः ऋञ २, १०, ९३

इतन्नोपप्लवमध्य^b- -ध्वै. बौशु ६ १०

√तप्^c पाधा भ्वा पर सतापे, दिवा आत्म दाहे ऐश्वर्ये च, चुरा उभ दाहे, तपति आश्रौ ८, १३, १४, शाश्रौ १४, २४, ३, १५, २४, ११, १६, ३, १०, बौश्रौ, तपन्ति बौश्रौ १, ८ २१, सु १७, १, ऋया २, २२, ४, ६, ६, ३२, तपामि वैताश्रौ १४, ११, तपत् आश्रौ १, १२, ३४^d, तपः आश्रौ १, १२, ३४^d, ऋतपत् आपश्रौ १४, २९, १९, आमिष्ट ३, ६, १ : ९, बौपि १, ८ ८, तपन्तु आश्रौ २, १२, २^e, ऋतपस्व आपश्रौ १४, २९, ३^f, हिश्रौ १५, ७, १६^g, आमिष्ट, ऋतप, > पा, पो (पा + उ) शाश्रौ ५, ९, १०, आपश्रौ १४, २९, ३^h, बौश्रौ ९, ७ १४ⁱ × ×, भाश्रौ, माश्रौ ४, २, १८^j, हिश्रौ १५,

७, १६^k, तपध्वम् वृदे ६, १४०, तपत् > ता तैत्रा ३, १२^l तेषे शाश्रौ १४, १२, २, ऋञ २, १०, ४७, वृदे ५, १५५, ७, ४९, तताप वैताश्रौ ४, ८^m, तेषिरे या १४, ८, ९, तेषु वृदे ६, १४१ तप्यते आपश्रौ २१, २०, ३ⁿ, २३, १४, ३, बौश्रौ, तप्यति वाध २७, ५, तप्यामहे कौसू ५७, २३, तप्यताम् वाश्रौ १, ३, २, १८^o, हिश्रौ ६, ३, १७^p, तप्यतु वाध २५, ५, तप्यन्ताम् माश्रौ १, २, ५, ८^q, ऋतप्यस्व आपश्रौ १, १२, ३, बौश्रौ, ऋतप्येथाम् बौश्रौ २०, ८ २३, माश्रौ १, २, ३, ८, ऋतप्यध्वम् आपश्रौ १, २३, ६, बौश्रौ १, ८ : १८, २०, ८ २३, भाश्रौ १, २४, ९, हिश्रौ १, ६, २१, अतप्यत शाश्रौ १६, १५, १, बौश्रौ तापयति कौसू २६, २५, २९, २२, ऋतापयामसि माश्रौ १, २, ५, ८^r, वाश्रौ १, ३, २, १८^s, हिश्रौ ६, ३, १७^t, तापयेत् अप ३१, ९, ४, ५, वैध ३, २, ६ इतप- पाग ३, १, १३४, -पाय^u

काग ४, २०^v ऋतप(प-ऋ)षि^w- -षिन् आमिष्ट २, ६, ३ ३७, बौध २, ५, २७ ऋतपिष्ट- -०ष्ट आपश्रौ १४, २९, ३, हिश्रौ १५, ७, १६, अप्राय ५, ६, -ष्टे या ६, १२ तपिष्ट-तम- -मैः या ८, १९. तपत्- -पत् बौश्रौ १८, ५२ १५; -पन्त बौश्रौ ९, ७ ३^x. इतपन्, ना^y- पाग ३, १, १३४; -ऋना^z आपश्रौ ४, ६, ४, भाश्रौ ४, ९, २, हिश्रौ ६, २, १५, -ने मैश्च २१^{aa} तपन्-मन्त्र- -न्त्रम् बौश्रौ २०, ८ : २२ तपनीय^{ab}- -यम् अप ११, २, १. तपनीय-व(र्ण)>र्णा- -०र्णे विध ९९, ३, ७. इतपन्^c- > तापनीय^d- -याः चव्यू २. ३५ तपन्त^e- -न्ताय काग ४, २०^f. इतपस्^g- पाउवृ ४, १८९, पाग ४, ४, ६२, -प शाश्रौ ४, १३, १ × ×^h, काश्रौ, माश्रौ २, ३, ७, ४ⁱ, शध १०७^j, बौध २, १०, ३२^k, -ऋपस काश्रौ ७, ८, १९, आपश्रौ, काग ४१, ११^l,

a) वैप १ द्र । b) अर्थ. व्यु. च^१ । षस > षस, तन्व- = तनु, उपप्लव- = अन्त इति द्वारिकानाथयज्जा । c) या ६, ३, ११ पा ३, १, ८८, २, ४६, पावा ३, १, ८७ परामृष्ट द्र । d) पाभे वैप २, ३ खं तमत्^२, तमः तैत्रा ३, ७, २, ७ टि द्र । e) पाभे वैप १, ६३९ ट्ट द्र । f) पाभे वैप १, १४६६ k द्र । g) सकृत् तपा इति पाठः^१ सकृच्च पाभे. वैप १ तुव ऋ ६, ५, ४ टि. द्र । h) शोधार्थं वैप १, १४६४ a द्र । i) पाभे वैप २, ३ खं. शोचतु तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि. । j) ता^१ इति पाठः^१ यनि. शोध (तु वाश्रौ) । k) पाभे वैप २, ३ खं नाश-यामसि तैत्रा ३, ३, २, १ टि द्र । l) = देवता- । m) नाप । कस । n) भाप विप नाप. च । o) पाभे. वैप १ परि. तपनाः पै १३, १०, ९ टि द्र । p) अर्थ व्यु च^२ = प्रकरण-विशेष- इति संभाव्येत । q) = सुवर्ण- । अर्हार्थं छ>ईयः प्र. (वैतु अभा. करणे अनीयर् इति) । r) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । s) तेनप्रोक्तमर्घत इत्यर्थे छण् प्र. खस. (पा ४, ३, १०२) । t) कर्तरि षच् प्र (पाउ ३, १२८) । u) पाभे. वैप १ मनस तै ३, २, ८, २ टि. द्र । v) = व्याहृति-विशेष- । w) सकृत् तप इति पाठः^१ यनि. शोध (तु सपा. आपमं २, २, १० प्रष्ट) ।

शुभ्रा ३, २७^०, -पसा आश्रौ ३,
१२, २७^२, शाश्रौ, आम्रिष्ट ३,
६, १ ९^०, माष्ट २, १३, ६९,
-पसाम् अप ३८, १, १, वैध २,
५, ९, -पसि शाश्रौ १६, १५, १,
आपश्रौ, -फपमे आपश्रौ १५,
७, ३, २०, १, १७, काश्रौम,
-पासि वाध ६, २, बौध

१तापस- पा ४, ४, ६२, ५,
२, १०३, -स बौध ३, ३, १९,
२०

तापमी- पाग २, १,

७०

तापसा (स-अ) पसद^d-

पाग २, १, ५३

तप-कर्मक- -कस्य पा ३, १,
८८, पावा ३, १, ८७

तपःक्षय- -ये अप ४२, २, १३

तप क्षय-जन्म-प्रापक^e-

त्व- -त्वात् वैध १, ९, १४^e

तपः-पूत- -तः विध ८३, ११

तपश्-चित्- -चित्ते बौश्रौ १०,
२३ १५, वैश्रौ १८, १४ : ३३.

तापश्चित^f- -तम् आश्रौ

१२, ५, ११, १३, शाश्रौ,

-तस्य काश्रौ १७, ११, १२^h,

लाश्रौ १०, १३, १, -तानि आश्रौ

१२, ५, ८, -ते काश्रौ १७, ७,

१४, आपश्रौ १७, २६, ३१,

बौश्रौ ९, १२ २४, लाश्रौ १०,

१०, ६

तापश्चित-विकल्प-

-ल्प काश्रौ २४, ७, २७.

तपश्चिताम्-अयन¹- नम्
आपश्रौ २३, ११, १, -नेन बौश्रौ
१७, २३ : १

तप [स्¹]शब्द- -ब्दः आपध
१, ५, १, द्विध १, २, १

तप [स्¹]श्रील¹- -ल वैध
१, ७ ५, बौध २, ६, १७, गौध
३, २६

तपसादे^m काश्रौम ७ २

फतपसु-पति- -ति बौश्रौ ६,
१९ ५, वैताश्रौ १३, १८^m

√तपस्य पा, पावा ३, १, १५

तपस्यमान- -नान् या २,
११.

१तपस्य, स्या- -स्यम् बौध २,
३, १, -फस्या. आपश्रौ १०,
१४, १, बौश्रौ २८, ९ १८,

वैश्रौ २१, २. ५, -स्याभ्य
काश्रौ २५, ११, २९ⁿ

तपस्-वत्- -वते शाश्रौ ३, १९,
१५, आपश्रौ, -वान् आश्रौ ३,

१२, २६, माश्रौ १, ४, १, २७^o,

वाश्रौ, अप्राय ५, ६ⁿ

तपस्वती- -तीम् अप्राय ५, १

तपस्-विन्- पा ५, २, १०२,
-विन् वाश्रौ ३, २, ५, ३५, शंघ,
-विन्म शाष्ट १, २, ६, विध ३,

७०, गौध ११, १४, -विनाम्
अप ५८^r, ४, ५, विध ९९, १४,

-विने आश्रौ २, १, ४, या २, ३,
-विनौ वृदे ५, १५०, -फवी

आपश्रौ ४, ५, ३, १०, १२, २,
२१, १, १०, भाश्रौ ४, ६, ६××,

वाश्रौ

तपस्विनाम्-अयन¹- -ने
द्विश्रौ १८, ४, ११

तपस्-संयोग- -गम् वैध २,
५, ५.

फतपो-जा- -जा आश्रौ ५, ६,
१२, ७^३, ११^२, आपश्रौ

तपो-घन, ना¹- -ना सु ३, ४;
-नैः अप २२, ८, ३.

तपो(पस्-अ)धिक¹- -काय
आम्रिष्ट २, ७, १०. १४

तपो-निधि- -धिः आश्रौ १३,
९.

तपो(पस्-अ)न्त¹- -न्तम् विध
९५, १६

तपो-बल- -लात् शाष्ट ४, ५,
१५, ऋअ ३, ४

तपो-मध्य¹- -ध्यम् विध ९५,
१६

तपो-मय- -यम् सु २७, २, वाध
६, २६

तपो-मूल¹- -लम् विध ९५,
१६

तपो-युक्त- -क्तः आपष्ट १८, १;
३, अप ३, ३, ५

तपो(पस्-अ)र्ध- -धम् सु २, ५;
६, -धेन सु १, ३.

१तपो-लोक^o- -कम् शंघ
११६ ६६.

तपु⁴- -पोः ऋप्रा ४, ६३ⁿ.

तपुषि, षी⁴- -षि या ६, ३६ⁿ;
-षिम् या ६, ३१, -षी निध
२, १३ⁿ

- a) पासे वैप १, १४६५ f द्र । b) वैप १, १४६५ k द्र । c) पासे वैप १ मृणिना खि २,
७ टि द्र । d) तु पागम । e) °यात्, °क्त्वात् इति BI पासे । f) =देवता-विशेष- (तु. तां २५, ५, ३) ।
g) = [तपश्चित्दृष्टि-] सत्र-विशेष- । h) विप (तु PW. प्रष्ट.) । i) =सत्र-विशेष- । j) आपध पाठः ।
k) बौध. गौध. पाठः । l) विप । बस । m) <तपसा देवा. (तैत्रा ३, १२, ३, १) । n) पासे. वैप १,
४६६ h द्र । o) पासे. वैप १ वीर्यावान् काठ ४, १४ टि. द्र । p) पूष. =व्याहृति-विशेष- । q) वैप १ द्र. १.
४ दि ५१

ल्पुस्- पाठ २, ११७, -पुः या ६,
१११^६
तपुर-सूर्धन्- -र्धा आपश्चौ १४,
१७, ११, हिश्रौ १५, ५, ११,
ऋञ्च २, १०, १८२^६
तस,सा- स आश्रौ ४, ७, ४^३,
शाश्रौ, -सम् आश्रौ ४, ७, ४,
गाश्रौ, -सस्य माश्रौ २, २, १, ९,
-सा वाधूश्रौ ३, २८ २, -साः
बौश्रौ १९, १० • १४, -सानाम्
काठश्रौ ८९, -सानि गौध २३,
२, -सामि आपश्चौ १, २४, ५,
भाश्रौ, -साम्य माश्रौ १, २, ३,
९, वाश्रौ १, ३, १, ८, -साम्
माश्रौ ६, १, २, २२, वाध २०,
१४, -सायाम् माश्रौ ६, १, ३,
२३, -से आपश्चौ ८, २, ५, बौश्रौ
५, १ २७, भाश्रौ, -सेन पाश्रु २,
८, ६, बौध १, १०, १८.
तस-करम्म-वालुक- -का शंघ
३७४
तस-कृच्छ- -कृच्छः वाध २१,
२१, बौध २, १, ६३, ४, ५, १०,
विध ४६, ११, -कृच्छम् काश्रु ६,
१७, वैश्रु ६, १६ १८, ७, ४
१३, वाध २१, १८, शंघ ३९०,
४१६, ४४७, विध ४१, ५, ५१,
२८, ५४, १७, सुध ४८, ६३,
सुधप ८५. २, -कृच्छेण शंघ
४४०, ४४९, विध २२, ५८,
४०, २.
तसकृच्छ-सहित- -तम् वाध
२३, १६.
तसकृच्छा(कृच्छ-अ)वसान--ने

अप ३३, ४, २
तस-तम- -मै. या ६, १२
तस-तर- -रेण वाधूश्रौ ३, २८ :
३
तस-रहस- पा ५, ४, ८१
तस व्रत- -त आपश्चौ ११, २,
२, बौश्रौ ६, १९ : २४, भाश्रौ
१२, २, ५, वैश्रौ १२, २४ २,
हिश्रौ १०, ३, ३४, -तौ माश्रौ
२, २, १, ४७.
तस-शर्करा- -राभिः कौम् २५,
२६
तसा(स-अ)तङ्कय- -ङ्कयम्
माश्रौ २, ५, १, २१
तसातङ्कय-शीतातङ्कय-
-ङ्कये माश्रौ २, २, ५, २९
तसा(स-अ)य(न>)नी-
-नी^१ काश्रौ ५, ३, २२, माश्रौ
१, ७, ३, १५, वाश्रौ
१तसो(स-उ)दक- -केन भाश्रु १,
२५ १७
२तसो(स-उ)द(क>)का- -का
शंघ ३७४
तप्त्वा शाश्रौ १४, ६, १ × ×,
बौश्रौ
तप्यमान,ना- -न आपश्चौ १०,
१२ ३, -नम् अप १, ३८, २१,
अशा ८, २^४, -तना आपम २,
२०, ३५, पाश्रु, -तना बौश्रौ
२६, ९ : २२, भाशि २३
ताप- -पेन वाध २५, ६, बौध ४,
१, २६.
तापन- -नम् शध १६५, विध ४३,
१०^६

तापयित्वा द्राश्रु ४, ३, ३
ताप्यमान- -नम् वैताश्रौ १३, ३०.
तेपान- -नात् वाधूश्रौ ४, ९४ २;
९४^२-९४^५ : १.
१तप- √तप् द्र
२तप^१- -पाय बौश्रौ ७, १६ : ३२१
१-२तपन- प्रश्रु. √तप् द्र
१तपवर्गनिमित्ताभावात् अप्राय ४,
२
१तपश्चात्^१ वाश्रौ २, २, १, ५
१तपस्- √तप् द्र
१२तपस्^२- -प काश्रौ १७, १२, २१;
आपश्चौ १७, ४, ५, बौश्रौ १०,
४४ १४, वैश्रौ १९, ४ : २०;
हिश्रौ १२, १, ३४, आपमं १,
१०, ८^६, आमिश्रु १, ७, ४ : ११^६;
बौश्रु २, १०, ७, वैश्रु ४, ८ : ७,
वेज्यो ६६, -पसे भाश्रौ ८, १४,
६
३तपस्^१->२तापस्^१- -स बौश्रौ
१७, १८ : १, वाधूश्रौ ३, ५१ :
२, बौश्रु, -तसाय काश्रु ४, २०;
गौध २६, १२
१तपस्य- √तप् द्र.
१२तपस्य^२- -स्य काश्रौ १७, १२,
२१, आपश्चौ १७, ४, ५, बौश्रौ;
आपमं १, १०, ८^३, आमिश्रु १,
७, ४ ११^३, बौश्रु २, १०, ७;
वैश्रु ४, ८ ७, -स्थाय बौश्रौ
७, १६ ३९, भाश्रौ ८, १४, ६,
माश्रौ २, ४, २, १३
तपु-, तपुषि, षी-, १तपो-लोक-
√तप् द्र.
२तपोलोक^१- -काः बौश्रौ ४७ २-

a) वैप १ द्र । b) = ऋषि-विशेष- । c) = नरक-भेद- । d) = व्रत-विशेष- । e) विप ।
नस । f) पामे. वैप १, १४६७ p द्र. । g) पाठ ? न्ना इति शोषः (तु संस्कर्तुं श्रुत्वाद्.) । h) = नरक-
विशेष- । i) = २तपस्- । j) पाठ ? तपस्या. इति शोषः (तु सप्र. माश्रौ ६, २, १, ६ वयस्याः इति पामे.) ।
k) पामे. वैप १, १४६८ d द्र. । l) व्यप । व्यु ? । m) पामे. वैप १, १४६८ f द्र ।

तसे^३ आपश्रौ २१, १२, ३
 तप्या बौश्रौ २, ५ १९
 तल, ता^३प्य^० वाश्रौ १, ३, २, १८,
 हिश्रौ ६, ३, १७
 तप्यमान- ✓तप् द्र
 ✓तम्^३ (ववा) पावा विवा पर
 काट्यायाम्, त्तमत्^० आपश्रौ
 ९, २, ९^३, भाश्रौ, त्तम^० आपश्रौ
 ९, २, ९, भाश्रौ
 ताम्यति बौश्रौ १४, २४ ९,
 २५, कौसू ८८, २०, ताम्यन्ते
 माश्रौ १, ७, ६, ४९, वाश्रौ १७,
 ४, ५१, ताम्येत् आपश्रौ ९, ८,
 ४, भाश्रौ ९, ११, ६, वैश्रौ २०,
 १४. ३, हिश्रौ १५, २, ३१
 तमयति काश्रौ ६, ५, १७
 तम->०मी^३- पाग ४, १, ४१.
 तमत- पाठ ३, ११०
 तमन- नाव शाश्रौ २, ७, ७, ४, ४,
 १३, काश्रौ ४, १, १३
 तमयित्वा आपश्रौ ५, २, ४^३
 तमितोस् () काश्रौ २५, ४, १०,
 आपश्रौ
 तमिन्- पा ३, २, १४१.
 तान्त- न्त द्राश्रौ ३, ४, १५,
 बौध २, ४, ८, गौध २४, १२,
 -तन्तस्य आपश्रौ ५, २, ४,
 वैश्रौ १, ७. ९
 तान्त-गान-विवर्जित- त
 नाशि २, ८, १३
 तामि^३-मी कौसू ८८, २०.
 तमक- पाठभो २, २, ७

तमक- पाठभो २, २, ५९
 तमतन्वाग्नि वैश्रौ २०, १० : २.
 तमस्^३- म आश्रौ ८, १०, ३, १२,
 ३, शाश्रौ, अप ४८, ७४^३,
 निघ १, ७^३, या २, १६^३,
 ५, १^३, २, २९^३, -मस
 आश्रौ ४, १५, ९, ६, १३,
 १५^३, शाश्रौ ६, ८, ९^३, आपश्रौ,
 -मसा त्तआपश्रौ १७, २१, ७,
 २१, १२, ३, बौश्रौ, या ७, ३^३,
 ९, ३३^३, १४, १०, शौच ३,
 ६५, -मसि माश्रौ २, ५, ४,
 २४, बौश्रौ ४, १२, कौसू ४,
 १७, शध ४४०, काशु ७, १८,
 ऋप्रा ८, ४६^३, शुप्रा ३, १४४,
 -मसे बौध ३, ४, ४^३, -तमासि
 शाश्रौ ८, २४, १, बौश्रौ, -मोभि
 माश्रौ ५, २, १०, १६
 तामस- स अप २२, ४, १,
 -सम् शध ११६ ४५^३
 तामसी- स्त्री अप ३०^३,
 १, १०
 तामस-कीलक- काः अप
 ५२, ३, ४
 तम-उक्त- क्ता निसू ४, ६ १२.
 तम-पर- रम् ऋप्रा ११, ७
 तमस्-काण्ड- पाग ८, ३, ४८
 तमस्-व(त् >)वी- ती अप ४८,
 ७४^३, वृदे ३, १०; निघ १, ७^३,
 -०वीः अप्राय ६, २^३
 त्तमस्-व(त् >)री- ०री.^३
 बौश्रौ १३, ३८ ८, आमिष्ट २,

५, १० : १९.
 तमस्-वि(न् >)नी- न्याम् क्
 २, ३, ९
 तमिस्त्र, छा- पा ५, २, ११४, पावाग
 ५, २, १०३
 तामिस्त्र, छा- पावा ५, २, १०३;
 -स्त्रम् विध ४३, २^३, -स्त्रस्य वाश्रौ
 ३, २, ३, ३^३, -स्त्रा गोश्रु ३, १०,
 ७, -स्त्रा. काश्रु ६१, २, -स्त्राणाम्
 माश्रु २, ८, २, -स्त्रे माश्रौ १,
 ६, २, ४, -स्त्रौ गोश्रु ४, ६, १४.
 तामिस्त्र-प्रथमा- मा लाश्रौ
 ९, ३, ८
 तामिस्त्रा(स्त्र-आ)दि- न्नी
 गोश्रु ४, ६, १२, द्राश्रु ४, २, १, ३.
 तामिस्त्रा(स्त्र-अ)न्तर- रेखु
 गोश्रु ४, ६, १५
 तामिस्त्रा(स्त्रा-अ)ष्टमी- न्यः
 द्राश्रु ३, २, २७
 तमो-धूम-रजस्का^३- स्का अप
 ५८, १, ६
 त्तमो-नुद- ०द माश्रु १, १९, ४;
 २, १४, ३१.
 तमो(मस्-अ)पह- पा ३, २, ५०.
 तमो-भाग- ना या १२, १०.
 तमो(मस्-अ)भिधान- ने पावा
 ७, २, १८.
 तमो(मस्-अ)भ्यय- ये काश्रौ ४,
 १५, १२
 तमो-मूढ- ढा. वाध ३, ६; बौध
 १, १, १२
 तमो-लिङ्ग^३- ऋ या १४, ३.

a) पाठ ? तत्, ते इति द्विपद शोध (तु हिश्रौ १६, ४, ३५, ० च) । b) वाश्रौ पाठः ।
 c) पाठ ? सपा तैत्रा ३, ७, ६, १९ अहु शुचम् इति पाभे अनु तप्ये [उपु १] इति शोधः विमुद्रय । d) पा ७,
 ३, ७४ परामृष्ट. द्र । घा श्वासनिरोधेऽपि वृत्ति. (तु काश्रौ ४, १, १३) । e) पाभे वैप २, ३ख. तमत्^३, तमः
 तैत्रा ३, ७, २, ७ टि द्र । f) = रात्रि- इति पागम । g) स्त्री प्राति. । = प्राख्यायाम- इति केशवः । षी-
 इति [पक्षे] PW. । h) वैर १ द्र. । i) रात्रि-नामन्- । j) = मन्वन्तर-विशेष- । k) पाभे. वैप १, १४६९
 ई द्र. । l) = नरक-विशेष- । m) = कृष्ण-पक्ष- । n) विप. । बस. । o) पृ १६६ गृ द्र. ।

तमस- पाठ ३, ११७
 इतमायीवय अप ४८, ११६५
 तमाल^१- पाठ १, ११८, पाग २,
 ४, ३१, ४, २, ८०, ५, २,
 १३५
 तामालेय- पा ४, २, ८०
 तमालि (र >) नी- पा ५, २,
 १३५
 ?तमासमाप्यति^२ वाश्रौ ३, ४, १,
 ४१
 तमितोस् प्रसृ √तम् द्र.
 इतम्बभ्युका अत्र २०, ६२
 इतम्बल^३- ल कप्र ३, ८, ११
 रतम्बल^४- > ल-वीणा- -णा.^५
 आपश्रौ २१, १७, १६, १९,
 ३
 √तय् पाथा म्वा पर. गतौ
 तय्- युष्मद्- द्र
 तल, ता^६य^७- पाग ६, १, १९९
 इतर^८- > तर-तम- पाग ५, १, १२४,
 -मयोः शुभ्रा ५, २, शौच ४,
 १६
 तारतम्य- पा ५, १, १२४
 रतर- √तृ द्र.
 तरक्षु^९- पाठमो २, १, १०९, फि ४३,
 -क्षु अप ६८, ५, ८
 तरङ्ग^{१०}- (> तरङ्गित- , ङङ्गिन्-]णी-
 पा) पाठ १, १२०, पाग ५, २,
 ३६, १३५
 तरङ्ग-व(त >)ती^{११}- (> तारङ्ग-

वतिक- पा) पाग ४, २, ६०
 तरण-, णि- प्रसृ √तृ द्र
 तरण्ड^{१२}- पाठमो २, २, ११६, पाग २,
 ४, ३१^१
 √तरण्य, तरव-, ण्ती-, ण्यै √तृ द्र
 तरन्त^{१३}- पाठ ३, १२८, -न्तम् वृदे
 ५, ६१, ८०
 तरन्त-पुरुमीढ [, ल्ह^{१४}]- -ढाभ्याम्
 निस् ९, ९ १०, -ढौ ऋञ्च २,
 ५, ६१, वृदे ५, ६२
 तरन्त-महिषी- -षीम् ऋञ्च २, ५,
 ६१
 तरन्ता(न्त-अ)जुम(त >)ता- ता
 वृदे ५, ६३
 तरन्ती- √तृ द्र
 तरल^{१५}- पाठमो २, ३, ९८^१
 तरल-रथ-नेमि- -वोष- -षेषु अप
 ६५, १, ६
 तरस- √तृ द्र
 इतरस^{१६}- -सम् बौश्रौ २८, १३ २,
 -सेन बौश्रौ २८, १३ २२.
 रतरस^{१७}- -सा आपश्रौ २३, ११,
 १३, हिश्रौ १८, ४, १६
 तरस-पुरोडाश- -शः आपश्रौ २३,
 ११, १४, -शम् आपश्रौ २३,
 ११, ११, हिश्रौ १८, ४, १४,
 निस् १०, ९ १८
 तरस-मय- -या. काश्रौ २४, ५, २०,
 वाध १४, १५
 तरसान^{१८}- पाठवृ २, ८६

तरस्वत्- प्रसृ √तृ द्र
 त(र >)रा^{१९}- -रा याशि १, ७१
 इतर- > श^{२०}- -राम् याशि १,
 ७२
 तरि^{२१}- पाठवृ ४, १३९
 तरितव्य-, तरिन्-, तरिष्यत्- √तृ द्र.
 इतरी^{२२}- -र्य. बौश्रौ १७, ३१ १४;
 १७
 रतरी- √तृ द्र
 तरीष- पाठ ४, २६
 तरु^{२३}- पाठ १, ७, पाग २, १, ५६, ५,
 २, १००
 तरु-वत् वृदे ३, २८
 तरु-श- पा ५, २, १००
 तरुक्ष^{२४}- पाग ४, १, १८, १०५, -क्षाय
 आमिष्ट १, २, २ १८, बौष्ट ३,
 ९, ५, भाष्ट ३, १०. ३, हिष्ट
 २, १९, ६
 तारुक्ष्य- पा ४, १, १०५
 तारुक्ष्याय(ण >)णी- पा ४, १,
 १८.
 तरुण, णा^{२५}- पाठ ३, ५४, पाग ४, १,
 ४१, ८६, ५, १, १२३, पावाग
 ८, २, १८^१, -णं आपमं २,
 १५, ४, सु ८, १, आष्ट २, ८,
 १६, कौष्ट ३, २, ६, शाष्ट ३, २,
 ८, पाष्ट ३, ४, ४, आमिष्ट २, ४,
 १ : १५, काष्ट ११, २, भाष्ट २,
 ३ : ८, माष्ट २, ११, १२, हिष्ट
 १, २७, ४, -णम् माशि १४,

a) = वृक्ष-विशेष-। व्यु^१ < √तम् इति पाठ । b) पाठः^२ वावि इति कृत्वा तद्, (मास्-) मासम्, आप्याययति इति शोधः । c) = मृग-विशेष-। व्यु^२ । d) = तामिल-देश-। व्यु^३ । e) सपा तम्बलवी^४ <> तालुकवी^५ इति पामे । f) तु भाण्डा । g) < √ताय् इति न्यास । h) आतिशायनिकः प्र । व्यु^६ ? । i) = हिंस-जन्तु-। व्यु^७ < तर- [गति-] + √क्षि [हिंसायाम्] इति अभा शक, < √तृ इति पाठमो. । j) वप्रा.। व्यु^८ ? < √तृ इति पाठ । k) = देश-विशेष-। l) तु पागम । m) = प्लव-। n) वैप १ द्र. । o) वृदे पाठः । p) विप । व्यु^९ । q) < √तृ इति । r) = मास-। व्यु^{१०} । s) मत्वर्थे अच् प्र. । t) = नौका-। u) = ऊष्मवृत्ति-विशेष-। v) = तरा-। w) = मञ्जूषा-। x) = अफुल-त्रीहि- (तु. स्तरी-). व्यु^{११} ? । < √तृ (= √स्तृ) इति विमृश्यम् । y) = वृक्ष-। व्यु^{१२} ? ।

१०, १५, १, -फणा वैगृ १, ११.
 ६, -णा बौश्रौप्र २५^१ २ अप
 ७१, १५, २, -णै अप २१,
 ४, १
 तरुणी- पा ४, १, ४१, पावा
 ४, १, १५, -णो अप ४६, ८, २,
 -ण्या कप्र २, ८, २५
 तारुण- पा ४, १, ८६
 तारुण्य- पा ५, १, १०३
 तरुण-गृह- हेषु वाध १६, १२
 तरुण-ता-, तरुण-त्व-, तरुणिमन्-
 पा ५, १, १२३
 तरुणे(ण-इ)न्दु- -न्दुम् आमिगृ २,
 ४, ६ : ४३
 तरुवृ-, °रुत्र- प्रभु √वृ द्र
 √तर्क पाधा चुरा उभ भाषायाम्
 √तर्क^१(वधा) > तर्क- -र्क पागृ २,
 ६, ५, गौध ११, २५, चव्यू २
 २८, -कम् या १३, १२, -कं
 द्राश्रौ ९, ४, १५
 तर्क-तस् (.) या १३, १२
 तर्कार- (> श्री- पा) पाउवृ ३,
 १३९, पाग ४, १, ४१
 तर्कु^२- पाउ १, १६, -कुं या २, १
 √तर्ज पाधा भ्रा पर भर्त्सेने, चुरा
 आरम तर्जने
 तर्जनी^३- -न्या याशि १, ६४
 तर्जनि(क >)का- -काम् याशि
 १, ६२
 तर्जनी-मूल- -ले विध ६२, ४
 तर्जन्य(नी-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठयो याशि

१, ६५
 तर्जन्यङ्गुष्ठ-योग- -नेन शंभ
 ५७^२, ४५६^३, ४५७, ४५८
 तर्जन्यु(नी-उ)परि याशि १, ५२
 तर्ण- पाउमो २, २, १८२
 तर्था^४ अप ४८, ८३^५
 √तर्द (=√ तृद्) पाधा म्वा पर
 हिमायाम्
 तर्द-, तर्दन- √तृद् द्र
 तर्दू- पाउ १, ८९
 तर्धन्- √तृद् द्र
 तर्पण- प्रभु √तृप् द्र
 तर्पर^६- पावाग ८, २, १८
 तर्पित- √तृप् द्र
 तर्ष- पाउ ३, ६२
 तर्हि तद्- द्र
 √तल् पाधा चुरा उभ प्रतिष्ठायाम्
 रतल^७- -लम् वाश्रौ ३, ४, ३, ३७,
 आगृ ३, १२, ११
 रतल^८- -लम् शंभः ५७^१, या ५, २६^२,
 -लेन कप्र १, १, ७^३
 तल-तीर्थ-क्रम- -मेण वैगृ १,
 ४ २
 रेतल^९- (> तालिन्- पा) पाग ४, ३,
 १०६
 तलवकार^{१०}- पाग ४, ३, १०६, -रम्
 जैगृ १, १४ : ८
 तालवकारिन्- पा ४, ३, १०६
 तलाशा^{११}- -शा अप्रा ३, ४, १^१
 तालिन- पाउ २, ५३.
 तलुक्ष^{१२}- [> तालुक्ष्य (> लुक्ष्याय-

[ए >]णी-) पा] पाग ४, १,
 १८, १०५
 तलुन^{१३}- पाउ ३, ५४, पाग ४, १, ४१,
 ८६, पावाग ८, २, १८^{१४}
 तलुनी- पा ४, १, ४१, पावा ४,
 १, १५
 तालुन- पा ४, १, ८६
 तल्प^{१५}- पाउ ३, २८, -ल्पः मागृ २,
 ७, ८^{१६}, -ल्पम् आपश्रौ १४,
 ११, ३^{१७}, १२, ९, हिश्रौ,
 -ल्पस्य अप ६, १, २, १०,
 -ल्पान् हिपि १२ : ५, -ल्पे
 आश्रौ ११, २, ६, काश्रौ, -ल्पेन
 आमिगृ ३, ५, ३ . ९, बौपि १,
 ३ : ७
 ताल्प^{१८}- -ल्पाः कौसू १७, १४.
 ताल्प्य^{१९}- -ल्प्यस्य आपमं २,
 १५, ३^{२०}
 तल्प-ज- -ज विध १५, १४
 तल्प-देश- -शम् बौगृ ३, ५, ६, ९.
 तल्प-रूप^{२१}- -पम् बौश्रौ २६, ३३ :
 ३
 तल्प-वत्- -वन्तम् बौगृ १, ६, २२.
 तल्प-सम- -म गौध २३, १२.
 तल्प-(स्थ >)स्था- -स्था नाशि २,
 ८, १७.
 तल्पा(ल्प-अ)न्न-धन-लाभ-वध^{२२}-
 -धेषु गौव २२, ३०
 तल्पा(ल्प-अ)रोहण- -णम् या ६,
 २७
 तल्प्य^{२३}- -ल्प्याः आपश्रौ २०, ५.

a) = ऋषि-विशेष-। b) वैप ३ द्र । c) नाप । कर्तु- (< √कृत् [छेदने]) > नैप्र यनि ।
 d) = अङ्गुलि-विशेष-। व्यु १ । e) सकृत् सप्र कप्र १, १, ७ कनिष्ठाङ्गुष्ठयो इति पांसे । f) = स्तेन-।
 प्राति व्यु च १ । g) = पशूना कण्ठघस्या- इति पागम । h) = हस्तप्र-। व्यु १ । i) = तला इति नभा ।
 j) सप्र °लम् <> °लेन इति पांसे । k) < √ल्व इति । l) वैप १ द्र । m) = तरुण-। n) द्व-
 पागम । o) = तल्प-। तत्रजातार्थीय अण् प्र । p) स्वार्थे व्यञ् प्र । q) सपा. आगृ २, ८, १६
 मागृ २, ११, १२ पोषस्य इति पांसे । r) विप । वस । s) द्वस. > षस. > षस । तल्प- = (तात्थ्यात्)
 भार्या । t) तत्रभवीय- यत् प्र ।

१३१, बौश्रौ, -ल्यानाम् बौश्रौ
१५, १०१७, ५ १०
तल्पल^a- पावाग ८, २, १८
तव- √तु द्र
तवर्- युष्मद्- द्र
तवश्यावीय^b- -यानि गौपि १, १, ७
तवस्- तविष-, तवीयस्- प्रभृ
√तु द्र.
तशिने आमिग १, ५, ५ १२
तष्ट- तष्टृ- √तच् द्र
√तस्^c पाधा दिवा पर उपक्षये
तसर^d- पाठ ३, ७५, -रस् निस् ६,
७ २७^e, -रेण^f आपश्रौ १९,
५, ७, हिश्रौ २३, १, ६
तसर-पक्षमन्- -क्षमणा वाश्रौ ३, २,
७, २^f
तस्कर^d- पावा ६, १, १५७, -र आश्रौ
९, ५, २१, अप ४८, ८३१, शंघ
२०१, निघ ३, २४१, या ३,
१४१, अप्रा ३, ४, ११, ऋत ४,
७, ७, -रा या ३, १४१, -राः
आमिग २, ५, ९ : १२, जैय २,
६ : १०, अप ५२, ३, १, शुप्रा
५, ३७१, -राणाम् हिग २, ९,
६१, -रान् हिग १, ११, ८२१,
अप ५३, २, ५, शुप्रा ३, ५२१,
-राभ्याम् या ३, १४, -रेभ्य
आपध २, २६, ६, हिघ २, ५, २०१
तस्कर-कितवा (व-अ)जपाल-गण-ग
णिका-शूद्र-प्रेष्या (व्य-अ)गस्या
गामि-परिवेत्-परिवित्-पर्याहि
त-पर्याधातृ-पौनर्भवा(व-अ)न्ध-
बधिर-चारण-ह्रीवा-(व-अ)वकी

णि-वारुषिक-गरदायि-कृतमाशि-
नास्तिरु-वृषलीपत्यु (ति-उ) पद
तादो (द-उ) त्सुष्टामि-सोमविक
य्य (यि अ)विक्रेयविक्रेतृ-पौस्तिक-
कथरु-कुण्डाशि-कुण्ड-गोलक-
यन्त्रकार-काण्डपृष्ठ-दुश्चर्म-चण्ड-
विद्धशिख-देवलक-षण्डा(ण्ड-आ)
रूढपतित-प्रायोत्थित कुनखि-कि
लाशि-^१श्यावदन्तर्वाणक्-शिल्प-
वादिन्नृत्यगी(१त)तालोपजीवि-
मूल्यसावत्सरिक-महापथिका
(क-अ)श्मकुट्टक-हीनातिरिक्ताङ्ग-
ङ्गा सुवप ८४. ४
तस्कर-कीकपा(प [१कितवा]-अ)ज
विक्रयि-पाषण्ड-गण-गणिका-
प्रेष्य-परिविण्ण-परिवेत्-अग्रेदि
धिषु पर्याहितधेनु-पुनर्भवा(व-
अ)न्ध-बधिर-वा(१चा)रण-ह्री
वा(व-अ)भिशस्ता(स्त-अ)वकी
णि-वारुषिक-कारु-गायक-कृत
साक्षि-स्तेयि-वृषलीपत्यु(ति-अ)
हुताशिनो(१)-विस्वष्टानि(१भि)-
सोमविक्रयी(१यि)-कुण्डगोलका-
शियन्त्रकार-^१कान्धवृषुदुकीट-श्व-
श्वापद-आपणी(१ रि)शिलो
(१ह्यो)पजीवी(१वि)-वादिन्नृत-
गानोपजीवी(१वि)-संवत्सर-महा-
पथिका(क-अ)श्मकुट्टश्च(१ चर्म)
विक्रमी(१यिन्-> -१यि)णाम्
सुघ ६२
तस्कर-भय- -यस् आपध २, २५,
१५, हिघ २, ५, १९५
तस्कर-श्वापदा(द-आ)कीर्ण- गें

शंघ ४४३
तस्तमान- √स्तम् द्र
तस्तुव^d- -वम् अप ४६, ५, ४१.
तस्थिवस्- √स्था द्र
तस्समे^e आमिग ३, १, २ १४, १७;
२०, २, ३ ३, ६, ९
ताक्षशिल- प्रभृ √तक्ष् द्र
ताच्छब्द- प्रभृ तद्- द्र
ताजक्^d आपश्रौ १३, ९, ९१×x,
बौश्रौ, पाग १, ४, ५७^h.
ताजत्^d अप ४८, १०६, निघ २, १५.
ताड-, षडघ-, षडन- √तद् द्र.
ताडाक- १तडाक- द्र
ताड्यमान- √तद् द्र
ताण्ड- प्रभृ तण्ड- द्र.
ताण्डव- पाग २, ४, ३१
ताण्डिन्य- तण्डिन- द्र
तात^l- पाठ ३, ९०, पा ५, ४, ३८^k;
-०त शाश्रौ १५, २४, १, सु
१२, २, १९, २, अश्र १४, २;
-त बुदे ७, ४४, -ते कप्र २, ७, ९.
तात-पाद^l- पाग २, १, ६६
तातृपाण-, तातृपि- √तृप् द्र.
तातृषाण- √तृष् द्र
तात्कालिक-, तात्पर्य-, तात्स्थ्य-,
१-२ताथाभाव्य- तद्- द्र.
तादर्कसहस्रयाजिन्^m- -जी हिश्रौ
१७, ६, २८
तादर्थिक-, तादर्थ्य- तद्- द्र.
तादु(र>)री^d- -०रि अप ४८,
११६, या ९, ७, अप्रा ३, १, ७.
तादृश-, श- प्रभृ, ताहुण्य-, षडित-,
ःभाव्य- तद्- द्र

a) = गजपृष्ठैकदेश- इति पागम । b) = साम-विशेष- । व्यु १ । c) या ४, २४ परामृष्टः द्र ।
d) वैप १ द्र । e) अर्थ १ । f) सप्र तसरेण, पक्षमणा <> तसरपक्षमणा इति पामे । g) पाठ. १ तस्य मे
इति द्वि-पद शोघ. (तु सप्र बौध २, ८, १२ तस्य ते इति पामे) । h) तोजक् इति [पक्षे] पागम, माजक् इति [पक्षे]
भाष्ठा । i) = ताजक् (तु. वैप १, १४७२ ० द्र) । j) = १तत- । वैप १, १४०३ ८ द्र । k) < १तत- इति
पागम. । l) तु पागम. । m) पाठ १ तद्, अर्कस^१ इति संभाव्येत ।

तान- √तन् द्र
 तानव्य-, व्यायन- ४तनु-द्र
 १, २तानूनपात-, °नप्त्र- प्रमृ
 √तन् द्र
 तान्त- √तम् द्र
 तान्तव- √तन् द्र
 तान्तव्य-, व्यायन- २तन्नु-द्र
 तान्तुमत-, तान्त्र-, १तान्त्र-
 √तन् द्र
 २तान्त्र- तन्त्र-द्र
 ताप- प्रमृ, १तापस- √तप् द्र
 २तापस- ३तपस्-द्र
 ताप्यमान- √तप् द्र
 †तावुच्- -वम् अत्र ५, १३, दवि
 १, १०
 तामरस- पाठवृ ३, ११७
 तामल^b->°ली- ली आपध १, २,
 ३७, हिघ १, १, ६८, -लीम्
 जैगृ १, १२ ४९
 तामस- प्रमृ तमस्-द्र.
 तामालेय- तमाल-द्र
 तामि- √तम् द्र.
 तामिस्र- तमस्-द्र
 तामु^c- सु- निघ ३, १६१.
 ताम्बूल^d- पाठ ४, ९०, -लम् आमिगृ
 २, ४, १० ३८, ३, ३, १ : १८
 ताम्बूला(ल-आ)दि- -दि आमिगृ
 ३, ३, १ १३.
 ताम्र^e- पाठ २, १६१, पाग ५, १,
 १२३, -म्र- वैध ३, १५, ७^६,
 अप २३, १, ४, ६, २, २९, २, ४,
 ५३, ५, १, ६२, १, ४, -म्रम्

वाधुश्री ४, ६८ : ४, आमिगृ २,
 ४, ६ : ७, वैगृ ४, १४ १२,
 अप २१, ३, ३, वाध ३, ६३,
 निघ ३, ७^{१५}; -म्रा विघ १,
 २७, -म्राणि बौश्री २६, ५ :
 ३१. -म्रे अप ६३, ४, ५, -म्रै
 अप ५, १, २, २७, १, १, २,
 -म्रौ अप ३९, १, १०
 ताम्र-कर्ष^f- > °म्रकार्षिक^g- -क
 विघ ४, १३
 ताम्र-जीव^h- -व वैध ३, १५, ७^६,
 -वात् वैध ३, १५, ८
 ताम्र-ता- पा ५, १, १२३
 ताम्र-तिल- लेन शंघ ११६ ७८
 ताम्र-त्रपु-सीसा (स-आ)यसा (स-
 आ)घ- -घानि वैध ३, ३, ११
 ताम्र-ख- पा ५, १, १२३.
 ताम्र-धू(म्र->)म्राⁱ- -म्रा अप्रा ३,
 २, २४^१
 ताम्र-पट्ट- -ट्टे विघ ३, ८२
 ताम्र-पात्र- -त्रे अप ३८, १, ४,
 -त्रेण अप ३८, ३, १
 ताम्र-भाजन- -नम् अप ९, १, ५
 ताम्र-मय- -यम् आमिगृ २, ६, ८ :
 १, -ये अप ४, २, ९
 ताम्र-रजत-सुवर्ण- -र्णानाम् बौध
 १, ५, २७
 ताम्र-राजत-हैम- -मानाम् अप २१,
 २, १.
 ताम्र-रीति-त्रपु-सीस-मय- -यानाम्
 विघ २३, २५
 ताम्र-वल् काध २७८ : १

ताम्र-वर्ण, णी^l- णी चव्यू ४ १५;
 -र्णया अत्र ३८, १, ५
 ताम्रवर्णी^m->°णी-पयस्- -यः
 आमिगृ २, ७, ७ : ७
 ताम्रा(म्र-अ)पहारिन्- -री शघ
 ३७८
 १ताम्रा(म्र-अ)यस्ⁿ->२स्^o-
 -सम् काशु ७, २८, -सेन बौगृ
 १, ३, १७
 ताम्रिमन्-, ताम्रय- पा ५, १, १२३.
 ताम्रप(ण^p)णी^q-पा, पाग ४, २, ८२
 √ताय^r पाधा म्वा आत्म संतान-
 पालनयो
 ताय- पाग ६, १, १९९
 †तायत्- स्तायत्- टि द्र.
 †तायतम्^s अप ४८, १०७^१
 तायमान- √तन् द्र
 †तायु^t- -यु अप ४८, ८३, निघ ३,
 २४, या ४, २४, -युम् आश्री
 ८, १२, २४, या ४, २४^१
 १तार- तरा-द्र
 २तार^u->°र-पङ्क- -ङ्के अप ३, ३, ३
 ३तार^v- -रम् पाशि ८, माशि ४, ६,
 तैप्रा २३, १२
 ४तार^w->°तार-भाव- -व. पावा ६, ३,
 १०९
 ५तार, रा^x- पाग ३, ३, १०४, -रा
 आज्यो ७, १९, -रा अप ५८^१,
 १, ८, ४, १८, ७०^२, २३, ६;
 -रान् वैगृ १, ४ : १२^१
 तारा-गणा(ण-आ)ब्ध- -ब्धे विघ
 ९९, ९.

a) वैप १ द्र । b) = तमाल- । c) = स्तोत्र- । व्यु ? < √तम् [काङ्क्षायाम्] इति दे ।
 d) = नागवल्ली- । व्यु ? < √तम् इति अभा प्रमृ । e) विप, नाप. (धातु-विशेष-) । वैप १ द्र । f) < √तम्
 इति । g) = जाति-विशेष- । h) = रूप- । i) उप. = परिमाण-विशेष- । j) तस्येदमीयष् ठक् प्र.
 उभयपदवृद्धिश्च । k) षी इति ० । l) विप. । बस. । m) = धेनु- । स्त्री ङीष् प्र उसं (पा ४, १, ६३) ।
 n) पृ ९२५ ०, f द्र । o) = नगरी-विशेष- । व्यु ? । p) पा ३, १, ६१ परामृष्ट. द्र । q) अन्तर्हित-नामन्- ।
 r) = घन- । व्यु ? । s) = वाक्स्थान-विशेष- । व्यु ? । t) = तीर- । व्यु ? । u) = नक्षत्र- । व्यु. ? ।

तारा-ग्रह-परिवेष- -षा अप ६३,
४,४.
तारा-पात- -तै अप ६४,२,१.
तारा-पुञ्ज-प्रतीकाश- -शा अप
५२,४,२
तारा-बल- -लम् आज्यो ७,२०
तारा-मण्डल-संवृत- -ता अप ५२,
४,२
तारा-षष्टि-समन्वित- -त आज्यो
७,२२
तारो(रा-उ)ल्का-पात-कलुष-
-षम् अप ६४,९,३
तारो(रा-उ)ल्का-पात-पिङ्गल-
-लम् अप ६४,८,९
तारका^a- पाग ५,२,३६, पावा ७,३,
४५, -का कौस् १२६, ९५^b,
-का अप ५८^c,३,१०, ६४,७,
४, -काणाम् चात्र ४० १९^d,
-के अत्र ३,७
तारका^e- -काः आपश्रौ २०,१४,६†
तारका(का-आ)कार^f- -रा अप ५२,
८,५
तारका(का-आ)कृति- -तौ अप ५२,
७,५
तारका-युक्त- -क्ताः अप ५२,४,३
तारकित- पा ५,२,३६
तारकाघ^g- -द्या बौश्रौप्र २३ : २
तारकायण^h- -णाः बौश्रौप्र ३१ : ५
तारङ्गवतिक- तरङ्ग-द्र.
तारङ्गि- (>°ङ्गाक>|का-°की-)
भारङ्गि,ङ्गी- टि द्र
तारण- √तृ द्र

तारतम्य- १तर-द्र
तारयितृ- °रयितुम्, तारसिक- प्रभृ
√तृ द्र
तारा- १,५तार-द्र
तारिक- √तृ द्र
तारुदय- °क्षयायणी- तरुक्ष-द्र.
तारुण- °रुण्य- तरुण-द्र
तार्क्षार्क- तुक्षार्क-द्र
१तार्क्ष्य^{aa}- -र्क्ष्य आश्रौ १०,७,९^b,
शाश्रौ^c ११, १४, २८, १६, २,
२५, आपश्रौ १४, १६, १५†^d,
बौश्रौ १७, १८. ४^e, हिश्रौ
१५, ५, १५†^f, सु २, ६^g, २, १६^h,
बोग् २, २, ११†ⁱ, ३, १०, ६^j,
माग् २, १५, ६†^k, अप्राय ६,
१†^l, ऋअप ४८, ९३^m, १३७,
†निघ १, १४ⁿ, ५, ४, या १०,
२७†^o, ऋअ २, १०, १७८†,
बुदे १, १२३, सात्र १, ३३२†,
-र्क्ष्यम् आश्रौ^p ७, १, १३, ८, ६,
१४, सु २, २^q, ४^r, १७, ४^s, १२,
५†^t, ६^u, बोग् २, २, ९†, १०†,
ऋअ २, १०, १७८^v, बुदे २,
५८†^w, या १०, २८†, -र्क्ष्यस्य
शाश्रौ १२, ११, १२^x, सु ७, ३^y,
-र्क्ष्याय कौस् ७३, ७, -र्क्ष्येण
आश्रौ ८, १२, २०^z.
तार्क्ष्यी^{aa}- -र्क्ष्यी सात्र १, ३३२.
तार्क्ष्य-देवता->°त्य- -त्यम् अत्र
७, ८५.
तार्क्ष्य-दैवत्य- -त्यम् बुदे ८, ७७
तार्क्ष्य-पुत्र- -०त्र सु ३०, ४,

-त्रः सु २७, ३, ऋअ २, १०,
१४४
तार्क्ष्य(र्क्ष्य-ऋ)वि- -वि बुदे २, ५८.
तार्क्ष्य-वर्जम् आश्रौ ९, १, १५
तार्क्ष्य-सामन्- -मनी जैश्रौका २४;
३९, द्राश्रौ २, २, २१, लाश्रौ १,
६, १९
तार्क्ष्या(र्क्ष्य-आ)दि- -दिः आश्रौ
६, ९, ५
रतार्क्ष्य- °क्ष्यायण- प्रभृ तुक्ष-द्र
तार्क्ष्य^{aa}- -र्क्ष्यम् कौस् ४८, २४
१तार्ण- १तृण-द्र
रतार्ण- २तृण-द्र
तार्णकर्ण- तृणकर्ण-द्र
तार्णविन्दवि- °वीय- १तृण-द्र.
तार्णायन- २तृण-द्र
तार्तीय- प्रभृ त्रि-द्र
तार्प्य^{aa}- °प्यम् शाश्रौ १६, १२, २०;
काश्रौ, -प्याणि माश्रौ ५, २, ५,
१, -प्ये हिश्रौ १४, ३, ५६, २७,
६, ३१, -प्येण बौश्रौ १५, २८ :
२६, २९ ३३, वाश्रौ ३, ४, ४, ९;
हिश्रौ १४, ४, ९, भाशि ७१†.
तार्प्य-पाड्वा(ड्व-अ)धीवासो(स-उ)
ष्णीष^{bb}- -षाणि शुअ १, ६००
तार्प्य-प्रभृति- -तीनि काश्रौ १५,
५, १४
तार्प्य-वृकल^{cc}- -लानाम् बौध १, ६,
१२
तार्प्या(प्य-आ)दि- -दीनि काश्रौ
१५, ७, २५
†तार्घ्या(घ>)धी^{dd}- -धी. अप ४६,

a) वैप १ द्र । b) पाभे. वैप १, १४७३ द्र । c) विप । = तारका-सदृश- । d) विप ।
बस । e) = ऋषि-विशेष- । व्यु १ । f) बप्रा । विवेक उत्तरेषु टि द्र । g) = गरुड- । h) पाभे. वैप १,
१४७३ j द्र । i) = सर्प-विशेष- । j) = अरव- । k) = सुहृ-विशेष- । l) = ऋषि-विशेष- । m) = ऋन्- ।
n) = मणि- । अर्थ व्यु च १ । = पलाशकमणि- इति केशव., = अस्थिकमणि- इति दारिल । o) = वस्त्र- (क्षौम-
वा त्रिपाण- वा घृताक्त- वा तु काश्रौ १५, ५, ७-१०) । p) द्रस. । पाड्व = रङ्गकम्बल- इति म. (तु तत्रत्यं टि) ।
q) नाप । द्रस उप अर्थः ? ।

५,५, अशां २१,३.
 ✓ताण्यर्थ- ✓तृष् द्र
 १ताल^१- पा, पाग ४, ३, १५२,
 -लात् पावा ४,३,१५०
 ताल-वृन्त^१- न्तै आमिण् २, ४,
 ६ ३९
 तालवृन्त-चामर-प्रदान- -नेन
 विध ९२,३०
 तालवृन्त-चामरा(र-अ)श्च-गजा-
 (ज-अ)ज-गो दधि-क्षीर-मधु-
 मिद्वार्थक- -कान् विध ६३,३०
 †२ताल^०- लम्^१ आपश्रौ १६, १८,
 ४, वैश्रौ १८, १५ १२, हिश्रौ
 ११,६,२६
 ३ताल^०- लम्^१ वैश्रौ ११,१० ५
 ४ताल^१->ताल-हीन- -नम् याशि
 १,३०, नाशि १,३,१२^६
 ५ताल- (>ताली^१- पा) पाग ४,
 १,४२
 तालवकारिन्- तलवकार- द्र
 तालव्य- तालु- द्र
 तालि- पाउभो २,१,१६८
 तालिन्- ३तल- द्र.
 ताली^१(>ताली✓कृ पा) पाग १,
 ४,६१
 तालीस- पाउभो २,३,१८०.
 तालु^१-पाउ १, ५, पाग ५, ४, २९,
 -लु अप ४७, २, १, या ५,
 २६^१कृ, ऋप्रा, -लुनि कौस् १०,
 १७, २९, २२, ऋत २, १, ५,
 -लौ शुप्रा १,६६, तैप्रा २,२२,

३६, ३,४०
 तालव्य,व्या- -व्य- वृदे ८, ११२,
 ११७, माशि ८, १^३, नाशि
 २,५,५, -व्यस्य याशि २,२०,
 -व्या शुप्रा ८, ३९, पाशि,
 -व्यानाम् शौच १, २१, आशि
 २,५; -व्याभि शंघ ९३^६,
 -व्ये ऋप्रा ४, ११, १४, ४६,
 -व्यौ ऋप्रा १,४२
 तालव्या(व्य-आ)दि- -देः ऋत
 ५,३,६
 तालु-क- पा ५,४,२९
 तालु-(ग >)गा- -गामि शध
 ९४, वैध २,१०,१
 तालु-स्था(स्थ-अ)चल-जिह्व-
 -ह्व विध ९७,१
 १तालु स्थान- -ने शाश्रौ १,२,४
 २तालु-स्थान^१- -न. ऋप्रा १४,४७,
 -ना शुप्रा १,७९
 तालु(लु-उ)दर- -रम् विध ९६,
 ९२
 तालुओ(लु-ओ)ष्ट- -उयो अप ४७,
 १,१९, शुप्रा १,७३
 तालुक-वीणा^१- -णा हिश्रौ १६,
 ६,२१^२.
 तालुक्ष्य-, °क्ष्यायण-, °णी- तलुक्ष-
 द्र
 तालुन- तलुन- द्र
 तालूर- पाउभो २,३,५८
 तालप-, °ल्प्य- तलप- द्र.
 तावक-, °वकीन- युष्मद्- द्र.

तावत्-, °तिथ- तद्- द्र
 ताविष- ✓तु द्र
 तासीर- पाउभो २,३,५०
 ति^०->ति-लोप- -पे पावा १,१,५७.
 ✓तिङ् पाधा भ्वा आत्म, स्वा.
 पर गतौ
 तिक^१- पाग ४,१,९९,१५४,२,९०^९.
 तैकायन- पा ४,१,९९.
 तैकायनि- पा ४,१,१५४
 तिक-कितव- पा, पाग २,४,६८.
 तिकीय- पा ४,२,९०
 ✓तिङ् पाधा स्वा पर गतौ
 ✓तिङ्^१ पावा भ्वा आत्म., चुरा.
 पर निशाने, तितिक्षते वाधुश्रौ
 ३,१ १, तितिक्षते निस् २,८:
 २५, विध ९६,१९
 तेतिके पा ७,४,६५
 तिक^०- -क्तम् विध ६१,१५
 †तिका(क-अ)य(न >)नी^१-
 -नी^१ आपश्रौ ७,३,१४, वीश्रौ ४,
 २ ७, भाश्रौ ७, ३, १, हिश्रौ
 ४,१,४३
 तिग्म^१- पाउ १,१४६, -ग्मः निघ
 २,२०^१, -ग्मम् वैताश्रौ ९, २,
 कौष्ट १, १९, १०^१, शाण् १,
 २७, ७^१, या १०,६^१कृ, भाशि
 ११९^१, -ङ्गमेन काश्रौ १८,३,
 ११, आपश्रौ
 †तिग्म-न्ता- -तया अप १,३८,
 १, अशा ८,१.
 तिग्म-तेजस^१- -जसाम् वृदे ६,

a) विप, नाप (वृत्त-विशेष-). व्यु^१। b) = व्यजन-। बस.। c) = ताड-[कशा-]। व्यु^१<✓तङ्
 -इ)इति स्यात्। d) सपा मै २,७,१२ ताडम् इति पाप्मे। e) = [द्रादसाङ्गुल-] प्रमाण-विशेष-। व्यु^१।
 f) वैप ३,३६० f द्र। g) तालुही^१ इति पाठः^१ यनि. शोष (तु कालि याशि च)। h) तु पागम.।
 = [लोहमयी-] कुञ्चिका-। i) अर्थविस्तर. पागम द्र। j) वैप १ द्र। k) विप ([तालुगा-] २अप-).
 l) विप। बस। m) = वाद्य-विशेष-। व्यु^१। n) पाप्मे पृ ११६४ ८ द्र। o) विंशति- इत्यस्या-
 -न्तिमवर्ष-। p) व्यप.। व्यु^१। q) अर्थ^१। r) पा ३, १,५ परावृष्ट- द्र.। s) = रस-विशेष-।
 f) पाप्मे. वै १, १४६७ p द्र.। u) पाप्मे वैप १, १४७४ g द्र.।

८४, -फजाः बौश्रौ १, ११
 ४, माश्रौ २, १, १, याशि २, ८
 फतिग्म-श्रुङ्ग^२ -ङ्ग. आश्रौ ७, ५,
 २०×४, शाश्रौ
 तिग्मा(ग्म-आ)युध^३ -घाय या
 १०, ६फ^४
 तिग्मे(ग्म-इ)यु^३ -घव या १०,
 ३०फ^४
 तित्जिल- पाउ १, ५६
 तित्तिक्ष^५-(>तैतिक्ष्य-।> १तैति-
 क्ष-। पा) पाग ४, १, १०५, २,
 १११
 तित्तिक्षा- पाग ४, ४, ६२, -क्षा
 वाधूश्रौ ३, १ ८, विध ९९, ५,
 -क्षायाम् पा १, २, २०
 २तैतिक्ष- पा ४, ४, ६२
 १तीक्ष्ण, क्षणा^६ - पाउ ३, १८, -क्षण
 अप ३६, २, ६, ६८, १, ११,
 काश्रु, -क्षणम् अप ३६, १६,
 १×४, आपध, -क्षणा काश्रौ १६,
 २, ५, वाधूश्रौ ४, १५. २, -क्षणा
 सु ८, ३, -क्षणम् माश्रौ ६, १,
 १, ८, वाधूश्रौ ४, १५ : ४,
 -फक्षणाय अप ३६, ९, १५, ६६,
 २, ६, ३, २, गौध २६, १२,
 -क्ष्ये वैश्रौ १०, १. १०
 तीक्ष्ण-काष्ठ- छेन बौध ३, २, ३
 तीक्ष्ण-तैल^७ - लम् अप ३६,
 ३०, १
 तीक्ष्ण-डीसि-प्रकाश-त्व-
 -त्वात् नाशि १, ५, १५
 तीक्ष्ण-द्रष्ट^८ - व्ट्राय अप ३६,
 ९, १५फ^४

तीक्ष्ण रूप- >°पिन्- -पिणे
 गौध २६, १२फ^४
 तीक्ष्ण-शूल-विशाला (ल-
 अग्र>)मा^९ -आ अय ५८^२,
 २, ३
 तीक्ष्ण स्वर- -रेण अप ७०^३,
 ६, ८
 तीक्ष्णा(क्ष्य-अ)प्र^९ -आः शंघ
 ३७४
 तीक्ष्णा(क्ष्य-अन्त>)न्ता^९-
 -न्ता. कप्र २, ८, २
 तीक्ष्णा(क्ष्य अ)र्थ^९-त्व- त्वात्
 काश्रौ ८, २, १७
 तीक्ष्णा(क्ष्य-अ)सृग्-विष-
 युक्त^९ -क्तानाम् अप ३६, २, ५
 तीक्ष्णी√कृ>°क्षणी-करण-
 -णम् वैग् ३, २३ : ५
 तीक्ष्णी-कृत्य वैश्रौ ४, ११:७
 तीक्ष्णीयस्^९ -यसी निसू ३,
 १३ : २७
 तेक्षिण^९ - छम् आपश्रौ २१,
 १२, ३फ^४
 २तीक्ष्ण^९-(>तैक्ष्णायन- पा) पाग
 ४, १, ११०
 फतेज^९ > फतेजिष्ठ, छा^९ - छस्य
 वाश्रौ १, ३, २, १४, -छा आपश्रौ
 ४, ६, ४ माश्रौ ४, ९, २, वैश्रौ
 ५, ७ २, हिश्रौ ६, २, १५,
 -छेन आपश्रौ २, ४, १०, १६,
 ३२, ५, बौश्रौ १, १२ ३, माश्रौ
 २, ४, ११, वैश्रौ १८, १६ : ४६,
 हिश्रौ ११, ८, ११
 तेजीयस् -यसा बौश्रौ १३, ५ :

१४फ^४
 तेजन^९ - पाग ४, १, ४१, -फनम्
 आपश्रौ १४, २९, ३, हिश्रौ १५,
 १, १६, आमिगृ ३, ७, १ : १४,
 बौपि १७ १३
 तेजनी^९ - पा ४, १, ४१,
 -नी हिश्रौ ७, ५, २५, लाश्रौ ९,
 २, २७, -नी आपश्रौ ११, ८,
 २, २१, १०, ९, हिश्रौ ७, ५, २७^९,
 ७, २१, -नीभि हिश्रौ १६, ५,
 ३, -नीम् काश्रौ २१, ३, २६,
 वाधूश्रौ, -नीषु वाग् १०, १३,
 -न्याम् माश्रौ २, २, २, २९, ३१,
 वाग् १४, ५
 तेजनि-सघात- -ते
 हिश्रौ १६, ६, ३३^९
 तेजन्य(नी-अ)न्त-
 -न्तौ माश्रौ २, २, २, ३०
 तेजन^९ - न आपश्रौ १७,
 १४, ८फ^४; -ने वाश्रौ ३, ४, ५, ९.
 तेजनी- >°नि-त्वस्^९-
 -फस्वक् द्राश्रौ ११, २, ९, लाश्रौ
 ४, २, ८
 तेजन-संघात- -ते आपश्रौ
 २१, १८, ५^९
 तेजस्^९ - ज फआश्रौ २, ३, ४×४;
 शाश्रौ, आपश्रौ १०, २८, ५^९;
 -जस पाग् २, ६, २९, वृदे १,
 ९८, या १४, ५, -जसा आश्रौ
 ३, १४, १३, काश्रौ, आपश्रौ ८,
 ४, २^९, माश्रौ ६, १, ८, १०फ^९,
 -जसाम् वाश्रौ १, १, २, ३फ^९,
 -जसि शाश्रौ १५, ४, ४, बौश्रौ

a) वैप १ द्र । b) = ऋषि-विशेष-। व्यु ? । c) पूष = कृष्ण-सर्षप- । d) विप । बस ।
 e) विप । कस > बस. > कस । f) कस > मलो कस > तृस । g) वैप २, ३खं द्र. । h) = यष्टि- इति
 ओपीनाथ । i) सप्र °निसंघाते<>°नसंघाते इति पामे । j) विप । बस पूष ह्रस्व । k) पामे वैप २,
 ३खं. तेज. तैत्रा ३, ७, ७, १३ टि. द्र. । l) पामे वैप २, ३खं तेजसा तैत्रा १, ५, ५, १ टि द्र । m) पामे वैप १,
 १४७६ i द्र. ।

२०,२ १०^१, माश्रौ १,७,२,
२३^१, -जसे आश्रौ ५, १३,
१२, शाश्रौ, आपश्रौ १२, ९,
१३^१, आपम २, ८, ११^१,
-जामि अप ५८^२, २, ९, -जोमि
कप्र ३, १, १५

तैजस^१-सः या १२, ३७^०,
-सम् बौध १, ५, २२, या १४,
७, -सानाम् राध १७९, बौध
१, ५, २६, ६, २५ विध ९२, १५,
सुधप ८७ : १६, -सानि विध
७९, १४, २२, ८७, ६, -सै वृदे
१, ८८

तैजस-द्रव्य-सम(व>)
वा-वा कप्र २, ५, १०
तैजस-मार्त्तिक-दारव-
तान्तव-वानाम् गौध १,
३१

तैजस-मृन्मय-दारव-ता-
न्तव-वानाम् वाध ३, ४९.

तैजस-वत् वाध ३, ५०,
बौध १, ५, ३८, गौध १, ३२

तैजसा(स-अ)पहारिन्-
-री शंघ ३७६, ३७७ १

तैजसा(स-अ)इममय-मृ-
न्मय-वेषु आग ४, ७, १०.

तेज-आदि-दि आपश्रौ २, ६, ४
तेजसस्-काय-यम् आपध १,
२२, ६^१

तेजस्-काम-म शाश्रौ १४,
४, १××, काश्रौ, -मम् बौग २,
५, ५, आपध १, १, २३, हिध १,
१, २३, -मस्य शाश्रौ १५, ४, २,

आपश्रौ, -मा बौश्रौ ३, १४
९, -मानि शाश्रौ १४, ७८, २
तेजस्-कामिन्-मी आमिगृ २,
४, ११ २४
तेजस्-काय-यम् हिध १,
६, ६^१
तेजस् त्व-त्वात् मीसू ८, १,
३५
तैज(स्य>)स्या^१-स्या बौश्रौ
१३, ३४ ५, -स्या आपश्रौ
१८, १३, १७, बौश्रौ १२, ८
१५, हिश्रौ १३, ५, १४
तैजस-वत्-वत् आपश्रौ २२,
२६, ३, बौश्रौ १८, ९. ५^१,
हिश्रौ, -वत् आपश्रौ २२, २६,
२, बौश्रौ १३, ५ : १२, १४,
११ ४^१, ५^१××, हिश्रौ, -वन्तम्
आपश्रौ २२, २६, २, बौश्रौ,
-वान् बौश्रौ १८, ९ ६, माश्रौ.
तेजस्-विन्-वि अप १, ९, ४,
-तै^१विन्^१ आपश्रौ १३, ८, ९,
बौश्रौ १४, ११ ६, वैश्रौ १६,
९ : १४, हिश्रौ ९, २, ३२,
-विन्म् अप ३, १, १३, -विना
अप १८^३, १, ११, -तै^१वी आपश्रौ
६, २३, १, १२, १४, १३, बौश्रौ
७, १३ : २६, १४, ११ ६^१××,
हिश्रौ ६, ६, २६, ९, २, ३२^१××,
पाग
तेजस्विनी-०नि माग
२, १४, ३०, -नी हिश्रौ ११, ८,
११
तेजस्वि-तम-म. कागृ

५९, ५

तैज-सद्-सत् आपश्रौ
१६, २९, २, वैश्रौ १८, २० : २८;
हिश्रौ ११, ८, ४

तेजो-दा^१-दाः अप्राय ६, ३^१.
तेजो-धातु-मय-या अप ५२,
१२, ५

तेजो-बल-लेन सु २४, १.
तेजो-ब्रह्मवर्चस-पुरोधा-काम-
-मस्य काश्रौ २२, ५, ११.

तेजो-मय-य शुभ्र ४, २१९.
-येन वौग १, २, १४

तेजो-मूर्त्ति-ति वैश्रौ २, ६ ९,
तेजो-रूप-पम् शध १२३.
तैजोवत्सव^१ वैग २, १४ ३;
वैध २, २, २

तैजो-विद्-वित् आपश्रौ
१३, ८, ९, बौश्रौ १४, ११ : ८;
वैश्रौ १६, १० : १

तेजो-विशेष-वेण आपध २,
१३, ८, हिध २, ३, ७.
तेजो-वत्^१-तम् कौसू १८, २३;
अप १८, १४, १.

तैजो-विज्ञान-नः बौश्रौ ४, १ :
२६, भाश्रौ ७, २, ४

तितउ^१-पाउ ५, ५२, -उ अप ४८,
११६^१, निघ ४, १^१; या ४,
९^१, -डना या ४, १०, ऋप्रा
२, १३^१, -डनि कौसू २६, २;
३१, ३०, १७

तितउ-प्रश्न^१-श्रौ कौसू २६, ३, ५.
तितनिषु-√तन् द.
तितिक्ष-क्षा-√तिज् द

a) पामे. पृ ११७० | टि. द्र. । b) पामे वैप १, १४७७ ० द्र । c) पामे पृ ४६७ j द्र. ।

d) विप. । स्वार्थे विकारार्थे वा अण् प्र. । e) = (स्त्रप्रावस्थायाम्) आत्म-स्वरूप- । f) सप्र. जसस्का <> जस्का
इति पामे. । g) वैप १ द्र. । h) पामे वैप १, ६९० h द्र. । i) पामे. वैप १, ६८९ d द्र. । j) पामे.
वैप १, ६९० q द्र । k) पाठः ? (तु. संस्कृतः टि.) । l) = घृताशन- (तु. दारिलः) । m) पामे. वैप १,
१४७४ m द्र. । n) द्रस. उप. = उष्णीष- वा इण्ड्व- वा ।

तित्तिम्भ^a - (> तैत्तिम्भ्य- पा) पाग
 ४, १, १०५
 १तित्तिर^b - रम् शंघ २२३
 १तैत्तिर- रम् आगृ १, १६, ३, कौगृ
 १, १९, ३, शागृ १, २७, ३, -रेण
 आपगृ १६, २
 २तित्तिर^c - राय^d आगृ १, २, २
 २८, हिगृ २, २०, १^e
 ३तित्तिरि^f - पाउवृ ४, १४३, -रि
 विघ ४४, २६, या ३, १८^g,
 शुप्रा ३, ८१^h, -रिम् विघ
 ५०, ३७, -रीन् आपश्रौ २०,
 १४, ५ⁱ
 तित्तिरि-कपिञ्जल-लावक-वर्तिका-
 मयूर-वर्जम् विघ ५१, ३१
 तित्तिरि-कपोत-कपिञ्जल-वार्ध्राणस-
 मयूर-वारण- -णा बौध १, ५,
 १३३
 २तित्तिरि^j - पाग ४, १, १०५^k, २,
 १११, -र्ये^l बौगृ ३, ९, ६, भागृ
 ३, ११ : १, -रि बृदे ६, १५१.
 तैत्तिरीय^m - पा ४, ३, १०२, -याः
 बौश्रौ ९ २, निस् ९, ३ १९,
 २५, नाशि १, १, ११, -याणाम्
 तैप्रा २३, १८
 तैत्तिरीयकⁿ - का चव्यू २ :
 १३, तैप्रा २३, १७
 तैत्तिरीय-ब्राह्मण- -णम् अप्राय
 ६, ८
 तैत्तिरीया(य-आ) ह्वरक- -केषु

नाशि १, १, ९
 तैत्तिर्य- पा ४, १, १०५.
 २तैत्तिर- पा ४, २, १११
 तितीरिषत्, °तीषत्-, °षमाण-,
 °र्षा- √तृ द्र
 तिथि- पाउ २, १२
 तिथि^o - पाउभो २, १, २०३, -थयः
 शघ ११५, आज्यो ६, ८, ११,
 -थये गोय २, ८, १२, -थि
 अप २, ५, ५, ३५, १, ४, बौध,
 -थिम् मागृ १, १०, ९, २, २,
 १५, वागृ, -थिपु या ४, ५,
 -थे कागृउ ४४ ८, आज्यो
 ७, १३, १७, २१, -थौ शागृ ५,
 २, २, अप २२, १, ४, ३१, ५, १,
 आज्यो ७, ४
 ३तिथि-ऋक्षाद्-अयोगतस(.)^m अप
 ३६, २, १
 तिथि-करण-मुहूर्त-नचत्र-ग्रहा(ह-
 आ)दि- -दीनाम् अप ७२, ३, ६
 तिथि-छिद्र- -द्राणि अप ३१, ५, १,
 -द्रेषु अप ३१, ८, ६
 तिथि-ज्ञ- -ज्ञा आज्यो ६, १३
 तिथि-देवता- -ताः कप्र ३, ६, ९,
 -ताम् मागृ १, १०, ९, २, २, १५.
 तिथि-द्रव्य-ब्राह्मण-संयोग- -गे अप
 ४४, १, ६
 तिथि-नक्षत्र- -त्रम् वेज्यो २०
 तिथि-नक्षत्र-करण-मुहूर्त- -तैन
 आज्यो ७, १२

तिथि-नक्षत्र-पर्व-समवाय- -ये गोय
 १, १, १३
 तिथि-निष्ठा- -ष्टाम् वेज्यो २२
 तिथि-भा(भ-आ)दान-> °द.नि-
 (क>)का^p -का वेज्यो २१.
 तिथि-वारा(र-आ)दि- -दिभि
 बौपि २, १०, ७
 तिथि-विचक्षण- -ण आज्यो ७, ४
 तिथिवक- (> तैथिवक्य- पा) पाग
 ५, १, १२८
 तिनिश- पाउभो २, ३, १४७
 तिन्तिडीक^q - पाउ ४, २०
 तिन्त्रिणीक- पाउना ४, २०.
 तिन्दुक^r - पाउभो २, २, २२
 तिन्दुक-ज्योतिस्^s - (> °तिषीय-
 पा) पाग ५, ३, १०६.
 √ति, तैप् पाधा भ्वा आत्म क्षरणे.
 √तिम् पाधा दिवा पर आद्रांभावे
 तिमि^t - पाउ ४, १२२, पाग ८, २,
 ९[!]
 तिमि-गिल^u - पावा ६, ३, ६९
 तिमि-मत्- पा ८, २, ९.
 तिमिर^v - पाउ १, ५१, पाग २, ४,
 ३१, पावाग ८, ४, ३९^w.
 तिमिर-मकर-नग-नाग-नक्र-ग्राह-र्शि-
 शुमार-शङ्ख-द्रुम-कूर्मो(र्म-उ)र्मि-
 झष-महिष-वराह दिगिद्वरद-नव-
 कुमुद-खण्डाकृति-नल-कलश-
 कुड्मलापीड-तोरणा(ण-आ)वर्त-
 स्वस्तिक-वर्धमान-रवौह्वरजतम-

a) तु. पागम. । व्यप. । व्यु. ? । b) = पक्षि-विशेष- । व्यु. ? । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । d) सपा. प्राय<> श्ये इति पामे । e) श्रायो इति पाठ ? श्ये उ° इति शोध. (तु. Boht [ZDMG ५२, ८८] । f) वैप १ द्र. । g) पामे वैप १, १४७८ k द्र. । h) पामे वैप १, १४७८ l द्र. । i) तु पागम. । j) = शाखाध्यायिन- । k) = तैत्तिरीयागनाय- । तस्येदमीय जुष् प्र (पा ४, ३, १२६) । l) = काल-विशेष- । व्यु. ? । < √ तन् इति पाउभो, < √ भत् इति क्रमा. । m) पाठ (तु. संस्कृतु सूची) ? श्वा(क्ष-आ)द्य-यो° इति शोधः विमृश्यः । n) मत्वर्थे ठन् प्र. । o) तिन्तिडीक- इति पाम ४, ३, १५६ । p) = वृत्त-विशेष- । व्यु. ? । q) = मत्स्य-विशेष- । व्यु. ? । r) उस. उप क. प्र । s) बप्रा. । व्यु. ? । t) = पावाग ८, ४, ६ । तिमिरा- इति भाण्डा पासि, तिमिरिका- इति पाका ।

द्राणिपताकाशिवतात्या स्थान-
विधिघ-जलचर-पक्षि-विरुत-चतु-
ष्पदा(द-आ)कार^१- रेघु अप
६५, १, ४
तिमिर, रा-वन- पावा ८, ४, ३९
तिमिरिका-वन- तिमिर- टि द्र
तिर^१ > तिर/अच् > तिर (इ-अ)-
च्- -रक् बौश्रौ २५, ३ ३१^०
शतिरश्ची^१ - श्री ऋअ २, ८, ९५;
साअ १, ३४९, ३५०, - ऋश्चया:
आश्रौ ७, ८, ३, शाश्रौ १२, २६,
६
तैरश्च्य^० - श्च्यम् जुसू २, १५
२४, निसू ५, ७ : २७, ८, ४
२१, २३, ८ ३०
तैरश्च्य(श्च्य-ऋ)च्- - छुं
लाश्रौ ६, ८, १२
तैरश्च्यो(श्च्य-उ)त्त(म >)
मा- -मायाम् लाश्रौ ६, ८,
१२.
तिरश्ची-द्युतान- नौ अअ २०,
१३७.
२तिरश्ची-, ष्वीन- तिरस् द्र
?तिरश्चीनर्थ^१ कौसू १२४, ४.
तिरस्^१ () पाठना छ, २२४, ऋआश्रौ
१, २, ७, २, ५, ७, शाश्रौ ८, २४,
११, ऋआपश्रौ ६, २५, २, ९, १२,
४६, १४, २२, ३६, बौश्रौ, ऋभाश्रौ
३, १०, २६, ६, ५, ५, आपमं
२, २२, २४, आभिष्ट ३,
७, २ ३१, बौपि १, ७ २४, ११,

कौसू ७२, २१, निग ३, २९, १,
या ३, २०, ५, ४, ५, १२,
३२, पा १, ४, ७१, पाग १, १,
३७, ३, १, २७
तिर-पवित्र^१ - अम् आपश्रौ १,
१३, ६, १४, ३१, बौश्रौ १, ३
३१, ४ २१, आश्रौ, हिष्ट
१, १, २४^१
तिरश्-चर्मन्^१ - मन् बौश्रौ ६, २८:
४५, ७, ५, १९, ८, १, ११, २५,
२२, ६
तिरस्/कृ > कृत्य काश्रौ ६, १,
१२, बौध १, ५, ६८, पा १, ४,
७२
√तिरस्य पा ३, १, २७
तिरो-अह्वय^१ - यस्य बौश्रौ १७,
१० : १७, -या तैप्रा ११,
१७, -यान् आपश्रौ १४, ४,
८, बौश्रौ १७, १० : १३, १,
वैश्रौ २१, १५ ९, हिश्रौ २, ७,
५३, १५, ७, १०, -यानाम्
आपश्रौ १४, ४, ७, बौश्रौ
१७, १० : १०, २३,
१३ : ३०; ३२, हिश्रौ ९, ७,
५३, -येभ्य काश्रौ २०, ८,
१४.
तिरो-अह्वय^१ - ह्वयस्य द्राश्रौ ६, ३,
१८, लाश्रौ २, ११, १२, -ह्वयान्
माश्रौ २, ५, ३, २४, -ह्वयानाम्
आश्रौ ६, ५, २४, शाश्रौ ९,
२०, ३१, काश्रौ १२, ६, १३,

माश्रौ २, ५, ३, २३, ३, ३, २३, ३,
-ह्वयास आश्रौ ६, ५, २४,
शाश्रौ ९, २०, ३०, -ह्वयेषु
आपश्रौ १४, २८, २
तैरोअह्वय^१ - ह्वे आश्रौ ५,
५, २०^०
तिरोअह्वया(ह्वय-आ)दि- -दि
काश्रौ २४, ३, ३८
तिरो(रस्/अ)च् > तिरश् च^१-
-श्च. काश्रौ १८, ६, ७, अप्राय
४, ४, -रश्चा या ६, २०, १
२तिरश्ची- -श्री आश्रौ
८, १४, ४, शाश्रौ ४, १८, ११,
काश्रौ २, ८, ५, आपश्रौ १६, १४,
६, बौश्रौ, द्राश्रौ १०, ४, ७, ११,
लाश्रौ ३, १२, ६, ११, -श्री: बौश्रौ
५, ६ ६, माश्रौ १, २, ५, २;
हिश्रौ १, ७, ३, -श्रीम् आपश्रौ
२, १, २, बौश्रौ, -श्रीषु काश्रौ
१७, १, १३, -श्च्यौ काश्रौ १७,
१, १०, ४, १४
तिरश्चि(क >) का^१-
-का आश्रौ १, २, १
तिरश्चीन, ना^१ - न शुभ ३,
२३, ६, -नम् भाश्रौ ७, १४, ९,
वैश्रौ ६, ८ : ५, -ना: कौसू
१३, २
तिरश्चीन-निधन^१ - नम्
लाश्रौ ६, ११, ४
तिरश्चीन-सनद्ध- -द्धम्
वाधुश्रौ ३, ७५ : ६, ८.

a) दस > बस । पूष = जल-जन्तु- । b) तिरस् > यनि. । c) सपा तै १, १, २, १ तैत्रा ३,
२, २, ५ आपश्रौ १, ३, १२ तिर्यक् इति पाभे. । d) वैप १ द्र । e) = साम-विशेष- । f) पाठ ?
तिरश्चीनं यत् इति web शोध (तु संस्कृतः टि) । g) पाभे वैप १, १४७९ द्र । h) वैप २, ३ख द्र. ।
i) Böht [ZDMG ५२, ८१] पद द्वयम् इति (तु ऋ १, १३५, ६) । j) अस टजभावपक्ष (पा ५, ४, १०९) ।
k) पाभे. वैप १, १४७९ ० द्र. । l) सपा. ऋह्वयान् <> ह्वयान् इति पाभे. । m) सप्र ऋह्वयानाम् <>
ह्वयानाम् इति पाभे । n) विप (आश्विन- [अतिरात्र-]) । स्वार्थे अण् प्र. । o) चेतरो अह्वये इति पाठ ? यनि. शोधः
(तु. आन.) । p) सपा. शौ १५, ३, ५ श्च्ये इति पाभे । q) नाप. । स्वार्थे कः प्र. ह्रस्वश्च ।

तिरश्चीना(न-ञ)प्र,प्र^३-
-प्रान् बौश्रौ ९, १५ २१,
-प्राम् बौश्रौ ९, १५ २३,
-प्रौ बौश्रौ ९, १५ . १०
तिर(स्>)श्-च-^b>श्च-ता-
-ता^० सु २३, १
तिरश्च-राजि^b- -जिः^d आपमं
२, १७, १७[†]
†तिर(स्>)श्-चि-^b>श्चि-
राजि^b- -जिम् अत्र ३, २६^d,
-जे कौस् ३२, ५, अत्र ७,
५६, अत्र २ ८६
तिर्ये(रि-ञ)च्-ञ्- पा ६,
३, ९४, -र्येक् शाश्रौ ४, १२, ५,
१७, १, ११, काश्रौ, आपश्रौ १, ३,
१२^०, हिश्रौ ५, ४^०, ६, -र्येक्षु
विध ५, १७, ७, -र्येह् वाधुश्रौ
३, ६ : २^२, ६९ ३५, लाश्रौ,
-र्येचि पा ३, ४, ६०, -र्येञ्चः
वाधुश्रौ ३, ६ ३, द्राश्रौ १०,
४, ८[†], लाश्रौ ३, १२, ७[†],
विध ५१, ६३, -र्येञ्चम् आपश्रौ
२, ३, ११×४, बौश्रौ १, ११ :
३६×४, १२, ९ २४[†], -र्येञ्चि
बौश्रौ ६, २६ ८, वाधुश्रौ ३, ६ .
२, -र्येञ्चौ आपश्रौ २, १२, ८,
बौश्रौ ५, ५ ३०
तिरीच, ची- -चम् वाधुश्रौ
३, ६ १, -ची वाधुश्रौ ३, ६
१, २, -चीः वाधुश्रौ ३, ६ : १
तिरीचीन^b- -नम् आपश्रौ
२, १८, ९
तिर्येक् तस् (:) आपश्रौ १४,
६, ११, हिश्रौ ९, ८, २८.
तिर्येक् त्व- -त्वम् विध ४४,

४४, ४५, १, ५८, ५
तिर्येक्-प्रमाण- -णानि
आपश्रौ १, ३, १७, -णेन आपश्रौ
१६, ४, ७
तिर्येग्-अङ्गुरि^a- -रिम्
कौस् ८७, १४
तिर्येग्-अयन- > तैर्येगयनि-
क- -क लाश्रौ ४, ८, ७, द्राश्रौ
८, ४, ७, निस् ५, १२ ५५
तिर्येग्-ग, गा- -गा अप
५८^३, ४, ६, -गा. अप ५२,
१३, १
तिर्येग्-द्विगुण- -णानि काशु
६, ७
†तिर्येग्-बिल^b- -ल शुअ
४, १९७, या १२, ३८[†]
तिर्येग्-भे(द>)दा^b- -दा
बौशु १७ : ८, १९ : ७
तिर्येग्-योनि- -नय विध
४४, १, -निषु विध ९६, ३९,
-नौ अप ७०^२, १२, २, ४, विध,
-न्याम् वाध ४, ३१
तिर्येग्योनि-गत- -तान्
बौश्रौ २८, २ : ५३
तिर्येग्योनि-भयावह-
-हौ अप ६३, ४, ७.
तिर्येग्योनि-व्यवाय- -ये
वाध २३, ५.
तिर्येह्-नद्ध- -द्धम् काश्रौ
२२, ४, १०
तिर्येह्-नीच- -च शुप्रा १,
१४९
तिर्येह्-मान^१- -नम् काशु
७, ३२
तिर्येह्मानी^१- -नी काशु

२, ७, ९, ११, आपशु, -नीम्
आपशु ४, ७, बौशु २ . ९, हिशु
२, ६, -न्या काशु ३, ३, आपशु
२, १५, हिशु १, ३६, -न्याः
काशु ७, ५, बौशु १५ . २, -न्यौ
आपशु ५, १२, हिशु २, २२
तिर्येह्मानी-शेष-
-ष काशु १, १३, १५, आपशु १, ७
?तिरोधसा वाधुश्रौ ४, १०२ १५
तिरो/धा^b> धा- -धाम् अत्र
८, १०(५)[†]
†तिरो-धाय बौश्रौ १४, ७ २३;
२६, ७ . २०, २१, वाधुश्रौ ४,
१०२ . १४
तिरो-हित- -तम् विध ७१, १९.
तिरो/भू, तिरोभवति आपश्रौ
२३, १३, १५, हिश्रौ १८, ४,
५२, लाश्रौ १०, १९, ११;
निस् १०, ११ : ५, तिरः
• • भवति बौश्रौ १४, १ : २०,
तिरोभवन्ति हिश्रौ १८, ४, ४१;
४२, तिरः (अभवत्) वाधुश्रौ
४, २६^२ ४
तिरः • बभूव वाधुश्रौ ४, ७५ :
३५, तिरो • भवितास्मि वाधुश्रौ
४, ७५ : २४, तिरोऽभूत् वाधुश्रौ
४, ७५ २४, ३६
तिरो-भूत्वा वाधुश्रौ ३, २९ ५.
तिरो-विराम^k- -मः शैशि २३६;
माशि, -मम् माशि ७, ९, नाशि
२, १, ५^१
तैरोविराम- -म. शुप्रा १, ११८;
-मम् याशि १, ८३^१
तैरोविराम-क- -क याशि
१, ७७

a) विप.। बस.। b) वैप १ द्र। c) वा क्तिवि इति BFW। d) पाभे वैप १, १४७९ ज द्र। e) पाभे.
पृ ११७३ ० द्र.। f) पाभे. वैप १, १४७९ ० द्र। g) = तिरश्चीन-। h) पाभे वैप १, १४८० f द्र.। i) उस. उप.
भावकरणयोर्लुट् प्र.। j) = रज्जु-विशेष-। k) = स्वरित-विशेष-। l) सप्र. तिरो<>तैरो इति पाभे.।

तिरोव्यञ्जन-> तैरोव्यञ्जन^२- न
 शुप्रा १, ११७, तैप्रा, नाशि १,
 ८, १०^{१०}, २, १, ४^{१०}, ८^{१०}
 तैरोव्यञ्जन-पादवृत्त- -तयोः
 तैप्रा २०, १०
 तैरोव्यञ्जन-स(जा>)ञ-
 -ञ यागि १, ७७
 तैरोव्यञ्जन-स्वरित- -त
 कौशि ८
 तिरिन्द्रि^०- -रस्य ऋअ २, ८, ६,
 -रे शाश्रौ १६, ११, २०, २१
 तैरिन्द्रि^०- -रम् वृदे ६, ४७
 तिरीच, ची- प्रमृ तिरस् द
 तिरीट- पाठ ४, १८५
 तिरोअह्वय- प्रमृ तिरस् द
 तिर्पीक-, तिर्पिका- पावाग ८,
 २, १८^०
 त्तिर्य^०- -र्यम् अप्रा ३, २, ३१
 त्तिर्यच्, ङच्- तिरस् द
 ✓तिल् पाधा भ्वा पर गतौ, तुदा
 पर स्नेहने
 तिल्^१- पागवा ५, ४, ३, -लः हिश्रौ
 २१, ३, १०, आगृ, -लम्
 आमिगृ ३, ११, ४: १८, वैगृ
 ४, ४ १८, बौध ३, १०, १५,
 -लस्य शंघ ४०५, -ला वैश्रौ
 १६, ६ ५, बौगृ, -लान् आपश्रौ
 १३, ५, ४^१, माश्रौ, -लानाम्
 वैगृ ५, १३. १३, जैगृ, -लेभ्यः
 बौश्रौ २, २० ४, २४, २१.
 ९, २८, ८ ५, वैश्रौ १, १६.
 ३, बौपि ३, १२, १, -लेषु
 बौश्रौ १८, २३ १६, कौसू ९३,
 २९, -लै कौगृ ३, १४, २, शागृ
 तैल^२- पाग २, ४, ३१^०, -ल

कौसू ९२, १०; -लम् बौश्रौ
 २८, १३ ५, वैश्रौ, या ६, १७,
 -ले कौसू ९३, ३९, अप ७०^२,
 ७, १३, ७१, १०, ४, ५, -लेन
 वैनाश्रौ ४३, १०, अप १, २८,
 १, विध ४३, ३८,
 तैल-गुड-शुक्कगोमये(य-इ)
 न्यन-नृण-कुश-पलाश-भस्मा-
 (स्म-य)ङ्गार- -रान् विध ६३,
 ३७
 तैल-द्रोणी- -ण्याम् वैश्रौ
 २०, २३ २, हिपि २२. १०
 तैल-गारा- -रा माशि ४,
 १५, -राम् शेशि ३५०
 तैल-परिप्लु(त>)ता-
 -ताम् अप ६८, ५, १
 तैल-पात्र- -त्रम् गोय ३,
 ५, ३०
 तैल-पाथिन्^३-> ऽथि-क-
 -कः विध ४४, २३,
 तैल-पीत- पाग २, २, ३७
 तैल-बिन्दु- -न्दु विध ३,
 ९७
 तैल-मिश्र- -श्रम् अप १,
 ४८, ३, अशा १३, १
 तैल-वत् विध ६४, १२
 तैल सयु(त>)ता- -ता
 अप ३२, ९, २
 तैल-संपर्क- -र्क वैगृ ५, १४:
 २
 तैल-सपात- -तम् कौसू
 ३०, १
 तैल-सर्पिस- -पिषी आपघ
 १, १७, १६, बौध १, ६, ४८,
 हिघ १, ५, ४८

तैला(ल-अ)क्त- -क्तम् अप
 ३६, १६, १
 तैला(ल-अ)पूप- -पस्य कागृ
 ७०, १
 तैला(ल-अ)भ्यक्त, क्ता- -क्तः
 अप ६८, ५, १, -क्ता अप २६,
 ३, ५.
 तैला(ल-आ)मलक-संनिभ-
 -भा अप ६३, ४, ८
 तैलो(ल-उ)दक- -कयो.
 विध ७१, २३
 तैलीन- पा ५, २, ४
 १ तिल-क- पा ५, ४, ३
 तिल कट- पावा ५, २, २९
 तिल-कर^४- रम् विध ९, ६
 तिल-कल्क- -ल्कै विध १९, १८
 तिल-काल^५- (> ऽल-क- पा)
 पागवा ५, ४, ३
 तिल-गन्ध-पुष्प-मालय- -र्यै बौपि
 २, १०, २
 तिल गोमय-कर्दम- -मै. अप ६८,
 ५, ११
 तिल-तण्डुल- -ला अशा १२, २,
 -लान् आमिगृ ३, ४, १: २२,
 १०, १: ९, बौपि, -लानाम्
 आमिगृ ३, ४, १ २०, बौपि,
 -लानि आमिगृ ३, ४, ४. २६.
 तिल-तण्डुल-दधि-मधु-क्षीर-
 -राणाम् वैगृ ५, ४. १
 तिल-तण्डुल-पक्वान्न- -न्नम् वाघ २,
 ३९^१
 तिल-तण्डुल-संपर्क- -र्क. कप्र ३,
 ६, ८
 तिल-तैल- -लम् अप २३, ५, ४,
 -लेन शंघ २४२.

a) = स्वरित-विशेष-। b) ऽर्य्य^० इति पाठ ? यदि शोधः (तु. याशि. प्रमृ.)। c) वैप १ द्र ।
 d) विप. । तस्येदमीय. अण् प्र । e) तु. पागम । f) वैप १ निर्दिष्टयो समावेश द्र । g) = [परोष्णी-
 नामक-]पक्षि-विशेष-। उस । h) उप = ३कर-। i) ऽनम् इति पाठ ? यदि शोधः ।

तिलतैल-तुला- -लाम् विध ९०,
२२
तिल-दधि-क्षौद्र-लवण-लाक्षा-मद्य-
मास-कृतान्न-स्त्री-पुरुष-हस्त्य-
(स्ति-अ) श्व-वृषभ गन्ध-रस-
कृष्णाजिन-सोमो(म-उ)दक-
-कात् शध १५३
तिल-दर्भ- -भान् आमिष्ट ३, ३,
१ १५
तिल-दान- -ने बौध २, ८, १५^३,
-नेन अप ४, २, १०
तिल-द्वेण- -णम् विध ५०, ३७
तिल-धान्या(न्य-अ)न्न-वस्त्र-
-स्नाणाम् शंघ ३९५
तिल-धेनु- -नुः अप ९, ३, ५,
-नुम् आमिष्ट ३, १०, २ : १०,
बौपि ३, ९, ५, अप ९, १, १,
अशा १३, ५, काथ २४१. ८
तिल-तुद- पावा ३, २, २८.
तिल-पात-> तैलपा(त>)ता^३- पा
६, ३, ७१
तिल-पात्र-दान- -नम् अप ६८, २,
६१
तिल-पिञ्ज- पावा ४, २, ३६
तिल-पिशित- -तम् वागृ ४, २३
तिल-पिश्ल^८- -श्लम् मागृ १, २१,
१२^८
तिल-पिष्ट-माषो(ष ओ)दन^९- -नम्
जैगृ २, ९ २७^९
तिल-पिष्टा(ष्ट-आ)दि- -दिभि.
आमिष्ट ३, ३, १ * १३
तिल-पेज- पावा ४, २, ३६
तिल-पेशल- -लम् कागृ ४०, १८^८

तिल-प्रद- -द विध ९२, २३
तिल-प्रस्थ- -स्थस्य हिपि १७ : ८
तिल-भक्ष^९- -क्ष आपध १, २६,
१५, २७, १, हिध १, ७, २५, २६
तिल-मधु-संसृष्ट- -ष्टम् बौगृ २,
११, ५३
तिल-मय- पा ४, ३, १४९
तिल-मात्र-चित्र- -त्रः या ३, १८
तिल-मात्र-तुङ्ग- -त्तम् या ४, ९
तिल-माष- -षा आपधौ १६, १९,
१३, जैगृ १, ११. ६, आपध
२, १६, २३, हिध २, ५, २३,
-षाणाम् कौगृ १, २१, ६, शागृ
१, २८, ६, जैगृ १, ११ ४,
-षान् द्राश्रौ ५, ४, २८, लाश्रौ
२, ८, २८, -षैः गोगृ २, ९, ६
तिल-माष-व्रीहि-यव- -वाः बौश्रौ
२४, ५ १५
तिल माष-व्रीहि-यवो(व-उ) दक-
दान^३- -नै गौघ १५, १४
तिल-मिश्र, आ^१- -श्रम् आश्रौ ८,
१४, ३, बौश्रौ २६, ३३ : १४,
आमिष्ट, -श्राः आमिष्ट ३, ४, ४
२०, ८, १ ६, बौगृ, -श्राभि
आमिष्ट ३, ८, २ ३८, ६५,
बौपि १, १५ : ४५, हिपि १५ :
१५, -श्रेण आमिष्ट ३, ११, २ : ४.
तिलमिश्र-गन्धो(न्ध-उ)दक-
-केन बौपि २, १२, २
तिलमिश्र-पिष्ट-माषौ(ष-ओ)
दन- -नम् आमिष्ट २, ५, १. ३५^९
तिलमिश्रो(श्र-उ)दपात्रा(त्र-आ)
नयन- -नम् हि व २, ५, ४५^९

तिल-मुद्ग-माष-यव-गोधूमा (म-
आ)दि- -दीनाम् शंघ १४६.
तिल-मुद्ग-मिश्र- -श्रम् पागृ १,
१५, ४, जैगृ १, ७ : २
तिल-लाज- -जै. वैगृ ५, १० * ५.
तिल-वत् कप्र १, ३, ९
तिल व(त्स>)स्सा^६- -स्सा
आमिष्ट ३, ८, २ ३९, बौपि १,
१५ ४६
तिल-वर्जम् शंघ २७७
तिल-व्रत- (> °तिन्- पावा)
पावाग ५, १, ९४
तिल-व्रीहि-यवा(व-आ)दि-
-दीनाम् अप ७०, ४, ९
तिल-शण-गोमय-शान्ता-ज्वाल^१-
-लैन कौसू २७, ३३
तिल-सक्तु- -क्तुभि बौगृ २, १, १८.
तिल-सक्तु-दधि-लाज- -जम् वैध
२, १५, १
तिल-सबन्ध- -न्धम् विध ६८, २९^३
तिल-सर्षप- -षैः कौगृ ३, १, २;
शागृ ३, १, ३, वैगृ ३, १४ : २;
अप ३१, ८, ५
तिला(ल-अ)क्षत- -तान् वैगृ ५,
१२ : ४, -तेषु वैगृ ५, ६ * १०.
तिलाक्षता(त-आ)दि- -दीनि
वैगृ ५, ४ २२
तिला(ल-अ)क्षतो(त-उ)दक- -कैः
वैगृ ५, २ : २०, २४
तिला(ल-अ)नुप्रकिरण- -णम् हिध
२, ५, ४५
तिला(ल-अ)न्तर- -रम् नाशि १, ६,
९

a) °लादा° इति Hultsch । b) ज प्र. (पा ४, २, ५८) । c) षस । उप. १ = चूर्ण- वा पात्र-
वेति भाष्यम् । d) सपा °पिश्लम् <> °पेशलम् इति पाठे । e) षस > मलो कस । f) सपा. तिल-
पिष्टमाषो <> तिल-मिश्रपिष्टमाषौ इति पाठे । g) उप. कर्तरि क्व । h) तु जीसं. St. । i) विप.,
नाप [बौश्रौ प्रम्] । j) सप्र आपध २, १७, १७ उदपात्रानयनम् इति पाठे । k) विप. । बस. ।
l) शान्ता- = ओषधि-विशेष- । m) °सयुक्तम् इति जीसं. ।

तिला(ल अ)म्भस्-म्भा शर्धे १२१	१६, १८, १८, -लम् आपश्रौ २०, २२, ६, हिश्रौ १४, ५, ४	आपघ २, २०, ४, हिध २, ५, ९; -प्याय वैग ३, २० : ५, -व्ये पौश्रौ १७, ३९ ९, आमिग्य; -प्येण आगृ १, १३, २, आपगृ. तैष- पाग ६, २, १९४ ^६ , पा, पावा ६, ४, १४९, -षस्य शाश्रौ १३, १९, ३, -षे बौगृ २, ११, २.
तिला(ल अ)र्थे-र्थं. आगृ २, ५, १५; कौगृ, -र्थम् बौगृ १, १, २४, -र्था अगृ ४४, १, १०	तिलकित- पा ५, २, ३६	तैषी- षीम् गोगृ ३, ३, १४; जैगृ १, १५. १, -व्या हिश्रौ १३, ३, २, वैताश्रौ ३६, २, गोगृ ३, १०, १६, -व्याम् बौश्रौ १३, १७. ३, माश्रौ
तिला(ल-अ)शन ^१ -न बौध ४, ५, २६	तिलिदा ^१ -०दे आपम २, ११, १९, आमिगृ २, १, ३ : ९, भागृ १, २२ १४, वैगृ ३, १४. १३, हिगृ २, ३, ३	तैषी-पक्ष- -क्षस्य आमिगृ १, २, २ : १, भागृ ३, ८ ११, हिगृ २, १८, ८, हिध १, ३, २
तिलो(ल-उ)दक-कम् आमिगृ ३, ३, २ २२, ११, ३. २१, बौगृ, -केन आमिगृ १, २, २ ३७, -कै आमिगृ ३, ११, २ १०, ३ १७, वैगृ ७, ८ ३	तिलिका- (> तैलिक्य-) रतिलक- टि द्र	तैष्या(षी-आ)दि- -दि आश्रौ ८, १४, २२.
तिलोदक-दाना(न-अ)न्त- -न्तम् बौपि २, ११, ५	तिलिपञ्च ^१ -अम् अप्रा ३, ४, ११ ^१ तिलिपञ्च्य-ञ्च्यः कौम् ८०, २८	तिष्य-नक्षत्र-संयुक्त- -के अप ५, ४, २
तिलोदक-पात्र-त्रम् बौपि २, ९, २, १०, ३, -त्रे बौपि २, ९, ५, ११, २	तिलिपलिका ^१ - पावाग ८, २, १८	तिष्य-पुनर्वसु-स्वो कौगृ १, २०, ३, पा १, २, ६३.
तिलोदक-प्रदान-नम् बौपि २, १२, ४, भागृ ३, १७. १०	तिल्ल ^१ पाधा भ्वा पर गतौ.	तिष्य-पुनर्वस्व(सु-अ)नुराधा (धा-अ) श्वि-नेवती-स्याम् आमिगृ २, २, ३ : २.
तिलो(ल-ओ)दन-न अप १, ३४, ४, -नम् वैगृ ५, १३. ८, -नस्य वैगृ ५, १४ ६, -नेन वैगृ ५, १३. १६	तिल्व ^१ -> तिल्व-क, का-क आगृ २, ७, ६, -काम् आमिगृ ३, ५, ५. ६, बौपि १, ४ ६	तिष्य-पुष्य- -ष्यथोः पावा ६, ४, १४९.
तिलो(ल उ)दुम्बरपत्र-दर्भ-भान् वैगृ ५, १५ : १, २	तैल्वर्क ^१ -क. काश्रौ २२, ३, ९, आपश्रौ २२, ४, १५, हिश्रौ १७, २, २१, -कम् आपश्रौ १६, १०, २, हिश्रौ ११, ३, १९; -कानि बौश्रौ १८, ३६ : २, -कौ वैश्रौ १८, ७ १८	तिष्य-बृहस्पति- -तिभ्याम् कागृ १८, २.
तिलो(ल-ओ)दन-नः कौसू १३८. २	तैल्वकी-कीम् माश्रौ ६, १, ३, २८, २९, वाश्रौ २, १, २, २८	तिष्य-मूल- -लयोः आमिगृ २, ५, १२ : १.
तिल्य- पा ५, १, ७, २, ४, फि ७६	तिल्विल, ला ^१ -ला आपम २, १५, ३, आगृ २, ८, १६, कौगृ ३, २, ६, शागृ ३, ३, १२, भागृ २, ११, १२, -ले ऋप्रा १४, ५८	तिष्य-रोहिणी- ग्याम् आमिगृ २, ५, ६ : १२.
तिलक-तिल-द्र	तिव ^१ वाधुश्रौ ३, ५ १	
तिलक ^१ - पाग ५, १, १२८ ^० , २, ३६	तिव्यपासम् ^१ वाश्रौ ३, २, १, २४.	
तैलक्य- पा ५, १, १२८	तिष्ठत्- प्रगृ √स्था द्र	
तिलक-वत्-वान् बौश्रौ १५, ३७ : १, १८, १ : ६	तिष्य ^१ - फि २३, -व्य बौगृ १, १, २१, भागृ २, १८ : ६, -व्यात्	
तिलक(>)का-वल ^१ -लः शाश्रौ		

a) विप. । बस । b) = विशेषक- । व्यु ? । c) तिलिका- इति पाक्व. । d) मत्वर्थे
वल्ल् प्र. उसं (पा ५, २, ११२) पूष. दीर्घ (पा ६, ३, ११८) च । e) = जरायु- । व्यु. ? । f) वैप १ द्र. ।
g) तु पागम. । h) विप (स्थूणा-, क्षेत्र-). वैप १ द्र. । i) पाठः ? व्यत्यास-> -सम् इति शोच. (तु-
तत्रैव ३२) । j) = नक्षत्र-विशेष- । व्यु ? । k) अर्थ ? । नैष- इति पाक्व. ।

ति(व्य>)व्या-पूर्णमास^a - से बौश्री
१३, १७ : २, २३, २.२२,
हिश्री २२, ३, ७
तिव्यो(व्य-उ)त्तर- रेषु वैगृ २,
१३.२
तिसु- प्रसृ त्रि- द्र
तिसृणीभिः^b अप १, ४०, ३, अशा
१०, ३
तिस्तिराण- √स्तृ, स्तृ द्र
√तीक् पाधा भ्वा आत्म गतौ
१, २तीक्ष्ण- प्रसृ √तिज् द्र
√तीर् पाधा चुरा उभ कर्मसमाप्तौ
तीर^c - रयो हिश्री १०, ३, १७,
-रस्य पावा ६, ३, १०८, -रे
माश्री ५, २, २, ६, लाश्री,
आमिष्ट २, १, २ १२^०,
बौगृ, हिष्ट २, १, ३^० -रेण
आश्री १२, ६, ३, शाश्री,
०आपमं २, ११, १२^०, १३^०,
बौगृ १, १०, ११^०, भाष्ट १,
२१ : ८^०
तीर-रूप्यो(व्य-उ)त्तरपद- दात्
पा ४, २, १०६
तीर्थ^d - पाठ २, ७, पाग २, ४, ३१,
४, २, ८०, १२७, ३, ७६, ५,
१, ६४, ९७, -र्थम् आश्री १,
१, ७, शाश्री, या ४, १५,
-र्थस्य वाश्री ३, २, ५, ४५, वैगृ
५, ७.९, शंघ १०३, -थात्
काश्री १४, ३, १६, बौश्री, -थानि
बौश्री १५, १.४, वाधूश्री,
-थाय वाश्री ३, ४, १, २०;
-थै काश्री १४, ४, ११, आपश्री,
आपघ २, १६, २५^d, हिघ^e २,
५, २४; १०५, पा ६, ३, ८७^०;

-थेऽ-थै वाधूश्री २, १७ : २,
-थेन आश्री १, ११, १४^f××,
काश्री ५, ५, १०××, आपश्री,
वैगृ १, २ ६, ५ ६, ८, १०,
१३ १, १४ ४, -थैभिः
या १४, ३१, -थैषु जैगृ २, ५
१५, अप, -थै. अश्री १८, ४^०,
या १४, ३१
तैर्थ- पा ४, ३, ७६, ५, १, ९७
तैर्थक- पा ४, २, १२७
तैर्थिक- पा ५, १, ६४
तैर्थ्य- पा ४, २, ८०
तीर्थ-गमन- ने बौश्री २१, ८ : १,
वाध २१, ९
तीर्थ-देश- शात् आश्री ५, २, ६,
८, १३, २३, -शे आश्री ५, १,
१३, ६, १२, ६, ९, ९, ८, वैताश्री
२७, ९, ३४, १२
तीर्थ-पूत- त विघ ८३, ९
तीर्थ-मृष्ट्यु- त्यव अप ४१, ४, ७
तीर्थ-यात्रा^g - (>तैर्थयाLत्र>]
त्री- पा) पावाग ५, १, ११०
तीर्थयात्रा(त्रा-आ)श्रित-
-तम् शंघ १०४
तीर्थ-वासिन्- -सिनाम् वाध २६,
१२
तीर्थ-व्यतिक्रम- मे बौगृ ४, ३, ६
तीर्थ-सद्- -सदे माष्ट १, १३,
१४^०
तीर्थ-स्थाणु-चतुष्पथ-व्यतिक्रम- मे
आपष्ट ५, २५, बौगृ ४, २, १४.
तीर्थ-स्थान- ने वैगृ ५, ७.९.
तीर्थ-स्नान- नात् शंघ १००.
तीर्था(र्थ-आ)ग(त >)ता- ता
माशि १५, ७

तीर्था(र्थ-अ)नुसरण- णम् विघ २,
१६, -णेन विघ ३६, ८
तीर्था(र्थ-अ)न्त- न्ते वाश्री ३, १,
१, ३०, ४, १, २३
तीर्था(र्थ-अ)भाव- ने शंघ १००
तीर्था(र्थ-उ)दक- -कम् अप १६,
१, ५, -केन अप १६, १, ६.
तीर्थादक-पूर्ण-कलश- -शम्
अप १०, १, १
तीर्थ्य^h - ध्यान् बौश्री ६, १:२५.
तीर्ण- तीर्त्वा √तृ द्र
√तीव् पाधा भ्वा पर स्थौल्ये
तीवर- पाठ ३, १
तीव्र,त्राⁱ - पाठभो २, ३, ३०, पाग
३, १, १८^h, ४, २, ५३ⁱ, -त्र
शाश्री १४, २१, २, आशि ८,
२०, -त्रम् माश्री २, ५, १, ३२,
अप, -त्रस्य आश्री ९, ७, ३२,
शाश्री, -त्रा ०आश्री ६, ५, २४,
७, ६, २, शाश्री, वृदे ३, ९,
४^०, या ९, १७^०, -०त्रान्
काश्री १०, ५, ९, आपश्री, -त्राम्
बौश्री १७, ३२ १^०, -त्रेण
बौश्री १७, ३२ : १^०, अप ५२,
२, १, वाध २५, ७.
तैवक- पा ४, २, ५३.
तीव्र-गति-त्व- -त्वात् आशि ८,
२०
तीव्र-तर,रा- रम् तैप्रा १७, १,-
४, -रा आपघ २, १६, २४;
हिघ २, ५, २४
तीव्र-ता- ता बौश्री १८, ३० : ५;
-ताम् बौश्री १८, ३०.९^०,
तीव्र-दारु^k - (>तैव्रदारव- पा)
पाग ४, ३, १५४.

a) वैप १ द्र. । b) पाठ ? त्रि-सु(णि >)णीभि इति अशा. संस्कर्तुरभिमतः शोष । c) सपा.
कीरे <> तीरेण इति पाभे. । d) = दानार्हे-पात्र- । e) = गुरु- । f) थै इति BI. । g) तु पागम. ।
h) तु. पाका. । i) व्यप. । j) उत्तरण संधिरार्थः । k) = वृक्ष-विशेष- ।

तीव्र-सव ^० - व शाश्रौ १४, २१, १	आश्रौ ५, २०, ६, शाश्रौ ८,	१३, ४, १५, काश्रौ, पा ८, २,
१तीव्र-सुन् ^० - सुन् शाश्रौ १४,	६, ६, निम् ३, ९ २०, ऋञ्	९८, पाग १, ४, ५७ ^० , पावा
२१, ० ^०	२, १, १६३	१, १, १×४, पाप्रवा १, ६, ९;
२तीव्र-सुन् ^० - सुन् काश्रौ २२, ९,	†तवस् ^० - व निघ २, ९ ^१ , -वम	११, ५, १४
१५, -सुतम् बौश्रौ १८, ४१	शाश्रौ ८, २३, १, अप ४८, ६८ ^०	तु जु-पूर्व- -र्व तैत्रा ५, १३.
१६ ^० , -सुना आपश्रौ २२, १०,	निघ ३, ३ ^० , या ५, ९ ^० ,	तु-शब्द- -ब्द उनिस् २ १३
६, हिश्रौ १७, ४, २३, -सुति	-वमम् आश्रौ २, १३, ९, ४,	तु-हि-ह वै-त(द्>)ञ्-छ(<श)
काश्रौ ८, ८, २०, लाश्रौ ८, १०,	१३, ७, शाश्रौ, या ५, ९, -वसे	ब्द-विशिष्ट- -ष्टानि ऋञ् १,
७	आश्रौ ७, ४, ८, शाश्रौ १२, ४,	१२, ३
तीव्रसुञ्-चतु पर्याय- -ययो	१७, शागृ ५, ६, २, ऋप्रा २,	तुक ^० - क अप ४८, ८९
वैताश्रौ ४०, ५	४४	तुक्ष- (>तौक्षायण- पा) पाग ४,
तीव्रसुद्-उपशब्दो(द् >)	†तवस्-तम- -मः ^१ शाश्रौ ८,	२, ८०
पह्वय- -न्येषु वैताश्रौ ३९, ९	१७, १, १८, ३, २	१तुञ् ^० - > †तौग्रय- -इय शैक्षि
तीव्र-सोम ^० - -म बौश्रौ १६, ३१	†तवस्-तर- -रम् आश्रौ ६, ४,	३३०, -ग्रयम् ऋप्रा ५, ३६.
१८; -मे बौश्रौ १८, २९. २१,	१०, आपश्रौ	२तुञ्->तुग्रिय- पा ४, ४, ११५.
-मेन आश्रौ ९, ७, ३१	तविष, पा ^१ - पाउ १, ४८, -ष.	†तु(ग्रय>)इया ^० - -इया निघ १, १२;
तीव्रा(व-अ) ^० - -न्तम् आश्रौ ५,	निघ ३, ३ ^० , -षा आश्रौ २,	-इया अप ४८, ७५
१, १५ ^१	१३, ७ ^० , कौस् ६, ९ ^१ , -षेभि.	तु(इय>)इयावृष् ^० - -वृषः ऋप्रा ९,
√तीव्राय पा ३, १, १८	या २, २४ ^० †	११†
तीव्रा(त्र-अ)र्थ-तर- -रम् या ४,	†तविषी- -षी अप ४८,	तुग्वन् ^० - -ग्व या ४, १५ ^० , -†ग्वनि
२५	१०३, निघ २, ९, या ९, २५ ^० ,	अप ४८, ११५, निघ ४, १.
तीव्री √कृ>°कृ(त>)ता-	-षीभि आश्रौ ९, ५५, आपश्रौ	तुङ्ग- पाउमो २, २, ६६
-ताभि वैश्रौ १६, २२ २	५, १०, ४, माश्रौ १, ५, २, १४,	तुष् ^० - पाउमो २, १, २४६ ^० , †तुक्
तीव्री-कृत्य आपश्रौ १३, १७, ९,	वाश्रौ १, ४, २, ५, हिश्रौ ३, ३,	अप ४८, ८७ ^० , निघ २, २, †तुचे
हिश्रौ ९, ४, ५५	३६, -षीम् हिश्रौ १२, ६, ६,	साञ् १, ३९५ ^१ .
√तु ^० पाघा. अदा पर गतिवृद्धि-	या ९, २५ ^० †	तुच्छ- पाउमो २, २, ८३.
हिंसासु, †तूताव निघ ४, १,	√तविष, †तविष्यते निस् ७,	तुच्छय ^० - -च्छयान् ऋप्रा १४, ५२†.
या ४, २५	८: ३४ ^० †.	†तुच्छब्द. दवि २, ११.
तूतोत् ऋप्रा ७, ४२†	ताविष- पाउमो २, ३, १५७	√†तुञ्,ञ्ज् ^० पाघा भ्वा.पर हिंसा-
*तक्->तवीयस् ^० - -यान् अप्रा	तु, >तू ^० आश्रौ १, १, ३, २, १८,	याम्, सुरा पर. हिंसाबलादान-
३, ३, ४.	१९, शाश्रौ १, १, ४०, १५,	निकेतनेषु, तुञ्जते वैताश्रौ ३१,
†तव्य(सु>)सी ^० - -सीम्	२७, १ ^१ , १६, १३, १५ ^० , १८,	२७, तुञ्जति अप ४८, १३; १४;

a) = एकाह- [याग-विशेष-]। उस उप. अधिकरणे प्र । b) विप । उस । c) वैप १ द्र. ।

d) पामे वैप २, ३खं. तीव्रान्तम् ऐत्रा २, २० टि द्र । e) या ९, २५ पा ६, १, ७, ७, ३, ९५ परामृष्टः द्र. ।

f) बल-नामन्- । g) महन्-नामन्- । h) पामे. वैप १, १४९१ q द्र । l) वैप १ निर्दिष्टयो. समावेशः द्र. ।

j) = बलवत्- । विशेषः वैप १, ८४३ k द्र. । k) वैप १, १४८३ d द्र. । l) पामे. वैप २, ३खं स्थ ऐत्रा ७,

१८ टि द्र. । m) दृ १९४ b द्र । n) तु पागम. । o) गृह-नामन्- । p) <√तु इति । q) या ६-

१७ परामृष्ट. घा. च दाने वृत्तिः द्र ।

निघ ३, २०.
 तुज्यते या १४, २६^क
 तुज^अ- तुजा उच् २, २५^क
 तुज^ब- ज. निघ २, २०^क
 √तुज्यमान- नासः अप ४८,
 १०६, निघ २, १५
 √तुज^अ- ज्ञ निघ ४, ३, या ६,
 १७^क, -ज्ञेऽ-ज्ञे या ६, १८^क
 √तुजान^अ- न अप ४८, १०६,
 निघ २, १५, या ६, २०^क, ऋप्रा
 ७, २७.
 तुजि^अ- जि अप ४८, १०६,
 निघ २, १५
 √तुज^अ शाश्रौ १८, ३, २
 √तुजि^अ- जये या १२, ४५^क
 √तुञ्ज पावा भ्वा पर पालने, चुरा
 पर भाषार्थे
 √तुद् पाधा तुदा पर कलहकर्मणि
 तुटि-> तुब्बा (टि-आ) फार^अ- रम्
 वैय ४, १३ ८
 √तुद् पाधा भ्वा, तुदा पर
 तोडने^अ
 √तुण पाधा भ्वा, तुदा पर कौटिल्ये
 √तुण् पाधा भ्वा. आत्म तोडने^अ
 तुण्ड^अ- पा, पाग ५, २, १२७^अ, -ण्डै.
 अप ६४, ७, ९
 तुण्डक^अ- कः अप्रा ३, ४, १^क.
 तुण्डेल^अ- लम् अप्रा ३, ४, १^क

तुण्डदेव^अ- (> व-भक्त- पा) पाग
 ४, २, ५४
 तुण्डि- पाड ४, ११८, पाग ५, २, ९७^क
 तुण्डि-भ- पा ५, २, १३९^अ
 तुण्डिकेर^अ- र. भाग १, २३ ३^क.
 तुण्डिल- पाड १, ५४^अ, पा ५, २,
 ९७^०, -ल कौय ४, ४, १९,
 भाग ४, १९, ३^प, -लस्य काग
 ७०, ४^अ
 √तुत्थ पाधा चुरा उभ आवरणे
 तुत्थ- पाड २, ७^अ
 तुथ^अ- ऋथ. शाश्रौ ६, १२, १७;
 आपश्रौ, माश्रौ २, ४, १, ६^अ
 तुथ्य^अ-> तुथ्या (थ्य-आ) भिवेश्यौ
 (श्य-श्रौ) ज्ञयान- नानाम् हिश्रौ
 २१, ३, १०^अ
 √तुद् पाधा तुदा उभ व्यथने,
 तोतुद्येते कौसू १०७, २^क
 तुद^अ- दस्य या ५, ७
 तुद्यमान- ना विघ ४३, ३५
 तु(ञ>)ञा- आ या ९, २६
 तुञ-वत्- वत् या ४, ९.
 तोत्त्र^अ- पा ३, २, १८२, -त्त्रेण कौसू
 १४, ६
 √तोद्^अ- दः निघ ४, २, या ५,
 ७^क, -दस्य या ५, ७, -देन
 कौसू १०७, २^अ.
 २तुद^अ- (> तौदेय- पा) पाग ४,

१, १२३
 तुदपूर्व- तु द्र
 १तुन्द^अ- पाड ४, ९८, पाग ५, २
 ११७, १२७
 २तुन्द- पा ५, २, १२७
 तुन्द-परिमृज- पा, पावा ३, २, ५.
 तुन्द-वत्- पा ५, २, ११७
 तुन्दा(न्द-आ)दि- दीनाम् पावा
 ५, २, ९७
 तुन्दिक-, तुन्दिन्- पा ५, २, ११७.
 तुन्दिल- पा ५, २, ११७, -ल माग
 २, १०, ४
 तुन्दि^अ-> न्दिभ- पा ५, २, १३९.
 तुन्य^अ- न्यम् अप १, ७, १
 √तुप्, म्प्, तुफ्, म्फ् पाधा भ्वा,
 तुदा पर हिंसायाम्
 √तुभ^अ पाधा भ्वा आत्म, दिवा
 क्रया पर हिंसायाम्
 तुभ्य- तुभ्मद्- द्र
 तुम् पाग १, ४, ५७
 तुमुल^अ- पाडभो २, ३, ११०, -लः
 द्राश्रौ ४, ३, ३, लाश्रौ २, ३, ३,
 अप ७०^अ, २१, २, ५, -लम् अप.
 ५०, ७, १, ७०^अ, ३, १
 √तुम्प √तुप्, √तुम्ब टि च द्र
 √तुम्फ √तुप् द्र.
 √तुम्ब पाधा भ्वा पर अर्दने, चुरा^अ.
 पर अर्दने.

a) वैप १ द्र b) = वज्र-। कर्तरि अच् प्र (तु दे.) । c) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र । d) पाठ १ शोघार्थं
 वैप १, १४८६ d द्र । e) वैप १, १४८५ s द्र । f) विप (ग्रहपीठ-) । बस पूष = त्रुटि- (अर्थः १। तु ० टि ।)
 g) √तुद् इत्यपि BFG । h) चुरा पर प्रेरणे इति BFG । i) तु. पागम । j) = मनुष्यजाति-विशेष-
 इति MW. । k) = तुन्दि- इति पागम । l) = बालग्रह-विशेष-। व्यु १ । m) सपा तुण्डिकेर <> तौण्डुलेय-
 <> शाण्डिकेर. इति पाभे. । n) <√तुण्ड इति । o) <तुण्डि- इति पागम. । p) अर्थ १ = (पिष्टमय-)
 तुन्दिल-पुस्य- इति नारायणः । q) = पुरोडाशाकृति- इति देवपालः । r) <√तुद् इति । s) पाभे वैप
 १, १४८६ j द्र. । t) = ऋषि-विशेष-। व्यु १ । u) पाभे पृ ८७७ p द्र । v) या ५ ६, १०, ७ परामृष्टः द्र. ।
 w) = तोद-। कर्तरि क. प्र । x) = प्रतोद-। y) करणे प्र । z) व्यप । व्यु १ । a¹) = जठर-। व्यु १ ।
 b¹) = [वृद्धा-] नाभि-। व्यु १ । c¹) अर्थ- व्यु. च १ । d¹) पा ३, १, ५५ परामृष्टः द्र । e¹) विप । व्यु १
 <√तु इति अभा., √वम् इति पाडभो. । f¹) √तुम्प इत्यपि BFG ।

तुम्बर^a-रम् अप ३६,४,२
 तुम्बर-ङण्ड- ण्ड. अशा २२,११,
 -ण्डेन कौसू ७६,२
 तुम्बुरु^b- पाउभो २, १, १०२, पाग
 ४, ३, १०६^c, -रुणा नाशि १,
 ५, १४
 तौम्बुरविन- पा ४,३,१०६
 तुम्बुरु-नारद-वसिष्ठ-विश्वावस्वा(सु-
 आ)दि- इय. नाशि २, ७,
 १२
 तुम्ब्र^d-अम् आश्रौ ३,८, १, शाश्रौ
 १४,२१,२
 √तुम्^e पाधा जु पर त्वररो
 तुम्^f- तुम् अपश्रौ ६, २२,१,
 कौसू ९१,१०
 तुम्^g- तुम् गोग्य ४,९,१६, द्राग्य
 ४,४, २, -रः आपश्रौ ६, १७,
 १२^h, हिश्रौ ६, ६, १६^h, आपम
 १, १४, २^h, वाग्य ५, १५, तुम् ३,
 २१^o, १२, १४^o, -रस्य आश्रौ
 ७, ११, ३४, -राणाम् बौश्रौ
 १३, २० ९^h, हिश्रौ २२, ३, १९,
 ऋप्रा १७, ३४, -राय आश्रौ २,
 १६, ११, ३, ७, १२^h, शाश्रौ १४,
 १६, ११, ३१, ५^h, ४९, २, हिश्रौ
 ९, २, २४^h, वैताश्रौ ३१, १९
 तुम्-गⁱ- गा अप ७०^h, ११,
 ३१, -गे विघ ९९, ११.
 तुम्-ग^j- गाम् विघ ५०, २६,
 ७८, ३४, -गस्य भाग्य २, ६ :
 १६
 तुम्-ग-स्कन्ध- पावा ४, २,
 ५१.

तुर-नाम-मानाम् अप ७०^h,
 ११, १३
 तुर-या(न>)ण->तौरयाण^h-
 -ण. निघ ४, २, या ५, १५^h
 तुर-श्रवस्^h- वा मात्र १,
 २९
 तौरश्रवस्^h- -सम् आपश्रौ
 १४, २०, १, लुम् १, ८ ९,
 १४, लाश्रौ ७, ३, ३, -से काश्रौ
 २५, १४, १३
 तुम्(र>)रा-षा(<मा)ह^d-
 -वाद् आश्रौ ५, १६, २, ६, ३,
 १, शाश्रौ ९, ५, २, वृदे ४, ७५,
 अश्र २, ५, अमा ३, ४, १
 √तुरीय, तुरीयति निघ २,
 १४^h
 तुरण- पाउभो २, २, १२६, पाग ३,
 १, २७,
 तुरण्य->√तुरण्य^h, तुरण्यति
 या २, २८^h
 तुम्तुरण्यत्- ण्यत् बौश्रौ
 ११, ८ : २६, १५, २९ : १७
 तुम्तुर्वणि^d-णि निघ ४, ३, या
 ६, १४^h
 तूर्ण- पा ७, २, २८^h, -णं काश्रौ
 १०, १, ८, -णम्^h काश्रौ ८, १,
 २, २५, १०, २३, भाग्य २, १०
 १६, अप ३५, २, ९, ७०^h, १९,
 ६, ७१, ८, २, वृदे २, ५८, ३, १६,
 या २, २८, ४, १५, ५, १६, २५,
 ६, २०, ८, १३, १०, २७, पाग १,
 १, ३७^o.
 तूर्ण-नात्ति^m- तिः या १२, १४.

तूर्ण-यान^m- न या ५, १५^h.
 तूर्ण-वनि^m- नि या ६, १४.
 तूर्णा(र्ण-आ)पिन^o- पि या ६,
 २१
 तूर्णि^d- पाउ ४, ५१, -णिं आश्रौ
 १, ३, ६, शाश्रौ, या ७, २७^h,
 -णिम् आपश्रौ ५, १०, ४,
 माश्रौ १, ५, २, १४, वाश्रौ १, ४,
 २, ५, हिश्रौ ३, ३, ३६
 तूर्ण्य(र्णि-अ)र्थ^d- र्थाः आश्रौ
 ५, १, ११^h
 तुर^h->तौर^h-रम् निस् १०, ११ -
 १०, -रेण लाश्रौ १०, २०, १
 तुरा(र-अ)यण- णम् आश्रौ २,
 १४, ४, शाश्रौ ३, ११, १५,
 काश्रौ २४, ७, १, -णेन आपश्रौ
 २३, १४, १, हिश्रौ १८, ४, ५३
 तौरायणिक- पा ५, १, ७२.
 तुरि- पाउभो २, १, १५९
 तुम्तुरीप^d- पम् आश्रौ १, १०, ५, ३
 ८, १, शाश्रौ, या ६, २१^h
 तुरीय- प्रम् चतुर- द्र
 तुरुक्क- पाउभो २, २, ६
 तुम्तुर्फरि^d- री या १३, ५^h
 तुम्तुर्फरीतु^d- त्तु या १३, ५^h
 तुम्तिश्^d- मिशम् अप १, ११, १^h.
 तुर्य- प्रम् चतुर- द्र.
 तुम्वणि- √तुर द्र
 तुम्वशा^d- शा. अप ४८, ७८, निघ
 २, ३, -शाय आश्रौ ९, ५, २,
 -शे निघ २, १६; अप ४८, ७३.
 √तुल् पाधा चुरा पर उन्माने,
 तुल्यते विघ १०, ११.

a) = वृक्ष-विशेष-। व्यु^h। b) व्यप। व्यु^h। c) तु पागम। d) वैप १ द्र। e) पाभे.
 वैप १, १४८७ f द्र। f) = अश्व-। उस. उप. <√गम्, पूष भाप (तु अभा प्रम्)। g) विप.। बस.
 पूष. (तूर्ण-। या।) > स्वार्यिकः अश्व प्र (तु षड्य १०९)। h) = ऋषि-विशेष-। बस। i) = साम-विशेष-।
 j) वैप १ द्र. (वैतु पाप्र. <तुरण-इति)। k) <√त्वर। l) वा क्तिवि। m) विप.। बस.। n) उस.
 उप. <√वन्। o) उस उप. <√आप्। p) वैप २, ३ खं. द्र.। q) = याग-विशेष-।

तुला^a- पाग ३, ३, १०४^b, -लया
वाध २, ४२, बौध १, ५, ७९,
विध ८, ३६, -ला विध ९, २३,
१०, ३, -लाम् अप ११, १, १०,
शध ४०५, विध १०, ९
तौल्य^c- -ल्यम् अप ११,
१, १५
तुला-कूट- -टम् अप २, ३, ४
तुला-धार^d- -रम् विध १०, ८,
-रस्य विध १०, ९
तुला-धृत- -तम् वाध २, ४७
तुला-पुस्^e- -पुमान् बौध ४, ५,
२२
१तुला-पुरुष^f- -षः विध ४६,
२२
२तुला-पुरुष- > ष-विधि-
-धिम् अप ११, १, १
तुला-मान^g- > ण-कूट-कर्तृ-
-र्तु विध ५, १२२
तुलामान-प्रतिमान-समुल्य-
-स्थानि शध २६२
तुलामान-प्रतीमान-व्यवहारा-
(र-अ)र्ध-संस्थापन- -नम् शंघ
३२०
तुला(ला-आ)रोहण- -गम् शंघ
२६५
तुलित- -त विध १०, १२
१तुल्य, ल्या- पा ४, ४, ९१,
-ल्य. वैगृ ५, ११ २, वृदे,
-ल्यम् काश्रौ १२, २, ७××,
काठश्रौ, -ल्ययोः आपशु २, ६,
हिशु १, २६, -ल्या काठश्रौ
८८, काश्रौस २८ : ६, ३१ :
१३, अप, -ल्या काश्रौ १५,
८, २१, १६, १, १०, वैगृ, -ल्यान्

माश्रौ ५, २, १२, ४, अप २६, ४,
५, -ल्यानाम् मीसू ११, १, ५५,
६७, -ल्यानि मीसू ४, ४, ३९,
-ल्याम् वाश्रौ १, १, १, ७०, वेगृ
५, ९ : ८, -ल्ये काश्रौस ३
४, ऋत ४, ३, ८, -ल्येन काठश्रौ
८८××, कागृ, -ल्येषु मीसू ५,
३, ४०, ९, १, १९, १०, ६, ५७,
-ल्यै वाध १७, ७१, -ल्यौ
गोगृ ३, ५, २३, जैगृ १, १९ ३१
तुल्य-कल्प^h- -ल्पा मीसू
६, ६, १
तुल्य-कारण-त्व- -त्वात्
पावा १, २, ७१, २, २, २९, ३,
१, ७, मीसू १०, ७, ३५
तुल्य-कालⁱ- -ला आगृ १,
३, ९, -लानाम् मीसू ५, १, ८
तुल्यकाल-त्व- -त्वात्
पावा ४, ३, १०५, मीसू ३, ५,
५१, १०, ८, ८
तुल्य-क्रि(या)>य- -य
पा, पावा ३, १, ८७
तुल्य-गात्रक^j- -का अप
६९, ३, ४
तुल्य-गुण^k- -णेषु आपध २,
१७, १०, हिध २, ५, ३९
तुल्य-चोदन- -नात् लाश्रौ
८, १, १०
तुल्य-तस्() वाध १७, २३
तुल्य-त्व- -त्वात् मीसू १, ४,
७, ३, ६, ७, १०, ७, ३१, ८, २४
तुल्य-देश-प्रयत्न- -त्नम्
पावा १, १, ९
तुल्य-दोष^l- -ष वाध २०,
३०

तुल्य-धर्म-त्व- -त्वात् मीसू
१०, ५, ७१
तुल्य-नामन्^m- -मानौ वृदे
१, ९२
तुल्य-निमित्त-त्व- -त्वात्
पावा ३, १, ३१
तुल्य-प्रकृति-ता- -ता अप
६८, १, ६
तुल्य-प्रमाणⁿ- -णानाम्
काशु २, २१.
तुल्य-प्रमाणक-त्व- -त्वे कप्र
३, ९, १७
तुल्य-बल-त्व- -त्वात् पावा
१, ४, २
तुल्य-बल-विरोध- -धे गौध
१, ६
तुल्य-भाज्- -भाक् गौध
२८, ३६
१तुल्य-योग- -नो पा २,
२, २८
तुल्ययोगिन्- > णि-
त्व- -त्वात् मीसू २, १, ४६.
२ तुल्य-योग, गा^o- -गा
नाशि २, ३, ८, -गात् याशि १,
१०, ५९
तुल्य-रूप^p- -पान् वृदे ५,
६७, -पे पाप्रवा ४, १३.
तुल्य-वत् आपश्रौ २४, २,
३७, मीसू
तुल्य-वयस्^q- -यस वृदे
५, ६८, -याः पागृ ३, ८, १७.
तुल्य-वर्चस्^r- -र्चस अप
५२, ८, १
तुल्य-शब्द-त्व- -त्वात्
मीसू ३, ५, ५४, ८, २, २६.

a) वैप १ इ b) तु पागम । c) कर्मणि व्यञ् प्र । d) नाप. । उस. उप.
कर्तारि कृत. e) = (पञ्चदशाहिक-) व्रत-विशेष- । f) तुस.>सस.>षस । g) विप. । बस. ।
h) उप. = आयुस्- ।

तुल्य-श्रुति-स्व- त्वात् मीस्
२,१,१०, ५,२,१८.
तुल्य सं(ख्या >)ख्य^२-
-ख्यानाम् मीम् ११,४,४०
तुल्य-मख्यान- नात् मीस्
४,४,१५
तुल्य-सनिपात- -ते लाश्रौ
६,९,८
तुल्य-समवाय- -ये काश्रौ
१,५,१०
तुल्य-हेतु-स्व- त्वात् मीस्
९,१,५०, १०,८,३.
तुल्या(ल्य-अ)पकृष्ट-वध-
-धे बौध १,१०,२०
तुल्या(ल्य-अ)र्थ^३- -थानाम्
वाश्रौ १,१,१, ६९, कौस् ६३,
१७, -थै. पा २,३,७२.
तुल्यार्थ-तृतीया-सप्तम्यु
(मी-उ) पमाना (न-अ) व्यय-
द्वितीया-कृत्य- -त्या पा ६,
२, २
तुल्या(ल्य-आ)स्य-प्रयत्न-
-त्तम् पा १,१,९.
तौल्य- -ल्यः अप ११,२,१
२तुल-> २तुल्य- पा) पाग ४, २,
८०
तुलभ-> भीय- पा) पाग ५, ३,
११६
तुलभ्य^४- -भ्या बौश्रौप ३६ १
तुलसी^०- > सी-दल-भक्षण-
-गम् शंघ १२९
तुलसी-भू-महादेवी-चूर्ण-स्पृष्ट-
-ष्टः अप ३५,२,१०
१तुल्य- √तुल द्र.
२तुल्य- २तुल- द्र.

तुल्वल^५- पाउभौ २,३,१०३.
तौल्वलि- पाग २, ४, ६१, -लि
आश्रौ २,६,१७, ५,६,२४
तौल्वलायन- पा २,४,६१
तुवि^६- -वि अप ४८, ६६, निघ
३,१
तुवि-कृमि^६- -मि शाश्रौ १८,७,५१
तुवि-क्ष^६- -क्षम् या ६, ३३६
तुवि-क्ष(त्र >)त्रा^६- -त्राम् आश्रौ
२,१,२९, शाश्रौ २,२,१४
तुवि-जात^६- -त वैश्रौ १८, १
१५, या १२, ३६६
तुवि-नृम्ण^६- -म्ण. आपश्रौ १२,
१४,१५१
तुवि-शुष्म^६- -ष्म शाश्रौ १०,
१३,९, -ष्म शाश्रौ १५,२,१.
तुवि-श्रवस्^६- > ष्-तम- -मम्
आश्रौ २, १०,९, काग ३२,३
तुवि-ध्वण(<स्वन)स्^६- -गसम्
माश्रौ ५, १,२,१७१
तु(वि >) वी-मघ^६- -मघ भाशि
३९१
तु(वि >) वी-रव^६- -वम् ऋप्रा ९,
२१
तुविस-^६> तुविष्ट(स-त)म^६- -मः
शौच ३,९६१.
तुविष्टम-वर्जम् शौच ४,५९
√तुश^६> तोश^६- -शा आश्रौ ५,
१०, २८, शाश्रौ १२, २, १८,
साअ २,१०५२^२
तु-शब्द तु द्र
√तुष् पाधा दिवा. पर प्रीतौ,
तुष्यति आमिग २, ५, १ ४७,
जैग २, ९ : ३५, कप्र २, १०,
६; अप ७०^३, २९, २, आज्यो

११, ५, तुष्यन्ति नाशि १, ५,
१६, तुष्येन् शाश्रौ १, १७, ५,
तुष्येरन् अप १३, ४, ८, तुष्येयुः
अप ३०, ४, १, ७०, ३, ३, अशा
२५, ३
अतोषयत् वृदे ४, ५८
तुषित^६- -०त् विघ ९८, ४७
तुष्ट- -ष्ट आमिग २, ५, ४ १७;
बौग, -ष्टा अप ५, ५, २, १३,
५, १, विघ १९, २३, -ष्टे ऋअ
३, १, -ष्टेषु विघ १९, २३
तुष्ट-तम- -मा विघ १९, २३
तुष्टि- -ष्टि कप्र १, १, १२, आपध
१, २३, ६, हिच १, ६, १४;
-ष्टिम् अप ६८, २, २५, बौध
२, ५, २४१
तुष्टि-ऋद्धि- -द्धी आमिग २,
३, ३ : २७
तोषयित्वा आपध २, १३, १२, हिच.
तोषित- -त्तः कप्र २, १०, ७
तुष^६- पाग ४, २, ८०^६, -षम् कौस्
६१, २५, -षाः आपश्रौ ८, ७,
१५, माश्रौ, -षाणाम् आपश्रौ
८, ८, १२; बौश्रौ २०, ७ : १०,
-षान् काश्रौ २, ४, १९, आपश्रौ,
-षै. आपश्रौ ८, ७, १४, बौश्रौ.
तौषायण- पा ४, २, ८०.
तुष-केश-पुरीष-भस्मा (म-अ) स्थि-
-श्लेषम-नख-लोम- -मानि शंघ
८७.
तुष-धान्य-वर्जम् बौध ३, ३, ७
तुष-निष्कास- -सम् आपश्रौ ८, ८,
१३, माश्रौ ८, १०, १३; माश्रौ
१, ७, ४, ३४^२, वैश्रौ ८, १४ :
६; -सस्य माश्रौ १, ७, ४, ४०^२

a) विप. । बस. । b) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । c) = ओषधि-विशेष- । व्यु. ? । d) वैप १ द्र. ।
e) पामे. वैप १, १४९१ वृ द्र. । f) = विष्णुनामाज्यतम- । व्यु. ? । g) अर्थ. ? । h) ष्काष- (तैवि.) इति
षाठः ? यनि. शौचः ।

†तुष-प(क>)का ^३ - का काश्रौ १७, १, २३, आपश्रौ १६, १५, ८, बौश्रौ १०, १९ ३, २२ ९, माश्रौ ६, १, ४, ३९, वाश्रौ २, १, ४, २३, वैश्रौ १८, १३ : ७, हिश्रौ ११, ६, ५ तुष-प्रतिपादन- नम् हिश्रौ ५, ३, ४८ तुष-विहीन- नान् बौध ३, २, १० तुषा(ष-अ)मि- मिना आमिद्य ३, १०, ४ २०, -मिम् आमिद्य ३, १०, ४ ५ तुषा(ष-अ)घ(दि-अ)मि-प्रविष्ट- -घानाम् काघ २७४ १ तुषा(ष-अ)पूरित- तेन वैश्रौ ४, ७ ९ तुषो(ष-उ)पवपन- नम् आपश्रौ ६, २९, १७ तुषार ^३ - पाउ ३, १३९, -रेण अप ६८, १, ३१. तुष्टुवस्- √स्तु द्र √तुस् पाधा भ्वा पर. शब्दे तुस्तूर्षमाण- √स्तु, तू द्र √तुह् पाधा भ्वा पर अर्द्धने तुहिन- पाउ २, ५२ तुहिहवैतच्छब्द- विशिष्ट- तू, तु द्र तूख ^३ - खानाम् चाश्र ९ १, १० २, ३९ १०, ४१. १४, १८, १९, २२. √तूङ् √तूङ् टि द्र √तूष् पाधा भुरा आत्म पूरणे तूष् ^३ - पाउभो २, १२३, पाग ४, १, ४१; -णम् छुअ ३, ११९, -णात् अप ६७, ६, ५	तूणी- पा ४, १, ४१ तूणी-बन्ध- न्ध बौश्रौ १८, ३५ ८ तूणकर्ण- (>तौणकर्ण)- तूणकर्ण- टि द्र †तूणव ^३ - वम् कागृ १७, २, -वान् आपश्रौ २१, १७, १७, १९, ४, -वे तैप्रा १३, १२, -वेषु या १३, ९ तूणव-धम् ^३ - धम् शुपा ५, ५† तूणीर ^३ - पाउवृ ४, ३०, -रात् अप ७१, १४, ४ तूतुजान-, तूतुजि- √तुज् द्र †तूतुम ^३ - मा या ५, २५† तूतोत् √तु द्र तूपर ^३ - रः आश्रौ १०, ९, ५, शाश्रौ, -रम् आपश्रौ १६, ७, १××, बौश्रौ, -रस्य †आपश्रौ २०, १९, ३ ^३ , ९, काश्रौसं, -राः शाश्रौ १५, १, २२, आपश्रौ, -रान् आपश्रौ १८, २, १३, वाश्रौ ३, १, १, २०, -राय बौश्रौ २६, १०:१९, -रेण विध ८०, ११ तूपर-गोसृग- गयो आपश्रौ २०, १८, ८, हिश्रौ १४, ४, १७ तूपर-मिथुन-दक्षिणा ^३ - णा काश्रौ १८, ६, २३ तूबर- पाउभो २, ३, ७४ †तूर्य ^३ - यम् अप ४८, ७५, १०६, निघ १, १२, २, १५, या ३, २०, ५, २१, ८, १३† √तूर पाधा दिवा आत्म गतित्वरणहिं- सनयो . तूर्ण- प्रष्ट. √तूर द्र	†तूर्णा(र ^३ -ना)शा ^३ - शम् निघ ४, २; या ५, १६†. तूर्णि- √तूर द्र तूर्य ^३ - यणि अप ५, ४, ३, ७१, १५, ४. तूर्य-घोष- घेण अप ४, २, १३, १९ ^३ , ५, १ तूर्य-निघोष- -घः अप ७० ^३ , २, ३. तूर्य-माण, न, पावा ८, ४, १०. तूर्यन्ती ^३ - न्तीम् आमिद्य २, १, ३ : २, आपगृ १४, १४, भागृ १, २२ १०, वैगृ ३, १४. ९, हिगृ २, २, ८. √तू (<तु)र्ष ^३ पाधा भ्वा. पर. हिंसायाम्, तूर्वति अप ४८, १९†. तूर्व->तूर्व-या(न >)ण ^३ - णम् शाश्रौ १४, ४९, ३† √तूल पाधा भ्वा पर निष्कषे. तूल ^३ - ल आपम २, १६, ८, हिगृ २, ७, २, -लम् अप ११, २, ४; आपघ १, ३२, २४ ^३ , बौध २, ७, १५ ^३ , हिध १, ८, ६५ ^३ , -लानि माश्रौ १, १, ३, २, -लेषु, -लैः माश्रौ १, १, ३, १. √तुलि पा ३, १, ३, ५ तुलि- पाउवृ ४, १२०. √तूष् पाधा भ्वा पर तुष्टौ. तूष् ^३ - षम् लाश्रौ ८, ६, २१†. तूष्णीम् आश्रौ १, ३, २९××, शाश्रौ; पाग १, १, ३७, तूष्णीम्ऽतूष्णीम् आमिद्य ३, ५, ५ १६. तूष्णीं-शंस ^३ - स. आश्रौ ५, ९, ११, शाश्रौ ९, २५, १, १८, १, २, -सम् आश्रौ ५, ९, १; शाश्रौ ७, ९, १, १७, १७, १५, १८, २१,
---	--	--

- a) वैप १ द्र । b) = हिम- । व्यु ? <√तूष् इति प्रायोवाद । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? ।
d) = इषु-धि- । व्यु ? । e) उप. = २दक्षिणा- । f) वैप १, १४९२ ऋ द्र. । g) = वाय-विशेष- । व्यु ? ।
h) = ओषधि-विशेष- [अवका-] । व्यु ? । i) बप्र. । वैप १, १४९३ ऋ द्र । j) = आगामिनी- संपद्- ।
k) = इषीकाप्र- । l) कूलम् इति पाठ ? यनि शोध । m) ऋक्समूहसंज्ञा- ।

१, -से शाश्रौ १७, १४, ३
 तृष्णी-स्तोम^१- म बौश्रौ १६, ८
 ७, -मात् बौश्रौ २६, १४
 १०, १४, -माय बौश्रौ १६,
 ७ २
 तृष्णी-क, का- पावा ५, ३, ७०,
 -क बौश्रौ २०, १६ २५××,
 -कम्^२ आपश्रौ २१, ११, ११,
 बौश्रौ, -का बौश्रौ २१, १९
 १०××, -का बौश्रौ २१, १.
 ७××, -कान् वाश्रौ १, ७, ४,
 १३, -कानि बौश्रौ २१, १
 ८, २२, २० १५, २५, १.
 १६, -कामिः हिश्रौ ७, ४, ५८,
 -काम्^३ आपश्रौ १४, २३, ७,
 वाश्रौ १, १, २७, ६, ३, १, पावा
 ५, ३, ७२, -केन बौश्रौ २१,
 १६ १२, वैश्रौ ३, ८ २;
 हिश्रौ १, ३, ४९, ३, ८, १७,
 २२, ३, ७, -केषु आपश्रौ ३,
 १८, ७, १४, २३, ५, भाश्रौ ३,
 १५, १, वैश्रौ २१, १०. ७, हिश्रौ
 १, १, २२, २, ८, ८, १५, ६, ४
 तृष्णी-न्याय^४- यम् कौश्र ५,
 ६, ३
 तृष्णी/भू > भावम् पा ३, ४,
 ६३
 तृष्णी-भूत- ता विध ८, ३७
 तृष्णी-भूत्वा, भूय पा ३, ४, ६३
 तृस्त^५- पाउभो २, २, १३४, पाग ६, २,
 १३४
 √तृस्ति पा ३, १, २१
 √तृह्, तृह्^६ पाधा तुदा, रुधा पर.

हिसायाम्, तृहन्ति तैप्रा १६,
 २६†
 †तृणेदि अप ४८, १९, निघ २,
 १९, तृणहान् अप्रा २, ४, १५†
 तृहत्^७- हत् ऋप्रा ८, २७†
 √तृच् पाधा म्वा पर गतौ
 तृक्ष^८- पाग ४, १, १०५, -क्षम्
 आश्रौ २४, ८, ८†
 रताक्ष्य- पा ४, १, १०५,
 -ंक्ष्य आश्रौ १२, १२, १,
 आपश्रौ २४, ८, ८, -क्ष्यम् आश्रौ
 १२, १२, १
 ताक्ष्यायण- पाग ४, २, ५४,
 -णाः बौश्रौ ७. २
 ताक्ष्यायण-भक्त- पा ४,
 २, ५४
 तृक्ष-वत् आपश्रौ २४, ८, ८†
 तृक्षाक^९- (>ताक्षाक- पा) पाग ४,
 १, ११२
 तृच- त्रि- द्र
 †तृचि जैश्रौका ५३^१
 √तृण पाधा तना उभ अदने.
 १तृण^{१०}- पाउ ५, ८, पाग २, ४, ३१, ४,
 २, ४९, ८०, ९०, ९१, ३, ७६,
 १४४, ६, २, ८५, पावा
 २, ४, १२, पावाग ४, २, ५१,
 -णम् आश्रौ १, ३, ३१××, शाश्रौ,
 -णस्य हिश्रौ ४, ४, १५, -णानाम्
 बौश्रौ २०, ५. १८, कौस्,
 -णानि आश्रौ १, ३, २२, शाश्रौ,
 -णाभ्याम् काश्रौ ९, १४, ४,
 -णे काश्रौ २, ६, ९××, काठश्रौ,
 -णेन काश्रौ ४, १४, ५, आपश्रौ,

पावा १, ४, २३, -णेषु आश्रौ
 ८, १४, १३, १४, बौश्रौ, -णैः
 काश्रौ २, ३, ६, आपश्रौ
 १ताण- पा ४, ३, ७६.
 तृण-काण्ड- पावा ४, २, ५१
 तृण-काष्ठ- पाग २, ४, ११^१, -ष्ठम्
 अप ५०, ९, ३, बौध २, १, ५५^२;
 -ष्ठेषु आपध १, १५, १४, हिध
 १, ४, ७३; -ष्ठै आपध १, २१,
 २, हिध १, ६, ३१
 तृणकाष्ठा(ष्ठ-अ)पासन- नम्
 काश्रौ ७, ७, ८
 तृण-काष्ठ-दुम-शुष्काङ्ग-गुड-वस्त्र-
 चर्मा(र्म-आ)मिध- षाणाम् विध
 ५२, ९
 तृण-काष्ठ-शुष्कपलाश- शानाम्
 विध २३, १६.
 तृणकीय- पा ४, २, ९१
 तार्णक- पा ६, ४, १५३
 तृण-कूर्च- चैन जैगृ १, ३ २४.
 तृण-च्छेदन-> ण लोष्टविमर्दन-
 [नि^३]छीवन- नानि आपध १,
 ३२, २८, हिध १, ८, ६९.
 तृण-च्छेदिन्- दी विध ५, ५८;
 ७१, ४३.
 तृण-जम्भ- पा ५, ४, १२५.
 तृण-जय^४- -याय बौगृ ३, ९, ५.
 तृण-निरसन- नम् शाश्रौ ४, ६, ५.
 तृणनिरसना(न-आ)दि- दि
 वैश्रौ १५, २४ : ४, ५
 तृण-प(द् >)दी- पाग ५, ४,
 १३९.
 तृण-पाणि^५- णि ऋञ्ज २, ५, ४९;

a) = स्तोम-विशेष- । b) प्रायेण द्वि१ सत् क्विि । c) वा. क्विि । d) विप. । बस. । e) अर्थः
 व्यु च ? । = जटीभूत-केश- इति पासि., = धूलि- इति MW. । f) पा ७, ३, ९२ परामृष्टः द्र. । g) वैप १ द्र. ।
 h) व्यप । व्यु ? । i) ष्णु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु सप्र आश्रौ १२, १२, १, C. च) । j) तु. पागम. ।
 k) तृण, का इति चौरसं । l) हिध पाठः । m) = ऋषि-विशेष- । n) व्यप. (तु सात्र. वृदे., वैतु-
 षट्शुभशिष्य विप. इति) । बस. ।

साञ्ज १,४१
 तृणपाणि-क- -कम् ऋञ्ज २,
 ६,४८, -कस्य वृदे ५, ११३
 तृण-प्रासन-प्रभृति- -ति द्राश्रौ ४,
 १,१५, लाश्रौ २,२,३
 तृण-बि(,वि^०)न्दु^०- पाग ४,१,९६,
 पावाग ४,२,२८, -न्दव बौश्रौप्र
 २७ : २, -न्दवे आम्रिण १, २,
 २ १८, बौण्ड ३, ९, ५, भाण्ड
 ३,१० ४, हिण्ड २,१९,६
 तार्णबि,वि^०न्दवि- पा ४,
 १,९६
 तार्णबिन्दवीय- पावा ४, २,
 २८
 तृणबिन्दु-तनु- पाग २, २,
 ३८^०
 तृण-भूम्य(मि-अ)म्यु(मि-उ)दक-
 वाक्सूतृता(ता-अ)नसूया- -याः
 वाघ १३,६१
 तृण-मय- पा ४, ३,१४४
 तृण-मुष्टि- -ष्टिम बौश्रौ २, ८ : ४,
 २४, वैण्ड २,१६ ० ७
 तृण-वश- -शम् बौश्रौ २५,४ ४
 तृण-वर्त^०- -तर्त्न बौश्रौ ६, २७ :
 २०
 तृण-बल्ली-समाकु(ल >)ला-
 -लाम् अप ७०^०, २३,१०
 तृण-श- पा ४, २,८०
 तृण-शाथिन्- -थी विध ५०,४
 तृण-संवाह- -ह आपघ १, ११,८,
 हिध १,३,६५
 तृण-हिरण्य- -ण्यैः काश्रौ १२,
 ६,१.

तृणा(ण-अ)ग्र- -ग्रम् ऋश्रौ ६, ६,
 १४, वाश्रौ १,३, १,३३, ६,५,
 २१, -प्राणि वाश्रौ ३,२,६,४६
 तृणा(ण-अ)द- -दान् अप ७१,
 ५,३
 तृणा(ण-अ)दि- -दि काश्रौ ३, ७,
 १३, -दीनाम् अप ६४,५,१०
 तृणा(ण-अ)द्य- -द्यात् आपश्रौ २०,
 २,११^२, हिश्रौ १४,१,२३^२
 तृणा(ण-अ)न्तर्धान- -नेन वाश्रौ ३,
 २,१,१८
 तृणा(ण-अ)पचयन- -नम् वाश्रौ २,
 १५,३
 तृणापल- तृणोलप- टि द्र
 तृणा(ण-अ)र्थ- -र्थे काश्रौ २,८,७
 तृणिल- पा ४,२,८०
 तृणीय- पा ४, २, ९०
 तृणे(ण-इ)द- -द हिश्रौ १५, ३,
 ११^०
 तृणै(ण-ए)ध^०- -ध भाश्रौ २,१३,
 ९^०, -धे आपश्रौ २,९,१२^०
 तृणो(ण-उ)दक- -काय बौश्रौ ६,
 ९ ० ७
 तृणो(ण-उ)दक-भूमि- -मि गौध ५,
 ३६
 तृणो(ण-उ)लप^०- पाग २,४, ११
 तृणौ(ण-ओ)वधि- -धीनाम् बौध
 ३,२,१५
 तृण्य- पा ४,२,४९
 २तृण^०- पाग ४, १,९९,११२^०
 २तार्ण- पा ४,१,११२
 तार्णायन- पा ४,१,९९
 तृणकर्ण^०- पा, पाग २, ४, ६३, ४,

१,११२^०
 तार्णकर्ण- पा ४,१,११२
 तृण-काष्ठ- प्रभृ १तृण- द्र
 तृणव^०- (>वीय- पा) पाग ४, २,
 ९०
 तृणव अप १,७,५
 तृणत- -ते कौसू ४६, २६^०
 तृतीय- प्रभृ त्रि- द्र
 तृण्यम् वाश्रौ ३,२,५,२६
 तृण्य^०- -स्व या ७,२^०
 √तृप् पाधा रुधा उभ हिंसानादरयोः,
 अतृणत ऋप्रा १,९८^०, तृण्यात्
 या १,१२.
 ततर्द^० या १०,४१^०
 तर्द^०- -०र्द^० अञ्ज ६, ५०, -र्द^०
 कौसू ५१, १७, १९, अप ३२,
 १,१२, अञ्ज ६,५
 तर्दापते^० अञ्ज ६,५०^०
 तर्दन^०- -नम् या १, १३
 तर्दन्^०- -र्द^० काश्रौ ६,१,२८, काण्ड
 २५,९^०, कौसू ७६,१३, -र्द^०
 काश्रौ ७,३, १७, काण्ड २६, ३^०-
 तर्दन्^०- -ञ्ज आपमं १,१,१०^०
 √तृप्, म्प^० पाधा दिवा स्वा
 पर. प्रीणने, तुदा पर तृप्तो,
 चुरा उभ तृप्तौ रुदीपने च,
 तृप्यति बौश्रौ १०, १० १,
 २७, १२ ९, माश्रौ, तृप्यन्ति
 बौश्रौ २७, १२ : ६,८, वाधूश्रौ;
 तृप्यामि गोण्ड १,९,३, तृप्यामहे
 विध ८३,२१, तृप्यतु आश्रौ ५,
 ६,२^०, शाश्रौ, तृप्यताम् अप
 ४३, २, १५×५, तृप्यन्ताम्

a) तु पागम । b) = ऋषि विशेष- । व्यु १ । c) = तृण-पूल- । d) सपा तृणद्व <>
 तृणैध. <> तृणैधे इति पाभे । e) विप । बस । f) तृणापल- [पक्षे] इति भाखडा । g) व्यप । व्यु १ ।
 h) तृण-, कर्ण- इति भाखडा पाका, तृणकर्ण- इति पासि । २) तृण^० इति पाका । j) तु पाका । k) पाठ-
 च्रिते इति शोधः (तु. शौ ६,११३,१) । l) वैप १ द्र । m) = १तृण- । n) पाभे. वैप १, १४९४ n द्र ।
 o) या १०, १० पाग ८, ४, ३९ पावा ३, १, ४४ परामुष्टः द्र ।

कौट २, ५, २३, वैश्व, ङतृप्यन्तु
 आपश्रौ ३, ११, २, बौश्रौ,
 शगृ ४, ९, ३^७, ६, ६, १०^७,
 तृप्यस्व बौश्र ३, १०, ८, बौपि,
 तृप्य बौश्रौ ८, ९, ११, ङतृप्यन्तम्
 आपश्रौ २, २०, ६^७, १४, ३०,
 २०, बौश्रौ २४, २९, २१,
 २९, ५ ३०, भाश्रौ, हिश्रौ १५,
 ७, १८, ङतृप्यन्त आपम २, २०,
 २३, २५, आमिगृ, ङतृप्याणि
 आमिगृ १, ५, १ १०, १३,
 तृप्येत् वाध १०, २५, १४, १३,
 विध ५७, १३
 तृप्यन्तु ङबौश्रौ २, १० :
 ३३, ३५, ३६, तृप्यन्तु शगृ १,
 १७, ७, ङतृप्यन्त आपश्रौ १९,
 ३, ७ बौश्रौ
 तृप्यन्ताम् शगृ ३, ३, ११^७,
 तृप्यन्ताम् आपश्रौ १३, १२,
 ८, बौश्रौ, ङतृप्यन्तु काश्रौ ९,
 ११, ९, शुअ १, ४५१, ङतृप्य
 शाश्रौ ७, १०, १५, ऋप्रा ७,
 १६, ङतृप्यन्तम् शाश्रौ ४, १०,
 १७, १३, १०, ७
 तातृपु आपश्रौ २१, १९, १९, ङ
 तृप्यास्म बौश्रौ ८, ९, २१, ङ
 अतृपम् आमिगृ १, ५, १
 १२, ङ
 तृप्यन्ते आमिगृ २, ५, ७ ९,
 २, ६, ८ १६, तृप्यन्ति काश्रौ
 ३, ८, २७, बौश्रौ, तृप्यन्ति

आगृ ३, ५, २१, शगृ, ङतृप्यामि
 बौश्रौ ९, १९ : १५, कौट,
 बौध २, ५, २७^३, तृप्याम.
 आमिगृ २, ५, ३ २३ बौश्र ३,
 ७, १७, तृप्यन्तु कौट ५, ७, २, ङ
 तृप्यन्तु आपम २, २०, २४,
 आमिगृ, आपध २, ७, १३, ङ
 हिव २, २, ३२, ङ, ङतृप्य,
 > या आपश्रौ ४, ८, १, भाश्रौ,
 माश्रौ १, ३, ५, २७^७, ८, ४,
 ४०^७, २, ४, १, ५९^७, पागृ २,
 ६, १८^३, तृप्यन्त शाश्रौ ४, ५,
 ३, आपश्रौ, अतृप्यन्त वाधूश्रौ
 ३, २१ २, अतृप्यन्त वाधूश्रौ ३,
 २१, ४, आमिगृ, तृप्येत् वागृ
 ७, २, ८, २, भागृ, तृप्येत्
 पागृ २, १२, २, गोश्र ३, ३, १५
 ङअतीतृपत् कौट ३, १५, ३,
 शगृ ३, १२, ५, अतीतृपन्त
 बौश्रौ ५, १५ १६, अतीतृपन्त
 माश्रौ २, ३, ७, १, अतीतृपम्
 बौश्रौ १४, ८ २८
 तृप्यन्ते शगृ १, २, ७, गोश्र
 १, ९, २
 तृप्यन्- -णम् वैश्व ३, २३ १५x, x,
 कप्र, -णात् कप्र २, ३, ५,
 -ङणाय आमिगृ ३, २, १ १६,
 हिगृ २, १४, ४, -णेन पागृ ३,
 ३, ११, -णै आज्यो १४, ९
 तृप्यन्-विधि- -धि. शंघ ११६ :
 २, -धिम् अप ४३, १, १

तृप्यन्-सम(र्थ>)था- -था वाध
 ३, ३५
 तृप्यन्-हीन- -ने वैश्व ६, ८ ८
 तृप्यन्(ण-आ)दि- -दीनि शंघ
 ११२
 तृप्यन्- -यन् कागृ ४, २०, बौश्र
 २, ११, ४०, -यन्तः या ६, १५
 तृप्यन्ती- -न्तीः आपमं २,
 २०, २४, ङ.
 ङतृप्यन्तवै काश्रौ ३, ८, २७;
 आपश्रौ ४, १६, १७, बौश्रौ.
 तृप्यन्तु- -ता या १०, १०, -तारः
 बौश्रौ ८, ९, २१.
 तृप्यन्तु बौश्रौ ९, १९ ३०x, सु.
 तृप्यन्तु- -तै वाध ११, ३३
 तृप्यन्तु-दाक्षि- -पाग २, २, ३७.
 तातृपा(ण>)णा- -णा ऋप्रा ९,
 ५२, ङ
 तातृपि- -पिम् ऋप्रा ९, ५२, ङ.
 तृप्य- ङतृपा^७ आश्रौ ४, ६, ३;
 शाश्रौ ५, ९, ७
 तृप्य- -पाठ २, ८५, पाग ३, १,
 १२, -पत् ऋप्रा १७, ३५, ङ.
 √तृपाय पा ३, १, १२
 तृप्य- -पु निघ ३, २४, ङ
 तृप्यन्त- -पाग ३, १, १८^७, ५, २,
 १३१^७, ६, २, १७०^७; -पत्तः
 आश्रौ २, ९, ३, ४, बौश्रौ; -पत्तम्
 बौश्रौ २५, ३४, ११, -पत्ता
 माश्रौ १, ३, ५, १६, ङ;
 -पत्ताः वाधूश्रौ ३, ४२ : ९;

- a) सप्र तृप्यन्तु <> तृप्यामि इति पाठे । b) पाठे. वैप २, ३ख. तैब्रा ३, ७, ५, १२ ङि द्र. ।
 c) पाठे वैप १, १४९५ g द्र. । d) पाठे. वैप १, १४९५ f द्र. । e) सप्र. तृप्यन्ताम् <> तिष्ठन्तीम् <>
 पुष्यन्ताम् इति पाठे । f) पाठे वैप १, १४९५ h द्र. । g) ष्वर्यु इति पाठः इ यनि. शोघ. (तु. सपा.
 शौ १५, ११, २) । h) सप्र तृप्यन्तु <> तृप्यन्तवै इति पाठे. । i) तु पागम । j) वैप १ द्र. । k) ऋप्रा
 स्वः > तृपा स्वः इत्युहः, तस्य च सपा. शौ ७, १४, २ प्रथ. ऋभाव. (तु. BC. C) । l) वैप १, ७४५ k द्र. ।
 m) स्तेन-नामन्- । n) तु भाण्डा. । तृप्य- इति पागम., तीब्र- इति [पच्] पाका. । o) तु. भाख्वा. प्रथ. ।
 तृप्य- इति पाका. ।

आमिष्ट, -प्तान् आगृ ४, ७, २६,
कागृ ६३, १९, कागृउ, -प्ताम्
या १४, २९, -प्तेषु वाधूश्रौ
४, ७४ : ३०, वैगृ ४, ४ १,
कप्र १, ३, ९
तृप्त-तम्- मै या ६, १२
तृप्त-वत्- -वन्ति निम् २, ११.
१३
√तृसाय पा ३, १, १८
तृसिन्- पा ५, २, १३१
२तृस^a- -सम् निम् १, ५ १९,
ऋप्रा १७, ५
तृसि- -सि. आपश्रौ ४, ८, १^३,
भाश्रौ, अप ४८, ७५^b,
निघ १, १२^b, -^cसिम्
आगृ १, २३, १५, २४, २४,
आमिष्ट, -सौ अप ४८, ५०
तृसि-कर- -रम् वैघ १, ९, १५,
-रा वाव ३, ४७
तृसि-कर्मन्- -र्मण या २, ५,
२, ५
तृसि-प्रश्न- -श्न शागृ ४, ४, १४
तृप्त्य(सि-अ)न्त- -न्ते वीगृ २,
११, ४१.
तृप्त्यत्- -प्यन् गौघ २, ४८
तृप्^d- -पा बौश्रौ २५, ३४ ११,
-पाणाम् हिश्रौ १३, ५, २३
तृप्तल-प्रभर्मन्- -र्मा या ५, १२^f.
तृप्त(ल>)ला- पाउ १, १०४.
तृप्पु- प्रमृ √तृप् द्र
तृप्त्यधि-द्वय^g- -येत् वैगृ १, १३ ५
तृप्त, प्रा^h- पाउ २, १३, ^hपाग ५, १,
१२२ⁱ, -अम् अप ४८, ६५^j।

-प्राभ्य काश्रौ २५, ११, ३१^k
ताश्रौ- पा ५, १, १२२
तृप्त-वा-, तृप्त-त्व- पा ५, १, १२२.
तृप्त-प्रहारिन्- -री या ५, १२
√तृप्राय १तृप्त-टि द्र
तृप्रालु- पावा ५, २, १२२
तृपिन्- १तृप्त-टि द्र
तृपिमन्- पा ५, १, १२२
तृप्तो(प्र-उ)त्प(ल>)ञा- पा, पाग
२, २, ३७^l
√तृप्, म्फ^k पाधा तुदा पर तृप्तौ
तृफला- पाउट्ट १, १०४
√तृप्^l पाधा दिवा पर पिपासा-
याम्, ^lनातृषु आश्रौ २, १९,
२४, शाश्रौ, अतीतृषाम ऋप्रा
१, १००^m
तृप्ततृषाण- ऋप्रा ९, ४४,
-णम् ऋप्रा ९, ४३
तातृषाण- -णम् ऋप्रा ९, ३२ⁿ
तृप्-(>तृषित- पा)पाग ५, २, ३६
तृषाण- -णात् ऋप्रा ४, ६६^o
तृष्णा(ष्-वै)ञ्- पा ३, २, १७२,
-ष्णक्, -^oष्णजे या ११, १५^o
तृष्णा- पाउ ३, १२, पाग ५, १,
१२३^p, -ष्णया विघ ४३, ३५,
-^oष्णा बौश्रौ २, ५ १०, वैश्रौ
१, १४. १२, -ष्णाम् कौसू २७,
११, ७०, १^q, वाध ३०, १०
ताष्ण्य- पा ५, १, १२३
तृष्णा-गृहीत- -तस्य कौसू २७,
१०
तृष्णिमन्- पा ५, १, १२३
तृप्त्यत्- -प्यत्: अप १, ३२, ७^r

तृप्तु^e- -षु आपश्रौ ३, १५, ५, अप
४८, १०६, निघ २, १५
तृष्वी^e- -ष्वीम् या ६, १२^f
तृप्तु^e- -ष्टम् ऋप्रा २, १०, ८५^g,
वृदे ७, १३४, अश्र १४, २
तृष्ट-दश्मन्- -श्मा कौसू १३९, ८^h
तृप्त(ष्टक>)ष्टिका^e- -०के कौसू ३६,
३८, अश्र ७, ११३.
तृष्टिका-देवता- > ^eवत्य- -स्यम्
अश्र ७, ११३
तृष्णा-वरुत्रि^e- -त्री पाग ६, २, १४०.
√तृद् √तंह द्र
√तृ^oपाधा भ्वा पर प्लवनतरणयो,
तरते अप ७०^r, २३, १२, तरति
बौश्रौ २, ११ २१^q, भाश्रौ,
तरन्ति अश्र १८, ४^q, तृतरामि^p
भाश्रौ १, ५, २, १, वाश्रौ १, ४,
१, १६, तृतरत् वैगृ १, ४. २७,
२, १० १०, गौपि, या १३, ६^r,
तृतर>रा शुप्रा ३, १२९, तृप्रा
३, ८, तृतरत्>ता बौश्रौ १४,
२१ १३, आमिष्ट ३, ४, ४ :
१७, शुप्रा ३, १२९, तृप्रा ३,
१२, अतरत् आश्रौ २, ११, ८^r,
सु ३१, ९, वृदे ८, ३२, अतरः
या ११, २५^r, तरत् काश्रौ २५,
११, २३, भाश्रौ, तृतरम् कागृ
४५, १०, वागृ
तिरति अप ४८, १६^r
तरुवेम^o या ५, २^r
ततार ऋप्रा २, ७२^r, तृतरामि^p
षम् हिश्रौ ७, २, ८३, तृतरामि^p
आश्रौ ४, १५, ७, आपश्रौ १६,

a) = छन्दो-विशेष- । व्यु ? । b) = उदक- । c) विप । बस । d) = वृक्ष-विशेष- । व्यु ? ।
e) वैप १ द्र । f) पूष. ? (तु c टि) । g) बप्रा । वैप १ द्र. । h) पृ ११८७ n, 0 द्र । i) तु पागम ।
j) = दुख- । k) पावा ७, १, ५९ परामृष्ट. द्र । l) या ११, १५ पा ३, ४, ५७ परामृष्ट. द्र । m) त्रिष्टम् इति
पाठः? यनि. शोध- । n) वैप १, १४९८ c, d द्र । o) या ५, २६, ६, १२, १२, १४ परामृष्ट. द्र. ।
p) पामे. वैप २, ३६. अति-तरामि तृप्रा १, २, १, १५ टि. द्र । q) पामे वैप १, १२०८ b द्र ।

१९, ८, वैश्रौ, ऋतात्मं द्राश्रौ
 ११, १, ६, लाश्रौ ४, १, ६
 तारयते जेगृ २, ८ २५, वीम्
 ८२, १०, तारयति कौम् ७१,
 २४, ८६, २७, वीध, या ७, २०,
 १४, ३३, तारयन्ति वाव ६, २,
 ५, तारयेत् आमिगृ ३, १२, १
 १५, अप ३२, १, ७, चव्यू २ ३६
 ऋतुलि^० -रि शाश्रौ १, ११, १, २,
 -रिम् या ६, ३
 २तर- पा, पाग ३, १, १३४
 तरण- पाग ३, १, २७^०, -णम् अप
 ६४, ९, ६, -णात् या ३, १८,
 -णानि कौम् ५२, १०^०, -णे
 वैताश्रौ १२, ११, १, अप ६८,
 २, ३६
 √तरण्य पा ३, १, २७
 तरणि^० -पाउ २, १०२, -णि आश्रौ
 २, २०, ४×४, शाश्रौ, अप ४८,
 १०६^d, निघ २, १५^d, -णिम्
 आपश्रौ ५, ११, ६, १, बौश्रौ
 तरणिन्व- न्वेन या ११,
 १६, १^०
 तरत्- रन् आपश्रौ १०, १९, १२,
 कौगृ ३, १३, १७, शागृ ४, १४,
 ५, -रन्तौ सु २, ३
 तरती- ती आपगृ ६, २.
 तरन्ती- न्तीम् बौगृ ४, ३, ६,
 -न्त्याम् कौगृ १, ९, १५, शागृ
 १, १५, १८.
 तरस्समन्दी^० - न्दीमि गौध
 २०, ११, -न्य बौध ४, २, ४

तरस्समन्दीय- -यम् बौध २,
 ३, ८, विव ५६, ६, -यै. बौध
 ४, २, ५
 तरस्स(म>)मा^० -मा वाध २८,
 ११, शंध १०५, बौध ४, ३, ७
 ऋतरथ्यै आपश्रौ १६, १८, ७, वैश्रौ
 १८, १६ २, हिश्रौ ११, ६, २९.
 तरस्^० - पाउ ३, ११७, पाग ५,
 ३, १०८^१, -ऋ आश्रौ ८, १०,
 १, शाश्रौ १०, १०, ४, अप ४८,
 १०३, वृदे ६, १८, निघ २, ९,
 -ऋसा आश्रौ ४, ४, ४, माश्रौ,
 -ऋमि आश्रौ ५, १६, २, ७,
 ४, ४, शाश्रौ
 तारसिक- पा ५, ३, १०८
 तरस्-वत्- -वान् हिश्रौ २१, ३,
 १०
 तरस्वती^० - न्य निघ १,
 १३, १
 तरस्-विन्^० - विनाम् बौश्रौ प्र
 २६ १
 तरितव्य,व्या- -व्यम् आगृ १,
 १२, ६, -व्या. वागृ १५, १०,
 मागृ १, १३, १५
 तरिन्^० -री अश्र ५, २७, १.
 तरिव्यत्- -व्यन् कौगृ ३, १३, १३,
 शागृ ४, १४, १
 २तरी^१ - पाउ ३, १५८
 तारिक^१ -कः विध ५, १३१
 तरु^० - पा ७, २, ३४, -तारम्
 या १०, २८^०
 तरु^० - पाउभो २, ३, ८९, -ऋत्रः

बौश्रौ १०, २४. १०
 ऋतरुत्री- -त्री कागृ ४१, ११,
 मागृ १, २२, ७^६, वागृ ५, ७
 तरुम्^० - > √तरुण्य^१, तरुण्यति
 निघ ४, २, १
 तारयितुम् वाध ६, २५
 तारयितृ- -नारम् या १०, २८
 तितीरिपत्^० - यत हिश्रौ २, ६,
 ५१
 तितीरिपत्- -षत. हिश्रौ ३, ७, ३३.
 तितीरिमाण- -णस्य माश्रौ ६,
 १०, ८
 तितीरिपा- -र्षा हिश्रौ १७, १, २६
 तीर्ण,र्णा- -र्णम् या ३, २०, -र्णा
 बौश्रौ १०, १२ ६, -र्णानि या
 ३, २०, -र्णे या १०, २७.
 तीर्ण-तम,मा- -म. या ४, ६,
 -मम् या ५, २६, ७, १२, -मा
 या ३, १०
 तीर्ण-निर्णय^० -य आमिगृ ३,
 ९, ३ १४
 तीर्त्वा बौश्रौ १४, २१ २४, १,
 वाधुश्रौ.
 १ते तद्- द्र
 २ते युष्मद्- द्र.
 ऋतेक^० -क. प्र आपमं २, १६, ८, भागृ
 २, ७ : २०
 तेक्षिण्य- √तिज् द्र
 √तेज् पाधा म्ना पर पालने.
 तेजन-^०नी, तेजस्- प्रमृ √तिज् द्र.
 १तेदनि,नी^० -निम् शागृ २, १२,
 १०, -नीम्^१ कौगृ २, ७ २३^६

a) वैप १ द्र । b) तरिण- इति [पक्षे] भागडा, पासि । c) =तरण-साधन- । d) =क्षिप्र- ।
 e) =ऋच्-विशेष- । < तरत् सु मन्दी (ऋ ९, ५८, १) । f) तु पागम. । g) =नदी-विशेष- ।
 h) =ऋषि-विशेष- । i) =नौका- । j) =नाविक- । जीवरथे ठक् प्र (पा ४, ४, १२) । k) पाभे. वैप २, ३४.
 परस्वी मन्ना १, ६, २८ टि. द्र । l) या ५, २ परामृष्ट. द्र. । m) इडागमश् छान्दसः । n) विप । बस ।
 o) =श्वप्रह-विशेष- । व्यु १ । p) सप्र. हिगृ २, ७, २ टेक. इति पाभे. । q) या १०, ६ परामृष्टः द्र । r) तेजनीम्
 इति पाठः ? यनि. शोध. (तु. शागृ.) । s) सपा. णिम् <> नीम् इति पाभे. ।

†२तेदनी^०- नी शाश्रौ १२, १८, २०

√तेप् √तिप् द्र

तेपान- √तप् द्र

तेलु^०-(>तैलवक- पा) पाग ४, २, ५३

√तेव् पाथा +वा आत्म देवने

तैकायन-, णि- तिक्- द्र

तैक्ष्णायन-, तैजन- प्रभृ √तिज् द्र

तैटीकि^०- -कि या ४, ३, ५, २७

१तैतल- (> ल्हायनि-) १तैतिल- टि द्र

१तैतलिन्- (> २तैतल-) तैतिलिन्- टि द्र

१-२तैतिक्ष-, तैतिक्ष्य- √तिज् द्र

१तैतिल^०- (> ल्हायनि- पा) पाग ४, १, १५४^०

तैतिल-कद्र- पा ६, २, ४२

तैतिलिन्^१- (> २तैतिल-)

पावा ६, ४, १४४

३तैतिल^०- ल्हायज्यो ४, ५, -लस्य आज्यो ५, १६, -ले आज्यो ५, ६

१तैत्तिर- १तित्तिर- द्र

२तैत्तिर-, णीय-, ष्य- २तित्तिरि- द्र

तैथ्विक्य- तिथ्विक- द्र

तैदेह^०- हा. बौश्रौप्र १००२, १७ : २, २७ : ४, ४३ ६

तैरश्च्य- १तिरश्ची- द्र

तैरिन्दिर- तिरिन्दिर- द्र

तैरोविराम-, षमक-, ष्यञ्जन-

तिरस् द्र
तैर्थ-, तैर्थक-, तैर्थयात्रिक-, णर्थिक-,
ष्य- तीर्थ- द्र

तैर्यगयनिक- तिरस् द्र

तैल- प्रभृ तिल- द्र

तैलक्य- २तिलक- द्र

तैलम्पात- तिल- द्र

तैलवक- तेलु- द्र

तैलीन- तिल- द्र

तैल्वक- तिल्व- द्र

तैल्वल- (> ल्हायनि- पा) पाग ४, २, ५३^१

तैव्रक-, व्रदारव- तीव्र- द्र

तैषी- तिष्य- द्र

तैस्त्वामादिवर्जम् तद्- द्र

†तोक^१- पाउभो २, २, ४५^६, -कम्

अप ४८, ८७, निघ २, २, या ३,

५, १०, ७५^६, १२, ६५^६, शुप्रा

३, १२९, -काय आपश्रौ ४,

१६, ५, ५, १२, १^२, बौश्रौ, या

१४, २६५^६, -के आश्रौ ३, ३, १,

शाश्रौ ५, १७, ९, आमिष्ट, -केषु

या १०, ७.

तोक-वत्- वत् काश्रौ ५, १३, ३१.

†तोक-साति^१- ता आपश्रौ ५, ४,

१, बौश्रौ २, ६ ८, हिश्रौ ३,

३, ७.

तोकि(न् >)नी- नी माष्ट २, १८,

२१

तोकम^१- कम् वाश्रौ ३, २, ७, ३,

-कमाणाम्^३ बौश्रौ १७, ३१.

१९, -कमानाम् काश्रौ १९, १,

१८, -कमै आपश्रौ १९, ५,

११, हिश्रौ २३, १, ८

तोकमा(कम-अ)वा(स्त >)स्ता^०-

-स्ताभि आपश्रौ २२, २८, १३;

हिश्रौ २३, ४, ५१

तोकमन्^१- पाउना ४, १६४, -कम्

निघ २, २१, -कमाणि^३ बौश्रौ

१७, ३१ २, २६, २२ : १८;

१९, -कमानि आपश्रौ १९, ५,

७, हिश्रौ २३, १, ६, काष्ट २५,

३२१^०, बौष्ट १, ५, ८

तोकम-किण्व- ण्वे आपध १, २०,

१२, हिघ १, ६, २६

तोकम-चूर्ण- णानि काश्रौ १९, १,

२५

तोकम-सक्तु- क्तुभि माश्रौ ५, २,

११, १६

तोजक् ताजक् टि द्र

†तो ते^१ आपश्रौ १०, २३, ४, बौश्रौ.

†तोतो^१ काश्रौ ७, ६, २३

तोत्त्र- तोद- √तुद् द्र

तोमर^०- पाउवृ ३, १३१, पाग २, ४,

३१

तोमर-ग्रह- पावा ३, २, ९

तोय^०- यम् जैश्रौका ९, कप्र, -ये

शध १०३, -येन वैध १,

४, १, -यै. वैश्रौ २, ६ : १.

तोय-ग्रहण- णम् अप ५, १, २.

तोय-द- द् वाध २९, ८, -दाः

अप ५२, १, १३

a) वैप १, १५०१२ द्र । b) व्यप । व्यु ? । c) = आचार्य-विशेष- । व्यु ? । d) व्यप । व्यु ?

<तितिलिन्- इति पाका ६, २, ४२ । e) तु पाका पासि । १तैतल- इति भाण्डा, पागम (< तितल-, इति) च ।

f) = आचार्य-विशेष, [उपचारात्] ग्रन्थ विशेष- । णिनि प्र डसं (पा ४, ३, १०६) । तैतलिन्- इति पागम ।

g) = [ज्योति.शास्त्रसंज्ञित-] करण-विशेष- । व्यु ? । h) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । i) तु. पागम । बैल्वल-

इति क्वाचित्क पाठ (तु पागम.) । j) वैप १ द्र । k) तौ^० इति पाठः^१ यनि शोध । l) = अङ्कुरित-यव- ।

व्यु ? । m) णव् द्र । n) विप । बस । o) सपा तोकमानि <> लाजान् इति पाभे । p) = अल-विशेष-

व्यु ? । q) = जल- । व्यु ? ।

तोयद-सोमा(म-अ)र्क- -र्काः
अप ६४, ९, १०
तोय-धारा- -राम् अप ७, १, १०
तोय-धि- -रिम् वेगृ ५ ६ ७.
तोय-पार्श्व- -श्वे वैध ३, ७, ६
तोय-पिष्ट- -ष्टौ वैगृ २, १७ ४
तोय-प्रदान-पूर्वक- -का वैगृ ३,
१ १०
तोय-विन्दु- -न्दुभि वैव ३, ६, १२
तोय-माल्या(व्य-अ)नुलेपन- -नम्
अप ६८, १, २६
तोया(य-आ)दि- -दि शंभ २२६
तोया(य-अ)वक- -रुम् वाश्रौ ३,
२, १, ५९
तोया(य-अ)वलम्बि-जलद-
स्तनित्ता-(त-—अ)भिराम-
-म अप २४, ६, २
तोया(य-आ)हार- -रा. बौध ३, ३,
९, १३^३
तोरण^b- पाग २, ४, ३१, -णम् अप
१८, १, ५, ७०^२, २०, १, -णानि
अप १, ९, १०, ६७, ४, २, -णे
अप ७०^३, २३, ९, ७०^३, २७, १०
तोरण गृह-रथ्या (थ-अ)न्तर- -रेषु
शंभ ३१०
तोरणा(ण-अ)हालक- -कानि अप
५५, ६, २
तोत्य- √तुल् द्र
तोश- √तुश द्र
तोषयित्वा, तोषित- √तुष् द्र.
तोसल- पाउना १, १०५.
तौक्षायण- तुक्ष- द्र
तौद्य- तुय- द्र

तौज्वलि^c- -ल्य बौश्रौप्र १७. ६
तौणकर्ण- तूणर्मर्ण- द्र
तौण्डि^c- -ण्डि बौश्रौप्र १० २
तौण्डुलेय^d- -य कागृ ३५, १०
तौदय- √तुद् द्र
तौम्बुरधिन्- तुम्बुर- द्र
तौर- २तुर- द्र
तौरयाण-, तौरश्रवम- √तुर द्र
तौरायणिक- २तुर- द्र
तौत्य- √तुल् द्र
तौत्वलायन-, णलि- तुलन- द्र
†तौचिलि(क>)का^e- -के अश्र ६,
१६
तौषायण- तुष- द्र
त्मन्^f- पावा ६, ४, १४१, †त्मना
आश्रौ २, ११, १२, शाश्रौ, या
३, २२, ६, २१, ११, ३१,
त्मने आश्रौ ६, ९, १†^g, ऋप्रा
५, ५९, त्मानम् आश्रौ ६ ९,
१†^g, त्मन्या^f या ८, १७†^g,
अप्रा ३, २, १३
त्य, त्या- त्यद्- द्र
त्यगनायिस्^h- -यि द्राश्रौ २, २, १,
६, ४, ७, लाश्रौ १, ६, १, २,
१२, ८
√त्यज्ⁱ पाधा भ्वा पर हानौ,
त्यजति वेगृ २, ८ : १०, वैध
३, ५, ११, या १४, ३४^२,
त्यजन्ति अप ६४, ४, ९, वाध
६, ३, या १४, ३४, माशि १६,
४, त्यजेत् शाश्रौ २, १६, ३,
बौश्रौप्र, त्यजेयुः द्राश्रौ ९, २, २,
लाश्रौ ३, ६, २^१

नित्याज पा ६, १, ३६
त्यक्त- -क्ते वेगृ ६, १६ १९
त्यक्त-प्रब्र(ज्या>)ज्या^१- -ज्यः
विध ५, १५२
त्यक्त-मङ्गल^१- -लन् आमिगृ
२, ५, १ २, जेगृ २, ९ : ०
त्यक्तव्य- -व्यानि अप ७०^३, ११, १.
त्यक्त्वा सु १८, ६, मागृ
त्यजत्- -जत वाध ३०, १०,
-जन् विध ५, १५३, वैव ३, ५,
७, -जन्न अप ५२, २, ३
†त्यजस्^h^१- -ज अप ४८, १८,
निध २, १३
त्याग- पा ६, १, २१६, -ग काश्रौ
१, २, २, जेगृ, -गा मागृ २, १३,
६^१, -गात् विव ५२, २, -गे
काश्रौ १, ७, २०, वैगृ २, ८.
१०, शंभ ३०३
त्यागिन्- पा ३, २, १४२, -गिनाम्
विध ८१, २२, -गी शध
२४४
त्याज्य आमिगृ ३, ११, २ १०.
त्याज्य, ज्या- -ज्यम् अप ७०^३,
२७, ९, वृदे २, १००, -ज्या
वाध २८, ३, -ज्याः विध ५७,
१, -ज्यानि अप ७०^३, ११, ३.
त्यद्ⁱ-
†त्य, त्या- त्यम् आश्रौ २, १३,
२×४, शाश्रौ, आपश्रौ १५, १६,
१०^३, हिश्रौ २४, ६, १६^३;
या १०, २८†^g, त्या आश्रौ
२, १३, ७, आपश्रौ, त्याः
शाश्रौ ६, ५, १२, ऋअ २, १,

a) = [अपचमानकन्] वानप्रस्थ-। बस । b) नाप । व्यु. ? । c) व्यप । व्यु. ? । d) = बालप्रह-
विशेष-। व्यु. ? । e) पाभे. पृ ११८० m टि द्र । f) वैप १ द्र । g) पाभे वैप १ स्मने, स्मानम् मै ४,
८, ७ यक टि. द्र । h) = साम-विशेष-। व्यु ? । i) पावा ७, ३, ६६ परामृष्ट- द्र । j) विप । बस ।
k) = कोष- । l) पाठः ? (नागा इति Knauer) । पाभे. वैप १, ११६९ b द्र m) सकृत् पाभे. वैप. १
स्वम् ऋ १, २७, ४ टि. द्र ।

१२, १०, २२, बृदे ३, १२४,
या १२, ७१, त्यान् शाश्रौ ९,
२४, ३, बौश्रौ, ऋत्ये आश्रौ ४,
७, ४, ७, ४, ३^a, शाश्रौ ७, २३,
५^a×५, १२, ४, २२^a, हिश्रौ,
वैताश्रौ २२, ११^a, २७, १२^a,
३३, २४^a
त्यद्- पाठ १, १३२, पाग १, १,
२७, ५, ४, १०७, ऋत्यत् आश्रौ
४, १४, २, ५, १३, ६^b, ६, ४,
१०, शाश्रौ १, १५, ५^o, ७, १६,
८^b, ८, ९^o×५, काश्रौ २६,
७, ५५^b, आपश्रौ, माश्रौ ४, ५,
९^b
त्यादायनि- पावा ४, १,
१५६
त्यदादि-विधि- घय पावा
५, ३, १, -घौ पा १, १, २७
१स्य, स्या- स्यः आश्रौ ४, ७,
४^१×५, शाश्रौ, ऋत्या २, २८,
१३, ३, पा ६, १, १३३, ऋत्या
आश्रौ ३, ७, ६, ४, १४, २, ८,
१०, १, शाश्रौ, स्यो३ शाश्रौ
१२, १३, ५^१
१त्यवे^d वैश्रौ २१, २ : ७
त्यादचोप्र^e अप ३४, १, ८
त्याग- प्रष्ट. √त्यज् द
१त्यैप्तत सु ५७
√त्रख् = √उख् यद्
√त्रङ्क् = √कङ्क् यद्
√त्रन्द् पाधा भ्वा. पर. चेष्टायाम्
√त्रप्^f पाधा भ्वा पर. लज्जायाम्

त्रप^g->त्रपिष्ट^h, त्रपीयस्ⁱ- पा ६,
४, १५७
१त्रपु^j- पाठ १, १०, -पु वाधूश्रौ ४,
५९^१. ५, वाध २, २६, अत्र ११,
३^१, -पुण. शध १६४
त्रापुष- पा ६, ४, १३८
त्रपु-चामर-सीसरु-विकथिन्- यी
विध ४५, २२
त्रपु-जतु- -तुभ्याम् गौध १२,
४
त्रपु-मिथु-पूर्व- -र्व तैप्रा ५, ४
त्रपु-सीस- -सम् आपध २, १६,
१८, हिध २, ५, १८
२त्रपु^k- -पु अप ४८, ७७^१
त्रपुषी^l- षी अप ४८, १०४^१.
त्रपुस्^m- -पु माश्रौ ५, २, १४, ९
त्रपुस्ⁿ->त्रापु(स >)सी- -सीः
अशा २१, २
त्रपुस्^o-मुसल-खदिर-तार्हाघ-
-धानाम् कौसू २५, २३
त्रय- प्रष्ट त्रि- द
√त्रस्^p पाधा दिवा पर उद्वेगे,
चुरा उभ भाषाया धारणे, प्रहणे,
वारणे च
त्रस्तु- पा ३, २, १४०
त्रसदस्य^q- -स्य वैध ४, ३, ४
त्रसदस्य-वत् वैध ४, ३, ४
त्रसदस्यु^r- -स्युः ऋग्र २, ४, ४२,
बृदे ५, १३, ३१, शुभ्र १, ४४६,
-स्योः ऋग्र २, ८, १९, बृदे ६,
५१.
त्रासदस्यव -व आश्रौ १२,

१२, २, आपश्रौ २४, ८, ९;
बौश्रौप्र २० : ४, -वम् निस्
७, ५ ३५, बृदे ७, ३५, -वस्व
ऋग्र २, १०, ३३
त्रसदस्यु-वत् आपश्रौ २४, ८, ९;
बौश्रौप्र २० ५
त्रसरेणु- पाठवृ ३, ३८
त्रसरेणु-संज्ञक^s- -कम् विध ४, १.
१, २त्राण- √त्रै द.
१त्रात^t- -तस्य चात्र ४२ ६
२त्रात-, त्रातुम्, त्रातृ- √त्रै द.
त्रापुष- १त्रपु- द
त्रापुसी- त्रपुस- द
त्रायक-, ष्यमाण- √त्रै द
त्रायोदश- त्रि- द
१त्रासुरर्धर्मम् कौशि ७३
त्रि^u->तिस- पा ७, २, ९९, पाग ४,
१, १०, -सृणाम् आश्रौ २, १६,
२, शाश्रौ, -सृभि आश्रौ २, ३,
२९×५, शाश्रौ, कौश्रु १०८, २^१^१;
-सृभि ऽ-सृभि शाश्रौ १६, १३,
६, आपश्रौ, -सृभ्यः आपश्रौ
१३, २, १, १५, ८, बौश्रौ, -सृषु
शाश्रौ १४, ४२, ८, ९, काश्रौ;
-सृषुऽ-सृषु बौश्रौ १८, ३६ :
१२, -स्र आश्रौ २, १, ३०×५;
शाश्रौ, आपमं २, १७, २६^१;
-स्र ऽ-स्र आश्रौ २, ४, १७×५;
शाश्रौ.
तिस-चतस-त्व- -त्वम् पावा
१, १, ३९
तिस-धन्व^v- -न्वम् आपश्रौ

a) पाभे वैप १, १५०३ j द । b) पाभे. वैप १, १४३९ ० द । c) पाभे वैप १, १४३८ d द ।
d) पाठः ? सप्र शौ ७, १०५, १ कृण्वे इति, बौश्रौ २८, ९ २० करवे इति, काश्रौ २५, ११, २१ करवे इति च
पाभे । e) प्रचोदयात् इत्यस्य वैपरीत्येन निर्देशः । f) पा ६, ४, १२२ परामृष्ट द । g) अर्थ व्यु च ? ।
h) पाप्र <तृप्र- इति । i) वैप १ द । j) =कूप-। व्यु ? । k) =वज्र-। व्यु ? । l) =वृक्ष-विशेष-।
व्यु. ? । m) द्रस. उप. ? । n) पा ३, १, ७०, ६, ४, १२४ परामृष्टः द । o) =ऋषि विशेष-। व्यु ? ।
p) विप । बस । q) पाभे वैप १, १५९५ 11 द । r) सप्र तिच. <>सर्वा इति पाभे.।

१७, १२, ३, १८, २१, १७, २२,
२६, ५, बौश्रौ
तिस्रधन्विन्- -न्विनाम्
वायूश्रौ ३, ७९ ७, -न्वी बौश्रौ
१६, २० १४, २२ : २
तिस्र-भाव- -वे पावा ७, २,
९९
तिस्रस्-कारम् आश्रौ ५, १५, ५,
माश्रौ ६, २, ३, १^३
त्रि- पाठ ५, ६६, पा ४, २,
९१^६, त्रय आश्रौ १, ८,
५××, शाश्रौ, या ३, १०^६,
त्रय ऽत्रयः आश्रौ ७, ५, २१,
शाश्रौ, त्रयाणाम्^b आश्रौ २,
१०, २१××, शाश्रौ, त्रिभिः
आश्रौ ८, १, ११, १२, ८, ३१,
काश्रौ, या १४, २९, ३१,
त्रिभि ऽत्रिभि आपश्रौ १५, ४,
१०, भाश्रौ, त्रिभ्यः आपश्रौ
१४, १, ६, काश्रौ, या ७, १४,
त्रिषु आश्रौ १०, ९, २^२, शाश्रौ,
त्रिषु ऽत्रिषु आपश्रौ ८, २२, १५,
भाश्रौ, ऋत्री आश्रौ ९, ५, १६,
शाश्रौ, ऋत्रीणाम्^b शाश्रौ १२,
२, १४, आपश्रौ, ऋत्रीणि आश्रौ
४, २, ३××, शाश्रौ, आपश्रौ
१०, १२, १२^०, आपमं १,
३, ९^०, पाण्ड ८, १^०, माण्ड १,
११, १८^०, ऋहिय १, २१, १^०,
ऋत्रीणि ऽऋत्रीणि आश्रौ १२, ९,
१२, आपश्रौ, ऋत्रीन् आश्रौ ३,
८, १××, शाश्रौ, गौध २६,
१^d, ऋन् ऽऋन् आश्रौ १०,
२, ३०; शाश्रौ, त्रेः पा ६, ३, ४८,
७, १, ५३

तृ L, त्रिच^b- पावा ६, १, ३७,
-च आश्रौ ८, १, २३, १२, २४,
शाश्रौ, या २, १, -चम् आश्रौ
१, १, १९××, शाश्रौ, अत्र ६,
२^०, -चम् ऽ-चम् आश्रौ ५, १०,
४, -चयो आश्रौ ८, १२, ६,
द्राश्रौ, -चस्य जुस् १, ६ १३,
द्राश्रौ, -च आश्रौ ४, १५,
२××, शाश्रौ, -चात् आश्रौ ९,
१०, १५, शाश्रौ, -चान् आश्रौ
५, १२, १५××, शाश्रौ, -चानाम्
शाश्रौ ७, १९, १९, १८, २,
२, -चानि शाश्रौ १०, ३, ५××,
-चे आश्रौ ५, १०, ८××,
शाश्रौ, गौपि १, ३, २१^f, -चेन
शाश्रौ १, १२, ८××, काश्रौ
१४, ४, ५^६, आपश्रौ, -चेभ्य
शाश्रौ १२, ३, १६, १२, ११,
द्राश्रौ, -चेषु जैश्रौ २२.
१३, २६ ७, द्राश्रौ, -चै
शाश्रौ १६, १३, १४, काश्रौ
१५, १०, १६^६, १७, ३, ८^६,
-चौ आश्रौ ३, ८, १××,
शाश्रौ
तृच-करण- -णम् लाश्रौ ६,
३, १४
तृच-क्लृप्त- -प्त शाश्रौ
१७, ८, ११, -प्त्स् शाश्रौ ११,
३, १××, क्षुस्
तृचक्लृप्त-शस्त्र^b- -श्रौ
शाश्रौ १४, ४२, १४
तृच-चतुष्टय- -यम् जैश्रौका
१५२.
तृच-न्ता- -ताम् निस् ६,
१३ : १३

तृच-दृष्टि^b- -ष्टयः निस् ४,
२ : ११; -ष्टीनि निस् २, २ :
१ : ९
तृचदृष्टि-त्व- -त्वात् निस्
२, २ २०
तृच-प्रथ(म >)मा^d- -मा
निस् ६, २ २८, ७, ८ ३२;
९, ३ : ३३, -मायाम् निस् ६,
३ २०
तृच-प्रायण^b- -णम् निस् ६,
१३ २४.
तृच-भा(ग >)गा^d- -गा
लाश्रौ ६, ५, १, ४, ५, निस् १, ८ :
१७; ८ : २०, २१.
तृचभागा-स्थान- -नेषु
लाश्रौ ६, ५, ७, ७, ४, निस् १,
११. ३३
तृच(च-ऋ)र्च- -र्चं उनिस्
७ : २.
तृच(च-ऋ)र्चा(चा-अ)र्धर्च-
पाद- -दानाम् सात्र १, १
तृच-विकार- -र. उनिस् ७ :
३०.
तृच-शत- -तम् ऋअ ३,
४०, चव्यू १ : १२.
तृच-समाप्ति- -प्तये निस्
६, १० : २४, ७, ९ : २९, ९, १ :
५४, ५ ३४
तृच-सूक्त- -कानाम् लाश्रौ
६, ३, १, -कानि क्षुस् २, ९ :
३.
तृच-स्थ- -स्थम् जुस् २,
१५ ३०, ३, ५ : १४; ६. १४;
-स्थयो आश्रौ ५, १५, १२;
-स्थानि जैश्रौ २२ १२; २६

a) तु पागम । b) वैप १ द्र । c) पाभे वैप २, ३ख. ऋत्रीणि तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. ।

d) तु. ST. । e) तृचः इति पाठः ? यनि शोभः । f) त्रिचे इति पाठः । g) त्रि^० इति चौसं. ।

h) विप. । बस । i) षस । j) = स्तोत्रीया-विशेष- ।

७; -स्थे निस् ६, ३ २०
 तृच-स्थान- -ने आश्रौ १०,
 १०, ४, ६
 तृचा(च-आ)दि- -दिषु मीस्
 १०, ५, ७
 तृचा(च-अ)वम^३- -मम् वृदे
 ८, ९९
 तृचा(च-अ)न्त- -न्तेषु आश्रौ
 ५, १२, १५
 तृचा(च-आ)पत्ति- -त्तिः
 निस् ७, २ १६
 तृचा(च-आ)पत्ति^३- -त्तिनि
 द्राश्रौ २, १, २, लाश्रौ १, ५, २
 तृचा(च-आ)पक्ष- -क्षम् निस्
 २, २ २१
 तृचा(च-अ)र्थ- -र्थः निस्
 ९, ४ २८
 तृचे (च ई) ष्यता- -तायै
 जैश्रौ २६. ८
 तृचै(च-ए)कर्व- -र्वान् निस्
 ६, ३: १७
 तृचैकर्व-स्व- -स्वम् लाश्रौ
 ६, ३: २०
 तृचो(च-उ)त्तमा- -मायाम्
 लाश्रौ ६, ३, २०
 तृचो(च-उ)दयन^३- -नम्
 निस् ६, १३ २४
 त्रिच-त्रय- -यम् जैश्रौका
 १२१.
 त्रिचा(च-आ)दि- -दिषु
 काश्रौ १२, ७, ३
 तृचा^३ अप्राय ६, ४.
 तृतीय, या- पा ५, २, ५५, -यः
 आश्रौ १, ५, २३, २, १७, १५, ५,

३, ३, शाश्रौ, गौव २६, १९^०,
 या ४, २६, ७, ९, १०, २१, १,
 -यम् आश्रौ १, ५, १३××,
 शाश्रौ, अत्र ६, ९९^०, या ३, १७,
 ७, २८, -यम्-यम् काश्रौ २०,
 ४, २७, काश्रु ५, ७, -यया आश्रौ
 ४, ६, ३, शाश्रौ, -ययोः आश्रौ
 ६, ३, ११, -यस्य आश्रौ ५,
 ५, १५××, शाश्रौ, -यस्याः
 वैश्रौ ३, ७ १४, हिश्रौ ९,
 ४, ३४, आपमं २, १६, १,
 ७, १^०, कौस् ८२, ३६, १३२,
 २५, -यस्याम् आश्रौ २, १, २६,
 काश्रौ, भाग २, ७, १९^०, हिग
 २, ७, २^०, -यस्यै आपश्रौ
 ११, ६, ८, ५, २, ४, वाधूश्रौ,
 -या शाश्रौ २, २, १२××, काश्रौ,
 -याऽया लुस् १, ८: १८,
 -याः आश्रौ ५, १०, १९, बौश्रौ,
 आज्यो ६, १३^१, -यात् शाश्रौ
 १०, ८, १३××, लुस्, पा,
 पावा ५, ३, ८४, -यान्
 आपश्रौ १४, ४, १४, हिश्रौ ९,
 ७, ४२, ऋप्रा ४, १, -यानि
 आश्रौ ८, ४, १७, वैश्रौ १, १
 १९, लुस् ३, १३ ४, -याभ्याम्
 पा ७, ३, ११५, -याम् आश्रौ
 ३, ६, २६, ६, ५, २१, शाश्रौ,
 -याय आपश्रौ १३, ६, १२,
 बौश्रौ ८, ४: ३०, लाश्रौ ७, ६,
 ४, -यायाः काश्रौ २०, १, १५,
 बौश्रौ, पा ५, ४, ४६, ६, २,
 १५३, ३, ३, -यायाम् काश्रौ
 १७, ९, १; २२, ८, १८, आपश्रौ;

पा ३, ४, ४७, -यै आश्रौ ५,
 ४, २××, शाश्रौ, वैताश्रौ ४, ९^१,
 -येऽन्ये लाश्रौ १०, ६, ७, ८, ४;
 -येन आश्रौ ७, ७, ८××, शाश्रौ,
 -येभ्य काश्रौ १०, २, २४, वैश्रौ
 १६, ७. २, अप ४६, ९, १०, १,
 -येषु आश्रौ ७, ११, ९, ८, ३, ९;
 आपश्रौ, -यै माश्रौ ५, २, १२,
 ५, गुप्रा ४, ११०, -यौ शाश्रौ
 ७, २७, १८, वैश्रौ १०, १९. ५,
 द्राश्रौ ५, १, १६, लाश्रौ २, ५,
 १३, नाशि २, २, १०
 तार्तीय^३- -यम् आश्रौ
 १०, २, ४
 तार्तीयक^३- -कानि
 निस् ८, ५ २३, -केषु निस्
 ८, ६ २४^१
 तृतीय-क, का- -का कप्र २,
 १, ५, -के जैश्रौका १४३, कप्र
 ३, ६, ४
 तार्तीयक^१- -कम् निस्
 ७, ४ ३
 तृतीय-कर(ण>)णी^३- -णी
 काश्रु २, १५, १८, आपश्रु २, ४,
 ५, बौश्रु
 तृतीय-ग्रह- -हम् माश्रौ २,
 ३, ३, १२
 तृतीय-चतुर्थ- -र्थयो निस्
 ५, २ १, -र्था आशि ४, ४,
 -र्थाम्यम् लाश्रौ ६, ११, ८;
 -र्थं आश्रौ ४, १३, ७, ८, २, ६,
 -र्थौ अप ४ १५, तैप्रा २३,
 १९; आशि ४, ४.
 तृतीय-ता- -ताम् ऋप्रा ११,

a) विप. । बस. । b) पाठः ? तत्र ऋक्षु इति संस्कर्तुं टि सभावित पाठोऽपि ? तृचैन (तृ१)> नैप्र.
 वनि इति प्रतीयते (तु तत्रैव सप्र. ६, ६ गौरीवित्तेन इति) । c) तु अत । d) उत्तरेण संधिरार्थः । e) सप्र.
 ष्वा <> ष्वाम् इति पाठे । f) तृतीयस् इति ० शोष । g) तस्येदमीय. अण् प्र । h) तस्येदमीयष्
 ङक् प्र. । i) पाठः ? णिकीषु इति संभाव्येत (तु संस्कर्तुं टि) । j) स्वार्थे अण् प्र. । k) नाप ।

२५
तृतीय-तुर्य- -र्ययोः भाशि
७१
तृतीय-त्व- -त्वम् भाशि
४८
तृतीय-धवित्र- -त्रम् वैश्रौ
१३, १७ ७
तृतीय-पञ्चम- -मयो शाश्रौ
१२, ३, १८, १०, ५, १२, ५, निसू
५, ३ २२, -माभ्याम् लाश्रौ
७, ४, १८, -मौ आश्रौ ५,
१५, ८
तृतीय-प्रथम-ऋष्ट- -ष्टान्
नाशि १, १, ११
तृतीय-प्रभृति- -तिभ्य
शाश्रौ १२, २७, ३
तृतीय-भाव- -वम् ऋप्रा २,
१०, -वे ऋप्रा ११, ४८
तृतीय-भूत- -तैः ऋप्रा ४, ५
तृतीय-मात्र- -त्रम् माश्रौ
५, २, २, ६, गोरु ४, १, १४, ३, ८
तृतीयमात्रो- -त्रीम्
हिश्रौ १३, ८, ११
तृतीयमात्र-खात- -तानि
काठश्रौ ११६
तृतीय-मास- -मासि आमिगृ
२, १, १ : १
तृतीय-वर्ष- -र्षस्य वागृ
४ १.
तृतीय-वेला- -लाम् आपश्रौ
१५, ३, ५, बौश्रौ, -लयाम्
बौश्रौ २४, ३५ ४
तृतीय-शस् () आपश्रौ २२,
७, १५, हिश्रौ १७, ३, १४
तृतीय-श्रुति- -ते काश्रौ

१०, ३, ६
तृतीय षष्ट- -ष्टे क्षुसू २, १४ :
१९
१ तृतीय-सवन- -नम् आश्रौ
५, १७, १×१, शाश्रौ, या ७, ११,
-नस्य शाश्रौ ८, १, २, बौश्रौ,
-नात् शाश्रौ १३, ९, १, काश्रौ,
-नानि आश्रौ ७, १०, २, ८, ८,
३, शाश्रौ ११, १२, ९, -नाय
काश्रौ ९, ४, ३४, बौश्रौ, -ने
आश्रौ ५, २, १३×१, शाश्रौ,
-नेन आपश्रौ १२, ११, ५, २९,
१२, काश्रौसं, -नेषु काश्रौ २१,
२, ८
तार्तीयसवन^b- -नम्
णशि ८
तार्तीयसवनिक^c- -क
माश्रौ २, ३, २, ३, ५, ३, १०,
वाश्रौ ३, २, २, ३२, -कम् माश्रौ
२, ३, १, १९, ४, ६, २३, -कस्य
आपश्रौ २१, १०, ३, -कात्
हिश्रौ १६, ४, १५, -कान्
आपश्रौ २२, ८, १८, -कानाम्
बौश्रौ २१, २३ १३, -कानि
निसू २, ११ २३; -के आपश्रौ
१४, १९, ११, बौश्रौ २१, २२
१७, -केन बौश्रौ २८, ४ : ७,
-केभ्यः बौश्रौ २१, १९ : ४,
-केषु बौश्रौ २१, १९ ३, मीसू
१२, २, १२^d, -कै बौश्रौ २६,
२२ : १४
तार्तीयसवनिकी-
-न्य आश्रौ ५, ५, १९, -क्याः
शाश्रौ ५, ३, ७
तृतीयसवन-काल- -ले

आपश्रौ २१, २४, ९.
तृतीयसवन-चर- -राणि
चुसू ३, ११ ६
तृतीयसवन-ज्ञान- -ज्ञेण
निसू ५, ७ २४
तृतीयसवन-भाष-
-भाजः वाधूश्रौ ४, ७६ : ४
तृतीयसवन-श्रुति- -तैः
काश्रौ १०, ४, १३
तृतीयसवन-साम्रा(म-
अ)न्त- -न्त निसू ९, ३ ८.
तृतीयसवना(न-अ)ति-
वृद्धि- -द्धिः बौश्रौ २१, १९ :
६.
तृतीयसवना(न-अ) दि-
-दि वैताश्रौ ३७, ६.
तृतीयसवनिक- -कः
बौश्रौ २५, २३ : ६
तृतीयसवनीय, या- -याः
बौश्रौ २५, २१ : १६, वाधूश्रौ
४, २९^e ८, -यान् शाश्रौ १४,
२, १९, १३, ५, बौश्रौ, -यानाम्
बौश्रौ १८, २२ . ७, २६, २१ :
६, -येषु बौश्रौ १८, ३७ १६.
२ तृतीय-सवन^f- -न. हिश्रौ
१६, ८, २५
तृतीय-स्थान, ना^g- -नम्
निसू ७, ३ : २९, -ना निसू ९,
३ ३२
१ तृतीयां(य-अ)क- हर्-
-रा बौध २, २, ११.
तृतीया/कृ पा ५, ४, ५८.
तृतीया-चतुर्थी- -थ्यौ शाश्रौ
१०, १२, १५, ऋअ २, १, १२०;
अअ ३, २६

- a) तद्धितार्थे द्विम प्र लुक् (पा ५, १, ८९) । b) तस्येदमीयः अण् प्र. । c) तस्येदमीयष् टक् प्र ।
d) 'वन' इति पाठ ? यनि शोधः (तु शबरभाष्यं प्रयासं. च) । e) विष । मत्तर्थाय अच् प्र. । f) विष. ।
बस । g) उस उप. अच् प्र (पा ३, २, ९) ।

तृतीया-चतुर्थी-नवमी- -स्य
अत्र २, ३१७
तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी- -स्य
उनिस् ७ ४०
तृतीय(या-अ)दि- -दि
ऋअ २, ३, २८, ८, १०१, -दि
पा ६, १, १६८, -दिषु आश्रौ
७, ५, ४, अप्रा २, ४, ३; पा ७, १,
७४, ९७, -दीन् वैताश्रौ ३२,
१७, -दीनाम् वैताश्रौ ३२, ६,
-दौ पा २, ४, ३२
तृतीयाद्य(दि-अ)युज्-
-युज ऋअ २, १, १६५
तृतीया(य-अ)धेय- -यम्
बौश्रौ २४, १९ ७, -ये वाश्रौ
१, ५, १, २०
तृतीया-नवमी- -स्यौ ऋअ
२, ७, १७
तृतीया(य-अ)लुरुप- -पस्य
शाश्रौ ११, ११, १५, १७, १९,
१३, २६, १२, १२, १४
तृतीया(य, या-अ)न्त- -न्तम्
अप्रा ३, २, २६, -न्तस्य शौच
३, १९, -न्ता पावा २, १, १०,
-न्तानि अप्रा २, २, १८-२०,
शौच १, ८
तृतीयान्त-सप्तम्यन्त-
-न्तेषु पश्वा २, २, २८
तृतीया(य, या-अ) न्त्य, न्त्या-
-न्त्ये वृदे ३, ७१, अत्र ३, १,
-न्त्यौ अप्र २ : १५
तृतीया-पञ्चदशी- -श्यौ ऋअ
२, ६, १५
तृतीया-पञ्चमी- -स्यौ ऋअ
२, ८, ५५
तृतीया-पर- -रे कप्र २, ६,

तृतीया-पूर्वपद- -दः पावा
२, १, ३५
तृतीया-प्रभृति- -तय शाश्रौ
८, ७, ३, -तीनि पा २, २, २१
तृतीया(य-अ)याम- -मम्
आपशु ७, ४, हिशु २, ५२
तृतीया-युक्त- -क्तात् पा १,
३, ५४
तृतीया(या-अ)र्थ-निर्देश-
-श. पावा २, १, ३०
तृतीया(य-अ)लाम- -मे
माश्रु १, ७, ७, वाश्रु १०, ६
तृतीया-वर्जम् कौसू ३८, ११,
४२, १४
तृतीया-विधान- -ने पावा २,
३, १८,
तृतीया-षष्ठी- -ष्ठ्यौ ऋअ २,
१, १६२, शुअ ३, ५४
तृतीया-षोडशी- -श्यौ ऋअ
२, ९, १०७
तृतीया(य-अ)ष्टम- -मयोः
साअ २, १५६, १५७, -मे आश्रौ
४, १३, ७
तृतीया-संदेह- -हे अप्रा २,
२, ३
तृतीया-सप्तमी- -स्योः पा
२, ४, ८४, -स्यौ ऋअ २, ३, ८,
५, ५६
तृतीयासप्तम्य(मी-अ)
न्त- -न्तेषु पावा २, २, २७
तृतीया-समास- -से पा १,
१, ३०, पावा २, १, ३०, ६९,
६, १, ८८
तृतीयासमास-वचन- .
-नात् पावा ६, २, ११

तृतीयासमासवचना-
(न-अ)नर्थक्य- -क्यम् पावा ६,
२, ११
तृतीया(य-अ)ह- -हम्
अप्राय २, ९
तृतीया(य-अ)हन्->तार्ती-
याह्निक- -के शाश्रौ १५, ८, ३
तृतीयिन्- -यिन आपश्रौ
२१, २, १८, माश्रौ, -यिम्यः
आश्रौ ९, ४, ५, माश्रौ २, ४, ५,
७, हिश्रौ १०, ४, ३९, -यी
ऋत ५, ५, ५^b
तृतीयिनी- -नीनाम्
लाश्रौ ९, ६, ६, -नीम्यः लाश्रौ
९, ११, ३, -न्य. लाश्रौ ९, १,
१२
तृतीयो(य-उ)त्तम- -मा-
भ्याम् आश्रौ ८, २, १०^३, -मौ
आश्रौ ४, ७, ४
तृतीयो(य-उ)दुप्त- -प्तानि
माश्रौ २, ३, १, १३
त्रय- पा ५, २, ४३, -यम्
आश्रौ ४, ८, २७, बौश्रौ, -र्षया.
काश्रौ १९, ५, ८, ७, ४, आपश्रौ;
-याणि बौश्रौ १७, ३१. ४;
वाघुश्रौ ३, १ : ८, १०१ : २,
आपमं २, ११, २२, या ९, २८,
-यान् आपश्रौ १९, ६, ७, शाश्रौ
१०, १४, ८, बौश्रौ १७, ३१ :
३, हिश्रौ २३, १, १६, -येण
बौश्रौ १०, १० ९, २५, १८ :
७, माश्रौ ६, १५, ६
त्रयी- -यी बौश्रौ २५,
१७. ४, -यौम् आपध २, २४,
८, बौध २, ६, ३६, हिध २, ५,
१७३, या १३, १०, -स्यः

a) विप. । बस । b) स्वार्थे इनि प्र उस् (पा ५, २, ११५) । c) = L तृतीयदक्षिणावती-] होत्रा- ।

४) विप. च नाप. च ।

वाधुश्रौ ४, १५ १३, -व्या
काश्रौ २५, ८, ५१, -व्याम् गौघ
११, ३, -य्यै आपम २, १०,
१, काय २४, १३, बौग १, २,
३४, भाय २, २४ १०

त्रयि-विद^a- -दा
बौश्रौ २, १८ २२
त्रयी-मय- -यम् शुभ्र
१, १

त्रयी-वि(द्या>)घ^b-
> ष्या(द्य-आ)ख्या- -ख्या मीम्
३, ३, ५.

त्रयी-विद्या- -द्याम्
निसू २, १ ३८
त्रया(य-आ)देश- -शे पावा
१, १, ५६
त्रया(य-अ)न्त^b- -न्तानि
निसू ५, २ २०.

त्रयस्- पा ६, ३, ४८
त्रयस्-त्रिशत्^c- -शत् आश्रौ
३, १४, १०^f, शाश्रौ १३,
१२, १३^d × ×, आपश्रौ, आमिष्ट
३, ९, १ १२^e, बौपि २,
६, २^e, या ३, १०, -शत्
बौश्रौ २५, २३ ९, माश्रौ ६,
२, ५, २६, वाश्रौ २, २, ४, ५१,
लाश्रौ ८, ६, २७, -शतम् शाश्रौ
१६, २२, १६, काश्रौ, आपश्रौ
२१, १, १४^d, हिश्रौ १६, १,
११^d, -शतम् ऽ-शतम् काश्रौ
२२, ४, २७, -शता काश्रौस २९:
२१, लाश्रौ ८, ६, २६^f,
-शताऽ-शता आपश्रौ २२, ५,
१०, बौश्रौ १८, २५ : ४, हिश्रौ

१७, २, ३८, -शतौ द्राश्रौ ११,
१, ३, लाश्रौ ४, १, ३

त्रयस्त्रिंश- -श आश्रौ
४, १२, १, ११, ३, ८, आपश्रौ,
वैश्रौ १८, २१ २४^f, -शम्
शाश्रौ १०, १२, २ × ×, काश्रौ,
-शस्य बौश्रौ २३, १३ : ११,
लाश्रौ ६, २, २०, निसू ४, ५
१५, -शा शाश्रौ ४, १०, ३^f,
आपश्रौ १६, १, ३^f, २१, २५,
३, बौश्रौ १६, ३६ १९, हिश्रौ
११, १, ६, हिष्ट २, १७, ४,
-शत् बौश्रौ १६, ३४ . ५, १५,
३५ ३, ६, -शान् निसू ४,
१३ : ९, -शानि आश्रौ १२, ४,
२३, आपश्रौ २३, १०, ९, हिश्रौ
१८, ४, ६, लाश्रौ ९, १२,
१६, निसू ८, १२ २३, -शाय
शाश्रौ ९, २७, १^f, -शे आश्रौ
७, ५, ११, १२, ७, १२, आपश्रौ,
-शेन आश्रौ १२, ३, ३, शाश्रौ,
-शेभ्य हिष्ट १, २२, १४, -शौ
बौश्रौ १८, ३६ . १४, २६, ३३
३, लाश्रौ १०, १०, ८.

त्रयस्त्रिंश- -शीम्
आश्रौ १२, ७, १४

त्रयस्त्रिंशद्-द्वात्रिंश^d-
-शौ निसू ६, १२ . १०

त्रयस्त्रिंश-प्रभृति- -ति
बौश्रौ १६, १४ १९

त्रयस्त्रिंश-स्तोम- -म
या ७, ११, -मम् शाश्रौ १०,
७, १, -मान् बौश्रौ १७, २२
१६

त्रयस्त्रिंश(स-आ)-
रम्भण^e- -ण शाश्रौ १३, १६,
४, ५, हिश्रौ, -णा आपश्रौ २३,
१०, ५, हिश्रौ १८, ४, १^f

त्रयस्त्रिंश(श-अ)-
यन- -ने निसू ५, ४ २२
त्रयस्त्रिंशत्-क^g- -कौ
अप ४ : १५

त्रयस्त्रिंशत्-कपाल^h-
-लम् बौश्रौ १३, ३५ : ८, २३,
४ ११

त्रयस्त्रिंशच्-चिति- -तौ
बौश्रौ २३, १५ ८

त्रयस्त्रिंशच्-छ(<श)त-
-तम निघ ४, ३.

त्रयस्त्रिंशत्-प्रभृति-
-तीन् लाश्रौ १०, ८, २

त्रयस्त्रिंशत्-सप्तशत-
-तम् अत्र ८, १० (१)

त्रयस्त्रिंशद्-अक्ष(र>)
रा- -रा निसू ४, ८ : ३०

त्रयस्त्रिंशद्-अरत्ति- -त्तेः
आपश्रौ ७, २, १२, भाश्रौ ७,
२, ६, हिश्रौ ४, १, २८

त्रयस्त्रिंशद्-रात्र- -त्रः
शाश्रौ १३, १७, १, बौश्रौ १६,
३५ १०, -त्रम् हिश्रौ १८, २,
१०, -त्रा. आपश्रौ २३, ५, ५,

-त्राणि आश्रौ ११, ४, १, काश्रौ
२४, २, २४, -त्रात् निसू ९,
१३ १, -त्रे लाश्रौ १०, ३,
२१, निसू ९, १३ : ३८

त्रयस्त्रिंशि (न>)नीⁱ-
-नी वाधुश्रौ ४, १७ . ३, ५,

a) वैप २, ३ खं द्र । b) विप । बस । c) वैप १ द्र । d) पासे वैप १ १३०४ k द्र ।

e) = त्रयस्त्रिंशदस्थि-परिमाण- । तद्धितस्य लुक् । f) शोष ४३९ पृ ष् टि द्र । g) पाठ. १ °शम् इति शोषः
[तु. आपश्रौ १६, ३३५ हिश्रौ ११, ८, ३] । h) पाठ १ °श-द्वा° इति शोष । i) ण इति पाठ १ यनि.
शोष [तु आपश्रौ] । j) विप. । परिमाणे कन् प्र । k) तद्धितार्थे द्विस । l) ७९५ पृ f टि द्र ।

९, १४, १८, २१, -न्य वाधूश्रौ
४, ९७^३ ३

त्रयोदशन्- -श आश्रौ ८,
८, ८, ९, १०, २, शाश्रौ या ३,
१९, ८, २१, -शऽ-श काश्रौ
२०, ६, ६, -शभि. काश्रौ २६,
३, ९, आपश्रौ, -शभ्य आपश्रौ
१४, ३, ८, हिश्रौ ९, ७, ३८, १७,
६, ४२, -शसु आपश्रौ १२,
२७, ३, हिश्रौ ८, ८, १, -शानाम्
आश्रौ ९, ९, १३, शाश्रौ १५, ३,
१०.

त्रयोदश- -श आपश्रौ
१६, १८, ८, वाधूश्रौ, -शम्
शाश्रौ ९, २०, १०, काश्रौ,
-शस्य बौश्रौ २१, ६ : ११,
-शा. याशि २, ९४, -शे बौश्रौ
१२, २ ४x४, लाश्रौ, -शेन
आपश्रौ २१, १, १३ आपश्रु ११,
१८, हिश्रु ४, १७

त्रयोदशी^३- पाग
४, ३, १६, -शी शाश्रौ १८, १४,
६, आपश्रौ, -शीम् आपश्रौ ५,
२४, ३, भाश्रौ, -श्या शाश्रौ ९,
८, ३, अश्र ५, २४, -श्याम्
बौश्रौ २६, २ १५, माश्रौ

त्रायोदश-
पा ४, ३, १६

त्रयोदशय(शी-
अन्त्य >)न्त्या- -न्त्ये ऋअ
२, १, ५२

त्रयोदश्या(शी-
आ)दि-चतुर्- -तुर् अप ३८,
३, ३

त्रयोदश-चतुर्दश-

-शौ आपश्रौ १२, २७, ५, वैश्रौ
१५, ३४. ८

त्रयोदश-त्रयोविश-

-शयो लाश्रौ ६, ७, ५
त्रयोदश-क^b- -कम् अश्र
५, १४, २३, २५, ८, १०

त्रयोदश-कपाल- -लम्
काश्रौ २५, ४, ३५, आपश्रौ ९,
१४, ७, वैश्रौ २०, ३० १, हिश्रौ
१५, ४, १४, अश्राय ५, ५१,
-ले माश्रौ ५, १, १, ४९, ६, ४१

त्रयोदश-गव^c- -वम्
आमिगु ३, ८, २ ६, बौपि १,
१५ : १६

त्रयोदश-प(दु>)दा^d-

-दे उनिस् ६ २७
त्रयोदश-पुरुष^e- -ष
वाधूश्रौ ४, ११३ २, ३

त्रयोदश-रात्र^f- -त्रः
बौश्रौ १६, ३२ १३, हिश्रौ १७,
५, ३५, -त्रम् आपश्रौ ५, २३,
३, -त्रे काश्रौ २४, १, १४,
लाश्रौ १०, ३, १२, निस् ९, १०
१४, १०, ३ १५, -त्रौ आश्रौ
११, २, १, आपश्रौ २३, १, ७,
हिश्रौ १८, १, ११

त्रयोदशरात्रा(त्र-आ)

दि- -दिषु मीस् ८, २, २७

त्रयोदश(श-ऋ)र्च- -र्च
शुअ ३, २४४, -र्चम् शुअ २,
३२१, ३९२, अश्र ३, १०,
-र्चभ्यः अप ४६, १०, १०,
अश्र १९, २३.

त्रयोदश-समाप्ति-

-प्याम् मैअ २५
त्रयोदश-सूक्त^d- -क्तौ
अप २. १४

त्रयोदशा(श-अ)क्षर^d-
-रम् वाधूश्रौ ४, १०० ९, २२,
-शै ऋप्रा १६, ५२

त्रयोदशा(श-आ)गम-
-मात् शाश्रौ ९, १, १०

त्रयोदशा(श-अ)रत्नि-
-त्नि. आश्रौ २०, २, ७, हिश्रौ
१४, १, २०, -त्निम् माश्रौ २०, १,
७, वाश्रौ ३, ४, १, १४, अप २०,
१, ३, -न्त्यौ बौश्रौ १५, २ ४.

त्रयोदशा(श-अ)ह- -हम्
आज्यो १२, १, निस् ५, १२
१०, -हम्ऽ-हम् निस् ५,
१२ ४०

त्रयोदशि(क>)का^e-
-का आपश्रु ५, ४, हिश्रु २, १२,
-के बौश्रु १ ४

त्रयोदशिन- -शिनोः
ऋअ १, ७, ७, शुअ ५, ४८

त्रयो-विशति- -ति आश्रौ
१२, ५, १४, शाश्रौ, या २, १८,
-तिम् आश्रौ ८, २, २३, हिश्रौ
१६, १, ११^h

त्रयोर्विशⁱ- -श बौश्रौ
१०, ४२ ७, -शम् मागु १,
४, १४, आज्यो ९, ७

त्रयोर्विशकⁱ- -कम् अश्र
११, ६

त्रयोर्विशति(क>)का^k-
-कया अश्र १४, १

a) वैप १ द्र । b) विप । परिमाणे कम् प्र । c) विप । बस उप समासान्त अच् प्र उस (पा ५,
४, ७५) । d) विप । बस । e) विप । तद्धितार्थे द्विस । उत्तरेण संधिरार्थे । f) = सत्र-विशेष- । g) विप.
प्रमाणाथे प्र । h) शोधः पृ ७९४ a द्र । i) वैप १, १०३३ k द्र । j) पृ ७९४ f द्र ।
k) पृ ७९४ g द्र ।

त्रयोविंशति-दारु^a- -रुः
 आपश्रौ ७, ७, ७, ८, १, १४,
 -रुम् भाश्रौ ७, ६, ४, ८, १, १५.
 त्रयोविंशति-दी(क्षा>)
 क्ष- -क्ष काश्रौ २१, १, १
 त्रयोविंशति-रात्र- -त्रम्
 आश्रौ ११, ३, ५, काश्रौ २४, २,
 १२, आपश्रौ २३, ३, १२, हिश्रौ
 १८, १, २८
 त्रयो(यग्-अ)शीति- -तिम्
 बौश्रौ १५, ६ २२, वाघूश्रौ ३,
 ८३ ३
 त्रिंशत्^b- पा ५, १, ५९,
 -शत् शाश्रौ ४, १५, १४×४,
 आपश्रौ, -शत् बौश्रौ २६,
 २७ ३, निस् ४, ९ २८,
 -शत्म् शाश्रौ १४, ९, ५, काश्रौ,
 आपश्रौ २१, १, १४^{२०}, हिश्रौ
 १६, १, ११^०, या ५, ११,
 -शत्म्-शत्म् शाश्रौ १४,
 ३२, ९, -शता आश्रौ ५, १८,
 ५, शाश्रौ, -शति आश्रौ ८,
 ११, ३१, शाश्रौ, -शते तैत्रा
 १६, २४, -शक्तिः काश्रु ७, ३७
 त्रिंश- -राम् आपश्रौ २३,
 ९, ८, १४, हिश्रौ १८, ३, १३,
 १६, -शा वैश्रौ १८, १ १०^१,
 -शानि द्राश्रौ ८, १, ११, १४,
 लाश्रौ ४, ५, ११, १४, -शे लाश्रौ
 ९, ५, ४
 त्रिंशी- -शी ऋश्र २,
 ९, ६७
 त्रैश- पा ५, १, ६२.
 त्रिंशक- पा ५, १, २४.
 त्रिंशच्-छ(<श)त- -तानाम्

बौश्रौ १६, २५ ५, ११
 त्रिंशत्-क^d- -का अपं ४
 १२
 त्रिंशत्-कृत्वस्() लाश्रौ १०,
 १२, ८
 त्रिंशत्-तम्- -मम् बौश्रौ
 २६, १६ २
 त्रिंशत्तमी- -मी शाश्रौ
 १८, १४, ६, -मीम् काश्रौ १७,
 ११, ११
 त्रिंशद्-अक्ष(र>)रा^e- -रा
 बौश्रौ १८, ३२ ७, वाघूश्रौ
 ४, ९१ : ५, ९७^२ ४.
 त्रिंशद्-अन्त^f- -न्तानि
 काश्रौ २४, ३, ३२
 त्रिंशद्-रात्र- -त्र बौश्रौ १६,
 ३५ २, -त्रम् आश्रौ ११, ३,
 ११, आपश्रौ २३, ४, १३, हिश्रौ
 १८, २, ७, -त्रात् आमिष्ट २,
 ७, ९ : ३५, भाग ३, २० ४,
 -त्रे बौश्रौ २३, १३ : १६.
 त्रिंशद्वात्रा (त्र-अ)न्त-
 -न्तानि लाश्रौ १०, १, १०.
 त्रिंशद्-वत् काश्रौ १, २, १७
 त्रिंशद्-वर्ग- -र्गो बौश्रौ २६,
 १८ ४, -र्गो बौश्रौ २६, १८ ३
 त्रिंशद्-वर्ष- -र्षः बौश्रौ २६,
 ६ १२
 त्रिंशन् निमित्त^g- -त्ता अपं
 ४ ५
 त्रिंशन्-मान^h- -नम् बौश्रौ
 २, २० १२, भाश्रौ, -ने आपश्रौ
 ५, २१, ९; हिश्रौ ६, ५, १८
 त्रिंशन्मान-चत्वारिंश-
 न्मान- -ने बौश्रौ २, २० १८,

भाश्रौ ५, १६, १८
 त्रिंशन्- -शिनः लाश्रौ १०,
 १०, ६, -शिनौ लाश्रौ १०,
 १०, ९^१
 त्रिंशि-मास- -स आपश्रौ
 २०, ७, ४, हिश्रौ १४, २, १९
 त्रि-शक्तिⁱ- -ते अपं ४ ३१^६.
 त्रि-क, का^j- -कः मीसू १०,
 ५, १०, -कम् शाश्रौ १०, १२,
 ३, लाश्रौ, -काः काश्रु ७, ३,
 ४, -काणि लाश्रौ ८, ५,
 २४, निस् ६, १०. ३, -के
 लाश्रौ ६, ५, १०, ६, १२;
 निस् ४, ९ २८, -केण जुस्
 १, ७ १२, ११. ७, द्राश्रौ
 ९, ४, ७, लाश्रौ ३, ८, १, निस्
 ७, ८ २४, कप्र २, १, १०;
 -कौ अश्र १५, ९, अपं ५ : १९
 त्रिक-चतुष्क- -ष्कयो आपश्रु
 ५, २, बौश्रु १ ३६, हिश्रु २, ९
 त्रिक-पञ्चिन्- -ञ्चिनी लाश्रौ
 ८, ५, २५
 त्रिक-प्रभृति- -तयः लाश्रौ
 ६, ५, २०, निस् १, ८. १३,
 ९. ८, १५
 त्रिक-भाव- -वात् पावा ५,
 १, ५५
 त्रिक-विष्टाव^k- -व लाश्रौ ६,
 ७, १६.
 त्रिक-स्तोम- -म निस् ४,
 ८. २७.
 त्रि-ककुद्^l- पा ५, ४, १४७;
 -कुत् आपश्रौ २२, २३, १७^३;
 हिश्रौ १७, ८, ३२^३; -कुदः
 शाश्रौ १६, २९, १२.

a) विप । बस. । b) वैप १ द्र. । c) शोधः पृ ४३९ W द्र । d) परिमाणे कन् प्र. । e) विप. ।
 बस. उप. = मान. । f) = त्रिंशत्. । वैप १, १५११ h द्र., दशति- इति ततो विशेष । g) ०^१ इति पाठः ।
 अनि शोध. (तु संकर्तु टि) । h) स्वार्थे वा परिमाणे वा कन् प्र । i) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।

त्रैककुद^६- -दम् आपश्रौ
१०,७,२, बौश्रौ, -देन आपश्रौ
१०,७,१, बौश्रौ १७, ४२ : ४,
भाश्रौ.

त्रैककुदा(द-आ)ञन-
-नेन काश्रौ ७, २, ३१

त्रैककुदाञन-दैव-
त- -तम् अत्र ४, ९

त्रिककुद्-दशाह- -हस्य
वैताश्रौ ४२, ५

त्रिककुम्^७- -कुप् आश्रौ १०,
३, २१, काश्रौ २३, ५, १९, शैशि
२६७^८, -कुम्. निसू ९, ७.
२५

त्रैककुम्^८- -भम् जुसू १,
३ २०, जैश्रौका २५, द्राश्रौ
२, २, ४७, लाश्रौ १, ६, ४४, निसू
४, १३ : १, ६, ८ : २०, ९, १ .
७, -भस्य माश्रौ २, १, १, ३८^९,
लाश्रौ ७, ५, १८, निसू ४, ७ :
१९, माय १, ११, ८^९, -भानि,
-मे निसू ९, ५. २७

त्रैककुम्-वैखानस- -नसे
लाश्रौ ७, ९, १३

त्रि-क्ण्टक^९- (>त्रैक^९- पा)
पाग ४, ३, १५४

त्रि-कद्रुक^{१०}- -का. आश्रौ १०,
३, १३, काश्रौ, -काणाम् निसू
१०, १० २२, -कान् द्राश्रौ ८,
४, ७, लाश्रौ, -^{११}केमि आपश्रौ
१७, २१, ८, हिश्रौ १२, ६, २६,
अत्र १८, २, -केभ्य काश्रौ
२३, ५, १७, द्राश्रौ १, ४, २७,
लाश्रौ १, ४, २२, -केषु आश्रौ

६, २, ६×४, शाश्रौ, -कै आश्रौ
१२, ६, २१, काश्रौ २४, ५, ५, ७,
१६.

त्रैकद्रुक- -कः निसू ९,
१३ ६, ३०

त्रिकद्रुक-क्लृप्त- -सम् निसू
१०, १० १९

त्रिकद्रुक-व्यह- -ह निसू ५,
११ : २०, -हम् निसू ५, ११
१२

त्रिकद्रुक-द्वादशाह- -हाः
जुसू २, १६ १

त्रिकद्रुक-पञ्चाह- -हः निसू
५, ११ : १७

त्रिकद्रुकी (य>)या^{१२}- -या
शाश्रौ १०, १३, ७, -यासु ऋप्रा
१७, ४५

त्रि-कपाल- -लेषु अप ३६,
२५, १

त्रि-कपाल- -ल काश्रौ १५,
२, १७, आपश्रौ २२, १८, १८,

हिश्रौ १७, ७, १०, -लम् आपश्रौ
१८, १०, १७, २०, १९, बौश्रौ

त्रि-कर(ण>)णी- -णी काशु
२, १४, २०, आपशु २, ३, बौशु
१ : ३३, हिशु १, २४, -ण्या

आपशु ५, ११, हिशु २, २१

त्रि-कर्ण-समास- -सः काशु
४, ९

त्रि-कला- -ला ऋत २, ३, ९

त्रि-कारण- -णम् नाशि २, ६, १

त्रि-काल- पाग ५, ४, २३^{१३}
त्रैकाल्य- पा ५, ४, २३^{१४},
-व्यम् शुप्रा १, १५

त्रिकाल-स्नान->^{१५}स्ना-

निन्- -नी वैध ३, ५, ७

त्रि-किण^१->^{१६}किणिन्-

-णिनम् बौश्रौ २४, १३ : ६.

त्रिक्रीय- पा ४, २, ९१.

त्रि-कृष्णलो(ल-ऊ)न- -ने विध
९, ७

त्रि-कोण^१- -णम् वैश्रौ १, ३ :
९, वैश्र ४, १३ ८, आम्रिगृ २,
५, १ १८, ७ ८, जैगृ २,
९ : ११, अप २५, १, ६, ११,

शंघ १४१

त्रिकोण-क- -कम् अप २५,
१, ३

त्रि क्रम- -मः उसू ४, १८;
-मम् कौशि ४९, -मे कौशि ५०.

त्रिक्रम-कारण- -णे ऋप्रा
११, १७

त्रि क्रोश^{१५}- -शे आपश्रौ २२, २,
२०, ४, ५, हिश्रौ १७, २, ७

त्रि-ग(घा>)घ^१- -घम् आपश्रौ
१९, २६, २; बौश्रौ १३, ३७ :
३, २६, ६ : १८, हिश्रौ २२,
६, ७^{१६}

त्रि-गम(न>)ना^१- -ना या ७,
१२

त्रि-गर्त^{१७}- पाग ४, १, १७६, ५,
३, ११७, -तान् अप ५६, १, ८.

त्रैगर्त- पा ५, ३, ११७;
-र्ताः अप ५१, ४, १, ५३,
३, १, -र्ते पा ४, १, १११.

त्रैगर्ती- पा ४, १, १७६

त्रैगर्तीयन->^{१८}नक- पा)
पाग ४, २, ८०

- a) वैप १ द्र । b) वैप १ निर्दिष्टाना समावेश द्र । c) = साम-विशेष- । d) विप (आञन-) । e) = वृक्ष-विशेष- ।
f) = अहीन- (तु आश्रौ प्रभृ) । शिष्टं वैप १ द्र । g) = ऋन्- । मत्वर्थे छ > ईयः प्र उंसं (पा ५, २, ५९) ।
h) तु पागम । i) कस. उप = ज्याघाताङ्क- प्रभृ [तु पदसूची] । j) विप । बस । k) समाहारे द्विस उप.
= २कोश- । l) णवम् इति पाठ ? यनि शोच [तु आपश्रौ] । m) = देश-विशेष-, तद्वासिन्- च । बस ।

त्रि-गायत्र्य(त्री-अ)नुष्टुब(प्-
अ)न्त^१ - न्तम् ऋत्र २, ८, ३३
त्रि-गायत्र्य(त्री-अ)न्त^२ - न्तम्
ऋत्र २, ४, ५५
त्रि-गुण,णा^० - ण काश्रौ २०,
४, १५, काश्रु ५, २, बौश्रु २१
१३, -णम् आपश्रौ १०, २४, ७,
वाघ, या १४, ४, -णया भाश्रौ
७, ९, २, -णा काश्रौ ६, ३, १३,
आपश्रौ ७, ११, २, भाश्रौ ७, ८,
१८, माश्रौ १, ८, २, २३, विध
६, १२, -गानि विध २०, ८,
अत्र १६, ८, अत्र ५ : २६,
चव्यू २ १९ -णाम् काठश्रौ
५२, बौश्रौ, -णायै बौश्रौ ४,
५. १८, -णासु बौश्रौ ११, ३
३२, -णे शाश्रौ १७, २, ३,
जैय १, १८. ३, विध ९, १३,
-णेन अप १८^२, १, ५
त्रिगुणा रज्जु^१ - ज्जु माश्रौ
१, १, ३, ६
त्रिगुणी^२ कृ^३ > णी-कृत-
-न्तम् आमिगृ २, ४, ९. १०
त्रिगुणी कृत्य आमिगृ २,
४, ९ १४
त्रिगुणे(रा-ई)श्वर^० - राणि
वैगृ ५, २. २३
त्रि ग्रहणा(रा-आ)नर्थक्य-
-क्यम् पावा ७, ४, ७५
त्रिच- प्रम् त्रि-> नृच- द्र
त्रि-चक्र^० - पावाग ६, २, १९९
त्रि-चतुर्-युष्मद्-अस्मद्-ग्रहण-
-णेषु पावा ७, २, ९८
त्रि-चतुर्-युष्मद् अस्मत्-त्यदा-

दि-विकार- -रेषु पावा ६, ४,
१३०
त्रि-चतुर- पावा ५, ४, ७७
१ त्रि-चतुर्थ^१ - -र्थम् वाश्रौ १, ३,
१, ३२
२ त्रि-चतुर्थ^२ - -र्थयो शैशि २६०
त्रि-चतु-शराव- -वान् वैश्रौ
१७, १२ ५
त्रि-चत्वारिंशत्- -शत् अप ४७,
३, ६
त्रि-चित्^१ - -चितम् काश्रौ १७,
१, २२
त्रि चितिक^० - -कम् वाश्रौ २,
१, ४, १७
त्रि-चित्तीक^० - -कम् आपश्रौ
१६, १५, ३, वैश्रौ १८, १२ २३,
हिश्रौ ११, ५, ३९, १२, ७, २६
त्रि-चैल^० - -ल कौसू ८२, ४३
त्रि-च्छदिस^० - -दि हिश्रौ २२,
६, ७
त्रिच्छदिष्-क- -कम् बौश्रौ
२६, ६ : १९
त्रि-जगत्या(ती-आ)दि^१ - -दि
ऋत्र २, ६, ६१
त्रि-जाग(त>)ता^० - -ता शुअ
५, ४७, ऋअ १, ७, ६
त्रि-ज्योतिस^१ - -तिषम् शव
१२६. ५०
त्रि-ण(<न)व,वा^० - -व आश्रौ
४, १२, १, शाश्रौ १४, ३३, ५,
१६, २३, १२, आपश्रौ २२, ६,
१९^१, २३, १८^२, बौश्रौ, या ७,
११, -वम् शाश्रौ १३, १६, ५^२,
१६, २३, ११, आपश्रौ, -वा

बौश्रौ १६, ३६ : १९, अप ५२
१२, ४, -वान् निसू ४, १३ : ९;
-वानि शाश्रौ १५, ६, ३, -वाभिः
आपश्रौ १६, २०, १०, हिश्रौ
११, ६, ५९, -वय गाश्रौ ९,
२७, १५, -वे आश्रौ ७, ५, ११;
१२, ७, १२, आपश्रौ, -वेन
आश्रौ १२, ३, ३, ४, २३, आपश्रौ;
हिश्रौ १७, २, ६३^१, -वौ
आपश्रौ १६, ३३, ५^२, बौश्रौ
१६, ३१ १९, वैश्रौ १८, २१ :
२३^१, हिश्रौ ११, ८, ३^२^१
त्रिगुण त्रयस्त्रिंश- -शयोः
निसू ८, ४ १७, -शाश्र्याम्
निसू १०, ७ : १८, -शे शाश्रौ
१६, १५, १२, निसू ६, १२ : ११;
-शौ काश्रौ २१, २, ११, बौश्रौ.
१ त्रिणव-स्तोम- -मः या ७,
११
२ त्रिणव-स्तोम^० - -मम्
शाश्रौ १०, ६, १.
त्रि-णा(<ना)चिकेत^१ - -त अप
४४, २, ४, वाघ ३, १९, शंष
१९९, २००^६, आपध २, १७,
२२, बौध २, ८, २, विध ८३,
२, गौध १५, २८.
त्रि णामन्- त्रि-नामन्- द्र.
त्रि-णि(<नि)घन^० - -न जुसू
३, १० १४, -नम् लाश्रौ ६,
४, ५, ७, ४, १, क्षुसू ३, ५ : १३;
१२ : १०, निसू ८, १. १७;
१८, २१, २८, ३४, -नस्य लाश्रौ
७, ९. ८, जुसू ३, १० : १५;
-नानि निसू ५, १ : १४; -ने

a) कस > ङस > बस । b) कस > बस । c) विप । बस । d) विप । बस. पूष पुंवद्वावा-
भावश्छान्दस । e) वैष १ द्र । f) त्रिरावृत्तश्चतुर्थो भागो यत्रेति कृत्वा बस. वा. क्वि. । g) वैष २, ३खं.
द्र । h) = मस्त- । बस । i) सप्र ंव. < > ष्वेन इति पाठे । j) वैष ३ द्र. । k) ंवा. इति पाठः ३
यनि. शोध (तु पमा [१, २ पृ ३४०]) ।

लाश्रौ ७,४,१, ८,११
 त्रिणिधना(न-अ)नुग्रह-
 -हाथ निसू ६, १० १८, १०,
 १२. २३
 त्रित^०- -तः बौश्रौ २४, २६ १३,
 हिश्रौ, या ४, ६, ९, २५^क,
 -तम् वृदे ३, १३२, या ४, ६,
 -तस्य वृदे ३, १३६, १३७,
 -ताय काश्रौ २, ५, २६, बौश्रौ,
 -ते अश्र ६, ११३^क
 श्रैत^०- -तम् लाश्रौ ७, ३, ३
 त्रि-तय- पा ५, २, ४३
 त्रितय-यु(क>)का- -का
 उनिसू ३ १८
 त्रि-ता- -ता या ७, १२^क
 त्रि-त्रिष्टुब्-अन्त^०- -न्तम् ऋअ
 २, १, १६८, ६, ७१, ८, १०१,
 १०, ११
 त्रि-त्रिष्टुब्-आदि^०- -दि ऋअ
 २, ६, ६०, १०, ४४
 त्रि-दक्षि(गा>)ण^०- -ण
 काश्रौ १५, ३, १६
 त्रिदण्ड^०- -ण्डम् आमिण्ट ३,
 १०, ४. १४, वैध २, ६, २, ८, १,
 ३, ८, २, -ण्डे वैध ३, ६, ९
 त्रिदण्ड-कमण्डलु-काषायधा-
 तुवस्त्रग्रहणवेष-धारिन्^१-
 -रिण वैध १, ९, ३
 त्रिदण्डा(एड-आ)दि- -दि
 वैध ३, ८, ४
 त्रिदण्डिन्- -ण्डी बौध २,

१०, ४०
 त्रि-दश^०- -शा शव १५०
 त्रि-दिव^०- -वम् बौश्रौ १७, ४६
 ५, सु, -वात् अप ४२, २, १३,
 -वे सु ३०, ५ ७
 त्रि-द्वये(द्वि-ए)क- -के वेज्यो
 १४, -केषु शुप्रा २, ३
 त्रि-धा ऋआपश्रौ ५, १७, ४^ह, १७,
 १८, १, वाश्रौ, हिश्रौ ३, ४,
 ४८^क, या १२, १९, १३,
 ७^क, शुप्रा २, ४४^क, त्रिधा-
 ऽत्रिधा वैण्ट १, ७ ९, बौश्र ७
 १३
 त्रिधा कृत- -तम् वैध १, ६, ४
 श्रि-धातु^०- -तु आश्रौ ७, ३,
 १९^क, शाश्रौ, -तु या १४, २^क,
 -तुम् आपश्रौ १९, २१, २२,
 २७, १५, बौश्रौ, -तूनि शैशि
 २४६^क, -तौ बौश्रौ २६, ६ १९
 त्रैधात(व>)वी^१- -वी शाश्रौ
 १५, १६, २, काश्रौ १३, ४, ७,
 १५, ७, २९, १०, २४
 त्रैधातव्य(वी-अ)न्त- -न्ते
 काश्रौ २१, १, १७
 त्रैधातवीय, या^०- -यया
 आपश्रौ २०, २३, ५, २४, १६,
 १७, बौश्रौ, -या आपश्रौ २०,
 ८, ४^क, २२, १५, २, वाधूश्रौ,
 -याम् आपश्रौ १४, २३, २,
 -येन बौश्रौ १३, ४१ : १, बौध
 ३, १, ९

त्रैधात(व्य>)व्या^०- -व्यया
 माश्रौ ५, २, ५, १, -व्या वाश्रौ
 ३, ४, १, ४६^क
 २त्रि-धातु^१- -तवे बौण्ट ३, ९, ५,
 आमिण्ट १, २, २ २२, भाण्ट ३,
 १०. ७, हिण्ट २, १९, ६
 त्रि-नक्षत्र^३- -त्रा आज्यो ९,
 ११
 त्रि-नयन^३-> ^०न-मुख-नि सु-
 (त>)ता- -ताम् पाशि ३२
 त्रि-नव^०- -वम् माश्रौ २, २, ३,
 १३^प
 ऋत्रि-नाक^०- -के अश्र ९, ४;
 अप्रा ३, १, ७
 ऋत्रि-नाभि^०- -ऋभि अप्रा ३,
 १, ७, या ४, २७
 त्रि-ना, णा^१मन्^०- -०मन् तैप्रा
 ७, २, अप्रा ३, १, ७, -मानम्
 अश्र ६, ७४
 त्रिनाम-देवता-> ^०व-
 (त्य>)त्या- -त्या अश्र ६, ७४.
 त्रि-निष्क- , त्रिनैष्किक- पा ५,
 १, ३०
 त्रि-नेत्र^३- -त्रः अप ६९, २, ३
 त्रि-पक्ष^१- -क्षे शाण्ट ४, ३, २,
 आमिण्ट ३, ३, २. १४, १२, १९
 त्रिपक्ष-वत् आमिण्ट ३, ३,
 २ ३०
 त्रिपक्ष-श्राद्ध- -द्धम् आमिण्ट
 ३, ३, १ ४, २ ३०, -द्धे
 आमिण्ट ३, ३, २ १४

- a) वैप १ द्र । b) = सामन्- । c) कस > बस । d) विप । बस उप = २दक्षिणा- ।
 e) समाहारे द्विस । f) विप । द्वस > उस । काषाय-वातुना (गैरिकेण) रक्ताना वस्त्राणा ग्रहणं यत्र तथाभूत
 केषमिति भाव (वैतु ८ ग्रहण- शब्दमनभिप्रयञ्जिति) । g) = देव- । बस. समासान्तषु डच् प्र (पा ५, ४, ७३) ।
 h) पाभे वैप १, १५१४ b द्र । i) पाभे वैप १, १५१४ g द्र । j) = इष्टि-विशेष- । k) सपा. ०वीया <>
 ०व्या इति पाभे । l) व्यप । व्यु १ । m) विप । बस । n) = [त्रिनेत्र-] शिव- । o) विप । तद्धितार्थे
 द्विस प्रमाणे प्र लुक् । p) सप्र वैश्रौ १४, १० : ५ अष्टादश इति, आपश्रौ ११, ९, ७ सप्तविंशति. इति च पाभे ।
 q) तैप्रा पाठः । r) मलो. कस वा समाहारे द्विस वा ।

त्रि-पञ्च^३-क^३- -क ऋअ ३,
२३, २५, -का. ऋप्रा १६, १८
त्रि-पञ्च-सूक्त^०- -क्तः ऋअ ३,
२०
त्रि पञ्चाशत्- -शत् अअ १२, ४
त्रि-पद्^३- -पद् अअ १८, ४
त्रिपदा- -दा शाश्रौ ७, २७,
१, निसू १, २ १, ६, ४ २६,
१२ २६, ८, ६ ४४, विध
५५, १५, ऋअ १, ४-५, १, शुअ
५, १४ २३, अअ १, २
१७, २६×४, उनिसू १ २१,
५ १८, -दा अअ २, ११,
१०, ५, १५, ५, उनिसू ६ २२,
७ २८, -दानाम् निसू १, ७
५, -दाम् या ७, १२^३, -दायाम्
वाध २५, ९, -दासु ऋप्रा १८,
४६, -दे अअ ९, ६
त्रिपदा-प्रभृति- -तीनाम्
निसू १, ७ ३
त्रिपदी- पाग ५, ४, १३९,
-दी बौश्रौ १४, १४ ३१,
आय १, ७, १९^३, कौश्र १, ८,
२८^३, शाग १, १४, ६^३, -द्या
आश्रौ ८, २, १४^३
१त्रि-पद^०-
त्रैपद, दा^३- -दम् बौश्रौ
१८, २० १९, जुसू ३, ६ ४,
-दा वृदे ४, ८, -दे शाश्रौ १४,
४१, ११
त्रिपद-कम- -म कौशि
५०

त्रिपद-परिणाह^३- -हानि
बौशु ४ : २४
त्रिपद प्रभृति- -ति तैप्रा १,
६१^२
त्रिपद-मात्र- -त्रे आश्रौ ४,
४, २
त्रिपदा(द-आ)द्या(दि-आ)
वर्तमान- -ने शप्रा ४, १६८
२त्रि-पद, दा^३- -द आश्रौ ५,
९, ११, काश्रौ १६, ८, १६, कप्र
३, ९, ५, आपशु ६, २, हिशु २,
२७, -दम् शध ३१०, काशु
७, ३४, -दया काठश्रौ ९२,
-दा काशु २, ८, -देन बौश्रौ
२३, १९ : ८
त्रि प(व >)द्या^३- -द्याया
वेज्यो १४
त्रि-पर्ण^३- -र्णा वैश्रौ ११, ११
१
त्रि-पर्याय^३- -यः काश्रौ ९, ५,
२, आपश्रौ १२, १२, १०, -यम्
काश्रौ ७, ४, ७, -यान् काश्रौ
१०, १, ३, ३, १५
त्रि-पर्वन्^३- -र्वणे अप ३६, ९, २
त्रिपर्वा- -र्वया आपश्रौ
२१, १८, ८^३, हिश्रौ १६, ६, १५
त्रि-प(र्व >)र्वी^३- -र्वी शध ५३
त्रि-पल^३- -लम् आमिगृ २, ७,
७. ११
त्रि-पञ्च^३- -ञ्च काश्रौ १५, १०,
१, बौश्रौ १७, ३२ ७, माश्रौ
५, २, ११, ११, -ञ्चना हिश्रौ

१४, ५, ११; -शोः काश्रौ १९,
३, १०, ६, १४, शुअ २, ४३८
त्रि-पाद्^३- पा ६, २, १९७;
-पात् आमिगृ २, ७, ८ ७^३;
अप ३०, ३, २, ३१, ३, २, अअ;
-षाद अअ २, १९, ५, २४, ६,
१३३, ९, ६(३, ४), -पादम् अप
३१, ४, २, -षादौ अअ ९, ३;
१५, १२.
त्रिपाद्-गायत्र- -त्रम् अअ
२, १७, -त्राणि अअ २, १९
१त्रि-पाद->^०द-मात्र- -त्रम्
वाध १६, १२
२त्रि-पाद, दा^३- -द शैशि ३६;
३७, -दा अअ ४, ३९, -दे
कौसू २६, ३२^३, ३५, २७, ४१, ७
त्रिपाद्-क^०- -कम् कौसू ८३,
३.
त्रि-पुण्ड्र- -ण्ड्रम् शागृ २,
१०, ९
१त्रि-पुरुष^३- -षम् शाश्रौ १६,
२२, २९, पागृ २, ५, ४२, वाध
४, १८, बौध १, ११, १८^३,
विध ५७, ४, गौध ४, ३०
त्रिपुरुषा(ष-अ)वधि- -धिः
वैगृ ६, ४ ३
२त्रि-पुरु(ष >)षा^३- -षाम्
काशु ५, १२
३त्रि-पुरुष^३- -षाः आश्रौ ४,
१, ४
१त्रि-पुष्कर^३- -रे वाध १०,
२३

a) विप । बस । b) पृ ४४३ f टि द्र । c) विप । बस. > बस. । d) पाभे वैप २, ३खं.
त्रीणि तैप्रा ३, ७, ७, ११ टि द्र । e) कस वा समाहारे द्विस वा । f) तस्येदमीय अण् प्र । g) उप-
= प्रमाणविशेष- वा चतुर्थभाग- वा । h) = पौर्णमासी- । i) त्रि पर्वयेत् इति पाठ. ? यनि च उक्तं इति
च शोध (तु हिश्रौ ८ च) । पृ ८२८ कट-शलाका- > -क्या इति नेष्टम् । j) समाहारे द्विस । k) विष ।
तद्धितार्थे द्विस । l) वैप १ द्र । m) पाभे वैप १, १५०७ ८ द्र । n) = शिष्य- इति दारिलः । o) = तिगई
नभा । p) = तीर्थ-विशेष- । द्विस. उप = पुष्करिणी- ।

रत्रि-मुष्क(र>)रा^०- -राम्
लाश्रौ ९, २, ९
त्रि-पूर्व^०- -र्व माशि ५, ८
त्रि-प्रष्ट^०- -ष्टम् गौपि २,
४, ८, साञ्च १, ५२८
त्रि-प्रकृति^०- -तीनि ऋद्रा १६,
८.
त्रि-प्रक्रम- -मे ऋठश्रौ २७
त्रि-प्रगाथा(थ-आ)दि- -दि
ऋद्र २, ७, ५९, ८, २२, ७०
त्रि-प्रगाथा(थ-अ)न्त- -न्तम्
ऋद्र २, ८, ७१
त्रि-प्रतिषेध- -ध पावा ६, १,
१७६.
त्रि-प्रवृत्ति- -ति काश्रौ ९, २,
२२, -तिषु शाश्रौ १, १, १८,
ऋद्रा ११, २१, पा ८, ४, ५०
त्रि-प्रसा(रा>)णा^०- -णा काश्रु
३, ६
१त्रि-प्रवर- -रम् आश्रौ १२
१०, १२, १३.
२त्रि-प्रवर^०- -रा बौश्रौ १.६
त्रि-प्रस्ता(र>)रा^०- -रा
आपशु १०, १३, हिशु ३, ५३
त्रि-प्लक्ष^०-> प्लक्ष (ल अ)-
वहरण^०- -णम् काश्रौ २४, ६,
३६, लाश्रौ १०, १९, ९
१त्रि-फ(ल>)ला^०- -पा, पाग ४,
१, ४, -लाम् याशि १, ३८,
नाशि २, ८, ६
२त्रि-फ(ल>)ला^०- -ला अप
२६, २, १
त्रि-बर्हिस्- -र्हि वाश्रौ २,
२ १, ३, १३: १४, -र्हिष

वाश्रौ ३, १४: ४, ६
त्रि-ब्रह्मन्^०- -ह्य शैशि ३५२
१त्रि-भाग- -गान् बौशु ७ १६
त्रिभाग-तस् () अप २,
३, १
त्रिभागा(ग-आ)दि-प्रवृत्ति-
-त्तौ गौध १६, २६
त्रिभागो(ग-ऊ)न- -न
बौशु १७ ६, -नम् बौशु ३:
१५, -ना. बौश्रौ १९, १ १४,
बौशु १७. ४
२त्रि-भाग^०- -गम् निस् ३, ७
२, अप २३, १०, १, -गा: अप
५२, ३, २
त्रि-भाव- (> त्रैभाव्य-पा)
पाग ५, १, १२४
त्रि-भृष्टि^०- -ष्टि माश्रौ २, ३,
१, १५, -ष्टिभि माश्रौ १, ५,
२, १५^{१६}
त्रि-मणि^०- -णिम् कौशु १, ८,
८, शाशु १, १२, ८
त्रि-मधु^०- -धु अप ४४, २, ४,
शंघ १९९, आपध २, १७, २२,
बौध २, ८, २, गौध १५, २८
त्रि-मधुर^०- -रम् अप ३६, १५,
१, १९, १, ३०, १, -रस्य कौशु
१, २०, ६, -रेण कौशु १, २०,
८, अप ३६, ७, ३, १८, १,
-रै अप ६९, २, ५
त्रिमधुरा(र-अक्त >)क्ता-
-क्ताभि वैशु ४, १४ ५
त्रि-मध्य>)ध्या^०- -ध्या अप
२४, १, ४
त्रि-मात्र^०- -त्र शाश्रौ १, १,

१९, ऋद्रा १३, ५०, १५, ५;
तैप्रा २२, १३, ऋत २, ५, ५,
शौच १, ६२, याशि १, १४, १६,
-त्रम् आश्रौ १, २, १०, ७, ११,
२, उसू १, ११, ऋत २, ४, ९, शैशि
३५१, माशि १३, २, ३, याशि
१, १८, -त्रयो ऋद्रा ३, २७,
-त्राणि माश्रौ ५, १, १, ११,
शुप्रा २, ५०, -त्रात् शैशि ३५३,
-त्रे ऋद्रा १, ६४
१त्रि-मास^०- -स वैशु ५, १४ =
३, -से गौपि २, ६, १८
२त्रि-मास^०- > त्रैमासिक-
-कम् वैशु २, ११ ७
त्रिमासिक^०- -क. अप ५७,
४, ७
त्रि-मूर्ध^०- -पा ५, ४, ११५
त्रि-मूर्धन^०- -पा ६, २, १९७;
-त्रिर्धानम् आश्रौ ४, १३, ७,
शाश्रौ १४, ५७, ११, ऋद्र २,
१, १४६
त्रि-य(त्रि-अ)म्बक^०- -कम् ^३
आश्रु २, ३, ५: २६, ५, ४:
७, ८, १० २३
त्रि-यव^०- -वम् माश्रौ ५, १,
९, ३, काशु ७, २८
त्रि-य(त्रि-अ)ह^०- -ह वाश्रौ ३,
७: २
त्रि-या(त्रि-आ)युष्प^०- -षम् ^६
जैशु १, ११ २४^२, २५^२
त्रि-या(त्रि-आ)लिखि(त>)ता-
-ताम् वैश्रौ १८, १: ७६
त्रि-युक्त- -क्त काश्रौ १५, १,
२०.

a) बस उप = कमल- । b) विप । बस । c) वैप १ द्र । d) समाहारे द्विस । e) = प्रदेश-विशेष- । बस । f) नाप ।
द्विस । g) वैप १, १५१६ p द्र । h) नाप (ऋ १, ९० ६-८ इति मधुशब्दोपेतमन्त्रत्रयाध्यायिन्-) । i) कस
धूप. = तृतीय- । j) विप. । मत्वर्थीयष् ठन् प्र । k) वैप १, १५१५ t द्र । l) = त्र्यम्बक- । m) पाभे वैप १, १५२२ j
द्र. । n) विप. । तद्धितार्थे द्विस. उप = परिमाण- । o) = त्र्यह- । p) = त्र्यादुष- । q) पाभे वैप १, १५१६ b द्र ।

†त्रि युग^a- गम् आपश्चौ १,
५,५, भाश्चौ १,५, १, हिश्चौ १,
२,३३, या ९,२८
त्रि युगा(ग^b-आ)द्विक- -कम्
वैश्वौ १८ १५. १५
त्रि-युज्^c- -युजा आपश्चौ २२,
२,००
त्रि-यून^d- -नम् काश्चौ १, ३,
२१
त्रि-यूप^e- -पः काश्चौ १५,
१०, ६
त्रि-योग^f- -गणाम् वाधूश्चौ ३,
७९ ४
त्रि-योजन^g- -नः अप ६१, १,
२६
त्रि गत्र^h- -त्र. आपश्चौ १४,१९,
८ नौश्चौ १६,१० ५×५, हिश्चौ,
गौध २३, ३५^h, -त्रस्ⁱ
आश्चौ ८, १४, ९ शाश्चौ, शंघ
४६१, आपध १, २६,३, बौध,
-त्रस् आपश्चौ २२, २,५, १४,
४,१५, हिश्चौ, -त्रा निस् ८,५
१, -त्राणाम् लाश्चौ ९,६,१, निस्
३,७ ५, -त्रात् भागृ १, ९ ६,
३,२० ८, गोगृ, -त्राय काठश्चौसं
३१ १५, कागृ ४१ ७, -त्रे
शाश्चौ १६, २०, १७, काश्चौ, सुध
१४, -त्रेण शाश्चौ १६, २१, १,
२२,३०, बौश्चौ १४,२७ ७×५,
वाध, -त्रेषु लाश्चौ ९,११,१३,
निस् ८, ११. २२, -त्रौ बौश्चौ
१८,५१ २३, २६,३३ २१
त्रैरात्रिक- -काणि निस्
७,३-१२

त्रिरात्र-तन्त्र^a- -न्त्रा निस्
८,८ १९
त्रिरात्र-न्याय- -येन निस्
६,८ : ५, ३३
त्रिरात्र-परम^b- -मम् गौध
२३,२८
त्रिरात्र-प्रभृति- -तय निस्
९,८ : १६, -तिषु निस् ७,३
३४, ४०
त्रिरात्र-विध- -ध निस् ६,
८-२२
त्रिरात्र-संमित- -त. काश्चौ
२२,२, ८, आपश्चौ २२, २, ५,
हिश्चौ १७,१,२३
१त्रिरात्रा(त्र-अ)न्त- -न्ते
काश्चौ २५,११,१७
२त्रिरात्रा(त्र-अ)न्त^c.
-न्तानि बौभि ३,७,४
त्रिरात्रा(त्र-आ)सि- -सिम्
निस् ६,८ २
त्रिरात्रा(त्र-अ)भोजन- -नम्
गोगृ ४,५,९
त्रिरात्रा(त्र-अ)वर- -रम्
काश्चौ ४, ११, ३, आपश्चौ १५,
१९, ८, भाश्चौ ११, २०, ४,
आपगृ ९,४, गौध २३,२४
त्रिरात्रि(क>)की- -क्य
निस् ६,८ २२
त्रिरात्री(ण>)णा^d- -णा
आपश्चौ ९,२,३
त्रिरात्रो(त्र-ऊ)न- -नान्
कौसू ६३९,२०
त्रिरात्रो(त्र-उ)पजन^e- -नस्
आश्चौ ११,३,११, ४,८

त्रिरात्रो(त्र-उ)पवाम- -सः
शंघ ४०२, सुध ४३
त्रिरात्रो(त्र-उ)पेप्सिन्- -प्सी
माश्चौ ५,२,५,१
त्रिरात्रो(त्र-उ)पोषित- -तः
आमिगृ २,६, ५ : २६, बौगृ २,
९, २५, गोगृ ४, ८, २०, अप
३१, ५, ५, शंघ ३९६, ४०१,
बौध ४, ७, ४, विव २२, १३,
५५, ६
त्रि-रूप,पा^f- -पम् काश्चौ २०,
१, २७, -पाम् काश्चौ १३, ४,
१४
त्रि-रेखा- -खा नाशि १,६,
८
त्रि-लक्षण- पाग ४,२,६०^g
त्रि-लोक- पावाग ५,१,१२४
त्रिलोकी- -मीम् विध
९९, ६
त्रैलोक्य- पावा ५,१,१२४,
-न्यम् अप ५१,४,३
त्रि-वङ्कर- पावाग ६,२,१९९
त्रि वण- त्रि-वेणी- द्र
त्रि-व(त>)नी^h- -त्या आपश्चौ
१९,२७,१८, बौश्चौ १३, ४२ :
५, हिश्चौ २२,६,२६
त्रिवत्स,त्साⁱ- -त्सः काश्चौ २२,
३,३९, आपश्चौ १८,१०, २२^k;
२२,२,२५, वाश्चौ ३,३,४,२०,
हिश्चौ १७, १, ३८, लाश्चौ ८,३,
९^l, मीस् १०, ३, ६०, -त्सा
आपश्चौ २२, २०, ११, हिश्चौ
१७, ७, २२, -त्साम् अप १,
५०,३, -त्सेन बौश्चौ १८,२१ :

a) उप = काल-विशेष-। b) उप = धुर-। c) विप । उस उप कर्मणि प्र । d) विप ।
तुस उप <√यू[बन्धने]। e) विप । वस । f) विप । तद्धितार्थे द्विस उप = अन्धपरिमाण- ।
g) = याग-। तद्धितार्थे समाहारे च द्विस । h) = व्रत-विशेष-। i) क्वचित् वा क्विवि । j) त्र्यहा^h इति B ।
k) भूतार्थे ख>ईन प्र (पा ५,१,८७) । l) तु पागम । m) = ऋच्-। n) वैप १ द्र ।

२, २६, ३२ १०
 त्रि-वन्धुर^a - रम् वृदे ३, ८६,
 ऋप्रा ७, ३२[†]
 † त्रि-वरुथ^b - थम् भाश्रौ १०,
 २२, ४, हिश्रौ ७, ३, ५६
 त्रि-वर्ग^b - र्गम् जैश्रौका १३०,
 जैगृ २, ८ १६, -र्गा^c द्राश्रौ
 १२, ४, ११, लाश्रौ ४, १२, ८,
 -र्गाणाम्^c आज्यो ९, ३, -र्गौ
 काश्रौ ८, ६, ८, उनिस् ३. १३
 त्रिवर्गं सेवा- वाम् विध
 ५९, ३०
 † त्रि-वर्ण^b -> त्रैवर्णिक->
 °क-भेद-सूचक- -कान् काध
 २७० ५
 † त्रि-वर्ण^o - र्णम् कौगृ ३, ६, ३,
 शागृ ३, ११, ७, -र्णाः ऋप्रा ९,
 ३१, -र्णे अप ६१, १, १५, -र्णे
 अप ३६, १२, १, ६१, १, १५
 त्रिवर्ण-सर्षप- -ये अप ३६,
 १८, १
 † त्रि-वर्ण^o - र्णाय आमिगृ १,
 २, २. २२^b
 त्रैवर्ण- -र्णाः बौश्रौ ४७ २
 † त्रि-वर्ष^b - र्षात् सुध २०
 त्रैवर्षिक¹ - -कम् आश्रौ
 १२, ५, ६, ११
 त्रैवर्षिक¹ - -कम् गौघ
 २२, १५, -कै वैगृ ५, १ : ३
 त्रैवर्षिका(क-अ)धि-
 का(क-अ)ञ- -ञ शंध १४८

त्रैवर्षिका(क-अ)भ्य-
 धिका(क-अ)ञ- -ञ विध
 ५९, ८
 त्रिवर्ष-पूर्व- -र्व आपध १,
 १४, १३, हिध १, ४, ४५
 † त्रि-वर्ष^b - -र्व आश्रौ ९, ४,
 २०, लाश्रौ ८, ३, ११
 † त्रि-वर्ष^b - -र्षाय आमिगृ १,
 २, २ २२, बौगृ ३, ९, ५, भागृ
 ३, १० ७, हिगृ २, १९, ६
 त्रि-वलि^o - -लि आपश्रौ १०,
 ९, १९, बौश्रौ ६, ५ १६, २१,
 ७ २०, -लिम् काश्रौ ७, ३,
 २५¹, भाश्रौ १०, ६, १३, वैश्रौ
 १२, ९ ४, हिश्रौ ७, १, ५२
 त्रिवली-क^o - -कम् बौश्रौ
 २६, ६. १८
 त्रि-विकल्प^o - -ल्प कप्र २, ९,
 १२, -ल्पम् कप्र २, १०, १६
 त्रि-विक्रम^m - -मम् आमिगृ २,
 ५, ७ १०, बौगृ १, ११, ७, वैगृ
 ३, १३ : ४, बौध २, ५, २४, वृदे
 २, ६४
 त्रि-वितस्त^k - -रतम् आपश्रौ
 ७, ४, २, भाश्रौ ७, ३, ४, वैश्रौ
 १०, ३ १०, हिश्रौ ४, १, ४६
 त्रि-विदग्ध- -ग्धम् कौसू २६,
 २७
 त्रि-विद्या- पावा ४, २, ६०
 त्रैविद्य^o - पा ५, ४, २३^p
 त्रैविद्यक^q - -कम् माश्रौ

४, ७, ८, कागृ ४२, १, मागृ १,
 २३, २४, वागृ ६, १४, ७, १६;
 आपध १, १, २८, २, ६, हिध
 १, १, २६, ३९
 त्रैविद्य-वृत्ति- -त्तिम्
 लाश्रौ ८, ६, २९
 त्रैविद्य-वृद्ध- -द्धा वाध
 १, १६, विध ८, ८, -द्धानाम्
 आपध २, २३, १०, विध ५, ३१;
 हिध २, ५, १६३, -द्धेभ्य. बौध
 १ ५ १००, गौध ११, २७,
 -द्धै बौध २, १०, ५७^r
 त्रैविद्य-समवाय- -येषु
 शंध ९
 त्रैविद्य-साधु- -धुभ्यः
 वाध १७, ८७
 त्रि-विध, घा^o - -घ आपश्रौ १६,
 १७, १५, जैगृ, या १४, ३, -घम्
 शाश्रौ १६, २१, १×४, बौश्रौ,
 -घा कप्र १, ३, १, विध २२,
 ८२, वृदे २, ७२, ३, १४, माशि
 १६, ६, याशि १, ७१, -घा.
 अप ३, ३, ७, वैध १, १०, १, या
 ७, १, -घान् अप ६४, १, १,
 ७१, २, ४, -घानि वृदे १, १७,
 ३, ४२, -घेन वृदे ३, १२
 त्रैविध्य-> °ध्य-गत- -तेषु
 बौश्रौ २१, ११ ६, २५, ५ :
 १६
 त्रि विराड्-अन्त^o - -न्तम् ऋअ
 २, ७, ३१

- a) वैप १ द्र । b) समाहारे द्विस । c) कस । d) उप = जाति-वचन- । e) विप । बस ।
 f) उप. = अक्षर- वा रङ्ग- वा । g) = ऋषि-विशेष- । व्यु^h । h) सप्र त्रिवर्णाय <> व्यरूपाय इति पाभे. ।
 i) = सत्र-विशेष- । भावीत्यर्थे ङञ् प्र उप वृद्धिप्रतिषेधश्च । j) विप । तत्रभववीयष् ठक् प्र उभयपदवृद्धिश्च ।
 k) तद्धितार्थे द्विस । l) त्रिब^o इति कासं । m) = विष्णुनामाऽन्यतम- । बस । n) ड प्र उसं (पा ५,
 १, ५७) । o) तद्देदित्यर्थे अण् प्र (पा ४, २, ५९) । p) तु पागम । q) विप वा नाप (व्रत) वा । त्रैविद्याना
 धर्म इत्यर्थे बुञ् प्र [पावा ४, ३, १२६ (तु हरदत्त [आपध], वैतु देवपाल. < त्रि-विद्या- इति)] । यद्वा त्रिविद्य-
 + कर्मणि बुञ् प्र (पा ५, १, १३२) इति विमृश्यम् । r) त्रयीवि^o इति मैसू । s) कस. > बस ।

त्रि-विशाख^a-खे हिश्रौ १४,
५,११
त्रि-विषू(क>)का^b-काम् हिपि
१४ ३, -के हिपि १४.७
त्रि-विष्टप^c- पाठवृ ३, १४५,
-पम् अप १९^३,५, ९, ५५,५,
३, शंघ २८४
†त्रि-विष्टपि^d आपश्रौ ५,९,११,
वाश्रौ १,४,२,७, हिश्रौ ३,३,३२
त्रि-विष्टाव^e-वा निस् १,८.
१६.
†त्रि-विष्टि^d-ष्टि आपश्रौ
१६,६७, वाश्रौ २, १, ५, २०,
वैश्रौ १८,४:८, हिश्रौ ११,१,
७३,
त्रि-वीधि(विधि^f)^g-धी(धी^h)
वैश्रौ १,५ २, वैगु ५,२ १८
त्रि-वृत्^d-पावाग ६, २, १९९,
-वृत् आश्रौ ४, १२, १, २××,
शाश्रौ ९, २१, १, १३, १६, ५××,
काश्रौ २, ७, १९, ४, २, १६××,
आपश्रौ १, ६, ९, १०, १०, ९,
१३××, बौश्रौ १, ३: ३××,
भाश्रौ १, ६, ११, १३†, माश्रौ ६,
१, ४, ९, २, १, २३, वाधुश्रौ ३,
७६ २६, २७^३××, वाश्रौ १, २,
२, ६, २, २, १, १७†, वैश्रौ ३, ५:
११^२, १२, ८ १३, १७, ५:
१, १८, २१ २०†××, हिश्रौ
१, ३, ३, ४, ७, १, ४९, ११,
८, ३^३†××, लाश्रौ १०, ५,
१, वैताश्रौ २६, ८, ३५, १५,
जुसू १, १० १०, निस् १,

१० २, ९, १३ ११××,
कौगु १, ३, ८, १४, ११†, शागु
१, ८, २, २२, १५, आमिगु २,
२, ४: ७, बौगु १, २, ११, वैगु
३, १० ७^२, हिगु १, १२, ११,
२, ५, २, कप्र १, १, २^३, ७, ७,
अप्राय ६, ३†, अप ४८, १३६,
आपध १, २, ३३, बौध १, ५, ५,
२, १०, १३, ४, ५, ७, हिध १,
१, ६५, वृदे १, ११५, चाअ
१७ ३†, या ७, ८, १२†,
†भाशि ६६, ७०, ९४, १०७,
-वृत्त: आश्रौ ६, १०, २२, ९,
१, १७××, शाश्रौ १३, २९, ३२,
१४, ६, ४××, काश्रौ १६, ५,
२, २२, ५, ६××, आपश्रौ २२,
७, १, १८, ५××, †बौश्रौ १०,
३५ ६, १४, २२ ११××,
माश्रौ ३, ८, ७, हिश्रौ १७,
२, ३२, ३, १६××, लाश्रौ
६, २, ४, ५, ११××, निस्
१, १० ५, १०××, -वृत्तम्
काश्रौ १, ३, २३, ६, ३, १३^३××,
आपश्रौ १९, १४, १०, २१, ६,
१०, बौश्रौ १, २. २८, १३
१९××, भाश्रौ १, ६, ५, वाश्रौ
१, २, २, १, ३, २, १, ४२,
हिश्रौ १, २, ७४, ७५,
†वैताश्रौ १०, १७, २६, ८,
निस् ४, ११ १३, ७, ५ १२,
७ ३५, १०, १३: १७, शागु
१, १२, ६^३, पागु १, १५, ६,
आमिगु १, १, २ ३८, आपगु

१३, ११, कागु ४१, १२, भागु
१, २ ६, हिगु १, ४, ५, १२,
१०, गोगु १, ७, १०, जैगु १,
१८ ३, १९ ३, १८, द्रागु १,
२, ११, अप २२, ७, २, अशा
१९, २, ५, ७, वैध २, ६, २, अअ
५, २८, -वृत्ता आश्रौ १, ३, २२,
१२, ३, ३××, शाश्रौ १४, २७,
५, ११××, काश्रौ २, ७, १,
१६, ३, ५, आपश्रौ १२, १८,
१२, २२, ६, ५××, †बौश्रौ ३,
२७ २२, १४, २०. १५××,
भाश्रौ १०, ६, १०, माश्रौ १, ८,
२, २४××, वाधुश्रौ ४, २६
६, वाश्रौ १, ६, ३, २०, वैश्रौ १५,
१९ ६, २१ ११××, हिश्रौ ८,
५, १३, ११, १, ३४, ×× लाश्रौ ९,
७, ९, १०, ४, ४^३†, जुसू १, १०:
२०, निस् ९ १३: १०^३; ३७^३;
१०, १ ३५^२, कौगु २, १, २९,
आमिगु १, १, ४: २८, ४३××,
बौगु १, ८, ४, २, २, १३××,
बौपि ३, १०, २, भागु १, ६ ६,
हिगु १, ७, २२, ८, ७, हिपि १३:
९, जैगु २, १ २२†, अप्राय,
-वृत्ताम् आश्रौ ११, ५, ३,
लाश्रौ ८, ७, २, १०, १४, ८,
-वृत्ति शाश्रौ १२, २, ११,
काश्रौ १६, ५, १, निस् ४, ७:
१०, शागु १, २२, १०^३, कौसू
१५, १, १९, ८, २२, १२,
याशि १, ३५, मीसू १०, ६, २२,
-वृत्ती आपश्रौ २२, २०, ८,

a) विप । बस । b) विप (त्रिशाखा-] मेथी-) । बस उप < विष्वञ्च्- । c) = स्वर्ग- ।

कस पूष = तृतीय-, उप = भुवन- । d) वैप १ द्र । e) विप (स्तोमाना पर्याय-) ।
f) इति शोध (तु C) । g) कस उप = कर्षू- । h) सप्र आपश्रौ ७, ११, ५ त्रि प्रदक्षिण
यूपम् इति पाठ । i) सपा कौगु १, ८, ६ ष्वा-> -ताम् इति पाठे । j) सपा ष्वृत्ति <> ष्वृत्ते इति
पाठे ।

निसू ७.७ : २९, जैगृ १, १८
२, -वृते शाश्रौ ९, २७, ११,
शाश्रौ ६, २, ६, ४, हिश्रौ १४, २,
३५, वैताश्रौ २६, ८, -वृते-
ऽवृते ऋप्र ३६, ९, १^२, २^२,
-वृतौ लाश्रौ १०, १०, ७,
-ऋवृद्धि आपश्रौ ५, ६, १,
बौश्रौ २, ६ २५, हिश्रौ ३,
२, ५१, -वृन्ति आश्रौ ११,
५, २, शाश्रौ १४, १२, ६,
२५, २×४, आपश्रौ २२, २३, ६,
२३, ८, ३×४, बौश्रौ २६, १६
४, हिश्रौ १७, ८, २४, १८,
३, ३^२

त्रिवृत्-छिरस्^१ -रसम्
आपश्रौ १, ६, ५, भाश्रौ १, ६,
५, वैश्रौ ३, ५ : ५

१त्रिवृत्-पञ्चदश^२ -शयो.
निसू ४, ११ : ४, २४, १०,
१०.१८, -शे शाश्रौ १५, ६,
२, लाश्रौ १०, १८, ७, लुसू १,
१० २, -शौ शाश्रौ १३, २१,
२, १४, २९, ४, बौश्रौ १८, ३०
१८, ३५ ९, २५, ५ ११, निसू
४, ११ २५, १३ ८, ७, ९ २६

२त्रिवृत्-पञ्चदश^३ -शा
लाश्रौ ८, ११, ८, निसू ८, ४
२५, -शाम् निसू ८, ४ ३१,
१०, १० १६, -शा आश्रौ
१२, १, २, आपश्रौ २३, ९, ४,
-शानि शाश्रौ १४, ३३, ३

त्रिवृत्-पञ्चदश-स्तोम^४ -
-मा काश्रौ २४, ४, ३, -मे

काश्रौ २४, ६, २४

त्रिवृत्-पञ्चदश-सप्तदशै(श-ए)
काविश-त्रिणव-त्रयस्त्रिंश- -शा
काश्रौ २२, ६, २६, वैताश्रौ ३५,
१६

त्रिवृत्-पञ्चदश-सप्तदशै(श-ए)
काविश-त्रिणव-त्रयस्त्रिंश-नव-सप्त-
दश- -शेषु वैताश्रौ ४०, ८

त्रिवृत्-पवमान^५ - -नः, -नस्य
लुसू १, ११ : १५

त्रिवृत्-प्रभृति- -तय शाश्रौ
१६, २१, ३, -तीनाम् शाश्रौ १३,
२४, ५, २८, ५

त्रिवृत्-प्राशन- -नम् वैगृ ३,
१२ ६, १९ ४, २२. २

त्रिवृत्-प्राशना(न-आदि)-
-दीनि वैगृ ३, ११ : ६

त्रिवृत्-सप्तदश- -शौ बौश्रौ
१६, २८ १६, निसू ७, ९ ६

१त्रिवृत्-स्तोम- -माः निसू
८, ८ २५, -मे लाश्रौ ६, १,
१८, -मेन शाश्रौ १४, ५१, २

२त्रिवृत्-स्तोम^६ - -म निसू
१०, १३ २१, -मम् शाश्रौ
१०, २, १, १३, २१, ९

त्रिवृत्-आदि-वत् वैताश्रौ
४१, १४

त्रिवृत्-इष्टका- -का वैश्रौ
१८, २१ २४

त्रिवृत्-उत्तम^७ - -मा आपश्रौ
२३, १०, ५, हिश्रौ १८, ४, १

१त्रिवृत्-दशरात्र- -त्रस्य
शाश्रौ १२, ९, १^८

त्रिवृत्-देवता-> ०.५-

-स्यम् अत्र ५.२८, १९, २७
त्रिवृत्-बहिष्पवमान- -नेन
काश्रौ २५, १३, ३८

त्रिवृत्-राथन्तर^८ - -२^१
आपश्रौ १४, ४, ३, -रम्^१ हिश्रौ
९, ७, ४९

त्रिवृत्-वत् मीसू १०, ६, १५,
६, १७

त्रिवृत्-सुञ्ज-पञ्चाङ्गी-

बह्व- -द्वा माश्रौ १६, २, ४
त्रि-वृत्, ता^९ - ता काश्रु ७, १३,
-ताम् कौगृ १, ८, ६^{१०}, आामगृ

१, १, १ १६, आपगृ १०, ११,
बौगृ २, ५, १३, वैगृ २ २ ३,
हिगृ १, १, १७^१, -ते कौगृ १,
१४, ८^१

त्रिवृती^{११} > ०.१-कृत-

-तम् अत्र २०, ७, १

त्रि-वृषत्-> त्रैवृष्ण^{१२} - -ष्ण
वृदे ५, १३, १४

त्रैवृष्ण-पौरुक्कस्य- -स्यौ
ऋत्र २, ५, २७, साम १, ४३२,
२, ८५६

त्रि-वेणी^१ - (> त्रिवण->

त्रैवण- पा [> णीय पा ४, २,
९०] पाग ४, १, ११२

त्रि-वेद^{१३} - -द बौश्रौ १८, १ : ६

त्रिवेद-संयोग- गात् काश्रौ
२५, १४, ३७

त्रि-वेदस्^{१४} - -दस बौश्रौ १७,
२१ : १, -द्वा बौश्रौ १८,
३२. १५, ३३ १२

a) विप । बस. । b) द्वस. पु न । c) मत्वर्थे अच् प्र । d) यनि ममस्तमित १८ ।

e) उप स्वार्थे अण् प्र f) परस्परं पाभे । g) = त्रि-वृत्- । उस उप कर्मणि क. प्र ।
h) पाभे पृ १२०७ k टि. द्र । i) Boht (ZDMG [४३, ५९९]) त्रिवृत्-> -तम् इति शोध अकि-
चित्कर. । j) पाभे. पृ १२०७ m टि द्र । k) वैप १ द्र । l) व्यप । बस १ । m) नाप (ब्रह्मन्) ।
अध्ययनार्थीयस्य प्र लुक् (पा ४, १, ८८) । n) उप = वेद- ।

त्रि-वेदि-सहिन- -तम् वैध १,
६,५
त्रि-व्या(म>)मा^०- -मा काश्रौ
६,३,१३, -माम् काठश्रौ ५२
त्रि-व्याया(म>)मा^०- -मा
आपश्रौ ७,११,२, माश्रौ ७, ८,
१८, माश्रौ १,८,२,२३, -माम्
वाश्रौ १,६, २, ११, वैश्रौ १०,
७ २, हिश्रौ ४,२,२७, ६१
त्रि व्रत^०- -तम् अप ४६,८,४
त्रि शक्र^०- -क्रम् शध ११६ :
५०
त्रि-शङ्कु^०- -ङ्कु अप ५२,
१०,१
त्रि-शत^०- -तम् शध १४७
त्रिशती- -तीवेज्यो २८,
-तीम् विध ४७,९
त्रिशत-स्तोत्री(या>)य^०-
-यम् छसू ३,२ : २९
त्रि-शत^१- -तम् शाश्रौ ९,
२०,१३, -ता या ४,२२^{१६}
त्रि शब्द- (>त्रैशब्द- पा)
पाग ५,४,२३
त्रि-श(य>)या^०- -याम्
माश्रौ १,७,३,१३
त्रि-शस()ऋप्रा १८,५०,५१
त्रि-शा(खा>)ख^०- -खः वाश्रौ
३,४,५,२२, -खम् कौसू ९०,३
त्रि-शाण-> त्रिशाण्य-,
त्रैशाण- पा ५, १,३६

त्रि-शि(खा>)ख^०- -खः बौगु
२,४,१७, -खा अप ५२,३,२
त्रि-शिरस^०- -रा अप ५२, ८,
१, ऋश्र २, १०, ८, वृदे ६,
१४७, १४९, १६२, शुश्र २,
१४८, माश्र १,७१
त्रि-शिल^०- -ले कौसू ३६,१५,
१७, १८^१
त्रि-शीर्ष^०- -र्षय अप ३६,९,२
त्रि शीर्षन्^१- -र्षाणम् शाश्रौ १४,
५०,१, वाध ५,८, -र्षा चाश्र
४ ७, १३^० ३
त्रि-शुक्र^१- -क्रम् आपश्रौ २२,
७,७, बौश्रौ १८, १ ४, ६,
हिश्रौ १७,३,७
त्रि-शुक्रिय^१- -य शाश्रौ १६,
२२,२९, -यम् द्राश्रौ १,१,१६
त्रि-शुक्ल^१- -क्ला वैगु ५,१३ २
त्रि-शुक्ल^१- -शुक्ल^० शाश्रौ ७,१६,
८, बौश्रौ ८,३ १७.
त्रि-शोक^१- -क् ऋश्र २, ८,
४५, शुश्र १, ४७४, ३, १८५,
साश्र १, १३३, १३६, १६१,
२०७, २१६, अश्र २०, ४३^१,
-काय वृदे ६,८१
त्रैशोक^०- -कम् जुसू १, २ :
९, ससू ३७, ६६, -काव जुसू
१,२ : १७
त्रैशोक-वैखानस- -से
निसू ८,४ ६

त्रैशोकौ(क श्रौ)णैयव-
मास- -सै^० ससू ३५,३८
त्रि-श्ये(त>)ता^०- -तय माश्रौ
१, ७, २, २३, मागु १, १२,
२^{१६}, १५, १^{१६}
त्रि-श्रुत्^०- -श्रुत्^० आश्रौ ५,
१३,६^१
त्रि-श्रेणि^०- -णि बौश्रौ ११,३ :
२३,२४, २२,१४ : ५.
त्रि-श्रेणि-गर्त- -गर्तन् बौश्रौ
६,२६ . १०
त्रि-श्वे(त>)ता^०- -तया^० कौगु
१,१४, ७, वागु १६,१०, गोगु
२,७,८
त्रि-ष(<सं)युक्त^१- -क्तम् वाश्रौ
३,३,१,२८, हिश्रौ १३,३, ४४^३;
-क्तेषु काश्रौ १५, २,११, -क्तैः
बौश्रौ १२, ४ : २४, २६, ३ :
४, हिश्रौ १३,३,४३
त्रि-ष(सं)क्त्सर^०- -रम् काश्रौ
२४, ५,१२, आपश्रौ २३, १४,
१०^३.
त्रि-षक्त्सरो(र-उ)पसक्त्^०-
-क्तम् काश्रौ २४,५,६.
त्रि-ष(<सं)स्य^१- -त्याः बौध
२,१०,२८, ४,२,११
त्रि-ष(<सं)धि^१- -धिः अश्र
११, ९^१, -धीनि कौसू १६,
२४, -०धे शौच ३,६५^{१६}
त्रि-ष(<सं)निपात्- -ते बौगु

a) विप । तद्धितार्थे द्विस । उप = व्यायाम । b) विप । बस । c) = मरुद्विशेष- । ऋ. इति शक.
वायु- । d) व्यप । बस । e) समाहारे द्विस । f) वैप १ द्र । g) वैप १,१५१८ d द्र । h) उप.
हस्त- । i) विप, व्यप (विश्वरूप-) । j) वैप २,३खं द्र । k) पाभे वैप १,१५१८ h द्र । l) = त्रि-शुक्ल- ।
। पाभे वैप १,१५०५० द्र । n) °क्यः इति पाठ ? यनि शोध. (तु ऋ ८,४५) । o) = साम-विशेष- ।
°र्णासभा (सै ? ख्यै) इति पाठ ? यनि. शोध । q) विप । तस । r) त्री° इति बस ? । s) सप्र.
इये° <> त्रि-श्वे° <> त्रि श्वे° इति पाभे. । t) 'इयेनया इति बसं । u) पाठ ? त्रि-शुक्ल- > -शुक्ल इति
वः (तु m टि.) । v) बन । वा. किवि. । w) = ऋतु-विशेष- । तद्धितार्थे द्विस । x) सप्र. त्रि-षं° <>
सं° <> त्रि-सां° इति पाभे. । y) विप. । समाहारे द्विस > बस. । z) वैप १,१५१८ u द्र. ।

३, ९ १४, द्रागृ ३, २, २७
 †त्रि-ष, स^१स, सा^१ - सा^० अप
 ३२, १, १०, २३, २८, ३७, ८,
 २; १७, १, ४६, ४, १^५, ५, १,
 अत्र १, १, अप^२ २ : ९; शौच २,
 ९८, -सामि आपश्रौ १६, २०,
 १०, हिश्रौ ११, ६, ५७, -सैः
 ऋषा ५, २७

त्रिषीय- -य अप ३३, १,
 ९^५, -यम्^० कौसू ७, ८, १३२,
 १०

†त्रि-ष(<स)वण^१ - -णम् कागृ
 ४, १९, बौश्र ३, २, ६२, ३, १६,
 मागृ १, २३, ८, १६, वागृ ७, ६,
 अप ४६, १, ४, वाघ ९, ९, २४,
 ५, शंघ ३९२, ४००, आपघ
 १, २८, ११, २, १८, ५; बौध २,
 १, ६८, ४, ५, ४, विघ २८, ५०,
 ४६, ३, ५०, २, हिघ १, ७, ४७,
 २, ५, ५७, सुघ ४७, ६२, सुघप
 ८६ ११

त्रिषवण-स्त्रान- -नम् सुघ
 ३४

त्रिषवण-स्त्रायिन्- -थी शघ
 ३८७, विघ ४६, २४, ५४, १३,
 ९४, १०

त्रिषवणिन्- -णी सुघप
 ८५ : ६

‡त्रि-ष(<स)वण^१ - -ण शाश्रौ
 १६, २१, २

त्रि-षष्टि- -ष्टि क्षुसू १, ६ : ४,
 १०, १६, बौश्र १३ २, अत्र
 १२, १, शैशि १०, पाशि ३,
 आशि १, ४

त्रि-षा, सा^१हस^१ - -स्त्र अप
 ३६, ३०, ३, -स्त्रम् आपश्रौ १६,
 १३, ११, बौश्रौ २५, २८ १, ८,
 १३, वाश्रौ २, २, २, २२, वैश्रौ
 १८, १२ : २, हिश्रौ ११, ५, २२,
 आपश्रु १०, ११, हिश्रु ३, ५१,
 -स्त्रस्य बौश्रु ७ २१, -स्त्रे
 आपश्रु १०, १३, हिश्रु ३, ५३

त्रिसाहस्री- -स्त्री काश्रौ १७,
 ७, २३

त्रि-ष्टुम्^१ - पाग ४, १, ८६,
 -ष्टुक्^१ आपश्रौ ९, १४, ९, बौश्रौ
 १९, ७ : ३८^१, २४, २० : ११,
 वावृश्रौ ४, ४६ ६, ८५ : ५,
 ८९ १९, १००^२. १०, हिश्रौ
 १५, ४, १६, -ष्टुमि आपश्रौ
 ५, ६, २, १६, ३, ४, बौश्रौ, -ष्टुप्
 आश्रौ ६, २, ६, शाश्रौ, ऋत्र १,
 ९, १, ३, १२, ६××, वृदे १,
 १३०, शुत्र ५, ६०, ६२, अत्रभू
 २, चव्यू ४ २२, या ७, १०,
 १२^१, ऋषा १६, १, ६४, ६५,
 ६८, ६९××, पिं ३, ५०, उनिसू
 १ २, २. ३१, ६ १७,
 ७ ३४-३६, -ष्टुप्सु जुसू ३,
 १० २८, निसू ५, ९ ८,
 -ष्टुब् वाश्रौ ३, ४, ४, १७^१,
 -ष्टुमि माश्रौ १, ५, १,
 २४××, वाश्रौ, -ष्टुम. शाश्रौ
 १०, १२, ९, काश्रौ १७, १२,
 ६;† आपश्रौ १४, १९, १^१, २६,
 २××, बौश्रौ, निसू १.४ १६××,
 ऋत्र ४, ४, वृदे ८, १०६, शुत्र
 ४, १३९, ५, ९××, या ७, १२,

४१, १५^१, ऋषा १६, ६७, पिं
 ३, ६, उनिसू ८ ८××, -ष्टुमम्
 आश्रौ १, ४, ९××, शाश्रौ, पागृ
 २, ३, ८, मागृ १, २, ३, २२,
 १३^१, वागृ ५, २६, उनिसू १
 ५६, -ष्टुमा आश्रौ ३, १२,
 २२××, आपश्रौ, -ष्टुमाम् उनिसू
 ८ २१, -ष्टुमि निसू २, ११
 १६, ५, ३ : ३३, ३७, ४ : ६, ७,
 -ष्टुमे शाश्रौ १३, ५, ५^१,
 †काश्रौ २, १, २५, १४, १६^१,
 आपश्रौ, -ष्टुमौ बौश्रौ २, १९ :
 ६, १४××, भाश्रौ

त्रैष्टुम्^१ - पा ४, १, ८६;
 पाग ५, ४, ३८^१, -म आश्रौ
 ४, १२, १, शाश्रौ, शुत्र ५,
 ६४^१, ऋषा १८, २९, -मम्
 आश्रौ ४, १३, ७××, शाश्रौ,
 अत्र १, ९^१, १८^१, ऋषा १८,
 ६०, शौच ४, ८३^१, शैशि
 १४०, याशि १०५, उनिसू ४ =
 ३०, ६ : २, -भाः शाश्रौ १४,
 ११, ६, १६, ३०, २, उनिसू,
 -भात् आश्रौ ५, १४, ९, शाश्रौ ९,
 २०, १०, -भानि आश्रौ ७, १३,
 २, ८, ८, ३, शाश्रौ, -भाय शाश्रौ
 ९, २७, १^१, -मे शाश्रौ ७,
 २६, ६, १७, ९, ५, आपश्रौ,
 -मेन आश्रौ ६, ५, २, शाश्रौ,
 -मै पिं ३, १७, -मौ अत्र ४,
 ३९××

त्रैष्टुमी- -मी
 निसू १, १० २४, -मीः वैताश्रौ
 २९, ८, -मीम् अप्राय २, ९

a) आपश्रौ हिश्रौ ऋषा पाठः । b) वैप १ द्र । c) पाभे वैप १, १५१९ a द्र ।

d) = विश्वकर्म-गण- (तु दारिलः [कौसू ७, ८]) । e) = सूक्त-विशेष- । f) समाहारे द्विस. g) विप. । बस ।

h) वाश्रौ. पाठः । i) पाभे वैप १, १५१९ h द्र । j) विप (पाद-, सूक्त- प्रभृ) । k) तु पागम. †

l) त्रि^० इति पाठः ? यनि. शोध । m) पाठ ? त्रिष्टुप् इति शोध ।

त्रैष्टुभ-जागत- -तात्
निसू ५, ९ ५, -तानि
ऋप्रा १८, ६२, -ते शाश्रौ १८,
६, ५, माश्रौ ४, २, २७, -तौ
ऋप्रा १७, ३८

त्रैष्टुभ-जागत-चतु-
ष्क- -ष्का ऋअ १, ५, ४, शुअ
५, २७

त्रैष्टुभ-ता- -तया
निसू १, १२ ४

त्रैष्टुभ-प(द>)दा^३-
-दा ऋअ १, ९, १, शुअ ५, ६०

त्रैष्टुभा(भ-अ)नुग^३-
-गाम् पाशि ८

त्रैष्टुभौ(भ-श्रौ)
विणह- -हौ ऋअ २, १, ७९

त्रिष्टुक्-शब्द- -ब्द भाशि
३२

त्रिष्टुह्-माध्यंदिन^३- -नः
बौश्रौ १६, १० ६

त्रिष्टुप् छ(<श)त- -तम्
शाश्रौ १८, १९, १

१ त्रिष्टुप्-छन्दस- -न्द
जैश्रौका १४५

२ त्रिष्टुप्-छन्दस^३- -न्दस
आश्रौ ५, १३, ६×५, शाश्रौ,

-न्दसा बौश्रौ २६, १५
११×५, दाश्रौ, -^३न्दाः शाश्रौ

६, ८, ११, काश्रौ, जैश्रौ ११
१७१०

त्रिष्टुप्-तृतीयसवन^३- -नः
बौश्रौ १६, १० : ७

त्रिष्टुप्-त्व- -त्वम् या ७,
१२

त्रिष्टुप्-प(र>)रा^३- -रा

अअ १, १४
त्रिष्टुप्-पूर्(र्व>)र्वा^३- -र्वे
ऋअ २, ६, १६

त्रिष्टुप्-प्रातःसवन^३- -न
बौश्रौ १६, १० : ७, -ने बौश्रौ

२६, १५ : २०

त्रिष्टुप्-शक्चर्य(री-अ)
न्त- -न्तम् ऋअ २, १०, ११५

त्रिष्टुप्-सपन्न- -न्नानि
निसू ७, ५ १८.

१ त्रिष्टुब्-अनुष्टुभ्-
-ष्टुभौ लाश्रौ ७, १३, १०, शुअ

२, ५१, -ष्टुब्भ्याम् शुअ ३,
१२५

त्रिष्टुबनुष्टुब्-ग(र्भ>)
र्भा^३- -र्भा अअ १२, १

त्रिष्टुब्-अन्त- -न्तम् ऋअ
२, १, ६४×५, अअ २०, ९४,

-न्तस्य ऋअ १, १२, १३, -न्ते
ऋअ २, ९, ८२

त्रिष्टुब्-अ(न्त्या>)न्त्य^३-
-न्त्यम् शुअ ३, १३७

त्रिष्टुब्-आदि- -दि अअ
२०, ९४

त्रिष्टुब्-उत्तम^३- -मे आश्रौ
७ १२, १८

त्रिष्टुब्-उत्तर^३- -रः ऋप्रा
१८, २८, -रौ ऋप्रा १८, ३१

त्रिष्टुब्-उष्णिग्-ग(र्भ>)
र्भा- -र्भा अअ ८, ८,

त्रिष्टुब्-गा(र्भ>)र्भा^३-
र्भा अअ ९, १, १०, ५, ११,

११, १०, १४, २
त्रिष्टुब्-गायत्री- -ज्यौ शुअ

४, ६७

त्रिष्टुब्-जगती- -तीः निसू
५, ९ ९, -तीनाम् शाश्रौ ७,

२६, ४, -तीभ्य आश्रौ ६, ५,
१६, -त्यो लाश्रौ ७, १३, १५,

उनिसू १ : ५९, -त्यौ शाश्रौ
७, २७, ३०, ऋप्रा १८, ५९;

उनिसू १ : ५४, ७. ३३

त्रिष्टुब्-बृहती-ग(र्भ>)
र्भा^३- -र्भा अअ १२, १.

त्रिष्टुब्-बृहत्य(ती अ)
नुष्टुब्-अन्त- -न्तम् ऋअ २,

६, ६०

त्रिष्टुब्-व(त>)ती- -ती
आश्रौ २, १४, २०

त्रिष्टुब्-विराज्- -राजोः
शाश्रौ ७, २७, २२

त्रिष्टुब्-विराज्-जगती- -त्यः
ऋअ २, ८, ९

त्रिष्टुम्-मध्य^३- -ध्यम् ऋअ
२, १०, १६४

त्रि-ष्टो(<स्तो)म^३- -म
आपश्रौ १८, २२, १८, २२, २४,

२^३, -मम् बौश्रौ २६, १४ :
१०, १४, -मानि शाश्रौ १६,

२२, ८, -मेव शाश्रौ १४, ५१,
२, १५, १६, १०

त्रिष्टोम-ज्योतिष्टोम- -मौ
काश्रौ १५, ९, २०

त्रि-(स्थ>)ष्ट- पा ८, ३, ९७.
त्रिस्र ()^३ आश्रौ १, २, १९×५;

शाश्रौ, आपश्रौ ७, ११, ५^०, वाघ
२०, २८^६, आपघ १, २४, २१^६;

हिघ^६ १, ६, ६९, या ३, २१^६;
७, १२; त्रिःऽत्रि. आश्रौ २, २,
११, शाश्रौ

a) विप । बस । b) विप । उस । c) ऽन्देति (=०न्दाः इति) इत्यत्र सन्धिरार्षः (तु. तांज
१, ५, १२) । d) वैप १ द्र । e) तु पृ १२०७ h द्र । f) सप्र गौघ २२, ७ ज्यवरम् इति, मनु. ११,
८० त्रिवारम् इति च पाभे ।

त्रिः-प्राय^१- -यम् आपघ २,
१७,१४, हिघ २,५,४२.
त्रिः-प्लक्ष^२- -क्षम् आपश्रौ
२३,१३,१४^०
त्रिः-अभ्यास^३- -सा माश्रौ
२,१,३,१९^१
त्रिः-आणव^४- -कम् याशि
१,१२.
त्रिः-उपसक्त^५- -क्तं माश्रौ
४,३,४९
त्रिः-उपेत- -त निम् २,
१२ १०
त्रिः-एकादश^६- -०शा
आपश्रौ ४, ४, १, १६, १, ३,
बौश्रौ ३, २७, ३२, माश्रौ ४,
४,३, हिश्रौ ११,१,६
त्रिः-वचन^७- -नस्य माश्रौ
५,१,३,१३
त्रिः-शु(क्ल>)ङ्गा^८- -ङ्गया
कौस् २९,१२
त्रि-इत्रे (त>)ता- -तथा
शागृ १,२२,८^१
त्रिः-ताव,वा^९- पा ५, ४,
८४, -३ आश्रौ २०, ९, १,
बौश्रौ २६,१० ७, आपश्रु २१,
१०^१, बौश्रु २१ १३^१, हिश्रु
६,६८^१, -वा वाश्रौ ३, ४, १,
५३, हिश्रौ १४,६,१६
त्रिः-सप्त^{१०}- -सैः आपगृ ९,
५, गोगृ २,६,६
त्रिः-स्वप्त्- > त्रि सप्त-

कृत्वस् (:) शंघ १७९, बौघ
१, ५, ४२, काघ २७८ : ३
त्रिः-सप्त-पुरुष- -षै अप
११,२,४
त्रिः-सप्त-मार्जन- -नात्
शंघ १६५
त्रि स्ताना(न-अ)क्षार-
भोजन- -नम् अप ३८,३,३
त्रि-संयुक्त- -क्तेन माश्रौ ५, २,
७,१६
त्रि-सं,सा^{११}वत्सर^१- -रम्
शाश्रौ १३,२८,४^१, हिश्रौ १८,
४,६५^१, लाश्रौ १०,२०,१३
२त्रि-संवत्सर- -रम् वैध १,३,५
त्रि-स(स्या>)स्थ^{१२}- -स्थौ शाश्रौ
१४,४२,१७
त्रि सङ्गम- -मे ऋप्रा ११,१८
त्रि-सत्ता- -त्तायाम् कौस् १४१,
३७
त्रि-स (न्ध्या>)न्ध्य- -न्ध्यम्
कौगृ ३, ९,४, शागृ ४, ७, ४,
पागृ
त्रि-सप्तति- -ति काश्रु ७, २८,
३६
त्रि-सप्तन्^{१३}- -स भाशि ९४
त्रिमस-क^१- -कम् बौघ ४,
५,१६
त्रि-सप्ताह- -हात् विघ १४,४
त्रि-सहस्र- -स्रम् वाश्रौ ३, ४,
३,४५
त्रिसहस्र-युक्त- -कम् ऋअ

३,४५
त्रि-सावत्सरिक^{१४}- -कम् बुदे ५,
९७
त्रि-सागरा(र-अन्त>)न्ता-
न्ता अप २४,५,२
त्रि-सुपर्ण^{१५}- -र्णम् वाघ २८,
१४, शंघ १०५, विघ ५६,२३
२त्रिसुपर्ण^{१६}- -र्णं वाघ ३,
१९, आपघ २, १७, २२, बौघ
२,८, २, विघ ८३, १६, हिघ
२,५,५०, गौघ १५,२८
त्रिसुपर्णिन्- -र्णी अप ४४,
२,४, शंघ १९९
त्रिसौपर्ण^{१७}- -र्णं शघ २००-
त्रि-सूक्त^{१८}- -क्त ऋअ ३,१५
त्रि स्तन^{१९}- -नम् काश्रौ ८, ३,
१, आपश्रौ, -नानि आपश्रौ
१६,३५,१०, वैश्रौ
त्रिस्तन द्विस्तन- -ने माश्रौ
२,२,१,४९
त्रिस्तन-द्विस्तनै (न-ए)-
कस्तन-व्रत- -तस्य बौश्रौ १८,
३२. १३, २६, ३२ २३
त्रिस्तन-व्रत- -तम् बौश्रौ
६,१० : १०, २१ २३^१, २४,
२७^१, १०, १९ १३, २३ ४, ५-
त्रि-स्थान-> नाना(न-अ)धि-
धि(त>)ता- -ताम् बुदे ८,९१-
२त्रि-स्थान,ना^{२०}- -न शुअ २,
३११, या ९, २५, -नम् बुदे
१, ६५, शेशि ३५२, -नाम्

a) विप । बस । b) समाहारे द्विस । c) सप्र ता २५,१३,४ त्रिप्लक्षान् इति पाभे । d) उप
= अणु-परिमाण । e) वैप १ द्र । f) पाभे पृ १२०९ ष टि द्र । g) विप (वेदि-, अग्नि-) ।
h) शाश्रौ पाठः । १) विप । तद्धितार्थे द्विस । निर्दृतेऽर्थे अण् प्र उप वृद्धिर्भिभाषया उसं (पा ७,३,१५) ।
j) पाभे. पृ १२०९ ष टि द्र । k) ग्राम्या (तै ६, १, ८, १) इति प्रकरणे त्रयः सप्त-शब्दा इति भावः ।
l) विप । तेननिर्दृतीयः कन् प्र. उसं. (पा ५,१,९०) । m) = १त्रि-सवत्सर- । उप ठञ् प्र (पा ५,१,७९)
इति विशेषः । n) वैप २, ३खं द्र । o) नाप (ऋ १०, ११४, ३-५ इति सुपर्णशब्दोपेतमन्त्रत्रयाध्यायिन्-) ।
अध्ययनार्थायस्य प्र लुक् । p) तदधीते तद्वेदेत्यर्थे अण् प्र. उप वृद्धिश्च ।

निसू ७,२ : ६, ८, ६ : ९
 त्रि-स्वर- पावा ५, १, १२४
 त्रैस्वर्य- पावा ५, १, १२४,
 -र्यम् माशि ६, १, याशि २,
 २९, नाशि २, ५, २
 त्रैस्वर्यो(र्य-उ)पनय- येन
 आशि ६, २
 त्रि-हलिका-ग्राम^३ - मे विध
 ८५, २४^४
 त्रि-हविस^० - वि. आश्रौ २, १४,
 ६, शाश्रौ, -विषः माश्रौ ५, १,
 १, ३३, -विषम् आपश्रौ १६,
 ८, ११, १८, २१, १६, बौश्रौ,
 -विषा आपश्रौ २०, ८, ११,
 माश्रौ ५, १, ५, १८××, -विषाम्
 माश्रौ ५, २, ६, २०
 त्रिहविष्-(क>)का^० - रुया
 काश्रौसं ३ ३
 त्रि-हस्त- -स्त काश्रु ७, ०
 त्रि-हायण^१ -णम् वाश्रौ ३,
 ४, १, १४, विध ५०, ३९, -णेन
 बौश्रौ २६, ३२ : १२
 त्रिहायणी- पावा ४, १, २७,
 -णी हिश्रौ ७, २, १६, -णीम्
 माश्रौ ५, २, १०, २, -ण्य.
 काश्रौ २२, ९, १३, -ण्याः कौसू
 १२, ८, काश्रु ७, २३
 त्रिहायणी-बाल^६ - ला
 काश्रु ७, २४
 त्रि-हायण->त्रैहायण^१-
 -णात् शौच ४, ८३

त्रि-हायन- -ना वाश्रौ ३, ४, ३,
 १८, -नेन काश्रौसं २७ १४
 त्री(त्रि-इडा>)ड^६ - डम् लुसू
 १, ७ २०
 त्रीणि-प्रभृति^५ - तिभिः कौसू
 ८१, ४१
 त्री(त्रि-इ)षु^६ -षु शाश्रौ ३, २, ७
 त्रीषु-क^६ -कम् काश्रौ २५,
 ४, ४५
 त्रे(त्रि-एत>)णी^१ - णीम्
 बौश्रौ ५, १ ३, ५ २, १०
 २, १८ २, -ण्या काश्रौ ५, २,
 १५, बौश्रौ ५, ४. २४××,
 भाश्रौ, आमिष्ट २, १, २ ९^१
 त्रेता^१ - ता शाश्रौ १५, १९, ११^६,
 वाधुश्रौ ४, ५९. ४^१, विव २०,
 ८^६, -तायाम् शंभ १३८^१
 त्रेता-कलि-च्छन्दस्-
 -न्दासि निसू १, ६ : ४
 त्रेता-स्वोम- -मा^० निसू १,
 ९ ८, १५-१७
 त्रेता-स्थान- -नम् निसू १,
 ६ : ५.
 त्रेधा शाश्रौ १२, १६, १^१,
 काश्रौ ५, १, १९, आपश्रौ, या
 ७, २८^१, १२, १८^१, १३, ७,
 पा ५, ३, ४६
 त्र्य(त्रि-अ)श^३ - श^३ वेज्यो
 २७^०, -शम् वाध १७, ४८.
 त्र्य(त्रि-अ)क्तो(क्त-उ)दुम्बर-
 समिध्- -मिधः अप ३६,

२०, १
 त्र्य(त्रि-अ)क्षर^५ - रम् निसू
 ३, ४ ७, -राणाम् निसू १, ६
 २१, -राणि निसू २, १२ : ३३,
 -रेण आमिष्ट २, ४, १२ : ४
 त्र्यक्षर-णि(<नि)घन^६-
 -नम् निसू ६, ८. १९
 त्र्यक्षर-प्रभृति- -तीनाम्
 ऋत ५, २, ५
 त्र्यक्षरा(र-अन्त>)न्ता^६-
 -न्ता ऋप्रा २, ५५
 त्र्य(त्रि-अ)क्षर, रा^६ - रम्
 वाधुश्रौ ४, १०० ५, लाश्रौ,
 -रा. निसू २, १२ ३२, -राणि
 लाश्रौ ७, ७, १, -रेण वाधुश्रौ
 ४, १०० २२
 त्र्य(त्रि-अ)ङ्ग^५ - ज्ञाणाम् बौश्रौ
 ४, ९ : ७, २५, ३२ ६, १८,
 भाश्रौ ७, १९, ४, माश्रौ १, ८, ५,
 १९, साग २, ४, ११, तैप्रा ७,
 १०^१, -ज्ञाणि भाश्रौ ७, १९, ४,
 हिश्रौ ९, ८, ३९, -ज्ञानि आपश्रौ
 १४, ७, ८, बौश्रौ ४, ८ ६, कौसू
 ४५, ४^१, -ज्ञेषु आपश्रौ २०,
 १८, १३, -ज्ञै मीसू १०,
 ७, ११.
 त्र्यङ्ग-वत् मीसू १०, ७, १२
 त्र्य(त्रि-अ)ङ्गुला^१ - लम्^६
 काश्रौ ६, १, २८××, आपश्रौ
 ७, ३, ६, ८, ५, १०^६, बौश्रौ,
 -लाम् आपश्रौ २, २, ७^६, हिश्रौ

a) = तीर्थ-विशेष-। b) काश्रमे इति जीस । c) विप > नाप (इष्टि-विशेष- [वैतु MW विप इति])। बस । d) विप । तद्धितार्थे द्विस णत्वम् उस (पावा ४, १, २७) । e) उप = केश-। f) वैप १ द्र । g) विप । बस । h) पूष त्रीणि (शौ १८, १, १७) । i) = त्रेणी- । पररूपम् उसं (पावा ६, १, ९४) । j) त्रै^० इति पाठ^१ यनि शोधः । k) = युग-विशेष-। l) = अग्नि-। m) समाहारे द्विस (तु विध १८, ३) । n) कस पूष = तृतीय-। o) ष्ठी इति कासं । p) कम् वा द्विम वा । q) कम् । = दक्षिण-दोस्, सव्या-श्रोणि, गुद- [तु भाश्रौ ७, १९, ४ प्रभृ] । r) विप । तद्धितार्थे द्विम । पाप (५, ४, ८६) तु ण्वि- + समासान्त-भच् प्र । s) कचित् वा किवि । t) सप्र. लम् <> लाम् इति पाभे ।

१,६,९४, जैगृ २,३ ११, -ले
बौश्रौ ९, ३ १८××, वैश्रौ,
-लेन वैश्रौ १०,७ : १२, हिश्रौ
४,२,३८××

ज्यङ्गुल-खा(त>)ता- -ताम्
काश्रौ २,६,१

ज्य(त्रि-अ)ङ्गुलि^३->°लि-नि-
(त्र>)झा- -झा वैश्रौ ११,८
४

ज्य(त्रि-अ)ङ्गुष्ट^३- -ष्टम् कप्र १,
७,९

ज्य(त्रि-अ)धिक,का^०- -का ऋअ
२,१,९१××, अग्र १८, ३, अप
४ ३४, वेज्यो ३८, -कात्
अप ४ ४०, -केषु बौध १,२,
९

ज्य(त्रि-अ)नीक,का^१- -का
आपश्रौ २१, १४, ४, २२, ९०,
-का हिश्रौ १६,२,१२,७,२२०,
-कान् बौश्रौ २६, १६ १८,
-काम् आपश्रौ २१,१४,१,२२,
७, हिश्रौ १६,७,१६, -कायाम्
मीसू १०,५,७७

ज्यनीका-प्रवृत्ति- -त्ति. मीसू
१०, ५, ८३^१

ज्य(त्रि-अ)नुतोद^३- -दम्
निसू ३,१२ ११, १६^२

ज्य(त्रि-अ)नुवाका(र-अ)न्त-
-न्ते काश्रौ १८,१,२

ज्य(त्रि-अ)नुष्टुब्-अन्त-
-न्तम् ऋअ २,२,३२

ज्य(त्रि-अ)नुष्टुब्-ग(र्भ>)
र्भा- -र्भा अग्र १०,९

ज्य(त्रि-अ)नूयाज^३- -जम्
आपश्रौ ८,२०,७

ज्य(त्रि-अ)न्तर^३- -र द्राश्रौ ३,
४, ८^१, -रम् नाशि १, १, ३,
-रेण लाश्रौ १,११,२७^१

ज्य(त्रि-अ)पक्रम- -मम् वैश्रौ
१,५ २

ज्य(त्रि-अ)ब्द- -ब्दात् कप्र १,
६,८

ज्य(त्रि-अ)भिक्रम- -मे ऋप्रा
११,२६

ज्य(त्रि-अ)भिप्लव- -वम् काश्रौ
२४,२,२७

ज्य(त्रि-अ)म्बक^१- -कः या
१४,३२, -कम् काश्रौ ५,१०,
१३^१, आपश्रौ ८,१८,२^१, ३^१,
४^१, बौश्रौ ५, १६ १४, १९^१,
२३^१, भाश्रौ ८, २१,९^१,१०^१,
वाश्रौ १, ७,४, ७१^१, वैश्रौ ९,
११ ७^१, हिश्रौ ५, ५, १५^१,
१८^१, द्राश्रौ १३,२, ०३,३,३^१,
लाश्रौ ५,३,५, ७^१, वैताश्रौ ९,
१९^१, काग्र २५ ३७^१, माग्र
२,३,५, वैग्र ३,१७ ५^१, ९
५^१, वृदे ६,३६, शुअ १,२२४^१,
या १४,३२०^१, उस् ८, ३५^१,
शैशि ३२९^१, -कस्य अप ३१,
२,३, ५२,१५ ५, -कात् शाश्रौ
१४, १०,२१^१, -कान्^३ आश्रौ
२,१९, ३७, शाश्रौ ३,१७,१०,
बौश्रौ १४, ८ ६, वाश्रौ १,७,
४, १३, १५, तैप्रा ६, १४^१,
-काय गौध २६,१२, -कै वाश्रौ

१,७,४,५९^३

१त्रैयम्बक^३- -कम्

वैताश्रौ ९, १८, -का बौश्रौ
२५,३ : १५, हिश्रौ १४,३,१८;
द्राश्रौ १३,२, १०, लाश्रौ ५,३,
१, -काणाम् बौश्रौ ५, १६ :
१०, १८, २१, ५ : १९, २७;
२४,३ १८^१, -कान् काश्रौ
५, १०,१, आपश्रौ २०, १४,
१३^१, बौश्रौ ५, १६ : २^१, वैश्रौ
९ १० : ९, हिश्रौ ५, ५, १,
-कै आपश्रौ २२, ८, २०,
काश्रौसं २९ : १०, बौश्रौ १५,
११ : ४^२, १७, ५७. २५, ६२
१०

ज्यम्बक-वत् काश्रौ १५,२,३.

ज्य(त्रि-अ)रति^३- -त्ति काश्रौ
६,१,२४, आपश्रौ ७, २, १७,
बौश्रौ २४,३५.७, भाश्रौ ७,२,
७, हिश्रौ ४, १, २९, -त्तिम्
काश्रौ २,६,१, हिश्रौ ४,१,४०,
-त्तौ वैश्रौ १०, २. ६, कौसू
४५,१

ज्यरति-विस्तार- -रम्

आपश्रौ ११,८,१, वैश्रौ १४,६ :
१२

ज्य(त्रि-अ)रुण^०- -ण वृदे ५,
१४,३१, -णाय बौग्र ३, ९, ५;
भाग्र ३, १० : ७, हिग्र २,
१९,६

ज्यरुण-त्रसदस्यु- -स्यु ऋअ
२,५, २७, ९, ११०, शुअ ३,
१०, साअ १,४३२, २,८५६

a) पाप्र समासान्तस्य प्र अभाव । b) विप । तद्धितार्थे द्विस । c) विप । बम वा त्स वा ।

d) नाप (द्वादशाहे नवाहसज्ञविशेष-) समाहारे द्विस । e) सप्र °का <> °का. इति पाभे । f) °कापरि° इति
जीसे । g) विप । बस । h) उप = अभ्यास- (तु सा [ता ८,९,१३]) । i) परस्पर पाभे । j) बप्रा. । वैप १
द्र. । k) पाभे वैप १, १५२२] द्र । l) [=ज्यम्बकनिमित्तक-] कर्म-विशेष- । m) वैप १, १५२२ k द्र. ।
n) [=ज्यम्बकद्विष्ट-] पशु-, पुरोडाश-, अरूप-, होम- प्रभृ । शिष्टं वैप १ द्र. । o) वैप १ द्र. ।

व्य(त्रि-अ)वदात्- -तान् जैगृ २,
१ ४
व्य(त्रि-अ)वम^a- -मान् बौश्रौ
६, ३४ ५
व्य(त्रि-अ)वर, रा^b०- -रम् गौध
२२, ७^d, -रा वैश्रौ ३, ३ ५,
द्रागृ ४, ३, ५, -रान् वैश्रौ ३,
३ : ४ १५, ६ : २, आपगृ
२१, २, वैगृ ४, ३ ४, बौध २,
८, ६
व्य(त्रि-अ)वरार्ध, धा^c- -धम्
कौसू १, १७, -धाः हिश्रौ ८,
१, ६०, -धान् वैश्रौ १०, १
१२, शागृ ४, १, २
व्य(त्रि-अ)वराध्य^a०- -ध्यः
बौश्रौ २८, ३ ९, -ध्यम् आपश्रौ
३, १६, ९, हिश्रौ २, ६, ५०, ५,
६, १३, आपगृ २१, ९, -ध्यां
लाश्रौ १, ११, २४^e, गोगृ ४, ८,
१७, कौसू ६७, ३, -ध्यान्
हिश्रौ ४, १, १३, कौगृ ३,
१४, २
व्य(त्रि-अ)वसान(न>)ना^a-
-ना शुअ १, २०९××, अअ,
-ना शुअ १, १८७, २, ४८,
अअ १०, ५××, -नाम् शुअ १,
५४१, -ने शुअ १, २३१, २,
४०२, अअ ११, ९, १२, १^f,
१३, ३, १२, ३९
व्य(त्रि-अ)वि^b- -त्रयः वाश्रौ
३, ४, ३, १८, -त्रि आपश्रौ १७,
१, ८^f, बौश्रौ १०, ३५ १७,
३८ : १७^f, १४, २२ : १७,

माश्रौ ६, २, ५, २६^g, वैश्रौ १२,
२ ११^f, हिश्रौ १२, १, ६^f
व्यवी- -वी माश्रौ ६, २,
५, २६^h
व्य(त्रि-अ)शीति- -ति अप ४
११
व्य(त्रि-अ)श्र- -श्रम् आपगृ
२०, १५ⁱ
व्य(त्रि-अ)श्रि^a- -श्रि हिश्रु ६,
५५ⁱ, -श्रि हिश्रौ १२, ८, १५
व्य(त्रि-अ)ष्ट(का>)क^a- -क
गोगृ ३, १०, ५
व्य(त्रि-अ)ष्ट-सूक्त- -क्त ऋअ
३, २९.
व्य(त्रि-अ)ष्टिका-योग^l- -गोन
वैगृ ५, २ : १५^k
व्य(त्रि-अ)स्त्रि^a- -स्त्रि^l काशु
६, ७ⁱ
व्य(त्रि-अ)ह^m- -ह आश्रौ ९,
२, १३, ११, ३, ८, शाश्रौ, -हम्
शाश्रौ २, ३, १४, आपश्रौ,
-हम्-हम् आपश्रौ २१, ४,
१४, कागृ ६, ४, बौध ४, ५, ६,
८, १०, -हयो निसू ५, २ . १,
-हस्य शाश्रौ १०, ५, ७××, निसू
७, ३ १३××, -हा आश्रौ ९, १,
८, १०, २, १४, काश्रौ, -हाणाम्
आश्रौ ९, १, ५, क्षुसू ३, १३ :
२, -हाणि अप ७०, २, १,
-हात् आश्रौ ८, ७, १५, ९,
१, ९, शाश्रौ, -हान् आपध १,
२९, १७, बौध २, १, ४८, ४,
५, ९, हिघ १, ७, ७४, -हे

आश्रौ ८, ८, १, ९, १, ९, ११,
३, ८, शाश्रौ, -हेण बौश्रौ १८,
२३ १२, वाध २, २७, -हौ
निसू ८, १२ २, ९
व्यह-क्लृप्त- -स आश्रौ ८,
७, १५
व्यह-तन्त्र- -न्त्रे निसू ५,
११ : १७
व्यह तृतीय- -यानि काश्रौ
२४, ७, १३
व्यह-द्वितीय- -यानि काश्रौ
२४, ७, १३
व्यह-प्रथम- -मानि काश्रौ
२४, ७, १२
व्यह-भाग- -गात् निसू ३,
६ : ३५
व्यह-वत् वैताश्रौ ३३, ४
व्यह-वत्- -तम् आमिगृ १,
१, ४ : २९, हिगृ १, ८, १
व्यह-शस् () जुसू ३, १३ :
५, ७, निसू ३, ६ . ४^h
व्यहा(ह-अ)भ्यन्तर- -रे
वैगृ ६, १५ : ८
व्यहा(ह-अ)भ्यस्त- -स्तम्
शंघ ४४५, -स्तै विघ ४६,
२१
व्यहा(ह-अ)र्थ- -र्थे आश्रौ
११, १, ११, शाश्रौ १३, १५, ६,
काश्रौ २४, १, ९, निसू ९, १० : ८.
व्यहो(ह-उ)पक्रम- -मात्
निसू ४, १३ २४
व्यहो(ह-उ)पजन^a- -न.
आश्रौ ११, २, १२, -नम् आश्रौ

- a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र । c) क्वचित् वा क्वि । d) पामे पृ १२११ f द्र ।
e) सपा. द्राश्रौ ३, ४, १ चतुर्व^o इति पामे । f) पामे वैप १, १५१५ w द्र । g) पामे वैप १,
१५१५ x द्र । h) पामे. वैप १, १५१६ a द्र । i) सपा श्रम् <> श्रि <> स्त्रि इति पामे ।
j) कस > षस पूष इकारखोपः । k) त्रि-यष्टि^o इति मूको C. च । l) श्रि. इति पाठः ? यनि. शोघ^o ।
m) वैप १, १०३६ k द्र । n) हःशः इति पाठः ? यनि. शोघ ।

११, २, १३
 व्य(त्रि-अ)हन्^१- -हानि हिश्रौ
 १७, ६, २१
 व्यहीन^२- -नः लाश्रौ ८, ४,
 ११
 व्या(त्रि-आ)युष^३- पा ५, ४,
 ७७, -फँषम् काश्रौ ५, २, १६,
 बौश्रौ
 व्या(त्रि-आ)षेय^४- -य आपश्रौ
 २४, ६, २×४, बौश्रौ, वैष ४, ८,
 ४^०, -यम् आपश्रौ २४, ५,
 १३×४, हिश्रौ, -याणाम् बौश्रौप्र
 ३१ : २
 व्याषेय-संनिपात- -ते बौश्रौप्र
 २ ३
 व्या(त्रि-आ)लिखि(त>)ता^५-
 ता काश्रौ १६, ४, ६, आपश्रौ,
 -तान् काश्रौ १६, ३, २१, ४, २४,
 आपश्रौ
 व्या(त्रि-आ)वृत्^६->^७वृत्-
 पुरोडाश-शकल- -लानि जैश्रौ
 १८ १६
 व्या(त्रि-आ)वृत्त- -तः बौश्रौ
 २६, १६ . ९
 व्या(त्रि-आ)श्रम->^८म्य^८-
 -म्यम् वैष १, ९, ८
 व्यु(त्रि-उ)त्तर- -रा. निसू १, ९
 २५-२७.
 व्युत्तरी✓भू> व्युत्तरी-
 भाव- -वेन लाश्रौ ६, ५, १७.
 व्यु(त्रि-उ)दय^९- -य बौश्रौ २६,

१६ ९
 व्यु(त्रि-उ)द्वि^{१०}- -द्वि बौश्रौ
 १०, ५ १६, -द्विम् आपश्रौ
 १५, २, १४, १६, ४, ७, बौश्रौ
 १०, ५ १५, भाश्रौ ११, २, २३,
 माश्रौ ६, १, २, ६, वाश्रौ २, १,
 १, ३६, वैश्रौ १८, १ ७०,
 हिश्रौ ११, १, ५१, २४, १, १५,
 -द्वीन् वैश्रौ १३, ३ १२, -द्वौ
 आपश्रौ ५, २२, ६, माश्रौ १, ५,
 ६, ५, ४, १, १७, वाश्रौ १, ४, ४,
 २८, हिश्रौ ३, ५, १७
 व्यु(त्रि-उ)न्नत^{११}- -तम् वावृश्रौ
 ४, ९० १५, -ते वाधृश्रौ ४,
 ९० १४
 व्यु(त्रि-उ)परिष्ठाद्बृहत्या(ती-
 आ)दि- -दय ऋश्र २, ७, ५५
 व्यु(त्रि-उ)पसत्क^{१२}- -त्क काश्रौ
 ९, २, ३७, लाश्रौ ८, ५, १९,
 -त्कम् बौश्रौ २५, २७ : १, २,
 १३, २८ : १, -त्के काश्रौ १७,
 ७, ६, आपश्रौ १५, १२, ५, भाश्रौ
 ११, १२, ५, हिश्रौ २४, ५, ६
 व्यु(त्रि-उ)ष्णिग्-अनुष्टुब्-
 अन्त- -न्तम् ऋश्र २, ६, ५१
 व्यु(त्रि-उ)ष्णिग्-भादि- -दि
 ऋश्र २, ५, ४०, ७८
 व्यु(त्रि-ऊ)न, ना- -नम् ऋश्र ३,
 ४०, चट्यू १. १२, -ना ऋश्र
 २, २, २७, ३, ३२, ५, ४३, ५२, ६,
 ५२, १०, ६३

व्यु(त्रि-ऋ)च- -चम् शुश्र १,
 १९१, १९४, १९५, २१९, -चेन
 वाश्रौ १, ६, ६, १३, भाश्र २,
 २८ १४
 व्यु(त्रि-ऋ)तु^{१३}- -तु या ४, २७.
 व्ये(त्रि-ए)क^{१४}- -केण आश्रौ ९,
 ५, १३
 व्ये(त्रि-एत>)णी^{१५}- -ण्या
 काश्रौ ५, २, १५^१, आपश्रौ ८, ४,
 १, आश्र १, १४, ४, पाश्र १, १५,
 ४, २, १, १०
 श्रि-क- त्रि-द्र
 रत्रि-क- (> त्रिक्रि-क- पा) पाश्र
 ४, २, ८०
 त्रि-ककुद्- प्रश्र त्रि-द्र
 ✓त्रिङ्ख पावा भ्वा पर गतौ
 त्रि-चक्र- प्रश्र त्रि-द्र
 ?त्रित्वशुश्रुदुसुखान्^१ वाश्रौ ३, ३,
 २, ३९
 त्रि-दक्षिण- प्रश्र त्रि-द्र
 ?त्रिदशानुपरिक्षिण.^{१६} वाश्रौ ३, ४,
 १, ३१
 त्रि-दिव- प्रश्र त्रि-द्र
 ?त्रिपाण^१- -णम् काश्रौ १५, ५, ९.
 त्रि-पाद्- प्रश्र त्रि-द्र.
 ?त्रिरुजाहु अप १, ६, १०
 त्रि-रूप- प्रश्र त्रि-द्र.
 ?त्रिषतम्^{१७} वाश्रौ ३, २, ५, ४७.
 त्रि-षत्य- प्रश्र त्रि-द्र
 ?त्रिषि अप ४८, २१
 त्रि-ष्टुम्- प्रश्र त्रि-द्र.

a) कस उप समासान्ताऽभाव । b) तद्धितार्थे द्विस । निर्वृतेऽर्थे ख>ईन प्र (पा ५, १, ८७) ।
 c) वैप १ द्र । d) विप । बस. । e) उत्तरेण समस्त इव पाठः शोध्य (तु उत्तर स्थलम्) । f) स्वार्थे ष्यन्
 प्र. वृद्धयभावश्च । g) = एकाह- [याग-] । h) = त्रेणी- । वैप २, ३खं द्र । i) त्रे' इति चौसं । j) पाठः ?
 श्रीन् इषून् अमृदुसुखान् इति त्रिपद शोधः संभाव्यते (तु अशत सप्र आपश्रौ १८, १४, ११, सा [तै पृ १२२०] च) ।
 k) पाठः ? त्रिशतान् उपरिक्षिणः इति शोव (तु. सप्र आपश्रौ २०, ५, १०-१४) । l) विप । व्यु ? उस. उप.
 <✓पा [पाने] इति कर्कविद्याधरौ, वावि <त्रि-पर्णी- इति MW. । m) पाठः ? त्रिः^० इति संस्कृते टि, सप्र.
 काश्रौ १३, ३, १५ त्रि समन्तम् इति पाठ ।

√बुद्^१ पाधा तुदा पर, चुरा आत्म छेदने
 बुटि^२-टि आज्यो १, ४, -दीनाम् आज्यो १, ५
 √बुप्, म्प्, बुफ्, म्फ् पाधा भ्वा पर हिंसायाम्
 जेता- प्रभृ त्रि-द्र
 √त्रै^३ पाधा भ्वा आत्म बाध, पालने, त्रायते बौघ ३, २, ६३, त्रायन्ते विध २०, ४५, ऋत्रायसे आपमं २, १७, ३, आगृ २, १, १०, मागृ २, १६, ३, त्रायध्वे ऋत्र २, ७, ५९, ऋत्र, ऋत्रायताम् आपश्रौ १०, ८, ९, १६, १९, १, वैश्रौ १८, १६ : १०^४, हिश्रौ, ऋत्रायन्ताम् वृदे ८, ५०, अत्र ८, ७, ऋत्रायस्व आपश्रौ ६, ११, ३x, बौश्रौ, कौसू ७७, १६^५, ऋत्रायेथाम् आपश्रौ ७, १४, ११, बौश्रौ
 त्राति बाध ३०, ६, त्राहि अप ७, १, २, त्राध्वम् ऋत्रा १८, २१, पावा ६, १, ४५
 १त्राण-णम् आपम २, १७, ३, आपध २, २७, ११, हिध २, ५, २३, या ५, २५
 २त्राण-पा ८, २, ५६
 २त्रात-पा ८, २, ५६, -ऋत्र आपश्रौ ४, १०, १, वाश्रौ १, १, ३, ६^६, हिश्रौ ६, ४, ४२
 त्रातुम् अप ७, १, ४, विध १०, ११, ११, १२, १२, ८, १३, ७

ऋत्रावृ-०त्. ऋत्रा १, १०१, ४, ५२, -ता आश्रौ २, १०, ३, शाश्रौ, -तार बाध १७, २५, -तारम् आश्रौ २, १०, ४, ६, ९, ५, बौश्रौ, -तु आपश्रौ ४, १०, १, वाश्रौ १, १, ३, ६, हिश्रौ ६, ४, ४२, -ऋत्रे आपश्रौ ३, १५, ७, बौश्रौ १३, १२ ६
 त्रायक-क वैध ३, १५, १३
 त्रायमाण, णा^७-ऋत्र शाश्रौ ६, १०, १०, १५, ८, १९, अप ४, ४, १, -णम् अप ४, १, ८, ऋत्र, -णस्य वाअ ३० ७, -णा बौश्रौ १७, ४१. ७, आपमं २, ७, २५, पागृ १, १३, १, वैगृ ६३. ५, आमिगृ १, ३, ४ : १, भागृ २, २१ : ३, ऋत्रिगृ १, १०, ६, ११, ३, -ऋत्रायै अप ३२, १, १८, अत्र ६, १०७, अप २ ५७, -णे अप ४, ५, ८, ऋत्र
 त्रात्र-पाठ ४, १७३
 त्रांश-प्रभृ, १त्रैत-त्रि-द्र
 त्रांशैत^८-तम् बौश्रौ २४, ३९ : १, त्रानाम् आपश्रौ २०, २३, १, माश्रौ ५, २, १०, ६, हिश्रौ १४, ५, ११^९
 त्रांतन^९-न वृदे ४, २२
 त्राघातवी-प्रभृ, १त्रैयम्बक-त्रि-द्र
 त्रांशैयम्बक^{१०}-कम् कप्र ३, ९, १८
 त्रांशैयम्बक-प्रमाण^{११}-णान् गोश्रु ३, १०, १२
 त्रांशैयहवक-त्र्यहव-द्र

त्रैयाहावक-त्र्याहाव-द्र
 त्रैरात्रिक-प्रभृ त्रि-द्र
 त्रोटि-पाठभो २, १, १६३
 त्रोट-√त्रै द्र
 √त्रौक् पाधा भ्वा आत्म गतौ.
 त्र्यंश-प्रभृ त्रि-द्र
 त्र्यक्ष^{१२}-(> त्र्य [, त्र्या^{१३}] क्षायण^{१४} -> त्र्यणभक्त-पा) पाग ४, २, ५४.
 त्र्यम्बु(क >) का^{१५}-का जैगृ १, ३, २.
 त्र्यरत्नि-प्रभृ त्रि-द्र
 त्र्यहव^{१६}-(> त्रैयहवक-पा) पाग ४, २, १२७
 त्र्यायण-(> ण भक्त-) त्र्यक्ष-टि द्र.
 त्र्यायुष-प्रभृ. त्रि-द्र
 त्र्याहाव-(> त्रैयाहावक-) त्र्यहव-टि द्र
 त्र्युत्तर-प्रभृ त्रि-द्र
 त्रत्व->त्व-शब्द-शब्दे उनिस् २ : १३
 त्रत्व-त्वद्-द्र
 त्रत्व-गुष्मद्-द्र
 √त्वद्^{१७} पाधा भ्वा पर तन्द-करणे
 त्रत्वक्षस्^{१८}-च अप ४८, १०३; निघ २, ९
 त्रत्वष्टि^{१९}- > ऋत्र त्रि (त्रि >) शी-म (त्र >) ती^{२०}-ती^{२१} आपश्रौ १०, २३, ७, १५, ८, १७, बौश्रौ ६, १३ १२, ९, ८ २२, भाश्रौ ११, ८, २२, वैश्रौ १२, १७ ६; १३, १०. २१, हिश्रौ २४, ३, ७.
 त्रत्वष्ट^{२२}-पाठ २, ९५, पावा ३, २,

a) पा ३, १, ७० परामृष्ट. द्र । b) = काल-विशेष, परिमाण-विशेष-। व्यु १ । c) पर १, ४, २५ परामृष्टः द्र । d) ताद्य^२ इति पाठः^२ यनि शोधः । e) त्रयस्व इति पाठ^२ यनि शोध । f) त्राता इति पाठ^२ यनि शोधः (तु आश्रौ) । g) वैप १ निर्दिष्टयो समावेश द्र । h) वैप १ परि. द्र. । i) त्रै इति पाठः^२ यनि शोध. [तु सप्र तै २, १, १, ६] । j) वैप १ द्र । k) = करतल- । l) विप । बस. । m) तु. पागम. । n) तु भाखडा प्रभृ । o) त्र्यायण- इति पाका । p) = मत्तिका-विशेष-। व्यु १ । q) तु. पासि. ह त्र्याहाव- इति भाखडा प्रभृ । r) वृदे ३, १६ या ८, १३ परामृष्ट. द्र. । s) पाभे. वैप १, १५२६ ० द्र. ।

१३५, -फ०ष्ट आश्रौ ३, ८, १,
शाश्रौ, -ष्टा आश्रौ २, ११, २,
३१, ४१×४, शाश्रौ, या ६,
१४१, २११, ८, १४३, १०,
३३, ३४१, १२, १११, -ष्टारम्
आश्रौ १, १०, ४×४, शाश्रौ,
या ८, १४१, -फ०ष्टु आपश्रौ
१६, २७, ११; बौश्रौ, या ४,
२५, ८, १५, -ष्टा बौश्रौ ८, १४:
२४१, २५, २३: १३, वैश्रौ,
या १०, २७, अशा ३, २, २६१,
-ष्टे शाश्रौ १५, १४, ४, आपश्रौ
त्वाष्ट्री- ष्ट्र काश्रौ ५,
१२, ३, ८, ९, १, बौश्रौ, -ष्ट्रम्
शाश्रौ १३, ४, १, १४, ५०, १,
काश्रौ, -ष्ट्रस्य बौश्रौ २३, १४
१२, १४, १७, अशा ६, ४,
-ष्ट्राः आपश्रौ २०, २२, १३,
हिश्रौ १४, ५, ९, साञ्च १, ७, १,
-ष्ट्रान् बौश्रौ १५, ३७ ८,
-ष्ट्रे अप ३१, ५, २, विघ ७८,
१९, -ष्ट्रेण आश्रौ ६, १४, १०,
शाश्रौ ९, २७, ४, बौश्रौ २८,
६: १७, कौसू ३६, २५१, -ष्ट्रौ
आपश्रौ २०, १३, १२, बौश्रौ
१५, २३ ६, २६ ७, हिश्रौ
१४, ३, १४

त्वाष्ट्री- ष्ट्री अशा
१६, १, ऋञ्च, या १२, १०,
-ष्ट्रीः आपश्रौ ९, १९, १७,
बौश्रौ १४, २८ ५, -ष्ट्रीम्
अशा १७, ५, वृदे ७, ३, -ष्ट्र्याम्
अशा १८, ६, १२, ७, -ष्ट्र्यौ
ऋञ्च २, २, ३२, वृदे ४, ८६

त्वाष्ट्री-सामन्-
-म लाश्रौ ७, ३, १५, ८, ५,
जुसू ३, २ १६, १७, ५ १३३,
१२ १०, ११, निसू ५, २
१, -म्नः लाश्रौ ७, ४, १३,
-म्नि लाश्रौ ७, ८, ११

त्वाष्ट्रीसामा-
(म-आ)यास्य- -स्ये लाश्रौ ७,
४, ११^b.

?त्वाष्ट्रेत्वष्ट्रे बौश्रौ १४,

२८ ६
त्वष्टृ-द्वैव(त>)ता- -ता अप
१, ४, ३

त्वष्टृ-द्वैवत्य- -त्य पाण्ट ३,
१५, ५

फ०त्वष्टृ-मत्^a- -मन्त^c काश्रौ
२६, ४, १५, आपश्रौ १०, २३,
८^d, शुञ्च ४, ८५

त्वष्टृ-वनस्पति- -स्यो काश्रौ
८, ९, ५

त्वष्टि- > ष्टि-मत्^a- -मन्त.^c

फ०माश्रौ २, १, ३, ४७, ४, २, ३७

?त्वक्षरितेति^e वैण्ट २, १०: १३

?त्वग्दात्रे^f शाश्रौ ७, १८, ३१

?त्वग्रस्थाश्विन. वाश्रौ ३, २, ७, ७०

√त्वङ्ग् पावा +वा पर गतौ
कम्पने च

√त्वच् पाधा तुदा पर सवरणे

त्वच्^a- पाउ २, ६३, त्वक् शाश्रौ ६,
१, ६, काश्रौ, त्वच शाश्रौ १३,
३, ५, १६, १५, १०, काश्रौ, हिण्ट
१, २४, ४^b, त्वचम् शाश्रौ ५ १७,
४१, आपश्रौ, या १४, ३४^c,
त्वचा फ०आपश्रौ १०, १४, ९, १६,

१९, १, वाश्रौ, त्वचाम् कौसू
६२, २३, त्वचि आपश्रौ ८, १९,
९१, बौश्रौ

त्वक्-केश-नख-कीटा (ट-आ) खु-
पुरीष- -षाणि बौध २, ७, ५

त्वक्-ठि (<शि)इनो (श्र-उ) दरा
(र-आ)रम्भण^h- -णान् आपध
२, ५, १९ⁱ

त्वक्-तस् () द्राश्रौ ५, २, ३,
लाश्रौ २, ६, १, निसू १, ११: ६

त्वक्-आलेचन^j- -नानि बौश्रौ
२०, १६ ६, ८

त्वक्तो-बि(ल>)ला^k- -लाः
आपश्रौ १, १५, १२, काठश्रौ ७,
हिश्रौ १, ४, ३२, काण्ट ४६ ५-

?त्वक्पाश्र्वोर्ध्वभा(ग>)गा-
गाम् वैश्रौ १, १ १४

?त्वक्पाश्र्वोर्ध्वबिल- -लम् वैश्रौ
११, ७ २

त्वग्-अस्थि-गत- -तम् आमिण्ट
२, ७, ७: २०, अप ३८, ३, २.

त्वग्-दोष-> षिन्- -षी वृदे
७, १५६.

त्वग्दोषिणी- -णी वृदे
६, ९९

त्वग्दोषो(ष-उ)पहत्ते(त-इ)
न्दित्र्य^l- -य. वृदे ८, ५

त्वग्-बि(ल>)ला^k- -ला अप
२३, ३, १, -ला काश्रौ १, ३,
३८, भाश्रौ १, १६, ६, -लाम्

भाण्ट १, १: ३

त्वग्-रोम-नख-दन्तौ (न्त-ओ) ष-
पाणि-पादतला(ल-आ)दि-

-दिषु अप ६८, १, ३९

a) वैप १ द्र ।

b) ष्ट्री^o इति पाठ ? यनि शोघ ।

c) पाभे वैप १, १५२६ C द्र ।

d) त्वष्टुम् इति पाठ ? यनि शोघः ।

e) पाठ ? तु, अक्षरितम्, इति इति त्रिपद संभाव्यत ।

f) पाठः ? त्वक्-दातु-> -त्रे इति शोघ (तु वैप १ परि मा ७, ४७ टि) ।

g) तनु-त्वच इति संस्कृते शोघ. h

h) विप. । द्रस > बम । i) पाभे पृ १०४३ E द्र । j) विप । बस ।

त्वग्-लोमन्-मानि वैश्रौ १३, १७:१५
 त्वग्-व्यादेश- -ञ या १४, ६
 त्वङ्-मस्तिष्को(ष्क-उ)कृत-
 -तानि काश्रौ १६, १, ३०
 त्वङ्-मास-रुधिरा (र-अ) स्थि-
 -स्थोनाम् अत्र ६४, ५, ८
 त्वङ्-मास-शोगित- -तानि या
 १४, ५
 त्वच्-सुख^१- -खा^१ आमिगृ ३,
 ४, २ १७, बौषि ३, २, ३,
 गौपि १, २, ४१^२
 त्वच्चा(चा-अ)न्त^३- न्त शुअ
 ३, ४६
 √त्वचि पा ३, १, २५
 त्वचो-वि(ल >)ला^४- -ला:
 माश्रौ १, २, १, ६
 १ त्वचनस्थिति जैश्रौका ३०
 त्वच्छ्री- युष्मद्- द्र
 √त्वञ्च् पाधा भ्वा पर गतौ
 १ त्वञ्चसत्वम् अप १, ४१, २
 त्वत् पितृ-, त्वत्-पुरोहित- प्रभृ
 युष्मद्- द्र
 त्वद्^५-
 रत्व- पाग १, १, २७, त्वः अप
 ४८, ११९^६, बृदे २, ११४,
 निघ ३, २९, ऋया १, ७, ८^७,
 १९^७, ३, २०, शुप्रा २, १६^८,
 तैप्रा ११, ५^९, भाशि १४^९,
 त्वत् पाग १, १, २७, या १,
 ९, त्वम् या १, ८^९, त्वस्मै या
 १, ८, १९^९, ऋत्वे आपश्रौ
 २१, २२, ४, वाश्रौ, आपम १,
 ७, ९^९, या १, ९^९, १३, १३.

१-२त्वदर्थ- प्रभृ, त्वम्, त्व-मति-,
 त्वम्- युष्मद्- द्र
 √त्वर् पाधा भ्वा आत्म सत्रमे,
 त्वरते अत्र ३१, ५, ३, वाव
 २७, १७, बौध ४, ५, ३०,
 त्वरध्वम् बौश्रौ २५, ९:४, त्वरेत्
 आपश्रौ ९, ९, ८, १२, १३, १२,
 भाश्रौ, त्वरेत् अप्राय ४, ३,
 त्वरेरन् शाश्रौ १६, ७, ७
 त्वर्यति वाश्रौ ३, २, २, २९
 त्वर^१- -रम् अप ७१, १०, २
 त्वरत्- -रन् कप्र १, ६, ७
 त्वरमाण- पाग ६, २, १६०, -ण
 माश्रौ २, ३, ८, ९, हिश्रौ ८, ३,
 ५७, अप्राय ५, १, अप १६, १,
 ७, बौध १, ५, १५, या ६, २०,
 ७, २७, आज्यो ७, १४, -णै:
 बौश्रौ २७, ४ २६
 त्वरा^२- -रया वैश्रौ १२, १४ ९,
 या १२, १४, -राम् विध ७९,
 २१.
 त्वरा-क्रोध-विबर्जित- -त विध
 ६६, १५
 त्वरा-युक्त-त्व- -त्वात् मीसू
 १०, ७, ४२
 त्वरित,ता- पा ७, २, २८, -तम^३
 शंघ ७७, भाशि १६, ३, नाशि
 २, ८, १८, -ता आज्यो ७, १६
 त्वा पाग १, ४, ५७
 त्वा-, त्वा-दात्- प्रभृ युष्मद्- द्र
 १ त्वायाद्या वाश्रौ ३, ३, १, ३६.
 त्वाव^४ वाधुश्रौ ४, ३७ ३०, पाग १,
 ४, ५७^४.
 त्वावत् पाग १, ४, ५७^४.

त्वाचत्- युष्मद्- द्र
 त्वाष्ट्-, ष्टी √त्वच् द्र
 √त्विष् पाधा भ्वा उभ. दीप्तौ,
 त्विष्यति अप ४८, १६^५
 ऋत्विषे वाश्रौ ३, २, १, ५८;
 हिश्रौ ८, ४, २७
 त्विष्^६- पावाग ३, ३, १०८;
 ऋत्विष. काश्रौ २६, ७,
 ५६, शुअ ४, १११, त्विषा
 बौश्रौ २५, २०: २५^६, बृदे ६,
 १२१, त्विषे माश्रौ ४, ३, ३०^६.
 त्विषि^७- -ऋषिः काश्रौ १५, ५,
 १, २५, आपश्रौ १०, ११, १; १८,
 १५ ५, बौश्रौ १२, १०: १२^७;
 १७, १९. ४^७, वाश्रौ, या १,
 १७^७, -ऋषिम् शाश्रौ १४,
 ३४, १^७, १७, १३, १०, हिगृ
 १, २४, २, -ऋष्यै आपश्रौ १५,
 ११, १, बौश्रौ ९, १०: ३१;
 भाश्रौ
 त्विषि-काम- -म. शाश्रौ १४,
 ३४, १
 त्विषि-देवता- > ऋष्य- -त्यम्
 अत्र ६, ३९
 त्विषि^८, षी^८ मद्- -मता शाश्रौ
 १४, ३४, ३, -मति बौश्रौ २६,
 ८ ४, -ऋमते कौसू ४, १; शुप्रा
 ३, ११६, तैप्रा ३, ७, -मन्तः
 ऋप्रा ९, ९^८, -मान् काश्रौ ३,
 ३, ५^८, बौश्रौ १८, ३९: ९-१२.
 त्विषि-तस् (-) बृदे ३, १६.
 त्विष्य(वि-अ)पचिति- -त्यो:
 आश्रौ ९, ८, २१, तैताश्रौ ४०, १.
 त्विषित- -तः या १, १७^९.

a) विप । बस b) त्वचसु इति पाठः^१ यनि. शोधः । c) पूष त्वच्चा (मा २५, ९) । d) वैप १
 द्र. । e) पाप्मे वैप १ पुष्ये शौ १४, २, ७ टि द्र । f) या ६, १२, १२, १४, १३, ९ पा ६, ४, २०, ७, ४, ९५
 परामृष्टः द्र । g) वा क्विवि । h) तु. पागम. । i) या ८, १३ परामृष्टः द्र । j) =दीप्ति-, ऋतु-विशेष- ।
 k) कौसू. ऋप्रा. शुप्रा. तैप्रा. पाठः ।

√त्वेष^१- व- आश्रौ ६, ३, १९,
काश्रौ २२, ६, १६, आपश्रौ १३,
१६, ८, माश्रौ १, ५, ३, ४,
वाश्रौ, -षम् आश्रौ ६, ७, ९,
आपश्रौ, या ९, २९, ११, ८,
-षस्य आपश्रौ १३, १६, ८,
हिश्रौ १०, ५, १३, -षास. शाश्रौ
८, २३, १

√त्वेष-नृम्ण^२- ङ्ग. आपश्रौ
२१, २२, ३, वाश्रौ ३, २, ५, २०,
हिश्रौ १६, ७, १५, या १४,
२४, ऋप्रा ५, ५१

त्वेष-पुर्वे(र-ए)वम्-आदि-

-दिषु ऋप्रा ५, ५१

त्वेष-प्रती(क>)का^३- का
या १०, २१, ११

त्वेष-सिद्धश्^४- दृश. शाश्रौ ३,
५, ११

त्वेषत्^५- पाठना १, १२४

१त्वे पाग १, ४, ५७

२त्वे युष्मद्-द्र

त्वै^६ आपश्रौ २४, १३, ११ पाग १,
४, ५७

√त्वैतानाम्^७ वाश्रौ ३, ४, ५, २३

त्वोत- युष्मद्-द्र

त्सघी^८- घी अप ४८, १०, २१

√त्सद् पाधा भ्वा पर छद्मगतौ,

√त्सरति कौस् १००, २, निघ २,

१४, त्सरन्ति वाधुश्रौ ४, २६^९.

५, ६, अत्सरत् वाधुश्रौ ४,

२६^{१०} ४

√अत्साः या ५, ३, ऋप्रा १,

११.

त्सरत्- नन्तः आपश्रौ १२, १७, ३

त्सर^{११}- पाठ १, ७, पाग ५, २, ६४,

-रु वाध २, ३५, -रु आपशु

१३, ९, १०, बौशु १७ ५,

हिशु ४, ३७, -रूणि बौशौ २५,

१३: १९, -रो बौशु १७

१२

त्सरु-क- पा ५, २, ६४

त्सरु-पाश्च^{१२}- -श्चयो आपशु

१३, १६, हिशु ४, ४१

त्सरु-मत्- -मतः आपश्रौ १२,

२, ८, माश्रौ २, ३, १, २०, वैश्रौ

१५, २ १५, हिश्रौ ८, १

३२

त्सरु वर्जम् आपशु १४, १२,

हिशु ४, ५१

त्सरु-श्रोण्य(शि-अ)न्तराल-

-लयो. बौशु १७. ९

त्सर्वै(र-अ)ग्र- अ आपशु १३,

१३, हिशु ४, ४१

त्सारिन्^{१३}- री शैशि १०७

थ

थ^{१४}->थ-कार- -रः या ७, २९,

-रेण याशि २, ८८, -रौ माशि

१४, १

थ-स-वर्ण- -र्णम् याशि २, ३९

√थङ्क् √मुङ्क् टि द्र

√*थर्व^{१५}

थलाथल- पा, पाग २, ४, ६९^{१६}

थलित^{१७}- अप ४८, ६१

था^{१८} पाग १, ४, ५७

थाट् पाग १, ४, ५७

√थुङ् पाधा तुदा पर संवरणे

√थुर्व पाधा भ्वा पर हिंसायाम्

द

द, दा^{१९}- द ऋत ४, ३, ५

द-कार- -रः अप ३४, १, २, तैप्रा

५, ८, -रम् शुप्रा ३, ५५, -रात्

अप ३४, १, ३, -रे ऋपा ५,

१४

दकारा(र अ)न्त^{२०}- -न्तात् अप्रा

२, ३, १६.

द-को(क-ऊ)र्ध्व- -र्ध्व भाशि ९६

द-संयुत- -तम् भाशि ८४

ददा(दा-अ)न्त- -न्तम् माग १,

१८, १, गोय २, ८, १६

दार्ण^{२१}- -र्णस्य शैशि २५४

√दंश्, दंश्^{२२} पाधा भ्वा पर दर्शने;

तुरा आत्म दंशने, उभ

भाषायाम्, दर्शन् माश्रौ ३,

५, ६

ददंश माग २, १ १६, दाङ्क्षु-

माग २, १६, ३^{२३}

दशयति कौस् ३०, १६, ४६,

४४

दश^{२४}- पाग ३, १, १३४, ४, १,

८६^{२५}, ५, २, १३६, -श विध

४४, १७, या १, २०, १, -शान्

आपश्रौ २१, १२, ३, १, हिश्रौ

१६, ४, ३५

दाश- पा ४, १, ८६

दश-मशक- -कान् आपश्रौ २१,

१२, १, हिश्रौ १६, ४, ३४, बौव

३, ३, १९

दंश-वत्- पा ५, २, १३६

दंश वारणा(ण-अ)र्थ- -र्था या

१, २०

a) वैप १ द्र । b) = देव-विशेष- । c) पाठ ? त्रैतानाम् इति शोध (तु हिश्रौ १४, ५, ११) ।

d) वाङ्-नामन्- । व्यु. ? । e) = वर्ण-विशेष- । f) या ११, १८ परामृष्टः द्र । g) तु पागम ।

h) कर्म नामन्- । व्यु. ? । i) विप । बस. । j) पाठ ? । द-वर्ण- इति स्यात् ? । k) या १, २० पा ३, १,

२४, ६, ४, २५, ७, ४, ८६ परामृष्टः द्र । l) षु इति पाठ. ? यनि शोध । m) भाप नाप व्यप च ।

दंश-वीर्य^१ - च्या बौश्री १७, १८ १०
 दंशिन- पा ५, २, १३६
 दंशुक- का वीश्री १७, १८ : १०, निस् १०, १३ ३, तैप्रा १६, १९
 दंशमन्- - श्म कौसू २९, ६^१, ३२, २४
 दंष्ट्र, ष्ट्रा^२ - पाठवृ ४, १५९, पा ३, २ १८२, पाग ४, १, ४^१, ५, २, ११६, -ष्ट्र गोय २, ९, १३^६, -ष्ट्रया अप ३६, १, १०, -ष्ट्रभिः शैशि १६४, पाशि २८, माशि ४, ७, याशि २, ७९, नाशि २, ८, ३०, -ष्ट्राभ्याम् आपश्रौ १६, १०, ३^१, २०, २१, ९, बौश्री, -ष्ट्रौ वैनाश्री १०, १७
 दंष्ट्रा(ष्ट्र-अ)ग्र- अ्रेण विध १, ११
 दंष्ट्रा-घण्टा-निना(द>)दा- दा अप ३६, २५, ३.
 दंष्ट्रिक- पा ५, २, ११६.
 दंष्ट्रिन- पा ५, २, ११६, -ष्ट्रिण वाश्री ३, ४, ३, २२, आमिग २, ५, ९ १२, जैग २, ६ : १०, अप ६८, ३, १३, वाघ २, २८, -ष्ट्रिणा वैग ७, ४ ११^२, -ष्ट्रिणाम् विध ५, १८८, -ष्ट्रिभिः अप ६८, २, ३९, -ष्ट्रिभ्य हिपि २३ : १७.
 दंष्ट्रि-शङ्गिन- ङ्गिणाम् अप ३६, २७, १
 दक्ष्यु^३ - पावा ३, २, १३९.

दक्ष्यत्- -क्ष्यन्तम् आपमं २, १७, १
 ददक्षक^४ - पा ३, २, १६६, -कम् आपमं २, १७, १^१, -कंका. आपश्रौ १८, १५, ६, बौश्री १२, १० १५, वाश्री ३, ३, २, ४५, हिश्री १३, ५, २७, आपम २, १७, १३, आमिग ३, ३, २ ५^१, बौपि २, ९, ९, या १४, ९^१, -कंकानाम् आपश्रौ १०, २६, १४, बौश्री ६, १५ १३, भाश्री १०, १७, १९, माश्री २, १, ४, १४, वैश्री १२, १९ ६, हिश्री ७, २, ७८, -कैभ्य वीग ३, १०, ५^१
 दशत्- -शत् आपश्रौ २२, १७, ५, हिश्री १७, ६, ४२, -शते माग २, १६, ३^१, -शन्तम् आपम २, १७, १^१
 दशन^५ - ना विध १६, ५७
 दशन-छदो(द-उ)पहत- -त विध २२, ८०
 दशना(न-अ)ग्र- अ्रेण दवि २, १
 दष्ट- -ष्ट. कौसू २९, ७, ३२, २५, वाघ २३, ३१, शघ ४१२^१, बौध १, ५, १२६, विध ५४, १२, -ष्टम् गोय ४, ९, १५, अप ६२, २, ७, -ष्टस्य गौध २३, ८
 दष्ट-मत्- -मन्नि द्राग ४, ४, १
 दष्टुम् वृदे ६, १२
 √दंस् पाधा. चुरा आत्म दर्शन- दंशनयोः, पर. भाषार्थे, दंसयन्ति या ४, २५^६, दंसय^१

निघ ४, १, या ४, २५
 दंस(न>)ना^६ - नाभिः आपश्रौ १९, २, १९, -नाभ्य बौश्री १३, ८ ८, तैप्रा १६, १९
 दसना-वत्- -वान् शाश्री ८, १७, १^१
 दंसस^७ - -सः अप ४८, ६१, निघ २, १, ऋप्रा ८, १८, -सासि माश्री ४, ४, ३८, काय, -सोभिः अप्राय ६, ९^१, तैप्रा १६, १९
 दंसस-वत्- > दंसिष्ट- -०ष्ट ऋप्रा ७, ४६^१
 दस्म- पाठ १, १४५, -कंस्म आपश्रौ १६, २०, १४, हिश्री ११, ६, ६१, -स्मम् आश्री ५, १६, २^१ × ×, शाश्री
 दस्म-वर्चस^८ - च्या आपश्रौ ५, २३, ९^१
 दस्य^९ - -स्यम् आग १, १, ४^१
 दक्ष^{१०} - पाठ २, १३, -क्ष वृदे ७, ६^१, -क्षम् शोध ११६ : ६४^१; -कंक्षा आश्री ४, ७, ४, शाश्री ५, १०, ८, या ६, २६, शुअ ३, २२१, -०क्षा आमिग २, ५, १० : ३०^१, -०क्षौ बौश्री ७, ३ : २^१
 √दक्ष^{११} पाधा भ्वा आत्म वृद्धौ शीघ्राथे गतिहिंसनयोश्च, दक्षत् ऋप्रा ४, ९८^१, कंअदक्षन्त भाशि ११८, १२०
 दक्षयति वाधुश्री ४, ४ ६, ८;
 दक्षयेत् वाधुश्री ४, ४ ३

a) विप. । बस. । b) दंशु इति पाठ. ^१ यनि शोध (तु पै ६, १४, ३ संस्कृति टि च) । c) = दष्टस्थान- । अधिकरणे मनिन् प्र (पाठ ४, १४५) । d) दंस्म इति दारिल । e) वैप १ द । f) तु पागम. । g) पाभे. वैप २, ३३ खं दंष्ट्र मंत्रा १, ६, ४ टि द । h) णा इति पाठ ? यनि शोध । i) ण्त् इति पाठः ^१ यनि शोध । j) = दन्त । k) ण्त् इति शिवसं. । l) वैप १, ५८८ b द । m) तु. आन । n) व्यन. (अश्विनोरन्यतर-) ।

अदक्षत् वाचुश्री ४, ४
 दक्ष, क्षा^a- पाग ४, १, १५४^b, -क्षः
 शाश्रौ ७, १६, ८^c, आपश्रौ,
 वृदे^d ७, ११४, ८, १२८, शुक्र^e
 ३, २३५, ४, ३४, या ११, २३^f,
 १२, ३६^g, -क्षम् आश्रौ ५,
 १८, २^h, शाश्रौ ८, ३, ४ⁱ, ६, ११,
 १२, २, १४, आपश्रौ ८, १४,
 २४, बौश्रौ ६, ५, ५, ९, १६
 १६, अप ४३, ३, २१^j, शंघ
 १११६. ३०^k, ४०^l, ६२^m,
 -क्षस्य शाश्रौ ७, १०, ११ⁿ,
 पाग १, १८, ५^o, वृदे ७, १०४^p,
 या २, १३, ११, २३^q, -चा
 कप्र २, १०, ४, -क्षा बौश्रौ
 २१, २४ : ४, -क्षात् या ११,
 २३^r, -क्षाय आश्रौ ४, १२,
 २, शाश्रौ ९, २७, २^s, आपश्रौ,
 या ११, ३०^t, -क्षे आपश्रौ १०,
 ३, ८^u

१दाक्षायण^a- >ण-

यज्ञ^a- -ज्ञ काश्रौ ४, ४, १,
 आपश्रौ ३, १७, ११, बौश्रौ २४,
 ४ ६, वैताश्रौ ५, २४, ४३,
 २०, -ज्ञस्य शाश्रौ ३, ८, ३,
 ६, -ज्ञा. शाश्रौ १४, ५, ३;
 -ज्ञे आश्रौ २, १४, ७, बौश्रौ
 २१, १०११, २६, २२ २२,
 बौव १, ६, ३०, -ज्ञेन आपश्रौ
 ३, १७, ४, बौश्रौ १७, ५१. १,
 २३, १७ : २१ वाश्रौ १, १,
 १, ८५, हिश्रौ २, ६, ५६

दाक्षायणयज्ञिन्-

-श्री काश्रौ ४, २, ४८
 दाक्षायणयज्ञिक¹-
 -कानि शाश्रौ ३, ९, ४
 दाक्षायण-सव- -व
 कौशि ४२
 २दाक्षायण^{2k}- पाग ४,
 २, ५३^b, ५४, -णा शुप्रा ५,
 ३७
 दाक्षायणक- पा ४, २,
 ५३
 दाक्षायण-भक्त- पा ४,
 २, ५४
 ३दाक्षायण^a- -णम् काश्रौ
 ४, ४, २५
 दाक्षायणि-पा ४, १, १५४^b,
 -णय. बौश्रौप्र ४१ ११
 दाक्षायणी¹- -णी अप
 १, ३, १, ३७, ५^c, अशा ७,
 ५^d, ऋअ २, १०, ७२, या ११,
 २३, -णीम् शंघ ११६ ३०,
 -ण्यः आमिगृ २, ५, ३ २४^e,
 बौगृ ३, ७, १८^f, वृदे ५, १४३,
 -ण्या चाअ ७ ३
 दाक्षि- पाग ४, २, ५३,
 -क्षि बौश्रौप्र २७ : ३, ३० १
 दाक्षी->दाक्षी-
 पुत्र- -त्राय पाशि ३१
 दाक्षीपुत्र-
 पाणिनि- -निना पाशि ३१
 दाक्षक- पा ४, २, ५३
 दाक्षि-कूट- पाग २, २,
 ३८^b
 दाक्षि-भिक्षुक- पाग २,

२, ३१^b
 दाक्ष्य^m- -क्ष्येण वृदे ८,
 १३०
 ऋदक्ष-कृत- -तुभ्याम् आपश्रौ
 १२, १८, २०, बौश्रौ १४, ८ :
 २१, ३४, माश्रौ २, ३ ७, १;
 वैश्रौ १५, २२ : ४, हिश्रौ ८,
 ५, १९, -त् आश्रौ ६, ९, ३;
 आपश्रौ ४, ३, १२^c, १२, १९,
 ५, १४, २१, ४, वाधुश्री ४,
 ९३ : ५^d, हिश्रौ १५, ५, २६;
 २७, आगृ ३, ६, ७^e, हिगृ १,
 १६, २^f, अप्राय ६, ६
 ऋदक्ष-पितृ^a- -तर विघ ४८,
 ८, -ता आपश्रौ १०, ३, ८;
 -तार बौश्रौ ६, ७ ११, बौघ
 ३, ६, १५
 दक्ष-प्रजापति- -तिः ऋघ २८२
 ५
 दक्ष-यज्ञ- -ज्ञे अप ४२, १२, ५,
 दक्ष(क्ष-ऋ)र्षि- -र्षे अत्र १,
 ३५
 दक्ष-वृध^a- -वृधे बौश्रौ ७, ४
 १३^f
 दक्ष-मावर्ण- -र्णम् शव ११६ :
 ४६
 दक्ष-सु(त >)ता^b- -ता वृदे
 ३, ५७, -०ते अशा १, २
 दक्षमाण- -ण अत्र १, ३५^g
 ऋदक्षस^a- -क्ष निघ २, ९, -क्षसे
 आश्रौ २, ५, १०^h, आपश्रौ १७,
 ९, १ⁱ, वैश्रौ १९, ६ १^j
 दक्षाय्य^a- पाउ ३, ९६

a) वैप १ द्र । b) तु पागम । c) पासे वैप १, ११७६ d द्र । d) = देवता-विशेष- ।
 e) = ऋषि-विशेष- । f) ऋ इति पाठ १ यनि शोव (वृ सप्र शौ ७, १५, ४) । g) व्यप । h) = विश्वेदेवा-
 ऽन्यतम- । i) पासे वैप १, १५३४ d द्र । j) तस्येदमी ष् ठक् प्र उसे (पा ४, ३, १२४) । k) पाप्र (४, १,
 १०१) <दाक्षि- इति । l) विप, व्यप । m) भावे प्यञ् प्र । n) उप = कन्या- । o) पासे. वैप १,
 १५३५ j द्र । p) पासे वैप १, १२९६ d द्र ।

१दक्षा गौपि १,१,८[†]
 १दक्षिण, णा^२- पाउ २, ५०, -ण
 आश्रौ २, २, १३××, शाश्रौ
 १७, १३, २^२†^३, काश्रौ, बौश्रौ
 २२, ८ ३^०, या १, ७^६,
 -णम् आश्रौ १, १, १२××,
 शाश्रौ, आमिष्ट ३, ५, ८ ६^६,
 -णम्-णम् माश्रौ १, १, २, २,
 वाश्रौ १, २, ३, १६, -णया शाश्रौ
 ४, ११, ४^०, काश्रौ, -णयो काश्रौ
 १७, १०, ८××, बौश्रौ, -णस्मात्
 माश्रौ १, ७, ३, ४६, २, २, ३, ३,
 वाश्रौ, पा ७, १, १६, -णस्मिन्
 माश्रौ १, ७, ४, १७, वाश्रौ,
 पा ७, १, १६, -णस्य आश्रौ ४,
 ९, ३××, शाश्रौ, -णस्या. काश्रौ
 ७, ३, २७, आपश्रौ, -णस्याम्
 आश्रौ १, ११, ७^१, ६, १०, २१,
 शाश्रौ, -णा आश्रौ १२, ९, ५,
 काश्रौ, -णा बौश्रौ २, ११
 ७××, माश्रौ, लाश्रौ ५, ६, १०^१,
 -णात् आश्रौ ४, ४, ४^६, शाश्रौ,
 -णान् आश्रौ ४, ५, ७, १०, ८,
 ८, काश्रौ, -णानि आपश्रौ १०,
 २२, ११, ११, १०, ९-११,
 बौश्रौ, बौपि १, ७ ८^६, कौसू
 ८१, २७, -णाभ्याम् काश्रौ
 १७, १०, ५, माश्रौ १, १०, १६,
 -णाम् शाश्रौ ६, ३, २^१, १७,
 १०, ११^२, काश्रौ, वैताश्रौ ७,
 २४^६, -णाम्-णाम् वाश्रौ
 १, २, ३, १२, -णाय आश्रौ ५,

६, १२, ऋप्रा १५, २१, -णया
 भाश्रौ ७, १८, १२, माश्रौ,
 -णायाम् बौश्रौ ३, २० १३,
 १०, ३८ : १७, ११, २ २६,
 माश्रौ १, ७, ३, ३१, ६, १, ८, ५,
 वैश्रौ, -णायै आपश्रौ २, ८, ३,
 १६, १९, ७, बौश्रौ, -णे आश्रौ
 १, १२, ३२××, शाश्रौ, बौश्रौ
 १६, ३ ३०, -णेन, > ना^१
 आश्रौ ३, १, १८××, शाश्रौ,
 -णेभ्य आपश्रौ १९, १४,
 १३, -णेषाम् आपश्रौ १५, ७,
 ३^२†, बौश्रौ, -णेषु काठश्रौ
 ८४××, बौश्रौ, -णै आश्रौ
 ६, १२, ७, आपश्रौ, -णौ आश्रौ
 १२, ९, ८, -णौ-णौ बौश्रौ २१,
 १४ ३१
 दक्षिण कपाल-योग- गान् वैश्रौ
 ४, १० : ४
 दक्षिण-कर्ण- -णैम् आमिष्ट २, ७,
 ८ ४, -णै वाश्रौ १, ४, ३, ८,
 काश्रौ ४३. २
 दक्षिण ग्रीव^१- -णम् वैश्रौ ५, ३ :
 १६
 दक्षिण-जानु- -णुना काश्रौ ७, ३,
 २१
 दक्षिणजान्व(नु-ञ्)क्त- -क्त
 गोश्रौ १, ३ १, २, १०, ३२, द्राश्रौ
 १, २, १७, -क्तम् द्राश्रौ २, ४,
 २०
 दक्षिण तस्र()^१ आश्रौ १, ७, ६××,
 शाश्रौ, ८, १५, ११^६, आपश्रौ

१०, २०, १^१, १४, २०, ८^३;
 द्राश्रौ १०, ३, ६^०, लाश्रौ ३,
 ११, ३^०, पाश्रौ ३, ४, १७^{३००},
 माश्रौ २, १५, १^१†, याशि १,
 ५८, पा ५, ३, २८, वेज्यो
 ४०
 दक्षिणत-उपचार^१- -र बौश्रौ
 २६, ३३ १८, -रम् आपश्रौ
 ११, ९, ४, हिश्रौ १३, ६,
 १७
 दक्षिणत-उपवीतिन्- -तिन्
 आपश्रौ ३, १७, १, हिश्रौ २, ६,
 ५५
 दक्षिणत-प्रवृत्ति^१- -त्त्य शाश्रौ
 १, ८, ५
 दक्षिणत-सद्- -राद्भ्यः वाश्रौ
 १, १, ३, १७
 दक्षिणतो-न्याय^१- -चम् शाश्रौ
 २, ११, १, ४, ६, १
 †दक्षिण-दृक्- -चक् लाश्रौ ५,
 ७, ३
 दक्षिण द्वार- -द्वारा वैश्रौ १४,
 १९ ४
 दक्षिण-द्वार^१- -रम् वैश्रौ १४, १० :
 २, काश्रौ ११, १, गोश्रौ ४, ७,
 १६, -राणि आमिष्ट २, ६, ३
 ४^१, कौसू ८५, ११, अप १,
 २८, ३
 दक्षिण-धिष्ण्य^१- -ष्ण्यः-ऽष्ण्य
 शाश्रौ ६, १३, ४
 दक्षिण-धुर्->°धुयं- -र्धम् काश्रौ
 १५, ६, १८

a) १दक्षिण,णा-, २दक्षिण-, णा- (तु वैप १) इत्यत्र समाविष्टौ । b) सप्र दक्षिणो बाहुः <>
 दक्षिणत इति पाठे । c) = दक्षिणतस् () इति । d) सपा णम् <> णानि इति पाठे । e) पाठे.
 वैप १, १५३५ ङ द । f) णान् पञ्च इति पाठ, १ यनि च न्यञ्च इति च शोध (तु द्राश्रौ.) । g) पृ ६३८
 ० द्र. । h) णात् इति पाठ १ यनि शोधः (तु सोमादित्यः ० च) । i) वैप १ द्र । j) विप. । बस. ।
 k) पाठे. वैप १, १५३६ ज द्र. । l) उत्तरेण समस्तमिति संस्कृतः सूची । m) सप्र दक्षिणतः <> दक्षिणा इति
 पाठे. । n) सकृत् वैप १ पश्चात् [काठ ३७, १०] इति पाठे. । o) पाठे. वैप १, १५३६ ० द्र ।

दक्षिणधुर्य-सम^a- -सम् काश्रौ
२०, १, २९^b.
दक्षिण-पश्चात्^c वैताश्रौ ३४, २,
आमिगृ २, ५, ९ ७, जैगृ २,
६ ६, अय ५६, १, ६
दक्षिण-पश्चा(श्च-अ)र्ध^e- पावा ५,
३, ३२, -र्धात् कौगृ १, ५, १८,
शागृ १, ९, ६
दक्षिण-पश्चिम, मा^f- -मस्याम् वैगृ
१, ९ : ५, ४, ५ ४, -मे आगृ
४, २, १३, वैगृ,
दक्षिण-पाणि- -गिना वैध २, १३,
५, ३, ३, ११, -गिम् वैगृ २,
६ ३, गोगृ २, १०, २२, -णे
वैगृ १, ५ ६, ३, २२ १०.
दक्षिण-पाद- -दस्य हिश्रौ ६, ४,
२०, -देन पागृ १, ५, २, ७, १,
-दौ वैश्रौ १९, ६ ६७^d
दक्षिणपादा(द-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्टे वैगृ
२, १८ १२
दक्षिणपादाङ्गुष्ठा(ष्ट अ)प्र-
-प्रेण वैध २, २, १
दक्षिण-पार्श्व- -र्ध्वे अप ५६, १, ५,
विध ९०, २१, -र्ध्वे पागृ ३, २,
१३
दक्षिण-पुरस्तात्^g आश्रौ ५, ३, २३,
१२, ६, ७, आमिगृ २, ५, ९. ६,
जैगृ १, १ २०, २, ६ ६
दक्षिण-पूर्व, वा^h- -र्वम् आपश्रौ १,
८, ८, ११, ११, २, १२, ३,
हिश्रौ, -र्वस्याम् काश्रौ २५,
१३, ३०, बौश्रौ १९, १० ४४^क,
आगृ ४, १, ६, आमिगृ ३, ४, ४ :
१, -र्वा आपश्रौ ९, २०, ७,

-र्वाभ्याम् आगृ २, ६, ३, भागृ
१, २७ १२, -र्वाम् काश्रु १,
८, -र्वे काश्रौ ४, ७, १०, आपश्रौ
१४, ३०, ५, वैगृ, -र्वेण^क काश्रौ
८, ६, १८, आपश्रौ १, ७, १३,
भाश्रौ १, ७, ८, ८, १५, २
दक्षिणपूर्वा(र्व-अ)य(त>)वा-
-ताम् काश्रौ २५, ८, ३
दक्षिणपूर्वा(र्व-अ)र्ध- -र्धे काश्रौ
३, ३, २०, ९, १, ८, वैश्रौ ९,
९ २, कौगृ १, ५, १७, कौसू
४, २
दक्षिणपूर्विन्- -र्विणम् आपश्रौ
२४, १३, २
दक्षिण-पूर्व-पाद- -देन काश्रौ ४,
९, १२
दक्षिण-प्रणिधि- -धौ वैगृ १, १३
१, २० १४, -ध्याम् वैगृ
१, २० १५, ४, ११ ५
दक्षिण-प्रत्यग्-अपवर्ग^क- -र्गम् कौसू
१, १६.
दक्षिण-बाहु- -हुम् वैश्रौ १५, २४. ३
दक्षिण-मारुते(त-ई)रित-परि-
-तत- -ते अप ६५, १, ६^क.
दक्षिण मुख^क- -ख. विध ६८, ४१,
-खा गौपि १, ४, ७
दक्षिण-व(त>)ती- -त्य निसू २,
११ २५
दक्षिण-वेदि- -दिम् वैगृ १, ९ :
१२, -दे. वैश्रौ ८, ९ ९
दक्षिण-शयन-पाद^क- -दम् कौसू
३६, ४
दक्षिण शिरस^क- -रसम् गोगृ ३, १०,
२५, -रा आमिगृ २, ६, ७: ३९

दक्षिण-शीर्ष^क- -र्वम् वैश्रौ १५, २ :
४, वैगृ ५, १ ७, २ २०
दक्षिण-श्रोणि- -णिम् वैश्रौ १९,
५ ३४^क, -ण्याम् काठश्रौ ११५,
वैश्रौ १२, २२. १५, १५, २ ९
दक्षिण-सक्थि-पूर्व-नडक- -कम्
काश्रौ ६, ७, ७
दक्षिण-सद्^क- -सत्^क आपश्रौ १५,
१०, ११, बौश्रौ ९, १० १३,
भाश्रौ, -सद बौश्रौ १२, ४ ५,
भागृ २, ६, ७, -सद्भ्यः आपश्रौ
३, ४, १, भाश्रौ ३, ४, १, वैश्रौ
७, ३ ६, हिश्रौ २, ३, ४०, ६,
३, ७
दक्षिण-साद्- -सात् आश्रौ ४, ७,
४^क
दक्षिण-स्कन्ध- -न्धे शागृ २, १०, ८
दक्षिण-स्थ- -स्थान् अय ३, २६.
दक्षिण-हविर्धान- -नस्य वैताश्रौ
१५, १०
दक्षिण-हस्त- -स्तम् आमिगृ २, ४,
९ : १३, वैगृ १, ५ १०;
-स्तस्य काश्रौ ७, २, ६, वैश्रौ
१, ३ ११, १२, ६ ७, -स्ते
काश्रौ २५, ७, २१, आमिगृ,
-स्तेन आमिगृ २, ७, ६ ३१,
वैध २, ७, ६
दक्षिणहस्त-पुरोडाश^क- -शा.
वैताश्रौ ९, २०
दक्षिणहस्त-(स्थ>)स्था- -स्थाः
अप ४१, १, ३०^क
दक्षिणहस्ता(स्त-अ)ङ्गु(लि>)-
ली- -लीमि आमिगृ २, ४,
९ ९

a) = अश्व-विशेष- । तुस । b) ष्वै-तमम् इति चौसं (पाञ्चिक. पाभे इति कर्क । c) = नैऋती-दिश- ।
d) उप/मुच्च इत्यस्य द्विर्कर्मकत्वं मत्वा ष्वौ (=द्वयो) इति कर्मत्वविवक्षया वा. द । e) = आग्नेयी-दिश- । f) वा.
क्रिवि. । g) विप । बस. । h) प्रकरणात्: 'ततेषु इति संभाव्यते । i) कस. > षस. । j) 'ण्यार' (= णिम् कार्) इत्यत्र संघिराष- । k) वैप १ द. । l) पाभे. वैप १, १५३६ ज द ।

दक्षिणा^a आश्रौ २, १९, ४, ३, ८,
१, ४, ४, २, शाश्रौ, वैश्रौ २१,
६ ८^b, हिश्रौ २५, ३, २१०,
पा ५, ३, ३६, ३७
दाक्षिणात्य- पा ४, २, ९८
दक्षिणा(णा-अ)प्र,ग्रा^d- -ग्रम्
बौश्रौ २, ९ ६×४, वैश्रौ, -ग्राणि
वैगृ ५, ३ १५, -ग्रान् काश्रौ
४, १३, १५, २५, ८, ११, आपश्रौ,
-ग्राम् गोगृ ४, ३, २, कप्र ३,
२, ९, -ग्रेषु शाश्रौ ४, ३, ३,
बौगृ, -ग्रै आमिगृ १, २, २
२७, आपगृ
दक्षिणा-ग्रीव^d- -वम् आपश्रौ
९, ११, २३, आमिगृ, -वेण
बौपि ३, ४, १०
दक्षिणा(णा-आ)चार^d- -र
माश्रौ १, १, १, ६
दक्षिणा-ज- > दाक्षिणाज^e-
-जा या ६, ९^f
दाक्षिणाजी- -जी या ३, ५
दक्षिणा(णा-अ)ञ्च^g- -णाञ्च
वैताश्रौ ९, १७, -णाञ्चम्
वैताश्रौ १२, १, कौसू ८७, १८
दक्षिणा-तूल^d- -लान् माश्रौ
१, २, ६, २९
दक्षिणा-द्वार, रा^d- -रम् माश्रौ
२, २, ३, १२, हिश्रौ, आपघ २,
२५, २६, -रा माश्रौ ६, १, ८,
१०, -राणि बौघ २, ५, १७
दक्षिणा(णा-अ)न्त^d- -न्तम्
वैगृ ४, ४ : २, ५, २ · १९, कप्र
२, ८, ४^h, -न्तान् वैगृ ४, ६ : ५

दक्षिणा-न्याय^k- -नानि शाश्रौ
१, १, १४
दक्षिणा-पथ- पाग ४, २, १२७,
-थम् आश्रौ ५, १३, १२, -था:
बौघ १, १, २९, -थेन शाश्रौ
१३, १४, ६, काश्रौ
दाक्षिणापथक- पा ४, २,
१२७
दक्षिणा-प(दु >)दी^d- -दीम्
बौश्रौ २, ९ : ३०, आमिगृ
दक्षिणा(णा-अ)पवर्ग, गा^d- -र्गा
बौगृ २, ११, १६, -र्गम्^l आपश्रौ
१६, १५, ९, हिश्रौ ११, ६, ७,
-र्गाः वाश्रौ ३, २, ६, ११, वैश्रौ,
-र्गाणि आपश्रौ २४, २, १६,
कौसू ४७, ५, -र्गान् आपश्रौ १,
९, १, १४, ६, १४, भाश्रौ
दक्षिणा पश्चात्^l आमिगृ २, ५,
१२ १२
दक्षिणा-पश्चिम-द्वार^l- -रे द्रागृ
४, २, १३
दक्षिणा-पुरस्तात्^k आमिगृ २,
५, १२ ११
दक्षिणा-पूर्व, वा^k- -वस्थाम्
वैश्रौ ९, ४ २, -वेण हिश्रौ २,
७, ११
१दक्षिणा-प्रतीची^l- -चीम् गौघ
२३, ११^l
दक्षिणा-प्रत्यक्, च्^l- -तीच
माश्रौ ५, २, १०, २७, -त्यक्
माश्रौ ५, २, १५, ५, मागृ २,
१, ८, १७, २, आपश्रु ८, १४
२दक्षिणाप्रतीची^m- -च्यः

आमिगृ ३, ५, ५ ३, बौपि १, ४ :
३, हिपि १ · ३
दक्षिणाप्रत्यक्-प्रवण- -णम्
आमिगृ ३, ४, १ १३, ५, ५ :
५, आपगृ १७, १, बौपि १,
४ ५, २, ९, १, ३, २, ८,
हिपि १ · २, गौपि १, २, ६.
दक्षिणाप्रत्यक्प्रवण-
चिता-देश- -शात् गौपि १,
२, ८
दक्षिणा-प्रवण- -णम् काश्रौ २२,
३, ६, आगृ, -णे शाश्रौ ४,
१४, ६, काश्रौ
दक्षिणा-प्रष्टि- -ष्टिम् काश्रौ १४,
३, ८, -ष्टे काश्रौ १८, ६, १
दक्षिणा-प्राक्, च्^k- -प्राक्
आपश्रु ८, १३ -प्राचः माश्रौ ६,
१, ५, ४२, -प्राञ्चम् आपश्रौ २,
१२, ७, भाश्रौ, -प्राञ्चि आपश्रौ
१, ७, ५
१दक्षिणाप्राची- -ची
आपश्रौ १, ७, १०, भाश्रौ १, ७,
५, हिश्रौ २, ७, १२, -चीः
आमिगृ ३, ८, ३ ३७, बौपि
१, ८ : १८×४, -चीम् आपश्रौ
१, ७, १३, भाश्रौ
दक्षिणाप्राक्-प्रवण- -णेन
शाश्रौ ४, १४, ६, कौगृ ५, २, १३.
दक्षिणाप्राग्-अग्र^d- -ग्रान्
आपश्रौ १४, ३२, ३, वैश्रौ २०,
२८ : ८, -ग्रैः आपश्रौ १, ७, ५;
भाश्रौ.
२दक्षिणाप्राची^k- > च्^l-

a) वैप १ द्र । b) पाभे. पृ १२२३ III द्र । c) णाम् इति पाठ ? यनि शोघ. (तु आपश्रु ९, १) । d) विप । बस. । e) स्वार्थिक. अण् प्र । f) णात्याः इति शिवदत्तस्य शोघ । g) सप्र. णाद्धारम् <> णोदग्धारम् इति पाभे । h) ण्तम् इति पाठ ? यनि. शोघः (तु. जीसं. अस्तु) । i) वा. किवि. । j) = नैर्ऋती-दिशु- । बस. । k) = आग्नेयी-दिशु- । बस. । l) स.प्र. बौघ २, १, १४ दक्षिणाप्रती-च्योर्द्विशोरन्तरेण इति पाभे. । m) विप. (२अप-)

संतत- -तम् हिगृ २,१४,४^{1a}
 दक्षिणा-प्लव- -वम् शध २०९
 दक्षिणा(णा अ)भिसुख- -ख
 भाश्रौ ८, १६, १०, आमिगृ,
 गौघ ९,४१^b, -खस्य कप्र १,
 ४,४, -खेन कप्र २,८,१३
 दक्षिणा-मुख- -ख आश्रौ १,
 ४, १३, काश्रौ, भाश्रौ १०, २,
 ५^d, -खम् आपश्रौ १२, १,९,
 १३, ९, जैगृ २,५. ९, -खस्य
 वैताश्रौ १, ९, -खा लुसू १,
 ११ ५, आगृ, -खान् वैगृ ५,
 १३ : ९
 दक्षिणामुखी- -खी द्राश्रौ
 ११,३,८, लाश्रौ ४,३,९, -खीम्
 शाश्रौ ४,१४,१३
 दक्षिणा(णा आ)य(त>)ता-
 -ता. कागृ ६५,३
 दक्षिणा(णा-आ)रम्भ- -रम्भैः
 वागृ १, ९
 १दक्षिणा(णा-आ)वर्त- -र्त
 वाश्रौ २, १, ५, ५^f, -र्त कौसू
 १८,२
 २दक्षिणा(णा-आ)वर्त- -र्तस्य
 अप १,३२,२
 दक्षिणा(णा-आ)वृत्- -वृत्
 आश्रौ १,१,४, ३,३, ४; शाश्रौ,
 -वृत् आश्रौ २,१९,३०, ५,३,
 १७, शाश्रौ, -वृताम् कौसू ८२,
 १, -वृद्धिः वाश्रौ २, १, ६, ४
 दक्षिणा(णा-आ)वृत्,त्ता- -त्त
 आपश्रौ १०,१,७^d, -त्तया वैश्रौ

१४, ४ : ४, -त्तानाम् आपध
 १,२,३३, हिध १,१,६५
 दक्षिणा-शिरस- -रसम् काश्रौ
 २२, ६,१५, बौश्रौ, -रा काश्रौ
 २२,६,४, आपश्रौ २२, ७,२४,
 हिश्रौ १७,३,२३, लाश्रौ ८, ८,
 ५, हिपि १ १७
 दक्षिणा-श्रोणि- -णे काश्रौ
 १७,८,२५
 दक्षिणा-सचर- -रेण वैताश्रौ
 २३,१९
 १दक्षिणा-सद्- -सदः, -सद्गृ^h
 शुप्रा २,३०
 दक्षिणा(णा-आ)हवनीय- -ये
 लाश्रौ १०,११,१२
 दक्षिणा(णा-अ)स- -सम् पागृ १,८,
 ८, ११, ९, २, २, १६, -सात्
 काश्रौ १७, ६,५,१२,२३
 दक्षिणास-सहित- -तम् काश्रौ
 ५,४,११
 दक्षिणा(णा-अ)मि- -मि काश्रौ
 ४,१३,४×४, आपश्रौ, -मिना
 वैश्रौ २०,८ ७, -मिम् आश्रौ
 २, २, १, १९, ३०, शाश्रौ,
 -मे आश्रौ २,६, २×४, शाश्रौ,
 -मौ आश्रौ २, ६, ८, शाश्रौ
 दाक्षिणाभिक- -का वाश्रौ
 १,१, ४, ११^k, -कौ माश्रौ
 १,७,६,४३,८,५,९
 दक्षिणाभि-पक्- -कम् काश्रौ ४,
 ६,११
 दक्षिणाभि-स्थान- -ने मागृ १,

६, २
 दक्षिणाभि-होम- -मान् वैताश्रौ-
 ४, ९.
 दक्षिणाभिहोमा(म-अ)न्त-
 -न्तम् काश्रौ ८,९,१३
 दक्षिणाग्न्य(मि-अ)मि- -मिना
 काश्रौ १६, ४,१२
 दक्षिणाग्न्या(मि-आ)दीस- -क्षै
 काश्रौ १६,४,८
 दक्षिणाग्न्या(मि-आ)यतन- -ने
 हिश्रौ ३,४, २२
 दक्षिणाग्न्या(मि-आ)हवनीय-
 -यौ आपश्रौ ९,३,२१
 दक्षिणाग्न्यु(मि-उ)व्सुक- -कम्
 काश्रौ ५, १०,७, १५,१,८
 दक्षिणा(णा-आ)दि- -दयः आश्रौ
 ५, ३, २६, -दि¹ वैताश्रौ २९,
 १३^m, वैगृ १,२ ४, ११ ५;
 ३,१५ १४
 दक्षिणादि-कर्ण- -र्णयोः वैगृ २,
 १५ : ४, ३, २२ : ११.
 दक्षिणादि-प्रणिधि- -धयो वैगृ
 १,२०. ८
 दक्षिणादि-प्रदक्षिण- -णम् वैगृ
 २,७ : ८
 दक्षिणा(णा-२आद्य>)द्या- -द्यासु
 अप ५२,८,४
 दक्षिणा(णा-अ)नामिका-मध्यमा-
 -माभ्याम् वैश्रौ ६,८ ४
 १दक्षिणा(णा-अ)पर,राⁿ- -रम् शाश्रौ
 १,६, ६, आपश्रौ ११, १२, ४,
 माश्रौ १,८,४,६, ६,१,५, १५,

a) ०वीं स० इति आन. पाठ ?। b) णामु इति st । c) विप. । वस । d) सप्र णामुखः
 <> णावृत् इति पामे । e) कस उप = आवृत्- । f) सप्र माश ७,२,२,१४ दक्षिणावृत् इति, माश्रौ ६,१,
 ५,४० प्रदक्षिणावृत्ता इति च पामे. । g) वैप १ निर्दिष्टाना समावेश द्र. । h) पामे वैप १,१५३७ a,b द्र ।
 i) समास ? । j) वैप १ द्र. । k) दक्षि इति पाठः ? यनि. शोध । l) क्वचित्
 वा. क्वि. । m) णादिक्र इति पाठः ? यनि. च प्रतिदिशम् इति च द्विपदः शोधः (तु. सा [शौ ६, १०५, ३]) ।
 ऋ) विप., नाप. ।

वैश्रौ १८, १३ ८, हिश्रौ १, ६,
११, ११, ६, ५, १३, ३, १९,
द्राश्रौ ३, २, १४, लाश्रौ १, १०,
१०, आमिगृ २, ७, ९ १५,
भागृ ३, १८ १९, गोगृ १, ६,
१४, कौसू ८७, २६, -रस्याम्
शाश्रौ १३, ११, २, आगृ ४, १,
६, कागृ ४५, ७, -रा आपश्रौ
९, २०, ७, -राम् वाश्रौ ३, २,
५, ३६, कौसू ८४, १६, आपघ
१, ३१, २, हिघ १, ८, २०, -रे
काश्रौ ८, ५, १७, -रेण हिश्रौ २,
७, ११
दक्षिणापर-त्तस्र () अप ५२,
९, १.
दक्षिणापरा(र-अ)भिमुख- ख
विघ ६१, १२
२दक्षिणा(णा-अ)परा- रयो हिशु
५, ३०^a
३दक्षिणा-प्रतीची- च्यो बौघ २,
१, १४^b
१दक्षिण(ण-अ)यन- नम् भागृ
१, १२ १, वागृ ८, ७, वैगृ ५,
१ : ११, विघ २० २, गौघ
१६, २, या १४, ८, -नात् या
१४, ८, -ने भागृ १, १२ . १,
हिपि २० ८^c, -नेन आमिगृ
३, ९, ३: २६
दक्षिणायन-पशु- -शो बौश्रौ
२८, १२ : १६, १७
२दक्षिणा(ण-अ)यन^e- -नान् कप्र
३, ९, २
दक्षिणा(ण-अ)र्थ^e- र्थस्य अप १,
३५, १

दक्षिणा(ण-अ)र्ध- -र्धम् आपश्रौ
१२, २०, १०, बौश्रौ, -र्धस्य
वाश्रौ ३, २, ५, ५७, -र्धाः अप
१, ६, ९, -र्धात् शाश्रौ ४, २१,
९, आपश्रौ, -र्धे शाश्रौ ४, ४,
२, २१, ९, १७, ४, ४, काश्रौ,
-र्धे-अ^d वैश्रौ ९, ८ १५
दक्षिणार्ध-पूर्वार्ध^d- -र्धे आपश्रौ
२, १८, ५, बौश्रौ १, १६
१०××, भाश्रौ
दक्षिणार्ध-शिरस- -र वाश्रौ १,
६, ४, १४
दक्षिणार्धा(र्ध-अ)परार्ध^e- -र्धात्
शाश्रौ १८, २४, १९
दक्षिणार्ध, ध्या^f- -र्धम् आपश्रौ
१, ५, १०, बौश्रौ, -र्धम् बौश्रौ
१, ८ . १२××, भाश्रौ, -र्ध्यान्
बौश्रौ १७, १४ १४, २६, २४
११, -र्ध्याम् बौश्रौ १२, २० .
५, १८, ५० ३, -र्ध्यायाम्
हिश्रौ ५, ४, ७५, -र्ध्ये बौश्रौ
१५, १७ १७
दक्षिणार्ध, पूर्वार्ध- > र्वा-
र्ध^d- -र्धम् द्राश्रौ ३, २, ४,
लाश्रौ १, १०, ३
दक्षिणा(णा-अ)वरा- रयोः आपशु
१६, ९^a
दक्षिणाहि पा ५, ३, ३७
दक्षिणे(ण-ई)र्मन्- -र्मा पा ५, ४,
१२६
दक्षिणे(ण-उ)त्तर, रा^b- -रः जैगृ १,
१ : २१, -रम् वैगृ १, ८ : २,
५, १० २, कौसू २, २३, ७८,
७, -रयोः वैश्रौ १, २ १२,

वैगृ, -रा काश्रौ १२, १, १५;
१७, १, ८, २३, -राणाम् काश्रौ
८, ८, १४, -राणि वैश्रौ १५, २ :
१० गोगृ १, ७, १३, -रान्
काश्रौ १२, १, २५, -राभ्याम्
आश्रौ ३, १, १६, काश्रौ, -रे
काश्रौ १५, ३, ३३××, २६, ४,
१०^d, माश्रौ २, ३, १, ११;
-रे. शागृ ६, ३, ६, -रौ काश्रौ
८, ३, ९××, आपश्रौ
दक्षिणोत्तर परिधि-सधि^e- न्धी
वैश्रौ १३, ११ . २
दक्षिणोत्तर-मुख- -खम् अप
१८, ३, २
दक्षिणोत्तर-वेदि-श्रोणी- -ण्यौ
शुअ १, ४५७
दक्षिणोत्तरा(र-अ)यण- -णे
आमिगृ ३, ११, ४ : १^f
दक्षिणोत्तरिन्- -रिण बौश्रौ ६,
१९ १७^g, २१ : १६, -रिणम्
शाश्रौ १, ६, १०, १७, १६, ७,
माश्रौ १, १, ३, १, -रिणा आश्रौ
१, ३, ३१, -री बौश्रौ ३, २८ :
६, ३१ १०
दक्षिणोत्तरो (र-उ) त्तान-
-नाभ्याम् द्राश्रौ २, ३, ३.
दक्षिणे(ण-उ)त्तान^e- -ना काश्रौ
८, २, ८, -नान् शाश्रौ ५, ८, ५,
-नेन बौशि ३, १, १६, -नै. वैश्रौ
१४, ३, ११, हिश्रौ ७, ४, २३;
-नौ गोगृ ४, ३, १८, २०, द्रागृ
३, ५, २४; २६.
दक्षिणे(ण-उ)दग्-द्वार- -रम् कौसू
८३, २५, हिघ २, ५, १८३^h.

a) सप्र परयो <> ष्वरयो इति पामे. । b) पामे. पृ १२२५ III द्र. । c) विप. । बस ।

d) = आग्नेय-कोण- । e) = नैऋत्य-कोण- । f) वैप १ द्र । g) स्वार्थे यत् प्र । h) बस वा द्वस.
वा. । i) श्रौ इति चौसं । j) सप्र बौगृशे ३, २०, १ ष्यण्यो. इति पामे. । k) ष्वरेण इति सा (तै १, २,
११, १) । l) पामे पृ १२२५ द्र. ।

दक्षिणो(ण-उ)द्वासना(न-अ)न्त-
न्तम् कप्र ३, १०, १३.
दक्षिणो(ण-उ)न्नत- -त अप ५०,
२, ३
दक्षिणो(ण-उ)पक्रम^३- -मान् माश्रौ
१, ४, १, २
दक्षिणो(ण-ऊ)ह- -हम् काश्रौ १०,
७, ४, -सौ वैश्रौ १५, २६ ११
२दक्षिणा^४- पा ५, १, ९५, पाग ४,
२, ३८, -णया बौश्रौ १३, १
१३, वाधुश्रौ ४, ४ : ३, ४, ६,
बौध २, ३, ६२, विध २१, ४,
-णा आश्रौ ३, १०, १२××,
शाश्रौ, या १, ७, -णाऽणा
आपश्रौ १९, २७, २३,
-णा. आश्रौ ५, १३, ११,
१४^०××, शाश्रौ, वैश्रौ १६, ७
३^६, -णानाम् आश्रौ ५, १३,
१४; शाश्रौ, -णाभिः आपश्रौ
१४, २०, ३, बौश्रौ, -णाभ्य-
आपश्रौ १०, १३, ३, १३, ६, ७,
भाश्रौ, -णाम् आश्रौ ३, १४,
८××, शाश्रौ, कौश्र ५, १, १४^०,
-णायाः बौश्रौ २९, १२ १०,
वाश्रौ २, २, ४, १९, वैश्रौ २०,
४ : १, हिश्रौ १०, ६, ५^३,
-णाचै आपश्रौ १६, ३४, ४^१,
बौश्रौ, -णासु काश्रौ २५, ११,
८; १२, २७, आपश्रौ, -०णे
आपश्रौ १४, ११, २^१
दाक्षिण^५- पा ४, २, ३८^६,
-णानाम् बौश्रौ २३, १० ९,

१८ १, -णानि आपश्रौ १३,
५, ६^३, बौश्रौ, बौश्र ३, १,
२२^१, -णेभ्य बौश्रौ १०, ५७
१५, ११, ६ १०, १२, ७ :
२५, १८ १४, १५, १८ :
१३, ३२ : ३, ३६ ९, -णेषु
शाश्रौ १३, १४, ६, -णै वाधुश्रौ
४, ८८ : २, ८, -णौ आपश्रौ
१८, २, १९, २१, ५, १०, माश्रौ
२, ४, ५, १, वाश्रौ ३, २, १, ३६,
हिश्रौ १३, १, २५, १६, २, १९
दाक्षिण-होम- -म काश्रौ
१०, २, ४, -मौ वैताश्रौ २१,
२३
दाक्षिणहोम(म-अ)न्त^६-
न्तम् वैश्रौ १७, ११ १
न^७दाक्षिणेश^७- -यै^८ आपश्रौ
१४, २६, १, हिश्रौ १५, ६, २९
दक्षिणा-कर्मन्- -मं काश्रौसं २९
१७, ३३ १७
दक्षिणा-काल- -ल शाश्रौ १, १२,
१०, ७, १७, १६, -लम् वैश्र
१, ७ : १३; -लात् भाश्रौ ५,
१२, १४, २०, १२, माश्रौ ५,
२, ११, ३३, ६, २, ६, १४,
वाधुश्रौ ३, ७९ १७, -ले काश्रौ
१२, २, २२××, आपश्रौ.
दक्षिणा-नाण- -णाः आश्रौ ९, ९,
१५
दक्षिणा-तस्(ः) कौश्र ५, ८, ८.
दक्षिणा(णा-अ)तिनयन^१- -नः
आपश्रौ १३, ६, ९^४म

दक्षिणा-त्याग- -गात् वाध २३,
३६^१.
दक्षिणा-त्व- -त्वम् वाधुश्रौ ४,
४ : ७^२, ९
दक्षिणा-दान- -नम् आपश्रौ ४,
१, २, माश्रौ २, २, ५, १, वैश्रौ
३, १ : ६, हिश्रौ ६, १, ७, मीसू
१०, ३, ३०, -ने आश्रौ ३,
१४, ९
दक्षिणा-दाना(न-आ)दान- -ने
वैश्र १, ७ १५
दक्षिणा-द्रव्य- -व्ये जैश्रौका १६५
दक्षिणा-नयन- -नात् बौश्रौ २१,
१० ३
दक्षिणानयना(न-अ)वधि-
-धि जैश्रौका ३७
दक्षिणा(णा-अ)पनय- -यात् मीसू
१०, २, ४४
दक्षिणा-पृथक्त्व- -क्त्वेन हिश्रौ
१३, ३, १०
दक्षिणा-प्रतिग्रह^१- -है आमिश्र ३,
७, ३ : २१, बौपि २, २, २,
हिपि १९ ८
दक्षिणा-प्रवाद- -दः निसू ९, ९ :-
९
दक्षिणा-भाग- -नाम् वैश्रौ १६,
७ : ५, हिश्रौ १०, ४, ४६, ४७;
-गान् हिश्रौ २०, ४, ५२
दक्षिणा-भेद- -दः मीसू १०, ६,
६६
दक्षिणा-युक्त- -क्ताः बौश्रौ २३,
१० ११.

a) विप । वस । b) वैप १, १५३८ d) द्र । c) पाभे वैप २, ३खं दक्षिणाम् तैत्रा २, ४, ६, ७ टि द्र ।
d) सप्र. दक्षिणा नयति < > दक्षिणातिनयनः इति पाभे । e) पाभे वैप १ विद्वान् शौ १८, २, ५७
टि. द्र । f) वैप १ द्र । g) समूहे प्र । h) दं इति पाठ ? यनि शोघ (तु ०) । i) पाभे पृ
१००० ३ द्र । j) अर्हार्थे ढक् > एयः प्र उसं (पा ५, १, ६९) । k) सपा काठ ३५, १० क ४८, १२
दक्षिणीयैः इति पाभे । l) विप. > नाप (मन्त्र-) । उस । m) सा. [तै १, ४, ४३, २] णानिनयने
इति पाभे ।

दक्षिणायुक्त-वचन- -नात् मीसू १०, २, २४	दक्षिणा-शास्त्र ^० - -स्त्रम् मीसू १०, ६, ६२	तने
दक्षिणा(णा अ)र्थ- -र्थम् भाश्रौ १०, १२, ४, अप २१, १, ७, -र्थस्य मीसू १०, ३, ५७	दक्षिणा-संमार्जन-सप्रेष- -षम् वाश्रौ १, ६, ७, २१	१दण्ड ^० - पाठ १, ११४, पा, पाग ५, ३, १०, पाग २, ४, ३१, ४, २, ८०, ४, १२०, ५९०, ५, १, ६६, १२२, ४, ३०, -ण्ड हिय १, ११, ८१, -ण्ड: शाश्रौ १७, ३, ३, ४, काश्रौ, शाश्रु २, १, १८, पाश्रु २, २, १२, ५, २५, ३, १५, २०, आपश्रु ८, ९, ११, १६, १७, वाघ ११, ५२, १९, ९, २०, १८, शघ ३१२, ३१३, ३२१, ३२२, ३२९, ३३२, आपघ १, २, ३८, बौध १, २, ४१, २, २, ५४, विघ ३, ९५, ५, २, ३७, १२०, १५१, २७, २८, वैघ २, ३, २, ८, ११, हिघ १, १, ६९, गौघ ११, ३०, ३३, शुघ १, २५३, अघ ९, ११, अप ३, १६१, या २, २, -ण्डम् आश्रौ ३, १, १६×, शाश्रौ, आश्रु १, २२, १, ३, ८, १, २०, कौश्रु २, ३, १०, ८, ७१, शाश्रु २, ६, २, १३, ७, ३, १, ११, पाश्रु २, २, ११, ६, १५, ३१, आमिश्रु १, १, १: १७, ४. १६, ३, १ ५; ५: १०; आपश्रु, वाघ १२, ३७, १९, ८, शंघ ४२, ११६: १९, ३०३, ३०६, आपघ २, ११, १, २, २९, ८, बौध २, ३, २८, ३, २, ६, ३, १६, विघ ३, ६४, ९१, ५, १९४, १९५, ६, २०, २७, २९, ७१, ८०, हिघ १, ७, ५७ ^० , २, ४, १८; १९, ६,
दक्षिणा(णा-अ)र्थ-हर- -र कप्र २, ५, ३	दक्षिणीय-तम- -मा वृदे ५, १५८	
दक्षिणा-वत्- -वता आश्रौ १२, १५, ११, बौश्रौ १०, २५ १ ××, निसू, -वनाम् वैश्रु १, ६, १२१, -वत्सु द्राश्रौ १, ३, १, ७, १, १६, लाश्रौ ३, १, १७, -वन्तः निसू ९, ९ ११, -वान् आमिश्रु ३, ८, २: १४, बौपि १, १५ २४, ऋप्रा ९, २२१	दक्षिणो(णा-उ)क्त- -क्तौ बौश्रौ २५, ६. ११	
दक्षिणावती- -न्ती ^० आमिश्रु ३, ८, २ ३२, बौपि १, १५. ४०, -ती: बौश्रौ २०, १८ २१, २८.	दक्षिण्य, ण्या- पा ५, १, ६९, -ण्यम् बौश्रौ २४, २९: ४, -ण्याम् बौश्रौ २४, २९ ३	
दक्षिणा-वर्जम् आपश्रौ १४, १४, ९, आपश्रु ७, १७	दक्षिणाकार ^० - -र: बौश्रौ २०, ११. २४	
दक्षिणा-विकार- -र: मीसू १०, ३, ७४	दक्षिणाहि १दक्षिण- द्र ?दक्षितवती ^० - -वत्यः निसू ८, ४. ११	
दक्षिणा-विधि- -धि: अप ७०, ४, ३, -धौ जैश्रौका १७१ ^०	दक्षि-सूरि- ✓दह द्र दगु ^० - पाठभो २, १, ४६, पावा ४, १, १५५	
दक्षिणा-वेला- -लायाम् काश्रौसं २८: ९, लाश्रौ ८, ५, १७, ९, १७, ९, १, १५, निसू ७, १: १४	दागन्धायनि- पावा ४, १, १५५.	
दक्षिणा-व्यपेत- -तम् बौश्रौ १३, १ १४.	दग्ध- प्रश्रु ✓दह द्र ✓दघ् ^० (*बघा) पाधा स्वा. पर. घातने पालने गतौ [निघ] स्रवणे [या] च, दव्यति ^१ निघ २, १४; दघ्या ^१ ऋप्रा १४, ५२.	
दक्षिणा-शब्द- -द्वात् मीसू १०, २, ३६	दघ्न ^० - -न्नम् या १, ९ दघ्नश्रु- ✓दंश द्र. ✓दघ् ^१ पाधा भ्वा पर पालने दङ्गी ^० - पा, पाग ४, ३, १६७ ✓दण्ड पाधा. तुरा उभ दण्डनिपा-	

a) सपा ऋ १०, १८, १० दक्षिणावते इति पाठे. । b) ण्द्विधौ इति पाठः ? यनि शोषः । c) उप.
= श्रुति- । d) विप (यज्ञवराह [=विष्णु-]) । बस । e) = आचार्य-विशेष- । व्यु ? । f) पाठः ?
दक्षिणवती- इति शोष. (तु. निसू २, ११: २५) । . g) व्यप । व्यु ? । h) या १, ९ परामृष्ट. द्र ।
i) ष्य^० इति पाठः ? यनि. शोष. (तु. B.S प्रश्रु) । j) वैप १, १५३९ h द्र. । k) पाप्र (५, २, ३७)
प्रत्यय-विशेषः । l) तु. B.P.G. । m) = ओषधि-विशेष- । व्यु. ? । n) वैप १ द्र. । o) तु पागम. ।
p) सप्र दण्डमादाय <> दण्डार्थे इति पाठे. ।

२१, या २, २^२, ३, २१,
 -ण्डस्य बौश्रौ २१, ९ : १७,
 वैश्रौ ११, ७ ३, ६, ८ : १,
 कौश्र २, ८, २, ३, ९, ६०, शाश्रु
 २, १३, २, आश्रिण्ट २, ७, १.
 १३, अप ४८, १२२, या ३,
 २१, -ण्डाः आपश्रौ १५, ५,
 १३^१, भाश्रौ, शध ३६, आपध
 १, ८, २९, बौध १, २, १६, विध
 २७, २१, हिध १, २, ११७, बृदे
 १, ५०^१, -ण्डात् आपश्रौ
 १०, १५, १२^१, बौश्रौ ६, ६ :
 ८x५, भाश्रौ, विध ५, ७३,
 -ण्डान् माश्रौ १, २, ५, २,
 वाश्रौ १, ३, २, १३, हिश्रौ,
 बौध १, १०, २०, -ण्डाय
 आपध २, ११, ३, हिध २,
 ४, १७, १९, -ण्डे शाश्रौ ५,
 १६, ४^१, कौश्र २, ८, ६, शाश्रु २,
 १३, ६, अप ७२, २, ६, -ण्डेन
 काश्रौ २५, १, १५, आपश्रौ ९,
 ५, ३, हिश्रौ, विध ८, ३७, या
 २, २
 दाण्डिक- पा ४, ४, १२.
 दाण्डिक- पा ४, ४, ५९.
 दण्ड-क, का^१- पा ४, २, ८०, ५,
 ४, ३, पाग २, ४, ३१^०, पावाग
 ७, ३, ४५^d, -काः अश्र ११,
 ३(२)
 दण्ड-कमण्डलु- -ल्ल शध ३७२;
 ४४३
 दण्डकमण्डलु-धारण- -णम्
 अप ४६, १, ६
 दण्ड-कर्मन्- -र्म शंध २५१.
 दण्ड-कारिन्- -री विध ५, १९५

दण्ड-ग्राह^० (> दाण्डग्राहिक- पा)
 पाग ४, १, १४६
 दण्ड-ताडन- -नम् आपध २, २७,
 १५, २८, २, हिध २, ५, २३४,
 ६, २
 दण्ड-धाना(ना-अ)जिन- -नम्
 कौसू १०, १५
 दण्ड-धारण- -णम् भाश्रौ १०, ९,
 ८, पाश्रु २, ५, ११
 दण्ड-नायक^१- -क आश्रयो ७, १७
 दण्ड-निभ- -भानि अप ७२, ३,
 १४
 दण्ड-नियम- -म^१ कौश्र २, ८, १,
 -मा^१ शाश्रु २, १३, १
 दण्ड-नियोग- -ना गौध १२, ४८
 दण्ड-पाणि^१- पाग २, २, ३७, -णिः
 अप ६७, ३, ५
 दण्ड-पुरुष- -षः या २, २
 दण्ड-प्रणयन- -नम् विध ३, ९२
 दण्ड-प्रदान- -नम् आपश्रौ १०,
 २७, ४, ११, १८, ६, कौसू ५९,
 २७, मीसू ४, २, १६, -नात्
 आश्रौ ४, ११, २, आश्रिण्ट २,
 ७, १०६, -ने आश्रौ ४, १,
 १२, बौश्रौ २१, १२ १७
 दण्डप्रदान-वर्जम् आश्रौ ५, ३, ५
 दण्डप्रदाना(न-अ)न्त^१- -न्तम्
 कौश्र २, ७, ४, शाश्रु २, ११, ४,
 -न्ते वाश्रौ ३, २, ४, १०
 दण्ड-भट्ग- -ङ्गे^१ बौश्रु ४, ११, १
 दण्ड-भिन्न- -न्ने^१ आश्रिण्ट २, ७,
 ४. ५
 दण्ड-भूयस्त्व- -स्त्वम् गौध १२,
 १४
 दण्ड-भृत्- -भृत् अप ५३, ३, १

दण्ड-मथित- -तम् अप ४६, १, ५
 दण्ड-माणव- > वा(व-अ)न्ते-
 वासिन्- -सिषु पा ४, ३,
 १३०
 दण्ड-माथ^१- (> दाण्डमाथिक-
 पावा) पावाग ४, ४, १
 दण्ड-मेखला(ला-अ)जिन-जटा-
 धारिन्- -री जैश्रु १, १२ ६९.
 दण्ड मेखलो(ला-उ) पवीत-
 -तानाम् कौश्रु २, ८, ३, शाश्रु २,
 १३, ३
 दण्ड-युद्ध-वर्जम् आपध २, १०, ७,
 हिध २, ४, ७
 दण्ड-युद्धा(द्व-अ)धिक- -कानि
 आपध २, १०, ६, हिध २, ४, ६.
 दण्ड-यूपा(प-आ)सन- -नानि अप
 २३, ६, ३
 दण्ड-रज्ज्व(ज्जु-अ)र्द्ध- -र्द्धम् काश्रु
 ७, ३२
 दण्ड-वत् वाश्रु ६, ११, अप ५८^३,
 २, ७, विध २८, ५
 दण्ड-वत्- -वन्नि काश्रौ २६, ४, १.
 दण्ड-विधि- -धि विध ५, १९३.
 दण्ड-वृत्तता- -ता अप २३, २, ४
 दण्ड-व्यवसर्ग- -र्गयोः पा ५, ४, २.
 दण्ड-शाथिन्- -थी अप ५०, ४, ६;
 ५, ३
 दण्ड-शुल्का(ल्क-अ)वशिष्ट- -ष्टम्
 वाध १६, ३१
 दण्ड-समा(स >)सा^१- -सा शाश्रौ
 १७, ३, ९.
 दण्ड-स्थाथिन्- -थी अप ५०,
 ४, ६, ५, २, ३
 दण्ड-स्थौल्य- -ल्यम् अप २३,
 ३, ३

a) तु पागम.। b) बप्रा.। c) = छन्दो-विशेष- इति पागम । d) = अरण्य-विशेष-
 इति पागम । e) व्यप.। व्यु ?। f) = निर्णायक-। g) परस्परं पाप्मे । h) विप.। बस.।
 ३) उप = पथिन्-। j) विप. (Lदण्ड-युक्ता-] वीणा-)। बस (तु C.)।

दण्ड-हस्त^१-स्तानाम् वाधुश्रौ ३,
७९ ८
दण्डा(ण्ड-अ)कर्मन्-र्मणि आपध
२,२८,१३, हिध २, ६,१३
दण्डा(ण्ड-आ)कृति^२-ति वैगृ
४,१३.०९
दण्डा(ण्ड-अ)जिन-(>दाण्डा-
जिनिक) पा ५,२,७६
दण्डा(ण्ड-आ)दि-दि वैताश्रौ
१२,७, अशा २२,४१
दण्डा(ण्ड-अ)न्त^३-न्तम् काश्रौ
७,४,१०, १६, ४,४५
दण्डा(ण्ड-आ)यत-तम् वैश्रौ
११,७ ८, ८:३
दण्डा(ण्ड-आ)याम-मम् वैश्रौ
११,७ ११
दण्डायाम-प्रमाणक^४-कम्
आमिगृ ३,१०,४ ८
दण्डा(ण्ड-अ)र्थे-र्थे आपध १,
२९,१^५
दण्डा(ण्ड-अ)र्ह-र्हः वृदे २,
१०६
दण्डा(ण्ड-अ)शनि-नि अप
७०^३,११,२३
√दण्डि, दण्डयेत् वाध ३,४
दण्डन->नीय-यः विध ५,
१७४
दण्डयित्वा विध ५,१७२
दण्डिक-(>दाण्डिक्य-पा)
पाग ५,१,१२८.
१दण्डिन्-ण्डिन शाश्रौ १६,
१,१६, आपम २, १७, १३१^६,

-ण्डी आमिगृ १, १, ४:४६,
वागृ, या २,१
दण्डिमन्-पा ५,१,१२२
दण्डो(ण्ड-उ)च्छ्रयणा(ण-अ)न्त^७-
न्तम् काश्रौ १६,४,३१
दण्डो(ण्ड-उ)पानह^८-हम् शाश्रौ
३,३,७, बौश्रौ
दण्डो(ण्ड-ऊ)ध्व-ध्वे वैश्रौ ११,
७.८
दण्डय-पा ५,१,६६,-ण्डयः शंघ
२६४, ३०३, ३१४, आपध २,
२६,१९, विध ५,२६××, हिध
२,५,२१४, गौध १२,५, १३,
२३, वृदे २, १०६, अत्रमू ८,
या २,२, -ण्डयम्, -ण्डयात्
विध ५, १९५, -ण्डयेषु विध
३, ११
दण्डयो(ण्ड्य-उ)त्सर्ग-र्गे वाध
१२,४०
२दण्ड^९-पाग ४,१, १९^१, ११२, ३,
१०६,
१दाण्ड-पा ४,१,११२
दाण्डायन-पा ४, १, १९
दाण्डायन-स्थली^{१०}-(>लक-
पा.) पाग ४, २,१२७.
दाण्डिन्-पा ४,३,१०६
दण्डाप,जम-(>दाण्डाप,जमायन-
पा) २दण्ड-टि द्र
२दण्डिन्^{११}-पाग ४,१,१९९.
२दाण्ड-पावा ६,४,१४४^{१२}
दाण्डिनायन-पा ४, १,१९९, ६,४,
१७४

दत्^१-पा ५, ४, १४१, ६, १, ६३;
दत् आपश्रौ ६, ११, ४××;
बौश्रौ, दत्सु शाश्रौ ४,१४,२६^{१३};
आगृ ४,३, ५, कौगृ, दद्वि-
वाश्रौ ३,४,५,११^{१४}, वैश्रौ १६,
२१ ३१^१, मागृ १,२३,२०^{१५},
आपध १,१६,१७, शुअ^{१६} ३,४४,
४६, चाअ ४२ १२^{१७}, िदद्भ्य-
आपश्रौ २०,११,१२, वैगृ
दत्-तस() बौपि १,११:१२
िदत्-वत्-वते आपश्रौ २०,१२,
५, बौश्रौ १५,१९ १५, वाधुश्रौ
३,८३ ७, १५, मागृ २,१६,
३
१दत्त^१-त्त बौश्रौ १७,१८ १, बौगृ
३,१०,६
२दत्त^{१८}-(>दात्तेय-पा) पाग ४,
२,८०
३दत्त-दत्तक-प्रमृ √दा द्र.
दथ-पाउभो २,२,१५७
√दद्^{१९} पाधा भ्वा आत्म दाने,
ददते अप ४०, ६, १४, या २,
२^१, िददन्ते^{२०} आपश्रौ १६,२९,
१, बौश्रौ ३, १५. १८, २४;
वैश्रौ १८, २०. ८××, हिश्रौ
११,८,२; िददत्^{२१} पागृ १,
४,१६^२, बौगृ १, ४, ८^२, वागृ
१४,१०^३, जैगृ, िददन्त आपम
२, २, ५^४, आमिगृ १,१, २:
२७^५, ५, १ २०^५, कागृ २५,
४^५, ४१, ५^५, बौगृ, या ५, १४,
ददेत् आमिगृ २,३, ३. १५,

a) विप । बस । b) पामे पृ १२२९ p द्र । c) विप । षस.>बस । d) द्वस.
समासान्तः अञ् प्र (पा ५,४,१०६)। e) = ऋषि-विशेष-। व्यु ? । f) तु पाका । दण्डय- इति भागडा.
प्रमृ., दण्डम- इत्यपि पागम । g) पूष. < दाण्डि- इति पागम । h) तु. पागम. । २) वैप १ द्र ।
j) अन्सु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु सप्र. आगृ., ० च) । k) पामे. वैप १,१२०२ h द्र । l) = सर्प-
विशेष-। व्यु. ? । m) पा ६, ४, १२६ परामृष्ट. द्र । n) पामे. वैप १, १५४० d द्र. । o) पामे. वैप १,
१५५५ f द्र. । p) पामे. वैप २, ३४. इतन्व्य मंत्रा १,१,५ टि. द्र. ।

अप १६, २, ४
 ण्ददमान- -नात् निघ ३, १३, या
 ३, १६
 ददित्- -तार बौश्रौ १४, ८ १६१
 दद- , ददत्- , ददाति- , ददावस्-
 √दा (दाने) द्र
 ददाश्वस्- √दाश् द्र
 ददि- , ददिवस्- √दा द्र
 ददत्- √द (विदारणे) द्र
 दद्राण- √दा द्र
 दद्रू- पाठभो २, १, ११३, पागवा ५,
 २, १००
 दद्रु-ण- पा ५, २, १००, -ण शंघ
 ३७६
 दद्वस्- √दा द्र
 √दध् पाघा भ्वा आत्म धारणे,
 दधते वैताश्रौ २५, १२^b, दधे
 काश्रौ ४, ८, २६, दधत् आश्रौ
 २, १०, ४^o××, शाश्रौ, आपश्रौ
 ५, १२, ३^d, १९, २४, ९^o,
 बौश्रौ १३, ३२ १९^o××,
 माश्रौ, आमिगृ^o १, १, ३
 ३५^o, २, १, ५ ३९, ४, ४ :
 १०, १९, ३०, ५, ३:१२, बौगृ
 ३, ७, १२^o, भागृ १, २० ७,
 भागृ १, २१, २, हिगृ^o १, ५, १५,
 २, ४, १९, बौघ^o ३, ७, ११,
 १४, अदधत् शाश्रौ १४, २८, ८,
 १५, ६, ६
 १दधन्- > ण्दधन्- -वान्
 शुप्रा ३, १३६१
 दधन् वन्- -वा भागृ २, २८: ८^१^६
 दध- , दधत्- √धा द्र

१दधन्- -त्यम् अत्र १, १६
 २दधन्- पा ७, १, ७५, -धन् बौश्रौ
 १७, ५० ८, भाश्रौ ९, ६, २,
 हिश्रौ १५, १, ७६, -धनि
 काश्रौ २५, ४, ३८, आपश्रौ, -ध
 काश्रौ ४, ३, १२, आपश्रौ २, २०,
 ४××, बौश्रौ, -झा शाश्रौ १३, ६,
 ३, काश्रौ, -झाम् अप ६७, २,
 २, -धनि वैश्रौ ८, ५ : ४, विघ
 ९९, १४
 दधन्वस्- √धन् द्र
 दधाति- , दधान- √धा द्र
 १दधि^m शाश्रौ १५, १५, १३
 १दधिⁿ- पाग ५, ४, १५१, -धि आश्रौ
 २, २, १८××, शाश्रौ, आपश्रौ
 १, १३, १४^१, बौश्रौ, या १, ४,
 -धि: आमिगृ २, ७, ७ ७,
 -धिनि माश्रौ ६, २, ४, १८, जैश्रौ
 २५. ६, -धिनी माश्रौ २, २,
 ५, २९, हिश्रौ ५, २, १९
 दाधिक- पा ४, २, १८
 दधि-कंस- -स: अप १, ३५, २
 दधि-क्षीर-घृता(त-आ)दि- -दिभि
 अप ६६, २, ४
 दधि-क्षीरा(र-अ)मृत- -तानि अप
 ६८, १, ३५
 दधि-ग्रह^{११}- -ह आपश्रौ १२, ७,
 ८, बौश्रौ १४, २२ : २^१, २५,
 १३ २३, मीसू ४, ४, ८,
 -हम् बौश्रौ ७, ४ : १२^१,
 माश्रौ, -हस्य बौश्रौ २१, १७
 ५, हिश्रौ ८, २, २८, -हाय
 आपश्रौ ११, २१, ८^१, माश्रौ,

-हे बौश्रौ २३, १९ ३१,
 -हेण आपश्रौ १२, ७, ५, वाधूश्रौ.
 दधिग्रह-पात्र- -त्रम् आपश्रौ
 १२, २, १, बौश्रौ -त्रे वैश्रौ १५,
 ८ : १२, हिश्रौ ८, २, २, -त्रेण
 वाश्रौ ३, २, ५, ३
 दधिग्रह-विकार-त्व- -त्वात्
 आपश्रौ १२, ७, १५
 दधि-घर्मⁿ- -र्म काश्रौ १०, १, १९,
 बौश्रौ, -र्मम् आपश्रौ १३, ३, २,
 १५, १८, १७, बौश्रौ, -र्मस्य
 आश्रौ ५, १३, ६, शाश्रौ, -र्मस्य
 काश्रौ १०, १, १८, आपश्रौ;
 माश्रौ २, ४, ४, १८^६, हिश्रौ ७,
 ४, ५४^१, -र्म शाश्रौ ५, १०,
 ३०, बौश्रौ, -र्मण आश्रौ ५,
 १३, १, शाश्रौ ७, १६, १, आपश्रौ
 १३, ३, १^१, काठश्रौ
 दधिघर्म-ग्रहण- -णम् काश्रौ
 २६, ७, ५४
 दधिघर्म-होम- -मम् वैताश्रौ
 २१, १८
 दधि-घृत- -ते माश्रौ ६, २, ६, २३.
 दधि-घृत-क्षीर-मिश्र- -श्रम् वैघ
 १, ४ १
 दधि-घृत मधु(धु-उ)दक- -कानि
 गौपि १, ५, २७
 दधि-घृत-मिश्र- -श्र मागृ २,
 ३, ६, -श्रणाम् कौगृ ३, ७, ५,
 शागृ ४, ५, ३
 दधि-तण्डुल^m- -लान् आमिगृ ३,
 ४, १ : २७
 दधि-तण्डुल-सुरभि-शुकुसुमनस्-

a) = चर्मरोग-विशेष-। व्यु १। b) पामे वैप १ सचते मा ८, ३६ टि द्र। c) पामे वैप १,
 १५४० m द्र। d) पामे वैप १, १५४० n द्र। e) दघाव इति पाठ १ यनि शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्)।
 f) वैप १ द्र। g) पामे. वैप २, ३ख तैआ १, १२, २ टि द्र। h) पृ ११३ j, ४६० f द्र। z) पामे.
 वैप १, १५४१ 1 द्र। j) = पात्र, दधिद्रव्य- वा कर्म-विशेष- वा। k) सपा. 'र्मस्य<>र्मण इति पामे।
 l) पक्षान्तरे बस. इति भाष्यकार'। m) मखो वृस।

-नस आमिगृ २,३,२ : ४^a
 दधि-न्थ- पाग ६,३,१०८^b.
 दधि-दति- -ति आपश्रौ २२,
 ४,५, हिश्रौ १७, २,७^c, १६
 दधि-द्रप्स^d- -प्स हिश्रौ १०, ५,
 १४, -प्सम् वैश्रौ १८, १३
 ४, आमिगृ २,१,१ : १०, हिगृ
 २,२,४, -प्सान् आश्रौ ६, १२,
 १२, आपश्रौ, -प्सेन जैगृ १,
 ५ : ३
 दधिद्रप्सा(प्स-अक्त>)क्ता-
 -क्ता^e काश्रौ १८,४,७
 दधि-धा(न>)नी^f- -नी वैश्रौ ८,
 ४. ३, -नीम् हिश्रौ ४, २,२७,
 ५, १, १२, -न्याम् आपध १,
 २९,१४, बौध २, १, ५०, हिघ
 १,७,७१
 दधिधानी-सघ(र्मे>)र्मा^g-
 -र्मा^h आपध १, २९, १३, हिघ
 १,७,७०, -र्मा बौध २,१,५०ⁱ
 दधि-पय-आमिक्षा-पशु- -शव
 बौश्रौ २७,१४ २४
 दधि-पयस- -यसी पा,पाग २, ४,
 १४, -यसो काश्रौ १,९,७
 दधि-पलल- -लम् कौसू २६,१३
 दधि-पात्र- -त्रान् बौश्रौ १८,४०
 १६, -त्रेण अप १,३१,७; ३५,
 ३, -त्रै बौश्रौ १८, ४० : २४,
 २६
 दधि-पीत^b- पाग २,२,३७
 दधि-पू(र्ण>)र्णा- -र्णाम् काश्रौ
 १७,४,१३.
 दधि-पृषातक^k- -कम् पागृ २,
 १६,३

दधि-बदरा(र-अ)क्षत-मिश्र- -श्रा
 शागृ ४, ४, १०
 दधि-भक्ष- -क्षम् शाश्रौ ४, १३, २,
 द्राश्रौ ६, ३, ३०, लाश्रौ २, ११,
 २३
 दधिभक्षा(क्ष-अ)न्त^l- -न्तम्
 द्राश्रौ ४, ४, २३, ६, ४; १४,
 लाश्रौ २, ४, १४, १२, १५
 दधि-भक्षण- -णम् काश्रौ १०, ८,
 १०
 दधि-मधु- -धु^m कागृ ६६, ४, मागृ
 १, १२, ५, कौसू १०, १८, १२,
 १५, -धुनि कौसू ७, १९,
 -धुभ्याम् कप्र ३, १०, १८
 दधि-मधु-घृत- -तम् काश्रौ १८,
 ३, ४, पागृ १, ३, ५, वैगृ ६४
 ३, वौगृ २, १ ७, बौपि ३, १,
 २०, -तैः काश्रौ १७, ४, २७
 दधि-मधु-घृत-क्षीर-वर्षम् अप ७२,
 ३, ४.
 दधि-मधु-घृत-तिल-तण्डुल-दर्भ-
 -भान् गौपि १, २, १
 दधि-मधु-घृत-पयस- -यासि
 आमिगृ २, ५, ४ ६
 दधि-मधु-घृत-मिश्र- -श्रम् आगृ
 १, १६, ५, कौगृ १, १९, ९, शागृ
 १, २७, ६, पागृ २, १६, २
 दधि-मधु-घृता(त-अक्त>)क्ता-
 -क्ता शागृ ५, १०, २, अप ६६,
 ३, १, -क्तानाम् अप ३६, ३, ३,
 काध २७६ ९
 दधि-मधु-तिल-तण्डुल- -लान् गौपि
 १, २, ३५.
 दधि-मधु-भक्षाⁿ- -क्षः कौसू २२,

८ⁿ

दधि-मधु-मिश्र- -श्रम् कौसू १९,
 ६, २२, ६, -श्रस्य वागृ १७, ६.
 दधि-मधु-सर्पिः-पय-सक्तु-पल-
 मोदक- -केभ्यः विघ ६८, ४५.
 दधि-मन्थ- -न्थ आपश्रौ ६, ३१, ५,
 जैगृ १, १९ ३८, -न्थम् आपश्रौ
 २२, २६, १, हिश्रौ ६, ८, १,
 २३, ४, १७, कौसू ४०, ९, अर्शा
 २४, ७, -न्थान् आगृ २, ५, २.
 दधि-मन्थो(न्थ-उ)दमन्थ-
 -न्थयो द्राश्रौ १, २, १३ⁿ, लाश्रौ
 १, २, ८
 दधि-मास- -सस्य अप ६८, २,
 १७.
 दधि-मिश्र,श्रा- -श्रम् काश्रौ ५, ४,
 २४, बौश्रौ २४, २१ : ८; बौध
 ३, १, १९, -श्रया अप ३५,
 १, ८.
 दधि-वत्- -वान् आमिगृ ३, ८,
 २ ६३, बौपि १, ५ ६७.
 दधि-वर्जम् विघ ५१, ४२
 दधि-विनाल^o- -लान् बौश्रौ १८,
 २० ७
 दधि-शेष- -षम् द्राश्रौ ७, २, १०;
 लाश्रौ ३, २, १०.
 दधि-षो (<सो)म- -मान् जैश्रौ
 २० : १७, जैश्रौका २०४.
 दधि-सयुत- -तम् कप्र ३, १०,
 १८.
 दधि-सक्तु- -क्तून् आगृ ३, ५, ५;
 १०, कौसू १३९, २, ६, ९, विघ
 ६८, ३०
 दधि-संभव- -वम् शंघ २३१.

a) ङ्का. सु^o इति पाठः ? यनि शोघ (तु सप्र वैगृ २, १: ७)। सुरभि- ?। b) तु पागम.।

c) ङ्कृतिः इति पाठ ? यनि. शोघः। d) षस. उप. = घनीभूताश-। e) ङ्का इति चौसं. ?। f) = स्थाली-।
 कास.। g) तुस। h) परस्परं पाभे.। i) तुस. उप. = पृषदाज्य-। j) विप.। बस.। k) विभाषयैक्यङ्गावः
 (पा २, ४, १२)। l) षस. उप. = मन्यन-दण्ड- (तु. बौश्रौ १८, २० : २३)।

†दधि-सम्राज्- -स्राजा वाधुश्री ३,
६१०५
दधि-सर्पिर्-मधु-युज्- -युजाम्
अप ३६, २, ४
दधि-सुमनस्- -नसी विघ ७१, ५४.
दधि-स्थाली- -लीम् वैश्रौ १३,
४. ६
√दधीय, दधीयात् आपश्रौ १०,
१६, १२, भाश्रौ १०, १०, ८,
हिश्रौ १०, २, ५०
दध्य(धि-अ)र्थ- -र्थम् आश्रौ १२,
८, ३४
दध्या(धि-आ)ज्य- -ज्यम्^१ माश्रौ
१, ८, १, २५, -ज्ययो माश्रौ १,
६, १, २४, वाश्रौ १, ५, २, १९
दध्या(धि-आ)द्य(दि-अ)भ्यक्त-
लज्ज- -जानाम् अप ३६,
१३, १
१दध्यु(धि-उ)दक- -के कौष्ट १,
१६, ४, श्राष्ट १, २४, ३.
२दध्यु(धि-उ)दक- -कम् शंघ
११६०७
दध्यु(धि-उ)पसेक- -कम् वैश्रौ
१२, ७ १.
दध्यो(धि-ओ)दन- -नम् कौष्ट १,
१०, १४, १९, ७, श्राष्ट १, १७,
७; आमिष्ट
दध्योदन-शेष- -षम् भाष्ट ३,
१६, ९
२दधि- -> †दध्य(धि-अ)च्, ल्च्-
-धीच आश्रौ ७, २, ३; शाश्रौ,
वृदे ३, २३\$, -ध्यङ् आश्रौ ८,
१, २, शाश्रौ, वृदे २, १२\$, \$३,

२२, १२१, ४, १०, शुभ ४,
५९\$, निघ ५, ६, या १२,
३३०, ३४
दध्यङ्-पुत्र- -त्राणाम् चाञ्च ३०.
२०
?३दधि-> †दधि-क्रा- -क्रा आश्रौ
२, १२, ५, बौश्रौ १३, ८ ५,
२८, २ : ३६, अप ४८, ९३,
१३७, वृदे १, १२४, २, ५६,
निघ १, १४, ५, ४, या २, २७०,
२८'x', -क्राम् ऋञ्च २, ७,
४४, वृदे ४, १०२.
दाधिक- -क्रम् ऋञ्च २, ४,
३८, ७, ४४, वृदे ५, १७३,
-क्राणाम्, -क्राणि वृदे ५, १,
-क्रे वृदे ५, १७३.
दाधिकी- -क्री साञ्च १,
३५८
दधिक- -क्रम् जैश्रौ २५ ६,
जैश्रौप १५.
†दधि-कावन्- -वा आश्रौ २, १२,
५, आपमं १, १४, ६, अप ४८,
९३, \$शुभ १, ५६६, ३, ३३,
निघ १, १४, -ञ्ण. आश्रौ २,
१२, ५, ६, १२, १२, ८, ३, ३२,
शाश्रौ, आमिष्ट २, ६, ८ १०^१,
-ञ्णे \$बौश्रौ १३, ८. २, २८,
२ १९
?द(त्वा ?का)धिवासम् आमिष्ट २, ५,
१२. ३.
दधिषाय्य- √धा द्र
?दधिषे^१ आपश्रौ ४, १०, ४, भाश्रौ ४,
१५, २, हिश्रौ ६, ३, २

†दधीतस्य^२ चाञ्च १६ : ३.
दधृष्- √धृष् द्र
†दिन.^० अप ४८, ११५, वृदे २, ११६;
निघ ४, ३, या ६, ३१
दनायु^१- -युः वृदे ५, १४४
दनु^३- पाउभो २, १, ७९, -नु अप
५२, १०, २, वृदे ५, १४४^१
दन्त- पाउ ३, ८६, पाग ५, २, २४,
पागवा ५, २, ९७, -न्त हिश्रौ
१४, ३, ३५, या ९, १९^१;
-न्तस्य पा ५, ४, १४१, -न्ताः
शाश्रौ १५, १८, १, अप, -न्तान्
आपश्रौ १०, १३, ४, बौश्रौ, -न्ते
अप ७२, २, ६, शुभा १, ६९,
ऋप्रा २, १, ७, -न्तेन आमिष्ट
२, ६, ७ ३०, -न्तेषु काष्ट ३९,
१, काष्ट ४४ १८; अप ९,
१, ५, -न्तैः काश्रौ २, २, १६,
वैताश्रौ, -न्तौ निस् १०, १३ ५.
दन्त-काष्ठ- -ष्टम् आमिष्ट ३, ११
२ ३, कप्र १, १०, २, विघ.
६१, १७
दन्त-ज- -जा दंवि १, १२
दन्त-जनन- -नात् वैष्ट ५, ११ ६,
७, ५ २, वाध ४, १०, बौध
१, ५, ९२, ९३
दन्त-जन्मा(न्म-आ)दि- -दि गौध
१४, ४१
दन्त-जात^१- पाग २, २, ३७^३, -त
वैष्ट ५, ९ : १, -तस्य वैष्ट ५, ९
११, -तानाम् बौपि ३, ६, ४;
-ते विघ २२, २९
दन्त-जाह- पा ५, २, २४.

a) तुस. (पा २, १, ३५)। उप = सोम-। b) विभाषयैकवद्भाव (पा २, ४, १२)। c) = दधि-ससुद्र-। बस.।
d) विप। बस। e) वैप १ द्र। f) पाभे. वैप १, १५४२ ० द्र। g) = सूक्त-विशेष-। h) = [तच्छब्द-वत्-।
साम-विशेष-। i) °विणः इति पाठः ? यनि शोधः। j) पाठ ? दधृषी-> -धि इति शोधः (तु सप्र मै ४, २, ५,
०. [आपश्रौ] च)। k) पाठः ?। = [प्रकरणतः] ऋषि-विशेष-। l) = दक्ष-दुहितृ-। व्यु ?। m) पुं. स्त्री. च।
व्यप.। व्यु. ?। n) तु पागमं ।

दन्त-धावन^०- नम् बौश्रौ १७,
३९ २, आमिग्य, -ने कौस्
१४१, १४, -नेन भाश्रौ १०, ३,
१७
दन्त-पाद-हृदयो(य-उ)दक-नासिका-
सह-समान-रात्रि^(१)-जाया-दाह-
मास^(२स)^b-मास^(२सा) अप्रा
२, ४, ६
दन्त-प्रक्षालन^०- नम् आपध १,
३२, ९, हिध १, ८, ५१, -नानि
आपध १, ८, २२, हिध १, २,
११०
दन्तप्रक्षालना(न-आ)दि-दीनि
पाग्य २, ६, ३२
दन्तप्रक्षालनो(न-उ)सादना(न-
अ)वलेखन- नानि आपध १,
८, ५^d
दन्त-भङ्ग-ङ्गाः अप ६४, ६, ७
दन्त-मूल-लानि अप ४७, २, ४,
शौच १, २८, -ले शुप्रा १, ६८,
-लेभ्य. अप ४७, २, ५, तैप्रा २,
४१, -लेषु अप ४७, २, ५, तैप्रा
२, ३८, ४२, -लै वाश्रौ ३, ४, ५,
१११
दन्तमूल-स्थान- नम् आशि
१, १४
दन्तमूलीय^०- यः ऋप्रा १,
४४, याशि २, ९४
दन्तमूल्य^१- ल्य. पाशि १८
दन्त-रजस्-जसा कौस् ३१, १४
दन्त-राग-ना बौश्रौ २, ५
२११

दन्त-लग्न-नेषु शंघ ६२, बौध
१, ५, २०
दन्त-वत् वाघ ३, ४१, शंघ ६२,
बौध १, ५, १९^२, २०, गौध १,
४४
दन्त-वेष्ट^१-ष्टौ विध ९६, ९२
दन्त-शङ्ख-मणि-रजत-सौवर्ण-
-र्णानाम् काव २७७ ८
दन्त-दिल्ल-ष्टेषु गौध १, ४४
दन्त-सक्त-क्तेषु वाघ ३, ४१,
बौध १, ५, १९
दन्ता(न्त-अ)प्र-पाग ४, २,
१३८^b, -प्रेण अप १८, ३, ७,
-प्रै शुप्रा १, ८१
दन्ताग्रीय-पा ४, २, १३८
दन्ता(न्त-अ)ञ्जि^१-ञ्जये जैग्य १,
२ २२, -ञ्जिः जैग्य १, २ १४
दन्ता(न्त-अ)न्तर-वेष्टित-तम्
विध २३, ५३
दन्ता-वल-पा ५, २, ११३
दन्ता(न्त-आ)विष्करण-णम्
माश्रौ २, १, २, ३२.
दन्तुर-पा ५, २, १०६.
दन्तूल-पा ५, २, ९७
दन्तो(न्त-उ)ल्लखल->°खलिक^१-
-क आमिग्य २, ७, १० : ९,
विध ९५, १५, -काः वैध १,
८, १
दन्तो(न्त-ओ)ष्ट-ष्टम् नाशि २,
८, १३, -ष्टौ अप ३३, १, ९,
शैशि १६२, याशि १, २७.
दन्तोष्ट्य^१-ष्टयः आशि १, १६^१.

दन्त्य-न्त्य ऋत ५, ७, ११;
-न्त्यम् ऋत ४, ४, ८, दवि १,
२, -न्त्यस्य शुप्रा १, ४२,
-न्त्याः शुप्रा १, ७६, ८, ४०;
पाशि १७, याशि २, १, ९४;
आशि १, १५, दंवि १, ३;
-न्त्यात् ऋत ४, ४, ४, -न्त्यान्
ऋप्रा १४, ३९, -न्त्यानाम् शौच
१, २४, आशि २, ८, -न्त्ये
ऋत ५, ३, ४, ७, ९, पा ७, ३, ७३.
दन्त्य-मूर्धन्य-भाव-वः ऋप्रा
५, ६१
दन्त्यो(न्त्य-ओ)ष्ट-ष्टौ माशि
१५, ३
दन्त्योष्ट-करण^१-णम् माशि
१४, १०
दन्त्योष्ट-विधि-विस्तर-
-रम् दंवि १, १
दन्त्यो(न्त्य-ओ)ष्ट्य^१-ष्टयः^१
शैशि ४३, पाशि १७.
दन्द्शुक-√दश् द
दन्द्मण-√दम् द
दब्धि-√दम् द
दन्द्की^१-की. हिश्रौ २१, ३, १०
√दम्, म्^१ पाधा. स्वा पर दम्भने,
दभत् बौश्रौ ६, ३१ : १११;
दंभाति आश्रौ ६, १४, १८;
९, ५, २, माग्य २, १७, १;
दंभेयम् बौश्रौ ३, १८ : १४;
भाश्रौ ४, १४, ४, माश्रौ १, ४,
२, ४, वाश्रौ १, १, ३, ४
दम्भोति अप ४८, १९१; ऋनिघ

a) भाप, नाप. (दन्त-काष्ठ-)। उप. <√धाव्।शुद्धौ।
°सापुं^० (=°स-अप्-पुं^०) इति संस्कृतुः शोध. ?। c) =दन्त-धावन-।
क्षालनो^० इति पाभे। e) छ > ह्यं. प्र उर्स. (पा ४, ३, ६२)।
g) नाप। उस। h) अर्थ ?। =ग्राम- इति कश्चित्। तु पागम.।।
(वानप्रस्थ-)। मत्वर्थयष् ठन् प्र.। k) परस्परं पाभे.। l) कस.। m) =व्यप.। व्यु ?। n) या ३, २०
या ७, ४, ५६ परामृष्ट. द्र.।

b) दस.। °मास पुस्ति इति पाठे
d) सप्र. दन्तप्रक्षालनो^० <> पादप्र-
f) भवार्थे यत् प्र (पा ४, ३, ५५)।
i) विप.। वस.। j) विप.

२, १४, १९, या ६, ३, दम्नु-
वन्ति या ५, १२^२
देशु या ५, १२^१, ण्दभन्
आपश्रौ ४, ६, ४, १६, १८, ७,
बौश्रौ, या १४, ३७, अप्राय २,
५^१
ण्दिप्सति कौसू ४३, ३७, अप
३२, १, ८, अप्रा ३, १, १३
ण्दन्वि- -न्विः आपश्रौ ४, ९,
१३, बौश्रौ
दम्^१- -भाय आश्रौ ८, १०, १^१
दम्^२- पाग ३, १, १३४, -म्भ
आपघ १, २३, ५, हिघ १, ६, १३
दाग्भिभक- -काः अप ५१,
५, १
दम्भ-दर्प-लोभ-मोह-क्रोध-
विवर्जित- -ताः बौघ १, १, ५
दम्भ-लोभ-मोह-वियुक्त- -काः
गौघ ९, ६
दम्^३- पाठ २, १३, पाग ४, १,
१५१^०, -अम् निघ ३, २, २९,
या ३, २०, -आः शाग ३,
१३, ५^१, -आणि या ३, २०^१
दअ-मिश्र- -आ बौश्रौ २६, ३२.
२८
√दम्^४ पाधा दिवा पर. उपशमे,
दमयेत् गौघ ११, ३०
१दम^५- -म वाघ ६, २३, आपघ,
-मेन विघ ७२, ५, वृदे ८, १३०
दम-दान-शील- -लः गौघ ९,
७०
दम-मनस्- -ना. या ४, ४.
दम-यम- -मेन विघ ७२, १

√दमाय^६, अदमाय ऋप्रा ९,
५०
दमायत्- -यन् ऋप्रा ९, १६
दमथ- पाठ ३, ११३
दमन- पाग ३, १, १३४, -नः ऋअ
२, १०, १६^१, शुअ ४, ५५^१,
-नात् गौघ ११, ३०, या २, २
दमन-शील- -लम् या १४,
१८
दमित- पा ७, २, २७
दमितृ- -ता बौश्रौ १८, ३१
१६^१.
दमिन्- पा ३, २, १४१
दम्य^७- -म्यौ बौगृ १, २, ६१
२दान्त- पा ७, २, २७, -न्त
निसू ५, ८ १५, वाघ २९,
२१, आपघ १, ३, १९, विघ
८९, ४, हिघ १, १, ९२, चव्यू
४. १७, -न्तम् आपश्रौ २०,
२, १०, हिश्रौ १४, १, २४, अप
३, ३, ८, विघ ९२, १०, -न्तस्य
आमिगृ २, ५, १ ५२, जैगृ २,
९ ३८, विघ ७२, ३, -न्ताः
अप ३०, २, १, ३१, ७, १, ५१,
४, ३, -न्तेन आपश्रौ ६, २९, ८,
-न्तेषु द्राश्रौ ५, ४, १९
दान्त-शान्त- -न्तयोः पावा
७, २, २७
२दम्^८- -मः अप ४८, ८९^१, या ४,
४, -मे बौश्रौ ३, ८ २८,
निघ ३, ४^१, -ण्मेऽ-मे आश्रौ
२, ८, ३, शाश्रौ २, ४, ३^१, बौश्रौ
८, १९ : १८.

३दम्^९- -मम् शीघ ११६ : ६१^१
दमुनस्- पाठ ४, २३५
दमून^१-> ण्व(त>)ती^१ -त्वौ^१-
बौश्रौ २८, २. ४३
ण्दमूनस्^२- -नाः आश्रौ २, ११, ९;
१२, ५×४, शाश्रौ, या १, १४,
२, २, ४, ५^१, अप्रा २, २, ९, ३,
४, १
ण्दञ्जना अप ४८, ११६
दम्-पति^३- -तिभ्याम् आमिगृ १, ५,
५ : ११, १२, ६, ३ : ६४^१, ६५^१;
-ती माश्रौ ३, ३, ६, वाश्रौ, पाग
२, २, ३१, -त्यो कप्र ३, १, १,
अप
√दम्भ् √दम् द्र
√दय्^४ पाधा भ्वा आत्म दानगीत-
रक्षणाहिंसाऽऽदानेषु, दयते अप
४८, ११६^१, निघ ४, १^१, या ४,
१७, दयन्ति अप ४८, ११६^१
ण्दयमान- -न या ४, १७, -ना^०
या ४, १७, ९, ४३
दया- -या वाघ १०, ५, विघ २,
१६, गौघ ८, २१
दया(या-अ)न्वि(त>)ता-
-तासु विघ ९९, २२
दया-पूर्व- -वैम् बौघ २, १०,
५०.
दया-युक्त- -क्तः वैघ ३, १२, ८.
दया-सत्य-शौचा(व-आ)वार-
युत- -तः वैघ १, ४, ४
दयालु- पा ३, २, १५८, -लु वैघ
३, ५, ७
दयित- -तम् वैश्रौ २०, १७. १;

a) ष्यन् इति पाठः ? यनि शोषः (तु सपा. ऋ १०, १२०, ४) । b) भवे कृत् । c) भाप, नाप (पाग) । d) वैप १ द्र. । e) = ऋषि विशेष- । तु पागम । २दम्भ- इति भाण्डा प्रसृ । f) पा १, ३, ८९; ३, २, ४६, ७, ३, ७४ परामृष्टः द्र. । g) विप, भाप । h) = ऋषि-विशेष- । i) नाप । यत् प्र (पा ३, १, ९८) । j) = अङ्गिरो-विशेष- । k) मदम् इति अणु २१९, २० । l) = दमूनस् (ऋ ५, ४, ५) । m) = संयाज्या- । ऋ या ४, १७ पा ३, १, ३७ परामृष्टः द्र. । o) पागे. वैप १, १५४६ k द्र ।

विध ९२, ३२
 दर- √द, दृ (विदारणे) द्र.
 दरक- पाउना ५, ४४
 दरण- √द, दृ (विदारणे) द्र
 १दरद्- पाउ १, १३०
 २दरद्^{L, द^B}- पाग ४, ३, ९३,
 -दान् अप ५०, २, २.
 दारद- पा ४, ३, ९३
 दारि- पाउभो २, १, १५२
 १दरिद्र^०- -०द्र शुपा २, २०, -द्रः
 वैगृ ४, ४ २६, कप्र, या १२,
 १४, -द्रम् काश्रौ २५, ११,
 २५, बौश्रौ, -द्रान् आमिगृ ३,
 ३, १ ७, ११, १ : ११
 दरिद्र-ता- -ता अप ६७, ८, ७
 दरिद्री^० > १दरिद्री-कृत्य बौध
 १, २, ५७
 √दरिद्रा^d पाघा अदा. पर दुर्गतौ
 दरिन्- √द (आदरे) द्र.
 दर्द- √द, दृ (विदारणे) द्र
 दर्दर- पाउभो २, ३, ३५
 दर्दरीक- पाउ ४, २०.
 दर्दुर^e- पाउ १, ४०, -र विध ४४,
 २७, -रम् अप ४८, ८०^१
 दार्दुरिक- पा ४, ४, ३४.
 दर्दुरो(र-उ)दर-देश- -शौ याशि
 २, ६५
 दर्द्रु- पाउ १, ९०.
 दर्प- दर्पण- दर्पित- √दप् द्र.
 १दर्भ^f- पाउ ३, १५१; पाग ३, १,
 १३४^g, ४, २, ८०, ३, १४२,
 -०भ अत्र १९, ३२^१; -^१भ

आपश्रौ १, ६, १०, बौश्रौ, -भंम्
 आपश्रौ १, १४, ६×४^१, भाश्रौ,
 -भा आपश्रौ ९, ११, ८, १५,
 १६, ५, बौश्रौ, -भणाम्
 आपश्रौ १, ५, १२, ६, ४, भाश्रौ,
 -भान् आपश्रौ १, ३, ६×४,
 काठश्रौ, -भानाम् माश्रौ १, ८,
 २, २३, -भान्याम् माश्रौ १, ८,
 ३, ३, २, ५, ३, ७, वाश्रौ, -भाय
 वैगृ २, १२ १३, -भै वैश्रौ ३,
 ५ १२^१, १२, ६ : ३, हिश्रौ १,
 ३, ४^१, वैध २, ९, ३, -भेण
 आपश्रौ २, १, १, बौश्रौ,
 -भेषु आपश्रौ १, १६, १०, २,
 ४, १०, ६, ८, ११, १४, २०,
 ८^h, १५, २१, १०, काठश्रौ,
 -भै आश्रौ ३, १२, १६, आपश्रौ,
 -भौ आपश्रौ १, ११, ६×४,
 भाश्रौ
 दार्भⁱ- -भंम् वैश्रौ ३, ५० ५,
 द्राश्रौ १०, ४, ३, लाश्रौ ३, १२,
 ३, -भै जैश्रौका ७, द्राश्रौ
 १२, ३, ७, लाश्रौ ४, ११, ८,
 -भेण कागृ २५, ४.
 दार्भी- -भी हिश्रौ १४, १,
 २०; -भीम् हिश्रौ ४, २, ६१^१,
 ३, १७, -भ्यः द्राश्रौ ११, १, २;
 लाश्रौ ४, १, २
 दर्भ-कुलाय- -यम् बौश्रौ ३, १ :
 ५, १३
 दर्भ-कूर्च- -चान् माश्रौ ४, ४, ८,
 -चैन कप्र ३, १०, १.

दर्भ-क्षुर-कर्मन्- -र्म कागृ ४०,
 ११
 दर्भ-गुरु-मुष्टि^k- -ष्टिना^l वाश्रौ २,
 २, ३, २३
 दर्भ-गु-मुष्टि^m- -ष्टिना आपश्रौ १७,
 १३, ६^१, हिश्रौ १२, ४, ८^१,
 आपगृ २०, ११
 दर्भ-चटुⁿ- -टौ कप्र २, ९, २५^०
 दर्भ-तरुण- -णाभ्याम् भाश्रौ ६,
 १४, १६, भागृ १, ३ ८, हिगृ
 १, १, २७, जैगृ १, २. ५, -णेन
 आपश्रौ १२, २४, ५, वैश्रौ १५,
 ३१ ४, हिश्रौ ८, ७, ४३, -णौ
 वैश्रौ २, ९. ५
 दर्भ-तरुणक- -के शुअ १, २९५,
 -कै आगृ ४, ६, ११
 दर्भ-तृण- -णाभ्याम् हिश्रौ ३,
 ७, ११५, आमिगृ १, १, १ :
 ३२.
 दर्भ-नाडी- -डी बौश्रौ १, ३. ३,
 -डीम् बौश्रौ ६, १२ ७, १२,
 ९ : १, वैश्रौ ३, ४ ४, -ड्या
 वैश्रौ १२, १६ : ६, -ड्याम्
 बौश्रौ ६, १२. ६, १२, ९ ४,
 -ड्यौ हिश्रौ १, २, २८
 दर्भ-पवित्र- -त्रे माश्रौ ४, २, ७
 दर्भ-पवित्र-पाणि^p- -णि अप
 १८, १, १०, शंघ ३९०
 दर्भ-पाणि^q- -णिः कागृ ९, ४, मागृ
 १, ४, ५, ९, ५, ३, वागृ ८, ५,
 विध ७३, २५
 दर्भ-पिञ्जलि- -लानि भाश्रौ १०,

a) = देश-विशेष-। व्यु ? । b) [पक्षे] भाण्डा, पागम. । c) वैप १ परि १दरिद्र- द्र. ।
 d) पा ६, १, ६, १९२, ४, ११४ पावा ६, ४, ११४, ७, २, ४९ परामृष्टः द्र । e) = मयङ्क- उदर- [अप] ।
 व्यु. ? । f) वैप १ द्र. । g) तु पागम. । h) दर्भेषु निषाद्य इत्यस्य स्थाने सप्र वैश्रौ २१, ६ : ८ उपविष्टम्
 इति पाभे. । i) विकारार्थे अण् प्र. (पा ४, ३, १३५) । j) 'र्वीम् इति पाठ^१ यनि शोघः (तु. भाष्यम्) ।
 k) वैप १ द्र । l) परस्परं पाभे. । m) = दर्भगुस्तुष्टि- । n) दर्भ-चटु- टि. द्र. । o) 'वटौ इति जीसं. ।
 p) विप । बस. ।

३,१२, -लाभ्याम् भाश्रौ १०,
४८, -लेन भाश्रौ १०,४, १२,
-लैः भाश्रौ १०,५,१
दर्भ-पिञ्जु^१ [ञ्जु]ली- -ली गोयु
२, ९, १४, ४, २, २८, जैयु १,
११ : ११, द्रायु २, ३, २४, ३, ५,
२०, -लीभिः गोयु २, ७, ५, कौसु
२५, ३७, -लीम् गोयु ४, ३, २,
१३, -ल्य गोयु २, ९, ४,
-ल्या कौसु ५३, २०, ७९, १४
दर्भपिञ्जुली-शेष- -वान् जैयु
१, ११ १९
दर्भ-पिञ्जुल^२- -लानि माश्रौ ३,
८, ३, कायु ७२, १, -लाभ्याम्
माश्रौ २, १, १, ३५, -लैः माश्रौ
१, १, १, १८, २, १, १, ४०, कौयु
५, ८, ५, पायु १, १५, ४
दर्भपिञ्जुल-वत्- -वता शायु
६, २, १२.
दर्भ-पुञ्जील- -लम् बौश्रौ ८, १५
२८, २१, २४, ३, २५, १०
१२, -लान् आपश्रौ १४, २०, ८,
वैश्रौ २१, ६ ७, हिश्रौ १५, ५,
२४, -लानि बौश्रौ २, ८ : ७×५,
वाधूश्रौ, -लाभ्याम् आपश्रौ
१०, ६, ११, हिश्रौ १०, १, ४३,
-लेन आपश्रौ १०, ७, ३, वैश्रौ
१२, ७ : ७, हिश्रौ १०, १, ४६,
-लै आपश्रौ १, २, ३×५, बौश्रौ.
दर्भ-पृतीक^३- पाग २, ४, ११.
दर्भ-पृतीक-भाङ्गा- -ङ्गाभिः कौसु
२२, १४
दर्भ-पृल- -लेन वैयु ३, १६ : १०
दर्भ-प्रभृति- -तय अप ३३, १, ७

दर्भ-प्रान्त- -न्तानि कौसु ५३, २.
दर्भ-मणि^४- -णिम् अशा १९, ४, ६
दर्भ-मण्डलद्वीपिन्^५- -पिभिः द्रायु
४, २, ७^६
दर्भ-मय- पा ४, ३, १४४, -यम्
आपश्रौ १, ३, ५, १८, ५, ८,
बौश्रौ, -ये आपश्रौ १५, ५, २०,
भाश्रौ ११, ५, २७, वैश्रौ १३, ७:
२२, हिश्रौ २४, २, ६, -येन
कौयु ५, ३, २४, हिपि ८ १
दर्भमयी- -यी आपश्रौ २०, २,
७, -यीः बौश्रौ ३, १ ५, १४,
-यीम् वाश्रौ ३, ४, १, १४,
-य्यौ आपश्रौ ७, ११, २, भाश्रौ
७, ८, १८
दर्भ-सुष्टि- -ष्टिना द्राश्रौ ५, ३, २३,
लाश्रौ २, ७, २०, आमिगु २, ५,
९ ४, बौयु ३, ५, १९, जैयु
२, ६ ४, -ष्टिम् काठश्रौ ३,
१२, माश्रौ, -ष्टीन् माश्रौ २,
५, २, ९, मायु १, ६, २.
दर्भ-मूल- -ले वैश्रौ १२, ६ : ८,
विघ ७३, २२
दर्भ-र- पा ४, २, ८०
दर्भ-रज्जु- -ज्जुम् वैयु ५, ६ ४,
-ज्ज्वा मायु १, ११, ५, कौसु
१६, २५, ३९, १९.
दर्भरज्जु-संवीत- -ता वैयु ५,
२ : १४
दर्भ-रोमन्^७- -मा विघ १, ३
दर्भ-लवन^८- -नम् कौसु ८, ११
दर्भ-वटु^९- -टुम् गोयु १, ६, २१.
दर्भ-वीता- -तासु आयु ४, ८, २७.
दर्भ-शर- पा २, ४, ११.

दर्भ-शुल्ब- -ल्बम् कौसु ४६, १९,
-ल्बेन वायु १४, २
दर्भ-शेष- -षम् आपश्रौ २, १, १०.
दर्भ-संख्या- -ख्या कप्र २, ९, २५.
दर्भ-संमित- -तम् गोयु ४, ७, ९;
द्रायु ४, २, ९
दर्भ-सूची^{१०}- -च्या कौयु १, १४, ७,
शायु १, २२, ९
दर्भ-स्तम्ब- -म्ब बौश्रौ २२, १९ :
१७, -म्बम् आपश्रौ ९, ५, ४×५;
बौश्रौ, -म्बस्य बौश्रौ २२, ५.
१६, -म्बे आपश्रौ ९, ३, ९×५,
बौश्रौ, -म्बेषु बौयु ३, ५, १८,
अप्राय ५, २
दर्भस्तम्बो(म्ब-उ)स्पत्ति- -त्तौ
अप ७२, ३, ११
दर्भ-स्तम्भ- -म्भम् कायु ४३, ४
दर्भ-हस्त^{११}- -स्तौ वायु ५, २५
दर्भा(र्भ-अ)ग्र- -ग्रम् माश्रौ १, ८,
४, २४, बौपि २, ९, ४, कौसु
४४, ३७, -ग्राभ्याम् कौसु ६१,
६, -ग्रे आपश्रौ ६, १५, ५;
आपयु १, २२, बौयु १, ३, ११;
द्रायु १, २, १२
दर्भाग्र-सुष्टि- -ष्टिना आपश्रौ
१६, २१, ३, वैश्रौ १८, १६ :
२८, १९, ६ ७१, हिश्रौ ११,
७, ४
दर्भा(र्भ-आ)दि- -दीन् अप ३३,
५, ८, वैघ २, १, ६
दर्भा(र्भ-अ)न्तर्हित- -तेषु आयु ४,
७, १०
दर्भा(र्भ-अ)म्बर- -म्बर- -रा वैयु ५,
२ १४

a) गोयु. पाठः । b) वैप १ द्र. । c) 'पूली' इत्यपि पागम । d) = रक्षाकरण-विशेष- ।
e) तु. आन. । कस उप द्वस > मत्वर्थीयः प्र. । f) सप्र गोयु ४, ७, १२ शादासमितं मण्डलद्वीपसमितम् इति
पाभे. । g) विप. । बस. । h) = लवित्र- । कास. उप करणे प्र । i) = [ब्रह्मणः] कुशानिर्मिता- पुत्रिक- ।
सपा. 'वटु' इति [लैवि], 'वटु-', 'वटु- [तु MW] इति [वावि] च यथायथं पाभे । j) उप. = अग्रभाग- ।

दर्भा(र्भ-अ)र्थ-र्थे अप ३१, ९, १
दर्भा(र्भ-अ)वस्तीर्ण-र्णे कौसू २१,
२३
दर्भा(र्भ आ)सन-नेषु वैगृ ३, १३.
३
दर्भा(र्भ-आ)हार-राय कौसू १,
२४, ६१, ३८
दर्भे(र्भ-इ)ण्डव-ण्डवम् गौपि १,
३, २, -ण्डवे कौसू २६, ३०
दर्भे(र्भ-इ)णव-णवम् आपगृ ४, ८
दर्भे(र्भ-इ)ध्माबर्हिः-परिधि-विद्यति-
पवित्र-द्वि-कपाल-सुक-सुवा
(व-अ)रणि-कृष्णाजिन-प्रणीता-
(ता-अ)ग्न्युद्वासन-नेन बौश्रौ
२८, १० : ९
दर्भे(र्भ-इ)षीका-कया आपश्रौ
१०, ७, ३, भाश्रौ १०, ४, १२,
हिश्रौ १०, १, ४६, -काभिः माश्रौ
२, १, १, ३८, मागृ १, ११, ८,
-काम् अप ३६, ६, २, १४, १
दर्भो(र्भ-उ)पक्लृप्ता(त्-आ)सन-
नेषु आमिगृ २, ३, ३ : ६
दर्भो(र्भ-उ)लक, लका-लक्या वैध
२, १५, ४, -लकेन वैगृ १, १२ ९
२दर्भ (=दल्भ)-पा ४, १, १०२,
पाग ४, १, १५१^d
दार्भायण-पा ४, १, १०२, -णा
बौश्रौप्र ३ : २, ४४ १
दार्भि-र्भयः बौश्रौप्र १७. १७,
-भिः बौश्रौप्र १० २
दार्भ्य-पा ४, १, १५१, -र्भ्य वृदे
५, ५०, ७६, ७७, -र्भ्या. बौश्रौप्र
२२. १
दर्भण-√दृम् (प्रभ्ये) द्र

दर्भन्-√दृ, दृ (विदारणे) द्र
दर्व-पाउ १, १५५^f, -वैण शाय
४, १५, १९६, -वै बौश्रौ १५,
१९ १५५^f
दर्वि, वी-पाउ ३, ८४, ४, ५३,
-फंवि आश्रौ २, १८, १३^d,
काश्रौ ५, ६, ३०^d, आपश्रौ ८,
११, १९^d, बौश्रौ, पावा ७, ३,
१०९, -वि कागृ ६३, १४^f,
कौसू ८८, ८३-१०^३, अप ४४, ४,
४^f, विध ७३, १७-१९, अत्र
९, ६^f, -र्विम् बौश्रौ १५,
१९ १२, फं कौसू ८७, २४,
१३८, १२, -र्वी बौगृ १, ३,
१३, १४^f, कप्र, -र्वी वाघृश्रौ
२, ५ १^३, -र्विम् आपश्रौ ८,
११, १९, बौश्रौ, -फंवे^d माश्रौ
१, ७, ५, २९, वाश्रौ १, ७, ३, २१,
वैताश्रौ, -र्व्या काश्रौ ५, ६, ३०,
आपश्रौ, -र्व्याम् बौश्रौ १७,
४१. ६, १२, भाश्रौ
दर्वि-कूर्च-प्रस्तर-परिधि-बर्हिर्-
विद्यति-पवित्र-वेदो(द-उ)पवेधे-
(ष-इ)धम-द्रव्य-संभार-
-राणाम् बौश्रौ २७, १ : २२^d
दर्वि-कृत-ने कौसू ६२, ४, ६८,
२०
दर्वि-दण्ड-ण्डे बौश्रौ १७, ४१
६, १२.
दर्वि-होम-म. काश्रौ १५, ३, १४,
आपश्रौ २२, २५, २१, २४, ३,
२, हिश्रौ ३, ८, १६, २३, ४,
१५, मीसू ८, ४, १, -मम्
बौश्रौ १४, १९. २८, -मा

काश्रौ ६, १०, १७, आपश्रौ
१३, १, ४, २२, १८, १९, बौश्रौ;
-मान् आपश्रौ २४, ३, ९; हिश्रौ
३, ८, १५, -माय वाघृश्रौ ४,
१०३^२ ६, -मे कौसू १३८,
१५^f, -मेन काश्रौसं २९ ७,
-मेभ्य हिश्रौ ३, ८, २३, -मेषु
भाश्रौ ५, ११, ३
दार्विहोमिक, का-कः
भागृ २, १५ ५, -कम् आमिगृ
१, ६, ३ : ५८, -का भागृ ३,
१ २८, -काम् भागृ ३, १ :
२९
दार्विहोमिकी-कीम्
बौध २, १, ३३, ४, २, १०
दर्विहोम-चोदना-ना वाश्रौ १,
१, १, २४.
दर्विहोम-धर्म-र्म वाश्रौ १,
१, १, २७
दर्विहोम-वत वैश्रौ १३, ८ ६.
दर्विहोम-संरकार-रेण आपश्रौ
१५, ६, ७, भाश्रौ ११, ७, १
दर्विहोमा(म-आ)कार-रम्
बौश्रौ १०, ५३ : १.
दर्विहोमिन्-मी या १, १४.
दर्वी-कूर्च-प्रस्तर-परिधि-बर्हि-
पवित्रे(त्र-इ)धम-द्रव्य-संभार-
-राणाम् बौगृ ४, २, १^d.
दर्वी-दण्ड-ण्डे आमिगृ १, ३,
४ ७
दर्वी-दण्ड-सूत्र-त्रेण आमिगृ
१, ३, ३ १८
दर्वी-निष्ठपन-काल-ले आमिगृ १,
७, ३ १७

- a) नाप । उस उप. कर्तरि कृत् । b) समाहारे द्वस । c) वैप १ द्र ।
d) दभ्र-टि. द्र. । e) = दर्वि-। व्यु ? । f) < √दृ [विदारणे] । g) पाभे पृ ८१७ a द्र ।
h) पाभे वैप १, १५४७ k द्र । j) सप्र दर्वि° < > दर्वी° इति पाभे । j) तस्येदमीयष् ठक् प्र ।
k) विप. । बस ।

दर्वी-प्रमाण- णम् आसिष्ट २, ३,
१ १३
दर्वी-लुक्-लुव-प्रणीता (ता-आ)ज्य-
स्थाली-चरुस्थाली- ली वैष्ट
४, १ २
दर्वी-होम- म बौष्ट १, ४, ३९,
-मम् बौष्ट ४, ९, ३, -मस्य बौष्ट
१, ४, ४४, -मेन वाधुश्रौ ४,
९४^३ ६, ९, ९६ : २२
दर्व्या(र्वी-आ)कृति^३- -ति अप २३,
४, ५
दर्व्या(र्वी-आ)चमन^३- -नम् पाग
२, १४, २४
दर्व्या(र्वी-२आ)घ^३- -घम् अप २३,
१, ३.
दर्व्यु(र्वी-उ)दायुवन^३- -नम् आपश्रौ
८, ११, १६, भाश्रौ ८, १२, ३,
१३, ४, वैश्रौ
१, २दर्श- प्रष्ट $\sqrt{दृ}$ द्र
 $\sqrt{दृ}$ पाधा भ्वा पर विशरणे,
शब्दे, चुरा उभ विदारणे
दृल- पाग ४, २, ८०, ५, २, १३१.
दृलिन्- पा ५, २, १३१
दृल्य- पा ४, २, ८०.
दृलित- पाग २, १, ५९
दृलतृ- (>दालत्रक- पा) पाग ४,
२, ८०
दृलप- पाउ ३, १४२, पाग ६, २,
१३४
दृलिक- पाउमो २, २, १५
दृलीप^३- (>दालीपि^३->^३पायन-
पा) पाग २, ४, ६१
दृल्म^३- (=२दर्भ-^३) पाउ ३, १५१, पाग

४, १, १०५
दाल्भ्य- पा ४, १, १०५, -ल्भ्यः
बौश्रौ १८, ३८ १६^३, -ल्भ्यम्
ऋश्च २, ५, ६१, -ल्भ्यस्य बौश्रौ
१८, २६ १०, भाग २, ६
१६, शुप्रा ४, १६
दृलिम्- पाउ ४, ४७, पाग ८, २, ९.
दृलिम्-मत्- पा ८, २, ९
दृवर- पाउमो २, २, ३८
दृवस्^३->^३स्-वत्-, दृविष्ठ- पा ६,
४, १५६.
दृवीयस्- पा ६, ४, १५६, -यः
या ९, १३^३, भाशि १३
दृविद्युत्-^३, दृविद्योत् $\sqrt{द्यु}$ द्र
दृविध्वत्- $\sqrt{धु}$ द्र
 $\sqrt{दृ}$ $\sqrt{दृ}$ $\sqrt{दृ}$ द्र
 $\sqrt{दृ}$ (= $\sqrt{दृ}$) > *दृशस्- >
 $\sqrt{दृ}$ दृशस्य, दृशस्यति अप
४८, २८, दृशस्यथ >था ऋप्रा
८, ३२, दृशस्य >स्या ऋप्रा ७,
३३
दृशस्यत्- -स्यन् ऋप्रा ७,
४५, -स्यन्ता आपर्भ १, ११,
११^३
१दृश, शा^३- -शया माश्रौ २, ३, ४,
२०, २४, ५, १५, ६, १०, ४, २,
३६, -शा काश्रौ ४, १, १७,
माश्रौ २, ३, १, १८, वैश्रौ ९, ६
१०, -शा कौष्ट २, ७, २०,
शाष्ट २, १२, ५, -शात् वैष्ट १,
३ २^३, -शाभि आपश्रौ १२,
२९, ९, १३, १५, २, बौश्रौ, वैश्रौ
१६, १८ : ३^३, -शाम् आश्रौ

२, ७, ६, शाश्रौ, -शायाम् काश्रौ
७, ३, २५, बौश्रौ, -शासु बौश्रौ
११, ६ : २८, १२, ७ ३८, वैश्रौ
१४, १४ १२, कौष्ट ५, ४, ८;
-शे लाश्रौ ८, ६, २२, -शेन
गौपि १, १, १२
दृशा(शा-आ)ख्या- -ख्या लाश्रौ ८,
६, २१
दृशा-ग्रन्थिक^३- -के कप्र १, ५, ९
दृशा(शा अ)न्त- -न्तम् वैश्रौ १४,
१४ : १३, वैष्ट ५, २ ४, शंघ
७२
दृशा-पवित्र- -त्रम् काठश्रौ १२४,
बौश्रौ ७, ६ २०, ८, १ : २३;
माश्रौ, -त्रस्य आपश्रौ १०, २६,
११, भाश्रौ, -त्रे बौश्रौ ६, ३०.
३x, माश्रौ, -त्रेण काश्रौ ९,
५, २३, ६, १५, बौश्रौ
दृशा-वत् आपश्रौ १२, १४, ११.
दृशा-सूत्र- -त्रम् बौष्ट ४, २, ६
२दृश- (>दाशय- पा) पाग ४, २,
८०
१दृशत्- $\sqrt{दृ}$ द्र
२दृशत्-, दृश-ति- दृशन्- द्र
दृशन्^३- पाउमो २, १, २७७^३, -श
आश्रौ ५, १२, १५^३, णशाश्रौ ७,
१५, ७^३, १२, १४, १^३, काश्रौ;
माश्रौ ५, २, ८, १७^३, अश्र १५,
१७^३, १९, ४६, अप ४ : ५;
या ३, ९^३, १०, -शऽ-श आश्रौ
९, ३, १८, शाश्रौ, -णशभिः
आश्रौ ४, ७, ४, शाश्रौ ५, १०,
८x, काश्रौ, -शभिःऽ-शभिः

a) विप । बस । b) उप. = मुख- । c) = दर्व्यन्त- । उप < उदा $\sqrt{यु}$ । d) व्यप । व्यु ? ।
e) < दिलीप- इति पागम, अन्ये तु यनि इति । f) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । g) वैप १ द्र. ।
h) ण्त्वा इति पाठः ? यनि शोध (तु ऋ ८, ३१, ९) । i) वैप १, १५५२ e द्र. । j) णभि. इति पाठः ?
यनि. शोध. (तु उत्तरं स्थलम्) । k) < $\sqrt{दा}$ इति । l) पाठः ? द्वादश इति शोधः (तु अत्रैव विंशे सूत्रे
द्वादश प्रैष-प्रतीकानि सा L तैत्रा ३, ६, २, २] च) । m) पाठ ? दृशकम् इति शोध. (तु अश्र १५, १५) ।

दश-पक्ष^a- -क्षः कौस् १३५, ९.
 दश-पञ्चदशन्-> षा- -शानि
 आश्रौ ११, ५, २.
 दश-पण^b- -णः विध ५, १२०,
 -णम् बौध १, १०, १४^b
 दश-प(त्र>)त्रा^c- -त्रा अशा
 २२, १^f
 दश-पद, दा- -दः काश्रौ १६, ८,
 १६, -दया काठश्रौ ९२, -दा
 काठश्रौ ४९, बौश्रौ ४, १ ३३,
 २०, २५ ३१, आपश्रु ६, १२,
 बौश्रु ३: २२, ४: ९, हिश्रु २,
 ३९, -दाम् आपश्रौ ७, ३, १०,
 भाश्रौ
 दशपद-व्यास^d- -स बौश्रु
 १० ५, १२.
 दश-प(द्>)दा- -दा अश्र ९, ५,
 -दा: अश्र ९-१०, ५
 दश-पश्रु^e- श्रु: शाश्रौ १६, १४,
 १९
 दश-पु, पू^fरुष- -षम् आश्रौ ९,
 ३, २०, शाश्रौ १५, १४, ८, बौश्रौ
 २८, २: ५८^g, वाध ३, १९,
 २२, १०^h
 दश-पेयⁱ- -य आश्रौ ९, ४, ७,
 शाश्रौ, -यस्य शाश्रौ १५, १३,
 २, आपश्रौ, -याय आपश्रौ १८,
 १२, २, बौश्रौ, -ये आपश्रौ १८,
 ८, ४, बौश्रौ २२, २० १९,
 वाश्रौ, -येन आश्रौ ९, ३, १७,
 लाश्रौ ९, २, १, ३, ३
 दशपेय-सस्था- -स्था वाश्रौ ३,
 ३, ४, १५

दशपेया(य-अ)र्थ- -थम् आपश्रौ
 १८, १२, ३, हिश्रौ १३, ५, २
 दश-पौरुष- -षम् आश्रौ २, १२,
 ६^h
 दश-बाहुⁱ- -हवे शैशि २
 दश-भाग- -गम् हिश्रु ५, ३०^h
 दशभाग-व्यास- -सम् आपश्रु
 १६, ९^h
 दशम- -म शाश्रौ १६, २९, १७,
 बौश्रौ, -मम् आश्रौ ४, १२,
 २x, शाश्रौ, आश्रु ९, ५^h,
 -मस्य बौश्रौ १७, २५, १०,
 २६ १०, द्राश्रौ, -मात् शाश्रौ
 १२, २, २३, १३, १५, १३,
 आपश्रौ, -माय बौश्रौ १०,
 ४७ १, -मे आश्रौ ८, १२, १,
 १०, ७, ९, शाश्रौ, ऋआपमेⁱ १,
 १२, ३, ४, ६, आश्रु १, ५, ५:
 १७^h काश्रु ३२, ३^h, बौश्रु १,
 ७, ४०^h, ऋमाश्रुⁱ २, १८, २,
 ४^h, जैश्रु, या १४, ६^h,
 -मेन बौश्रौ २९, २ ८, लाश्रौ,
 -मै: लाश्रौ ७, ७, ११^h
 दशमी^j- -मी शाश्रौ २,
 ३, १४, १०, ६, १४, कौश्रु, -मीम्
 आश्रौ ५, १, ८, शाश्रौ, -मीम्S
 -मीम् आश्रौ १०, ७, १०, -म्या
 बौश्रौ १०, २९: १०, कौस्,
 -म्या काश्रौ १९, ७, ४, आश्रु,
 -म्याम् शाश्रौ १५, १४, ५,
 वाश्रौ, -म्यै बौश्रौ १२, १८.
 ८, भाश्रौ ६, ६, ४
 दशमी-चतुर्दशी-

-श्यौ ऋश्र २, ७, १०४
 दशमी-षोडशी-
 -इयौ ऋश्र २, ३, ५३.
 दशम्या(मी-आ)दि-
 -दयः ऋश्र २, ७, ६६
 दशम्या (मी-२आ-
 य>)द्या- -द्या ऋश्र २, १,
 १९१, ८, ९, २५
 दशमिक^k- -क निसू ९,
 ७ १७, -कम् निसू ९, ७:
 ५, २२
 दशमिकी- -क्यः निसू
 ९, २: २६, -क्यौ निसू ९,
 ७ १५
 दशम-तन्त्र- -न्त्रम् निसू ९,
 २: ३, ७ २५.
 दशम-धर्म- -र्मा: निसू ४, ८
 १७, ९, ६: १, १० २३, १०
 ७ २१
 दशम-प्रदेश- -शात् लाश्रौ १०,
 १०, १
 दशम-यज्ञ- -ज्ञम् निसू ९,
 ७: १
 दशम-वर्जम् वैश्रौ १०, २१: ७.
 दशम-विसर्ग-वचन- -नात् मीस्
 १०, ६, ३९
 दशम-व्रत- -तम् आश्रौ ८,
 १३, ३१^h, -ते द्राश्रौ ९, २, १६;
 लाश्रौ ३, ६, १७.
 दशम-संयोजन- -ना निसू ९,
 ७ १३.
 दशमा(म-अ)र्थ- -थम् लाश्रौ
 १०, ३, १८

- a) विप । बस. । b) प्रतिशतं दशमो भाग इत्यर्थे [तु यास्तु २, १९९] । c) = ओषधि-
 विशेष- । बस. । d) बौश्रौ वाध २२, १० पाठ. । e) सपा षूरुषम् <> षौरुषम् इति पाठे ।
 f) वैप १ द्र । g) सप्र णं व्यासम् <> णव्यासम् इति पाठे. । h) षम् इति पाठः ? यनि.
 शोषः । i) पाठे. वैप १, १५५० f द्र । j) विप, नाप. (तिथि-) च । k) तत्रभवार्थोयष् ठक् प्र. ष
 l) तु. आन ।

दशमै(म-ए)कादश- -शाभ्याम्
आपध २, ३, २२, हिघ २, १,
५२, -शे आपधौ १७, २३, ९,
हिश्रौ १२, ७, ९

दश-मास- -सात् अप ७१, ९, ४
दशमास-तस्(.) अप ७०^३,
७, १८, ७१, ११, ५

दशमास्य^४- -स्य काश्रौ २५,
१०, ५, आपमं १, १२, ९,
आय १, १३, ६, कौगृ १, १२,
६^२, शाय १, १९, ६, १२,
पागृ १, १६, १, हिगृ १, २५, १,
शुप्रा ४, ८५, -स्यम् बौश्रौ १६,
१६ २, २४, ५ १३, -स्य्याय^५
आपमं २, ११, १५, आयिगृ २,
१, १. १२, भागृ १, २२. ११,
हिगृ १, २५, १, २, २, ५

?दशमास^६ भागृ १, २२ १८^१

दश-योक्त्र^७- -क्त्रेभ्यः या ३, ९^१

दश-योजन^८- -नेभ्यः या ३, ९^१

दश-रथा(क्ष >)क्षा^९- -क्षाम्
आपधौ १४, ५, १०, हिश्रौ ९,
८, ६

दश-राजन्->दाशराज^{१०}- -ज्ञे
शाश्रौ १२, १५, ५^१

दश-रात्र^{११}- -त्र. आश्रौ १०, ५,
३×५, शाश्रौ, -त्रम् आश्रौ ११,
७, ११, १८, शाश्रौ, -त्रयोः
निसू १०, ७ २७, -त्रस्य
आश्रौ १२, ७, १०, काश्रौ, -त्रा
आश्रौ १०, ३, २९, काश्रौ,
-त्रात् आश्रौ २, ५, १४×५,

शाश्रौ, -त्राय आपधौ २२, २३,
१६, बौश्रौ, -त्रे आश्रौ ८, ७, १७,
१२, १९, आपधौ, -त्रेण शाश्रौ
१६, २९, १, १८, बौश्रौ, -त्रौ
लुसू ३, १२ ३, निसू १०, ७ :
२०.

दाशरात्रिक- -क निसू ८,
९ : २५, -कम् शाश्रौ १०, २,
१, लाश्रौ १०, ५, १, निसू ९,
१३ ११, -का निसू ३, ७ :
१३, -काणाम् लाश्रौ १०, ५,
३, निसू ४, ७ १७, १२ : १२,
८, ३ २७, -काणि काश्रौ २३,
१, ५, निसू ८, १ : ४, ६ ५,
९, ३ २६, ९ ५, -कान् निसू
६, १२ ३, -केभ्य लाश्रौ ६,
६, ९, १७, निसू ४, १३ १५,
-कैः निसू ९, १३ ९, ३४.

दशरात्र-न्याय- -येन निसू ६,
६ १८, ७, ३ ३६, ९ : १३,
१५, ८, १० : २६
दशरात्र-प्रबर्ह^{१२}- -हं लुसू २,
७ : १.

दशरात्र-प्रमृति- -तय निसू ९,
८ : ३३

दशरात्र-मास- -सम् द्राश्रौ ८,
३, ३१^१

दशरात्र-मिश्र- -श्रम् लाश्रौ ४,
७, ११^१, -श्रात् द्राश्रौ ८, ३,
२८, लाश्रौ ४, ७, ८

दशरात्र-रूप- -पाणि निसू ४,
१३. ७.

दशरात्र-लि(ङ >)ङ्गा^{१३}- -ङ्गा
निसू ८, ६ : २६.

दशरात्र-वत् लाश्रौ १०, ३,
१४

दशरात्र-व्रत- -तम् आयिगृ ३,
९, ३ : १०^४

दशरात्र-समीप- -पे द्राश्रौ ७,
४, २२, लाश्रौ ३, ४, २१.

दशरात्र-स्तोम-विकृत^{१४}- -तः
निसू ९, ४ ५, १०, २ : ७

१दशरात्रा(त्र-अ)न्त- -न्ते लुसू
३, २ : ३५

२दशरात्रा(त्र-अ)न्त^{१५}- -न्ताः
निसू ९, ६ २३

दशरात्रा(त्र-आ)सि- -सिमि निसू
८, २ १८

दशरात्रा(त्र-अ)वार्ध- -धे शाश्रौ
२, १६, १

दशरात्रा(त्र-अ)वलोपा(प-अ)
हीन^{१६}- -नाः निसू ८, १. ३^२.

दशरात्रा(त्र-अ)वसान- -वे निसू
७, ९ १३

दशरात्रिक^{१७}- -के निसू ५, ९ :
२२^३, शुअ ४, १८७.

दश-रात्रि^{१८}- -त्रौ आज्यो १२, २.

दश(श-ऋ)र्च^{१९}- -र्चः शुअ २,
३९४, -र्चम् बौश्रौ १०, ५१ :

२१^१, माश्रौ, -र्चस्य काश्रौ
२०, ६, १८, -र्चाः ऋअ २, ९,
८६, -र्चे ऋअ २, १०, ५९;

-र्चैन आपधौ १७, १४, ७;
वैश्रौ, -र्चेभ्यः अप ४६, १०, ७^१.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे वैप १, १५५० f द्र । c) पाठः ? दश, (मास्->) मासः इति श्लेषः

तु सपा हिगृ २, २, ७। d) विप. (19080 अङ्गुलिपरिमिता-] रज्जु-) । e) मलो. कस. उप. भाप.

<प्र/बृह (उद्यमने [तु लाश्रौ ४, ५, ४ भाष्यम्.] । f) सपा ञ्रमासम् <> ञ्रमिश्रं मासम् इति पाभे ।

g) विप । बस । h) सप्र. बौपि २, ७, ९ द्वादशरात्रमेतद् व्रतम् इति पाभे. । i) विप. (कुसुमबिन्द-) । j) बस. >

कस । अन् (= नञ् [तु पृ ३८१ j]) -लोप- । k) 'विलोपा' इति संस्कृते टि. । l) = दाशरात्रिक- ।

m) दा° इति संस्कृते: टि. । n) कस. पूष. = दशमी- ।

दश(श-ञ्)र्ष(भ>)भा^३-भा
 बौश्रौ २४, ३८ ८, -भाया
 आपश्रौ १९, १६, ९
 दश-वर्ष- -र्षम् वाश्रौ २, १, ७, १९,
 २, १, २१, -र्षान् काश्रौ २२,
 १०, ११, लाश्रौ ९, ४, २
 १दश-वर्ष- -र्षान् वैगृ ६, १२ ३
 दशवर्ष-भुक्त- -क्तम् शंघ ३०९,
 गौघ १२, ३४
 दशवर्ष-वृद्ध- -द्ध गौघ ६,
 १५
 दशवार्षिक^३- -कम् काश्रु १९,
 २
 २दश-वर्ष^०- -र्षं आपघ १, १४,
 २५, हिघ १, ४, ५४, -र्षम्
 आपघ १, १४, १३, विघ ३२,
 १७, हिघ १, ४, ४५.
 दश-वार- -रम् बौश्रु २, ९, ४,
 भाश्रु ३, १५ : २.
 दश-वाह-वाहिनी- -नी वाघ १९,
 १७
 दश-विध, घा^०- -धम् शाश्रौ १६,
 २९, १, २, १८, -घा नाशि
 १, ३, १
 १दश-वीर^०- -रम् शाश्रौ ४, १३,
 १, आपश्रौ, आपर्म १, ६, १२^०.
 १दश-वृक्ष^०- -वृक्ष कौसू २७, ५,
 अप ३२, १, ७, अअ २, ९^१
 दश-व्यास^०- -स. बौश्रु ४ २
 दश शत^०- -तम् शाश्रौ ११, १३, ६,
 लाश्रौ ९, ६, १३, वाघ १३,
 ४८
 दश-सं(स्थ>)स्था^०- -स्था अप
 ६१, १, २८

१दश-सनि- -नि, -निम् पाश्रु
 २, ६, १६.
 दश-सप्त-चतुर्दश-वर्जम् काश्रौ ६,
 १, २९
 दश-सहस्र- -स्रम् आमिश्रु २, ५,
 १० : ४^३, गौपि १, ७, १३
 दश-साहस्र^१- -स्रः वाघ २५, १२,
 -स्रम् शंघ ४५३
 दशसाहस्र-जाप्य- -प्येन शंघ
 ४५४
 दश-सूक्त- -केषु आश्रौ ३, २, ९
 दश-स्तोम^१- -मानि बौश्रौ १७,
 १८ ९
 दश-हविस्^०- -विः काश्रौ ५, १२,
 २, बौश्रौ १५, १७ १२, ३७ :
 १७, -विष. शुअ ३, १३२^१,
 -विषम् आपश्रौ २०, ९, २,
 २३, २, बौश्रौ
 दश-हस्त- -स्तम् अप ३०^२, १,
 ३, ५
 दशहस्त-समुत्सोघ^०- -धम् अप
 १८, १, ५
 दश-होतृ^०- -तरि शाश्रौ १०, १४,
 १, -ता बौश्रौ २५, ३१ : ४,
 माश्रौ, -तार आपश्रौ २१, ११,
 ११, वाधूश्रौ ४, ९५. ९, हिश्रौ
 १६, ४, २७^१, -तारम् शाश्रौ
 १०, १४, २, आपश्रौ, -तु
 आपश्रौ २१, १०, ७, बौश्रौ,
 -त्रा आपश्रौ ५, १०, ८×४,
 बौश्रौ
 दशहोत्र(तृ अर्थ)- -र्थम् बौश्रौ
 २, ७. १९
 दश-हो(त्रा>)त्र^३- -त्रम् वैगृ ५,

४ : ४, ७
 दशहोत्रे(त्र-इ)ष्टका- -का बौश्रौ:
 १९, ७ २
 दश-होम- -मानाम् भाश्रौ ५, २१,
 १२
 दशा(श-अं)शक^१- -कः अप ६९,
 ८, ४
 १दशा(श-अ)क्षर-> ०र-नियत-
 -तै उनिसू १ : ३८
 दशाक्षरो(र-उ)पयु(क्त>)का-
 -क्ताः निसू २, १२ २३^१
 २दशा(श-अ)क्षर, रा^०- -र निसू १,
 १ ४, -रम् वाधूश्रौ ४, १०० :
 १०, २७, वृदे ७, २१, -रा शाश्रौ
 १६, २९, २, आपश्रौ ६, १३,
 ९, बौश्रौ १४, १९ ११, आमिश्रु-
 ३, ८, २ ५९^१, -राः शाश्रौ
 ७, २७, २३, बौपि १, १५ :
 ६४^१, ऋप्रा १६, ४२, -राणि
 छसू १, ६ : १८, -राभ्याम्
 उनिसू २ ३०, ३४, -रेण
 आश्रौ ८, १२, १६, -रेषु लाश्रौ
 १०, ९, ७, -रौ ऋप्रा १६, ६६;
 उनिसू १ ३१
 दशाक्षर-ता- -ताया निसू १,
 १ : ८
 दशाक्षर-पाद, दा^१- -दम् निसू
 ३, ४ ३२, -दा निसू १, ४ :
 २५
 दशाक्षरै(र-ए)कादशाक्षर- -रौ
 निसू १, १ : २६.
 १दशा(श-अ)हुल-> ०ल-प्रमा
 (ण>)णा- -णाम् अप २६,
 ३, ४

a) वैप १ द्र । b) विप । छञि [पा ५, १, ९४] प्र उप वृद्धि [पा ७, ३, १६] । c) तद्धितार्थे द्विस । d) विप । बस । e) पाभे वैप १ सुर्ववीरम् शौ १४, २, ६ टि द्र । f) पूष = दश-पद-लु संस्कृते टि । g) वैप १, १५१८ b द्र । h) बस वा मलो. कस वा लु वैप १ त्रि-शत-टि । i) वैप १, १५१९ ० द्र । j) दशा^० इति षाठः^१ यन्नि. शोधः । k) = मन्त्र-विशेष-। बस । l) दशाक्षरो वैकस्ता इति सा (ता १२, १३, २२) पाभे ।

२दशा(श-अ)ङ्गल- ल विध ५,
२५,- लम् वैश्रौ ११, ८ : १३,
बौश्रु १ : ३
दशा(श-आ)त्मक^a- -कम् बौश्रौ
२७, १० : १७⁺ × ×, -केन बौश्रौ
२९, २. ७
दशा(श-आ)दि- -दिभि पावा २,
२, २९
दशा(श-अ)ध्यक्ष^b- -क्षान् विध ३,
८
दशा(श-अ)न्त- -न्तात् पा ५, २,
४५
दशा(श-अ)भीश्रु^c- -श्रुभ्य. या ३,
९⁺
दशा(श-अ)भ्यास- -सेन वाश्रौ ३,
४, २, ७.
दशा(श-अ)रत्नि-मात्र^d- -त्रः चव्यू
४ २०
दशा(श-अ)र्ण- (> दाशार्ण- पा)
पाग ५, २, ६१^e, पावा ६, १,
८८^f
दशा(श-अ)र्ध-युक्त- -क्तेन विध
७२, ६
१दशा(श-अ)र्ह- (> १दाशार्ह-
पा) पाग ५, २, ६१^g
दशार्ह-पयस्- (> दाशार्ह-
पयस्-) १दशार्ह- टि द्र
दशा(श-अ)वनि^h- -निभ्य. या ३,
९⁺
दशा(श-अ)वर, रा^h- -रम् आमिगृ
२, ६, २ २६, ८ २९, जैगृ १,
१३ ५, बौघ २, ५, १२, ४, ८,

१८, -रा वाध ३, २०, बौघ
१, १, ७, ८, -रान् गौघ २८,
५०, -राम् वाध २६, १५, बौघ
१, ४, ७, -रै गौघ २८, ४९
दशा(श-अ)ष्ट-पञ्च-मात्राⁱ- -त्रा.
कौशि ७५
दशाह^j- -ह वाश्रौ ३, २, ३, ३१,
३२, -हम् निस् १०, २ : ३,
आगृ, -हस्य वैताश्रौ ४२, ३,
-हात् आमिगृ २, ७, ४ १०,
बौगृ, -हानि आश्रौ १२, ४, २३,
क्षुस्, -हे बौश्रौ २९, ११ ६,
वैश्रौ
दशा(श-अ)हन्->दशाहिक- -के
कागृउ ४५ : ६
दशिका- -का आपश्रु ५, १२
दशिन- शिन बौश्रौ १५, २३
१५, -शिनम् निस् १०, १३ :
३, -शिनि लाश्रौ ६, ७, १
दशिनी- -नी ऋप्रा १७,
४२
दशि-प्रभृति- -तय निस् १,
९. २०
दशै(श ए)कादश->दशैकाद-
शिक- पा ४, ४, ३१
दशै(श-ए)कादश-द्वादश-रात्रि-
-त्रय सुध १०
दशै(श-ए)कादश-द्वादश(श-अ) :
क्षर- -राणाम् ऋअ १, ३,
१०, शुअ ५, ११.
दशो(श-ओ)णि^o- -णये, -णिम्
ऋप्रा २, ७१⁺

दशो(श-ओ)ण्य^o- -ण्ये ऋप्रा २,
७१⁺
दशन्- √दंश द्र
दशम- प्रभृ १दशार्ह- दशन्- द्र
२दशार्ह^k- (> दशार्ह-क- Lपा ५,
४, २९] २दाशार्ह- पा) पाग
५, ३, ११७, ४, २९^l, ३८^l.
दशिन्- दशन्- द्र
दशी^m वाधूश्रौ ४, ९६ ३१
दशेर- पाउ १, ५८
दशेरक->क-गडेरकⁿ- पाग २, ४,
६८
दशोनसि^o- -सिम् अप्रा ३, ४,
१⁺
दष्ट-, दष्टुम् √दंश द्र
√दस्^o पाधा दिवा पर. उपक्षये,
चुरा आत्म दर्शनदर्शनयो,
दस्यति अप ४८, ४२
†दसये^p आपश्रौ १६, १६, १ः
वैश्रौ १८, १४ ८.
दस्तु- पाउना २, ९२
दस्यु^o- पाउ ३, २०, पावाग ५,
३, ६६, -स्यव- कौस् ८७,
३०⁺, अप ४४, ४, ५⁺, ७१.
१६, १, -स्युः या ७, २३^q,
-स्युभि अप ६८, २, १६, विध
२३, ५०, -†स्युस् या ६, २६,
७, २३, -†स्युन् लाश्रौ ७, १०,
१२^r, निस् ७, ११ : ८, पागृ ३,
३, ५⁺, आमिगृ ३, २, ६ : ६,
अप १, ३२, ८, ऋप्रा ४, ७१ः
-स्युनाम् शाश्रौ १५, २६, १ः

a) विप. । बस । b) षस पूष = दशग्राम- । c) वैप १ द्र । d) विप. (अथर्ववेद-) ।

e) शब्दानुकरणमात्र द्र । f) = देश-विशेष- वा नदी- वा । उप = दुर्ग- वा उदक- वेति पासि. । g) दशार्ह-
वयस्- इति भाण्डा , दशार्हपयस्- इति पाका । h) विप । बस । -रम् इति क्वचित् वा क्विन् । i) उप
= काल-विशेष- । j) समाहारे वा तद्धितार्थे वा द्विस । k) व्यप वा नाप वा । ल्यु १ । l) तु पागम । उप.
<√अर्ह । m) पञ्चदशी- इत्यस्यैकदेशः । n) तु. पागम. । o) या १, ९, २, १७, ७, २३ पा ७, २, २७ परासृष्टः
द्र । p) पाभे वैप १, १५४५ e द्र. । q) पाभे. वैप १, १५५२ II द्र ।

-कस्यो अत्राय ६,९, या ५,९
दस्यु-हन्->दस्युहन्-तम-
-मम् माश्री ५, १,३,१, वैताश्री
५,१४

द-संयुत- द- द्र

दस्त- ✓दस् द्र.

दस्त्यूह- पाउमो २,३,१८९.

दस्म-, दस्म्य- ✓दस् द्र

दस्य अप ४८,१३९.

दस्यु- ✓दस् द्र

दस्त्र- ✓दस् द्र

✓दह^१ पाघा. भ्वा पर भस्मीकरणे,

दहति बौश्री १३,४ १०, १४,

१३ ३१××, वाधुश्री, या ७,

२०, दहन्ति पागृ ३,१०, ११,

आमिगृ, दहसि या ७, २३;

दहामि हिश्री २४, ६, १४^१,

दहतु अप ४, २, ६^१, ऋदह

आपश्री १,२२,२, १४,२७,११,

बौश्री, ऋदहऽदह अप ३५,१,२,

३६,९,३, दहतम् आगृ ३, १०,

११^१, ऋदहत बौश्री २,१० :

८, आमिगृ ३, १, २ : ३, बौगृ

२, ११, २९^१, भागृ २, ११ :

१८, हिगृ २,११,१, दहेव भाश्री

९, ५, ९, वाश्री, दहेयु आश्री

६,१०, ८,३०, आपश्री.

दहोत्^१ मागृ २,१५,६

अक्षयसे आपश्री ३, १५, ५^१,

दक्षत् ऋप्रा ४, ९८^१, धाक्षीत्

वैश्री २,३ २^१

दहते सु १८ २, वाघ २७, ४,

दहान्ते बौघ २, ७, १५, विघ

५५,८, दह्यताम् अप ४,२,१०,

अदह्यत ऋअ २,७, ३२, अअ

२०, ७९^१, दह्येत बौश्री २९,

६ १५, वैश्री २१,१७ ८

दाहयति वैगृ ७,१.८, १३,२ :

३,१४,३ ८, दाहयेव आमिगृ

३,१०,२ : ९××, बौपि

दक्षि^१->दक्षि-सूरि^१- रयः

ऋप्रा ४,९८, ११,८, उस् ४,५,

६,६

दग्ध,ग्धा- -ग्ध आमिगृ ३, ६,२ :

१५, बौपि, -ग्धम् बौश्री २७,

३.७,८, वैश्री, -ग्धा सु ८,४,

-ग्धा अप २६, ४,५, -ग्धात्

या ७, १४; -ग्धायाम् आमिगृ

३,७,४ : २७, बौपि २,४,१३,

-ग्धासु अप ५८,१, १२, -ग्धे

आश्री ६,८,१, काश्री, -ग्धेषु

काश्रीसं ३२ ५, बौश्री २९,१ १२

दग्ध-यु(त्र)>त्रा^१-त्रा सु ९,२

दग्ध-शेष- -षे अप २३,४,१

दग्ध(व्य)>व्या- -व्या कागृउ

४२ : १८, कप्र ३,४,७

दग्ध्वा आश्री ६, १०, २४, शाश्री

१३, ११, १, काश्री २५, १३,

२७,१४,१, आपश्री

दहत- -हन् आपश्री १६,६,७^१,

वैश्री १८,४ : १०, हिश्री ११,

१,७३, वैताश्री ६,७^१, आमिगृ

३,१०,४.३१, वैगृ ५,८ १४,

-हन्तम् बौश्री १४,१३ : १६

दहति->०ति-कर्मन्- -र्मा या

४,१७

दहन^१- पागरे, १,१३४, -नम् आपश्री

१४, २१, ११, माश्री ३, ८, ५;

कौगृ, -नस्य वाधुश्री ४,९०^३ ५;

८, आमिगृ, -नात् आमिगृ ३,६,

३ : ६ कौसू, -ने आमिगृ ३,

६,४ : १२, बौपि १,१३ : १२.

दहन-कर्मन्- -र्मणा गौपि १,२,७;

वाध २८,१, -र्मणि गौपि १,१,७

दहन-कल्प- -ल्पम् बौपि ३,

१,१ -ल्पेन हिपि १२ ११

दहन-काल- -ले वैगृ ७,४ : १६.

दहन-देश- -शम् हिपि १ : २;

३ ५, ७ १०, गौपि १,२,५.

दहन-नक्षत्र- -त्रेषु आमिगृ ३,

३,२ ३१.

दहन-निघान-देश- -शे कौसू

८०, २

दहन-पति^१- -तये^१ बौपि ३,

२,१०^३, वैगृ ५,३ १२

दहन-प्रभृति- -ति वैगृ ७, ७ २.

दहन-मन्त्र- -न्त्रेण गौपि १,

३,१९

दहन-वत् हिपि १० ६, २२ : ८.

दहन-विधि- -धि आमिगृ ३,

४,१ १, -धिम् वैगृ ५,१.२;

गौपि २,१,१

दहन-विहीन- -ने वैगृ ७,३ : ३.

दहन-संस्कार- -रेण बौपि ३,१,५

दहना(न-अ)नि- -ने गौपि

१,५,१३.

दहना(न-आ)दि- -दीन् अप

६८,१,१५

दहन(न-अ)धिपति^१- -सये^१

a) या ७,१४ परामृष्टः द्र । b) पामे. वैप १, १८५४ J द्र । c) अदहं इति पाठ. १ यनि शोधः (तु. हिगृ) । d) इयन् परस्मैपदञ्च उस्. (पा ३, १,९०) । e) पामे वैप १,१५५४ e द्र । f) दह्येत इति पाठः १ यनि. शोधः (तु ऋअ) । g) वैप १,१५५३ g,h, अनु-दक्षि- परि च द्र. । h) विप । बस. । ३) पामे. वैप २,३६. सदनात् गोत्रा १,२,२१ टि द्र । j) कर्तरि भावे च कृत् । k) पूष = प्रेत- । l) सप्र. णपतये<>नाधिपतये इति पामे ।

गौपि १,२,१९; २०^२
 दहना(न-अ)र्थ- -र्थम् वैगृ ७,
 ४ १८
 दह्यमान- -न आगृ ४, ४, ७^१,
 अप ६८, २, २५, -नम् आगृ
 ४, ४, ६, वैगृ ५, १ २०, अप
 ६८, १, १४, -ना विघ ४३,
 ३५
 १दह- पाठ २, १३.
 दाह- -ह काश्रौ २५, ८, १३,
 आम्रिगृ ३, १०, ४ ३४, बौपि
 २, ३, १७, शंघ १६६, -हम्
 अप ५८, १, ३, ५, ६१, १, २७,
 ६७, ४, ३, -हा अप ५८, १, ८,
 -हात् कप्र ३, ५, ७, शंघ ३५३^१,
 बौध १, ४, २, -हे वैगृ ६, १
 १८, काघ २७६: १, -हेन
 विघ २३, ५७, वैघ ३, ४, ३, -है:
 अप ६४, २, १, आज्यो ११,
 १.
 दाह-फल- -लम् अप ५८,
 १, १.
 दाहा(ह-आत्मक >)त्मिका^१-
 -का अप ६८, १, १२
 दाहो(ह-उ)पघात- -ते बौगृ
 ४, २, ५, -तेषु बौगृ ४, २, १
 दाहन- -नात् शंघ १६४
 दाहयित्वा वैगृ ७, २ २, ३. १२,

४: १५, कप्र ३, १, ५, ६
 दाहक^१- -कः आपश्रौ ५, ३, ४,
 हिश्रौ ३, २, ७^१, आगृ २, ८,
 १४^१
 दाह्य, ह्या- -ह्य वैगृ ५, ११ १,
 ६, -ह्या कागृ ३९: २
 दिघक्षत्- -क्षत् बृदे ६, ३७.
 धक्षु^१- -क्षो. ऋप्रा ४, ९३^१
 धक्ष्यत्- -क्ष्यन्. शाश्रौ १८, २४,
 १५, आम्रिगृ ३, ६, ४ १, बौपि
 १, १३: १, हिपि १०. ५
 दहर- -रम् काश्रौ १४, ५, ३^१
 दहर-क- -कः अप ४८, ६७^१.
 १दह- √दह् द
 २दह^१- -हे बौश्रौ १४, १४ १६,
 आपध १, ९, २३, हिघ १, ३,
 २४
 √दा^१ पाधा भ्वा पर, लु उभ दाने,
 दत्ते शाश्रौ ३ १६, २७, भाशि
 ४५^१, ददाति आश्रौ १, १, १५,
 १०, १०, १०, शाश्रौ, आपश्रौ
 २१, २२, ५^१, हिगृ १, २०, २^१,
 हिघ २, १, १२१^१, ५, ६५^१,
 दत्त. आपश्रौ ५, ४, ११, १३,
 २२, ४, भाश्रौ, ददते वैगृ ५, ६
 १२, ददति आपश्रौ १६, ३३,
 ४^१, हिश्रौ १५, ३, ३४, ददासि
 आपध २, ११, ११^१, आम्रिगृ २,

१, ५ १५^१, या ११, २४, तैप्रा
 १६, १८^१, णंददे आपश्रौ ५, ८,
 ८, बौश्रौ २, १५ १२, हिश्रौ
 ६, ५, १०, णंददामि आश्रौ २,
 १८, १३, काश्रौ, शागृ ३, ११,
 १४^१, पागृ ३, ९, ६^१, कागृ ४१,
 ९^१, ५२, ४^१, मागृ १, १७,
 ६^१, वैगृ ३, १०: ७^१, विघ
 ८६, १६^१, दद्यहे आम्रिगृ ३, ७,
 २: ३^१, अप ३६, २५, ३:
 णंददत् आश्रौ २, ११, ४, १८,
 १३, शाश्रौ, आपध १, ३, २^१,
 शागृ ३, १०, २^१, कागृ २५,
 २२^१, मागृ १, १०, १०^१,
 दद बौश्रौ ६, ७. २^१, णंददात्
 आश्रौ १, १०, ८××, ६, १४,
 १६^१, शाश्रौ १, १५, १३××,
 ७^१, १८, १-५, २, २८, ३^१, १८,
 ३, २^१, काश्रौ, आपश्रौ १४, २८,
 ४^१, १७, १३, २^१, वैश्रौ २१,
 १५ १४^१, हिश्रौ १२, ४, ४^१,
 १५, ७, १२^१, आपध २, ४, ५^१,
 ११, १^१, ३^१, ४^१, आगृ १, १४,
 ३^१, कौगृ १, ८, १३^१, १४, ६^१, शागृ
 १, २२ ७^१, आम्रिगृ २, १, १:
 २^१, २: २^१, ५: ४^१, ३, ४, १:
 १५^१, बौगृ १, १०, ४, ५, बौपि
 १, ४: १०^१, भागृ १, २६: ५^१:

- a) विप । बस । b) उक्ञ् प्र उस (पा ३, २, १५४) । c) वैप १ द्र । d) = कौपीन-
 इति विद्याधरः । e) ह्रस्व-नामन् । f) गौघ ५, २० या ७, ९ अप्रा २, ४, १ शौच ३, ११, ४, ६१
 मीस् ४, २, २९ परामृष्टः द्र । g) दध्रात् इति ङाचिक्त् पाठ (तु. C) । h) पामे वैप १, १५५७
 k द्र । i) सपा ददाति <> दद्यात् इति पामे । j) पामे वैप १ परि. ददामि तै ३, ३, ९, १
 टि द्र । k) पामे वैप १, ११३८ t द्र । l) पामे वैप २, ३ ख दधामि माश १४, ९, ४, २५
 टि. द्र । m) पामे. वैप १, १७०४ m द्र । n) पामे वैप १, १५५५ f द्र । o) पामे वैप
 १, १५५७ a द्र । p) पामे वैप १, १७०४ g द्र । q) पामे वैप १, ५५४ n द्र । r) पामे.
 वैप १, १५५५ u द्र । s) पामे वैप १ परि. दधातु मै २, १३, २२ टि द्र । t) सकृत् पामे वैप
 १, १३४४ I द्र । u) पामे. वैप २, ३ खं. दधातु मंत्रा १, ५, ९ टि. द्र. । v) पामे. वैप १, १५५५ p द्र. ।
 xv) पामे वैप १, १५५४ m द्र ।

वैगृ १, १६ १^०, २^०, ३^०, ४^० :
 ९^०, हिगृ १, ६, ४^०, ८, ४^०, २, १,
 २^०, २, २^०, ४, ९^०, वृदे ४, ८, ८^०,
 या ६, ३१, ११, ११^०, ३१, ३३,
 १२, १८, ऋदत्ताम् बौश्रौ १३,
 ३२ १, ३, ददत्तु शाश्रौ १२,
 १९, ३, बौश्रौ, ऋदद्धि अप ४८,
 १२, ऋप्रा ७, २७, ऋदेहि आश्रौ
 २, १८, १३, ३, ६, २६^०, ६, ९,
 १^०, शाश्रौ २, ११, ३^०, ३, १५,
 ४^०, ४, १२, १०^० × ×, काश्रौ,
 आपश्रौ ४, १५, १^०, ६, १३, ५^०,
 १६, ११, ३^०, माश्रौ १, ६, १,
 ५२^०, आपम २, १५, १५^०, आगृ
 १, १६, ५^०, कौगृ १, १९, १०^०,
 शागृ १, २५, ७^०, २७, ७^०, पागृ
 २, ४, ७^०, मागृ १, २०, २^०, २,
 १४, ३०^०, कौसू ५७, १६, \$या
 १, ७, ४, ३, ७, १३, १०, १९,
 भाशि ४३, दत्तम् पागृ ३, ४,
 ८^०; ऋदत्त आश्रौ २, ७, १२^०,
 शाश्रौ, माश्रौ १, १, २, ३३^०, कौसू
 ८८, २५^०, ऋददानि आश्रौ ५,
 १३, १४^०, शाश्रौ, ऋददात्
 आश्रौ ८, १, १२, शाश्रौ, कौगृ
 १, १२, ६^०, आमिगृ १, ५, ३ :
 १२, १३, हिगृ १, २०, २^०,
 गो २, १५, ददात् वाधूश्रौ ४,

२६ : १८, अददु बौश्रौ २, ७
 ३, ५, कौसू ८९, १२^०, या १२,
 १०^०, अददाः आपश्रौ २०, ६,
 ५^०, बौश्रौ, ददीत् अप ४०,
 १, २, १४, दद्यात् आश्रौ २, ७, ६,
 ३, १३, १७ × ×, शाश्रौ, आमिगृ
 २, १, ५ २८^०, आपघ २, ९,
 ६^०, १८, १०^०, दद्याताम् आपश्रौ
 ८, ८, १७, भाश्रौ, दद्यु आश्रौ
 १२, ६, ३०, ९, १०, काश्रौ,
 दद्याः अप १, ४२, ८, दद्याम्
 वैताश्रौ ३७, १४
 ऋददे आपश्रौ ४, १०, ४^०,
 ५, ८, ८^०, भाश्रौ ४, १५, ३^०,
 आमिगृ, बौश्रौ, ददी शाश्रौ
 १५, २२, १, बौश्रौ, ददत्तु वृदे ५,
 १३९ × ×, ऋददुः शाश्रौ १५, २१,
 १^०, बौश्रौ, दास्यति वाघ ११,
 ४०, शंघ २८१, दास्यन्ति बौश्रौ
 १४, ५० ३२^०, अप ५, ५, २,
 दास्यसि या ८, १८, दास्यामि
 माश्रौ २, १, १, १२, भागृ ३,
 १४, २१, विघ ६, ४०, दास्याम
 बौश्रौ २, ७ ४^०, सु २, ५,
 ऋदेषम आपश्रौ १, १०, ३,
 गोगृ ४, ३, २३, ऋदात् शाश्रौ
 ४, ७, १५^०, ७, १८, ७, काश्रौ, या
 ४, १५^०, ऋप्रा २, ४०, १८,

९, ऋददुः आपमं १, ३, ३, पागृ;
 ऋदु या १४, ३५^०, अप्रा १, ३,
 ६^०, अदा हिश्रौ ३, ५, २५^०;
 ऋदा. आश्रौ १, ७, ८^०, ३, ६,
 २७^०, १३, १४, शाश्रौ ३, २, ४^०;
 आपश्रौ ५, २४, ४; १५,
 १२, ७^०, बौश्रौ ३, ८ ३२, ९,
 ७ ५^०, ६^०, ८^०, ९^०, १०^० × ×;
 माश्रौ, या १, ७^०, १०, १९;
 ऋदात् द्राश्रौ ६, ४, १७, लाश्रौ
 २, १२, १७, कौसू ९१, २०;
 अदाम् आपश्रौ १३, ७, १३^०;
 ऋदाम् आश्रौ ६, ४, १०, शाश्रौ
 ९, १६, ३, ऋअ २, १०, ४९.
 दीयते शाश्रौ १६, १४, १८, १५,
 २०, आपश्रौ, पा ४, ४, ६६, ५,
 १, ४७, ९६, पावा ५, १, ४७;
 दीयताम् वृदे ५, ५८
 दास्यते वैगृ ३, १ : ३
 दापयेत् पागृ ३, १४, १५, अप.
 दिस्ससि ऋप्रा ५, १९^०,
 ऋदिदासिथ शाश्रौ १६, १६, ३^०;
 अदिस्सताम् निसू ९, ९ : १०;
 दिस्सेत् बौश्रौ ३, २९ : १५;
 हिश्रौ १७, ६, ४२.
 ३दत्त, चा-त्तः कौसू ३, १०^०;
 बौघ २, २, २०^०, विघ १५,
 १९^०, अअ २, २९, -त्तम्

a) पाभे वैप १, १५५५ p द्र । b) पाभे वैप १, १७०४ g द्र । c) पाभे वैप १, १५५५ q द्र ।
 d) पाभे वैप १, १७०९ r द्र । e) पाभे वैप १, १५५६ h द्र । f) पाभे वैप १, १५५६ o द्र । g) पाभे
 वैप १, १७१० k द्र । h) पाभे वैप १, १७०९ l द्र । i) पाभे वैप १, १५५६ e द्र । j) पाभे वैप १,
 १५४० m द्र । k) सपा आपश्रौ १, ९, १२ विघ ७३, २१ धत्त इति पाभे । l) पाभे. वैप २, ३खं ददामि
 तैत्रा २, ४, ६, ७ टि द्र । m) सपा श्रौ ६, ११, ३ दधत् इति, शागृ १, १९, ६ अदधात् इति च पाभे । n) पाभे.
 वैप १, १५५५ f द्र । o) पाभे वैप १, १५५७ b द्र । p) पाभे वैप २, ३ख अददात् तैत्रा ३, ९, १४, ३ टि द्र ।
 q) सपा दद्यात् <> दध्यात् इति पाभे । r) पाभे पृ १२४७ j द्र । s) पाभे वैप १, १५५७ f द्र ।
 t) पाभे वैप २, ३ख ददे तैत्रा १, २, १, १४ टि द्र । u) पाभे वैप १, ७४४ l द्र । v) पाभे वैप १,
 १७१० o द्र । w) पाभे वैप १, १५५८ f द्र । x) मा दिदासिथ (ऐत्रा ८, २१ च) इत्यस्य स्थाने सपा.
 मास १३, ७, १, १५ मन्द आसिथ इति पाभे । y) = दत्तक-पुत्र- ।

आश्रौ ६, १२, २१, आपश्रौ ४,
९, ६१, भाश्रौ, या ५, १३, पा
४, ४, ११९, -क्तस्य आमिगृ
३, १, २ : १४××, -त्ता बौश्रौ
१६, २७ ८१, बौगृ, -त्ता
मागृ २, १४, २६१, -त्तानाम्
वाध २९, १८, -त्ताम् बौश्रौ १३,
३२ ८१, आमिगृ, -त्तायाम्
वाध १७, ७२, -त्ते आपश्रौ ६,
३०, ४××, वैश्रौ, माश्रौ २, ५, ५,
१८, -क्तैन बौगृ २, ११,
४२, गौपि २, ४, १९, -त्तेषु
कप्र १, २, ७, वैध ३, २, ४,
-त्तौ हिपि १८ १११^१
दत्त-क^०-क वाध १५, ९, १७,
२८, विध १५, १८
दत्त-कृत्रिम-मौ बौध २, २,
३१
दत्त-दक्षि(या >)ण^०-णान्
विध २१, १६
दत्त-पाद^०-दा: विध ४३, ४३
दत्त-श्रुत-तयो: पा ६, २,
१४८
दत्ता(त-अ)क्षययो(व्य-उ)दक-
क विध २१, ४
दत्तवल्-वत या १२, ४०, -वन्त
या १२, ४०, -वते या ११, ११.
दत्ति^०-त्ति: या १२, १७.
दत्त्वा आश्रौ ३, १२, ४, ८, १४, ४,
शाश्रौ, वैताश्रौ १०, १७^१
दत्त्वाय आश्रौ २, ७, ९^१, आपमं
१, ९, ५^१, पागृ
दत्त्र^१-त्रम् अप ४८, ९१, निघ

१, २
दद- पा ३, १, १३९
ददत्-दत् आपश्रौ ५, २५, १८,
भाश्रौ ५, १६, १८, हिश्रौ, या
६, २२, शुप्रा ३, १२९^१, -दत्
क्तआपश्रौ ४, १०, ९, १७, १३, २,
बौश्रौ, आमिगृ^१ ३, १, १ : ८, ३:
३५, भागृ २, ११, ५^१, हिगृ २,
१०, ५^१, -दत्तम् कौसू ७९, २०,
-दत्ता बौगृ २, २, ८^१
ददती-ती^१ काश्रौ ५, १२,
१२, बौपि २, ९, १३
ददाति- >ति-परिवर्जित- त
शंघ ४६१.
ददाति-वृत्त- -त्तम् पावा ५,
२, १२२
ददाति-सामर्थ्य- -थ्यात् मीसू
१०, २, २२
ददावस्-वान् अप्रा ३, ४, १^१
ददि^१-दि: आश्रौ ७, ४, ३^१,
कौसू २९, १, ४८, ९, अत्र ५,
१३, अप २, ४६, ऋप्रा ५,
३७, १६, ३३.
ददिवस्-दुष अप १, ३२, ७^१.
दद्वस्-द्वान् ऋप्रा ४, ६८^१
दा^१-दा चात्र ४१. २५^१.
दातवे या ४, १५^१
दातवै आमिगृ २, ७, ११ : ११^१
दातव्य, व्या-व्य बौश्रौ २५, ३ :
२०, २६, ५ २७, आमिगृ, या
४, ४, -व्या बौश्रौ २६, ९: १४,
अप ९, २, २; ४, ६^१, ३१, ७, ३,
विध ६०, २५.

दातुम् शाश्रौ १६, १६, ३^१; कप्र
२, ८, १९, वाध
दातृ^१-तरि कौसू ६७, १९; -त
आश्रौ २, ११, ४^१××^१, शाश्रौ;
-तार गौपि २, ५, १२^१, कौसू
८८, १३, अप, -तारम् आपश्रौ
१६, ३५, १^१, वैश्रौ, -तारौ
कौसू ६०, १३, ६७, १५, -तु:
मागृ १, ८, २, कौसू, -तृणाम्
अप ११, २, ३; -तृन् वृदे
८, २३, या ११, २१, -त्रा
माश्रौ १, ३, ३, १६^१, वाश्रौ
१, ३, ५, १२^१, वैताश्रौ ३,
१६^१, विध ५७, ८, ८१,
१९; -त्रे आश्रौ २, १०, १५;
शाश्रौ.
दातृ-तम्-म या ८, २, -मम्
या ७, १५.
दातृ-त्व-त्वात् वृदे ३, ६१;
८, २३.
दातृ-याजक-पञ्चम-मा शंघ
३९८, बौध २, १, ३९
दातृ-लोक-कम् विध ५७,
९.
ददत्र^१-पाठ ४, १७०, पा ३, २,
१८२; -त्रम् बौश्रौ १२, ९ :
६; शुप्रा ६, २६; -त्राणाम्
वैताश्रौ ८, १३^०.
ददान^१-पाग ५, ४, २९, -नम्
शाश्रौ २, ३, २५, काश्रौ;
-नस्य या ४, १८, -नात्
वाध २, ३०, १०, ५, २०,
४७^१, बौध २, १, ५२;

a) वैप २, ३खं मन्ना २, ३, २० टि द्र । b) पामे. वैप १, १५५८ a द्र. । c) =पुत्रमेदाऽन्यतम- । d) विप । वस ।
e) =उपहार- । f) पामे. वैप १, १६४१ g द्र । g) तु आन. । पामे. वैप १, १५५६ p द्र. । h) पामे. वैप १,
१५५९ c द्र । i) वैप १ द्र. । j) सपा. काठ ७, १२ जनयन् इति, शौ९, ४, २२ दुधन् इति, शौ १८, ४, ६२ दुधतः इति
च पामे. । k) पामे. वैप २, ३ खं. इदती माश ११, ४, ३, ७ टि. द्र । l) पामे. वैप १, १५५९ j द्र. । m) वैप १,
निर्दिष्टयोः समावेशः । n) पामे. वैप २, ३खं. क्षत्रम् माश ११, ४, ३, ७ टि. द्र. । o) पामे. वैप १, १५६० c द्र. ।

या ७, १५, -नानाम् अप १०,
१, २२, १६, २, २, ७०, ३, १,
वाध २९, १९, -नानि अप ४,
२, १५, ७०^३, ११, ३६, आपध,
-नाय आपश्रौ १६, ७, ३१,
वाधुश्रौ, या ४, १५, -ने बौश्रौ
२०, १७ ९×४, -नेऽने या
६, १८, -नेन वाध २९, १,
आपध, -नेपु अप १४, १, ९,
-नैः अप ५४, २, ५, ५५, १, ६,
वाध २५, ३, शध
१दान-कर्मन्-र्म या ६, २५
२दान-कर्मन्^२-र्मणः या १, ७,
२, १८, ४, १७, ६, १७, १०,
३९, ११, ३०, -र्मा या ४, १७,
५, २३, १०, १५, २२, २३,
-र्मणः निघ ३, २०, या ३,
१९, -र्मणम् या १०, ९
दान का(म >)मा-मा आश्रौ
९, ५, १४, -मा आपश्रौ ५, ३,
८, बौश्रौ १३, १४. २, २७.
३, भाश्रौ ५, १, १२, हिश्रौ ३,
२, ११
दान-च्छेदो(द-उ)पवर्णन- नम्
विध ३, ८२
दान-नुष्ट- -ष्ट ऋअ २, १,
१२६, ५, ६१, वृदे ५, २९
दान-पति- -ती या २, १३
दान-प्रतिग्रह- -हौ शध ९०
दान-प्रभृति- -ति काश्रौ १०,
५, ११, -तीन् हिश्रौ ९, ३, ५४,
१०, ५, ९
दान-मनस्- -नस. या ६, ३१,
-नाः या ४, ४
दान-मात्र- -त्रम् मीसू १०, ७,

१५
दान-मान-स्थान-व्यपरोपित-
-ता शंघ २५१
दान-वाचना(न-अ)न्वारम्भण-
वर-वरण व्रत-प्रमाण- -णेषु
काश्रौ १, १०, १२
दान-विक्रया(य-अ)तिसर्ग- -र्गा
या ३, ४
दान-विधि- -धि कप्र २, ५, ६,
अप ७०, ३, ३
दान-शक्ति- -क्तिम् वृदे ६,
५९
दान-शब्द- -ब्द मीसू ३, ८,
४८, -ब्दात् मीसू १०, २, ४२
दान-सयोग- -गात् मीसू ६, ७,
७, -गे काश्रौ १, ८, २०
दान-संस्तुति- -ति. मीसू ३, ४,
५१
दान संमान-रञ्जन- -नैः अप २,
१, ४
दान-समान-सत्कार- -रै. अप
४, ६, ३, ६९, ७, २
दान-स्तुति- -तय ऋअ १, २,
२३, -ति ऋअ २, १, १२५×४
दान-होम-पाक-प्रतिषेध- -धे
मीसू १०, ८, १२^b
दान-होम-पाका(क-अ)ध्ययन-
-नानि वैताश्रौ ११, २०
दाना(न-अ)धिकार- -रात् काश्रौ
२२, ३, २०
दाना(न-अ)ध्ययन- -ने आगृ
४, ४, १७
दाना(न-अ)ध्ययन-कर्मन्- -र्मसु
याशि २, १०८, नाशि २, ८,
२०

दानो(न-उ)त्वासा(स-२आ)घ-
-यम् विध ४९, १०.
दापयित्वा वैगृ ५, ९ ८, विध ५,
१७८
दाप्य- -प्य विध ५, १२७, १६९;
-प्या विध ५, ८९, -प्यौ विध
६, ४१
१दाह- पा ३, २, १५९
१दावन्^८- -वने निघ ४, १, या ४,
१८^d
दास्यत्- -स्यतः कौसू ५५, ६,
-स्यन् काश्रौ २५, १४, ३०,
आपश्रौ
दिस्सत्- -त्सतः गौघ १२, ३;
-त्सन् कप्र २, ५, ४, -त्सन्^९
आधिगृ १, २, २ : ६, हिगृ २
१८, ९
१दिस्सु- -स्सु वृदे ५, ५६
दीयमान, ना- -नम् काश्रौ २२, १,
३०, आपश्रौ १७, २६, १८;
हिश्रौ १७, १, १४, अप ७०, ४,
२, विध ६, १०, -नाम् आपश्रौ
१३, ७, ११, हिश्रौ १०,
४, ७४
दीयमान-त्व- > ^९त्व-दर्शन-
-नात् कप्र ३, १०, ९
देय, या- -य काश्रौ २२, ८, २०;
आपश्रौ, -यम् शाश्रौ १८, २४,
३२, काश्रौ, -या आपश्रौ ९,
१५, २१, भाश्रौ, -या. आपश्रौ
५, २०, १३^३, जैश्रौ, -यानि कप्र
३, ५, १०, वाध ३, ८, शंघ
१९७, बौघ ३, १०, १५, गौघ
१९, १७, -ये काश्रौ ४, ७, १३,
पा ५, ४, ५५, -यौ आपश्रौ १८

a) विप. । बस । b) षेघ. इति जीस. प्रयासं प्रभृ । c) वैप १ द्र. । d) पाभे वैप १,
१५६१ ० द्र । e) आदित्सन्त. [=मुष्णन्तः] इति [पक्षे] मातृदत्त, तमनु Boht [ZDMG ५२, ८७]
दिप्सन्त. इति प्रस्तावुकः ।

१९, ४, आपध २, ११, १८,
हिध २, ४, ३३
√दा^a पाधा अदा पर लवने, दाति
आपश्रौ १, ३, ८x४, भाश्रौ,
दान्ति माश्रौ १, ७, ६, २, दामि
वाश्रौ १, २, १, १६^b, दान्तु
^cकौसू १, २५, ६१, ३९
दात-न्ते बौश्रौ २१, ३ ०२
रदात्र^d पा ३, २, १८२, -त्रम्
भाश्रौ १, ३, ६, वाश्रौ १, २, १,
१२, १६, कौसू १, २४, ६१,
३८, या २, २
रदान-> दान प्रसव^e-वानि
भाश्रौ ६, १८, १५
√दा, दो^f पावा दिवा पर अन्व-
खण्डने
√दा(बन्धने)> रदान-नम् आश्रौ
८, ३, १९^g, वैताश्रौ ३२, २५
दा-√दा(दाने) द्र
दांश-√दश् द्र
दाक-पाठ ३, ४०
दाक्त-१-रदाक्षायण- प्रभृ
√दक्ष द्र
दाक्षिण-प्रभृ रदक्षिणा-द्र
दाक्षिणाग्निक-, दाक्षिणाज-,
दाक्षिणात्य-, दाक्षिणापथक-
१दक्षिण, णा-द्र
दाक्षी-प्रभृ √दक्ष द्र
दाक्षिणैय-रदक्षिणा-द्र.
दागव्यायनि-दगु-द्र
दाडिम^h-पाठमो २, २, २५०, पाग
२, ४, ३१, ४, १, ४१^h

दाडिमी-पा ४, १, ४१
दाडी-पा, पाग ४, ३, १६७
रदारु-रदण्ड-द्र
रदाण्ड-रदण्डिन्-द्र
रदाण्डकिⁱ-(>°कीय-पा) पाग
५, ३, ११६
रदाण्डकि^j-कय. बौश्रौप्र ३२ : १
दाण्डग्राहिक-१दण्ड-द्र
दाण्डपाल, मायन-दण्डपाल, मा-द्र
दाण्डमाथिक-, दाण्डाजिनिक-
१दण्ड-द्र
दाण्डायन-, °न स्थली-रदण्ड-द्र.
दाण्डिक-, °ण्डिक्य-१दण्ड-द्र
दाण्डिन्-रदण्ड-द्र
दाण्डिनायन-रदण्डिन्-द्र
दाण्डीक-१दण्ड-द्र
दात्^k अप ३७ १४, ३^k
दात-√दा(लवने) द्र
दातवे प्रभृ √दा(दाने) द्र.
दात्तेय-रदत्त-द्र
दात्यौह-दित्यवाह-द्र
रदात्र-√दा(दाने) द्र
दात्व-पाठ ४, १०४,
दादा^l जैश्रौका १५५
दादहाण-√दह द्र
दाधिक-रदधि-द्र
दाधिक-रदवि->दधि-का-द्र
दाधृषि-√धृष द्र
दाध्रेषि^m-षय बौश्रौप्र ३ ४
√दानⁿ पाधा म्वा उभ खण्डने
रदान-√दा(दाने) द्र.
रदान-√दा(लवने) द्र

रदान √दा(बन्धने) द्र
रदान^o-ना शाश्रौ ११, १२, ४,
-ना शाश्रौ १५, ८, ९
रदानपनुपरिवस्यते अप ४८, ५९.
रदानस्^p-न अप ४८, ९०
रदानु^q-पाठ ३, ३२, -नुनः या २,
१३^q
रदानु^r-नू या ११, २१^r
दानव^s-व अप ४८, १००^s, -वम्
या १०, ९^s, -वान् शध
११६ २१, या ११, २१;
-वानाम् अप ७, १, १, -वै अप
७, १, २, वृदे ७, ५१
दानवी-वीम् वृदे ६, ७६
रदानु^t-नूव. आपश्रौ १५, ९, ८;
बौश्रौ ९, ९. १४, भाश्रौ ११,
९, १०, माश्रौ ४, ३, ११, वैश्रौ
१३, ११ १२, हिश्रौ २४,
४, ३
रदान्त-ट-द्र
रदान्त-√दम् द्र
दापयित्वा, दाप्य-√दा(दाने)
द्र.
दामन्^u-पाठ ४, १४५, -म आपश्रौ
१९, २७, २३, बौश्रौ १३,
४२ १२, १०, वाधृश्रौ ३, ७६ २७;
हिश्रौ २२, ६, २८, माशि ७७^u;
-मनी काश्रौ २२, ४, २३;
आपश्रौ २२, ५, ८, हिश्रौ १७,
२, ३६, लाश्रौ ८, ६, २२^u;
-म्ना आपश्रौ २, ५, ४; १६,
३, ७, १९, २६, १, बौश्रौ ९,

a) या २, २ परामृष्ट द्र । b) पाभे वैप १, १५६१ k द्र । c) = लवन-साधन- । d) विप । बस ।
e) पा ७, ४, ४० पावा ७, ४, ४७ परामृष्ट द्र । f) शोधः वैप १, १५६२ d द्र । g) = वृक्ष-विशेष- । व्यु १ ।
h) तु पागम । i) = आयुधजीविसंघ-विशेष- । व्यु १ । j) = ऋषि-विशेष- । व्यु १ । k) त्रुटित पाठ ।
l) = स्तोत्र-विशेष- । व्यु १ । m) पा ३, १, ६ परामृष्ट-द्र । n) वैप १, १५६२ l द्र । o) = धन- ।
व्यु. १ < √दा [दाने] इति स्यात् १ । p) वैप १ द्र । q) पाभे. वैप १, १५६३ e द्र । r) = मेघ- ।
s) पाभे वैप १, १५६३ g द्र । t) वैप १, १५६३ o द्र ।

५: ३२, माश्रौ ६, १, १, ३१,
वाश्रौ २, १, १, २५, हिश्रौ ११,
१, ३४
दाम-कण्ठ^०- पाग २, ४, ६९
दाम-तूष, षा^०- -बा आपश्रौ १८,
१०, २३^०, -बाणि^० काश्रौ २२,
४, २२, आपश्रौ २२, ५, ७,
हिश्रौ १७, २, ३५, लाश्रौ ८,
६, २०, २१
दाम-द(शा>)श^०- -शानि लाश्रौ
६, २१
दाम-हायना(न-अ)न्त- -न्तात् पा,
पावा ४, १, २७
दामो(म-उ)दर^०- -रम् आमिष्ट २,
५, ७: १०, बौध १, ११, ७,
वैष्ट ३, १३. ५, बौध २, ५,
२४
दामनि- (> नीय- पा) पाग ५,
३, ११६
दामोदात्तोत्तयाना^१ चव्यू ४ २
दामोष्णीषि- (> ष्य- पा) पाग
४, १, १५१^०
दाम्भिक- √ दम्, म् द्र.
दाय^१- -यः या ३, ४^१, -यम् ऋशाश्रौ
१५, २५, १, २७, १, बौश्रौ,
-यात् शंघ २७५, -येन आपघ
२, १३, २, हिघ २, ३, २,
-येभ्य शंघ २७६.
दाय-विभाग- -ग वाघ १७, ४०,
बौध २, २, ८
दाय-हर- -रः विघ १५, २९
दाया(य-आ)दि^०- दि. गौघ ५, ७

दाया(य-अ)नुरूप- -पम् विघ ६,
३६
दायम् वाश्रौ ३, २, ६, ३२.
दायाद^१- पाग ५, १, १२४; पावा
३, २, ५^१, -द वाघ १७, ३९,
८१, आपघ २, १४, ६, हिघ २,
३, १७, या ३, ४, ६, -दाः गौपि
१, ५, १०, वाघ १७, २५, विघ
१७, २२, या ३, ४, -दे पा ६,
२, ५, -देषु शंघ २९१
दायाद्य- पा ५, १, १२४, -द्यम्
ऋश्रौ १२, ११: १२, १३
२७, आपघ २, १०, ४, हिघ २,
४, ४, पा ६, २, ५
दायाद्य-काल- -ले शाग १, १,
४, पाग १, २, २
दार^१- पावा ३, ३, २०, -रम् वाघ
१४, १३, आपघ १, ३२, ६, २,
२२, ७, २७, १०, हिघ १, ८,
४८, २, ५, १३७, २२९, -राः
आपश्रौ २०, १५, ८^१, वाघ ६,
४, बौध २, २, ५५, काघ २७९:
७, -रान् गोग २, १, १, ३, ४,
२, द्राग, -रे अप ६४, १०, ६,
वाघ १६, ३५, आपघ २, १, १८,
५, १०, ११, १२, हिघ २, १,
१७, ९१, ४, २७, -रेण पाग
१, ११, ६, आपघ २, १, १७,
हिघ २, १, १६, -रेभ्य भाग
२, २ १०, हिग २, १७, २,
-रै शंघ १५८, वैघ १, ६, ६,
दार-कर्मन्- -र्मणि हिपि २३:

११^१
दार-काल- -ले पाग १, २, १
दार-क्रिया- -या मीसू ६, ८, १५
दार-गव- पा ५, ४, ७७, पाग २,
२, ३१
दार-गुप्ति- -सिम् हिग १, १४ ६.
दार-जार- पाग २, २, ३१^१
दार-त्यागिन्- -गी शंघ ३७७ ९
दार-व्यतिक्रम- -मे बौश्रौ २८, १:
३०, २ ५२, हिघ १, ७, ५४^१.
दार-व्यतिक्रमिन्- -मिणे आपघ
१, २८, १९, हिघ १, ७, ५४,
-मी आपघ १, २८, १९^१
दार-संग्रह- -हे शंघ ४११, ४३९,
बृदे ५, ८२
दार-संग्रहण- -गम् वैघ १, ३, ४.
दारा(र-अ)धिगमन-> ञ्ता(न-आ).
धान- -ने कप्र १, ६, २
दारा(र-अ)धी(न>)ना- -ना. काघ
२७९: ७
दारा(र-अ)न्न-धन-लाम- -भानाम्
शंघ ४३९
दारा(र-अ)पत्य-पोषक- -क काघ
२७० ४
दारा(र-अ)र्थ- पाग २, २, ३१^१.
दारा(र-आ)श्रय-भूषण^१- -गानि
आज्यो ८, ६
दारक^०- -कस्य वैग ३, २०: १, ५,
११: ७, विघ २७, ४
दारिका-> ञ्का(का-आ)चार्य- र्यः
शंघ ३७७ १६^१
दारद- रदरद। द्।- द्र

a) व्यप । बस । b) विप । बस । c) पाभे वैप १ परि दाम-भूषा टि द्र । d) विप.
(वाससु-) । e) = ३कृष्ण- । बस । f) = अथर्वशाखा- । पाठ १ ञ्मोदा, चो^० इति PW प्रसृ, दामोदात्तः,
औच्चा^० इति महीदासः । g) व्यप । व्यु १ । h) वैप १, १५६४ ० द्र । i) वैप १ द्र । j) तु पागम ।
k) पुं. नाप । l) ञ्माणि इति पाठः १ यनि शोध । m) सपा. ञ्क्रमे<> ञ्कमी इति पाभे । n) बस >
कस. १ रा श्रि^० इति पाठ १ यनि. शोध (तु संस्कृतं. टि.) । o) = बालक- । व्यु. १ । p) तु मदनपारिजात-
(पृ ७०२) । मिताक्षरायां [३, २१६] तु दारका^० इति पाभे ।

दारयत्-^१, णित्-^२ √दृ, वृ (विदारयो)
द्र

१दारु- √दा (दाने) द्र

२दारु^३- पाठ १, ३, पाग २, ४, ३१,
४, ३, १५४, पावाग ६, ३, १२१,
-रु आपश्रौ ५, २५, ७, बौश्रौ,
या ४, १५, -रुणा बौश्रौ २०,
१९ ३०, -रुणि काठश्रौ ३६,
पा ५, ४, ११४, -रुभिः काश्रौ
४, ९, १, -रुभ्य माश्रौ ९, १३,
८, -रुम् माश्रौ ६, १६, ४, ७,
१३, ८, -रुणि आपश्रौ ६, २५,
४१, बौश्रौ १७, ३९: २,
आमिगृ १, ३, १ २, -रो:
आपश्रौ १४, २४, ४, बौश्रौ १४,
२८. ११, १२, हिश्रौ १५, ६,
९, -श्रौ आपश्रौ ९, २, ८^२,
बौश्रौ

दारव- पा ४, ३, १५४, -वम्
कप्र १, ७, २, विध २३, ५,
वैध २, ८, ३, -वाणाम् बौध
१, ५, २९, विध २३, २७

दारवी- वी नाशि १, ६, १.

दारुकार^४- र वैध ३, १४, १०

दारुचय- यम् कप्र ३, २, ८.

दारुचि(त>)ता- ताम् आमिगृ
३, ५, ५. १०, बौपि १, ४:
११, ३, ३, ४, वैगृ ५, ४ १५,
गौपि १, २, २३

दारुचिति- तिम् आमिगृ ३,
१०, ४: ९, हिपि ३: १०,
१२; १५, ४ ९, -ते हिपि
१ ८, ३ १२

दारुज- जम् अप १४, १, ३.

दारुदन्त-जात- तानि वैध ३,
३, ११.

दारुपात्र- त्रम् आपश्रौ १, ११,
५^१, वैश्रौ ३, ६ ३, हिश्रौ १,
३, ८, काध २७७: ५, -त्राणि
वैश्रौ ४, १ १४, हिश्रौ २, ६,
५५, -त्राभ्याम् वैश्रौ ७, २
११, -त्रे आपश्रौ १, १२, १६,
१४, ३, वैश्रौ ३, ८: ८, विध
९६, ७, -त्रेण बौश्रौ १७, ४८
१३, माश्रौ १, १४, ९, माश्रौ
१, १, ३, ३७, वैश्रौ ७, २ ११

दारुपात्री- त्रीम् बौश्रौ १, ४
१०, आमिगृ ३, ५, ७ ९,
बौपि १, ६ ४, ३, ३, १२

दारुपादु- द्दो: या ४, १५

दारुपिण्ड- ण्ड याशि २, ९१,
-ण्डेन शैशि ६८

दारुपिण्डक- कान् याशि २,
९१

दारुपिण्डवत् आशि ५, २

दारुमध्य- ध्यात् काश्रु ७, ११

दारुमय- यः बौश्रौ २६, २२
२०, बौध १, १, ११, -यम्
बौश्रौ २९, ६: २०, २४,
माश्रौ, -याणि आपश्रौ ९, १६,
३, बौश्रौ १५, १४ ५, आमिगृ
२, ७, ९: १३; तैप्रा ७, १२^१,
-यानि आमिगृ २, ७, ८. १५,
-यानाम् बौध १, ६, २६, -ये
भागृ ३, १८ १७

दारुवत् आमिगृ ३, ७, ४ ७,
बौपि

दारुवह- पावा ६, ३, १२०

दारुसघात-वत् माशि ११, ८

दावा(रु-आ)घा(त>)ट^०- पाग ४,
२, ८६, पावा ३, २, ४९, फि
६५, -श्रुट श्रुप्रा ३, ४८, तैप्रा

७, १३

दावाघाट-वत्- पा ४, २, ८६.

दावा(रु-आ)चित- तानाम् बौश्रौ
१५, १९: ३, -तानि बौश्रौ
१५, १४ १, १८, ४० १५, १९.
दावा(रु-आ)हरण- गम् काश्रौ २२,
६, ९

दारुण- ण्य- √दृ, वृ (विदारयो) द्र.

दारुसन्न- दीर्घ- द्र

१-२दारुच्युत- प्रसृ √दृ द्र.

१दारु- द- द्र

दारुतैय- तैति- द्र

दारुदुर्गिक- दुर्ग- द्र

दारुद- १द- द्र

दारुयण- दारुि-, दारुय- २द- द्र
द्र

दारुयूष^५- षेण कौसू ३२, ८, ३५, २८.

दावा- (> षैय- पा) पाग ४, २,
९७.

दावुहोमिक- दुर्वि, वी- द्र

दारुय- ष्यम् अप २३, ५, १.

दाश- शैषुणीमासिक- प्रसृ √दृ द्र.

दारुद- दारुद्वत्- दृषद्- द्र

दारुविषयिक- दारुय- √दृ द्र.

दारुत्रक- दलत्- द्र.

दारुपायन- णि- दलीप- द्र.

दारुभ्य- दल्भ- द्र

दाव- √दृ (उपतापि) द्र.

दाव- √दा (दाने) द्र

दाविक- √दिव् > देविका- द्र

√दाश^६ पाघा भ्वा उभ दाने,
श्रुदाशति अप ४८, १३, निध
३, २०, या ६, ८, ऋप्रा ४, ९३,
दाशात् कौसू ५, १^१, श्रुदाशेम
आपश्रौ १७, ९, १, वैश्रौ १९,
६ ३, ४

a) वैप १, १५६४ f द्र. । b) = वर्धकि- । उस । c) वैप १ द्र. । d) वैप १, १५६४ k द्र. ।

e) या १, ७ परामृष्टः द्र. ।

ददाश या ११, २४^क
 ददाश्वस^अ- शुषे आश्रौ २, १३,
 ७
 दाशस->स-पति->स्य^ब-
 -यम् लाश्रौ ७, ४, १^०, -त्यस्य
 कुसू ३, १० १६, -त्ये लाश्रौ
 ७, ४, १६^१
 ऋदाश्वस^अ- शुष आश्रौ ५, ९,
 २६, आपश्रौ, या १२, ४०,
 -शुषे आश्रौ १, १०, ८×४,
 शाश्रौ, या ११, ११, -श्वस
 गौपि २, ३, ५, या १२, ४०, तैप्र
 १६, १३, -श्वसम् आश्रौ २,
 २०, ४, ३, ८, १, ८, ९, २,
 -श्वान् या ५, ७^०, पा ६, १,
 १२
 ✓दाश पाधा स्वा पर हिसायाम्
 दाश^अ- पाठ ५, ११, पा ३, ४,
 ७३
 दाशी->दाशेर^१- फि ६७
 दाशाग्रामिक-, °शतय-प्रसृ दशन-
 द्र
 दाशर्म-र्मस्य चाग्र ६ ४^६
 दाशार्ण-, १दाशार्ह- दशन-द्र
 २दाशार्ह- २दशार्ह-द्र.
 दाशार्हपयस- दशन-द्र
 ✓दास पाधा +वा उभ दाने,
 ऋदासति अप ४८, १३^१, निघ
 ३, २०
 दास->ऋदास-वत्- वन्तम् आश्रौ
 ८, १, २, शाश्रौ १८, २३, ९, वैश्रौ
 १९, ५ ९, जैश्रौ ५४, २१.
 ४, कुसू ३, ७ १, निस् १, ७

२२
 ✓दास (हिंसायाम्), दासति अप ४८,
 १९
 दास^अ द्राश्रौ ५, ४, १३, लाश्रौ २,
 ८, १३
 १दास^१- पाठ ५, १०, पाग ३, १, १३,
 ४, १, ४१^१, -स सु ९, ५, कौसू
 १७, १५, वाव १५, १२, विघ
 २२, ५७, गौघ २०, ४, या २,
 १७^क, -सम् शाश्रौ ८, २५ १^क,
 वैताश्रौ ३१, २५^क, हि व २, १,
 १२६, -सा आमिगृ, कौसू ९०,
 १८^क, -सान् हिश्रौ १३, १, ३१,
 -सानाम् विघ २२, १९, -साय
 कौसू ८९, ४, -से शाश्रौ १८,
 १४, ५^क, -सेन सु १०, ३, -से
 आमिगृ २, ४, ७ १७^१, -सौ
 बौश्रौ १५, १ १५, २६, १०
 १०
 दासी- पा ४, १, ४१, पा, पाग
 ५, ३, १००^१, ४, १३८, -सी
 आपश्रौ १, २१, ८, बौश्रौ,
 -सी वाश्रौ ३, १, १, २९, वैश्रौ
 १७, ११ ८, हिश्रौ १३, १, ३१,
 -सीनाम् आश्रौ ९, ९, १४,
 -सीम् बौध १, ११, २०, बुँद
 ४, २५, -स्य काश्रौ १३, ३,
 २४, आपश्रौ, -स्या आपध १,
 १६, ३२, हि व १, ५, ३२
 दासी घट- टाट गौघ
 २०, ४
 दासी-दास- पाग २, ४, ११,
 -सम् अप २०, ५, २, -सेन

अप १, ४४, ९
 दासी-निष्क-रथ-हस्ति-यान-
 गो- -गवाम् लाश्रौ ८, ११,
 १६
 दासी-प(दु>)दी- पाग ५,
 ४, १३९
 दासी-भार- पा ६, २,
 ४२
 दासी-माणवक- पाग २, ४,
 ११
 दास-कर्म-कर- रम् आपध २, ९,
 ११^म, -रा आपगृ २३, ७
 दास-कर्म-कार- रम् हि व २, १,
 १२६^म
 दास-कुमारी- -र्यः आपश्रौ २१,
 १८, ७, १९, १८, २०, ५, हिश्रौ
 १६, ६, ३९
 दास गोपाल-नापित- -ता विघ
 ५७, १६
 दास ग्राम- (> °मि।का का-,
 °की)-दश-ग्राम- टि द्र
 दास-प(ति>)स्नी^१- पावा ४, १,
 ३५, -ली या २, १७^क
 दास-मिथुन- नौ लाश्रौ ८, ४,
 १४
 दास-वर्ग- -र्गस्य विघ ८१, ४
 दास(स-अ)धिप(ति>)स्नी-
 -त्स्य. या २, १७
 ✓दासाय पा ३, १, १३
 दास्य- -स्यम् सु ६, ४, विघ
 ५, १५२, -स्यात् सु १०,
 २×४, -स्ये सु ५, १, विघ ५,
 १५१

- a) वैप १ द्र । b) = साम-विशेष । c) दासस्यत्यम् इति पाठ १ यनि शोध. (तु ता १३, ५, २६) ।
 d) स्यत्ये इति पाठ १ यनि शोधः । e) पाभे वैप १, १५६५ ८ द्र । f) दूकू प्र (पा ४, १, १३१) ।
 g) दाशान्र्म^० इति पाठ १ यनि शोधः (तु काठ ७, ६) । h) दासनु->-नो (तु ता १, ७, ९) इत्यस्यावयवः
 द्र. । i) विप, नाप (सृत्य-). वैप १ निर्दिष्टयोः १दास- २दास- इत्येतयो समावेश द्र । j) तु पागम. ■
 k) उत्तरेण संघिरार्थ । l) दासेर इति पाठः १ यनि शोधः । m) परस्परं पाभे ।

२दास^a-(> दासायन- पा) पाग ४,
१,९९^b
दासक^a-(> कायन- पा) पाग ४,
१,११०
दासमित्र- पाग ४, १, ९९^{a,b}, २,
११६^c
दासमित्रायण- पा ४, १, ९९, पाग
४, २, ५४
दासमित्रायण-भक्त- पा ४, २,
५४
दासमित्रि-(> मित्रि-भक्त-पा) पाग
४, २, ५४
दासमित्रि(क>)का-, ंकी- पा
४, २, ११६
दास्य- १दास- द्र
दास्यत्- √दा(दाने) द्र
दाह- दाहन- प्रभृ √दह द्र
दिग्घ- प्रभृ √दिह द्र
दिति^d- पावा १, १, ७२, -तिः अत्र
११, ३, १५, ६, -ते माश्रौ २,
३, ८, २२, हिश्रौ ८, ६, ३३, कौसू
५९, १२, अत्र ७, ७, १५, ६
दैत्य- पा ४, १, ८५, -त्यान्
शध ११६ २०, -त्यानाम्
बृदे ६, ११५, -त्येषु बृदे ७,
५४, -त्यौ बृदे ४, ६७
दैत्य-दानव- -वान् बृदे ७,
५०
दैत्य-मन्त्रो(न्त्र-उ)क्ति-
काल-तस्() जैश्रौका १०६
दैत्ये (त्य-इ) न्द्र-नियुत-
-तानि विध २०, २५
दित्य-वाह^d- वाह वाश्रौ ३, ४,

३, १८^f, -वाहम् आपश्रौ ५,
२०, १६
दित्यौही- ही शुप्रा ५, ४०^f,
-हीम् आपश्रौ ५, २०, १६
दात्यौह- पा ७, ३, १
दित्सत्-, शित्सु- √दा (दाने) द्र
रदित्सु^e- स्तु आश्रौ ९, ९, १२^f.
दिदर्शयिषत्- √दृश् द्र
दिदीक्षाण- √दीक्ष् द्र
दिदृक्षा- प्रभृ √दृश् द्र
दिद्युत्^d- पाउना २, ५७, पावा ३,
२, १७८, -ङ्द्युत् आश्रौ ६, ३,
१, निघ २, २०, या ६, ३०,
१०, ७^g, २१, -०द्युत् अत्र
२, २^f
दिद्युतान- √द्युत् द्र
दिद्योत्^f आपश्रौ १८, १५, ५, बौश्रौ
१२, १० १४, हिश्रौ १३, ५,
३०, आमिगृ ३, ३, २ ५, बौपि
२, ९, ८
दिद्यक्षत्- √दह द्र
दिद्यिषु^d- -०षो या ८, २०^h ६^g
रदिद्यिषु^d- पाउ १, ९३^h, -ङ्द्यिषुःⁱ
आमिगृ ३, ५, ६ १६, बौपि
१, ५ : ४
दिद्यिषव्य^d- -०व्य आश्रौ
१, ३, ३०, काश्रौ
दिधि(धु>)धू-पति- -तिः वाव
१, १८, २०, १०
दिधृत>त्वा √धृ द्र
दिनⁱ- पाउवृ २, ४९, पाग २, ४, ३१,
-नम् वैगृ ३, १२ २, अप,
-नान् बृदे ४, ३४, -नानाम्

बौश्रौ १९, ३ ४, १५, -नानि
आपश्रौ १, ७, ४, वृदे ४, १३२,
-ने आपश्रौ २१, १२, ३^f, वैश्रौ,
-नेऽने अप ३१, ६, ३, ९, ५,
याशि २, ६७, -नेन बौध ४,
५, २८, -नेषु अप ३१, ८, ५;
-नै अप ३५, १, १०, बौध ४,
५, २७
दिन-कर^k- रस्य अप ७०^l, ११,
२३
दिन-कम- -मेण कप्र २, १०, ५^l
दिन-क्षय- यात् वाध ११, २१.
दिन-त्रय- -ये वैगृ ६, ८ ११,
-येण विध २२, ३७
दिन-द्वय- -येन विध २२, ३६
दिन-भागा- -गानाम् वेज्यो ४१
दिन-राशि- -शि वेज्यो २९
दिन(न-ऋ)त्वं(तु-अ)यन-मास-
-सानाम् वेज्यो ४४
दिनत्वंयनमासा(स-अ)त्वं^m-
-त्वं वेज्यो १
दिना(न-अ)धिप- -या आज्यो
८, १
दिना(न-अ)न्त- -न्तेषु वृदे ७,
१२१
दिने(न-इ)ष्टका- -का बौश्रौ १९,
३ १, १२
दिनै(न-ए)कादशक- -केन वेज्यो
२६.
दिनो(न-उ)पभुक्ति- -क्तिः वेज्यो
२६.
√दिन्व् पाधा. भ्वा पर प्रीरणे
दिरसा- (> दैरस- पा) पाग ४,

a) व्यप । व्यु १ ।

b) दास-, मित्र- इति भारुडा प्रभृ । दासमित्र- इति [पक्षे] पागम ।

c) = देश-विशेष- । d) वैप १ द्र । e) वैप १, १५६८ g द्र । f) व्यु पामे. च वैप १, १५६९ b, c द्र ।

g) पामे वैप १, १५४२ g द्र । तत्र च षो > ष इति शोधः । h) <दिधि/सो इति, पाउभो २, १, १२३ तु <

√धृ इति । i) पामे. वैप १, १५४२ j द्र । j) = दिवस- । व्यु १ < √दो [अवखण्डने] इति पाउ. दे, < √दी

[क्षये] इति अभा । k) उप. टः प्र उस्. (पा ३, २, २१) । l) ंत्रयेण इति जीसं । m) विप. । बस ।

३, ९३

दिलीप- पाउमो २, २, २१४.

देलीपि- (> पायन-) दलीप-
टि द्र√दिव्^a पाषा दिवा पर क्रीडाविजि-गीषाव्यवहारदुनिस्तुतिमोदमद-
स्वप्नकान्तिगतिषु, दीव्यति

वाधुश्रौ ४, ५९ १०, ७५

१, पा ४, ४, २, दीव्याम-

वाधुश्रौ ४, ७५ : १२, ँदीव्य-

ध्वम् काश्रौ ४, ९, १९, १५,

७, १७, ँदीव्यत आपश्रौ ५,

१९, ४, माश्रौ ५, १२, ६, हिश्रौ ३,

५, ८, दीव्येत वाधुश्रौ ४, ५९ :

१२, दीव्येयु भाश्रौ ५, १२, ८.

देविष्यावः वाधुश्रौ ४, ७५ ४

दिव्^b- पाउमो २, १, ३०६, पाग ५, ४,

१०७, ँदिव आश्रौ १, ४, ९××,

शाश्रौ, आपश्रौ १, २१, ३०, २,

५, १^d, ६, १४, १२०, ८, ८, २१^f,१६, ३२, ३४, १८, १६, १०^h,माश्रौ १, २, ६, २५ⁱ, ८, २,२८^j, आपमं २, १६, ७^k, आगृ३, ८, १९^l, पागृ १, ५, १०^m, हिगृ१, १७, ४ⁿ, या २, १३, ६, २२××,

पा ६, १, १३१, ३, २९, ७, १,

८४, पावा ६, ३, २०, दिवम्

आश्रौ १, ३, २७, २, १०, २१,

३, १२, ९^o, शाश्रौ, काश्रौ ६,९, १२^p, ँआपश्रौ २, १,८^q, ७, २, ७^r, १०, ७^s, ११,९, १३^t, १३, ५, ८^u, १५,४, ४^v, ँमाश्रौ १, २, ३, ४^w,६, २५^x, ८, १, ११^y, ६, १०^z, ४,१, २३^{aa}, द्राश्रौ ४, १, ७^{ab}, लाश्रौ२, १, ६, या ६, २२^{ac}××,ँदिव् आश्रौ १, ७, ७^{ad}, शाश्रौ,आगृ १, २२, २^{ae}, शागृ २, ४, ५^{af},३, १३, ५^{ag}, पागृ २, ३, २^{ah}, हिगृ१, ५, १०^{ai}, २, १०, ७^{aj}, गोगृ २,१०, ३४^{ak}, कौसू ५६, १२^{al}, या११, ४९, पागृ १, १, ३७^{am},

दिवाम् आपश्रौ १४, २५,

११^{an}, ँदिवि आश्रौ १, ६,

१××, शाश्रौ १, १३, ४××, ४,

१२, २^{ao}, काश्रौ, आपश्रौ ३,९, १०^{ap}, माश्रौ^d १, २, ५, ८,

३, ५, २५, वाधुश्रौ ४, १४ :

२^{aq}, हिश्रौ २, ५, ११^{ar}, आपमं१, १६, ४^{as}, भागृ २, ७.२०^k, हिगृ २, ७, २^k, पा

८, ३, ९७, दिविऽदिवि पाशि

३२, ँदिवि आश्रौ २, ३, ८;

३, ८, १, ४, ५, ७^{el}, शाश्रौ, आपश्रौ१२, २०, ८^{em}, लाश्रौ ५, ६, ९^{en},वैताश्रौ २०, १३^{eo}दिव्^b- पाउवृ ४, १७५, -ँवा^bशाश्रौ १, ११, १^c, ९, ९, १, काश्रौ;

या ३, १५, १४, १८, पागृ १,

१, ३७

दिव्-कर- पा ३, २, २१;

-र अप ५१, २, १, ५५, २, २;

७०ⁱ, ११, ३, ४, -रम् आगिगृ

२, ४, ११ - ८, ँअप १, ४१, ६;

अशा ११, ६, वृदे २, ६२, -रस्य

अप ५१, ३, ३, ७०^j, ११, ३०;

-रे अप ४१, ४, १, ५३, १, ४;

६५, १, ७

दिव्-कर-तला (ल-अ)

भ्याहा-सेविन्- -विन अप

५२, ८, ३

दिव्-कर-प्रभा- -भा:

अप ७०^k, ११, १७दिव्-कीर्ति^l- -र्तिम् वैगृ

६७ ११

- a) पा १, ४, ४३ परामृष्ट द्र । b) वैप १ द्र । c) पामे वैप १, १५७० f द्र । d) पामे वैप २, ३खं दिव् तैत्रा ३, ३, २, १ टि द्र । e) पामे वैप १, १५७० h द्र । f) पामे वैप २, ३खं दिव् तैत्रा १, ५, ५, २ टि द्र । g) पामे वैप १, १५७२ ० द्र । h) पामे वैप १, १५६८ m द्र । i) पामे वैप १, १६०३ ८ द्र । j) पामे वैप १, १५७१ d द्र । k) सपा दिव् <>दिवि इति पामे । l) सपा दिवः <> दिव्यम् इति पामे । m) पामे वैप १, १२९८ d द्र । n) दिवे इति Böht [ZDMG ५२, ८४] । o) पामे वैप १, १५७१ g द्र । p) पामे वैप १, १५७२ q द्र । q) पामे वैप १, १५७३ k द्र । r) पामे वैप १, १५७३ 1 द्र । s) पामे वैप १, १५७२ p द्र । t) पामे वैप १, १५७३ b द्र । u) पामे वैप १, १५७२ ० द्र । v) पामे वैप २, ३खं देवान् तैत्रा ३, ७, ५, ३ टि द्र । w) दिवसाह् इति लैवि सन् पाठः ? दिवसाह् इति शोध (तु लाश्रौ.) । x) पामे वैप २, ३खं दिवा मंत्रा १, ६, २६ टि द्र । y) पामे वृ ५९१ p द्र । z) पामे वैप १, १५७६ 1 द्र । a¹) पामे वैप १, १५७३ 1 द्र । b¹) पामे वैप १, १५७५ b द्र । c¹) दिव्या इति पाठः ? यनि. शोध (तु संस्कृट्ट टि) । d¹) पामे वैप १, १६७४ ४ द्र । e¹) पामे वैप १, १५७६ ४ द्र । f¹) पामे वैप १, १५७४ g द्र । g¹) = चण्डाल- ।

दिव्याकीर्त्या (दि-आ)दि-
 -दीन माय २, १४, ११
 दिवा-कीर्त्य- -त्यः आश्रौ
 १, ५, १८, ८, ६, १, वाश्रौ ३, २,
 ३, १८, -त्यम् आपश्रौ २०,
 २१, १०×४, बौश्रौ १६, १४.
 दिवाकीर्त्य-पृष्ठ^b- -ष्ठ.
 लाश्रौ १०, १३, १५
 दिवाकीर्त्य-सामन्^b-
 -मानम् आपश्रौ २१, १५, १६
 दिवा-चर- -राः अप ५२, १,
 ३, ७०^३, ५, ५, -ःरिभ्य.^c काय
 ५४, १७, वैय ३, ७ १६, विध
 ६७, २१
 †दिवा-चारिन्- -रिभ्य.^c
 आश्रौ १, २, ८, आश्रिण १, ७, २
 १०, माय २, १२, १८
 †दिवा(वा-आ)दि- -दिषु
 गौघ २४, ७
 दिवा-मैथुन- -ने आश्रिण २,
 ७, ४. ३, बौय ४, ११, १
 दिवा-रान्नि-चर- -राः अप
 ५२, १, ३, -राणाम् अप ६४,
 ४, ३
 दिवा-सन्ध्या- -न्धयो.
 आश्रिण २, ६, ८ ७
 दिवा-स्थान^d- -न बौघ ४,
 ५, ५
 दिवा-स्वप्न-शील- -लेन
 बौघ २, २, ७७
 रदिव्-आदि- -दिभ्यः वृदे ४, ६.
 दिव्-आदित्य- -स्यौ अत्र ४,
 ३९

†दिवि-क्षित्- -क्षिते बौश्रौ
 १५, २ १२, हिश्रौ १४, १, १३
 दिवि-गत- -तम् अप ५१, ५, ३,
 -तान् वैय ५, १४ ८†, -तेभ्य
 वैय २, २ : ११†, ५, १४ १४
 दिवि-चर- -रा. अप ५२, १, ३
 दिवि-ज- पा ६, ३, १५, -ज
 या ७, १८
 दिवि-जा- -जा †आश्रौ ३,
 १३, १२, ४, १४, २, या ४, १३
 दिवि देवयजन^b- -ना वाधूश्रौ
 ४, १८ २६
 †दिवि-भाग^b- -गा आपश्रौ
 १९, २७, ११, बौश्रौ १३, ४० :
 ५, माश्रौ ५, २, ६, १८, हिश्रौ
 २२, ६, २०
 दिवि-लोक- -क वाधूश्रौ ४,
 ५४ ५, १०६ : २, -कम् वाधूश्रौ
 ३, १३ ८, ४, १६ : ८, ६३ :
 ९, -कात् वाधूश्रौ ४, ६३ ९,
 -के वाधूश्रौ ३, १३ ९, ४, ११
 २०, १६ : ८, ५४ ५
 दिवि-षट्- पाग ८, ३, ९८^f,
 -†षट्भ्यः आपश्रौ १, ९, ६,
 ९, १८, १६, बौश्रौ.
 दिवि-ष्ठ- पा ८, ३, ९७
 दिवि-सद्- -सदम् शुप्रा ३, ८३
 †दिवि-स्पृश- स्पृक् बौश्रौ
 ९, १० ५, माश्रौ ४, ३, २०,
 वैश्रौ १३, १२ ८, ऋप्रा ५,
 २४, -स्पृश बौश्रौ ३, ३ : ५,
 वैश्रौ १९, ५. ४, निस् ३, ९ :
 ४७, -स्पृशम् आश्रौ ७, १२, ७,
 शाश्रौ १०, ६, ६, १४, ५७, ५,

आपश्रौ १७, ७, ४^६, बौश्रौ १,
 १५. २१, हिश्रौ १२, २, २४^६;
 या ९, ३८^६, -स्पृशा आश्रौ
 ७, ६, २, शाश्रौ १०, ३, ५, शुप्रा
 ३, ८१, -स्पृशि या ७, २५
 †दिव्य,व्या^e- पा ४, २, १०१;
 -†व्य आपश्रौ १५, १६, ९;
 १७, ८, ४, वैश्रौ, या ७,
 १८^६, -†व्यम् आश्रौ १, ९,
 ५, २, ८, ३, ३, ८, १, शाश्रौ,
 दाश्रौ २, ३, १७^६, लाश्रौ १, ७,
 १५^६, या ४, १३, ७, १८, -व्यया
 वाधूश्रौ ४, २९ : १२, -व्यस्य
 आपश्रौ २२, ७, ११†, बौश्रौ, या
 ६, २२, -†व्या काश्रौ २६,
 ७, ४, आपश्रौ, या १२, ३०;
 -†व्या आश्रौ १, ७, ७^२;
 आपश्रौ, हिण २, १६, ६^६, या २,
 ११, ४, १३, -०†व्या आपश्रौ
 २२, १९, १, हिश्रौ १७, ७, १०;
 -†व्यात् आपश्रौ ४, १६, ४;
 बौश्रौ, -व्यान् कप्र २, २, ३-८;
 अप ७१, १, १, शध ११६ :
 १७^६; आपध २, ७, १६, हिच २,
 २, ३५, -†व्यानाम् कौय ४, २,
 २, ३८; शाश्रु, -व्यानि अप ७२,
 ४, ४†; विध २०, ६, वृदे १,
 १२१, आज्यो ५, ७, -व्याम्
 वाधूश्रौ ४, २९ : ९; अप १,
 ४९, १, १४, १, १६^२, वृदे १,
 ७४, -व्यास या ४, १३†;
 -व्ये विध १४, ५, या ८, ११†;
 -व्येन बौश्रौ १८, १७ ३†;
 अप्रायः; -†व्येभ्य बौश्रौ ७,

a) = एकाह- l=याग-], सामन्-, वषट्कार- प्रभृ । शेषं वैप १ द्र. । b) विप. । बस. । c) पासे.
 पृ ४७४ ४ द्र । d) विप. । उप कर्तरि क्त । e) वैप १ द्र. । f) तु पागम. । g) पासे. वैप १,
 १५७७ ४ द्र । h) पासे. पृ १२५६ 1 द्र. । i) दिव्यः इति पाठ ? यनि. शोध । j) विद्या इति
 पाठः ? यनि. शोधः ।

५ ४१, ६ २६, जैश्रौ, - ऋष्येषु
 आपश्रौ १६, ३०, १, वैश्रौ १८,
 २ : ३५, हिश्रौ ११, ८, ४,
 -व्यैः आपश्रौ १४, १७, ११,
 हिश्रौ १५, ५, ११, विष ५१, ७७
 दिव्य-तन्त्र-विद्^a - वित्
 अप ७०, ९, १
 दिव्य-नदी-> °दी-पुलिन-
 सङ्गम-> °म-गोष्ठा (छ-आ)
 श्रम-पर्वत-प्रसन्न-वण-तपोवन-
 विहारिन्- -री सुध ५३? ^b
 दिव्य-नाग- -गान् शंघ
 ११६. ३४
 दिव्य-मण्डल- -लम् अप
 १२^c, २, ३
 दिव्य-स्त्री-गीत-गन्धर्व-
 विमाना (न-अ) द्भुतस्वन^d-
 -ना अप ६४, ९, ७
 दिव्या(व्य-आ)स्मन्^e -त्मा
 वृदे ७, ७७
 दिव्या(व्य-अ) द्भुत-
 -तानि अप ७२, ५ ३, -तेषु
 अप ७०, ४, ३
 दिव्या(व्य अ) निष्ट-
 विपत्-कर- -रे अप ७०,
 ४, ४
 दिव्या(व्य-आ) न्तरिक्ष-
 पार्थिव- -वान् अप १, ९, २
 दिव्या(व्य-आ) न्तरिक्ष-
 औम- -मानाम् अप २, २,
 ३, -मेषु अप ३०^f, २, ९, अशां

१७, १
 दिव्या(व्या-आ)प्य- -प्यम्
 अत्र ६, १२४
 दिव्या(व्य-आ)शीर्-ना-
 (मन् >) स्नी- -स्न्या जैश्रौका
 ८७
 द्यु^g- पाउभो २, १, ३४, पा ५,
 २, १०८, वेज्यो १२, १६, २७,
 ३७, ३८, द्युः या १, ६, ऋषिभि
 आश्रौ ४, १३, ७, शाश्रौ, या ६,
 १४, १३, १, द्युषु शाश्रौ ८, २२,
 ११, ऋषून् आश्रौ ३, ८, १, आपम
 २, ११, ३०, द्युनि वेज्यो ३९
 द्यु-त्रिंशत्- -शत् वेज्यो ३१
 द्यु-पथि-मथि-पुं-गो-सखि-
 चतुर-अनङ्क(ह् >) त्-त्रि-ग्रहण-
 गम् पात्रा १, १, ७२
 द्यु-भक्ति^h - -क्त्य वृदे ६,
 १५६, -क्ति वृदे ३, ११३,
 -कीनि या ७, ११
 द्यु-भू- -भ्वोः वृदे ५, ११४
 द्यु-म- पा ५, २, १०८
 ऋषु-मत्- -मत् आश्रौ ८,
 १, १८ⁱ, ९, ७, शाश्रौ, -मन्त
 बौश्रौ ३, ८ १०, -मन्तम्
 शाश्रौ २, ११, ३६, बौश्रौ १,
 १३ २६, -मान् आपश्रौ १२,
 १९, ५, वृदे ६, ७३; या ६,
 १९४^j
 द्युमती- -तीम् वृदे
 ८, ८

ऋषुमत्-तम- -०म
 हिश्रौ ११, ७, ४३, -मः बौश्रौ
 ३, ८ : ३१, -मम् आपश्रौ १६,
 २६, १, बौश्रौ, या ९, २१
 द्यु-मैथुन- -ने अप ३८,
 ३, ४
 द्यु-लोक- -क हिपि ७ ५१.
 द्यु-वत् वृदे २, ८०
 द्यु-स्थ- -स्थै बौध ४, ८,
 १२^k
 द्यु-स्थान^l - -न वृदे २, ७;
 या ७, ५, १५, १२, ४१, -ना
 या १२, १, ३५, ४१, -ने वृदे
 ८, ४८
 द्यु(द्यु-अ)धिक- -केन वेज्यो
 १६
 द्यो^m- पाउभो २, १, १५०, ऋषि
 गौपि २, ३, ७, या १, ६, शुप्रा
 ३, ६८, तैप्रा ६, २, ऋषिद्युषि
 अप ४८, १११, निष १, ९,
 ऋषिनी आश्रौ ८, ११, ३, शाश्रौ
 १०, ११, ८, ऋषाम् आश्रौ
 २, ७, ११×४, ६, २, ११ⁿ, ८,
 १३, १०^o, शाश्रौ, काश्रौ ६, १,
 १६¹, आपश्रौ २, २, ३^m, ७, २७,
 ४^m, माश्रौ २, ४, ५, ५^k, हिश्रौ
 २२, ३, १९^o, वैताश्रौ २९, १३^p.
 आश्रिद्यु ३, ६, १ : ६^q, हिद्यु १,
 १५, ३^r, या ३, २०, ७, २३, ९,
 १३^q, १०, २२^q, २३^q, २७^q.
 ३२, १२, २३, १३, ८, ऋषाम्

a) उप <√दिव् (ज्ञाने) । b) °ङ्गमेऽष्टाश्रम^० इति पाठः ? यनि शोध । c) कस. >षस >
 द्रस. >षस. >षस । d) विप. । बस. । e) = दिव्-, दिन- । वैप १ द्र । f) वैप १, १५८० । द्र ।
 g) पामे वैप १, १५८० । ह द्र । h) द्युस्थै इति पाठः ? यनि शोध । i) वैप १ द्र । j) द्यान् इति
 पाठ ? यनि शोधः (तु. खि ५, ५, ११) । k) पामे वैप १, १५७३ । ब द्र । l) पामे. वैप १, १५७३ । द्र ।
 m) पामे. वैप १, १५७३ । क द्र । n) पामे वैप १, १५७२ । q द्र । o) द्या इति वृद्धित पाठः ? यनि. शोधः
 (तु तैप्रा २, ४, ४, ३) । p) पामे वैप १, १३९२ । m द्र । q) पामे वैप १, १५७३ । d द्र । r) पामे-
 वैप १, १३९३ । d द्र ।

आश्रौ ७, १०, ८, ९, ११, १६,
शाश्रौ, या १३, २, पावा ६, १,
९२, द्यावौ या २, २०, घोः
पावा ६, १, ९२, ऋश्रौ आश्रौ
१, २, १^१, २, ९, १४××, शाश्रौ
१, ६, ४^१××, काश्रौ, आपश्रौ ६,
२२, १^१, हिण् २, ११, ४^१,
निघ १, ९^१, या १, १५, २,
१४^१××, पा ७, १, ८४

†द्यावा^d आश्रौ ३, ८, १^२, ५,
१८, ५, ८, ८, ४, शाश्रौ ५, १३,
५××, काश्रौ, या २, २०^१, ९,
३८^१, पा ६, ३, २९, द्यावो
मीसु ९, ३, २१

†द्यावा-क्षाम्^d -क्षामा
काश्रौ १६, ५, ४, शुप्रा २, ४७
द्यावा(वा-आ)दि- -दिना
अप ३३, ६, ८

†द्यावा-पृथिवी^d -वी
आश्रौ १, २, १, ३, २३××, शाश्रौ,
आपम २, १, ८^१, १२, ७^१, हिण् २,
३, १०^१, ६, १२^१, निघ ५, ३,
या ५, ३, ८, १४^१, १२, १६,
-०वी आश्रौ १, ९, १, काश्रौ,
-वीभ्याम् शाश्रौ १, ६, ११, ५,
८, ५^१××, काश्रौ, हिश्रौ १, ५,
३२^१, लाश्रौ ५, ७, ४^१, कौण्ड
३, १३, ६^१, शाण्ड ७, १३, ३^१,
-व्या शुभ्र ४, २९, -व्याम् शुभ्र
१, ५२०, -व्यो आश्रौ १,
१, २३××, काश्रौ, आपश्रौ १,

१८, ४^१, बीश्रौ १, ५, २४^१,
भाश्रौ १, २०, ४^१, माण्ड १, २१,
१०^१, या ३, २२, ७, २८, -व्यौ
सु २, १, कौसू, या ४, ६, २५××

द्यावापृथिवी-नाम-
धेय- -यानि निघ ३, ३०, या
३, २१

द्यावापृथिवी-बलि-

-लिम् शाण्ड ४, १३, २

द्यावापृथिवीय, या^{1d}-
पाश्रु, २, ३२, -य शाश्रौ ३, १२,
३, १३, ११, काश्रौ ४, ६, ५, ५,
१, १४, वाश्रौ १, ५, ५, ६, -यम्
शाश्रौ ८, ३, ११××, माश्रौ,
-यया शाण्ड ४, १२, ३, -यस्य
शाश्रौ ६, ११, ७, १४, ५६, ९,
भाश्रौ ५, ५, ६८, माश्रौ ५, २,
७, ६, -या शाश्रौ १४, ६, ३,
-याः साश्रु १, ६२३, -यान्
माश्रौ १, ६, ४, ४, -याम् आश्रौ
१२, ७, १२, काश्रौ २०, ८, ७,
माश्रौ ५, २, १०, २३, -याय
माश्रौ १, ६, ४, ११, -ये माश्रौ
५, २, १०, १८

द्यावापृथिव्य, व्या¹-

पाश्रु, २, ३२, -व्य काश्रौ २०, ३,
१८, बीश्रौ २६, ३० १३, जैण्ड
१, २४-३, -व्यम् आपश्रौ ६, २९,
१०, आपश्रौ, -व्यया आपश्रौ
९, २, ५, १३, १५, भाश्रौ, -व्ययो-
भाश्रौ ६, १७, १३^१, -व्यस्य

बीश्रौ ३, १२ २०, वैश्रौ ८, १ :
१०, -व्या बीश्रौ १७, ५५ १६;
६२. १४, -व्याः आपश्रौ २०,
१४, ७, बीश्रौ २४, ३८ ३;
हिश्रौ १४, ३, १६, -व्यान्
भाश्रौ ६, १७, १४, -व्यानाम्
बीश्रौ १५, ३१. १९, -व्याम्
आपश्रौ २१, २३, ४, हिश्रौ १६,
८, ८, १३, -व्ये ऋश्रु २, १, २२.

द्यावापृथिव्य-वि-

कार- -रौ बीश्रौ २७, १४. २३.

द्यावापृथिव्या(वी-आ)

दि-देव- -वान् अश्रु २, २८

द्यावापृथिव्योर्-अय-

न- -नम् आश्रौ २, १४, १२,

वैताश्रौ ४३, २७

द्यावा-भूमि^d - ०मी

ऋप्रा ३, ४, १, -म्योः ऋश्रु २,

६, ४८

द्यौस->२,) > †द्यौर-दा^१-

-दाः आपश्रौ १७, ५, १६, वैश्रौ

१८, २१ १७, हिश्रौ ११, ८,

१०

द्यौर-लोक- -केन शाण्ड १,

१६, ३

द्यौ, स-सम- -मम्^१

आमिण्ड^१ ३, १, २ २०, २, ३:९;

बीध २, ८, १२^१

†दिव^d -वेऽ-वे आश्रौ ४, १०,

१^१, ३, शाश्रौ ५, १४, ८^१××,

काश्रौ, या ४, १९^१

a) पाभे वैप २, ११७१ | टि द्र । b) सकृत् सपा. द्यौः, समा < > द्यौः, स-समम् इति पाभे ।

c) = दिन- । d) वैप १ द्र । e) पाभे. वैप २, ३ख द्यावापृथिवी तैब्रा २, ७, १७, ३ टि द्र । f) फभे.

वैप १ सोम शौ २, १०, २ टि. द्र । g) पाभे वैप १, १५७६ & द्र । h) पाभे वैप १, १५८५ g द्र ।

i) द्यावापृथिवीद्याम् इति पाठ १ यनि. शोष. (तु मा ३८, १२) । j) विप (पुरोडाश-, ऋच्-, सूक्- प्रश्) ।

k) वैप १, १५८६ g, h द्र । l) विसर्ग-युतः पाठ । तत्रैव १^०समन्वस्स > ०समम्, तस्य इति शोष. ।

अन्तरिक्ष-समम् इत्यत्र शोधो नेष्ट. । m) द्यौः. विसर्गलोप, मैसु सकार-युतः पाठः । n) फभे. वैप १,

१५७२ j द्र ।

२दिव्- > दिव्री (व-ञो) कस्^b-
-कस कप्र १, १०, ८, २, ३, १२
दिवस्- > दिव, श-श्येनि, नी^c-
-नयः काश्रौसं ३ १, ६ १,
आमिगृ १, २, १ १४, बौगृ ३, १
२४, -नीमि आपश्रौ १९, १५,
१७, काश्रौसं ३: १, ७, ६ ४, बौश्रौ
१९, ८: ६, हिश्रौ २३, ३, ३६
दैवः श्येन^d- -नम् काश्रौसं
४. १, ५: ४^e, ६ ४
दिवस्-पति^f- पाग ८, ३, ४८^g,
-०ते विध ९८, २०
दिवस्-पृथिवी^h- पा ६, ३, ३०,
-फंब्यो आश्रौ १, ९, १, शाश्रौ
१, १४, ३, ऋप्रा १३, ३०, उस्
८, १९.
दिवस्ⁱ- पाउ ३, १२१, पाग २,
४, ३१, -स शंघ १८६, २३७,
विध २०, १६, -सम् वैगृ ७, ५:
९, वाघ २७, १७, शंघ ११६.
४९, याशि २, १०८, नाशि २,
८, २०, -सस्य वाघ ११, ३६,
-साः सुधप ८४: २, -सात्
बौध १, ५, १०४, -सान् अप
५०, ९, ५, -सानि आमिगृ २,
७, ६: २३, -साय वैगृ २, १२
७, -से बौध ४, ५, ३०, विध
१९, १०, वैध २, १, ४, ८, आज्यो
८, ३, -सै शंघ ३५२

दिवस-प्रमाण- -णम् वेज्यो ४०
दिवसां(स-अ)श-भाग- -ग.
वेज्यो २७
दिवसा(स-अ)धिक- -कम् सुध
६२
दिवसा(स-अ)न्त- -न्ते विध
१३, ५, ३२, ९.
दिवसै(स-ए)कर्विशति-क्षण-
-णम् विध ४६, १३.
दिविः (?) गो १, २१फ
दीदिवि^j- पाउ ४, ५५, -वि पागृ
३, ४, १६^kफ, -विम् बौश्रौ ३,
८ २७फ
दीवितु- -तारः आपघ २, २५,
१३, हिघ २, ५, १९२.
दीव्यत्- -व्यत शंघ ३७८,
-व्यन्त बौश्रौ १०, ९ ३
दीव्यति-> ण्ति-कर्मन्- -र्मा या
३, १५
१देव^l- पाग ३, १, १३४, ४, १,
८६, ३, ११८^m, -०व आश्रौ १, ३,
२३, ४, ७xx, शाश्रौ, आपश्रौ
९, ८, ८ⁿफ, फामाश्रौ २, ४, १, ९^o,
५, ४, २०^p, ५, २, २, १४^q,
आपमं २, २, १^rफ, कागृ ३९,
२^sफ, बौगृ २, ५, ९^tफ, भागृ १,
५. ९^uफ, हिगृ २, १७, ३^vफ,
कौसू १३७, ३९^w, या ५, २७,
७, ३१फ, ११, ५फ, -फव

आश्रौ १, ६, १, ८, ७^xxx,
शाश्रौ, आपश्रौ ९, १८, १६^y, पागृ
३, १, ३^z, हिगृ १, २७, ८^{aa},
कौसू ४०, १३^{ab}, या २, १०^{ac},
२६xx, ७, १५^{ad}, -फवम्
आश्रौ १, ८, ७, २, २, २xx,
शाश्रौ, लाश्रौ ७, १२, ४^{ae}, या
१, ४, ६, ४xx, -फवम् ऽवम्
आश्रौ ७, १२, ७, १०, ६, ६,
शुअ ३, २५१, -फवस्य आश्रौ
१, १३, १, ६, १४, १६xx,
शाश्रौ २, १०, २xx, ६, ८,
६^{af}, वैताश्रौ १७, ७^{ag}, या ४,
१९, ६, ७, ७, ४, ११, ११;
१४, १८, -फवा आश्रौ २,
१६, १२, ७, ६, २, शाश्रौ ३,
१३, २७, ७, १०, १०, १०, ३,
५, अप ४८, २, -फवा आश्रौ
९, ११, १४, या ५, २२, -वाः
आश्रौ १, ३, २७xx, शाश्रौ:
काश्रौ १५, ४, ३६^{ah}फ, आपश्रौ
१४, २७, ७^{ai}फ, ३१, ८^{aj}फ,
वाघूश्रौ ४, ४३: २^{ak}, ५५ ४^{al},
वाश्रौ २, २, ३, २^{am}, हिश्रौ १, ७,
८, १९^{an}फ, वैगृ २, ० ६^{ao}फ, ३,
१३ ६^{ap}फ, ९^{aq}फ, ४, १०
१०^{ar}फ, ११ ९^{as}फ, हिघ १, ६,
२०^{at}, या २, १२, ३, ८^{au}फxx;
-फवा आश्रौ १, १२, ३६.

a) = दिव्- । b) = देवता- । बस । c) वैप २, ३खं द्र । d) तस्येदमीयः अण् प्र । e) श्यै^० इति पाठः ?
यनि शोघ । f) = विष्णु- । g) तु पागम । h) वैप १ द्र । z) = दिन- । j) व्यप [बौश्रौप्र] । शिष्टं वैप १ द्र ।
k) देवराज- टि द्र । l) पामे वैप १, १५८९ h द्र । m) पामे वैप १, १५८८ h द्र । n) पामे वैप १,
१५८८ ० द्र । o) मामृषदेव इति पाठः (तु BC) मामृष (क्रिप), देव (बहिं) इति शोघ (तु सपा आश्रौ १, ४, ७) ।
p) पामे वैप १, १५७२ ० द्र । q) पामे वैप १, १६११ m द्र । r) पामे वैप २, ३ख त्वम् तैत्रा २, ५, ८, ८
टि. द्र । s) गीतिविकारतया निर्देश । t) पामे वैप १, १५९३ j द्र । u) पामे वैप १, १५९५ d द्र ।
v) पामे वैप १, १५९५ ० द्र । w) पामे वैप १, १५९७ r द्र । x) देवा इति पाठ ? यनि शोघः ।
y) शोघः पृ ९३ i द्र । z) देवेन्द्र इति पाठ ? यनि शोघ Lजु सप्र तै ५, ५, ९, ५ । a¹) पामे वैप १,
१६०१ m द्र । b¹) = देवा (ऋ १, २२, १६) । c¹) सप्र. न देवा न गन्धर्वाः <> न देवगन्धर्वा इति पामे. †

२, ९, १०××, शाश्रौ, आपश्रौ
 १४, २७, ७^३; १६, ३४, ४^७,
 माश्रौ २, ३, ८, ४^{३०}, ४, १, ६^{२०},
 ५, ५, २१^०, हिश्रौ २१, १४
 १४, १६^०, या ५, २२, ८, २२,
 १२, ४०, -^१वान् आश्रौ १, ३, ६^३,
 २२××, ३, १२, १४^{२०}, शाश्रौ
 १, ४ २१××, ३, ५, ९^०, काश्रौ,
 आपश्रौ १, १०, १४^१, २, १०,
 ५^६, ५, ५, ८^३, ९, ४, १७^{२१},
 १४, ३०, ४^१, १६, ३५, ५^{२०}, १८,
 ५, १४^६, शाश्रौ २, १३, ५^०, अप १,
 ४०, ४^१, या १, २०, २, २६××,
 -वान् ऽ-वान् काश्रौ ३, ५, ८,
 -^१वानाम् आश्रौ १, ३, ६, ६,
 ५××, शाश्रौ १, ४, २१××, १०,
 १८, ६^३, काश्रौ २, १, १८^२××,
 ८, १४^०, आपश्रौ १, ३, ६××,
 २, १०, ५^०, ३, १८, ४^२, ७, ९, २^०,
 १४, १७, १^३, १७, १३, २^५,
 काठश्रौ, माश्रौ १, ५, १, १६^३, ५,
 २, १५, २^३, आपमं २, ९^१, हिश्रु
 १, ४, ४^६, हिष १, ८, २६^६,

-^१वानाम् आपश्रौ २, ५, ७^१,
 १६, १, ३, बौश्रौ, -^१वाय आश्रौ
 ४, १३, ७××, शाश्रौ, माश्रौ ६, २,
 ४, ६^०, या १०, ६, २३, -^१वास
 आश्रौ ८, १, १२, शाश्रौ, या ७,
 २८, १२, ३०, -^१वास आश्रौ
 ८, १, १२, शाश्रौ, आपश्रौ १३,
 १०, १०^१, हिश्रौ ९, ३, ३३^१,
 या ६, १४, १२, ४०, -^१वे
 आपश्रौ ५, २९, ५, भाश्रौ,
 -^१वेन आश्रौ १, ३, २२, ५,
 २, १४^५, शाश्रौ, द्राश्रौ १५, ३,
 ९^५, लाश्रौ ५, ११, ९^५, या
 १०, १८, -^१वेभि आश्रौ ५, ९,
 २१××, शाश्रौ, आपश्रौ ४, १२,
 ३^५, -^१वेभ्य आश्रौ १, ९, ५^३,
 २, २, २××, शाश्रौ १, ४, ५××,
 २, ८, २०^५, ४, ८, १^५, काश्रौ,
 आपश्रौ ९, २, १०^५, माश्रौ १,
 १, १, १९^३, ७, १, ८^{२३}, ८, ३,
 १^३, माश्रु १, २२, ५^{३०}, कौस्
 ५६, १३^{३०}, या १, ४, ७, ९××,
 -^१वेषु आश्रौ १, ३, २३, ८, ७,

१२, ३६^५, ३, १२, २७××;
 शाश्रौ, आपश्रौ १६, ११, ११^{२०},
 माश्रौ ३, १, २७^३, पाश्रु १, १६,
 २२^{३०}, या ६, ८, ८, २०, ९,
 ३८, ११, ३९, -^१वै आश्रौ
 २, १७, ३××, शाश्रौ, आपश्रौ
 ४, १०, ४^१, ६, ८, ४^३, १६,
 १०, ८^१, माश्रौ २, ३, ७^६, या
 ९, ३, १३^१, १२, २९^१, -^१वौ
 शाश्रौ ७, ५, ६, आपश्रौ, आपमं
 १, १२, २^३, माश्रु २, १८, २^३,
 या १२, ३७, -^१वौ काश्रौ
 २३, ३, १, आपश्रौ, या ५, २२,
 १देवी- पा ४, १, ४^{११},
 -^१वि आश्रौ १, १०, ८, ३,
 १, १४, शाश्रौ, आपश्रौ १०,
 २३, ६^१, बौश्रौ ६, १३. ११^१;
 माश्रौ १०, १५, १५^१, वैश्रौ
 १२, १७ : ५^१, हिश्रौ ३, ३,
 ३२^३, ७, २, ३१^१; आश्रु २,
 १, ५. १८^१, या ११, ३२,
 ३३, -^१वी आश्रौ १, ७,
 ७, २, १६, १२^५××, शाश्रौ;

- a) पाभे वैप १, १६०० g द्र । b) पाभे वैप १, १६०० h द्र । c) पाभे वैप १, १५९९ e द्र । d) पाभे वैप १, १५९९ a द्र । e) पाभे वैप १, १६०० l द्र । f) पाभे वैप २, ३खं. थोनिम् मन्ना २, ३, १७ टि द्र । g) पाभे वैप २, ३खं देवान् तैन्ना ३, ७, ५, ३ टि द्र । h) पाभे वैप १, १६०४ b द्र । i) पाभे वैप १, १५९९ a द्र । j) पाभे वैप १, १६०१ m द्र । k) पाभे वैप १, १५९९ j द्र । l) देवा इति पाठः ? यनि शोधः । m) पाभे वैप १, १६०३ i द्र । n) पाभे वैप १, १६०३ d द्र । o) पाभे वैप १, १६०३ c द्र । p) पाभे वैप १, १६०२ h द्र । q) पाभे वैप १ वृष्टिद्यावानम् मै २, १३, २२ टि द्र । r) पाभे वैप २, ३खं देवी मन्ना १, ६, २७ टि द्र । s) सप्र. देवाना सुराज्ञश्च <> देवाताना राज्ञश्च इति पाभे । t) पाभे वैप १, १६०६ g द्र । u) पाभे वैप १, १५९३ j द्र । v) पाभे वैप १ विश्वदेवेभिः मा २, २२ टि द्र । w) पाभे वैप २, ३खं देवैः तैन्ना २, १, ५, १०^२ टि द्र । x) पाभे वैप १, १६०३ f द्र । y) सपा देवेभ्य <> देवेषु इति पाभे । z) पाभे वैप १, १६२३ b द्र । a^१) पाभे वैप १, १६०३ h द्र । b^१) सप्र. देवेभ्य <> देवताभ्य इति पाभे । c^१) पाभे वैप १, १६०७ e द्र । d^१) पाभे पृ १००१ g द्र । e^१) पाभे वैप १, १६१२ l द्र । f^१) पाभे वैप १, १५९९ j द्र । g^१) पाभे वैप १, १६१२ g द्र । h^१) पाभे वैप १, १६२२ a द्र । i^१) तु पागम । j^१) पाभे वैप १, १६११ b द्र । k^१) देवी इति पाठ ? यनि शोधः [तु सप्र. काठ ७, १२] । l^१) देवी इति पाठ ? यनि. शोधः [तु ऋ २, ३२, ६] ।

आपश्रौ ५, ९, ११^a, माश्रौ १, ५, २, १२^a, कौगृ १, १६, १८^{2b}, २, १, २९^०, शागृ १, २४, १०^२, २, २, १^०, पागृ २, २, ८^०, मागृ १, २२, १०^०, या ९, ४१, ४२^२, ४३, ११, ४६, -^१वी आश्रौ ४, १३, ५, आपश्रौ १५, १, १०, बोश्रौ, -^१वी: आश्रौ २, १६, ९, १२^{2b}, ५, १, १३, शाश्रौ, आपश्रौ १८, १३, १९^०, वैश्रौ १, ९ ८^a, आपम २, २, ५^१, पागृ १, ४, १३^१, आमिगृ १, १, २ २७^१, २८^१, ५, १० १९^१, २०^१, २, १, ४: १२^६, ४, १ २०^b, कागृ २५, ४^२, बौगृ २, ५, ११^२, भागृ १, ५ १२^१, १३^१, १३ २^१, ३^१, हिगृ १, ४, २^२, या २, ४६, ८, १२, १३, -^१वी: काश्रौ २, ३, ३४, ९, ३, ४××, आपश्रौ १५, २, १^१, बोश्रौ ९, २ १८^१, भाश्रौ ११, २, ३^१, माश्रौ ४, १, ११^१, वैश्रौ १३, २ १^१, हिश्रौ २४, १, १०^१, आपमं २, ९, ६^१, या ८, १०, १२, ४५, -^१वीनाम् आश्रौ ६, १४, १७, हिश्रौ ७, ८, ४३, ऋश्र २, १, २२, वृदे ३, ९२, -^१वीभ्य: शाश्रौ

९, २८, ४, कौगृ १, ५, २९, आमिगृ १, ५, २: १६, -^१वीम् आश्रौ ३, ८, १, ४, १३, २, शाश्रौ, वैताश्रौ १, १६^१, कौगृ १, १६, १८^१, या ११, २९, -^१व्य ^१बौश्रौ २, २: ११, ४ १४, १६, ^१मागृ १, १०, ८^२, २२, ३^२, वैगृ, या ८, १३, १२, ४५, ४६, -^१व्य काश्रौ २३, ३, १, २६, १, ७^१, शुश्र ४, ७४^१, या ८, १०^६, -^१व्या आश्रौ २, १७, ३, शाश्रौ, -^१व्या वैश्रौ १, १७ ११^१, -^१व्याम् कौस् ३१, २८, अश्र ६, १३६, -^१व्यै आपम २, ८, ६××, आमिगृ, -^१व्यौ वृदे १, १०८, ३, ८, या ९, ४१, ४२

देवीराप^m-(> देवी-

रापक- पा) पाग ५, २, ६२

२ देवी^m - > देवी-अ-

-जम् अप ३५, २, ३

दैव^०- पा ४, १, ८६, पावा

४, १, ८५, -०व वैताश्रौ २०,

१९^१, -व: ^१शाश्रौ २, १२,

९, ४, ६, ९^२××, बोश्रौ, बोश्रौप्र

४१ १४^१, लाश्रौ ५, २,

११^१, आपमं २, ७, २४^१,

आगृ १, ६, २^१, वैगृ ३, १: १^१, ५^१, वाघ १, २९^१; शंख ६८^१, बौघ १, ११, ५^१, विघ २४, १८^१, २०^१, ५९, २२^१, गौघ ४, ९^१, साश्र १, ५१^१, दंवि १, ७, -वम् आश्रौ ९, ३, १२, १०, २, २७, शाश्रौ, माश्रौ १, ५, २, ४^१, अप २, १, २^१, ३^१, वाघ १, ३१^१, -वस्य वृदे ६, १६१, -^१वा: आपश्रौ २०, १४, ६, बोश्रौ, -वात् शाश्रौ २, १४, ४^१, १५, २, कप्र ३, ४, ४१^१, अप २, १, ३१^१, बौघ १, ११, १८^१, गौघ ४, ३१^१, -वान् अप १, ६, ७, -वानाम् आश्रौ १२, ८, २, -वानि आपश्रौ २४, २, १५, बोश्रौ, ऋप्रा १६, ३, -वे शाश्रौ १५, २७, १^१; कौगृ, -वेन आश्रौ ९, ३, १२; शाश्रौ १५, २७, १, द्राश्रौ ७, ३, १^१, लाश्रौ ३, ३, १^१, वैगृ १, ५: ८^२××, आपघ, अप २, १, २^१, विघ २४, ३४^१, -वेषु भाश्रौ १, १, १०^२, अप ७२, ३, १, -वै अप ११, २, ५

दैवी^{a1}- ^१वी आपमं

२, ४, ६^१, आमिगृ, हिगृ १, ८,

- a) पाभे वैप १, १६११ ० द्र । b) सकृत् देवीम् इति पाठ ? यनि शोघ. (तु शागृ १, २४, १०) ।
 c) पाभे वैप २, ३खं देवी मन्त्रा १, ६, २७ टि द्र । d) सकृत् १वी इति पाठ ? यनि शोघ: (तु मै ४, १०, ३) ।
 e) पाभे वैप १, १५९५ d द्र । f) पाभे वैप २, ३खं देव्य मन्त्रा १, १, ५ टि द्र । g) पाभे वैप १, १६१२ k द्र । h) पाभे वैप १, १६११ m द्र । i) पाभे वैप १, १६१३ ० द्र । j) पाभे वैप १, १५१० d द्र । k) पाभे वैप १, १६१३ g द्र । l) पाठ ? देवी इति शोघ: (तु सपा शागृ १, २४, १०) ।
 m) < देवी आप. (मा १, १२) इति । n) = ओषधि-विशेष- । o) बप्रा । विप, नाप, व्यप च । विवेक उत्तरत्र टि द्र । वैप १ निर्दिष्टाना समावेश द्र । p) पाभे वैप १, १६०३ d द्र । q) = ऋषि-विशेष- । r) पाभे वैप १, १६१४ t द्र । s) सपा दैव <> दैव्य: इति पाभे । t) = विवाह-भेद- । u) = देव-यज्ञ- । v) = दैवोदास- । w) पाभे वैप २, ३खं दैव्यम् तैत्रा १, २, १, १५ टि. द्र । x) = भाग्य- । y) पाभे वैप २, ३खं देवात् मन्त्रा २, २, ७ टि द्र । z) = दैव-तीर्थ- । a¹) विप (ऋच्-प्रम्), नाप. (गायत्री-) ।

४^{2a}, उलिसू ३ ३^b, पिं २,
३^b, -वीः काश्रौ १८, ४, २५,
आपश्रौ, आपमं २, १२, ८^{१०},
हिगृ २, ४, १^{१०}, -^१वीनाम्
काश्रौ ६, ४, ३, ९, ८, १४,
आपश्रौ, -^१वीभ्य आपश्रौ ३,
११, २^d, बौश्रौ १, २१ १३,
भाश्रौ ३, १०, २, वाश्रौ १, ३,
७, २०, हिश्रौ २, ६, १, कौसू ५,
१३^d, -वीम् काश्रौ ७, ४, २७,
आपश्रौ, चाअ १४ २, -व्या
शाश्रौ १७, १५, ११, चाअ
१४ २

दैवी-जगती^०-

-त्य् अअ १५, ४, १९, २२, २३,
-त्यौ अअ ११, ३(२^३).

दैवी-त्रिपुत्र^०-

-पुत्रः अअ ११, ३(२), १९,
२२, २३^२

दै, दे^१ वी-धिय^६-

(> दै, दे^१ वी-धियक- पा)

पाग ५, २, ६२

दैवी-पङ्क्ति^०-

-कृत्यः अअ ११, ३(२), १९,
२२, २३

दैवी-पुत्र^१- -त्रः

विध २४, ३०

दैवी-सुत^१- -त

वैगृ ३, १ : १४

दैव-कर्म-विद्- -विदौ

अप २, १, ४

दैव-कृत- -त अप ७१,

१९, १, -ते वैगृ ५, १ १७

दैव-चिन्तक- -कै. अप

७१, १८, २

दैव-ज्ञ^१- -ज्ञम् अप ५,

५, ४, ६५, २, ८, -ज्ञा अप ५१,

४, ३

दैवज्ञ-विधि-चो-

दित- -तम् शंघ १००

दैव-तीर्था(र्थ-अ)भिगम-

न- -नम् शंघ १२

दैव-त्व- -स्वम् कौशि

५२

दैव-पिण्या(व्य-आ)तिथे-

य- -यानि विध २६, ७

दैव-पूर्व^१- -र्वम् गौपि २,

२, १८, कप्र २, ८, ६, विध ७४,
१^२.

दैव-पैत्र- -त्रयो शंघ

७३

दैव-मानुष-क^१- -कम्

विध ९५, १६

दैव-राजो(ज-उ)पघात-

-तात् विध ६, ६

दैवा(व-अ)नुबन्ध-

-न्धम् वैगृ ३, १० ३

दैवा(व-आ)वृष्ट^१- -वृत्

वैताश्रौ ९, ८, १४

दैवो(व-उ)त्पात-चिन्त-

क- -का. गौघ ११, १७

दैवो(व-उ)पघात- -तात्

विध ५, १५६, -तान् विध ३,
६८, -तानाम् आमिगृ २, ५, १

५१

दैवो(व-उ)पसर्ग- -र्गाः

अप २, ३, ३

दैवो(व-उ)पसृष्ट- -ष्टे अप

१, ७, ६

दैवक- पा ४, ३, ११८

१दैविक^३- -कम् वैश्रौ १, ४ः

१०, वैगृ १, ५ ८, कप्र २, ८,

१०, अप २३, ५, ३, -के वैगृ १,

६ : ७, ८ ९, ६, १ : १०, -केन
वैगृ ६, २ : ११

दैविक-पैतृक- -काणि वैगृ

६, ४ ४

दैविक-वत् वैश्रौ १, ४ :

७, वैगृ २, १ ४, ६, २ : १२.

दैव्य, व्या^३ -^३पात्रा ४, १,

८५, ३, ५८, -व्य काश्रौ ३, २,

७, आपश्रौ ४, १६, ४^०, भाश्रौ

६, ३, ७^०, हिश्रौ ६, ६, १७^०, हिगृ

१, १०, ४^०, -व्यम् आश्रौ ४, ७,

५; शाश्रौ, आपश्रौ ३, १८, ४,

५, ८, १^१×४, बौश्रौ, -व्यस्य

आश्रौ ४, ११, ६, बौशु ८ ८;

-व्या आश्रौ २, १६, ९, १२,

९, ११, १९, शाश्रौ, या ८, १२,

-व्या आश्रौ १, ७, ७, ३, ३, १,

शाश्रौ, -०व्या. माश्रौ ५, २, ८,

२२, वैश्रौ ६, १२ : १०, -व्यान्

भूभाश्रौ १०, १, १०, २, १,

-व्याय काश्रौ २, ३, ३८;
आपश्रौ, -व्यास आश्रौ ५, ६,
१^२, ७^२, ११^२, -व्ये आश्रौ ४,

a) दैवीम् इति पाठः^२ यनि शोघ [तु. तैत्रा १०, ४१, १, ०. च]। b) = गायत्री-विशेष-।

c) पामे वैप १, १६१२ k द्र। d) पामे. वैप १, १६०८ h द्र। e) = छन्दो-विशेष-। f) तु पाका । दे^०

इति भाखडा. प्रमृ ?। g) <दैवीं धियम् (मा ४, ११) इति। h) पूष = [दैवविवाह-परिणीता-] स्त्री-।

i) = ज्योतिर्-विद्-। j) विप । बस । k) षज- इति जीस । l) = कर्म-विशेष- [तु ZDMG ५३, २२६]।

m) तस्येदमीयष् ठक् प्र । n) यज्ज्यौ प्र । वैप १ द्र । o) पामे. वैप १, १५७८ b द्र । p) पामे.

पृ १२६२ v द्र । q) पामे. वैप २, ३खं दैव्यम् तैत्रा १, २, १, १५ टि. द्र. ।

११,६, आपश्रौ, -व्येन आपश्रौ
४, ६, ४, ७, २^१, बौश्रौ, या ५,
१४, ८, १८, -व्यैः आपश्रौ ६,
१, ६, बौश्रौ, -ऽव्यौ ऋअ २,
१, १३, वृदे २, १४९, ३, ११^२,
या ७, ३०, ८, १२^२, -व्यौ शाश्रौ
७, १०, १२

दैव्यो(व्य-उ)पसृष्ट- -ष्टेन
अप ७२, ५, ४

†देव-ऋषि- -षिभ्य शागृ ६, ६,
१६, -षीन् आमिगृ २, ६, ३, ३६
देव-ऋषि-पितृ-मनुष्य- -व्येभ्य
शागृ ६, ६, १६

देवऋषिपितृमनुष्य-पूजिन्-
-जी वैध १, ७, ३

देव(क>)का^२, °विका^२-
पाउमो २, २, ७^०, पावा ७,
३, ४५^०, -विका आपश्रौ १३,
२४, ५^१, २४, १२, ३, बौश्रौ
१४, १९ १^१, २१, २६ १५,
भाशि १२७^१, -विकामि माश्रौ
३, ३, ४, ५०, -विकासु माश्रौ ५,
२, ७, ११

दाविक- पा ७, ३, १

रदैविक- -कानि हिश्रौ
९, ६, १७

देविका(का-आ)दि- -दिषु
पावा ७, ३, १

देविका-प्रभृति- -तिभिः
वाश्रौ ३, ४, ५, ३२

देविका-हविस्- -विभिं
बौश्रौ १०, ५९ : २१, १२, २० :

२६××, -विषा वैताश्रौ २४,
१३^{१०}, -विषाम् बौश्रौ २१,
२६ : १२, २२, १२ १३××,
माश्रौ, -वींषि आश्रौ ६, १४,
१५, शाश्रौ ९, २८, १, काश्रौ
देव-कर्मन्- -र्माणि शाश्रौ १, १,
६, १३

†देव-का(म>)मा- -मा^०
आपमं १, १, ४, पागृ
देव-कार्य- -र्याणि आज्यो २, ५
†देव-किखिब- -षात्^१ आपश्रौ
७, २१, ६, बौश्रौ ४, ७ २५,
भाश्रौ ७, १६, १३, हिश्रौ ४, ४,
४४, द्राश्रौ ४, २, २, लाश्रौ २,
२, ११^{११}

देवकीय- पागवा ४, २, १३८
देव-कुल- -ले कौगृ २, ७, २१,
शागृ २, १२, ६, कागृ १९, ३,
अप ७०^२, २३, ११

देवकुला(ल-आ)यतन- -नानि
कौगृ ३, ११, १५

देव-कृत^२- -तम् आश्रौ १, ७,
७^१, शाश्रौ १, १२, १^१,
बौश्रौ, -†तस्य आश्रौ ६, १२, ३,
शाश्रौ.

देव-खात्^१- -ते अप ४२, १, २,
वैध २, १३, ८^६, -तेषु शंघ
१००^२

†देव-ग^१- -गम् कौसू ७२, १८
देव-गण^२- -ण साअ १, ५२४,
या ११, १९, १२, ४१, -णा
मागृ २, १३, ६^{११}, अप २२,

७, ३, वृदे ६, १५६, साअ १,
४४५, या २, २२, ५, ४××;
-णान् वृदे ४, ३६, -णानाम्
शाश्रौ १४, ७२, ४, आमिगृ १,
२, २ : १२, हिगृ २, १९, १;
-णेभ्य निसू ७, १ ११, -णैः
अप ३१, १, ३

देव-गत- -तम् या १०, २८
१देव-गन्धर्व^२- -र्व आमिगृ १,
५, ४ : ४१^{१०}, भागृ १, १७ :
१५^{१०}, हिगृ १, २४, ६^{१०}, ऋअ
२, १०, १३९, शुअ २, १, २२;
-वौ बौगृ १, ४, ५^{१०}

२देव-गन्धर्व- -र्वाः आपध १,
२०, ६^{१०}, -र्वै अप १४, १,
१०.

देव-गन्धर्व-यक्ष- -क्षा अप
६८, १, ४९

देव-गम- -गम् बौध २, ८,
१६

देव-गव^२- -वा आपश्रौ ११, ७,
६^१

देवगवी- -वी आपश्रौ ४,
१०, ४, भाश्रौ ४, १५, २, वैश्रौ
६, १२ ७, हिश्रौ ६, ३, २;
-वीभिः गो २, २५, -व्यः
गो १, १४

देव-गुरु^१- -रुम् अप १, ३८, १,
अशा ८, १, -रो वृदे ६, ११३;
आज्यो ८, ६

देव-गुरु-धार्मिक- -क्रेभ्य गौघ
९, ६४

a) वप १, १६१६ b, c द्र. । b) = अप्परो-विशेष- वा नदी-विशेष- वा । c) तु पागम ।
d) पाठः ? °वींषि इति शोध. (तु शाश्रौ c च) । e) पाभे वैप १, १६१६ f द्र । f) पाभे वैप
१, १६१६ j द्र । g) एव किं इति पाठ ? यनि शोध. । h) वैप १ द्र । i) पाभे वैप १, १६१६ m द्र. ।
j) = प्राकृतिक-जलाशय- । k) तु. BI । देवा इति रज्ञा । l) उप <√गम् । m) पाभे वैप १,
१६२८ a द्र । n) कस. (तु ऋ १०, १३९, ५ दिव्यं गन्धर्वं) । o) सपा °वै <> °वौ इति पाभे
p) पाभे. पृ १२६० c^१ द्र. q) = बृहस्पति ।

देव-गुरु-विप्र-वृत्-क्षीर-दधि-
मृत्-तोय-समिद्-दर्भा(र्भ अ)मि-
वनस्पति- -तीन् वैध ३, १,
१५
देव-गुरु-स्नातक-दीक्षित-राज-
गो-श्रेष्ठ- -छानाम् वैध ३, २,
११
देव-गृह- -हम् आमिगृ २, ६,
२ ३, बौव २, ५, २, -हे
आमिगृ २, ६, ४ : २३, ७, ११
६, ३, ११, ४ ३, वाध ६,
१७, १०, १३, -हेषु अप ७२,
४, ४
देवगृह-प्रतिश्रयो(य-उ)छाना-
(न-आ)राम-सभा-प्रपा-तटाक-
[, डाग^१] पुण्यसेतु-सुत-विक्रय-
-यम् शंघ ४१६, ४४७
देवगृह-मार्जन- -नात् विध
९१, १८^b
†देव-गो(प>)पा^०- -पा या
११, ४६, अप्रा २, २, १५^d
देव-गो-विप्रा(प्र-अ)मि- -मीन्
वैव ३, ३, ५
†देवं-नाम, मा^०- -मम् आपश्रौ
१, ५, ३, ४, बौश्रौ, -माम् आश्रौ
१, ८, ७, शाश्रौ १, १३, ४,
-मायाम् आश्रौ १, ९, ५, शाश्रौ
१, १४, १६.
देव-चोदित- -ता अप ७०^c,
७, २
देव-छन्दस्- -न्दसाम् वाधूश्रौ
४, १०० ४, -न्दासि निसू १,
६ ११

देव-च्छन्दस्^०- -सानि वाधूश्रौ
४, १०० ३
देव-जन^०- -†ना कौसू ६६, १६,
अग्र ९, ७, १५, ३, -नेन अप
१०, १, १९†, -नेभ्य गोश्रु ४,
८, ३, द्राश्रु ३, २, १०, कौसू
७३, ५†
देव-जा^०- -जा. या १४, १९†
†देव-जात, ता^०- -तस्य या ९,
३, -ता^० अप ३२, १, २४, अशा
१९, १, -ताय बौश्रौ ६, १६ .
१३
†देव-जातु^०- -तवे आपमं २,
२१, ६, ७
देव-जामि- -मय ऋग्र २, १०,
१५३, साअ १, १२०, १७५, अग्र
२०, ९३, -मिभ्य कौसू ७४,
१०†
†देव-जूत, ता^०- -तम् आश्रौ ७,
१, १३, या १०, २८, -ता
आपश्रौ ६, २०, २^e
देव-जूति^०- -पाग ६, २, ४२,
-†ति^१ बौश्रौ ३, ३ : १९,
हिश्रौ ३, ६, २७
†देव-तम- -म आपश्रौ १३,
४, २, १६, ३५, १, बौश्रौ ८, ३ :
१३, वैश्रौ १९, १ . ९, हिश्रौ
९, १, ३४, ११, ८, २१
देव-तर्पण-पूर्वक- -कम् अप
३८, ३, ८
देव-तस् () वाधूश्रौ २, ८ :
३, वाश्रौ १, ३, ७, २०
देव-ता^०- -पा ५, ४, २७, पाग

५, ४, ३८, -तया †आश्रौ १,
३, २२, २, ३, २५, काश्रौ;
मीसू ८, ३, २, -तयोः बौश्रौ
१८, ३८ : ९, -ता †आश्रौ १,
४, १०, ४, ६, ३, शाश्रौ, या १,
१७†, २, ८, ७, १५, २३,
१०, १७, पा ४, २, २४, -ताः
आश्रौ १, ३, ६, ५, २४××;
शाश्रौ, आश्रु ३, ५, २१^f;
या २, ८, ७, ५××, -तानाम्
आश्रौ ३, ४, १५, ४, २, ३;
आश्रौ, आपमं १, ४, ७†, आश्रु
१, १३, ६†, पाश्रु १, ५, ११†;
आमिगृ १, ५, २ : ५०†, †हिगृ
१, १९, ७†, आपध १, ३१,
५†, या १, २०, २, १३××;
-तामि शाश्रौ १, १६, ७, १५,
१४, ६, आपश्रौ, या ११, १२;
-ताभ्य शाश्रौ ६, २, २, १४,
५७, २०, आपश्रौ, माश्रु २, १२,
६†, हिगृ १, ६, ५†, -ताम्
आश्रौ १, ३, २०, ६, ३××, काश्रौ;
या १३, १३, -ताया आपश्रौ
१९, २१, ५, २४, ४, १, हिश्रौ;
या ७, ४, १३, १, -तायाम्
वाधूश्रौ ४, २८^g १, अग्रभू १;
या ७, १, पावा ३, २, १३५;
मीसू ६, ३, १९××, -तायाम् ऽ-
तायाम् बौश्रौ २१, ८ : २३;
-तायै आश्रौ ३, १३, १४;
शाश्रौ, या ८, २२, -तासु आश्रौ
३, १०, १९, शाश्रौ १, १७,
५, ३, २०, १५, आपश्रौ १, १०,

a) प्रथमस्थलीय पाठ । b) देवायत्तनमा^० इति जीस । c) वैप १ द्र । d) पामे वैप १,
१६१७ e द्र । e) पामे वैप १, १६१७ p द्र । f) विप. । बस उप भावे √जन् + डातु प्र उरसं.
[पाठ १, ७८] । g) = देव-स्वसु- [तु सा] । h) सपा देवजामिभ्यः <> देवताभ्य इति पामे । i) पामे.
वैप १, १५७२ k द्र । j) वैप १, १६१८ h द्र । k) तहे^० इति जीस । l) पामे. वैप १ परि. देवतायाम्
खि २, ११, १ टि द्र । m) पामे पृ १२६१ s द्र. । n) पामे पृ १२६१ b^१ द्र. ।

६१^३, १^३बौश्रौ ३, ११ : २१,
१९ १३××, भाश्रौ १, ९, ११^३,
हिश्रौ २, ७, ५०^३, या ८, २,
-ते आश्रौ ३, १३, १८, आपश्रौ,
-१^०ते काश्रु ३, ८, भाश्रु २,
२२ ११, माश्रु १, २, १६
दैवत^३- पा ५, ८, ३८,
पाग २, ४, ३१, -त आश्रौ
१४, ४, -तम् आश्रौ ३, २, ११,
५, १८, ९, काश्रौ, या १, २०,
७, १^२, १४, १, -तयो निस्
६, ७ ५, -तस्य आपश्रौ १६,
८, ४, बौश्रौ २५, २ ११, २९,
३ ११, हिश्रौ ११, २, १८,
-तात् आपश्रौ १४, १२, ४,
-तान् आमिश्रु २, ४, ११ २०,
-तानाम् आपश्रौ ७, २४, ५,
माश्रौ १, ८, ५, २०, हिश्रौ ४,
५, ३, आमिश्रु २, ६, ५ १८,
-तानि आपश्रौ ७, २२, ६××,
बौश्रौ, -ताय आपश्रौ १५, ३,
६, भाश्रौ ११, २, २७, वैश्रौ
१३, ४ : १, हिश्रौ २४, १, १६,
-ते आश्रौ २, १४, २४, शाश्रौ,
कौस् ६, ३४^०, -तेन आश्रौ ३,
७, ४××, शाश्रौ, या १, १७,
-तेभ्यः भाश्रौ २, १९, ४, माश्रौ
१, ३, ३, ३, हिश्रौ २, २, १३,
-तेषु आपश्रौ ७, २४, ६××,
वैश्रौ, -तैः माश्रौ १, ८, ५, २९,
माश्रु
दैवत-ज्ञ- ज्ञः वृदे
१, २
दैवत-प्रधानत्व-

-त्वात् आश्रौ ६, ७, ४
दैवत-योनि^१- नय
अप ६३, १, ४
दैवत-विद्^०- -वित्
वृदे ८, १३९
दैवत-सौविष्टकृतै (त-
ऐ)ड- डेषु आपश्रौ ९, १९, ९
दैवत-सौविष्टकृतै (त-
ऐ)ड-चातुर्धाकारणिक- -कानाम्
आपश्रौ २, २१, ४.
दैवत्य^१- -स्ये द्राश्रु ३,
४, २७
दैवत-लक्ष(ण>)णा^१ड-
-णाः आश्रौ २, १४, १८
दैवता(ता-आ)ख्यान- -नम्
अप्रा २, १, १०
दैवता-गण- -गै- अप १,
३७, ३, अशा ७, ३
दैवता(ता-आ)गम- -मे
आश्रौ २, १, २२
दैवता(ता-आ)गार- -रम्
वैष १, ११, ७
दैवता(ता-आ)गिन-शब्द-कि
या,(या>)थ- -यम्^३ मीस् ६,
३, १८, -याः^१ काश्रौ १, ६, ६,
-याणाम्^१ वैश्रौ २०, १ ४
दैवता-ज्ञान- -नम् कौस्
७३, १९, -नात् शुभ ४, १५८
दैवता(ता-आ)णूक- -कम्
बौश्रु २, १, २८
दैवता-तस्(.) शाश्रौ १, १६,
१५
दैवता-तर्पण- -गम् शध
११०

दैवता(ता-आ)तिथि- -धीन्
वाध १४, १३
दैवता(ता-आ)तिथि-भृत्य-
-स्यानाम् विध ५९, २६
दैवता(ता-आ)त्मन्- -त्मन
वृदे १, ३४
दैवता-त्रय-व(त् >)ती-
-स्यौ वैश्रौ ११, ३ : १०
दैवता(ता-आ)दि- -दीनाम्
अप ६४, ५, ९
दैवतादि-तस्() अश्रु १,
३, उनिस् २ : २४, पिं ३,
६२
दैवता(ता-आ)देश- -शात्
काश्रौ ९, ६, १६
दैवता(ता-आ)देशन- -नम्
शाश्रौ १, २, १९, आपश्रौ १०,
१, १४, हिश्रौ २, २, ४१, ३, ८,
६२, -नस्य आपश्रौ १०, ३०, ९.
दैवता-द्वन्द्व- -न्द्वानि शुभा
२, ४८, -न्द्वे अप ४८, १४८,
अप्रा ३, ४, २; शौच ४, ४९,
पा ६, २, १४१, ३, २६, ७, ३,
२१, पावा ६, ३, २५.
दैवता(ता-आ)धिकार- -रात्
उनिस् ७. ३७
दैवता(ता-आ)ध्यात्म^१-
-त्मे या १, २०
दैवता-नक्षत्रा(त्र-आ)दि-
सबद्ध- -द्धम् शंघ २१
दैवता(ता-आ)नपनय- -यः
मीस् ११, २, ३२^६
दैवता-नामन्- -म शाश्रौ
१, १७, १४, १५; या १, २०;

a) पाभे वैप १, १६२० a द्र । b) विप, नाप । c) उत्तरेण इतिना सधि । तु सपा आश्रु १,
३, १० । d) विप. । बस. । e) उप < √दिव् । ज्ञाने । f) स्वार्थे ष्यञ् प्र । g) पूष छान्दसो हस्त्व-
। तु भाष्यम् । h) समाहारे द्वस । i) द्वस. । j) पाठः^१ दै^० इति पाठः समुचितः (तु. स्क. B.N.M.) ।
k) *ताऽपनय- इति गङ्गा । *तानय- इति जीसं.; द्रव्यदैवता^० इति शबरः प्रश्रु ।

—मानि बौश्रौ ६, ६ : ५
 देवतानाम-चोदना (न-
 अ)र्थ- -र्थस्य मीसू २, १,
 १४
 देवतानामा(म-आ)देश-
 -शम् गोगृ १, ७, ३
 देवता-नामधेय- -यम्
 शाश्रौ १, १, ३७, हिश्रौ १०,
 १, १८, -यस्य शाश्रौ ६, १,
 १५, -यानि लाश्रौ ८, ९, १,
 वृदे १, १७, या १०, ४२
 देवता-निगम- -मा आपश्रौ
 २४, ४, १८
 देवता-निमित्त-त्व- -त्वात्
 मीसू ३, ३, ४१
 देवता(ता-आ)नुपूर्व्य-
 -र्व्यम् शाश्रौ ३, ७, ७
 देवता(ता-अ)न्त- न्तात्
 पा ५, ४, २४
 देवता(ता-अ)न्तर- -रम्
 मीसू १०, १, १७, -रात् मीसू ३,
 २, ४०, -रे अप्राय ४, १, मीसू
 ११, ४, ३२, -रेषु निसू ३,
 १२ : २४
 देवता(ता-अ)न्तरय- -ये
 आपश्रौ ९, १६, ९
 देवता(ता-अ)न्यत्व-
 -त्वात् काश्रौ ५, १, ८, -त्वे
 मीसू १०, ४, ४८
 देवता-पद^३- -दम् लाश्रौ
 ७, ५, १५^३
 देवता(ता-अ)पनय- -यस्य
 मीसू ६, ५, १७
 देवता-पृथक्त्व- -त्वात्
 मीसू ९, ३, ४५
 देवता-प्रतिमा- -मा अप

७०^३, २३, १
 देवता-प्रभृति- -तिना बौश्रौ
 १७, ३७ ४, -तिभि बौश्रौ
 १७, ३७ ७, -तिभ्याम् बौश्रौ
 १७, २२ : १०^b
 देवता-भाजू- -भाक् वाधूश्रौ
 ४, २६ २५,
 देवता-भाव- -वात् मीसू ५,
 ४, १९
 देवता(ता-अ)भिधान-
 -नम् आपध १, ३१, ४, हिघ
 १, ८, २३, या १, २०
 देवताभिधान-त्व-
 -त्वात् मीसू २१, १३
 देवता(ता-अ)भिसुख- -ख.
 विध १४, ३
 देवता(ता-अ)भिसयोग-
 -गात् मीसू ११, १, ५२.
 देवता-भेद- -दे मीसू ११,
 २, २४
 देवता(ता-अ)भ्यावर्तिन्-
 -र्ति बौश्रौ २४, ६ . १
 †देवता-मय- -यम् आपश्रौ
 १४, ३३, ८, हिश्रौ १५, ८, ४१,
 अप्राय ६, १.
 देवता-यजमान-पशु-वा-
 चिन्- -चिनाम् माश्रौ ५, २,
 ९, १
 देवता(ता-आ)यतन- -नम्
 कौगृ १, १८, ४, -ने कागृ १८,
 ३, अप ६८, ५, २०, वाध ११,
 ३१, -नेषु अप ४, ६, ४, ६९,
 ७, ३, विध ९१, १९, -नैः अप
 ७०^३, ९, ४
 देवतायतन-श्मशान-चतु-
 ष्यथ-रथ्या- -थ्यासु विध ३०,

१५
 देवता-याग-पूजन- -नम्
 अप ६७, ८, ८
 देवता(ता-आ)राधन-
 -नम् आमिगृ २, ४, १० १.
 देवता(ता-अ)र्चा^c- -र्चा-
 अप ७०^३, ८, ३, -र्चानाम् विध
 २३, ३४, -र्चाम् विध ६३, २७;
 -र्चयाम् विध ६५, १, -र्चासु
 अप ५८ ४, १
 देवता(ता-अ)र्चि^d- -र्चयः
 अप ७२, ३, ११
 †देवता(ता-अ)र्थ- -र्थ मीसू
 ३, २, १३, -र्थम् मीसू १२, २,
 १८^e
 देवतार्थ-त्व- -त्वात्
 मीसू १२, २, ९, ४, १९
 †देवता(ता-अ)र्थ^f- -र्थे
 आपध १, ३, ४३, हिघ १, १,
 ११८
 देवता(ता-आ)र्षा(र्ष-अ)र्थ-
 छन्दस्-तस(ः) वृदे १, १४.
 देवता-लिङ्ग- -ङ्गम् वृदे ८,
 २१
 देवता(ता-अ)वकाश- -शे
 बौगृ २, ८, १६
 देवता-वत् वृदे १, ८१;
 २, १३६, या २, २३^२, २७^३;
 ७, ४, मीसू ३, २, ४१
 देवता(ता-अ)वदान- -ने
 अप्राय ४, १
 देवतावदान-याज्यानु-
 वाक्या-हविर्-मन्त्र-कर्म-विप-
 र्यास- -से माश्रौ ३, १, ६.
 देवता-वाचिन्- -चि माश्रौ
 ५, २, ९, ३

a) समाहारे द्वस. उप. = पाद- । तु निसू ३, ११ : १५, १९ पदद्वैतम् इति। b) °ती° इति पाठः इ
 यनि शोच. । c) षस. उप. [=प्रतिमा-] कर्मणि कृत् । d) उप. = अर्चन- । e) विप. । चस. । f) षस. †

देवता(ता-आ)वाहन- -नम्
 वृदे १, ११९, -नात् आश्रौ
 ६, ६, १३, -नेषु बौश्रौ २७,
 १ ९
 देवता-विकार- -र मीस्
 १०, ४, २९, -रे शाश्रौ १, १६,
 ८
 देवता-विचार- -रा: गोयु
 ३, १०, २
 देवता-विद्- -वित् वृदे ८,
 १२४, १३१
 देवता-विपर्यास- -से काश्रौ
 २५, ५, १८, बौयु ४, ११, १
 देवता-विभक्ति- -क्तयः
 निस् ५, २ ३
 देवता-शब्द- -ब्देषु आश्रौ
 ९, ७, २५
 देवता(ता-आ)श्रय^१- -यम्
 मायु १, १८, २, गोयु २, १०,
 २०, द्रायु २, १, ९, ४, १२,
 -ये मीस् ६, २, २०
 देवता-श्रुति- -ति. मीस् ८,
 १, ३४, ९, १, ९, -ते. काश्रौ
 २५, ५, ५
 देवता(ता-अ)श्वाङ्ग- -ङ्गेभ्य
 काश्रौ २०, ८, ४
 देवता-सद्- -सद्भि. अप
 ६४, ३, ७
 देवता-संप्रदान- -ने पा २,
 ३, ६१
 देवता-सामान्य- -न्यम्
 बौश्रौ २७, १४ २६, -न्यात्
 काश्रौ १६, १, ३६; मीस् ८,
 २, १०, -न्येन द्विश्रौ ३, ८, २७

देवता-स्विष्टकृत्- -कृद्भ्याम्
 काश्रौ १४, २, १८
 देवता-होम-वर्जम् कायु ५१,
 ४, मायु २, ४, २
 देवते(ता-इ) ज्या- -ज्या
 काश्रौ २५, ४, १४
 देवते(ता-इ)ष्टि- -ष्टिषु काश्रौ
 १९, ६, ६
 देवतो(ता-उ)पदेशन- -नम्
 आपश्रौ ७, १२, ९, २४, ३, १९
 देवतो(ता-उ)पपरीक्षा- -क्षा
 या ७, १, ४
 देवतो (ता-उ) पलक्षणा-
 (ण-अ)र्थ- -त्व- -स्वात् मीस्
 १२, ४, ३
 देव-ताति^२- पा ४, ४, १४२,
 -तये आश्रौ ७, ३, १९, शाश्रौ
 १०, ५, १८, द्राश्रौ, -तया आश्रौ
 ९, ५, १६, आपश्रौ २४, १३, ३,
 अप ४८, ९५, निघ ३, १७, या
 १२, ४४, -तिम् अप्राय ६, ११,
 -तौ या १२, ४४
 देव-तीर्थ^३- -र्थेन शंघ ११०
 देव-तुमुल^४- -लम् कायु ९, ७,
 मायु १, ४, ६, वायु ८, ६^५
 ऋदेव-त्रा आश्रौ २, १९, २४, ५,
 १, ८, शाश्रौ, या ८, ६, २०, पा
 ५, ४, ५६
 देव-त्व- -त्वम् आश्रौ १०, ३,
 १६, ११, २, ९, आपश्रौ, या ४,
 १११, -त्वे विध २०, ३५
 ऋदेव-दत्त^६- -त्तम् पावा २, ४,
 ३२
 दैवदत्ति-> ^७त्य(ति-अ)-

र्थ- -र्थम् पावा ४, १, १६३
 देवदत्त-शठ- (> दैवदत्त-
 शठिन्- पा) पाग ४, ३, १०६
 २देव-दत्त-> (> दैवदत्ति [क])
 का-, °की- पा) पाग ४, २,
 ११६
 देव-दर्श^८- पाग ४, ३, १०६,
 -शै.^१ अप २२, २, ३
 दैवदर्शिन्- पा ४, ३,
 १०६
 देवदर्शिन्^१- -शिनाम् कौस्
 ८५, ७, -शीं चव्यू ४ २
 देव-दर्शन- (> दैवदर्शनिन्-)
 देव-दर्श टि द्र
 देव-दारु^६- -रु वृदे ७, ७८
 ?देव-दाल^१- (> °ली- पा)-
 पाग ४, १, ४१
 देव-दास^६- > दैवदास- -०स
 वैध ४, २, ५
 देवदास-वत् वैध ४, २, ५
 देव-देव- -०व विध ९८, ७,
 -व: वृदे ३, ८८, -वम् विध १,
 ४८, ९८, ५, -तस्य अप ४०,
 २, ७, विध ९९, १, वृदे १,
 १०४, -वा: वृदे ३, १२६, -वे
 विध १, १९.
 देवदेवे(व-ई)श- -०श अप
 ६६, १, १
 देव-देवता-> ^७त्य- -त्य: वृदे
 ३, ११२, -त्यम् या ७, ४, -त्ये
 गोयु ३, १०, २४, -त्येषु गोयु
 ४, ४, २२.
 देव-द्रव्यो(व्य-उ)पजीवक-
 -क शंघ ३७६

a) उप <√दिव् [ज्ञाने]। b) विप । बस । c) वैप १ द्र । d) = [करस्थ-] तीर्थ-विशेष- ।
 e) = अन्न-ध्वनि- । f) तुमु^१ इति पाठ^२ यनि शोधः (तु कायु मायु) । g) व्यप । h) व्यप (तु
 प्रागम) । °शन- इति भाण्डा. पासि. । वेददर्श- इति वामन (तु. पागम) । १) प्रोक्ताध्येत्रथस्य प्र लुक् उस.
 (पा ४, ३, १०७) । j) = दैवदर्शिन्- वृद्धयभाव उसं (पा ७, २, ११७) । k) = वृक्ष-विशेष- । l) तु. पागम. ।

देव-द्रोणी^० - ण्याम् वाध १४, २५
 देव-द्विज-गुरु- -रुन् सुधप ८७
 ५
 देव-धर्म- -मैण या ११, २३
 देव-धि-> °द्वि-, देवध्व(द्वि-अ)
 च्, ञ्- पा ६, ३, ९२
 †देव-नामन्^० - मभि बौश्रौ
 ९, ९ : ४, -मन् अप १, ४०, ४,
 अशा १०, ४
 देव-निर्माल्या(ल्य-अ)पनयन-
 -नात् विध ९१, १७
 देव-निर्मित- -†त् आगृ ४, ७,
 ८, आगृ ३, ३, १ . २८, बौपि
 २, ९, ६, ११, ३, गौपि २, ३, १८,
 -ता अप ५५, १, २
 देव-निश्रे(णि>)णी^० - णी जैगृ
 २, ८ : २६
 देव-निश्रय(ण>)णी^० - णी
 बौध ३, ९, १८
 देव-नीति- पाग ६, २, ४२
 देव-नीध^० - थम् वैताश्रौ ३२,
 २८.
 देवनीथा (थ-आ) दि-सं-
 (ज्ञ>)ज्ञा^० - ज्ञा वृदे ८, १०१
 देव-नृप- -पात् अप ५८^२, ४, १५
 देव-प(ति>)त्नी^० - त्नायः वृदे
 २, १२, ३, ९२, या १०, ४७,
 -त्नीः आपश्रौ २, ५, ७××,
 बौश्रौ, या १२, ४६†, -त्नीनाम्
 माश्रौ १, ३, ५, ४, वाश्रौ १, ३,
 ७, ६, वृदे २, १४३, चाअ १६
 ७, -त्नीभ्य आपश्रौ ३, ९, ६,

११, -त्न्यः अप ४८, १३९†,
 वृदे २, ७८, ५, ४५, निघ ५,
 ६†, या १२, ४४, ४६, -त्न्याः
 भाश्रौ २, ५, ८, -त्न्यौ या ११,
 २९, ३१
 देवपत्नी-स्तव- -व. ऋअ २,
 ५, ४६.
 देव-पथ- पा, पाग ५, ३, १००
 देवपथीय^० - यानाम् चाअ
 ४० १९^{१६}, ४२ : १३
 देव-पवित्र- -त्रम् बौश्रौ २७,
 १२ ११, १२^२, १३, आपघ
 २, ३, ९, हिघ २, १, ४०
 †देव-पात्र- -त्रम् आपश्रौ १,
 १४, ३, -त्रे गौपि २, ३, १७
 †देव-पान^० - न आश्रौ १, ३,
 ६, ४, ७, ४, शाश्रौ १, ४, २१, ५,
 १०, २३, बौपि १, ६ २
 देव-पितृ- -तर अप ४३, ५,
 ४०, -तृन् शध ११९
 देवपितृ-कर्मन्- -र्म विध
 ६६, १
 देवपितृ-कार्य- -र्यम् शंघ ४०
 देवपितृ-तर्पण- -णम् विध
 ६४, २४, २६
 †देवपितृ-बर्हिस्^० - °हिं
 बौश्रौ २५, ३ : २, वैश्रौ ९, ४
 ५, हिश्रौ ५, ४, ६
 देवपितृ-यज(न>)नी-
 -°नि^१ आपश्रौ ८, १३, ६, हिश्रौ
 ५, ४, ६, -न्थै बौश्रौ २५, ३ : ३
 देवपितृ-वत्- -वत् हिश्रौ
 ५, ४, ५

देवपितृ संयुक्त- -क्तानि बौध
 १ ५, १२
 देवपितृ-सदा(दा-आ)हि-
 क^१ - क अप ४४, २, ४.
 देव-पितृ-नर- -रेभ्य शागृ २,
 १४, १९
 देव-पितृ-भूत-मनुष्य(ष्य-ऋ)
 र्धि-पूजक- -क बौध २, ११,
 १७
 देव-पितृ-मनुष्य- -ष्यान् गौध
 ११, २९, -ष्येभ्य वाध ९, १२.
 देवपितृमनुष्या (ष्य-अ)
 पार्थक^० - कम् काश्रौ १६, २,
 १३
 देव-पितृ-मनुष्य-ऋषि-भूत-
 पूजक- -कः गौध ५, ३
 देव-पितृ-मनुष्य-भूत-ब्रह्म-
 -ह्यणाम् गौध ८, १५
 देवपितृमनुष्यभूतब्रह्म-यज्ञ-
 -ज्ञान् काध २७० : ३
 देव-पितृ-मनुष्य-भूत(त-ऋ)र्धि-
 पूजक- -कः गौध ३, २९
 देव-पितृ-मनुष्य-यज्ञ- -ज्ञाः
 गौध ५, ९
 देव-पीयु^० - यु अअ ५, १८†;
 -युम् या ४, २५
 †देव-पु(त्र>)त्रा^१ - -त्रे आश्रौ
 १, ७, ७, शाश्रौ १, १२, १;
 आपश्रौ १०, ३, २, भाश्रौ १०,
 १३, ३
 देव-पुर^० - पुर वाश्रौ १, २,
 १, ३३, -पुरम् बौश्रौ १५, १९.
 ६^१, -पुरा आपश्रौ २२, २४, १^३.

- a) उप = [स्नानार्थं कलशाकार-] पात्र-विशेष- । b) वैप १ द्र । c) = सोपान- । परस्पर पाप्मे ।
 d) = मन्त्र-विशेष- (=शौ २०, १३५, ६-१० [तु ऐवा ६, २५]) । e) बस. > कस. । f) विप.
 (तारक-) । भवार्थे छ>ईय प्र । g) °थाणाम् इति पाठ ? यनि शोध. । h) पाप्मे वैप १, १६२२ ५
 द्र । i) पाप्मे वैप १, १६२४ k द्र । j) विप । बस । k) विप । चस. । l) = देवयजन-^१ ।
 m) = दशरात्र- (तु तां २२, १७, २, ३) ।

देव-पुर,रा^a- -रा आपश्चौ १४,
२६, १, अप ३२, १, १५^b,
अशा २४,१
‡देवपुरा(र-आ)दि^c-
-दिभि. अप १, ३७, ५, अशा
७,५
देवपुरीय^d- -य अप ३२,
१,१५
देवपुरीय-गण- -गः
अप ३२,१,१५
देव-पूजा-> °जा-संगतकरण-
-णयो पावा १, ३, २५
देवपूजा-संगतकरण-मित्रकरण-
पथिन्- -थिषु पावा १, ३, २५
देव-पूजि(त>)वा- -ताम्
अशा १, २
देव-पूर्व^e- -र्वान् विध २१, १२
देव-प्रतिमा-भेदक- -क विध
५, १७४
देव-प्रतिष्ठा-> °ष्ठा-विवाह-
-हयो विध २२, ५३
देव-प्रत्यक्ष- -क्षम् निस् ६, ७
३१
देव-प्रवाद^f- -दाः भाश्चौ ८, १५,
७, -दे वैश्चौ ९, ४ ३
देवप्रवाद-मन्त्र- -न्त्रम्
हिश्चौ ५, ४, ५
देव-प्रश्न- -श्नेभ्यः आपध २,
११, ३, हिध २, ४, १९.
देव-प्रसादन- -नेन अप १, ६,
१०, ७, २; ३
देव-प्रहित- -तेन बृदे ३, ८६

देव-प्रीत- -तम् या १०, २८
‡देव-प्रेरित^g- -त^h आश्चौ ३,
१४, १३
‡देव-प्रेषित, ता- -त^h आपश्चौ
९, १६, ११, भाश्चौ ९, १९, ८,
अप्राय ४, २, -ता बौश्चौ २,
११ : ३
देव-प्रेष्य- -ष्यम् अप ७०ⁱ,
१०, ६
देव-बन्धु^j- -न्धुम् दवि १, ११,
-न्धो चाअ ३० २०^k
‡देव-बर्हिस्^l- -र्हिः आपश्चौ १,
३, १२^l, ४, ८^l, बौश्चौ १, २ :
१०^l, १२^l, १३ : १७, ६,
३० ६, भाश्चौ १, ३, १२^l,
४, १^l, वैश्चौ ३, ४ ६^l, ९^l,
हिश्चौ १, २, ३२^l, ४१^l, ८, ४
देव-ब्रह्मन्- -ह्मणोः पा १, २,
३८, पावा १, २, ३२, ३८
देव-ब्राह्मण- -णान् विध ३, ७६
देवब्राह्मण-क्रोशक- -क शध
३७७ १
देवब्राह्मण-जुष्ट- -ष्टम् वैश्चौ
१२, ४ ३
देवब्राह्मण-पूजन- -नम्
विध २, १७
देवब्राह्मण-संस्थित- -तम्
शंघ ३००
देवब्राह्मण-संनिधि- -धौ
विध ९, ३३
देवब्राह्मण-सपन्न- -न्नम्
वाध ११, ४१

देवब्राह्मणा(ण-आ)क्रोशक^m-
-क विध ४५, १५
देवब्राह्मणा(ण-अ)पहारिन्-
-री शंघ ३७७ ३
देव-ब्राह्मण-गुरु-बभ्रु-दीक्षित-
-तानाम् विध ६३, ४०
देव-ब्राह्मण पितृ-भूत-मनुष्य-
यज्ञ- -ज्ञान् आमिगृ २, ७, १० :
७
देव-ब्राह्मण-शास्त्र-महात्मन्-
-त्मनाम् विध ७१, ८३
‡देव-भक्तⁿ- -क्तम् आपम २,
११, २८
‡देव-भाग- -गम्^o आपश्चौ
१, २, ६, बौश्चौ १, १ १२;
भाश्चौ १, २, १५
२देव-भाग^p- -ग. आश्चौ १२,
९, १८
देव-भीति- -पाग ६, २, ४२
देव-भूत-पति- -तिभ्य शंघ
३३५
देव-भूत-पितृ-ब्रह्म-मनुष्य-
-ष्याणाम् कप्र २, ३, २
‡देव-भोजन^q- -नौ अप १, ४१,
३, अशा ११, ३
देव-मत^r-> दैवमति- -पाग २,
४, ६१, -तय बौश्चौ ११-७.
दैवमतायन- -पा २, ४,
६१
दैवमत्य^s- -त्या बौश्चौ
३ ११.
देव-मनुष्य^t- -ष्या. जैगृ १,

a) वैप १ द्र. । b) =मन्त्रगण-विशेष- । °पुरीय- इति संस्कृते टि शोष १ । c) विप. । बस पूफ.
=देवता- इति संस्कृते टि । d) =मन्त्रगण-विशेष- । तस्येदमर्थोयः छ>ईयः प्र. । e) विप । बम । f) तुस (तु.
BI. आन , वैतु BC. पदद्वयम्²) । g) सपा. °प्रेरित <>°प्रेषित इति पाभे । h) =ऋषि-विशेष- । i) पाभे.
वैप १, १६२२ ष द्र । j) पाभे वैप १, १५८७ ण द्र । k) °णक्रो इति जीसं । l) व्यु पाभे च वैप १ द्र ।
m) पाभे. वैप १, १६२३ b द्र. । n) उस उप अण् प्र कुर्वं [पा ७, ३, ५३] च । o) विप । उस ।
p) व्यप । व्यु १ । q) यञ् प्र उसं [पा ४, १, १०५] ।

१८. १४, आपध २, १६, १,
हिघ २, ५, १, अघ ८, १०(२)†,
-फल्याणाम् आपधौ १०, २०,
१०, वाधूधौ ४, ९४^२ ४, ६,
हिपि ३ ६, गो २, ३४,
-फ्ल्येभ्य बौधौ ६, ५ ३१,
हिधौ १८, ४, ४१, -ल्येषु फजैगृ
१, १८ ११, १२, १४, १५
देवमनुष्य-स्थान- -नेषु
या १, २०
देव-मातृ- -ता या ४, २२,
-तृणाम् चात्र १४. ५.
देवमातृ-गण- -गान् शंघ
११६ २७
देव-मानुष- -षस्य^३ आमिगृ १,
३, ३ ८†
देवमानुष^३- -षस्य^३ बौधौ
१७, ४० २४, भागृ २, १९ :
१४
देव-मित्र^०- > दैवमित्रि- >
दैवमित्रायण- पाग २, ४, ६१.
देव-मुनि^०- -निः ऋग्र २, १०,
१४६
?देवमृणानिकाकुभ- -भौ अप
१, ४१, ३, अशा ११, ३
√देवयत्^०> देवयत्^०-
-यताम् बौधौ १०, ५२ ८,
-यते बौधौ ४, ३ १०, भाधौ
७, ४, ९, वाधौ २, १, ८, १६,
वैधौ १०, ५ १३, हिधौ ४,
२, ११, -यद्भ्यः^० काधौ ३,
३, १२, बौधौ १, २१. ७, ३,
२० : ६, माधौ १, ३, २, ७,

वाधौ १, ३, ७, २१, -यन्त
आधौ २, ९, १४××, शाधौ,
या ८, १८
‡देवयन्ती- -न्ती वैधौ
१८, ५ ११
देवयु- पाउ १, ३७†, -यवः
अप ४८, ९६^६, निघ ३, १८^६,
नाशि २, ३, ११^६, -यु लाधौ ७,
१२, ४†, -यु ऋप्रा ४, ४९†,
-युम् हिधौ १६, ४, ३५†,
-फ्युवम्^क आधौ १, ४, ११,
शाधौ १, ६, १६ वैधौ १५, ३७
८, -यूनाम् आपधं २, २०, ३२
‡देव-यज्^०- -यजम्^१ काधौ २,
४, २६, आपधौ १, २२, २,
बौधौ, -यद्भ्य^० शाधौ ४, ११,
१, काधौ ३, ३, १२
देव-यजन^०- -न मागृ २, १४,
२^म, -नम् शाधौ ५, २, १, १५,
१४, १, काधौ, माधौ १, २, ३,
३†, -नस्य बौधौ १५, १
५××, भाधौ, -नात् आधौ ६,
१४, २३, आपधौ १०, २०, १०,
बौधौ, -नानि आपधौ १०, १९,
१७, भाधौ १०, १३, ६, माधौ
२, १, १, २, वैधौ १२, ४ ८,
हिधौ १०, १, २८, -नाय मागृ
२, १४, २७†, -ने काधौ १५, ३,
३३, २२, १, ३५, आपधौ
‡देवयजनी- -०नि^०
काधौ २, ६, ९, आपधौ २, १, ५,
बौधौ, माधौ १, २, ४, १०, -न्या
हिधौ १, ६, ७९, -न्यै^० आपधौ

२, २१, बौधौ १, ११ १३;
भाधौ २, १, १३, वैधौ ४, ११ :
१८, हिधौ १, ६, ७८
देवयजन-कल्प- -ल्प, -ल्पम्
बौधौ २५, ५. १
देवयजन-देवता- > ल्य-
-त्सौ शुअ १, २३२
देवयजन-भू(त)>ता^०- -ता
लाधौ १०, १७, १०
देवयजन-मात्र, त्रा- -त्रम्
आपधौ १०, २०, १०, बौधौः
-त्रा वैधौ १२, ४ ४, -त्रात्
द्राधौ १, १, २१, लाधौ १, १,
१९
देवयजनमात्र-देश-
-शम् काधौ ७, १, १२
‡देवयजन-वत्- -वान्
आपधौ १०, २, १०, वैधौ १२,
३ ६, हिधौ १०, १, १३
देवयजना(न-आ)दि- -दि
वैधौ २१, १० ४
देवयजना(न-अ)ध्यवसान-
-नम् आपधौ १०, १९, १५,
हिधौ १०, ३, १८
देवयजना(न-अ)न्तर- -न्तम्
काधौ १५, ८, २
देवयजनो(न-उ)ल्लेखन-
प्रभृति- -ति आमिगृ २, २, १ :
३××, बौगृ.
देव-यजुस्- -जुषोः उनिस् ३ ८.
१देव-यज्- -ज्ः आगृ ३, १,
२, ३, आमिगृ, -ज्म् आमिगृ
२, ६, ७ : २; बौध २, ६, २;

a) परस्परं पाभे । b) स्वार्थे अण् प्र. । c) व्यप । d) वैप १ द्र । e) पाभे वैप १, १६२३ p द्र. । f) < १देव- + √या इति । g) = ऋत्विज्- । h) ष्युव इति लासं । i) स्तोभतया निर्देश. । j) सपा आपधौ २१, १२, ३ विशिष्ट पाभे । k) पाभे. वैप १, १६२९ p द्र । l) पाभे. वैप १, १६२४ f द्र. । m) = विनायक-विशेष- [वैतु भाष्यकृत अदेव इति] । n) पाभे वैप १, १६२४ k द्र. । o) पाभे. वैप १, १६२४ i द्र. । p) = सरस्वत्याख्या-नदी- ।

-ज्ञाय वैगृ ३, ७ ७, -ज्ञेन
आमिगृ २, ६, ५ : १५, बौगृ २,
९, १४, भागृ ३, १५. २४१
२देव-यज्ञ^a -> दैवयज्ञि^a - पाग
२, ४, ६१

दैवयज्ञी-, ज्ञ्या- पा
४, १, ८१

दैवयज्ञायन- पा २, ४,
६१

†देव-य(ज्य>)ज्या^b - -ज्यया
आपश्रौ ४, ९, ९××, बौश्रौ,
-ज्या^c आश्रौ ५, १, ८, या ६,
२२६, -ज्याम् आश्रौ १, ९, ५,
शाश्रौ १, १४, १७, बौश्रौ २७,
७ ५, -ज्यायाम्^d आश्रौ १,
७, ७, शाश्रौ १, १२, १, -ज्यायै
आपश्रौ १, १६, १२, २, ४, २, ६,
१××, बौश्रौ १, ३ : ९, ६ :
१०, १० • ३××, भाश्रौ १,
१२, १××, भाश्रौ, या ६, २२
†देव-यशस^b - स्तेन बौश्रौ १४,
५ १, ५

†देवयशसिन्^b - स्ती बौश्रौ
१४, ५. १, ६

†देव-या^b - -या आश्रौ ६,
११, ११, या १२, ५६

देव-यात^e - पाग ४, २, ५३,
-ता^f बौश्रौप्र ४१ १०

दैवयातक^h - पा ४, २, ५३

दैवयातव- (> १दैवयातवक-)

दैवयात- टि द्र

१देव-यान- (> देवयानक-)

दैवयात- टि द्र

२देव-यान^b - †न शाश्रौ १५,
१७, १ⁱ, आपश्रौ, -नम् हिश्रौ
१८, ४, ४६, -†नाः आपश्रौ
१३, २२, ५, बौश्रौ ४, ११ : १८,
माश्रौ २, ५, ५, २२, वाश्रौ १, ५,
५, ७, पागृ ३, १, २^j, बौगृ,
बौध २, ६, १३^k, -†ना
आपश्रौ १६, १९, ८, माश्रौ,
-†नात् आपश्रौ २१, ४, १,
आमिगृ, या ११, ७, -†नान्
आपश्रौ ४, ७, २, भाश्रौ, -†ने
शाश्रौ ६, १३, २, जैश्रौ १३ : ४,
-नेन बौश्रौ ८, ६ १८†, -†नैः
माश्रौ १, ८, ३, ३, २, ५, ५, २१,
वाधूश्रौ ३, ५५ : २, गौपि २, ५,
१४, अप४४, ४, १२, -नौ निसू
७, ४ १८

†देवयानी- -नी

आपश्रौ १७, ४, ६, वैश्रौ १२, ४
२०, हिश्रौ १२, १, ३५, -नी
बौश्रौ १४, २१ : १२

†देवयान-पितृयाण^k - ङौ

शुभ्र २, ३९०.

देव-युग- -गम् या १२, ४१

देव-योक्त्र- -क्त्रैः वाधूश्रौ ३,
५५ २†

देव-योनि- -निः कप्र १, ७, ११,

अप २२, ६, २, ३

१देव-रथ- -थ आश्रौ ६, ५,

३†, -थम् वाधूश्रौ ३, १४ : २;

-थस्य जैश्रौ १७ : २०

२देव-रथ^l - (> दैवरथायनि-
पा) पाग ४, १, १५४

देव-राज- (> दैवराजक-,
°जिका, °की- पा) पाग ४,
२, ११६, ३, ११८^l

देव-राजन्- -राज्ञाम् निसू ७,
५ ३२

देव-राज-ध्वज- -जानाम् अप
७०^m, १४, २, ७१, १५, ९

देव-राज-ब्राह्मण-ससद्- -सदि
गौध १३, १४

देव-राजा(ज-आ)यतन- -नेषु
शध ३१०

देव-रात^m - -त †शाश्रौ १५,
२४, १, २७, १ⁿ, ऋअ २, १,
२४, साअ १, १५, -ताⁿ

आपश्रौ २४, ९, १, हिश्रौ २१,
३, १२ -ताय, -तेन शाश्रौ १५,
२७, १†

†दैवरात- -०त आश्रौ^o
१२, १४, २, ५, आपश्रौ २४, ९,
२, बौश्रौप्र ३१ १०, हिश्रौ

२१, ३, १२, वैध ४, १, ४

दैवरात-वत् आपश्रौ २४,
९, २, बौश्रौप्र ३१ १०, हिश्रौ

२१, ३, १२, वैध ४, १, ४

दैवराता(त-अ)पर-नामन्^p -
-मा अअ २०, ४५^d

दैव(व-ऋ)र्षि- -र्षि- चाअ १७:

a) = ऋषि-विशेष- । व्यु^१ । b) वैप १ द्र । c) वैप १, १६२४ ङ द्र । d) पाभे वैप १,
१६२५ b द्र । e) नाप, व्यप (बौश्रौप्र) । व्यु^१ । f) १देवयान- इति पाका पासि, देवयातव- इति-
पागम, दैवयातव- इति [पक्षे] पासि । g) बहु < दैवयाति- । h) = देश-विशेष- । i) पाभे वैप २,
३खं सुशेवाः ऐत्रा ७, २३ टि द्र । j) पाभे वैप १, १६२५। द्र । k) एवया^० इति पाठः^१ यनि शोधः ।
l) देव-, राजन्- इति केचित् (तु पागम) । m) वैप २, ३ खं. द्र । n) बहु. < दैवरात- ।
o) दे^० इति पाठः^१ यनि. शोधः [तु. आपश्रौ. प्रम्] । p) = शुन शेष- । q) देवतापर^० इति पाठः^१
-यनि शोध ।

१७; -र्षीणाम् चाञ्च १६ : ८,
 ४१ १७, ४२ : १२, -र्षीन्
 शध ११६ : ३१, बौध २, ५,
 २७
 देव (व-ऋ)र्षि-गो-ब्राह्मणा(ण-
 आ) चार्थं मातृ-पितृ-नरेन्द्र-
 -न्द्राणाम् सुध ८७ ३
 देव(व-ऋ)र्षि-पितृ-ऋण-
 -णानाम् विध ३७, २९
 देव(व-ऋ)र्षि-पितृ-गण- -णेभ्यः
 कौगृ ३, १०, २१
 देव(व-ऋ)र्षि-पितृ-तर्पण-
 -गम् बौध २, ३, ४
 देव(व-ऋ)र्षि-पितृ-पूजा(जा-
 -अ)र्थे- -थेम् वृदे ४, १२६
 देव-लब्ध-वरा(र-आ)काश-
 -क्षे अप ५२, १६, ५
 देव-लाति- पाग ६, २, ४२
 देव-लोक- -कम् आपश्रौ २३,
 १३, १०, बौश्रौ, या १४, ९,
 -का वाधुश्रौ ३, २ : ३, ४,
 ५४ : ९, -कात् या १४, ९,
 -कान् बौध ३, ७, १६, -के
 आपश्रौ १०, ५, ५, २३, ११,
 १४, कौसू ४, १३
 देव-वत् काश्रौ ५, १०, १४,
 २६, ४, ४, कप्र
 †देव-वत्- -वतः आपश्रौ १९,
 १९, ८, बौश्रौ १३, १७ ७,
 माश्रौ ५, १, ६, ७, हिश्रौ २२,
 ३, ७, चाञ्च ४१ १०^६.
 †देववत्-तर- -रम् आपर्म

२, २२, १०, भागृ २, २७ : ४
 †देव-वध- -धेभ्यः कौसू १४,
 २५××, अप
 देव-वर- -रः विध ९९, ६.
 देववरा(र-अ)ग्रत-(स्थ >)
 स्था- -स्था विध ९९, ७.
 देव-वाज^७- > दैववाजेय^८- -यः
 निसू २, २ २१
 देव-वात^९- -त् ऋञ्च २, ३,
 २३, शुञ्च
 देव-वापि^{१०}- (> णीय- पा)
 पाग ५, ३, ११६
 देव विज्ञान- -नम् अञ्च ४, १६
 देव-विप्रा(प्र-अ)ग्निहोत्र- -त्रे
 बौध ३, ३, २०
 देव-विश्- (> शा^{११}- पा)
 पाग ४, १, ४
 देव-विहित, ता- -तम् वाधुश्रौ
 ४, २६^{१२} ३ -ताम् आग्निगृ २,
 ६, ७ : ७
 देव-वी^{१३}- > ष्वी-तम- -म
 बौश्रौ ९, ७ : १†
 †देव-वीति^{१४}- -तये आश्रौ २,
 १६, ७, ३, १३, १३, शाश्रौ,
 -तिम्^{१५} आश्रौ ३, १३, १२,
 वैश्रौ २०, २१ १२, हिश्रौ २२,
 २, १२.
 देव-वृत्^{१६}- -तः शाश्रौ ७, ९, ३†
 देव-वेदमन्- -इमनाम् अप ६४,
 ८, ४
 देव-व्रत- पावाग ५, १, ९४,
 -तानि लाश्रौ ९, २, १७, ९,

१४, वाध २८, १३, शंघ १०५.
 देववतिन्- पावा ५, १,
 १४, -ती शध १३३
 देव-शब्द- -ब्दम् लाश्रौ ८,
 ९, ३, -ब्दस्य वैश्रौ ९, ४ : ४
 देव-शर्मन्^{१७}- पाग ४, १, ९६;
 २, १३८^१
 दैवशर्मि- पा ४, १, ९६.
 दैवशर्मिथ- पा ४, २,
 १३८
 देवशर्मिथ- पा ४, २, १३८.
 देव-शुनी- -नी या ११, २५;
 -नीम् ऋञ्च २, १०, १०८.
 देव-शेष- -षम् वैगृ २, २. १४.
 देव-श्रवस्^{१८}- -वा ऋञ्च २, ३,
 २३, १०, १७, शुञ्च
 †दैवश्रवस- -स आश्रौ
 १२, १४, ३, आपश्रौ २४, ९, ३,
 बौश्रौ ३३. २, वैध ४, १, ६
 †देवश्रवस-वत् बौश्रौ ३३:
 ३; वैध ४, १, ६.
 †देवश्र(वस् >) वो-वत्
 आपश्रौ २४, ९, ३.
 †देव-श्रुत्^{१९}- -श्रुत् माश्रौ २,
 १, १, २४^१, -श्रुत आपश्रौ १२,
 ९, १, बौश्रौ ७, ५ : ३, वैश्रौ
 १५, ८ ९; हिश्रौ ८, १, ८९;
 मैञ्च १६, -श्रुतम् या २, १२^२;
 -श्रुतौ काश्रौ ८, ३, २८, आपश्रौ
 ६, २०, २^३, माश्रौ.
 †देव-श्रू^{२०}- -श्रूः^{२१} आपश्रौ १०,
 ५, ८, बौश्रौ

a) व्यत. इति पाठ १ यनि. शोघ. [तु काठ ११, १२]। b) = ऋषि-विशेष-। c) अपत्यार्थे
 ढक् प्र उस् [पा ४, १, १२३]। d) वैप १, १६२६ k द्र.। e) = आयुधजीविर्संघ-विशेष-। वु ?। f) वैप
 १, १६२६ p द्र। g) वैप १ द्र। h) पाभे वैप १, १६२७ ० द्र। १) तु. पाका पासि.।
 दैवशर्मि-इति भाण्डा.। j) पाभे. वैप १, १६२७ p द्र। k) पाभे वैप १ मद्रश्रुतौ शौ १६, २, ४ टि. द्र.।
 l) नाप. (नापित-)। वैप २, ३खं द्र। m) = सपा. तै १, २, १, १। मै ३, ६, २ तु देवश्रुत् इति पाभे.।
 शिष्टं वैप १, परि द्र।

देव-संयुक्त- -क्ता आपश्रौ ८,
१३, ६, -क्तानि आपश्रु १, १६,
बौश्रु १, ३, ७
‡देव-ससद्- -सदम् आपश्रौ
४, १, ९, भाश्रौ ४, २, १, हिश्रौ
१, २, ५
‡देव सख- -ख आश्रौ १०,
९, २, शाश्रौ १६, ६, १, लाश्रौ
९, १०, ९, वैताश्रौ ३७, १
देव-सख्य- -ख्ये या १, २०
देव-सत्र- -त्रे सु २, २
‡देव-सदन- -नः अत्र ६, ९५,
१९, ३९, -नम् आपश्रौ १, ३,
११, भाश्रौ
देव-सम- -म आमिश्रु ३, ९, ३:
१५, बौषि २, ७, १४
देव-साक्ष्य- -क्ष्ये निसू ३, ८:
२१
देव-सामन्- -म निसू ७, १२.
१४.
देव-सायुज्यक- -क वैश्रु ५, ८
३
देव-सुतो(त-उ)प(मा>)म-
-मम् बुदे ३, १४४
देव-सुमति- -तिम् या २,
११‡
देव-सुरभि- -भिभिः लाश्रौ
१०, ४, १०
देव-सू- -सुवः आपश्रौ २४,
१२, ३; बौश्रौ १०, ५६ ४‡,
-सुवाम् आपश्रौ १३, २४, ८××,
बौश्रौ, -सुवौ चात्र १५: ६,
-सूनाम् आश्रौ ४, ११, ५,
-सूभि वाश्रौ ३, ३, ४, ५०,

-सूभ्य. शाश्रौ ९, २६, १, -स्व.
वाश्रौ ३, ३, १, ६०, ४, १,
५६, -स्वाम् वाश्रौ २, २, ४,
२४
देवसू-देविका-हविस्-
-वीषि काश्रौ ४, ५, १०
देवसू-वत् काश्रौ १५, ५,
३३
देवसू-हविस्- -वीषि काश्रौ
१५, ४, ४, २२, ५, १२
देव-सूति- पाग ६, २, ४२.
देव-सृष्ट- -ष्टः कौस् १२९, २‡,
-ष्टम् अप १, ६, १०; ७, ५.
देव-सेना- -ना कप्र १, १,
११^d, -‡नाः भाश्रु २, ९: १६,
हिश्रु, -‡नाः आपमं २, १८,
४०, ४१, भाश्रु २, ९ १५;
हिश्रु २, ९, ३, -‡नाभ्य आपमं
२, १८, ४०, ४१, आपश्रु २०,
५, भाश्रु.
देवसेना-विजय- -याय अत्र
५, २१
देव-सोम- -मस्य जैश्रौका
१११, १६२
देव-स्त्री- -स्त्रीणाम् अप ७०^३,
१०, ६
देव-स्थान- -नम् निसू ७, ४
४७, ५० ३२, -ने लाश्रौ ७, ५,
१२, अप ७१, १९, २^f
देव-स्पृति- -तय अप्राय २, ९.
देवस्यत्वा (>त्वक- पा) पाग
५, २, ६२
देव-हय-शिशरोध(रा>)२^g-
-रम् दवि १, १

‡देव-हविस्^b- -०वि आपश्रौ
७, १३, ८, बौश्रौ ४, ५: १७,
भाश्रौ ७, १०, ७, माश्रौ
‡देव-हित^b- -तम् आश्रौ ३,
९, ४, ८, ३, १, शाश्रौ
‡देव-हू^b- पाग ४, १, १०५^h,
-हूः आपश्रौ १२, २७, ११,
बौश्रौ
दैवहव्य- पा ४, १, १०५
‡देवहू-तम- -म काश्रौ ५,
१३, ३, -मम् बौश्रौ १, ४:
३०, ५ ११, -मान् शाश्रौ
१०, ४, २, आपश्रौ १६, २६,
१३××, बौश्रौ
‡देव-हृति- पाग ६, २, ४२^g,
-तय या ५, २५^h, -तिम्
शाश्रौ ८, १६, १, १९, १, २०, १,
आमिश्रु ३, ७, १: १९^h, -स्या
वाधूश्रौ ४, २८: २ⁱ, -स्याम्^h
शाश्रौ ४, १०, ३, आपश्रौ १६,
१, ३, पाश्रु १, ५, १०, आमिश्रु
१, ५, २ ३५
देव-हूय^b- पा ३, १, १२३
देव-हेड(,ल¹)न^b- -नः अप २.
४४^l, -‡नम् आश्रौ ३, १३,
१८, आपश्रौ, आमिश्रु २,
४, ४ ९, १८, ७, ५ ७,
बौश्रु २, ९, ५, बौध ३, ७, ११,
१४, -नस्य वैताश्रौ २३, १२;
-नेन कौसू ४६, ३०, ६०, ७
देव-हेति^b- -ति. अत्र १२, ५(४)
देवा(व-अ)गार- -रम् आमिश्रु
३, ११, २: १९; -रे माश्रु १,
७, १०, विध ६८, ४७

a) वैप २, ३खं द्र । b) वैप १ द्र । c) विप । बस । d) = षोडशमातृकाऽन्यतमा- ।
e) = सामन्- । f) = मन्दिर- । g) विप । कस > बस उप. = प्रीवा- । h) = अषि-विशेष- । i) पामे. वैप २,
३खं. तैवा ६, १०, २ टि. द्र । इह ंति. इति शोष- (तु पामे.) । j) ंदूष्या इति संस्कृतेः टि । k) पामे वैप १,
१६२९० द्र । l) आमिश्रु बौश्रु. बौध. पाठः ।

देवाग्नेष्वग्ने^१ हिश्रौ ३,८,५४
 देवा(व-अ)च्- > ऋदेवाची^२-
 -च्या निघ ४,३, या ६,८६
 देवा(व-अ)तिथि^३- -थिः ऋअ
 २,८,४, साअ
 देवातिथि^४- -थम् लाश्रौ ७,
 २,१^५
 देवा(व-अ)त्सन्^६- -त्सा कौसू
 ६५,१४^६.
 देवा(व-अ)दि^७- -दय आश्रौ
 १,८,३, -दीन् कप्र ३,७,
 १७
 देवादि-श्राद्ध- -द्धम् शघ
 २०५
 देवा(व-अ)हत- -तः अप ७०,
 ९६
 देवा(व-अ)द्भुत- -तेषु काय
 ७२,३
 देवाना-शतरात्र- -त्रेण आपश्रौ
 २३,८,११, हिश्रौ १८,३,५
 देवाना-प्रिय- पावा ६,३, २१^८,
 पावाग ५,३,१४^१
 देवा(व-अ)नुग- -गान् कप्र २,
 २,३-८, शघ ११,६ : ४९
 देवा(व-अ)न्त^९- -न्तम् वैगृ २,
 २ : २१
 देवा(व-अ)पि^{१०}- -पिः आश्रौ
 २,१३,८, ऋअ, या २,१०^३,
 ११^{११}, १२^{११}, -पिम् वृदे ८,
 ३, या २,१०
 देवापि-शन्तनु- -नू पाग २,
 २,३१^१

देवा(व-अ)म्नात्- -ताः
 पाग २,१,५९^१
 ✓देवाय पा ७,४,२८
 ऋदेवायत्- -यते आपश्रौ^{१२}
 ७,७,१, १६,३५,५, भाश्रौ ७,
 ५, ५^{१३}, माश्रौ १,७, ३, ४३^{१३},
 वाश्रौ ३,२,२,२८, हिश्रौ^{१४} ४,
 २,१९, ११,८,२३, तैत्रा ३,२,
 -यद्भ्य^{१५}, -यद्भ्याम्^{१५} माश्रौ
 ५,२,१३,१
 देवायु^{१६}- -युवम् आपश्रौ
 १२,२८,११, १६, बौश्रौ ७,
 १८, ५×५, माश्रौ २,४,३,
 ३^{१७}
 देवा(व-अ)यतन- -नानि शाय
 ४,१२,१५, -ने वैगृ ४,११
 ११, १२ १३
 देवायतन-कारिन्- -री विघ
 २१,१०
 देवायतन-श्मशान-शून्या-
 लय- -येषु विघ ६९,७
 देवा(व-अ)रि-बल-सूदन-
 -०न विघ १,४९.
 देवा(व-अ)र्क-चन्द्र-ग्रह-नक्षत्र-
 तारा- -रा वैघ ३,२,१०
 देवा(व-अ)र्ष- -र्षम् शुअ १,
 ५८९, -र्षाणि शुअ १,५३५
 देवा(व-अ)र्ह- -र्हाणि वैश्रौ ३,
 ५. १३
 देवा(व-अ)लय- -ये आमिगृ
 २,५,४ : २, वैघ ३,२,८,६,६,
 -येषु विघ ९९,१०.

दे(व>)वा-वत्- -वान् ऋप्र
 ९,२४^१
 देवा-वृध^{१२}- -वृधम् काश्रौ ६,
 १,३३, वाश्रौ १,६, १, ३^{१३};
 अप्राय ३,१०^{१४}.
 देवा(व-अ)श्व- -श्वा. बौश्रौ
 १७ १^{१५}, या १२,४४.
 देवा(व-अ)सुर- पाग ५,२,६१;
 -रा शाश्रौ १४, २३, १×५;
 बौश्रौ, -राणाम् निसू १, ६ :
 २२, -ऋरान् बौश्रौ १४, १३ :
 ७, भाशि १०५, -ऋरेभ्य मागृ
 १,१०,१५, वागृ १४, १३
 देवासुर- पा ५,२,६१;
 पावाग ४,३,८८,१२५
 देवासुर-च्छन्दस्- -न्दोसि
 निसू १,६० १०
 देवा(व-अ)सुर-प्रजापति-
 -तीनाम् उनिसू ३ : १
 देवा(व-अ)हृति^{१६}- -ति बौषि
 १,१७ १८^{१६}
 देवा(व-अ)ह्वान- -नात् द्राश्रौ
 १,३,११, लाश्रौ १,३,४
 देवे(व-इ)ज्या- -ज्या या १२,
 ५.
 ऋदेवे(व-इ)द्ध- -द्ध आश्रौ १,
 ३,६, ५, ९, १२, शाश्रौ १,४,
 १९, ७,९,३, बौश्रौ ३,१८ २;
 माश्रौ ५,१,४, १३, हिश्रौ २१,
 २,१०
 देवे(व-ई)श- -०श अप ३१,
 १,२, विघ १, ४६×५, -शम्

a) पाठः^१। (हे) देवा[पयः], अग्नेयु, अग्ने इति मंनमनपूर्वक शोच (तु तै १,१,५,१)। b) वैप १ द्र.।
 c) = ऋषि-विशेष-। d) वैप २, ३ख द्र। e) = साम-विशेष-। तेनदृष्टीय. अण् प्र। f) दे० इति
 पाठ^२ यनि शोच। g) विप। बस। h) = देव-पशु- इति पागम, पूर = मूर्ख- इति कैयट [पाग २,४,५६]।
 i) = आशीर्वचन-। j) तु पागम। k) पामे वैप १,१६२३ ० द्र। l) यनि. ऊहप्रक्रियया < देवायतने
 (मे १,२,१५)। m) पामे वैप १, १६२९ ० द्र। n) ०शुद्धम् इति पाठ. १ यनि शोच [तु मास ११,
 ७,२,६]। o) = ऋषि-विशेष-। p) = देव-हृति-। q) पामे वैप २, ३ख देवहृति. तैत्रा ६,१०,२ टि. द्र।

अप ६६, २, २, -शा- शंघ ४५७:
 १५, -शाय वैघ ३, १०, ३
 देवे(व-इ)षु^१ - शु निस् ७, १
 २३
 देवै(व-ए)नस^२ - सत् अत्र १०,
 १
 देवो(व-उक्त >) का- क्ता
 अत्र २०, १०७
 देवो(व-उ)चारण- णेषु बौश्रौ
 २७, १०७
 देवो(व-उ)पसृष्ट- ष्टे अप ७२,
 १, ३.
 २^३देव- (२विश्व-) -वा (-श्वे)
 आश्रौ २, ९, १३, १४, ५, १६,
 १०, ४, १२, १, २^३, बौश्रौ ३,
 १२ : १९×४, अत्र २०, ९२^२,
 -०वाः (-०श्वे) आश्रौ ३, ७, १०,
 ५, १८, १३, कौर्य, -वानाम्
 (-श्वेषाम्) वैश्रौ १५, २२ : १२,
 -वास (श्वे) आश्रौ २, ९, १४,
 शुभ्र १, ४७७
 देवन^३ - नस्य हिश्रौ १३, ५, ३३,
 -ना^४ बौश्रौप्र ४५ ६, -नात्
 आश्रु १, ५, ५, -ने या५, २२^५
 देवन-कर्मन्^६ - मणाम् या
 १४, १३
 द्यूत, ता- पाग २, ४, ३१, -तम्
 बौश्रौ २, ७ - ८^६, बौघ, -ता
 बौश्रौ २, ९ २६^७; -ते द्राश्रौ
 १२, २, २२, लाश्रौ ४, १०, २३;
 विघ ५, १३४

द्यूत-निन्दा- न्दा या ७, ३.
 द्यूत-भूमि- -मिम् काश्रौ १५,
 ७, १३, -मौ काश्रौ १५, ७, १५.
 द्यूत-विजय- -यम् विघ ७८,
 ४१
 द्यूता(त-अं)न्त- न्ते काश्रौ १५,
 ६, २
 द्यूता(त-अ)श्रेष- -षयो पा ३,
 ३, ३७
 द्यून- पा ८, २, ४९
 दिव्-, १, २ दिव-, दिवस्-, दिवस-,
 दिवा- प्रभृ ✓दिव् द्र
 ?दिविप्रक्रान्ते^१ आमिष्ट ३, ५, १ १५
 दिवि-भाग- प्रभृ ✓दिव् द्र
 दिविष्टि^२ - ष्यः आश्रौ ७, १२, ७,
 शाश्रौ ६, ६, ८^३, १०, ६, ६, -ष्टिषु
 अप ४८, ११५, निघ ४, ३, या
 ६, २२
 दिवि-ष्ट- प्रभृ ✓दिव् द्र
 ?दिवोऽछत अत्राय ६, ८
 दिवो-दास^४ - पावा ६, २, ९१, ३, २,
 -सस्य चात्र ७, २
 देवोदास^५ - ०स^६ आश्रौ १२,
 १०, १२, बौश्रौप्र ७ : ४,
 -सम्^७ द्राश्रौ ७, ४, ८, लाश्रौ
 ३, ४, ७, ६, १०, ११, निस् ७,
 ५. ३५, ८, १ : ११, १३, -से
 लाश्रौ ७, ५, १७.
 देवोदास-सुज्ञान- -नयोः
 लाश्रौ ७, १०, ७
 देवोदासि^८ - -सिः ऋअ २, १,

१२७, ९, ९६, साअ
 दिवोदास-वत् बौश्रौप्र ७ : ५
 १ दिव्य, व्या- प्रभृ ✓दिव् द्र
 २ दिव्य^९ - व्य ऋअ २, १०, १०७
 ?दिव्यसा अत्र ४, १६
 दिव्यस्त्री- प्रभृ ✓दिव् द्र
 ✓दिश^१ पाधा. तुदा उभ अति-
 सर्जने, दिदिदिदि आमिष्ट २, १,
 ५ १८, या ११, ३२^२कृ
 †दिशामि आपमं १, १३, ५, ६,
 बौगृ ४, २, ११^३, भागृ २, ३१ -
 ११, १३, दिशतु मागृ २, १३,
 ६^४, दिशताम् मागृ २, १३,
 ६^५, दिश आपमं १, ९, ९^६,
 सु १५, ५, हिगृ १, १८, ५, या
 ११, ३२ दिशेत् अप २६, ५, ४,
 †देदिश्यते शाश्रौ १२, २४, २,
 लाश्रौ ९, १०, ६
 दिश^७ - पा ३, २, ५९, पाग ४, १,
 १२३^८, ३, ५४, ५, ४, १०७, दिक्
 आश्रौ १०, १०, १०, शाश्रौ १६,
 ९, १८, २८, २, काश्रौ, या १, ७,
 दिक्षु शाश्रौ ४, १२, ५^९×४,
 आपश्रौ, दिग्भि बौश्रौ २, १० :
 ३^{१०}, वाधुश्रौ, कौर्य ३, १५, ५^{११},
 शागृ ३, १३, ५^{१२}, या ११, ४०^{१३},
 दिग्भ्य आश्रौ २, ४, १३^{१४}, शाश्रौ,
 दिश आश्रौ २, १३, ९×४;
 ५, १३, १४^{१५}, शाश्रौ, आमिष्ट
 २, ६, ८ ४८^{१६}, मागृ १, २२,
 २^{१७}, या २, १५^{१८}कृ, ६, १, ११,

a) = एकाह- [याग-]। व्यु ?। b) वैप १ द्र.। c) ष्वः इति पाठः ? यनि शोषः (तु सपा ऋ ८, ६९, ११)। d) = ऋषि-विशेष-। e) पामे वैप १, ११०८ ० द्र। f) विप। बस। g) विप ([द्यूत-निर्जित-] ओदन-)। h) विप ([द्यूतनिर्जिता-] गो-)। i) पाठः ? यदि, विप्रक्रान्ते इति शोषः (तु बौपि १, १ १३)। j) = साम-विशेष-। k) = ऋषि-विशेष-। व्यु ?। l) या २, १५ परामृष्ट द्र। m) तु. भाग्य. पासि.। दिशा- इति पाका.। n) दिग्भ्य इति पाठः ? यनि शोष. (तु शागृ)। o) पामे. वैप २, ३खं युक्ताः तैना २, ४, ६, ७ टि द्र.। p) उत्तरेण संघिरार्थ.। q) पामे वैप २, ३खं. अयम् मंत्रा १, ६-१४ टि. द्र.।

२८ पा ५, ३, १, ७, ३, १३, पिं३,
५, दिशऽदिशः ऋभाट् २, ३१.
७, ३२ १३, हिट् १, १८, ५^२,
अअ ९, ३, दिशम् आश्रौ १, १२,
४×४, काश्रौ, बौश्रौ छ, ७ २७^०,
या १, ७, ऋप्रा १५, १, ऋदिशा
शाश्रौ छ, ११, ४^०, आपश्रौ १७,
७, ६, बौश्रौ, माश्रौ १, ४, ३, ८^०,
दिशाम् आश्रौ छ, १२, २^८,
शाश्रौ छ, ९, २^८, १२, २०, १,
१४, ८३, १, ८४, ६, आपश्रौ,
दिशि आश्रौ १, ११, ७^०, ८,
१४, १२, शाश्रौ, आपश्रौ छ, १४,
४^०, या ८, १२, दिशे बौश्रौ २०,
३० ११^०, २२, ९ ७, ९, बौट्,
दिशो वैट् १, ११ ३, बौघ
२, १, १४^०, दिशौ आपश्रौ ८,
१३, ५^०
दिशा- पाग छ, १, ४^०,
१२ ३^१, -शा भाश्रौ ११, ४, ५^०.
देशेय- पा छ, १, १२३
दिक्-कुष्ठा^१ - षाम् माश्रौ १, ७,
६, ११
दिक्-चन्द्रमस् - मस अअ छ,
३९
दिक्-चारिन् - रिण. अप ५२,
१, ३.
दिक्-पति- -तिभ्यः शंघ १३२^०,
-०ते विघ ९८, २५
दिक्-पूर्व-पद- -दस्य पावा ५,
३, ३२, -दाव पा छ, २, १०७,
३, ६, पावा छ, १, ६०, ३, ४
दिक्-प्रभृति- -ति शाण्ट् ५,
२, ५
दिक्-शब्द- -दा या ६, २,

१०३, -ब्देभ्यः पा ५, ३, २७,
पावा ६, ३, १०९
दिक्-संयोग- -ग हिपि १३ ८
दिक्-सख्या- -ख्ये पा २, १,
५०
दिक्-समास- -से पा १, १,
२८
दिक्-समास-सहयोग- -गयो
पावा २, २, २७
दिक्-स्तोम^२ - माः आश्रौ ९,
८, २६
दिक्-सक्ति^३ - क्तय. हिपि
१७ १३, -क्ति काश्रौ २१,
३, २७, -क्तिम् हिपि १७
१२
दिक्-जु-अ)तीका(श>)शा^४-
-शा बौश्रौ ६, १ : ११, २५,
५ ९^२, -शाम् बौश्रौ १५,
१ ११
दिग्-भग्नि- -ग्नी काश्रौ १५,
२, ३
दिग्-भनुग्रह- -हाय निसू ५,
७ : १९
दिग्-अन्तर-देश- -शेभ्यः अअ
छ, ४०
दिग्-अम्बर^५ - राः वैघ १,
९, ५
दिग्-आश्रय^६ - याणि या ११,
४१
दिग्-ग्रह- -हाः अप ५२, १२, २
दिग्-घो(<हो)म- -मम् वाश्रौ
३, २, ६, ५२
दिग्-दाह- -हः अप ६८, ५,
१५, -हान् अप ५८, १, १,
-हे वैघ २, १२, ३

दिग्दाह-ज- -जम् अप ५८,
१, १३
दिग्दाह-विद्युद्-उल्का-
-ल्का अप ६८, १, १६.
दिग्दाहा(ह-आ)योग- -गम्
अप ५८, १, ४
दिग्दाहो(ह-उ)पधूपन-
-नम् अप ७२, ३, ५
दिग्-देव(ता>)त^७- -तानि
अप ४१, ५, ७.
दिग्-देवता- -ता वैट् १, ३ :
२२, ४ ६, -तानाम् अप २५,
१, ४, -ताभ्यः गौघ ५, १२.
दिग्देवत्य- -त्यम् वैट् ६,
४ १४, -स्थानि शुअ २, १९३
दिग्-देश-काल- -लेषु पा ५, ३,
२७.
दिग्-युक्त- -क्ताभ्याम् कौसू
१४, २५^०, ५०, १३
दिग्-वासस्^८ - सा. सुघ ५१
दिग्-विदिग्- -दिक्षु अप २५,
२, ३
दिग्-विभाग- -गाः मीसू ३, ४,
१०, -गे अप २१, ४, ३
दिग्-व्याघारण- -णम् काश्रौ
८, ८, ३०, पाग ३, ८, ९.
दिक्-नाग- -गाः अप ६४, ९,
१०, -गान् शंघ ११६. ३३
दिक्-नाद->^९द-पर्वत-प्रपात-
-तेषु वाघ १३, ३५
दिक्-नामन्- -मानि निघ १,
६, २, २५, पा २, २, २६
दिक्-नियम- -मः कप्र १, १, ९.
दिक्-मन्त्र- -मंत्रैः वाश्रौ १, १,
४, २०

a) ष इति पाठः. ^१ यनि. शोघः (तु. भाट् २, ३१ ७, Old. च)। b) दक्षिम् इति पाठः ?
यनि. शोघः। c) पाप्मे वैप १, १६३३ f द्र.। d) पाप्मे. पृ १२२५ l द्र.। e) तु. पागम.।
f) पृ १२७६ m द्र.। g) विप.। बस. उप. =कोष्ण- (तु. ऐआ ५, १, ३)। h) विप.। बस.। i) =दिवकुष्ठा-।

दिष्ट-मुख^a- -खम्^b आमिष्ट ३,
३, १. २१
दिशाम्-अवेष्टि^c- -ष्टिः बौश्रौ
१३, १ १५, -ष्टिभिः माश्रौ ५,
२, ७, २३, वाश्रौ ३, ३, ४, ३१,
-ष्टी शाश्रौ ९, २८, १६७,
-ष्टे हिश्रौ १३, ३, ११, -ष्टया
आपश्रौ १८, २१, ८, २२, २५,
१३, बौश्रौ १२, १९ : १, १८,
५ १६, ६ १७, माश्रौ ५,
२, ७, २३, वाश्रौ
दिशो-दण्ड- पावा ६, ३, २०
१दिश्य- पा ४, ३, ५४, -श्य.
कौसू १२७, २, -श्यस्य कौसू
१२७, ६, -श्या आपम २, १७,
८१, आगृ २, १, ९१, हिगृ २,
१६, ६१, कौसू ६६, ८, -श्यान्
कौसू ८, ३, ५१, ३, -श्यानाम्
शागृ ४, १५, १५, हिगृ २, १६, ४,
-श्यै आपश्रौ १४, १७, १,
हिश्रौ १५, ५, १.
२दि(श्य >)श्या^d- -श्या
काश्रौ १७, ९, २, आपश्रौ १७,
२, २, बौश्रौ
दिशन्- -शान् आपश्रौ ४, १०, ४,
भाश्रौ ४, १५, ३, हिश्रौ ६, ३,
२, नाशि १, ६, १२५, -शन्ता
या ८, १२७
दिष्ट- -ष्ट अप ७०^e, ६, ८, -ष्टम्
शाश्रौ १८, २३, ५, वाधुश्रौ ३,
४ : ७, ११. ४, पा ४, ४,
६०^f, -ष्टे मीसू १०, २, ५५^g
द्वैष्टिक- पा ४, ४, ६०
दिष्ट-गमन- -नात् हिपि १३
१, २० ६.

दिष्ट-शख^a- -खम् शाश्रौ १७,
८, ३
१दिष्टि^b- -ष्टिः बौश्रौ १७, १९.
६१^c, -ष्टीः कौसू ५०, ७, -ष्टया
कौसू ५०, ५.
दिष्टि-कुदिष्टि-वितस्ति-निसुष्टय-
(ष्टि अ)रलि-पद-प्रक्रम- -मा
कौसू ८५, २
दिष्टि-वितस्ति- -स्त्योः पा ६,
२, ३१
देश^d- -शा आपश्रौ २०, १३, ११,
हिश्रौ १, १, ६३, आगृ, या ६,
३२, -शाम् वैश्रौ १०, ३ ४,
हिश्रौ १, ७, २०, शागृ, या १३,
३, -शस्य काश्रौ १५, ४, १७,
माश्रौ ४, ६, ३, हिश्रौ, -शा
काश्रौ २६, ७, ८, अप, पा ३, ४,
७, -शात् आपश्रौ २, ५, ८,
भाश्रौ, या ६, ३, -शान् काश्रौ
५, १०, ४, लाश्रौ, -शानाम् जैगृ
२, ९ : २१, मीसू ११, २, २७,
-शाय तैप्रा १, ५९, -शे शाश्रौ
४, १४, ६, १३, ११, २, आपश्रौ,
आपध २, ३, १५^h, पा १, १,
७५, ३, ३, ७८, ४, २, ५२, ६७,
११९, ५, २, १०५, १३५, ६, ३,
९८, ८, ४, ९, पावा ३, २,
४८, ४, २, १०४ⁱ, -शेऽशे
आपध २, ३, १८, हिध २, १,
४८, -शेन शाश्रौ १७, १३, ९,
द्राश्रौ ३, १, १२, ४, ३१, लाश्रौ
१, ९, १३, १२, १७, -शेभ्यं बौगृ
२, ८, ३३, -शेषु आपश्रौ १३,
२३, ४, वाश्रौ २, २, ३, ७, अप,
-शौ आपश्रौ १२, १३, ८; या १, ७

देश-काल- -ल्यो वैश्रौ २०,
१ : ५, -लौ काश्रौ १, ७, ५;
वाध ११, २८, बौध २, ८, २२.
देशकाल-तस्() वृदे २,
११८
देशकाल-संनिकर्ष- -र्वे शाश्रौ
१३, २४, १४
देशकाल-समायुक्त- -क्तम्
अप ७०, ११, १
देश-काल-द्रव्यप्रयोगसंग्रह-नि-
मित्त-ज्ञान-कुशल- -लः
शध २४४
देश-काल-द्रव्या(व्य-अ)नुपप-
त्ति- -त्तिः बौश्रौ २९, ८ २.
देश-काल-वर्म-वयो-विद्या-
स्थान-विशेष- -षै वाध १९, ९.
देश-काल-शक्ति-संपन्न- -न्नः
शध २५३
देश-कुल-धर्म- -र्माः आपध
२, १५, १, हिध २, ३, ३१.
देश-जाति-कुल-धर्म- -र्माः
गौध ११, २२, -र्मण गौपि १,
१, ११
देश-तस्() आमिष्ट २, ६, ७ :
५, आपध २, १५, १२, हिध २,
३, ४६.
देश-द्रव्या(व्य-अ)नुरूप- -पम्
शध ३२०
देश-धर्म- > ^oर्म-जातिकुलधर्म-
-मान् वाध १९, ७
देशधर्म-जातिधर्म-कुलधर्म-
-मान् वाध १, १७
देश-नाश- -शाय अप ७०^o, ८, १.
देश-प(र >)रा^o- -रा अप ७०^o,
११, १६

a) विप. । बस । b) वा. क्विचि । c) = इष्टि-विशेष- । d) वैप १ द्र. । e) = प्रमाण- इति पाका., = भाग्य- इति पाशे. प्रय । f) दिष्टगतौ इति जीसं. । g) = प्रादेश-प्रमाण- इति केशवः । h) = ब्रह्माण्ड आज्ञा- (तु. सा. [तां २५, १८, ४]) । i) सपा देने सस्कारः <> देशसंस्कार इति पाभे. ।

२०, वैगृ, -हान् अप ४०, ६, ६०, विध २३, ५१, -हान् बौश्रौ २५, २९ ७, ८०, आपशु ७, १३, हिद्यु २, ६३, -हे आमिगृ २, ७, ७ २०, अप ३८, ३, ५, विध २०, ४९, ९९, १४^२, या ३, १७

देह-स्याग- -न विध १६, १८

देह-त्व- -त्वम् आपध २, २४, २, हिध २, ५, १६७

देह-नाश- -श. अप ७०^२, ८, १

देहा (ह-अ)ङ्-सन्धि- -न्धौ वैगृ ३, १९ : ११

देहा (ह-अ)नित्यत्व- -स्वात् काश्रौ १, ६, १८

देहा (ह-अ)न्त- -न्ते अप २२, १०, ५, वाध ४, ३२, अअ ८, १

देहा (ह-अ)न्तर-प्रासि- -सिः विध २०, ४९.

देहिन्- -हिन् अप ६८, १, ७, विध २०, ४९, -हिनाम् अप ३८, ३, २, बौध ४, ५, २३, विध २२, ८८, ५१, ७२, आज्यो १४, ९, -ही विध २०, ५०

२देह^२ (> ंही- पा) पाग ४, १, ४१

√दी (=√डी [विहायसा गतौ]) > दीयत्- -यन् या ६, ७०

√दी (दीप्तौ), दीद्यस्व आपश्रौ ६, १३, ११

√दीद्यति अप ४८, २०, निघ १, १६, √दीद्यत्^० काश्रौ ६, ४, ३, आपश्रौ ११, १९, ८, बौश्रौ ४, ६ १२, ७, ९ : १८,

या १०, १९^०, दीदायत्^० माश्रौ २, ३, ६, १७, शौच ३, २२, ४, ८९, √दीदित् शाश्रौ ८, २२, १, या ७, २४, √दीदिहि आश्रौ २, ४, १९, ८, ९, ७, शाश्रौ

√दीदाय आश्रौ २, ४, १९, आपश्रौ, हिश्रौ ७, ८, ४३^०, √दीद्यासम् काश्रौ ४, १४, ३०, आपश्रौ.

√दीदिदासि^० आपश्रौ ६, १३, १०, ११, भाश्रौ ६, १४, ८

√दीदिदामेसि^० हिश्रौ ३, ७, ११२

दीदिदाय आश्रौ २, ४, १९, वाश्रौ १, ५, २, ५१

दीदि- > √दीद्य(दि-अ)मि^०-

-०मी आपश्रौ २१, ७, १६, वाश्रौ ३, २, २, १, हिश्रौ १६, ३, ३५, माश्रौ २, ४, २, ११

√दीदितृ- -ता^० वैश्रौ २, ९ ९

√दीदिवस्^०- -०व आश्रौ २, १, २५, बौश्रौ ३, ८ : ३०, माश्रौ ६, २, २, २१, वाश्रौ २, २, २, ४, कौसू ६८, ३१, शुप्रा ४, ७४, -वांसम् माश्रौ २, ५, ५, २८, तैप्रा १६, १३, -वान् हिश्रौ २१, १, २

√दीद्यत्- -द्यत् आश्रौ ३, १२, २७, शाश्रौ, हिश्रौ १५, ३, २^०, अप्राय ५, १, -द्यत्^० आपश्रौ ९, ८, ८, बौगृ १, ६, १८, -^०द्यन्तस्^० बौश्रौ १३, ४३ : १४

दीद्यान, ना- -नः बौश्रौ २, १७ :

२६^०, -नाम् आपश्रौ २२, १७, १०, हिश्रौ १७, ६, ४४, अप ६४, ३, २

√दी^० पाधा दिवा आत्म ल्ये, दीयति, दीयते^० निघ २, १४^०.

दीन^०- पाठ ३, २, पा ८, २, ४५;

पाग ५, १, १२४, -नः बृदे २, ४६, -नान् बौध २, ७, १९;

-ने या १०, १२^०, -नै विध ६३, १५

दैन्य- पा ५, १, १२४;

-न्यम् बौध २, २, ७८

√दीन-दक्ष^०- -क्षा आपश्रौ ३, १२, १, बौश्रौ ३, ३१ : ३;

भाश्रौ ३, ११, १, हिश्रौ २, ६, १७, आमिगृ १, ५, ४ २०

दीन-वपुस्^०- -पुषाम् अप ६४, ५, २

दीन-विकृत- -ता अप ७०^०, १८, ४

दीना(न-अ)नाथा (थ-अ)न्ध-कृपण- -गान् अप १९^०, ५, ३.

दीना(न-अ)नुग्रह-कर्तृ- -र्ता शध २४४

√दीक्ष^० पाधा म्ना आत्म मौरहये-ज्योपनयननियमव्रतादेशेषु,

दीक्षते शाश्रौ १५, १२, १२; काश्रौ, दीक्षन्ते शाश्रौ १०, १,

१, आपश्रौ, √दीक्षे आपश्रौ १०, १०, ६^०, हिश्रौ १०, २,

१४^०, बौध ३, ८, २१, √दीक्ष-ताम् शाश्रौ ५, ४, १^०, आपश्रौ,

√दीक्षन्ताम् आपश्रौ १०, ११, १^०, हिश्रौ १०, २, १४, अदी-

a) वैप १ द्र । b) पामे वैप १, १६३५ अ द्र । c) पामे वैप १, १६३४ अ द्र । d) पाठ^० सपा. √दीदिदासि <> √दीदिदामेसि <> दीदिता, मे, असि इति पामे । e) दीयत् इति पाठ^० यनि शोचः (तु सपा मै ४, १०, २) । f) परस्परं पामे । सपा काठ २, १५ तैप्रा २, ४, १, ४ दीद्यत् इति । g) पा ६, ४, ६३ परामृष्टः द्र । h) लघु-शाखीय पाठः । i) विप । बस । j) पा ३, २, १५३ परामृष्ट द्र । k) सकृत् दि^० इति पाठः^० यनि शोचः ६

क्षत वाधुश्रौ ४, २२. २, ७,
अदीक्षन्त वाधुश्रौ ४, २६ : २१,
दीक्षत आश्रौ १०, ७, ११, शाश्रौ,
दीक्षेयाताम् अप ३७, ८, १,
दीक्षेरन् आश्रौ १२, ६, २, १५,
शाश्रौ
दिदीक्षे आपश्रौ १३, २१, ३^१,
निसू ८, ४ : २९, ऋदीक्षिष्ट
आपश्रौ १०, ११, ५, बौश्रौ
दीक्षयते वाश्रौ ३, २, १, १२,
दीक्षयति काश्रौ १२, २, १५,
आपश्रौ, दीक्षयन्ति आपश्रौ
१८, २०, १२××, बौश्रौ,
ऋदीक्षयामि आपश्रौ १०, ११,
१^०, ऋदीक्षयतु आपश्रौ १०,
१०, ६^०, हिश्रौ १०, २, १४^०,
ऋदीक्षयन्तु आपश्रौ १०, ३, ८,
दीक्षयेत् काश्रौ २५, ११, १९,
आपश्रौ, दीक्षयेयु आश्रौ ६,
१०, २५, १२, ८, २५, वाधुश्रौ
३, १०६ : ७
अदिदीक्ष वाधुश्रौ ३, ४१ : ६,
२४
दिदीक्षाण- -णा० निसू ५, १३, २३.
दीक्षण- -णम् वैताश्रौ ३६, २५,
-णात् द्राश्रौ १४, १, ६, लाश्रौ
५, ५, ४, कप्र ३, ५, ५, -णे बौश्रौ
२१, ८ : ३२
दीक्षणा(ण-आ)दि- -दि आश्रौ
४, १, १०, १२, ८, २
दीक्षणादि-रात्रि-सख्यान-
-नेन आश्रौ ४, २, १३
दीक्षणा(ण-आ)नुपूर्व्य- -र्च्येण
शाश्रौ १३, १४, ३
दीक्षणीय, या^०- -यम् वाधुश्रौ

४, ३२. ६; १११. १, हिश्रौ
१३, ४, २०, -यया बौश्रौ २६,
२८ : ३, -यस्य वाधुश्रौ ४,
३८ ६, ९७ १, -या शाश्रौ
५, ३, १××, आपश्रौ, -याम्
काश्रौ ७, २, २८, आपश्रौ,
-यायाः काश्रौ २०, ३, ८,
आपश्रौ, -यायाम् आश्रौ ४, २,
१, काश्रौ, -यायै बौश्रौ १०,
१२ : १३××
दीक्षणीया(या-२आद्य>)-
द्या^०- -द्या जैश्रौका ३४
दीक्षणीया-पुस्वसस्कारा-
(र-आ)शीर्-वर्जम् काश्रौ
२५, १३, ४२
दीक्षणीया-प्रभृति- -ति
शाश्रौ ८, १२, ९, काश्रौ ८, १,
४, हिश्रौ १०, २, ६८, -तीनि
माश्रौ ५, २, १६, १, हिश्रौ १६,
१, ३६.
दीक्षणीया-प्रायणीया(या-
आ)तिथ्या-देवता- -ताः काश्रौ
४, ५, ९
दीक्षणीये(या-इ)ष्टि-कर्मन्-
-र्मणि जैश्रौका ३९
दीक्षमाण- -णः बौश्रौ २५, २९ :
१०, -णम् आपश्रौ १०, ११,
११, हिश्रौ १०, २, १४.
दीक्षयन्म्^१ काश्रौसं २७ १०
दीक्षयित्वा शाश्रौ १३, ११, १,
आपश्रौ
दीक्षा- पाग ५, २, ३६, -ऋक्षया
आश्रौ ४, २, ३, आपश्रौ १०, १०,
६^१××, बौश्रौ, -क्षा शाश्रौ ५,
२, ४××, काश्रौ, माश्रौ २, १, २,

३६^०, -क्षा आश्रौ ४, २, १३××;
शाश्रौ, -क्षणांम् आपश्रौ १०,
८, १, बौश्रौ, -क्षामि बौश्रौ
१७, २७:७, -क्षाम्य. माश्रौ २,
१, ३, २०, ६, १, ४, ४०, हिश्रौ;
-क्षाम् आश्रौ ४, २, ३^१, शाश्रौ;
-क्षायाम् आपश्रौ १८, २०, १४;
हिश्रौ १३, ७, ३, -ऋक्षायाम्
माश्रौ ३, ६, २^१, द्राश्रौ; -क्षायै
आपश्रौ १३, २१, ३^१, बौश्रौ;
-क्षाम् आश्रौ १२, ८, २९;
शाश्रौ, -ऋक्षे काश्रौ २५, ११,
२५^०, बौश्रौ ६, ६ : २२^०××.
दैक्ष^१- -क्ष आपश्रौ १०,
१६, १५^१, हिश्रौ १०, ४, ११^१;
द्राश्रौ २, १, १७, लाश्रौ १, ५,
१४, -क्षम् बौश्रौ २५, ७ : ८;
माश्रौ, -क्षस्य बौश्रौ २५, २८ :
२०, २२, मीसू ७, १, १३;
-क्षा निसू १०, ९ २, ६;
-क्षाणि बौश्रौ २५, ७, ६, भाश्रौ
१०, ९, १४
दैक्ष-पञ्च-वत् वैश्रौ १५,
१ : २
दीक्षा-कल्प- -ल्पाः वैश्रौ १२,
२ : ६, हिश्रौ ११, ५, १६, -ल्पे
हिश्रौ १०, ३, २, -ल्पेषु आपश्रौ
१६, १३, ५, वैश्रौ १८, ११ २१;
हिश्रौ ११, ५, १७
दीक्षा-काल- -लस्य मीसू ६, ५,
३८, -ले काश्रौ १२, १, २१;
२, १०.
दीक्षा-कय-प्रसवो(व-उ)त्थान-
-नानि लाश्रौ १०, १, १.
दीक्षा-तपस्- पाग २, २, ३१^१;

- a) सकृत् दीक्षा^० इति पाठः ? यनि शोधः । b) विप, नाप (इष्टि-) । c) विप । बस. ।
d) पाठ ? दीक्षा, अयनम् इति द्वि-पद शोधः संभाव्यते । e) सपा. दीक्षा <> दीक्षे इति पाठे. ।
f) तस्येदमीयः अण् प्र । g) तु पागम. ।

४, १४, -फपसी बौश्रौ १४, १ :
 ७, ८, तैप्रा ४, १७, -फपसो
 काश्रौ ७, २, १६, शुभ १, २३७
 दीक्षा-दक्षिण^० - गम् मीस् ३,
 ७, ११
 दीक्षा(क्षा-आ)दि- -दि काश्रौ
 २२, ३, २७, ६, २, -दि लाश्रौ
 १०, १३, १
 दीक्षा(क्षा-आ)नुपूर्व- -वेंगद्राश्रौ
 १, ४, १५, लाश्रौ १, ४, ११
 दीक्षा(क्षा आ)नुपूर्व- -व्येंग
 द्राश्रौ ७, ४, ४, लाश्रौ ३, ४, ३
 दीक्षा(क्षा-अ)न्त- -न्ते आश्रौ
 ४, २, १८, काश्रौ
 फदीक्षा-पति- -ति बौश्रौ ६,
 १९. ५, भाश्रौ १२, १, ३, हिश्रौ
 १०, ३, ३१, वैताश्रौ १३, १९^b
 दीक्षा(क्षा-अ)पराध- -धे मीस्
 ६, ५, ३५
 दीक्षा-परिणाम- -मे हिश्रौ ७,
 १, ७१.
 दीक्षा-परिमाण- -णम् माश्रौ ६,
 ४, ३७, -णे आपश्रौ १६, १४,
 १, वैश्रौ १८, १२ ४, हिश्रौ
 ११, ५, २४, मीस् ६, ५, २८
 फदीक्षा-पाल^० - लाय आश्रौ ४,
 २, ३^d.
 दीक्षा-प्रतिहास- -स लाश्रौ ९,
 ५, ५
 दीक्षा-प्रभृति- -ति काश्रौ ७,
 १, २१, द्राश्रौ
 दीक्षा(क्षा-अ)भिसंबन्ध- -न्धात्
 मीस् ५, ३, २९
 दीक्षा-भेद- -दे वाध २१, ३२
 दीक्षा-योग- -गम् वाधूश्रौ ३,

८३. २.
 दीक्षा(क्षा-आ)रम्भ- -म्भे काश्रौ
 १४, १, १२
 दीक्षा-रूप- -पम् निस् १०,
 ११ : २०, -पाणि काश्रौ २४,
 ७, ३, २५, ११, १४
 दीक्षा-लिङ्ग- -ङ्गम् वैताश्रौ १३,
 १८
 दीक्षा-वत् काश्रौ १९, २, २९,
 पाठ २, २, १३, मीस् ११, ३, २०.
 दीक्षा-विधान- -नात् मीस् ३,
 ७, ३७
 दीक्षा-विसर्ग(र्ग-अ)र्थ- -त्व-
 -त्वात् मीस् ११, ४, १९.
 दीक्षा-व्रता(त-अ)भाव- -वात्
 काश्रौ २०, ८, २०
 दीक्षा(क्षा-आ)हुति, ती- -तय
 वैश्रौ १२ ८. २, -तिभ्य वाश्रौ
 २, १, २, १७, ३, ४, १, ४७, -तिषु
 बौश्रौ १६, २ ६, -ती आपश्रौ
 १०, ८, ५, बौश्रौ, -तीनाम्
 बौश्रौ २१, ८ ४४, -तीभ्य.
 आपश्रौ १०, ८, ४, १६, ८, १३
 दीक्षाहुति-काल- -ल
 आपश्रौ २०, ८, ७, हिश्रौ १४,
 २, २७, -ले हिश्रौ ११, ३, २,
 १४, २, २५
 १दीक्षित- पा ५, २, ३६
 दीक्षो(क्षा-उ)पसद्- -सत्सु
 आश्रौ १२, ८, २७, बौश्रौ २३,
 १२ २३, २९, ११. १, द्राश्रौ,
 -सद्: आश्रौ ७, १, २, १२, ६,
 ३, काश्रौ, -सदाम् लाश्रौ १०,
 ११, ८, मीस् ११, ४, २१,
 -सद्भि बौश्रौ २६, ३३ २२

दैक्षोपसद^० - दान् लाश्रौ
 १०, १०, ६
 दीक्षो(क्षा-उ)पसत्-प्रसव-संस्थो-
 (स्था-उ)स्थान- -नानाम् आश्रौ
 ८, १३, ३४
 दीक्षो(क्षा-उ)पसत्-सुत्य-
 -स्थानि काश्रौ २४, ५, ८
 दीक्षो(क्षा-उ)पाय- -यः वाश्रौ
 २, १, ३, १९
 २दीक्षित- -फं०त् काश्रौ ७, ४,
 १४, १७, आपश्रौ, -तः आश्रौ
 ४, ८, १८x४, शाश्रौ, हिश्रौ
 १५, ७, १६^f, -तम् शाश्रौ
 १६, २०, ७, आपश्रौ, -तयोः
 ऋश्च २, १, १६६, -तस्य काश्रौ
 ७, १, २८, ४, २४, आपश्रौ,
 -ता माश्रौ २, १, २, ७^f, वैश्रु
 ५, ९ : ४, -ता. आश्रौ २, १६,
 २१x४, शाश्रौ, -तान् आपश्रौ
 २१, ३, ११, वाधूश्रौ ४, ३७
 ९, द्राश्रौ ७, ३, ७^f, -तानाम्
 आश्रौ ४, २, १२, ६, ९, १५
 काश्रौ, -ताय काश्रौ ८, २, २,
 २६, ७, ३३, वैश्रौ १२, १३ २;
 हिश्रौ ७, १, ६४, -ते आपश्रौ
 २२, ३, १, माश्रौ ६, १, ४, ३८,
 लुसू १, १ २१, चाञ ४२ : ९,
 -तेन बौश्रौ २८, ९ २५, -तेषु
 आश्रौ ४, ७, ४, -तैः बौश्रौ २९,
 ५ १०, वैश्रौ २१, १६ ९
 दीक्षित-ऋत्विग्-ब्रह्मचारिन्-
 -रिण. सुध २०
 दीक्षित-त्व- -त्वम् वाधूश्रौ ४,
 २२ ९, -त्वात् मीस् ६, ५, ३९.
 दीक्षित-दण्ड- -ण्ड हिश्रौ ७,

a) समाहारे द्वस उप = २दक्षिणा- । b) पामे वैप १, १६३७ d द । c) वैप २, ३ख द १,
 d) सपा तैत्रा २, ४, ३, ४ ल्लेभ्य इति पामे । e) = मास- । तस्येदमीय अण् प्र । f) ष्वत्. इति पाठः ?
 वनि. श्लोचः । g) पामे वैप १, १६३७ f द ।

१, ५४, -ण्डम् काश्रौ ६, ४,
५, आपश्रौ, -ण्डस्य बौश्रौ
१८, २४ : ९, -ण्डेन माश्रौ २,
२, ३, १८, जैश्रौ ६ : १२,
जैश्रौका ७७
दीक्षित-द्रव्य- -व्यै आश्रौ
१२, ८, २५
दीक्षित-प्रमीत-प्रायश्चित्त-
-त्तम् हिपि २१ ४
दीक्षितप्रमीतप्रायश्चित्त-वत्
बौपि २, ७, २२.
दीक्षित-प्रमीत-वत् आमिगृ ३,
९, ३ २८
दीक्षित-वसन^a- -नम् काश्रौ
१५, ७, २६, आपश्रौ १०, १५,
१५, -नस्य बौश्रौ १८, २४ :
५, -नात् काश्रौ १४, ५, ४,
-नानि शाश्रौ १८, २४, ४,
हिश्रौ १६, ५, १०, -ने आपश्रौ
८, ८, १७, वैश्रौ
दीक्षितवसन-निवृत्ति- -त्ति
काश्रौ १५, ५, १५
दीक्षित-वाद- -दम् बौश्रौ ६,
६ : १, १४, १ : ४, ६, वैश्रौ
१२, ११. २, -दस्य बौश्रौ
१८, २४ : ९
दीक्षित-विमित- -तात् आपश्रौ
१०, १३, ६, १५, ५, बौश्रौ
दीक्षित-वृत्ति- -त्ति. हिश्रौ १०,
४, ९
दीक्षित-व्यञ्जन^b- -नानि
आपश्रौ १०, १५, १३
दीक्षित-व्रत- -तम् काश्रौ ४,
६, १४, बौश्रौ १८, २४ ४

दीक्षितव्रतिन्- -ती बौश्रौ
२६, ३ : ८, वाधूश्रौ ३, १०५
५
२दीक्षित-व्रत^c- -त शाश्रौ ३,
८, १०
दीक्षित-शाला- -लायाम्
काश्रौसं २७ ११
दीक्षित-संचर^d- -र माश्रौ २,
१, २, ३०, -रेण काश्रौ ७, ९,
२८, माश्रौ
दीक्षिता(त-आ)गार- -रे वैश्रौ
१२, १२ : ६, हिश्रौ १०, २,
२६
दीक्षिता(त-अ)दीक्षित-व्यप-
देश- -श. मीसू १०, ६, ५८
दीक्षिता(त-अ)न्न- -न्नम् वैश्रौ
१२, ४ १४, -न्नस्य लाश्रौ
१०, ११, १४
दीक्षिता(त-अ)भिवादन-
-नम् आश्रौ १२, ८, १२
दीक्षिता(त-अ)वकीर्ण^e- -र्णा
बौश्रौ १८, २५ १
दीक्षिता(त-आ)वेदन- -नात्
वैताश्रौ ११, १२
दीक्षितो(त-उ)स्थित- -ताः
आश्रौ ६, १४, २३.
दीक्षितो(त-उ)ष्णीष- -षस्य
बौश्रौ १८, २४ ८.
दीक्षित्वा आश्रौ ४, १, ८, आपश्रौ.
दीक्षित्व्यत्- -व्यन् वृदे ६, २०
दीक्षित्व्यमाण- -ण आपश्रौ २२,
२३, १६, बौश्रौ १६, ३१
१४, २३, १३ ५, हिश्रौ १७,
८, ३१, -णस्य हिश्रौ ७, १,

१५, -णा आपश्रौ २१, २,
१४, १५, ४, बौश्रौ, -णान्
लाश्रौ ३, ३, ६
दीक्षा- √दीक्ष् द्र
दीक्षावान्ताद्विति अप्राय ६, ४.
१-२दीक्षित- √दीक्ष् द्र
दीदि-, दीदितृ-, दीदिवस्- √दी
(दीसौ) द्र
दीदिवि- √दिव् द्र.
दीद्यत्-, °घान- √दी (दीसौ) द्र.
दीधिति- √धी द्र
√दीधी^f पाषा जु आत्म दीप्तिदेव-
नयो
दीध्यत्-, दीध्यान- √धी द्र.
दीन- √दी (क्षये) द्र
दीनार^g- पाउ ३, १४०^h, -राणाम्
अप ३६, २६, ३
√दीप्ⁱ पाषा दिवा आत्म दीसौ,
दीप्यते अप ७०^j, १९, ६, वाघ
२६, १३, अत्र, दीप्यन्ते अप
७१, १२, ५, दीप्यन्ति अप ७०^k,
७, ३, ११, १३^l, दीप्यसे या
१०, १९, दीप्यताम् वागृ ५,
२०, दीप्येत आमिगृ २, ५, २ :
३, बौगृ ३, ६, १, जैगृ, दीप्येरन्
वैश्रौ २१, १८ ४
दीपयति काश्रौ १६, ४, १२;
कौसू १४, ३०, ६०, १, दीपयन्ति
वैश्रौ १६, १८. १०.
दीप^m- पाग ५, १, ४ⁿ, २, ६४, -प-
शंघ २४२, -पम् आमिगृ २,
४, १० १९, बौगृ, -पा अप
१, ३४, ६, -पान् बौगृ ३, ८,
२, -पेन अप ४, ४, ४

a) वैप १ द्र । b) उप = चिह्न । c) विप । बस । d) उप = मार्ग- वा स्थान- विशेष- वा ।

e) कस । f) पा १, १, ६, ६, १, ६, ७, ४, ५३ पावा १, १, ६ परामृष्टः द्र । g) = सुवर्ष्य मुद्रा- । व्यु १ ।

h) < √दी [क्षये] । i) पा ३, १, ६१, २, १५३, ७, ४, ३ परामृष्टः द्र । j) = दीपक- । कर्नरि करसे वा कृत् ।

k) तु भारडा प्रष्ट । पीप- इति पाका ।

१दीप-क- पा ५, २, ६४
 दीप-द्वय- -यम् विध ९०, २०
 दीप-नदी^a- -दी विध ४३, २०
 दीप-निर्वापक- -क विध ४५,
 २१
 दीप-प्रदान- -नेन विध ९१, १५
 दीप-मध्य- -ध्ये विध ९०, १६
 दीप-वत् वैश्रौ २, ६ १२, विध
 ९७, ९.
 दीप-वत्- -वन्तम् बौश्र १, ६,
 २२
 दीप-हारिन्- -री शंघ ३७६
 दीपा(प-आ)दि- -दि कौसू
 ७१, १३
 दीपा(प-अ)पहारक- -कः विध
 ४५, २०
 दीपा(प-अ)पहारिन्- -री शंघ
 ३७७ ७, ३७८
 दीपा(प-अ)र्थ- -र्थे विध ६६,
 ११, ७९, ७
 दीपीय- पा ५, १, ४
 दीपो(प-उ)स्सव- -वम् अप
 १८^३, ६, १
 दीप्य- पा ५, १, ४
 २दीपक- -कै अप ४, ३, १, ५, ६,
 -कौ अप ९, १, ४
 दीपिका- -का जैश्रौका २१५
 दीपन- -नात् या ७, १५
 दीपन-प्रभृति- -ति कौश्र ५,
 ६, ५
 दीपयमान- -ना आश्रु ४, ६, ६
 दीप्त, सा- पाग ५, १, २, -स अप
 ७०^३, २, ५, -सा अप ५८^३, २,
 ४, ७०^३, १५, १, नाशि १, ७,
 १०^b, १४^b, -सा अप १, ३४,

६××, -सात् वैश्रौ १, ४ : १७,
 १०, ५, ५, -साम् नाशि १, ७,
 १३^b, १८^{३b}; -साय गौध २६,
 १२, -प्तायाम् वाधुश्रौ ३,
 ३१-२, -से आश्रिण २, ४,
 १० ३, ११, विध ९९, १२,
 -प्तैः अप ६४, ७, ५
 दीप्त-तेजस्^c- -जसम् वृदे ५,
 ६५, -जाः अप ७०^३, २, २.
 दीप्त-द्विज-मुगा(ग-आ)
 वृत- -ताः अप ५८, १, ६.
 दीप्त-धूम-रजो- -ध्वस्त-
 -स्ता अप ६४, ९, १०
 दीप्त-प्रतीक^c- -का या १०,
 २१
 दीप्त-रूप->^dपिन्- -पिणे
 गौध २६, १२
 दीप्तां(स-अ)श्रु^e- -श्रु अप ५५,
 २, २
 दीप्ता(स-अ)भि- -भि विध
 ९०, १५, २७, ९२, २४
 दीप्ता(स-अ)ङ्ग^e- -ङ्गः अप ६८,
 २, २४
 दीप्ता(सा-आ)यता-करु(ण>)
 णा^b- -णानाम् नाशि १, ७, ९
 दीप्तय- पा ५, १, २
 †दीप्ति- -पितः आपमं २, १०,
 १, काश्र २४, १३, बौश्र १, २,
 ३४, भाश्र २, २४ ११, या
 २, ६४
 दीप्ति-कर्मन्^c- -र्मण या८, १३,
 १०, २९, -र्मा या १४, २४^३
 दीप्ति-(ज>)जा- -जा तैप्रा
 २३, १५
 दीप्ति-तेजस्^c- -जस. अप ६८,

१, ३.
 दीप्ति-नामन्- -म या १, १७
 दीप्ति-नुम्ण^c- -म्णः या१४, २४
 दीप्ति-मत्-तर- -रः वृदे ३, १८.
 दीप्ति-राग-प्रज्वलित- -तानि
 अप ६४, ३, ८
 दीप्तोस् (>) वाधुश्रौ ३, ३१ ४
 दीप्य- -प्यान् बौश्रौ २, १३ २, ३-
 दीप्यमान, ना- -न बौश्रौ १४, ३.
 १४, या १०, ४१, -नम्
 आपश्रौ ९, ६, १२, माश्रौ, -ना-
 अप ७०^३, ११, २९, -नेषु बौश्रौ
 २४, ३१ : १०, -नै. बौपि १,
 १० : १
 दीप्र- पा ३, २, १६७
 दीप्र-चे(ष्टा>)ष्ट^c- -ष्टानाम्
 जैश्र २, ९ : ३
 दीयत्- ✓दी (विहायसा गतौ) द्र
 दीयमान- ✓दा (दाने) द्र
 दीर्घ, घा^d- पाउभो २, २, ६९, पाग
 ५, १, ९७^०, १२२, १२३, -वन्-
 आश्रौ ३, १३, १४, बौश्रौ, नाशि
 १, ८, ३, पा ३, १, ६××, पावा
 १, २, १७××, -वर्म आश्रौ ५,
 १९, ४, शाश्रौ, आपमं १, ८, १०[†],
 पाश्रु ३, २, २[†], ३, ६[†],
 माश्रु २, ८, ६[†], कौसू ४२,
 १७[†], †या २, १६[†], ८, २२,
 ११, ६, ३६, १४, ३६[†], नाशि
 २, २, २, पा १, ४, १२, -वर्ष्य
 आपश्रु १, ८, शौच ४, ७९, -घां
 अप २२, २, २, २६, २, ५, ३, १,
 आपश्रु ५, ९, याशि २, १२,
 -घां बौश्रौ १०, १५-१०,
 २१, ७ ३, कप्र, -घाणाम् वाश्र

a) = नरक-विशेष-। b) = स्वरश्रुति-विशेष-। c) विप । बस.। d) = पारिभाषिकसज्ञा-
 (प्रातिशाख्य-, पा.) । शिष्ट वैप १ द्र । e) अर्थ १ । f) पामे. वैप १, ६९० k द्र । g) पामे. वैप १
 चिन्वम् ऋ १, ९३, ३ टि द्र । h) सकृत् पामे वृ ५४१ b द्र ।

३, १२, पावा १, २, १२, -घाणि
अप ४१, ४, ८^१, ऋप्रा १, २०,
माशि १६, ११, -घात् ऋप्रा
१३, २८, १४, ३०, शुप्रा,
-घाभ्याम् माशि ९, ५, -घात्
काश्रौ २, ५, ७, आपश्रौ, -घे
वाधुश्रौ ३, ६९ ४१, बौशु,
नाशि १, ७, १५, पावा १, १,
५७^२, २, ९^३, ६, ४, ३, पाप्रवा
४, ७, -घेण ऋप्रा ६, १३
दैर्घ- पा ५, १, ९७
दैर्घ्य- पा ५, १, १२३, -घ्यम्
कप्र १, ७, ४
दीर्घ-कण्ठयो(एठय-उ)प (धा>)
घ- -घम् शुप्रा ७, ७
दीर्घ-कर(ण>)णी- -ण्याम् बौशु
३: ३२
दीर्घ-काल- -लम् कागुड ४१ १२.
दीर्घ-काश-तुष-आष्ट-वट- -टम्
पा ६, २, ८२
दीर्घ-कीट- -ट: शंघ ३७७ १९
दीर्घ-ना^०- -नौ भाशि १२
दीर्घ-ग्रहण- -णम् पावा ६, १, १६८,
पाप्रवा ४, ५, -णे पावा १, १,
७०.
दीर्घ-घण्टा-निनाद- -वत् शैशि
३५०
दीर्घ-चतुरश्र, आ^०- -श्रम् आमिगु
२, ५, १. १९, जैगु २, ९ १२,
आपशु २, १५, ३, १, बौशु १ २०,
२ ६××, हिशु १, ३६, ३९××,
-श्रस्य बौशु १ ३४, हिशु
१, १३, -आ हिशु २, १८,

-आणाम् आपशु २१, १२, हिशु
६, ६९, -श्राम् बौशु २: १७
दीर्घ-चतुरस्र[=श्र]- -स्य काशु
३, २, ४, ४, ६, -स्य काशु
१, १७, २, ११
दीर्घ-चतुरस्र-समास- -सेन काशु
४, ७
दीर्घ-जङ्घ^०- -ङ्घा बौशुप्र २५: २.
दीर्घ-जि(ङ्घ>)ङ्घी^१- पा ४, १, ५९
दीर्घ-तपस्^०- -पस चाअ ४२ ७,
-पा: वृदे ८, ६७
दीर्घ-तम^०घ- -म^१ वाधुश्रौ ३, ९४:
७, -मा^१ बौशुप्र १. ३,
-मानाम्^१ वैध ४, ४, ४.
दैर्घतम- -०म वैध ४, ४, ४
दीर्घतम-वत् वैध ४, ४, ४
दीर्घ-तमस्- -मस वृदे ३, १४६,
-मसम् वृदे ४, २१, -मसाम्^१
आश्रौ १२, ११, ४, बौशुप्र १३
१, -मसि वृदे २, १२९, -मा
ऋअ २, १, १४०, ३, २१, वृदे
दैर्घतमस- -०स आश्रौ
१२, ११, ४, बौशुप्र १३ २^१,
-स ऋअ २, १, ११६, -सम्
आश्रौ ५, १८, ५^६, छुसू २, १०.
२२^१, ११: ११^१, या ८, २२^६,
-सस्य लाश्रौ ७, ७, १६^१
दैर्घतमसी- -सी वृदे ३,
१५२
दीर्घतमसो(स -अ)र्क^१- -र्क^३ म
द्राश्रौ ९, ३, १२, १३, लाश्रौ
३, ६, ३२, ३३, निसू, -र्कम्^१
निसू ९, २ ३०, ५. ३१.

दीर्घतमो-वत् बौशुप्र १३ २.
दीर्घ-तस् () भाशि ७९
दीर्घ-ता- -ता अप ४७, ३, ३
दीर्घ-त्व- -त्वम् पावा १, १, १९××;
अप्रा ३, ३, १९^२, याशि २, २३;
-त्वस्य पावा १, १, ३९, -त्वे
अप २२, ४, २, पावा ६, १,
१३××, -त्वेन चव्यू ४: १६.
दीर्घ-त्व-दर्शन- -नात् पावा ६,
४, १६
दीर्घ-त्व-बाधना(न-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ६, १, ८६
दीर्घ-त्व-समापत्ति- -त्ते. अप्रा
३, १, ७
दीर्घ-त्वा(त्व अ)भाव- -व. पावा
७, २, ३७
दीर्घ-त्सरु^०- -रुभि. वाधुश्रौ ३, ८३:
४, -रून् वाधुश्रौ ३, ७६ १४
दीर्घ-दण्ड, ण्डा- -ण्डम् बौशु १५,
१९ १२, -ण्डान् बौशु १५,
१४: ६^२, -ण्डाम् बौशु १५,
१९ १२, -ण्डेन कौसू १५, ४
दीर्घ-दर्शिन- -र्शि शंघ २४४
दीर्घ-दारु- -रुभि बौशु १९, १०:
५६
दीर्घ-धार-त्व^०- -त्वात् मीसू १२,
३, २८
दीर्घ-नलोप-स्वर-णत्वा(त्व-अ)नु-
स्वार-शीभाव- -वा पावा १,
१, ४७
°दीर्घ-नलोपा(प-अ)नुस्वार-शी-
भावे-नकार-प्रतिषेध- -धा
पावा १, १, ४७

a) सपा मनु ४, ९४ दीर्घम् इति पाठे । b) तु पाका । c) उप < √गम् । d) विप,
नाप (आयत-)। e) = ऋषि-विशेष-। बस । f) वैप १ द । g) उप = तमस्-। h) बहु < दैर्घतम- ।
१) बहु < दैर्घतमस- । j) दी^० इति पाठः ? यनि. शोध (तु आश्रौ सस्कर्तु टि. च) । k) = सृक्-
[तन्नामधेय-] । l) = साम-विशेष-। m) सस्थ अर्क इति नेष्टम् । n) सस्थ अर्कम् इति नेष्टम् ।
o) विप । बस । p) त्वे ह्रस्वः (पा ६, ३, ६४) ।

दीर्घ-नीथ^a -थे ऋप्रा ५, ४८[†].
 दीर्घ-पर- -राः ऋप्रा २, ३०
 दीर्घ-प(र्वन् >)र्वा^b -र्वाः अप
 २१, २, ३
 दीर्घ-पा(द्य >)द्या^c -धे बौशु
 १५ : ४
 दीर्घ-पूर्व- -वं ऋप्रा २, २८, १३,
 २२, -वम् ऋप्रा १३, ३३
 दीर्घ-प्रतत-यज्ञ- -ज्ञम् या ५, २
 दीर्घ-प्रतिषेध- -ध पागा ६, १, १,
 ७, ४, ३५, ८, ४, ६८
 दीर्घप्रतिषेधा(ध-अ)र्थ- -र्थम्
 पावा ६, १, १३२
 दीर्घ-प्रयजु^d -ज्युम् या ५, २[†]
 दीर्घ-प्रयुक्त- -क्तेषु काश्रौ १७, २,
 १८
 दीर्घ-प्रसङ्ग- -ङ्ग पावा ३, १, ६, ६,
 ४, १६, ७, २, ८२, ४, ८२
 दीर्घ-प्रसङ्ग^e -ङ्गानि ऋप्रा १८,
 २५[†].
 दीर्घ-प्राण^b -ण आपश्रौ ६,
 २०, २[†]
 दीर्घ-प्लुत- -तयो. शौच १, ३८,
 पावा १, २, २७, -तौ शुप्रा
 १, ६३, पावा १, ४, १
 दीर्घ-प्लुत-प्रतिषेध- -ध पावा
 १, १, ७०
 दीर्घ-प्लुत-वचन- -ने पाप्रवा १, ३
 दीर्घ-भक्ष^d -क्षम् बौश्रौ ७, १५
 ८, ८, ४ : २४, १२ ३६, -क्षा
 बौश्रौ २५, २२, ४, -क्षेण बौश्रौ
 २१, २० १३, २५, २० : २२
 †दीर्घ-म(ध्य >)ध्या^b -ध्या शैशि
 १८३^e

दीर्घ-मात्र-प्लुत^f -ता अप ४७,
 ३, ४
 दीर्घ-सु(ख >)खी^g -[†]खि
 आपश्रौ १५, १९, ४, बौश्रौ ९,
 १८ १६, भाश्रौ ११, १९, १३,
 बौश्रु ४, २, १०, -खी आपश्रौ
 १५, १९, ४^h, भाश्रौ ११, १९,
 १३
 दीर्घ-रोग->दीर्घ-रोगिन्- -गिणि
 शंघ २७०, -गी विध ४५, ३१
 दीर्घ-लघु- पाग २, २, ३१ⁱ
 दीर्घ-वंश- -शम् बौश्रौ १०, ४७ .
 १६x४, वैश्रौ १९, ६. ५८, -शे
 आपश्रौ १७, १२, ७, बौश्रौ,
 -शेन बौश्रौ १२, १८ ९, -शेषु
 आपश्रौ १८, ५, १६, वैश्रौ १७,
 १५ ४
 दीर्घवश-प्रबद्ध- -द्धै हिश्रौ
 १३, २, १०
 दीर्घ-वचन- -नात् पावा ८, २, १०६
 दीर्घ-वत् ऋप्रा १, ४, कौशि २०,
 नाशि २, ३, ७
 दीर्घ-वात्स्य- -त्स्यः बौश्रौ २०,
 १० १६, २१, २० २७x४,
 दीर्घ-विधि- -धौ पावा १, १, ७२
 दीर्घ-वृ(द्ध >)द्धा^l -द्धा नाशि २,
 ४, २^o.
 दीर्घ-वैर- -रम् वाध ६, २४
 दीर्घ-न्याधि- -धे आश्रौ १०, १, ६
 दीर्घन्याधि-ग्रामकाम-प्रजाकाम-
 पशुकाम- -मानाम् काश्रौ २२,
 ९, १७
 दीर्घन्याधि-प्रतिष्ठाकामा(म-अ)
 आद्यकाम- -मानाम् काश्रौ

२२, २, १७
 दीर्घ-शाकल-प्रतिषेधा(ध-अ)
 र्थ- -र्थम् पावा ६, १, ७७.
 दीर्घ-श्रवस्^k -> दैर्घश्रवस्^l-
 -सम् काश्रौ २२, ६, ५, लाश्रौ
 ७, ४, १, छुस्
 दीर्घ-श्रुत्^m -> †दीर्घश्रुत्-तम-
 म आश्रौ ४, ७, ४, शाश्रौ ५,
 १०, ३२
 दीर्घ-सशय- -यात् अप्रा ३, ३, २१.
 दीर्घ-सश्रय^b -यम् पावा १, २, ९.
 दीर्घ-संक्षि(ष्ट >)ष्टा^m -ष्टे बौशु
 १०. ४, २० : १६
 दीर्घ-सत्रⁿ -त्रम् बौश्रौ १४, १३ :
 ३२[†], पाग २, २, १३, भाग २,
 २७ : ७, बौव १, २, ५५, -त्रेषु
 द्राश्रौ ५, २, २, लाश्रौ २, ६, १;
 निस् १, ११ ७
 दार्घसत्र- पा ७, ३, १
 दीर्घसत्र-वत् पापवा ४
 दीर्घ-सधि^b -धिम् उस् ७, ८.
 दीर्घ-सं(ध्या >)ध्य^b-त्व- -त्वात्
 अप ४१, ४, ८
 दीर्घ-सोमⁿ -मे बौश्रौ ६, २८ :
 ३७, वैश्रौ १४, ९ : २, -मेषु
 बौध १, ६, ७
 दीर्घ-ह्रस्व-विवर्जित- -तम् याशि
 २, ३१
 दीर्घा(र्ध-अ)क्षर- -राणि नाशि २,
 ७, ३
 †दीर्घाधि^a ऋप्रा ९, २३, तैप्रा
 ३, ५
 दीर्घा(र्ध-अ)न्त- -न्तम् वैश्रु ३,
 १९ ४, अप्रा ३, ३, २१;

a) वैप १ द । b) विप । बम । c) कस । d) =L दीर्घशब्द-वत्-] भक्ष-मन्त्र- Lतै ३, २, ५, १। e) सपा †दीर्घमध्या<>दीर्घवृद्धा इति पाभे । f) बस > द्वस । g) विप > नाप (सालावृकी-) । बस । h) = टिड्मि- इति रुद्रदत्त । i) तु पागम । j) विप (Lआद्यन्तदीर्घाभ्या वृद्धा-] पिपीलिका- = विवृत्ति-) । k) = ऋषि-विशेष- । बस । l) = साम-विशेष- । m) विप. (इष्टका-) । कस ।

-न्ता अप्रा २,३,६
 दीर्घा(र्ध-अ)प्रसङ्ग- ङ पावा १,१,
 ४८
 दीर्घा(र्ध-अ)भिनिष्ठान- > ण^३-
 -नम् पाग १, १७, २
 दीर्घा(र्ध-अ)भिनिष्ठाना(न-अ)न्त^३-
 -न्तम् वैग ६४ : ५^{२०}, आमिग २,
 १, ५ : २९, आपग १५, ९,
 बौग २,१,२६^{१०} भाग १,२६
 ७, वाग ३,१, हिग २,४,१०^{१०},
 गोग २,८,१४^{१०}
 दीर्घा(र्ध-अ)यु^३-> यु-स्व- -स्वम्
 शाश्रौ १४,१२,२^१,११, आमिग,
 -^१स्वस्य आपश्रौ ४, १५, १,
 भाश्रौ ४, २१, १, हिश्रौ ६,४,
 १८, -^१स्वाय आश्रौ ६, १२, २,
 काश्रौ ५, २, १४^०, आपश्रौ ५, ११,
 ५, ८, ४, १^०, बौश्रौ, आपम १,
 ६, १३^०, २, १, १^१, २^०, ९, २^०,
 कौग १, २१, ८^०, शाग १, २८, ९^०,
 पाग २, १, ९^०, हिग १, ९, १३^०,
 कौस् ४२, २३^६, अशा १९, ४^६,
 अश्र २, ४^६, अपं २ : १९^६
 दीर्घायुत्वा(त्व-आ)दि-
 -दीनाम् शौच ४, १००
 दीर्घायुत्वाय^३ > णा(य-आ)
 दि- -दिषु अप्रा २, ४, ८, शौच
 २, ५९
 दीर्घायु-पत्नी- -नी वाग १४, ३
 १ दीर्घा(र्ध-आ)युस्- -यूषि अश्र ६,
 ७८

२ दीर्घा(र्ध-आ)युस्^३- पावा ५, ३,
 १४, -^१यु आपम १, ५, २^१, ४,
 २, ३, ३१, ७, १९, कौग १, २१,
 १२^१, शाग १, २८, १५^१,
 आमिग, माग १, ११, १२^१,
 हिग १, २०, ४^१, या ४, २५,
 ऋप्रा १४, ४९, -युष निस् १०,
 ९. २१, अप १८, ३, ११
 १ दीर्घायुष्-ट्व- -ट्वाय जैग १,
 ११ ११^०, १८ ८, १०, १२
 दीर्घा(र्ध-आ)रम्भ- -म्भात् पावा
 १, २, ९
 दीर्घा(र्ध-अ)हृन्^३- (> दीर्घाहा-,
 ंह्री- पा) पाग ४, १, ४५^१
 दीर्घा^३√भू> दीर्घा-भाव- -वः
 माशि १०, ६
 दीर्घा(र्ध-उ)स्पल- -ले कौस् ३५, २६
 दीर्घा(र्ध-उ)प(धा>)घ^३- -घ
 ऋप्रा ४, ७४, अप्रा ३, ३, ४^२,
 -घस्य अप्रा २, ४, ९
 दीर्घा- √ट, टृ (विदारणे) द्र
 दीर्घावृत्- दीर्घवृत्-, दीर्घवृत्ति-
 √दिव् द्र
 १ दीर्घा^३ काश्रौ २६, ५, ४^१
 दीस^३- (> दीस्य- पा) पाग ५, १, २
 √दु पाधा भ्वा पर. गतौ
 √दु, दू^० पाधा स्वा पर उपतापे
 दाव^३- पा ३, १, १४२, -वात् बौश्रौ
 १८, १२. १३, -वान् कौस् ४६,
 ५४^१, -वे कौस् २९, १९, ३०,
 ७, -वेन अप्राय २७, ५, ४

दावा(व-अ)मि- -मिना वैग ५,
 ९ १४, ७, ३ ११, ४. १४,
 कप्र २, ९, १५, -मिम् पाग ३,
 ७, ३
 दावामि-काष्ठ-सस्पर्श- -शौ
 अप २३, १२, २
 दून- पाउभोग २, २, १८४, पावा
 ८, २, ४४
 दुकूल^३- पाउभो २, ३, ११२, -लस्य
 वैग २, २. ३
 दु (<स्)-कृत्- > कृत्-सुकृत्-
 विविध^३- -धा अशा ११, ८
 √दु ख पाधा चुरा उभ दु खक्रिया-
 याम्
 १ दुःख^३- पाग ३, १, १३^१, १८, २७,
 ५, २, ३६, १३१, ६, २, १७०,
 फि ६, -खम् सु १९, ३, ३०, १,
 भाग, -खस्य अप ४८, ६५;
 -खात् वृदे ७, ८८, १५२, पा
 ५, ४, ६४; -खानि अप ६८, १,
 १८, शेष ३७५, विघ ४३, ४५,
 -खाय अप ५४, २, २, -^१खे^१
 बौश्रौ १७, ४३ ४, आपम २,
 २१, १९, आमिग १, ४, १ १७,
 हिग १, १२, २.
 २ दुःख^३- -खा. वैग ४, १४ १६
 दुःख-जा(त>)ता^३- पाग २, २,
 ३७^१
 दुःख दर्श(न>)ना^३- -ना. अप
 ५८^२, २, २
 दुःख-भागिन्- -गिन अप ६८, १,

a) द्रस > मत्वर्थीयः अच् प्र । ष्टा^० इति पाठः ? b) द्रम > बस । c) ष्टान्तम् इति पाठः ?
 यनि शोभ (तु पृ २९७ h) । d) वैप १ द्र । e) पामे वैप १, १६३९ j द्र । f) पामे वैप १, १६३९ l द्र ।
 g) वैप १, १६३९ k द्र । h) < दीर्घायुत्वाय (शौ १, २२, २) । i) पामे वैप १, १६३९ p द्र । j) पामे
 वैप १, १६८८ d द्र । k) विप । बस । l) तु. पागम । m) व्यु पामे च वैप १, १६३९ r, s द्र ।
 n) = श्लेष [तु पागम] । व्यु ? । o) या ६, ४ परामृष्टः द्र । p) नाप । व्यु ? । q) विप [तार्त्तद्ध्वज-
 यम-द्वन्द्व-] । द्रस > तृस । वा प्र २ । पूष कर्त्तरि प्र । r) सपा पाग ३, १४, १२, १३ दुर्गे इति पामे तमेव
 Boht(ZDMG ५२, ८३) समर्थक द्र । s) = दुःख-प्रद- । t) विप । उस. ।

<p>३९, ४१, -गी वाध ६, ६ दुःख-शोक-परीता(त-आ)त्मन्- -त्मा वृदे ६, ३३ दुःख-शोक-भय-प्र (द>) दा- -दा आज्यो १३, ८ दुःखा/कृ पा ५, ४, ६४ दुःखा(ख-अ)न्वित- -तानाम् विध १९, २४ दुःखा(ख-अ)पेक्षा- -क्षया विध ९६, ४१. ✓दुःखाय पा ३, १, १८. दुःखा(ख-आर्त)तां- -र्ता अप ६४, २, ३ दुःखित- पा ५, २, ३६, -तः विध ३, ९८, वृदे ६, २८, ३४, -ताः अप ५३, २, ४ दुःखिन्- पा ५, २, १३१ ✓दुःख्य पा ३, १, २७ दुग्ध-, दुग्ध्वा ✓दुष् द्र. ✓दुष्, दुह् पाधा भ्वा पर अर्द्धने, अदा. उभ प्रपूरणे^a, दोहत् या ११, ४३ फं, फंदोहताम् आपश्रौ २, २०, ५^२, बौश्रौ, फंदोहै आपश्रौ ४, ७, २, हिश्रौ ६, २, १७, भाशि २८ दुग्धे अप १०, १, २० फं, या १, ००, फंदुहे आश्रौ २, १०, २१, बौश्रौ, भाश्रौ ४, १०, २^b, काण ४१, १८, दोग्धि काश्रौ २६, ५, ५, आपश्रौ १, १२, १६××, काश्रौसं, या ११, ४३, दुहाते आपश्रौ २१, २०, ७ फं, दुहाते कौसू ९३, १९, ११२, १ फं,</p>	<p>अप १, ४८, ७, दुहे^c यौ ६, ३२ फं, दुहन्ति आश्रौ ४, ७, ४, ५, १२, १५, शाश्रौ, दुहन्ति आपश्रौ १६, ३४, ४, बौश्रौ, या ११, ४५, दुहन्तु सु ९, ४, फंधुक्व शाश्रौ २, ८, ४××, काश्रौ ३, ४, १०^d फं, पाण ३, ३, ५^e, या १०, १६, फंदुग्धि आपश्रौ १, १३, १०, बौश्रौ, धुध्वम् आश्रौ ६, १२, ४ फं, फंदुहत् वैश्रौ १४, २०:६, १७, ८ ९, दुहत् हिश्रौ ७, ८, ६८ फं, फंदुहाम वैश्रौ १८, २१ ३४, दुहीत आपश्रौ ९, ५, ५ फं, १०, १६, ८××, भाश्रौ, दुहात् आपश्रौ १, १२, १५^f×, काश्रौसं, दुह्यु आपश्रौ ११, ४, १० अदुहत् तैप्रा ९, २२ फं, दुहेत् काश्रौसं ३६: ६ फंदुदुहे आपसं २, २०, ३५, आग्निग्य, या ११, २८, दुदुहे याशि २, ६०, दुदुहुः हिश्रौ ९, ५, ३६ फं, फंधुक्षीमहि^g बौश्रौ ३, १९: ८, १४, ९: ३७, जैश्रौ ११: १६, वैताश्रौ १७, ८, दुक्षत् ऋप्रा ४, ९८ फं, फंधुक्ष क्षत् आश्रौ ४, ७, ४, ५, १२, १५, शाश्रौ ५, १०, ९, या १०, ३२, अधुक्षन् वैताश्रौ २४, १ फं, दुक्षन् ऋप्रा ४, ९८ फं, फंधुक्ष काश्रौ ४, २, २४, आपश्रौ, धुक्षि ऋप्रा ११, ८, उसू ६, ६ फंदुहाते आश्रौ ४, ७, ४^h, शाश्रौ ५, १०, ८, फंदुहान्ते आश्रौ ४,</p>	<p>७, ४, शाश्रौ ५, १०, ८, दुह्येत भाश्रौ ९, ८, ७, ११, १८, ७ दोहनति जाश्रौ ७, २, २०××; आपश्रौ, दोहयत् आपश्रौ ८, ५, ३०, बौश्रौ, दोहयत् बौश्रौ ६, १० ११××, दोहयेत् शाश्रौ २, ८, ३, काश्रौ, दोहयेरन् लाश्रौ १०, १५, ७, १६, १० अदुहत् विध ५५, ११. फंदुदुक्षन् ऋप्रा ४, ९८, दुष्- क्षन्ⁱ शुप्रा ३, ५५ दुग्ध, ग्धाम् -ग्धम् आश्रौ ३, ११, ५, काश्रौ, -ग्धस्य आश्रौ ४, ७, ४ फं, शाश्रौ ५, १०, १८ फं; आपश्रौ ८, १४, १४, हिपि १५. १६, -ग्धानाम् अप ६७, २, २; -ग्धाभि बौश्रौ २७, १३ २, लाश्रौ ७, ९, ८, १०, या ५, ३ फं, -ग्धाभ्य या ५, ३, -ग्धाम् निस् ५, ३ ४, -ग्धायाम् आश्रौ ४, ७, ४ फं, बौश्रौ २७, १३ २, -ग्धासु बौश्रौ १, ३ २५, भाश्रौ, -ग्धे आपश्रौ ८, ९, ८, १५, १७ फं, बौश्रौ; पावा ४, २, ३६, -ग्धेन आश्रौ. दुग्ध-प(द् >)दी^m -दीम् सु ९, ४ फंदुग्ध-भृत्ⁿ -भृत् आपश्रौ ५, ८, ७, माश्रौ १, ५, ३, ११; हिश्रौ ३, ३, ३ दुग्धा(ग्ध-अ)क्त- -क्तान् अप ३६, २३, १ दुग्धा(ग्ध-अ)क्ष- -क्षस्य अप ४५, २, १७</p>
---	--	--

a) या ३, ४ परामृष्टः द्र । b) दोहम् इति पाठ १ यनि शोधः (तु काठ ३७, १४) । c) प्रपु३ (पा ७, १, ८) । d) पामे वैप १ पिन्वस्व काठ ५, २ टि. द्र । e) पामे वैप १, १६४० f द्र । f) परस्पर पामे । मपु३ रुद्रागम- [हिश्रौ] । g) पामे वैप १, १६४२ b द्र. । h) धुक्षत् इति पवा । i) सपा तैप्रा ३, ७, १३, १ दुदुहुः इति पामे । j) धुक्षन् इति पवा । k) सङ्कत् पामे. वैप १, १६४२ C द्र. । l) संहिताया धकारस्य दकारः स्मारितः । m) वैप १ द्र । n) विप. । बस ।

दुग्धाह्न-पान- -नम् अप १,
४८, १
दुग्धा(ग्ध-आ)शिन- -शिनः
वैष १,८,१
दुग्धा आश्रौ ३,११, ३, काश्रौ.
दुग्धु^१- -क्षु वैप ५, ४ २४^{१०},
दुह^०- -हेन माश्रौ ६,२,४,२
दुह^०- -हन् अप ६८, २, ३, विध
५, १३९, -हन्त या २, ५^१,
-हन्ता या ६,२६^१
दुहा√क, दुहाचकिरे बौश्रौ १८,
२९ १५
दुहान,ना^१- -नः कौगृ ५, ७, २,
उनिस् ७. १५, -ना आश्रौ ८,
१०, १, काश्रौ, या ११, २९,
-ना आपश्रौ १, २, ८×४,
बौश्रौ, -नाम् बौश्रौ १,१७ २४,
आमिगृ १,७,३ ३७, ३, ११,
२. ९
दुह्य- पावा ३,१,१०९
दुह्यमान,ना- -नम् काश्रौ २५, २,
५, आपश्रौ ९,५, ६, ८, बौश्रौ,
-ना आश्रौ ३,११,१,७, आपश्रौ,
-नाम् आपश्रौ १, १२, १७^३,
६,४,४, भाश्रौ, -नायाम् शाश्रौ
५,१०,८, -ने आश्रौ ५, १२,
१८, भाश्रौ १, १३, ४, जैश्रौ
२३,११, जैश्रौका ५७
दोग्धुम् जैश्रौका ५६.
दोग्ध- > ग्धी- -ग्धी वृदे ३,
५०, ७९^{१०}, -ग्धीणाम् अप
७२, ४, ७, -ग्धीम् शाश्रौ ८,

१८,१^{१०}, माश्रौ ४, ३,१, १३,
-ग्धया माश्रौ ४, ३, १५, २९,
-ग्धयौ माश्रौ ४,२,६.
दोग्धी^१-दमन-पर्यस्तपाश-घट्टन-
घण्टाभरण-भूषण-योजन-तैल-
मण्डौषधमैषज्यक्रिया-व्या-
स^०- -सानाम् काश २७१ ४
दोग्धी-धेन्व (जु-अ) एक-प्र-
(द>)दा- -दा अप ३६,
२०, १
दोग्ध^०- -ग्धा आपश्रौ १, १२,
१४, वैश्रौ ३,७:८,१२, हिश्रौ १,
३,३७, -ग्धारम् वाश्रौ १,२,२,
२१, वैश्रौ ३, ७:१२, २०,
५ १
दोग्ध^१- -ग्धम् वैश्रौ १३, ४ ५,
-ग्धे आपश्रौ १५, ३, १०×४,
भाश्रौ
दोग्धि(य>)या^१- -ये माश्रौ
४, १, २०.
दोह^०-पाग ५,१,६४,२,३६, -^१ह.
शाश्रौ ४,२१,३^१, १३,१२,१३,
काश्रौ, -^१हम् आश्रौ ५,१३,६,
शाश्रौ, -हयो भाश्रौ १,१५,४,
माश्रौ १, ३, ८,१९, वाश्रौ १,
३,४,३२, मीस् ३,६,२८, -हस्य
भाश्रौ ९, २, ७, -हा पागृ ३,
३,५, -हात् हिश्रौ २,६, ५२,
-हान् अप ६८,५,२०, -हाम्याम्
आपश्रौ २,२०,३, -हे आपश्रौ
१७, १२, १३, हिश्रौ १२, ३,
१४, शंघ ४११, ४३२. -हेन

शाश्रौ ५, १०, ८, -हौ आपश्रौ
२,११,८, ९,१,३१, भाश्रौ.
दौहिक- पा ५,१,६४
दौह-का(म>)मा- -मा-
आपश्रौ ४, १२, ५, बौश्रौ ३,
१९ ७, भाश्रौ ४,१८,३, वैश्रौ
७,६. १२, हिश्रौ ६,३,१३.
दोह-काल- -लम् बौगृ २,९,१;
-ले आपश्रौ १५,१८,१.
दौह-पवित्र^१- -त्रे आपश्रौ १,
११,१०, वैश्रौ ३,६ ८; हिश्रौ
१,३,१३
दोह-प्रभृति- -ति काश्रौ ४,१४,
३१.
दोह-स्थान- -ने काश्रौ २५,६,
२, हिश्रौ १५,१,२५
दो(ह>)हा-दोह^०- > दोहादो-
हीय^०- -यम् जैश्रौ २३ ११.
दोहादोहीय-सामन्- -म
जैश्रौका ५७.
दोहा(ह-अ)पनय- -य. मीस् ९,
४,३९
दोहित- पा ५, २,३६.
दोहन^०- -नम् काश्रौ ४,४,७, ८,
९,२५, २५, १, १५, आपश्रौ;
-ने आपश्रौ १, १३,१०, बौश्रौ;
-नेन काश्रौ १८,४,२, आपश्रौ.
दोहनी^१- -नी वैश्रौ ११,८:
५, अप ९,२,२, -न्याम् कौस्
२५, १७.
दोहन-कल्प- -ल्पेन भाश्रौ ६,
९,३.

a) विप. । उः प्र (पा ३,२,१६८) । b) दि^० इति पाठ ! यनि शोध. (तु. ०) । c) नाप.
घञर्थे कः प्र । d) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र । e) पाभे वैप १, १६४३ ६ द । f) दोग्ध^०
इति पाठ. ? यनि शोध. (तु संस्कर्तुः टि) । g) षस. > द्रस > सस. । h) नाप । कर्तरि वृच् प्र. ।
१) = दोहन-पात्र- । अधिकरणे कृत् । j) विप. (उखा-) । स्वार्थीयः ष > ह्य. प्र. उस. (पा ४, ४, १४१) ।
k) वैप १ द्र । l) वैप २, ३खं. द्र । m) = साम-विशेष- । n) भाप. नाप. ।
भावाऽधिकरणयो. प्र ।

दोहन-काल- ले भाश्रौ ११, १८, ४.
 दोहन-पवित्र^a- -त्रस्य बौश्रौ २०, ३ ३३, ४ : ११, १२ १, -त्रे द्राश्रौ १२, ३, ५, लाश्रौ ४, ११, ७
 दोहन-प्रभृति- -ति अप्राय ४, ३
 दोहन-सक्षालन- -नम् आपश्रौ ६, ६, ७, माश्रौ १, १, ३, ३२, वैश्रौ २, ३ २.
 दोहना(न-आ)दि- -दि आश्रौ ३, ११, १०
 †दोहमा(न>)ना- -नाम् आपमं २, २०, ३३, आमिष्ट ३, २, ६ : १, भाष्ट २, १७ २, हिष्ट २, १५, ९
 दोहयित्वा आपश्रौ १, १३, १०^३××, बौश्रौ, अप्राय १, ३, ४, ३^२
 दोहिन- पा ३, २, १४२
 दोह्य, ह्या- पा ६, १, २१४, पावा ३, १, १०९, -†ह्या आपश्रौ ५, ८, ७, भाश्रौ ९, ८, ४६, माश्रौ १, ५, ३, ११, वैश्रौ १, ८ २, हिश्रौ ३, ३, ३, -ह्यान् या १, २०.
 दोह्यमान, ना- -नाम् बौश्रौ १, ३ १८, -नासु बौश्रौ २०, १ : ४१, -ने बौश्रौ ३, २४ : ४
 धोक्ष्यमा(ण>)णा- -णा क्रौसू ६२, २१†.
 †दुच्छु(न>)ना^b- -ना अप्रा ३, ४, १, शौच २, ६१, -नाथै माष्ट २, १६, ३.
 √दुच्छुनाय, †दुच्छुनायते आश्रौ

३, १३, १८; आपश्रौ ३, ११, २, भाश्रौ ३, १०, २, माश्रौ २, ५, ४, ९, हिश्रौ २, ६, ११, वैताश्रौ २३, १२, ऋप्रा ९, १६
 †दुणाशि^c जैष्ट १, ८ १५^d
 √दुष्^b, †दोधति अप ४८, १८, निघ २, १२
 दुष्^b- -०ध बौश्रौ १०, ३९ १०†,
 दुद्युक्षु- √दुह् द्र
 दुन्दुभ^e- -भा^f चव्यू २ ७
 दुन्दुभि^b- पाउना ५, ८६, -भय अप ७१, १५, ८, -†भिः आपश्रौ १६, २६, १, बौश्रौ, या ९, १२६, २१, अप्रा ३, ४, १, -भिना बौश्रौ १६, ३ : २०, -भिम् आश्रौ ८, ३, १९, शांश्रौ, -भीन् शश्रौ १५, ३, १४××, काश्रौ, लाश्रौ ४, २, २^{२६}, ३, १९, -भीनाम् बौश्रौ ११, १२ : ५, २२, १३ : २०, आमिष्ट ३, १०, ४ ६, अप ७१, १३, २, -†०भे द्राश्रौ १०, ३, ४^३, लाश्रौ ३, ११, ३^३, काष्ट १७, २, वाष्ट १३, ४, या ९, १३, याशि २, ६४, -भे वृदे ५, ११२, -†भौ बौश्रौ २, ५ १९, द्राश्रौ ११, २, ३, लाश्रौ ४, २, २
 दुन्दुभि-देवता- > ०य- -त्यम् अत्र ६, १२६
 दुन्दुभि-नाद- -दम् अप १९^३, ५, १
 दुन्दुभि-वत् अप ७०^३, २, ५

दुन्दुभि-वाहन- -नम् वाधुश्रौ ३, ७६ १०
 दुन्दुभि-विमोचन-> ०नीय, या- -यम्^h आपश्रौ १८, ५, २, वैश्रौ १७, १४ २, -याम् हिश्रौ १३, १, ५९^h
 दुन्दुभि-शब्द- -ब्द आपश्रौ २४, १, ३६, हिश्रौ १, १, १४, -ब्देन काश्रौ १२, ३, ८^३, आपश्रौ २१, ६, १४, हिश्रौ १६, ३, १५
 दुन्दुभि-वेचन- दुन्दुभि-षेवण- टि. द्र
 दुन्दुभि-षेवण- पा, पाग ८, ३, ९८^३
 दुन्दुभि-स्वन^k- -न अप ७०^३, २, १
 √दुन्दुम्य या ९, १२
 दुन्दुभ्य(भि-अ)धिक^l- -क वैश्रौ १७, ११ ९
 दुर^m या १, ३, ऋप्रा ५, ५५, १२, २०, १५, १७, शुप्रा ६, २४, ऋत ३, ८, ४, पा, पाग १, ४, ५८, दुरः पावा ६, ३, १०८, ८, ४, १६ⁿ
 †दुर^b- पाउभो २, १, ३०३, दुर आश्रौ २, १६, ९, ३, ३, १, शाश्रौ. दुरः-प्रभृति^o- -तयः आपश्रौ ८, २, १५, -तीन् आपश्रौ ७, १४, ९, वैश्रौ
 †दुर्य^b- -याः आपश्रौ १, १८, ४; बौश्रौ, -र्यान् बौश्रौ ६, १७ - १२^{२७}, २५० ३, माश्रौ.
 दुर-अग्नि^p- -भिना कप्र २, ९, १४

a) = दोह-पवित्र- । b) वैप १ द्र । c) = बालग्रहविशेष- । d) सपा. पाष्ट १, १६, २३ द्रोणास. इति पाभे । e) = मैत्रायणीय-भेद- । व्यु १ । f) प्रोक्तार्थस्य प्र. बहुल्वे लुक् । g) ०भिं इति पाठ १ यनि शोधः । h) परस्परं पाभे । i) औपवाजनकैः इति पाठः १ यनि शोधः (तु चौसं विद्याघरश्च) । j) षेवन- इति पाका. १ । च्चन- इति [पक्षे] BPG । k) विप । बस । l) विप. । m) अन्वय । n) तु. पासि । o) पूष = प्रेष-प्रतीक-इति भाष्यम् । p) दू इति पाठ १ यनि. शोध (तु सप्र तै १, २, १०, १) । q) प्रास ।

दुर्-अति-क्रम^a- म विघ २०, २७,
-मम् विघ ८५, १७.
दुर्द(भन>)भना^b- भना अप्रा ३,
४, ११
दुर्-अज्ञान^c- > °(न्य->)न्या^d-
-न्याम्^e आपश्रौ ६, २०, २,
वाश्रौ १, ५, ४, २०, हिश्रौ ६, ६,
२४
दुर्-अज्ञ(नि>)नी^b- न्याः^f वाश्रौ
१, ३, ७, १२, -न्यै^g वाश्रौ १,
२० : २५
दुर्-अधीत^b- ते वाश्रौ २८, ११ : १.
दुर्-अनु-कर^a- राणि या ५, २५
दुर्-अनु-(ग>)गा^b- गा वाश्रौ १,
१, १३
दुर्-अनुचान- न वाधश्रौ ४, ९०
२४
दुर्-अय^a- यम् या ३, १९
दुर्-अव^a- वा या ४, ५
दुर्-अवगत- तम् वाश्रौ १८, १२ .
१६
दुर्-अश^b- श वाश्रौ १८, ३८ ८^२,
-शेन वाश्रौ १८, ३७ : १.
दुर्-अस्य^b>दुर्-अस्यु- -न्यस्यु आपश्रौ
६, २१, १, ११, ११, ९, हिश्रौ
१, ६, ७४, ७, ६, १२, पा ७, ४,
३६, -न्यस्यु^h आमिष्ट १, १,
२ २४, ५, ३ १७, काष्ट
२५, २८ⁱ, भाष्ट १, ८ १२,
१६ ९, हिष्ट १, ४, १, १९, ८

दुर्-आगत- ते वाश्रौ २८, ११ १
दुर्-आचार^k- रः वाध ६, ६
दुर्-आढ्यं-कर-, °भव^l- पा ३, ३,
१२७
दुर्-आत्मन्^k- स्तनाम् वाध २०, ३,
-स्तानम् या १४, २९
दुर्-आत्म-क^k- -कम् सु ५, ४.
दुर्-आ-घर्ष, षा^b- -न्यस्यु आपश्रौ ६,
१७, १०, भाश्रौ ६, ४, ४, हिश्रौ
६, ६, १६, -षा माशि १५, ७,
-षान् या १४, २५, -न्यस्यु
आमिष्ट २, ६, १ २९, माष्ट २,
१३, ६
दुर्-आप^a- पम् विघ ९५, १७
दुर्-आ-पूर^a- र शाश्रौ ४, २०, १
दुर्-आर्द्धि^m- -न्यस्यु वाश्रौ १, ३,
७, २०
दौरा(द्वय>)द्वी^m- -न्यस्यु आपश्रौ
३, ११, २, वाश्रौ १, २१ . १३,
भाश्रौ ३, १०, २, हिश्रौ २, ६, १,
कौष्ट १, ५, २९, आमिष्ट १, ५,
२ १६^o
दुर्-आश^b- शम् शाश्रौ १४, ३२,
१.
दुर्-आ-हर^a- र सु ११, २
दुर्-आहा^b- हा कौसू १६, १९,
अप्रा ३, ४, १
दुर्-इत^p- तम् माश्रौ १, ८, ४, ४०^q,
हिश्रौ, निघ ४, ३१, या ६, १२,
-न्यस्यु माश्रौ १, ६, ४, २१,

वाश्रौ १, ५, ५, ७, -न्यस्यु वाश्रौ
६, ५ ६, २७, ६ : १४, २८,
१० . ८, भाष्ट १, ६, ७, हिष्ट १,
४, ४^r, या ७, २०^r, १४ ३३^r,
-न्यस्यु वाश्रौ ४, २, २^u, लाश्रौ
२, २, ११^u, आपमं, -तानाम्
वाध २७, २०, -न्यस्यु आपश्रौ
६, २३, १ x x, वाश्रौ, माष्ट
२, १७, १^v, या ६, १२^v, ७,
२०, १४, ३३, -तेभ्य गौघ
९, ७१
दुरिता(त-अ)पमृष्टि- -न्यस्यु अश्र
७, ६५
दुर्-इति^m- -न्यस्यु आपश्रौ ५, २, १^q.
दुरिप्र- अम्^w वाश्रौ २, ५ १८
दुर्-इष्ट^b- इष्टम् आपश्रौ ७, २८, ४^२;
वाश्रौ १९, ४ ३६ x x, वैश्रौ;
-इष्ट्य माश्रौ ३, ५, ७^q, -न्यस्यु
आपश्रौ ४, १०, २, वाश्रौ,
-इष्टानाम् वाध २७, २०, -इष्ट्य.
वाश्रौ १, ३, ७, २०^q
दुरिष्ट शमन-क्षम- मान् अप ७०,
१, ४.
दुर्-इष्टि^b- -इष्टे आश्रौ ३, ६, २७;
-इष्ट्या^x वाश्रौ १, ३, ७, १२;
-इष्ट्यै आपश्रौ ३, ११, २^z;
वाश्रौ १, २० . २५^z, २१
१२, भाश्रौ ३, १०, २, वाश्रौ १,
३, ७, २०^z, हिश्रौ
दुर्-उक्त^b- -कम् कौष्ट २, १, २९^z;

a) गस. उप खलू प्र. । b) वैप १ द्र । c) = दुर्-अज्ञानी- । d) स्वार्थे यत् प्र । e) सपा वाष्ट ५, १३ ?दुर्-अज्ञान्याम् इति पामे । f) पामे. वैप १, १६४६१ द्र । g) गस उप <√गम् । h) = ऋतु-विशेष- । गस उप √अज्ञ[व्याप्तौ] + खलू प्र । i) पामे वैप १, १६४६१ द्र । j) °वस्यवः इति पाठ ? यनि. शोच (तु शौ १०, ३, १ आमिष्ट प्रम् च) । k) विप । बस । l) विप । उस । m) वैप २, ३४ द्र । n) परस्पर पामे । o) °व्यै इति पाठ ? यनि शोच । p) उप- खलूथे षञ् उसं (पा ३, ३, १२६) । शेष h टि द्र । q) वैप १ निर्दिष्टयो समावेशः द्र । r) पामे. वैप १, १६४७० द्र । s) पामे वैप २, ३४. दुर्-उक्तम् १, ६, २७ टि द्र । t) पामे वैप १, १६४७१ द्र । u) पामे. वैप १, १६४८० द्र । v) पामे. वैप १, १६४८८ द्र । w) दुर्-रि° इत्येवं सतो रेफलोपे दीर्घाऽभाव- उसं (पा ६, ३, १११) । x) पामे. वैप १, १६४८८ द्र । y) पामे वैप १ स्विष्ट्यै काठ ५, ४ टि द्र । z) दं इति पाठ. ? यनि शोच ।

पायुर्, २, ८^२, अप ४०, ६, १२, ६,
-क्तात् आपमं २, २, १^२, शाय
२, २, १^२, काय ४१, ११^२,
माय, या ३, १६, -क्ताय
या ३, १६, -क्ते बौय ३, ५,
१३
दुरुक्त-वचन- नम् काय ३, १६,
माय १, २, १९, वाय ९, १९
दुर्-उदित^१- तम् बौय ४, २, ११,
आपमं १, १३, ५, भाय २, ३१,
११
दुर्-उपचार^२- रा बौश्रौ १८, ४४
११
दुर्-उपयुक्त- -क्तात् शाय ६, ६,
१६
दुर्-ऋद्धि^३- -द्धि. बौश्रौ २, ५ ९
दुर्-एव^४- वै अप्राय ६, ९
दुरोण^५- पाठभोवृ २, २, १८४,
-फणम् अप्राय ६, ९, अप ४८,
८९, -फणे आश्रौ ५, ९, २६,
शाश्रौ, आपमं १, ६, १२^६, या
४, ५, ८, ५, ८
दुरोण-सद्- सत् या १४, ३१, ५
दुर्-ग, गा^६- पावा ३, २, ४८, -गम्
आपमं १, ६, १०, काय, -गा
शंघ १०५, बौध ४, ३, ७, विध
५६, ९, वृदे २, ७७, -फणाणि
बौश्रौ २८, १०. ७, अप १,
५०, ८; या ७, २०, १४, १४,
३३, तैप्रा ७, १०, -गाम्
बौश्रौ २८, १०. ५, वैश्रौ २०,
२७ १, आमिप ३, ९, २ ८;
-गे पाय ३, १४, १२^६, १३^६,
वृदे ६, १३७

दुर्गा(गं-आ)पति- -त्तौ अप्राय
३, ९
दुर्गा-पूजन- नम् अप १८^२, २, ४
दुर्गा-मनस्वती-महाव्याहृति- -त्ती:
बौय ४, ८, १, बौपि २, ६, १२.
दुर्गा(गं आ)सारा(र-अ)मात्य-देश-
दण्डा(एड-आ)क्रन्दा(न्द-२ आ)
घ-गुण-विधि- -ज्ञ^१- -ज्ञ
शघ २५३.
दुर्गा^२- (> दौर्गायण- पा) पाग ४,
१, १९
दुर्-गति- -तिम् कौशि ६३.
दुर्गति-गमन- -नानि या ६, १२
दुर्-गन्ध^३- -न्धे कौसू १४१, ३९,
अप ७०, ६, १.
दुर्गन्ध-र(स >)सा- -साभि. बौध
१, ५, १४.
दुर्गन्धिन्- -न्धी शंघ ३७८
दुर्-गन्धि^४- -न्धि विध ९६, ४६.
दुर्-गम- -मानि या ७, २०, १४,
३३^१
दुर्गमा(म-अ)ध्वान-गमन- नम्
अप ६८, ५, ११^६
दुर्-गाह^५- -हा आश्रौ २, १३, ८^५
दुर्-गृभि^६- > √दुर्गृभीय, दुर्गृ-
भीयसे ऋप्रा ८, १७^५
दुर्-गोप^७- -पा: वाधूश्रौ ४, ६१ ३,
८६^२. ५
दुर्-जन^८- > ण-वर्जि(त >)ता-
-ताम् बौध ३, ३, २२
दुर्-जीवित-> दौर्जीवित्य^९- -स्यम्
अप ३२, १, ८^५
दुर्-ज्ञेय- -या शंघ ५
दुर्-णा(< ना)मन्^{१०}- -मा माय २ ,

१८, २^२, या ६, १२, ८, -ञः
शौच ३, ८४.
दुर्-णा(< ना)श^१- -श^१, -शस्य^१
बौश्रौ १८, ३८ : १६, -शेन
बौश्रौ १८, ३८. ९
दुर्गाश-स्व- -त्वम् बौश्रौ १८, ३८-
१६
दुर्-दर्श- -शम् आपध १, २२, ८;
हिध १, ६, ८.
दुर्-दर्शन- पावा ३, ३, १३०
दुर्-दिन^२- नम् कौसू ३८, १.
√दुर्दिनाय पावा ३, १, १७.
दुर्दिन^३- न बौश्रौ ६ २
दुर्-दृश- -दृशाम् अप ६८, ४, ४
दुर्-धर्षण- पावा ३, ३, १३०
दुर्-धाव- -वः या ४, १०
दुर्-धी^४- -धिय या ५, २३, १०, ५,-
-धियम् या ५, २
दुर्-ध्यात- -तम् अप ४०, ६, १२
दुर्नामन्^५- > दुर्नाम-कण्ट-कम्बु-
-म्बूनाम् अप ७०, ४, ७.
दुर्-नि-यन्तु^६- -न्तु ऋप्रा ५, ५३^५
दुर्-बल^७- -ल काश्रौ २५, ७, १,
पाय ३, १४, १२, कप्र ३, २, २,
या ६, २८, -लम् आमिप ३,
१२, १ १३, कप्र ३, २, ३,
शैशि १९३, नाशि २, ५, ३,
-लस्य शैशि १९२, याशि २,
२८, माशि ६, ३, नाशि २, ५,
३, -ला अप ६८, १, ३९, ४१,
४४, विध ४५, ३३, -लाय
बौध २, ३, ५०
दौर्बल्य- -ल्यात् नाशि १, ४, ७
दुर्बल-हिंसा- -सायाम् गौध २१,

a) पामे पृ १६९१ ङ द्र. । b) गस उप < √वद् । c) विप । बस. । d) प्रास । e) वैप १ द्र. । f) पामे वैप १, १६४९ ङ द्र. । g) पामे पृ १२८७ ङ द्र. । h) द्रस > बम > षस > द्रस > उस । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । j) 'मनानि इति राज । k) दुर्गम् अध्वा^० इति पाठः^१ यनि शोघः (तु संस्कृत-टि. मूको. च) । l) = ऋतु-विशेष- । m) = वृक्ष-विशेष- । व्यु. ? । n) वैप १, १६५१ ङ, ० द्र ।

१९ दुर्बली ✓भू > दुर्बली-भवत्- -वन्तम् कौसू ८०, ३ दुर्-ब्राह्मण ^० - -णस्य आपश्चौ ११, २, ८, भाश्चौ ११, १२, १८, वैश्चौ १३, १५ ५, हिश्चौ २४, ५, ८ दुर्-भग, गा ^० - पाग ४, १, १२६, ६, ३, ३४, -ग. शंघ ३७७, -गम् अप २६, ३, १, -गा बौश्चौ २६, १ : १३, कप्र २, ९, ८, अप ६९, ५, १, वृदे ७, ४२, -गात् अप ३५, २, ८, -गाम् कप्र २, ९, १० दौर्भागिनेय- पा ४, १, १२६ दौर्भाग्य ^० - -ङ्यम् माय १, १९, ४, २, १४, २६, ३१, -ग्यात् अप ३५, २, ८ दौर्भाग्य-> ग्या ^० - -ग्या आमिग २, ७, ६ : ९ दुर्-मिक्ष ^० - -क्षम् अप ५०, ३, १, ९, १×५, -क्षे भाग्य ३, १४ २११, अप २३, ११, २, ६९, ४, १, या ६, ५ ^३ , -क्षेण अप ५१, १, ५×५ दुर्भिक्ष-लक्षण- -णम् अप ७० ^३ , ८, ३, ४ दुर्-भूत ^० - -तम् आपश्चौ २१, १९, ११, बौश्चौ १६, २२ ६, वाश्चौ ३, २, ५, ३९, हिश्चौ १६, ६, ३१ दुर्-भ्रातृ ^० - (> दौर्भ्रात्र- पा) पाग	५, १, १३०. दुर्-मति ^० - -तिम् आपमं १, ६, १२, काय २६, १२, बौग्य ४, २, १४, या १०, ४२ दुर्-मति ^० - -ति अप ३, १, ६ ^१ , -तिभि वाध ३०, १० दुर्-मद ^० - -द माश्चौ ६, १, २, २६, वाश्चौ २, १, १, ५०, -दासः या १, ४ दुर्-मनस् ^० - (> √दुर्मनाय पा) पाग ३, १, १२ दुर्-मनस् ^० - (> दौर्मनसायन- पा) पाग ४, १, ११० दुर्-मर ^० - > √दुर्मराय > दुर्म- रायु- -यु आपश्चौ ४, ७, २, भाश्चौ ४, १०, ३, हिश्चौ ६, २, १७, -युम् आपश्चौ ४, ६, ५, बौश्चौ. दुर्-मर्ष ^० - -र्षम् आपमं २, ११, ३११ दुर्-मर्षण- पावा ३, ३, १३० दुर्-मित्र, त्रा ^० - -त्रा बौश्चौ २, ५ : २९ ^१ , ४, ७ २८ ^१ , ८, २० : १५ ^१ ×५, माश्चौ ४, ४, २२ ^१ , वैश्चौ १६, २५ : १५ ^१ , द्राश्चौ ४, २, २ ^१ , आमिग, -त्रासः या ६, ६ ^१ दुर्मित्रि(य>)या ^० - -त्र्या ^१ शाश्चौ ८, १२, ११, काश्चौ १९, ५, १५, लाश्चौ २, २, ११, ५, ४, ६ दुर्मि(व्य>)व्या ^१ - -व्या ^१ आश्चौ ३, ५, २, द्राश्चौ १३, ३, २२ दुर्-मित्र, त्रा ^१ - पाग ४, १, ९६ ^६ , -त्र ऋअ २, १०, १०५, वृदे ८, १७,	साअ १, १९६, २२८. दौर्मित्रि- पा ४, १, ९६ दुर्-मेघस् ^० - पा ५, ४, १२२, -धा कप्र १, ३, २ दुर्य- दुर्- द्र दुर्यमन्याम् ^१ वाग्य ५, १३ दुर्याण्यः अप २ : ६ दुर्योण ^० - -णे ^३ ऋप्रा २, ७५, उस् २, १६, १७. दुर्-योघन- पा, पाग ५, ३, १०० ^३ , पावा ३, ३, १३० दुर्-लभ ^० - पा ७, १, ६८, -भम् अप २२, १०, २, ४१, ४, ६ दुर्-लाम- पा ७, १, ६८ √दुर्व पाधा भ्वा पर हिंसायाम् दुर्-वराहै(ह-ए)डक ^० - क आपश्चौ ९, १०, १५ दुर्-चर्तु ^० - -र्तुं या ४, १० ^१ दुर्-वार ^० - -रः या ४, १७ दुर्-वाल ^० - -लात् गौघ १७, १६, २१, ११ दुर्वाला(ल आ)दि- -दीन् गौघ १५, ३०. दुर्-वासस् ^१ - -ससम् जैग्य १, १४८ दुर्-वि-चिन्तित- -तम् अप ४०, ६, १२, शंघ दुर्-वि-ज्ञेय- -यानि आग्य १, ५, ४. दुर्-वि-वक्तु- -क्तु आपध १, ३२, २४, हिघ १, ८, ६५ दुर्-वृत्त ^० - -त्तम् वाध ६, ४४. दुर्-ह(ण>)णा ^० - > √दुर्हणाय> णायत्- -यत् ऋप्रा ८, २७ ^१ .
--	---	---

a) प्रास । b) वैप १ द्र । c) = दौर्भाग्ययुक्ता-स्त्री- । d) व्युद्घर्थेऽभावाथे वा अस उप
<√भिश्च [लाभे (तु भा [तैश्च १, ४, ३)] = √विद् लाभे] । e) विप > नाप । बस । f) = ऋषि-
विशेष- । g) विप । बस । h) व्यप । बस । i) पाभे वैप १, १६५२ । द्र । j) विप । स्वार्थे यत्
प्र. उस. (पा ४, ४, ११०) । k) = नारी-विशेष- । l) पाठ ? पाभे वृ १२९१ । द्र । m) वैप १,
१६५२ । ० द्र । n) = व्यप । तु पागम । o) गस उप खलन्तम् । p) प्रास. > मलो कस #
q) = खलति- । बस. उप. = मूर्धज- । r) = आचार्य-विशेष- । बस । s) पाभे वैप १, १६५३ । द्र ।

†दुर्-ह(णू>)णू- -०णु बौश्री ९,
१८:१५, बौगु ४,२,१०

दुर्-हल-, ंलि- पा ५४,१२१

†दुर्-हार्द^०- -हार्दं द्राश्री १०,३,४,
लाश्री ३, ११, ३, अत्र १९,
३५०, -हार्दम् कौसु ४२,१७

†दुर्हार्दिश- कौसु ७०, १†

दुर्-हि(त>)ता- -ता या ३,४

दुर्-हुत- -तम् अप ४०,६,१२

दुर्-हण^०->√दुर्हणाय > †दुर्ह-
णायु- -युः आश्री २, १८,३,
-यून् या १४, २५०, शैशि
३३६

दुर्-हृद्^०- (>दौर्हृद- पा) पाग ५,
१,१३०

दुर्-हृदय^०- (>दौर्हृदय- पा) पाग
५,१,१३०,

√दुल् पाधा चुरा उभ उल्लेपे

दुल- (>दुल्य- पा) पाग ४, २,
८००.

†दुला^०- ला बौश्री १०,४५:२२^१,
आपमं २,१६,८^६, भागु २, ७:
२२^६, हिगु २, ७,२^६, विघ ६७,
७^१

दुलि- पाउभो २,२,१५९

√*दुव^०, दोवति अप ४८,१९†

दुवस्-, √दुवस्य प्रमृ √दू (परि-
चरणे) द्र

†दुश्-चक्ष^०- -क्षा आपश्री १४,
३०,४, बौश्री ७,१३.०४, हिश्री
१५,७,१९.

दुश्-चर^१- -रम् विघ ९५, १७

दुश्-चरित^१- -तम् बौश्री २,५:२१†,

दु, -†तात् आपश्री २,१४,१०,
बौश्री

†दुश्चरितिन्- -०तिन् वाश्री ३, २,
५,३१, द्राश्री ११, ३,९, लाश्री
४,३,१०

दुश्-चर्मन्^०- -र्मा बौश्री १३,१७

६†,१८.१,२३,२ २८, हिश्री

दुश्चर्म-कुनखि-कुष्ठि-श्वित्रि-श्याव-
दन्त- -न्ता शंघ २०२

दुश्-चल^१- -लानाम् अप ६८, २,
४६

†दुश्-च्यवन^०- -नः अशा १९, ६,
अत्र १९, ३२, शुप्रा ४,१५५,
ऋप्रा १६,१७

दुः-शासन- पावा ३,३,१३०.

*दु-शीर्त->†दु-शीर्त-तनु^०- -०नो
आश्री ६,१४, १३, माश्री ३,
२,१२, वाश्री १,५,३, ८, हिश्री
३, ७, ७५^०

दुः-शी(ल>)ला^०- -ला वैगु ५, ९:
५, -लाम् वैगु ५,९.१४

दुः-श्रुत^०- -त आपश्री ९,१५,१८†,
-तम् भाश्री ९, १८, ५, हिश्री
१५,४,३८†, आमिगु २,७, ९
१९, भागु ३, १९ ४, -तयो
भाश्री ३,१,२२, -ते आश्री ३,
१४, १

दुः-श्रित^१- -ते अप्राय ४,१

√दुL, दू Jषु^० पाधा दिवा पर वैकृत्ये,
दुष्यति बौश्रीप्र ५४. ७, निस्,
विघ २३, ३६, दुष्यत. विघ
२२,८४, दुष्यन्ति वाघ २८,५,
शंघ १६९, बौघ १,५, ५१, २,

२,५७, दुष्येत माश्री ३,१,१;
शघ ७९, दुष्येयाताम् अप्राय ४,
१, दुष्येयु आपश्री ९,१५,१४;
बौश्री.

दुष्यते वाघ १९,३८

दूषयते अप ६२, २,७, दूषयेत्
बौघ १,४,१७

दुष्ट,ष्टा- -ष्ट अप्राय ४, २, शंघ
३०३, बौघ २, १, ६, -ष्टम्
शाश्री १३, १२, ९, काश्री;
-ष्टस्य शाश्री ३,२०,५, काश्री
२५, ५, ९, काश्रीस ३३ २,
निस् १,६.९, -ष्टा विघ ५३,
८, -ष्टा बौश्री २, १०:३४,
-ष्टान् शघ २०२, विघ ३,
३७, -ष्टाम् वैगु ६, २:९,
विघ ५,४७, -ष्टे शाश्री ३, २०,
१२, १३,३,२, काश्री, आमिगु
२, ७, ९ २७^०, -ष्टेन शाश्री
३,२०, १५, -ष्टेषु बौश्री २९,
३:९.

दुष्ट-चेतस्^०- -तसः वाघ ११,
२५, बौघ २,८,१४

दुष्ट-भाष^०- -व. आपघ २,
२६,१९, हिघ २,५,२१४

दुष्ट-मृग-घातिन्- -ती वैघ ३,
१४,२

दुष्ट-वाक्य- -क्यैः वैगु २, ८:
८

दुष्ट-वाच्^०- -वाक् विघ ५,
१९६

दुष्ट-हविस्- -विषा वैश्री २०,
३ १६.

a) वैप १, १६५३ f द्र । b) वैप १ द्र । c) वैप १, १६५३ १ द्र । d) विप । बस ।

e) तु पागम । f) पामि वैप १, १६५४ ० द्र । g) = सारमेय (बालग्रह-)-मात्- । h) घा हिंसार्थे वृत्तिः ।

i) गस उप. खलन्तम् । j) वैप १, १६५४ १ द्र । k) दुशी^० इति पाठ ? यनि. शोषः । l) गस-

उप √श्री [पाके]>श्रि इति पा ६,१३६ । m) पा ६, ४, ९०, ९१ परामृष्ट. द्र. । n) जुष्टे इति पाठ. ? यनि. शोष ।

दुष्टा(ष्ट-आ)स्मन्^१-स्मा आमिगृ
२,७,६ : ८.
दुष्टा(ष्ट-अ)न्न-भोजिन्-जी
काथ २७८ : ८
दुष्यत्- -ष्यति निसू १, ६ : ८
दूषण- पाग ३, १, १३४^०, -णम्
आपश्रौ २१, २०, ३१, हिश्रौ
१६, ६, ४१^१, विध २३, ४६
दूषयित्- -त्- विध ५, १०१-
१०३
दूषि^०- -षि कौसू ३९, १, ७, १३,
अशा, -ष्या कौसू ३९, १, ७,
१३, अशा १९, २, अप ४, ४,
९, १७, २, १६, ३२, १, २, अश्र
२, ११, अप २ १०
दूषि(क >) का^०- पाउमो २, २,
१९; -का विध २२, ८१
दूषित,ता- -तम् शंघ ४३१, विध
२३, ३८, -ता वाघ २८, ३.
दूषित-कर्मदुष्ट-साक्ष्य(क्षि-अ)
क्लित^०- -तम् विध ७, ८
दूषी(क >) का^०- -का पाउ ४,
१६
दूष्य,ष्या- -ष्या वैध ३, ४, ११,
-ष्याणि वैध ३, ४, ८
दोष^१- पाग ३, १, १३४, -ष आश्रौ
१२, ४, २२, शाश्रौ, वाघ १७,
७०, १९, ४८, २३, ६, २७,
९, शंघ १४६, ४३२, आपघ
१, २९, ७, २, २, ८, १३, ३,
बौध १, २, ५७^१, विध ५,
१४७, १९०, हिघ १, ७, ६३,
२, १, ३०, ३, ३, गौध १०,
१६, १३, १२, २४, २१, १७,

मीसू ३, ४, २८, पावा १, १,
१०×४, -षम् वाधुश्रौ ३, १०५:
४^६, बौपि, -षा कप्र २, १, १६,
वाघ, -षाणाम् शंघ १६२,
१७६, आपघ, -षात् शाश्रौ
३, १९, ७, काश्रौ, -षान् बौश्रौ
२८, ११ १६, अप, -षे आश्रौ
३, १४, ४, शाश्रौ, पावा ४, १,
४९, -षेण बौश्रौ २८, ११:
१८, आपघ २, ६, १९, विध,
-षेषु शाश्रौ ३, १९, ३, ८, बौश्रौ
२९, १३ १७, बौध ४, १, १,
२, १, -षै अप २२, ३, २, -षौ
निसू ८, ४ ३६, ऋप्रा ११,
४७, माशि ९, ९.
दोष-कारक- -कम् अप ५८^२, ४,
१८
दोष-दर्शिन्- -शीं निसू ५, ५.
११
दोष-नाश- -शात् काश्रौ १, ८,
११
दोष-निघाता(त-अ)र्थ- -र्थम्
वैश्रौ २०, १ ६^१
दोष-निर्घात^१- -तानि भाश्रौ
९, १, ४^१
दोष-निर्घाता(त-अ)र्थ- -र्थानि^१
आपश्रौ ९, १, ४, हिश्रौ १५,
१, ४
दोष-निर्णय- -ये बौध १, १,
३२
दोष-निवृत्ति- -त्ति कौगृ ४,
१, २
दोष-प्रसङ्ग- -ज्ञात् मीसू ९, ३,
१०

१दोष-फल- -लम् आपघ १,
२९, २, हिघ १, ७, ५८
२दोष-फल,ला^१- -लानि^१ हिघ
१, ६, ४९, -लासु आपघ २, २,
७, हिघ २, १, २९, -लै आपघ
२, २, ७, हिघ २, १, २९
दोष-फल-परिवृद्धि- -द्धि^१
आपघ २, २, ५^१
दोष-फल-वृद्धि- -द्धि हिश्रौ
२, १, २७^१
दोष-फल-सशय- -ये आपघ
२, १२, १९, हिघ २, ४, ५६
दोष-भाज्- -भाक् विध ५,
१८८
दोष-वचन- -नात् द्राश्रौ ३, ३,
१४
दोष-वत्- -वत् आपघ १, २६,
७, बौध ४, २, १३, हिघ १, ७,
१८, -वति बौश्रौ २९, ३ ९;
गौध २५, १०, -वत्सु आपघ
१, २६, १२, २९, ४, हिघ १, ७,
२३, ४९, ६०, -वन्ति आपघ
१, २१, १९^१, -वान् आपघ २,
१३, ४, हिघ २, ३, ४
दोष-विद्^१- -वित् माशि २, ८
दोष-विशेष- -षात् काश्रौ १,
५, १४, वाघ ३, ५६, बौध १,
५, ५८
दोष-विहीन- -नम् वैध ३,
४, ४
दोष-श्रुति- -ति: मीसू ६, १, ७-
दोष-संयोग- -गात् काश्रौ २३
४, २५
दोष-सक्षय- -यात् कप्र ३, ४, ४-

a) विप । बस । b) भू^० इति [पक्षे] पाका । c) वैप १ द्र । d) =दूषीका- । e) द्रस >
कस. > तृस. । f) भवे कर्तरि च कृत् । g) सपा काश्रौ २५, १३, २४ आपश्रौ १४, २१, २ भेषजम् इति
पाभे । h) सप्र ष्घातार्थम् <> ऽनिर्घातानि <> ऽनिर्घातार्थानि इति पाभे । i) सप्र दोषफलानि <>
दोषवन्ति इति पाभे । j) सप्र ष्परिवृ^० <> ऽलवृ^० इति पाभे । k) उप <√विद् [ज्ञाने] ।

दोष-सामान्य- न्यात् मीस्
 ६, ५, ४५
 दोषा(ष-अ)नुसार-तस् () अप
 ६९ ८, ४
 दोषिन्- पा ३, २, १४२, -विण
 गौध १३, ७, -षी कौस् ४५,
 ३१, गौध १८, २३
 दुष्-कर- -रम् विध ९५, १७, भाशि
 ११८, १२०
 दुष्-कीर्ति- -नीं बौश्रौ २, ५ : ५
 दुष्-कुल- (> दौष्कुल्य-पा) पाग
 ५, १, १२४
 दुष्कुलीन-, दौष्कुलेय- पा ४, १,
 १४२
 दुष्-कृत- -कृत सु ७, ५, अप १,
 ४१, ८१, वृदे २, ११९, -कृत
 आपश्रौ ७, १६, ७१, अप ९, ४,
 २, या १०, १११, -कृते शौच
 २, ६३
 दुष्-कृत- -तम् आश्रौ ३, ३, ४१,
 ऋश्रौ २, ८:१०, ११.२, ३, ५,
 ६, ९, सु, या १४, २९, ऋपा ८,
 १९१, -तस्य विध ९१, १, या
 ६, २७, -तात् अप २०, ७, ४,
 -तानि वाध ५, ५, २८, ४, बौध
 १, ५, ८८, ४, २, १७१, -तैः
 बौश्रौ २८, २. ५४, अप ४२,
 १, ३
 ऋदौष्कृत्य- -त्यम् आपश्रौ १०,
 १, ६, भाश्रौ.
 दुष्कृत-कर्मन्- -र्मण ० विध ५७,

११, हिध १, ५, ११५
 दुष्कृत-कारिन्- -रिण.० वाध १४,
 १६, आपध १, १९, १३
 दुष्कृतकारिणी- -णी सु ७, ५
 दुष्ट-प्रम् √दुष् द्र.
 ऋदुष्-ट(<त)र- -र शुप्रा ५, ४१,
 -रम् आश्रौ ४, १२, २, अप्रा ३,
 ४, १ शौच ४, ८३, -रा या ५,
 २५०.
 दुष्-ट(<त)रीतु- -तु आश्रौ ४,
 १२, २१
 दुष्टु- पा, पाग ८, ३, ९८^६
 दु-ष्टु(<स्तु)त- -तात् शारु ६, ६,
 १६१
 दुष्टु- पाउ १, २५^६, पाग १, १, ३७,
 ५, १, १२९, १३०^१,
 दौष्टव- पा ५, १, १२९, १३०
 दुष्-परि-माण- -ण कौस् १३९,
 २३
 दुष्-परि-हार्य- -र्ये विध २०, २९
 दुष्-पुरुष- (> दौष्पुरुष्य- पा)
 पाग ५, १, १२४
 दुष्-पूय- -यम् या ५, २४
 दुष्-प्र-ज्ञान- -नम् बौश्रौ १४, २५
 ३०
 ऋदुष्-प्रति-प्र(ह>)हा- -हा शौच
 २, ६३
 दुष्-प्र-लम्भ- -म्भ आपध १, २०,
 ५, हिध १, ६, १९
 ऋदुष्-प्र(प्र-अ)वी- -व्यः ऋप्रा
 १३, ३०, उस् ८, १९.

दुष्यत्- √दुष् द्र
 दुष्यन्त- > दौष्यन्ति- -न्तिः
 साअ १, ६११, २, ९४५
 दु-ष्व(<स्व)प्र- > ऋदौष्वप्य-
 -प्यम् अप ३२, १, ८, अत्र
 ७, २३
 दौष्व(ज्)पनी- -प्यः
 अत्र १९, ५६
 ऋदुष्वप्य- -प्यम् अप ३२, १
 ८०, -प्यात् अप ३२, १, ८^५
 अत्र ७, १००
 दु-षन्त- > दौ-षन्ति- -न्ते ऋ
 २, ६, ५२.
 दुष्यन्त- पाउभो २, २, १३९
 दु-षं(<स)धि- पा, पाग ८, ३, ९८
 दु-ष(<स)म- पा, पाग २, १, १७
 दु-षा(<सा)मन्- दु-षेध-पा, पाग
 ८, ३, ९८
 दु-ष्व(<स्व)प्य- > दौ-ष्वप्य-
 -प्यम् आपश्रौ ९, १२, ८
 दु-ष्वपन-नाशि(न् >)नी- नी
 साअ १, १४१
 दु-ष्वप्य- -यम् आपश्रौ ६
 २३, १^६
 ऋदु-ष्वप्य- -प्यम् आरु ३, ६
 ५, कौस् ५८, १^{२६}, शुप्रा ३
 ७२, ९२
 दुस्- पाग १, १, ५८
 दुस्-तर- -र याशि १, ३०, -र
 सु २०, ४
 दुस्-तरीप- पाग ६, २, १८४

a) गस उप खलन्तम् । b) प्रास । c) वैप १ द्र । d) विप । बस । e) सप्र कर्मणः
 <> कारिण इति पामे f) अत्र्य । व्यु १ । g) ष्टु इति पाका पासि । h) <दुस् √स्था इति ।
 ३) तु पागम । j) विप । गस । k) गस उप. √पू + क्यप् प्र । l) गस उप खल् प्र, जुमागमः
 (पा ७, १, ६७) च । m) = नृप-विशेष- । व्यु १ । n) विप । साऽऽस्यदेवतीये अणि य-लोप (पा ६, ४, १५०) ।
 o) पामे वैप १, १६५७ ० द्र । p) पामे वैप १, १६५७ d द्र । q) = दुष्यन्त- । व्यु. १ । r) वैप १,
 १६५७ f द्र । s) वैप १, १६५७ g द्र । t) पामे. वैप १, १६५७ h द्र । u) = दुष्वप्य- । v) अत्र्य. ।
 ४) प्रास उप २तरी- + <√पा [रक्षणे] इति पाका ।

दुस्-तर्प^१- -र्पा या ४, ५
 दुस्-त्य(ज)जा^१- -जा वाघ ३०, १०
 दु-स्पृष्ट^१- -ष्ट शैशि १५, २२, ७२
 दु-स्वप्न- -न बौश्रौ २, ५, १२, -
 -^१नम् आपमं १, १३, ५, बौगृ ४, २, ११
 दु(स् >) -सकथ-^१, -^१विथ^१- पा ५, ४, १२१
 दु(स >) -साध्य- -^१ध्यानि अप ६९, १, ५
 दु-सीम^१- -मे वृदे ७, १४७^१
 दु-स्त्री->तौ स्त्र- पा) पाग ५, १, १३०
 दुःस्पृष्ट^१- -ष्ट^१ पाशि ५, -^१ष्टम् ऋप्रा १३, १०
 दु-स्वप्न- -^१पन्^१ बौश्रौ २८, ९ २०, वैश्रौ २१, २ ६, -^१पन् भाग २, ३१ १४, -^१पन्म् बौश्रौ २८, ९ १९, वैश्रौ, शंघ १०१^१ ६, विध ६४, ४१, -^१पन्त् काश्रौ २५, ११, २१^१, -^१पने विध २२, ६७, -^१पनेषु गोगृ ३, ३, ३१
 दुःस्वप्न-^१नम् ऋअ २, १०, १६४, वृदे ८, ६७
 दु स्वप्नघ्नी- -घ्नी अश्र २०, ९६
 दु स्वप्न-दर्शन- -ने शागृ ५, ५, ३, काथ २७६: १२
 दु स्वप्न-दुर्भूत- -तानि अप ३३,

१, १०
 दुःस्वप्न-नाशन- -न अश्रम् २, -^१नम् अप ८, २, ५, -^१नानि अप ३२, १, ८^१
 दुःस्वप्ननाशन- -नी वृदे ५, ८९, -^१नीम् शुअ ४, ५०
 दु स्वप्ननाशन-गण- -णस्य अश्रम् २
 दु स्वप्ननाशन-देवता- > ^१प्य, -^१त्या- -^१स्यम् अश्र ६, ४५, -^१त्या: अश्र १६, ५, -^१स्ये अश्र ७, १००.
 दु स्वप्न नाशि (न् >) नी- -नी ऋअ २, १, १२०, वृदे ३, १३९
 दु स्वप्ना(पन्-अ)घ-प्रणाशि (न् >) नी- -नी वृदे ४, ८३
 दु स्वप्ना(पन्-अ)रिष्ट-दर्शना (न-आ)दि- -दौ शघ ४३७
 दु स्वप्न्य^१- -^१न्यम् अप्राय २, ५, अप ३७, ५, ५
 दुस्-स्वप्न- -^१पने बौगृ ३, ५, १४, -^१पनेषु बौगृ ४, ३, ९
 √दुह्, दुह-, दुहत्-, दुहान-
 √दुष् द्र
 दुहि(त>)ता^१- तास् काथ २८१ ५, -^१ते अप ३५, १, १.
 दुहितृ^१- पाठ २, ९५, पाग ४, १, १०, १००, १०४, ६, ३, ३३, -^१त. ऋप्रा १, १०२, ७, २४, ३१, -^१तर लाश्रौ ९, १०, ४, ६, आगृ २, ६, १५^१, बौध २, २, ४४, विध १८, ३५, या ३, ४,

-^१तरस् शाश्रौ १८, १३, ३^१; वाधूश्रौ, -^१तरि बौध २, २, १५;
 -^१तरौ पागृ ३, १३, ३, -^१तता शाश्रौ १५, १७, १, बौश्रौ, या ३, ४५^१, ६, ६, अश्र ३, ४, १, -^१तु: वैश्रौ ९, ११, १२;
 भागृ १, २७. २०, वृदे ४, १११, या ३, ४^१, ५; ४, २१;
 १२, ११, -^१तु: वृदे ५, १४५;
 -^१तृणाम् गौध २८, २५, -^१त्रा बौश्रौ १८, ४६: १८, -^१त्रे बौश्रौ ५, १७ ३, अश्र ३, ३१^१, या १२, ११^१, -^१त्रो: बौध २, २, ७९
 दौहित्र- पा ४, १, १०४;
 -^१त्र बौगृ २, ११, ६६, वाघ; -^१त्रम् बौध २, २, १५, या ३, ४^१
 दौहित्रायण- पा ४, १, १००
 दुहितृ-गमन- -नम् विध ३४, १.
 दुहितृ-गामिन्- -मि विध १७, ५; २१
 दुहितृ-जामात्- -तर. विध ९३, ६.
 दुहितृ-दायाद्य- -द्ये या ३, ३
 दुहितृ-मत्- -मत. आपथ २, १२, २, हिध २, ४, ३७, -^१मते कौगृ १, ८, ३६, शागृ.
 दुहितृ-शत- -तेन वाश्रौ ३, ४, ३, ४६^१, ४७, ४८.
 १दुह्य- √दुष् द्र

a) गस उप खलन्तम् । b) = ईषत्स्पृष्ट- । प्राप्त । c) विप. । बस. । d) = वृप-विशेष- । व्यु १ । e) सपा ऋ १०, ९३, १४ दु इमि इति । f) पाभे वैप १, १६५७ d द्र. । g) प्नात् इति पाठः १ यनि शोध (तु विध) । h) वैप १, १६५६ u द्र । i) = (कुलान्तरियेण सगन्त्री-) पुत्री- । व्यु १ (*भिद्-भृत्- > नैप्र) *द्वित्- (भेद-) > *द्वित्-क- > *द्विक- > *दुक्- (भिन्न-, कुलान्तरिय-) + (√मेष् [सगमे] > कर्तरि) मे (घ >) वा- > उस. *दुक्-मेधा- > *दुखे(षे)त्ता- > यनि. इति । दुहितृ- इत्यपि उप प्र एव भिन्न सत् व्यु सन्ध्यायं द्र. । एतदनु वैप १, १६५७ m इत्यत्र विशेष आधेयः । १) वैप १ द्र. ।

वैप ४-द्वि-६८

२दुह्य^३- पा, पाग २,४,६३

दुह्यमान- √*दुष् द्र

√दू पाधा दिवा आत्म. परितापे

√दू (परिचरयो) > दुवस्य^३- पाग ३,
१, २७, -फँवः आश्रौ ८, ९, ५,
शाश्रौ.

√दुवस्य^० पा ३, १, २७, फँदुव-
स्यति अप ४८, १०, निघ ३, ५,
दुवस्य या १०, २०^५फँकुं,
फँदुवस्यत आश्रौ २, ८, ७, ४, ५,
३, आपश्रौ, आमिगृ ३, ५, २
२फँ^५, बौपि १, २ २फँ^५

दुवस्यु^०- -स्यु ऋभ २,
१०, १००, वृदे ३, ५६, -स्यौ
वृदे २, १२९

फँदुवस-वत्- -वान् शाश्रौ ६,
१२, ६, १९, बौश्रौ

दू^३ > दू-ढ [ळ]भ^३- पावा ६, ३,
१०९, -फँभ शाश्रौ २, १२, ७,
आपश्रौ ६, १७, १२, हिश्रौ ६, ६,
१६४, शुप्रा ३, ४२

दूढभ-व(त) > ती- -तीम् हिश्रौ
६, ६, १७४

दू-ढाभ^३- पाग ६, ३, १०९^१

दू-ढाश्रौ^३- पावा ६, ३, १०९.

दू-ढी^३- -फँढ्य या ५, २, २३कुं,
-ढ्यम् या ५, २कुं

दू-ढ्य^३- पावा ६, ३, १०९.

दूढ्य-दूणाश-दूळभ-प्रवाद्--दा
ऋप्रा ५, ५५, -दान् उस् ६, ७

दू-ण(<न)श^३- -शा ऋप्रा ९, ४४फँ,

दू-ण(<ना)श^३- पावा ६, ३, १०९,
-शा काश्रौ २२, ८, २५^६, ऋप्रा
९, ३६फँ, -शस्य लाश्रौ ८,
१०, १^६

दूणाश-दूळ्य-दूळभ- -भान्
ऋप्रा ११, ४०

दू-भाव- -व ऋप्रा १०, २२

दू-भूत- -तम् ऋप्रा ५, ५५

दू-रोहण^३- -णम् आश्रौ ८, २, १३,
१५××, शाश्रौ ११, १४, १३,
१२, ११, १२, १५, ३, १०, -णे
बौश्रौ १२, १० ३९

दूडाशौ^३ शौच २, ६०फँ

दूत, ता^३- पाउ ३, ९०, पाग ४, १,
४२^१, ५, १, १२४^१, -तः शाश्रौ ३,
५, ९फँ^१, १४, १२फँ, १४, ४०, १,
आपश्रौ, फँबौश्रौ २, ११: ११^५,
शागृ २, १३, ५फँ^१, हिगृ २, ३,
७फँ^५, फँया १, १७, ५, १कुं, ६,
१७, २२कुं, ७, २६, ८, ५, -तम्
आश्रौ १, २, ७फँ××, शाश्रौ,
-तस्य काश्रौ १५, ३, १३, या
१२, ४३फँ, -ता आश्रौ ८, १०,
१फँ, -तान् आमिगृ १, ६, १:
५, -ताय वाश्रौ ३, ३, ४, ४६,
आगृ १, १२, ३, ४, -ते वाध
१२, ३७, -तेन बौश्रौ १८, २२:
११, -तौ हिपि १८ १०फँ

दूती- पाग ४, १, ४२^१, -ती
वृदे ८, २७, -तीम् बौश्रौ २१,
१२ ४, वृदे ८, २८, -त्य.

कौसू ११७, २फँ

दौत्य- पा ५, १, १२४, -त्ये
वृदे ५, ७४

दूत-प्रवेश- -शः आज्यो ८, ५.

दूत्य- पा ४, ४, १२०, पावा ५,
१, १२६, -त्य माशि ७, ५फँ,
-त्यम् आश्रौ ३, ७, १०,
आपश्रौ, -त्याय आश्रौ ९, ९,
७फँ, -त्ये वृदे ८, २१

दूति- पाउवृ ४, १८०

दू(त्य) > त्या^०- न्त्या हिगृ २, ७, २

दून- √दु (उपतापे) द्र

दूर^३- पाउ २, २०, पाग ६, ३, २;
-रम् आपश्रौ ७, ११, ७^३;
१३, १५, ११, बौश्रौ, लाश्रौ-
३, २, ७फँ^५, या २, ५, १४, ३,
१९कुं, ४, २५, अप्रा ३, ४, १फँ^५,
माशि १५, ८, -रस्य अप ४८,
१०९, निघ ३, २६, -रात्^५
आश्रौ ४, १५, २फँ, शाश्रौ,
द्राश्रौ ७, २, ७फँ^५, कौसू ८८,
१^५, अश्र १२, ५२फँ^५, या २,
२७फँ, ३, ११, ९, १३फँ^५;
पा १, २, ३३, ८, २, ८४;
-३^५ शाश्रौ ४, १२, १०फँ,
आपश्रौ, या ३, ४, ११^५फँ, ४,
१४^३फँ, ११, २५फँ, पा ५, ३,
३७, -रेण^५ आशि ८, ४

फँदूर-क^३- -के आपध १, २, २, हिघ
१, १, ३५

दूर खातो(त-उ)दक- -कः कप्र ३,

a) = ऋषि विशेष-। व्यु ? तु पाका । दू^३ इति भारुडा । b) वैप १ द्र । c) या १०, २० परामृष्ट द्र । d) पाभे वैप १ सपथैत शौ १८, १, ४९ टि द्र । e) = [वन्दन-पुत्र-] ऋषि-विशेष-। f) शाश्रौ पाठः । g) ञ इति पाठ ? यनि शोध । h) विप । गस । i) तु पागम । j) वैप १, १६५९ ङ द्र । k) = क्रतु-विशेष- । l) पाभे वैप १, १५९१ & द्र । m) दतः इति पाठ ? यनि शोधः (तु सप्र शौ १८, ४, ६५) । n) सप्र आपमं २, १३, १२ पुत्रः इति पाभे । o) = सारमेय [बालप्रह-] मातृ-। व्यु ? । p) पाभे वैप १, १६६१ & द्र । q) वा क्रिवि । r) दूरान् इति पाठ ? यनि शोध (तु संस्कृतः टि) । सपा. मा २, ३० प्रमृ विशिष्टः पाभे । s) पाभे वैप १, १६६१ f द्र । t) पाभे वैप १, ६९२ f द्र. †

१०, १५
 दूर-ग- पा ३, २, ४८, -गाः भाग
 २, २७ ७, वैगृ ८, ११ १,
 वैध १, १०, ३, ११, २
 दूर-तर- -रम् या ९, १३
 दूर-तस् () अप ३६, १३, १
 दूर-त्व- -त्वात् आज्यो ७, १३-१५
 दूर-नामन्- -मानि निघ ३, २६, या
 ३, १९
 दूर-पातिन्- -तिनौ या ६, ३३.
 दूर-पार- -र. या ४, १८, -रे या
 ६, १
 दूर-भूयस्त्व- -स्वात् मीस् १, २,
 १२
 दूर-वेधिन्- -धिनौ या ६, ३३
 दूर-श्रवस्^b- -वसे शाश्रौ १२, १६,
 ११^c
 दूर-स्थ- -स्थ कप्र २, ५, ८,
 -स्थम् विघ ९७, १८, -स्थस्य
 विघ २८, २१, आज्यो ७, १६,
 -स्थाभ्याम् कप्र २, ५, ६
 दूर(र-अ)न्तिका(क-अ)र्थ- -र्थेभ्य
 पा २, ३, ३५, -र्थे पा २, ३,
 ३४.
 दूर-अ(न्त >)न्ता^b- -न्ते निघ
 ३, ३०, या ४, २५^f
 दूर-अमित्र^b- -त्र शुप्रा ४, ८५^f
 दूर-अर्थ^b- -र्थः आपश्रौ १६, १२,
 १, हिश्रौ ११, ४, १३
 दूर-य^d- पावा ४, २, १०४
 दूर-दर्शन^e- -नम् आपध २, २३,
 ८, हिघ २, ५, १६१
 दूर-दर्शन^f- -नम् या ५, १०
 दूर-दृश^b- -शम् आपश्रौ १४,

१६, १, भाश्रौ, या ५, १०^g,
 -दृशे बौश्रौ ६, १६ : १३
 दूर-पाक, का-, -कु- पाग ७, ३, ५३
 दूर-वान्धव^a- -वम् वाध १५, ७
 दूर-व्यन्तर^a- -राः वाधूश्रौ ४, ६१
 २
 दूर-श्रवस्^b- -वा शाश्रौ ८, १७,
 ११, बौश्रौ १७, १८ : २६, बौगृ
 ३, १०, ६६
 दूर-हेति^b- -ति बौश्रौ १८, १७
 २०, भाश्रौ ६, २, ५, ३२, वाश्रौ
 दूर-रोहण- दृ द
 दूर्वा^b- -र्वया बौश्रौ २२, ५ १९, अप
 २६, ५, ४, ३६, ४, २, -र्वा अप
 १८, १, १७, ३६, १९, १, ७०^h,
 १९, ७, -र्वा आपश्रौ १३, १७,
 ९, १५, २१, १०, बौश्रौ,
 -र्वाणाम् आमिगृ ३, ८, ३ ३,
 बौपि १, १५ : ७४, -र्वाभिः
 वैश्रौ १६, २२ २, भागृ ३,
 १६ २, -र्वाम् काश्रौ १७, ४,
 १८, बौश्रौ, -र्वा बौश्रौ २०,
 २७ १०, भागृ १, २७ : १
 दूर्वा-कर^a- -रम् विघ ९, ५
 दूर्वा-काण्ड- -ण्डम् शागृ ६, ६, ९
 दूर्वाकाण्ड-व(त >)ती- -तीषु
 शागृ ६, ३, ७
 दूर्वा(र्वा-अ)क्षत-युक्त- -क्तम् वैश्रौ
 १, ४ ९
 दूर्वा(र्वा-अ)प्र- -आणि कौस् ७७,
 १८, -प्रै कौस् २४, १८, २६,
 १३
 दूर्वा-ग्रन्थि- -न्थिभि बौश्रौ ९, १
 १५, १०, १ १३, -न्थीन्

बौश्रौ ८, १५ २८, २१, २४ ३.
 दूर्वा(र्वा-आ)ज्य- -ज्यम् अप्राय ६,
 १०
 दूर्वा(र्वा-अ)जलि- -लिना बौपि ३,
 ४, १७
 दूर्वा(र्वा-आ)दि- -दीन् अप ४, १,
 १६
 दूर्वा-प्रवालⁱ- -लम् शंघ ३४६;
 -लान् शंघ ३४५
 दूर्वा-मिश्र- -श्रम् भाश्रौ ६, १, ७,
 १४, वाश्रौ २, १, ६, २४;
 -श्राभि बौश्रौ १६, ४ . १४.
 दूर्वा-मूला(ल-अ)ङ्कुर- -रान् अप
 ५, २, ५
 दूर्वा-यव-सर्षप- -पाणि शाश्रौ ४,
 १५, ५, -पान् कौगृ ५, ४, ६
 दूर्वा-रोपण- > णा(ण-अ)न्त^a-
 -न्तम् आमिगृ १, २, २ ४७.
 दूर्वारोपणो(ण-उ)दधि-धावन-
 वर्जम् भागृ ३, ११ १५, हिगृ
 २, २०, १३
 दूर्वा-लोष्ठ- -ष्ठम् भागृ १, ७, ९
 दूर्वा(र्वा-अ)वा(स्त >)स्ता^a-
 स्ताभि. आपश्रौ २१, ८, ४, २२,
 २८, १३, हिश्रौ १६, ३, ३९;
 २३, ४, ५१.
 दूर्वा-शाला-देवता- > ण्य-
 -त्यम् अश्र ६, १०६.
 दूर्वा-श्याम^k- -मा अप ६३, ४, ८.
 दूर्वा-सिद्धान्त^k- -कान् अप ५,
 ५, ६
 दूर्वा-स्तम्ब- -म्ब आपश्रौ १६,
 १३, १०, वैश्रौ १८, ११ २७;
 हिश्रौ ११, ५, २१, -म्बम्

a) विप । बस । b) वैपश् दृ । c) पाप्मे वैप १, १६६१ ० दृ । d) विप । त्यप् प्र. (तु.
 Pw. प्रभृ) । पाप् तु ण्य. प्र । e) सस (तु Buh, वैतु संस्कृतु शब्दस्य्या पृथक् पदे [आपध] इति) ।
 f) विप । बस (तु BNM., वैतु ल पृथक् पदे इति) । g) = सर्ष-विशेष- । h) उप. = रकर- । i) उप.
 = अङ्कुर- । j) उप < अव √अस [क्षेपणे] । k) विप (परिवेष-) । कस । l) उप. = गौर-सर्षप- ।

आपश्रौ १६, २४, १, वैश्रौ, -म्बे
 आम्रिगृ २, ५, ३ ३७, -म्बेषु
 बौगृ ३, ७, २५
 दूर्वे(वी-इ)ष्टका^a - काम् आपश्रौ
 १६, २४, १, बौश्रौ १०, ३२ ५,
 वाश्रौ २, १, ६, २४, वैश्रौ १८,
 १५. ६, -काया. बौश्रौ २२,
 ५ १८, -कायाम् जैश्रौप ८
 दूर्वेष्टक-दैवत^b - तम् शुभ्र २,
 १५३.
 दूर्वो(वी-उ)दक- कै. बौगृ ३, १०,
 ४.
 दूर्शी^c - शौम् कौसू ८५, २२, -शौ कौसू
 ११, १६
 दूर्श-जरदजिना(न-अ)वकर-ज्वाल-
 -लेन कौसू २८, २
 दूषण- दूषयित्- प्रम् √दुष् द्र
 √ह पाधा स्वा पर हिंसायाम्,
 दरऽदर अप ३६, १, १२
 √ह^d पाधा तुदा आत्म आदरे
 दरिन्^e - पा ३, २, १५७
 हत्य- पा ३, १, १०९
 √ह, दूर्^f पाधा क्र्या पर विदारयो,
 दर्व उस् ७, १७१
 हणाति वृदे २, ३६, या १०, ८,
 अहणाः या १०, ९
 दीर्यते बौश्रौ १३, ३९ १५,
 अप ७०^g, १५, २, दीर्यते आपश्रौ
 १४, २५, १०×४, बौश्रौ
 दारयते या १०, ८.
 ऋददं ऋअ २, ५, ३२, साअ,
 या १०, ९४, ऋप्रा १, १०३,
 ददं ऋप्रा १, १०३

ददत्- पावा ३, २, १७८^f
 दर- पा ३, ३, ५८, पाग २, ४, ३१,
 ५, १, २४, ६, १, १६०.
 दर-श(य>)या^h - या या १,
 १२
 दरण- -णम् अप ६४, ३, ९, ६, ४,
 ९, ५
 दर्व- -र्व ऋप्रा १, १०२^f.
 ऋर्मन्ⁱ - र्मा शश्रौ ८, १७, १,
 आपश्रौ
 दर्य- पा ५, १, २.
 दारयत्- -यन् वैगृ ५, १ १९
 दारयित्- -ता या १०, ८
 दारयित्-तम- -म या ६, १३
 दारुण, णा^j - पाउ ३, ५३, पाग ८,
 १, ६७, -ण अप ६२, २, २,
 ७१, १४, ५, -णम् जैगृ २, ९
 ३७, अप, -णा कौसू १०२, १,
 -णाः अप ५२, ४, १, ५८^k, ४,
 १३, -णाम् अप ७१, १३, १,
 -णायाम् कौसू ९३, १७, -णे
 अशा १, ५, २, २, ४, १, -णेषु
 अप ५२, १५, ३, विघ ४३, ४०,
 -णैः विघ ४३, ४०
 दारुण-सयुत^l - नानि बौश्रौ ९,
 ६ : १४
 दारुण्य- -ण्यम् तैप्रा २२, ९
 दीर्ण- -र्णः बौश्रौ १४, ७ ८, १८,
 २८, -र्णम् आपश्रौ १४, २६,
 १, आपगृ १७, ११, या ३, २०,
 -र्णैः शश्रौ १३, १२, १, ३,
 आपश्रौ
 दीर्ण-प्रवृत्त- -तानाम् बौश्रौ

१४, ७ : १, -तेषु बौश्रौ २३,
 ५, १९
 ऋद्वन्^m - वाⁿ काश्रौ १५, ५, २०,
 शुभ्र १, ६०४
 √दंह्, दह पाधा भ्वा पर वृद्धौ,
 दंहति वैश्रौ १०, ९ ५, जैश्रौ
 ६ १२, ९ १२, दंहताम्
 कौसू ९८, २^f, दंहतु जैश्रौ २
 ७, ऋदंहन्ताम् काश्रौ २, २,
 २५, ३०, आपश्रौ, ऋदंहस्व बौश्रौ
 १, ३, १२×४, ऋदंह काश्रौ ६, ३,
 १०, आपश्रौ, माश्रौ १, २, ३,
 ४^k, ऋदंहत्, > ता आपश्रौ १६,
 १४, ५, वाश्रौ २, १, ५, २०;
 वैश्रौ १८, १२ : १४, ऋदंहत्
 आपश्रौ ५, २, १, या १०, ३२,
 ऋदंहन् निसू १, १२ : १६;
 ऋदंहयाः आपश्रौ ५, ९, ११,
 माश्रौ १, ५, २, १५, वाश्रौ १,
 ४, २, ७, हिश्रौ ३, ३, ३२
 दंहयति कौसू ४३, ११.
 ऋदह्य शश्रौ ११, ९, ९, वृदे ८,
 १०
 अददहन्त ऋप्रा ९, ४३^f
 दादहण- -ण ऋप्रा ९, ३२^f
 दंह^l - ह माशि ८, १०
 दहण^m - गानि कौसू ३८, ११
 दहयित्वा गोयु ३, ७, ८, ४, २, ९५
 कौसू १३६, ७
 दंहि(त>)ता- -ताः माश्रौ ५, २,
 ५, १७^f
 दह, ढा, ळ्हाⁿ - पा ७, २, २०, पाग
 २, ४, ३१, ५, १, १२३, -ढः

a) वैप १ द्र । b) बस पूप हस्व द्र । c) पा ७, २, ७५ परामृष्टः द्र । d) <√ह[विदारयो]
 इति MW १ । e) या ४, १५ पा ३, १, ५९, ७, ३, ८०, ४, १२, १५ परामृष्टः द्र । f) <√दृ [अये] इति
 पाम [पक्षे], पाका. पासि च । g) उदर- इति पाका । h) विप (स्थूणा-) । उस । i) = सु-संयुत- (पिष्ट-) इति
 शब्दसूची । j) पामे. वैप १, १६६३ d द्र । k) उमयत्र पामे वैप १, ८८४ e द्र । l) दंह (क्रिप.)
 इत्यस्यानुकरणम् । m) = कर्म-विशेष- । n) आश्रौ. या ६, १९ पाठ ।

बौश्रौ २५, १३ ९, कप्र ३, ९,
१५, पा ७, २, २०, सु १०, २,
-ढम् याशि १, २३, -ढा
आश्रौ ६, १४, १८, ९, ५, २,
आपश्रौ, आपम १, ९, २^५, या
६, १९^क, -ढा. भाग्य १, ७
१३^क, -ढानि अप ७१, १५,
३, या ६, १९, -ढायाम् वाधुश्रौ
४, ११२ : ५, -ढे शाश्रौ १७,
२, २^क, आपश्रौ, -ढैः अप ५८^२,
१, ३

दाढ्य- पा ५, १, १२३

दाढ्य-वृक्ष^० - > ऋक्ष^०-

-क्षम् बौश्रौ २२, ५ २१, ६:
२५, १३ ५

दढ-कारिन्- -री गौघ ९, ७०

दढ-च्युत^० - -तः ऋअ २, ९,
२५, साअ १, ४७४

दढार्द्धच्युत- -०त आश्रौ

१२, १५, ३^३, आपश्रौ २४, १०,
१०^२, हिश्रौ २१, ३, १५^२ ४^२,

वैध^२ ४, ८, १-४^४, -त ऋअ
२, ९, २६, -तम्^५ लाश्रौ ७,

४, १, ८, ५, नुसू २, १ २८,
११, १९, निसू ९, १ २८

दढच्युत-वत्^१ आपश्रौ २४,

१०, १०, हिश्रौ २१, ३, १५,
वैध ४, ८, १^२, २-४

दढ-च्युति^५ - > दढार्द्धच्युत-
-०त^१ बौश्रौ ४९ ५, ५०-५१

१

दढच्युति-वत्^१ बौश्रौ ४९

६, ५०-५१ २

दढ-तर, रा- -र तैप्रा २०, ९,

कौशि २९, -रायाम् अप्राय ५,

५, अप ४५, २, १९

दढ-ता- पा ५, १, १२३, -ता

कौशि ३

दढ-त्व- पा ५, १, १२३

दढ-धन्वन्^क - -न्वने या १०, ६

दढ-घृति^क - -ति आपध १, ३,

२१, हिघ १, १, ९४^१

दढ-निपातन- -नम् पावा ७, ०,

२०

दढ-पर्यु(घ>)ष्टा^म - -ष्टे शाश्रौ

१७, १०, ९

दढ-पुरुष- -ष पागृ १, ८, १०

दढ-प्रयत्न-तर- -र तैप्रा १७, ६

दढ-प्रहारिन्- -री शंघ २४४.

दढ-भक्ति^क - -क्तय अप ६८,

१, २३

दढ-भङ्ग- -ङ्गेषु अप ७२, ३, १०.

दढ-व्रत^क - -तः पागृ २, ७, १८,

अप ५२, १०, १

दढ-स्थण्डिल- -लम् वैश्रौ १२,

४ : १

दढा(ढ-अ)ङ्ग^क - -ङ्गः या ९, १२

दढा(ढ-अ)र्थ- -र्थम्^५ भाश्रौ ११,

१, १५, वैश्रौ १३, ३ २, हिश्रौ

११, १, ४४, -र्थे आपश्रौ^५ १५,

२, ७, १६, ४, २, भाश्रौ ११, १७,

१०, -र्थेन वैश्रौ १८, १ ६१^५

दढी √कृ > दढी-करण- > ण-

-हेतु- -त्वे जैश्रौका ७७

दढी-कृत- -तम् जैश्रौका ९९.

दढी √भू, दढीभव या ८, ३

दढी-भाव- -व. निसू ४, ६ :

११, ६, ५ ११

दढिमन्- पा ५, १, १२३

दृक्ष- √दृश् द्र

दृष्टि^० - पाळ ४, १८४, -तयः लाश्रौ

८, ३, १४, -तिः शाश्रौ १२,

२०, २^२, आपश्रौ १८, २२, २,

वाधुश्रौ २, १६ ८, अप ४८,

१००^क, वृदे ३, ९५-९७, निघ

१, १०^क, -तिम् बौश्रौ ८, १० :

३^क, १०, ४० : २, २२, १७ :

१७, आमिगृ २, ५, १० ३६^क,

-तिषु शाश्रौ १४, ४०, ११,

-०ते निसू ४, ११ : २१, -तेः

आपश्रौ १५, १८, २, भाश्रौ,

-तौ आपश्रौ १८, ११, ३, बौश्रौ

२२, १७ १३, हिश्रौ १३, ४, १६;

दातेय- पा ४, ३, ५६

दृति-कर्मन्- -र्माणि कौसू ३८, १२.

दृति-भूत- -ते आग्निगृ ३, ९, ३ ८^१,

-तेन आमिगृ ३, ९, ३:६^१

दृति वस्ति- -स्त्यो कौसू १४, ५.

दृति-हरि- पा ३, २, २५

दृती √भू > भूत- -तेन बौपि २,

७, ५^१

दृति^५ - > दृति-वातवतोर्^१-

अयन^५ - -नम् आश्रौ १२, ३, १;

a) पाभे. वैप १, १६६४ f द्र । b) पाभे. वैप १, १६६४ g द्र । c) = खदिर-प्रमृ । मलो कस (तु भाष्यकार.) ।
दढ-वृक्ष- > दार्ढवृक्ष- यद्वा ऋक्ष- इति सस्कर्तुरभिमतम् । d) विप. । विकारार्थे अण् प्र । e) = ऋषि-विशेष- ।
f) परस्पर पाभे । g) ऋषि इति पाठ ? यनि शोष (तु आश्रौ प्रमृ) । h) = साम-विशेष- । i) परस्परं
पाभे । j) ऋषि इति पाठ ? यनि. शोष । k) विप । बस । l) ऋषिद्विष्टे इति पाठ ? यनि शोष । m) उप.
<पर्यु(रि/ऋ)ष् [गतौ] । = निखल- इति भाष्यम् । n) सपा ०र्थम् <> ०र्थे <> ०र्थेन इति पाभे. । o) वैप १
द्र. । p) वैप १, १६६४ m द्र । q) कृष्णाजिनेन दृति इत्यस्य स्थाने सपा बौपि २, ७, ७ कृष्णाजिनदृती इति पाभे. ।
r) परस्परं पाभे । s) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । t) ऋषि-विशेषयो द्रस [वैप २, ३खं. द्र] । n) = सत्र-विशेष- ।

काश्रौ २४, ४, १६, -नस्य काश्रौ
२४, ६, २४, -ने शाश्रौ १३,
२३, १, लाश्रौ १०, १०, ७, -नेन
आपश्रौ २३, १०, १, हिश्रौ १८,
३, १७
दृतिवातवतोरयन-पूर्व-पक्ष-
-क्षेण काश्रौ २४, ४, ३५

३दृति^३ -> दृति-श्रुति- -ति: भाशि
१७^७

दृन्^{३०} - दृन्-भू- पावा ६, ४, ८४

✓दृप्^४ पाधा दिवा. पर हर्षमो-
हनयो, चुरा उभ सदीपने,
दर्पति आपध १, १३, ४, हिध
१, ४, १८

दृप्यसि बौश्रौ १८, ४४ : ८,
दृप्यामि बौश्रौ १८, ४४ ७

दर्प^० - पाग ३, १, १३४, -र्पम्
सु २, ५, -र्पेण विध ५, २४

दर्प-समन्वित- -ते विध ९९,
११

दर्प-हर- -र: शोध ३१३

दर्पित- -त: विध ८६, २०, वृदे
७, ५४

दर्पण^१ - पा ३, १, १३४, -ण: अप
६८, २, ३०, -णान् अप २०, १,
३, -णे अप ६७, ६, १, ७०, ५, ३
दर्पणा(ण-आभा>)भ^३ - -भा
अप ६३, ४, ९.

दृस- -स: आपध १, १३, ४, हिध
१, ४, १८

दृप्- पाठ २, १३

✓दृप्, फू पाधा तुदा पर उत्केशे
?दृप्स.^३ माशि १२, १^१

✓दृभ् पाधा तुदा पर ग्रन्थे, चुरा
उभ सदभे > दर्भण^१ - -णम्,
-णे बौश्रौ ६, २५ २१, २७
२४

✓दृभ् पाधा चुरा उभ भये

✓दृम्फू^१ पाधा. तुदा पर उत्केशे

दृम्फू- पाठ १, ९३

दृम्भू- पाठभो २, १, १२४

दृवन्- ✓दृ, दृ (विदारणे) द्र

✓दृश^३ पाधा भ्वा पर प्रेक्षणे,

दर्शेत् आमिष्ट २, ७, १० . १२

दर्शयम^१ द्राश्रौ १३, २, ८^१, लाश्रौ
५, २, ११^१, पावा ३, १, ८६

दर्श शाश्रौ १५, २३, १, बौश्रौ,
पाग २, १४, ५^३, शुभ ४, ५९^२,
या १, १९^१, दृशतु वृदे ८,

७०, शुभ ३, २१६, ददर्शित्, दद्रष्ट
पा ७, २, ६५, दृष्टा शाश्रौ १, ३,

६^१, दृष्टार आपश्रौ २४, २,
२५^१, अदर्शत् द्राश्रौ ४, १, ११,

लाश्रौ २, १, १०, अद्राक्षित् अत्र
१, १६, ६, ३१, अद्राक्षु: शाश्रौ

१५, २४, १^१, अदर्शम् बौश्रौ
१८, ४५ : १३, अप्राय २, २, ३,

नदर्शम् बौश्रौ ८, १८ . १^१

दृश्यते बौश्रौ २०, १ : १५,
हिश्रौ, वैताश्रौ ३२, २७^१, या

१, १०××, पा ३, २, १०१××;

पावा २, १, ३३, ५, १, ५८;

दृश्यते निसू ९, ७ १५, विध
४९, ९, वृदे १, ८, माशि ९, ८,

याशि १, ८६, दृश्यन्ते वाधूश्रौ
४, ३४ ६, ८, कौसू, पा ३, ३,

२, ५, ३, १४, दृश्यताम् आग १,
५, ५, अदृश्यत् वृदे ४, ६६;

दृश्येत् शाश्रौ १, ३, ६, आपश्रौ,
दृश्येरन् अप ५३, २, २, दृश्येयुः

अप ७१, १५, २

नदर्शो आपश्रौ १०, १३, ११^६;

बौश्रौ २८, ९ : २३^६, आमिष्ट
२, ५, २ ५^६, हिग १, १७,

४^६, विध १, ३९, या १२, २७;

दृशित् या १, ९, दृश्रे या १,
९^१, नदर्शित् आश्रौ ४, १३,

७, शाश्रौ, या ६, १३, वैशि ११३.

दर्शयते आपश्रौ १०, १३, ४,
दर्शयति काश्रौ २०, ५, ४;

वाधूश्रौ, दर्शयन्ति आमिष्ट २, ५,
१ ५६, ५७, अप ५९, १, १२;

७०^२, ७, ३, ऋषा १, ६४, दर्श-
येत् बौश्रौ २६, २८ ५, लाश्रौ;

दर्शयेरन् लाश्रौ ३, ३, २१^६;

दर्शयेयुः द्राश्रौ ७, ३, १९^६;

लाश्रौ ९९, २०

दर्शयिष्ये कप्र १, १, १, दर्शयि-
ष्यामि सु २८, ५, अदीदृशम्

बौश्रौ १८, ४४ ९

a) अर्थ: व्यु च^२ । b) दृ^३ इति संस्कृते टि । c) हिंसार्थकम् अन्वय इति पालि । d) पावा ३, १, ४४
परामृष्ट द्र । e) भावे कर्तरि च कृत् । f) = आदर्श- । g) विप । बस । h) पाठ^२ दृप्स: इति शोध विमृश्यः
(तु संस्कृते टि) । i) अर्थ: व्यु च^१ = सूची- इति भवस्वामी, = कट- इति रुद्रदत्त [आपश्रौ ११, ८, ५],
PWW प्रमृ । j) पावा ७, १, ५९ परामृष्ट द्र । k) शौच ४, ६९ पा १, ३, ५७, ३, १, ४७, ६, १, ५८, ४, ६२, ७, ४,
१६ पावा १, ३, २९, ४, ५३, ५३, ७, १, ६ परामृष्ट: द्र । l) पामे वैप १, १६६७ t द्र । m) सपा आपम २, १७,
२७ प्रमृ जघान इति पामे । n) दर्श इति पाठ^२ यनि शोध । o) परस्पर पामे । p) सपा ऐवा ७, १७
अदर्शु इति पामे । q) पामे वैप १, १२०८ a द्र । r) यद् दृ इत्यस्य स्थाने सपा. आश्रौ ८, ३, २४ वीथ्यथते
इति, शाश्रौ १२, २३, ५ वीथ्यथमाना इति च पामे । s) पामे वैप १, १६६५ v द्र । t) परस्पर पामे ।

अदिदशैयिषोत् निसू ३, १०
 ४४, १२ ४६××
 १ दश^a— पाग ३, १, १३४, —फंशै
 बौश्रौ १४, १६ ८, आपमं,
 —शंम् आपश्रौ ५, ८, ८१, बौश्रौ,
 —शंस्य शागृ १, ३, ७, कप्र ३, ८,
 ८, —शक्ति शागृ १, ३, ७, कौसू
 १३९, १३, कप्र ३, ५, १२, ८, ८,
 —फंशैय शाश्रौ ४, १८, ७, आमिगृ
 १, ५, २ २०, —शै बौश्रौ २७,
 ६ २७, हिगृ, —शैन वैश्रौ १,
 १९ : ३, ३, १ : ९१, अप २२,
 ९, १
 दार्श^b— शंम् बौश्रौ २५,
 १६ ६१, कागृउ ४२ २२,
 द्रागृ २, १, २, —शंस्य द्रागृ २, २,
 ८, —शैन बौश्रौ २७, ७ २
 दार्शी^c— शंमि कौसू
 २४, १८
 दार्शिक^d— केषु वैश्रौ २०,
 २५ : ९
 दार्शिकी^e— की माश्रौ
 ५, २, १२, ३५, —कीम् वैश्रौ ८,
 ९ ३, —क्या आपशु ४, ६,
 हिगृ २, ६
 दार्श^f— श्यम् बौश्रौ १४,
 ८ : ४१
 १ दश-पूर्णमास^g— स आमिगृ
 १, ७, ३ ४०, ४१
 २ दश-पूर्णमास^h— सद्यो आश्रौ
 १, १, ४, १२, ४, १४, आपश्रौ,
 —सा काश्रौ ४, ६, ११, —साभ्याम्
 आश्रौ ४, १, १, २, १२, ४, ६,
 शाश्रौ, —सौ आश्रौ १, १, ३,

२, ८, १, शाश्रौ.
 दार्शपूर्णमासिक— क
 हिश्रौ ४, ५, ६६, —केभ्यः आपश्रौ
 २, ११, ६, —कै. आपश्रौ ९,
 १२, ७
 दार्शपूर्णमासिका(क-
 आ)ज्य— ज्यानि आमिगृ ३, ५,
 ५ १६^h
 ३ दशपूर्णमासⁱ— सैः
 वैश्रौ १, ७ ७
 दशपूर्णमास-तन्त्र^j— न्त्रा
 जेगृ १, १ ५
 दशपूर्णमास-देवता— ताभ्य
 शागृ १, ३, ३, पागृ १, १२, १,
 कागृ ५३, २
 दशपूर्णमास-धर्म— र्मा
 काश्रौ ४, ३, २, लाश्रौ १०, १६,
 १२
 दशपूर्णमास-प्रकृति^k— तयः
 हिश्रौ २, ८, ४०, कागृ १३, ७,
 —ति वागृ १, ४, —तीनाम्
 आपश्रौ १०, ४, १२, मीसू १२,
 १, ८
 दशपूर्णमास—मन्त्र—
 न्त्राणाम् शुभ १, १४
 दशपूर्णमास-याजिन्— जी
 आपश्रौ ९, ४, २, १४, ४, बौश्रौ
 दशपूर्णमास-याजि-व—
 त्वम् आमिगृ २, ७, २ : ३,
 हिगृ १, २६, ३
 दशपूर्णमासयोर-अयन—
 नम् बौश्रौ १८, ५३ १.
 दशपूर्णमास-वत् काश्रौ २४,
 ४, ३१, २५, १३, २९, आपश्रौ

दशपूर्णमास-विधान— नेन
 वैध २, १, ६
 दशपूर्णमासा (स-आ) प्रय-
 णेष्टि-चातुर्मास्य-पशु-सोम— मैः
 वाध ११, ४६.
 दशपूर्णमासा(स-अ)नुयोज्य—
 ज्यानि वैगृ ५, ४ २२
 दशपूर्णमासा (स-अ) न्त^l—
 न्तम् काश्रौ २४, ६, ३३
 दशपूर्णमासा(स-अ)यन—
 नानि शाश्रौ ३, ११, ४, वैताश्रौ
 ४३, २८
 दशपूर्णमासा(स-आ)रम्भ—
 म्भे काश्रौ ४, ५, २१
 दशपूर्णमासिक^m— क भाश्रौ
 ८, १, ७ⁿ, —कानाम् वाश्रौ १, १,
 १, ६५
 दश-पूर्णमासा (स-अ)भिहोत्रा-
 (त्र-अ)र्थ^o— थौ वैश्रौ ११, ७ ७.
 दश-पूर्णमासा(स-अ)प्रयणा(ए-
 अ)र्थ— र्थम् हिगि २३ १२
 दश-पौर्णमास— सद्यो गोगृ १,
 ५, १, ८, २१, २४, —साभ्याम्
 बौपि २, ४, १९^m
 दार्शपूर्णमासिक, का^p— क
 बौश्रौ १३, १ . २, —कम् बौश्रौ
 ५, ९ . १४, १३, १ : १, २८, ८ :
 १४, माश्रौ १, ५, ५, १, ५, २,
 १५, ३३. —का शाश्रौ ५, १८, ७,
 भाश्रौ ६, १५, ५, —कात् माश्रौ
 २, १, १, १९, —कात् हिश्रौ ७,
 ८, १२, —कानि बौश्रौ ५, ५ .
 ३७, हिश्रौ ३, ८, २३, बौपि १,
 ४ १६^h, —काया आश्रौ २,

a) वैप १ द्र । b) विप । भवाद्यर्थे अण् प्र । c) = ऋच्- । d) = दार्श- । ठक् प्र । e) = वेदि- । f) मलो कस । g) सप्र. बौपि १, ४ : १६ दार्शपूर्णमासिकानि, आज्यानि इति पाभे । h) तत्रभवी- यस्य प्र लुक् । i) विप । बस । j) मत्वर्थीयष् ठन् प्र । k) *सी° इति पाठः^l यनि शोध (तु सस्कर्तुः टि) । l) द्रस > चस । m) °प् इति B. । n) = दार्शपूर्णमासिक- ।

१७, २, बौशु ३: १५, -कायै
 वौश्रौ २१, २: १७, -के माश्रौ
 ५, १, ८, ११, -केन भाश्रौ १२,
 ५, १
 दार्शपौर्णमासिकी^५ - की
 बौश्रौ ५, ५ १०, २१, ६: १३,
 २४, २४ ४
 दर्शपौर्णमासा(स-अ)त्यय-
 -ये कप्र ३, ८, १०
 दर्श-वत् वैश्रौ १४, ३ २०, १७:
 ५, आमिगृ २, ४, ५: ५
 दर्शा(शि-अ)न्त^६ - न्तम् कप्र २,
 ९, १
 दर्शत^७ - पाउ ३, ११०, -फं०त
 आश्रौ ५, ५, २, १०, ५, शाश्रौ,
 या १०, २, ३, -फंत शाश्रौ ८,
 २४, १, -फंतम् आश्रौ ६, ७, ६,
 ७, ४, ३, शाश्रौ
 १दर्शन- नम् काश्रौ १, ४, ६, ६,
 १०, १, ६, २५, ८, २१, जैश्रौका,
 या ५, १, -नस्य पावा १, २,
 ५१, मीसू १, १, १८, -नात्
 शाश्रौ १०, २१, १०, काश्रौ, या
 २, ११, ३, ४, ५, १३, १०, ८,
 -नाय शंघ १३३, गौघ ९, ५५,
 या ५, १३, ९, २७, १२, १५,
 -ने काश्रौ १२, १, १२, २५, १०,
 ३, कौसू, -नेन वैगृ १, २१ १;
 या १, १४
 दर्शन-मात्र- -त्रे आमिगृ २, ६,
 ७: १६
 दर्शन-विषय- -ये पावा ३, २,
 १११
 दर्शना(न-अ)णू-भाव- -वात्
 या ६, ३०
 दर्शना(न-अ)रोहण- -णानि

अप ६८, २, १५
 दर्शना(न-अ)र्थ- -र्थः आपघ १,
 ८, १७, २२, २८, ६, हिघ १, २,
 ११०, ७, ४२
 दर्शना(न-अ)विरोध- -धाभ्याम्
 काश्रौ २२, १, ११
 दर्शनीय, या- -०य या १०, २,
 ४२^२; -फंय आपश्रौ २२, २६,
 १९, हिश्रौ २३, ४, ३३, -यम्
 या १०, ८, शैशि ११०, याशि
 २, ८१, -या वाघ ६, ४, -याम्
 वाघ २, ३५, -याय या १४,
 २६, -चौ या ६, २६
 दर्शनीया(य-अ)पत्य^८ - त्य
 आपघ २, १६, २०, हिघ २, ५,
 २०
 २दर्शन^९ - न पा ५, २, ६
 दर्शयत्- -यन् वृदे ६, ११९,
 -यन्त. अप ७०^३, ७, ४
 दर्शयाम् √अस(भुवि), दर्शयामास
 बौश्रौ १८, ४४: ४, वृदे ५, ६३
 दर्शयित्वा बौश्रौ ९, १९: ३८,
 आमिगृ
 २फंदर्श->ंशा^{१०} - शा आपश्रौ
 १९, १२, ३, बौश्रौ १९, ३: ७,
 हिश्रौ २३, २, १४
 दर्शित- -त अप ३६, ८, २, वृदे २,
 ११४, -तम् आमिगृ २, ६, ७
 १६
 दिदर्शयिषत्- -षन् निसू ३, १२
 ३२, ४३××
 दिदृक्षा- -क्षया जैश्रौका १६७
 दिदृक्षु- -क्षु वृदे ४, १
 फंदिदृक्षेण्य^{११} - ण्यः आपश्रौ २२,
 २६, १९, हिश्रौ २३, ४, ३३
 दृक्ष- -क्षे पावा ६, ३, ८८

दृश्- पाग ४, १, ४^६, ५, ४, १०७;
 दृशि ऋन ५, १, ७
 दृशा- पा ४, १, ४
 दृक्-स्ववस्-स्वतवस्- -वसाम्
 पा ७, १, ८३
 दृग्-दृश^{१२} पा ६, ३, ८९, पावा ६,
 ३, ८८.
 फंदृश^{१३} - -श^{१४} आपश्रौ २१, ९, १५;
 वाश्रौ ३, २, २, १५, हिश्रौ १६,
 ४, १
 १दृशान- पाउ २, ९०, -फंन काश्रौ
 १६, ५, १, आपश्रौ
 २दृशान^{१५} - नस्य चाअ १६. १४.
 दृशि^{१६} - -शये हिपि १८, ११फं
 दृशि-हान- -ने अप ४८, ३९
 दृश्य(शि-अर्थ >)था^{१७} - थयाम्
 पावा ३, १, २६
 दृशीक^{१८} - पाउभो २, २, १९, पाग
 ६, २, ११८, -कम् या १०,
 ८फंफं
 दृशीकु^{१९} - -कम् आपश्रौ ११, १३,
 १०, ११, २१, ९, ३, हिश्रौ १६,
 ४, ५.
 दृशु- पाउवृ १, २३
 फंदृशे^{२०} बौश्रौ ८, ५ ७, २८, ३:
 १५, वाश्रौ, आपमं २, १, २^१;
 आमिगृ^{२२} १, १, ४ १४××;
 बौगृ २, ४, ११^२, भागृ, या १२,
 १५फं, २४, २६, भागि १८;
 पा ३, ४, ११
 दृश्य- -श्य. कप्र २, ६, ८, -श्यम्
 वृदे २, ४२, पा ४, ४, ८७
 दृश्यमान, ना- -नम् वाधुश्रौ ३, ८६:
 १३, आमिगृ ३, १०, २४, -नाशु
 शाश्रौ ६, ७, ४, -ने शाश्रौ २,
 ७, २, बौश्रौ, -नेषु आश्रौ ८,

a) = वेदि- । b) विप । बस । c) वैप १, १६६६ । द्र. । d) = आदर्शादि- । e) वैप २, ३ खं द्र । f) वैप १ द्र ।
 g) तु. पागम. । h) पाभे. वैप १, १६६७ । j द्र. । i) = ऋषि-विशेष- । व्यु १ । j) पाभे. वैप १, १६६७ । द्र. ।

१३, २३, शाश्रौ, कौश्र १, १०, १२^४
 हश्न्- पा ३, २, ९४
 हष्ट, ष्टा- पाग २, १, ५९, -ष्ट बौश्रौ २०, २ २८, २५, २० २×५, निसू, -ष्टम् काश्रौ १, २, २०, बौश्रौ, पा ४, २, ७, पावा १, १, ७, ४, १, ९२, २, ७, मीसू ५, ३, ७, -ष्टा आपश्रौ १९, १२, ३१, बौश्रौ, -ष्टा. बौश्रौ २०, २ १७^१, १०. २०×५, निसू, या १४, ६^१, -ष्टानाम् ऋअ ३, ४, -ष्टाम् आपश्रौ ३, १, ७, बौश्रौ, -ष्टे काश्रौ १, २, २३, बौश्रौ, -ष्टेन निसू ३, २ ६, -ष्टेषु ऋप्रा २, ५, -ष्टौ बौश्रौ २३, १३ १६, वृदे १, १०१, ५, १४०
 हष्ट-कम-त्व- -त्वात् ऋप्रा १०, १९
 हष्ट-तस् () गोश्रु ३, ५, २७
 हष्ट-स्व- -त्वात् आश्रौ ३, ६, ५, १०, ५, १९
 हष्ट-प्रवाद- -द्वा या १, १४^४
 हष्ट-प्रवृत्ति-त्व- -त्वात् मीसू ७, ४, २
 हष्ट-लि(ङ्ग>)ङ्गा^० -ङ्गा ऋअ २, २, २३, ५, ४४, -ङ्गाभि वृदे ४, ८०
 हष्ट-विप्रयोग-त्व- -त्वात् पावा १, ४, २१^४
 हष्ट-व्यय^० -यम् या १, ८, ५, २३
 हष्ट-श्रुत- -ताभ्याम् आपध १, ३, २७, हिध १, १, १०२

हष्ट-सहस्र-चन्द्र- -न्द्र वैश्रु ३, २१ ७
 हष्टा(ष्ट-अ)हष्ट-कर- -रम् शंघ १०१
 हष्टा(ष्ट-अ)नुविधि^०-त्व- -त्वात् पावा १, १, ६
 हष्टा(ष्ट-अ)न्त^० -न्तात् वाघ १९, १०
 हष्टा(ष्ट-अ)भ्युद्धष्ट- -ष्टानि अप्राय २, २
 हष्टा(ष्ट-अ)र्थ, र्था^० -र्थस्य या १०, १०, ४६, -र्था या ३, १०, -र्थे गौघ १, ५
 हष्टवत्- -वान् विध १, २१, वैध १, ११, १२, वृदे ५, ५८
 हष्टवती- -ती वृदे ८, ३३
 हष्टि- पाग ३, ४, ७४, पावाग ३, ३, १०८^१, -ष्टिः काश्रु ७, २०, -ष्टिम् शैशि १५६, माशि
 हष्टि-पूत- -तम् विध ९६, १४
 हष्टि-विषय-> दार्ष्टिंविषयिक^४ -कम् अप ४८, १३५, या ७, ८
 हष्टि-हीन- -नम् वृदे ४, २१
 हष्टि^४ - (> दार्ष्ट्ये- पा) पाग ४, १, १३६
 हष्ट्वा काश्रौ १६, २, १५, आपश्रौ
 हष्टव्य- -व्य कप्र १, १, १८, -व्यम् अप २३, ९, १, पावा १, ४, ५१, -व्या अप २३, ७, १
 हष्टुम् विध १, २१, ३३, वृदे १, ५९
 हष्टृ- -ष्टरि पा ५, २, ९१, -ष्टा या १४, ५, -ष्टारः शुअ १, ३, -ष्टारम् वैताश्रौ १८, १२, -ष्टृभ्य वृदे ५, १७०, -ष्टृ

आपश्रौ १२, २०, ६, २०, १, १७;
 बौश्रौ, वैताश्रौ १८, १२^१
 हश्न्-, हषा-, १, २ हशान- √हश् द्र
 रेहशान- (> हशानक-) कृशानु- टि द्र
 हशि-, हशीक-, हशीकु- प्रसू., हश्न्- √हश् द्र
 हषद्^१- पाउ १, १३१, -षत् आपश्रौ ९, ११, १६, भाश्रौ; कौसू ८१, १९^४, -षद् भाशि १८, -षदम्; काश्रौ २, ४, १५, ५, ३; आपश्रौ; -षदि काश्रौ २, ५, ५, ३, ८, ११^१; आपश्रौ, -षदे वैश्रु ३, ७ २०; -षदौ भाश्रौ ६, १६, ९, २१
 दार्ष्टि^१- -दम् शुअ १, ६६.
 हषा, श^४त्-पुत्र- -त्रम् गोश्रु २, १, १५, द्राश्रु १, ३, १९, -त्रे, -त्रेण आपश्रु १४, ११, भाश्रु १, २२ ३
 हषत्-स्थान- -नम् पावा ८, २, २२.
 हषद्-उपल- पाग २, २, ३१, -लम् काश्रौ २, ३, ८, भाश्रौ १, २, २, १७, वाश्रौ १, २, ४, २, -ला-भ्याम् आमिश्रु १, ७, १ १२, २: ९^१, बौश्रु २, ८, २३^१, हिपि १०: ८, -ले काश्रौ २, ४, १५; आपश्रौ, आश्रु ४, ३, १८^४; आमिश्रु.
 हषदुपला(ल-अ)वकाश- -त्रे बौश्रु २, ८, २३
 हषद्-व(त् >)ती^४- -वत्या शाश्रौ १३, २९, १४, २९, आपश्रौ २३, १३, २, १३, हिश्रौ १८, ४, ३७, ५०, लाश्रौ १०, १७, १३

a) पामे पृ ४६३ b द्र । b) हष्टि^० इति स्क । c) विप । बस । d) ष्वात् इति गुसं । e) विप । बस. (तु. अभा) । f) तु पागम । g) तस्येदमीयष् ठकृ प्र । h) व्यप । ल्यु १ । i) उपद्रष्टे इति C. । j) वैप १ द्र. । k) पाठः ? तु. संस्कृतुः टि । सपा. आश्रु ४, ३, १८ हषदुपले इति पामे. । l) सास्यदेव-तीयः अण् प्र. । m) गोश्रु. पाठः । n) = नदी-विशेष- ।

१९,८, -स्याम् वृदे २,१३७^१
 दार्षद्वत्^२ - तम् शाश्रौ १३,
 २९, ३१^३, काश्रौ २४,६, ३०,
 निसू १०,११ : १^४, -ते आपश्रौ
 २३, १३, ११, हिश्रौ १८, ४,
 ४७, लाश्रौ १०,१८,१२^५
 दार्षद्वत्-तौर- रयो
 लाश्रौ १०,१८,१०, निसू ६, १
 ९, १९
 दार्षद्वत्-वत् काश्रौ २४,
 ७,९
 हृषद्वती-तौर- रेण काश्रौ २४,
 ६,३६
 हृषद्वत्य(ती-ञ्)प्यय- -ये काश्रौ
 २४,६,६
 ?हृषन्^६ आश्रौ ९,७,१२
 हृषारव^७ - नम् हिपि ६. ५^६
 हृष्ट- १-२घृष्टि-, हृष्ट्वा √हृश् द्र
 √दे पाधा भ्वा. आत्म रक्त्ये
 √देप्^८ पाधा भ्वा आत्म क्षर्ये
 देय- √दा (दाने) द्र
 √देव पाधा भ्वा आत्म देवने
 १-२देव-, देव-ऋषि- प्रभृ √दिव् द्र
 देवट^९ - पाठ ४,८१
 देवत^{१०} -> दैवति^१ - (>^१तायन-
 पा) पाग २,४,६१
 देव-तम - √दिव् द्र
 देवतर^{११} - (>^१दैवतरेय- पा) पाग
 ४,१,१२३
 देवतरस^{१२} -> दैवतरस- -०स आश्रौ

१२,१४,३, आपश्रौ २४, ९, ३,
 बौश्रौ ३३ ३, वैध ४,१,६
 देवतरस-वत् आपश्रौ २४, ९, ३,
 बौश्रौ ३३ ३, वैध ४,१,६
 देव-तस्, देवता- प्रभृ, देवन-
 √दिव् द्र
 ?देवना वाधुश्रौ ४,२६ : ३९
 देवन्त^{१३} -> दैवन्ति- >^१न्तायन-
 -न बौश्रौ ६. २
 दैवन्त्य^१ - -न्त्यम् जैगृ १,१४ १०
 √देवय, देवयत्- प्रभृ √दिव् द्र
 ?देवयादुः^{१४} आमिगृ २, ६, ६ : २४
 देवर^{१५} - पाठ ३,१३२, फि ६७, -र
 आगृ ४, २, १८, वृदे ७, १४,
 या ३,१५^{१६}, -रम् या ३,१५^{१७},
 -^{१८}रा^{१९} आपमं १, १, ८, बौगृ
 १,६,२१, -^{२०}राणाम् कागृ २५,
 ४७, वागृ १३, २, -रात् बौध
 २,२,६२, गौध १८,४
 देवर- (हन > घ >) णी- णी कौगृ
 १,१०,२, शागृ १,१६,४
 देवर-व(त् >) ती- -त्याम् गौध
 २८,२४
 १ २देव-रथ- प्रभृ √दिव् द्र
 देवल^{१६} - पाठ १, १०६, -ल शंघ
 २०१, ऋध, -लस्य चाञ्च १६:
 २७, -लानाम्^{१७} वैध ४,७,४
 देवल- -०ल आश्रौ १२, १४,
 ७, ८, आपश्रौ
 दैवलि- (>^१लायन-)

देवत-> दैवति- टि द्र
 देवल-वत् आपश्रौ २४,१०,१, २;:-
 बौश्रौ
 देवलक^{१८} - कान् विध ८२,८
 देव-वत्- प्रभृ √दिव् द्र
 ?देवान्^{१९} ऋपा १६,७७
 देववेल्^{२०} - ला: बौश्रौ १७ १०
 देववेश्मन्- प्रभृ, ?देव-स्थान-
 √दिव् द्र
 २देवस्थान^{२१} -> दैवस्थानि- पाग २,
 ४,५९, -नय: बौश्रौ २०.०.३-
 ?देव-स्पृति- प्रभृ √दिव् द्र
 देवा(व-ञ्)वी^{२२} - वी: हिश्रौ २१,१,२-
 देविका- प्रभृ √दिव् द्र
 दैवलि- पाठवृ १,५६
 देवी-, देवीधिय- प्रभृ √दिव् द्र
 देवु^{२३} - पाठ २, ९९, -^{२४}वृषु आपमं
 १,६,६, कागृ २५, ४७
 देवेज्या- प्रभृ √दिव् द्र
 देश- √दिश् द्र
 देशकपटु^{२५} - उ कौसू ४८,१०
 देशकाल- प्रभृ., देशीय-, देश्य-,
 देव्दी- √दिश् द्र
 १-२देह- प्रभृ √दिह् द्र
 देहत्- पाठभोवृ २,१,२६०
 देहन^{२६} - -नेषु कौगृ ३, १०, १०^{२७}
 देहल^{२८} - पाठभोर, ३, ९८, पाग ४, १, ४१
 देहली- पा ४, १, ४१, -लीम्
 आपगृ ६, ९, -लीषु शागृ २,
 १४, ९^{२९}, -ल्याम् भागृ ३, १३^{३०}

a) = सत्र-विशेष- । b) ङ्ङ इति पाठ. ? यनि शोधः । c) अर्थ व्यु च ? = पेषयन् इति
 भाष्यम् । कु° इति आन । d) = पात्र-विशेष- । व्यु ? । e) सपा माश १२,५,२,७ वृषारवौ इति, बौपि १,६ :
 ७ वृषारवम् इति च पामे । f) तु BEG । g) = शिल्पिन- । व्यु ? < √देव^२ इति MW । h) = ऋषि-
 विशेष- । व्यु ? । i) दैवलि- इति पाका, दैवोति- इति शाकटायन इति पागम । j) यञ् प्र उस (पा ४-
 १, १०५) । k) पाठः ? देवाः अदुः (लुळि प्रपु३) इति शोधः । l) वैप १, १६६९ h द्र. । m) पामे
 वैप १, १६६९ q द्र. । n) वैप १ द्र । o) बहु. < दैवल- । p) = पूजक- । व्यु ? । q) स्वरूपम्^{२१} r
 मे° इति मूको । r) = अहिल्लत्रक- । व्यु ? । s) सपा. णेषु < > लीषु इति पामे । t) = गृहावग्रहण-^{२५}
 व्यु ? < √दिह् इति प्रायोवाद् ।

१२, जैष्ठ्य १, २३ : ११, आपध
 २, ४, २, हिध २, १, ५५
 देहलि^१ - -लिम् वैश्व ३, ५ : ३, हिद्य
 १, २२, ६
 देहाद्यैर्यात् अप १, ४६, १
 देहि^२ अप १, ११, ४
 देहिन्- √दिह् द्र
 √द्वै पाधा +वा पर. शोधने
 दैक्ष- प्रसृ, दैक्षोपसद- √दीक्ष् द्र
 दैड^३ -ड गो २, ६, -डा. गो २, ९
 दैडी^४ -डी गो २, ७, -ड्य
 गो २, १०
 दैत्य- प्रसृ दिति- द्र
 दैधिषव्य- २दिधिषु- द्र
 दैन्य- √दी (क्षये) द्र
 दैयांपाति- व्यापात- द्र
 दैरस- दिरसा- द्र
 दैर्घ-, दैर्घतम- प्रसृ दीर्घ- द्र
 दैलीपायन-, णि- दिलीप- द्र
 दैव- प्रसृ √दिव् द्र
 दैविकि^५ -किः बौश्रौ १० ३^६
 दैवत- प्रसृ √दिव् द्र
 दैवतरस- देवतरस- द्र
 दैवतरेय- देवतर- द्र
 दैवतायन-, दैवति- देवत- द्र
 दैवत्य-, दैवदत्ति-, °दर्शनन्-,
 °दर्शिन-, °दास- √दिव् द्र
 दैवन्तायन-, °वन्ति-, °वन्त्य-
 देवन्त- द्र
 दैवमतायन- प्रसृ √दिव् द्र
 दैवयातव-, (> २दैवयातवक-)
 √दिव् > देवयात- टि द्र
 १दैवयातवक- √दिव् > देवयातव-
 टि द्र.

दैवल- प्रसृ देवल- द्र.
 दैवरथायनि- प्रसृ, १-२दैविक-,
 दैवी-, दैवीधिय-, ण्यक- प्रसृ
 √दिव् द्र
 दैवोति- (> °तायन-) देवत->
 दैवति- टि द्र
 दैवोदास- प्रसृ दिवोदास- द्र
 दैव्य, व्या- प्रसृ √दिव् द्र
 दैशोय-, दैष्टिक- दिश् द्र
 √दो √दा द्र
 दोग्धुम् प्रसृ √दुष् द्र
 दोट^७ - (> °धी- पा) पाग ४, १, ४१
 दोडी- पा, पाग ४, ३, १६७
 दोला^८ - (> दोलक- पा) पाग
 ५, ४, २९
 दोष- प्रसृ √दुष् द्र.
 दोषन्^९ - णि आश्रौ ३, ३, १,
 शाश्रौ ५, १७, ५, माश्रौ ५, २, ९,
 ४, -ष्ण बौश्रौ ४, ९ ३, ८,
 भाश्रौ ७, १८, १२, १९, ४
 दोषण्य^{१०} - ग्यस् आपमं १, १७, २१
 दोषा^{११} - पाउवृ ४, १७५, पाग १, १,
 ३७, -णवा आश्रौ ८, १, १८,
 ११, ३, आपश्रौ ९, ७, ३^{१२}, बौश्रौ
 २८, १२ ६^{१३}, ७^{१४}, भाश्रौ ९,
 ९, १०^{१५}, माश्रौ ३, ३, ५^{१६}, वैश्रौ
 २, २. १२^{१७}, अप्राय ४, ४, अप
 ४८, ७४, ११६, वृदे ३, १०^{१८},
 साम् १, १७७^{१९}, निघ १, ७, या
 ३, १५^{२०}, ४, १७, -षाम् ऋप्रा
 ९, ४१^{२१}
 †दोषा-वस्तु^{२२} - ०स्त आश्रौ ३,
 १२, ४^{२३}, ४, १०, ३, बौश्रौ ३,
 ८ २६, हिश्रौ १५, २, २०,

शाश्रु ५, ४, ४^{२४}, ऋप्रा
 दोषिन्- √दुष् द्र
 †दोषोगाय^{२५} वैताश्रौ १७, २, कौसू २३-
 २, ५०, १३, ५९, २५, अत्र ६, १.
 दोस्^{२६} - पाउ २, ६९, दोः आश्रौ १२-
 ९, ६, आपश्रौ ७, २२, ६^{२७}, बौश्रौ;
 या ४, ३^{२८}, दोभ्याम् अप ६८,
 २, २, ३, १०, दोषम् वाश्रौ २,
 १, ६, ४
 दौष्क- पावा ७, ३, ५१
 दोह-, दोहन- प्रसृ √दुष् द्र.
 दौत्य- दूत- द्र
 दौरङ्गि^{२९} - ङ्गि बौश्रौ २७. ९.
 दौरार्द्धि- दुरार्द्धि- द्र
 †दौर्गह^{३०} - ह अप ४८, ९३; निघ
 १, १४
 दौर्गायण- २दुर्ग- द्र
 दौर्जीवित्य- दुर्जीवित- द्र.
 दौर्बल्य- दुर्बल- द्र
 दौर्भागिनेय-, १-२दौर्भाग्य-
 दुर्भाग- द्र
 दौर्भात्र- दुर्भात्रि- द्र
 दौर्मनसायन- २दुर्मनस्- द्र.
 दौर्मित्रि- २दुर्मित्रि- द्र.
 दौर्हद- दुर्हद- द्र
 दौर्हदय- दुर्हदय- द्र
 दौवारपाल-, °लि- प्रसृ द्वार- द्र.
 दौषकगति^{३३} - (> °तायन-) पाग २-
 ४, ६१
 दौःषन्ति- दुःषन्त- द्र.
 दौष्क- दोस्- द्र
 दौष्कुलेय-, दौष्कुल्य- दुष्कुल- द्र.
 दौष्कृत्य- दुष्कृत- द्र
 दौष्टव- दुष्ठ- द्र.

a) = देहली-। b) पाठ ?। सपा श्रौ १९, ७, ४ देवी इति^{३४}। मा. च तत्र = देव्य इत्याह ?।

c) पाठ ? यथाक्रमम् ऐड-, ऐडी- इति शोध (तु वैप १, १६७० 0)। d) = ऋषि-विशेष-। व्यु^{३५}। e) दे-
 इति पाठ^{३६} यनि शोध (तु संस्कृते टि)। f) तु पागम। g) वैप १ द्र। h) पामे. वैप १, १६७० m
 द्र। i) वैप १, १६७० n द्र।

दौष्यरुच्य- दुष्यरुच्य- द्र
 दौष्यन्ति- दुष्यन्त- द्र
 दौष्वप्य- दुष्वप- द्र
 दौष्वप्य- दुष्वप- द्र
 दौःस्त्र- दुस्त्री- द्र
 दौहिक- ✓*दुष् > दोह- द्र
 दौहित्- , प्रायण- दुहित्- द्र
 द्यस्व^a पाठ ३, १३, ६
 द्यांपात^b -> द्यैयापाति^b - त्वै भाषि
 २८^क
 द्यावा ✓दिव् द्र
 द्यावाकृतो^c अप्राय ३, १०
 द्यावा-क्षाम् प्रभृ ✓दिव् द्र
 ✓द्यु पाषा अदा पर अभिगमने
 द्यु- प्रभृ ✓दिव् द्र
 द्युक्ष^d -क्षः ऋअ २, ९, ५२, -क्षम्
 आप्रश्चौ ६, १७, १०, भाश्चौ ६,
 ४, ४, हिश्चौ ६, ६, १६, -क्षाय
 आग् १, १, ४
 द्यु-गत्^e -गत् अप ४८, १०६,
 निघ २, १५
 ✓द्युत्^f पावा भ्वा आत्म दीप्तौ,
 द्योतते वैताश्चौ १४, ११, अप्राय
 २, ७, अप ४८, २०^क, निघ १,
 १६^क, अद्योतत या ११, ३६
 द्योतयति लाश्चौ ७, १२, ६,
 १०, द्योतयेत् आज्यो ३, २.
 द्योदियुत्त आश्चौ ४, ६, ३,
 शाश्चौ ५, ९, ७, बौश्चौ ६, १४.
 १५, या ६, १२, अप्रा ३, ४, १

द्विद्योत् या ११, ३६^क
 द्विद्युत्^g > त्व-व(त् >)ती- ती
 निस् ४, १३ १६
 द्विद्युत्- पा ७, ४, ६५
 दवीद्युत्ती- ऋत्या लुसू १, १.
 १७, २ १, ८ : १, साअ २, ४
 द्विद्युतान- न शाश्चौ ८, २२, १^क
 द्युत्- द्युत्तम् जैगृ २, ९ ३०, द्युते
 आप्रश्चौ १६, २७, ३, बौश्चौ १०,
 ४६ १६, वाश्चौ २, २, २, ११
 द्युत्त- > द्युत्तद्-यामन्^d-
 -मानम् आश्चौ ४, १४, २, ऋअ
 २, ५, ८०
 द्युता^h जैश्चौका ७६
 द्युतान^b -न काश्चौ ८, ५, ३०^क,
 आप्रश्चौ, ऋअ २, ८, ९६, साअ
 १, ३२६, -नस्य आप्रश्चौ १४,
 २५, ७, -नेन शाश्चौ १३, १२, ३
 द्योतानⁱ -नम् लुसू १, ११
 २८, -ने लाश्चौ ८, ६, ५
 द्युति- ति^j बौश्चौ २८, ४ : ३०,
 -तिम् अप ६९, ८, २, शध
 १२६ ५४, बौध ३, ८, ३९
 द्युति-मत्- -मान् विध १, ७
 द्योतन, ना^k - पाउवृ २, ७८, -नम्
 अप ४८, ६४^क, -नाना^l अप ४८,
 ११०, निघ १, ८, -नात् या २,
 २०, ७, १५
 द्योतन-कर्मन्^m -र्मणाम् या
 १४, १२

द्योतन-वत्- -वान् या ६, १९
 द्योतयत्- -यन् अप २४, ४, २
 द्योतान- -नस्य अप्राय ६, ३
 द्योत्य- -त्ये पावा ३, १, १२५^२.
 द्युम्^d - पाउभो २, २, १८४, -न्नः ऋअ
 २, ५, २३, -नम् आश्चौ २, ५,
 १२^क, ५, १३, ६^क, ८, ११, ४,
 शाश्चौ, आप्रम २, ११, २८^०, या
 ५, ५^क, -नम् आश्चौ ३,
 १५, ५, बौगृ १, ४, १३, -नम्
 आश्चौ ३, १२, २३, शाश्चौ,
 अप्राय ५, १२^०, -नम् शाश्चौ
 २, २, १७, ९, २२, ५, काश्चौ,
 -नम् आश्चौ २, ८, ३^क
 द्यु(न्न >) द्या-साह- -साहम् ऋप्रा
 ९, ३^क
 द्युन्नि- -न्नी आश्चौ ४, १५, २,
 ऋअ २, ८, ८७, अप ४८, ११६,
 ऋप्रा ७, २९
 द्युन्निनी- -नी^q आप्रश्चौ १८,
 १३, २१, बौश्चौ १२, ९ ८,
 हिश्चौ १३, ५, २१
 द्युन्नीक^r -क ऋअ २, ८, ८७
 द्युरुद्युर्^s अप ३६, १, १२
 द्युवन्^t - पाउ १, १५६
 द्युत्- प्रभृ, द्युन- ✓दिव् द्र
 ✓द्यै पाषा भ्वा पर न्यकरणे
 द्यो- ✓दिव् द्र
 द्यो(त् >)ता^u -ताम् आप्र ३, १२.
 द्योप्यते अप ४८, २०

a) ता द्यस्व इति पाठ^१ पद्यस्व (लोडि मपु१) इति शोध (तु विश्वनाथ BC प्रभृ च, वैतु जयरामः [पक्षे] अन्यथा-व्याख्यान) b) वैप २, ३ख द्र। c) अर्थ व्यु च^१। d) वैप १ द्र। e) या १, ६, ५, १०, ७ पा १, ३, ११, ३, १, ५५ पात्रा १, ३, ७९ परामृष्ट द्र। f) द्विद्युत्तया [ऋ ९, १४, २८] इत्यस्यानुकरणम्। g) द्युतानः (मा ५, २७) इत्यस्यानुकरणम्। h) विप व्यप (ऋअ साअ प्रभृ)। i) = साम-विशेष-। j) द्युनिरा^० इति पदसूची। k) भावे कर्तृ च कृत्। l) वैप १, १६७२ n द्र। m) विप। बस। n) पामे वैप १, ११७६ d द्र। o) पामे वैप १, १६७३ d द्र। p) द्युम्ने इति पाठ^१ यनि शोध (तु आप्रश्चौ ९, ९, १)। q) पामे वैप १, १६७४ ० द्र। r) = ऋषि-विशेष-। व्यु^१। s) क्पिप अनुकरणम्। t) नाप। व्यु^१ < ✓दु इति पाउ., द्यु-वन्- इति PW. प्रभृ। u) = कन्या-विशेष-। व्यु^१।

द्यौत्र- पाठभो २,३,७८

द्वक्षन्ति अप ७०^३, ११, ८.

द्वदिमन्- √द्वि द्र

द्विधस्- -धसी आपश्रौ १२, १८, १८, बौश्रौ

द्वप्स- -फप्स आश्रौ ३, १३, १५, ४, ७, ४, ५, २, ६, ८, ३, ३३, शाश्रौ काश्रौ २, ६, १६^b, द्विश्रौ १, ६, ८०^b, शुभ्र १, ८३^b, या ५, १४^क, ऋप्रा १४, ५८, -फप्सम् जैश्रौ ९, २७, अग्र १८, १, या ५, १४, -फप्सस्य आश्रौ ४, ६, ३, शाश्रौ ५, ९, १४, -प्सान् बौश्रौ ७, ७ २३××, द्राश्रौ, -प्सानाम् द्राश्रौ ७, २, ११, लाश्रौ ३, २, ११, -प्सेन कौस् १९, १०, ३६, १९.

द्वप्स-प्राशन-सख्य-विसर्जन- -ने आश्रौ ७, १, ६

द्वप्स-व(त >)ती- -तीभि.

आपश्रौ १३, २०, ८, -त्य वैताश्रौ २३, २२^d

द्वप्सा(प्स-अ)नुमन्त्रण->°णी- (य>)या- -या बौश्रौ १४, ४

४७, -या बौश्रौ १४, ५, ३४, -यासु बौश्रौ २१, १७ २३, २५, १८ ११

√द्रम् पाधा +वा पर गतौ, द्रमति वृदे ७, १२९^३, निघ २, १४^क, या ११, ५

दन्द्रमण- पा ३, २, १५०

द्रमिड- पाठना १, १०७

द्रव-, °वण-, °वत्- √द्र द्र.

द्रवदिड- -डम् निस् ८, २ ४१,

-डानि निस् २, ११: ४

द्रवस्-, √द्रवस्य √द्रु द्र

द्रविड^१- -डा अप ५६, १, ५, -डान् अप ५०, १, ५

द्रविण^२- पाठ २, ५०, -फण आपश्रौ ४, १२, १०, भाश्रौ ४, १८, ७, -फणम् शाश्रौ १, १५, १७, ३, २०, ४^३××, काश्रौ २, २२१, ९, ३, १८^३××, आपश्रौ १, १०, ६^३××, ५, १८, १^३, २०, २०, ९^३, बौश्रौ, द्विश्रौ २, ७, ५०^b, ३, ४, ५४^३, \$या ८, १^क, -णा आश्रौ २, ७, ९^क, बौश्रौ १०, ४९ २२, या ८, १८, -णानि आपश्रौ १७, १८, १^क, आश्रु १, १५, ३^क, शाश्रु, या ८, १८, -णाय आपश्रौ १७, २, ६^क, -फणे आपश्रौ १६, ३०, १, १७, ५, १२, बौश्रौ, -णेन माश्रौ १, ६, २, १७^क

द्रविण-प्रवा(द>)दा- -दा निस् ६, ११ ८

द्रविण-व(त >)ती- -तीम् विध ९०, ७

द्रविण-सादिन्- -दिन या ८, २

द्रविण-सानिन्- -निन या ८, २

^१द्रविण-स्पर्धन्^क- -र्धसु जैश्रौप १२ फद्रवि(ण>)णा-वत्- -वत् तैप्रा ३, ५, भाशि १०१

द्रविणस्- -णस या ८, २^कफ

√द्रविणस्य^३ > द्रविणस्यु^३- फ-स्यव. आपश्रौ १७, ७, ४, बौश्रौ ३, ३ ५, वैश्रौ १९, ५.

४, द्विश्रौ १२, २, २४, निस् ३,

९ ४८, -स्यु पा ७, ४, ३६

द्रविणस्-वत्- -वत् जैश्रौ १७ ११.

द्रविणो-द^३- -०द कप्र २, ४, ११, -द वृदे ३, ६१, ६२, ६५

द्रविणो-दस्, दा^३- -०द या ८, ३^क, -दस ऋग्र २, १, १५, वृदे ३, ६५, या ८, २^३, -दसम् कप्र २, ४, ९, वृदे २, २५, ३, ३८, -दसे ऋग्र २, १, ९६, वृदे ३, १२९, -फदा आश्रौ ५, २०, ६, शाश्रौ, आपश्रौ १७, ५, १२^म, बौश्रौ १०, ४५ ३६^म, वैश्रौ १९, ५ २५^म, द्विश्रौ १२, २, ९^म, वृदे ३, ६३^३, या ८, १^३क, २^३, -दाम् बौश्रौ २५, २१: ११, या ८, २^क

द्रविणोदस्^३- -स वृदे ३,

६४, या ८, २^३क, -सम् या ८,

२^३, -सा या ८, २^३, -सान् वैताश्रौ २०, ५

द्रविणोदा (दा-आ) दि-प्रार्थन- -नम् अग्र ५, ३

द्रवी√क √द्रु द्र

द्वय^३- पाग ५, ३, १०३^०, -व्यम् काश्रौ १, २, २, ४, १७, आपश्रौ,

पा ५, ३, १०४, पावा २, १, १; मीस् १, ३, ३४, -व्यस्य काश्रौ

४, ३, ९, काश्रौस, -व्याणाम् बौश्रौ २७, ४ २१, निस्;

-व्याणि द्विश्रौ ३, ८, ४१, निस्,

-व्ये शाश्रौ ३, २०, ९, ९, १, ३, द्विश्रौ, -व्येण शाश्रौ ४, १, ३;

a) वैप १ द्र । b) पामे वैप १, १६७४ k द्र ।। c) पिप (ऋच्-।ऋ १०, १७, ११ १३।)।
d) प्यो. इति पाठ ^१यनि शोघ (तु C)। e) वैप २, १ख द्र । f) =देश-विशेष, तद्वासिन-। व्यु ^२।
g) पामे वैप १, १६७५ g द्र । h) पामे वैप १, १६७५ f द्र । i) पामे वैप १, १६७५ i द्र ।
j) पामे वैप १ श्रवणम् मै ४, १४, १ टि द्र । k) अर्थ व्यु च^३। l) सप्र °दस. <> °दा. इति पामे ।
m) =इष्टका-विशेष-। n) =द्रविण-। व्यु. ^२ पाप्र < द्रु- इति । o) तु पागम ।

आपध, -व्येषु काश्रौ ४, ३, १९,
१४, २, ३३, निसू, -व्यैः माश्रौ
४, १, २, मीसू ६, १, ११
द्रव्य-क- पा ५, १, ५१
द्रव्य-कर्मन्- मंगाम् मीसू ४, १,
२१
द्रव्य-कल्प- -ल्प निसू ८, ४, ३७
द्रव्य-कृश- -शः आपध २, १७,
१०, हिध २, ५, ३९
द्रव्य-गुण- -णयो मीसू ३, १, ११.
द्रव्य-गुण-विकार-व्यतिक्रम-प्रति-
षेध- -धे मीसू ९, २, ४०
द्रव्य-गुण-संस्कार- -रेषु मीसू ३,
१, ३
द्रव्य-गुणीभाव- -वात् मीसू २, २,
१९
द्रव्य-चिकीर्षा- -र्षायाम् मीसू ४,
१, २०
द्रव्य-तस्र() मीसू १०, २, ६६
द्रव्य-त्याग- -ग हिपि १४ १८
द्रव्य-त्व- -त्वे मीसू १२, ४, १०
द्रव्य-देवता, ता- -तम् शुभ्र ३, ४४,
मीसू ११, २, ३, ८
द्रव्यदेवता-वत् मीसू ११, २, २९
द्रव्यदेवता-युक्त- -क्तः काश्रौ
४, ३, १
द्रव्यदेवता-विधि- -धि मीसू
६, ४, ३०
द्रव्यदेवता-विरोध- -धे काश्रौ
४, ३, ९
द्रव्य-देवता-क्रि(या >)य- -यम्
मीसू ४, २, २७
द्रव्य-देश-ब्राह्मण-सन्निधान- -ने
वाध ११, ४४, गौध १५, ४
द्रव्य-नियम- -म हिपि १६ ५
द्रव्य-निर्देश- -शे मीसू १०, ६, ७३
द्रव्य-पर-त्व- -त्वात् मीसू ३, ४,

२३^३
द्रव्य-परिग्रह- -हेषु आपध २, १४,
१९, २०, १९, हिध २, ३, २९,
५, १०४, -है आपध २, २६,
१७, हिध २, ५, २१२
द्रव्य-पृथक्-त्व- -त्वात् मीसू २,
२, १९, -त्वेन हिश्रौ १, १, ३९
द्रव्यपृथक्त्व-दर्शन- -नम् पावा
१, ४, १०८
द्रव्य-प्रकल्पन- -नम् आपश्रौ ४, १,
२, हिश्रौ ६, १, ७
द्रव्य-प्रदान- -नात् आमिष्ट ३, १२,
१ २७
द्रव्य प्रधान-त्व- -त्वात् मीसू २,
१, ८
द्रव्य-प्रयोजन- -नम् बौध १, ५,
४७
द्रव्य-फल-भोक्तृ-संयोग- -गात्
मीसू २, ३, १४
द्रव्य-भेद- -दात् पावा १, २, ६४,
-दे काश्रौ १, ५, १३
द्रव्यभेदा(द-आ)श्रय^३- -यम्
अप ७०, ४, ५
द्रव्य-मूल- -लम् वाध २, ४९
द्रव्य-लक्षण- -णानि निसू ३, ९ ३
द्रव्य-लाभ- -भे गौध २२, ३३
द्रव्य-वत् विध २३, ३४, पावा,
मीसू १०, ७, १३^८
द्रव्य-वत्-तम- -मः काश्रौ २२,
४, ७.
द्रव्य-वत्-ता- -ता हिश्रौ ३, १, ९
द्रव्य-वत्-त्व- -त्वात् मीसू ६, १,
११
द्रव्य-विकार- -रं निसू ६, ७.
३४, १० : ३६××, मीसू १०,
४, १८, -रम् मीसू १२, ४, ९
द्रव्य-विधि-सनिधि- -धौ मीसू

१०, ३, ३९.
द्रव्य-वृद्धि- -द्धिस् वाध २, ४९.
द्रव्य-व्यतिरेक- -कात् मीसू ९, २,
३३
द्रव्य-शब्द- -ब्दः मीसू ८, ३, १७
द्रव्य-शुद्धि- -द्धि गौध १, ३१;
-द्धिषु विध २३, ३९
द्रव्यशुद्धि-कृत- -कृत शध
१६३
द्रव्य-श्रुति- -ते मीसू ६, ४, २९.
द्रव्य-सयुक्त- -क्तम् मीसू ६, १,
११
द्रव्य-संयोग- -ग मीसू २, २, १७;
६, १, ४०, -गात् मीसू २, २,
१७, -गै या ७, ६, ७
द्रव्यसंयोगा(ग-अ)र्थ- -र्थम्
मीसू १०, १, ९
द्रव्य-संविभाग- -ग बौध २, ३,
१९, गौध ५, २२
द्रव्य-संस्कार- -रं मीसू ३, ८, ३१.
द्रव्यसंस्कार-तद्भेद- -दाभ्याम्
काश्रौ १, ८, २१
द्रव्य-संस्कार-कर्मन्- -र्मसु मीसू ४,
३, १
द्रव्य-संस्कार-विरोध- -धे आपश्रौ
२४, ३, ४७, मीसू ६, ३, ३९.
द्रव्य-संख्या-हेतु-समुदाय- -यम्
मीसू ९, १, ११
द्रव्य-समवाय- -यात् मीसू १२,
४, ६
द्रव्य-समास- -सेन निसू ८, ५ :
२२
द्रव्य-समुच्चय- -य. आपश्रौ २४,
२, ८.
द्रव्य-समुद्देश- -श निमू २, ११ :
१××
द्रव्य-संपन्न- -न्न मीसू ६, १, ३९.

a) द्रव्यसंयोगात् इति जीसं । b) विप बस. । c) रथवत् इति जीसं. ।

द्रव्य-सामान्य- न्यम् हिश्रौ ३,
१, १९, -न्यात् काश्रौ १५, ९,
२७, २३, २, १६
द्रव्य-सिद्धि-स्व- स्वात् मीसू ६,
१, ३९, ७, ८.
द्रव्य-हविर्-मन्त्र-कर्मा(र्म-आ)
दि- -दीनाम् बौघ ४, ५, २
द्रव्य-हस्त- -स्तः शध १७१,
विध २३, ५५, गौघ १, ३०
द्रव्या(व्य-आ)गम- -म निसू ८,
३. १२, ९, ४ २०, -मम्
निसू ४, १३ : १५.
द्रव्या(व्य-आ)दान- -नम् गौघ
१८, २५
द्रव्या(व्य-आ)देश- -शे मीसू ७,
३, १६
द्रव्या(व्य-आ)न्तर- पाग २, १,
७२, -रे मीसू ६, ३, ११ x x
द्रव्यान्तर-वत् मीसू ११, ४, ४६
द्रव्या(व्य-आ)न्वय^०- -या आश्रौ
४, १, २०.
द्रव्या(व्य-आ)पचय- -ये गौघ २२,
७
द्रव्या(व्य-आ)पचार- -रे माश्रौ ३,
१, ३
द्रव्या(व्य-आ)भाव- -वात् काश्रौ
२२, १, १२, -वे हिश्रौ ३, १,
२७, बौपि २, १०, १, ४, मीसू
६, ३, ४०
द्रव्या(व्य-आ)भिधान- -नम् पावा
१, २, ५८, ६४, -नात् मीसू
१०, ४, ५३, -ने पावा १, २, ६४
द्रव्या(व्य-आ)र्थ-सग्रह- -ह शध
२४६

द्रव्या(व्य-आ)लाभ- -भे वाश्रौ १,
१, १, ६९, बौघ २, ७, २७
द्रव्या(व्य-आ)वृत्ति- -त्तौ माश्रौ
३, १, ५
द्रव्ये(व्य-ई)प्सु- -प्सु. द्राश्रौ ६,
२, १४,
द्रव्यै(व्य-ए)कत्व- -स्वात् मीसू ९,
१, २७, ११, ४, ४८, -स्वे मीसू
३, ५, १६.
द्रव्यो(व्य-उ)स्सर्ग- -गात् मीसू ९,
४, ५२
द्रव्यो(व्य-उ)पकल्पन- -नम् काश्रौ
१, १०, ३
द्रव्यो(व्य-उ)पदेश- -श मीसू २,
१, ११, -शात् मीसू ८, ४, ५
द्रव्यो(व्य-उ)पपत्ति- -त्तेः मीसू ६,
४, २८
द्रव्यो(व्य-उ)पयोग- -गानि भाश्रौ
१०, ९, ८
द्रव्यो(व्य-उ)पस्थापन- -नम् वैश्रौ
३, १. ६
२द्रव्य- द्रु- द्र
द्रष्टव्य- , द्रष्टुम्, द्रष्टृ- √दृश् द्र
द्रहिल^०- -लम् माश्रौ ५, २, १४, १४
√द्रा पाधा अदा पर कुत्साया गतौ,
द्राति निघ २, १४^१, या २, ३०^१
†द्राण- -गम् शाश्रौ १३, १२, १,
१४, ३२, ४, आपश्रौ, या १४,
१८^१
दद्राण-व(त् >)ती-वत् निसू
५, ४ : ३
द्राति- > द्राति-कुत्स(न>)ना-
-ना या २, ३.
द्रा^०- वेज्यो १८

द्राक्ष्ना^०- पाउभो २, ३, १९१, पा, पाग
४, ३, १६५, ६, २, ८८, ८, २,
९, फि ५७, -क्षाम् शध २२०.
द्राक्षा-प्रस्थ- पा ६, २, ८८
द्राक्षा-मत्- पा ८, २, ९.
√द्राख् पाधा भ्वा पर शोषणाल-
मर्थयो
√द्राघ् पाधा भ्वा आत्म सामर्थ्ये
आयामे च, द्रावयन्ति ऋप्रा
१४, ५१
द्राघ^१- > द्राघिमन्^१- पा ५, १,
१२२
द्राघीयस्- -यः भाश्रौ ८, १५,
११, हिश्रौ ५, ४, ११, आगृ २,
९, २^१, आश्रिगृ, मागृ २, १,
१३^१, -यासम् आपध २,
१६, २४, हिध २, ५, २३,
-यांसौ बौश्रौ १०, १९ ८,
बौश्रु ५ : १४, तैप्रा १६, १३^१,
-यान् आपश्रौ १, ५, १०, ८,
१३, १३, भाश्रौ
द्राघीयसी- स्ती ऋप्रा १
३३, ६, ४८
द्राघित, ता- -तः ऋप्रा १, ७५
-तम् निसू ६, ७ : २४, -तः
ऋप्रा ४, २९.
√द्राङ्क्ष् पाधा भ्वा पर. घोरवासिते.
√द्राङ् पाधा भ्वा आत्म विशारयो.
द्रावयित्- √द्रु द्र
द्राविणोदस- द्रविणस्- द्र
√द्राह् पाधा भ्वा आत्म निद्राक्षये
निक्षेपे च
√द्रु^१ पाधा भ्वा पर गतौ, द्रवति
वैश्रौ ८, ४ : ११, २०, २१ : ४,

a) विप । बस । b) = बरासी- (= स्थूलगती- इति खदत्त [सप्र आपश्रौ १४, १३, ३] । व्यु. १ ।
c) = आर्द्रा-नक्षत्र- । d) = लता-विशेष- वा तत्फल- वा । व्यु. १ । e) या २, १६ परामृष्ट द्र । f) वैप १
द्र. । g) पाभे. वैप १, १६७७] द्र । h) या ४, ३, ५, १, ६, ४, ८, ९ पा १, ३, ८६; ३, १, ४८, ७, २, १३, ४, ८४
यागवा ६, १, १५६ परामृष्टः द्र. ।

निघ २, १४^१, या ६, २५××,
 द्रवति या ११, १३, †द्रवत्
 शाश्रौ १७, १२, ४, द्रवेत् वैश्रौ
 २०, १६: १३
 द्रवयन्त ऋप्रा ९, ४५^१
 †द्रावय>या शाश्रौ १२, ९,
 ११, ऋप्रा ८, ३२
 द्रव^१-व्रम या १४, २९, -वाणाम्
 माश्रौ १, ३, २, २०, वाध १४,
 २६, विध २३, ३०, -वाणि
 आपश्रौ २, २०, ४, -वे बौश्रौ
 २७, ३ ६, वैश्रौ २०, २९ २
 द्रव-स्व- -त्वम् मीस् ८, २,
 १८.
 द्रव-द्रव्य- -व्ये कप्र १, ८,
 ११
 द्रव-मूर्त्ति-स्पर्श- -र्शयो. पा ६,
 १, २४
 द्रव-सामान्य- -न्यात् मीस् ८,
 १, ४०^b
 द्रवी√कृ>द्रवी-कृ(त>)ता-
 -ता: वैश्रौ १९, ६. ११७
 द्रवी-कृत्य आपश्रौ १७, १९,
 ३, हिश्रौ १२, ६, ५
 †द्रवण- -णात् उनिसू ७ ४४,
 -णे आपश्रौ २२, २६, १०, बौश्रौ
 १८, १० २, १०, हिश्रौ २३, ४,
 २५, चाअ ३८ ५
 द्रवत्^१- -वत् अप ४८, १०६,
 निघ २, १५-वत्. बौश्रौ ११,
 ८: २५, १५, २९ १७, -वन्
 बौश्रौ २०, ५ २७××, -वन्त
 वाधुश्रौ ४, २६^२-६, कौश्रु ५,
 ३, २५, -वन्ता आपश्रौ १२,

१४, १५, हिश्रौ ८, ४, १७
 द्रवस्- (>√द्रवस्य पा) पाग
 ३, १, २७.
 द्रावयित्- -ता या १०, ८
 द्रुत, ता- -तम् अप ६२, ४, ३, वैध
 ३, ७, ३, या ३, १९, -ता माशि
 १, १, ३, -ताम् ऋप्रा १३, ४६,
 ४९, पाशि, -तायाम् ऋत २,
 ४, १, माशि १, ५, पावा १, १,
 ७०
 द्रुत-कनक->नक-विद्रुम-
 स्फटिक-वैडूर्य-वर्ण- -णम् अप
 ६५, २, १
 द्रुत-नामन- -नात् उनिसू ७
 ४४
 द्रुत-त(र>)रा- -रा या ३,
 १०
 द्रुत-मध्य-विलम्बि(त>)ता-
 -ता. माशि १, १, कौशि ५८
 द्रुत-विलम्बित- -तयो पावा
 १, १, ६९
 द्रुता(त-आ)दि- -दिषु पावा १,
 २, २७
 द्रुत्वा बौश्रौ ६, २६: ११××
 द्रु^१- पाउभो २, १, ३४, पाग ८, २, ९,
 द्रु या ४, १५, भाशि १७^१
 रद्रव्य- पा ४, ३, १६१.
 द्रु-(हन्>)श्री^१- -श्रीम् कौस् २५,
 १७, २६, ३.
 द्रुन्या(ग्री-आ)र्त्नी-ज्यापाश-नृण-
 मूल- -लानि कौस् १४, १३
 द्रु-प(द्>)दी- पाग ५, ४, १३९
 द्रु-म^१- पा ५, २, १०८, पाग ८, २,
 ९, पावाग ४, २, ५१, -म अप

७१, ११, १, या ९, १२, -मम्
 अप ६८, ५, ३, -मा अप ६४,
 ८, १××, -माणाम् अप ६४, ४,
 १, -मान् वाध २७, २, -मे अप
 ७०^३, ७, १३, -मेभ्य. अप ६४,
 ९, २, -मै: अप २१, ४,
 १
 द्रौम- -मै. अप २७, १,
 १
 द्रुम-गुलम-वल्ली-लतौ(ता-ओ)ष-
 धि- -धीनाम् विध ३७, २४
 द्रुम-मत्- पा ८, २, ९
 द्रुम-मय- -य या ९, २३,
 -यम् या ५, २६, -यस्य या ४,
 १९
 द्रुमि(न्>)णी- पावा ४, २,
 ५१.
 †द्रु-षद्^१- -षदम्^१ बौश्रौ ११, ३:
 १०, वाश्रौ ३, १, १, १६, वैश्रौ
 १७, ९ ५, भाशि १७, -षदे
 माश्रौ ६, २, ४, १७, वाश्रौ २, २,
 ३, २१
 †द्रु(द्-अ)न्न^१- -न्न काश्रौ १६, ४,
 ३५, आपश्रौ
 द्रुग्घ- √द्रुह् द्र
 द्रुघ- (>द्रौघ-) द्रुह्य- टि द्र
 १दु-घण, न^१- पा ३, ३, ८२^१, -ण:
 वृदे १, १११, निघ ५, ३, या
 ९, २३^१, -णम् वृदे ८, १२;
 या ९, २३, २४^१, -णेन ऋअ
 २, १०, १०२
 द्रौघण^१- -णम् ऋअ २, १०,
 १०२, वृदे ८, ११
 द्रुघण-शिरस्- -र कौस् ४६, २.

a) तु राज । भावे कर्तरि वा कृत् । b) व्रत-सा^१ इति जीस । c) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः
 द्र. । d) = वृत्ति-विशेष- e) = वृक्ष-, शाखा । व्यु ? । f) = परशु- । g) = वृत्त- ।
 h) वैप १ द्र. । ष) पाभे वैप १, १६६८ I द्र । j) = सुद्गर- [तु अभा] । पाप्र. <द्रु- + √हन् †
 k) सास्यदेवतीय अण् प्र. ।

द्रुघणा(ख-आ)दि- दीनाम् शौच
३,७६
२द्रुघण- (> द्रौघणक- पा) पाग
४,२,८०^a
✓द्रुण् पाधा तुदा पर हिंसागति-
कौटिल्येषु
द्रुण- (> द्रुणी^b- पा) पाग४,१,४१
१†द्रुपद^c- दात् काश्रौ १९,५,१६,
आपश्रौ
द्रुपदा^d- दाम् विव ६४,२१
२†द्रु-पद^e- ऋदे निघ ४, १, या ४,
१५^f
३द्रुपद- (> द्रौपदायनि-) डुपद-
टि द्र
✓द्रुम्म, द्रुम्मति निघ २,१४†
द्रु-व्य- पा ४,३,१६२
✓द्रुह् पाधा दिवा पर जिघासा-
याम्, द्रुह्येत् माश्रौ ३, ५, ६,
†वाध, या २,४^g†
द्रुहतात् आश्रौ ६,१२,२
द्रुहोह अप ४२,२,३†
द्रुघ- -घः पागृ ३,१३,६
द्रुह्^h- द्रुह आपम २, १२, ६, ९,
१०, आमिगृ
द्रुह्न्ⁱ- ह्ण अत्र ४, २९†
द्रुघव्य- -व्यम् काश्रौ ८,१,२१
द्रोह- पाग ५,१,६४,२, ३६, -ह.
आपध १ ०३, ५, हिघ १,६,
१३ -हे अप ४८,२८, -हेण
विघ ५,२५
द्रौहिक- पा ५,१,६४
द्रोह-द्वेष-कारि(न् >)णी-

-णीम् कप्र १,८,७
द्रोहित- पा ५,२,३६
द्रोहिन्- पा ३,२,१४२
द्रुहण- (> द्रौहणक- पा) २द्रुघण-
टि द्र
द्रुहिण^j- पाउवृ २, ४९, -०ण विघ
९८,८०
द्रुह्य^k- (> द्रौह्य- पा) पा, पाग २,
४,६३^h, पाग ४, १, ११२ⁱ
†द्रुह्यु^l- ह्यव अप ४८, ७८, निघ
२,३
द्रुह्ण^m- ण अत्र ६, ६३
✓द्रुⁿ पाधा क्रया उभ हिंसायाम्,
द्रुणाति निघ २,१९†
†द्रुणान- न या ६, १२, शुप्रा
४,६५, भाशि १७
द्रु- पाउ २,५७
✓द्रुह् L > ह्, द्रुळति निघ २,१४†
✓द्रेक् पावा भ्वा आत्म शब्दोत्सा-
ह्यो
द्रेक्काण^o- पाउभो २,२,१२८
✓द्रै पाधा भ्वा पर स्वप्ने
द्रोः^p या ४,१९†^q
१द्रोण^r- पाउ ३,१०, पाग ४,१,४१,
-णम् बौश्रौ १०, ५० : २××,
माश्रौ, या ५,२६, -णानि हिश्रौ
१२,८,९, आपशु १३,५, बौशु
१७ २, -णे आश्रौ ६, ४, १०†,
शाश्रौ, काशु ४, २¹, बौशु २१ ९¹
द्रोणी^s- पाउभो २, २, १२२,
पाग ४, १, ४१
द्रोण-कलश^t- श बौश्रौ १४, ६

१३, २४, ६ : ३; २९, ६. २०;
वाधुश्रौ ४, ७४ १०, -शम्
आश्रौ ६, १२, १, २, काश्रौ;
-शस्य बौश्रौ २३, १२ : ६,
वैश्रौ १५, १४.३, द्राश्रौ ३,२,
१८, लाश्रौ १,१०,१३, -शात्
आश्रौ ५, ६, २१, ६, १२, ४;
काश्रौ, -शान् हिश्रौ १५, ७,
४†, -शे शाश्रौ १५, २३, १;
काश्रौ, -शेन आपश्रौ १३, १७,
२, १४, ३२, ५, वैश्रौ १६, २०.
१०, हिश्रौ ९, ४, ४७
द्रोणकलश-पवित्र-योजन-
-नम् काश्रौ ९, १४, २
द्रोणकलश-स्थ- -स्थम् वैताश्रौ
१६, १३.
द्रोणकलशा(श-आ)धवनीय-
-यौ हिश्रौ ८, ५, १६.
द्रोणकलशा(श-आ)वृत्- -वृत्ता
द्राश्रौ ३, ४, ३७, लाश्रौ १, १२, २१
द्रोण-चित्^u- -चित् काश्रौ १६, ५,
९, बौश्रौ १७, २९ ९, काशु
४, १, बौशु १८ ८, -†चित्^v
बौश्रौ १७, २९ ७, हिश्रौ;
-चिता आपशु १४, १२, बौशु
२१ ३, हिशु ४, ५१
द्रोण-दशम^w- -म काशु ४, २
द्रोण-य(द् >)दी- पाग ५, ४,
१३९^x
द्रोणा(ख-आ)हाव^y- -वम् या ५,
२६†^z
१द्रो(ख-क>)णिका^{aa}- -का शौच

a) द्रुहण- इति भोज. (तु. पागम) । b) = कच्छपी- इति पागम । c) वैप १ द्र । d) = ऋच्- ।
< द्रुपदात् (मा २०, २० प्रसृ) । e) पा १, ४, ३७, ३८, ७, २, ४५, ८, २, ३३ पावा १, ४, १ परामृष्टः द्र. ।
f) पाभे वैप १, १६५३ ० द्र । g) व्यप । व्यु ? । h) हुं इति पाका. । i) द्रुघ- इति पाका. ।
j) या ४, १५ परामृष्ट द्र. । k) = द्रेक्काण- (तु. MW) । l) = द्रोण-चित्- । m) = जल-क्षेपिका- इति
पागम । n) पाभे वैप १, १६८१ e द्र. । o) पूष = द्रोणचित्- । p) तु पाका पासि । *ण्, *णीं इति
आण्डा. । q) = द्रोणाकृतिजिह्वा- । कन् प्र. (पा ५, ३, १६) ।

१,२३.
 २द्रोण^०- पाग २,४, ३१, ५, १, २०^b,
 -णम् अप ३३, ३, ३, हिध २,
 ५, ८८^c, पावा १, ४, २३, वेज्यो
 २४, -णम्ऽणम् आपध २, २०,
 १^d, -णस्य अप ९, १, २,
 -णानाम् अप ३३, २, ५, ३, ५,
 -णेन अप ३३, १, ७
 द्रौणिक- पा ५, १, २०
 द्रौणिकी- पावा ५, १, ५२
 द्रौ(ण >)णी- पावा ५, १,
 ४८, ५२
 द्रोण-प्रमाण- -णम् अप ३३, ३, ४
 द्रोण-वर- -र. अप ३३, ३, ६
 द्रोणा(ण-अ)भ्यधिक- -कम् विध
 २३, ३६
 द्रोणा(ण-अ)र्ध-तण्डुल-पा-
 (क >)का^e-का वैश्रौ ११,
 ९ १५
 २द्रो(णक >)णिका-पावा ५, १, ४८
 ३द्रोण^०- -ण. ऋअ २, १०, १४२
 द्रौणायन-, द्रौणि- पा ४, १, १०३,
 -णे. चाअ १६ १०
 ४द्रोण^f- >द्रोण-भीष्म- -ष्मौ पाग
 २, २, ३१^g
 द्रोणभाव^०- -वा: बौश्रौप्र २७ : ४
 द्रोणास^h- -स: पाग १, १६, २३ⁱ.
 द्रोणि- पाउ ४, ५१
 १द्रोणिका- १द्रोण- द्र
 द्रोह-, °हित-, °हिन्- ✓दुह द्र

द्रौत्^j- -अ. अप ५३, ४, ५
 द्रौघ- दुघ- द्र.
 द्रौघण- १दुघण- द्र
 द्रौघणक- २दुघण- द्र
 द्रौपदायनि- ३दुपद- द्र
 द्रौम- दु- द्र
 द्रौहणक- दुहण- द्र
 द्रौहिक- ✓दुह द्र
 द्रौह्य- दुह्य- द्र
 द्रुच- दु- द्र
 द्र-, द्रन्द-, द्रन्दिन्-, द्रय- द्वि- द्र
 द्रयस^k- >°म-तस () द्राश्रौ, लाश्रौ
 १, १, ७^l
 द्रयाविन्-, द्रयी-, द्रा-चत्वारिंशत्-
 प्रमृ द्वि- द्र
 द्वादशाफ- -फानाम् चाअ ४० ७
 द्वादशाभ्यधिक-प्रमृ, द्वापर- द्वि- द्र
 ङ^mद्वायू^m काश्रौ ६, ४, ३, आपश्रौ ६,
 २६, १, ११, १९, ८, बौश्रौ ४, ६
 १२, ७, ९ १८, माश्रौ २, ३,
 ६, १७, हिश्रौ ७, ८, ४३
 द्वाⁿ- पाउवृ २, ५७, ङⁿद्वा: अत्रा ३,
 १, १, शौच २, ४५, द्वार आश्रौ
 २, १६, १२ङ, शाश्रौ, निघ ५,
 २ङ, या २, २, ८, ९४, १०ङ, १०ङ, १०ङ,
 शुप्रा ४, ८५ङ, द्वारा आश्रौ ४,
 १०, १०×, शाश्रौ, द्वारि शाश्रौ ५,
 १४, २१, ६, ३, ८, आपश्रौ, द्वारो:
 वाधुश्रौ ३, ६९ २८, द्वारौ शाश्रौ
 १०, २१, १०, आपश्रौ, ङⁿद्वाⁿरौ

आश्रौ ४, १३, ५, शाश्रौ, द्वारि-
 बौश्रौ २५, ५ ९, द्वार्य- शुप्रा
 १, १६५, द्वाⁿर्षु गौध ५, १३
 द्वारा- -रया जैश्रौका १८२
 ङⁿद्वाⁿरा-पⁿ- -०प, -पाय
 आपमं २, १८, ४२^o
 ङⁿद्वाⁿरापीⁿ- -०पि, -प्यै,
 आपमं २, १८, ४३^p.
 द्वार बाहु^q- -हुम् आपश्रौ ११, ८,
 ५^r, १४, २९, १, १५, १९, १०,
 २१, १७, १८, १८, १२, १९, ५६
 बौश्रौ, -हू बौश्रौ ६, २५ : २४,
 २७ २७, -हून् बौश्रौ २१, १४-
 ३०, -हूनाम् बौश्रौ २१, १४
 ३०, -हौ बौश्रौ ६, २५ २१,
 २७ २४, हिश्रौ १६, ६, २०
 द्वार^m- पाग ६, ३, १०९^s, ७, ३, ४,
 -रम् काश्रौ ७, ६, १२, ८, ६, १७,
 आपश्रौ, -रस्य आपश्रौ १५, ६,
 १४, भाश्रौ, -राणि आपश्रौ
 १०, ५, ४, १५, ५, १, बौश्रौ,
 -राय आमिष्ट २, ६, ७ ३६,
 -रे काश्रौ ४, ७, १०, काठश्रौ,
 -रेण वाश्रौ १, १, ६, ६, ७, ३, १,
 १, ५, वैश्रौ, -रै: अप १९^t, १,
 ५, ६३, ५, ३
 द्वारी- -चै शाश्रौ १७, ४, २; ३
 दौवारिक- पा ७, ३, ४
 द्वार(क >)का- पावाग ७, ३, ४५^u.
 द्वार-गवाक्ष-स्तम्भ- -म्भै कप्र ३.

a) = परिमाण-विशेष-। व्यु ? । b) वाह-, द्रोण- इति भाण्डा पासि । वाहद्रोण- इति पाका ।
 c) सपा द्रोणम् <> द्रोणम्ऽद्रोणम् इति पाभे । d) विप । षस > मलो कस > बस । e) व्यप । व्यु ? ।
 f) = द्रोणाचार्य-। व्यु ? । g) तु पागम । h) = बालप्रह-विशेष-। व्यु ? द्रोण भास (आस्य-)- > बस
 इति P.W. प्रमृ, = दीर्घ-नास- इति भाष्यकृतौ ? । i) पाभे पृ १२९० d द्र । j) विप (राहु-। अर्थ ? ।
 k) = प्रमाण-। पाप्र (५, २, ३७) प्र इति । l) द्वे सत इति केचित् (तु भाष्यम्) । m) वैप १ द्र ।
 n) उप. < ✓पा (रक्षणे) । o) सपा ाप <> ाप इति, ापाय <> ापाय इति च पाभे । p) स्त्री डीष्
 ङ्. (पा ४, १, ४८) । q) सपा. ापि <> ापि इति, ाप्यै <> ाप्यै इति च पाभे । r) उप = स्थूणा- ।
 s) सपा. द्वारिहूम् <> द्वारिहूम् इति पाभे ।

१०, १६
 द्वारदेश- शम् वीगृ ३, ५, ९, -शो
 पागृ १, १६, २३, २, १४, २१
 द्वारदेश-गवाक्ष- -क्षेणु विध
 २५, ११
 द्वार-प^०- -०प^०, -पाय^० भागृ २,
 १० १, हिगृ २, ९, २
 †द्वारपी^०- -०पि^० भागृ २, १०:
 १, हिगृ २, ९, २, -च्यै^० भागृ
 २, १०. २, हिगृ २, ९, २
 द्वार-पक्ष- -क्षात् आगृ ४, ६, ७,
 -क्षे कौसू ३६, २
 द्वार-पाल- पाग ७, ३, ४
 द्वारपाली^०- (> दौवार-
 L, द्वार^०पालिक-पा) पाग ४, १,
 १४६
 दौवारपाल, ल^०जलि- पा ७, ३, ४
 द्वार-पालक- (> ०लिका- पा)
 पाग ४, १, ४^५
 द्वार-फलक- -के कौगृ ३, २, १२,
 शांगृ ३, ३, ७, पागृ ३, ४, १८
 द्वार-बलि- -लिम् आमिगृ २, ४, ६:
 ४१
 द्वार-बाहु^१- -हू शाश्रौ १७, ४, २, ३,
 द्राश्रौ, -हो: द्राश्रौ १, ३, २, १५,
 १, १५, लाश्रौ १, ३, १, ५, ९,
 १३, -हौ हिश्रौ १३, ५, २७
 • द्वारबाहु-समार्जन-प्रभृति- -ति
 द्राश्रौ ४, ३, १६, लाश्रौ २, ३, १६
 द्वार-मध्य- -ध्ये वीगृ २, ८, २६.
 द्वार-यु(त>)ता- -ताम् वैश्रौ १,
 २ १
 द्वार-वंश- -शं मागृ २, १५, ६.

द्वार-वाम- -मे वैगृ ३, १४. ११.
 द्वार-विवरण- -णम् चाअभू २
 द्वार-समीप- -ये पागृ ३, ४, ५
 द्वार-स्थूणा- -गाम् हिश्रौ १९, ८,
 ५, आमिगृ, -णे वैश्रौ १४, ६:
 १६, १७
 द्वारा(र-अ)हालक-हर्म्य- -र्म्येषु
 अय ७१, १९, २.
 द्वारे(य>)यी^१- -यीम् हिश्रौ ७,
 ५, ३१^६, ७, २१, आमिगृ १, ६,
 ३ ४०
 द्वार्य, र्या^१- -र्ययो पागृ २, ९, ४,
 कौसू ७४, ५, -र्या: काश्रौ ८,
 ४, १८, माश्रौ २, २, २, ३५, ३,
 ३१, -र्याम् आश्रौ ५, १, १९,
 -र्याया भाश्रौ ११, ६, ११,
 वैश्रौ १३, ८ १३, हिश्रौ २४,
 २, १०^३, -र्यायै आपश्रौ १५,
 ६, १४, १५, भाश्रौ ११, ६, १२,
 -र्ये आश्रौ ४, १३, ५××, काश्रौ,
 -र्यौ शाश्रौ ६, १२, १३, हिश्रौ
 द्वि^३- पाउभो २, १, १५४.
 द्व, द्वा- द्वयो †आश्रौ ४, ६, ३,
 ९, ४, शाश्रौ, पा १, २, ५९××,
 द्वयो. Sद्वयो. आश्रौ ५, १४,
 ११, आपश्रौ, †द्वा या २,
 २२, ३, १०^०, १२, १०^०,
 १४, ३०^०, ऋप्रा ७, ४३,
 द्वाभ्याम् आश्रौ १, ११, १३,
 शाश्रौ, द्वाभ्याम् Sद्वाभ्याम् शाश्रौ
 ७, १०, ७, १६, १३, २; काश्रौ,
 द्वे आश्रौ १, २, ७, शाश्रौ,
 आपश्रौ १०, २२, १२^०, आपसं

१, ३, ८^०, आमिगृ, या ३,
 १०, ५, ७, १३, ७^०, द्वे Sद्वे
 आश्रौ १, १०, ७, ६, ३, ६;
 शाश्रौ, द्वौ आश्रौ २, १६, १५;
 शाश्रौ, द्वौ Sद्वौ आश्रौ ९, ११,
 १०, शाश्रौ
 द्व(क>)का^०- पा ७, ३, ४७;
 द्वन्द्व^३- -न्द्व. P वृदे २, १०५, पा
 २, २, २९, ४, २, पावा २, २, २९;
 -न्द्वम् काश्रौ २६, २, ९, आपश्रौ;
 पा ८, १, १५, पावा ८, १, १५^२;
 -न्द्वयो निसू ८, १३ २८;
 -न्द्वानि निसू ७, ७: १, २;
 -न्द्वान् पा ४, २, ६××, पावा;
 -न्द्वानाम् काश्रौ २२, १०, ७;
 आपध २, २२, १६, -न्द्वानि
 वीश्रौ २४, २४ १, वैश्रौ, या
 ७, ४, ९, ३५, शुप्रा ५, २८, -न्द्वे
 निसू ७, ७ २, पा १, १, ३१××,
 पावा, -न्द्वेषु द्राश्रौ १०, १,
 १६, लाश्रौ ३, ९, १८, शुप्रा
 ३, १२७. -न्द्वे या १४, ७,
 -न्द्वौ निसू ७, ७. ३.
 द्वन्द्व-तत्पुरुष- -षयो: पा २, ४,
 २६, पावा २, १, ५१, ४, २६.
 द्वन्द्व-दर्शन- -नात् निसू १०,
 २: ३८.
 द्वन्द्व-द्वय- -यम् कप्र ३, ६, ११.
 द्वन्द्व-प्रतिषेध- -ध पावा १, २,
 ६४.
 द्वन्द्व-भू(त>)ता- -ते वृदे
 १, ११३
 द्वन्द्व-मनोज्ञादि- -दिभ्य: पा ५,

a) पृ १३१४ II द्र । b) पासे. पृ १३१४ O द्र । c) पृ १३१४ P द्र । d) पासे. पृ १३१४ Q द्र । e) व्यप । f) तु BPG । g) तु पाका. । h) तु. पागम । i) = द्वाबाहु- । j) = द्वार-स्थूणा- । तत्रभवार्थीय ङ्ङ् > एय: प्र उसं. (पा ४, २, ९७ [तु भाष्यम्] । k) पासे. पृ १३१४ S द्र. । l) भवार्थीय. यत् प्र । m) वैप १ द्र । n) पासे. वैप २, ३खं द्वे तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि. द्र. # o) वैप १, १०३० k द्र. । पाप्र. (५, ३, ७१) तु द्वि + ङकच् प्र. । p) = समास-विशेष- ।

१,१३३
 द्वन्द्व-वचन- -नात्, -ने पावा
 २,२,२९
 द्वन्द्व-वृत्त- -त्तम् पावा २, ४,
 ११.
 द्वन्द्व-शस् () वृदे ६, २१, ८,
 १९.
 द्वन्द्व्वा (न्द-अ) धिकार-निवृत्त्य
 (त्ति-अ)र्थ- -र्थम् पावा २, ४,
 ६९
 द्वन्द्व्वा(न्द-अ)भाव- -वात् पावा
 १,२,७२
 द्वन्द्व्वा(न्द-अ)र्थ- -र्थम् पावा ५,
 ४, ८७.
 द्वन्द्विन्- -न्द्वन् आपश्चौ २०,
 १५, ५, २२, १२, बौश्रौ १५,
 २३ १०, द्विश्रौ १४, ३, १९,
 -न्द्विनाम् द्विश्रौ १४, ३, ५५,
 अप
 द्वन्द्वो(न्द-उ)पताप-गर्ह्य- -र्ह्यात्
 पा ५, २, १२८
 द्वय, या- पा ५, २, ४३. -यम्
 बौश्रौ ५, १ ५, ५ : ४, ९,
 १२×४, वैश्रौ, -यम्-यम्
 काश्रौस ७ : २१, -या बौपि
 १, १४ : ५, अप १, ११, ५१,
 -याः शाश्रौ १०, १५, २, बौश्रौ,
 -यान् आपश्चौ १५, ७, ३१,
 २०, १५, ४, २४, ७, बौश्रौ,
 -यानाम् बौश्रौ २८, ४ १८,
 निस् १, ९ : ६, -यानि बौश्रौ
 ५, ५ : ९, १८, ३६ १, द्विश्रौ,
 -ये वैश्रौ २०, १३ : ११, जैश्रौ,
 -येन वैश्र १, १३. ६, -यै-
 आपश्चौ २०, २४, ११

द्वयो- -यी आपश्चौ २१,
 ९, १०, बौश्रौ १६, २९ ५,
 २३, १२ : १५
 द्वय-मध्यग- -गम् भाशि १०८.
 द्व(य>)या-विन्^३- पावा ५, २,
 १२२, -विन् अप्रा ३, ४, ११
 द्वया(य-आ)हृति- -तेः जैश्रौका
 १५१
 द्वयै(य-ए)क- -कम् जैश्रौका
 ९३
 द्वा-चत्वारिंशत्- -शत् लुस् ३,
 २ : ११,
 द्वाचत्वारिंश^४- -शे वाधूश्रौ ३,
 ७६ ३१
 द्वा-त्रिंशत्^५- -शत् वाधूश्रौ ४, ४६
 ४, ११५ ८, बौपि, -शतम्
 आश्रौ ७, ५, ११, १२, ७, १०,
 शाश्रौ, -शतम्-शतम् आश्रौ
 ९, ४, ३, -शता वाश्रौ ३, २, ७,
 ५४
 द्वात्रिंश^६- -शाः निस् ६, ११
 ३, १२ : ८, -शम् आपश्चौ
 २३, ९, ८, १४, द्विश्रौ, -शा
 बौश्रौ १६, ३४ १०, निस् ७,
 ५ : २, -शात् भास् २, २०,
 -शे लाश्रौ ६, ७, १८
 द्वात्रिंशी- -शी निस् ३,
 ४ २६, -श्यै वाधूश्रौ ४, ८० ६
 द्वात्रिंश-त्रयस्त्रिंश- -शे
 निस् ६, १२ ११
 द्वात्रिंश-प्रयुक्ति- -क्ति निस्
 ६, ११ ६
 द्वात्रिंशा(श-अ)पाय- -यात्
 निस् ७, १० : १४
 द्वात्रिंशक^७- -क अपं ४. १९

द्वात्रिंशत्-कबल^८- -लम् बौपि
 २, १०, २, -लेन बौपि २, १०, १
 द्वात्रिंशत्-पलक^९- -कम् अप
 ३३, ३, ३
 द्वात्रिंशद्-अक्ष(र>)रा^१- -रा
 वाधूश्रौ ४, १०० ५, निस्,
 -राम् वाधूश्रौ ४, १००^२ : १०,
 निस् ३, ४ : १२
 द्वात्रिंशद्-अङ्गु(ल>)ला^{१०}-
 -लाम् काठश्रौ ४९
 द्वात्रिंशदङ्गुला(ल-आ)य-
 (त>)ता- -ताम् वैध १, ६, ५
 द्वात्रिंशद्-अङ्गुल्या(लि-आ)य-
 त, ता- -तम् वैश्रौ १, २ ९,
 वैग १, ८ ३, -ताम् वैग १, ८-
 ११
 द्वात्रिंशद्-गुण^{११}- -ण^{१२} आज्यो
 ७, २२
 द्वात्रिंशद्-धा बौश्रु १६ १४
 द्वात्रिंशद्-भाग- -गम् काश्रु
 ७, ३०
 द्वात्रिंशद्-रात्र- -त्र बौश्रौ १६,
 ३५ ८, -त्रम् आश्रौ ११, ३,
 ११, काश्रौ, -त्रात् काश्रौ २४,
 २, १०
 द्वात्रिंशि(न्>)नी^{१३}- -नी
 वाधूश्रौ ४, ९७ : १, ४×४,
 -न्यः वाधूश्रौ ४, ९७^{१४} २ .
 द्वा-त्रिंशत्^{१५}- -त्तिः अप ५२, ८, ४
 द्वा-दशन्^{१६}- -श आश्रौ ४, ८, १५,
 ७, ५, ११×४, शाश्रौ, या २,
 १०, २०, ३, ८, १३, ४,
 २७१, -शः-श शाश्रौ १६, १४,
 २०; काश्रौ, -शभि आपश्चौ ९,
 ११, २३×४, बौश्रौ, द्विश्रौ १४,

a) वैप १ द्र. । b) तदस्मिन्नधिकमित्यर्थे ड. प्र (पा ५, २, ४६) । c) पूरणे ड् प्र स्तोमे डः वा ।
 d) इयुन् प्र (पा ५, १, २४) । e) तद्धितार्थे द्विस प्रमाणाथस्य प्र. लुक् । f) विप । बस । g) तद्धितार्थे
 द्विस. । h) षे इति पाठः ? यनि शोचः । i) द्विनिः प्र. (पावा ५, १, ५८) । j) उप = त्रिंशत्- ।

५, १५^{2a}, -शभ्य काश्रौ १७, ९,
१३; आपश्रौ ५, २०, १२,
बौश्रौ, वैश्रौ १, १५ ७^{1b},
लाश्रौ ७, १२, ९¹, -शसु शाश्रौ
१४, ६१, ४, काश्रौ, -शसुऽ-शसु
काश्रौ ८, ३, ११, वैश्रौ १४, ४ :
३, -शानाम् वाधूश्रौ ४, ११३.
४, अप ५०, ९, ४, शव ३७९
द्वादश.शा^० -शाः काश्रौ १२,
६, १७, आपश्रौ, -शम्शाश्रौ ७,
१७, १७, काश्रौ, आपश्रौ २२,
१, १५, हिश्रौ १७, १, १७^d,
-शस्य बौश्रौ १७, २४ ९,
२५ : १२, २६ : १२, -शा
कप्र १, ७, ५, -शात् वैश्रौ १४,
४ : ९, वैताश्रौ, -शान् शुभ्र
२, १२८, -शानि आपश्रौ २०,
२३, ९, २१, ५, ९, माश्रौ ६, २,
५, २५, हिश्रौ १४, ५, १६,
-शाय बौश्रौ १०, ५० १, -शे
बौश्रौ १०, ५० : ९×५, माश्रौ,
-शेन आपश्रु ११, १४, १३, १,
११, बौश्रु, -शेषु वाध ११,
५१, -शौ निसू १०, १३. ५,
उनिसू १ २१
द्वादशी^० -शी बौश्रौ
२५, ४ ८, २७ : ३१, २८.
१९, निसू, -शी निसू ७, ७ :
३१, -शीम् शाश्रौ ६, ७, १,
काश्रौसं, -श्या बौश्रौ १०, २९ :
१२, भाश्रौ, -श्या काश्रौ २५,
१४, २९, आपश्रौ, -श्याम्
बौश्रौ २५, १ १४¹, हिश्रौ

द्वादशी-विंशी-द्वा-
विंशी- -श्य ऋअ २, ३, ५३
द्वादश-त्रयोदश- -शे अप
१, १४, १
द्वादश-माम्- -सम् आमिगृ
२, ७, २ : १६, बौगृ ३, १२, ११,
बौपि २, ९, २१
द्वादश-क^०- -क ऋअ १, ५, १,
७, १, ३, २५, ३१, शुभ्र, -कम्
बौश्रु ४ ७, ऋअ, -का ऋपा
१६, ४७, -के पागृ २, ६, ३,
आपश्रु
द्वादशक-पल¹- -लानि या
१४, ७^{2b}
द्वादशका(रु-आ)दि- -दिषु
ऋपा १८, ५७
द्वादश-कपाल- -ल^० काश्रौ
४, २, ३६, ५, २१×५, या ७,
२३, २४, -लम् शाश्रौ १४,
१३, ५, आपश्रौ, -लस्य हिश्रौ
१, ६, २०, -ला बौश्रौ २४,
१० ९, -लान् काश्रौ २०,
२, ६, बौश्रौ, -लेन वाश्रौ ३,
२, ४, ७^२.
द्वादशकलशम् आमिगृ २, ४,
६. २०
द्वादश-कृत्वस्(०) शाश्रौ १०,
५, १२, १७, १४, ३, काश्रौ
द्वादश-गव^०- -वम् आपश्रौ ८,
२०, ९, १६, १८, ५, बौश्रौ
द्वादश गृहीत, ता- -तम् काश्रौ
१८, ५, १६, माश्रौ १, ५, ६, २०,
गौपि १, १, ३३, -ताम् माश्रौ

२, १, २, १, -तेन आपश्रौ ५,
१७, ७, १८, १०×५
द्वादश-ता- -ता काश्रौ २२, ८,
१४
द्वादश-त्व- -त्वम् मीस् ११, ४,
२०
द्वादश-दा (मृ >) झी¹-
-म्याम् कौस् २१, ११
द्वादश-आ अप ४६, ६, १, विध-
द्वादश-नामन्- -मभिः आमिगृ
२, ४, १० ८, ११ २१, वैगृ
३, १३ ९, वैध ३, १० : १,
२, ६
द्वादश-पञ्चविश- -शान् निसू
४, ९ : ३०
द्वादश-प(द >)दा¹- -दा बौश्रौ
४, १ : ३३, बौश्रु ३ २३
द्वादश-पदा(द-आ)याम^३- -मः
बौश्रु १० ११
द्वादश-पर्याय- -याः लाश्रौ ६,
८, ८
द्वादश-पर्व-पृ(रक >)रिका¹-
-का कप्र १, ९, ११
द्वादश-पुण्डरी(क >)का¹-
-काम् आपश्रौ १८, २०, १४;
हिश्रौ १३, ७, ३
द्वादश-पुरुष- -षः वाधूश्रौ ४,
११३ १^m
द्वादश-पुष्क(र >)रा¹- -राम्
आपश्रौ २२, १०, १, लाश्रौ ९,
२, १०
द्वादश-प्रक्रम- -मे वैश्रौ १,
२ ८.

a) °शा^० इति पाठः ? यनि शोधः । b) °शेभ्यः इति पाठ ? यनि शोधः (तु आपश्रौ) । c) वैप
१ द्र. । d) द्वादश इति पाठः ? यनि शोधः (= °शाधिकम्, तु. आपश्रौ.) । e) तदस्यपरिमाणमित्यर्थे कन् प्र ।
f) कस उप = परिमाण-विशेष- । g) °कपा^० इति पाठ ? यनि. शोध (तु. पृ ४३९ f) । h) वैप
१, १६८५ h द्र. । i) विप (वत्सवरी-) । बस [तु. दारिज-] । j) तद्धितार्थे द्विस । k) कस. > बस ।
l) विप. । बस. । m) उत्तरेण संघिरार्थः ।

द्वादशप्रक्रमा(म-आ)याम-
-म बौशु ४: २.
द्वादश-प्रभेद^a- -दम् आशि ६,
५, -दानि आशि ६, ८.
द्वादश-प्रूष^b- -प्रूट् बौशु २६,
८ १२
द्वादश-भाग- -गम् वाशु ३, २,
१, २९
द्वादश-म^c- -मे अप७१, ११, १
द्वादश-मल-> मला(ल-आ)-
दि-शुद्वादि-संस्पर्श-जा(ज-
अ)ग्न्युपघात^d- -ते वैशु २०,
१८: ४^e.
द्वादश-मात्र- -त्र: नाशि २, ७, १
द्वादश-मान^f- -नम् काशु
२२, ९, १, आपशु
द्वादश-मि(त>)ता- -ताम्
अप १७, २, १
द्वादश-मिथु(न>)ना^g- -ना
काशु २२, १०, १७, -ना लाशु
९, ४, ६
द्वादश-मूर्ति^h- -तिम् वैध ३,
१०, ५
द्वादश-युक्त- -क्तेन माशु ६, १,
५, ३७, वाशु २, १, ४, ३८
द्वादश-योगⁱ- -गम्^j माशु १,
७, ८, ५, वाशु १, ७, ५, ३
द्वादश-रात्र^k- -त्र: कौसू ६७, ९,
७२, २२, गौध २३, ३४, -त्रम्
आशु २, १, ३५, शाशु, बौपि
२, ७, ९^l, -त्रस्य गौध २६,

१५, -त्रात् भाग १, ९ ६, ३,
२० ९, बौध ३, ५, ६, -त्रे
आपशु २२, १४, १३, वाग्य,
-त्रेण विध ४८, १४
द्वादशरात्र-पराध्य^m- -ध्या:
आशु १०, १, १२
द्वादशरात्र-व्रत- -तानि
वैशु १, १६ १
द्वादशरात्रा(त्र-आ)दिⁿ-
-दीनि काशु २४, १, १
द्वादशरात्रा(त्र-अ)न्त^o-
-न्तानि बौपि ३, ७, ४
द्वादश-रात्रि- -त्रिषु वैशु १,
१६: ५, -त्री लाशु ९ ८, ४^p
द्वादश(श-ऋ)र्च^q- -र्चं लाशु
१०, ९, ९, वैताशु ३३, १५^r,
ऋअ २, १०, ६०, -र्चम् ऋअ
२, १०, ५८, शुअ, -र्चं शाशु
१८, १३, ६, निसू ६, ७: ५५,
वृदे २, १४६, -र्चंन आमिग २,
४, ४ १४, बौध ३, ७, ११,
-र्चंभ्यः अप ४६, १०, ९, अअ
१९, २३
द्वादश-वत् काशु १४, ५, २८
द्वादश-वर्ष- -र्षं वैगृ ६, १४ .
१, शंघ ३७९, -र्षेषु सुध ५३.
द्वादशवा, वा^sर्षिक^t- -कम्
आशु १२, ५, १३, कागृ १९, २
द्वादश-वर्ष^u- -र्षम् पागृ २,
२, ३, हिगृ १, १, ३
द्वादशवर्ष-ता- -तायाः वागृ

२, ८.
द्वादश-वि(धा>)ष^v- -धम्
शाशु १६, १, ३, बौशु १०,
१९ ९, या ७, २३.
द्वादश-व्यास- -स बौशु ४ १.
द्वादश-शत^w- -तम् आपशु
१३, ५, १ १४, १४, ६, २२, १२,
१२, काशुस
द्वादशशत-दक्षिण^x- -णः
आशु ९, १, ३, -णम् बौशु
२६, २० ३, -णस्य आपशु
१०, २६, १, वैशु १२, १९ १
द्वादश-सवत्सर^y- -रम् विध
५०, ६, -रात् वैध ३, ९, १.
द्वादश-सवत्सर^z- -रम्
आशु १२, ५, १५, शाशु, -रेण
आपशु २३, ११, ८
द्वादश-समा- -मा. वैध १, ३, ३.
द्वादश-सूक्त- -क्तैः वैगृ ६, १७:
३
द्वादश-स्तोत्र^{aa}- -त्र निसू ३,
४. १६, २२, -त्रात्^{ab} निसू
३, १ २६
द्वादश-स्तोम^{ac}- -म बौशु २५,
५: १४, -मानि बौशु १७,
१८ ९, -मेन बौशु १८,
४७: ३, २४.
द्वादश-स्थू(णा>)ण^{ad}- -णम्
अप २१, ६, १^{ae}.
द्वादशा(श-अ)क्षर, रा^{af}- -रः
निसू १, १ ३, १५, २ ६, ७;

a) विप । बस । b) पृ ४४४ f द्र. । c) विप । संख्यादेरपि पूरणार्थे ङट् प्र मङ्- आगमश्च उरसं
(पा ५, २, ४९) । d) बस. > द्वस > षस > उस > कस । e) माला इति पाठ. ^१ यनि शोघ (तु संस्कर्तुः
टि. मूको च) । f) तद्वितार्थे द्विस । g) उप = उपरक्तिका- इति विद्याधर । h) सपा श्वायो<>
श्वायो इति पाठे । i) तद्वितार्थे समाहारे च द्विस । j) पाठे. पृ १२४३ h द्र. । k) ऽत्रि इति
पाठः ? यनि शोघः (तु. भाष्यम्) । l) वैप १ द्र । m) ऽर्षम् इति C. । n) कागृ. पाठः ^१
o) पृ १२०६ I, j द्र । p) = ११२ । मलो कय. । q) समाहारे द्विस. । r) = क्तु-विशेष- ^१

१७, २०, ३: २, ४०३, ऋप्रा
 १६, २९, ४५, ७१, -रम् वाधुश्रौ
 ४, १००: ४, ९, २४, निस् ३,
 ४०२६, -रा निस् १, ५ ११,
 ३, ४: १८, -रा शाश्रौ ७, २७,
 १७, ऋप्रा, -राणि क्षुस् १, ५
 १३, ११: २४, -राभ्याम्
 उनिस् २ ३२, -राम् वाधुश्रौ
 ४, १००^२ ३, -रे ऋप्रा १६,
 ४६, -रौ निस् १, २: १२, ३
 ५, ७, ९, ११, ४ ६, १७, ऋप्रा
 द्वादशाक्षर-पा (द>) दा^२-
 -दा निस् १, २ २६, ४ ४
 द्वादशाक्षर-प्रस्ताव^२- -वानि
 निस् २, १० ४
 द्वादशाक्षरा(र-अ)ष्टाक्षर-
 -रौ निस् १, ४: १५
 द्वादशा(श-अ)क्षि-निमेष^३- -व.
 आज्यो १, ४
 १ द्वादशा(श-अ)ङ्गुल, ला^४-
 -ल कप्र २, ८, ३, अप, -लम्
 काश्रौ १६, ८, १५, बौश्रौ, -लस्य
 वैश्रौ ११, १०: ५, -ला अप
 २२, ७, १
 द्वादशाङ्गुला(ल-आ) यत-
 -तम् वैश्रौ ११, ८ ९
 द्वादशाङ्गुलो(ल-उ)न्नत-
 -तम् वैश्रौ १, ३ ५
 २ द्वादशा(श-अ)ङ्गुल^५-> ल-
 कल्प(त>)ता- -ता अप २६,
 ३, ३
 द्वादशाङ्गुल-मात्र- -त्रम्
 वैश्रौ १, ८ ७
 द्वादशाङ्गुल-मान- -नेन

अप ३०^२, १, ८
 द्वादशाङ्गुला(ल-आ)याम^६-
 -मम् वैश्रौ ११, ८ ७
 द्वादशा(श-अ)ङ्गुल^७- -ष्टम्
 आमिगृ २, ३, १: १०^६
 द्वादशा(श-अ)ध्याय-संग्रह-
 -हम् अप ७०^१, १, ४
 द्वादशा(श-अ)भ्यधिक- -कानि
 ऋअ ४, ३, -कै अप ३३, ३, ४
 द्वादशा(श-अ)भ्यस्त- -स्तम्
 वेज्यो १३
 द्वादशा(श-आ)योग^८- -गम्
 शाश्रौ ३, १८, १०^६
 द्वादशा(श-अ)र^९- -रम् या ४,
 २७^१
 द्वादशा(श-अ)रति^{१०}- -ति
 आपश्रौ २०, २, ७, हिश्रौ १४,
 १, २० -तिम् काश्रौ २०, १, ७,
 वाश्रौ ३, ४, १, १४
 द्वादशा(श-अ)व(त>)त्ता^{११}-
 -त्ता बौश्रौ ६, ११: १५, वाधुश्रौ
 ४, ४५: ७
 द्वादशा(श-अ)ष्टा(ष्ट-अ)क्षर-
 -राभ्याम् वैश्रौ ४, १२ ७
 द्वादशा(श-अ)ह^{१२}- पावाग ५,
 १, ११०^१, -हः आश्रौ १०,
 ५, ११, शाश्रौ, -हम् शाश्रौ
 १३, २०, १४, काश्रौ, आपश्रौ
 ५, ७, १४××, बौश्रौ,
 -हम्-हम् आपश्रौ १७, २६,
 २०, -हस्य आश्रौ १२, ४, २३,
 शाश्रौ, -हा आश्रौ १०, ५, १,
 क्षुस्, -हात् आपश्रौ २१, ३, ६,
 हिश्रौ, -हान् आपध १, २९,

१७, बौध, -हानाम् जुस् ३,
 १६, १७, -हाय शाश्रौ १०,
 १, १, आपश्रौ २१, ४, ५, हिश्रौ
 १६, १, ४२, -हे शाश्रौ २, २,
 २, आपश्रौ, -हेन आपश्रौ २१,
 १, १××, बौश्रौ
 द्वादशाह-तापश्चित^{१३}- -तेषु
 आश्रौ ४, २, १५
 द्वादशाह-धर्म- -र्मा काश्रौ
 १३, १, १
 द्वादशाह-पर्यन्त^{१४}- -न्ता:
 शाश्रौ ११, १, ३, काश्रौ २३,
 १, ३
 द्वादशाह-प्रबर्ह^{१५}- -र्ह जुस्
 २, ७: ६
 द्वादशाह-प्रभृति- -त्तीनि
 शाश्रौ ११, १, ४, १३, १४, ९,
 हिश्रौ १८, १, १२^{१६}, लाश्रौ १०,
 १, ११, वैताश्रौ ४२, १५, निस्
 ९, ६०२४
 द्वादशाह-भूत- -तस्य लाश्रौ
 २, ६, १८
 द्वादशाह-वत् काश्रौ २४, ५,
 ३१, मीस् १०, ६, ७२
 द्वादशाह-विकल्प- -ल्पा.
 काश्रौ २४, ७, १०
 द्वादशाह-शस् () काश्रौ १७,
 ७, १२
 द्वादशाह-समित- -तम्
 आपध २, ७, ४, हिध २, २, २५.
 द्वादशाहा(ह-आ)घ^{१७}- -घम्
 काश्रौ २४, ३, ३४
 द्वादशाहा(ह-अ)न्त- -न्ते
 काश्रौ ४, १०, ७

a) विप । बस । b) बस > षस । c) तद्धितार्थे द्विस । d) समाहारे द्विस । e) सप्र बौश्रौ
 १, ७, २ अङ्गुष्ठपर्वमात्रम् इति पाठे । f) वैप १ द्र । g) पाठे पृ १३१८ h द्र । h) विप (इडा-) । मलो
 कस । i) = ऋतु-विशेष- । j) तु. पागम । k) सत्र-विशेषयो द्वस । l) पृ १२४३० द्र । m) °ह-प्रजादीनि
 इति पाठः १ यनि शोध (तु शाश्रौ ११, १, ४) ।

द्वादशाहा (ह-अ) परार्ध^a-
-र्धम् आमिष्ट ३, ६, २ ६^b
द्वादशा (ह-अ) वरार्ध^a-
-र्धम् बौषि १, ९ : १५^b
द्वादशाहिक- -कम् बौश्रौ
१६, १३ १०, मीसू ७, ४, १३.
द्वादशाहिकी- -की निसू
६, ६ ११
द्वादशाहीय- -यस्य आपश्रौ
२१, २३, २, २३, ९, ६, -यात्
आपश्रौ २१, १५, १९, १६, २१,
हिश्रौ १६, ६, ३, -ये आपश्रौ
२१, १६, १९
द्वादशिक, का- -क बौश्रु ४, २,
-का आपश्रु ५, १२, हिश्रु २,
२३, -के हिश्रु २, ८.
द्वादशिका पञ्चत्रिंशिका-
-कयो आपश्रु ५, ६, बौश्रु १
३७, हिश्रु २, १५^{१०}
द्वादशिका-पञ्चिका- -कयो
आपश्रु ५, ४, बौश्रु १. ३६,
हिश्रु २, १२^{१०}
द्वादशिन- -शिन ऋश्र १, ९,
७, शुश्र, -शी शाश्रौ १३,
२३, ८
द्वादशि-प्रभृति- -तय निसू
१, ९ २३
द्वादशि-स्तोम^a- -मः आश्रौ
६२, ५, ४^०
द्वादशो(श-उ)त्तर^a- -रा निसू
१, ९ १२-२३
द्वादशो(श-उ)द्याम^a- -मम्

बौश्रौ १०, १२ ६, माश्रौ ६,
१, ४, ६^६, वैश्रौ १८, ६ ७,
-मे आपश्रौ १६, १०, ८, वैश्रौ
१८, ७ २६, हिश्रौ ११, ३, २५
द्वादशो(श-उ)पसत्क^a- -त्क.
माश्रौ ४, ३, ५१, -त्कम् बौश्रौ
२५, २७ : १×४, -त्का काश्रौ
२३, १, १, -त्के काश्रौ १७,
७, १०, आपश्रौ
द्वा-नवति-शत- -तम् वाधुश्रौ ४,
११३ ५
द्वापर^b- -र शाश्रौ १५, १९,
११, वाधुश्रौ ४, ५९ ५^१,
-रम् विध २०, ७
द्वापर-च्छन्दस^१- -न्दासि निसू
१, ५ : २१
द्वापर-स्तोम^१- -मा निसू १,
९ ९, १८-२०
द्वा-पूर्व^a- -र्वम् शुश्रा ५, २६
द्वा-विशत्- -शत् वैश्रु १, १ ५,
६, १९ १
द्वा-विशति- -ति. आश्रौ १२, ५,
१४, निसू, या ३, ८, १३, उसू
३, २, -तिम् शाश्रौ १०, १३,
४, आपश्रौ, -ते गौध १, १५,
-स्या शाश्रौ १५, २२, १
द्वाविंश^a- -श बौश्रौ १०,
४२ ४, १५, १६ ६, -शम्
अश्र ८, ५, आज्यो ९, ७, -शात्
१, १९, ६, कौश्रु
द्वाविंशी- -शी शाश्रौ १८,
१४, ४

द्वाविंश^१- > श-शत- -तम्
निघ २, १४, या ३, ९,
द्वाविंशक- -कम् अश्र ९, ८;
९
द्वाविंशति-दारु^a- -रु आपश्रौ
१०, ३०, २, -रुम् भाश्रौ १०,
२१, ३
द्वाविंशति-रात्र- -त्रम् आश्रौ
११, ३, ४, काश्रौ २४, २, ११;
हिश्रौ १८, १, २७, -त्रेण आपश्रौ
२३, ३, १०.
द्वाविंशत्य(ति-अ)श्र-ता-
-ताया निसू १, ५ २२
द्वाविंशत्य(ति-अ)क्षर-प्रभृति-
-तय निसू १, ५ १५
द्वाविंशत्यु(ति-ऋ)च^a- -चम्
शुश्र ३, ५३
द्वा सप्तति- -ति: विव ९६, ७६,
अश्र ११, ३(२), अप ५ ८
द्वि-क, का^m- पा ७, ३, ४७^m, -कम्^०
विध ३, २४, ६, २, -कस्य कप्र
२, ४, १२, -का: लाश्रौ ६, ७,
४, ८, ४, -केन गौश्रु ३, ९,
६, -कौ लाश्रौ ६, ८, ७
द्विक-प्रभृति- -तय: लाश्रौ ६,
५, १६, १९, निसू १, ८ ६,
९ २, ९, १८, २६
द्विक विष्टाव^a- -व: लाश्रौ ६,
८, १३, -वा लाश्रौ ६, ८, ९.
द्विका(क-अ)नुबद्ध- -द्धम् वैश्रौ
११, १० ३
द्वि-कपाल- -ल काश्रौ १२, ६, ४;

- a) विप । बस । b) परस्परं पाभे । c) द्वापञ्च इति पाठः ? यनि शोध. (तु आपश्रु) ।
d) कपञ्च इति पाठ ? यनि शोध (तु आपश्रु) । e) द्वाशी इति पाठ ? यनि शोध (तु शाश्रौ १३, २३, ८
प्रम्) । f) वैप १ द्र । g) द्यावम् इति पाठ ? यनि शोधः । h) = युग-विशेष- । शिष्ट वैप १ द्र ।
i) = द्युत-पाश- । j) पूष. = छन्दो-विशेष- । k) वैप १, १०३३ k द्र । l) तदस्मिन्नधिकमित्यर्थे ङ प्र (पावा
५, २, ४६) । m) विप. । स्वायें वा ता-तिथे ग्रहणे वा क-प्र. (पा ५, २, ७७) । n) पाप्र. अकचि इत्वम् ।
o) कन् प्र. (पा ५, १, ४७) ।

आप्रौ, -लम् आप्रौ ९, १३,
 १३, १४, ४, १, बौश्रौ, -ले
 बौश्रौ २०, ८ १९
 द्वि-कर^a -रम् अप २५, २, ५
 द्वि-कर(या>)णी- -णी काशु २,
 १२, आप्रशु १, १०, ५, ११,
 ६, १, हिशु २, २६, -णीम्
 हिशु १, १५
 द्विकरण्या(णी-आ)याम- -म
 काशु २, १४, आप्रशु २, ३,
 बौशु १, ३२, हिशु १, २४
 द्वि-कर्ण^b -र्णानाम् काशु ४, १०
 द्वि-कर्म^b -स्व- -स्वात् मीसू १०,
 ७, २०
 द्वि-कल्प^c -ल्पा कौसू ६७, ८
 द्वि-काल^c -लम् वैध २, ४, ३, ५,
 १४, ७
 द्वि-कृष्णलो(ल-ऊ)न- -ने विध
 ९, ६
 द्वि-कम- -मम् ऋप्रा ११, ६, १४
 द्वि-कोश^d -शानि आप्रौ २२,
 २, २३, -शे आप्रौ २२, २,
 २०^e
 द्वि-खुर- >रिन्- -रिण बौध
 १, ५, १३२
 द्वि-खुर^f -रा बौश्रौ २४, ५ २०
 द्वि-गत^g ->द्वैगत^h -ते लाश्रौ
 ६, १२, ९
 द्वैगत-गौतम- -मयो द्राश्रौ
 ८, २, २२, लाश्रौ ४, ६, १६
 द्वि-गुⁱ -गुः वृदे २, १०५, पा २,
 १, २३, ५२, ४, १, पावा २, ४,
 ३०, -गो. पा ४, १, २१, ८८, ५,
 १, ५४, ८०, ८६, ४, ९९, पावा
 २, १, ५१^j, ४, १, ४, १, ८८,

५, १, २८, ३७, -गौ पा ६, २,
 १२, २९, ९७, १२२
 द्विगु-प्रासा(स-आ)पन्ना(न्-अ)
 लंपूर्वो(र्व-उ)पसर्ग- -र्गा पावा
 १, २, ४४^k
 द्विगु-सज्ञा- -ज्ञा पावा २, १,
 ५१
 द्विगु-स्वर- रः पावा १, १, ४७,
 ६, १, ७०
 द्विग्व(गु-अ)र्थ- -र्थस्य पावा
 २, ४, १२
 द्विगुण, गा^b -ण काश्रौ २०, ४,
 १५, विध ५, ७३, काशु ५, २,
 या १४, ४, -णम् आश्रौ १, ११,
 ४, ऋश्रौ, गौध १२, ६^l, या ६,
 २६, -णा आप्रौ ७, ११, २,
 भाश्रौ, -णाः काश्रौ २२, ४, २८,
 वैताश्रौ ३७, ९, शध १०२,
 -णान् काश्रौ २६, ३, ३, हिश्रौ
 २२, ३, १९^m, -णानि विध २०,
 ७, चव्यू २ ५, -णासि शाश्रौ
 १७, २, ९, बौश्रौ ११, ३ : ३२,
 ३३, -णाम् आश्रौ ११, ५, ४,
 काटश्रौ, -णायै बौश्रौ ४, ५ :
 १८, -णे शंघ ३९१, विध ९,
 १२, -णेन आप्रौ १०, २४,
 १४, वैश्रौ १२, १८ २
 द्वैगुण्य- -ण्यम् गौध १२,
 २८
 द्विगुण-कारिन्- -रिण या ६,
 २६
 द्विगुणकारिणी- -णी वाध
 १९, १७
 द्विगुण-त्रिगुण-दर्शनⁿ- -नेषु
 अप ६५, १, ६

द्विगुण-दायिन्- -यिन या ६,
 २६
 द्विगुण-मुञ्ज- -मान् आग्र ४,
 ७, ८, गौपि २, २, २०
 द्विगुण-रक्षना- -नया काश्रौ ६,
 ३, २४
 द्विगुणा(ग-अ)भ्यास्- -सेन
 आप्रौ २२, ९, २१, हिश्रौ १७,
 ४, १६
 द्विगुणे(ग-इ)न्द्रचाप-दर्शनⁿ-
 -ने अप ६५, २, १०
 द्विगुणे(ण-उ)चर^p- -राणि
 गौध १२, १३
 द्वि-गोत्र^q -त्र बौध २, २, १८;
 -त्रस्य शाश्रौ १, ४, १६, वैश्रौ
 ६, ५ २, हिश्रौ २, १, ५६.
 द्वि-ग्रहण- -णेषु पावा १, ३, १०.
 द्वि-ग्राहम् वाश्रौ ३, २, ७, ५४
 द्वि-चतुष्-पत्-छी^r- -स्त्रियः
 अप ७०^s, १०, ५
 द्वि-चत्वारिंशत्- -शत् आश्रौ ६,
 ४, १०, ऋअ, -शतम् बौश्रौ
 २६, ११ : १०
 द्विचत्वारिंशक^t- -कात् वृदे ६,
 ८१
 द्वि-चन्द्र^u -न्द्रम् अप ५०, ७, १.
 द्वि-चन्द्र-दर्शन- -ने वैश्र ७, ६ :
 १२
 द्वि-चरु^v -रौ मीसू ३, ३, ४३
 द्वि-चू(डा>)ड^w- -डानि काश्रौ
 २२, ४, २२.
 द्वि-छा(या>)य^x- -ये अप ७२,
 ३, ८
 द्विछाय-वृक्ष- -क्षम् अप ६९,
 ५, ५

a) विप । तद्धितार्थे द्विस. । b) विप । बस. । c) समाहारे द्विस । d) = ऋषि-विशेष- (वैप २,
 ३खं द) । e) = साम-विशेष- । f) समास-संज्ञा- । g) तु. पाम. । h) तु. st. । i) विप । द्वस.>
 बस । j) विप. । कस.>बस. । k) द्वस.>बस >कम. । l) आर्ह्यः ह्युत् प्र. उर्सं. (पा ५, १, २४) ।

द्वि-ज^०-ज काश्रौस ३६ ८,
सु, -जम् सु १८, ६, अप,
-जस्य जैश्रौका ११०, अप,
-जा आमिगृ २, ३, ३
१४, १६, १९, काश्रु, -जान्
कप्र १, ४, ३, अप, -जानाम्
अप २२, १०, ४×४, वाध, -जे
कप्र २, ३, ७, ३, १, १२, विध
९३, ७, -जेन विध १९, २,
-जेभ्यः अप १३, ४, ५, ६८,
२, १७, -जेषु अप ७०^३, १०,
३, ७२, ६, १, -जैः बौश्रौप्र
५४ १७; काश्रु, -जौ वृदे ७,
८६, ८७
द्विज-कुल-ले अत्र ८, १
द्विज-त्व-त्वम् विध २८, ३९
द्विजत्व-विहीन-न. वैध
३, १३, १०.
द्विज-देवता-ताः अप ६४, ४,
९.
द्विज-धर्म-हीन-न वैध ३,
१३, ८
द्विज-गुण्या(ग्य-अ)ह-घोष-
-वेण आज्यो ७, १६
द्विज-प्रेत-तस्य विध २२,
६४
द्विज-मृग-गा अप ६४, ६,
१०
द्विज-वर-गुरु-रुणा उस् ८,
३६
द्विज-वृषभ-गवा(गो-अ)श-
पार्थिव-वानाम् अप ६८, २,
६२
द्विज-श्रेष्ठ-०० सु १८, ४,
-ष्ट शध ११२, ४३९.

द्विज-सत्तम-म अप ७०, १,
६, -मैः शध ४४९
द्विजा(ज-अ)ग्रय-अग्रस्य शध
१४१, -अग्रै अप २२, ८, ४
द्विजा(ज-अ)शौच-चे विध
२२, १७
द्विजे(ज-इ)न्द्र-०न्द्र सु ७,
३, १९, १, २८, २, -न्द्रा.
अप ७०^३, ११, ११
द्विजो(ज-उ)त्तम-म अप
६९, ८, १, ५, वाध २६, १६,
-मम् अप ६९, ३, ५, -माः अत्र
२३, १२, १×४, विध २२, ९१,
-मान् अप ५, ४, १, आमिगृ,
-माय अप ८, २, ३, -मे अत्र
८, १, -मै कप्र १, ४, ९, -मौ
शध ४३९

द्विजोत्तम-कुल-ले अत्रभू

८
द्वि-जकार-रे अप्रा २, ३, १२
द्वि जगत्य(ती-अ)न्त-न्तम्
ऋअ २, ५, ६०, ६, ७
द्वि-जगत्या(ती-आ)दि-दि
ऋअ २, १०, ६९
द्वि-जगत्या(ती-आ)द्य(दि-अ)-
न्त^०-न्तम् ऋअ २, १०, ५०
द्वि-जन्मन्^०-न्मन. विध २८,
४८, -न्मनाम् कप्र २, १०, ६;
अप, -न्मने जैश्रौका १६६,
विध २१, २३, -न्मा अप २०,
७, ११, बौध १, ११, ३२
द्वि-जाति^०-तय. वैगृ ५, ८ ८,
१०, अप, -तये कप्र ३, ८, ५,
अप ४, २, १३, १२, १, ८, -ति
वैगृ ४, १२ १२, कप्र, -तिभि

अप २३, ९, २, शध १५०, -
विध २२, ८२, -तिभ्य शध
२१९, -तिषु बौध २, १०, ५४,
-तीन् अप ७०^३, २२, २,
गौध १२, १, -तीनाम् सु १८,
३, आमिगृ
द्विजाति-कर्मन्-र्मभ्य गौध
२१, ४
द्विजाति-प्रवर-रात् बौध २,
२, २९
द्विजाति-शुश्रूषा-षा विध
२, ८
द्वित^०-त बौश्रौ २४, २६ : १३, -
ऋअ, या ४, ६, -तय बौश्रौ
१, १०, १५, २४, २६ १२, माश्रौ
द्वि-तकार-रम् अप्रा ३, २, २९;
-राणि अप्रा २, ३, १५
द्वि-तन्त्र->द्वैतन्त्र^०-न्त्रेण
निसु ९, ४ २६
द्वि-तय-पा ५, २, ४३, -ये
जैश्रौका १८
द्वि-ता^० बौश्रौ १८, १४ : ३,
ऋअ २, ४, ४२, विध ४, २;
या ५, ३७
द्वैत^०-तम् वैध १, ९, ६
द्वि-ता(रा>)र^१-राः अप ५२,
६, ५,
द्वि-ताल-दीर्घ^०-र्धम् वैश्रौ ११,
९ ५
द्वि-तीय, या^१-पा ५, २, ५४;
-य आश्रौ १, ५, २१, ५, ३,
३, १२, ६, १४, शाश्रौ; या १,
१५, ३, १५, ११, ६; -यम्
आश्रौ १, ७, ४, २, ७, २१×४;
शाश्रौ, -यया आश्रौ १, ३, ६५

- a) वैप १ द्र । b) विप । कस > बस > द्वस । c) वैप १, १५१३ h द्र. । d) भावे अण् प्र. ।
e) स्वार्थे अण् प्र. (वैतु. शक. < द्वीत- [द्विधा इत-]) । f) विप । बस । g) द्विस > कस. । h) विप., नाप.
(विभक्ति, तिथि-)

४, ६, ३×४, शाश्रौ, पा २, २,
 ४, -यस्य आश्रौ ७, ६, १,
 ८, ७, २२×४, शाश्रौ, पा ६,
 १, २, -यस्याः वैताश्रौ २५,
 ४, साञ्च २, १०२, -यस्याम्
 आश्रौ २, १, २५, काश्रौ, -यस्यै
 वाध्रौ ४, ५८ ४, -या आश्रौ
 १०, ६, ५, शाश्रौ, अञ्च ४, ४०^{१०},
 पा २, १, २४, ३, २, ८, ३१,
 ३५, ६०, ६, २, ४७, पावा ६,
 २, ४७, -या. काश्रौसं ३ ६,
 बौश्रौ २६, ११ २६, द्राश्रौ,
 -ऋया आपश्रौ ४, ४, १, १६,
 १, ३, बौश्रौ ३, २७ : ३१,
 भाश्रौ ४, ४, ३, वैश्रौ १८, १ १०,
 हिश्रौ ६, १, २६, ११, १, ६,
 -यात् आश्रौ ६, ६, २, ७, ११,
 १९, शाश्रौ, पा, पावा ५, ३,
 ८३, -यान् आश्रौ ७, ११, ३८,
 आपश्रौ, -यानि आश्रौ ७, ५,
 ४, वाश्रौ, -याभ्याम् अञ्च ७,
 १२, -याम् आश्रौ ३, ६,
 २६×४, शाश्रौ, -याय आपश्रौ
 ८, १७, ८, १३, १३, ६, १२, बौश्रौ
 ५, १६ ११, -यायाः काश्रौ
 २०, १, १४, निसू, पा ८, १,
 २३, -यायाम् आपश्रौ ११,
 ४, ५, ८, लाश्रौ, या १, ८,
 पा ३, ४, ५३, ७, २, ८७, -यायै
 शाश्रौ १८, २०, १-४, -ये आश्रौ
 ३, २, ३, ७, १०, ३×४, शाश्रौ,
 पा ६, ३, ८०, -येन आश्रौ १०,
 ५, २१, शाश्रौ, -येभ्य काश्रौ
 १०, २, २४, वैश्रौ १६, ७. १,
 अप ४६, ९, ९, -ऋयेषु शाश्रौ

४, १०, २, आपश्रौ, -यै
 वाश्रौ ३, २, ७, ३४, -यौ
 अप ४. १३
 द्वैतीयिक^b- -कानि निसू
 ८, ५ २३^{१०}
 द्वितीय-क- -कम् याशि २,
 २१
 द्वितीय-चतुर्थ- -र्थयो शाश्रौ
 १०, ५ १४, १२, २६, २, तैप्रा
 १४, ५, -र्थां शुप्रा १, ५४,
 शौच १ १०, -र्थे लाश्रौ ६, २,
 २८
 द्वितीय-चतुर्थी^d- -र्थ्योः हिशु
 ५, ४७
 द्वितीय-जन्मन्- -न्मनि वैश्रु
 ६, ७ २
 द्वितीय-तन्त्र- -न्त्रम् निसू ९,
 ४ : १६, १८
 द्वितीय-तृतीय, या- -ययोः
 आश्रौ ६, ३, ११, ८, १२, ५,
 -याभ्याम् वैश्रौ १, १२ : ८,
 हिश्रौ ३, ४, २२, -ये भाशि ६९,
 -यौ माश्रौ ५, २, ११, ३९, वैश्रौ
 १५, १२. १, वैश्रु ४, ७ ४
 द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ- -र्थानाम्
 आश्रौ ४, १, १८
 द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-तुर्थ-
 -र्थाणि पा २, २, ३
 द्वितीय-त्व- -त्वे पावा ५, ३,
 ८३
 द्वितीय-दशम- -मयोः शाश्रौ
 १२, २४, ४
 द्वितीय-दिवस- -से वैश्रु ४, १०.
 १३
 द्वितीय-द्विर्वचन- -ने पावा ६,

१, २
 द्वितीय-परिषेक- -के जैश्रौका
 ७०.
 द्वितीय-पर्यास- -सम् निसू ५,
 १ १२
 द्वितीय-पुरीष- -वे वैताश्रौ २, ४.
 द्वितीय-प्रथम- -मयो निसू ५,
 ९ : १५, साञ्च २, ४६, -मौ
 नाशि १, १, १३
 द्वितीय-प्रथम-कुष्ट- -ष्टाः तैप्रा
 २३, १६
 द्वितीय-प्रभृति- -ति काश्रौ २३,
 ५, ९, वाश्रु १४, २३, -तिषु
 शाश्रौ १०, १, ११, -तीनाम्
 शाश्रौ १२, २७, २, द्राश्रौ ९, ३,
 १४, लाश्रौ ३, ७, १
 द्वितीय-वर्जम् काश्रौसं ५ : ६.
 द्वितीय-शकल- -लेन वैश्रौ १३,
 १३ ९
 द्वितीय-शब्द- -ब्द मीसू ६,
 १, २३, ९, ३, ३७.
 द्वितीय-ससम- -मयो शाश्रौ
 १०, ५, १०
 द्वितीय-स्थान- -नम् निसू ८,
 ४ ३
 द्वितीय-स्पर्श- -र्शः दंवि १,
 ११
 द्वितीय-स्वर- -र द्राश्रौ ६, १,
 १६^०
 द्वितीय-स्वरो(र-उ)त्तम^f- -मैः
 लाश्रौ २, ९, १२^०
 द्वितीया (य-आ) काङ्क्ष-
 -ङ्क्षस्य पावा ३, ३, १६१.
 द्वितीया/कृ पा ५, ४, ५८.
 द्वितीया-चतुर्थी- -र्थ्यौ शाश्रौ

a) सकृत् ष्यया इति पाठः ? यनि. शोधः । b) तस्येदमीयष् ठक् > इकः प्र. । c) ष्य^०
 इति पाठः ? यनि शोधः (तु. तत्रैव तातीयिकानि) । d) द्वस. पूष. ह्रस्वः (पा ६, ३, ६३) । e) सपा...
 उत्तम द्वितीयस्वर <> द्वितीयस्वरोत्तमैः इति पाठे. । f) विष । बस. पूष कस ।

२,५,१८, १०, ११, ५, पा २,
३,१२
द्वितीया-तृतीया- -ययो निसू
४, १० ५, -याभ्याम् गोष्ठ
४, १, १४, पा ७, ३, ११५,
-ये ऋञ्च २,१०,१५५, अञ्च १,
२५, २०,१३९
द्वितीया-दशमी- -म्यौ आज्यो
६,१३.
द्वितीया(य-आ)दि- -दय मैञ्च
२४, अञ्च १९, २३, -दि वैताश्रौ
३३,४, -दिः ऋञ्च २, ६, २८,
-दिम् अप ३६,१३, १, -दिषु
आश्रौ ७, १, १३, १५, काश्रौस
३. ५, -दीनाम् पावा २,२,३.
द्वितीया(य-आ)द्य,द्या- -द्या
बुदे ६, २६, मैञ्च २०, -द्यान्
नाशि १,१,११
द्वितीया-निर्देश- -श. पावा ५,
१, ८०
द्वितीया(या-अ)नुपपत्ति- -त्ति
पावा ३,१,१९
द्वितीया(य,या-अ)न्त- -न्तम्
गोपि १,२,७,४,७, -न्ता तैप्रा
२३,१७
द्वितीया(य-अ)न्त्यस्वर- -रयो
वैताश्रौ ३२,१४
द्वितीया-प्रभृति- -ति बौपि ३,
१२,९
द्वितीया(य-अ)प्राप्ति- -सि पावा
६,१,२
द्वितीया(य-अ)भाव- -वे पावा
६,१,२
द्वितीया(य-अ)लाभ- -भे मागृ
१,७,७, वागृ १०,६
द्वितीया-षष्ठी-विषय- -ये पावा
२,३,३२

द्वितीया(य-अ)ष्टम- -मयोः
साञ्च २, ५६६, ५६८, -मौ
अपं २ १४
द्वितीया-सप्तमी- -म्यो पा ५,
४,५६
द्वितीया-समास-वचना (न—
आ)नर्थक्य- -क्यम् पावा २,१,
२४
द्वितीया-स्वर-वचना(न—आ)
नर्थक्य- -क्यम् पावा २,१,२४
द्वितीयिन्- -यिभ्य आश्रौ ९,
१, ४.
द्वितीयै(य-ए)क्वचन-वत् >
वद्-वचन- -नात् पावा ६,३,
६७
द्वितीयो(य-उ)च्चारण-लक्षण-
-णम् शैशि १०५
द्वितीयो(य-उ)च्छ्रित- -ते काश्रौ
२१,१,१०
द्वितीयो(य-उ)त्तम- -मयो
शाश्रौ १२,१३,१, लाश्रौ ७, ९,
५, -मौ लाश्रौ ७,७, ९
द्वितीयोत्तम-वर्जम् आश्रौ ७,
१२,८.
द्वितीयो(य-उ)त्सृष्ट- -ष्ट माश्रौ
५,२,१०,४१
द्वितीयो(य-उ)दात्त- -त्तानि
अप्रा १,२, ५
द्वि-त्रयस्त्रिंशत्- -शतम् लाश्रौ
१,६,१९
द्वि-त्रि-चतु-पञ्च-षट्-सूक्त-
भाज्- -भाजि ऋञ्च १,१२,३
द्वि-त्रि-नक्षत्र-ग- -गे अप ६३,
२, ३
द्वि-त्रिष्टुब्-अन्त- -न्तम् ऋञ्च २,
१,५१, ९४××, अञ्च २०, ९४
द्वि-त्व- -त्वम् पापवा ५,१६, भाशि

२०, ८८, -त्वात् कप्र ३, १०,
५, -त्वे याशि १,७३, पावा ५,
२,२९
द्वित्व-तस् () शैशि २१७
द्वित्व-बहुत्व-युक्त- -क्तम् मीसू
३,३,१७
द्वित्व-वाचिन्- -चिषु बौपि ३,
३,९^b
द्वित्वा(त्व-अ)भाव- -वात् पावा
२,१,१
द्वि-दण्ड- -ण्डम् वैध २,३, २
द्वि-दण्डि- -पा,पाग ५,४,१२८
द्वि-दत्- -पा ६,२,१९७
द्वि-दन्त- -न्त अप ६९,२,२
द्वि-दल,ला- -लम् कप्र १, २,१०,
-ला अप २६,२, ५, ८××
द्वि-दशन्- -श विध ६,२७
द्वि-दिव- -व काश्रौसं २८ : १८;
-वस्य काश्रौसं २८ २०
द्विदिवा(व-आख्या) > ख्य-
-ख्य. काश्रौ २२,७,६
द्वि-देव- -वेषु बुदे ३,१२८
द्वि-देव(ता) > त- -त काश्रौ ५,
१, ५, भाश्रौ, -ताः आपश्रौ
२४,३,४२, -तात् आश्रौ ३,६,
४, -ते बुदे ३,८१, मीसू ९,३,
३७, -तेषु कागृ ४७, ११
द्विदेवत-बहुदेवत- -तेषु शाश्रौ
१,१७,१९
द्वि-देवता- > ता(ता-अर्थ) > र्था-
-र्था मीसू १०,८,४२
द्विदेवस्य,त्या- -त्यम् अञ्च ४,
३८, -त्यस्य शाश्रौ ६,१, १५,
-त्या अञ्च ७,१२, -त्या आश्रौ
५, १३, ११, शाश्रौ, -त्यान्
आश्रौ ५, ५, २१^क, शाश्रौ,
-त्यानाम् आश्रौ ५,६,६, शाश्रौ,

a) विप । बस । b) द्विवा इति R । c) = ऋतु-विशेष- (वैप २, ३खं. द्र) ।

-त्यानि काश्रौ ९,२,४, १०,६,
४, -त्ये निसू ६, ८ १४,
-त्येभ्यः बौश्रौ २१, १९ २०,
-त्येषु शाश्रौ ७, ८, १२, बौश्रौ,
-त्यै आश्रौ ५, ५, १, काश्रौ.

द्विदेवत्य-ग्रह-संनिपात्-
-ता आपश्रौ १३, ९, ५

द्विदेवत्य-पात्र- -त्राणि
आपश्रौ १२, १, १०, १३, १३,
१२, बौश्रौ

द्विदेवत्य-भक्ष- -क्षेषु वैश्रौ
१५, ३१: ९

द्विदेवत्य(त्य-ऋ)र्तुग्रह- -हा
आपश्रौ १३, १, ४^a, -हेषु हिश्रौ
८, ६, १५

द्विदेवत्य(त्य-ऋ)र्तुग्रहा(ह-
आ)दित्य-सावित्र-पालीवत-
-वज्रम् आपश्रौ १२, २४, २

द्विदेवत्य(त्य-ऋ)र्तुग्रहै(ह-ऐ)
न्द्राग्न-वैश्वदेव- -वा हिश्रौ ९,
१, ३^a

द्विदेवत्य(त्य-ऋ)र्तुग्रहै(ह-ऐ)
न्द्राग्न-वैश्वदेव-दर्विहोम- -मा:
वैश्रौ १६, १ ९^a.

द्विदेवत्य(त्य-ऋ)र्तुयाज-
-जा शाश्रौ ७, १७, १०, -जान्
शाश्रौ ७, ३, ४

द्विदेवत्य-वत् आपश्रौ १२,
२७, १८, १३, ८, २, वैश्रौ १५,
३५ २

द्विदेवत्य-शेष- -षम् शाश्रौ
७, ४, १५

१ द्वि-दैव^b-> °व- बहुदैवत- -तम्

बृदे ३, ८०.

२ द्वि-दैव^c- -वे बृदे ३, ४१

द्वि-द्रोण- पावाग २, ३, १८

द्वि-धा बौश्रौ २५, १४. १०, १५
८, वैश्रौ

द्वैध^d- पा ५, ३, ४५, -धम्^e
काश्रौ १४, २, १७, १५, ४, ३,
आपश्रौ, लाश्रौ २, ७, २७, या
५, ३, -धात्^f द्राश्रौ १२, २,
१८

द्वैधी ✓कृ> द्वैधी-करण-
-णे पावा ३, ३ १०४

द्वैधी ✓भू> द्वैधी-भाव-
-वे बौश्रौ २८: ११: ८, अप
४७, ३, १

द्वैधी-भूत- -त अप ५०,
८, १

द्वि-धातु-ज- -जम् बृदे २, १०३

द्वि-धा(र>)रा^g- -रा आश्रौ ५,
१, ९^h

द्वि-नकार- -राणि अप्रा २, ३,
१६

द्वि-नतिकⁱ- -कानि अप्रा १, १,
१५, -के अप्रा १, १, १४

द्वि-नवति- -ति ऋप्रा १६, ९०

द्वि-नामन्- -मा काश्रौ २२, ८, २५,
आमिगृ

द्वि-नाराशस- -सम् बौश्रौ २५,
२२ २, -से आपश्रौ १२, २५,
२६

द्वि-नासि(का >)क- -क अप
६९, २, ३

द्वि-निष्क-, द्विनैष्किक- पा ५,

१, ३०

द्वि-पकार^j- -राणि अप्रा २, ३, १४,
१५

द्वि-प(क्ष >)क्षा^k- -क्षा अत्र ९,
३^l

द्वि-पङ्क्त्या(क्ति-आ)दि- -दि ऋअ
२, ८, ९१

द्वि-पञ्चक^m- -कः ऋअ ३, २७

द्वि-पञ्चाशत्- -शत् ऋअ २, १,
१६४

द्विपञ्चाशद्-अक्षर-प्रभृति-
-तयः निसू १, ५ २

द्विपञ्चाशद्-अक्ष(र>)राⁿ-
-रा ऋप्रा १६, ८०

द्वि-पद्^o- -पत् बौगृ ४, २, ९^l;
-पद् शाश्रौ ४, २०, १, आपश्रौ,

-पदम् वैश्रौ १८, १९ १०,
२२, -पदाम् आमिगृ २, ५,

९ १५, जैगृ २, ६: १२,
नाशि २, ६, ६^l, -पदे आश्रौ

२, ९, १०, शाश्रौ, पागृ ३, ४, ७^k,
या १२, १३^l, -दौ अत्र ५,

२६

द्विपदा- पाग ४, २, ६०^l,
-दा आश्रौ ६, २, ५, ५, १८,

शाश्रौ, उनिसू १. ४२, २ २७;
-दा आश्रौ ६, २, ६, ३, ९×४,

शाश्रौ, या १०, २१, १२, ४०,
-दानाम् शाश्रौ ७, २६, ४,

१८, १, २२, -दाभिः आपश्रौ
६, १७, ७, बौश्रौ, -दाम् आश्रौ

७, ३, १९, ८, १२, ३, शाश्रौ,
-दाया शाश्रौ ७, २७, १५,

a) सपा °ग्रहा दर्विहोमा: <> °ग्रहैन्द्राग्नवैश्वदेवा दर्विहोमा <> °ग्रहैन्द्राग्नवैश्वदेवदर्विहोमा इति पाभे । b) =द्वि-दैवत- इति सस्कर्तु भाष्यम् । c) विप । बस । d) स्वार्थिकः अण् प्र । e) वैतु पाप्र [५, ३, ४५] द्वि- + धा > धमुञ् प्र इति । वा क्रिवि । f) नाप (विकल्प-) । पावा ५, ३, ४५ ङ प्र इति [तु पाभे] । g) वैप १ द्र । h) वैप १, १६८८ ङ द्र । i) पाभे. वैप १, १६८८ प द्र । j) °पदे इति लासं. k) पाभे वैप १, १६८८ र द्र । l) °दी- इति पाका ।

शुभ्र ४, १४५, उनिसू २ २२,
-दासु आश्रौ ८, २, १, ४, ४,
लाश्रौ, -दे शाश्रौ १०, १३,
१३, १८, १४, ६, लाश्रौ, अश्र
१६, १^{२३}

१द्वैपदिक- पा ४, २, ६०

द्विपद-त्रिप(द>)दा-
-नामि बौश्रौ ३, ८ २५
द्विपदा-कारम् लाश्रौ ७, ७,
२०

द्विपदा(दा-अ) तिच्छन्दस-
-न्दसी निसू ७, ३ : ३६^{२०}.

द्विपदा(दा-आ)द्य(दि-अ)
र्ध्व- -चौ ऋप्रा १५, २०

द्विपदा(दा-अ) धिक^० -क
ऋप्रा १८, १६

द्विपदा(दा-अ)न्त^० -न्तम्
ऋप्रा २, ६, १०, १७

द्विपदा-भक्ति^० -क्तिनि
निसू ६, ६ • २४

द्विपदा-सूक्त- -क्तानि आश्रौ
८, ७, २४, ९, ६

द्विपदै(दा ए) कवदा- -वाः
उसू ३, २

द्विपदी- पाग ४, २, ६०^d, ५,
४, १३९, -दी आपश्रौ २, १९,
१०, बौश्रौ, आश्र १, ७, १९^e,
कौश्र १, ८, २८^e, शाश्र १, १४,
६^e, या ११, ४०

२द्वैपदिक- पा ४, २, ६०

१द्विपद, दा^f -द काश्र ७, ३४,
आपश्र ६, २, बौश्र १ : ६, हिश्र
२, २७, -दा बौश्र २० : १०,

११, १६

द्विपद-चतुष्पद- -दम् कौसू
१२३, १, -देषु शंघ २६८

द्विपद-चतुष्पद-धान्य-हिरण्य-
-ण्यानि शंघ १८

२द्विपद^g > द्वैपद^h -द निसू
७, ५ ३६, शुभ्र २, २२८,
-दम् आश्रौ ८, १२, २४, शाश्रौ,
-दयो ऋप्रा १०, ३, -दा वृदे
४, ८, ७, ८६, ऋप्रा ८, ३, -दे
ऋप्रा २, १०, ५६, ऋप्रा, -देन
शाश्रौ २, १२, २, ३, १७, ५××,
-दौ वैताश्रौ ३२, १२

द्वैपद-शस् (.) उसू १,
१५

द्वैपद-सहिता-स्वर-

-रौ ऋप्रा ११, ७०

द्वैपदा(दा-आ)दि-

दीनाम् वृदे ३, ८०

द्वैपदा(दा-अ)न्त- -न्तेषु

उसू ८, ३१^h

द्विपदै(दा-ए)कपद- -दानि शुप्रा
४, १६९

द्विपराकⁱ > द्वैपराक- -क

शाश्रौ १६, २२, ११

द्विपर्यन्त- -न्तानाम् पावा ७, २,
१०२.

द्विपश्रु^j -श्रु बौश्रौ १२, १९ :

१, १७, ५५ १७××, -श्रुना

आपश्रौ १८, २१, १२, २२,

२५, १३^k, बौश्रौ, -श्रुम् बौश्रौ

१८, ६ १८, २६, ३०. १७,

-श्रुनि आश्रौ १२, ७, १४, -शौ

बौश्रौ २६, १ ३

द्विपश्रु-प्रभृति- -ति माश्रौ ५,
२, ९, ४

द्विपात्र^l -त्रा वाधुश्रौ ४, ७८ :
२-५.

द्विपाद्^m - पा ६, २, १९७, -पात्

आपश्रौ ४, ११, १, माश्रौ ४,

१६, २, वाधुश्रौ, कौसू ३३, ९ⁿ;

-पात्सु माश्रौ ५, २, १, ३;

बौश्र ३, ५, १२, -पाद् बौश्रौ

२, १८ १८, माश्रौ १, ८, ३,

३^m, अश्र १२, १, अर्प ३ : ५६,

-पाद्दम् आपश्रौ १६, २७, १४;

बौश्रौ, -पादौ अश्र १५, १५;

-पाद्भ्य या १२, १३

द्विपात्र-चतुष्पद-आदि-

-दीनाम् काथ २७३. १३

द्विपा(दा>)दा^o -दा लु १६, ४.

द्विपितृ^p -ता आपश्रौ १, ९, ७,

माश्रौ, -तु बौध २, २, १९

द्विपुट^q -टम् वैश्रौ ११, ७ ९.

१द्विपुरुष- > षा(ष-अ)सोम-
पीथिन्- -थिन काश्रौ ७,
१, ६

२द्विपुरुष, षा^r -षम् काश्र २, ६;

आपश्र १९, १, हिश्र ६, १६,

-षया काठश्रौ ९२, -षा बौश्र

१० १०, -षाम् काश्रौ १६,

८, १, आपश्र १५, ९, हिश्र ५,

१४

द्विपुरुषा(ष आ)याम^s -मः

आपश्र १५, १०, बौश्र १० ५;

हिश्र ५, १७

a) दा इति पाठ ? यनि शोध । b) षो इति पाठ ? यनि शोध (तु सश्रु अन्तच्छन्दसी) ।

c) विप । बस । d) पृ १३२५ । द्र । e) पाभे वैप २, ३४ं द्वे तैत्रा ३, ७, ७, ११ टि द्र । f) तद्वितार्थे
द्विस उप = पञ्चदशाङ्गुल- । g) पृ १२०३ e, f द्र । h) ंन्ते इति कालिसं । i) द्विस उप = त्रिरात्र-
विशेष- । j) = याग-विशेष- । बस । k) वै । १ द्र । l) पाभे वैप १, १६८८ p द्र । m) पाभे. वैप १,
१६८८ q द्र । n) तद्वितार्थे द्विस ।

द्वि-पुरोडा(श >)वा^१- -शायाम्
मीसू १०,८,६०
द्वि-पृष्ठ- > द्वैपृष्ठ्य- -ष्ठ्यात् निस्
९,४ ६, -ष्ठ्येन निस् ९,४.
२६
द्वि-प्रकृति^१- -तीनाम् या २,२
द्वि-प्रक्रम- -मम् बौधु ४ : १३
द्वि-प्रगाथ- -थम् निस् ५,५ १०,
-थात् निस् ५,५ : २
द्विप्रगाथा(थ-आ)दि- -दि ऋअ
२,८,१
द्वि-प्रतिष्ठित^०- -तम् वैशु ३, १९
५^२
द्वि-प्रतिहार^१- -राणि लाश्रौ ७, ४,
१, -रे लाश्रौ ६, १२, १,७,
७,१८, २२
द्वि-प्रतीक^१- -कम् आश्रौ ८, १२,
२४
द्वि-प्रधान, ना^१- -नम् वृदे ४, ५,
-ना वृदे ४,८
द्वि-प्रभृति- -तिषु शाश्रौ १, १७,
२, -तीन् लाश्रौ ६, ३, २६,
-तीनि नाशि २, २,५
द्विप्रभृत्या(ति-आ) हुतिगण-
-णेषु हिश्रौ ३,८,१८
द्वि-प्रभे(द >)दा^१- -दा आशि
६,११
द्वि-प्रमा(ण >)णा^१- -णा काशु ३,
६, -णाया आपशु ३, १६,
हिशु १,५७
द्वि-प्रवाचन^१- -ना आश्रौ १२,
१३,२
द्वि-प्रवाजि(न् >)नी^०- -नी आशु
१,५,५.

द्वि-प्रस्ता(र >)रा^१- -रा आपशु
१०,१३, हिशु ३,५३
द्वि-प्रस्थ-तण्डुल-पा(क >)का^१-
-का वैश्रौ ११,९ : १३
द्वि-प्रादेश, शा^१- -शः वैश्रौ ११,
७ १२, बौधु ४ १४, -शम्
माश्रौ २, २, २, ३८, -शया
काठश्रौ ९२, -शै. वैश्रौ ११,
१० : २
द्विप्रादेशो(श-उ)परव- -वेषु
काठश्रौ ९२
द्वि-फ(ल >)ला^१- -ला अप २६,
२, १
द्वि-बर्हिस^१- -र्हा अप ४८, ११५,
निष ४, ३, या ६, १७^१
द्वि-बर्हिस^१- -र्हिष वाधूश्रौ ३,
१४ : ४
द्वि-बहु- -हुषु पावा ६, ३, १, -हूनाम्
आश्रौ ३, ३, ३
द्विबहु(हु-अ)र्थ- -र्थे पावा ५, ३,
५२, ९३
द्वि-विस्त- > द्विबैस्तिक- पा ५, १,
३१
द्वि-बृहत्य(ती-अ)जुष्टुब्- -अन्त^१-
-न्ते ऋअ २, ८, ५
द्वि-बृहत्य(ती-अ)न्त- -न्तम् ऋअ
२, ८, ६९
द्वि-ब्रह्मौदन- -नम् बौश्रौ २४,
१५०७
द्वि-भाग^१- -गः मीसू १०, ७,
२०, -गम् आपश्रौ ७, २४, ८,
२२, १६, १३, बौश्रौ; -रोभ्य-
वेज्यो १७
द्वि-भाव- (> द्वैभाव्य- पा) पाग

५,१,१२४
द्वि-भेद^१- -दा चव्यू २ १२
द्वि-मण्डल-परिग्रह- -हे अप ६३,
२, ९
द्वि-मात्र,त्रा- -त्रः तैप्रा २२, १३;
शौच, -त्रम् माश्रौ १,३,२,२२,
माग, -त्रा शुप्रा ४, १०९,
-त्राम् ऋप्रा १३, ५०
द्विमात्रिक- -क कौशि ७४,
याशि २,४२, -के याशि १,६७,
२,४२
द्वि-मास- -सात् अप ५७,४,७
द्वैमास्य^१- -स्य गौध १६,४.
द्विमासा(स-अ)भ्यन्तर- -रे या
१४, ६
द्वि-मुख^१- -ख बौध १,११, ३२
द्विमुखी- -खीम् अप ६,१,१४
द्वि-मुखलि- पाग ५,४,१२८
द्वि-मूर्ध- पा ५,४,११५
द्वि-मूर्धन्^१- -र्धा अप ६९, २, ३;
अअ ८,१०(४)
द्वि-यकार- -रम् शुप्रा ४,१५२;
-राणि अप्रा १, ३, १२, २, ३,
१२
द्वि-यजुस^१- -जुषी बौश्रौ १०,
३२ २, ४
द्वि-यज्ञ- -ज्ञ काश्रौ २२,११,१२.
द्वैयज्ञ- -ज्ञा निस् ७,१० :
३२
द्वियज्ञ-वत् मीसू ६,१,२२××.
द्वि-यज्ञोपवीत- > °तिन्- -ती
बौध १,३,५
द्वि-यम^१- -मे तैप्रा १९,३
द्वियम-पर- -रे तैप्रा १९,३

a) विप (पौरुषमासी-). b) विप । बस । c) विप (नामन्-). तुस पूष = मातापितृ-कुल- ।

d) शोध. पृ २१६ q द । e) = स्वरिणी-। उस । f) विप । द्विस > कस > बस । g) विप. ।
तद्धितार्थे द्विस । h) वैप १ द. । i) विप (सदस्-). पूष । j) विप । कस > द्वस > बस. । k) बस-
ना समाहारे द्विस वा । l) भावीत्यर्थे ण्यत् प्र (पा ५, १, ८४) । m) उप = स्वरित- ।

द्वि-यमा(म-अ)न्तरा- -रा तैप्रा
२३, २१
द्वि-य(द्वि-अ)ह^३- -ह वाधूश्री ३,
७ : २
द्वि-युग्म-प्रस(व>)वा^३- -वा
अप ७०^३, १०, २.
द्वि-युज्^३- -युजा आपश्री २२, २,
२०
१द्वि-योग^३- > द्वैयोग्य- -ग्यम्
पावा ५, १, ३१
२द्वि-योग^३- -ग बौश्री १८, २०
७, १९, -गम् बौश्री १५,
२४ : १७, -गानाम् वाधूश्री
३, ७९ ६
द्वि-योजन- -नम् बौश्री २६, १०.
२, अप ६१, १, २६
द्वि-रत्निक^३- -कम् अप ३०, १, ४
द्वि-रश(न>)न^३- -नम् हिश्री
९, ८, १४^३, -ना आपश्री १४,
५, १३^३
द्वैरशन्य-> ०-य-दर्शन- -नात्
मीस् ८, १, १४
द्वि-राज्य- -ज्यम् अप ७२, ६, २
द्वि-रात्र- -त्र शाश्री १५, १६, ४^३,
आपश्री, -त्रम् शाश्री १३, ५,
१९, ४, आपश्री, -त्रस्य आपश्री
१८, २२, २२, ४, बौश्री, -त्रा
आपश्री २२, १४, १६, निस् ८,
३. २५, -त्राणाम् निस् ३,
७ १, -त्रात् निस् ९, ९ ४७,
-त्राय काश्रीसं ३१ १५,
बौश्री, -त्रे आपश्री १४, १८,
१३, बौश्री १७, ५९, १८, ४, ४,
हिश्री १५, ५ १४, निस् ७, ३
१०, २८, -त्रेण शाश्री १६, २०,

१, १९
द्वैरात्रिक^३- -काणि निस् ७,
३ : १०
द्वैरात्रिकी- -क्य निस्
९, ४ २७
द्विरात्रन्याय- -य निस् ९,
४ २५, -येन निस् ७, ८ :
२७, २९, ३०^३, ३३^३
द्विरात्र-प्रभृति- -तय शाश्री
११, १, ३, आपश्री, -तिषु
शाश्री १०, १, २०, १२, २, १,
लाश्री ६, ९, १६
द्विरात्रा(त्र-आ)दि- -दीनाम्
मीस् ८, २, २७
द्विरात्रा(त्र-आ)सि- -सिम् निस्
७, ८ : १९, ८, २ १७
द्विरात्रीण^३- -ण लाश्री ८, ४,
११
द्विरात्रो(त्र-ऊ)न- -नम् आश्री
११, ७, १०
द्विरात्रो(त्र-उ)पजन^३- -न
आश्री ११, ४, ८, -नम् आश्री
११, ३, ११^३
द्वि-रूप, पा- -प वाधूश्री ३, ६९
३२, -पम् आपश्री २१, २३,
१२, भाश्री ७, ९, ७, माश्री,
-पया आपश्री १०, २२, ५, -पा
आपश्री १३, २३, १२, २२,
१५, ८, हिश्री १७, ६, २४,
-पाम् हिश्री ९, ६, १५
द्वि-रेतस्^३- -ता पाग ३, १५, ६,
बौध १, ११, ३२.
द्वि-रलकार^३- -रम् अप्रा २, ३, १३
द्वि-व(तत्र>)त्त्रा^३- -त्त्रा लु
२८, १.

द्वि-वचन- -नम् निस् ३, ९ : ४२;
या ६, १६, पा १, १, ११, २,
६३, ४, पावा, -नानि निस्
९, १२ १५, अप्रा ३, २, १,
-ने अप्रा २, २, १३, पा ७, १,
७७, ४
द्वि-वचन-प्रसङ्ग- -ङ्ग पावा ६,
१, ३
द्वि-वचन-बहुवचन-विधि- -धिः
पावा १, २, ६४
द्वि-वचन-बहुवचना(न-अ)लुप-
पत्ति- -त्तिः पावा २, २, २९.
द्वि-वचन-बहुवचना (न-अ)नेक-
प्रत्यया (य-अ)लुपपत्ति- -त्तिः
पावा ४, १, ३
द्वि-वचन-बहुवचना(न-अ)
प्रसिद्धि- -द्धि पावा १, २,
६४, ३, ३, १६१
द्वि-वचना(न-आ)दि- -दिषु
आमिग ३, ४, १० ३२
द्वि-वचना(न-अ)न्त- -न्तम्
पावा १, १, ११, -न्ताः शुप्रा
१, ९३, -न्तानि शुप्रा ५, २८;
-न्तौ शौच १, ७५
द्वि-वचनान्त-प्रगृह्यत्व- -त्वे
पावा १, १, २१
द्वि-वचनै(न-ए)कवचन- -ने पा
१, ४, २२
द्वि-वचो(चस्-अ)न्त- -भाज्-
-भाज ऋप्रा १, ७१
द्वि-वत्^३ आश्री २, ७, २०, आपश्री;
या २, २४^३
द्वि-वत्-स्तुति- -ति वृदे ६,
१६, -तौ वृदे ४, ५
द्वि-वत्- -वतः ऋत ५, ३, १०;

a) = द्वयह- । b) विप । कस > बस । c) पृ १२०५ C द्र । d) विप । तद्धितार्थे द्विस । e) = रथ-
विशेष । बस । f) उप = अरलि- । g) विप । बस । h) सप्र. ०नम् <> ०नाः इति पासे । i) विप ।
निर्वृत्तार्थे ऋ प्र (पा ५, १, ८७) । j) पृ १२०५ k द्र । k) तदर्हतीयः वतिः प्र. (पा ५, १, ११७ [तु. षड्युगुशिष्य]) ।

-वति ऋत ५,७,१०
 द्वि-वर्ण^२- -र्णम् शुप्रा ४, १४४,
 तैप्रा
 द्विवर्ण लोप- -प या २,१
 द्वि-वर्ण^३- -र्ण ऋप्रा ९, ३४,
 -र्णम् कौट ३, ६, ३, शापु,
 -र्णानि आशि १,२५
 द्वि-वर्ष^४- -र्षम् वाध ४,९^०
 द्विवर्ष-प्रभृति-प्रेत- -तम् पापु
 ३,१०,८
 द्वि-वस्त्र^५- -स्त्रः कागृ ३, ९, मागृ
 द्वि-वितस्ति^६- -स्ति कप्र १, ८,
 १२
 द्वि वितस्ति-प्रमाण^७- -ण काशु
 ७,८
 द्वि-विध,धा^८- -धः आपश्रौ १६,
 १७, १५, आपशु, -धम् शाश्रौ
 १६, २०, १×४, द्राश्रौ, -धा
 या १३, ५, नाशि १, ७, १६,
 -धा. बौध ३,३,४, -धे वाश्रौ
 ३, ३, १, ४०, -धेन निसू ७,
 ५ ३८
 द्वैविध्य- -ध्यम् बौध ३, ३, १,
 -ध्यात् निसू ८,२ २१
 द्वि-विषादिन्- -दि भाशि १२०
 द्वि-विस्तार- -रम् अप ३०^२, १,५
 द्वि-वृत्^९- -वृत् बौगृ १,२,१०
 द्वि-व्यञ्जन-विधि- -धि पाप्रत्रा
 ४,१३
 द्वि-व्या(म>)मा^{१०}- -मा काश्रौ ६,
 ३,२४, -माम् काठश्रौ ५२
 द्वि-व्याया(म>)मा^{११}- -मा आपश्रौ

७,११,२, शाश्रौ, -माम् वाश्रौ
 १,६,२,११, वैश्रौ.
 द्वि-व्रत^{१२}- -त बौश्रौ १४, ८० ३,
 अप ४६,८,४
 द्वि-शक्र^{१३}- -क्रम् शध ११६. ५०
 द्वि-शत- -तम् आम्रिगृ ३, ८, ३.
 २०, बौपि
 द्विशता(त-अ)क्ष(र>)रा^{१४}- -रा
 निसू १,५ १५
 द्वि-शत,ता^{१५}- -त आपशु १७,३,
 ९, बौशु, -ता बौशु ५ २१.
 द्वि-शफ^{१६}- -फम् माश्रौ ५, २, १४, ८.
 द्विशफै(फ-ए)कशफा(फ-अ)पह
 रण- -णे विध ५२,१२
 द्वि-शब्द-त्व- -त्वम् मीसू १०, ७,
 २५
 द्वि-शय^{१७}- -यानि माश्रौ २, १, १,
 १०
 द्वि-शस् (:) काश्रौ २,३, ६, निघ ३,
 २९, या ३,२०, ऋप्रा
 द्वि-शा(खा >)ख^{१८}- -खम् कौसू
 २०,३
 द्वि-शाण- > द्विशाण्य-, द्वैशाण-
 पा ५,१,३६
 द्वि-शीर्ष^{१९}- -र्षम् अप ७१,६, ४
 द्वि-शीर्षन्^{२०}- -र्षा अप ७०^२, ४,४
 द्वि-शू(ल>)ला^{२१}- -लाम् आपश्रौ
 ७, ८, ३×४, माश्रौ, वैश्रौ १०,
 ७ : २१^१, १५ : २
 द्वि-श्र(ङ>)ज्ञा^{२२}- -ज्ञा माश्रौ १,८,
 ३, २६, -ज्ञाम् माश्रौ १,८, ४,
 १५, ३८, वाश्रौ

द्विश्रै(ज्ञा-ए)कश्रै- -ज्ञाभ्याम्
 काठश्रौ ५६, ५७, -ज्ञे वाश्रौ
 १,६,२,११
 द्वि-शेष-त्व- -त्वात् मीसू ३,२,२९.
 द्वि-श्रेणि^{२३}- -णि बौश्रौ ११, ३ :
 २२, २४, २२, १४ ५
 द्वि-ष(<स)हित^{२४}- -तानि आपश्रौ
 २२, ५, ९, हिश्रौ १७, २, ३७;
 लाश्रौ ८,६,२५
 द्वि-षं(<सं)धि^{२५}- -धयः ऋप्रा २,
 ८०, -धौ ऋप्रा १५, १८
 द्वि-षष्^{२६}- -षट् वाश्रौ ३, २, ६,
 ३९^१, ऋप्रा ३,२६, -षड्भिः
 अं ४ : ९
 द्विषड्-यत^{२७}- -तः अप ६१,
 १,२७
 द्वि-षष्टि- -ष्टिः निघ ४,१, या ४,
 २५, -ष्ट्या वेज्यो २९
 द्विषष्टि-भाग- -गेन वेज्यो ३७.
 द्विषष्टि-रात्र-प्रभृति- -तीनि
 आश्रौ ११,४,८
 द्वि-षष्ठी-भाव- -वात् पात्रा २,
 १,१.
 द्वि-ष(<स)हस्त्रा(स-आ)दि- -दिषु
 बौपि १,१६. ८^०
 द्वि-षा(<सा)हस्त्र^{२८}- -खम् आपश्रौ
 १६, १३, ११, बौश्रौ, -खे
 आपशु १०, १३, हिशु ३, ५३.
 द्विषाहस्त्रा(स-आ)दि- -दिषु
 आम्रिगृ ३, ८, ३. १२^०
 द्वि-षू(<स्)क्त^{२९}- -क्त आश्रौ ८,
 ७,२०, -क्ता शाश्रौ १०, ११,

a) पृ ७९३ I द्र । b) पृ ७९३ J द्र । c) तद्वितार्थे द्विस. । d) प्रभृतियोगेऽपि द्वितीया
 उस (पावा २,३,२) । e) द्विवर्षात् इति संस्कृते टि । f) विप. । बस । g) विप (शङ्कु-) । कस >
 बस । h) पृ १०५४ I द्र. । i) = मरुद्-विशेष- । समास. ^१ । j) °ळा इति पाठः ^२ यनि. शेषः
 (तु आपश्रौ ७, ८, ३) । k) बस वा क्विपि । l) विप. > नाप. । बस । m) बस.
 [२×६=१२] । n) विप । मलो. कस. उप. = आयत- । o) सपा द्विषह° <> द्विषाह° इति पाठे. &
 p) वैप १, १५१९ C द्र. ।

१४, १२, ३, ३.
 द्वि-बोद्धसिन्^१ - शी आपश्रौ २२,
 ५, १४, हिश्रौ १७, २, ४२
 द्वि-ष्ट- पा ८, ३, ९७
 द्विस् (:) आश्रौ १, ३, २९, ३३, २,
 १६, १५××, शाश्रौ, पा ५,
 ४, १८, ८, ३, ४३, पावा २,
 १, ६९, द्विःSद्वि शाश्रौ २,
 १७, २, ४, ४, ११, ५, २१,
 १३; काश्रौ
 द्वि-पक्व- -क्वम् गोगृ ३,
 ५, ८, जैगृ १, १९: २७, शध
 २२९.
 द्विः-प्रयोग- -ना पावा ६,
 १, १
 ?द्विरङ्ग^२ - ङ्गम् आश्रिगृ ३, ११,
 ४: ४५
 द्विर्-अभिधारण- -णेन मीस्
 १०, ८, ३०
 द्विर्-आणव^३ - -वम् याशि १,
 १२.
 द्विर्-आयाम^४ - -सः बौश्रौ २,
 ९, २३, -सौ बौश्रौ २, ९
 २४
 द्विर्-उक्त, क्ता- -क्तः मीस् २,
 ३, २८, -क्तम् शुप्रा १, १४६,
 -क्तया जैश्रौ १४ २७, जैश्रौका
 १४७, -क्ता शुप्रा ४, १५८,
 -क्तानाम् अप्रा ३, १, ५, -क्ते
 शौच ४, ४४
 द्विर्-उदात्त^५ - -त्तम् अप्रा १,
 १, ४, नाशि २, ७, ५, -त्तानि
 शुप्रा २, ४६
 द्विर्-गृहीत- -तेन माश्रौ ६,
 २, ५, ३३

द्विर्-दशन्->°श-तस् (:) या
 ३, १०
 द्विर्दशा (श-अ)श्न (र>)
 श^६ - -रा ऋप्रा १६, २२
 द्विर्-दोष^७ ->°ष-ता- -ताम्
 वाध २०, ३०.
 द्विर्-भाव- -वः माशि ११, ९,
 नाशि २, २, ६
 द्विर्-भूत- -त्त कप्र २, ९, १६,
 -ते पावा ६, १, १३२^२
 द्विर्-योग^८ - -गास्य निस् ८,
 १०: ५
 द्विर्-वचन- -नम् शौच ४,
 ११७, पावा १, १, ७, ५९, ३,
 २, ५९××, -नात् पावा ३, ४,
 २, ६, १, ९, १२, १३२, -ने
 पा १, १, ५९, पावा ६, १, १^२,
 ८, ८, २, ६, ३, ५९, ४, ४७.
 द्विर्वचन-निमित्त- -न्ते पावा
 १, १, ५९
 द्विर्वचन-प्रकरण- -जे पावा
 ६, १, १२
 द्विर्वचन-प्रसङ्ग- -ङ्ग पावा
 ६, १, ३, ८, १, ४
 द्विर्वचन-विधान- -नात्
 पावा ८, १, ४
 द्विर्वचन-संबन्ध- -न्धेन
 पावा ८, १, ९
 द्विर्वचना (न-आ)दि- -दय.
 पावा १, १, ५७, -दीनि पावा
 १, १, ५८
 द्विर्वचना (न-अ)र्थ- -र्थः
 पावा ६, १, १.
 द्विर्-शमी^९ - -मीम् कौस् १३७,
 ८

द्वि (स् >) ष-ट (< त) र->
 °राम पावा ८, २, २२.
 द्विस्-तावत्^१ - -वान् तैप्रा १,
 ३५
 द्विस्तावती^२ - -तीम् बौशु
 १ ३२, २ १३; १६××
 द्वि-स्ता (व >) वा- पा ५, ४,
 ८४, -वा आपश्रौ २०, ९, १,
 बौश्रौ.
 द्वि-स्वर^३ - -रः ऋप्रा १५, ५
 द्वि-स्वाहाकारम् बौश्रौ १४,
 १७: ३, ७××
 द्वि-संयोग- -ना मीस् ६, ६, १०
 द्वि-सवत्सर-पर्यन्त- -न्तात् अप
 ७१, ६, ५
 द्वि-सश (य >) या^४ - -या निस् ३,
 ९: ३३
 द्वि-सकार^५ - -रम् शुप्रा ४, १४७.
 द्वि-संक्रान्त^६ - -न्ते कागृउ ४३-
 १८
 द्वि-संक्रान्ति^७ - -न्तौ कागृउ ४५.
 १२
 द्वि-सत्ता- -त्तायाम् कौस् १४१, ३७.
 द्वि-सप्त-क^८ - -कः ऋअ ३, २६
 द्वि-सप्तति- -ति ऋप्रा १६, ८५,
 -ती वेज्यो १९
 द्वि-सप्तम- -माभ्याम् आपशु १९,
 ७, हिशु ६, २६
 द्वि-सप्त^९-रात्र- -न्नात् या १४, ६
 द्वि-सप्ताह- -हात् विध १४, ४
 द्वि-सप्तवाय- -यः मीस् ९, ३, ३६
 द्वि-सप्तमास-प्रसङ्ग- -ङ्ग. पावा २,
 १, १
 द्वि-सप्तमार्थ^{१०} - -र्थम् आश्रौ ११, ७,
 १३

a) = वात्यस्तोम-विशेष-। बस । b) पाठ १ द्वयङ्ग- इति शोधः ? । c) विप । बस. । d) उप
 = अणुपरिमाण- । e) पृ ४३९ ० द्र । f) = दीर्घ-। सुपुपीयः समासः । g) = भूमि-। h) पृ ४४३ ई
 द्र. । i) द्विरावृत्ताः सप्तेति कृत्वा बस. । j) विप । बस. ।

द्विसंभार्य-ता- -ताम् वाश्रौ ३,
२,३,३१.
द्विसाम-त्व- -त्वम् मीसू १०,
६,४
द्विसाहस्र- -स्रम् वाश्रौ २, २,
२,२२
द्विसाहस्री- -स्री काश्रौ १७,
७,२१
द्विसुवर्ण- > द्विसौवर्णि(क>)
की^०- की शंघ २५२
द्विसूक्त^०- -क्ता अप २ ४
द्विस्तन,ना^०- -नम् आपश्रौ १७,
२६,७, २१, ४, १४, २३, ११,
६, भाश्रौ, -नानि आपश्रौ १६,
३५, १०, वैश्रौ, -नाम् काश्रौ
१६,४,२
द्विस्तनी^०- -नीनाम् शंघ
१५४, ४२४, ४२५
द्विस्तन-वत- -तम् बौश्रौ ६,
२२ १××
द्विस्तोत्र-भाज्- -भाज. निसू ७,
१२ ५
द्विस्थान- -नम् अप ४७, १,
१९
द्विस्थान^०- -ना निसू २,
३ ३१
द्विस्थान-ता- -ता ऋप्रा १३,
३८
द्विस्पर्श^०- -शम् शुप्रा ६,२५.
द्विसक्ति^०- -क्ति आपश्रौ १२, १,
११, हिश्रौ ८, १, २२, वैश्रौ
१५,२ ६
द्विसक्ति-पात्र- -त्रे वैश्रौ १५,
२१ : ९

द्वि-स्वर- -रम् कौशि ३९, नाशि
२,३,७, -रे तैप्रा १६,१७
द्वि-हविस्^०- -वि बौश्रौ १७,२२
८××, माश्रौ ५,१,५,४६,५०,
-विष शाश्रौ २,३,३, -विषम्
बौश्रौ ५,१ ७, वाश्रौ, -विषा
माश्रौ ५, १, ५, १६, -विषो
माश्रौ ५,१,५,१७,५५
द्वि-हस्त,स्ता^०- -स्तम् अप १८,१,
१४××, -स्ता सु १६, ४४,
-स्ते काश्रु ७,२
द्विहस्ता(स्त-आ)यत- -त
विध १०,२
द्वि-हायन^०- -न माश्रौ १, ५, ६,
८, -नम् विध ५०,३८, -ना
वाश्रौ ३,४,३,१८
द्विहायनी^०- -नी आपश्रौ
१०,२२,२, २२,१५,३, हिश्रौ
७,२,१६, -नीम् कौसू ६९,२
द्विहायन-मिथुन- -नौ वाश्रौ
१,४,३,४०
द्वि-हिङ्कार^०- -रम् लाश्रौ ७,२,१
द्वी(द्वि-ईषा>)ष^०- -षे आपश्रौ
१६,१२,४, हिश्रौ ११,५,२
द्वि(द्वि-ऋ)च^०- -चः ऋअ २,१,४४,
३, २६, ५, ४६, १०,५३, वृदे,
-चम् ऋअ २, ८, १, ९,
१०८, वृदे ५, ११४, -चस्य
वृदे ६, ९३, -चा. आश्रौ ४,
६,३, ५,१४,७, आश्रु, -चानि
अप २.७२, -चाभ्याम् ऋअ
२,१,१७९, -चे ऋअ २, ८,
२१, वृदे, -चेन ऋअ २, ८,
१००, वृदे ३, १५५, ६, ११८,

-चै वृदे ६, १३६^२, -चौ
ऋअ ३, ४०, चव्यू १ : १२;
ऋप्रा १८,१
द्वेषा^० आपश्रौ १४, २४, ७, २७,
१, बौश्रौ, पा ५,३,४६.
द्वेषा-कारम् आश्रौ ६, २, ७;
८,३,२०.
द्वय(द्वि-अं)श- -शम् वाघ १७,४९;
५१
द्वयशिन- -शी गौध २८,९.
द्वय(द्वि-अ)क्षर- -रम् लाश्रौ ७,
११,३, निसू १,६ २०.
द्वयक्षर-णि(<नि)घन^०-त्व-
-त्वात् निसू ८,५ : ३८
द्वयक्षरो(र-उ)प(घा>)ष^०-
-षम् ऋप्रा ८,४२
द्वय(द्वि-अ)क्षर,रा^०- -र वाश्रौ ३,
२,२,२३, लाश्रौ ७, ९,२, -रम्
वाश्रौ ३, २, २, २३, प्राश्रौ;
-रस्य लाश्रौ ७, ११, १५;
ऋप्रा ७,७, -रा. बौश्रौ २०,
१९ : १४, -रान् निसू ३,१३ :
८, -रे ऋप्रा ४, ४२, ऋत ५,
२,७, -रेण वाघश्रौ ४, १००,
२०, निसू २, १० १, १६;
ऋप्रा ५,४.
द्वयक्षर-ता- -ताम् ऋप्रा १४,
४३
द्वयक्षर-प्रभृति- -तीनि निसू १,
५.२२
द्वयक्षरा(र-आ)दि- -दीनि ऋप्रा
१७,२०.
द्वय(द्वि-अ)गिन-देवता- > ष्व-
(त्य>)त्या- -स्याः शुभ २,

a) विप (वृत्ति-) परिमाणार्थे ठञि (पावा ५,१,५९) उभयपदवृद्धिः । b) विप. । बस. । c) वैप १
द्र. । d) ङीष् प्र वा (पा ४,१,५४) । e) पृ १२१३ C द्र. । f) तद्धितार्थे द्विस. । g) बस. ।
h) [=सोमक्ययौ-] गो- । स्त्री. ङीष् प्र. (पा ४,१,२७) । i) =साम-विशेष- । j) =द्वयूच- । बस. । य-लोपः
उसं. (पावा ६, १, ३७ [तु षड्गुणशिष्यः]) ।

११७.

द्वय(द्वि-अ)निन-दैवत- -त ऋअ २,
१,१२, साअ २,१९४
द्वय(द्वि-अ)ङ्गुल,ला^१- -लम् शाश्रौ
२,८,२३, काश्रौ, -लानि बौश्रौ
२७,४ २९, -लाम् आपश्रौ २,
२,७, वैश्रौ ५,१०३, हिश्रौ १,
६,९४, -ले आपश्रौ ६, १०,४,
१६, ४, ११, काठश्रौ, -लेन
आपश्रौ ११,१३,६, वैश्रौ
द्वयङ्गुल-खा(त>)ता- -ता
अप २३,३,२, -ता माश्रौ १,
२,१,६
द्वयङ्गुल-ग्रन्थि- -न्थि वैश्रौ १,
८ ७
द्वयङ्गुल-च्छेद- -द शंघ ३३२
द्वयङ्गुल-निम्न- -न्म वैश्रौ ११,
७ ६,८ १०
द्वयङ्गुल-पृथ्व(थु-अप्र>)आ-
आ कप्र २,५,१५
द्वयङ्गुल-मात्र- -त्रे आश्रौ २,
३,१६
द्वयङ्गुला(ल-अ)प्र- -प्रम्
वैश्रौ ११,९. ४
द्वयङ्गुला(ल-अ)न्तर- -रे
काश्रौ ८,५,२२.
द्वयङ्गुला(ल-आ)यत- -तम्
वैश्रौ ११,८ १४
द्वयङ्गुलायत-विस्तार-
-राणि वैश्रौ ११, ९ ११.
द्वयङ्गुलो(ल-उ)त्सेध- -धम्
वैश्रौ २०,२८ : १२
द्वयङ्गुलो(ल-उ)न्नत,ता- -तम्
वैश्रौ ११,२ ८, वैश्रौ १,८ : ३,
-ताम् वैश्रौ १,८ . ११.

द्वय(द्वि-अ)ङ्गुल^१- -ष्टम् आमिष्ट २,
३,१ १४, कप्र १, ७, ८, ८,
१३
द्वय(द्वि-अ)ञ्जल- पा ५, ४,
१०२
द्वय(द्वि-अ)तिजागत-ग(र्भ>)-
र्भा- -र्भा अअ ४,२९.
द्वय(द्वि-अ)धिक,का- -कम् ऋअ
४,११, अअ १६, ७, अपं ५.
२५, -का ऋअ २, १, ३०,
१६२×४, -काया गौघ १,
१६
द्वय(द्वि-अ)धिशय^१- -य निसू १,
८ १२, -याः लाश्रौ ६, ५,
१९, निसू, -यानाम् लाश्रौ ६,
५,२८, निसू, -येषु लाश्रौ ६,
५,१३, २४
द्वय(द्वि-अ)ध्या(स>)सा- -सा
लाश्रौ ७,५,१०, निसू, -साया.
निसू ३,१३ २१
द्वय(द्वि-अ)नुचर- -र कौसू ९०,
२३
द्वय(द्वि-अ)नुवाक- -कम् अअ
१४,११०
द्वय(द्वि-अ)नुष्टुब्-अन्त- -न्तम्
ऋअ २, १०,९, १०९
द्वय(द्वि-अ)नुष्टुब्-ग(र्भ>)-
र्भा- -र्भा अअ १०,१
द्वय(द्वि-अ)नुष्टुब्-बृहत्त्य(ती-
अ)न्त^१- -न्तम् ऋअ २, ८,
८९
द्वय(द्वि-अ)न्तर,रा- -र नाशि १,
१,३, -रा माशि १,२
द्वय(द्वि-अ)भिक्रम- -मम् ऋप्रा
११,११; १२

द्वय(द्वि-अ)सुष्य- >द्वयासुष्या-
यण^१- -णम् शंघ २८८,
-णानाम् आपश्रौ २४, ७, २;
हिश्रौ २१, ३,१०
द्वय(द्वि-अ)रति^१- -ति बौश्रौ १९,
१ १३
द्वयरन्व(लि-अ)न्तर- -रे
काश्रौ ८,३,१९
द्वय(द्वि-अ)र्थ- -र्थ मीसू १०, १,
३१, -र्थे ऋत ३,२,४
द्वयर्थ-त्व- -त्वम् मीसू ७,१,६,
-त्वात् मीसू १०,१,३७, १२,
२,२६
द्वय(द्वि-अ)वदान->द्वयवदान-त्व-
-त्वम् मीसू १०,७,५
द्वयवदान-नाश- -शे मीसू ६,
४,१.
द्वय(द्वि-अ)वर- -रान् आपग ९,
४, वैश्रौ ४,३ : ३
द्वय(द्वि-अ)वरार्थ- -धर्मम् हिश्रौ
५,६, १३, -धर्मौ द्राश्रौ १०,
२,२, लाश्रौ ३,१०,२
द्वय(द्वि-अ)शीति->द्वयाशीतिक-
>का(क आ)द्य(दि-अ)र्थ-
-र्थम् पावा ७,३,१०
द्वय(द्वि-अ)श्रि- -श्रि बौश्रौ ७, ८ :
१९
द्वय(द्वि-अ)ष्ट->°ष्ट-क^१- -कः
ऋअ ३,३१
द्वय(द्वि-अ)ष्टन्- -ष्टन पा ६, ३,
४७
द्वय(द्वि-अ)ह- -ह आश्रौ ९, २,
८, काश्रौ, -हम् काश्रौ ५, ६,
१, आपश्रौ, -हम्-हम्
आपश्रौ १६, ३५, ७, २१, ४-

a) तद्धितार्थे द्विस । b) विप । उस उप कर्तरि कृत् । c) द्वयासु इति पाठः ? यदि
स्रोतः । d) विप. । कस. > द्वस. > वस । e) अपत्यार्थे फक् प्र (पा ४,१,९९) । f) वा. क्वि. ।
g) पृ ४४३ ई. द. ।

१२, माश्रौ ४,३,५, वैश्रौ १२,
१ १५, -हस्य निसू ७,३ :
११, -हाः आश्रौ ९, १, ८,
१०, २, ३, काश्रौ २३, २, १,
-हान् आपध १, २९, १७,
हिध १, ७, ७४, -हानाम्
आश्रौ ९, १, ४, -हे आपश्रौ
१, १३, १२, ५, ३, १६××,
भाश्रौ, -हेन बौश्रौ १,१ ३,
१८,२३ ७××
द्वयह-का(ल >)ला^१- ला
हिश्रौ २२,२,२
द्वयहकाव्य^२- ह्ये मीसू ५,
४,२३
द्वयह-प्रभृति- -तय आश्रौ
१०,१,१२, काश्रौ २३, १, ३,
वैताश्रौ ४२,१४
द्वयहा(ह-आ)दि- -दिषु काश्रौ
२३,१,५
द्वयहा(ह-अ)पवर्ग- -र्गः लाश्रौ
१०,१२,९
द्वयहा(ह-अ)र्थ- -र्थे आश्रौ ११,
१,११, शाश्रौ
द्वयहो(ह-उ)पजन^३- -नम्
आश्रौ ११,२,८
द्वय(द्वि-अ)हन्- > द्वयहीन^४- -नः
लाश्रौ ८,४,३
द्वयहीन-त्व- -त्वात् आश्रौ ८,
४,८
द्वया(द्वि-आ)दि-प्रतिषेध- -धात्
पावा ५, ३,२
द्वया(द्वि-आ)धान- -नम् मीसू ६,
१,२२.
द्वया(द्वि-आ)स्नात- -तेषु मीसू

३,८,१७
द्वया(द्वि-आ)स्नान- -नस्य मीसू
३,८,१७
द्वया(द्वि-आ)युष- पा ५,४,७७
द्वया(द्वि-आ)र्वेय^५- -य आपश्रौ
२४, ९,८,१०, १०,१, बौश्रौप्र,
-या आपश्रौ २४, १०, ३,
बौश्रौप्र १:५, हिश्रौ २१, ३,१३
द्वयार्वेय-सनिपात- -ते बौश्रौप्र
२ २
द्वया(द्वि-आ)श्रम- > श्रम^६-
-श्रम्यम् वैध १,९,८
द्वयु(द्वि-उ)त्तर- रम् वैश्र ३, १७
१५, -राः निसू १,८ : ५, ६,
-रान् लाश्रौ ८,१२,६
द्वयुत्तरी/√भू > द्वयुत्तरी भाव-
-वेन लाश्रौ ६,५,१५
द्वयु(द्वि-उ)दात्त- -त्तानाम् ऋप्रा ३,
२५
द्वयु(द्वि-उ)न्त^७- -तम् वाधुश्रौ ४,
१० १३, -ते वाधुश्रौ ४,
१० : ११
१द्वयु(द्वि-उ)पसर्ग- > श्रं-पूर्व-
-र्वम् अप्रा १,१,१२
२द्वयु(द्वि-उ)पसर्ग^८- -र्गात् या ७,
९, -र्गे अप्रा १,१,१०
द्वयु (द्वि-उ)ष्णिग्-ग(र्भं >)र्भा-
-र्भा अत्र ५, ८^२, १०, ११, १२
द्वयु(द्वि-ऊ)न, ना- -नः आपश्रौ
२३, ९,७,९, १५, हिश्रौ १६,
६,३^२, १८, ३, ११^{१०}, -नम् अप
४ ४, -ना ऋप्र २, १, ३१,
९२××, अत्र
द्वयु(द्वि-ऊ)ष्मन्- -ष्मसु ऋप्रा

११, ४६
१द्वयु(द्वि-ऊ)च- -चम् शुभ्र २,
१५३, १५४××
२द्वयु(द्वि-ऊ)च^९- -च अत्र २०,
८५, -चम् अत्र ७,१^३, १३××,
-चा कौश्र ३, ७, १०
द्वये(द्वि-ए)रु- -कयो पा १,४,२०,
पावा १,२,३९××
द्वयो(द्वि-ओ)प(वा >)शा^{११}- -शा
निसू ३,१३ २५, -शा निसू
३, १३ १९, -शो निसू ३,
१३ : २५
√द्विष्^{१२} पाधा अदा उभ अश्रीतौ,
द्वेषत् अत्र १२,११
√द्विष्^{१३} आश्रौ १, ३, २२, ३,
५, २××, शाश्रौ १,६, ६××, ४,
१३, १^{१६}, काश्रौ, या ६, २२^{१४},
द्विषन्ति कौसू ६४, ८^१, या १०,
५, √द्विष्मि आपश्रौ ४, ११, ५^१,
भाश्रौ ४, १७, २, ३, हिश्रौ ६, ३,
८^१, √द्विष्म आश्रौ १, ३, २२,
३, ५, २××, शाश्रौ, अद्विषुः पा
३, ४, ११२, द्विष्यात् आपश्रौ १
१९, २, २, १९, १०××, बौश्रौ.
√द्विष्^{१४}- द्विष आश्रौ २, १८, ३^१,
७, २, ३, आपश्रौ, बौश्रौ १०,
२२, ८^१, आपम १, ५, ५^१,
हिश्र १, २०, ५^१, २९, २^१, २, १,
३^१, द्विषम् भाग २, २४ :
१६^{१६}, वाग १, २३^१, द्विषा
माश्रौ २, ४, १, २३^१
द्विषत्- पा ३, २, १३१, पावा २,
३, ६९, ३, २, १२७, -√द्विषतः
शाश्रौ १०, १५, ८, १४, २२,

a) विप । बस । b) भावे व्यञ् प्र । c) पृ १२१६ b द्र । d) स्वार्थे व्यञ् प्र वृद्धयभावश्च । e) ऊ० इति पाठ ! यनि शोध (तु आपश्रौ २३, ९, ७) । f) पा ३, २, ६१ परामृष्ट द्र । g) पामे वैप २, ३ खं अभिहासति तैत्रा २, ४, १, २ टि द्र । h) वैप १ द्र । i) पामे वैप १, १६९३ d द्र । j) सपा द्विषः (ऋ २, ७, ३ काठ ३५, १२ च) <> द्विषम् इति पामे । k) सपा द्विषम् <> द्विषन् इति पामे । l) पामे वैप १, १५२९ g द्र ।

२३××, -फषताम् माश्रौ १,
६,२,१७^३, जैगृ, -फषते बौश्रौ
१७,४२ १४, आपम, -षत्सु
कौसू १०२, २फ, -षद्भि
विध ६३, ५, -फषद्भयः बौश्रौ
१७, ४० २१, आपमं १,
४, ११^३, १३, ५××, हिगृ १,
१९, ७^३, -फषन् शश्रौ ४, १२,
१०, १४, ४२, ६६, आपश्रौ ४,
१२, ८^०, बौश्रौ, भाश्रौ ४, १८,
४^०, वाश्रौ १, ३, २, १८^०, हिश्रौ^०
६, ३, १७, ४, १०, सु, हिगृ १,
१३, १३^३, -फषन्तः माश्रौ १,
२, ५, ८^०, ६, २, १७,
-फषन्तम् शाश्रौ ४, १२,
१०××, काश्रौ आपश्रौ ४,
१२, ८^०, भाश्रौ ४, १८, ४^०,
माश्रौ १, २, ५, ८^०, वाश्रौ १,
३, २ १८^०, हिश्रौ ६, ३, १७^०
द्विषती- ती हिश्रौ १७,
२ ३८
द्विषच्-लुब्ध- -ब्दे काश्रौ २,
४, २७
१द्विषद्-द्वेष- -ब- वृदे ३,
११४
२द्विषद्-द्वे (ष >) षा^३- -षाः
वृदे ४, ११८
द्विष-तप- पा ३, २, ३९
द्वेष- -ष वैगृ ३, १० : १, -फषात्
आमिगृ ३, ८, ३ : ३०, बौपि
१, १६ १७, -षाय भाश्रौ
६, १६, ११फ

द्वेष-प्रतिषेधा (ध-अ) र्थ- र्थाय
गो १, ४
फद्वेषस^३- -ष शाश्रौ ३, १५, ४,
आपश्रौ, -षस या ५, २३६,
-षासि आपश्रौ ४, ६, ३, ७, २०,
४^३××, भाश्रौ ४, ९, १, ७,
१५, ११^३, माश्रौ १, ८, ४, २८^३,
वाश्रौ १, ६, ७, ८^३, वैश्रौ १०,
१६ ३^३, हिश्रौ ४, ४, ३४^३××,
आपमं, -षोभ्य^३ बौश्रौ ६, ३० :
१६, ऋप्रा २, ४८, शुप्रा
४, ६५
द्वेषो-यवन^३- -फनः आपश्रौ
११, १२, ३, हिश्रौ ७, ६, १८
द्वेष्ट- -ष्टा सौसू १०, ६, १५, -ष्टारम्
आश्रौ ३, ११, १९, वैश्रौ २०,
११ ८, -ष्टे आश्रौ ३, १४, ८
द्वेष्य, ष्या- -ष्यः आश्रौ ५, १८, ३,
शाश्रौ, -ष्यम् काश्रौ ३, १,
७××, आपश्रौ, -ष्यस्य आपश्रौ
२, १४, ३, ६××, वाश्रौ,
-फष्या आपश्रौ २, २०, ६,
भाश्रौ, -ष्याय शाश्रौ ३, २०,
३फ, आपश्रौ, -ष्ये अप ३, ३,
१, मीसू १०, २, ४४, -ष्येण
आपश्रौ १६, २, ६, ३, १३, वैश्रौ
द्वेष्य-कल्प- -ल्पात् द्राश्रौ ३, २,
११, लाश्रौ १, १०, ८
द्वेष्य-दिश- -दिशि वैश्रौ १६,
२५ : १६
द्वेष्य-प्रिय-कल्प- -ल्पथो
द्राश्रौ ३, २, १५, लाश्रौ १, १०,

११
१द्वीप^३- > द्वीप्य^३- -ष्याय शुप्रा ५,
३७फ
२द्वीप^३- पाग २, ४, ३१, ४, १, १९^३;
२, १२७, १३३, -पम् द्राश्रौ
२, २, ११, लाश्रौ, -पान् सु ७,
५, -पानाम् विध १, १५, -षे
आश्रौ ३, ६, २४फ^३, माश्रौ ५,
२, १०, २८
१द्वैप- पा ४, २, १३३
द्वैपक- पा ४, २, १२७
द्वैपायन- पा ४, १, १९, -नः
अप्राय २, २, ३
द्वैप्य- पा ४, ३, १०
द्वीप-सप्तक- -कम् शंघ ११६ :
५
द्वीपिन^३- -फपिनम् आपश्रौ १८, १५,
३, हिश्रौ १३, ६, ३९, -पिनि
बौश्रौ २, ५ १७फ, -पी अप
६८, ५, ८, शंघ ३७७ १४.
२द्वैप- पा ४, २, १२, -प आपश्रौ
२२, १२, ७^३
द्वैप-धन्वधि- -धि शाश्रौ १४,
३३, २०^३.
द्वैप-वैयाप्रा(घ-अ^०)नलुच्चर्मन्-
-र्म अप १८, २, ३.
द्वीष-, द्वृच-, द्वेषा द्वि- द्र
द्वै पा १, ४, ५७.
द्वैगत-, णुण्य-, ण्त-, णतन्त्र-,
०ध- प्रसृ. द्वि- द्र.
द्विनभृत^३- -ता चव्यू ३ : ७.
१द्वैप- २द्वीप- द्र

a) पामे वैप १, १६९३ ० द्र. । b) पामे वैप १ परि अग्रिये शौ ८, ६, २६ टि द्र । c) पामे वैप
२, ३ख. द्विषन् तैत्रा ३, ७, ६, १९ टि द्र । d) पामे पृ १३३३ k द्र । e) पामे. वैप २, ३खं द्विषन्तम् तैत्रा
३, ७, ६, १९ टि द्र । f) विप । बस । g) वैप १ द्र. । h) पामे वैप १, १६९४ g द्र । z) पामे. वैप
१, १६९४ d द्र । j) वैप १, १६९५ a, ० द्र । k) वैप १, १६९५ d द्र । l) = ऋषि-विशेष । m) पामे.
वैप १, १६९५ f द्र । n) सपा. द्वैपो धन्वधिः <> द्वैपधन्वधिः इति पामे. । o) संस्कृत् १आ^३ । p) पाठः ३
IPW. प्रसृ द्वैतभृत- इति ।

२द्वैप- द्वीपिन- द्र
 द्वैपक- २द्वीप- द्र
 द्वैपद-, १, २द्वैपदिक-, द्वैपराक-
 द्वि- द्र
 द्वैपायन- २द्वीप- द्र
 द्वैपृष्ठय- द्वि- द्र
 द्वैप्य- २द्वीप- द्र
 द्वैभाव्य-, द्वैमास्थ-, द्वैयज्ञ- प्रभृ
 द्वि- द्र
 द्वया, द्वया^१क्ष^०- (> द्वय L, द्वया]
 क्षायण- > षण-भक्त- पा)
 पाग ४, २, ५४
 द्वयामुक्ष्यायण- द्वि- द्र
 द्वयाह, हा^१व^०- (> द्वैयाह, हा]
 वक्- पा) पाग ४, २, १२७

ध

१ध^१, धा- धः शुभ्रा ३, ५५, भाशि
 ४२, ४५, ४७
 ध-कार-परत्व- -त्वे पावा ८, ३, ७९
 १ध-म- -मौ अप्रा ३, २, २७
 ध-ष-वत्- -वति तैप्रा ८, ३३
 धा-कार- -रे याशि २, ३३, नाशि
 २, ३, ५
 २ध^०- नाशि १, ४, १२
 ✓धक् पाधा. चुरा पर नाशने
 धक्षु-, धक्ष्यत्- ✓वह द्र
 धट^१- -०ट विध १०, १०, -टः विध
 १०, १०, -टम् विध १०, ७
 धटा(ट-अ)न्यु(मि-उ)दक-विष-

-षाणाम् विध ९, ११
 ✓धण पाधा भ्वा पर शब्दे
 ✓धन्^१ (बधा) पाधा जुहो. पर
 धान्ये, दधनत्^१ हिश्रौ ९, २,
 २४^१
 ण्दधन्वस्- -न्वान् ऋप्रा ४, ६८,
 शुभ्रा ३, १३७, नाशि २, ४, ८.
 धन्^१- पाठवृ २, ८१, पाग २, ४,
 ३१^०, पावाग ५, १, १११,
 -नम् आश्रौ ३, १३, १८,
 ण्शाश्रौ ४, ११, ६^१, १४, ४६,
 १^३, ण्आपश्रौ ३, १३, ६^३×४,
 ५, २६, ५^३, बौश्रौ, भाश्रौ ३,
 १२, ९^३, ण्हिश्रौ २, ६, ३२^३,
 ३, ६, ५^३, द्राश्रौ ४, १, ८^१,
 लाश्रौ २, १, ७^१, आपमं २,
 १५, १६^१, कौश्र ३, ३, १^१,
 शाश्र ३, ४, ४^१, या २, ५,
 ३, ९^१, ४, ४, २४, ७, ९,
 ८, १, ११, ३३, -नस्य काश्रौ
 ४, २, ३२^१, आपश्रौ, -नात्
 बौध २, २, ५५, विध १८, १२,
 -नानाम् आश्रौ ९, ९, १५,
 आपश्रौ, -नानि आश्रौ २, १०,
 १६^३, अप, या १४, ३६^१,
 -ण्नाय आपश्रौ १४, २७, ७^३,
 माश्रौ २, ३, ८, ४^३, हिश्रौ १५, ७,
 ८^३, माश्र, -ने विध ५२, १६,
 पा ६, २, ५५, -नेन आश्रौ ६,
 १२, ४^३, शाश्रौ, ण्आपश्रौ ५,

१४, ५^०, १४, १८, १^०, बौश्रौ ८,
 १७, ४^१, हिश्रौ ३, ४, २८^१;
 जैश्रौ २०, ४^१, आपमं २, ६,
 १, ७^१, ण्भाश्र २, २६ ६, ७,
 -ण्नेषु गौपि २, ५, १४, अप
 ४४, ४, १२, -नैः शाश्रौ १६,
 ९, १०^१.
 धन-क- पा ५, २, ६५
 धन कनक-रजत-संचय- -याः
 अप ५१, ३, ३
 धन-काम- -म वृदे ५, १०;
 -मम् अप १, ४५, २, -मस्य
 अ ३६, ४, १, अशा १७, ३
 धन-कुप्य^१- -प्यम् वृदे ३, १४७.
 धन-क्री(त >)ता- -ताम् वाध
 १, ३५
 धन-क्षय- -य अप ३६, १७,
 १, -यम् आज्यो ७, ९, -ये
 अशा १७, ३.
 धन-गो-जा^१- -जा या १४,
 ३१^३.
 धन-ग्राहिन्- -हिणि विध ६,
 २७
 ण्धन-जित^१- -जित् आपश्रौ
 १६, १८, ६, ३०, १, २१, ४, २,
 वैश्रौ, -जितम्^३ शाश्रौ १४, ४६,
 १५, -जिते शाश्रौ १८, १७, ३.
 ण्धनं-जय^१- -यम् बौश्रौ १७,
 ४१ : १८, माश्रौ ५, १, ३, २,
 वैताश्रौ ५, १४, आपमं

a) तु भाषडा प्रभृ । b) तु पागम. । c) तु पासि । d) = वर्ण-विशेष- ।

व्यु ? । e) गन्धर्व- इत्यस्य मध्यम-वर्ण- । f) = तुला-दण्ड- L नभा धका इति । व्यु ? ।

g) पा ६, १, १९२ परामृष्ट. द्र । h) वैप १, १६९५ h द्र । i) वैप १ द्र. । j) सप्र

धनम् <> पथ इति पाभे. । k) पाभे वैप २, ३४ धनम् तैप्रा ३, ३, ११, २ टि द्र ।

l) धामानि इत्यपि क्वाचित्क मूको. । m) पाभे वैप १, १३४९ C द्र. । n) पाभे. वैप १, १६९७ b

द्र. । o) पाभे वैप १, १६९६ O द्र । p) पाभे वैप १, १६९७ C द्र । q) समाहारे द्रस ।

r) पृ १०९ j द्र. । s) धरिन्निगोजाः इति संस्कर्तुः टि राज. च पाभे । जा इति पाठः ? यनि. शोषः ।

t) = यज्ञ- ।

२धनं-जय^३- पाग ४, १, १०५,
 -यस्य वाअ ३८ : १६, -या^४
 आपश्रौ २४, ९, ५, बौश्रौप्र
 ३६ १, २, -यानाम्^५ आश्रौ
 १२, १४, ४, -याय आमिगृ १
 २, २ : २२, बौगृ
 धानजय^६- पा ४, १,
 १०५, -०य्य आश्रौ १२,
 १४, ४^७, आपश्रौ २४, ९, ६,
 बौश्रौप्र ३६. ३^८, हिश्रौ २१,
 ३, १२, -य्य द्राश्रौ १, १, २६,
 ३, ११××, लाश्रौ १, १, २५××,
 ४, ९, २३^९, ५, ४, ३^१, -य्यस्^{१०}
 द्राश्रौ ६, १, १४, लाश्रौ २,
 ९, १०, -य्यस्य छुसू ३, ९,
 ३, १३, -य्येन लाश्रौ ६, १,
 १८, १०, १६, १०
 धानजय-शाण्डिल्य-
 -य्यौ द्राश्रौ ७, १, २५, ३०,
 लाश्रौ ३, १, २४, २९××
 धनजय-वत् आपश्रौ २४, ९,
 ६, बौश्रौप्र ३६ ३, हिश्रौ २१,
 ३, १२
 धन-दा, दा- -द कागृ १०, २,
 मागृ १, ७, १, वागृ ८, १२,
 -दम् शध ११६ ३५^{११}, -दाम्
 मागृ २, १३, ६^{१२}
 धन-दश-भाग-संमित- -तम्
 विध ६, २०
 धन-दा- -दाः शुप्रा २, ४१^{१३}
 धन-दावन्^१- -वा कौसू ७२, १८
 धन-धान्य- -न्यम् अप ६७,
 १, १, -न्याभ्याम् बौगृ २, ८,

२०^{१४}, -न्येन अप १, ४४, ५,
 ४५, २, २, ६, १
 धनधान्य-पात्र- -त्रम्
 आमिगृ ३, ११, २ : ३
 धनधान्या(न्य-आ)दि-
 -दिभि अप २, ४, १
 धनधान्यादि-समृद्धि-
 -द्धया सुधप ८८ १०
 धनधान्या(न्य-अ)वकाश-
 -शे बौगृ २, ८, २०
 धन-धान्य-कुल- -खान् अप
 २०, ५, २
 धन-धान्य-पशु-पुत्र-कीर्त्ति-
 -मत्- -मान् पाशि ६०
 धन-नामधेय- -यम् या १, ७
 धन-नामन्- -म या ३, २, ४,
 ४, १७, -मानि निघ २, १०,
 या ३, ९
 धन-नाश- -श अप ७०^{१५}, ८,
 ५, -शाय अप २, ४, ३, आज्यो
 ५, १३.
 धन-पति- पाग ४, १, ८४, ५,
 १, १२४, -तये कौगृ ३, १०,
 १६, शागृ २, १४, १७, -तिम्
 अत्र २, ३६, -^{१६}ते आपश्रौ
 १६, ३४, ४, वैश्रौ १८, २१,
 ३५, हिश्रौ ११, ८, १५
 धानपत- पा ४, १, ८४
 धानपत्य- पा ५, १, १२४
 धन रुचि- -चिम् अत्र ३, १५
 धन-रूप^१- -पम् गौघ २८, ११
 धन(न-अ)र्च^{१७}- -र्चम् ऋप्रा २,
 ७१^{१८}

धन-लाभ- -भाय या ३, ५;
 -भे हिघ १, ७, ८
 धन-वत्- -^{१९}वत् आपश्रौ ६,
 २९, १, १३, २५, ३, हिश्रौ ३, ८,
 १४, मागृ २, ४ ११, -वन्तः
 आपश्रौ १६, ३४, ४, वैश्रौ;
 -वान् अप १२, १, ९.
 धनवती- -०ति अप २०,
 ७, १०, -ती या ११, ४६.
 १ धनि(घ)घा^{२०}- -घा हिश्रौ
 ९, २, २४^{२१}, -घाभिः^{२२} बौश्रौ
 २६, २९ ६, -घाभ्यः^{२३} वागृ
 १, २६, २२, -घाम्^{२४} अशा ५,
 २^{२५}, -घासु^{२६} अशा १३, ३,
 -०ष्टे^{२७} अशा ५, २^{२८}
 धनिघा (घा-२आ) घ-
 -घे कप्र ३, ६, १०
 धन-वर्जित- -त आमिगृ २,
 ७, ६ ३
 धन-वार्धुषिक- -कम् कप्र १,
 ६, ७
 धन-वृद्धि-प्रसक्त- -क्तान् कप्र
 १, ६, ६
^{२९}धन-सन- -नि. वैताश्रौ १९,
 १६, कौसू ७०, १, ८७, २१
^{३०}धन-सा- -सा आपश्रौ १३,
 २१, ३, हिश्रौ ९, ५, ४२
 धन सौभाग्य-वर्धन- -नम् विध
 १००, २
 धन-स्वीकरण- -णम् वाघ १६,
 १०
 धन-हार- > १-कारा-वघ-
 बन्ध- -न्धा. शध २६१

a) = ऋषि विशेष- । b) बहु < धानजय- । c) ष्य- इति लाश्रौ पाठ ? यदि सर्वत्र शोघ ।
 d) ष्य इति पाठ ? यदि शोघ (तु आपश्रौ प्रसृ) । e) सप्र. द्राश्रौ १२, १, ३७ शाण्डिल्य इति पाठे ।
 f) सप्र द्राश्रौ १३, ३, १८ गौतम इति पाठे । g) तस्येदमीयः ष्य. प्र उस (पा ४, १, ८५) । h) = कुबेर- ।
 i) उप. < ✓दा [दाने] । j) विप. । बस । k) वैप १, १६९७ p, q द्र. । l) वैप १, १३४७ ० द्र. ।
 m) = नक्षत्र- ।

धन-हारक- -क शंघ २९४, ४४०.
 धन-हिंसा- -साम् विध ५२, १६
 धनहिंसा-पर- -र विध ५२, १७^३
 धन-हीन- -नान् विध ७१, २
 धना (न-आ) गम- -मम् अप ६८, २, १०
 धना (न-आ) दान- -नम् विध ४०, १
 धना (न-अ) धिप^३- -प. आज्यो ५, १५
 धना (न-अ) न्तर- -रम् जैश्रौका १६८
 धना (न-अ) दान- -प्रशंसा-
 -सा ऋअ २, १०, ११७
 धना (न-अ) पह^३- -हः वाध ३, १६
 धना (न-अ) पहरण- -णे शघ ३९५
 धना (न-अ) पहार-> ०-वध-
 बन्धन-क्रिया- -या शंघ २५९
 ✓धनाय पा ७, ४, ३४, धनायति
 शाश्रौ १६, ४, ४१
 धना (न-आ) युस्- -युषी वाध ६, ९, -युषो अप ३६, १०, २, ७०, ६, २
 धना (न-अ) थं-> ०थिन्-
 -थिन विध ५१, ६२, -थी अप १, ४३, ३
 धना (न-आ) शा- -शा वाध ३०, ९
 धना (न-आ) शिस्- -शिष वृदे

७, १३५
 धनिक- -क विध ७, १३,
 -कस्य विध ५, ८९, १६९, ५२,
 १४, -केन विध ६, ४३.
 धनिक-च्छन्द-तस् (ः) विध ६, ४२
 धनिन्- -निन बौध ४, ५, २८,
 -निनि अप ६९, ८, २, -नी
 वाध १६, १०
 १धनी^०- -नी आश्रौ २,
 १०, १६१^४
 धने (न ई) श्वर- -रः आमिगृ २, ७, ६. ८
 धनो (न-उ) पेत- -तम् विध २७, ८
 १धन्य, न्या^०- पा ४, ४, ८४,
 पावा ५, १, १११, -न्य आगृ ४, ८, ३५, पागृ ३, ८, २, -न्यम्
 द्रागृ ४, २, १३, अप, -न्या
 शाश्रौ ८, १९, ११
 रध (नि >) नी^०- -न्या शाश्रौ ८,
 २०, १
 धनी-मत्-> रधनिष्ठ^०- -ष्ठाः
 शाश्रौ ८, २०, १.
 १धनिभीमम्^१ शंघ ११६ ५४
 १धनि(ष्ठ >) ष्ठा- ✓धन् > धन-
 मत्- द्र.
 धनु, नू^०- पाठ^३ १, ७, ८०, -नुना
 अप ७०^२, २१, ५, -नो आपश्रौ
 २०, १६, ७, वाश्रौ ३, ४, ३, ३१
 १धनुर्मटची^१ भागृ १, २५ १८१
 १धनुर्वेष्टी^१ बौश्रौ ११, २ १६,
 २२, १३ : १६.

धनुस्^०- पाठ २, ११७, पाग २, ४,
 ३१, ४, ४, १२, -नुः शाश्रौ
 ३, २, ७, ४, २०, १×४, काश्रौ;
 या ५, २५, ६, ३३१, ९, १६४;
 १७१, -नुष बौश्रौ २२, १८ :
 १७, २३, १८ २१, अप ५८^१,
 ३, ८, वृदे ५, १२९, पा ५, ४,
 १३२, -नुषा हिपि ५ : १०;
 कौसू ८५, ३१, विध १२, ४;
 पावा १, ४, १, -नुषि या ९,
 १८, याशि १, ४८, पावा ४,
 ३, १५२, -नुषिऽ-नुषि या २,
 ६, -नूषि अप ७१, १४, ५;
 माशि ८, ११.
 धानुष्क- पा ४, ४, १२
 धनुर्-आकार^३- -रम् आमिगृ २,
 ५, १ : २०
 धनुर्-आदान- -ने वृदे ७, १५
 धनुर्-आलि, वी- -लिम् हिश्रौ
 १३, ६, १०, -वी हिश्रौ १४,
 ३, ३०, -न्या काश्रौ १५, ६,
 २०, आपश्रौ १८, १७, १०;
 हिश्रौ १३, ६, १०^१
 धनुर्-इधम्^३- -ध्मे कौसू १४, ९.
 धनुर्-ग्रह- पावा ३, २, ९
 धनुर्-ग्राह^३- -हम् सु २०, ३.
 धनुर्-ज्या- -ज्या आगृ १, १९,
 १२, कौगृ, -ज्याम् कागृ ४१,
 १२, वागृ ५, ७, कौसू ५७, २.
 धनुर्-दण्ड-> धानुर्दण्डक- पा)
 पाग ४, ४, १२.
 धनुर्-धि^३- -धी बौश्रौ १८, २४ :
 १३

a) = कुबेर- । b) = आततायिन्- । उप. अप. ✓ह + ड प्र उत्सं. (पा ३, २, ५० [तु विध ५, १९२]) ।
 c) मत्वर्थीय. ई प्र (पावा ५, २, १०९) । d) पामे वैप २, ३४ खं चन्यः तैत्रा २, ५, ३, १ टि द्र. । e) वैप १ द्र. ।
 f) पाठ ? । धुरिं भीमम् इति अपु २१९, ३३, धितिः भीम इति शक (वायुशब्दे) । g) = धनुस्- । व्यु. ? ।
 h) < ✓धन् । i) = सूतिकारोगभेषज्य-विशेष- । व्यु. ? । j) स्वरूपम् ? (तु. संस्कृतं टि) । k) विप. । बस. ।
 l) शार्ङ्गो इति पाठ. ? यनि शोध (तु आपश्रौ) । m) = धनुर्धर- । उस. । n) नाप. । उप. अधिकरखे प्र. ।
 वैप४ दि-७३

धनुर्-मात्र- ऋ बौश्रौ ९, १ : ८
 धनुर्-मुक्त- क वृदे ५, १३४
 धनुर्-यज्ञ- ऋस्य कागृ ७१, १७
 धनुर्-वेद- दः चव्यू ४ १०,
 -दम् शंष ११६ ३८
 धनुष्-क^१- केण लाश्रौ ८, ६, ८
 धनुष्-कपाल- पाग ८, ३, ४८
 धनुष्-कोटि-मात्र- -त्रम् बौपि ३,
 २, ८
 धनुष्-पाणि^२- पाग २, २, ३७
 धनुष्-मत्- -मन्तम् वृदे ६, ११२.
 ✓धनुष्य, धनुष्यति अप ४८,
 १९१
 ?धनु -संघोल्का-परिवेष-विद्युद्-
 दण्डा(एड-अ)शनि-परिघ-परि-
 धि-निर्घाति- -ते अप ७२, ३, ३
 धनु -समिध्- -मिधम् कौसू १४,
 ९.
 धनुः-सहस्र^३- -स्त्राणि कप्र १, १०,
 ६
 धनुः-स्थायिन्- -यी अप ५०, ६, ५
 धनु- धनु-द्र.
 १धन्य- १✓धन् द्र.
 २धन्य^४- पाग ४, १, ११०
 धान्यायन- पा ४, १, ११०, -ना
 बौश्रौ प्र १७ : १०°
 ✓धन्व^५ (बधा) पाधा +वा पर
 गतौ, धन्वति निघ २, १४१,
 धन्वन्ति या ५, ५, ९, १६
 १धन्वन्^६- पाठ १, १५६, पाग
 ५, २, १३६^६, पावा ४, २, १०४;

-न्व बौश्रौ ९, ७ २४१^१,
 कागृ ९, ७, मागृ १, ४, ६, वागृ
 ८, ६, वृदे २, ६९१^१, ऋनिघ १,
 ३, ४, २, ऋया ५, ३, ५^३, §^१,
 १४, ११, ऋप्रा ८, ७^३, -ऋन्वन्
 या ९, १८, अप्रा २, ४, १७,
 -ऋन्वन आपमं २, २२, ३,
 हिगृ १, १५, ३^१, ऋप्रा २, ४७,
 -ऋन्वना आश्रौ ५, ३, २२,
 आपश्रौ, या ९, १७^५, -न्वनाम्
 आपगृ ६, ५, बौगृ ४, २, १२,
 -न्वनि बौश्रौ २, ५ २, -ऋन्वसु
 आश्रौ ४, ३, २, मागृ २, १५, ६,
 -ऋन्वानि आपश्रौ १६, ६, ४,
 माश्रौ
 धन्व-धि^७- -धि आपश्रौ २२,
 १२, ७
 धन्व-नृ-मही-वारि-वृक्ष-गिरि-
 दुर्ग- -गाणाम् विघ ३, ६
 ऋधन्व(न्यु >)न्या^८- -न्याः
 माश्रौ ६, १, ५, २२, कौगृ ५,
 ५, ६, कागृ २५, ४, वागृ ४, ३,
 विघ ६५, ५
 धन्व-पति- (> धान्वपत-
 पा) पाग ४, १, ८४
 धन्व-योपध- -धात् पा ४, २,
 १२१
 ?धन्वर्णस^९- -र्णसः ऋप्रा २,
 ७२१
 धन्वा(न्व-आ)कृति- -स्या अप
 २३, १०, ३

धन्वा(न्व-आ)र्त्ति- -र्त्तिम् वाश्रौ
 ३, ३, ३, ६
 ?धन्वासहा^{१०} ऋप्रा ९, ३१
 धन्विन्- पा ५, २, १३६;
 -न्विन वृदे ७, ५३
 धन्व- पाउवृ ४, १५
 १धन्वन्- ✓धन्व द्र
 २धन्वन्^{११}- > धान्व^{१२}- -न्व आश्रौ
 १०, ७, ७^{१२}
 १धान्वन^{१३}- -न. शाश्रौ १६, २, १९^{१३}.
 धन्वन^{१४}- > २धान्वन^{१४}- -नानि
 शाश्रौ १४, २२, १२
 धन्वन्तर^{१५}- -रम् आमिगृ २, ६, ३ :-
 ३४^{१५}
 धन्वन्तर-पार्षद- -दान् आमिगृ २,
 ६, ३ : ३४
 धन्वन्तरि^{१६}- -रये आगृ १, २, २१^{१६};
 आमिगृ, -रि बौश्रौ प्र ४३.
 ७, गौध ५, ११, -रिम् मागृ
 २, १२, २१^{१६}, जैगृ, बौध २, ५,
 २६^{१६}
 धन्वन्तरि-तर्पण- -गम् मागृ २,
 १२, १९
 धन्वन्तरि-पार्षद- -दान् बौध २,
 ५, २६^{१७}
 धन्वन्तरिपार्षदी- -दीः बौध २,
 ५, २६^{१७}
 धन्वन्तरि-यज्ञ- -ज्ञे आगृ १, १२,
 ७
 धन्वन्तरियज्ञ-शूलगव-वर्जम्
 आगृ १, ३, ६

a) ह्रस्वे क प्र । b) विप । बस । c) पूष = प्रमाण- । d) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? ।
 e) धन्या° इति पाठ ? यनि. शोघः । f) या ९, १६ परामृष्ट. द्र । g) वैप १ द्र । h) तु पागम ।
 i) पाभे वैप १, १६९९ f द्र । j) = अन्तरिक्ष- । k) वैप १, १६९९ r द्र । l) °न्वि° इति पाठ ? यनि
 शोघः (तु आपमं, शौ ६, ४२, १) । m) नाप । उप अधिकरणे प्र । n) व्यप । व्यु ? ।
 o) तस्यापत्प्रीये अणि प्र. टि लोपो वा । p) सपा. धान्वः <> धान्वन इति पाभे । q) = वृक्ष-विशेष- ।
 व्यु. ? । r) तस्यविकारीय- अण् प्र. (वैतु. भाष्यम् < धन्वन्- इति) । s) = धन्वन्तरि- । t) °न्वन्-त्° इति
 MW. । u) तु. मैस. Bwh.; वैतु चौधं. धा° इति ? ।

✓धम्, ध्मा^a पाधा भ्वा. पर शब्दा-
 मिनसयोगयो, णधमति अप ४८,
 ९, निघ २, १४^b, १९^c, ३, १४^d,
 धमन्ति कप्र १, ९, १५, धमेत्
 शंध २२६, वैध ३, २, ७
 रधम- पा ३, १, १३७
 धमक- पाउ २, ३५
 धमत्- -मन्तः शाश्रौ १२, १८, ९५
 धमन्ती- -न्ती या ६, २५
 धमन^e- -ना अप ६८, १, ४१, ४३.
 धमनि, नी^f- पाउ २, १०२, पागवा
 ५, २, ९७, फि ५६, -नय
 या ६, २४, -णनि अप ४८,
 १०२, निघ १, ११,
 -णनीनाम्^g भाश्रौ ८, ९, १५,
 माश्रौ १, ७, २, १८, हिश्रौ ५,
 २, ६२, या ६, २४, -न्यः
 विध ९६, ८४
 धमनी-ल- पा ५, २, ९७
 धमनी-शत- -ते विध ९६, ८२.
 धमि(तु>)त्री- -त्री^h हिश्रौ १५,
 ८, ३५
 ध्मात्- -त वृदे २, १५८ⁱ
 १ध-म- १ध-द्र
 धय- , व्यत्- ✓धे द्र
 धर, रा-, धरण-, णि-, णी-
 प्रसृ ✓धृ द्र

धहृण्यु¹- -णो चाञ्च १६ : २३
 धर्णसि-, धर्णसि- ✓धृ द्र
 ?धर्तारमुखम्¹ शध ११६ ५३
 धर्तुम्, धर्तु-, धर्तु- ✓धृ द्र
 १धर्म^k- (> धार्मायण- पा.) पाग ४,
 १, ११०
 रधर्म-, धर्मन्- प्रसृ ✓धृ द्र
 १धर्म्य- १धर्म- टि द्र
 धार्म्यायण- -णाः बौश्रौप्र ४१ :
 २
 रधर्म्य-, धर्म- ✓धृ द्र
 धर्षणि- पाउ २, १०४
 धर्षित- प्रसृ ✓धृ द्र
 ✓धव^l, धवति निघ २, १४^m
 धवⁿ- -वⁿ या ३, १५, -वम् शंध
 ११६ ६३^o, -वा निघ २,
 ३^p
 धवन-, धवनि- ✓धु, धू द्र
 धवल- पाउवृ १, १०६
 धवाणक- पाउ ३, ८३
 धवित्र-, धविष्यत्- ✓धु, धू द्र
 धव- ध- द्र
 ✓धा^q पाधा जु उम धारण-
 पोषणयो, धामहे या १२, ६५,
 णधातु बौश्रौ २७, ६ : ८,
 धात>ता ऋप्रा ७, ५३^r
 धत्ते शाश्रौ १४, २८, ९, १५,

६, ७, बौश्रौ, या १४, १३^s;
 दधाति शाश्रौ १५, १, ३७××,
 काश्रौ, वैव २, २, १^t, या ४,
 १६, ५, १९^u, १०, ८, २१^v;
 दधते आपश्रौ १४, २२, १०;
 २३, ७, ८, वाधूश्रौ, दधति
 आपश्रौ १३, १, १०, माश्रौ २,
 ३, ६, ४^w, या २, १२; ५, १८;
 ९, २८, भाशि ७६, दधासि
 आपश्रौ ८, १४, २४^x, तैप्रा १६,
 १८, णदधामि आश्रौ १, १२,
 ३७, १३, १, आपश्रौ, आगृ
 १, २१, ७^y, कौय १, १६,
 १६^z, २, २, १४^{aa}, ३, ३, १^{ab};
 शाय १, २४, ८^{ac}, २,
 ४, १^{ad}, ३, ४, २^{ae}, पागृ १, ८,
 ८^{af}, १६, ४^{ag}, २, २, १६^{ah}, हिगृ
 २, ५, २^{ai}, णदधमहे^{aj} आपश्रौ
 १४, २०, ३, बौपि १, १७ २४;
 कौ २७, ८^{ak}, णदधमः काश्रौसं
 ४ १६, आपम १, १०, ७-९^{al};
 शैशि ६६, याशि २, ९४,
 णदधमसि आपश्रौ ४, १५, १;
 भाश्रौ; हिगृ १, ४, ८^{am}, णदधाथ
 आपश्रौ ९, १८, १५, बौश्रौ २८,
 ७. ११, णदधातु आश्रौ १,
 १०, ८, ५, १९, ४, शाश्रौ २,

a) या ६, २, १०, ३१ वृदे २, १५८ पा ७, ३, ७८, ४, ३१ परामृष्टः द्र. । b) गतौ वृत्तिः । c) वधे
 वृत्तिः । d) अर्चाया वृत्तिः । e) कर्नरि युच् प्र (पा ३, २, १४८) । f) वैप १ द्र. । g) सपा धमनी^o <>
 धवनी^o इति पाभे । h) पाठः² -०त्रि इति शोधः (तु. सप्र आपश्रौ १४, ३३, २ धर्त्री- > ०त्रि इति पाभे) ।
 i) व्यप । व्यु । j) = मरुद्-विशेष- । पाठः ? धाता दुर्ग इति शक [वायुशब्दे) । k) = ऋषि-विशेष- ।
 ल्यु ? । तु पाका । १धर्म्य- इति भाण्डा प्रसृ, मन- इति [पक्षे] भाण्डा । l) = ✓धाच् [गतौ] । <✓धृ
 इति पासि । m) वप्रा । व्यु ? । <✓धृ (अर्थ ?) । n) = पति- । o) = वसु-विशेष- । p) = मनुष्य- ।
 q) या १, २०, ६, १७ अप्रा ३, १, ४ शौच ४, ६३ पा ७, ४, ४२, ८, २, ३८ पावा १, १, ५८ परामृष्ट द्र. ।
 r) आददाति इति ८ । s) पाभे वैप १, १५५५ a द्र । t) पाभे. वैप १, ११३८ t द्र. । u) सप्र हिगृ २,
 ३, ९³ लुहोमि इति पाभे । v) सप्र शाय १, ७, ९ प्रणयामि इति पाभे । w) पाभे. पृ १२४७] द्र ।
 x) पाभे वैप १, १७०४ द्र. । y) स्वाहा इति परतो लुप्तविसर्गः पाठः । z) दधासि इति Böht [ZDEOG
 ५२, ८१] ।

१०, १^a, ४, १, काश्रौ ३, ८,
२, ४, १४, २२^a, ५, १३, १^{१०b},
९, ३, १८, १०, ५, ३, ९, १०^c,
आपश्रौ १, १२, १४××, १४,
१८, १^d, बौश्रौ, माश्रौ १,
६, ४, २१^e, वैताश्रौ ७, १७^f,
आपमं २, ४, ४^g, माश्रु १, १०,
१३^h, २१, ८ⁱ, २२, १०^j, २, १५,
६^k, हिश्रु, १, ७, ११^l, अत्राय
४, १^m, दधाताम् बौश्रौ २०,
२७: १२ⁿ, ङघत्ताम्¹ वैश्रौ १, ४
१६, हिश्रौ, ङघत्ताम्^m आपश्रौ
२, १२, ४, भाश्रौ ३, १०, २,
आपमं २, २२, २४, कौसू ७२,
२, ङघत्तु बौश्रौ ७, ८ ११,
१०, ६: ११, ङघत्स्व आपश्रौ
१, १०, १०, वैश्रौ, या ५, २५,
ङघिष्व, > ष्वा या ६, १६,
ऋप्रा ७, ३३, शुप्रा ३, १२९,
ङघिष्व, > ष्वा कौसू ६८, १०,
ऋप्रा ७, ५६, पा ७, ४, ४५,
ङघेहि आश्रौ १, ११, १३ⁿ,
३, १०, ८××, ८, १, १८^o,
शाश्रौ, काश्रौ २, २, ८^p, ३, ४,
२७, २५, १, ११^q, आपश्रौ १,

१७, १०^r, ३, ११, २st, १९,
१^p, ५, १, ४^t, ६, ८, ११^p,
२१-२२, १st, १४, २१, ७^t, २७,
६st, ३३, २^q, १५, २, २st, १६,
३४, ४st, बौश्रौ १, २१ १७^p,
माश्रौ १, ४, २, १२^q, ३, १, २८^w,
४, १, १४^u, ५, २, १५, १^p, वैश्रौ
१८, २१: ३३^v, ३६^v, २१, १४
९^u, १०^u, हिश्रौ १, ५, १६^r, २, ८,
११^p, ११, ८, १५^v, १५, ५,
२७^t, द्राश्रौ २, १, ८^x, लाश्रौ ३,
५, ८^x, ४, ११, २१^q, वैताश्रौ २,
१^p, ३, २०^q, आपमं १, ४, १६ⁿ,
५, १८ⁿ, २, ६, ५^x, १५, १५^v,
ङआश्रु १, १६, ५^v, कौश्रु १, १९,
१०^v, शाश्रु १, २७, ७^v, २,
१०, ४^x, पाश्रु १, ५, ११^q,
३, १, ३, आश्रिण २, १,
३ ३१^z, माश्रु^u १, ४, ४,
८, वाश्रु ८, ४^u, ७^u, हिश्रुⁿ
१, ३, ६, २६, १३, कौसू ५,
१३ⁿ, ९७, ४ⁿ, १०६, ७st,
११७, ४st, १२५, २^p, या ५,
६st, ११, ३०^z, ङघत्तात् बौश्रौ
३, १९ १२st, या ८, १८st,

ङघाथाम् आपश्रौ ५, ८, ८st, ७,
१२, १४, बौश्रौ २, १५ १२st××;
भाश्रौ, हिश्रौ ६, ५, १०st, ङघत्तम्
आश्रौ ४, २, ३, शाश्रौ, माश्रौ
१, ५, २, ४st, आपमं १, ६,
१२st, या ६, ११st, ङघत्त, >
त्ता शाश्रौ ४, १३, १, काश्रौ
२५, ११, २३st, आपश्रौ १, ९,
१२st, १०, १५, ८, ११,
२०, १३st, १७, १८, १,
बौश्रौ ६, ३२. १२st, माश्रौ
५, २, १६, १४^p, वैश्रौ
१४, १८ ८st, विध ७३, २१st,
या ६, ७, ९, २७, १२, ४२,
घत्तऽघत्त अत्रा ३, १, ५,
ङघात्, > ता वाश्रौ १, ५, ५,
७, या ४, २१, ऋप्रा ७, ३८,
ङघातन आपश्रौ ७, १७, २st,
वैश्रौ १०, १३: १३st, हिश्रौ
४, ३, ५५st, जैश्रौ १२. २;
आपमं २, ७, १३, या ९, २७st,
ङघत्तन आश्रौ ८, ११, ३,
घत्तात्¹¹ आपश्रौ १, १०, ६;
बौश्रौ, दधै वाघूश्रौ ४, ९४st:
४, ङघानि वाश्रौ १, १, ४,

- a) पांमे वैप १, १७०४ a द्र । b) पांमे वैप २, ३ख ददातु तैत्रा २, ५, ७, ३st, ४st टि द्र ।
c) सप्र काश्रौ १०, ९, ४ ष्यौषीत् इति पांमे । d) पांमे. वैप १, ११४० m द्र । e) पांमे वैप १, १७०५० द्र ।
f) पांमे. पृ ८९८ k द्र । g) पांमे. वैप १, ११३८ t द्र । h) पांमे वैप २, ३खं करोतु तैत्रा २, ७, १७, २
टि द्र । i) सकृत् दधातु न इति पाठः १ दधातन इति श्लोचः । j) पांमे वैप १, ११४० g द्र । k) सप्र.
माश्रौ ३, १, २५ घातु इति पांमे । l) सप्र घत्ताम् <> घेहि इति पांमे । m) पांमे वैप १, १७०४ m द्र ।
n) पांमे वैप १ परि घेहि मै १, ४, ३ टि द्र । o) पाठ १ ह इति श्लोच (तु. वैप १, १५८०) । p) सपा.
घेहि <> घत्त इति पांमे । q) पांमे वैप १, १६४१ b द्र । r) पांमे वैप १, १५५८ h द्र । s) पांमे-
वैप १, १७०९ e द्र । t) पांमे वैप १, १५५६ h द्र । u) पांमे वैप १, १५५६ ०, 1 द्र । v) पांमे वैप
१ परि. अञ्ज-वत्- > वत् टि द्र । w) पांमे. वैप १, १७१० q द्र । x) पांमे वैप १, १७०९ r द्र ।
y) पांमे वैप १, १७०५ j द्र । z) सपा. हिश्रु २, ३, ८ ईशान इति पांमे । d¹) पांमे वैप १, १५५६ e द्र. f¹
b¹) पांमे. वैप १, १५५६ b द्र । c¹) मपु१ रूपं द्र । d¹) पांमे. वैप २, ३ख दधाथाम् तैत्रा १, २, १, १४
टि. द्र । e¹) पांमे वैप १, १७०५ a द्र । f¹) पांमे. पृ १२४८ k द्र । g¹) पांमे वैप १, १७०५ f द्र. h¹
h¹) पांमे. वैप १, १९३३ h द्र । i¹) मपु३ द्र ।

१५, वागृ २, ४, ङ्घावहै
आपश्रौ २, २, ३, भाश्रौ,
ङ्घाम आपश्रौ १६, ३४, ४,
हिश्रौ ११, ८, १५, अघत्
वाधूश्रौ ४, ३२ २, ३××,
बुदे ७, ८७, ८, ६, ङ्घात्
शाश्रौ १८, १, ८, आपश्रौ,
या १४, १७^३, अघत्ताम् जैगृ
१, २२ २८^३, अघत्ता भाशि
१०१^३, ङ्घात् आपश्रौ ५, २३,
४××, बौश्रौ, या ७, २९, १३,
९, ङ्घात्। वैश्रौ १८, २१
३××, हिश्रौ ११, ८, ९, ङ्घात्
आश्रौ ४, ६, ३, ९, ४, ङ्घात्
त्ताम् कौसू ५, १, या ६, ३६,
ङ्घाम् बौगृ १, ७, ४३,
मागृ १, १४, १६, वागृ १६, १,
अङ्घाम आपमं १, ११, ९^३,
ङ्घात् आपश्रौ १६, ७, ४,
बौश्रौ, दध्यात् आश्रौ ५, १४,
२०, १५, २२××, काश्रौ,
दध्याताम् वागृ ३, १, दध्याम्
बौश्रौ १३, १९ ७, हिश्रौ
२२, ३, १४, दधीमहि या
१२, ६
ङ्घे^३ आश्रौ १०, ९, ५, शाश्रौ;
या १२, ३२, दधौ बौश्रौ १८,
१३ ९, सु २, ६, ङ्घात्तुः
आश्रौ २, ५, ३, बौश्रौ, ङ्घिरे
शाश्रौ १८, ६, ५, आपश्रौ, या ६,
३५, ङ्घात् आपश्रौ ५, १०, ४,

माश्रौ, ङ्घिषे शाश्रौ ११,
१२, ४, आपश्रौ १२, १९, ५^३,
या ५, २५^३, ङ्घिम > मा
ऋप्रा ८, १५, घास्यसि वाधूश्रौ
४, ६ ३, घास्याव आगिगृ
२, १, ५ : २, ङ्घासथ > था
ऋप्रा ७, १४, ङ्घिषीय^३
आपश्रौ ४, १३, १, बौश्रौ, पा
७, ४, ४५, ङ्घिषीय^३ माश्रौ
१, ४, ३, १, वाश्रौ १, १, ४, ९^३,
अघित शाश्रौ ३, २०, ४, काश्रौ
२५, २, २४, ङ्घात् आश्रौ
३, ११, २, शाश्रौ ३, २०, २,
काश्रौ, ङ्घात् आश्रौ ५, ९, १^३,
६, १२, २^३, शाश्रौ ६, ९, १७,
पागृ ३, ५, ३, या १०, ४५,
?घो३म् आश्रौ ७, ११, ७^३,
अघाताम् या ९, ४३^३, ङ्घात्
माश्रौ २, ५, ४, १२, सु
आपश्रौ १३, १८, १^३,
ङ्घा वैध २, ४, ५, ङ्घा
आश्रौ ३, १, १४, ४, ५, ३,
शाश्रौ १, १२, ५, ४, ८, २^३, १७,
१३, १०, काश्रौ, माश्रौ १, ८,
३, ३१^३, हिगृ १, १३, १५^३, या
४, १७, ङ्घात् आपश्रौ
६, १०, ११, भाश्रौ ६,
१२, ९, हिश्रौ ३, ७, ७२,
घाम् आपश्रौ १, २१, ७^३,
बौश्रौ
धीयते शाश्रौ ११, २, ५, बौश्रौ

१४, १० : ३१, लाश्रौ, या ३,
१९, ४, ७, ५, २६, ६, २४, ७,
२७, १०, ४, धीयन्ते वाधूश्रौ ३,
१३. १७××, या ५, १०, १३,
१०, ङ्घीयातै बौश्रौ १, १२ :
३४, धीयताम् आपम १, १२,
८^३, शागृ १, १९, ६^३, अघीयन्त
बौश्रौ १०, ४२ १८^३, माश्रौ
६, २, १, २५, अघायि आपश्रौ
१०, ९, ४^३, बौश्रौ २, १८ :
२७^३, हिश्रौ १०, २, ७^३,
बुदे २, ११४, या ६, १५, २२^३,
ऋप्रा, ङ्घायि आश्रौ २, १७,
७, शाश्रौ, या ६, १५^३
दिधिषेय ऋप्रा ८, ४३^३.

दघ- पा ३, १, १३९

ङ्घत्- अत् आश्रौ ३, १२, १४;

शाश्रौ

ङ्घती- ती आश्रौ २, ११, ४^३;

शाश्रौ ३, ७, ४^३, बौश्रौ ७, ८ :

५, १४, ५. ४३, -ती बौश्रौ

१२, ८ २३

दघाति- > स्य(ति-अ)र्थ- र्थं या

८, ३

ङ्घान, ना- न आपश्रौ ५, ९,

१०, २१, १२, ३, माश्रौ, -नम्

निसू १, १. १४; -ना शाश्रौ

२, ४, ३^३ बौश्रौ, मागृ २, १,

१३^३, -नेन वाधूश्रौ ३, ६९ :

१७^३

दधिषार्य^३- पाठ ३, ९७

- a) वैप १ द्र । b) पामे. वैप १, १७०८ b द्र । c) वैप १, २०१ n द्र । d) पामे वैप १,
१७१० t द्र । e) वैप १, २०२ a द्र । f) पामे वैप १, १७०८ i द्र । g) घात् (ऋ १०, ३०, १२) >
न्युङ्कृतो विशेषः । h) घात् इति पाठः ? यनि शोधः (तु तै ३, १, १०, १) । i) पामे. वैप १, १७०४ d द्र ।
j) घात् इति Boht [ZDMG ५२, ८३] । k) पामे वैप १, १७०९ i द्र । l) पामे पृ १०९६ k द्र । m) पामे.
वैप १, १७०९ h द्र । n) तु सा प्रसृ, वैतु या = अघ्यायि [= ध्यातवान् इति दु] इति ? । o) पामे. वैप १,
१७११० द्र । p) पामे वैप २, ३६ दृढती माश्र ११, ४, ३, ७ टि. द्र । q) पामे वैप १ वाधूघाना तै १, ८, २२,
१ टि. द्र । r) पामे. वैप १, १७०३ h द्र । s) अर्थः ? < दधि- + √सु [अभिषे] इति पाठमो २, ३, १० ।

घा^१-घाः आपश्चौ २,३,९१, भाश्चौ,
घात(व्य >) व्या-व्या बौश्चौ
२६,४ : १०, १०
घातु^२-पाठ १,६९, -नव वैद्य
३,९,९०, वृदे ७,८०^१, या^० १,
२०,२,२८,३, ९^४, १०^३, ११,
१३^३, १९^४, अप्रा ३,४,१०, पा^०
१,३, १, ३, १, ३, २, -तुः लाश्चौ
७, ५, ९^४, निस् ३,१३ : ४^४,
सु १०,४^०, या १,२०^०, अप्रा
१,१,११^०, पावा ८, ३, ६५^०,
-तुभि वाद्य १,९^६, अप ११,
१, १५, -तुभ्य या २, २^०,
-तुम् काश्चौ १६, ३, २६^३, वाश्चौ
१,३, ३, १२^६, वृदे २, १०१,
-तूत् कौस् २, २२^६, -तूनाम्
बौश्चौ १,२१ : २६^६, २०, १५
११^६, वृदे २, १०२, -तोः
बौश्चौ २०, ११ २६^६,
चाश्च ३९ १७^४, ऋप्रा, पा १,
४,८०, ३, १, ७×४, -तौ ऋप्रा
१३, ३५, ऋत ५, २, ६, पा ३,
३, ११५, ६, १, ९१, -तौऽतौ^६
आपश्चौ २,९, ४, भाश्चौ
घातु-क्षय-यात् बौध ३,
२, १३
घातु-ग्रहण-णम् पावा ३, १,
९१, २, १४, ४, ११४, -णे पावा
३, १, २२, ६, १, ९०.
घातुग्रहण-सामर्थ्य-थ्यात्
पावा ७, १, ५८
घातुग्रहणा (ए-आ)नर्थक्य-
क्यम् पावा १, ४, ६०, ३,

१, ७
घातु-ज-जम् वृदे २, १०४,
-जस्य पावा २, २, २४, -जात्
वृदे २, १०४
घातु-त्रि-ग्रहण^१-णेषु पावा
१, ३, १०
घातु-त्व-त्वम् पावा १, ३,
१
घातु-निर्देश-शे पावा ३, ३,
१०८
घातु-प्रतिषेध-धः पावा ७,
१, १, ८४
घातु-प्रातिपदिक-कयो पा
२, ४, ७१
घातु-प्रातिपदिक-प्रत्यय-निपात-
तानाम् पाप्रवा ५, ९.
घातु-प्रातिपदिक-प्रत्यय-समास-
तद्धितविधि-स्वर-रा पावा
१, ४, १३
घातु-म(य>)यी-यी अशा
५, ८
घातु-मात्र-त्रात् पावा ३, १,
१३३
घातु-लक्षण-णम् चव्यू ३ :
१३^६
घातु-लोप-प. पा १, १, ४,
-पे पावा ६, २, १९१
घातु-वञ्ज-ञम् वैध १,
३, ६.
घातु-शस् (:) बौश्चौ २०, ११ :
१६, माश्चौ २, २, ४, १२.
घातु-संज्ञा-ज्ञायाम् पावा १,
३, १

घातु-सबन्ध-न्धे पा, पावा ३,
४, १
घातु-संभरणा (ए-आ) स्तरण-
णयो वाश्चौ १, २, १, २२
घातु(तु-उ)पसर्गा(र्ग-अ)व्यव-
गुण-शब्द^१-ब्दम् वृदे २,
१०३
घात्व(तु-अ)धिकार-र पावा
३, १, ९१ -रात् पावा ३, १,
९१, ६, १, ४५, -रे पावा ३,
१, ७
घात्व(तु-अ)न्त-न्तस्य पावा
६, १, ६६, ४, ४९, ७, १, १^३, ३,
५०.
घात्वन्त-प्रतिषेध-ध पावा
७, १, ३, ३, ४६
घात्व(तु-अ)न्यत्व-त्वात् पावा
३, १, ७८, २, १३५
घात्व(तु-अ)र्थ-र्थे शुप्रा ५, १०;
पा ५, १, ११८
घात्वर्थ-निर्देश-शे पावा
३, ३, १०८
घात्वर्थ-पृथग्-भाव-वे
पावा ५, ३, ४२
घात्वा(तु-आ)दि-दी या २,
१, -वे पा ६, १, ६४, -दौ शौच
३, ४८
घातु^३-पाठ २, ९४, -तूतः काश्चौ
२३, ३, १, आपश्चौ, कौस् ५६,
१७^३, या ११, १२, -तूता आश्चौ
६, १४, १५^६, १६^४, शाश्चौ;
आपश्चौ १२, ६, ३०, माश्चौ ३,
६, २^{२०}, हिश्चौ ८, १, ७६^०;

a) वैप १ द्र । b) बप्रा. यथायथ टि. द्र । c) = शरीरपोषक-द्रव्यविशेष- । d) = गैरिकादि- ।
e) = संज्ञा-विशेष- । f) = महानाम्नीभागविशेष- । g) = तृणमुष्टि- । h) = सूत-प्रक्षेप- इति कर्कविद्याधरी ।
i) = ऋषि-विशेष- । j) बस. > बस । तु कैयट । k) तु. सस्थ टि संज्ञासु । l) विप. । द्रस > बस. ।
m) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र । n) पामे वैप २, ३ खं आयन्तु तैश्चा ७, ४, ३ टि. द्र. । o) पामे-
वैप १, १७१३ h द्र ।

निघ ५, ५, या १०, २६^a, ११,
१०^क, ११^३, १२, ३६^क, -तारम्
बौश्रौ १४, १९ २, हिश्रौ, -तुः
आपश्रौ १५, १८, ६, बौश्रौ,
फंमाश्रौ १, ३, ५, १७^b, ३, १,
२५^c, आपमं १, ५, १६^फ,
कौग ५, ३, ३१^फ, -फंतुभिः
आश्रौ २, १७, ७, माश्रौ १, ६,
२, ४, -फंत्रा आपश्रौ २१,
११, ८, हिश्रौ १६, ४, ३१, आपमं
२, ११, १७, या ११, ११^क, -त्रे
आश्रौ ६, १४, १६^फ, शाश्रौ
१घात्री- -त्री ऋअ २,
१०, १८, बृदे ७, १२, -त्री
आनिगृ २, १, १ ३, २-३, हिगृ २,
१-२, २, -त्रीम् वैगृ ७, ४-५^३
घाता>घाता(ता-आ)दि- -दि
वैगृ १, १६ : ५x४, ३, १२ २^६
घातादि-पूर्व^b- -र्वम् वैगृ
२, ७ : १, ९ : ४, ७
?घातादिमिन्द्राहुतिम्^३
वैष २, ३, २
घातादि-न्नत-विसर्ग^३-
-र्वम् वैगृ २, ११ १, १३ ४
घात्र^३- -त्र काश्रौ १८, ६, २०,
आपश्रौ २२, १८, १८, हिश्रौ
१७, ७, १०, -त्रम् काश्रौ २५,
२, १६
१घान- -ने बौश्रौ २०, १९ : १३,

२४ : २४
घापयितु- -तारः मागृ १, २५ :
१९
धामन्^३- पाठवृ ४, १५१, पाग २,
४, ३१^म, -फंम आश्रौ १, ९, ५,
२, ८, ३, ५, १९, ३^३, शाश्रौ,
वैगृ २, १७ ३^क, या ७, २,
ऋप्रा ७, ५५^०, तैप्रा ३, ८^०,
पाशि २४^क, -फंमन् आश्रौ २,
१३, ७, आपश्रौ, -फंमभिः
आश्रौ १, ३, २३^३, वैताश्रौ ३२,
३^३, या ५, २, ९, २९, -फंमभ्य
आपश्रौ १६, २९, २, वैश्रौ,
-फंमसु आश्रौ ८, १०, ३,
शाश्रौ, -मा जैश्रौ ९ १९,
-फंमानि आश्रौ १, ३, १४,
६, ३x४, शाश्रौ, आपश्रौ
७, १०, ८^३, बौश्रौ ४, ४ २९^३,
माश्रौ ७, ८, १०^३, माश्रौ १, ८,
२, १८^३, ६, १, ८, १२^३, वाश्रौ
२, १, ८, १७^३, हिश्रौ ४, २, ५४^३,
या ९, २८^क, -फंमन् आपश्रौ
४, १६, ४, माश्रौ ६, ३, ७,
हिश्रौ ६, ६, १७, -फंमन् ऽमनः
आश्रौ ३, ६, २४, शाश्रौ ८,
१२, ११, काश्रौ ६, १०, ५,
आपश्रौ ७, २७, १६, बौश्रौ,
-फंमना शाश्रौ २, ११, ५^२,
काश्रौ २, ८, १९^३, ५, ४, २७^३,

बौश्रौ, -मनेऽमने शाश्रौ ४, ८,
१, बौश्रौ
धाम-च्छद्^३- -च्छत् आश्रौ २,
१३, ५^३, हिश्रौ ११, ८, २३^३,
शुअ २, ३६०^३, या ७, २४^३,
तैप्रा १४, ८^३, -च्छदा^३ आपश्रौ
१६, ३५, २, वैश्रौ १९, १ ११,
-च्छदे बौश्रौ १३, ३९ : ९,
माश्रौ ५, २, ६, १५, आमिगृ
२, ५, ११ : १४^३
धामच्छद्-आदि^३- -दीनि
आपश्रौ १९, २६, १३, हिश्रौ
२२, ६, १०.
धामच्छद्-द्विती(य>)या^३-
-याम् वैश्रौ १९, १-१५
धाम-शस्() हिश्रौ ८, ६, ३३ :
या १४, १९
फं^३धामि^३- -म्यै^३ आपश्रौ १६,
२९, २, वैश्रौ १८, २० : २९ :
हिश्रौ ११, ८, ४
१घाय- पा ३, १, १४१
२घाय^३- -या कौस् १८, ३२.
फं^३घायस्^३- -यसा आश्रौ ३, ७, ६ :
८, ९, २, बौश्रौ १७, ४१ : २६^३;
आमिगृ १, ३, ५ २^३, हिगृ १,
११, २^३
घाय्य, य्या^३- पा ३, १, १२९, पाग
४, ३, ५४^३, -य्या आश्रौ ५, १५,
२१, शाश्रौ, -य्याः आश्रौ ५,

a) पासे वैप १, १७१३ g द्र । b) पासे वैप १ परि. ऋतुस्य ऋ १०, ८५, २४ टि. द्र । c) पासे. पृ१३४० k द्र. । d) घातुस्थाः इति पाठः? यनि इति ता इति च शोध (तु. पृ ११३७ m) । e) पासे. वैप १, १४१२ j द्र. । f) = देवता-विशेष- । g) °दीन् इति संस्कर्तुं टि. । h) विप । बस । i) पाठ. १ घातादीन्, मिन्द्राहुती इति शोध (तु ०) । j) मलो कस । k) सास्यदेवतीय अण् प्र । l) वैप १ द्र । m) तु- पागम. । n) = मास- इति भाष्यम् (तु. ०) । o) आ इति संहिता-पाठ । p) पासे. वैप १, १७१५ i द्र. । q) पासे. वैप १, १७१५ g द्र । r) पासे वैप १, १७१५ p द्र । s) पासे वैप १, १७१५ r द्र । t) पासे. वैप १, १७१६ ० द्र । u) = ऋन्- । v) = हविस्- । w) = धामन्- । व्यु ? । x) पासे वैप १, १७१६ f द्र. । y) = दर्भपूलक- । कर्मणि घञ् (पा ३, ३, १९) । z) पासे वैप १, १४७६ l द्र. । a^३) घाय्य- इति भाष्ये । घाय्या- इति पाका ।

१४, १७××, माश्रौ, -व्याभ्यः
आश्रौ ५, १०, १३, -व्याम्
शाश्रौ ११, १२, २, १८, ४, ५,
वाधूश्रौ ३, ५८ ७, -व्यायाः
आश्रौ ५, १५, १८, शाश्रौ १०,
१३, ११, -व्यायै शाश्रौ ७, २१,
८, -व्ये आश्रौ २, १, २७××,
आपश्रौ
धाव्या (व्या-आ)ज्यभाग-
सयाज्य-ज्यानाम् चाञ्च ४१
२५
धाव्या-रूप- -पम् शुप्रा ४,
१५३१
धाव्या-लोक^१- -के बौश्रौ १०,
११ ३, १३, १७ : ८××
धाव्या-शब्द- -व्देन हिश्रौ २१,
२, ६
धाव्या-स्थान- -नम् माश्रौ ५,
१, १, ५
धेय- -यम् भाशि ४५
घा^१ वेज्यो १८
घा- ✓धा द्र
घाक^०- पाठ ३, ४०
घाकार- १घ, घा- द्र
घाणक- पाठ ३, ८३
घाणिका^०- -का तैप्रा १३, १२^१,
-काम् शाश्रौ १२, २४, ५^०.
घातक^१- पाठवृ ३, १४८, पाग ४,
१, ४१^६
घातकी- पा ४, १, ४१

रघातकी^१-(>घातकेय -पा) पाग
४, २, १७
घातव्यामि^१ कौसू ३५, १६
घातवे ✓धे द्र
घातव्या-, १धातु- प्रसृ ✓धा द्र
रघातु^१- -तो चाञ्च ३७ : १७
घातुम् ✓धे द्र
घातृ-, घात्र- ✓धा द्र
घात्रन्तर^१->घात्रन्तर-शैव-बहुरूप-
पार्षद-स्कन्दे(न्द-इ)न्द्र-
-न्द्राणाम् बौगृ ३, ३, ३३
घात्री- ✓धा द्र
रघा(त्र>)त्री^१- पा ३, २, १८१
रघा(त्र>)त्री- ✓धे द्र
रघान- ✓धा द्र
रघान- ✓धे द्र
घानक^१- पाठनावृ ३, ८४^१
घानंजय-घानपत-, -स्य-✓धन् द्र
घाना^०- पाठ ३, ६, -ना आश्रौ ५, ४,
३^११, ६, ११, ११^१××, शाश्रौ, या
५, १२^११, -नानाम् आपश्रौ ८,
१५, ९, बौश्रौ ५, १४. २, ६,
७, १३, ७, १२. ८, भाश्रौ,
-नाभि आपश्रौ १३, १७, २, २०,
१०, ६, बौश्रौ, -नाभ्यः माश्रौ
१, ७, ६, ६, २, ३, २, २, वैश्रौ
घाना-चर्मन्^०- -र्माणि बौश्रौ १५,
१६. ४
घाना(ना-आ)दि- -दीनि काश्रौ ९,
१, १६

धाना(ना-अ)पूप- -पाभ्याम् माश्रु
२, १०, १
धाना-प्य^१- -प्यम् अप ४८, ७५.
धाना-प्राशन- -नात् भागृ २, २ २.
धाना-भर्जन- -नम् काश्रौ ५, ८,
१६
धाना-मन्थ- -न्थम् भाश्रौ ८, १७,
२०, -न्थौ वैश्रौ ९, ९ ६
धाना-मन्थ-पुरोडाश- -शानाम्
काश्रौ ५, ९, ६
धाना(ना-अ)र्थ- -र्थम् आपश्रौ ८,
१३, १८, १२, ४, ९, भाश्रौ;
-र्थान् आपश्रौ ८, १३, १८
धाना-लाज- -जान् वैश्रौ १५,
५ १.
धाना-वत्- -वन्तम् आश्रौ ५, ४,
२, शाश्रौ
धाना सक्तु- -क्तुनाम् कागृ ६०, ४.
धाना-सोम- -म वैताश्रौ १६,
१७, -मात् माश्रौ २, ४, ६,
२६, -मान् काश्रौ १०, ८, ४;
आपश्रौ, -मानाम् शाश्रौ^१ ८, ८,
२, ४, बौश्रौ, -मेभ्यः काश्रौ १,
९, १६, १०, ८, ३, आपश्रौ
१३, १७, २, हिश्रौ ९, ४, ४९.
धानासोम-याज्या- -ज्यायाः
वाधूश्रौ ३, १०२ २
धानाः अप १, ६, ७, ८, ४, ७, ३४, २
धानाक^१- -क ऋश्र २, १०, ३५;
शुश्र २, ३२८, ३, १७६, २१२^६.

a) = धाव्या-स्थान-। b) धनुराधा- इत्यस्यान्तिमाऽवयव-। c) वैप १ द्र। d) पाभे वैप १,
१७१६१ द्र। e) पाभे वैप १, १७१६ १ द्र। f) = पुष्प-भेद-। व्यु ?। < ✓धा इति पाठवृ, < ✓घाति
इति अभा.। g) रघातक- इति पाका पासि.। h) तु पागम.। = नगरी-विशेष-। i) पाठ ?
घातादिभि (शौ ७, १७, १-४) इति शोधः (तु. सा [शौभू])। j) व्यप । व्यु ?। k) = देवता-विशेष-।
व्यु. ?। l) = उपमात्- वा आमलकी- वा। m) अर्थ- व्यु च ?। n) = संग्राम-। = द्रव्य-परिमाण-विशेष-
इति पाठस्ये [३, ७९]। o) उप = [चर्ममय-] पात्र-विशेष-। p) = उदक-। उस उप ✓प्यै + कर्तरि कः प्र.
(पा ३, २, ३)। q) णा सो^० इति पाठ ? यनि शोध (तु. खि ५, ७, ४, १६ C. च)। r) < धनाक- इति
• PW. प्रसृ। s) < धानाक- इति ?।

धानान्तर्वत्^a - वान् शुभ्र १, १३५^b
 धानाप्य- धाना- द्र
 धानाम्^c आश्रौ ८, ३, १९
 धानुर्दण्डिक- , लुक्- धनुस्- द्र.
 धान्य^d - पाउ ५, ४८, पाग ५, ४, ३०,
 फि ७६, -न्यम् काश्रौ २, ५,
 ६, आपश्रौ, आपध १, २०,
 १२^f, -न्यस्य आपध १, २०,
 १३, विध ६, १२, हिध १, ६,
 २७, -न्यान् आमिगृ २, ५,
 ३ ४, बौगृ ३, ७, ४, -न्यानाम्
 अप ५०, ५, ४, ७०^g, ६, ३,
 वाध २, २९, शंघ १७४, पा
 ५, २, १, -न्यानि वैश्रौ ११,
 ११ ७, अप ७१, ७, ६, -न्ये
 भागृ ३, १३ १७, पा ३, ३,
 ३०, ४८, -न्येन आमिगृ २,
 ४, ९ : ७, ५, १२ १३, अप
 ६८, २, १६, वाध २, ४५,
 -न्येषु वैश्रौ ११, ११ ९,
 -न्यै अप ३०, ४, २
 धान्य-कोष्ठा (ष्ट-आ) युधागार-
 -रा अप ७१, ४, ४
 धान्य-खल^h - ल काश्रौ २२, ३,
 ४४
 धान्य-गो-गुरु-हुताशन-सुर-
 -राणाम् विध ७०, १६
 धान्य-चौर- -र विध ४५, ९
 धान्य-तस् (ः) विध ३, २२
 धान्य-वन-तस् () विध ३२, १८
 धान्य-धन-संचय- -यम् वैध ३,
 ५, ४
 धान्य-धना (न-अ) पहारिन्-

-री विध ५२, ५
 धान्य-निचय- -ये भागृ ३, १३ .
 १७.
 धान्य-पति- (> पत- पा) पाग
 ४, १, ८४,
 धान्य-पन्य^h - -न्यम् लाश्रौ ८,
 ४, १४
 धान्य-पत्त्वल- -ले जैगृ १, ११ २५,
 धान्य-पाक-वश- -शात् कप्र ३,
 ७, ९
 धान्य-पात्र- -त्राणि कौगृ १, २१,
 २२ⁱ, शागृ १, २८, २४^j,
 -त्रान् लाश्रौ ८, २, ५, ३, ७०
 धान्य-पा (त्र >) त्रा^k - -त्रा लाश्रौ
 ८, ३, ८.
 धान्य-प्रदान- -नेन विध २२, १९,
 २२
 धान्य-मरायु^l - -युम् आपश्रौ २२,
 ११, १५
 धान्य-मास- -सम् हिध १, ६,
 २६^m
 धान्य-माषⁿ - -वै बौश्रौ २३,
 १८ १०
 धान्य-माष^o - -वौ आमिगृ २,
 १, १ : ९, हिगृ २, २, ३.
 धान्य-राज- -ज बौध ३, ६, ४,
 विध ४८, १७, गौपि २, ३, १७.
 धान्य-राशि- -शिम् आपश्रौ २२,
 ११, १५, -शे. अप ६४, ४,
 १०, -शौ अप ३६, १५, १.
 धान्य-राशि-ग्रहण- -णम् शंघ
 १२
 धान्य-वासस्- -ससाम् अप ७०,

३, २, काध २७७ : १०
 धान्य-विक्रय- -यात् वाध २, ३६.
 धान्य-विपर्याम- -से अप ७०^r,
 ६, २
 धान्य-सग्रह- -हः अप ६२, १, ७.
 धान्य-हारिन्- -री विध ४४, १४.
 धान्या (न्य-आ) कृत्^s - कृतः ऋषा
 ९, ८^t
 धान्या (न्य-अ) क्षत- -तम् वैगृ ५,
 ६ १९
 धान्या (न्य-आ) चित- -तानि काश्रौ
 २२, ११, १, लाश्रौ ९, ४, १९
 धान्या (न्य-अ) जिन-रज्जु-तान्तव-
 वैदल-सूत्र-कार्पासवासस्-
 -ससाम् विध २३, १४.
 धान्या (न्य-अ) द- -दम् शाश्रौ १६,
 ९, १^u
 धान्या (न्य-अ) पहारिन्- -री विध
 ५, ७९
 धान्या (न्य-अ) म्ल- -म्लम् वैध
 ३, ५, १०.
 धान्या (न्य-अ) यस्- -यसी गौध
 २८, ७
 धान्या (न्य-अ) र्वम् - -र्वम् अप
 ६३, ४, ४
 धान्यायन- रधन्य- द्र
 धान्व-, धान्वन- रधन्वन्- द्र.
 रधान्वन- धन्वन- द्र
 धान्वपत- √ धन्व् द्र.
 धापयितृ-, धामन्-, धामि-,
 १-रधाय-, धायस्- √ धा द्र.
 धाय्या [धाय्या] चाश्र ४१ १.
 धायिन^v - -ने कौसू ३४, १००.

a) व्यप । व्यु १ । b) धनाश्रवान् इति उ [मा २, १९] । c) वैप १, १५६२ d) द्र. ।
 d) वैप १ द्र । e) तु पागम । f) सप्र. धान्यं मांसम् <> धान्यमांसम् इति पाभे. । g) मलो कस. ।
 h) उप = शिष्य- । i) विप । बस. । j) षस । उप = ज्यायोराशि- (जैमि २, १६४, १६५ [तु. C]) ।
 k) उप = परिमाण-विशेष- । l) उप. = अन्न-विशेष- । m) उप. = मूल्य- । n) = द्वार- इति केशव, = तोरण-
 इति दारिल (तु. B [भू. Li]) । o) धीयि^o इति दारिलः ।
 वैप ४ द्वि ७४

धाव्य, व्या- प्रसृ √धा द्र
 धार^०- -रे याशि २, ३३
 धारका-, धारण-, णा- प्रसृ √धृ द्र
 धारणि- (> णायन- पा) पाग २,
 ४, ६१^b
 धारय-, ष्यत्- प्रसृ √धृ द्र
 धारा^०- पाग ५, २, ९७, ६, १, १९९,
 पाग, पावा ३, ३, १०४, -रया
 ङ्ङाश्रौ २, १२, ३, ८, १४, ४,
 शाश्रौ, या ११, ३१, १३, ६,
 -रयोः काश्रौ ९, ६, १४,
 काठश्रौ, -रा काश्रौ ४, १५, ७,
 आपश्रौ, या १३, ६१, -रा.
 शाश्रौ ७, १५, १४, आपश्रौ,
 ङ्ङा ७, १७, १०, ९, -राणाम्
 काठश्रौ १४७, बौश्रौ ८, १०
 १४१, -राभ्य काश्रौ १०, १,
 १२, आपश्रौ, -राभ्याम् आपश्रौ
 १२, १५, ३, भाश्रौ, -राम्
 आपश्रौ ६, १४, १, १९, २४,
 ४१^d, बौश्रौ १३, ३२ ८१^d,
 ३८ १, भाश्रौ, हिश्रौ ६, ४,
 १३^e, २२, ५, ५१^d, -राया
 आपश्रौ १२, १३, ५×, हिश्रौ
 ८, ३, ४७, २३, १, २६, -रायाम्
 आपश्रौ २४, २, २, वैश्रौ, -रासु
 शाश्रौ ७, १५, १४, ङ्ङा १, ६,
 २, २, २ : १
 धारा (रा-अ) गिन- -गिनम् बौश्रौ
 १५, ३५ : ४
 धाराग्रह- -हाणाम् आपश्रौ १४,
 २, ४, वैश्रौ १७, २ ६
 धाराग्रह-काल- -ले वैश्रौ १६,
 २ : ५, हिश्रौ

धाराग्रहा(ह-अ)न्त- -न्ते काश्रौ
 १२, ५, ४
 धाराग्रहण-काल- -ले आपश्रौ
 १२, २१, १०, हिश्रौ ९, ३,
 ३१
 धाराघोष- -षम् आपश्रौ १, १२,
 १७×, भाश्रौ, -वे माश्रौ १,
 १, २, २३
 धारा(रा-अ)ङ्ङकुर-परिस्त्राव- -वै
 अप ६४, १, १०
 धाराचरत्- -रङ्गि अप ६८, १,
 ४६
 धाराधुख- -वेषु नाशि २, ३, ४^f,
 -बौ याशि २, ३२^f
 धारा-ल- पा ५, २, ९७
 ङ्ङा-वर^०- -राः आश्रौ ७, ७, २,
 शाश्रौ
 धारावर्जम् काश्रौ ४, १३, १९
 धारास्योग- -गात् मीसू १०, ५,
 ६४.
 धारे(रा-इ)ष्टका^०- -काम् बौश्रौ १०,
 ४८ : ४, १९, ४ २६
 धारिणी-, ंरित- √धृ द्र
 धार- √धे द्र
 धार्तकृतव-, ंतराज्-प्रसृ √धृ द्र.
 धार्तैय-, ष्यी- धार्तैय- टि द्र
 धार्मपत- √धृ द्र
 धार्मायण- १धर्म- द्र
 धार्मिक-, धार्मुक- प्रसृ √धृ द्र
 धार्म्यायण- १धर्म्य- द्र.
 धार्य-, धार्यमाण- √धृ द्र
 √धाव्^h पाधा भ्वा उभ गतौ,
 धावति बौश्रौ १४, २३ २७,
 वाश्रौ, या २, ११, १३, ६३^f, ६३

पा ४, ४, ३७, धावन्ति आपश्रौ
 २१, १९, ७, बौश्रौ, धावतु
 आपमं १, १५, ६, कौसू ६२,
 २१^g, ङ्ङावत् आपश्रौ १८, ४,
 १८, बौश्रौ, अधावन् वाधूश्रौ
 ४, ५ ५, धावेत् माश्रौ ५,
 १, ५, ४५, धावेत् काश्रौ २५,
 ११, २८, आपश्रौ, धावेयुः वैश्रौ
 २०, ११ ९
 धावत्- -वत् आपश्रौ १८, ४, १८,
 बौश्रौ, -वत्सु आपश्रौ १८, ४,
 १९, हिश्रौ, -वद्भ्य बौश्रौ
 १४, १०. २१, -वन् अप ७०ⁱ,
 २८, ५, विध २८, १९, -वन्तम्.
 ङ्ङाश्रौ १२, १६, १, २४, २,
 हिश्रौ
 धावन्ती- -न्ती अश्रौ १२, ५,
 (३)ⁱ -न्त्य हिश्रौ १४, ३
 धावमा(न>)ना- -नाम् वाधूश्रौ
 ३, १७ : २
 धावयत्- -यत् वाधूश्रौ ३, ६९ ३.
 √धाव् पाधा. भ्वा उभ शुद्धौ,
 धावते आपश्रौ १०, ५, १४, २०,
 १, ११, बौश्रौ, धावतः काश्रौ ५,
 ५, ३१, धावेत् पाग २, ६, १७
 धावयत् बौश्रौ ८, २० : १९;
 बौगृ १, २, २३, धावयेत् वाध-
 ५, ७, विध ७१, ३९.
 धावन- -नात् वैध ३, ३, ११
 धावनि¹- -नि मागृ २, १३, ६१.
 धावयित्वा बौगृ १, ८, १०, वैध २,
 १३, १
 धाव्य बौश्रौ १५, २ : १८
 धौत^०- -तम् काश्रौ ७, ९, ४, वाधूश्रौ^१

a) शतधार- इत्यस्योत्तरांशः । b) व्यप. । व्यु ? < धरण- इति पागम । c) वैप १ द्र ।
 d) पाभे. वैप १, १७१९ d द्र । e) णा इति पाठः ? यनि. शोष । f) परस्पर पाभे । g) = इष्टका-विशेष- ।
 h) पा ७, ३, ७८ परासृष्ट द्र. । i) ंन्ति इति पाठः ? यनि. शोषः (तु. बौ १२, ७, ७) । j) = षष्ठी-देवी- । कर्तृदि-
 कनिः प्र उसं. (पाठ २, १०२) ।

-†तस्य आपश्रौ १३^a, १७, ९, २०, ११, बौश्रौ ८, १७ १७^a, माश्रौ २^b, ५, ४, १०, ३१, वैश्रौ १६^a, २२: २, २६: ५, हिश्रौ ९^a, ४, ५५, ५, ३८, जैश्रौ २०, १०, द्राश्रौ ६, ३, २४, लाश्रौ २, ११, १७^b, -तौ द्राश्रौ १, २, ४
धौत-पाद^०- -द वैश्र २, १६ २
धौत-भक्ष- -क्षम् शंभ ४०४
धौत-वस्त्र- -स्त्रेण वैध २, १३, ४
रधौत-वस्त्र^०- > ंस्त्र-व्रत-
चारिन्- -रिणौ वैश्र ३, ८: १
धौत-वासस्- -ससी विध ६४, १४

धावर्णि^a- -र्णि बौश्रौ ४९ २

धासस्- पाउ ४, २२१

धाव्य √धाव् शुद्धौ द्र

†धासि^०- -सि: अप ४८, ८८, निघ २, ७, -से.^१ आश्रौ ४, ६, ३, शाश्रौ ५, ९, ६

√धि पाधा तुदा पर धारणे

√धि^०, धिनोति वाधूश्रौ ३, ३९ ६, सु १३, ३, अप ४८, ३०[†], या ३, ९, †धिनोतु आपश्रौ ४, ८, ३, भाश्रौ, †धिनोहि बौश्रौ १, ७, ११^b, माश्रौ १, २, २, २८, †अधिनोत् आपश्रौ ४, ८, ३, भाश्रौ ४, १२, २, हिश्रौ ६, २, १९

धि^०- > धि-कार- -र. भासि ५०

धि-पूर्व- -र्वे तैप्रा ६, ११

धिक्^१ वाश्रौ ३, २, ५, ३२[†], द्राश्रौ ११, ३, १०[†], लाश्रौ ४, ३, ११[†], पाग १, ४, ५७, पावा २, ३, २

√धिष् पाधा भ्वा आत्म संदीपन-
क्लेशनजीवनेषु

√धिन्^१ पाधा भ्वा पर प्रीणने

धियं-धा-, धियसान-, √धियाय,
धियावसु- √धी द्र

√धिष्^१ पाधा लु पर शब्दे

†धिषणा^०- पाउ २, ८२[§], -णा शाश्रौ ५, ९, १६, ८, १९, १, काश्रौ, माश्रौ ६, १, २, १७^k, वाश्रौ २, १, १, ४३^k, या ८, ३४[§], -णा. आश्रौ ४, ६, ३, काश्रौ, -णाम् आश्रौ ७, ७, २, शाश्रौ १०, ४, १५, -णाय।^१ माश्रौ २, ४, ३, २९, वैताश्रौ १६, १७, -णे जैश्रौ ९ १२, निघ ३, ३०, -०णे आपश्रौ १२, १०, १, बौश्रौ

धिषणा-भव- -व या ८, ३

धिष्ण्य^m- -य: बौश्रौ १४, ३: ७,

वाधूश्रौ, -यम् आपश्रौ ११, २१, ३-५, १२, २६, १××, बौश्रौ, -या: आपश्रौ १७, २१, ५, बौश्रौ, -यात् बौश्रौ ७, ८: २६××, हिश्रौ २३, ३, ११, -यान् आपश्रौ ११, १०, १६, १४, १××, बौश्रौ, -यानाम्

आपश्रौ २२, १६, ३, बौश्रौ, हिश्रौ १७, ६, ३१^m, -यास: हिष्ट १, १७, ४^०, -ये बौश्रौ १०, ५५ ४; वैश्रौ १९, ६: १३८, -येभ्य: आपश्रौ ११, ९, ८, बौश्रौ, -येषु आपश्रौ १७, २१, ४, बौश्रौ; -यै बौश्रौ १९, ७. २६[†]

धिष्ण्य-निवपन- -नात् आपश्रौ १७, २०, १९, वैश्रौ १९, ६: १३६

धिष्ण्य-वन्- -वन्त बौश्रौ ७, ११ २२, २५, १९: ९, वाधूश्रौ ४, ६२ १

धिष्ण्य-विहरण- -णात् हिश्रौ ९, ३, ३७

धिष्ण्य-व्याघारण-सपात-

-तात् बौश्रौ २५, १९: १, २; -तेन हिश्रौ ९, ४, १८^०

धि^१√ष्टा (<स्था) > धि-ष्ठित-

-तम् विध ९७, २०[†]

धिष्ण^०- -ष्ण. या ८, ३.

धिष्णी(य>)या^१- -या: काश्रौ १७, ७, २७

धिष्ण्य- प्रसृ धिषणा- द्र.

धिष्ण्य, ष्या^०- पाउ ४, १०७; -०ष्ण्य अशा ४, ५[†], -ष्ण्य: द्राश्रौ ५, २, ६, निस् १, ११. १४, अप ५८^२, ३, ९, या ८, ३४^२; -ष्ण्यम् शाश्रौ ५, १४, ४, १५, १०××, माश्रौ, -ष्ण्यस्य आश्रौ ४, ११, ३, ५, ७, ९××; शाश्रौ

a) पामे वैप १, १७२० e द्र । b) धौत इति पाठ. ? यनि. शोच: (तु द्राश्रौ) । c) विप । बस. । d) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । e) वैप १ द्र । f) पामे वैप १, १७२० i द्र । g) = [इकार-युक्त-] १ध- । h) अव्य । व्यु. ? । i) या ११, ४२ पा ३, १, ८० परामृष्ट: द्र. । j) = √धा इति या ८, ३ । k) पामे वैप १, १७२१ f द्र । l) पामे वैप १, १७२१ e द्र. । m) = धिष्ण्य- । n) अधि^० इति पाठ: ? यनि. शोच' (तु. आपश्रौ.) । o) पामे वैप १, १७२२ e द्र । p) सप्र धिष्ण्यव्या^० <> धिष्ण्यव्या^० <> आपश्रौ १३, १४, ८ विशिष्ट पामे. । q) नैप्र. < अधि । r) सप्र. गी १३, १७ विशिष्टम् इति पामे. § s) = धिष्ण्य- । व्यु ? । t) तस्येदमीयश् छ>ईय: प्र (वैतु. विद्याधर: < धिष्ण्य- इति) ।

-ङ्णया शुभ्रा ४, ३४^२,
-ष्णया आश्रौ ५, ३, २६, वैताश्रौ
१८, ४, अप^० ५८^२, १, ८, ४,
१८, बौशु, -ष्णयात् आपश्रौ
१९, १४, १३, बौश्रौ १९, ६
११, वाश्रौ २, २, ४, २१, या ८,
३; -ष्णयात् आश्रौ ५, ३,
१३××, शाश्रौ, -ष्णयानाम्
आश्रौ ५, ३, २२, अप, चाअ २
१७^०, -ङ्णयास^० शाश्रौ ८, १०,
१, आश्रु ३, ६, ८, माश्रु १, ३, १,
-ष्णये शाश्रौ ७, ७, ५, काठश्रौ,
-ष्णयेभ्यः लाश्रौ १०, १५, १२,
वैताश्रौ १८, ११, -ष्णयेषु काश्रौ
९, ७, ५, १०, ६, १४, काठश्रौ,
-ष्णयौ आश्रौ ४, ११, ३, शाश्रौ
६, १३, ७
धिष्ण्य-स्वर-वर्जम् काठश्रौ १०२
धिष्ण्य-देश- -शे आश्रौ ५, ७, १
धिष्ण्य-नामन्- -मानि शुअ १,
२८१
धिष्ण्य-निधान- -नात् काश्रौ १०,
१, २५
धिष्ण्य-निवपन- -नात् माश्रौ ६,
२, ६, १
धिष्ण्य-वत् काश्रौ १२, १, २५
धिष्ण्य-वत्- -वताम् आश्रौ ५, १३,
६, शाश्रौ ६, १३, ८, -वन्त
वैताश्रौ १८, १०, -वान् वैताश्रौ
२१, १५
धिष्ण्य-विहरण- -णात् द्राश्रौ ४,
१, १५, लाश्रौ २, २, ३, -णे
द्राश्रौ ५, ३, १०, लाश्रौ २, ७, ९.
धिष्ण्य-व्याघारण-संपात- -तेन
माश्रौ २, ५, २, १२^०.

धिष्ण्य-होम- -मात् वैताश्रौ २३,
३
धिष्ण्य(ष्णय-अ)न्त- -न्ते वैताश्रौ
२३, ५
धिष्ण्य(ष्णय-अ)व्यवाय- -यः
काश्रौ ८, ७, ११
धिष्ण्यो(ष्णय-उ) परव-खर-सदो-
हविर्धान- -नेभ्य आपश्रौ १४,
२३, ११
धिष्ण्यो(ष्णय उ)पस्थान- -नम्
वाश्रौ १, १, ६, ४
√धी^० पाधा दिवा आत्म आधारे
√धी^०, ङ्धीमहे शाश्रौ १८, १५, ५,
बृदे ४, ७२, ङ्धीमहि आश्रौ
६, १४, १६, शाश्रौ, या ११, ११
अदीधेत् या २, १२ङ्ङ, पावा
१, १, ६, अदीध्यन्त वाधूश्रौ ४,
२९:२, अदीधयु पावा १, १, ६,
ङ्दीधियु^१ आपमं १, १, ६,
बौश्रु १, ६, २६, ४, १, ११
ङ्दीधिति- -तय अप ४८, ८२,
११२, निघ १, ५, २, ५, या ५,
१०ङ्ङ, -तिभि आश्रौ ८,
१२, २, २६, शाश्रौ, या ५, १०ङ्ङ,
-तिम् या ३, ४ङ्ङ
दीधिति-मत्- -मन्तम् शाश्रु ६,
३, ५
दीध्यत्- -ध्यत् पावा १, १, ६
ङ्दीध्यान, ना- -नः भाशि ४१,
-ना आश्रौ ८, ११, १, -नाम्
आपम १, ११, २, काश्रु ३०, ३,
माश्रु १, १४, १६, वाश्रु १६, १
ङ्धियसान^०- -नस्य आपमं १, १, १,
बौश्रु १, १, १४
√धियाय^०, धियायते ऋप्रा ७,

२३ङ्ङ
धी^०- ङ्धियः आश्रौ ५, १२, १, ९,
११, १८, शाश्रौ, माश्रौ ५, २, १४,
१०^६, या ११, २७ङ्ङ, धियम्
आश्रौ ३, ७, १४ङ्ङ××, शाश्रौ,
या ८, ७, १२, ३४ङ्ङ, धियम्-
ऽधियम् या १२, १८ङ्ङ, ङ्धिया
आश्रौ २, १७, ३××, शाश्रौ,
धियाऽधिया वाधूश्रौ ४, १९-
३८^२, ङ्धिये अप्राय २, ५,
अअ ६, ४१, ङ्धी. आपश्रौ ४,
१०, ४, बौश्रौ, ङ्धीभि हिश्रौ
११, ६, १९, या ८, ६, १२, ३०
धिंय-धा^०- -धा. या ८, ७ङ्ङ.
धिया-वसु^०- -सु या ११,
२६ङ्ङ
धी-ज्वन^०- -न ऋप्रा २, ४१ङ्ङ.
धी-धृति^१- -तिम् कप्र २, ४,
१०
धी-मत्- -मत् काश्रु ७, ३९;
-मता अप २२, १, २, १०, ४,
बौध, -मताम् दंवि १, २, -मते
पाशि ३१, -मान् अप ७०, ९, ६,
या ३, १२^२
धीर^०- पाउ २, २४, -ङ्ङरः
आश्रौ १, ३, २४, शाश्रौ १, ६, ३,
आपश्रौ, या ३, १२ङ्ङ, -ङ्ङरम्
आपश्रौ १०, ३१, ६, माश्रौ १०,
२२, ४, हिश्रौ ७, ३, ५६, -ङ्ङरा
शाश्रौ १२, १०, ८, ऋअ २, ७,
८६, बृदे ६, १५, -ङ्ङरा हिश्रौ
१४, ४, ३८, अअ ११, ९, अप
३: ४९, या ४, १०ङ्ङ, १२, ३२;
-राणाम् शाश्रौ १२, २०, ४^२ङ्ङ,
-ङ्ङरासः बौश्रौ १, ११: ३६,

a) =उल्का-विकार-। b) =ऋषि-विशेष- (आङ्गिरस-)। c) पामे. वैप १, १७२२ c, e द्र.। d) पामे. वृ १२४७ p द्र.। e) वैप १ द्र.। f) पामे. वैप १, १७२२ m द्र.। g) पामे. वैप १, १७२३ m द्र.।
h) मलो. कस. (तु धीर्ष्ट इति जीस, वैतु. संस्कृतरनुवादः षस. इति)।

वैताश्रौ १०, १७, पाठ
 धैर्य- -यम् शैशि २१२,
 याशि २, ८३.
 धैर्य-कार्य- -र्याणि वृदे
 ४, १३४
 धी-सादि (न>) नी -, धी-
 सानि(न>)नी- -नी या ८, ३
 †१धीत- -तम् आपश्रौ १३, २१,
 ३, हिश्रौ ९, ५, ४३.
 †धीति^a- -तय अप ४८, ८२^b, निघ
 २, ५^b, -ति आपश्रौ ३, ११, २,
 भाश्रौ, या १०, ४१^c, -तिभि.
 आश्रौ ८, १२, ५×, आपश्रौ,
 वैताश्रौ ३०, १७^c, या २, २४,
 ११, १६, १४, २१^d, -†तिम्
 निस् ३, ९ २०, या १४, १४,
 -†ती शाश्रौ १५, ३, ७, कौसू,
 धीवन्^e- पाठ ४, ११५
 धैवत्य- पा ६, ४, १७४
 ✓धी (पाने), †अधैधीत् हिग्र १,
 १७, ५^f
 रधीत- ✓धे द्र
 †धीतकालान्तरे वैश्रौ २०, ४ १
 धीर- ✓धी द्र
 धीवर^g- पाठ ३, १, -रा. वृदे ६, ८८,
 -०रा. वृदे ६, ९०
 धीवरी^h- -री पावा ६, ४, ६६
 ✓धु, धूⁱ पाष्वा. स्वा कथा चुरा उभ
 कम्पने, तुदा पर विधूनने,
 धुनुते हिश्रौ १६, ३, १९^j,
 धूनोति बौश्रौ ९, ८ : २, वैश्रौ

१५, १० ४, हिश्रौ २४, ३, ४,
 धुन्वन्ति वाधूश्रौ ३, ९० : १,
 धुन्वन्ति आश्रौ १०, ८, ८, धुनुथ
 हिश्रौ २२, ३, १९^k, धुनुष्व
 वाधूश्रौ ४, ५९ २-५^k,
 धूनवामहै वाधूश्रौ ४, ५९ १^k,
 अधूनुत वाधूश्रौ ४, ५९ २, ३, ५,
 धुन्वीत वाधूश्रौ ३, ९१ : १,
 धुनुयु आमिगृ ३, ८, १ १^l,
 २^l, बौषि १, १४ १^l, २^l,
 धुनुयु अप्राय २, ९
 धुवन्ति हिपि १४ . १६, १७,
 धुवीत वाधूश्रौ ३, ९१ ४
 धूयते अप ७०^m, २, ५
 †दधिध्वत्ⁿ- -ध्वतः आपश्रौ १६,
 ११, १२, हिश्रौ ११, ४, १२, पा
 ७, ४, ६५
 धवन- -नेन बौपि २, ३, ५^o.
 धवनि^p- -नीनाम् आपश्रौ ८, ७,
 १०^h
 धवित्र^q- पा ३, २, १८४, -त्रम्
 बौश्रौ ९, १५ २९, -त्राणि
 काश्रौ २६, २, २०, ७, २३,
 आपश्रौ, -त्रे आपश्रौ १५, १५,
 १, बौश्रौ, -त्रै काश्रौ २६, ४, २
 धवित्र-दण्ड- -ण्डा माश्रौ ४,
 २, २^r, -ण्डान् बौश्रौ ९, १५ .
 २०
 धविष्यत्^s- -ष्यन्त हिपि १४, २,
 ६
 †धुन-> †धुनेति^t- -तय आश्रौ

९, ५, ५
 धुनि^u- पाठभो २, १, २१०, -†नयः
 अप ४८, ७६^m, निघ १, १३^m,
 -†नि. ⁿ बौश्रौ ९, १८ ४, ५,
 वैश्रौ १९, ६ १०७, अप ४८,
 ८३^o, वृदे ४, ६७^p, या ५,
 १२^q, -†निम् आश्रौ ९, ८,
 ४^m, या १०, ३२
 धुन्वत्- -न्वन् अप २७, १, ४ः
 -न्वन्तः माश्रौ २, २, ४, १२
 धुन्वान- -नः बौश्रौ ७, ८ : ४
 धुवन- पाठ २, ८०, -नम् कौश्रौ ३,
 ११, २९^r, शागृ ४, १२, ४९^r;
 -नेन आमिगृ ३, ७, ३ ३२^t
 धुवान- -न. बौश्रौ १४, ५ : ४२
 धुविष्यत्- -ष्यन्त काश्रौ २१, ३,
 ६
 धूक, का- पाठ ३, ४७, पाठभो २,
 २, ३
 धूत- -तः वाध २६, १३, -†तस्य
 आश्रौ ६, ४, १०, १२, ११^u,
 शाश्रौ ८, ८, ६^u, ९, ४^u, वैताश्रौ
 २६, ७, अत्र २०, ३३
 धूत्वा वाश्रौ ३, २, १, ३६
 धूनन- -नम् बौश्रौ २०, ३ २९.
 धून्वत्- -न्वते गौध २६, १२^v;
 -न्वन् आपश्रौ १२, १७, ४,
 वैश्रौ, -न्वन्तः आश्रौ ५, १३,
 १२, शाश्रौ
 †धून्वन^w- -ने हिपि ४ . ६
 धून्वान- -नाः काश्रौ १२, २, २२.

a) वैप १ द्र । b) =अहुलि- । c) =स्तुतिभि (तु. ०) । गीतिविकारतया निर्देशः । d) पाठः †
 अधासीत् इति Boht [ZDMG ५२, ८४] । e) =कैवर्त- । व्यु. ? । f) अर्थ व्यु. च † < ✓धै इति पाम.
 पाठ ४, ११५ च, < ✓धा इति पाठवृ ३, १, < धीवर- इति MW । g) या ५, १२ पा ७, २, ४४, ७२, ८, २, ४४
 पावा ७, ३, ३७ परामृष्टः द्र । h) पाभे. पृ ५२२ h द्र । i) सप्र. ध < > धु इति पाभे. । j) = धमनि- ।
 k) पाभे. पृ १३३९ g द्र । l) =व्यजन- । m) =नदी- । n) पाभे वैप १, १६९८ ० द्र ।
 o) =स्तेन- । p) =असुर- । q) =कलह- । r) पाभे. वैप १, १७२० e द्र । s) आप. †
 सिग्वात- [तु. ०] ।

धुत्तूर- पाठमो २,३,५९
 धुन्धु- पाठमो २,१,७०
 धुत्तूर- पाठमो २,१,३०३, पा ३, २,
 १७७, पावाग ८,२,७०^b, ऋधुः
 आपश्रौ १२, ६, ३, माश्रौ २,
 ३, २, २२, हिश्रौ ८, १, ७६,
 लाश्रौ ७, १२, १०, काग ७३,
 ५, वाग १, २३, अप ४८,
 ८२^d, निघ २, ५^d, या ३, ९^d,
 धुत्तूर^g बौश्रौ १, ४ २८, माश्रौ,
 धुराम् लाश्रौ ७, ११, २१, १३,
 १, निस् २, ८ १०, धुरि आश्रौ
 ४, १२, ३१, काश्रौ, या १४,
 २५^f, धुरो^e भाश्रौ ३, ७, ५,
 वाश्रौ १, ३, ६, २३^f, हिश्रौ
 २, ५, ४, धुरौ आपश्रौ १०,
 २८, १, बौश्रौ, ऋधु काश्रौ २,
 ३, १३, आपश्रौ १, १७, ६, ४, ४,
 ४^h, बौश्रौ, (माश्रौ ४, ५, ५,) हिश्रौ
 ६, १, ५१^h, या ३, ९^h,
 धूमि आपश्रौ १२, ६, ३^h,
 माश्रौ २, ३, २, २२^h, हिश्रौ ८,
 १, ७६^h, काग^h ४७, १३, ७२,
 ५, ऋधुर्षु आपश्रौ ६, २, ५, शाश्रौ
 धौरये- पा ४, ४, ७७
 धौरये-शम्या- न्यया बौश्रौ
 २०, २६ : ८
 धुर-धर- -र अप ४६, ८, २, -रम्
 विघ ९२, १०
 धुर्य- पा ४, ४, ७७, -र्यः पावा ८,

२, २२, -र्यम् पाग ३, १४, ७,
 -र्यस्य कप्र १, ४, १०, -र्ये मीस्
 १०, ५, १०^k, -र्येषु काश्रौ ९,
 १४, ५, मीस् १०, ५, २४, -र्यौ
 आपश्रौ ऋ, ८, ४×४, बौश्रौ
 धुर्य-वाह^l-प्रवृत्ति- -त्तौ आपघ
 १, २६, २, हिघ १, ७, १३
 धू-पति-, धू-पुत्र- पावा ८, २,
 ७०
 धू-प्रभृति- -तयः बौश्रौ २५,
 ३१ २
 धूर-अभिमर्शन- -नम् काश्रौ २,
 ३, १३
 धूर-ईषा (षा-आ) रोहण^m- -णानि
 काश्रौ २, ३, २९
 धूर-गृहीत- -तम् काश्रौ १४, ३,
 २, बौश्रौ.
 धूर-पति-, धूर-पुत्र- पावा ८, २,
 ७०
 धूर्यⁿ- > धूर्य-वाहिन्ⁿ- -हिनाम्
 वाघ २२, १८
 धूर-योजन- -नम् हिश्रौ १४, ३,
 ४१
 धूर-वाह- -वाहौ माश्रौ २, १,
 ४, २७ⁿ
 ऋधूर-षद्^p- -षदम् आपश्रौ ५,
 ६, ३, हिश्रौ ३, २, ५६, ऋप्रा
 ४, ३९, उस् ६, १
 ऋधूर-वाह- -वाहौ आपश्रौ
 १०, २८, १, बौश्रौ ६, १५ :

२७, भाश्रौ १०, १९, ७, वैश्रौ
 १२, १९-२५; हिश्रौ ७, ३, ६;
 शुप्रा ३, ४१, १२२, तैप्रा ५,
 १०

धुरि^q- -रिम् शंघ ११६ ६२^r.

धुरिमेजय^s- -य बौगृ ३, १०, ६.

✓धूर्त् ✓धूर्त् द्र

धुवक, का- पाठना २, ३६, पाग ४,
 १, ९६^t, २, ८०^u, ५, २, १००^v;
 पावा ७, २, ४५^w

धौवकि- पा ४, १, ९६

धुवक-वत्- पा ५, २, १००

धुवकिन्- पा ४, २, ८०

धुवकिल- पा ५, २, १००

धुवन-, धुवान-, धुविष्यत्- ✓धु
 द्र

धुस्त्र- पाठ ४, ९०

✓धू, धूक, का- ✓धु द्र.

धूकर- (> धौकरीय- पा) पाग
 ४, २, ८०^x

धूत-, धूनन-, धून्वत्-, धून्वन-
 धून्वान- ✓धु द्र

✓धूप^y पाधा भ्वा पर संतापे, चुरा-
 पर भाषायाम्, धूपयति काश्रौ
 १६, ४, ८, २६, १, २४, आपश्रौ;
 धूपयतु बौश्रौ १०, ६ ५^z;
 ऋधूपयन्तु आपश्रौ १६, ५, ५;
 बौश्रौ, धूपयेत् बौश्रौ २२, २ :
 ११, वैगृ ३, १४ : ५, अप ३६,
 ८, ३

a) बप्रा । वैप १ द्र । b) तु पाम पाका । c) गीतिविकारतया निर्देशः । d) = अजुलि- । वैप १, १७२९ b
 अपि द्र । e) सप्र आपश्रौ ३, ८, ४ युगधुरो इति पाभे । f) ण इति पाठ १ यनि शोघ (तु भाश्रौ) । g) धूर
 इति पाठः² यनि. शोघ (तु भाश्रौ ४, ५, ५०. च) । h) धु^o इति पाठः² यनि. शोघ (तु भाश्रौ प्रभृ) । i) = मन्त्र-
 विशेष- । j) विप., नाप (पाग १, ३, १०, ३, १४, ७ प्रभृ) । वैप १ द्र । k) = धूर्गान- । l) वाह- = भार- ।
 m) मन्त्राणां द्रस्य । n) = धुर- । o) पाभे. वैप १, १७२९ m द्र । p) वैप १ द्र । q) = विश्वेदेवाना-
 मन्यतम- । r) ध्वनि. इति शक (तु विश्वेदेव-) । s) पाठः² सप्र. तां २५, १५, ३ बौश्रौ १७, १८ : ६-७ अष्वर्थ
 धुरिमेजयः इति पाभे । t) व्यप. । u) = आपवन-विशेष- इति पागम । v) पृ ९५८ m द्र. । w) तु-
 पासि. पागम च । x) तु पागम । y) पा ३, १, २८ परामृष्टः ।

धूपन- नात् अप ५२, १५, २, -ने
बौश्रौ २२, २ १०.
धूपन-काल- ले भाश्रौ ११,
३, १०
धूपन-पचन- ने आपश्रौ १६,
५, ७
धूपन-अपण- णे काश्रौ १६,
४, १३
धूपयित्वा वैगृ ३, १४ : २
धूपायत्- -यत्^a आपश्रौ १, ८, ७,
८, १७, ८x५, माश्रौ, -यन्
आपश्रौ ६, १, ११
धूपायन्ती- -न्त्याम् आपश्रौ ६,
१०, ३^b, हिश्रौ ३, ७, ६५
धूपायमान- -नम् वाश्रौ १, ७, ४,
६१
धूपायित- -तम् बौश्रौ १८, १०
१७, १७ १७.
धूपि(त>)ता- -ताम् वैश्रौ १८,
१ ७९.
धूप्यमान- -ने काश्रौ ४, १५, १५.
धूप^c- -पः अप २०, ६, ८, -पम्
आमिगृ २, ४, १० • १९, बौगृ,
-पेन अप ४, ३, २, -पै अप
१९^d, ३, १x५
धूप-गन्ध- -न्धान् अप १, ३१, ५
धूप-गन्ध-माल्या (त्य-आ)दर्श-
प्रदीपा(प-अ)क्षना(न-आ)दि-
-दीनि शंघ २१७
धूप-तृण^e- णै आपश्रौ १५, १५,
१, भाश्रौ ११, १५, २५, हिश्रौ
२४, ६, १२
धूप-दीप-वर्जम् आमिगृ ३, ११,

३ : ९
धूप-दीपा(प-आ)दि- -दिना वैगृ
५, ६ १८
धूप-पुष्प- -व्यै अप ९, १, ३
धूप-वत्- -वन्तम् बौगृ १, ६, २२
धूप-शेष- -षम् अप ६, १, १२
धूपा (प-अ)र्थ- -र्थे शंघ १९७,
विघ ६६, १०
धूम^f- पाउ १, १४५, पाग ३, १,
१३^g, ४, २, ४९, ८०^h, ६, ३,
१२०, ८, २, ९, -म काश्रौ ४,
९, ९x५, आपश्रौ, वैगृ ५, १ .
११ⁱ, हिपि ७ ४^j, -मम्
आपश्रौ ९, २०, १०, १३, २४,
१७x५, बौश्रौ, या १४, ८,
-मस्य अप ५०, ९, ३, -मा
अप ७०^k, २०, ३, -मात् या
१४, ८, -मे आपश्रौ ५, १०,
११, माश्रौ, -मेन वाधूश्रौ २,
१० १०, णैआगृ ४, ४, ७,
८, या १२, २६
धौमीय- वा ४, २, ८०
धूम-कर्तुर-मास्त्रिष्ठ-रक्त-पीता (त-
अ)सिता(त-आ)कृति- -ति
अप ६३, २, ५
धूम-केतु^l- पाउवृ १, ७४, -तव
अप ५२, ३, ३, शुअ ३, १६१^m,
-तु कौस् १२७, १ⁿ, अप ५२,
१२, १^k, या ६, ४^j, -तुम्
शंघ ११६ : ६०^o, -णैतो
द्राश्रौ १, ४, ५, लाश्रौ १, ४, २,
-तो अप ५२, ६, १^k, -तौ
कौस् ९३, ३४^p

धूम-गन्ध^q- -न्धाः^r बौश्रौ १७
१६
धूम-तस() आगृ ४, ८, ४२
धूम-धूम्रा(म-अ)रुण- -णेन अप
५८^s, २, ५
धूम-प्रवर्तन- -नम् अप ६४, ३, ९.
धूम-प्रास- -सम् काश्रौ २२, ६,
१६
धूम-मत्- पा ८, २, ९
धूमरज्जुदकप्रादुर्भाविगमन- -नेषु
अप ७२, ३, ९
धूम-राजी-निभ- -भेन अप ५८^t,
३, १०
धूम-लक्ष्मणि- -णय बौश्रौ १
४१ . ९
धूम-वर्ण- -र्ण अप ५३, ५, २.
धूम-व्याकुल-रश्मि^u- -श्मय अप
५२, ३, ३
धूम-हविस्- -विः अप २३, १२, २.
धूमा(म-अ)गिन-रजस्- -जासि
शंघ १६९
धूमा(म-अ)न्धका(र>)रा^v- -रा
अप ६४, ३, ७
✓धूमाय> धूमायत्- -यत् भाश्रौ
८, २१, ५^w
धू(म>)मा-व(त>)ती- पा ६,
३, १००.
धूमा(म-आ)शिन्^x- -शिन वैघ
१, ८, १
✓धूमि, धूमयेयु अप ७१, १९, ५.
धूम्या- पा ४, २, ४९.
धूम्र, भ्रा^y- -भ्र काश्रौ १९, ३,
२, -भ्रम् आपश्रौ १९, २, १;

a) सपा धूपायत्<>धूमायत् इति पाठे । b) ०थत्याम् इति पाठः ? यनि. शोघ (तु हिश्रौ.) ।
c) नाप. । वैप १, १७३० & द्र । d) मलो कस । e) वैप १ द्र. । f) तु. पागम ।
g) अर्थः ? । h) धूम्रः इति पाठ ? यनि शोघ. (तु गी ८, २५, ० च) । i) वप्रा. । j) =उत्पात-विशेष- ।
k) =प्रह-विशेष- । l) =एकादशरुद्राऽन्यतम- । m) =ऋषि-विशेष- । बस. । n) बहु <धौमगन्धि- ।
o) =धूमकेतु-विशेष- । p) विप. । बस. । q) =वानप्रस्थ-विशेष- । उस. ।

बौश्री, -आ अप २१, ६, २,
-फ्रान् आपश्री २०, १४, ६,
वाश्री ३, ४, ३, २१, -फ्रान्
आपश्री २०, १४, १३^{२a}, हिश्री
१४, ३, १८^{३a}

धूम्र-जानु- फि ७२

फ्रान्-रोहित^b- त आपश्री

२०, १४, १, बौश्री

धूम्रा(म्र-अ)नूकाशा^c- -शान्
आपश्री २०, १४, १३^d

धूम्रा(म्र-आभा>)म- -भ अप
५०, ६, ३

२धूम-> धौमक-पा) पाग ४, २,
१२७

३धूम^e- पाग ४, १, १०५, ११०

धौमायन- पा ४, १, ११०

धौम्य- पा ४, १, १०५, -म्यस्य

माग्य २, ६ : १५, -म्याः बौश्रीप्र

४१ २

धौम्या(म्य-आ)मिवेपय-माठर-

-राणाम् हिश्री २१, ३, १३

धूम-शिखा^f- खा वाध १६, १६

२धूम्र^g- पाग ४, १, ११०, -आ ४

बौश्रीप्र ४१ : २

धौमायन- पा ४, १, ११०

धूम्रायन- -णाः बौश्रीप्र ४१ : २

✓धूर् पाधा दिवा आत्म हिंसागत्योः

धूर्-अभिमर्शन- प्रभृ. धुर्-द्र

धूर्जेटि^h- पाग ६, ३, १०८

धूर्-पति- प्रभृ. धुर्-द्र

✓धूर् (<धृ) र् पाधा भ्वा पर
हिंसायाम्, फ्रान्-वति बौश्री १, ४

२८, ५ ९, अप ४८, १९, निघ

२, १९, धूर्वा. फ्रान्-वति १, ४ :

२९, ५ १०, फ्रान्-वति बौश्री १,

४ २८ⁱ, ५ ९ⁱ, भाश्री १,

१९, ४, विध ६५, १०

दुधूर्वति शाश्री १२, २०, २[†]

धूर्तⁱ- पाउ ३, ८६, पा २, १, ६५,

पाग २, १, ४०, ४, १, १०५^h, ५,

१, १२४, १३३, ४, ३८, -फ्रान्-वति

आपश्री ६, ११, ३, भाश्री ६,

१३, २, माश्री १, ६, १, ४१,

हिश्री ३, ७, ८६, -त अप

२०, ३, २, -तम् अप २०, २,

१-७, ५, ३, ७, ९[†], -तीय अप

२०, ४, २[†]

धूर्त-पा ५, ४, ३८

धूर्तक- पा ५, १, १३३

धूर्त्य- पा ४, १, १०५, ५,

१, १२४

धूर्त-कल्प^k- -ल्पम् अप २०,

१, १

फ्रान्-वति^l- -ति काश्री १०, ९, ८,

आपश्री, -०ते वाश्री १, ५, २,

४०[†]

फ्रान्-वति^m- -वति वैताश्री ६, १,

-वन्तम् बौश्री १, ४ २८,

५ ९, भाश्री १, १९, ४

धूलि- पाउभो २, १, २३३.

धूलीⁿ(> ०ली✓कृ पा) पाग १, ४,

६१

✓धूष्, धूष्, धूष् पाधा लुरा. पर

कान्ति-करणे.

धूसर- पाउ ३, ७३.

धूसी^o(०ली✓कृ पा) पाग १, ४,

६१

✓धृ^p पाधा भ्वा आत्म अवध्वंसने,

उभ धारणे, तुदा आत्म.

अवस्थाने, धरध्वम् आयु

४, ८, २७, २८[†], धरेत् कप्र

१, ७, ३, नाशि १, ६, १३

त्रियते आपश्री ६, २, १२,

वाधूश्री ४, १०१. १०, या ४,

७, त्रियन्ते वैश्री १६, १७ ५,

बौशि २५४, त्रियाते^o वाधूश्री

३, ७१ : ७, फ्रान्-वतिस्व वैताश्री

१०, ९, कौस् ६१, ४१, त्रियेत

वाधूश्री ३, ९१ ६

फ्रान्-वति बौश्री ६, २४ ३५,

८, १४ १३, हिपि १८ : १८;

फ्रान्-वति आश्री ४, १२, २,

आपश्री, या १०, २२[†], २३[†],

द्विरे बौश्री १८, २९ २०,

फ्रान्-वति भाशि ५४, ११८,

१२०.

धारयते भाश्री २, १३, ५, वैश्री,

या ३, १६, १०, ८, धारयति

काश्री २, ६, २५××, आपश्री,

या ७, २३××, धारयत आपश्री

२०, ३, १८, वैश्री १४, ६ ८;

धारयन्ति काश्री ८, ६, ३३,

आपश्री, धारयसि या ११, ३७;

फ्रान्-वतिरामसि आश्री ५, १९, ५;

शाश्री ३, ८, २७, बौश्री, धार-

यत् या ६, ३४, फ्रान्-वति बौश्री

a) सकृत् धूम्रान् बभ्रवन् नूकाशान् इत्यस्य स्थाने सप्र मा २४, १८ बभ्रव धूम्रनीकाशाः इति पामे ।

b) वैप १ १७३१ e, f द्र । c) वैप १, १७३१ c द्र । d) बभ्रवन् धूम्रानूकाशान् इत्यस्य स्थाने सपा.

मा २४, १८ धूम्रा बभ्रवनीकाशा इति पामे । e) = ऋषि-विशेष-। व्यु १ । f) अर्थ व्यु च १ = वेतन-द्रव्य-

इति Būh. BW. MW । g) बहु. < बौश्री- । h) व्यप (तु पागम) । i) विप, नाप. (सद- [तु धूर्ति-]) ।

j) पामे. वैप १, १७३१ m द्र. । k) = प्रन्ध-विशेष- । l) वैप १ द्र. । m) अर्थः व्यु च १ । n) या

३, ९, २० पा १, ४, ३५, ७, २, ७५ परामृष्ट द्र । o) कर्तरि लेटि प्रपु १ ।

१३, २१ ९, या ८, २, धार-
याध्वै बौश्रौ १५, ४. ५, ऋधार-
यत्तु^१ माण्ड १, २१, ३^१, जैगृ १,
११ १२^{२१}, धारयन्ताम् शाश्रौ
८, १०, ११, ऋधारयन्तु आमिण्ड
३, ८, २ ३०, बौपि १, १५
३८, कौसू ५५, १७, धारयस्व
सु १४, ३, ऋधारय, या आश्रौ
४, १२, २, काश्रौ, या १०,
४०, ऋधारयतम् आपश्रौ ४, ६,
५^३, भाश्रौ ४, ९, ३^३, हिश्रौ ६,
२, १६^३, ऋधारयत बौश्रौ २९,
६ : २२^२, २३^२, बौगृ ४,
१, ८^१, ऋधारयाणि कौसू ९०,
९, १०, ऋधारयाम>मा
आपश्रौ ५, १७, ४, हिश्रौ ३,
४, ४८, शुप्रा ३, १०७, ऋधा-
रयत् बौश्रौ १०, ३२ ७×४,
माश्रौ, अधारयन्त या ५, १४,
ऋधारयन् आपश्रौ १, ६, ७,
३, १३, ६, भाश्रौ, अधारयम्
सु १५, ४, धारयित बौश्रौ ९,
१९ : ४२^३, भाश्रौ, आपध २,
१२, ९^१, धारयेत^० कागृ १,
२०, धारयेत् आपश्रौ २४, १४,
९१, वैश्रौ, हिघ २, ४, ४५^१,
धारयेताम् वागृ ९, ११^१,
धारयेरन् कौसू १४०, ८, अप
१९, १, ७, धारयेयु काश्रौ २५,
१४, २७, माश्रौ
धारयिष्यति माश्रौ १, ३, ५,

१३^१, वाश्रौ १, ३, ७, १४^१,
अप २०, ७, ६, २२, १०, २;
धारयिष्यन्ति विघ १, ४७,
६४, १००, १, ऋदीधरत्
आपश्रौ १४, २७, ७, हिश्रौ १५,
७, ८, कौसू ३, २, ऋदीधरत्
आश्रौ ८, १३, २, आपश्रौ,
दिष्टत>ता ऋद्रा ७, ३३
धार्येते काश्रौस ३२ १५^{१०},
भाश्रौ, धार्येते हिश्रौ १, ४, ४२,
३, ६, २८, धार्यन्ते आपश्रौ ६,
२८, ८, २४, १, २८, भाश्रौ,
धार्येरन् मीसू ११, ३, ३३
दिधारयिषेत् वाधूश्रौ ३, १०४
२, गोगृ ३, ५, ३०
दूर्ध्वति, दाधति, दूर्ध्वि पा ७,
४, ६५

धर, रा^१ -रः अप ४३, ५, १^१, -रा
अप ६४, २, ६, विघ १, ६५,
-राम् शघ ११६ ६५, -०रे
विघ १, ३१, ४७, ६३, ५, १९३
धरा-तल- -लम् अप ५८^३, १,
१०, २, ८, ३, ३
धरा(रा-अ)धिप- -पान् शंघ
११६ : २८.
धरा-शय- -यः वैध ३, ५, ७
धरा-सुत^१ -तस्य अप ५१,
४, १
ऋधरीयस्- -य हिगृ १, ४, ६^१,
-यान् आपश्रौ ४, ६, ३, भाश्रौ
४, ९, १, हिश्रौ ६, २, १२

धरण^१- -णम् शंघ ११६. ५२^३;
विघ ४, १२^१
धरणी- -ऋणी आपश्रौ ४, ७,
२, भाश्रौ ४, १०, ३, वैश्रौ ५,
७ १२, हिश्रौ ६, २, १७, अप
५, २, ५^१, -णीम् अप १९^३,
४, ५^३, -ण्याम् वैगृ ४, २:७^३.
धरणी-जात- -ता अप ५५,
१, २
धरणी-तल- -ले अम ५८^३,
३, १
धरणि- पाठ २, १०२.
धरि(तृ>)त्री^१- -ऋन्नि आपश्रौ
१४, ३३, २, हिश्रौ १५, ८,
३५^{१०}, अप्राय ६, १
धरिमन्- पाठ ४, १४८
धरिम-मेय- -यानाम् विघ ५,
१३
ऋधरीमन्^१- पाठना ४, १६१;
-मणि आश्रौ ८, १, ९, शाश्रौ
१८, २३, ११.
धरण, णा^१- पाठभो २, २, १९९;
-ण. ऋआश्रौ ४, १२, २, ८, १३,
२, काश्रौ, वैताश्रौ २६, ११^१;
ऋअ २, ५, १५^३; -ऋणम्
आश्रौ २, १९, ३२; ८, १३,
२, शाश्रौ, पगृ २, २, ११;
वागृ ५, ९^१, हिगृ १, ४, ६;
निघ १, १२, -ऋणा आपश्रौ
१६, २३, १; बौश्रौ, -ऋणे
आपश्रौ ५, ८, ६, बौश्रौ, -ऋणेषु

a) पामे वैप १, १११० h द्र । b) सप्र ०धीत<>०धेत् इति पामे । c) धारयेत् इति
आदित्यदर्शनः, संस्कृति टि. च । d) पामे. वैप १, ७२५ m द्र. । e) पाठ ? धार्यन्ते इति शोधः (तु.
संस्कृति टि) । f) =भूमि- । g) =वसु-विशेष- । h) =भौम-ग्रह- । i) सप्र. धरीयः<> बलीयः इति
पामे. । j) वप्रा । कत्रविधे ल्युट् प्र । k) =मरुद्-विशेष- । अपु २१९, ३१ धा^० इति, धरणः इति शक. ।
l) =परिमाण-विशेष- । m) =धरा- । n) वैतु पाठ ४, १७३< धरिअ- इति । o) श्री इति पाठ. ? यनि.
शोध. (तु. आपश्रौ.) । p) वैप १ द्र । q) पामे. वैप १, १७३४ f द्र. । r) =ऋषि-विशेष- ।
s) ०र^० इति पाठ ? यनि. शोध [तु. मूको., पागृ. प्रमृ. च] ।

या १२,३२
 धरुणी^१- णी अत्र ३, १२^१
 धर्णसि^२- साय आपश्चौ १७,२,६^१
 धृर्णसि^३- सि बौश्रौ १८, १८.
 १५, आपमं १, १०, ७, अप
 ४८,१०३^४, निघ २,९
 धर्तुम् सु ३,५
 धर्तु- -०र्तः ऋप्रा १, १०१,
 -र्ता आपश्चौ ४, ६,३, ७,१^१,
 बौश्रौ; या १२, ३०^१, -र्तार
 मायु १, २२, ७^०, वायु ५. ७,
 -र्तारम् शंघ ११६ ५२^१,
 -०र्तारा आश्रौ ४,७, ४, शाश्रौ
 ५,१०,२१, -र्तै आग्निगृ १,२,
 २ २४, हिगृ २,१९,६
 धर्त्री- -०र्त्री आपश्चौ १४,
 ३३, २, अप्राय ६, १; -र्त्री
 आश्रौ ४,१२,२, -र्त्रीभिः बौश्रौ
 २,१० २, बौगृ
 धर्त्र- पाठ ४,१६७^१, -र्त्र बौश्रौ
 १०, ४२ : १४^१, -र्त्रम् शाश्रौ
 ८,२४,३, काश्रौ, -र्त्राय आपश्चौ
 २,७, ९^१, १८,५,२०, बौश्रौ
 रधर्म^१- पाठ १, १४०, पाग २,
 ४, ३१, ४, २, ६०^१, -र्त्तु^१
 काश्रौ २६,६,९^१, आपश्चौ १५,
 ११,२^१, बौश्रौ ९, ११ १^१,
 भाश्रौ ११,११,१^१, हिश्रौ २४,
 ४, ११^१; विघ ९८,८८^१, -र्त्तु
 आश्रौ १०,७,९, शाश्रौ, आपश्चौ

५,६,३^१, बौश्रौ २,१८ : ३^१,
 वैश्रौ १, ६ : ७^१, हिश्रौ ३,२,
 ५५^१, आपमं २,१५, १०^१,
 कौगृ ३, २, ११^१, शागृ ३,३,
 ७^१, -र्त्तु^१ शाश्रौ ७,२५,१७,
 माश्रौ, वैताश्रौ २०,१३^१, बुदे
 ४,३६, ७,१४७, या १४, ६^१,
 -र्त्तु^१ आश्रौ १०,५,१५, पागृ,
 -र्त्ता काश्रौ ५,८,१७, आपश्चौ,
 -र्त्तानाम् आश्रौ १२, ८, २,
 शाश्रौ, -र्त्तु आपश्च २, १३,
 ११^१, २७, १^०, विघ १, ६५,
 पा ५, ४, १२४, पावा १, १,
 ७२, मीसू १०, ८, ५०, -र्त्तु
 बौश्रौ २४, ३७ : ३, भाश्रौ,
 -र्त्तुय आग्निगृ १,२, २ २४,
 बौगृ, या १२,१३, -र्त्तु वैगृ १,
 ८ १५, अप, या ८, १०,
 -र्त्तु शाश्रौ ४,५,१३, काठश्रौ,
 -र्त्तुय वाघ २१, ९, आपश्च,
 -र्त्तु अप ७०^१, ३१, ३, आपश्च,
 -र्त्तुः वाश्रौ १,२,४,९, द्राश्रौ
 धार्मिक- पा ४, २, ६०, ४,
 ४१, -क बौगृ ३, ३, ३१,
 वाघ, -कम् वाघ ६, ३०,
 आपश्च २, २७, १४, हिघ २,
 ५, २३३, -केण शंघ २६२
 धार्मिका(क-अ) धिष्ठित-
 -तम् गौध ९, ६५
 धार्मुक^१- -कस्य माश्रौ १,

६,१,५४
 धर्म-करण- -गेन निस् ६, ५
 २१, २३.
 धर्म-कर-द- -दाः विघ ३,२७.
 धर्म-कर्तु- -तारौ या १४,३०
 धर्म-कर्म-व्यसिचार- -रात्
 सुघ ३
 धर्म-काम- -मः विघ ७१,
 ९०, -मानाम् भाश्रौ ९,१८,४.
 रधर्म-काम- -मौ विघ ५२,१६
 धर्म-कारक^१- पाग २, २, ९;
 ६,२,१५१
 धर्म-कार्य- -यम् विघ २६,१,
 -येषु विघ ३,१७.
 धर्म-कृत्य- -स्यम् आपश्च १,
 २९,१४, हिघ १,७,७१, -स्येषु
 आपश्च १, ७, १८, २, १४, ३,
 बौध
 धर्म-गोपाय^१- -यम् आपश्च
 १,४,२४^१, हिघ १, १,१४३
 धर्म-चर्चा- -र्यया आपश्च २,
 ११,१०, हिघ २,४,२५
 धर्म-चारिन्- -रिभिः अप १,
 ४१,८, अशा ११,८
 धर्म-चारिणी- -णीम् बौध
 ४,१,२३
 धर्म-जिज्ञासा- -सा वाघ १, १;
 मीसू १,१,१
 धर्म-जित-धन- -नस्य जैगृ
 २,९ : ३९

a) वैप १ द्र । b) °सि इति पाठ^१ यनि शोधः [तु. निघ] । c) पामि. वैप २, ३खं धर्तारः मन्त्रा १,६,२८ टि द्र । d) अपु २१९,३१ धातारम् इति । e) घृ १३३९ h द्र. । f) पामि. वैप १,१७३५ l द्र । g) = धर्म-शास्त्र- । h) पामि. वैप १,१२७२ u द्र । i) घ^० इति पाठः^१ यनि शोधः (तु. मा ३८,१४) । j) = सपा. तैत्रा १,२,१,१० । ऋ ३,१७,१ तु धर्मा इति पामि । k) धर्म स्थूणाराज, °जे (कौगृ) इति पाठस्य स्थाने सप्र. पागृ ३,४,१८ धर्म-स्थूणाराजम् इति पामि । l) पामि. वैप १,१७३५ p द्र । m) धर्म इति शिवर्ष. । n) सपा धर्मादि <> धर्मार्थम् इति पामि । o) सपा. धर्मादि संबन्धः <> धर्मसंबन्ध इति पामि. । p) विप. । चरतीयर्थे उकञ् प्र. उरसं. (पा ५,१,१०३) । q) तु. पागम । r) विप (आचार्य-). उरस. । s) धर्म गोपाय मा इति वा केचन इति भाष्यम् ।

धर्म-ज्ञ,ज्ञा- -०ज्ञ अशा ३, १,
-ज्ञ गौध १५, २८, आज्यो
१३, ९, -ज्ञम् अशा १, ६,
-ज्ञा विध ८, ८, २८, ४८, -ज्ञान्
विध १, १६, -ज्ञानाम् भाश्रौ
९, १८, ४, -ज्ञंशे अशा १, ३,
५, ६

धर्मज्ञ-समय- -य आपध १,
१, २; हिघ १, १, २, सुघ २
धर्म-तत्त्व-ज्ञ- -ज्ञै शंघ ४६१
धर्म-तन्त्र-पीडा- -डायाम् गौध
१३, १२, १८, ३६
धर्म-तन्त्र-सङ्ग- -ज्ञे गौध १८,
२६
धर्म-तन्त्रो(न्त्र-उ) परोधन-
-नात् बौध १, ५, ६६
धर्म-तस्() वैगृ ५, ८ १२, वाध,
या ३, ४†
धर्म-द- -०द विघ २८, ८९.
धर्म-ध्वज- > ०जिन्- -जी
विघ २३, ८
धर्म-नित्य- -त्या शंघ २५१.
धर्म-नियम- -मः पापवा १,
मीसू १०, ५, १२, -मात् मीसू
२, ४, ७.
धर्म-निष्ठा-> धर्मनैष्ठिक- -क
आमिगृ २, ६, ५ : २
धर्म-पति- पाग ४, १, ८४,
-†तये शाश्रौ ९, २६, २, काश्रौ,
-†तिः आश्रौ ४, ११, ५,
शाश्रौ १६, १८, ५, -तिम् बौश्रौ
१०, ५५ : १६, -तीनाम् बौश्रौ
१०, ५६ ३†

धर्मपत- पा ४, १, ८४
धर्म-पत्नी- -त्नीम् शंघ ३७७
२, -त्न्या अप २२, १, ३,
-त्न्याम् शंघ ३७८
धर्म-पर- -रा आपध २, २६,
१४, हिघ २, ५, २०९
धर्म-परा(-र-अ)यण- -णे विघ
२२, १७
धर्म-पर्याय-वचन- -नै- विघ
१०, १०.
धर्म-पाठक- -क वाध ३, २०,
बौध १, १, ८
धर्म-पुरस्कार- -र आपध २,
६, ५, हिघ २, २, ५.
धर्म-प्रजा (जा-अ) र्थ- -र्थम्
आमिगृ १, ६, १ ६
धर्म प्रजा-संपत्त्य(ति-अ)
र्थ- -र्थम् वैगृ ३, २ ७
धर्म-प्रजा-सपन्न- -न्ने आपध
२, ११, १२, हिघ २, ४, २७
धर्म-प्रतिकर- -रा शंघ २५८
धर्म-प्रतिषेध- -धे हिश्रौ १६,
१, २३
धर्म-प्रधान- -नान् शंघ ११६
२०
धर्म-प्रहा L, ह्णा^६ | द^६ - -०द
आपध १, ३२, २४^१, हिघ १,
८, ६५^१
धर्म-फल- -लम् अप ७०^१, ३२,
४, ५
धर्म-भाज् - -भाक् बौश्रौ २७,
१४ : १३†
धर्म-भृत- -भृतान् वाध २३, ४३.

धर्म-भेद- -दात् आपध २, ४, ७;
हिघ २, १, ६०
धर्म-मात्र- -त्रम् काश्रौ ९,
५, १०, आपधौ १९, २१, ४;
हिश्रौ १३, ४, २७, २२, ४,
२^६, मीसू १०, २, ३७;
-त्राप्याम् मीसू १०, २, ६०;
-त्रे मीसू २, १, ९, १३, १, २८;
-त्रेषु काश्रौ १, ८, ७.

धर्ममात्र-त्व- -त्वम् मीसू ६,
१, १६, -त्वात् काश्रौ ४, १२,
१५, ८, २, १८, मीसू १०, २,
३५
२धर्म-मात्र- -> धर्ममात्रा-
(त्र-अ)र्थ- -र्थम् मीसू १०, २,
२२.
धर्म-मूल- -लम् कौगृ ३, १२,
२४, गौध १, १
धर्म-युक्त- -क्त. आग्निगृ २, ६,
५ २१, बौगृ, -क्ता. आपध
२, १४, १४, हिघ २, ३,
२५, -क्तेषु आपध २, २०, १८,
हिघ २, ५, १०४.
धर्म-योनि- -०ने विघ १, ५४.
धर्म-राज- -०ज वाध २८, १९;
-जम् बौध २, ५, २५†;
-†जाय आमिगृ २, ६, ८ : ३३;
अप ४३, ५, ४२.
धर्मराज-वचस्- -च शंघ
३४८.
धर्मराजा(ज-आ)श्रम- -मम्
अप ९, ४, ३.
धर्म-राजन्- -जानम् शंघ ११६ :

a) विप. । बस । b) चरतीत्यर्थे ठक् प्र उप. वृद्धिश्च उसं (पा ७, ३, १०) । c) विप. । बस >
कस. । d) पूष. = धर्मशास्त्र- । e) विप. । उस । f) द्रस > मलो कस. > चस. वा द्रस > चस (तु ८.) वा ।
g) हिघ. पाठ । h) व्यप. । उस । i) तु भाष्यम् [मैसू.] वैतु भाष्यम् [हिघ] Buh. च 'दन इति । j) 'नाय'
इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध.) । k) धर्म इति सस्कृत्. शोध ? । l) नित्यसमास. (पा २, १, ७२) ।
उप. = अवधारण- । m) = यमराज- ।

१९, विघ ९०, १०, २८
 धर्म-रुचि^a - चि आपध १, ५,
 ११, हिघ १, २, ११, -चये बौध
 २, ८, ११^b
 धर्म-लक्षण- -णानि शंघ ६
 धर्म-लाभ- -भ काश्रौ ४, ३,
 १९, मीसू ७, ४, १८
 धर्म-वत् पा ४, २, ४६
 धर्म-वत्-> धर्मिष्ठ- -ष्ठान्
 विघ ३, १७.
 धर्म-वसु-प्रद- -०द विघ ९८,
 ११.
 धर्म-वाद- -द- वाध १७, ७१.
 धर्म-विच्छिन्ति- -त्ति सुघष
 ८८: १
 धर्म-विद्- -वित् कप्र ३, १, ६,
 ९, ३, बौध, -विद् वाध १,
 १६, २८, ७, सुघ १५, -विदा
 वाध ६, ९.
 धर्म-विद्या- (> धर्मविद्य-
 पा) पावा ४, २, ६०.
 धर्म-विधान- -नात् मीसू ११,
 ३, ५, -नानि मीसू २, ३, २३
 धर्म-विनियोग- -गे वाश्रौ १,
 १, १, ६८
 धर्म-विप्रतिपत्ति- -त्तौ आपध
 १, ४, १२, हिघ १, १, १३१
 धर्म-विप्रतिषेध- -धात् मीसू
 ३, ३, ४०; ११, ३, १२, -धे
 वाश्रौ १, १, १, ७०.
 धर्म-विरुद्ध- -द्धौ विघ ७१, ८४
 धर्म-विशेष- -ष मीसू २, १,
 ३९, -धात् मीसू २, १, ३६,
 १०, ५, ६३.
 धर्म-वृद्धि- -द्धि: गौध २८, ४.

धर्म-व्यतिक्रम- -म: आपध २,
 १३, ७, हिघ २, ३, ७, गौध १,
 ३, -मे वृदे ८, ३
 धर्म-व्यपेक्षा- -क्षया बौध
 २, २, ७१
 धर्म-व्यपे(क्ष>)चा^b - -क्षासु
 विघ ९९, २२.
 धर्म-व्यवस्था- -स्था गौध ११,
 २४
 धर्म-शास्त्र- -स्त्रम् अप ४४,
 ४, २, वाध, -स्त्रस्य विघ ८३,
 ८, -स्त्राणि शंघ ३, गौध ११,
 २१.
 धर्मशास्त्र-त्व- -त्वात्
 मीसू ६, ७, ६
 धर्मशास्त्र-रति^c - -रति शंघ
 १९९
 धर्मशास्त्र रथा(थ-आ)रुढ-
 -ढा बौध १, १, १४
 धर्मशास्त्र-विद्- -वित् अप
 ४४, २, ४
 धर्म-शील-वर्णा(र्ण-अ)न्त-
 -न्तात् पा ५, २, १३२
 धर्म-शेष- -षान् आपध २,
 २९, १५
 धर्म-संयुक्त- -क्तम् शंघ ४४३
 धर्म-संशय- -यात् बौध २, ९,
 ४
 धर्म-सत्य-मय- -य: विघ १,
 ५
 धर्म-संतति- -तित् बौध १,
 ४, २४
 धर्म-सतान- -नात् या ६, १९.
 धर्म-सं(धा>)घ^d - -धम्
 शंघ ११६: २९.

धर्म-संनिपात- -त् हिघ १,
 ७, ४६^d.
 धर्म-संनिवाप- -प. आपध १,
 २८, १०^d
 धर्म-समाप्ति- -सि: आपध २,
 २९, १३
 धर्म-संबन्ध- -न्ध हिघ २, ५,
 २२०^e, मीसू ९, १, ३.
 धर्म-साधन- -नम् शंघ ५
 धर्म-सावर्ण^f - -र्णम् शंघ ११६:
 ४६
 धर्म-सू^g - -सुव बौश्रौ १२,
 ११ ११.
 धर्म-स्थान- -नम् शंघ २५६.
 धर्म-स्थूणाराज- -जम् पाठ ३,
 ४, १८^h
 धर्मस्य-तनुⁱ - -न्वौ द्राश्रौ २,
 २, २७, लाश्रौ १, ६, २५
 धर्म-हानि- -नि: आपध १,
 २०, ४, हिघ १, ६, १८
 धर्म-हीन- -न गौध ४, २५.
 धर्मा(र्म-अ)ङ्ग- -०ङ्ग विघ १,
 ५४, ९८, ९०.
 धर्मा(र्म-अ)तिक्रम- -मे आपध
 १, १३, ४, हिघ १, ४, १८.
 धर्मा(र्म-आ)दि- -दिषु पावा
 २, २, ३४.
 धर्मा(र्म-अ)धर्म- -र्मयो: काय-
 ५४, ६; विघ ६७, १०, -र्मभ्याम्
 कौसू ७४, ५, -र्मौ वैशू ५, १:
 २८, ८: १, आपध
 धर्माधर्म-ज्ञ- -०ज्ञ विघ १,
 ५४
 धर्मा(र्म-अ)नुग्रह- -हात् मीसू
 ८, १, ३६, ४२, २, २३.

a) विप. । बस. । b) = देवता-विशेष- । c) व्यप. । बस. । d) परस्पर पाप्मे. ।
 e) पाप्मे पृ १३५४ ० द्र. । f) = मनु-विशेष- । g) उप. < ✓सू [प्रेरणे] । । h) पाप्मे. पृ १३५४ ६
 द्र. । i) = साम-विशेष- ।

धर्मा(र्म-आ)नुपूर्व्य- -व्यम्
 आपश्रौ २१, ३, १०
 धर्मा(र्म-अ)नुबोधन- -नम्
 वैध ३, १३, ९.
 धर्मा(र्म-अ)नुवर्तिन्- -तिनौ
 वैगृ ३, १ : ५
 धर्मा(र्म-अ)नुष्ठान- -नम्
 आपध २, २, ३, हिध २, १,
 २५
 धर्मा(र्म-आ)म्नाय- -ययो
 पावा ४, ३, १२०
 धर्मा(र्म-अ)जित-धन- -नम्
 शंघ ८८, -नस्य आभिगृ २,
 ५, १०-५२
 धर्मा(र्म-अ)र्थ- -र्थम् आपध
 २, ६, १, १३, ११, विध, हिध
 २, ३, ११^b.
 धर्मा(र्म-अ)र्थ- -र्थम् कौगृ
 ३, ११, ६^d, -र्थे गौघ १७,
 ३५
 धर्मा(र्म-अ)र्थ- पाग २, २,
 ३१^c; -र्थाम्याम् वाध १७, १७,
 -र्थौ बौध १, २, ४९; विध २९,
 ८.
 धर्मा(र्म-अ)कुशल- -लम् आपध
 २, १०, १४, हिध २, ४, १४,
 -लान् हिध २, ५, १९९
 धर्मा(र्म-अ)युक्त- -क्तः आपध
 १, ४, २३, हिध १, १, १४२
 धर्मा(र्म-अ)विषय- -येषु शंघ
 २५१
 धर्मा(र्म-अ)सनिपात- -ते आपध
 १, २४, २३, हिध १, ६, ७१

धर्मा(र्म-अ)हारक- -कान् विध
 ५, १९२
 धर्मा(र्म-अ)र्थ-कर्मन्- -र्मणाम्
 आज्यो १४, ७
 धर्मा(र्म-अ)र्थ-काम- -मेभ्यः
 गौघ ९, ४८
 धर्मा(र्म-अ)र्थ-काम-युक्त- -क्तानि
 आज्यो १४, ६.
 धर्मा(र्म-अ)र्थ-काम-संयुक्त- -क्तम्
 अप ५, १, १
 धर्मा(र्म-अ)विप्रतिषिद्ध- -द्धान्
 आपध २, २०, २२, हिध २, ५,
 १०७
 धर्मा(र्म-अ)वेश- -श हिश्रौ
 ३, ८, ४३, ४७^g.
 धर्मा(र्म-अ)हृत- -तेन आपध
 २, १६, २५, हिध २, ५, २४.
 ✓धर्मि, धर्मयेयु वाध १५,
 १५
 धर्मयत्- -यन्तः वाध १५,
 १६
 धर्मिक- (> धार्मिक्य- पा.)
 पाग ५, १, १२८
 धर्मिन्- पाग ४, २, ३८, -र्मि
 निस् ८, १० ३२, -र्मिण
 हिश्रौ ६, ६, १७^f, जैश्रौका ६९,
 ७२, पाग २, ११, १२^h;
 -र्मिणाम् गौघ २८, ५४, -र्मिणि
 निस् ८, १० ३२, -र्मि निस्
 १०, ७ : २३
 धर्मिणीⁱ- (> धार्मि-
 णेय- पा) पाग ४, १, १२३
 धार्मिण- पा ४, २, ३८.

धर्मि-स्थान- -नम् निस् ७,
 १३ : ६, १४^२.
 धर्मि(र्म-ई)प्सु- -प्सुः बौध १,
 ५, ४७, -प्सो शंघ ४१४.
 धर्मो(र्म-उ)क्कट- -टे विध ९९,
 १९
 धर्मो(र्म-उ)त्तर^१- -र गौघ ९,
 ४९
 धर्मो(र्म-उ)त्सादना(न-आ)दि-
 -दि आश्रौ १२, ४, १०
 धर्मो(र्म-उ)दय- -य शंघ ६.
 धर्मो(र्म-उ)पदेश- -शात् आपध
 १, ३२, १२, हिध १, ८, ५४;
 मीस् ३, ३, ४
 धर्मोपदेश-कारिन्- -रिण
 विध ५, २४.
 धर्मो(र्म-उ)पदेशन- -ने पावा ६,
 १, ८३
 धर्मो(र्म-उ)पनत- -तस्य आपध
 १, १८, १४, हिध १, ५, ८३
 धर्म्य, स्या- पा ४, ४, ९१;
 ९२, -स्य. हिध १, ४, ८१^k;
 -स्यम् वैध २, ९, १, हिध १,
 २, ७८^l, २, ५, २०४^m, पा ४,
 ४, ४७, -स्यौ गौघ १२, २६;
 -स्यः विध २४, २७, गौघ ४,
 १४, -स्ये पा ६, २, ६५, -स्येषु
 गौघ ५, २०
 धार्म्यⁿ- -स्यः आपध १,
 १५, २२^k; -स्यम् वाधश्रौ ३,
 ७५ : ८, १०, बौगृ ३, ३, ३३,
 आपध १, ७, २१^l, २९, ८, २,
 २६, ९^m; हिध १, ७, ६५.

a) वस. । b) पामे. पृ १३५४ II द. । c) षस. उप = तत्त्व- वा प्रयोजन- वा । d) न
 धर्मा(र्म) जुगुप्सेत इत्यस्य स्थाने सप्र. शागृ ४, १२, ८ अधर्माच्च जुगुप्सेत इति पामे । e) दस. । f) [पक्षे].
 भाण्डा. । g) शेषः इति पाठः? यनि. शोध. । h) सपा धर्मिण < > धर्मणस्पते < > धर्मणा इति
 पामे. । i) व्यप. । j) विप. । बस. । k) सप्र. ध° < > धा° इति पामे. । l) सपा. ध° < > धा°
 इति पामे. । m) सपा. ध° < > धा° इति पामे. । n) = धर्म्य- । अण् प्र. वा धर्म- + स्वार्थे व्यञ् प्र. वा ।

धर्मन्^a- पाग छ, २, ३८, -र्म
 आपश्रौ १, २३, ११, बौश्रौ,
 -र्मण आश्रौ ६, १२, १२,
 शाश्रौ ८, १०, १, आपश्रौ ६,
 १९, १, १३, १८, २, बौश्रौ
 ८, १८: ६, माश्रौ १, ६,
 २, १४, २, ५, ४, १३,
 हिश्रौ ९, ४, ५८, वैताश्रौ २३,
 १५, -र्मण^b आपश्रौ १३,
 १८, २, बौश्रौ ८, १८ ६, हिश्रौ
 ९, ४, ५८, -र्मणा आश्रौ छ,
 ११, ६, ६, १२, १२^b, शाश्रौ
 ८, १०, १^b, बौश्रौ, माश्रौ २, ५,
 ४, १३^b, जैश्रौ ६. ७, वैताश्रौ
 २३, १५^b, आपमं २, ३, १२^d,
 कौश्रु २, २, ११^d, शाश्रु २, ३, १^d,
 आमिश्रु ३, ६, १ ७^d, ८, २ ५२,
 बौपि २, ८ ६, १५ ५८,
 हिश्रु १, ५, १०^d, जैश्रु १, १२.
 २९, -र्मणि आश्रौ ५, १८,
 २, शाश्रौ, या ११, १२, -र्मणे
 बौश्रौ ८, १२: २६, वैश्रौ १६,
 १४ ६, वैताश्रौ २०, १३, या
 ७, २५^f, -र्मि ऋप्रा ८, ५०^f,
 -र्मणम् हिश्रौ १२, ६, ६, या
 ९, २५^f, -र्मणि आपश्रौ
 १२, १९, ५, या १२, ४१^g
 धर्म-विधर्मन्^h- र्मणी लाश्रौ ७,
 ७, १९.
 धर्यⁱ- र्यः शाश्रौ ८, २४, ३१.
 धार(क>)का^j- पावाग ७, ३, ४५
 धार(रक>)रिका^k- का जैश्रु १,

२१: २५
 धारण^l- ण बौश्रु २, ५, २९,
 -णम् काश्रौ ३, ३, १, १६, ५,
 ८, बौश्रौ, ऋप्रा १४, १८^m,
 -णात् अप ३५, २, १०, वैध ३,
 ७, १३, शुप्रा ४, १४४: -णाय
 वृदे ७, १०१, या ७, २५, -णे
 गौध १२, ४, मीसू ९, ४, २७
 धारणी- णी अप ३१, ३, ३
 धारण-क्रिया- -या पावा १, ४,
 २३
 धारणा(ण-अ)र्थ- र्थम् मीसू
 १०, १, ४७
 धारणार्थ-त्व- -त्वात् मीसू
 १२, १, १९.
 धारणीय- -यम् विध १००,
 ३
 धारणो(ण-उ)पस्थान- -नम्
 काश्रौ छ, ९, २०
 धारणा- -णा शंघ ३७२ⁿ, बौध १,
 ५, १९, विध ६४, ४१, माशि
 १६, ६ⁿ, -णाम् कौश्रु २, ५, १,
 शाश्रु ४, ९, ३, अप छ३, २, ५०ⁿ,
 -णायै^m आश्रु ३, ५, ४, वैश्रु २,
 १२ ९
 धारणा-विशेष- -षात् मीसू ३,
 ३, २८^o
 धारय- पा ३, १, १३८
 धारयत्- पा ३, २, १३०, -यत्
 विध १०, ९, -यन् आश्रौ १, १,
 २३××, शाश्रौ, -यन्त आश्रौ
 छ, २, ५ⁿ, शाश्रौ, -यन्तम्

काश्रौ २६, ३, ५, कौसू २०, १६;
 १३७, ३०ⁿ
 धारयद्-वत्- -वद्भयः बौश्रौ १३,
 २१ २
 धारयद्द्विती^q- -त्या माश्रौ
 ५, १, ८, ९, १०, १४, -त्याम्
 माश्रौ ५, १, ८, १८
 धारयद्द्वितीय- -यम् आपश्रौ
 १९, २०, ५, हिश्रौ २२, ३ २२^r.
 धारयति-> °ति-कर्मन्- र्मण या
 २, २
 धारयमाण, णा- -ण आपश्रौ १,
 १६, ८, २, ४, २××, बौश्रौ,
 -णम् वैश्रौ ६, १२ ५, -णाम्
 आपश्रौ १२, ५, ३, हिश्रौ छ,
 ४, ६
 धारयितुम् वाधृश्रौ ३, १०४ २.
 धारयितृ- -ता या १२, ३०, -तारः
 या ८, ७, -तारम् या ९, २५
 धारयित्वा आमिश्रु १, २, ०. ३;
 २, ६, २. २३, ८ २८, काश्रु.
 धारयिष्णु- -ष्णु माश्रु २, ११, ६.
 धारि(न्>)णी- णी शंघ छ२
 धारित, ता- -तः बौश्रौ २९, १२:
 ७, -ता माशि १६, २, -ताः
 कप्र ३, ७, १३
 धार्य- -र्यः वैश्रौ १, २० १४;
 आमिश्रु, -र्यम् माश्रु १, १: ९;
 वैश्रु छ, १: २०, ६, १६ ११;
 कप्र १, १, ३, -र्याणि नाशि
 २, ७, ८; -र्यौ माशि १, १९;
 नाशि १, ६, ३.

a) वैप १ निर्दिष्टयो समावेशः द्र. । b) पाभे पृ १३५७ h द्र । c) पाठः? धर्मण-
 इति शोध (तु टि. १महा) । d) पाभे. वैप २, ३खं. कर्मणा संब्रा १, ६, १५ टि द्र । e) पाभे वैप १, १७३६ q
 द्र. । f) वैप १, १७३७ k द्र. । g) < धर्म- इति पाप्र. (२, ४, ३१) । h) सामविशेषयो द्रस. ।
 i) यत् प्र (पा ३, १, ९७) । j) तु पागम । k) नाप. । l) भावे कर्तृरि च कृत् । m) =अनुप-
 लब्ध- वा द्विवचन-वा । n) =देवता-विशेष- । o) °णार्थवि° इति जीसं. । p) पाभे. वैप १, १७३३ d द्र. ।
 q) =ऋग्-विशेष- । r) अप्यधारयद्द्वितीम् इति पाठ ? यनि शोधः (तु. आपश्रौ) ।

धार्यमाण,णा- णम् आपश्रौ ९,
१३, ८××, वैश्रौ, विध ९६,
५५^a, -णा आपश्रौ १२, ६, ३,
-णाय शाश्रौ ३, १३, १७, -णे
आपश्रौ ७, ६, २, १७, २५, १,
भाश्रौ

धृत, ता- ण्तः आपश्रौ ३, ११,
२^b××, बौश्रौ १, २१ १८^b,
हिश्रौ २, ६, २^b, आमिष्ट १, ६,
३ ५६^b, २, ७, २ २४^b,
बौष्ट २, ६, २९^b, तैप्रा १८,
३५^o, भाशि १८, -तम् कप्र १,
१, ३, शंघ ११६: ५२^d, विध,
-तस्य हिश्रौ १३, ५, १४, -णता
बौश्रौ ६, १२: ८, वाधूश्रौ, -ता
वैश्रौ २१, ९ ८, बौध ४, १,
२९, या १०, ४४³, -तान् वैध
२, ११, ६, -तानि वेज्यो २४,
-तायाम् वैश्रौ ११, ५ ५,
-तेन वैश्रौ १८, १८ १३, -तैः
कप्र १, २, ४.

धृत-ऋतु^e-> धार्तरुतव- -व.
वाधूश्रौ ४, १०८: ३

धृत-तीक्ष्णा (क्षण-अ)र्क-
किरण^f- -गे अप ६३, १, ८
धृत-दण्ड^g- -गडा वाध १९,
४५.

धृत-राजन्^h-> धार्तराज- पा
६, ४, १३५.

धार्तराज्ञी^h- (> ञक-
पा) पाग ४, २, १२७

धृत-राष्ट्र- -ण्ट् आपम २,

१७, १०¹, -ण्ट्¹ बौश्रौ १७,
१८: १, आपमं २, १७, ९,
बौष्ट ३, १०, ६, अअ ८, १०
(५)[†]
धार्तराष्ट्र¹- -ण्ट् कौसू २०,
६[†].

धार्तराष्ट्री- (> ष्टक-)

धार्तराज्ञी- टि इ
धृत-व(त>)ती- -तीम्[†] तैप्रा
२३, २४³, कौशि ६७, -त्य¹
निसू ८, ४: ११

धृत-व्रत^m- -त आपश्रौ ५,
१९, २, १०, ३०, १५××, बौश्रौ,
-०त्ता ऋअ २, २, २९, बुदे ४,
८४, वैशि १८५, -ताय शाश्रौ
१४, ५२, ५, १३, -ते तैप्रा ४,
११, -तौ गौध ८, १५

धृता (त-अ) चिस्- -चिषम्
विध १, ५९

धृतो (त-ऊ) ध्व-पुण्ड्र- -ण्डः
काण्ड ४६: १६

धृतिⁿ- -तय अअ २, १०, -ति
आश्रौ ८, १३, १[†], ण्तः आपश्रौ
२०, ५, १९, २१, १२, ७,
बौश्रौ, कप्र १, १, १२, विध
१, १९××, ऋअ २, १, १३३,
-तिम् माश्रौ ६, १, ७, १८,
वाधूश्रौ, -तिषु काश्रौ २०, २,
८, आपश्रौ २०, ६, १४, हिश्रौ
१४, २, १७, -ण्ती आपश्रौ ४,
६, ५, भाश्रौ ४, ९, ३; हिश्रौ
६, २, १६; -तीः काश्रौ २०,

३, ४, आपश्रौ २०, ५, १९;
बौश्रौ
धृति-द्वय- -यम् ऋअ ४, ८
धृति-मत्- -मान् कौष्ट ३, १२,
२९

धृति-स्वर- -रात् निसू ९,
६: २८

धृति-होम- -मे कप्र ३, ६, ५.
धृत्य (ति-अ) ष्टि-शकरी-जगती-
-त्य पि ४ ५

धृत्वन्- पाउ ४, ११४

धृत्वा काश्रौ १६, २, २९, आमिष्ट-
ध्रियत्- -यति कप्र २, ७, २

ध्रियमाण,णा- णम् आश्रौ २, २,
१, -णान् माश्रौ २, ५, २, ९;
-णायाम् पाष्ट २, १४, ११, -णे
आश्रौ ३, १२, २१, काश्रौ, -णेषु
बौश्रौ २७, ६: २२.

धृञ्, ऊञ् पाधा भ्वा. पर गतो
धृष्ट^o- -रु अप ४८, ११५[†]

धृष् पाधा स्वा पर. प्रागल्भ्ये, लुरा-
उभ प्रसहने, ण्धर्ष > वा^p
आपश्रौ ७, १३, ८; बौश्रौ;
४, ५: १८, भाश्रौ ७, १०, ८;
वाश्रौ १, ६, ४, १५, वैश्रौ १०,
१० ११; हिश्रौ ४, ३, १९,
शुप्रा ३, १२९, तैप्रा ३, ८
धृष्णोति निसू २, २: ५

धृष्- पा, पावा ३, २, ५९.

धृष्टाचि^m- -चिः शाश्रौ १२, २०,
२, ऋप्रा ९, ३८, -चिम् आश्रौ
३, ८, १.

a) धैर्यं इति पाठ. ² यनि. शोध [तु जीस]। b) पाभे वैप १, ११५६ १ इ। c) = [प्रणवस्य] प्रचयाख्यस्वर-। d) = वायु-विशेष-। अपु २१९, ३० ऋतम् इति। e) व्यप। बस। f) विप.। बस > कस. > षस। g) विप। बस। h) = नगरी-विशेष-। धार्तराष्ट्री- इति [पक्षे] पागम। i) = सर्प-विशेष-। j) विप. (सत्र-। तस्येदमीय अण् प्र.। k) = वृत्ति-विशेष-। l) = ऋच्-। m) वैप १ इ। n) भाप, चाप. (छन्दो-विशेष- [ऋअ अअ प्रमृ], होम-विशेष- [काश्रौ आपश्रौ प्रमृ], षोडशमातृकाऽन्यतमा- [कप्र])। o) अर्थः व्यु च ?। p) पाभे. वैप १, १०३८ k इ.।

धर्वित- पा १, २, १९
 धर्वितवत्- पा १, २, १९, -वान्
 सु २७, १
 ऋषत्- -षत् आश्रौ ६, ४, १०,
 ८, १२, ६, वैताश्रौ १६, १४,
 -षता आश्रौ ६, ४, १०, शाश्रौ
 १४, ४९, ३, माश्रौ ५, १, २, १७
 धृषद्-वर्ण- -र्णम् बौश्रौ ३, ९:
 ९, बौगृ १, ४, ११
 ऋषाण- -णम् शाश्रौ १८, ३, २०
 ऋषित- -तम् शाश्रौ १८, ३, २०
 धृषु- पाउ १, २३
 धृष्ट- पा ७, २, १९, -ष्टम् द्राश्रौ ५,
 २, ७, लाश्रौ २, ६, ३, निसू १,
 ११ १५
 धृष्टि, ष्टी- -ऋष्टिः शाश्रौ ८, २४, ३,
 काश्रौ २, ४, २५, आपश्रौ १,
 १२, १×४, बौश्रौ, -ष्टिभ्याम्
 काश्रौ २६, ३, ९, -ष्टिम् आपश्रौ
 १, ६, ११, बौश्रौ, -ष्टी काश्रौ
 २६, २, १६, ७, २८, आपश्रौ,
 -ष्टीभ्याम् बौश्रौ ९, ६-७ १३,
 १४-१५, -ष्टे बौश्रौ २०, ८
 १, १२, २६, ५ ९, -ष्टया वैश्रौ
 २, ३ ६
 धृष्टि-धवित्र- -त्राणि वाधूश्रौ
 ३, १००. ६
 धृष्णञ्- पावा ३, २, १७२
 ऋषण्य- पा ३, २, १४०, ङ्, -ण्व
 या १२, ७, -ण्वे तैत्रा ४,
 ५४, -ण्यु वागृ ५, ९, -ण्युः
 आमिगृ ३, ५, ७ २५, बौपि
 १, ७ : २; -ण्युम् अप २ : २१,

-ण्यु बौश्रौ १५, २४ : ५,
 -०ण्यो या ८, ३
 ऋषण्यया^१ आपश्रौ १७, ८, ७,
 वैश्रौ १९, ५ ५२, शुप्रा ५, २०
 ✓धृ पाधा क्रया पर वयोहानौ
 ✓धे^१ पाधा +वा पर पाने, धयते
 वाधूश्रौ ४, ११८ ६, अप
 ७०^१, ३, १, १२, १, ऋषयतिआश्रौ
 ६, ७, २, आपश्रौ, आमिगृ २, १,
 ४ १७^०, धयन्ति बौश्रौ २९,
 १० ११, या ९, २७^१, ऋषयतु
 आपम २, १३, २^०, मागृ १,
 २५ १०, हिगृ २, ४, ३,
 ऋषय आपश्रौ १६, १२, ११,
 १७, २३, १०, बौश्रौ, अघयत्
 कौसू ११३, २^१, धयीत आपश्रौ
 १५, २०, १५, भाश्रौ ११, २१,
 १६, धयेत् लाश्रौ ८, ३, १०,
 आमिगृ, धयीरन् वैश्रौ २०, २ :
 १६, धयेयु. आपश्रौ ९, १, २३,
 बौश्रौ
 धय- पा ३, १, १३७
 धयत्- -ऋयत्.^१ आमिगृ १, ५,
 ३ १, हिगृ १, १९, ७, जैगृ
 १, २० २६, -यति कौसू ९३,
 २०, -ऋयन् आश्रौ ८, १३, २;
 आपश्रौ, -यन्तम् बौश्रौ ९,
 ९ : ९, आपमं १, ४, १०^१,
 कागृ २८, ४^१, बौगृ २, १,
 ११^१, मागृ १, १४ : ९^१,
 वैध ३, २, १५.
 धयन्ती- -न्तीम् पागृ २,
 ७, १४, बौध २, ३, ३८, गौध

९, २४, -न्याम् कौसू ९३, २.
 धयद्-व(त >)ती^१- तीष्ठ
 आपश्रौ १४, १८, ५^१, बौश्रौ
 १४, २५ : १८, हिश्रौ १५, ५, ८.
 ऋधातेव बौश्रौ ९, ९ : ११, बौगृ
 २, १, १०, शुप्रा ४, ६४^१
 धातुम् वाधूश्रौ ४, ११८ ५
 ३धा(त्र >)त्री^१- -त्री अप ७, १,
 १०
 २धान^१- -ने आश्रौ ३, १०, ३०.
 धारु^१- पा ३, २, १५९
 २धी(त >)ता- -तानाम् वैश्रौ
 २०, ३ २, अप्राय ४, १, -ताम्
 बौश्रौ २७, १३ २, वैश्रौ २०,
 ३ १, -तासु काश्रौसं ३२ :
 ७, ८
 धीता(ता-अ)न्या- -न्याम् वैश्रौ
 २०, २ : १६
 ✓धेक् पाधा लुरा उभ दर्शने
 धिनवत्सते वाश्रौ ३, ४, २, ११.
 ऋधेना^१- पाउ ३, ११९, -ना
 आपश्रौ ११, ३, १४, बौश्रौ,
 या ६, १७^१, -नाः आपश्रौ
 १७, १८, १, बौश्रौ १०, ३३ :
 २५, हिश्रौ ११, ७, ५५, -नावै
 वागृ १३, १, -ने या ६, १७.
 धेनु^१- पाउ ३, ३४, पाग ४, १, ८६;
 १०४^१, -ऋनव आश्रौ ४, ७, ४;
 ५, १, ११, शाश्रौ, या १४, १५
 -नवे काश्रौ २६, ६, २४, -नु
 जैश्रौ २३ : १०, जैश्रौका ५६
 द्राश्रौ २, २, २९, लाश्रौ १
 ६, २७, वैगृ २, २. ५^१

a) वैप १ द्र. । b) पामे वैप १, १७४० द्र. । c) पामे वैप १, १७४० १ द्र. । d) या ११,
 ४२ पा २, ४, ७८, ३, १, ४९ पावा १, ३, ९६ परामृष्ट द्र. । e) सपा. धयति < > धयतु इति पामे । f) पामे.
 वैप २, ३६. धयत् मत्रा १, १, १२ टि. द्र. । g) = ऋक्- । h) = उप-मात्- । i) = पान- । j) पुं स्त्री.
 न च ब्राम् । k) व्यप. । l) = साम-विशेष- । m) धेनुम् (ऋ १, ९१, २०) इत्यरयान्याङ्गरलोप. (तु
 पाम ६, १, ९) ।

-तु ऋश्रौ १,७,७^{३३}, ४,१५,
२××, शाश्रौ, बौश्रौ ३,२९ :
११^२क^३, जैश्रौ २ २०क^३,
जैश्रौका १५क^३, आमिगृ २,६,६ :
२९क^३, हिगृ १, १३, १२क^३,
जैगृ १,१९ : ४३क^३, ऋगो^३ १,
३३, २, १२, कौसू ११४, १,
हिघ १,८,३०क^३, निघ १,११^०,
क्या १०,१६, ११,२९ ४२क^३,
-नुम् आश्रौ २,१९, २२क^३××,
कशाश्रौ ३,१६,४, ६, १०, ३,
८,१८,१^०, २०, १^{२०}, १०, ७,
७, काश्रौ २६,५,२^{१६}, आपश्रौ,
क्या ६, २९, ११, ४३, -नुम्
-नुम् गो २, ११क^३, -नुषु बौश्रौ
२०, १ ४१, -नू बौश्रौ १५,
२८:१७,१८^२, द्राश्रौ २,२,२९,
लाश्रौ १, ६, २७, -नू काश्रौ
१५,७,३३, आपश्रौ, लाश्रौ ३,
६,१^{१६}, -नूनाम् काश्रौसं २९
२१, बौश्रौ, -नो शाश्रौ १५,३,
७क^३, आपघ १, १७, २४, हिघ
१,५,५६, -नौ कौसू ९३,२१,
-न्वा काश्रौसं २७ १३, भाश्रौ
१०,१७,७, हिश्रौ ७,२,६७क^३,
-न्वा: काश्रौसं ३६: ६, -न्वै
बौश्रौ २,७: ९
धैनव- पा ४,१,८६, १०४
धैनुक- पा ४,२,४७
धेनु-करण- षेन बौश्रौ २५, ३० :

१४.
धेनु-(क>)का^३- ऋका^३ आपमं १,
१३,३, कौगृ १,१२,६, शागृ १,
१९, १३, हिगृ १, २५, १^{११},
-के आश्रौ १२,६, ३०, शाश्रौ
धेनु-त्व- -त्वम् अप ९,२,६
धेनु-दक्षि(णा>)ण^३- ण काश्रौ
२२,१, ३, -णम् आपश्रौ ५,
२२,८
धेनु-भ(व्य>)व्या^३- -व्या^३ बौश्रौ
१७,४४: १३, आपमं
धेनु-म(त>)ती- ती आश्रौ ३,
८,१, आपश्रौ
धेनु-भ(व्य>)व्या^३- पावा ६, ३,
७०
धेनु-रोम-सं(ख्या>)ख्य^३-
-ख्यानि विघ ९२,८
धेनु-वत् मीसू १०,३,५९, ६५
धेनु-वर- -रम् बौश्रौ ४,११ २९,
७,४ २२
धेनुवर-प्रदान- -नात् आमिगृ १,
७,३ ३९,२,२,१.१०××, बौगृ.
धेनु-शत- -तम् काश्रौ २२,१०,१,
बौश्रौ, -तस्य काश्रौसं २९ २०
धेनु-ष्ट(<स्तर>)री^३- -रीम्
माश्रौ ५,२,१०,२२
धेनुष्या- पा ४,४,८९, पाग ५,
२,३६
धेनुष्यित- पा ५,२,३६
धेनु-सहस्र- -स्रेषु विघ २०, ४७

धेनु(नु-अ)नुडुत्-सीर-धान्य-पत्य-
दासमिथुन-महानसा (स-आ)
रोहण-विमित-शयन- -नानि
काश्रौ २२,२,२७
धेनु(नु-अ) नडुत्-स्त्री-प्रजनन-
सयुक्त^३- -क्ते गौघ १३,२९
धेनु(नु-अ)नडुह^०- -डुहो आपश्रौ
५,२२,५, आपघ
धेनु(नु-अ)नडुह^०- पा ५, ४, ७७;
-हयो काश्रौ ७,२,२०, -हौ वाघ
१४,४५,४६, गौघ १७,२८.
धेनु(नु-आ)दि- -दीनि कौसू ६२,
१९, ६४, २६
धेनुजि- (>धैनुज्य- पा) पाग ४,
१,१५१
✓धेपू^३ पाघा भ्वा आत्म गतौ.
धैय- ✓घा इ
धैर्य- प्रसृ ✓धी>धीर- द्र
धैवत^३- -त माशि १, ८, १२, १४;
२, २, याशि १, ९, नाशि;
-तम् नाशि १,४,२, ५,४××;
-तस्य नाशि १, ४, ७, -तौ
माशि १,१०, नाशि १,२,१२.
धैवत-त्व- -त्वम् नाशि १,५, १८.
धैवत-सहित- -त नाशि १,४,५.
धैवत्य- ✓धी>धीवन्- द्र.
धैवर^३- (>शर्याणि- पा) पाग ४,
१,१५४
धोक्ष्यमाणा- ✓^३दुष् द्र.
✓घोइ पाघा भ्वा पर गतिचातुर्ये.

a) पाभे वैप १, १७४२ p द्र.। b) सपा धेनु: ह्यया<>धेनु: भव्या<>धेनुभव्या इति पाभे.।
c) =वान्-। d) पाभे. वैप १,१७४२ ० द्र.। e) पाभे वैप १, १७४२ m द्र.। f) =साम-विशेष-।
पाठ (तु. अमिस्वामी [लाश्रौ १,६,२७])? ँनु इति शोध (तु. जैश्रौ. लाश्रौ)। g) धेनु इति पाठ. ? यनि शोध:
(तु. भाष्यम् सप्र द्राश्रौ ९,२,१ च)। h) वैप १ द्र.। i) पाभे. वैप १, १७४ ३] द्र.। j) ँनुगा इति पाठ: ई
यनि शोध (तु शौ ३,२३,४ कौगृ)। k) विप.। बस.। l) =धेनु-भव्या-। m) विप.। षस.>बस.।
n) विप.। द्रप >नुस (तु Buh, वैतु भाष्यम् स्त्रीप्रजनन- =कन्याविवाह- इति)। o) द्रस वैकल्पिक समासान्त:
p) तु. BPG। q) =संगीतस्वरविशेष-। व्यु. ? <✓घा इति नाशि १, ५, १८, <धी-वत्-इति अभा.।
अ. (पा ५, ४, ७७)। r) तु. पागम.।

धौकरीय- धूकर- द्र
 धौत- द्रष्टु √धाव् (छुडौ) द्र
 धौमक- २धूम- द्र.
 धौमतायन^{a,b}- (>°यनक- पा)
 पाग ४,२,८०
 धौमायन- ३धूम- द्र.
 धौमीय- १धूम- द्र
 धौम्य- ३धूम- द्र
 धौम्रायण- २धूम- द्र
 धौरेय- धुर- द्र
 धौर्त- , धौर्तक- √धूर्व द्र.
 धौर्तय- धार्तय- टि द्र.
 धौर्त्य- √धूर्व द्र
 धौवकि- धुवक,का- द्र
 √ध्मा, ध्मात्- √धुम् द्र
 ?ध्यार्यमाणम्^c काश्रौस ३६ १५
 ध्यामन्- पाठ ४,१५१
 √ध्यै^d पाधा भ्वा पर चिन्तायाम्,
 ध्यायति आपश्रौ १, १६, ४,
 ९x४, बौश्रौ, ध्यायत वैश्रौ
 १५, २९ ५, ध्यायन्ते शाश्रौ
 १०, २१, १४, ध्यायन्ति
 आपश्रौ ७, २८, ८१, वाधुश्रौ,
 ध्यायन्तु जैश्रु १, १५ २१,
 ध्यायस्व अप १३, ३, ३, ध्याय
 काश्रौ ४, ५, १७१, अध्यायत्
 वाधुश्रौ ४, ३० १७, ध्यायेत्
 आश्रौ ५, १८, ३, काश्रौ, या
 ८, २२१
 ध्यायीत वैश्रौ १७, ६ : ३,
 ध्यायात् आश्रौ २, ३, १९, शाश्रौ
 अध्यायि या ६, २२
 ध्यात- , ध्यातवत्- पा ८, २, ५७

ध्यात्व- पाठवृ ४, १०५
 ध्यात्वा आपश्रौ २१, १२, १०,
 माश्रौ
 ध्यान- पाग २, १, ४००, -नम्
 वैश्रौ २०, १ : ६, अप, या ५,
 १, १२, ३३, -नानि माश्रौ ५,
 २, ११, २३, -नेन वैध १, ११,
 १३.
 ध्यान-गुह्य- -ह्यम् विध १७,
 ११.
 ध्यान-निरत- -तस्य विध १७,
 ६
 ध्यान-युक्त- -क्तः कागृउ ४२
 २.
 ध्यान-योग- -गेन विध १, ३२,
 वैध २, ८, ७
 ध्यानयोग-रत- -तस्य
 आम्रिगृ ३, १०, ४ ३५
 ध्यानयोगिन्- -गी वैध ३,
 ५, १२, ७, १३
 ध्यान-वत्- -वन्त या ४, १०
 ध्यान-शील- -ल शंघ २००
 ध्याना(न-त्र)भि- -भि वाघ
 ३०, ८
 ध्यायत्- -यन् आश्रौ ५, १४, २४
 शाश्रौ
 ध्यायिन्^e- -यिन अप ४०, ५, ३,
 -यिनाम् वाघ २६, १२.
 ध्येय- -यम् वैध १, १०, ९
 √ध्र (गतौ), ध्रति निघ २, १४१
 √ध्रज् , ध्राज्^f पाधा भ्वा पर
 गतौ, ध्रजति निघ २, १४१.
 ध्रजि^g- पाग ८, २, ९, -जिम्

हिश्रौ ११, ७, ५९, -फज्यै^h
 आपश्रौ ७, २५, ५, बौश्रौ ४,
 ९ १८
 ध्रजि-मत्- पा ८, २, ९
 ध्राजिⁱ- पाठभौ २, १, १६६,
 -फजि वैश्रौ ४, ६ ८, हिश्रौ
 १, ५, ४१, या १२, २७६,
 -फजिम् आपश्रौ १६, २७, ९,
 बौश्रौ १०, ३४ ५, वैश्रौ १८,
 १९ १२, कौस् ३६, २५
 √ध्रज् पाधा भ्वा पर गतौ
 √ध्रण्, ध्रन्^j पाधा. भ्वा पर शब्दे.
 √ध्रस् पाधा क्रया तुरा. पर उञ्जे.
 √ध्रा, ध्राति निघ २, १४१.
 ध्राक्षा^k- (>°क्षा मत्- पा) पाग ८,
 २, ९
 √ध्राच् पाधा. भ्वा आत्म सामर्थ्ये.
 √ध्राङ्क्ष पाधा भ्वा पर काङ्-
 क्षायाम् घोरवासिते च
 √ध्राङ् पाधा भ्वा आत्म. विशरणे.
 ध्राडि- पाठ ४, ११८.
 ?ध्रापाग^l चात्र ३ ७
 √ध्रि, ध्रयति निघ २, १४१
 ध्रियत्- , ध्रियमाण- √ध्र द्र
 √ध्रु पाधा. भ्वा पर स्वैर्ये, तुदा^m
 पर. गतिस्वैर्ययोः, ध्रुवति निघ
 २, १४१
 ध्रुव,वाⁿ- पाठवृ २, ६१; पाग
 ४, ३, ११८, ५, ४, ३०, -०व
 आपश्रौ १४, २७, ६१;
 वैश्रौ, मागृ २, १६४१;
 विघ १, ५७, -वः आश्रौ,
 ६, ९, ३१, ७, ३, ७, काश्रौ

a) अर्थ. व्यु च?। b) <धौमति-(<धूमत-) इति पागम, <धौमत- इति MW, = ?धौमायन-
 इति EPW.। c) पाठ ? ध्यार्यमाणम् इति शोधः [तु सप्र आपश्रौ १५, १०, १२]। d) पावा ३, २, १७८ परामृष्ट. द्र.।
 e) तु. पागम। f) णिनिः प्र. उसं (पा ३, १, १३४)। g) वैध १ द्र। h) सपा. मा ६, १८ का ६, ४, २
 मै १, २, १७ काठ ३, ७ क २, १४ ध्राज्यै इति पाभे। i) तु BPG। j) पाठः ? प्राक्, अपाक् इति शोधः
 (तु. सप्र. मै १, ३, ४)। k) = √ध्रुव् इति [पञ्चे] भाण्डा प्रष्ट.।

३, ०, १९××, ८, ४, १९^१,
 आपश्रौ, माश्रौ २, २, २, ३३^१,
 ३, ८, ४^१, बौषि १, १५ ६६^१,
 अत्राय ६, ३^१, विध ८, ३८,
 ऋअ २, १०, १७३^d, शुअ २,
 ८७^d, -वम् काश्रौ २, ४, २६^१,
 ९, ६, २१, १०, ७, ६^१,^१,
 ऋआपश्रौ १, २२, २, ११, ८,
 १^१, ५^१, १२, १६, ८^१, वैश्रौ
 १४, ६ ६^१, हिश्रौ ७, ५,
 १७^१, लाश्रौ ३, ३, ६^१, सु
 १८, ६, आगृ १, ७, २२^१,
 पागृ १, ८, १९^१, ऋमागृ १,
 १४, ९^१, १०^१, कप्र १, ६, ३,
 १०, १२, शंघ ११६ ४३^१,
 ५२^b, ६३^१, या ११, ७^१,
 ऋप्रा ६, ३९^१, पा १, ४,
 २४, ६, २, १७७, -वया
 आपश्रौ ३, १३, २, बौश्रौ,
 -वस्य आपश्रौ १३, १५, १५,
 २२, २७, ६, काठश्रौ, कौगृ १,
 १०, ११^१, -वा ऋश्रौ २,
 ३, २५, ४, १२, २^१, ऋशाश्रौ
 ४, ८, ३^m, ११, १, ऋकाश्रौ २,
 ८, १९^m, ३, ३, १२××,
 आपश्रौ, माश्रौ ३, ६, १३^१,
 माश्रौ १, २, ६, ३०^१, आपम
 १, ८, ९^१, कौगृ १, १०, १३^१,
 शागृ १, १७, ३^१, पागृ १, ८,
 १९^१, बौघ ३, १, ५^१, २, ७^१,^१,

-वा आश्रौ ७, १, ७,
 ऋआपश्रौ १, २, ९, १४, २७,
 ७^१, बौश्रौ, -वाणाम् आश्रौ
 १, १२, ३, बौश्रौ ७, ७ २०^१,
 गोगृ २, १, १२, -वाणि आश्रौ ४,
 १५, ७, हिगृ, -वात् काश्रौ ९,
 ५, १५, आपश्रौ, -ऋवान् आपश्रौ
 ३, १३, ६, माश्रौ, -वाभ्याम्
 कौस् ४३, ११, १३६, ७, -वाम्
 शाश्रौ ४, ११, १, १४, २०,
 काश्रौ, -ऋवाय आपश्रौ १३, १४,
 ११, १४, १, ७, बौश्रौ, -वायाः
 काश्रौ १, ८, ३९, ३, ३, ९××,
 आपश्रौ, -वायाम् आश्रौ २,
 ६, १०, काश्रौ, माश्रौ १२, ३,
 ७^१, अगृ ३६, १, १०^१, बौघ
 ३, २, ४^१, -वायै बौश्रौ २०,
 २४ : ३८, २४, ३३ : २१,
 अअ १२, ३^१, -वास मागृ
 १, १४, १०^१, -वासु वृदे ६,
 १५^१, -वे ऋश्रौ १२, ७ :
 २३, ४३××, माश्रौ, -ऋवे
 कौस् ८१, ७, अशा २, ५,
 अअ १८, ४, -वेण काश्रौ
 १०, ७, ६^१, आपश्रौ, अगृ ५२,
 १०, ४^१, -वेभिः या १४, २७^१,
 -वेषु जैगृ २, ५ २०, -ऋवो
 माश्रौ ४, ६, ४
 ऋव^१ -व. शुअ १, ४६७,
 -वम् शाश्रौ ५, ८, २, काश्रौ,

-वस्य माश्रौ १, ३, २, ७××;
 वाश्रौ १, १, १, ३३, वैताश्रौ
 १३, ४, -वात् आपश्रौ १०,
 २१, १२××, मीस् १०, ८, ४७.
 ऋव(व-आ)ज्य-
 -ज्यम् वैश्रौ १२, २२ १३;
 -ज्येन बौश्रौ २०, १५ १.
 ऋवक- पा ४, ३, ११८.
 १ऋव्य^१ -व्ये शाश्रौ २,
 १६, १ -
 ऋव्यकाम- -म- कौस्
 ५२, १३
 ऋव्य-गति-प्रत्यवसाना-
 (न-अ)र्थ- -व्येभ्यः पा ३, ४,
 ७६
 २ऋव्य^१ -व्ये अअ ६, ८८.
 १ध्रुव-क- पा ५, ४, ३.
 ऋध्रुव-करण^१ -णाय वैघ २,
 ६, ३
 ध्रुव-कर्मन्- -मेषु अशा १, ३;
 -माणि आज्यो ५, २.
 ध्रुव-कुमार- -राय जैगृ १,
 ५ : ६.
 ध्रुव-क्षित^१ -क्षित^१ आपश्रौ ७,
 ५, ६, बौश्रौ
 ऋध्रुव-क्षिति^१ -तये बौगृ २,
 ८, ९, भागृ ३, १२ १६, -तिः
 काश्रौ १७, ८, १५, आपश्रौ;
 माश्रौ १, ७, ३, ३४^१, -तिम्
 आपश्रौ १२, १६, ८.

a) पांमे. वैप १, १७४५ f द्र । b) पांमे. वैप १, १७४५ g द्र । c) द्वि सपा. मै ४, ६, ६^१
 ध्रुव [सं१] इति पांमे. । d) = ऋषि-विशेष- । e) पांमे. वैप १, १७४५ l द्र. । f) = नक्षत्र-विशेष- । g) व्यप. ।
 h) = मरुद्-विशेष- । i) = वसु-विशेष- । j) = पारिभाषिक-संज्ञा- । k) सप्र ध्रुवस्य दर्शनात् <> ध्रुवदर्श-
 नात् इति पांमे । l) पांमे. वैप १, १७४५ p द्र. । m) पांमे. वैप १, १०४३ f द्र. । n) ध्रु° इति पाठः ?
 यनि. शोष । o) पांमे. वैप १, ७९७ a द्र । p) = वृत्ति-विशेष- । q) पांमे. वैप १, १७४६ f द्र. ।
 r) ऋवा. इति पाठ ? यनि. शोषः (तु. भाश्रौ २, ७, ३) । s) = अधोदिष्- । t) साऽस्य देवतीयस् तत्रमनीयश्च
 अयम् प्र । u) भाप । v) विप. (सूक्त-) । तेन दृष्टमित्यर्थे ङ्यण् प्र. उखं. (पा ४, २, ९) । w) उप. कर्त्वि-
 क्त । x) वैप १ द्र. । y) पांमे. वैप १, १७४६ l द्र. ।

ध्रुव-गोप^०- -प आपश्रौ १८,
७,९, बौश्रौ, बौगृ ३, १०, ६^०,
-पम् काश्रौ २,८,१^०
ध्रुव-ग्रहण- -णात् माश्रौ २,३,
४,२१
ध्रुव-चेष्टित-युक्ति- -क्तिषु
पावा १,४,५१.
†ध्रुव-तम- -मः बौश्रौ ७, ७
२०
†ध्रुव-तस् (:) आपमं १,९, ६,
बौगृ
†ध्रुव-ता- -ताम् आपमं १,
९,७, आग्निगृ
ध्रुव-दर्शन- -नात् शागृ १,
१७,२^०, कप्र २,१०,१५
ध्रुवदर्शना(न-अ)न्त^०-
-न्तम् वैगृ ३,४ : १४
†ध्रुव-प(ति>)ली^०- -ली मागृ
१,१४,१०, वागृ १५,२१
†ध्रुव-योनि^१- -नि बौश्रौ १०,
३८ ६, माश्रौ
ध्रुव-वत्- वङ्गि- बौश्रौ ११,
१३-१०, १७,२ ५, -वङ्गय.
बौश्रौ ११,१३ : ९,१७,२ : ५
ध्रुव-शिष्ट^६- -ष्टे ऋप्रा ६, ४५.
ध्रुव-शील^०- -ल. गौघ ३,१३
ध्रुव-शेष- -षात् वैश्रौ १२,८ :
१^५
†ध्रुव-सद्^१- -सदम् काश्रौ
१४,२,१, शुअ १,५५४
ध्रुव-साध(क>)की^१- -कि
अशां ४,४.

ध्रुव-सूक्त- -केन वैश्रौ २१,१४ :
१६
ध्रुव-स्थ- -स्थान् अअ ३,२६.
ध्रुव-स्थान- -नात् वैश्रौ १६,
१९ ८
ध्रुवस्थानो(न-उ) पसादिन्-
-दिनाम् अशा ६,६
ध्रुव-स्थाली- -ली बौश्रौ २५,
१३ १४, -लीम् काश्रौ २,२,
१८, आपश्रौ, -ल्याः वैश्रौ १५,
१८ : १, हिश्रौ २,५,१२.
ध्रुव-करण- -णम् वाश्रौ १,१,
२,२४.
ध्रुवा(वा-आ)ज्य^१- -ज्यम् बौश्रौ
६, १२ ४, १८ : ३३××,
-ज्यात् बौश्रौ १,१५ : ७××.
ध्रुवा-तस् (:) बौश्रौ २७,२ १७
ध्रुवा(वा-आ)दि^०क- -दीनि
वाश्रौ १,३,४, २७, ७,५,१६
ध्रुवा(व-अ)न्त^०- -न्ता बौश्रौ
२२,२१ २, २३,१३ २
ध्रुवा-प्रभृति- -तिभि माश्रौ ६,
१,२,८
ध्रुवा(वा-अ)थं- -थं काश्रौ ८,
२,२८
ध्रुवा(व-अ)वनयन- -नम् आश्रौ
५,२०,७
ध्रुवा-वर्जम् आपश्रौ ७, २७, ८,
हिपि ५ : १२.
ध्रुवा-शेष- -षात् हिश्रौ ७, १,
४१^५, २,१५, ३,६९.
ध्रुवा(व-अ)श्व^१-कल्प- -ल्पम्

मागृ २, ६,१.
ध्रुवा-समजन- -नात् भाश्रौ ७,
११,२,३
ध्रुवासमजन-प्रभृति- -तीनि-
हिश्रौ ४,३,२६
ध्रुवायमजना(न-आ)दि-
-दि आपश्रौ ७,१४,३
ध्रुवा(वा-आ)सादन- -नात् बौश्रौ
३,२४ : १२.
ध्रुवी✓कृ,ध्रुवीकरोति या२,१८.
ध्रुवै(व-ऐ)द्राग्न-वैश्वदेव-
-वानाम् आपश्रौ २२,२७, १७;
हिश्रौ २३,४,३९

✓ध्रुव ✓ध्रु टि द्र
ध्रुव-, ध्रुवक- ✓ध्रु द्र
२ध्रुवक, का^m- पाउभो २, २, १०;
पाग ४, २, ८०, ५, २, १००^m;
पावाग ७,३,४५^०.
ध्रुवकिन्- पा ४,२,८०
ध्रुवकिल- पा ५,२,१००
ध्रुव-करण- प्रभृ ✓ध्रु द्र.
३ध्रुव(क>)का^p- (> ध्रौवकि-
पा) पाग ४, १,९६.
ध्रुव-क्षित्- प्रभृ ✓ध्रु द्र
?ध्रुवद्रक्षाम् अप ४८,११५
ध्रुवन^१- -नानि कौस् ८६,१६
ध्रुवपत्नी- प्रभृ. ✓ध्रु द्र
✓ध्रोक्रे पाधा +वा आत्म शब्दोत्सा-
हयोः
✓ध्रै पाधा +वा पर. तृती
ध्रौव-, ध्रौवक- ✓ध्रु द्र
ध्रौवकि- ३ध्रुवका- द्र

a) = ध्रुवग्रह-रज्जक-। b) = सर्प-विशेष-। c) उप पाभ वेति कर्कविद्याधरौ। d) पाभे.
पृ १३६३ k द्र। e) विप। बस। f) वैप १ द्र। g) पूप. = पारिभाषिक-सज्ञा। h) सपा 'वशे' <>
'वाभे' इति पाभे.। i) विप.(उत्तराषाढा-). उप ष्वुन् प्र उस (पावा ३, १, १४५)। j) कस (तु
सा. [तै. पृ ३२२] ध्रौवम् आज्यम् इति)। k) पूप. [तात्स्थ्यात्] हविस्-। l) = कर्म-विशेष-विधि-। बस.> षस
श) अर्थः व्यु. च ?। n) का- इति पाका.। o) तु. पाका.। p) व्यप.। व्यु. ?। q) अर्थः व्यु. च ?।
= स्याथा इति पंजा (तु. केशव. [कौस् ८४, १०])।

१-२ध्रौव्य- प्रभृ ✓ध्रु द्र

✓ध्वस्^a ध्वस् पाधा भ्वा आत्म.

गत्यवसंसनयो, ध्वंसते अप ४८,

५, आपध, ध्वसति निघ २,

१४[†], ध्वंसन्ति आपध २,२४,

९, हिध २,५,१७४

ध्वसयति वैश्रौ ४,७ ८, ध्वंस-

येयु माश्रौ ५,१,८,११

ध्वंस->ध्वंस-कला^b- (>ला-

✓कृ पा) पाग १,४,६१

ध्वंसन-ने अप ४८,३७, या २,९

ध्वंसयत्- यन् आपश्रौ ९,६,११,

बौश्रौ

ध्वसनि^c- नौ या २,९[†]कृध्वस्मन्^d->†स्मन्-वत्^e- वत्

अप ४८,७५, निघ १,१२

ध्वंसस्^d-सस आपर्म १,१७,४[†]ध्वंसि^f-सय शाश्रौ १४,८२,२ध्वंसि-स्तोम-माः शाश्रौ १४,
८२,१

✓ध्वज् पाधा भ्वा पर गतौ

ध्वज^g- पाग २, ४, ३१, ४,

१, ४५, ५, ३, १००, -ज

अप १, ३९, ३, अशा ९,३,

-जम् आपश्रौ २०, १६, ३,

बौश्रौ, -जाः अप ७१, १९, ५,

-जे अप ७०^h, २७, १०, ३२,

१५, ७२, २, ६, काध २७६ : ६

ध्वजी- पा ४, १, ४५

ध्वज-तोरण- -णै अप ५५, ५, २

ध्वज-भूषित- -तेषु विध ९९, १०

ध्वज-विश्राविन्^h- -वी वैध ३, १२,
१०ध्वज-वे(दि >)दी- -दीभि अप
५५, ५, २

ध्वज-स्तम्भे(म्भ-इ)न्द्रकील-

-लानाम् अप ६४, ४, १

ध्वजा(ज-आ)कारⁱ- -रम् आम्रिष्ट
२, ५, १ २०ध्वजा(ज-आ)कृति^j- -ति वैध ४,
१३ : ९

ध्वजा(ज-अ)पहारिन्- -री शंघ ३७८

ध्वजा(ज-अ)भिलपन- -नम् अप
७२, ३, ७ध्वजवत्^k- (> १ध्वजवतायनि-
पा) पाग ४, १, १५४^kध्वजवद्^l- (> ध्वजवदायनि-
पा) पाग ४, १, १५४ध्वजि^m- (> ०जि-मत्- पा) पाग
८, २, ९

✓ध्वज् पाधा भ्वा पर गतौ

✓ध्वण् पाधा भ्वा पर शब्दे

✓ध्वन्^m(बधा) पाधा भ्वा चुरा
पर शब्दे, ध्वनति अप ४८, ४[†],
ध्वनेत् निसू ७, ११ : १२.अध्वानयत् ऋप्रा ९, ५०[†],
ध्वनयीत् ऋप्रा १४, ४३[†].ध्वनिⁿ- पाठ ४, १४०, -निः आशि
८, १, -नौ आशि ८, २ : १३ध्वान^o- -नः तैप्रा २३, ७[†], -नेनआपश्रौ ३, ८, ८, बौश्रौ, वाश्रौ
१, ३, ७, ३[†], हिश्रौ २, ५, ६;
२१, २, ६७१[†]ध्वान्त- -न्तम् आपश्रौ ६, २२,
१, या ४, ३[†], बौश्रौ १८, १७ :२०[†], आपर्म २, २१, १७[†],
पाग ३, १४, ६[†], -[†]न्ता[†]वाश्रौ ३, १, २, १, काग २६, २,
माग १, १३, ४, वाग १५, १;
-न्तात् शाश्रौ १४, ४९, ३२[†]ध्वान्त[†]- पा ७, २, १८, -न्तः
बौश्रौ ९, १८ : ४ध्वन^k- (> ध्वानायन- पा) पाग
४, १, ११०ध्वस्^l- -जे निसू ९, ९ ९[†]ध्वाक्षा^m- पा, पाग ४, ३, १६५✓ध्वाङ्क्ष् पाधा भ्वा पर काङ्-
क्षाय घोरवासिते चध्वाङ्क्षⁿ- -इक्ष अप्राय २, ६,
-इक्षेण पा २, १, ४२ध्वाङ्क्षा(ङ्क्ष-आ)रोहण- -णे काश्रौ
२५, ६, ६ध्वाङ्क्षा(ङ्क्ष-अ)वमुष्ट- -ष्टस्य
बौश्रौ १४, ९ : १६.

ध्वाङ्क्षा- ध्वाङ्क्षा- टि द्र

ध्वजवत्- (२ध्वजवतायनि-)

ध्वजवत्- टि द्र

ध्वजि- पाठभो २, १, १६६.

✓ध्रु^o पाधा भ्वा पर. हूर्च्छने, ध्वरति^p
अप ४८, १९, निघ २, १९.

a) पा ७, ४, ८४ परामृष्ट द्र । b) = हिंसा- (तु पागम) । c) वैप १ द्र । d) = अङ्ग-
विशेष- । e) पाभे. वैप १ भंसस ऋ १०, १६३, ४ टि द्र । f) = कालभेद-विशेष-मुहूर्तशताशभाग- इति
MW । व्यु ? । g) = पताका- । व्यु ? । < ✓ध्वज् इति अभा, धू- + ✓अज् इति MW ? । h) उप.
अर्थः ? । i) विप । बस । j) तु. पागम., ध्वजवत्- इति पाका, पागम. (पक्षे) । वाजवत्- इति भाण्डा,
वाजवत्- इति पासि । k) व्यप । व्यु ? । l) = ध्वज- । m) पा ३, १, ५१ परामृष्ट द्र । n) भाप.
= पारिभाषिक-संज्ञा- [तैप्रा] । o) ध्वानः इति पाठ. ? यनि. शोध (तु आपश्रौ) । p) वैप १, १७४७
द्र । q) पाभे वैप १, १७४७ टि द्र । r) वैप १ निर्दिष्टयो. समावेशः द्र. । s) वैप
१, १७४८ । द्र. । t) ध्वाङ्क्षा- इति पाका. । u) या १, ८ परामृष्ट द्र । v) हिंसायाम् ।

फध्वारिषु आपधौ १४, ३०, ४,
वैश्रौ २१, १६: ६, हिश्रौ १५,
७, १९^{१२}
ध्वर्य- पा ३, १, १२३

न

नू^० पि १, ८

१न^०, > ना शाश्रौ १, १, ८, १×२, ९, ५,
२^०फ^०, काश्रौ, भाश्रौ ३, ६, ७^०फ^०,
आपम १, ४, ७^०फ^०, १३, ९^०, आगृ
१, १३, ६^०फ^०, शागृ १, २४, ४^०फ^०,
४, १२, ११^०फ^०, पागृ १, ५, ११^०फ^०,
१७, २^०फ^०, वैगृ ६४ ६^०फ^०, आमिगृ
१, ५, २ ५१^०फ^०, वागृ ३, १^०फ^०,
हिगृ १, १९, ७^०फ^०, आपध १, २०,
६^०फ^०, हिघ १, ६, २०^०फ^०, २, ४,
५०^०फ^०, ५१^०फ^०, या १, २, ४^०फ^०,
५^०, ६^०फ^०, १०, ११^०फ^०, १८^०फ^०, १३,
१२, पा १, १, ४४, पाग १, १,
३७, ४, ५७, पावा १, १, ४४^१
फनकि^० साअ १, १७^०फ^०, २०३^०
नकिम् पाग १, ४, ५७
फनकिस्^०(ः) आश्रौ ६, ४, १०^०××,
शाश्रौ १८, १३, २^०, ऋअ २,
४, ३०^०.
नकीम्^० निघ ३, १२^०फ^०, पाग १, ४,
५७
न-गोह- -ह्यः वृदे ८, १२७
न(नो)चेत् पाग १, ४, ५७

न-तद्रूप- -प वाधुश्रौ ४, ७५.
२३, ३५

ननु^० आपधौ २१, २०, ३, वौश्रौ
१६, २७ २४, ××, वाश्रौ, या
१, ४, ५^०, पा ८, १, ४३

न-नु- -न्वो पा ३, २, १२१.

न-पुरीष^०- -षम् आग्निगृ २, ६, ८
३

न-रिष्येम^०- > म-पूर्व- -र्वम्
शुप्रा २, २३.

न-वल्मीक^०- -कम् आमिगृ २, ६,
८ ३

न-शर्करा-मिश्र^०- -श्रम् आग्निगृ
२, ६, ८ : ४

न-शाङ्गल-मिश्र^०- -श्रम् आग्निगृ
२, ६, ८ : ४

न-सत्त- पा ८, २, ६१.

न-सिक्त^०- -क्तम् आग्निगृ २, ६, ८:
३.

नहि^० हिश्रौ ६, ६, १६^०फ^०, सु २०, ३,
४, २२, १; फया ३, ३, ४, २७,
ऋप्रा

न-ह- -ह. पाशि २४

ना(न-अ)ङ्-क्षत्र-धर्म-संसर्ग-त्रि-
पूर्(र्व>)र्वा^०- -र्वा पावा ४, २,
६०^०

ना(न-अ)ति-कूर-सृदु- -दुना
विघ १२, ४

ना(न-अ)ति-तीक्ष्ण- -क्षणेन माशि

४, ४.

फूना(न-अ)ति-नीच- -चैः माशि
४, ४

ना(न-अ)ति-बृहन्मुखी- -खी कप्र
२, ५, १२

ना(न-अ)त्युच्च^०- -चैः माशि ४, ४.

ना(न-अ)न्तर- > ऋयक- पागम
१५५.

ना(न-आ)सन-योग-विहित^०-
-ते हिघ १, २, ४९^२

ना(न-अ)स्ति-> नास्तिक- पा ४,
४, ६०, पाग ५, १, १२४, १२८;

-कः वैगृ ५, १५ १९, वाघ;
-काय बौध १, ५, ८१, -केभ्यः

विघ ९, ३१
नास्तिक-ता- विघ ३७, ३१.

नास्तिक-वृत्ति^०- -त्ति- वाघ
१, २३, २१, ३०, शंघ ४०३;
विघ ५४, १५

नास्तिक्य- पा ५, १, १२४;
१२८, -क्यात् वाघ २१, २९.

नो^० निस् २, १०४, ३, १२०४४, बौध;
या १, ६^०फ^०, पाग १, ४, ५७^०.

नोहि पाग १, ४, ५७^०.

नो(न-ऊ)षर^०- -रम् आमिगृ
२, ६, ८ ३

रन^० > ना आश्रौ १, २, ६××; ७,
११, ८^०फ^०, १४^०फ^०, १७^०फ^०, शाश्रौ;
या १, ४^०फ^०, ७, ३१^०फ^०.

a) अध्वरिषु इति पाठः^१ यनि शोध [तु आपधौ.]। b) =नगण-। c) =नञ्। d) सङ्ख्य
सपा. शौ २, ५, १ इह इति पाठे.। e) पाठे पृ ४१२ I द्र। f) पाठे. वैप १ परि अघम् खि २, ११, १
टि. द्र.। g) पृ ४४६ III द्र.। h) पाठे पृ ८१ b द्र.। i) पाठे पृ १२ a द्र.। j) पाठे पृ १२६०
c द्र.। k) पाठे पृ १५७ c द्र.। l) पाठे. पृ १५७ b द्र.। m) वैप १ द्र.। n) पाठे वैप १, १७५८
d द्र.। o) पाठे वैप १, १७५८ c द्र.। p) तस। सस्थ सृदम् टि द्र.। q) <न रिष्येम (मा ३४,
४१)। r) विप.। वस।। s) वस >द्रस.। t) पृ १३४० द्र.। u) तु पाका.। अनङ्गक्षत्रधर्मत्रि^० इति
साण्डा.। v) पृ ९६ अत्युच्च->चै इति नेष्टम्। w) पृ १५७ c द्र.। x) सप्र. आपध १, ६, २६ अनासन^०
इति पाठे.। y) एकतरत्र नौ इति [पक्षे] भाण्डा.। z) तु पागम.। a^१) निषेधतरेषूपमाद्यर्थेषु नि. द्र.
(तु. वैप १)। b^१) संप्रत्यर्थे नि. द्र.।

न^१- नः ऋत ३, ६, २, ४, २, ३, ५, ६, ७, शौच, नात् ऋत ४, ५, ३, भाशि २२
 न-कार-र वृदे २, ९२, ऋप्रा, -रम् ऋप्रा ५, ४०, -रस्य ऋप्रा ४, ८०, १०, २०, १५, १२, उस्, -रे शुप्रा ३, १०७, शैशि, नाशि २, ३, ४^b, -रेण शैशि ७१, याशि २, ८९, ९०, नाशि २, ४, ५
 नकार-पर-रे शुप्रा ४, १८७
 नकार-प्रतिषेध- -घः पावा १, १, ४७, ८, २, ७२
 नकार-मकार- -रयो शौच १, ६७
 नकार-लोपा(प-अ)भाव- -वस्य पावा ३, १, ४४
 नकारलोपाभावा (व-अ)र्थ- -र्थम् पावा ३, १, ४४.
 नकार-लोपो(प-रु)ष्म-र- भाव^c- -वम् ऋप्रा ११, ३६.
 नकार-श्रवण- -णम् शैशि २९८, ३००
 नकार-हकार-लोपा(प-अ)र्थ- -र्थम् पावा ७, २, २०
 नकारा(र-अ)ङ्ग-स्वर^d- -रम् शैशि २२४
 नकारा(र-अ)दि^e- -दिः अप्रा ३, २, ३३
 नकारा(र-अ)न्त^f- -न्तम् शैशि ८२, ३१८, माशि ४, १०, याशि २, ७६, -न्तस्य पावा ६, २, १९७, ४, १४४, -न्तात् शैशि ३०७, -न्तानि अप्रा २, ४, १६,

१८, -न्ते माशि १०, ७, १३, १०, याशि २, ४१^g, ४२, नाशि २, ४, ५, ६, पावा ६, २, १९७
 नकारान्त-ग्रहण - -णम् पावा ६, ४, १३३
 नकारान्ता (न्त-अ)र्थ- -र्थम् पावा ६, १, १७०
 नकारा(र-अ)बाध- -धे अप्रा २, ४, १६, १८^h
 नकारा(र-अ)भाव- -वः पावा ६, १, १००
 नकारा(र-अ)वग्रह- -हे अप्रा २, ३, २५
 नकारो(र-उ)पध-षकारⁱ- र शैशि २९९
 नकारो(र-उ)पध-हकार^j- -र शैशि २९७
 न-ट- -टाभ्याम् शैशि ९६
 न-त- -तयो शैशि ९७
 न-त्व- -त्वे पावा ८, २, ४८
 न-पर^k- -र तैप्रा ४, ३२, -रे पा ८, ३, २७
 न-म- -मौ शौच ३, ३७
 नम-पर^l- -रे ऋत ४, ४, १४
 ननयत्पर^m- -र. याशि २, ५७
 न-लोप- -पः पा ५, १, १२५, ६, ३, ७२, ८, २, २, ७, पावा १, १, ३९, २, ४, १७ⁿ, ७, १, ८९^o; -पस्य पावा ६, ४, १२०, -वे अप्रा २, ४, ७, शौच
 नलोप-प्रतिषेध- -घः पावा ८, २, ७
 नलोप-वचन- -नम् पावा ४, १, ७८, १५८, ७, २, २०

नलोपा(प-अ)भाव- -व पावा ६, १, ६७
 न-शब्द-प्रत्यय- -यः अप्रा २, ३, १६
 ना(न-अ)न्त^p- -न्तात् पा ५, २, ४९
 नो(न-उ)प(घा>)घ^q- -घात् पा १, २, २३.
 न^rनंश, नश(वधा), नशते अपापर्म २, ११, ६, नशत् आश्रौ ७, ४, ४; निघ २, १८
 नशीमहि वाश्रौ १, ५, ४, ३०^r; न^sमानट् आश्रौ २, २०, ४; ३, ८, १^s, शाश्रौ १३, ४, ३, निघ २, १८
 नंशुक- पाठ २, ३०
 नंष्ट्वा न^tनश् (अदर्शने) द्र
 न^uन आगात्^t वाश्रौ १, ३, २, १८^t.
 नक् पाग १, १, ३७.
 नकार- प्रसृ. न- द्र.
 न^vनका रेरेरिणाम् लाश्रौ ७, ८, २.
 नकि, नकिम् प्रसृ १ न द्र
 न^wनकुल^u- पा ६, ३, ७५, पाग ५, ३, १०७^v, -ल विध ४४, २०;
 सु २८, १, अप्रा ३, ४, ४^w, ८;
 -लम् पाग २, ७, ११, ऋप्रा १७, १४^x, -ला अप ७१, ३, ५, उनिस् ८ : १०^y
 नकुली- ली बौश्रौ १८, ४५ : ८, गोश्रु ३, ४, २८^z.
 न^{aa}नाकुल- पा ५, ३, १०७.
 नकुल-चेटक- -का अप ५७, २, ६
 नकुल-विडाला(ल-अ)पहरण- -णे शध ३२२.

a) = वर्यो-विशेष-। b) ऋषु इति लासं.। c) षस > द्रस. > षस। d) षस > मलो कस। e) विप। बस.। f) बस. > कस। g) < न युत् पुरः (मा २०, ८२)। h) तु पाका.। i) तु. पासि.। j) वैप १ द्र.। k) पाठः² अनागस-> -गाः इति शोधः (तु. सप्र हिश्रौ ६, ३, १७)। l) ल्हा इति पाका.। m) = तद्वर्यो-वत्-। n) = छन्दो-जाति-।

१नकुल->

नकुल(ल-अ)हि-विहाला (ल-आ)

खु-खुनाम शंघ ३७८

२नकुल^a-ल साअ १,४६४२नाकुल^b-ल ऋप्रा १७,४५,

-ले वृदे ८,१४

√नक्क् पाधा. चुरा पर नाशने

नक्त^c,का-कम् शाश्रौ ५,२०, ८,
 आपश्रौ, बौश्रौ ४४ ६, वैध
 ४,७,९^d, या ७, २७^१, पाग
 १,१,३७, -क्ता अप ४८,७४^१,
 वृदे ३,९, निघ १, ७^१, या ८,
 १०^३कृ

नक्त-चर- पाग १, १, ३७^०,
 -ऋभ्यः कौश्र ३,१०,१७, शागृ
 २,१४,१६, कागृ

नक्त-चारिन्-रिणः आग्निगृ २,
 १, ३ २१, भागृ, -रिणम्
 आपमं २,१४,१, -रिभ्यः आगृ
 १, २, ८; आग्निगृ १, ७, २.
 ११, भागृ २,१२, १८, -रीणि
 या २,१८५

नक्त-चारिणी^e-णी आग्निगृ
 २,१,३: २३, हिगृ २,३,७.

नक्त-जा(त>)ता^f-ता कौसू
 २६,२२; अत्र १,२३

नक्त-नीलोत्पल-कमल-पलाश-
 कोमल-लेषु अप ६५,१,४

नक्त-दिव-पा ५,४,७७

नक्त-भाग-नानि अप १,५,२, ६

नक्ता(क्त-आ)शिन-शी शंघ १५९:
 ११, विध ५०,४३, ९५,५.

नक्तो(क्ता-उ)षास्^g-नषासा काश्रौ

१६,५, ३, १८,४, २, आपश्रौ,
 वैश्रौ^h १८,८: १, १९, ६. ८६,
 ८७,१३०, -षासौ वृदे ३,८

नक्त^h-पा ६,३,७५, -क्रा अप ६२,
 ३,२

√नक्षⁱ,> इनक्ष पाधा +ना पर

गतौ [व्याप्तौ इति निघ, या]
 नक्षत् आपश्रौ २१, १२, ९,
 वाश्रौ ३,२,२, ३६, हिश्रौ १६,
 ५,३

नक्षते या ४, १८, नक्षति
 आश्रौ ४,७,४^j, शाश्रौ ५,१०,
 १८^१, निघ २,१४, १८, नक्षन्ते
 या १०, २१^१, नक्षसे वैश्रौ
 १८, ५ ८^१, नक्षन्त या ७,
 ३०^१

नक्षत्->वृ-दाभ^k-भम् निघ
 ४,३, या ६,३६.

नक्ष-पाउना ३,६५

नक्षत्र^l-पाउ ३,१०५, पा ६,३,७५,

-त्रम् शाश्रौ २, ५, ५, आपश्रौ,

आज्यो ७,११, २१, ११, ६,७,

-त्रस्य आपश्रौ १०,१२,३, अप.

-त्राणाम् शाश्रौ ४, १०, १^m,

१०,२१,१०, आपश्रौ, या ३,

२०, -त्राणि शाश्रौ १४,७८,२,

आपश्रौ, या ३,२०ⁿ, -त्रात् पा

८,३,१००, पावा ४,२, १०४,

-त्राय बौश्रौ २८, ४ २२,

गोय २,८,१२, बौध ३, ८, ९,

-त्रे शाश्रौ २,१,८x, आपश्रौ,

पा १,२, ६०, २,३,४५, -त्रेण

वाधुश्रौ ४, १४^१: ५, आगृ:

पा, पावा ४, २, ३, -त्रेभ्यः

आपश्रौ ६,८, १x, बौश्रौ, पा

४, ३, ३७, पावा ४, ३, ३४;

-त्रेषु शाश्रौ १०, २१, ११^२;

आपश्रौ, कौश्र १, १०, १२^३;

-त्रेषु^३ बौश्रौ १६, ८ ८;

-त्रैः कौसू १३५,९

नाक्षत्र^m-त्र द्राश्रौ ८,४,३;

५, लाश्रौ

नक्षत्रकल्पⁿ-ल्प चव्यू ४: ८;

-ल्पम् अप १,१,१

नक्षत्र-गण-गम् या ५,२१

नक्षत्र-ग्रह-चन्द्रमस्^o-मा अप

६३,३,१

नक्षत्र-ग्रहो(ह-उ)पसृष्ट->ष्ट-

भयात्-रोगगृहीत-तानाम् अशा

१७,१

नक्षत्र-चारिन्-रिणः अप ५२,

५,४.

नक्षत्र-ज-जम् वेज्यो ३५

नक्षत्र-जीविन्^p-विन विध ८२,

७

नक्षत्र-तारका-काणाम् अप ६३,

१, ७

नक्षत्र-दक्षिणा^q-णा अशां १२, ६;

-णाः अप १८^r, १९, ४, अशा

१३,५, -णाम् अप १,५०,१०.

नक्षत्र-दर्शन-नात् आश्रौ ८,१३,

२२, वाश्रौ

१नक्षत्र-देवता-ता वेज्यो ३५:

-तानाम् कागृ ४९,१, -ताभ्य

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु ?। b) विप । तेनप्रोक्तमित्यर्थे ऋण् प्र । c) वैप १ द्र । d) कथम् इति पाठः ? यनि शोध (तु. सप्र बौश्रौ) । e) तु पागम । f) सपा नक्तचा<> निक्षीथचा इति पामे । g) षसा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु आपश्रौ १६, १०, ११) । h) = जलचर-भेद-। व्यु- ? (तु. वैप १ नाक्-टि; वैतु पा प्रष्ट <१न+√कम्) । i) या ३, २० परासृष्टः द्र । j) पामे वैप १, १७६१ f द्र. । k) पामे वैप १, १२९८ d द्र. । l) पामे वृ ४६३ b द्र । m) विप. । तस्येदमीयः ऋण् प्र. । n) = ऋण-विशेष-। o) द्रस.>मलो कस । p) = ज्योतिर्विद्-। q) उप. = दक्षिणा-

आग्निगृ २, २, १-२-६, शंघ
१३२१, -ताम् मागृ १, १०,
९, २, २, १५.
२ नक्षत्र-देव(त>)ता^१- -ताभ्याम्
आग्निगृ २, २, १ ४, २ ३,
-ताम् आगृ २, ४, १२
नक्षत्र-देवते(ता-इ)ष्ट-नामन्^१-
-मान. वागृ ३, १
१ नक्षत्र-दैवत- -तम् जैगृ १, ९-५
२ नक्षत्र-दैवत^१- -तान् अप १, ४२,
५.
नक्षत्र-द्वन्द्व- -न्द्वे पा १, २, ६३
नक्षत्र-नदी-वृक्षा (क्ष-अ) मिधाना
(न-अ)सयु(क्त>)क्ता^१-
-ताम् आग्निगृ १, ६, १ : ३
नक्षत्र-नामन्- -म कौगृ १, १६, ८,
आग्निगृ २, १, ५ : ३३, आपगृ
नक्षत्रनामा(म-आ)दि- -दि
वैगृ १, ७ ८
नक्षत्र-नामधेय- -येन बौगृ २,
१, ५
नक्षत्र-ना(मन्>)मा^१- -मा
आगृ ३, १३
नक्षत्र-निर्देश- -शाः बौध २,
१, ४७.
नक्षत्र-पथ- -थम् बौश्रौ १०, ४६
१७, २०, अप ५२, १४, २,
-थेन वाधूश्रौ २, १९ : १
नक्षत्रपथ-चारिन्- -रिणाम्
आग्निगृ २, ५, १-४, जैगृ २,
९ : ३.
नक्षत्र-पात- -तस्य अप ५०, ९, ३.
नक्षत्र-प्रतिमा- -मा. अशां ५, ८.
नक्षत्र-प्रयोग- -नो बौश्रौ ५, १ : २.
नक्षत्र-प्रवचन- -नात् द्राश्रौ ९, ४,
२३, लाश्रौ ३, ८, १४.

नक्षत्र-भाग- -नो अप १, ६, ५५×
नक्षत्र-भोजन- -नम् आग्निगृ ३,
१२, १ : ८
नक्षत्र-मित-मास- -स निसू ५,
११ ६.
नक्षत्र-यज्ञ- -ज्ञेषु कागृ ४९, १
नक्षत्र-याग- -गाः अप १८^२, १९, ३
नक्षत्र-योग- -नाम् लाश्रौ ८, १, ५,
-नो पावा ३, १, २६, -गेषु
आज्यो १४, ७
नक्षत्र-योग-काल- -ज्ञ- -ज्ञ अप
१, ४२, २
नक्षत्र-राज- -ज अप १^२, १, ३
नक्षत्र-राजन्- -जानम् अअ ६,
१२८
नक्षत्र-वंश- -शस्य अप ५२, ६, ३
नक्षत्र-वर्ग- -गेषु आज्यो ७, ७
नक्षत्र-वेदितृ- -तार. अप १, ६, ८,
७, ९
नक्षत्र-आह- -हम् आग्निगृ ३, ३,
१ ३, १२, -हे आग्निगृ ३, ३,
२-१३.
नक्षत्र-सत्र- -त्रेण बौश्रौ २८, ४-
३०
नक्षत्र-समता- -ताम् अप १, ९, ३
नक्षत्र-संप (न्न>) न्ना- -न्नाम्
आज्यो ६, ७
नक्षत्र-सूचक^१- -कः काध २७९
५
नक्षत्र-स्तुति- -तिभिः अप १,
४२, ४
नक्षत्र-स्तोम^१- -माः शाश्रौ १४,
७८, १
नक्षत्र-स्नान- -नानाम् अप १, ४२,
१, -नानि अप १८^२, १९, ४.
नक्षत्रस्नान-कोविद- -दः अप

१, ४२, ६.
नक्षत्र-हविस्- -विषाम् बौश्रौ २८,
३ : १९, -वीषि अशा १२, १.
नक्षत्रहविर्-मध्य- -ध्ये बौश्रौ
२८, ३ १३
नक्षत्र-होम- -म अप १८^२, २, ९;
-मे वैगृ ६, ५ : १
नक्षत्रा(त्र-अ)ङ्ग-विद्या^१- -द्या
वाध १०, २१
नक्षत्रा(त्र-आ)देश-वृत्ति^१- -त्ति.
शंघ २०१.
नक्षत्रा(त्र-अ)न्त-गामि(न् >)नी-
-नी अप ६३, १, ९
नक्षत्रा(त्र-अ)र्ध-गत- -ते अप ६३,
२, ३
नक्षत्रा(त्र-आ)श्रय^१- -यम् मागृ १,
१८, २, गोगृ २, १०, २१, द्रागृ
२, ४, १२
नक्षत्रिय- पा ४, ४, १४१.
नक्षत्रे(त्र-इ)ष्टका^१- -का. आपश्रौ
१७, ६, ५, बौश्रौ, -कानाम्
बौश्रौ २२, ८ ३२, -काभिः
बौश्रौ १०, ४६ २३; १४,
३० : ८; -काम्यः बौश्रौ १७,
२४ : ८, २५ १०, २६ : १०;
-कासु आपश्रौ १७, ६, ११.
नक्षत्रे(त्र-इ)ष्टि^१- -ष्टयः आग्निगृ
१, २, १ : १४; बौगृ ३, १, २४;
-ष्टिम् वैध २, ५, ४; -ष्टीः
बौश्रौ २८, ३ : १
नक्षत्रो(त्र-उ)पद्रव- -वेषु अप ६४,
१, ३.
√नख्, न्ख पाधा. भ्वा. पर. गतौ,
नख्यति निघ २, १४१.
नख^१- पाठ ५, २३, पा ६, ३, ७५;
पाग २, ४, ३१, ४, १, ४५, ५६;

a) विप. । बस. । b) द्वस. > बस. । c) द्वस. > षस. > वृस. । d) ज्योतिर्विद्. । e) = याग-
विशेष. । f) = ज्योतिर्विद्या. । g) षस > बस. । h) वैप १ द्र । i) = इष्टि-विशेष. । j) लघुशास्त्रीयः पाठः ।
वैप४-द्वि-७७

२, ८०^a, ५, २, २४, ६, ३,
१०८^b, -खम् अप्रा ३,४,५[†],
-खस्य माशि ४, १०, -खाः
विघ १, २७, २२, ८१, ९६,
५८, -खात् आमिष्ट १,१,१
२५, भाग १, २ १५, हिष्ट
१, १, २३, -खान् माश्रौ १,
४,१,३x, लाश्रौ ९, २, २०,
वाघ २४, ५, -खानि शाश्रौ
१८, २४, २०, आपश्रौ, -खे ऋत
५, १, ९, -खेन आपश्रौ १,
११, ८, २, ३, ३, भाश्रौ, -खेभ्यः
आपम १, १७, ५; -खेषु आपश्रौ
१२, ४, १५, -खैः आपश्रौ १२,
४, १४, वाघ
नखी- पा ४, १, ४५.
नख-कृत्^c- कृत बौश्रौ १५, १३:
१५, १६ १
नख-ग्रह- -ह याशि १, ६१
नख-च्छेदन->^oन-वादन-स्फोटन-
-नानि हिघ २, ५, १०२^d
नख-जाह- पा ५, २, २४
नख-निकृन्तना(न-आ)दि- -दि
काश्रौ २५, १४, ३
नख-निर्भिन्न, आ- -न्नम् बौश्रौ १२,
५: २२, -न्नानाम् काश्रौ १५,
३, १४, -न्नयाम् बौश्रौ २६,
६: ६
नख-प्रच^e- पाग २, १, ७२.
नख-भस्मन्- स्मनाम् अप ७०,
६, १.
नख-मुख- -खात् पा ४, १, ५८.
नख-मुच- पावाग ३, २, ५

नख-पच- पा ३, २, ३४.
१नख-र- पा ४, २, ८०, पागम
४३१
नख-रज(L, अ, न>)नी^o- पा, पाग
४, ३, १६७
नख-रोम-व्यादेश- -शः या १४, ६.
नख-लोमन्- -मानि विघ ७१, ४४.
नखलोमा(म-अ)पाकरण- -गम्
हिघ २, १, ९८^f
नख-वादन- -नम् आपघ २, २०,
१५.
नख-विष्कर^g- -शान् शंघ ४२६.
नख-शोधन- -नम् शंघ ५३
नख-श्च्युत- -तम् वाघ १४, ३०
नखा(ख-अ)ग्र- -ग्रात् बौध ४, १,
२५, वाघ २५, ५
नखा(ख-अ)न्त- -न्तम् वैष्ट २, १३:
११
नखि- पाउवृ ४, १३९.
नखिन्- -खिनः वाश्रौ ३, ४, ३, २२,
-खिनाम् विघ ५, १८८
२नखर- पाउवृ ३, १३१, पाग २, ४,
३१, पावाग ५, २, १०३^b, -रः
काश्रौ १५, ३, १७^h
नाखर-पावा ५, २, १०३
नखररज(न>)नी- नखरजनी-
टि द्र
१नगⁱ- -गान् अप ६८, ३, ११,
-गानाम् अप ६४, ४, ६, -गेषु
अप १, २६, १[†]
नग-नाग-निभ- -भै अप ६४, १,
८.
२नग^j- पाउ ५, ६१, पा ६, ३, ७७,

पाग ४, २, ८०
१नग-र- पा ४, २, ८०, पावा ५, २,
१०७
नग-श्रेष्ठ^k- -ष्ठम् सु १३, ५.
२नगर^l- पाग ४, २, ९५^m, -रम्
बौश्रौ २४, १४: ५, भाश्रौ,
-राणि अप ६२, १, ७, -रात्
अप ६८, ५, २३, -रे अप ७०ⁿ,
६, ३, बौध, पा ६, १, १५५,
२, ८९, -रेषु कौसू १४१, ३९,
अप ५३, ५, २, वाघ १३, ११,
आपघ २, २६, ४^o
नगरी^p->^oर्या(री-आ)दि-
-दौ वैध ३, १५, ११.
नागर- पाग ५, १, १२८, -रः
अप ५१, २, २^q, -रम् अप ५१, २,
२^q, -रा. अप ५१, २, १,
-राणाम् अप ५१, ४, ३, -रान्
अप १९, १, १२, ५१, १, १,
-रैः वाघ १६, २०
नगर्य^r- पा ५, १, १२८
नागरक- पा ४, २, १२८
नागरेयक- पा ४, २, ९५
नगर-काक- पाग २, १, ४८.
नगर-ग्राम-याजक- -कस्य काघ
२७९: ४.
नगर-चतुष्पथ- -थे मागृ २, १४,
२८.
नगर-निवासिन्- -सिनाम् शंघ
२५५
नगर-प्रतिषेध- -ध पावा २, ४, ७.
नगर-प्रवेशन- -नानि आपघ १,
३२, २१, हिघ १, ८, ६३.

a) अर्थ १। b) तु पागम। c) = कर्मकृद्-विशेष-। d) सपा आपघ २, २०, १५, १६
विशिष्टः पाभे। e) तु पासि। = ओषधि-विशेष-। [पक्षे] पाका. नखररजनी- इति?। f) सप्र. आपघ २, ५, १६
लोमसंहरणम् इति पाभे। g) = प्राणिमृज्जाति-विशेष-। उस. उप < वि^hकृ कर्तारि कृत्। h) विप.
(असि-). i) वैप १ द्र। j) अर्थः व्यु. च?। k) पूष. = वृत्त-। l) नाप.। व्यु. ?। = १नगर-इति अभा.।
m) तु. पाका. पागम.। नगरी- इति भाषडा, पासि। n) सपा. हिघ २, ५, १९९ निगमेषु इति पाभे.।

नगर-मर्दिन्- (> नागरमर्दि- पा)
 पाग ४, १, ९६
 नगर-वायस- पाग २, १, ४८
 नगर-इवन्-पाग २, १, ४८^b
 नगरा (र-आ)धिपत्य- त्यम् विध
 ९२, ३१
 नगरा(र-अ)न्त- -न्ते पा ७, ३, २४
 न-गोह्य- १न द्र
 नग्न, ग्ना- पागम १५५^d, -ग्नः
 बौश्रौ १५, ३७ : २, वाधूश्रौ ३,
 ७० ६, ८, आगृ, -ग्नम् बौश्रौ
 ८, १४ २८, ४२××, हिश्रौ ९, ४,
 ३२, कप्र २, १०, १०, -ग्नया
 वाधूश्रौ ३, ७०, ६, ८, -ग्नान्
 वाधूश्रौ ३, ९० ३××, विध
 ८२, १, २७, -ग्नान् आगृ ३, ९,
 ६, कौय, गौध ९, ५०^e, -ग्नेन
 आपश्रौ १३, १५, ९
 नाग्न्य- -ग्न्यात् वाधूश्रौ ३,
 ९ : ९.
 नग्न-क- -कात् अप्रा ३, ४, १^f
 नग्निका- -का वैगृ ६, १२ : २^g,
 गोय ३, ४, ५, -काम् मागृ १,
 ७, ८, वैगृ.
 नग्न-कृत- > कृत्य वैश्रौ १६, १८ :
 १६, हिश्रौ ९, ४, ३२.
 नग्न-पाषण्ड-भूयिष्ठ- -ष्टा अप
 ७०^h, १६, ४.
 नग्न-प्रलम्ब- -बन्ध. कौसू १४, ६.
 नग्न-प्रतिच्छन्द- -न्द वैगृ ५, ६.
 २६
 नग्न-मुषित- पाग २, २, ३१
 नग्न-वक्त्र-ज- -ज माशि १२, ५.

नग्न-शुक्ल-कलीबा(व-अ)न्व-श्याव-
 दन्त-कुष्ठि-कुनखि-वर्जम् वाध ११,
 १९.
 नग्नहु- -हु आपश्रौ १९, ५, १०,
 बौश्रौ, -हुना आपश्रौ १९, ५, ११,
 हिश्रौ २३, १, ८, -हुम् बौश्रौ
 १७, ३१ : ३, -होः बौश्रौ १७,
 ३१ २०.
 नग्नहु-चूर्ण- -र्णानि काश्रौ १९, १,
 २०
 नग्नहु-त्रीहि यव-गोधूम-शष्प-
 -ष्पाणि माश्रौ ५, २, ४, २
 ?नघारि(ष >)षा- -षाम् अञ्ज
 ८, २^b
 नचि-केत- > नाचिकेत- पागम
 १५५, -त आपश्रौ १९, १३,
 १७××, बौश्रौ, -तम् आग्निगृ
 १, २, १ : १२, बौगृ ३, १, २३,
 -तस्य बौश्रौ १९, ६ . १
 न-चेत् १न द्र
 नञ्- पाग १, १, ३७, नञः अप्रा ३,
 ४, ४^k, पा ५, ४, ७१××, पावा,
 नञा पावा २, ४, ८१
 नञ्-कु-निपात- -तानाम् पावा ६,
 २, २
 नञ्-पूर्व- > ँ-अहणा (ण-आ)
 नर्थक्य- -क्यम् पावा ७, ३, ४७
 नञ्पूर्वा(र्वि-अ)ञ्चि- -ञ्चे वृदे
 ३, ९
 नञ्-वत्- पा, पावा ६, २, १७५
 नञ्-विशिष्ट- -ष्टे पावा २, १, ६०,
 -ष्टेन पा २, १, ६०.
 नञ्-समास- -सः, -सात् पावा

५, १, ११९, -से पावा २, २, ६;
 -सेषु पावा १, ४, १.
 नञ्-सु- -सुभ्याम् पा ६, २, १७२;
 पावा ६, २, १०८.
 नञ्-स्वर- -रः पावा ६, १, १५४.
 ✓नट् पाधा +वा पर वृत्तौ, पर चुरा.
 अवस्यन्दने, भाषार्थे १.
 रनट^m पाउ ४, १०४ⁿ, पा, पाग
 ५, ३, ९८^b, पाग ४, १, ४१; २,
 ४९^o
 नटी- पा ४, १, ४१
 नाटय- पा ४, ३, १२९
 नाटया(ट्य-आ)चार्य-
 ता- -ता बौध २, १, ४४
 न(टय)टया- पा ४, २, ४९.
 नाटक- -केषु नाशि २, ८, २९
 १न-ट- न- द्र
 नटमक-, *मस्तक- नाट- टि द्र.
 १नड- पाग ४, २, ४९^o; ५४^p, ८०^q;
 ९१, ५, २, १३५, ६, ३, ११६^r;
 -ड अपं ४ ३४, -डम् कौसू
 ६९, ७, ७१, ५; ८, अञ्ज १२,
 २; -डैः कागृ ४५, ८.
 नडकीय- पा ४, २, ९१.
 नड-भक्त- पा ४, २, ५४.
 नड-म (य >) वी- -यीम् कौसू
 ७१, ३.
 नड-वत्- पा ४, २, ८७
 नड-वल- पा ४, २, ८८.
 नड-स- पा ४, २, ८०
 नडा-गिरि- पा ६, ३, ११६.
 नडि(न >)नी- पा ५, २, १३५.
 नडिल- पा ४, २, ८०.

a) व्यप. । b) तु. पागम । c) वैप १ द्र. । d) <न+ग्ना->वस. । e) तु संस्कर्तुः
 टि. Buh. च । f) [कन्याया.] संज्ञा-विशेष- । g) विप । वस उप. =दन्त- । h) नञा इति पाठः ?
 यनि. शोषः (तु. मूको) । i) वैप ३ द्र. । j) = १न । k) नय इति पाठ ? यनि शोषः । l) वस > कस ।
 उप. = √अञ्च् । m) = नर्तक- । अञ् प्र. । n) < √नम् इति ? । o) नड- इति पाका, पागम. ।
 p) नाप । q) नड- इति पाका । r) नञ- इति [पक्षे] आखडा. । नल- इति पागम. ।

नड्या- पा ४, २, ४९.
 २नड- पाग ४, १, ९९, ११०
 नाडायन- पा ४, १, ९९, ११०,
 -ना बौश्रौ ३ १४
 नडकीय- प्रमृ १नड- द्र
 नडन्तिका^१- कायाम् विध ८५, १९
 १न-त- न-द्र.
 २, ३नत-, नति- √नम् द्र.
 न-तद्रूप- १न द्र.
 नत्त^२- (>नात्तायन- पा) पाग ४,
 १, ११०
 न-त्व- न- द्र.
 नत्वा √नम् द्र.
 √नद^३ पाधा. भ्वा पर अव्यक्ते शब्दे,
 नुरा. उभ भाषायाम्, नदति
 अप १, ३१, २, ४८, ९१^४, ७२,
 २, ३, निघ ३, १४^५, नदन्ते
 अप ६७, ६, ५, नदन्ति अप
 ७०^६, ११, २७, ७१, १४, ४,
 अनदत् > ता तैप्रा ३, १२^७
 नानदैताम् कौसु ९६, ३^८.
 नद^९- पाग ३, १, १३४, ४, २, ५४^९,
 ८०; -द ङअप ४८, १७^{१०},
 ११५^{११}, ङनिघ ३, १६^{१२}, ४, २,
 या ५, २^{१३}, -ङदम् शाश्रौ
 १८, १, १३, लाश्रौ, -दस्य
 शाश्रौ^{१४} १८, १, १४, १५, २१,
 वाश्रौ ३, ३, २, १२, बुदे १,
 ५३^{१५}, या ५, ०^{१६}, -देन शाश्रौ
 १८, १, १२^{१७}.
 ङनदी- पाग ४, २, ९७,
 -दसः^{१८} बौश्रौ १८, १८ : १६;
 आमिगृ २, ५; ११ : २७, -दी

आपश्रौ १४, २०, ४, बौश्रौ,
 या ४, १५, ११, २५, पा २, ४,
 ७, ऋत ४, ७, ५, -दी. भागृ
 २, १३ १४, हिगृ, या २,
 २४, -दीनाम् आश्रौ ३, ७,
 ६^१, बौश्रौ, कौगृ १३, १३,
 १५^२, ङया २, २६, ४,
 १७××, -दीभि ऋअ २, ३,
 ३३, या ११, ४९^३, पा २, १,
 २०, -ङदीभ्यः शागृ ४, १४,
 २, आमिगृ, -दीम् शाश्रौ १६,
 १८, १८, काश्रौ १३, ३, २६^४,
 आपश्रौ २१, २०, ३^५, बौश्रौ
 २९, १२ १७, हिश्रौ १६,
 ६, ४१^६, आगृ, या २, २४,
 ७, २०, १४, ३३, -दीषु बौश्रौ
 १५, १६ ८, आमिगृ, -द्य
 आपश्रौ १६, ६, ४^७, माश्रौ,
 या २, २४^८, २५, -द्य ३ शौच
 ३, ६५, -द्या आश्रौ ६, ६, ११,
 -द्याः वाश्रौ ३, २, ५, ४३^९,
 वैताश्रौ ३४, ९^{१०}, बौगृ, -द्याम्
 आमिगृ २, ६, ८ ५, वैगृ ४,
 १० : ११, अप, पा ४, २, ८५,
 -द्यै बौश्रौ १६, २३ : ५^{११},
 -द्योः वैताश्रौ ३६, २७^{१२}, -द्यौ
 बौश्रौ १८, ३९. १
 नादेय^{१३}- पा ४, २,
 ९७, -यम् विध ६४, १७; -याः
 बौश्रौ २४, ५ : २२, -यान्
 बौश्रौ १५, १६ : ८, अप्राय ५,
 ६, -यानि बौश्रौ २२, २०.
 ७^{१४}.

नादेयी- यी
 विध १, १४
 नाद्य^{१५}- पा ४, ४,
 १११, -ङद्यः आपश्रौ १६, ७,
 ४, वैश्रौ १८, ४ २१, हिश्रौ
 ११, २, २
 नदी-कक्ष-वन-दाह-शैलो
 (ल-उ)पभोग^{१६}- ग्ना. वाध
 १९, २६.
 नदी-कच्छ- च्छ या
 ४, १८
 नदी-गिरि-तटाक- केषु
 अप १, ४४, १.
 नदी-जल- ले विध
 ९०, २८
 नदी-तट- -टे अप २१
 ४, ३
 नदी-तटाक-कूप-
 -पानाम् वैगृ १, २ : २
 नदी-त(म>)मा- -०मे
 आश्रौ ७, ११, २२^{१७}.
 नदी-तर^{१८}- -रम् आपध
 १, ३२, २६, हिध १, ८, ६७,
 -राणाम् चाअ ३९. २^{१९}; -रे
 पावा १, १, २२^{२०}
 नदी-तीर- -रम् वैगृ ५,
 ३ : ४, -रे आमिगृ २, ५, ४.
 २, ६ : १××, हिपि, -रेषु
 आमिगृ ३, ४, ५ : ९
 नदी-तीर्थ-समुद्र- -द्रेषु
 बौपि ३, १०, ३
 नदी-तोय- -ये बुदे ४,
 २१

a) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। b) = नदी-विशेष-। व्यु। c) या ५, २ परामृष्ट द्र।
 d) धा. अर्चायां वृत्ति। e) वैप १ द्र.। f) १नड- टि द्र। g) स्तोत्र-नामन्-। h) = नदम् (ऋ ८,
 ६९, २) इति मन्त्रेण। i) वैप १, १२१९। द्र। j) सपा नदीनाम् <> नदीभ्य. इति पाभे.। k) सपा. नदीम्
 <> नद्याः <> नद्यै इति पाभे.। l) द्वस > षस। कक्ष- = शुष्क-नृणः, दाह- = श्मशान-।
 म) = नदी-तरण-। n) विप.। उस. उप. कर्तरि कृत्।

नदी-¹,दि²द्वीप- -पम्
हिश्रौ २४,६, १३, -पे आपश्रौ
१५, १६, २, ३, भाश्रौ.
नदी-नक्षत्र-चन्द्र-सूर्य-
ष्व-देव-दत्त-रक्षिता-वर्जम्
वागृ ३,३
नदी-नद- -दा' वाध ८,
१५
नदी-नामन्- -मानि
चाउ ३९ : ११, निघ १, १३,
या २, २४
नदी-ना (मन्>) मा^३-
-मा आपगृ ३, १३.
नदी-निर्देश- -श'
आपगृ १४, ६.
नदी-पति- -तिम् काश्रौ
१५, ४, ३०.
नदी-पर्वत-मर्यादा (दा-
अ)व्यवहि (त>)ता^४- -ताः
माश्रौ ५, २, १४, २३.
नदी-पौर्णमास्या (सी-आ)
ग्रहायणी- -णीभ्य पा ५, ४,
११०.
नदी-प्रस्रवण- -णेषु अप
४०, ४, ५
नदी-मानुषी- -षीभ्य
पा ४, १, ११३.
नदी-रजस्- -ज. कप्र १,
१०, १०.
नदी-रूप- -पाणि कौसू
७१, २२, कौगृ ८६, २५
नदी-वत् वृदे २, १३६^२,
या २, २३^२
नदी-वाक्य- -क्यम् ऋअ

२, ३, ३३.
नदी-शब्द-वह- -हा.
कप्र १, १०, ६.
नदी-शैल-वनस्पति-
-तीन् विघ १, १६
नदी-ष्ण- पा ८, ३, ८९.
नदी-सङ्गम-तोय- -येन
अप ६८, ३, १
नदी-स्तुति- -तिः ऋअ
२, ७, ५०, १०, ७५, या ७, ७.
नद्य (दी-अ)न्तर- -रे
काश्रौ २५, १४, २२, पागृ ३,
११, ११.
नद्या (दी-आ)दि- -दौ
कप्र १, १०, १, शंघ ११४
नद्य (दी-उ) दधि-कूप-
तडाग- -गेषु मागृ २, १०, ८
नद्व^५> ष्व-वर्जम् उनिसू २ :
११
नद-भक्त- -पा ४, २, ५४.
नद-र- पा ४, २, ८०
नदत्- -दन् वृदे ६, १२
नदन, ना^६- -नस्य या ५, २, -नाः
या २, २४.
नदनिमन्^७- -मा अप्रा ३, ४, ११
नदनु^८- पाउ ३, ५२, -^९नु अप
४८, १०५, निघ २, १७.
नदितुम् या ९, ३
नाद^६- -दः अप ४७, २, ६, ४८,
९७^{११}, निघ ३, १६^{११}, ऋप्रा,
-दात् ऋप्रा १३, ७, -दे अप
७२, १, ६; -देन माशि ४, ६
नाद-ता- -ताम् ऋप्रा १३, १.
नाद-ध्वनि-संसर्ग- -गात्

आशि ८, १३
नाद-वृद्धि-प (र>)रा^१- -रा
मीसू १, १, १७
नादा (द-अ)नुप्रदान^२- -ना
आशि ४, ४
नादिन्- -दिनः पाशि २४;
-दिना अप ४८, ११६
नादि^३- -दिः पागृ ३, १३, २
नादित- -ते अप २१, ४, २
नानद^४- -दम् जुसू २, १५ : २४,
३, ६ ११, द्राश्रौ, -दस्य
लाश्रौ ६, १०, १०.
नानानदत्- -दत् वौश्रौ १०, ४ :
१७, माश्रौ ६, १, १, ३७, वैश्रौ
१८, १०५१
नद्ध-, नद्धी- √नह् द.
ननन्द- पाउ २, ९८.
ननना^१- -ना अप ४८, ८६, १०२;
निघ १, ११, या ६, ६६.
ननानद^२- पाउ २, ९८, पाग
४, १, १०, १००, १०४;
-नन्दरि^३ आपमं १, ६, ६, कागृ
२५, ४७.
नानानद्- पा ४, १, १०४.
नानान्द्रायण- पा ४, १, १००
ननु, न-नु- १न द.
नन्तृ- √नम् द
√नन्द^४ पाधा भ्वा पर. समृद्धौ,
नन्दते अप ६२, ३, ४; नन्दति
अप ६९, २, ५, शंघ २८२,
नन्दन्ति आश्रौ ४, ४, ४, वाघ
११, ४२; नन्दाम आपमं २,
५, १५, आग्निगृ १, १, ४. १२,
भागृ १, ९ : १६; हिगृ १, ७, १०.

a) आपश्रौ. पाठ । b) विप । बस. । c) विप. । द्वस.> षस > तुस. । d) = नद्वं वः (ऋ ८, ६९, २) । e) = देश-विशेष- । f) वैप १ द्र । g) भावे घञ् प्र., यद्वा कर्तरि ण प्र उस्. (पावा ३, १, १४०) । h) स्तोत्र-नामन्- । i) विप. । षस > बस. । j) विप. । इञ् प्र. उस् (पाउ ४, १२५) । k) वैप , रेखं. द्र. । l) पाभे. वैप १, १७६५ p द्र. । m) पावा १, ३, १० परामृष्टः द्र. ।

नन्द- पाग ४, १, ४१^०.

नन्दा^०- नन्दा वैगृ ३, १९ :

१०, आज्यो ६, ८; -न्दाम्

आज्यो ६, ९, १२, -न्दायाम्

आज्यो ७, १, -न्दायै मागृ २,

१३, ६^०

१ नन्दी- पा ४, १, ४१, -न्दी

मागृ २, १३, ६^० नाशि १, २,

९^०, -न्दी मागृ १, ९, २९^०

नन्दय^१-> २ नन्दी- न्दी वैगृ

२, १ २^०

नान्दय-> नान्दी^०-> नान्दी-

कर- पा ३, २, २१

नान्दी-मुख^१- खम् वैगृ

२, १-१, ३x, -खा. वैश्रौ १,

४ ८, शागृ, -खात् शागृ ४, ४,

११, १३, -खे वैगृ ६, २ १०,

शंघ २१०, -खेभ्य आग्निगृ २,

३, २ : १, बौगृ ३, १२, ४, भागृ.

नान्दीमुख-वत् वैगृ

४, ३ : ७

नान्दी-श्राद्ध- -द्धः

आग्निगृ २, ३, २-१६^२, -द्धस्य

भागृ ३, १६ : १

नन्दन^१- पाग ३, १, १३४, ८, ४,

३९, -नम् अप ७०^३, ३, ५.

नन्दन्त- पाउ ३, १२७

नन्दयन्त- पाउ ३, १२८

नन्दयित्नु- पाउभो २, १, ८३.

नन्दि-> ०न्धा(न्दि-अ)रीहण-

सिन्धु-तक्षशिला(ला-आ)दि^१-

-दिषु पावा १, ३, १०.

नन्दि(न् >)नी- ०नि विघ

६७, ८.

न-पर- न-द्र

नपात्^१- पा ६, ३, ७५, -पात् माश्रौ

२, २, १, ४, अप, या ८, ५^०,

-०पात् अअ १, १३, -०पात्

जैश्रौ ९ : ८^१, -पात्सम् आपश्रौ

१७, ९, १, वैश्रौ

न-पात्^२- ०तार^१ आपश्रौ १२, ३,

२, हिश्रौ ८, १, ४१

नपुंसक^१- पा ६, ३, ७५, पाग २, ४,

३१^०, -क काश्रौ १५, १०, १८,

आग्निगृ २, ४, १२-६, शंघ

३७७ : २१, या १४, ६, -कम्

माश्रौ ५, २, १०, २६, वृदे, पा

१, २, ६९, २, २, २, -कस्य या

३, २१, पा ७, १, ७२, ७९,

-कात् शुपा ३, १३८, पा ५,

४, १०३, १०९; ७, १, १९,

२३, पावा ४, २, ५५, -कानाम्

निसृ १, ६ : २१, पावा ८, २, ८,

-के शुपा २, ३२; पा १, २, ४७,

३, ३, ११४, ६, २, १४, ९८,

१२३, पावा २, ३, ६७, ३, ३,

४४, ५६, ७, १, ८४

नपुंसक ग्रहण- -णम् पावा ७, १,

२३

नपुंसक-स्व- -स्वम् पावा ८, १,

१५, -स्वात् पावा ४, १, ९२.

नपुंसक-पशु- -शू आपश्रौ २२, ११,

१८, हिश्रौ १७, ५, १०.

नपुंसक-बहुवचन- -नानि अपरा २,

२, २१, -ने शौच १, ८४;

-नेन काश्रौसं ४ : १४.

नपुंसक-ह्रस्व-त्व- -त्वे पावा १, २,

४७.

नपुंसक-ह्रस्वा(स्व-अ)कृतसार्वधा-

तुक-नामिदीर्घ- -र्वेषु पावा १, २,

२८

नपुंसका(क-आ)देश- -शेभ्य पावा

७, १, २६

नपुंसकै(क ए)कवचन- -ने पावा २,

४, ३४

नपुंसको(क-उ)पसर्जन-ह्रस्वत्व-

त्वम् पावा १, १, ४७, ६, १, ७०.

न-पुषिष- १न द्र

न(ति >)सी^१- -प्यम् या ३, ४^०,

-प्यौ अप ४८, ६०^३

नप्तृ^१- पाउ २, ९५, पा ६, ४, ११;

न-प्ता आपश्रौ १०, ११, ५^३;

बौश्रौ, -सारम् बौश्रौ ४, १० :

१०^०, वृदे २, ५५, या ३, ४;

-नप्तु शश्रौ १६, ११, १५;

वृदे ५, १६३, -प्तुभि या १,

१६^०, -प्तृन् जैश्रौका ८६.

नफा- पाउभो २, २, २१८.

✓नभ्^० (बधा.) पाधा. भ्वा. दिवा.

क्रया पर हिंसायाम्, नभते निघ

२, १९^०, नभन्ताम् नया ५,

२३, १०, ५^०.

नभ(तु >)नू- न्वः^१ निघ १, १३^०.

नभस्^१- पाउ ४, २११, -भः काश्रौ

१७, ९, ५, आपश्रौ, द्राश्रौ ४, २,

३^०, लाश्रौ २, २, १२^०, अप

a) तु पागम ।

b) बप्रा द्र. । कर्तरि प्र. । तिथि-सज्ञा- (=प्रतिपद्, षष्ठी-, एकादशी-) ।

c) = देवी-विशेष- । d) = मूर्च्छना-विशेष- । e) = वाद्य-विशेष- । f) भावे व्यं प्र. उस्. (पा ५, १, १२४) ।

g) = वृद्धि- । वैप १ द्र. । वैतु पागम. < नान्द- इति ? ।

h) श्राद्ध-, पितृगण- । बस. ।

i) भाप., नाप । j) द्रस. > बस. । k) वैप १ द्र. । l) पाभे वैप २, ३ ख. तैत्रा ३, ७, ९, १ नपावारः

टि. द्र. । m) वैप २, ३ खं. द्र. । n) = वावापृथिवी- । o) पा १, ३, ९१, ३, १, ५५ परामृष्टः द्र. ६

p) पाभे. वैप १, १७६८ d द्र. ।

ऋ०, ७५^०, १०८, ऋनिघ १,
 ४^०, या २, १४^०, ऋप्रा ४, ६४,
 -भसः वैताश्रौ १४, १, ३१,
 ४^०, कौसू २१, ७^०, अप
 ६४, १, ९, माशि २, ७,
 -०^०भसः बौश्रौ ४, ११ २२,
 हिश्रौ १०, ५, ४९, -^०भसा
 आपश्रौ १३, २४, १९^०, बौश्रौ
 ४, ११ २२^०, वैश्रौ १६, २८:
 ७^०, हिश्रौ १०, ५, ४८^०, पागृ
 ३, ३, ५, आमिगृ ३, ५, ६ ० ८,
 बौपि १, ४ २४, -भसि
 कप्र १, ९, ३, अप ५१, २, ५,
 ५८^०, ४, ८, -^०भसी^० आपश्रौ
 १४, २८, ४, वैश्रौ २१, १५:
 १३, हिश्रौ १५, ७, १२, निघ
 ३, ३०, -^०भसे भाश्रौ ८,
 ९, ८, हिश्रौ ५, २, ५७, मागृ
 १, १०, ११; -भसि आपश्रौ
 २०, ११, १८, -भोभ्य^० आपश्रौ
 २०, ११, १८^०
 नाभस^० -स अप ७०^०,
 २, ३, -सैः अप ६३, २, १
 नभ-प्रभेदन^० -न ऋअ २,
 १०, ११२
 नभस^० - पाउ ३, ११७
 नभस-तल- -लम् अप ६८, १,
 ३२, -लात् अप ५८^०, १, ५,
 ९, ४, १०.
 ऋनभस्य^० -स्यः काश्रौ १७
 ९, ५, आपश्रौ; -स्या शाश्रौ
 ८, २३, १, -स्याय बौश्रौ ७,

१६: १७, भाश्रौ ८, ९, ८,
 हिश्रौ ५, २, ५७
 नभस-वत् पावा १, ४, १८
 ऋनभस-वत् -वान् शाश्रौ ६,
 १२, ८^०, आपश्रौ ११, १४,
 १०^०, १७, २०, ११, बौश्रौ ६,
 २९ १८^०, १०, ५४ १७,
 माश्रौ ६, २, ५, ३४, वाश्रौ २,
 २, ४, २०, वैश्रौ १४, १३ ४^०,
 हिश्रौ १०, ३, ४२^०, १२, ६, २०,
 शुप्रा ३, १५०
 नभस्वती^० -तीभिः अप्राय
 २, ५.
 नभो(भस्-अं)श- -शा अप
 ५२, १४, २
 नभो-मध्य- -ध्यम् अप ५८^०,
 ४, १३
 न(भस् >)भो-रूप^० - > ०प-
 सरूप- -पौ सु २३, ५
 शनभ^० -भस् शंघ ११६: ५१^०,
 -भाय बौश्रौ ७, १६ १४^०
 नभ-पति^० -ति अप ६७, ७, ४
 रनभ^० - पाग ५, १, २
 नभ-भाव- -वे पावा ५, १, २.
 नभ्य^० - पा ५, १, २, -भ्यम् हिगृ
 १, २३, १^०; -भ्यात् पावा ५,
 १, २, -भ्ये लाश्रौ ८, ५, ६,
 -भ्येषु कौगृ ३, ९, ९, शागृ ४,
 ७, ८
 नभ्य-स्थ- -स्थम् पागृ ३, ९, ७,
 -स्थयोः शाश्रौ ५, १३, ८,
 बौश्रौ ६, २५ ६, -स्थे काश्रौ

८, ४, ५; आपश्रौ.
 नभनू^०, नभस- प्रसृ. √नम् द्र
 नभाक^० - पाउट्ट ४, १५, पाग ४, १,
 ११२, -के वृदे ३, १२८.
 शनाभाक^० - पा ४, १, ११२, -कः
 ऋअ २, ८, ३९, वृदे ३, ५६,
 या १०, ५, -कस्य या १०,
 ५^०
 रनाभाक^० - कान् आश्रौ ७, २,
 १६.
 ?नभिहिते^० अप्राय ५, ६^०.
 ?नभो-गुल्म अप ७०^०, ११, ९
 नभ-> ०आ-गिरि- पा) पाग ६, ३,
 ११६^०
 न-आजू^० - पा ६, ३, ७५, -०आट्^०
 माश्रौ २, १, ४, ११
 √नम्^० पाधा +वा पर. प्रहृत्वे शब्दे
 व, नमति आपश्रौ ७, ८, ५, १३,
 ४, ८x४, १४, ३, ६^०, भाश्रौ,
 नमन्ते या ४, १५, नमन्ति ऋप्रा
 ५, ४०, नमामि ऋअ ३, १,
 ऋनमन्ताम् काश्रौ २, १, ३, या
 ८, २२; नमध्वम् ऋप्रा ८, ४^०,
 अनमत् वाधुश्रौ ४, ६४^० ३;
 ४, नमेत् अप १९^०, ३, ३; याशि
 १, ६२.
 ऋनसन्ते निघ ४, १; या ४,
 १५^०.
 नभ्यते^० ऋप्रा ५, २०.
 नभ्येत् आपश्रु १९, १०, हिश्रु
 ६, ३०.
 ऋनभ्यध्वम् काश्रौ २३, ३, १,

a) = उदक्-। b) पाभे. वैप १, १७६८ ८ द्र । c) = यावापृथिवी-। d) विप. । तत्रभवीयः
 अण् प्र । e) = ऋषि-विशेष-। उस. । f) वैप १ द्र । g) पाभे. वैप १, १७६८ ८ द्र । h) = ऋच्-।
 इ) = सर्प-विशेष-। j) बप्रा. । व्यु. ? । k) = वायु-। l) = श्रावणमास-। m) पूष. = नभस्-। n) तेन-
 दृष्टीय- अण् प्र. (पा ४, २, ७) । o) पाठः ? नहि ते (शौ ६, ४९, १) इति शोध संभाव्येत । p) शनभ- टि. द्र. ।
 q) पाभे. वैप १, १७६९ । द्र. । r) या ५, २३, ६, ६ पा ३, १, ८९; ७, २, ७३ परामृष्टः द्र । s) सपा हिश्रौ
 ९, ७, ३४ सैनमति इति पाभे. । t) मूर्धन्यभावमापयत इत्यर्थः ।

आपश्रौ २२, १९, १, हिश्रौ
१७, ७, १०^२।
 ऋनमनत आश्रौ ७, ११, ४०,
 ८, १, ४; ऋनमनसु^b आश्रौ
 ५, १, १४, आपश्रौ, ऋनमनसु^b
 शाश्रौ ६, ७, ९, काश्रौ ९, ३, १२
 रनत-तम् या ११, ९, १४, ३१,
 -तानि या १०, २६, १४, १९
 ऋनत-कर्मन्-मीणा अप १, ४१,
 ३, अशा ११, ३
 नत-भू- -भुवम् विध १, २३
 नता(त-अ)नत^d(> नातान-
 तिक- पा) पागम ३४५
 रनत^e-तम् ऋप्रा ११, ४, -ते ऋप्रा
 ४, ३६, ५, ५८, १०, ३, -तेन
 ऋप्रा ११, ५१
 नतो(त-उ)पाचरित-क्रम-स्वर-
 -रान् ऋप्रा १, ६२
 नति^f-ति. ऋप्रा ५, २, ६, १,
 १०, २०; शुप्रा १, ४२, -तिम्
 ऋप्रा ११, ३७, -तिषु ऋप्रा १,
 ६६; -ते. ऋप्रा ११, ४.
 नत्वा जैश्रौका ४
 नन्तु^g-न्ता ऋप्रा १, ६६, -न्तु
 ऋप्रा ५, ५५
 नमत-पाउ ३, ११०
 नमति->ति-कर्मन्-मी या ७,
 १७.
 नमस्^h-पाग १, १, ३७, ४, ७४,
 ३, १, २७, -मः आश्रौ १, २, १^३,
 ४, ९^३, शाश्रौ; आपमं २, १७,
 २७^३क^३, आगृ २, ३, ३^३क^३, पागृ
 २, १४, ५^३क^३, अप ४०, ३,

३^३, ऋनिघ २, ७^३, २०^३,
 या ३, २०^३क^३, १४, ३६^३,
 -मःऽ-म आपश्रौ ४, १२,
 १०, माश्रौ, -मस. ऋप्रा ४,
 ४९क^३, पावा ३, १, १९, -मसा
 आश्रौ ३, ८, १, ४, ७, ४, ८, १०, १,
 शाश्रौ, आपश्रौ १६, ३५, ५^३क^३, या
 ४, १९क^३, -मोभि ऋप्राश्रौ २,
 १३, २, ३, ८, १×४, शाश्रौ,
 आपश्रौ १४, १७, १^३क^३
 ऋनम-उक्तिⁱ-क्तिभि ऋप्रा २,
 १३, -क्तिम्^m बौश्रौ ६, ३०
 २८, ८, ५ : १४
 नमउक्ति-म(त>)ती-त्या
 माश्रौ ३, ५, १७क^३
 नमस्/कृ पा १, ४, ७४;
 नमस्करेत् अप ५, ५, १
 नमस्करोति माश्रौ १, १, २, ३४,
 २, १, ४, ४१×४, वैताश्रौ,
 नमस्कुर्वन्ति माश्रौ १, ७, ४, ४२,
 वैताश्रौ १८, ११, वैध १, ११,
 ९, नमस्करोमि आग्निगृ २,
 ४, १२ : ३, नमस्कुयांत् बौध
 २, ६, ४, वैध ३, ६, २.
 नमस्-कार- -र. बौगृ ३,
 १२, ६, हिपि, -रम् आगृ १,
 १, ४, आग्निगृ, -रा बौश्रौ २५,
 ३० १६, शुअ २, २६२,
 -रान् काश्रौ ५, ९, २०, आपश्रौ,
 -रेण आगृ १, ४क^३, -रै आपश्रौ
 २०, १, १७, बौश्रौ
 नमस्कारा(र-अ)न्त^o-
 -न्तम् आग्निगृ २, ५, ६ : २३

नमस्कारो(र-उ)क्ति-
 -क्ति. शुअ ४, १२९
 नमस्-कार्य- -०र्थ अप १३,
 ३, १२.
 ऋनमस्-कृत- -ता. शागृ
 ६, ६, १६, -तौ अशा ९, ४,
 अप १, ३९, ४
 ऋनमस्-कृतिⁱ- -त्या बौश्रौ
 ७, १० ६, वैश्रौ १५, २३ : ६;
 हिश्रौ ८, ५, ३०, ३२
 नमस्-कृत्य वैताश्रौ ११,
 १३, २४, १७, आग्निगृ
 नमस्-पुरस्- -रसो पा ८, ३,
 ४०
 ऋनमस्य, स्याⁱ- -स्यः आश्रौ
 १, २, ७, द्राश्रौ, -स्यान् आश्रौ
 १, ४, ११, शाश्रौ १, ६, १६;
 -स्याम् हिश्रौ २१, १, १६
 √नमस्य पा ३, १, १९, २७;
 ऋनमस्यते अशा ७, ५, अप १,
 ३७, ४, ऋनमस्यति अप ४८,
 १०, निघ३, ५, नमस्यन्ति बौश्रौ
 १०, १० ० ६, अप ४, ३, ६;
 भागृ ३, ११ १०, ऋनमस्यामि
 आग्निगृ १, ५, ४ ४८, ६, ३ :
 ३७; ऋनमस्य, >स्या आपश्रौ
 १०, ३१, ६; भाश्रौ, ऋनमस्याम
 आश्रौ १, ४, ११, शाश्रौ १, ६,
 १६.
 नमस्य शागृ ६, १, १
 नमस्यु- -स्यु. ऋप्रा २,
 ६१क^३
 ऋनमस्-विन्- -विनः आश्रौ ४,

a) अन्ननम्यध्वम् इति पाठः १ यनि. शोच. (तु काश्रौ. आपश्रौ.) । b) पामे. वैप १, १७७० d द्र. ।
 c) विप. । बस । d) = अनुदानोदात्त- । e) पारिभाषिक-संज्ञा- (= मूर्धन्य-भाव-) । f) वैप १ द्र. ।
 g) सपा. शागृ ४, १८, १, मागृ २, ७, १ विशिष्टः पामे । h) शोच वैप १ परि अघोर- टि. द्र. । i) अन्न-
 नामन्- । j) = वज्र- । k) मनसा इति पाठः १ यनि. शोच (तु ऋ ७, १२, १) । l) पामे. वैप १ वचोभिः
 काठ ३५, १ टि. द्र. । m) पामे. वैप १, १७७२ g द्र. । n) पामे. वैप १, १७७२ i द्र.

७,४, शाश्रौ १८,८,४
 नमो(मस्-अ)न्त^२-न्तेन वैगृ
 १,३ २,३; -न्तैः वैगृ ३,
 १३:११
 णमो-वाक^३-कम् आश्रौ १,
 ९,१, शाश्रौ १, १४, २, -के
 आश्रौ १,८,७, शाश्रौ
 नमो-वृक्ति^३-क्तिम् बौश्रौ १४,
 ३ २३.
 णमोवृक्ति-व(त>)ती-
 -स्या^० आपश्रौ ९,१८,१४, बौश्रौ.
 नमस्- पाउ ३,११७
 १नम्य^१-न्यम् ऋप्रा १,६६
 २णन (म्य>)म्या^०-म्या अप
 ४८,७४, निघ १,७.
 नन्न- पा ३,२,१६७, -णं. याशि
 १, २०, -न्नम् शाश्रौ १२,
 १६,११, -आम्याम् आश्रौ २,
 १४,३०; शाश्रौ १, १७, १८,
 -न्ने आश्रौ २,१४,३१.
 नामित-तम् याशि १,५४.
 १नामिन्^१-मिनः अप ४७,३, ६;
 ऋप्रा; -मी अप ४७,१,८.
 नामिक->क-रेफ^३-फात्
 शौच २,८७
 नामि-पूर्व^३-वैः ऋप्रा १,७६;
 ४,४१, ५,३१.
 नाम्यु (मि-उ)प(धा>)ध^३-
 -ध ऋप्रा ५, १, -धस्य शौच
 २, २९, ४२, ८१.
 १न-म- न-द्र.
 २नम^३-(>नामाचन- पा) पाग ४,
 १,११०.

नम-पर- न-द्र
 नमस्- प्रमृ √नम् द्र
 न-मुचि^३- पा ६, ३, ७५, -चिम् सु
 २९,५, -णं. शाश्रौ १५,१५,
 १३^१, आपश्रौ १८, १५, ६,
 १९, ८, १०^१, बौश्रौ, हिश्रौ
 २३,१,३७^१, वैताश्रौ ३०,१२^१,
 -चौ आपश्रौ १९,२,१९^१
 नमेरु- पागम १५५
 √नय पाधा भ्वा आत्म गतौ.
 नय-, नयत्-नयति-√नी द्र
 नयत्पर- न-द्र
 नयन- प्रमृ, नयमान-√नी द्र
 नयात्^३-(>नायात्य- पा) पाग
 ५,१,१२४
 १नर^३- पागवा ४,१,७३, -रः बौश्रौ
 १५, ७:१३^१, आपमं, -रम्
 अप ६८, २, ३६, विध, -रस्य
 अप २१, २, ४, ६८, २, ३५,
 -०रा या ५, १^१, -रा
 बौपि १,१५ १८^१, अप, या
 ५, १, ७, २१, ८, ७, ९, ९,
 १९, -णं.राः आपश्रौ २, २,
 ६, ११, ५, १^१, -राणाम्
 आमिण् ३,१०,२:१०, -रान्
 अप ६८, ३, १३, या ७, २१,
 -रे विध ९९, १७, -रै. विध
 १००, ३, वैध ३, ९, १, वृदे
 ३,३, या ८,६, ७, -रौ विध
 ५,१८४, -०रौ या ५,१.
 २नारी- वृ-द्र.
 नर-गण- -णान् शंघ ११६:६४
 नर-ज- -जाः विध २३,४०.

नर-नुरग-महीरुह- -हान् अप ६८,
 ३,११
 नर-नगर- पाग ८,४,३९.
 नर-नारायण- पाग^३ २, २,३१;४,
 १४, -णम् शंघ ११६:५७.
 नर-पति- पाग ५, १,१२४, -तिः
 अप ६८,३,७, ४,४, -तेः अप
 ७०^३,४,५
 नारपत्य- पा ५,१,१२४.
 नरपति-भवन- -ने अप ७०^३,
 ११,२६
 नर-पाण^०- -णम् या ५,२६.
 नर-यान- नम् अप ३, १, १७, २,
 १, ४,१,११
 नर-युक्त- -क्त्य अप ६८,२, १४.
 नर-राष्ट्र- -ष्ट्रम् या ७,५.
 नर वसु-मित्र- -त्रेषु शौच ३,९.
 नर-वायस-खर-वानर-इव-सुंश्चली-
 -लीभि शंघ ४१२.
 नर-वारण-वाजिन्- -जिनाम् अप
 ६४,६,७
 नर-वाहन^३- पाग ८, ४, ३९^३;
 -नस्य अप १,३२,१
 नर-व्याघ्र- पागम ११२.
 नर-श्रेष्ठ- -ष्ठ अप ९,४,४.
 नर-स्कन्ध- पावा ४,२,५१.
 नर-हा-मित्र- -त्रेषु ऋप्रा ३,१०२.
 नरा(र-अ)धम- -मः विध ५,१९५.
 नरा(र-अ)धिप- -प अप ११, २,
 १, ६८, ३, ८, ५,१७, विध ८,
 ३९.
 नरा(र-अ)पत्य- -स्यम् या ११,
 ३६.

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे वैप १,१७७२ १ द्र । d) = इतल- e) = रात्रि- ।
 f) = [नति-प्रयोजक-] इकारादि-स्वर- । णिनिः प्र. । g) समाहारे द्वस. । h) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।
 i) 'चौ इति पाठः ? यनि. शोघ. (तु. मा १९,३४ वैताश्रौ. च) । j) सपा. 'चे. <> 'चौ इति पाभे. ।
 k) अर्थः व्यु. च ? । l) वैप १,१७७५ ४ द्र. । m) नरः इति पाठः ? यनि. शोघः (तु. पूर्व स्थलं तैत्रा ३, ७-
 ७,१३ च) । n) तु पागम । o) वैप १ नृ-पाण- टि. द्र । p) नाप. । बस. ।

नरे(र-इ)न्द्र-न्द्र अप ३, ३, ८,
२४, ६, १, ६८, ३, १०, ४, ३,
-न्द्रस्य बौध २, २, ६८, -न्द्रा
आग्निगृ २, ५, १ ५४, जैगृ २,
९ : ४, -न्द्राणाम् अप ५२, ९,
५, ७०^३, २, १, -न्द्रे अप ७१,
१९, ७

नरो(र-उ)त्तम-म विध ७८, ५२,
८५, ६६, -मम् अप ३६, ७, १
१नर्वय^१- -व्यं आश्रौ २, ५, २,
शाश्रौ, -व्यं आश्रौ ३, ८, १, ७,
१२, १, शुभ्र १, २०१, या ११,
३६०^३, -व्यम् बौश्रौ ९, २ : ८,
३ ४, निसू १, ७ : १६, उनिसू ५
२५, -व्यां आश्रौ ३, १०, ६,
आपश्रौ, -व्याणि वाश्रौ ३, २,
८, १.

२नर^२- पाग ४, १, ९९, ऋअ २, ६,
३५

१नारायण- पा ४, १, ९९

३नर^३- (>नरिल- पा) पाग ४,
२, ८०.

नरक^१- पाठ ५, ३५, -क- आपघ
१, १३, ४×४, हिध, -कम्
कप्र १, ६, ३, २, १०, ११,
वाध, या १, ११^१, २, ११,
-कस्य विध ३३, ६, -काः
विध ४३, १, -कात् विध १५,
४४, माशि १५, १०, याशि २,
१०१, नाशि २, ८, २५, -कान्
वैध ३, १५, १२, -काय आपघ
१, १२, १२, विध ३०, ४३, हिध
१, ४, १३, -के हिधि १७ ६,

शध, -केभ्य वैध ३, १५, १३,
-केषु विध ४४, १

नरिका- पावा ७, ३, ४४.

१नारक^१->नारका(क-आ)

दि-दीनाम् शौच ३, २१,
४, ९०

२नारक^२->नारकी- -कीम्
वैश्रौ १८, १ ४

नरक-पञ्जर-राणि शंघ ३७४

नरक-व(त >)ती^१- -ती बौश्रौ
१९, १० : ४५^१

नरका(क-अ)भिभूत-दु ख^१-
-खानाम् विध ४५, १^१

नरद^१- (> ंदिक- पा) पाग ४,
४, ५३

१नरा च शंसम्^१ ऋप्रा २, ७८,
उसू २, २४

नराची^१- (> १नाराच- पा) पाग
५, ३, १०७^१

नरालि- (> नाराल- पा) नराची-
टि. द्र.

१नरा वा शंसम्^१ ऋप्रा २, ७८,
उसू २, २७

१नरा-शंस^१- पाग ६, २, १४० -सः
आश्रौ १, ५, २२, ८, ७×४,
शाश्रौ, या ८, ६०^३, -सम् वृदे
२, २८, -सस्य बौश्रौ ३, १९
२, माश्रौ १, ४, २, १५, वाश्रौ
१, १, ४, १, या ८, ७, -साय
आपश्रौ २४, १२, ६

नाराशंस- यद्र

नाराशंस-पीत-^१-तस्य आपश्रौ
१२, २४, ७^३, बौश्रौ, -तेन

बौश्रौ ७, १७ १२, ३२×४

नाराशंस-वत् वृदे २, १५६

नाराशंस-व(त >)ती- -ती वृदे
३, ३१, ३२

१नरिष्टा, ष्टा^१- -ष्टा अप्रा ३, ४, १;
-ष्टायै शुप्रा ५, ३७.

न-रिष्येमपूर्व- १न द्र

१-२नर्त-^१, ंतक- प्रमृ √वृत् द्र

√नर्द पाधा. भ्वा पर शब्दे,
नर्दते अप ७०^३, ४, ३, नर्दति
वैश्रौ ९, ३ : ९, अप ४८, ४^१;
नाशि १, ५, ८, नर्दन्ते अप ५७,
१, २×४, नर्दत् वैश्रौ ९, ३ : ९

नर्द^१->नर्द-वृद^१- -०द आपर्म
२, २२, ७^१

नर्दत्-^१-र्दति वैश्रौ ९, ३ : ८

नर्दन-^१-नम् अप ६४, ७, ५, ९, ९

नर्मदा^१->ंदा-तीर-^१-रे विध ८५, ८
नर्मदा-बाहुदा-तीर-^१-रे शंघ १९४.

१नर्य- १नर- द्र

२नर्य^१-^१-र्यम् काशु ७, ३७

√नल् पाधा भ्वा. पर गन्धे, बन्धने;
चुरा पर. भाषार्थे.

१न[,ना] ल- पा ३, १, १४०

२नल[,ल]^१म- पाग ४, २, ८०^३, ६, ३,
११६^०, -१लम् आग्निगृ ३, ८,
२ ४६, बौपि १, १५ ५३, हिपि

१५ २०, -लेन आग्निगृ ३, ८, २
४६, बौपि १, १५ ५३, -लैः
मागृ २, १, १३

१नल-प्लव^१- -व. आग्निगृ ३,
८, २ ४७; बौपि १, १५ : ५३

नल-मय-^१-यम् भाश्रौ १, २२, १

- a) वैप १ द्र । b) = ऋषि-विशेष-। व्यु १ । c) अर्थ. व्यु. च १ । d) वैप १ द्र । १नर-+क-
(< √कै) इति (पाका. प्रमृ [७, ३, ४४]) । e) तस्येदमीय अण प्र. । f) = इष्टका-विशेष- । g) विप । सस.
> बस । अभिभूत- = अनुभूत- । h) नस्कानुभू^१ इति जीसं । i) = सुगन्धि द्रव्य-। व्यु १ । j) नरालि- इति
पाका । k) = नदी-विशेष-। व्यु. १ । l) [पक्षे] आग्निगृ. । m) = १नल- । वैप २, ३खं. द्र. । n) अर्थः १ ।
o) १नल- टि द्र । p) विप । बस. ।

नल-वेणु-शर-कुश-व्यूत- -तानाम्
 बौध १, ६, ४२
 नला-गिरि- पा ६, ३, ११६
 ननले(ल-इ)धम- -धमेन आपश्रौ २,
 ३, २२, हिश्रौ १५, १, ७१
 नले(ल-इ)धि^३, धी(क>)का- -का
 बौपि १, १४:७, -काम् आमिगृ
 ३, ८, १ ७, २:४६, बौपि १,
 १५ ५२, हिपि १५. १९.
 नलेवीक^३- -कौ आमिगृ ३, ८,
 ३:१४, बौपि १, १५:८५
 नलय-, नाल्य- पा ४, २, ८०.
 नलकूवर^०- -रम् शंघ ११६ ३४
 नलद^३- पाग ४, ४, ५३, बौश्रौ
 २४, १४. १०, -देन आश्रौ ६,
 १०, ३, अप १८, ३, १.
 नलद-माला- -लाम् आश्रौ ६, १०,
 ४, आमिगृ
 नलद-शाखा- -खा कौसू ५१, १२
 नलदिक- पा ४, ४, ५३
 नलदी^३- -दी अप्रा ३, ४, ११
 नल्लिनी^०- पाउवृ २, ४९, पाग २, ४,
 ३१^३
 नल्लिनी- पावाग ४, २, ५१, -नी
 अप ७०^३, ७, १.
 नल्लिनी-खण्ड- पावा ४, २, ५१.
 न-लोप- प्रभृ. न-द्र
 नल्प- जल्प- टि द्र
 नल्व- पाउभो २, ३, १२९, -ल्वम्
 आमिगृ ३, ५, ७:१८^६.
 नव, वा^३- -वः शाश्रौ १५, १७, ११,
 अप १८, ३, ५, -नवऽवः

आश्रौ २, ८, ३, शाश्रौ १४, ३२,
 ४, बौश्रौ; या ११, ६, -वम्
 आपश्रौ ५, २०, ११, १२, २३,
 १३, बौश्रौ, या ३, १९^३, ९,
 ४३^३, १०, ३, -वस्य काश्रौ २५,
 ८, १५, आपश्रौ, -वान् शाश्रौ ३,
 १२, १६, १७, ४, ८, आपश्रौ,
 -वानाम् आश्रौ १२, ८, २६,
 शाश्रौ, -वानि बौश्रौ २, ९
 १^३, १२:८, २४, १८:९,
 भाश्रौ, -वाम् बौश्रौ १७, ३१:
 १५, १८, ४५. २३, कागृ
 २१, १, अप ६८, २, २९,
 -वायाम् बौश्रौ २२, १७:१४,
 गोगृ ४, २, १२, -वे आपश्रौ १,
 ६, १३, बौश्रौ, या ४, १५^३, ३,
 -वेन आमिगृ ३, ७, २:३, ९, ३:
 ५, बौपि, नया ४, १७. ९, ४३,
 -वेषु कौगृ ३, ३, १, १३, ३, शागृ
 ३, ४, ३, ४, १५, ५, -वैः शाश्रौ
 १७, ६, ५, काश्रौ, -वौ वैश्रौ
 २०, ३२:५
 नव-कुम्भ- -म्भम् वैश्रौ १४, १८
 १; आमिगृ २, ४, ७ १६,
 ३, ४, ५ २, बौपि ३, १०, १^३.
 नव-कृत्^३- -कृत् शागृ ३, १२, ३^३.
 ननव-गत^३- -गत^३ आपम २, २०,
 ३०, आमिगृ ३, २, २:२
 नव-गति^३- -तय. या ११, १९
 नव-वास- -सम् वैताश्रौ ४३, ६
 नव-जात, ता^३- -तः द्राश्रौ ४, ३,
 २^३, लाश्रौ २, ३, २^३, या ३,

३, -तम् आश्रौ ३, ७, १३^३;
 -ते या ४, १५
 नव-तर- -रम् या ६, ९, -रैः या
 ७, १६
 नव-तोय-समुद्भव^३- -वे विध २३,
 ४५
 नव-धान्य- -न्यम् आमिगृ १, ७,
 ४:४
 नव-नामन्- -मानि या ३, १९.
 नव-नीत^३- -तम् आश्रौ २, ६, १०;
 काश्रौ, -ते आपश्रौ १२, २३, ७;
 -तेन काश्रौ ७, २, ३०, आपश्रौ.
 नवनीत-गति^३- -तय. या ११,
 १९
 नवनीत-पिण्ड- -ण्डम् पागृ २,
 १, ८.
 नवनीत-पृष्णि^३- -भय काश्रौ
 २२, ९, १३, -श्री. आपश्रौ २२,
 २०, १४, हिश्रौ १७, ७, २५.
 नवनीत-भाव- -वात् बौश्रौ
 १४, २९:२४
 नवनीत-मिश्र- -श्रेण कौसू २८,
 १३, -श्रेः कौसू २२, २३.
 नवनीता(त-अ)न्वक्त- -क्तम्
 कौसू ३५, २५, -क्तेन कौसू २२,
 २२.
 नव-परिरथ्य^०- -थ्यान् वाधूश्रौ ३,
 ७६:१७
 नव-प्राशन^३- -नम् पागृ ३, १, १.
 नव-भोजन^३- -ने आश्रौ २, ९, ११.
 नव-यज्ञ^३- -ज्ञम् कप्र ३, ७, ९;
 -ज्ञयो गोगृ ४, ७, ३८, द्रागृ

a) आमिगृ पाठः । b) विप. (परिधि-) । विकारे मयटः प्र. लुकु उस्तं. (पा ४, ३, १६३) ।

c) = कुबेर-पुत्र- । d) वैप १ द्र । e) नाप । व्यु ? < √नल् इति प्रायिकम् । f) तु. पागम. ।

g) पाठ. ? । खारिं नल्वम् इत्यस्य स्थाने बौपि १, ६ : १३ खारीण्ड्वम् इति पाभे. । विशेषः पृ १६७b द्र. ।

h) नव कुम्भम् इति B. । i) विप । उस उप. कर्तरि कृत् । j) पाभे. वैप १, १७७८ ० द्र. ।

k) विप. । बस । l) कस. > षस. । m) = हैयज्ञवीन- । n) वैप २, ३खं. द्र. । o) विप. । बस. ।

उप. अर्थ ? । p) = कर्म-विशेष- । q) = यज्ञ-विशेष- ।

छ, २, २३, -हे गोयु ३, ८, ९,
 द्रगु, -हेन कप्र २, ९, २१, ३,
 ६, १८.
 नावयसिक- पावा छ, २, ३५.
 नव-स्थ- -थेन आगु २, ६, ९
 नव-वस्त्रा(स्त्र-अ)लंका(र>)रा-
 -रायाः वैगु ३, ३ १
 नव-वस्त्रो(स्त्र-उ)त्तरीय-पुष्पाद्य-
 -है वैगु छ, ८ : २
 नव-शाला- -लायाम् कौस् २३, १
 नव-श्राद्ध- -द्धम् बौपि २, १०, ६^२,
 बौध ३, ६, १०, विध छ८, २१,
 -हे बौगु ३, १२, १३, बौपि
 २, १०, ७, शंघ छ३२
 नव-स्थाली- -व्याम् काश्रौ १६,
 ७, ८
 नव-स्वस्तर^a- -रे आपगु १९, ९
 नवा(व-अ)द्य- -द्यम् बौश्रौ १३,
 ४३ : १, वैश्रौ; -हे वैगु ६,
 १९ : ७
 नवाक्ष-प्राशन- -ने आभिगु २,
 ७, ४ : २, कप्र २, ९, २१
 नवाक्षप्राशाना(न-आ)ज्यस्क-
 आ(क्ष-अ)वधूत-हीनमन्त्रा(न्त्र-
 अ)धिककर्मन्^b- -र्मण. बौगु
 छ, ११, १०
 नवा(व-अ)रणि- -णी वैश्रौ २०,
 ३१ : ६
 नवा(व-अ)वसान^d- -नम् कागु
 ११, १, -ने आपश्रौ ६, २, १६^e.
 नवा(व-अ)वसित^f- -ते काश्रौ छ,
 १३, ८^o.
 नवा(व-अ)शन- -ने माश्रौ ५, १,
 ७, २८.

नवा(व-आ)हुति- -तीः जैगु १,
 २४ २
 नवि(छ>)ष्ठा- -ष्ठया बौश्रौ ५,
 १५. १४[†]
 नवी[√]कृ>नवी-कृत्य आगु २,
 ३, ३
 नवीन- पावा ५, ४, ३०.
 नवीयस्- -यांसम् बौश्रौ ९, १६ :
 २८[†].
 नवो(व-उ)दूध(त>)ता- -तायाम्
 विध ९९, १३
 †नव्य^d- पावा ५, ४, ३६\$, -व्य-
 या ३, ३६, -व्यम् आश्रौ
 ६, ३, १; ४, १०, शाश्रौ, या
 ६, १६, २३, ऋप्रा ७, २५,
 -व्यम्-व्यम् बौगु ३, ११,
 ४, -व्येभिः आश्रौ ६, ४, १०,
 ऋप्रा ५, ५९, उस् ३, ६
 †नव्यस्^d- -व्यः आश्रौ २, १०, ४;
 ७, ४, ६, शाश्रौ, -व्यसा ऋप्रा
 २, ६, ६, -व्यसे बौश्रौ ९,
 १४ : २; ५, ७
 †नव्यसी- -सी शाश्रौ १४,
 ५६, ६, -सीभिः आश्रौ २,
 ९, १४, ८, १४, १८, -सीम्
 आश्रौ २, १५, २, ५, २०, ६,
 शाश्रौ १०, १०, ८, निस् ३,
 ९ २०
 †नवकम् कौगु ३, १५, २^h
 नवग्राम^m- -माः बौश्रौप्र छ६ : ३
 नवन्^d- पाउट्ट १, १५६, -व आश्रौ
 २, १६, ९; १२×४, शाश्रौ,
 या ३, ९; १०^h, ६, ५, १४, ७,
 -व-व आश्रौ १२, ५, १७;

शाश्रौ, -वभिः आपश्रौ २१, १७,
 ३, बौश्रौ, -वभिः-वभिः-
 आपश्रौ २१, १३, १२; -वग्ग-
 वृदे १, २४, पा ७, १, १६; -वसु
 शाश्रौ ६, ९, ६, काश्रौ, -वानाम्
 शाश्रौ ७, ११, ४, १३, ४×४;
 आपश्रौ २१, १४, ३, वाश्रौ
 नव-क¹- -क काशु ७, १५, ऋप्रा
 ऋप्रा १६, ५३¹, -कम् ऋप्रा
 ३, १७, १८, वृदे, -कयो
 ऋप्रा १, ६, ५, शुभ्र ५, ३६;
 -कस्य वृदे ३, ६६; -का-
 पि ३, ३३, आज्यो ११, ७; -के
 अप १, ७, १, काशु, -केन वृदे
 ३, ७५, -के उनिस् १ : ३२,
 वेज्यो १६, २७, -कौ ऋप्रा १,
 ९, ५, शुभ्र ५, ६४, ऋप्रा १६,
 ४०, पि ३, १२.
 नवक-प्रभृति- -तयः निस् १
 ९ : १४
 नवका(क-अ)ष्टकै(क-ए)कादशा-
 (शन्-अ)ष्टन्>^oष्टिनी^k- -नी
 शुभ्र ५, ४९
 नव-कपाल- -लः आपश्रौ १०, ३०,
 १२, २२, १८, १८, भाश्रौ,
 -लम् काठश्रौ ८८, बौश्रौ
 नव-करण¹- -णः बौशु १८ : ८
 नव-करणी^m- -णी काशु ३, ६
 नव-कृत्वस्() आश्रौ ११, ५, ६,
 आपश्रौ, नवकृत्वः ऽनवकृत्व.
 बौश्रौ २१, २१. १
 नव-कोष्ठⁿ- -ष्ठम् अप २१, ४, ५
 नव-गण- -णाः आज्यो ९, ११.
 नव-गृहीत- -तम् आपश्रौ १३,

a) कस. उप. = शय्या-। b) समाहारे द्वस.। c) पाठ ? र्मणि इति शोध-। d) वैप १ द्र।

e) परस्परं पाभे.। f) = नवावसान-। g) पाभे. वैप १, १७७८ ८ द्र.। h) = ऋषि-विसेप-। व्यु. ?।

i) परिमाणे कन् प्र। j) उत्तरेण संधिरार्थः। k) द्विनिः प्र. (पावा ५, १, ५८)। l) तद्वितार्थे द्विस.

m) = त्रिःप्रमाणा- रज्जु- (= ३^३)। n) विप। वस.।

१४, ६, १८, ४, वैश्रौ, -तने
हिश्रौ १०, ७, १७^२
नव-ग्रह-ज- -जा. वैश्र ४, १४
१६.
नव-ग्रह-दैवत्व^२- -त्यम् वैश्र ६, ५
१.
नववर्ष^३- नवा माश्रौ ५, १, २,
१७, कौसू ८१, ३६, या ११,
१९६, -गवास आश्रौ १, ३, २२,
-वै. आश्रौ २, ३, २२
नवव-शब्द- -ब्द. ऋप्रा ७,
४६.
नव च्छदि^४- -दि आपश्रौ ११, १०,
१२, बौश्रौ ६, २७ १७, हिश्रौ
७, ७, २०
नव-तर्ष^५- -र्षम् काश्रौ १५, ५,
२७.
नव-तस् () आश्रौ ८, ५, ७, बौश्रौ
१५, २३ : १३^२.
नव-ति^६- पा ५, १, ५९; -ति
आश्रौ १, ३, २४, शाश्रौ,
-तिम् आश्रौ ८, ३, १०,
शाश्रौ, -ती आज्यो १, ६^४,
-तीः सु २०, २, वृदे ६, ११५,
७, ५१, -तैः शौच ३, ८२,
-त्या आमिण्ड २, ४, ९ : ९.
नव-दशन्-> श- -श बौश्रौ
१०, ४२ : ५, -शे अपं ४ : २५
नवदशा(श-अ)पर^७- -रे अपं
४ : २५
नव-द्वार^८- -रम् अश्र १०, ११^१.
नव-धा वैश्रौ १, ८ : १३, १४, २६,
हिश्रौ, नवधाऽनवधा बौश्र ७
१७.
नवधा-कृत- -सयोः निस् ५,

१२ : ५
नव-नक्षत्रक^९- -के आज्यो ९, १०.
नव-नवति- -ति बौश्रौ १६,
३६ १७, २१
नव-प(द>)दा^{१०}- -दा अश्र १०,
९, -दाः निस् ३, १३ : ३८
४२, ४३
नवपदी^{११}- -दी या ११, ४०^१
नव-प्रकार^{१२}- -रम् कौशि ३४
नव-प्रयाज^{१३}- -जम् काश्रौ ५, २, ७,
बौश्रौ २४, ११ १०, -जस्य
बौश्रौ २४, १० : १७, -जेन
बौश्रौ २४, ११ . ११
नव-प्रवा(द>)दा^{१४}- -दा निस् ६,
९ १.
नव-भाग^{१५}- -गः काश्र २, १७
नव-म- -मः शाश्रौ ५, १७, ९, १६,
२८, ३, २९, १७, बौश्रौ, -मम्
आश्रौ ४, १२, २, शाश्रौ,
-मस्य बौश्रौ १७, २५ : ९,
२६ : ९, क्षुस्, -मात् क्षुस् ३,
१ : १४, १० ३९××, निस्,
-मानि वेज्यो ३९, -मे आश्रौ
१०, ७, ९, शाश्रौ; या १४, ६,
-मेन बौश्रौ २९, २ ७, माण्ड,
-मै. लाश्रौ ७, ७, ११^२.
नवमी- -मी आश्रौ ७,
७, ६, शाश्रौ १६, २८, २;
वाधुश्रौ, आज्यो ६, १०^३, -मीम्
शाश्रौ ९, ८, ३, आपश्रौ, -म्यः
आपश्र १७, ९, हिश्रु, -म्या
बौश्रौ १०, २९. १०; वैश्रौ, -म्याः
काश्रौ १९, ७, ४, माश्रौ, -म्याम्
काश्रौ २०, १, २^४, आपश्रौ,
विध ७८, ४४^५, वृदे २, १४९,

आज्यो^६ ६, ३, १३, १३, ७.
नवमी-युज्- -युमिः
ऋश्र २, १०, १०^१.
नवमी-वर्जम् वाण्ड ३,
१३
नवम्य(मी-अन्त्य>)
न्या^{१६}- -न्त्ये ऋश्र २, १, ३४,
१०, १०१.
नवम्या (मी-२आव
>)द्या^{१७}- -द्या ऋश्र २, ७,
५९^१.
नवम्ये (मी-ए)
कादशी- -इयौ ऋश्र २, ६, २१.
नावमिक- -कम् निस् ५,
२ २८, ८, ३ : ३१.
नावमिकी- -की निस्
८, ६ : २३
नवम-दशम- -माभ्याम् लाश्रौ
७, ५, १९; -मे बौश्रौ १६, १० :
४, निस् ४, ११ ५, ८, ३ :
२८
नवम-दशमै(म-ए)कादश- -शम्
वाश्रौ ३, ४, १, ५२
नवम-प्रभृति- -तिषु निस् १०,
२ ३१, ३२
नवमै(म-ए)कादश- -शे बौपि
२, १०, ६; -शौ वैश्रौ १०,
२१ : ५
नव-मास- -सात् अप ७१, २, ५
नव-रात्र^{१८}- -त्रः आश्रौ ८, ७,
११, १०, ३, २१××, शाश्रौ,
-त्रम् आश्रौ १०, ३, १८; ११,
६, १३, शाश्रौ, -त्रस्य आश्रौ
११, ३, २, हिश्रौ १७, ६, ३;
-त्राः काश्रौ २४, ३, २०.

a) विप. । बस. । b) वैप १ द्र । c) समासान्तः ञच् प्र. उलं (पावा ५, ४, ७५) । d) फठः^२
पतीः इति संभाव्येत । e) नवदशात् [= शौ ८+९, ९] +अपरे (=पूर्वे [= शौ ९, ८]) इति कृत्वा पंस ।
f) =तिथि-विशेष- । g) =याग-विशेष- । तद्धितार्थे द्विस. ।

आपश्रौ २२, २३, ८, हिश्रौ १७, ८, २६, -त्रात् आपश्रौ १०, ४, ५, -त्राय शाश्रौ १८, २४, ५, बौश्रौ १६, ३१ १०, -त्रे आपश्रौ १२, ७, १०, काश्रौ, -त्रेण शाश्रौ १६, २८, १, ५, -त्रौ आपश्रौ १०, ३, २०
नवरात्र-गर्भ^३ - -र्भः हिश्रौ १८, ३, ३^३
२नव-रात्र^३ - -त्रम् वैश्रौ २, ११ २, हिश्रौ, -त्रात् आमिद्य २, ७, ९, ४६, भायु ३, २१ ९, -त्रै निसू ५, १२ १४.
नवरात्र-प्रभृति- -तयः निसू ९, ८, ३०
नवरात्र-वास्तु- -स्तौ आपश्रौ ६, २८, ६.
नव(व-ऋ)चै^३ - -चै द्राश्रौ ९, ३, १५, लाश्रौ ३, ७, २, -चैम् शाश्रौ १०, ६, २, १८, १, ५, काश्रौ, -चैस्य अश्र १, ३, -चैनि शाश्रौ १५, ८, १३, -चै शाश्रौ १८, २, ३, -चैन आमिद्य ३, ६, १ : १९, बौपि, -चैभ्य अप ४६, १०, ६१^३.
नव-वर्ग- -र्गाम् आश्रौ ११, ५, ७, काश्रौ २४, ३, २१
नव-विध- -धः कौस् ९२, ११, -धम् शाश्रौ १६, २८, १, २, ५
नव-वृत्ति^३ - -त्ते बौध ३, १, ७.
नव-वैराज-प्रयोदश- -शैः ऋश्र १, ६, ६; शुश्र ५, ३७
नव-शय^३ - -यम् काठश्रौ १००
नव-सप्तदश^३ - -शः आश्रौ १०, १,

२, काश्रौ २३, १, १४, आपश्रौ २३, ७, ६, -शन आपश्रौ २२, १३, २०, हिश्रौ १७, ५, ४०
नव-सूक्त^३ - -क्ता अप २ ११
नव-होतृ^३ - -ता बौश्रौ १७, २१, ९
नवा(व-अंश>)शा^३ - -शाः बौश्रौ २७, ४ १
नवा(व-अ)क्षर, रा^३ - -रम् वाधूश्रौ ४, १०० १०, २८, -रा शाश्रौ १६, २८, २, -रा निसू १, २ २४, ६ १४, ऋप्रा १६, ५१, -राभ्याम् उनिसू २ २९.
नवाक्षर-चतुर्दशाक्षर- -रौ निसू १, ४ : २३
नवाक्षर-ता- -ताया निसू १, १ १०, १५.
नवाक्षर-प(द् >)दा^३ - -दा ऋप्रा १६, ५०.
१नवा(व-अ)हृगुल- >ंला(ल-आ)यत^३ - -तम् वैश्रौ ११, ८, ८
२नवा(व-अ)हृगुल(ल>)ला^३ - -ला अप २६, ३, ५
नवाङ्गुल्य^३ - -ल्यम् याशि १, ५५
नवा(व-अ)नुगान^३ - -नम् जैश्रौप ३.
नवा(व-अ)नुयाज^३ - -जम् काश्रौ ५, २, ७
नवा(व-आ)याम- -मम् आपश्रौ ११, ८, १, वैश्रौ १४, ६ : १३.
नवा(व-अ)रलि^३ - -लि माश्रौ २, २, ३, १३; वैश्रौ १४, १० : ५, -लिः आपश्रु ७, १, हिश्रु २, ४६१,

-लेः बौश्रौ २४, ३५ ६
नवारत्नि-प्रभृति- -तय. बौश्रौ २४, ३५ : ६
नवारत्नि-मात्र- -त्रः चव्यू ४-१८
नवारत्नि-विस्तार^३ - -रम् आपश्रौ ११, ९, ७
नवा(व-अ)श्रि^३ - -श्रिम् आपश्रौ १६, ४, ११, बौश्रौ १०, ५ : १९१, हिश्रौ ११, १, ५४
नवा(व-अ)ह^३ - -ह शाश्रौ १३, १७, २, -हम् निसू ५, १० : १६, ११ २३×४, -हान् निसू १०, ४. २, ४, १२
नवाह-कारिन्- -रिण. निसू ५, ७ ३
१नवाह-योग- -गात् लाश्रौ १०, ३, १९
२नवाह-यो(ग >)गा^३ - -गाः निसू ५, ६ : १०, ११, ९, ५ : ११, १२
नविन्- -वी लाश्रौ ६, ७, १६
नवै(व-ए)कादशन्- >ंशिन^३ - -शिनौ ऋश्र १, ७, ८.
नवो(व-उ)त्तर^३ - -रम् कप्र १, ६, ९.
नवो(व-ऊ)न^३ - -न द्राश्रौ ८, ४, ५; लाश्रौ ४, ८, ५, निसू.
नवन- √नु द्र
न-वल्मीक- १न द्र.
नवाक- पाउना ४, १४.
नविष्ट- नवी √कृ, नवीन-, नवीयस्- नव- द्र
नवेदस्^३ - पा ६, ३, ७५, -न^३ द्रा. ३ अप ४८, ८५, निघ ३, १५
नव्य-, नव्यस्-, नव्यसी- नव- द्र.

- a) विप.। बस । b) समाहारे द्विस । c) विप., नाप. । d) =सूक्त-विशेष-, तद्द्रष्टृ- च ।
e) बस उप =हस्त-प्रमाण-। f) तद्धितार्थे द्विस वा कस वा । g) तद्धितार्थे द्विस. । h) स्वार्थे यत् प्र. ।
i) वैप १ द्र. । j) विप. (पाद-) । k) विप.। त्स । l) मेधावि-नामन्- ।

√नश्(बधा) √नश् द्र
 √नश्^१ पाधा. दिवा. पर अदर्शने,
 ऋनशन्ति आश्रौ ६, १४, १८,
 २, ५, २
 नश्यते अप २, २, ६, ११, २, ४,
 ५३, १, ५, नश्यति आपश्रौ १०,
 १४, ९, १, बौश्रौ, या ३, १५, १,
 नश्यते शाग ५, ८, ५; नश्यन्ते
 अप ८, २, २, विध ६४, ४१,
 आश्रयो २, ४, नश्यन्ति बौश्रौ
 १४, ३ : १९, अप, नश्यसि या
 ९, ३०, १, ऋनश्यतु आमिगृ २,
 ५, ४. १०, ११, १२, ३,
 ऋनश्यतात् आपमं २, १३, ८,
 १०^b, पागृ, आमिगृ २, १, ३ :
 १०^b, भागृ १, २३ : ६^b,
 हिगृ २, ३, ७^b, नश्यताम्
 कागृ ३, ५, १^१, नश्येत अप
 ३७, १८, १, नश्येत आपश्रौ
 ५, २९, १२, ९, १३, १३×४,
 काश्रौ, नश्येयु आपश्रौ ९, १५,
 १४, बौश्रौ
 ननाश वृदे ५, १७, या १२,
 ११, १
 नाशयति हिश्रौ ७, २, ८६, अप
 १२, १, १०, वाघ २७, ७, या
 १२, २८, नाशयन्ति भाश्रौ
 १०, १८, १३, अप ६८, २, ५१,
 ऋनाशयामसि आपश्रौ २, ५, १०,
 बौश्रौ, आपमं १, १५, ४^d,
 ऋनाशयन्तु^१ आपमं २, ९, १०,
 बौगृ १, २, २०, भागृ २, २३
 ९, ऋनाशय आपश्रौ ४, १५, १,

भाश्रौ, नाशयन्तु विध ४८,
 १९, नाशयेत् अप २, ४, ३,
 १६, २, १×४, नाशयेयुः
 आपश्रौ १०, २७, ६, नाशयेयम्
 बौश्रौ १३, २६. १७
 ऋननीनशत् आपश्रौ १३, ७, १६,
 हिश्रौ, ऋननीनश आपश्रौ ४,
 १५, १, भाश्रौ ४, २१, १, हिश्रौ
 ६, ४, १८
 नष्ट्वा, नशित्वा पा ६, ४, ३२
 नश्यत्- -श्यतः अप ६८, २,
 ५०
 नश्यत्- पा ३, २, १६३
 नष्ट्वा- -ष्टः वैध ३, १५, १२,
 अप्राय ६, ४, -ष्टम् आगृ ३, ७,
 ९, कौसु, -ष्टयो शाश्रौ ३, १९,
 १७, -ष्टा बौश्रौ ६, ८. ८,
 वैश्रौ २०, ३५ : ९; कप्र ३, ९,
 ११, -ष्टाः सु ४, ५, गौध १२,
 ३९; -ष्टाम् आपश्रौ १०,
 १८, ८, भाश्रौ १०, १२, ५,
 वैश्रौ १२, १४ ४, -ष्टे आश्रौ
 ३, १३, ९, ६, ८, १, शाश्रौ,
 -ष्टेषु बौश्रौ २०, १९ २३×४
 नष्ट-चन्द्रा(न्द्र-अ)र्क^१- -र्कम्
 सु ४, २
 नष्ट-वे(ष्टा>)ष्ट^१- -ष्ट. सु ४,
 २^d
 नष्ट-प्रत्यासृ(त >)त्वा- -ताम्
 आपश्रौ १९, २, ४
 नष्ट-रूप, पा^१- -पः वृदे ४, ६४,
 -पा ऋश्र १, ६, ६, शुश्र ५,
 ३७, ऋपा १६, ४१

ऋनष्ट-व(त्स>)त्सा^१- -त्सा
 आपध २, १७, ८, हिध २, ५,
 ३७
 नष्ट-सं(ज्ञा>)ज्ञ^१- -ज्ञस्य वृदे
 ७, ८४
 नष्टा(ष्ट-अ)ग्नि^१- -ग्निः आमिगृ
 ३, ९, १ १, बौपि २, ५, १,
 -ग्नेः वाश्रौ १, ५, १, १
 नष्टा(ष्ट-अ)रणि- -णी बौश्रौ
 २७, ८ : ४
 नष्टा(ष्ट-अ)रणी-क^१- -कस्य
 बौश्रौ ३, ३ २१, २०, १९ २२,
 २४, १९ ९, वैश्रौ १, २० :
 १५
 नष्टा(ष्ट-अ)श्व-दग्ध-रथ^१-
 वत् पावा १, १, ५०
 नष्टा(ष्ट-अ)सु^१- -सवः अश्र
 १०, ४^१
 नष्टै(ष्ट-ए)षिन्^१- -षिणाम् कौसु
 ५२, १२
 नष्टवत्- -वान् आश्रौ ४, ११,
 ६.
 नष्टि^१- पावाग ३, ३, १०८
 नष्ट्य(ष्टि-अ)धिगत- -तम्
 भाश्रौ ३, १, २५
 नष्ट्वा पा ६, ४, ३२.
 नाश- -शः वैश्रौ २०, ३२ : ४, अप
 ५३, ४, १, ७१, १५, १; -शम्
 वाश्रौ १, ५, ४, ४४, कप्र ३, ३,
 ६३, अप ७०^३, ११, १५, -शे
 काश्रौ २०, ३, १८, काश्रौसं
 नाशन^१- -नम् अप ६४, ४, ७;
 वाघ १२, ४१, विध ३३, ६;

a) शौच ३, ९० पा १, ३, ८६; ७, २, ४५; ८, २, ६३, ४, ३६ पावा ६, ४, १२०, ७, २, ११४ परामृष्ट द्र. ।

b) [एकतरत्र हिगृ.] पामे पृ २४९१ द्र । c) पामे वैप २, ३ख नाशयामसि तैत्रा ३, ३, २, १ टि द्र. । d) पामे. वैप १, १२०८ द्र । e) पामे वैप २, ३खं निर्दहन्तु टि द्र । f) वैप १ द्र । g) विष । बस. । h) पामे. वैप १ ? प्लवायति खि २, १, ४ टि द्र. । १) बस. > दस. > बस । j) वैप २, ३खं. द्र. । k) तु पागम. । l) भावाद्यर्थे कृत ।

—ने आपध २, २८, ६, हिघ २, ६, ६, या ६, ३०, पावा ३, १, ६^a
 नाशनी- नी पाठ ३, १३, ५^b
 नाशना(न-आ)कुल- लैः अप ७०, ८, ४.
 नाशना(न-अ)र्थ- -थंस् वृदे ७, ९५.
 णाशि(न् >)नी- नी^b आपमं २, २२, १, हिघ १, १५, ३
 नाश्य, श्या- -श्य. आपध २, २६, २१, २७, ८, २०, हिघ^c २, ५, २२७, २३८; -श्या कौस् १००, २१.
 णाष्ट, ष्टा^d- पाठभो २, ३, ७७५, -ष्टाणाम्^e आपश्रौ ११, १२, २, बौश्रौ ६, २८ : २९, वैश्रौ १५, ८:१, -ष्टाम्भ्य^f बौश्रौ ९, ७ १२, १२, ९:२५, पाठ २, ६, ३१, -ष्टाम् आपश्रौ १६, १६, १, वैश्रौ १८, १४ ४.
 न-शब्द-प्रत्यय- २न- द्र.
 न-शर्करा-मिश्र- , न-शाङ्खल-मिश्र- १न द्र
 नश्यत्-, नष्ट- प्रमृ. √नश् (अदर्शने) द्र.
 √नस्^h पाधा. न्वा आत्म कौटिल्ये, नसतेⁱ निघ २, १४^g, नसति^j अप ४८, ४८^h, णसन्त^k आपश्रौ १७, १८, १, निघ ४, १; या ४, १५, ७, १७^l
 नस्^m- नसम पा ५, ४, ११८; नसि

कप्र ३, २, ९, णसो बौश्रौ ३, २५ ८, भाश्रौ
 न-शुद्धⁿ- पावा ६, १, ६२
 नस्-तस् (:) आश्र १, १३, ५, कौश्र १, १२, १, ८, शाश्र १, १९, १, २०, ५, वैश्र
 नस्थ^o- पावा ६, १, ६२
 न-सत्त-, न-सिक्त १न द्र
 णसङ्गावौ अप १, ८, २.
 √नह्^p पाधा दिवा उभ. बन्धने, नहते बौश्रौ १५, ४ १४
 नह- नहः हिश्रौ २३, १, ११, भाशि ४९^q, -हम् लाश्रौ ८, ६, ७, ऋश्र १५, ४
 नह-युग^r- गम् आपश्रौ १, १७, ५, १०, २४, ४, हिश्रौ १, ५, ७, -णे आपश्रौ ११, ६, ३, भाश्रौ १२, ६, ९
 नह-विमोक्ष- -क्षे पाठ १, १०, १, गोश्र २, ४, ३
 नद् (प्र >)धी^s- पा ३, २, १८२
 नह्यमान- -न्म् आश्र ३, १२, ११
 नाह^t- -हम् वैश्रौ ११, ८ : १४
 नहस्^u- -स सु २२, १^v
 णिहि^w बौश्रौ २८, ९ २०.
 नहि १न द्र
 नहुष^x पाठ ४, ७५, -षः सु २३, ३^y, ऋश्र २, ९, १०१, साश्र १, ५४६.
 णाहुष^z- -ष वृदे ६, २२, -षः ऋश्र २, ९, १०१, वृदे ६, २०, साश्र १, ५४७

नहुष-पुत्र- -त्रम् शंघ ११६:३५.
 णिहुस्^{aa}- हुषः अप ४८, ७८, निघ २, ३, ऋश्र २, ४४, ८, ३
 रनाहुष- > षी^{ab}- -षीषु शाश्रौ १०, ६, १५^{ac}
 नह- १न द्र.
 णाक^{ad}- पा ६, ३, ७५५, -०क आपश्रौ १०, ३, २, भाश्रौ १०, १३, ३, -कः शाश्रौ ८, २५, ३, आपश्रौ, या २, १४^{ae}, -कम् आश्रौ ४, ७, ४, शाश्रौ, आपश्रौ १५, १७, १^{af}, हिश्रौ १५, ५, १^{ag}, या १, १८, १२, १३, ४१, -कस्य काश्रौ २, २, ८, आपश्रौ, -काय बौश्रौ १, ३ : १९, आपमं २, ६, ९, -के आश्रौ ४, ७, ४, शाश्रौ ५, ९, १७, १०, १५, काश्रौ २२, ६, १५, आपश्रौ ७, ५, १^{ah}, १६, १८, ७; बौश्रौ; भाश्रौ ७, ४, १^{ai}, माश्रौ ६, २, ३, ८^{aj}, वाश्रौ २, २, २, १२^{ak}; हिश्रौ ४, १, ६२^{al}
 नाक-त्व- -त्वम् वाधुश्रौ ४, १९^{am} : १३
 नाक-पृष्ठ- णिष्ठ आमिष्ट ३, ४, ४: १०, १२, -णिष्ठम् बौपि ३, ४, १४, १५, गौपि, -ष्टे कौश्र ३, १०, ३५, वाध २९, २१^{an}; आपध १, २३, १, हिघ १, ६, ९.
 नाक-सद्^{ao}- -सत्सु वाश्रौ २, २, १, २४, हिश्रौ १२, १, ३३; -सदः

a) तु. पाणि. । b) सप्र. नाशनी <> नाशिनी इति पाभे । c) वा^o इति पाठ^o ? यनि. शोषः (तु. सप्र. आपध) । d) पुं स्त्री च । e) वैप १ द्र । f) पाभे. वैप १, १७८३ d द्र. । g) पाभे. वैप १, १५३१ j द्र । h) या ६, १७, ७, १७ परामृष्टः द्र. । i) वैप १, १७८४ b द्र. । j) सुप्सुपीयः समास. (तु. कैयट) । k) पा ६, ३, ११६, ८, २, ३४ परामृष्टः द्र । l) विप. । बस । m) = चर्मरज्जु- । n) करणे घञ् प्र । o) अर्थः व्यु. च ? । p) पाठः ? नाऽभि (प्युः) इति शोषः । q) = राज-विशेष- । r) = सर्प-विशेष- । s) तस्यापस्थीय. जग्न अ. । t) पाभे. वैप १, १७८५ f द्र. । u) पाभे. वैप १, १७८५ h द्र. । v) = इष्टका-विशेष- ।

आश्रौ ९, ८, २६^a, काश्रौ,
-सदाम् शाश्रौ १४, ७३, २^a,
आपश्रौ २२, ५, १५^a, बौश्रौ,
हिश्रौ १७, २, ४३^a.
नाकसत्-प्रभृति- -ति काश्रौ
१७, ७, १८
नां-शब्द- नाम् द्र
नाकु- पाठ १, १८.
१नाकुल- १नकुल- द्र.
२नाकुल- २नकुल- द्र
नाक्षत्र- नक्षत्र- द्र,
नाखर- २नखर- द्र
नाग^b- पाठवृ ५, ६१, पागम १५५;
-गम् वाधुश्रौ ४, २८^c. २,
२९^c, ५, आज्यो^c ४, ६, ११,
-गस्य आज्यो ५, १५^c, -गा
सु ३०, ६, आयु, -गान् सु ३०,
५, वैगृ १, ४ : २२^f, कप्र २,
२, ३-८, शंघ ११६. २२,
-गानाम् सु ८, २, अप ३६, १,
१०, ५३, ४, २, वेज्यो ४, -गे
आज्यो ४, १३^c, -गौ सु १४, १
१नागी- पा ४, १, ४२, -गी
सु २, १
नाग-दन्त- >^{nt} -न्ताः बौश्रौ
२२, १९ : ११
नागदन्त-क- >^क -मुद्रा^c-
-द्राम् अप ६८, २, २६
नाग-दिव्य- -न्यान् वैगृ १, ४

२२^f.
नाग-मातृ^f- -त्रे बौगृ २, ८, १२^f.
नाग-वीथी^b- -थीम् अप ५०, ४, ४
नागवीथी-गत- -त्. अप ५०,
६, २
नागा(ग-अ)धिपति- -ति. वाध
२९, ६.
नागे(ग-इ)न्द्र- -न्द्रा अप ५३,
२, ४
नागकेशर^f- -रम् अप ३५, २, २
नागर-, -रक-, -रेयक- २नगर- द्र
२नागी^f- -गी अत्र ९, ६, १५, १४,
पिं ३, १२.
नागन्य- नग्न, ग्ना- द्र.
नाङ्गक्षत्र- १न द्र
नाचिकेत- नचिकेत- द्र
नाट^k- पाग २, ४, ३१^f, ४, १, ४१^m
नाटी- पा ४, १, ४१^m
नाटक-, नाट्य- √नट् द्र
नाडायन- २नड- द्र
नाडि^{k10}- -डीन् वाधुश्रौ ३, ९०, २,
५, ९.
ना(ङ, ल^p >) डी, ली^p- -डी कौसू
२२, ९^f, -डी आपश्रौ १,
३, ९^c, २१, १७, १७^f, १९, ४^f,
भाश्रौ १, ३, १०^b, निघ १,
११^f, -डीम् बौश्रौ १४,
१७ : २३^v, कागृ १७, २^f;
-ड्याम्^w पागृ १, १६, ३, वैगृ

६४ : २.
नाडि(क>)क^r- -कया वैघ १,
११, २, -कया वेज्यो २४^v;
-के वेज्यो ३८^v.
नाडि-धम-, -धय- पा ३, २, ३०;
पावा १, ३, १०.
नाडी-तन्त्री- -न्त्यो पा ५, ४,
१५९.
नाडी-मुख- -खेभ्य वैगृ ५, १ : २०.
नातानतिक- √नम् > नत- द्र.
नातिकूरमृदु-, -लीक्षण-, -नीच-,
-वृद्धन्मुखी- १न द्र.
नात्तायन- नत्त- द्र.
√नाथ^r पाधा भ्वा. आत्म याञ्चो-
पतापैश्वर्याऽऽशी घु.
१^fनाथ- -थम् आपश्रौ ७, १६, ७^v;
माश्रौ ५, २, १३, १^r, हिश्रौ
६, ८, ४^v
नाथ-काम- -म आपमं १,
१०, ३, ६, पागृ.
नाथ-वत्- -वतः हिश्रौ १५, ५,
३९^{a1}, -वान् आपश्रौ १४, २, २,
११^{a1}
नाथ-विद्- -वित् आपश्रौ ७,
१६, ७, हिश्रौ ६, ८, ४, -विदः,
-विदौ माश्रौ ५, २, १३, १.
नाथमा(न>)ना- -नाम् आपमं
१, ११, २^f^{b1}.
नाथित- -त् माश्रौ ३, १, २८^{a1};

a) = याग-विशेष-। b) = सर्प-, हस्तिन्- प्रभृ.। व्यु. ? < १न + अग- वा < नग- वेति अभा.।
c) = करण-विशेष-। d) विप। विकारार्थे अणु प्र.। e) मलो कस.। उप. = अङ्गुलीयक-। f) = कद्रू-।
g) नाक^o इति पाठः ? यनि शोष। h) = व्योम-मार्गविशेष-। i) = ओषधि-विशेष-। व्यु ?। j) = छन्दो-
विशेष- [गायत्री-]। व्यु ?। k) अर्थः व्यु च ?। l) नाट-मस्तक- इति भाषडा. प्रभृ.। नटमक- इति
[पक्षे] भाण्डा., नटमस्तक- इति [पक्षे] पासि। m) तु. पाका. पागम.। नोट- इति भाषडा. पासि.। n) अर्थ-
वैशिष्ट्यं पागम. द्र.। o) [अश्वमेधप्रकरणतः] ईनात्ममयरज्जु- इति भाष्यम्। p) निघ. पाठः। q) बप्रा.
व्यु. ?। r) अर्थ ?। s) = तृण-शलाका-। t) = वाय-विशेष-। u) वाङ्-नामन्-। v) = रथ-नाभि-।
w) = नाभि-नाल-। x) = शिरा-। स्वार्थे कन् प्र। y) = काल-परिमाण-। z) पावा १, ३, २१ परामृष्टः
द्र.। a¹) परस्परं पाभे। b¹) पाभे. वैप १, १७८७ h द्र.। c¹) पाभे. वैप १, १७८७ ० द्र.।
वैप४-दि-७९

-तम् आपश्रौ ७, ३, १४, बौश्रौ;
माश्रौ १, ७, ३, १५
१नाथ- ✓नाथ् द्र.
२नाथ^b - > नाथ-हरि- पा ३, २,
२५.
नाद्- प्रथ ✓नद् द्र.
✓नाथ्=✓नाथ् यद्र.
नाथमान, ना- -न- माशि ४२,
-ना आपश्रौ ६, २२, १, या ४,
३६, -नाम् काश्रु ३०, ३, वाश्रु
१६, १
नाथ^c- -ध या २, २.
नानद्-, नानदत्- ✓नद् द्र.
नाना^d आश्रौ ३, ९, ४, ८, २, ९,
शाश्रौ, पा ५, २, २७, पाग १, १,
३७.
नान(ना-ऋ)त्विज्- -त्विज. निसू ८,
६. ५८.
नानां(ना-अं)श- > °शिन्- -शिनौ
बौश्रौ १२, १५. १६, २२.
१नाना-कर्मन्- -र्मणाम् आपध २,
२३, ११, हिघ २, ५, १६४
नानाकर्म-त्व- -त्वात् मीस् १२,
३, २७.
२नाना-कर्मन्- -र्मणिः या ६, ६,
-र्मणि या २, ७
नाना-कारक- -काणाम् पावा २,
१, ३५, -कात् पावा २, १, १
नाना-काल- -लेषु हिश्रौ १, १, ६२
नाना-कुम्भी- -म्भीषु हिश्रौ १४,
४, ५०
नाना-क्रिया- -याणाम् पावा ३, १,
२६.^e

नाना-गृहीत- -तयोः हिश्रौ ८, ७,
४१.
नाना-गोत्र- -त्रा आश्रौ १२, १०,
२, माश्रौ ३, ८, ३, -त्रान् काश्रु
२४, १७, बौश्रु
नाना-गोत्र-व्यवाय^f- -यात्
आपश्रौ २१, ३, ४
नाना(ना-अ)भि- -भीनाम् आपध
२, १२, १०^g
नाना-चतुरश्र- -श्रे बौश्रु २ १.
नाना-चतुर्गृहीत- -ताभ्याम्
आग्निश्रु ३, ५, ६ : २७, बौपि १,
५ : १३, -तै बौश्रौ १९, ५ ३
नाना-चतुर्मुखि^h- -ष्टी बौश्रौ २२,
१७ २१.
१नाना-छन्दस्- -न्द निसू ८, ६ :
३१ⁱ, -न्दसि निसू ९, ३ ९,
-न्दस्सु निसू ८, ९ ४.
नानाल (न्दस् >) न्दो-गति-
पथ^j- -थः विघ १, ९.
२नाना-छन्दस्- -न्दासि अश्र २,
१७
नाना-जनपद- -दे हिश्रौ १५, ५,
२३
नाना-तन्त्र, न्त्रा^k- -न्त्र माश्रौ ५,
१, १, ३५, निसू ९, २ १०,
-न्त्रम् आपश्रौ ५, २३, ८, भाश्रौ
६, १८, १०, हिश्रौ ३, ८, ७७,
-न्त्रा माश्रौ ५, २, १०, ४६,
-न्त्राणि आपश्रौ ५, २१, ६,
अप्राय ३, ९, -न्त्राम् आपश्रौ
६, ३१, १; -न्त्रे हिश्रौ ६, ८, १,
निसू ७, ८ : २७, -न्त्रौ हिश्रौ

२२, ४, ८
नाना(ना-अ)स्यय^l- -यौ निसू ८,
१२ : ९
नाना-त्व- -त्वम् निसू २, ७. ३,
५×५, अप ७०^m, ४, ५, मैअ ४,
-त्वात् निसू ९, ८ २७, -त्वेन
मीस् ८, ४, २३
नानात्व-क्लृप्त- -सानि निसू ८,
२ २३, -स्ते निसू १०, १:१२.
नानात्व-प्रक्रान्त- -न्तेषु निसू
१, १२ २४.
नानात्वा(त्व-अ)र्थ- -र्थं निसू
६, ६ : २६ⁿ, ८, ८. २८, ९ :
१७×५, -र्थम् निसू ७, ३ १४.
नानात्वा(त्व-आ)वृत्ता(त्-अ)
र्थ^o- -र्थः निसू ८, ६ : ३१
नाना-दीक्ष^p- -क्षा काश्रौ १४,
१, ९
नाना-दीक्षा- -क्षाभि विघ १, ७
नाना-दीक्षा(त्ता-अ)वभृथ^q-
-थानि निसू ७, ३ ५
नाना-देवत, ता^r- -तम् निसू २, ७ :
१०, -ताभि शाश्रौ १६, ७, ८,
-तै निसू २, ७ १५, -तेषु
आश्रौ ३, ४, ५, वाश्रौ ३, २, ६,
४७, या १३, १०
नाना-देवता- > °ता-व्यवेत-
-तानाम् आपश्रौ २४, १२, ५
नानादेवत्य, त्या- -त्यम् अश्र २,
१२, ३, ३×५, -त्या साश्र २,
६०४, -त्याः बौश्रौ ११, ४ :
१०, -त्यान् बौश्रौ ११, ३ :
३२, -त्यानाम् बौश्रौ ११, ५ :

a) पाशे वैप १, १७८७ d द्र । b) = नासा-रज्जु- । व्यु ? । c) अर्थ. व्यु च ? । < ✓नद् इति
द्र । d) वैप १ द्र । e) विप । बस । f) कस > षस । g) सप्र. हिघ २, ४, ४६ अग्नीनाम्
इति पाशे । h) विप । बस. > समाहारे द्विस. । i) पाठ. ? °शब्दः इति शोष संभाव्येत । j) विप ।
बस. > षस. समासान्त. प्र. । k) °स्वर्थः इति पाठः ? यनि. शोषः (तु संस्कर्तुं दि.) । l) तुस. > बस. ।
m) विप । बस. > द्वस. ।

८१, -त्यानि अथ ४, २३.
 नाना-देश-त्व- -त्वात् पावा २, ३,
 १, ५, ३, ७२
 नाना-देश-स्तवन- -नम् लाश्रौ
 १०, ९, ५
 नाना-दैवत^१- -तम् अथ ६, ५३,
 -ते अथ ६, ४
 नाना-दैवत्या^२- -त्याः याशि २, १
 नाना-धान्य^३- -न्यानि बौश्रौ १०,
 ५५. १२
 नाना(ना-अ)धिकरणा(ण-अ)र्थ-
 -थम् पावा ६, ३, ४६
 नाना-धी^४- -धिय या ६, ६१^५
 नाना-धूम-निम- -भा अप ५२,
 ३, ३
 नाना-निर्वचन^६- -नानि या २, ७
 नाना(ना-अ)न्त- -न्तयोः आय १,
 ३, १, ३.
 नाना(ना-अ)न्वयो(य-उ)पाय-
 -यैः वृदे २, ९९, ११९
 नाना-पत्र(क>)का^७^८- -का माय
 २, १३, ६१.
 नाना-पद- -दानि अप्रा २, ३, १८;
 -दे शौच २, १६; ३, ७९.
 नानापद-दर्शन- -नात् शौच ४,
 २७
 नानापद-वत् तैप्रा १, ४८
 नानापद-संधान-संयोग- -ग
 तैप्रा २४, ३
 नानापद-स्थ- -स्थम् तैप्रा २०,
 ३, -स्थे शुप्रा ३, ८०
 नानापदा(द-आ)बाध- -वे अप्रा
 २, ३, १९
 नानापदीय- -यम् तैप्रा १, ६०.
 नाना-पर्वन्- -र्वणो निस् १०, ३ :
 २८.

नानापर्वन्तर- -रे निस् १०, ३ :
 २९.
 ?नाना-पवमानिक- -केभ्यः निस्
 ८, ९ १७.
 नाना-पात्र- -त्रेषु भाश्रौ ८, १६, ६
 नाना-पात्री- -त्रीषु बौश्रौ २१,
 १९ : १३.
 नाना-पुरुष- -षा. बौश्र १, २, १४.
 नाना-पुरुष-कल्प^९- -ल्पौ निस् ८,
 १३ ३८.
 नाना-पृष्ठ^{१०}- -ष्ठ. छुस् २, १० ५,
 १४ १०, १२, ३, १ २०,
 निस् १०, ७. २३, -ष्टे लाश्रौ
 ४, ५, २४, निस् ७, ८ : २७
 नाना-प्रकार^{११}- -रा वृदे १, ३४
 नाना-प्रगाथ-ता- -ताम् लाश्रौ
 १०, ६, २.
 नाना-प्रण(व>)वा^{१२}- -वे शाश्रौ ३,
 १६, ९, ७, २, १३.
 नाना-प्रतिपद्- -पदः निस् ५, १.
 ११
 नाना-प्रथन- -ने बौश्रौ २७, ३ : ४.
 नाना-प्रमाण^{१३}- -णयो. आपशु २,
 ६, हिशु १, २७
 नानाप्रमाण-समास- -से काशु
 २, २२
 नाना-बर्हिस्^{१४}- -र्हिर्भ्याम् बौश्रौ १२,
 २. ९, -र्हिषि हिश्रौ ३, ५,
 १४, -र्हिषि बौश्रौ १३, १ १३
 नाना-बीज- -जानाम् आपश्रौ ६,
 २९, १९, बौश्रौ, -जानि बौश्रौ
 २०, ८. ३३; आपय ३, १५,
 -जे मीस् ५, २, १३^{१५}, -जेषु
 काश्रौ २, ४, १०, हिश्रौ ३, ८,
 ६८
 नाना-बृहती- -त्यः निस् ७, २. २५.

१ नाना-ब्रह्मसामन्^{१६}- -मानि निस्
 ७, ३. १४, ९, ३ ४, १३, ७x५.
 २ नाना-ब्रह्मसामन्^{१७}- -मा निस् ९,
 १३ : ८.
 नानाब्रह्मसाम-त्व- -त्वात् लाश्रौ
 १०, ४, ४
 नाना-भाम^{१८}- -भः निस् ८, १ १७.
 १ नाना-मन्त्र- -न्त्राभ्याम् पाय १,
 १०, १, -न्त्रै वैगु ६४ : २.
 २ नाना-म(त्र>)न्त्रा^{१९}- -न्त्राः
 आपश्रौ १७, २४, ७, ९x५, वाश्रौ;
 -न्त्रासु बौश्रौ २२, ६ १३.
 नाना-यजुस्^{२०}- -जुष. माश्रौ ६, २,
 २, १३, ६, २९; ३१
 नाना-यूप^{२१}- -पेषु शाश्रौ ६, ९, ५.
 नाना-योग-करण- -णम् पावा ५,
 २, ९७.
 नाना-योनि-सहस्र- -स्त्राणि या
 १४, ६१.
 नाना-राग-समुत्थ- -त्यानाम् अप
 ५८, १, ४.
 नाना-राज्य- -ज्ययोः आपश्रौ १४,
 २०, ४
 नाना-रूप, पा^{२२}- -पः या ३, १७.
 -पाः पाय ३, ३, ५१; वृदे ५,
 ९२, ८, ७२; -पान् वृदे ६, ३२.
 नाना(ना-अ)र्थ- -र्थानाम् पावा १,
 २, ६४, -र्थानि बौघ ४, १, १;
 २, १, -र्थेषु वृदे १, ४३, मीस्
 ७, २, १५
 नानार्थ-त्व- -त्वात् लाश्रौ ९, ७,
 ५; पावा
 नाना-लक्षण^{२३}- -णान् माश्रौ २, ३, -
 १, २०, -णानि काठश्रौ ११६.
 नाना-लिङ्ग-करण- -णात् पाप्रवा
 १, ९.

a) विप. । बस. । b) उप. = कर्ष-भूषण- । c) कस. > दस. । d) ञ्जेषु इति जीसं. ।
 e) वैतु. सा (तां २४, ३, १४) द्वे पदे इति ।

नाना(ना-अ)वभृथ^०- -थानि आपश्रौ
 १८, २२, २२; द्वाश्रौ ६, ४, ५,
 लाश्रौ २, १२, ६
 नाना-वर्ण^०- -र्ण अप ७७, २, ८,
 -र्ण अप ७२, १, ४
 नानावर्ण-ध्वजा(ज-आ)कुल-
 -रुम् अप २१, ६, २.
 नानावर्ण-स्त्री-पुत्र-समवाय-
 -ये बौध २, २, १०
 नानावर्णा(र्ण-अ)गिन-संकाश-
 -शाः अप ५२, ३, ५
 नाना-वषट्का(र>)रा^०- -रे शाश्रौ
 ७, २, १४
 नाना(ना-अ)वसान^०- -नयो अप
 १: २६
 नाना-वाक्य-त्व- -स्वात् पावा ३,
 ४, ६७
 नाना-वि(घा>)ध^०- -धम् अप
 ७०^३, ७, १५, -घाः या १४, ६१,
 -घानाम् विध २२, १३, -धे
 वैगृ ५, १: १४, -धै. वृदे १, ४६
 नानाविध-फलो(ल-उ)दय-
 -याः अप ५८, १, ४, -यान् अप
 ६३, १, १
 नाना-विभक्ति^०- -क्तीः या ६, २४,
 -क्तीनाम् पावा ८, ३, ५९
 नाना-वीर्य^०- -र्यां शाश्रौ १६, २३,
 ६^३, १४, -र्यै बौश्रौ १६, २४:
 १०^१
 नाना-वृक्ष->क्षीय, या- -याः
 आपश्रौ ५, १७, ५, बौश्रौ, -यान्
 बौपि १, १४: १०, १५. ८१.

नानावृक्ष्य, क्ष्या^०- -क्ष्यम् बौश्रौ
 १०, ५०. ४, ५१: २३, ५२ १९,
 -क्ष्या बौश्रौ १०, १२ ९,
 १४ ४x४, -क्ष्याणि बौश्रौ
 १२, ९: २, २७, ३१ ३;
 १८, ८. ७, -क्ष्यान् आमिष्ट
 ३, ८, १ १०, ३ १०
 नाना-शस् () वाधूश्रौ ४, ८२ ५.
 नाना-शास्^०- -साः बौश्रौ ११,
 ४ ११, १२
 नाना-षोडश-सामन्- -मानि निस्
 ८, ८ २८
 नाना-साधु- -धु निस् ८, ६ ५७,
 ११ २८x४.
 नाना-सामन्- -मानि निस् १, १३
 ४.
 नानासाम-वत् लाश्रौ १०, ९,
 १०, निस् ६, ७ ६५
 नाना-सूक्त- -क्ताभ्याम् आपश्रौ १७,
 १४, २, वैश्रौ १२, ६. ७५.
 नाना-सूत्र- -त्रेषु बौश्रौ १२, १३ ५.
 नाना-सू(र्य>)र्या^०- -र्याः बौश्रौ
 १२, १० १८^१
 नाना-स्तोम^०- -मा निस् ८, ८
 १४
 नाना-सुवा(व-आ)हुति^०- -तोः
 आमिष्ट १, ६, २ २
 नाना-स्वर^०- -रा निस् ९, ९. २०
 नाना-स्वरह^०- -रवः बौश्रौ ११, ४:
 ११
 नाना-स्वस्त्य(स्ति-अ)यन- -नानि
 निस् ५, ५ २४.

नाना(ना-अ)हन्- -हंसु निस्
 १, १२: २७, ३, १० ३६;
 -होभिः निस् ४, १२. १०, १०,
 ८. २६, -हाम् निस् ६, ७ ४३,
 १०, ८: २७.
 नाना(ना-आ)हवनी(य>)या^०-
 -याः काश्रौसं ५. २.
 नानाहवनीय-पक्ष- -क्षे काश्रौसं
 ५: ३^२
 नाना-हविस्- -वीषि कौसू ७४,
 १५^१
 नाना(ना-अ)हीन- -नेषु आपश्रौ
 २२, १४, १५, मीसू १०, ५, ५६.
 नानान^१- -नम् ऋअ २, ९, ११२,
 अप्रा ३, ४, ७
 नानानीय^०- -येन वृदे ६, १३९
 नानान्द्र-, °न्द्रायण- ननान्द्र- द्र
 नाना श्रान्ताय^१ शाश्रौ १५, १९, १.
 नानेय^१- -य या १, ६.
 नान्त- न- द्र
 नान्तर्रीयक- १न द्र
 नान्ते^१ कौसू ८२, २१
 नान्त्र- पाठ ४, १६०
 नान्दी-, °दीन्कर- प्रष्ट √नन्द द्र
 नान्वार^१- > °र-वादिहक- -कान्,
 अप ५६, १, ८
 नापित^१- पाठ ३, ८७, पागम ११५,
 -^१०त बौश्रौ ६, २: ६, ३: ५,
 जैगृ १, ११: २१, २२, -तः
 बौश्रौ १७, ३९ २७, आमिष्ट,
 -तम् बौश्रौ १७, ३९ २, आप्,
 -ताय काश्रौ ७, २, १२, बौश्रौ,

a) विप। बस.। b) उप. = अक्षर-, जाति-, रङ्ग-। c) विप। तस्येदमीय. यत् प्र उस (पा ४, ३, १२१)। d) उप = शस्त्र-। करणे घञ् प्र.। e) कस > नृस। f) वैप १ द्र। g) विप। छ>ईयः प्र. (पा ५, २, ५९)। h) पदविभाग. ? नाना श्रान्ताय इति सा ङ (ऐ ७, १५), न, अनाश्रा° इति सा (पक्षे), नाना, अश्रान्ता° इत्यानर्तीयं भाष्यम्। i) = अन्य-। व्यु ?। < न, आ-नेय- (= न्य-) इति दु स्क. BNM - ङङ्ग [८५]। [पक्षे] दु < नाना- इति च ?। j) पाठः ? नान्क्ते इति संस्कर्तुः टि. शोध। k) = देश-विशेष-। व्यु. ?। l) वैप २, ३३खं द्र.।

-ते काश्रौ ७, २, ६
 नापित-कर्मन्- मँ बौगृ १, ८, १,
 -मणि हिपि १२: ५
 नापित-कृत्य- ऋधे हिश्रौ १०, १,
 ३३
नामस्- $\sqrt{\text{नम्}}$ नमस्- द्र
१, २ नाभाक- नभाक- द्र
नाभि^a-(बरा) पाउ ४, १२६, पाग ५,
 २, ९७, -फभय हिश्रौ ११, ७,
 ४०, अप्राय ६, २, -फभा
 आपश्रौ ११, ५, १, बौश्रौ, या
 ६, २१, -भि आश्रौ ३, २,
 २०, ८, ६, २३^f; शाश्रौ, लाश्रौ
 ९, १०, १३^b, १४^c, वैताश्रौ
 १९, १८^d, बौगृ १, २, ५०,
 ५, २९^e, हिगृ १, २४, ४^f, या ४,
 २१^g, १४, ११, -भिम्
 आश्रौ १, १३, १, २, ९, १०,
 शाश्रौ, काश्रौ ९, १२, ४^h,
 माश्रौ २, ४, १, ३५ⁱ, वैश्रौ
 १६, १८: ११^j, -भी हिश्रौ
 ९, ४, २८^k, -भे: काश्रौ २, २,
 १८^l, ९, १२, ४^m, आपश्रौ,
 चाश्र ३९: ८ⁿ, -भौ आश्रौ
 १, १३, १, शाश्रौ, या ४, २७,
 -भ्या या ४, २१, -भ्या
 आश्रौ ३, २, १^o, शाश्रौ, -भ्याम्
 शाश्रौ १६, ३, ३१, आपश्रौ,
 -भ्यै बौध १, ५, ७६^p
फनाभा-नेदिष्ठ^a- -ष्ठ: शाश्रौ १६,
 ११, २९; ऋअ २, १०, ६१;
 शुअ १, ५६८, २, १६, ७५,
 -ष्ठम् शाश्रौ १२, ८, २, १६,

११, २८, बौश्रौ १४, ५: २८,
 -ष्ठस्य शाश्रौ १२, ९, ६, -ष्ठे
 वृदे २, १३०
नाभि-कृन्तन- -नात् द्रागृ २, २,
 ३३, -नेन गोगृ २, ७, १६
नाभि-चषाल^a- -लम् माश्रौ ५,
 २, १२, ३६.
नाभि-तल- -लात् आशि १, ३
नाभि-द्वज्ज, घ्ना- -घ्नम् काश्रौ ८,
 ६, १, आपश्रौ, -घ्ना: बौश्रौ
 ६, १० ७, हिश्रौ ७, ७, १३,
 -घ्नाम् काश्रौ ७, ९, २४, -घ्ने
 आपश्रौ ५, १४, ८, ७, ११,
 ५×५, बौश्रौ
नाभिदन्वी- -घ्नीम् आपश्रु
 १०, ११, -घ्न्य आपश्रौ ११,
 १०, ६.
नाभिद्वज्ज-जानुद्वज्ज- -घ्नयो
 माश्रौ ४, ४, ८.
नाभिद्वज्ज-पा(द >)दा^a- -दा
 आपश्रौ १०, २९, ७, १९, ९,
 १०, माश्रौ
नाभि-देश- -शम् आश्रौ १, ११, २,
 आपश्रौ, -शात् कागृ ४१, ९,
 -शान् आपश्रौ १२, २४, १३,
 १३, ४, ६, -शे काश्रौ ३, ३, १,
 १५, ५, १३, आपश्रौ २, १३, ६,
 बौश्रौ २१, ८ १७, माश्रौ २,
 १३, ५, हिश्रौ ४, २, ६५, ७, १,
 ५०, बौगृ २, ५, १५, हिगृ १,
 ४, ४, कौसू ४४, २९, ५५, १६
नाभि-निर्गिक्-प्रवादा(द-आ)-
 दि^a-दी ऋप्रा ५, ४६.

नाभि-प्रदेश- -शात् आशि ८, १.
नाभि-मात्र- -त्रम् गोगृ ४, ५, २६:
 द्रागृ ४, १, १२, अप १३, १, ९,
 -त्रस्य काश्रौ ८, ८, ३७, -त्रै
 काश्रौ ६, ३, १३, १४, ३, १२,
 १८, १, ३; वाश्रौ १, ६, ३, २०,
 अप ३६, २६, २, ४३, ६, ३
नाभिमात्री- -त्रीम् काश्रौ १६,
 ८, २३.
नाभि-रूप्य- -प्यम् माश्रौ ५, २,
 ९, ७.
नाभि-ल- पा ५, २, ९७
नाभि-लोमन्- -मानि कौसू १३,
 ४
नाभि-वक्ष-शिरो(रस्-अं)सक-
 -कान् कप्र १, १, ५.
**नाभि-वत् काश्रौ १८, ३, ५.
 नाभि-संमित-** -तः आपश्रौ १४,
 ५, ९^f
नाभि-स्पर्श- -शैव शंघ ४५७ =
 १५
नाभि-स्पृश- -स्पृशम् काश्रौ २६
 ७, १४
नाभ्य^g- -भ्यानि मागृ २, ७, ९
नाभ्यु(भि-उ)पस्थ- -स्थयो: वैगृ ७,
 ४: २
नाभ्यु^h- -भ्यु. वैताश्रौ २७, १६^f
फनाम्^m द्राश्रौ ६, २, १८; लाश्रौ २,
 १०, १८ निसू १, ७: २८.
नाम्ⁿ > ना-शब्द- -ब्देन लनिसू २:
 ११.
नामन्^o- पाउ ४, १५१, पाग १, ४,
 ७^o, २, ४, ३१^o, ८, १, २७,

a) वैप १ द्र । b) पाभे. वैप १, १७८९ b द्र । c) पाभे वैप १, १७८९ c द्र । d) पाभे.
 वैप १, १७८९ h द्र । e) सस्थ वाच्- > वाक् टि द्र । f) पाठः? नामिम् इति शोध (तु संस्कृत-
 टि.) । g) सपा. °भिम् <> °भी इति पाभे । h) = ऋषि-विशेष- । i) विप । बस । j) द्रस. > बस. >
 बस. । k) नाप (सन्धिकालिक-कर्मन्- [= स्थालीपाकविशेष-]) । तत्रभवीयः प्र । नाभि- < $\sqrt{\text{नम्}}$ [°बन्धने] इति द्र. ।
 l) अर्थ. व्यु. च ? । m) तनूनाम् [ऋ ६, ४८, २] इत्यस्याऽन्त्यावयवः । n) ब३ अनुकरणम् । o) तु. पागम. ।

-म^३ आश्रौ १, २, १, २, ५, ३^३†, १०, ३, १३, १४†^३×, ६, ७, ८†^३, ९, १^३†, ९, ९, ११†^३, शाश्रौ, आपश्रौ ९, १९, १२†^३, आपमं १, १०, ९†^३×, २, ११, २२†^३, निघ १, १२†^३, या १, ८^३, २, १५, ३, २२†, ४, २५†, २७, ५, ९†^३, १३†, २३^३, ६, १४, ३२, ९, ४, १४, २†^३, ११, ऋप्रा १२, १८†^३, -०मन् आश्रौ ८, १३, १०, शाश्रौ १०, १४, ६, †बौश्रौ, -मनी आश्रौ १, ९, ५, शाश्रौ, आश्रिण १, १, ३ ६^३, या ३, १०, ५, ७, -†ममि बौश्रौ १४, २१, ३०, ३१, १६, २६ १३, जैश्रौ, बुदे २, ९७^३, †या १२, ३, -मसु बुदे २, ९६^३, ऋप्रा ६, ५६, १६, ५६^३, -मानि आश्रौ २, ६, २४, आपश्रौ, बुदे १, २७^३, या १, १^३, १२^३, २०, ३, १३, २०, ७, १, ९, २८, -झः आश्रु ३, १०, ३, भाश्रु ३, १३, ११†, हिश्रु १, २४, ४^३, २५, १^३, आपध, मीसू ७, ३, ३^३; -झा आश्रौ ५, ३, १५, ८, १३, १०, शाश्रौ, †आपश्रौ २, १०, ३^३, ११, ६^३, -झाम् बुदे १, ८०, २, ७१, ऋत ५, २, ४^३, -झि शंघ २१, बुदे ८, ८५; -†झे बौश्रु २, ८, २९, भाश्रु ३, १३, ११

नाम-करण^३- -ण^१ या १, १७, २, २, ५^३, ७, २९, १०, १७, -णम् बौश्रु २, १, २३, वैश्रु, -णस्य वैश्रु ६, ४ १३, -णात् वैश्रु ७, ५ २, शंघ ३५७, -णेन जैश्रु २, ५ ६^३ नाम-कर्मन्^३- -र्म जैश्रु १, ९ : १, शंघ १९ नाम-गृह्य आपश्रौ ३, १४, १, भाश्रौ ३, १३, १ नाम-गोत्र- -त्राणि वाश्रौ ३, २, १, २०, -त्राम्याम् विघ ७३, १४, २७, -त्रे कौसू ५५, १०, गौघ २, २९, -त्रेण अप ४४, १, २४ नाम-ग्रहण- -णम् शाश्रौ ६, १, २४, आपश्रौ ४, १६, ६, ११, १९, ११, वैश्रौ १४, १७ : ११ नामग्रहण-भोजन- -ने काश्रौ ८, ७, २१ नाम-ग्राह- -ह. द्राश्रौ १, ३, १८, ४, ११×, लाश्रौ १, ३, १७, ४, ७×; निसू, -हे वाश्रौ १, १, ३, ११ नाम-ग्राह्य काश्रौ ९, ११, ७, १४, ५, २७, बौश्रौ, पा ३, ४, ५८ नाम-जाति-ग्रहण- -णे विव ५, २५ नाम-तस्र() जैश्रौका ७१, १५२, कौश्रु २, ६, ९, कौसू नाम-दा- -दा आश्रिण २, ५, ६ ११† नाम-धातु- -तूनाम् पावा ६, १, ३, -तो यावा ८, ३, ६५

नाम-धा (न>)नी^३-नी निसू ३, ९ : २६, -न्या निसू ३, ९ : ३७ नाम-धारक- -काः बौध १, १, ११ नाम-धेय- पावा ५, ४, ३६, -यम् शाश्रौ ९, १, ३, हिश्रौ, या १, ६, ७, २, ५, ७, ५, ९, ८, ५; ८, -यस्य पावा १, १, ७३, २, ३७, -यात् काश्रौ १२, ४, २१, वाश्रु ३, १, मीसू १२, ३, १; -यानि हिश्रौ २, ७, ३०, निसू; या १, २०, २, २८, ७, ५, -ये बौश्रौ २४, २० : ११, १२; माश्रु १, १०, १५, २२, ५, कप्र ३, ६, ९, मीसू १, ४, ६, -येन हिश्रौ ७, १, ५८, निसू ९, ७ : ३, १८^३, काश्रु ४७, ११, या ७, १८, २०, ३१, -येषु हिश्रौ १०, २, ३७, -यैः शाश्रौ ७, ४, १३, काठश्रौ नामधेय-करण^३- -णम् गोश्रु २, ८, ८ नामधेय-प्रतिबन्ध- -म्भः या १, १२, -म्भम् या १, १४^३ नामधेय-सारूप्य- -प्यात् निसू ३, ८ १३ नामधेया(य-अ)ग्रहण- -णम् शाश्रौ १०, १, १७ नामधेया(य-आ)दि^०- -दौ कप्र २, ९, १८ नामधेया(य-अ)नुकीर्तन- -नैः बुदे १, ८९

a) क्वचित् प्राकाश्यादिष्वर्थेषु द्विप सद् वा क्रिवि (वैतु. अभा. ०म- इति प्राति.) । b) पाभे वैप १, १७९० i द्र. । c) पाभे. वैप १ मगः मै १, ४, १४ टि. द्र. । d) पाभे. वैप १, १७१४ m द्र. । e) = उदक- । f) = प्रातिपदिक- । g) सङ्घत पाभे वैप १, १७९१ I द्र. । h) सपा नाम नि^० इति पाठः ? यनि. शोष (तु हिश्रु १, ५, ६) । i) पाठः ? ना(=नौ), मनः इति द्वि-पद. शोष (तु सपा. बौश्रु १, ५, २९ वैश्रु ३, ८ : ६, ८) । आपमं १, ३, १४ नौ मनासि इति पाभे. । j) पाभे. वैप १, १७१६ C द्र. । k) = संस्कार-विशेष- । l) = प्रत्यय-पर्याय- । m) = नामन्- । n) = ऋग्-विशेष- । उस. उप. करणे कृत् । o) विप. । वस. ।

१६, १३, १^a, आपश्चौ १६, २८, ३x, वैश्रौ १८, २० २४, हिश्रौ

नारायण-परा(र-अ)यण^b- ण
वैश्रौ १२, १० ६; वैगृ १, १:
१७, वैघ १, ३, ४, ५, ५

नारायण-बलि^c- -लिम् आमिगृ
३, ११, ४^० १, वैगृ ७, ४: १५,
वैघ ३, ८, ६, ७, ९, १.

नारायणस्या(स्य-अ)यन^d- नम्
लाश्रौ १०, १३, ४, -ने निस्
१०, ८ २८.

नारायणा(ण-आख्या>)ख्य^e-

ख्यस्य वैश्रौ १८, २०: २३

नारायणा(ण-आ)दि-दीन् वैगृ १,
३. २३, वैघ २, १३, ५

नारायणीय^f- -यम् विघ ५६, २५

नारायणीय-कौण्डिन्य^g- -न्यस्य
सुप्र २, ४२८^h.

नाराल- नरालि- द्र

नाराशंसⁱ- -सः शाश्रौ १६, ११,
३२ⁱ, १४, ११ⁱ, काश्रौ १९, ६,
८^k, २५, १२, ११ⁱ, आपश्चौ
१४, २८, १ⁱ, २१, २, ६^k, बौश्रौ
७, १५: २४, वैश्रौ १५, ३३
१८, २१, १५: १^m, हिश्रौ १६,
१, २६, जैश्रौका १४३, निघ ५,
३, या ९, ९^l, तैप्रा १६, ४, -सम्
शाश्रौ १३, १२, ७, १६, १४, १०,
बौश्रौ २५, २२: १, वैश्रौ २१,
१५: २; हिश्रौ १५, ७, ९;
जैश्रौका १७३, द्राश्रौ ६, १, १,
लाश्रौ २, ९, १; -सस्य जैश्रौ

१५ ३, जैश्रौका १८८, -सा:
आश्रौ ५, ६, ३०, शाश्रौ ७, ५,
२१; काश्रौ ९, १२, ८, आपश्चौ
१२, २५, २५, काश्रौस ३३: ६,
बौश्रौ ७, १५: १३, १७: १०,
१७, ३१, ८, ४ २९, ७ १८,
२४, ८. १६, १२: ४१, १३:
२५, १०, ५७: १६, ११, ६:
३५, १२, ७. ४६, बौश्रौप्र ५४,
२, माश्रौ ३, ६, १२, वैश्रौ १५,
३३: ९, ३७ ७, १६, १६ ४,
हिश्रौ ८, ७, ६६, जैश्रौ १५ १,
१७, १८ १५, द्राश्रौ ५, १,
१५, लाश्रौ २, ५, १३, अप्राय
३, ३, या ७, ४, -सात् अप्राय
६, ५, -सान् आपश्चौ १२, २४,
७ⁱ, २८, १; बौश्रौ ७, १७. ८,
१२, २८, ३०, ३२, १८ १०,
८, ७ १६, १८, २०, ८.
१३, १५, १७, १३: २३, २५,
२७, ११, ८ २०, २२, १२
११, १२, १३ १७, १९, १६
१२; बौश्रौप्र ५४: १ⁿ, वैश्रौ १५,
३६: ९, १६, ९ ६, ११, हिश्रौ ८,
२, १९, २०ⁱ, ८, ३३, जैश्रौ १५
१, १७ १, १९ १, वैताश्रौ
२०, ७, १७, या ११, ५ⁱ,
-सानाम् शश्रौ ७, ५, २२ⁱ,
८, २, १३, काश्रौ ९, १३, ३५,
आपश्चौ १२, २८, ३, १३, ४, १०,
११, ५, बौश्रौ २१, २०: २८;
२२: ११, २३: ५, वैश्रौ १६,
९: ७, हिश्रौ ८, ८, ३५, ९, २,

२७, लाश्रौ ८, ९, १४, -सानि
शाश्रौ १६, १०, १३, ११, ३१;
ऋअ २१, १३, निस् ४, ८: ५,
-साय हिश्रौ २१, १ २ⁿ, -से
शाश्रौ १३, १२, ८, काश्रौस ३३:
४, -सिन द्राश्रौ १३, २, ८,
लाश्रौ ५, २, ११, कौस् ८९, १,
-सेषु आश्रौ ११, ६, ३, काश्रौ
२२, ५, १५, आपश्चौ १३, ५, १,
१२, ९, २०, २५, १५, २२, ७,
१० ८, १९, ९, २२, ११, ७, बौश्रौ
१८, २: १३, वैश्रौ १६, ६:
३, १४ ११, हिश्रौ ९, २, ११,
३, ५३, १०, ४, ३३, १४, ६, २६;
१७, ३, १०, ४, १७, जैश्रौ १४:
१६, १७ १, १८ १५, जैश्रौका
१४६, द्राश्रौ ४, १, २३, लाश्रौ
२, २, ९, ८, ७, ५, वैताश्रौ २०,
११, निस् ४, ८ ४
नाराशंसी^o- -सी शाश्रौ ५,
१६, ७, निस् ४, ८ २, ऋअ २,
१, १८, -सी वाधूश्रौ ४, २९:
१९, आगृ ३, ३, १-३, आमिगृ
२, ६, ४ ९, १२, बृदे ३, १५४;
७, १३९, -सीम् बौश्रौ १०,
११ ८, ९, लाश्रौ ६, ४, १४, निस्
४, ८: ४, -स्या आपश्चौ २२,
२५, १६; बौश्रौ १६, ६: ६;
हिश्रौ २३, ४, १०
नाराशंस-चमस- -सान् माश्रौ २,
४, १, ४७
नाराशंस-वत्^p- -वताम् शाश्रौ ७,
४, १५, -वन्ति या ८, २२.

a) = पुरुष-सूक्त-। b) विप। बस > कस। c) = कर्म-विशेष-। d) = सत्र-विशेष- (तु सपा.
काश्रौ २४, ७, ३३)। e) विप। बस। f) तस्येदमित्यर्थे छ > ईयः प्र.। g) कस.। पूष. = नारायण-शिव्य-।
h) ष्वा कौ० इति पाठः? यनि शोध. (तु भाष्यम्)। पृ ८८० सस्य कौण्डिन्यस्य इति नेष्टम्। i) वैप १ द्र.।
j) = सुस्य- (= परमात्मन्- इति भाष्यम्)। k) = प्रयाज-। l) = चमस-। m) = ग्रह-विशेष-। n) = प्रवर-
विशेष-। o) = ऋच्, गाथा-। p) विप. (ग्रह-, सूक्त-)

नाराशंस-वर्जम् आपश्चौ १२, २८, १५.
 नाराशंस-सादन- -नात् आशौ ५, १३, ११, १७, ४.
 नाराशंस-स्थान- -ने काशौ १४, १, १८.
 नाराशंसिन्- -सिनाम् वैश्री १८, ५. ८^३, वैताश्री १०, १२, -सीनि निस् ४, ८. ३.
 १नाशि^३- -रि. आपश्चौ १५, १, ३, बौश्री ४, २: २९, ६, २६. २, १८, २८: ७, २, २: ५, माश्री १, ८, २, २, २, २, ३, २, वाश्री १, ६, १, १९, वैश्री १३, १ ७, हिश्री २४, १, ३; शुश्र ४, ७२.
 २नारि- वृ- द्र
 नारिकेल^०- > ल-ज- -जम् विध २२, ८३.
 नारिष्ठ^०- -फंछयो आपश्चौ २, २०, ६, बौश्री २४, २९. १८, भाश्री २, १९, १, हिश्री २, ५, ४७, -छान्^० आपश्चौ २, २०, ६, काश्रीसं ४ १०, ५: ७, ६. ११, भाश्री २, १९, १, ७, २०, ९, हिश्री २, ५, ४७, -छाभ्याम् शाश्री ४, १०, १, -छौ आपश्चौ २, २०, ६, बौश्री २४, २९: १४, भाश्री २, १९, १, हिश्री २, ५, ४७
 नारिष्ठ-होम- -मान् वैश्री ६, १०: १
 नारी- प्रसृ. वृ- द्र
 नार्कविन्द^१- -न्दा. अप १, ८, २.

१नाति^३ आपश्चौ १५, १७, ५.
 नार्तिक- √वृत् > २नर्त- द्र.
 नार्मत- वृ-मत्- द्र
 नार्मि(ण >)णी^३- -णीम् जुस् १, ६: १४^१.
 १, २नार्मेध- वृ-मेध- द्र.
 नार्थ^३- -र्थ: निघ ३, १७.
 नार्विदाल^१- -ला. अप १, ८, २.
 नार्षद्- वृ-षद्- द्र
 १नाल- √नल् द्र.
 २नाल^३- पाग २, ४, ३१^२
 नालिकेर^०- पाउभो २, ३, ६१, -रै: गौपि १, ४, १७.
 नालीक^३- (> क्कि(न् >)नी- पा) पाग ५, २, १३५.
 नाल्य- २नल- द्र.
 नावमिक- नवन्- द्र.
 नावयज्ञिक- नव- द्र.
 १नावा^१ माशि २, ११.
 १नावाख्या: बौश्री १८, ४७. १८.
 नाविक- नौ- द्र.
 १नावीररस्तारम्^३ शाश्री १२, १४, ५.
 १नाव्य^१- (> व्यायन- पा) पाग ४, १, ९९
 २नाव्य- नौ- द्र
 नाश- √नश् (अदर्शने) द्र.
 १ना(न-आ)शक^३- -कम् सुघप ८६ १, -के सुघ १७
 नाशन-, नाष्ट- प्रसृ. √नश्(अदर्शने) द्र.
 नाष्ट्रायण^१- -णा: बौश्रीप्र ४ ३

√नास् पाधा. भ्वा आत्म. शब्दे.
 १नास, सा^३- -सा विध १६, ७५;
 -सात् माशि १०, १०; -साम् नाशि १, ५, ७^३.
 नासा(सा-अ)अ- -अम् वैश्र ३, १४: ७.
 नासा(सा-अ)न्त- > ण्तिक^०- -क: कप्र ३, ८, १२.
 नासा-पुट- -टे वैश्र ३, ९: ११;
 शंघ ५७, ४५६.
 नासापुट-द्वय- -यम् शंघ ४५७: १, ४५८, -वे शंघ ४५७. ११.
 नासा-मूल- -लम् याशि २, ७१.
 नासत्य^३- -त्य: वृदे ७, ६; -त्या: आश्री ५, ५, १२^१, या ६, १३^१; पा ६, ३, ७५^२, -फं^०त्या आश्री ३, ८, १^३, ४, १५, २××, अप्राय; या ६, ७, -फं^०त्याभ्याम् आश्री ४, १५, २, शाश्री; -स्त्यौ वृदे ३, २१, ४०, ८, २०; या ६, १३^१.
 नासत्य-दक्ष- -क्षौ शंघ ४५७ ११.
 नासनयोग- १न द्र.
 २नासा^३(> नास्य-पा) पाग ४, २, ८०
 १नासिका^३- पाग ५, २, १२७^३;
 -कया वाध २, ३५, -कयो: शाश्री ४, १४, २२, काश्री; -का अप ४७, २, ३, वाध २, ३५; या ६, १७^३, शौच, -काभ्याम् आश्री ५, ६, २, शाश्री १६, १३, ४^१; आपमं १, १७, १^१; कौश्र १, १३, २^१; शाय १, २१, ३^१;

a) = प्रवर-विशेष- । b) वैप १ द्र । c) = वृक्ष-विशेष-, तत्फल- । व्यु. १ । d) वैप २, ३खं. द्र. । e) = तदास्य-होम- । f) = देश-विशेष- । व्यु. १ । सपा. पै १३, १, १३ पाभे. द्र । g) यज्ञ-नामन्- । व्यु. १ । < √ नृ इति दे ? । h) अर्थ: व्यु. च ? । १) सङ्कृत् शाल- इति पाका । j) पाठ: ? । नौ वा इति सूको. । k) पाठ: ? तु. वैप १ मरि. नावीर^० टि. । अस्तारम् (< √ अस् [क्षेपणे]) इति नेष्टम् । l) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? । m) = उपपातक-विशेष- । = अनशन- इति अपराकः [तु. संस्कृतुः टि.] । तस. उप. वैप ३ अनाशक- टि. द्र. । n) वृ १७६ ८ द्र. । o) भवार्थे ठक् प्र. । p) वैतु. पाका. पासि. प्रसृ. प्र३ इति । q) तु. पागम. । r) पाभे. वैष १, १७९५ h द्र. ।

अप २३, ३, २, -काम् वैगृ १, २.
 १०; १९, -कायाः माशि १, ११,
 २, १३, नाशि १, ६, १३, पा ५,
 २, ३१, ४, ११८, पावा ६, १,
 ६३, -कायाम् आपश्रौ १६,
 २७, ४, बौश्रौ, -के शाश्रौ ४, ७,
 ११, काश्रौ, या ६, १७
 नासिकं धम-, °कं-धय- पा, पावा
 ३, २, २९
 नासिक-वत् वैश्रौ ११, ७. ९
 नासिका(का-अ)ग्र-ग्रम् विध ९७,
 १^b, -ग्रे वृदे ८, ११३
 नासिकाग्र-तस् () याशि १,
 ५५
 नासिका-च्छिद्र-द्रयोः आशिगृ ३,
 ४, १ ३०, -द्रे वाश्रौ २, १, ७,
 ५, आशिगृ
 नासिका (का-आ) दि- -दिभ्यः,
 -दीनाम् पावा ४, १, ५५
 नासिका(का-अ)न्त-न्तः वैगृ २,
 ४ ४
 नासिका-पुट-टयो वैगृ ५, ४. ४,
 २६.
 नासिका-प्रभव-वौ या ६, १३
 नासिका-मूल-लेन शुप्रा १, ८२
 नासिका लोचन-त्वग्-जिह्वा-श्रोत्र-
 -त्रम् विव ९६, ९४
 नासिका-विवरण-पात् तैप्रा २,
 ५२^२
 नासिका-स्थान-नम् ऋप्रा ६,
 ४१, -नाः तैप्रा २, ४९, आशि
 १, २४.
 नासिका-स्रोतस्-तसि गोपृ २, ६,
 १०, द्रापृ २, २, २३

नासिको(का-उ)दरौ (र-ओ)ष्ठ-जह्वा-
 दन्त-कण्-शृङ्ग- -ज्ञात् पा ४,
 १, ५५
 नासिको(का-ओ)ष्ठ- -द्यौ शैशि ४१,
 आशि ८, २४
 १ नासिक्य, कया^d - पावा ६, १, ६२,
 फि ६५, -क्य वृदे ८, ११८,
 शुप्रा, -क्यम् अप ४७, २, १०,
 ऋप्रा, -क्यस्य चात्र ८ ३^f,
 -क्या ऋप्रा ६, ३६^o, -क्या
 तैप्रा २, ४९, २१, ८, १२, शैशि
 २५, २७, आशि १, १९, -क्यान्
 ऋप्रा १, ४७, -क्यानाम् शौच
 १, २६, -क्ये अप ४७, २, ३,
 -क्येन वैताश्रौ ५, १६, शौच
 १, १००
 नासिक्य जिह्वामूलीय- -या
 आशि १, २१
 नासिक्य-यमा (म-अ) नुस्वार-
 -रान् ऋप्रा १, ४८
 नासिक्य-लत्व-मध्य- -ध्ये
 भाशि ९३
 नासिक्य-संगत- -तम् शैशि
 २२३
 नासिक्या(क्य-अ)भिनिधान-
 -नौ अप ४७, १, ११
 नासिक्यौ(क्य-ओ)ष्ठ- -ष्ठया.
 शुप्रा १, ८०
 २ नासिका¹ - -काम् अप १, २६, ५.
 ३ नासिका^६ - (> २ नासिक्य- पा)
 पाग ४, २, ८०
 नासीर^६ - पाउना ४, ३६
 नास्तिक-, °स्तिक्य- १ न द्र
 नास्य- २ नासा- द्र

नाह- ✓ नह द्र.
 नाहल^६ - पाउमो २, ३, ९९
 १ नाहुष- १ नहुष- द्र
 २ नाहुष-, °षी- नहुस्- द्र
 नि या १, ३, ऋप्रा १५, १७, शुप्रा ६,
 २४, तैप्रा १, १७, पाग १, ४,
 ५८
 नि- ने पा ६, २, १९२
 ✓ निस्^h पाधा अदा आत्म चुम्बने-
 निंसान- -नम् हिश्रौ ३, २, ५३^१
 नि(स् >) ✓ क्षिप्, नि क्षिपेत्
 कप्र १, ४, ३
 नि(स् >) -पुरीष^o -षम् आश्रौ ६,
 १०, ५
 नि(स् >) -प्रकम्प- > °म्पिन्-
 -म्पिन. अप ६८, १, २६
 नि(स् >) -प्रकाश^o -शम¹ अप
 ६४, २, ३
 नि(स् >) -प्र(भा>)भ^o -भ अप
 ७०^३, ११, ३, -भाणि अप ५२,
 ११, २
 नि प्रभ-प्र(भा>)भ^o -भा अप
 ५२, ८, ५
 नि(स् >) ✓ प्लु, नि. प्लावयामि हिश्रौ
 ६, ६, २४^१
 नि-कक्ष¹ -क्षयो कौगृ १, २१, १६,
 शागृ १, २८, १८, -क्षे काश्रौ
 १८, २, १, ३, २, माश्रौ ६, २,
 ४, ९
 १ निकट^६ - पाग¹ २, ४, ३१, ४, ४,
 ७३, ५, १, १२४
 नैकटिक- पा ४, ४, ७३
 नैकट्य- पा ५, १, १२४
 २ निकट^६ -दाभ्याम् कौस् ३०, १०.

a) वतिः प्र. । विशेषः वैप १, १७९५ j द्र । b) स्वनासि^o इति जीसं । c) विप. । बस. ।
 d) विप > नाप (अनुनासिक-, अनुस्वार-, यम-) । e) विग । f) वैप १ द्र । g) अर्थः व्यु च १ ।
 h) पा ८, ४, ३३ पावा ८, ३, ५८ परामृष्टः द्र. । i) वा. क्वि. । j) वैप २, ३ खं. द्र. । k) = समीप- । व्यु १ ।
 <नि/कट् इति अभा. शक. । l) तु पागम ।

निकाटित- (> ंतिन्- पा)

नि/कथ् > निकथित- टि द्र

नि/कथ् > निकथित^a- (> ंतिन्-
पा) पाग ५, २, ८८नि/कम्, निकामयते निसू ८, ४
४, नि० कामयते बौश्रौ १४,
२४ १, १४, नि (कामयते)
बौश्रौ १४, २४. २, १४,
निकामयते कागुड ३९. ४नि-काम- -म शागु ५, २, ५^b,
आपध २, ७, १४, हिध २, ०,
३३, अत्र १५, ११(२)†, -मम्
अप १०, १, २०, पाग १, १,
३७^c

निकाम-तस् () कप्र १, ८, ८

नि-कामन- -नात् द्राश्रौ १५, ३,
१२नि-कामयमान- -न काश्रौ २५,
१३, १६, निसू ४, ७ ४नि-कर^d- -रा अप ५२, २, ३?निकल्क^e- > ंल्क-युक्त- -क्त अत्र
७०^३, ११, १२नि/कष् > नि-कष- -षः पावा ३,
३, ११९

नि-कषमाण- -गाय भाशि ९६†

निकषा^f पाउ ४, १७५, पाग १, १,
३७, पावा २, ३, २नि-काय- , निकायिन्- , नि-काय-
नि/चि द्रनि/कि, ङनिचिक्यु बौश्रौ १९, ७
१४, या १४, २३, नि चिक्यु
या १४, २३†.नि/कित् > नि-केतन^g- -नम् गौ^h

९, ६५

नि-कीर्यं नि/कृ द्र

नि/कुच् , ङच् > नि-कुचित- -ते
पावा १, १, ३९नि-कुच्य- > निकुच्य-कणि- पाग
२, १, ७२^c, पा, पाग ५, ४,
१२८.निकुञ्ज^b- पाउभो २, २, ८८, पाग २,
४, ३१^c, -ञ्जेषु विध ८५, ५९

नि/कुट् > नि-कुट्य निसू ३, १२ ३

निकुम्मि(ल) > ल- पाउना १, ५६

निकुलम्ब- पाउभो-२, २, २२५

नि/कूड्(दाहे) > नि-कूड्य आपश्रौ
७, १९, ८नि/कृ, निकरोति बौश्रौ १४, १०.
३४†, या २, ९नि चकार या २, ९††,†,†,
†नि(क) बौश्रौ १३, २४ ११,
२६ ५, वैश्रौ २०, ३. १५,

ऋञ्च २, १, ७२

?नि-कृतिⁱ- > नैकृतिक^j- -क
विध ९३, ९नि/कृत् (छेदने), निकृन्तते आपश्रौ
५, ४, ९, २०, १, १०, बौश्रौ,
निकृन्तति काश्रौ ७, २, ६, वाश्रौ
३, ४, ४, १४, न्यकृन्तत् वृदे ४,
२२.निकृन्तयन्ते शाश्रौ १८, २४, २०,
निकृन्तयेत् लाश्रौ ९, २, २०,निकृन्तयीत् बौश्रौ १७, ४०
१४, २४, २१ १४, आमिगु
३, ५, १. १९, बौशि १, २ : ५

नि कृत्- -त्तम् या ६, ३

निकृत्त-द्वार^k- -रः या १, ९.निकृत्त-नख, खा^l- -खम् बौश्रौ
२, ८ : ९, ६, २. ६†, जैगु २,
४ ७, -खाम् बौश्रौ ६, ३: ६.नि-कृय बौश्रौ १५, २ : १८;
आमिगु १, ३, २ २१, वाध
२४, ५, वृदे ६, ८२?निकृन्तम् सु २७, २.
२नि-कृति^m- -तिम् शध ११६ ५९नि/कृष्, निकर्षति कौम् ३१, १०;
निकर्षेत बौश्रौ २४, २३ ६.नि कृष्ट- -ष्ट. या २, २०, -ष्टे
वैध ३, १५, १०

निकृष्टा(ष्ट-अ)हि-नि(भ) >

भा- -भा अप ५८^२, ३, ५.नी(<नि)-कर्ष- > नीकर्षिन्ⁿ-
-र्षी लाश्रौ ८, १२, ६नि/कृ > ङनि-कीर्य^o आपश्रौ २१,
२०, ३, वाश्रौ ३, २, ५, ४३,
हिश्रौ १६, ६, ४१, वैताश्रौ ३४,
९, अशा २२, ३, ४नि/कल्प, निकल्पेते आपश्रौ २१,
१७, १८, १८, ४, निकल्पन्ते
आपश्रौ २१, १७, १६, १७, १८,
७, हिश्रौ १६, ६, १४.

निकृत्त- , निकृत्वा > निज् द्र

नि/कृन्द्, न्यकृन्दीत् या ९, ४.
न्यकृन्दीयन् या ९, २३†.नि/कृम् > नि-कृम्यमाण- -णेषु
आपश्रौ १०, २२, १२; वैश्रौ १२,
१६ १७नि/क्रीड् > ङनि-क्रीडयत्- -यन्
लाश्रौ ७, १२, ९.

a) निकटित- इति [पक्षे] पागम । b) = अग्नि-विशेष- इति MW । c) तु. पागम ।

d) = समूह- । व्यु. ? । < नि/कृ इति शक, < नि/कृ इति अभा । e) अर्थः व्यु. च ? । f) समीपार्थे

अव्य । व्यु. ? । g) = गृह- । गस उत्र अधिकरणे कृत् । h) = लता-गृह- । व्यु. ? । i) भाप. (परपीडन-)

j) टक् प्र उस (पा ४, ४, १०२) । k) विप । बस. । l) = रुद्र-विशेष- । व्यु. ? । m) विप. > नाप. (लिच्छ-

प्रसारिमयूर-वत्) = वाजपेय-विशेष- । n) सपा. काश्रौ १३, ३, २६ निगीर्य इति पागे ।

नि/कृ > नि-कण-, नि-काण- पा
३,३, ६५

नि/क्षि पाषा भ्वा. पर चुम्बने
नि/क्षिप्, निक्षिपति वैगृ ५,
१५:१०, निक्षिपेत् वैश्रौ
२, ६:८; जैश्रौका १४५, वैगृ
३, १९:१२, कप्र २, ८, १५,
अशां २०, ५१, शंघ ८७.

नि-क्षिप्त, सा- स विध ५, १८४,
-सम् विध ५, १७१, -सस्य
अप ६८, २, १४, -साया विध
३६, ७, -से याशि १, ६७

नि-क्षिप्य वैश्रौ ४, ११ १६, १५,
२३.१, जैश्रौका.

नि-क्षेप- -यः याशि १, ६६
निक्षेप-संज्ञक- -क माशि ८, ४.

निक्षेप-स्तेय- -येषु विध २, ३
निक्षेपा(प-अ)पहरण- -गम्
विध ३६, ३.

निक्षेपा(प-अ)पहारिन्- -री
विध ५, १६९, ५२, ४

निक्षेपो(प-उ)पनिधि-स्त्री-
-स्त्रियः वाघ १६, १८

नि-क्षेपण- -गम् बौध ३, २, ८

नि/खन्, निखनति काश्रौ २६, २,
२९, वाश्रौ, निखनन्ति शाश्रौ
४, १५, ८, द्राश्रौ, निखनामि
कौसू ४४, ३३, निखनेत् आपश्रौ
३, १४, २; १५, १९, ९; भाश्रौ,
निखनेयुः वैश्रौ २१, ९.१,
लाश्रौ ८, २, ३, द्रागृ २, ३, ३१
निचखान बौश्रौ ६, २८:१३, १

१८, ४५:२५; निचखानुः कौसू
३६, १८.

निखानयेत् माश्रौ ३, ५, १८

नि-खनत्- -न् कौसू ५१, १,
-नन्तः कौसू १३२, १

नि-खनन- -नम् बौपि ३, ६, ३.

नि-खात, ता- -तम् अप ३६, २९,
१; -ता द्राश्रौ १५, ४, २,
लाश्रौ ५, १२, ९, -ता
आपश्रौ १, ८, ७, कौसू ८७, २२,
अश्र १८, २, -तात् आपश्रौ ११,
१०, २, -तेषु आपघ १, १५,
१४, हिघ १, ४, ७३.

नि-खात-क- -क शाश्रौ १२,
१८, ११, -कम् आश्रौ ८, ३,
१७, शाश्रौ १२, १८, १

नि-खातव्य- -व्यम् काश्रु ७, ८

नि-खाय आश्रौ ६, १०, २४,
शाश्रौ, आपश्रौ १८, ४, ३०,
शागृ १, १५, ६.

नि-खेय- -यः विध ५, २५

नि-खर- -रः शागृ ५, २, ५

नि-खर्व- > निखर्व-क- -कम् क्षुसू
२, ९:१९.

नि-खर्वाद्- -दे शाश्रौ १५, ११, ४

नि/खिद् > नि-खिदत्- -दन्
आपश्रौ २४, १४, ५

नि-खिल, ला- -लम् माश्रौ १, ७, ८,
१०, -ला बृदे २, ६

नि/खै(स्थैर्ये), निखापयेत् काश्रु ७,
१०

नि/गच्छ, गम्, निगच्छति या ११,
३९; निगच्छतः शाश्रौ ५, १८,
७, निगच्छन्ति शाश्रौ १, १६,
१०, १७, ६x४.

निजगिममः कौसू ४२, १७.

निगमयेत् वाश्रौ ३, २, ६, ४०,
निगमयेत् आश्रौ २, १९, ९

नि-गत- -तम् अश्र १३, ४

नि-गन्तव्य- -व्यम् आपघ १, १३,
११, हिघ १, ४, २५

नि-गन्तु- -न्तवः या १, १.

नि-गम- पा ३, ३, ११९, पाग
४, ३, ७३, ५, ४, ३८, -म-
कौसू ९१, २०, वाघ ४, २, १७,
४, या २, ३, ६x४, -मा-
शाश्रौ ५, १८, ७, १९, ५, काश्रौ
५, १२, ७, भाश्रौ १०, २१, १०,
बृदे २, १३६, या १, १, २,
५x४, मीसू १०, ४, ५४; -मान्
शाश्रौ ९, २७, ३; या ४, १, -मे
आश्रौ ३, ६, १६, पा ६, ३, ११३,
४, ९, ७, २, ६४, ३, ८१, ४,
७४, -मेषु आश्रौ १, ३, १९,
२१x४, शाश्रौ, -मौ या ३,
२०, २१, ५, ५.

नैगम- पा ४, ३, ७३;
-मा या २, २, -मानि या
१, २०, -मेभ्य या २, २

नैगमी- -मी अप्रा २,
२, २१, ३, २१, ३, ३, १९

निगम-चतुष्पथ- -थे मागृ २,
१४, २८

निगम-स्थान- -नानि शाश्रौ १,

- a) द्वस । निक्षेप- = अमुद्रितद्रव्य-न्यास-, उपनिधि- = मुद्रितद्रव्य-न्यास- (तु मिताक्षरा [यासृ २, ६५; ६७]) । b) वैप १ द्र । c) निघाय इति संस्कृतुः टि । d) सपा कौगृ १, ९, ७ निघाय इति पाभे । e) गस. उप. क्यप् प्र ईकारदेशश्च (पा ३, १, १११) । f) = अग्नि-विशेष- इति MW. । व्यु. १ । g) = L १०० अर्बुदमिता-] संख्या-विशेष- (तु. म. L मा १७, २३) । व्यु. १ । h) = अ-खिल- । i) = नगर-, वेद- (तु. अभा.) । मध. । उप. करणाधिकरणयोः घ. प्र. । j) तु. पागम । k) = देवता-संकीर्तन- इति विद्याधरः । l) = वेद-लकार- (तु संस्कृतुः टि.) । m) वैतु. पप. = अरस्य- इति भाष्यम्

१६, १०६, -नेषु शाश्रौ १, १,
३७; १६, ९, ३, १६, १२, ६, ९, १४
निगमस्थान-वज्रम् शाश्रौ
१४, १०, ६.
नि-गमन- नात् या १, १
नि-गड^a- पाग २, ४, ३१, -है
अप ६८, २, २८.
नि/गद्^b, निगदेत् आश्रौ १०, ७,
१-६, शाश्रौ
निगदिष्यामि बौश्रौ १०, ५४
४, १५, ३५ : ४.
निगद्यते कप्र ३, ८, १४, अप
३६, २, १, शंघ ३७२, वृदे ५,
१७४, ६, ११५, शैशि ३९, ४७,
निगद्यन्ते वृदे १, १८, ४१, ७,
१३८, ८, १०४
निगादयेत् शाश्रौ १७, १४, १
नि-गद, दा^c- पा ३, ३, ६४, -द
द्राश्रौ १, ४, ३, लाश्रौ, -दम्
आश्रौ ५, १, १४, शाश्रौ, -दा.
काश्रौ १, ३, १, हिश्रौ १६, २,
१४, -दान् आपश्रौ ८, ५, १८,
-दानाम् वृदे ८, १०४; -दाम्
दाम् भाश्रौ ४, १८, २^d,
-दायाम्^e कौस् १४१, ३६; -दे
आश्रौ १, २, २७, ४, १२, ५, ७,
४, गो १, १३, २, ३३, ३७^f,
-देन आश्रौ १, ४, ९, बौश्रौ ७,
३. ११, १५ २७, वृदे ८,
१०४, या १, १८^g; कौशि ५८
निगद-वृत्ति^h- न्ति लाश्रौ ७,

८, ६^h
निगद-व्याख्या(त >) ता- -ता
या ६, ५, ७, २३×, -ताः
माश्रौ ५, १, ६, ३७
निगद-सुताम्ⁱ अप्रा २, ३,
२८.
निगदा(द-आ)दि^j- -दि आश्रौ
५, १, २
निगदा(द-अ)नुवचना(न-अ)भि-
ष्टवन-शस्त्र-जप- -पानाम् आश्रौ
१, ५, ३६.
नि-गदत्- -दत् अप ६१, १, २०,
७०, ४, ५, वाध २७, १०, विघ
१, ६५, आज्यो १, १२, -दन्
बौश्रौ २०, ६ १३, २१, १२ ११
नि-गदित- (> णित्- पा) पाग
५, २, ८८
नि-गद्य बौश्रौ २, ८ १६, १०, ४८ :
५×, माश्रौ.
नि-गाद- पा ३, ३, ६४
नि-गन्तु-, नि-गम- प्रच. नि/गच्छ्
द्र
निगमव्य^l या १४, ३१
नि-गरण- नि/गृ (निगरणे) द्र
नि/गा, निगाम् आपश्रौ १, ५, ५,
भाश्रौ १, ५, १, हिश्रौ १, २, ४७
नि-गार-, नि-गिरत्- निगिर्य नि/गृ
(निगरणे) द्र
नि/गुप् > नि-गुप्त- -सम् बौश्रौ २१,
१३ : २०, -सान् बौध २, २, ५६
निगुस्थ^m- -स्थानाम् शाश्रौ १६,

२९, ६.
नि/गु > गृह्, निगृह्य वृदे ८, ३० ;
न्यगृहन् वृदे ८, २४.
नि/गृह्, ग्रम्, ह्, नि- गृहीते
हिश्रौ ७, २, ८२, निगृहाति
आपश्रौ १६, ४, ४, बौश्रौⁿ
निगृहातु कौस् १३७, १९,
निगृहीयात् आपश्रौ ५, १४, ९,
६, १८, २^o, बौश्रौ २१, १९ :
२०, वैश्रौ २१, १४ : ६, हिश्रौ
१५, ७, ३^o.
निजग्राह वृदे ६, ६१
नि-गृहीत- पाग ५, २, ८८, -तम्
वृदे ४, ११३
निगृहीतिन्- पा ५ २, ८८
निगृहीते (त-इ) निद्रय-क्रि
(या >) य^p- -य आमिष्ट २,
४, ५ २१, बौध ४, ७, ६
नि-गृहीति- -ति पावा १, २, १८.
नि-गृहान- -न. शाश्रौ १५. २०, १ ;
नि-गृह्य शाश्रौ १२, २२, १^q, काश्रौ ;
पा ८, २, ९४.
नि-ग्रह- -हः आशि ८, २०, -हे
पावा ३, १, ५^r
नि-ग्राम^s- पावा ३, ३, ३६, -भः
बौश्रौ ७, ६ : ९^o, माश्रौ १, ३,
४, ७^o, वाश्रौ १, ३, ६, १^o ;
वैश्रौ १५, ११ : १३^o; हिश्रौ ८,
३, ७^o, -भम् काश्रौ ९, ४, १८^o,
आपश्रौ ३, ५, ५^o; १२, ९, ८^o,
बौश्रौ १, १९. १५^o, ७, ६ :

a) = शृङ्खला-। व्यु^l । b) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र । c) भाप., = प्रेष-मन्त्र- (तु. विद्याधरः
[काश्रौ १, ३, ११]) । d) = निगदोक्ता- (देवता-) । e) पाठः ? निगतायाम् इति वा निःशब्दायाम् इति वा
शोधः इति संस्कृतुः टि. । f) विप. । बस । g) णि इति पाठः ? यनि शोधः । h) पाठः ? ष्रुतान् इति
वा ष्रुतान् इति वा संस्कृतुः टि. शोधः । i) पाठः ? निगन्तव्यः इति शोध स्यात् । j) = तदाख्य-गोत्र-
(क्षत्रिय-) । व्यु^l । k) विप. । बस. > षस. । l) तु. पासि । m) वैप १ द्र । n) = (निप्राभ्यास्वप्त्वा-
लौडनेनेत्पञ्च-) सोम-रस- इति गोपीनाथः (हिश्रौ ८, ३, ७) । o) पाभे वैप १, ९०७ ङ द्र. । p) = सन्त्र-विशेष-
(= प्रागपाक् [मा ६, ३६]) ।

१०-१२, २१, २१०-२, भाश्रौ,
वैश्रौ ७, ५: ४^१; हिश्रौ २, ४,
७^१, -भेण बौश्रौ १, १९
१४^१, भाश्रौ ३, ५, ८^१.
निश्राभा(भ-अ)न्त^b -न्ते काश्रौ
२, ५, ६.
विश्राभो(भ-उ)पायन्- -न्म्
आपश्रौ १२, १०, १०
नि-श्राभ्य, भ्या^c -भ्यम् वैश्रौ १६,
१० १०^d, -भ्या काश्रौ २,
३, ११, ४, ६×४, चाश्र ३, ६^१
-भ्याणाम् आपश्रौ १२, ७, १८,
वाश्रौ ३, २, ५, ४, वैश्रौ १५, १०:
२, हिश्रौ ८, २, ३८, -भ्याभि
हिश्रौ ८, ३, ४, -भ्यासु काश्रौ
२, ४, ६, ५, १५, आपश्रौ १२,
९, १, बौश्रौ ७, ५ २, ८, १.
५, १४, ४: ३५, २१, १७ ९,
११, २५, १७ १५
- निश्राभ्या(भ्या-आ)सेचन- -न्म्
काश्रौ २, ५, ४
नि-ग्राह- -ह पा ३, ३, ४५
नि/गृ (निगरयो), निगिरित् द्राश्रौ
१२, ३, १३, लाश्रौ ४, ११, १३,
गोश्र ३, ६, ३, ८, १४. द्राश्र ३,
१, ४४
नि-गरग-> निगरण चलना(न-अ)
र्थ- -र्थेभ्य पा १, ३, ८७
नि-गार- पा ३, ३, २९.
नि-गिरत्- -न्म् वाध ३, ४१, बौध

१, ५, २०, गौध १, ४६.
नि गीर्यं काश्रौ १३, ३, २६^१
नि/ग्रथ्, न्थ्, निग्रथ्नाति बौश्रौ
१३, ३७ ८, निग्रथन्ति बौश्रौ
२, ५ ३३, १५, १३ १, १८
३, निग्रथ्नीयात् बौश्रौ २०, ३
३४, ३७
नि-ग्रह- प्रथ्. नि/गृह् द्र
नि-घ- नि/हन् द्र
निघण्टु^e- पाउश्र १, ३७, -ण्टव या
१, १^१
नैघण्टु-क^f- -क साश्र १, १७,
६९×४, -कम् साश्र १, १५,
दा १, २०^२, २, २४, ५, १२,
१०, ३, ११, २, -का साश्र १,
१४७, २, ११६×४, -कानि या
१, २०, -कौ साश्र १, ३२०,
४५५
नि/घस > नि-घस- पा ३, ३, ६०
नि-घात-, णि-, णित्- नि/हन् द्र
नि/घृष् > नि-घृष् वाश्र २, ८,
गोश्र ४, २, २८, द्राश्र ३, ५, २०,
कौश्र ३५, ७
नि-घृष्^g- पाउ १, १५३, -ण्स्व
आ ४८, ६७, निघ ३, २
नि-घ्नत्- प्रथ् नि/हन् द्र
नि/घ्रा > नि-घ्रा^h- -घ्रेण^k बौश्रौ ५,
१५ १
नि-घ्राप्य काश्र ३४, ७, ३६, ११
नि-चङ्कुण^l- -णम् आपश्रौ १३,

१९, १०, १९, १०, ५, बौश्रौ
८, २० ११ⁱ, वैश्रौ १६, २५:
१४, हिश्रौ २, ५, ३९, २३,
१, ५५, तैप्रा २३, १२.
नि/चम् > नि-चमन- -नेन या ५,
१७, १८
नि-चान्त- > ण्त-पृण- -ण या
५, १७.
नि/चर् > णि-चेह^j- -ह. बौश्रौ
८, २०: ११, द्राश्रौ ६, ४, ८,
लाश्रौ २, १२, ९
निचत्कल^m- -ल वाश्र ५, २८
निचाकु- पाउमो २, १, ४२
नि/चाय् (वधा) > णि-चाय
> यथा आश्रौ २, ५, ५, वाधुश्रौ
४, १०३ ८, या ५, २१०,
शुप्रा ४, १५, ३०.
नि/चि (चयने)ⁿ
नि-काय- पा ३, ३, ४१, ४२
निकायिन्^o- -यिनः लुसू २,
१६ ११, -यिनाम् आपश्रौ
२२, १, २, २४, ४, ६ हिश्रौ
१७, १, २, मीसू ८, १, १९
नि-काय्य- पा, पावा ३, १, १२९
नि-चय^p- पाग २, १, ५९; ५, २,
६४, -य बौध ३, २, ८, गौध
१०, ६२, -याः कप्र ३, ३, ८.
निचय-क- पा ५, २, ६४
निचयो(च-उ)च्चारित^q- पा २,
१, ५९

a) पामि. वैप १, ९०७ गृ द्र । b) पूष = मन्त्र-विशेष- । c) = [अभिषवार्था] २अप्- । वैप १ द्र ।
d) पाठ १ भ्या->भ्याः इति शोध (तु. सपा. हिश्रौ २, १, ४, ३, ३६) । e) भ्य इति पाठ १ यनि शोध द्र
(तु मा ६, ३० प्रथ्) । f) पामि. पृ १३९५ ण द्र । g) = वैदिकशब्द-कोष । व्यु^१ । < निर्ग्रन्थ-
इति WAG [१, १६७ b] । h) तस्येदमीयि तदधीति वाऽर्थे ठक् > क प्र । i) = ह्रस्व- । j) = घ्राण- ।
यस्य उप कर्तरि क प्र । k) सपा बौश्रौ २, १८. ८, २०: १५ जिघ्रेण इति, आपश्रौ ८, १६, ३ लघ्वेण
इति पामि. (तु संस्कृतः टि.) । l) वैप १ द्र । m) पामि. वैप १, १७९९ ८ द्र । n) विप (क्रमण्डलु-) ।
व्यु. च ३ । o) वैप १, १७९९ k द्र । p) पामि. वैप १, १७९९ j द्र । q) पा ८, ४, १७ परामृष्ट द्र ।
r) = साधस्क- (= अहःसंच-) । s) विचय- इति पाका. । t) तु पागम. ।

नि-चित- -तम् या ४, २४
 नि-चुङ्कुण^a - या ५, १८^क, -०ण
 माश्रौ २, ५, ४, ३०^b, -णस्य
 चाश्र ४ ८^०
 नि-चुदाह^d - > ० रु बरु-बलाका-शुक-
 मद्गु-टिडिभ-मान्धाल-नक्तचर-
 -रा गौघ १७, ३२
 नि-चुम्पुण^a - ङण^b द्राश्रौ ६, ४, ८^३,
 लाश्रौ २, १२, ९^२, या ५, १८^{३०},
 -ण अप ४८, ११५^१, निघ ४,
 २^१, या ५, १७^क, १८^३, -णस्य
 चाश्र ३ ३^०
 नि-चुल^{१६} - पाउभो २, ३, ११०, पाग
 ५, २, १३६^१
 नि-चुलिन्- पा ५, २, १३६.
 नि-चृत्, निचृतति कौसू ८५, १३-
 १६
 नि-चृत्^१ - चृत् शाश्रौ ७, २७, २७,
 अश्र १, ३, १६; २४, २, ५, ९५५,
 ऋद्रा, -चृत निसू १, ६, २, ५,
 बुदे ८, १०७, अश्र १९, ४५,
 -चृतौ अश्र २, २४
 निचृद्-आर्ची-बृहती- -त्यः
 अश्र १५, ११
 निचृद्-गायत्री- -त्र्यौ अश्र ५,
 १३
 निचृद्-बृहती- -त्यौ अश्र १५, ६
 निचृद्-भुरिज्- -रिज निसू
 १, ६: १, -रिजौ ऋद्र १, ३,
 ३, शुअ ५, ४, पिं ३, ५९

निचृद्-विषमा- -मा अश्र ९,
 ६(५), १९, ४४, -मा अश्र २,
 १९
 नि-छद् > नि-छन्न- -न्नम् अप
 ३४, १, ६
 √निज्^१, पावा जु उभ शौचपो-
 षणयोः, नेनेकित वैगृ १, ३ २,
 या २, १७
 १निज्य^a कौसू ६२, २१^१.
 नि(क्त >) कता- -क्ताभि वाश्रौ १,
 ७, २, २०
 निक्त्वा कौसू ४१, १६, ६१, ३६
 नि-जघ्नि- नि-हृत् द्र
 नि-ज(ङ्गा >) ङ्ङ^क - ङ्ङम् आग्निगृ १,
 ५, २ ४, बौगृ १, ३, ३७
 नि-जन् > नि-ज, जा^१ - जम् याशि
 २, ६३, -जाम् जैश्रौका १८९,
 -जाय कौसू ८९, ४, -जे जैश्रौका
 १३८
 १निजस्य^m हिगृ १, १५, ६^१
 निजि^१ - (> निजि-मत्- पा) पाग
 ८, २, ९
 नि-जिहीर्षत्- नि-हृत् द्र
 नि-जिह्वक^a - -०क^० आपमं २, २१,
 ३२, भागृ २, २६ ११
 १नि-जिह्विक^a - -०क हिगृ १, १५,
 ५^{१०}
 √निञ्ज् पावा अदा आत्म शुद्धौ
 निण्य^a - ण्य. या १४, २२, -ण्यम्
 अप ४८, १०७^२, निघ ३, २५,

या २, १६^क
 नि-तंस्, नितंसयति भाश्रौ ७, १५, ४.
 नि-तन् > नि-तन्नि^a, ली- -लिम्
 अश्र ६, १३६, -ली विघ ६७,
 ७^१
 नि-तान- -न माश्रौ २, २, ३, १६^१,
 ३, ५, ५^१, ६, २, ४, १^१, वाश्रौ
 २, २, ३, २^१
 नि-तप् > नि-ताप्य कौसू ३२, २४.
 नि-तम्, नितमयति आपश्रौ ५, १७,
 ८
 नितम्ब- पाउभो २, २, २१९
 नि-तर- > नितराम् शाश्रौ ७, २०,
 १०, १५, २२, १, आपश्रौ ६, ९,
 १^१, १५, ५, ७, भाश्रौ ११, ५, ७.
 नि-तर > नि-तरा- नि-तृ द्र
 नितान्त^{११} - पाग ४, २, ९०^१, -न्तः
 तैप्रा १६, २३^१, -न्तम्^१ अप
 ६९, ८, ५
 नितान्तीय- पा ४, २, ९०
 नितान्तवृक्ष- (> क्षीय-) नितान्त-
 टि द्र
 नि-तुज्, नितोजति अप ४८, १९^१
 नि-तुद्, न्द, नितुन्दते^a आश्रौ ४,
 १३, ७
 नि-तोद्^v - -द्म् काश्रौ १६, ८, ५,
 आपश्रु १८, ९^३, हिगृ ६, १४;
 -दग्णे आपश्रु १८, ९, हिगृ ६,
 १४, -दात् आपश्रु १८, ९,
 हिगृ ६, १४

a) वैप १ द्र । b) पाभे वैप १, १७९९ ० द्र । c) = ऋषि-विशेष- । d) = पक्षि-विशेष- ।
 व्यु ? । e) ङग इति पाठ ? यनि शोधः । f) अर्थ व्यु च ? । g) = स्थलवेतस- (जलवेतस- इति
 अक्षी) इति कृत्वा < नि-चुल इति अभा । h) तु पागम । i) विप ([एकाक्षर न्यून-] छन्दस्-) ।
 j) पा ७, ४, ७५ परागृष्ट द्र । k) विप. । बस । l) विप । कर्तरि ङ प्र (पा ३, २, ९९) । m) पाठ ?
 निजेसि इति सस्कृ^१ टि संभावितम् । n) विप > नाप ? । बस । o) सपा परस्परं पाभे । p) पाभे. वैप
 १, ६६७२ k द्र । q) पाभे वैप १, ६७२ l द्र । r) < नि-तम् इति अभा । s) नितान्त, वृक्ष-
 इति षाका । नितान्तवृक्ष- इति भाष्या. पासि । t) = पारिभाषिक-सज्ञा- । u) = अतिरुच- । वा. किवि. ।
 v) = गर्त- ।

नि-तुश, नितोद्यते निघ २, १९५.

नि-तोश-शस्य या १३, ५.

नैतोश-शम् या १३, ५,

-शा या १३, ५^क.

नि-तुद्, नितुन्धि अत्र ३, २, ३३^क.

नि-तु, नि(तिरामि)अत्र ६, १३१^क.

रनि-त(र>)श-रा माण २,
११, १२^०.

नित्य, त्या^०-पाग ५, १, ९७, ४, २९,

पावा ४, २, १०४, -त्य आश्रौ

१, १२, ३, २, ८, १३××, शाश्रौ,

तैप्रा२०, २^०, -त्यम् आश्रौ १, ५,

१४, २, २, १०, ७, ४××, शाश्रौ,

हिघ १, १, १२३^१, या २, ३,

पा १, २, ६३, ७२, ४,

७७; २, २, १७, पावा ४, ३,

१४४^६, -त्यया आश्रौ ५, ११,

४, आपश्रौ १९, २५, ११, हिश्रौ

२२, २, १०, ५, २२, वैताश्रौ

३२, ३४, -त्यस्य वाश्रौ १, ६,

७, ३३, हिश्रौ ३, १, १८, या ३,

२^१, मीसू १, ३, १८, ३, ६, ४३;

-त्या आश्रौ २, ४, ९, ११,

काश्रौ, -त्याः आश्रौ १, १, ८,

२, १९, २०××, शाश्रौ, -त्यात्

आश्रौ ७, ३, १, २, ५, १०, वाश्रौ

१, ७, ४, ८, -त्यान् आश्रौ ८,

४, १६, ९, ३, १९, शाश्रौ,

-त्यानाम् आश्रौ २, १, २२,

विघ ५४, २९, हिघ १, ४, २९,

-त्यानि आश्रौ ७, १, २०, ८, ४,

३××, शाश्रौ, -त्याभिः शाश्रौ

१०, ७, २, निसू ५, ६ : १३^५,

९, २ : ११, २४, काण्ड ५८, ४;

६०, ५, -त्याम् निसू ७, १० .

१६^५, शाय ६, ४, १२, काण्ड

४३ : ९, ४५ ९, -त्याया.^५

निसू ६, ६ : १९, ८ ३३,

-त्यासु^५ निसू ८, ९ २८, १०,

२ : २२, -त्ये आश्रौ १, ५, ३४,

२, १, ८××, शाश्रौ, -त्येन

आपश्रौ १४, ३३, ३, बौश्रौ,

-त्येभ्य काश्रौ ५, ४, २१, ७, ६,

११, ४, -त्येषु बौश्रौ २८, १३ :

१९, हिश्रौ ६, १, ३, भाण्ड ३,

२१ ६, माण्ड २, ३, ४; -त्यै

वाश्रौ ३, ३, ४, १३, द्राश्रौ ८, ३,

२, लाश्रौ ४, ७, १, मीसू ४, ४,

१२, -त्यौ आश्रौ ५, २, ४,

शाश्रौ ३, ८, ५; १४, ५७, ६,

भाश्रौ ६, ८, १०, द्राश्रौ ८, २, ८,

लाश्रौ ४, ६, ८, वैताश्रौ ३३, ६,

निसू ५, ६ : १२, कौण्ड १, ५,

२४, ९, ७, शाय १, ९, १०

नैत्य-पा ५, १, ९७

नैत्यक-कम् कप्र २, १०, २,

वाघ २५, ४, बौघ ४, १, २४.

नित्य-कर्मन्-मैणि वैण्ड ६, ८ १२,

-मैमि वैश्रौ २०, १०१.

नित्यकर्म-ब्रह्मचर्य-शील-

वैघ १, ३, ४

नित्य-कल्प-रूपाय अप्राय ६, ८

नित्य-काम-म भाश्रौ ७, १, ७,

वैश्रौ १८, १२ ३.

नित्य-काल-लम् अप ८, २, १

नित्य-ग्रहणा(ण-आ)नर्थक्य-क्यम्

पावा ३, १, २२, ५, १, ६७.

नित्य-चान्द्रायण-व्रत->पतिन्-

-तिन वैघ १, ९, ४.

नित्य-जप-होम-मै वैघ २, ११, ८.

नित्य-ता-ता भाशि ४.

नित्य-तृप्त-स विघ ९१, २.

नित्य-त्व-त्वात् आश्रौ ७, १, २१;

काश्रौ १, ८, १८, ४, २, २९××;

निसू .

नित्य-दा पाग १, १, ३७, बौण्ड १,

३, ३७, कौशि ४४.

नित्य-द्विपदा-दा ऋअ २, ९,

६७

नित्य-धर्म-मर्मा गोण्ड ३, १, २५.

नित्य-धारण-णम् वाश्रौ १, ५, २,

६, -णात् मीसू १२, ४, ३१;

-णे मीसू १२, ४, ३०

नित्य-घृत्-घृत् शाश्रौ २, ६, ४.

नित्य-घृत-त माश्रौ १, ६, १, ६;

-तात् शाश्रौ २, १७, ६

नित्य-निन्ध-न्ध वैघ ३, १५, ११.

नित्य-निमित्त-त्व-त्वात् पावा

१, ३, ६०, ७, १, ७३

नित्य-पु(ष्ट>)टा-ष्टाम् आमिण्ड

२, ६, १ २९, माण्ड २, १३, ६.

नित्य-पूत-त कौण्ड ५, ७, २^१.

नित्य-पूर्व-वैण्ड बौश्रौ २५, २४ :

१८.

नित्यपूर्वा(र्व-अ)र्थ-र्थम् पावा

५, ३, ६८.

नित्य-प्रतत-त आपघ १, ४, ४^१;

२, ७, १

नित्य-प्रत्यय-त्व-त्वम् पावा ३,

१, २७

नित्य-प्रयुक्त-कानाम् गोण्ड ४, ५,

११, द्राण्ड ४, १, २.

a) वैपश् द्र. । b) विप. । उस. उप अच् प्र । c) सपा. नितरा <> निमिता इति पामे. ।

d) = स्वरितसंज्ञा-भेद- (= जात्य-) । e) वा. क्वि । f) सपा. नित्यं प्र<> नित्यप्रं इति पामे. ।

g) द्वे. पासि. । h) विप.> नाप. (= स्तोत्रिया-) । i) क्वि. । तत्रभवीयः बुञ् प्र डसं. (पा ४, २, ९२) ।

j) विप. । उस. ।

नित्य-प्रयोग- ना गो० ४, ७, ३७,
८, १०
नित्य-प्रवृत्त- -त्ते पावा ३, २, १२३
नित्य-प्रश्न- -श्नस्य आपध १, ११,
२१, हिध १, ३, ७१
नित्य-प्रात- -स्नायिन्- -यी आभिगृ
२, ७, ११ १३
नित्य-भक्ष- -क्षम् बौश्रौ २९, ५.
५, १२
नित्य-भावि-त्व- -त्वात् मीसू १०,
६, ५८.
नित्य-भूत- -त्त आभिगृ ३, ११,
२ : ९१
नित्य-यज्ञोपवीतिन्- -ती कौगृ ३,
११, ५४, आभिगृ २, ७, ११ :
१३, वाध ८, १७, बौध २, २, १
नित्य-युक्त- -क्त वाध २५, ९;
गौध १०, २८, -क्ता अप २०,
२, १, वाध २५, ३
नित्य-वचन- -नम् पावा ४, ४, २०,
८, ४, ४५, -नात् पावा ३, १,
३१
नित्य-वत् आपश्रौ ३, ९, ५, ४, ८,
७ x x, भाश्रौ
नित्यवच्-ङ्कुत-भूता (त-अ)
भिसंयोग- -गात् मीसू ११, १,
१६
नित्य-व्र(त्स>)त्सा^० -त्सा^० शागृ
३, २, ५^०, -त्सा लाश्रौ १०, २,
३, छसू २, १० : २५, ११
१४, ३, ७ २, निसू ७, ३ ३९,
कौगृ ३, २, ५^०, शागृ ३, २,
८^०, भागृ १, २७ : ७^०,
-त्सायै बौश्रौ ५, १० १९^०

नित्यवत्सा(त्सा-अ)तीषङ्ग^१-
-ङ्गयोः लाश्रौ ७, ५, ३
नित्य-विरत- -ते ऋत २, ४, ७.
नित्य-विशेषो(ष-उ)क्त^२- -क्तम्
कप्र २, ४, ६
नित्य-वीप्सा- -प्सयो पा ८, १, ४
नित्य-वृत्ति- -त्तौ वैश्रौ १२, १२
१४, हिश्रौ ७, १, ६०
नित्य-व्रत- -तानि वागृ ९, १६,
गो० ३, २, ४८.
नित्य-शब्द- (>नैत्यशब्दिक-
पावा.) पावाग ४, ४, १
नित्यशब्द-त्व- -त्वात् पावा १,
१, १, ३, १
नित्य-शस्() कौगृ ३, १०, ३५,
अप १, ४४, १, २३, १३, ४ x x,
वाध
नित्य-शिखिन्- -खी आभिगृ २,
७, ११ १३
नित्य-शिल्प^३- -ल्पम् आश्रौ ८,
४, ५
नित्य-आह- -हम् आभिगृ ३, ३,
१ : १२, २ २७, आपध २,
१८, ६, हिध २, ५, ५८, -हे
आभिगृ ३, ३, २ १२ : १३.
नित्य-सयोग- -गात् मीसू ३, २, १,
६, १, ४२, ४, १२, १०, ५, ६६
नित्य-सन्ध्यो (न्ध्या-उ) पासिन्-
-सी आभिगृ २, ७, ११ . १३
नित्य-समवाय- -यात् मीसू ४, २,
२३
नित्य-समास^४- -स पावा ६, १,
१२४
नित्य-समास- -सयो. पावा ६,

१, १२५.
नित्यसमास-वचन- -नम् पावा
२, १, ३६.
नित्यसमासा(स-अ)र्थ- -र्थम्
पावा ३, ४, ३७.
नित्य-संपन्न- -न्त. बौश्रौ ५,
१६ : ८, -न्ना छसू ३, २ :
२६.
नित्य-संबन्ध- -न्धात् पावा १, २,
४५
नित्य-स्नान- -नम् शंघ १००;
-नेन शंघ १०१, विध ६४,
४२
नित्यस्नान-विहीन- -ने वैगृ ६,
८ ३.
नित्य-स्नायिन्- -यी शंघ १०१;
विध ६४, ३५, ४२; ८९, ४.
नित्य-स्वाध्याय- -य गौध ५, ४.
नित्यस्वाध्यायिन्- -यी वाध
८, १७, बौध २, २, १, वैध ३,
५, १
नित्य-होतृ^५- -तारम् माश्रौ १,
२, ६, १०, वाश्रौ १, ३, ३, १५.
नित्य-होम- -मः आश्रौ १, १३, ९;
२, ३, १, -मे वैगृ १, ८ : १०;
अप २३, ६, ४.
नित्यहोम-काल- -ले अप्राय
२, १.
नित्यहोम-दर्शका(क-आ) अरण-
निरूढपशुबन्ध-चातुर्मास्य-
सौत्रामणि-सोम^६- -मेधु वैश्रौ
२०, ३१ : ३.
नित्यहोमा(म-अ)न्त- -न्ते वैगृ
४, १० : १.

a) विप । बस उप = ग्रन्थ-विभाग- । b) = साम-विशेष- । बस उप = पद-विशेष- (तु लाश्रौ
७, ५, ९) । c) विप. (धेनु-) । उप = गो-वत्स- । d) सपा कौगृ ३, २, २ पाकवत्सा इति पाभे. ।
e) विप. > नाप. (धेनु-) । f) समाहारे द्रस । g) विप । पंस > तुस । h) विप. । बस उप = स्तोत्र-समुह- ।
i) = अविग्रह- वा, अ-स्वपदविग्रह- वा । j) वैप १ द्र. । k) द्रस । दर्शक- = दर्श-पूर्वमास- ।
वैप४-द्वि-८१

नित्या(त्या-आ)दि-पद-स्तोभा-
(भ-अ)पाय^b- न्यात् निसू ८,
९:४०

नित्या(त्य-आ)दिष्ट-त्व- त्वात्
पावा रे, १, ४५

नित्या(त्य-अ)ध्याय- येन आश्रौ
८, १४, ९

नित्या(त्य-आ)नन्द- न्दम् वैध
१, ९, १५

नित्या(त्य-अ)नित्या- न्या निसू
९, २, २०

नित्या(त्य-अ)नुगृहीत- तः आगृ
१, ९, २

नित्या(त्य-अ)नुवाद- दः काश्रौ
७, ५, २६, मीसू २, ४, २५, ३, ३,
१२, ४, १, ४५, ६, ७, ३०, ९,
४, ३४, १०, २, ३६, ७, ३९, ४९,
५०; ११, ४, १५, -दम् आपध
२, १४, १३, हिघ २, ३, २४,
-दात् मीसू ८, १, ६.

नित्यानुवाद-वचन- नानि मीसू
७, ४, ५.

नित्या(त्य-अ)न्धकार^b- रे विघ
९६, ३०

नित्या(त्य-अ)-बह्वस्- पा ६, २,
१३८

नित्या(त्य-आ)भक्त^c- > °क्तिक-
-का. बौध २, ३, १६^d

नित्या(त्य-अ)भाव- व काश्रौ १७,
२, २

नित्या(त्य-अ)भिवन्दिन्- न्दी वैध
१, २, १

नित्या(त्य अ)भ्याहित^e- त लाश्रौ
९, ८, ५

नित्या(त्य-अ)चैन- नम् वैगृ ४,

१२:१, -ने वैगृ ६, २०:६
नित्या(त्य-अ)र्थ- र्थम् माश्रौ २, १,
१, ३, पावा ७, २, ४७, ५२, ८,
३, २०, -र्थे पा ६, २, ६१,
-र्थेन मीसू १०, ५, ६८

नित्या(त्य-अ)वसान- नेपु मैश्र १५
नित्या(त्य-अ)शन- नम् वैध २,
४, ५

नित्या(त्य-आ)हुति^b- तिषु कौगृ १,
३, १३, ५, २५, शागृ १, ८, १३,
९, ११, -त्यो शागृ १, ३, १०.

१ नित्यो(त्य-उ)दक- > °किन्-
-की कौगृ ३, ११, ५३, शागृ ४,
११, २१, वाध ८, १७, बौध २,
२, १

२ नित्यो(त्य-उ)दक^b- क. आगृ ३,
७, ३, -कम् काश्रौ २०, ४, १४

नित्यो(त्य-उ)दक-तर्पण- णे
आमिगृ ३, ७, ४ ४, बौपि २,
३, ९

नित्यो(त्य-उ)द्युक्त- क. काश्रु ७, ५
नित्यो(त्य-उ)द्वि(म>)गना- गना
अप ७१, १३, ३

१ नित्यरसोविरोदकि. बौश्रौप्र ४४
२

✓निद्, न्द्¹ पाधा भ्वा पर कुत्सा-
सनिकर्षयो, निन्दति या ९, ८,
निन्दन्ति बृदे ७, ३७, या ३,
१०^१, ऋप्रा १४, ६८, निन्देत्
वैध ३, ३, ६

१^१ अनिन्दिषु द्राश्रौ १०, ३, ४:
लाश्रौ ३, ११, ३^{१६}

निन्दते बौध १, १०, ३०, बृदे
७, १११

अनिन्दयत् अग्र ५, १८

निनीत्सेत आश्रौ ९, ११, १

१^१ निद्^b- निद या १०, ४२, ऋप्रा
४, ६२

निन्दक- पा, पावा ३, २, १४६;
-क. वैध ३, ३, ६

निन्दयित्वा अग्र ७, ११५

निन्दा- न्दा आपश्रौ २४, १, ३३^१,
हिश्रौ १, १०, निसू ८, १:२३,
२५, १०, ६.८, आपम २, ५,
३^१, आगृ ३, ९, १^१, कागृ ४१,
२३^१, बृदे १, ३५, ४९, -न्दाम्
निसू १, १० १६, वैध १, २, ८,
-न्दायाम् पावा ३, १, ५^१

निन्दा(न्दा-आ)क्रोश- शौ वैध
३, ७, १०

निन्दा-परीवाद- दौ विघ २८,
२६

निन्दा-प्रशसा- से या ७, ३

निन्दा (न्दा-अ) शक्ति-समाप्ति-
वचन- नानि मीसू २, ४, २०

निन्दित, ता- तः वाध ६, ६,
वैध ३, १२, २, -तम् आमिगृ
२, ४, ७. ५, -ता आमिगृ १,
५, ५ ८^१, पागृ १, ११, ४,
भागृ १, १९ १८^१, वैगृ ५, ९,
३, हिगृ १, २४, १^१, माशि १,
४, याशि १, ५१, आज्यो १३,
२, -ता: काश्रौ २२, ४, ४,
-तानाम् आपश्रौ २२, ५, १४,
हिश्रौ १७, २, ४२, -ते आमिगृ
२, ४, ७ २, ७, ६ १५,
-तेभ्य विघ ४०, १, -तौ वैध
३, ११, ४

निन्दिता(त-अ)न्त¹- न्तम् वैगृ
३, ४:३

a) बस > कस > षस ।। b) विप । बस । c) कस उप = भोजन- । d) नित्या

आत्किन्का. इति मैसू. । e) = अग्नि- । कस. । f) पा ८, ४, ३३ परामृष्टः द्र । g) विसर्गहीन पाठ १ यनि.
बौध. (तु. द्राश्रौ.) । h) वैप १ द्र । १) तु पासि । j) = मन्त्र-विशेष- ।

निन्ध- न्य बौध १, १०, ३०,
-न्यानि आमिष्ट २, ७, ६:
२३
नि√दध्, निदधति^३ आमिष्ट ३, ५,
४: ३, १२, १९
नि-दधत्-, नि-दधान- नि√धा
द्
नि-दर्शन- नि√दृश द्र
नि√दह, निदहाति बौधौ २८, १०:
७, या ७, २०^६, १४, ३३^६
निदह्यताम् कौसू ८३, ७^६
नि-दग्ध- -ग्धम् कौसू ५२, ९,
-ग्धे वैश्रौ २०, २९: २
१नि-दाघ^०- पाग २, ४, ३१^६, ७,
३, ५३, -वे काश्रौ २४, २, ५,
आपश्रौ २३, ३, ७, हिश्रौ १८,
१, २५, कौसू ८३, ७^६, वाघ
२, ३३
नैदाघ^०- -घम् आपग २,
१२^६, वाग ३, १३, अन्न ९,
५^६, अप १. २४^६, ३ ६५,
-घेन अप ५३, ३, ३^६.
नैदाघी^३- -घ्या: हिपि
१३ ३
निदाघ-मासा(स-अ)तिगम- मे
बुदे २, ५०, ५५
निदाघ-शर(द् >)न्-माघ- -घेषु
काश्रौ २१, ३, ५
२निदाघ^१- पाग २, ४, ६९
नि-दान-, नि-दाय, नि-दित-, नि-दीय-
माना- नि√दो द्र
नि√दृश्, निदर्शयन्ति कौशि ६९,
निदर्शयेत् माश्रौ ४, ७, २

निदर्शयिष्यामः आश्रौ ५, ९, २१
नि-दर्शन- -नम् वेताश्रौ ३२, १६,
अप ४७, १, १५, ६८, २, १३, बुदे
२, १०७, ११०, अप १ ८, ११,
१३×४, या १४, ३०, ऋप्रा,
-नानि ऋप्रा १, ५२, १४, ४७,
१५, १२, उस्, -नाय आश्रौ ७,
११, ६, १३, १७, ८, ३, १०,
या ११, २, ऋप्रा १४, १, १६,
३१, -ने उस् ५, २, ६, २, ७, १६
निदर्शना(न-अ)र्थ- -र्थं निस्
२, २. १२, -र्थम् लाश्रौ ७,
१०, १८
नि√दो (बन्धन खण्डनयो.) >
नि-दान^१- -नम् बौश्रौ १८,
३० ३, ४५: २६, ४७
२०, २२, १९, ६. ५, २६,
२९ १, -नात् उनिस् ८ ३१,
-ने आपश्रौ १, ११, ५, १५, ५,
२०, ९, ४, भाश्रौ १, ११, ११,
११, ५, २२, ९, ५, माश्रौ १, १,
३, १०, १६, ४, २, ६, ३, १,
वाश्रौ १, २, २, ७, वैश्रौ ३, ६.
३, ४, १ १४, १३, ७ २०,
११ ६, हिश्रौ १, ३, ८, २४, २,
६, ४, २, वाघ १, १४.
नैदान^३- -ना या ६, ९, ७,
१२
निदान-संज्ञक- -के बुदे ५, २३
नि-दाय आपश्रौ १५, ९, ७, भाश्रौ
११, ९, ९, हिश्रौ २४, ४, ३
नि-दित^१- -तम् शाश्रौ १५,
२३, १, उस् २, १३.

नि-दीयमान, ना- -नाम् माश्रौ १,
१, ३, १७, वाश्रौ १, २, २, १८;
-ने माश्रौ ४, ३, ९.
नि√द्रा^३ > नि-द्रालु- पा ३, २,
१५८
निद्रा^१ ऋप्रा २, ५९^६
निद्रा^२- पाउ २, १७^०; पाग ३,
१, १३, ५, २, ३६, -द्रा अप २२,
१०, ५, विध ९९, ४, माशि १५,
९, याशि २, १०९, नाशि २,
८, २३, २९, -द्राम् शंघ ९०;
११६ २९, माशि १६, ४
√निद्राय पा ३, १, १३.
निद्रित- पा ५, २, ३६
नि√धन् (बधा) > नि-धन, ना^१-
पाउ २, ८१, पाग २, १, ५९^६, ४,
३१, -नम् आश्रौ ६, १३, २,
शाश्रौ ८, १०, ३, १०, २१,
१२, काश्रौ १०, ८, २०, १९,
५, ३, २६, ७, ९, आपश्रौ;
-नयो निस् ३, १२ ५;
-नस्य निस् २, ८: ३१, -नानाम्
लाश्रौ ७, ११, १५, निस् ८,
१ २३, २५, -नानि^६ आपश्रौ १,
४, ३, १२, बौश्रौ २०, २: ३१;
३८, ४०, भाश्रौ १, ३, २२, वैश्रौ
३, ४ ९, १५; हिश्रौ १, २, ४३;
४७, द्राश्रौ, -नाभिः^२ कौसू ८०,
३०, ४१, -नाय द्राश्रौ २, २,
३, लाश्रौ १, ६, २, -नायऽनाय
द्राश्रौ ३, ४, १०, -ने आपश्रौ
१, ४, १२^६, भाश्रौ १, ४, १०^६,
हिश्रौ १, २, ४८^६, जैश्रौका १९३;

a) सपा बौपि १, ३: १३, २०: २८ निदधाति इति पासे. । b) पासे वैप २, ३खं नि-घीयाते
माश १३, ८, १, ४ टि द्र । c) = ग्रीष्मर्तु- । d) तु पागम. । e) विप, नाप. । स्वार्थे वा तस्येदमित्यर्थे
वा अण् प्र. । f) = मास- । g) विप. (अन्न-). h) = ज्येष्ठ-पूर्वमासी- । i) व्यप. । व्यु ? । j) = रज्जु-
ग्रन्थ-विशेष-, आदि-कारण- । k) तदघाति तद्वेदित्यर्थे अण् प्र. । l) वैप १ द्र. । m) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र. ।
n) नाप. । व्यु. ? । o) < √निन्द् । p) निधान- इति पाका. । q) = [मुष्टीना] बृहत्तर-चय- । r) = ऋग्-विशेष- ।

लाश्रौ १, ६, २९, १०, १४,
 छुस् ३, ५, ८, निस् ४, ७
 १९, ७, ११. ७, १०, १३ : २,
 कौस् ४६, ५, मीस् २, २, २८,
 -नेन आपश्रौ १७, १०, ११,
 वैश्रौ १९, ६ १६, द्राश्रौ ११,
 ४, ८, लाश्रौ ४, ४, ७, निस् १,
 १२ : १६, -नेयः लाश्रौ ७, ६,
 १०; -नेषु लाश्रौ ७, ६, १५, निस्
 १, १२ ८.

नैघन^१- न आज्यो ९, ४,
 -नम् आज्यो ९, ८, -ने आज्यो
 १०, १, ९, ११, ४.

निघन-काम^२- मम् लाश्रौ ६,
 १२, १४

निघन-त्सु (°) निस् ५, ५ ६
 निघन-त्वेन- त्वेन लाश्रौ ७,
 ११, १७

निघन-ब्राह्मण- -णम् निस् २,
 ९ ११.

निघन-भू (त>) ता- ता
 लाश्रौ ६, १, १७

निघन-भा (त्र>) त्रा- त्रा
 निस् ८, १ २९

निघन-वत्- वत् लाश्रौ ६,
 १२, १४, छुस् १, ८: १४, -वन्ति
 लाश्रौ ६, ९, ७, १०, ८, ६,
 निस् १, १२ ४, ५, ५ ४

निघन-वाद- -दः निस् १, १२.
 १५; ४, ७ २४, -दम् लाश्रौ
 १०, २, ७, ९, १०, निस् ६,
 ७ : ६३, -दाः निस् ४, ७: २५

निघन-विभक्ति- -क्ति. लुस् ३,
 ६ १४; निस् ३, १० ३,
 ५, २ ६.

निघन-स्थान- नेषु लाश्रौ १०,
 २, ९, निस् १, १२ १३.

निघन-स्वर- रम् लाश्रौ ७,
 ८, ५.

निघना(न-अर्थ) - र्था- र्था
 मीस् २, २, २९

निघना(न-आ) र्थेय- -यम् निस्
 १, १२ ७

निघनो(न-उ) पाय- -यः शाश्रौ
 ५, १२, ४, -ये निस् २, ९
 ३३

निघनो(न-उ) पायन- -नम्
 हिश्रौ १०, ५, २४

निघवन-> नैघवन- -ना, -नानि
 वाघुश्रौ ३, ९७ ३

निघा, निघत्ते आपश्रौ १, ४,
 १५, १८, १५, ५ बौश्रौ, या १२,

१९, निदधाति शाश्रौ २, ९, १३,
 १०, ७, ७, ३, २, ३, काश्रौ,

बौपि १, ३ १३^१, २०^१, २८^१,
 निघत्त. काश्रौ ९, १०, ६, वैश्रौ

१५, २८: ५, निदधति शाश्रौ
 ५, १४, १३, १७, ६, ६, १८, २४,

५, काश्रौ १३, ४, १^०, नि
 दधति बौश्रौ १, ७ : १७, ६, १३

१६x५, ऋनिदधे हिश्रौ ११, ७,
 ५१, कौस् ६५, १२, ऋनि

दधे^२ आश्रौ २, १८, १३, बौश्रौ
 ५, १० २३, निदधामि वैश्रौ

१८, १३: ३१, ऋनिदधमसि
 आपश्रौ ४, १५, १, भाश्रौ ४, २१,

१, हिश्रौ ६, ४, १८, कौस् १०२,
 २, निघत्तात् बौश्रौ १७, ४०

१५, १९, आमिण्ड १, ३, २ :
 २३, ३. ३, निघत्ताम् वैण्ड

४, १४ ८^१, निघेहि या ७,
 ३१, ऋनि घेहि आश्रौ २,

१८, १३, बौश्रौ ५, १० २३,
 ऋनिघत्तात् आश्रौ ३, ३, १^६;

शाश्रौ ५, १७, ३^६, बौश्रौ ६, १२
 ३, वैश्रौ १०, १३: ७^६, हिश्रौ

४, ३, ५२^६, हिपि ५: ६,
 निघत्तम् काण्ड ३१, २^१, नि

दधिध्वम् ऋषा ८, ४^१, ऋनिघत्त
 बौश्रौ २, १५: ३, आमिण्ड

३, ५, ६: ११, बौपि, नि-
 (दधात् > ता) माश्रौ ५, १,

५, ५५, निघत्तन वैताश्रौ २३,
 १२, ऋनिघेतन आश्रौ ३, १३,

१८, आपश्रौ ३, ११, २, भाश्रौ
 ३, १०, २, माश्रौ २, ५, ४, ९,

हिश्रौ २, ६, १, निदधानि या
 १, ४^१, न्यदधात् बौश्रौ १८,

४७ २१, न्यदधत्ताम् वृदे ३, २२,
 न्यदधु वाण्ड १३, ३^१, या १३,

९, निदधीत् माश्रौ १, ३, ५,
 १६, द्राश्रौ १२, ३, १४, १५,

४, १९, लाश्रौ ४, ११, १४,
 ५, १२, २३, निदध्यात् आश्रौ

१, १३, २, ५x५, काश्रौ २५, ४,
 ३८^१, निदधीरन् द्राश्रौ ६, ३,

२८, १२, १, २०^१, लाश्रौ २, ११,
 २१, निदध्यु जैश्रौका १९८,

द्राश्रौ
 ऋनिदधे बौश्रौ ६, २४ २८,

हिण्ड १, २५, १, अप्राय ५, २,
 या १२, १९, नि(दधे) साश्रु

१, ५४^१, निदधिरे या ६,
 ३५, नि दधिषे ऋकौस् १५,

९, ११, ऋन्यधु हिश्रौ ११,

a) विप (नच्छत्र-वर्ग) । तस्येदमीय अण प्र । b) = साम-विशेष- । c) विप । बस । d)
 षामे पृ १४०३ अद्र । e) निदधाति इति पाठ ? यनि शोध [तु चौसं प्रकरणम्] । f) षामे. वैप १, १८०४ g
 ऋ. # g) षामे वैप १, ११४२ अद्र । h) तु चौसं । i) सपा. लाश्रौ ४, ९, १४ अनुदधीरन् इति षामे ।

७, ५१^{१०}, अप ३२, १, १५,
अत्र १९, २०
निधीयते शाश्रौ १५, १७, ११,
ऋग्मिण्ड ३, ८, २ ४१, ५८,
बौग २, ११, ६, ऋग्मिण्ड १, १५
४८, ६३, या छ, २, नि-
धीयते गौपि १, ५, ३१, निधी-
यन्ते गौपि २, ५, १३, अप्राय
१, १, निधीयेरन् आपश्रौ २१,
१६, २०
ऋग्मिण्डाणि शाश्रौ १८, १, ६,
वैताश्रौ ३२, १०, या छ, २८,
निघाणि आपमं २, ११, २५
निघापयति बौश्रौ ६, १ १५,
२७, ९ ७, निघापयेत् आमिण्ड
३, १०, ४ १२, १५, अप ३३,
५, ७, ८, ६६, २, २, याशि २,
८१
निधिल्लेत बौश्रौ ३, २९ १५.
नि-दधत्- -धत् आश्रौ २, ३, ८,
आमिण्ड ३, ८, २ २९, बौपि
१, १५ : ३७
नि-दधान- -ना वैश्रौ २०, २३ :
४, हिपि २२ १४
ऋग्मिण्ड^b- -धया आपश्रौ ६, २२,
१, या छ, ३, -घा निघ छ,
१, या छ, २६
नि-धान^c- पाग २, १, ५९^d, छ, २,
७५^e, ८०^e, ५, १, १२४,
-नम् काश्रौ २३, ४, २४, २५,
८, ७, आपश्रौ १, १८, ८, २२,

२८, ८, बौश्रौ १८, १९ : ८, १,
हिश्रौ २३, ४, ४८, आपमं २,
१, ८, आमिण्ड २, २, ५ १८, १,
काग ४०, १५, बौग २, ४,
१५; माग १, २१, १०, वाग
छ, २१, हिग २, ६, १२, १,
हिपि १२ : ८, अप ३५, २, ४,
वृदे २, ११३, ८, १२३, या ३,
६, ९, १३, -नस्य अप छ, ७,
१, ६, -नात् काश्रौ ९, १२, १८,
१४, १, १०, ३, ११, ११, १, ४,
१६, ३, १०, कौसू ५७, २७^f,
-नाय काश्रौ ८, २, १२, -ने
बौश्रौ २०, ३ ५, १७ १२,
२६ : २४, २२, १ ८, ९ :
२७, या ९, ३६
नैधान- पा छ, २, ७५
नैधान्य- पा ५, १, १२४
निधान-क- पा छ, २, ८०
निधान-काल- -ले कौसू ८०, २
निधान-दर्शन- -नाय अप १,
६, ६
नि-धापयित्वा बौश्रौ २१, १३ : २०
नि-धाप्य आमिण्ड १, १, १ १०
नि-धाप्यमान- -नम् वैताश्रौ ५,
१७
नि-धाय आश्रौ १, १, २३, ११,
४×४, शाश्रौ, हिश्रौ १६,
६, ३९^h, कौग १, ९, ७ⁱ,
हिग १, ४, २^j, निघायऽनिघाय
माश्रौ १, १, २, १५, ७, ६, ५३,

८, ३, २२.
नि-धायम् काश्रौ छ, १४, ५
नि-धास्यत्- -स्यन् बौश्रौ २०, ३ :
७, कौसू ८३, १, १३७, १८,
नि-धि^k- -धय शंघ ३७३, -धिः
आपश्रौ ११, १२, ३, वाधुश्रौ
३, १७ २३, हिश्रौ ७, ६, १८,
शाग १, २, ८, या २, ४६,
-धिना माश्रौ २, ५, ५, १८^l,
भाशि ११९, १२०^m, -धिम्
आपश्रौ १६, २२, २, ऋग्मिण्ड
२४, ३९, ६२, १०, अप १०, १,
१६, १८, ३, १०, विघ ३, ५६,
५८, ऋग्मिण्ड १०, १०, १२, १,
३, १९, २७, -ऋग्मिण्ड काश्रौ
२०, ६, १३, बौश्रौ १५, २९ २५,
वाधुश्रौ ३, ९० ४, ७, ११,
९१ ७, पाग ३, ४, ८
ऋग्मिण्ड-गोपⁿ- -पः आपमं २,
५, १^o, काग छ १, २१^o, बौग
२, ५, ६४^o, माग १, १०, ८^o,
९, वाग ५, २७^o
ऋग्मिण्ड-प^p- -प^o आग १, २२,
२१^o, पाग २, ४, २; माग १,
२२, १७^o, -पाय वाध २, ९,
विघ २९, १०, या २, ४
निधि-पति- -तिम् बौश्रौ १५,
२९ २५
ऋग्मिण्ड-पा^q- -पा. पाग २, ४,
२^o, वैग २, ९ ९, कौसू ६२,
१, अत्र १२, ३

a) न्ययु इति पाठ ? यनि. शोधः (तु सप्र मै २, ७, १६ काठ ३९, ३) । b) वैप १ द्र । c) वैप १,
१८०५ k द्र । d) नि-धन- टि द्र । e) अर्थ ? । f) विधान- इति पाका । g) निघनात्
इति पाठ. ? यनि. शोध [तु प्रकरणम्] । h) पासे पृ ११४ a द्र । i) पासे पृ १३९६ e द्र. ।
j) निघाप्य इति Boht [ZDMG ५२, ८१] । k) = कोष- । वैप १ द्र. । l) पासे वैप १, १८०६ b,
बलिना तै ३, ३, ८, २ टि च द्र । m) धना इति पाठ ? यनि शोध (तु पूर्व स्थलम्) । n) = निधि-
रक्षक- । उस उप अण् प्र । o) सकृत् सपा निधिगोप <> निधिप <> निधिपा इति पासे ।
p) = निधि-गोप- ।

निध्य(धि-अ)धिगम- -मः गौघ
१०,४२.
निध्य (धि-अ) न्वाधि-याचिता-
(त-अ) वक्रीता (त-आ) धि^१-
-घय गौघ १२,३९
नि-धीयमान,ना- -नम् वैताश्रौ १०,
९, २८, १०, ३३, २९, २,
-नयो द्राश्रौ १३, १, ६, लाश्रौ
५, १, ६, -नस्य द्राश्रौ १४, ४,
१४, लाश्रौ ४, १, १८, ५, ८,
१३, १०, ५, -ना वैताश्रौ २८,
२५, २९, ६, -नान् वैताश्रौ २,
८, -नानाम् द्राश्रौ १२, १, ७,
१४, ४, ३, ६, लाश्रौ ४, ९, ४,
५, ८, ३, ६, निसू ३, ४ ११,
-नायाम् द्राश्रौ १४, ४, १२, -ने
भाश्रौ ४, ९, ३, वैश्रौ १२, ६ ४,
जैश्रौका ५१, द्राश्रौ १२, २, ४,
लाश्रौ ४, १०, ५
नि-धे(य>)या- -या वैश्रौ १३,
७ २६
१नि-हित,वा^१- -त आश्रौ ९, ११,
१९, शश्रौ, याशि^० १, ८७-
८९, नाशि २, १, ३०, नि(हित)
ऋअ ३, ११, -तम् आपश्रौ
११, १२, ३, बौश्रौ, माश्रौ ३,
४, १०, कौसू ११७, ४^०,
फ्या २, १६, १२, ३८, शुप्रा ४,
१३८^०, -तयो. वाश्रौ १, ४, ३,
२४, -ता आपश्रौ १, ३, १, आपमं
२, २१, ३३, पाश्रु ३, १३, ६,
भाश्रु २, २६ : १५, हिश्रु १,

१५, ६, फ्या ४, १०, १३, ९,
-ताः बौश्रौ १२, ८ ३, -तान्
काठश्रौ १५३, आपमं, -तानि
आपश्रौ २१, २१, १४, हिश्रौ १६,
७, १०, अप ३, १, ५, या १३,
९, -ताम् माश्रौ १, २, ४, ४, फ्या,
वाश्रौ १, १, २, १९, सु २०,
१, -तासु फ्या ३, २०, -तासु
द्राश्रौ १४, ४, ३, ६, लाश्रौ ५,
८, ३, ६, -ते आश्रौ २, १७, १०,
४, ४, ६, १०, ३, बौश्रौ, -तेन
वाश्रौ १, २, २, ३१, -तेषु काश्रौ
२२, ५, १५, ९, ४, द्राश्रौ १२,
१, ७, लाश्रौ ४, ९, ४

१निघातोः^१ या ३, १६, फ्या

नि-धि- प्रसृ निघाद्र

निघी, फनिधीमहि आश्रौ २,
१९, ६^१, आपश्रौ, फनि(धीमहि)
बौश्रौ १८, १२ ११, साअ
१, २६

फनिदेध्यत्^१ बौश्रौ ४, ९ : १४,
भाश्रौ ७, १९, १५

निघृ, निघारय ऋप्रा ८, ४३, फ्या,
न्यघारयत् वृदे ५, ८४, निदीघ
ऋप्रा १, १०, ३, फ्या

नि-घारय^१- -य आश्रौ ७, २,
१७, फ्या

निघ्यै > निघ्यात- -तम् वाधूश्रौ
३, १०६ १, २

निधुव^१- -वा^१ बौश्रौ ४१. १८,
-वाणाम्^१ आश्रौ १२, १४,
७

नैधुव- -व आश्रौ १२, १४,
७, आपश्रौ २४, ९, १४, बौश्रौ २
४१ १९, हिश्रौ २१, ३, १३;
वैध^१ ४, ७, १, ९, -वस्य बौश्रौ
१८, ४५ : ४३
नैधुवि- -विः शुअ १,
५५०

निधुव-वत् आपश्रौ २४, ९, १४;
बौश्रौ ४१ : १९, हिश्रौ २१,
३, १३, वैध^१ ४, ७, १, ९
१निधुवि^१- -फवि आपश्रौ १४,
१७, १, हिश्रौ १५, ५, १

२निधुवि^१- -विः ऋअ २, ९, ६३;
साअ १, ४८३, ४९२, ४९३;
५०१, २, १०४९, -वेः चाअ
३० ८^१

१निन आग्निष्टोम क्षारहर^० वैश्रौ
२१, ३. १०

निघनद् > निनद्-, निनाद्- पा
३, ३, ६४

निनद्ध- निघनद् द्र

निघनम्, नि नम ऋप्रा ८, ४, फ्या;
निनमै या २, २७, निनमाम या
२, २७

नि-नसै या २, २७, फ्या,
नि(नसै) वृदे ४, १०७, फ्या

नि-नत,ता- -तम् आपश्रौ १०, ५,
१, ११, ८, १०, १८, १८, ५;
भाश्रौ ७, ९, १२, -ता आपश्रौ
१४, ६, ५, -तौ आपश्रौ १४,
६, ४

नि-नयत्-, -यन- निघनी द्र

(a) द्रस. । निधि- = अ-मुद्र-निक्षेप-, अन्वाधि- = उप-निधि- (= स-मुद्र-निक्षेप- [तु. यासृ २, ६५]),
अवक्रीत- = अर्धदत्तमूल्य- वा अर्धदत्तमूल्य- वा । (b) वैप १ द्र । (c) = अनुदात्त- । (d) पामे वैप २, ३खं. तैब्रा
१, ४, ४, १० टि द्र । (e) पामे. वैप १, १८०६ l द्र । (f) पामे वैप १, ८०१ ४ द्र । (g) पामे वैप १,
१८०७ k द्र । (h) = ऋषि-विशेष- । व्यु ? । (i) बहु < नैधुव- । (j) °द्वृव इति पाठः ? यनि शोधः
(तु. आश्रौ प्रसृ.) । (k) °द्वृ इति पाठः ? यनि. शोध. (तु आपश्रौ प्रसृ.) । (l) निर्धुवे इति पाठः ?
यनि. शोधः (तु. Pw प्रसृ.) ।

नि ✓ नर्द, निनर्दत् आश्रौ ८, ३, ९
 नि-नर्द^a - -र्द आश्रौ २, ११, ९,
 ११, १६, -र्दस्य वैताश्रौ ३२,
 १८, ३२, -र्देषु वैताश्रौ ३२,
 १५
 नि-निर्दत् - -र्दन् लाश्रौ ७, १२,
 १३
 नि-नर्ध आश्रौ ८, ३, ८^b
 नि ✓ नह्, निनह्यति आपश्रौ ११, ७,
 ३, २०, १६, ८
 नि-नह् - -ह् या ९, १४
 नि-नाह् - -ह्यात् काश्रौ ८, ९, ७
 नि-नाद् - नि ✓ नद् द्र
 ? निनियोज अप १, ६, ७, ८, ३, ४,
 ७.
 नि ✓ नी, निनयते आश्रौ १, १३, १,
 २, ४, १२, निनयति काश्रौ २,
 ५, २६ ३, ८, ६ × ५, आपश्रौ,
 निनयन्ते आपश्रौ १४, २२,
 ७, निनयन्ति शाश्रौ १३, ११,
 १०, बौश्रौ १४, २६ : २२,
 माश्रौ २, ५, ४, ११, वैताश्रौ २३,
 १४, निनय कौसू ३७, ११,
 निनयानि आश्रौ १, ११, ८, १,
 निनयेत् आश्रौ २, ४, १३, ३,
 ११, २०, आपश्रौ, निनयेयु
 आश्रौ ६, १०, २१, ९, ३, २०,
 वैश्रौ २१, ८, ७, द्राश्रौ ६, ३,
 २६, लाश्रौ २, १, ७, ११,
 १९, ८, ८, ४, बौध २, १,
 ३५
 निनीयते कौसू ७३, ५
 नि-नयत् - -यन् आश्रौ १, ११, ८,
 पाश्रु १, ३, १४
 नि-नयन - -नम् आश्रौ २, ७, ४,
 कौसू ५१, २, -ने बौश्रौ २०,

२६ १८
 निनयन-प्रभृति- -ति माश्रौ ४,
 ३, ३६
 नि-नीत्, ता- -त् वाधूश्रौ ४, ९०^२ :
 ४, ७, -ता- माश्रौ १, ४, ३, ९,
 २, ५, ४, १२
 नि-नीय आश्रौ ६, १२, ११, शाश्रौ
 नि-नीयमान, ना- -नम् आपश्रु १३,
 ९, हिश्रु १, १३, ४, -ना
 बौश्रु १, २, २९
 नि-नेत् - -तारम् वाध १५, १३
 निन्दक- , निन्दयित्वा, निन्दा- प्रभृ,
 निन्दिषत्, निन्ध- ✓ निद्, न्द्
 द्र
 ? निन्नुन् वाधूश्रौ ४, ५९^२ : १
 ✓ निन्व् पाधा, भ्ना पर सेचने
 नि ✓ पच् > नि पाक्य- -क्यम्
 वाधूश्रौ ४, ११८ : ९, ११.
 नि ✓ पद् > नि-पठ- पा ३, ३, ६४
 नि-पठित- (> °तिन्- पा) पाग
 ५, २, ८८
 नि-पाठ- पा ३, ३, ६४.
 नि ✓ पत् (गतौ), निपतति आपश्रौ
 १८, ३, १५, २३, १२, १०,
 वैश्रौ, या १, २०, निपतन्ति
 बौश्रौ १९, ६, ३, अप ५८^२,
 १, ५, २, २, ७, ४, १७, १९,
 ७०^२, ११, ३२ गौध १, ४७,
 अश्रु १२, ५(३) १, या १, ४,
 ११, याशि २, ६१, न्यपतत्
 बुदे ५, १४९, निपतेत् आश्रौ
 १२, ६, ७, ८, बौश्रौ २६, २१
 ४, २७, १ २, कौसू ८३, २३,
 अप्राय २, ६, आपश्रु २, १०,
 बौश्रु २ : ५, हिश्रु १, ३०,
 निपतेयु बौश्रौ २९, १ : ४

निपातयेत् वैश्रौ १, १ १२,
 १०, २ २, अप
 निपात्यते अप ७१, १३, २, बुदे-
 २, ९२, पावा ३, २, १७७,
 निपात्यन्ते बुदे २, ९३
 नि-पतत् - -तताम् अप ५८^२, १, ६,
 -तन्तम् कौसू ६५, २
 नि-पतन - -नात् बौध २, १, १४
 नि-पतित- (> °तिन्- पा) पाग
 ५, २, ८८
 नि-पत्य > °त्य-रोहिणी^c - पाग २,
 १, ७२
 नि-प(त्य >) त्या^d - पा ३, ३, ९९
 नि-पात^e - पाग ५, १, १२४, -तः
 कप्र १, २, ६, ऋअ २, ३, ६,
 बुदे १, ३९, ५, १६२, ७, १४५,
 या १, ८, २, २०, ४, १७, ५,
 ५, ६, २८, ११, ११, २०, १२,
 २०, २९, ३० ३३, ऋप्रा १२,
 १७, २५, अप्रा १, ३, ४, ५,
 शौच १, ७९, याशि २ ५, पा
 १, १, १४, पावा ६, १, ९३,
 -तम् बुदे ६, ८६, या ७, १८,
 २०, ३१, -तस्य पा ६, ३,
 १३६, पावा १, २, ४५, -ताः
 बुदे २, ३, ८९, ४, ९६, या
 १, ४, ३, १५; ऋप्रा १२, २१,
 शुप्रा २, १६, याशि २, ४, पा
 १, ४, ५६, -तात् निस् ८, ११ -
 १४, बुदे ८, ६०, -तान् आश्रौ
 ६, १४, १४, -तानाम् बुदे २,
 ९३, ऋप्रा १२, २६, -ते याशि
 १, ५४, ७१, -तेन बुदे १, ७८,
 २, ८१, ३, २५, ३६, ४, ५४,
 ८, ५२, -तै बुदे ६, १३५,
 ८, १२९, पा ८, १, ३०

a) = (चतुष्कृत्व) ओकार-ध्वनि- । b) ँम् इति आन । c) रोहिणी = रक्ता- इति पागम. ।

d) नाप. । अर्थ ? । = पिच्छला-भूमि- इति पासि. । e) भाप., पारिभाषिक-संज्ञा- [पा. ऋप्रा प्रभृ] च ।

नैपातिक^३ - कानाम् वृदे
२, ७१, -क्रानि वृदे १, १७,
१९, २, ७८
नैपात्य- पा ५, १, १२४.
निपात-क- -का. याशि २, ३
निपात-ज- -जौ याशि २, ५७
निपात-भाज्- -भाक् वृदे ४,
९२, १२८, ५, ९१, ९३, १०७,
११०, ६, १३१, सात्र १, ७८,
३६४, ४५२, ४५७, -भाज्
सात्र १, ४३५, या ७, १३,
-भाजम् वृदे ७, १४५, -भाजौ
वृदे ४, १०, -भाजिज् अप
४८, १३३; १३८, १४३
निपात-भाजि(त्^४)नी- नी
सात्र १, ७३, १३३
निपात-मात्र- -त्रम् वृदे २,
८०, -त्रे वृदे १, ९३, -त्रेण
वृदे २, ७५
निपात-संज्ञा(ज्ञा-अ)भाव-
-व. पावा १, ४, ५८
निपात सञ्ज्ञा(ज्ञा-अ)र्थ- र्थ
पावा १, ४, ५८, ५९.
निपात-स्तुति- -तिषु वृदे ३,
११९
निपाता(त अ)व्यय- -यानाम्
अप्रा ३, ३, २०
निपातिन्- -तिनः वृदे ८,
१२८, -तिनम् वृदे ४, १२८,
-तिनौ वृदे ४, ११०, -ती वृदे
४, १२४, ८, ६७
निपातिनी- नी वृदे ३,
५३, -न्य वृदे ७, ३९
निपात्य(ति-अ)र्थ- र्थान्

वृदे ४, ९७
निपातै(त-ए) कत्व- -त्वात्
पावा ६, १, ९३
नि-पातन- -नम् पावा ३, २, १०९,
१७१, ६, १, २०३, ४, १७४,
७, २, २६, -नात् ऋप्रा १२, २६,
पावा १, १, ४, २७, २, ४, २६,
५, ३, १८, ६, १, १५८, १६३,
२, २, ४, २४, -ने शंघ ३१५,
बोध २, १, ७, विध ५४, ३०
निपातना(न-आ)नर्थक्य- -क्यम्
पावा ४, ४, ८२, ५, १, ११३,
११४
नि-पातिता- -तम् अप्रा ३, ३,
२१, -ता वृदे २, १३४, -ता
वृदे ३, १२१, ८, ४०, -तौ
वृदे ३, ६७, ५, १०५, ७, २१
नि-पात्य शाश्रौ ४, १४, १२, आप्रश्रौ
नि-पात्यमान- -नम् वैताश्रौ ३७,
२५
?निपत् बौश्रौ ६, ६ २५
नि√पद्^५, निपद्यते आश्रौ ८, १४, ४१,
शाश्रौ ४, १८, ११, बौश्रौ १७,
४० : ३, आमिगृ १, ३, २ १२,
भागृ २, १८ १५, मागृ २, १८,
२१, कौसू ४०, १०, निपद्यन्ते
माशि १०, ६, ननिपद्यसे आप्रमं
२, ८, ५, आमिगृ १, १, १०५२,
५, १ : ३८, ३९, ६, १ : ३२,
३, २, १ १३, बौगृ १, ३, ३८,
भागृ १, ५ १, ३, हिगृ १, २, १८,
जैगृ १, २० : २०, निपद्येत
लाश्रौ ८, ८, ५
न्यपादि वाधुश्रौ ४, ७५ ८

नि-पद्य बौश्रौ १४, १८ : १६, १८.
नि-पद्यमान, ना- -नस्य शाश्रौ १५,
१९, ११, -नायाम् आमिगृ ३,
५, ६ २, बौपि १, ४ : १८.
ननि-परण- नि√पृ, पृ द्र
नि√पा(पाते) > नि-पान- -नम् पा
३, ३, ७४
नि-पाय्य बौश्रौ ११, ३ : ३५
नि√पा(रक्षणे), निपाति अप्राय ६,
३^६, निपातु या ११, ४६^६,
निपाताम् जैश्रौ ९. १३^६;
नि पाहि हिश्रौ १५, ८, ४^६.
नि-पाक्य- नि√पच् द्र
नि-पाठ- नि√पठ् द्र
नि-पात-, -तन- प्रमृ नि√पत् द्र.
नि-पाद्- (> °द-क-पा) पाग ५,
२, ६४
नि-पुण, णा^६- पाग २, १, ४०;
५९, ७०, ५, १, १२४^६, १३०,
६, २, २४, -णः आपध १, २३,
२, हिध १, ६, १०, -णम्
आपध १, २३, ८, हिध १, ६, ८;
पाशि १०, कौशि ५६, ६४;
७९, -णान् विध ३, १८, -णाम्
वाध ४, २०
नैपुण- पा ५, १, १३०
नैपुण्य- पा ५, १, १२४
निपुण-क^६- (> °कीय-पा)
पाग ४, २, १३८
निपुणो(ण-उ)दाहृत- पा २,
१, ५९
?निपुणहन्^६- हा^६ जैगृ १, ८ १७^६.
ननिपुणि^६- णि.^६ भागृ १, २३ ७,
हिगृ २, ३, ७, -णिम्^६ आमिगृ

a) विप । तस्येदमीय ठक् प्र उसं (पा ४, ३, १२४) । b) विप । उस । c) पा ८, ४, १७ परामृष्ट द्र । d) पाभे. वैप १, १८०९ b द्र । e) व्यु ? । < नि√पुण इति अभा, < नि√पृ इति WAG [१, १९, १७२ B] । f) पृ १५९ ० द्र । g) तु पागम । h) = बालप्रह-विशेष- । व्यु. ? । i) सपा. निपुणह्वा <> निपुणि. <> निपुणिम् <> नृमणिः इति पाभे ।

२, १, ३ १५	नि-बध्य वैश्रौ १४, १४: १३, कौस् १८, ७, ४२, २३, ८०, ३३, ८५, १८	बौश्रौ २९, ५: २२, २४, वैध २, १३, १
नि-पुर्- -पुर: आश्रौ २, ६, २, शाश्रौ ४, ४, २, आप्रश्रौ १, ८, ७, बौश्रौ २, ९ २, भाश्रौ १, ८, ५, माश्रौ १, १, २, ८, वाश्रौ १, २, ३, १, हिश्रौ २, ७, १७, जैय २, २. ४	१नि-बन्ध- -न्ध आपृ ३, २१, गौध १३, १०	निमज्जेत् वैश्रौ २०, ३२: ५. २नि-मग्न, ग्ना- -ग्न. शंघ १०३; विध ६४, १९, सुषप ८७: ३; -ग्ना अप ६१, १, ६, -ग्नाया: वाध २१, ६-८.
नि/पृ, पृ, निपृणयात् बौश्रौ २४, ३२ ६, द्राश्रौ ७, २, ११, लाश्रौ ३, २, ११	१निबन्ध- (>) न्ध-क- निबन्धन-क-) १निबद्ध- टि द्र.	नि-मज्जन- -नम् विध १९, ६ नि-मज्जान- -न वाध २६ ८
निपृणाति कौस् ८२, २१, ८४, ६, निपृणन्ति वैताश्रौ २२, २२, पाय ३, १०, ५५, निपृणी- यात् आश्रौ २, ६, १५, १७, १८, २०, बौपि ३, ४, २२ ^b	नि/बाध् > णि-बाधित- -तास शाश्रौ ७, ६, ३ ^०	नि-मज्जय ^१ - आश्रिण २, ६, २: १३, बौपि ३, ६, ६, ७, ४, वैय १, ३ १२, ५, ६ ९, ६, ८: ४; जैय २, ५ ६, बौध १, ५, ११०; २, ५, ७, विध ६४, १८, निमज्ज- १निमज्जय कौय ४, ४, ५, शाय ४, १७, ५.
नि-परण- -णम् काय ६३, १४, १, ६४, ३, ६५, २, ६७, ४, ६८, ४, ६९, ४, -णात् या २, ११	नि/बिड- , नि-बिरीस- पा ५, २, ३२	निमद्- -द: तैप्रा २३, ८
नि-पृत- -तान् आश्रौ २, ७, १.	नि/बुध्, निबोध विध १ ६५, पाशि, निबोधत अप २४, १, ३, ४२, १, १××	नि/मन्त्रि (< मन्त्र-), निमन्त्रयेत् बौय २, ११, ५, निमन्त्रयै पावा ३, ३, १६१, निमन्त्रयेत् वैय ४, ३ ४, वैध ३, ९, २.
निपेपि ^० हिण १, १७, २	नि/बृह् (हिंसायाम्), निबर्हयति निध २, १९, निबर्हयत् वृदे ४, ६९, निबर्हय आश्रिण २, ६, ८ ४०	नि-मन्त्रण- -णम् बौय ३, १२, ६. निमन्त्रणा(ण-अ)तिक्रम- -मे विध ५, ९४
नि-प्र/भृ, ऋनि(प्र-भरामहे) आश्रौ ६, ४, १०, शाश्रौ ९, ९, ४, ऋअ २, १, ५३, अअ २०, २१	नि/बृह्- -णम् वृदे २, ६	निमन्त्रणा(ण-आ)दि- -दीनाम् पावा ३, ३, १६१.
निबद्ध- (> निबद्ध-क-, नैबद्धक- पा) पाग ४, २, ८० ^{२४}	निभम् ^१ शध २३२	नि-मन्त्रयित्- -तु: विध ५, ९७. नि-मन्त्रयित्वा विध ५, ९५.
नि/बध्, न्ध, निबध्नाति माश्रौ २, २, २, २५, ४, ३, ४, हिश्रौ ७, ५, २५, अप ७०, ३, ४	नि/भुज् > नि-भुजत्- -जन् माश्रौ २, १, २, २०	नि-मन्त्रित- -त विध ५, ९६; -ता: वैय ५, १३: ४.
निबध्नात् वैश्रौ १४, ६: ६, हिश्रौ ७, ५, १७	निभूय-पुर् ^२ अप्राय ३, ३.	नि-मन्थ्य आय ३, ९, ४, बौध २, ८, ६.
२नि-बद्ध- -द्धम् वैश्रौ ११, ९ २, हिश्रौ १४, १ ३७	नि/भृ > नि-भृत- -तम् द्राश्रौ ७, ३, ८, नाशि २, ७, १२	नि-मन्थ्य- -न्थ्य गौध २, ५५.
	निभृत-वत् ^३ -वन्ति निस् ६, ११ १०.	
	१निमग्न- (> नैमग्नक- पा) पाग ४, २, ८०	
	नि/मज्ज्, निमज्जति बौश्रौ २७, ८ ५, हिपि १७ ६, अप ७१, १७, ३, विध ५७, ८, वृदे ३, २४, निमज्जन्ति पाय ३, १०, २०, अप ६८, १, १८, निमज्जेत्	

a) वैप १ द्र । b) निवृणयात् इति पाठः^१ यनि. शोषः [तु. B.] । c) वैप २, ३ ख. द्र. ।

d) तु पाका. । सङ्कृत २निबन्ध- , निबन्धन- इति [पक्षे] भारवा. प्रमृ. ।

e) पासे. वैप २, ३ खं. द्र. ।

f) पाठः^२ = लवण-विशेष- इति कृत्वा विदः इति वा (तु स्पृथा [२१७]) विदम् इति वा शोषः (तु. पमा-

[३७७]) । g) वैप १, १८१० g च । h) विप. (गण-सामन्-) । i) बौपि. जैय. विध. यनि. वाधि. द्र ।

j) = वाच स्थान-विशेष- । ध्यु ? ।

वैप-दि-८२

नि-मय- नि/मि द्र

नि/मा(माने) > नि-मात(व्य >)

व्या^१- व्या काञ्च ७, १७

नि-मान- नै पा, पावा ५, २, ४७

१नि-मित- -तम् पा ३, ३, ८७.

नि-मीयमान- नै जैश्रौ २४ : ६

नि-मेय- ये यावा ५, २, ४७

नि-मार्जन- नि/सृज् द्र.

नि/मि (प्रक्षेपणे), निमिनोति

बौश्रौ ९, ७. २१, १२, १४ :

१७, १३, ३७ ७, वैश्रौ १७,

१२. ८; कौसू ४०, २, ऋनिमि-

नोमि पासृ ३, ४, ४, आमिगृ २,

४, १ ११, भागृ २, ३ : ३,

हियृ १, २७, २, निमिनुत बौश्रौ

११, ६ : ३.

ऋनिमिग्युः आश्रौ ३, १, १०

२नि-मित, ता^१- -तम् बौश्रौ ११,

७ : २८, वैश्रौ १७, १३. १,

-ता बौश्रौ ११, ७. ३७, आपम

२, १५, ३१^०, आगृ २, ८, १६१^०,कौगृ ३, २, ६१^०, शासृ ३, ३, ११^०,

-ते वैश्रौ १८, १७. ३३

निमि- पाउभो २, १, १६१

निमित्त^१- पाउभो २, २, १३४, पाग४, २, ६०^०, ३, ७३, -त्तम् अप५१, ५, ३, ७०^१, १०, ३××;

शंघ, पा ५, १, ३८, पावा १,

४, ३१^१, -त्तस्य पावा ३, १,

१, मीसू ५, १, ३३; ३, २६,

६, ५, १३, २६, -त्तात् काश्रौ

२५, ४, ४३, अपं ४ ६,

पावा २, ३, ३६, -त्तानि आमिगृ

२, ७, १ : ४, ५ : २, बौगृ १,

२, ६३; अप २१, ७, १, ५४,

१, २, ६४, १०, ९, ६५, ३, ७,

६२, १, ५, -त्ताय अप ७२,

३, १, -त्ते वैश्रौ २०, १३ :

११, आपगृ ४, ६, अप ६५,

२, १२, आपघ १, २०, ३,

आपशु ४, ७, -त्तेन गौपि १,

१, ४, मीसू २, ४, २१, ४, ४,

१७, ९, ३, १०, -त्तेषु बौश्रौ

२८, ६ ६, कप्र १, २, १४,

अप ५८^२, ४, २०, ६५, २, १३,

-त्ते बौश्रौ २७, ८ १, अप

६७, १, १.

नैमित्त- पा ४, ३, ७३.

नैमित्तिक- पा ४, २, ६०^६,

-कः मीसू ३, ५, ४८, ४, ४, ८,

६, ८, ४४, -कम् वैगृ १, ४

२६, ५, १३ ५, शंघ, -का

आश्रौ ९, १, १३, -कानि बौश्रौ

२७, २ २३, आमिगृ २, ७,

८ १, आपगृ १, ११, अप

२३, १, ३, काघ २७६ : १०,

शुअ १, ५४३, -काय वैश्रौ

२०, १६. १, -के कौगृ २, ६,

९१, वैगृ ६, १७ ३, शंघ

२१०, आपघ २, १४, २०, वैघ

२, १४, ६, हिघ २, ३, ३०,

मीसू ४, ३, ३, १०, २, ६७, ३,

३०, -केषु भागृ ३, २१ ४

नैमित्तिकी- -की. काश्रौ

१५, ४, २२, -कीम् बौश्रौ २८,

६. २, कागृ ४३. ९, ४५. ९.

नैमित्तिक-त्व- -त्वात् मीसू

१०, ३, २७, ८, ६४.

निमित्त-क- -कात् कप्र २, ३, ५.

निमित्त-कारण-हेतु- -तुषु पावा २,

३, २३.

निमित्त-ज्ञ- -ज्ञै अप ६८, ४, ६

निमित्त-ज्ञान-कुशल- -ला अप

६८, १, ३

निमित्त-परीष्टि^१- -ष्टिः मीसू १,

१, ३.

निमित्त-पर्याय-प्रयोग- -नो पावा

२, ३, २७

निमित्त-पूर्व- -र्वम् शध २४७

निमित्त-भाव- -वात् पावा २, ३,

४६

निमित्त-भेद- -दात् काश्रौ १, ७,

१३

निमित्त-मात्र- -त्रम् पावा ३, १,

२६

निमित्त-विघात- -तात् मीसू ६, ६,

९, १०, ५, ६१.

निमित्त-आह- -हे वैगृ ७, ७ : ६

निमित्त-संयोग- -गात् मीसू ६, ४,

३२

निमित्त-संशय- -यात् ऋप्रा ११,

१०

निमित्त-संप(ज्ञ >)ज्ञा- -ज्ञा अप

६५, २, १२

निमित्ता(त्-अ)ख्या(ख्या-अ)भि

संयोग- -गात् मीसू १०, ३,

३५.

निमित्ता(त्-अ)भाव- -वात् पावा

१, १, ६२, २, ३, ४६, ३, २,

११०, ३, १३२

निमित्ता(त्-अ)र्थ- -र्थः मीसू ४,

३, ३७, -र्थे मीसू ६, १, २७^१,

-र्थेन मीसू ६, ४, १४

निमित्ता(त्-अ)वेक्ष^१- -क्षाणि

भापगृ १, ११.

a) विप (वेदि-) । b) वैप १ द्र । c) पामे पृ १४०० ० द्र । d) = हेतु-, लक्ष्मन्-

शकुन- । व्यु^१ । < नि/मिद्र [स्नेहने] इति अभा । e) = ग्रन्थ-विशेष- । f) तु. पासि । g) = निमित्त-

अन्वयेत्- । h) उप. = परीक्षा- । i) 'येन इति जीसं. प्रसृ । j) विप । उस उप < अव/ईक्ष ।

निमित्तिन्- > °त्ति-कार्या(र्य-अ) र्थ-त्व- -त्वात् पावा ३, १, १ निमित्ति-स्वर-बलीयस्-त्व- -त्वस्य, -त्वात् पावा २, १, १ निमित्तो(त-उ)पादान- -नम् पावा ३, १, ९२.	रनिमिष ^१ - > (नैमिषि ^१ - > °षायण- पा) पाग २, ४, ६१.	निमृजेत् आश्रौ २, ६, ५; बौश्रौ २०, २०: १७, १८; आगृ १, १७, १६.
निमिषा- > नैमिषि- (> °शायन- पा) रनिमिष- टि द्र	नि/मिह, निमेहसि आपश्रौ ९, १८, ९१	निमासृजे, निमासृजुः ऋप्रा ९, २६१.
निमिषि ^२ - > नैमिषि- पाग २, ४, ६१, -श्रयः बौश्रौप्र २२ २ नैमिषायण- पा २, ४, ६१	नि-मीयमान- नि/मा द्र नि/मील्, निमीलते अप ६७, ६, २, निमीलन्ति अप ७० ^२ , ७, १९, ७१, १२, २.	नि-मार्जन- > नैमार्जन ^३ - -न बौश्रौ १८, २: ४.
नि-मिष ^३ - -इल शाश्रौ ११, ५, २१	निमीलयन्ति अप ७२, ४, ४	नि-मृजत्- -जन् बौश्रौ १८, २: ६, -जन्त बौश्रौ १८, २: १३, २६, ३०: ३, ५.
नि/मिष्, ऋनिमिषन्ति आपश्रौ १६, १८, ७, वैश्रौ १८, १६: ४, हिश्रौ ११, ६, २९, निमिषेत् आपश्रौ २४, १४, ८, हिश्रौ २१, २, ४५	नि-मीलन- -नम् जैश्रौका १७८, -नेन बौश्रौ २४, ३१ ४	नि-मृज्य आपश्रौ ६, १०, ११, ११, ४×४, भाश्रौ.
१ ऋनि-मिष ^४ - -षः आपमं २, १७, २५, -वे माश्रौ १, ६, १, ३५ ^० , -वेण आपश्रौ २४, १४, ९	नि-मीलित- -तम् जैगृ १, १७ ९ निमीलिता (त-आ)स्य-नयन ^४ - -नाः अप ६८, १, २६	नि-मृष्ट- -ष्टम् हिश्रौ ५, ३, ३६; -ष्टे वाश्रौ ३, ३, १२
नि-मिषत्- -षतः सु २५, ३, -षन्तम् या ११, ४२ ^० .	नि-मोक्ष आपश्रौ २, ६, २×४, ६, १०, १ ^० , बौश्रौ	नि/मृद्, ऋद् निमृदनीयात् आपश्रौ ४, १५, ३, ६, १८, २.
नि-मिषस् () ^५ या १३, ११	नि-मुष्टि ^१ - > °ष्टि-तृतीय ^१ - -यम् कौसू ४७, १४.	ऋनि मृद्यासम् ^५ आपश्रौ ६, १८, २, हिश्रौ ६, ६, १७ ^{१०} .
नि-मेष ^६ - -षः याशि १, १०, -षाः शाश्रौ १४, ८१, २	नि-मूल- > °ल-वाषम् पा ३, ४, ३४	ऋनि-मृद ^६ - -द ^५ आपश्रौ ६, १८, २, हिश्रौ ६, ६, १७.
निमेष-का (ल >)ला ^१ - -ला नाशि २, ३, ८	नि/मृज्, निमृष्टे काश्रौ ५, ९, १५, निमार्ष्टि आश्रौ १, १, १, २, ३, २०, काश्रौ, नि ..मृजे बौय २, ६, १२१, ऋनिमृडवम् आपश्रौ १८, ४, १५, बौश्रौ ११, ९ ६, ऋनि मृड्वम् हिश्रौ ६, ३, २,	ऋनि-मृद ^७ - -द ^५ माश्रौ १, ६, २, १२, वाश्रौ १, ५, ४, १४.
निमेष-मात्र- -त्रम् विध ९२, २३६, -त्रेण माशि १३, १, -त्रैः या १४, ७	ऋत २, ६, ७, निमृज्यात् आपश्रौ १२, ११, ३	ऋनि-मृद ^८ - -द ^५ माश्रौ १, ६, २, १२, वाश्रौ १, ५, ४, १४.
निमेष-स्तोम ^७ - -माः शाश्रौ १४, ८१, १	निमृजते बौषि १, ५: ५, आमिगृ ३, ५, ६: १७, निमृ- जति बौश्रौ १८, २: ५, नि- मृजन्ते आपश्रौ ८, १६, ३,	ऋनि-मृद ^९ - -द ^५ माश्रौ १, ६, २, १२, वाश्रौ १, ५, ४, १४.

a) व्यप । व्यु ? । तु MW । b) वैप १ द्र । c) सपा. निमिषे <> निमील्य इति पाभे. ।
d) मिषन्तम् इति ल । e) भाप. । f) विप. । बस । g) तु. जीस. । h) = याग-विशेष- । i) व्यप. ।
व्यु ? । j) नैमिषि- इति [पक्षे] पागम. । k) विप. । बस > द्वस. । l) = प्रमाण विशेष- (= निमृष्टि-
। ऐआ ५, १, ३) । m) = यज्ञ-विशेष- । तस्येदमीयः अण् प्र । n) पाभे. वैप १, १८११ । d. । o) °षासम्
इति पाठ ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ) । p) = नि-मृद- । q) पाभे. वैप १, १८११ k द्र. । r) = विनिमय-
पाप. <नि/मि वा/मी वेति । s) निम्न इति पाठः ? निम्नम् इव इति शोधः ।

८, ११, २, -न्न न्न २, ९, १०^१.
निम्ब^२ - पाठभो २, २, २२२
 निम्ब-पत्र- -त्रम् आमिष्ट ३, ४, ४ : २३, बौषि ३, ४, २०
 -त्राणि विध १९, ८.
 निम्ब-मय- -यः अप २१, ३, २
 निम्ब-श्लेष्मातक-नीप-तिल्व-राज-
 वृक्ष-विभीतक-शल्मलि-कोवि-
 दार-करञ्ज-बाधक-निर्गुण्डि-
 पलाण्डु-जपा- -पानाम् वैश्रौ
 ११, ११. ५
 ऋनिम्बा(म्ब-अ)रल-सकण्टक-
 -कान् कौष्ट २, ६, ९
नि-म्रद- नि/मृद् द्र
नि/म्रुच् > नि-म्रुक- -के भाश्रौ
 ४, ३, ८^१
 नि-म्रुक्ति- -क्तिम् भाशि २१^१
 ऋनि-म्रुच्^१ - म्रुक आपश्रौ ४, १५,
 १, भाश्रौ ४, २१, १, हिश्रौ ६,
 ४, १८, -म्रुच आपश्रौ १४,
 १६, १, बौश्रौ ३, १४ : ५,
 २७, ५ : ६, ७ : ११, २९, ९
 ९, हिश्रौ ३, ६, १५, अत्र १३,
 ३, अप ३ : ६९, भाशि २१,
 -म्रुचि वृदे २, १०^१
 ऋनि-म्रोचत् - चन् आपश्रौ ४, १५,
 १, भाश्रौ ४, २१, १, हिश्रौ ६, ४,
 १८
नि/म्रुच्, मिम्लोचेत् विध २८,
 ५३
नि/यच्छ्, यम्^१, नियच्छति शाश्रौ
 ७, १५, १६^{१०}, आपश्रौ, या ११,

२३, नियच्छन्ति बौध १, २, ७,
 ऋप्रा ३, २०, नियच्छात् अप
 १^१, १, ४, ऋनियच्छतु आपश्रौ
 ४, २, १, १३, १९, ५^१, भाश्रौ
 ४, २, ५, हिश्रौ १, २, ५,
 पाय ३, ३, ५^{१०}, ऋनियच्छतात्
 आमिष्ट १, १, ३ : २५, हिष्ट
 १, ५, ११, नियच्छताम् या ९,
 ३८, ऋनियच्छन्तु^१ भाष्ट २, ११
 ११, हिष्ट २, १०, ६, ऋनियच्छ-
 तात्^{१४} आमिष्ट ३, १, १ ११,
 नियच्छतम् वाश्रौ १, ४, ४, ४१^१,
 नियच्छत आश्रौ २, ७, ९^१,
 नियच्छेत कौस् १८, ३५,
 नियच्छेत् शंघ २५८, हिघ २, ४,
 १५^१, उस् ८, १०, १६
 न्येमु भाष्ट २, २८ : ८^१,
 नि यंसत् तैप्रा १६, २०^१,
 नि अयंसत् आपमं १, ७,
 ११^१
 नियम्यते आपश्रौ ३, १५, ३,
 काश्रौसं ३२. १, भाश्रौ ३, १३,
 ६, हिश्रौ २, ६, ४५, काष्ट ४१ :
 ११, कप्र ३, ९, १४, नियम्येते
 हिश्रौ ३, १, १५, नियम्यन्ते
 आपश्रौ १९, १८, ८, नियम्येत
 हिश्रौ २१, १, १६, मीस् २, ४,
 ३, ५, १, ४×४, नियम्येरन्
 हिश्रौ ३, १, १७
 नि-यच्छत् - च्छन् आश्रौ ६, १२,
 २
 नि-यत्, ता- -त् आपश्रौ १९, १५, ७,
 हिश्रौ, -त्स काश्रौ १, १, १०, ५,

१४, माश्रौ, ऋप्रा ३, १७^१, उस्
 ८, १०, १८, कौशि, -तस्य मीस्
 ७, ४, १९, -ता माश्रौ ५, २,
 १२, ४६, वाध २, २०,
 विध ५१, ६७, या २, ६^१, आज्यो
 १२, ३, -ता अप ३१, ७, १-
 -तानाम् मीस् ६, ५, ३८,
 -तानि हिश्रौ ३, १, ४, -ताम्
 बौध ४, १, २३, -तासु काश्रौ
 २५, ४, २२, -ते काश्रौ १, ४,
 २, हिश्रौ ३, ४, ३६, -तेषु माशि
 ५, १०, -तौ हिश्रौ ३, १, १२,
 २, १४, अप ५२, १०, ५
 नियत-का(ल >)ला^१ -लाभ्यः
 माश्रौ ५, १, १, ३
 नियत-केश-वेष^१ -षा वाक्
 २, २१
 नियत-क्रिया- -या काश्रौ ७, १-
 २२, १०, ९, २४, १२, १, २०
 नियत-स्व- -त्वात् पावा ४, १,
 ९३, मीस् ६, ३, ३४
 नियत-पान^१ -ना बौश्रौ २०,
 १६ ४०.
 नियत-प्रश्रित^१ -तौ ऋप्रा ४,
 २६
 नियत-वत् पाष्ट २, ५, ४१
 नियत-वाचो-युक्ति^१ -क्त्य-
 या १, १५, १६
 नियत-व्रत^१ -ता अप्राय ३, ७.
 नियत-सह-पाठ- -ठात् काश्रौ
 १, २, १४
 नियत^१-स्वरो(र-उ)दय- -ये
 ऋप्रा ११, ५३, ५५

a) = वृक्ष-विशेष-। व्यु ?। b) वैप १ द्र.। c) पाठः ? यनि वा अनुयच्छति वेति ? ०। d) पाभे.
 वैष १, १००४ a द्र.। e) पाभे वैप १, १८१२ d द्र.। f) पाभे वैप १, १८१२ k द्र.। g) प्रपु३ अ.
 कत् इत्यादेशः उस् (या ७, १, ४४)। h) सपा आपध २, १०, १६ नियुञ्ज्यात् इति पाभे। i) पाभे. वैप १,
 ३८१३ a द्र.। j) पाभे वैप १, १८१३ ० द्र.। k) पाभे. वैप १, १८१३ ० द्र.। l) = अनुदात्त-।
 ऋ) विप.। बस.। n) सन्धि-विशेषयो द्रस।

नियता(त-अ)तिपत्ति- -त्तौ
शाश्रौ ३,४,२
नियता(त-अ)मनु^३- -स्मा बौध
४,५,१९
नियता(त-अ)दि- -देः उस् ८,
१४.
नियता(त-अ)नुपूर्व्य^३- -व्यां
या १,१५,१६.
नि-यति^३- -तिम् शोध ११६:२९.
नि-यम- पा ३,३,६३, -म शाश्रौ
१, १६, १८, काश्रौ, पावा १,
१,३,२,२८, ३,६७, २,२,३४,
३,६६^०, पावा ७, -मम् बौध
३,३,४, आपध २,२३,१, ऋप्रा
३, २२, -मस्य पावा ५, २,
११६, -माः शाश्रु ६, २, २,
आपध १,४,७, हिध १,१,१२६,
पाशि ११, -मात् बौध १, २,
२३, पावा १,३, १२, मीस् ४,
३,१९, ५,२,१४^१, १२,१,३७,
-मान् कौश्र २,७,२२, शाश्रु २,
१२,७, ६,१,१, वाध १२,४७,
वैध २,४,४, ८, ७, -मे मीस्
१०,७,७०^०, -मेन आपध २,५,
१५, हिध २,१,१६, -मेषु काश्रु
४, ३, वाध ६, २२, आपध १,
५,१, २,५,१८, हिध १,२,१,
२,१,१००, ५,१९३, -मै अप
६८,१, २१, आपध २,१० १६,
वैध १,५,२, ५, हिध २,४,१६
नैयमिक^३- -कम् वाध ११,
४७, आपध २, १९, १३, हिध
२, ५, ८४; -कानि आपध १,

१३,२२, हिध १,४,३५
नियम-निमित्ता (त-अ) मिहोत्र-
दर्शपूर्णमास-दाक्षायणा (ण-आ)
प्रयण-पशु- -शुषु काश्रौ १, २,
११.
नियम-प्रतिषेध- -ध पावा ८,
४, ३
नियम-प्रधानत्व- -त्वात् मीस्
१२,४,१५
नियम-भूत- -तेषु आमिगृ ३,९
३ २८
नियम-यम- -माभ्याम् वैश्र १,
१ १६
नियमयमिन्- -मी वैध ३,
७, १३
नियम-वचन- -नात् पावा ५,४,
८८, ६, १, ६७, ४, १३^३, -ने
पावा ८,४,३
नियम-त्रिलोप- -प आपध २,
१०,१, हिध २,४,१^{१६}
नियम-शब्द- -ब्दात् काश्रौ १,
४,८, ३,५,८
नियम-सामर्थ्य- -थ्यात् काश्रौ
५,१,५
नियम-स्थ- -स्थस्य आमिगृ २,
५,१ . ५३, जैश्र २,९ : ३९
नियमा (म-अ) विक्रम- -मम्
आपध १,४, २५, हिध १, १,
१४४, -मात् आपध १, ५, ४,
हिध १, २, ४, -मे आपध २,
१२,१८, बौध ४,१, २३, हिध
२,४,५५
नियमा(म-अ)तिक्रमण- -णम्

आपध २,२७,१८, हिध २, ५,
२३७
नियमा(म-अ)नुपपत्ति- -त्ति
पावा ३,१,४६, ६७, ४,१,९३,
७,२,१०, ६३
नियमा(म-अ)भाव- -व. पावा
१,१,६७
नियमा(म-अ)रम्भण^३- -ण
आपध २, २७, ७, हिध २, ५,
२२६.
नियमा(म-अ)र्थ,र्था- -र्थ. मीस्
६,३,१६,११,२,९, -र्थम् पावा
१,१,४९,६७,७०××, -र्था मीस्
३,६,४०, ४,२,२४, -र्थौ लाश्रौ
१०,३,११.
नियमी/भू>मी-भूत- -तेषु
बौपि २,७,२२
नि-यमन- -नात् या ५,२८
नि-यस्य माश्रु २,१५,६, अप.
नि-यस्य- -स्यानि हिश्रौ २१,१,६.
नि-याम- पा ३, ३,६३.
नि-यामक- -क पावा २,४,८३.
नि-यच्छत्, -नि-यत्-प्रभृ. नि
/यच्छ् द्र
?नियतान्येवदृच्छाया अप ३३, ७,
७.
नि-यति-, नि/यम् प्रभृ नि/यच्छ्
द्र
नि/या^३, नियाम् आश्रु १,१३,७^१
नि . यामत् शुप्रा ६,७^१
†नि-यान^३- -नम् आश्रौ २, १३,
७^१, माश्रौ ५,२,६,२०^१, वैताश्रौ
९,५^१, कौस् ३०, ११^१, अश्रु ६.

a) विप । बस । b) = देवपत्नी-विशेष- । c) तु. पासि । d) °मादानुपूर्व्यस्य इत्यस्य स्थाने
°मानुपूर्वस्य इति जीस., °मानुपूर्वस्य इति आन । e) तु. जीस. । f) तदस्य प्राप्तमित्यर्थे ठञ् प्र उस्
(पा ५,१,१०४) । g) षे इति पाठ^१ यनि शोधः (तु. आपध.) । h) पा ८,४,१७ परामृष्ट द्र । i) .पासे.
वैप २,३६. निगाम् मंत्रा १,५,१०-टि. द्र. । j) पासे वैप १,१८१३ C द्र । k) वैप १ द्र । l) पासे.
वैप १,१८१३ III द्र ।

२२^a, ८, २, १३, ३^b, अपं ३
६७^a, या ७, २४^क
नि-याम-, 'मक- नि/यच्छ द्र.
नि/यु>†नि-युत्^b -युतः आश्रौ
८, ९, २, बौश्रौ १९, ७.२४,
अप ४८, ९४, वृदे ४, १४०^क,
निघ १, १५, या ५, २८^क,
-युद्भिः आश्रौ ३, ८, १, ५,
१८, ५^d, ८, ९, २, शाश्रौ ७, १०,
९, ८, ३, १०^d, आपश्रौ १३,
१३, १२^d, बौश्रौ १०, ११ :
११, ऋप्रा ७, ४५, शुप्रा ३,
१२१
नियुत्-वत्^b -†वतः आपश्रौ
१५, १८, ७, बौश्रौ २८, २. ३३,
-वते काश्रौ १६, १, ३८, आपश्रौ
१६, ८, ३, बौश्रौ १८, २८ : ८,
२८, २ १७, माश्रौ ६, १, ३,
१२, वाश्रौ १, ७, ५, ३६, २, १,
२, १३, ३, २, ३, ४०, वैश्रौ १८,
२ १०, हिश्रौ ११, २, १५,
अप्राय २, ९, -वन्त आश्रौ २,
१३, ७^क, -वान् आश्रौ २, २०,
३, अप ४८, ११४^क, †शुअ ३,
८५, ८८, साअ १, ६०१^क,
निघ २, २२^क, या ५, २८^क,
उनिस् ६ ५^क
नियुत्वती^b -ती आपश्रौ
१६, ८, ४, हिश्रौ ११, २, १८,
साअ २, ९७८, -त्या बौश्रौ
२६, ४. १५
नि-युत्^a - पाउभो २, २, १३४,
-नम् आपश्रौ २२, २१, १७,
क्षुस् २, ९. १८, अप ४८, ६६;

या ३, १०, -ताय वाश्रौ ३,
४, २, ११^क, -ते शाश्रौ १५,
११, ४, आपश्रौ १६, ३१,
१^क बौश्रौ १८, ४३ ६, २६,
३३ : ११, वैश्रौ १८, २० :
५१^क, हिश्रौ ११, ८, ४^क
†नि-युय, > या आश्रौ ९, ५, २,
या ८, १९, २०, ऋप्रा ७, ९
नि/युञ्, नियुनक्ति शाश्रौ ४, १७, ९,
काश्रौ, नियुञ्जन्ति आश्रौ २, २,
४, काश्रौ २३, ४, ९, आपश्रौ
२२, ८, ७, काश्रौसं २८ १६,
बौश्रौ १५, २६ : १४, हिश्रौ ३,
८, ४७^क, १४, ३, ५०, १७, ३,
३०, †नियुनञ्जि शाश्रौ ४, १७,
९, भाश्रौ ७, १०, ८, आपसं २,
२१, २-५, आगृ ४, ८, १५,
†नियुनक्तु आगृ १, २१, ७, कौगृ
२, २, १४, शागृ, नियुञ्जीत
बौश्रौ २६, २९ १०, वैगृ ३,
१९. २, ५, ५ २०, विघ ३,
१६, नियुञ्ज्यात् बौश्रौ २०,
२७ : १८, २२, १४ ११, २५,
३३ २, २६, ११ ४, बौपि,
आपध २, १०, १५^क.
नियुयोज शाश्रौ १५, २१, १,
नियोक्ष्यामि शाश्रौ १५, २१, १,
वावृश्रौ ४, ५. ४
नियुज्यते निस् ४, २ २६, ४
७, मीस् ९, ४, १७
न्ययोजयत् वृदे ५, ७४, नियो-
जयेत् अप १, १०, २, ३७, ९,
२, विघ ५, १५१
नि-युक्त, क्त- क्त शाश्रौ १५, २२,

१, १६, ११, २, काश्रौ, पा ४, ४,
६९, -क्तम् वाधश्रौ ३, १०२.
३, गोगृ १, ४, २५, ३, १, ९,
जैगृ १, १८ ५, ऋप्रा ३, २१,
११, ४७, पा ४, ४, ६६, -क्ता
वृदे ५, ३, -क्ताः शाश्रौ १४,
२, १६, १३, ३, बौश्रौ १४,
२२ : २३, शंघ २०५, वृदे ४,
२८, शैशि ६१, -क्तान् काश्रौ
२१, १, ११, शंघ २२७, -क्तानि
हिश्रौ १०, ४, ३५, -क्तम् पागृ
१, १५, ८, -क्ताय शाश्रौ १५,
२१, १, -क्तायाम् वाध १७, १८,
विघ १५, ३, -क्ते आपश्रौ २०,
१५, ६, पा ६, २, ७५
नियुक्त-धर्मन्^b -र्मा निस् २,
१३. १२.
नियुक्त-मानस्य^b -स निस् ५,
१० : ६
नि-युज्य काश्रौ ८, ८, २६, आपश्रौ
२०, १७, १, बौश्रौ ९, ९ : १२,
११, ३. ३५, वैश्रौ १३, ११ :
११
नि-युज्यमान- नम् वैताश्रौ ३६,
१८, २७
नि-योक्तृ- -कारम् शाश्रौ १५,
२१, १
नि-योग^a -गः वाध १७, ६५;
वृदे १, ३६, ५१, मीस् १, १,
३२^d, -गम् वाध १७, ५६;
वृदे ५, ७५, -गात् आगृ ४८,
३४, कौगृ ३, ११, ५५, शागृ ४,
११, २४, वाध ४, ३२, -गे
पावा २, १, ४३, मीस् १२, ४,

- a) पाभि. वैप १, १८१३ m द्र । b) वैप १ द्र । c) [इन्द्रवाय्वादि-वाहन-] अश्व- ।
d) पाभे वैप १ विद्युग्भिः टि. द्र । e) ईश्वर-नामन्- । f) वैप १, १८१४ h द्र । g) पाभे.
पृ १४१२ h द्र । h) विप. । बस. । i) भाप., नाप. [प्रजैकहेतुकमैथुन- (तु मनु [९, ५९-६०] प्रष्ट.)) ।
j) विनि° इति जीसं. ।

१७, -गेन नाशि २,४,१, मीस्
२,४, २२, -नौ वृदे ८, १३०
नियोग-तस् () शैशि १४१,
माशि १०,११, याशि १,५
नियोगिन्- -गिनो वाध १७,
६४
नि-योजन- -नात् माश्रौ ५, २,
१०, ३०, या ५, २८, -ने
आपश्रौ ७,१२, ९, बौश्रौ १४,
१५.५, २०, २७: १७, -नेन
बौश्रौ १५, २६: १२.
नियोजनी^१- -नीम् काश्रौ
६,५,२५
नियोजन-कात्- -ले काश्रौ २१,
१,८
नि-योज्य आमिगृ २,७,१० ३
नियोज्य- पा ७,३,६८, -ज्य. अप
२,४, २, -ज्या शंघ २५१,
-ज्यानि शंघ १११.
नि-युत्-, नि-युत्-, नि-यूय नि/युद्
नि-योक्- नि/युञ् द्र
निर् या १, ३, १२, ७, ऋप्रा १५,
१७, शुप्रा ६, २४, पाग १,
४,५८
निरक्त- निर्/वच् > निर्-उक्त-
टि द्र
नि/रक्ष् > नि-रक्षिन्- पाग ३, १,
१३४
निर्/अच् (वेधने) > निर्-अष्ट^२-
-ष्टा: बौश्रौ १५, १ १५; -ष्टान्
बौश्रौ १५, ७. १९, १८, ११:
२, -ष्टे काश्रौ २०, २, १०,
-ष्टै: बौश्रौ १२, २: १७
निर्-अङ्कुश- -शा: विध ५२, १५.
निर्-अङ्गुष्ठ^३- -ष्टम् बौध २, ८,

१३
निर्/अञ्, निर्(अजामसि) ऋअ
२, १४, १२, २^d
निर् अजन- -नाय या ६, २
निर्-अजे^४ या ६, २४.
निर्-अजिन- पाग ६, २, १८४
निर्-अञ्जन^१- -नम् काश्रु १, १२, १४,
७, ३३, -नेन काश्रु १, ८
निर्-अञ्जन^२- -०न विध १, ५२
निर्-अति/शी > निरति-शायित्वा
अप ४०, ३, ३^६
निर्-अनुनासिक^३- -का आशि ६,
१२
निर्-अनूप- पाग ८, ४, ३९
निर्-अन्तर^४- -रम्^५ काश्रु ४५
१४, बौश्रु ४, ३, ९, भाशि ७५,
-रा: कौशि ३१, -राणि कौशि
३०, -रौ विध १, २४
निर्-अभ्र^६- -भ्रे अप ६५, २, १०,
७०^३, १९, १
निरभ्र-वृष्टि- -ष्टय: अप ६४, ४, ४,
५, ८
निरभ्र-स्वनित- -तानि अप ६४,
४, ४.
नि/रम्, निरामय या १०, १८^१,
ऋप्रा ९, ३२
नि-रत्- -ता अप ५७, ४, ५, -ते
विध ९९, १९
नि-रमण^७- -ण वाधुश्रौ ३, ६९
३७, -णम् वाधुश्रौ ३, ७५:
२, -णा: बौश्रौ १५, १. १५,
-णात् या २, ७, -णान् बौश्रौ
१५, ७: १८, -णे या ११, ४६
निर्-अमित्र- > ऋ/रु > ऋ-
करण- -णम् अश्र ४, २२.

निरय^१- -ये आपध २, २, ६, हिध
२, १, २८
निरय-व(त् >) ती- ती बौश्रौ
१९, १०. २२
निर्-अयण- निर्/इ द्र
निर्-अर्चिस्^२- -र्चिष अप ५२,
१३, ५, -र्चिषि अप ५२, ११, २.
निर्-अर्थ^३- -र्थ आश्रौ ३, ६, ७,
-र्थम् बौश्रौ ९, ११ ३, १९,
वैश्रौ १३, १३. १७
निरर्थ-क- -कम् विध २०, ३६,
वृदे १, ३१
निर्-अव/दय्, निरवदयते बौश्रौ
१८, २५ ९, २५, ४. ७,
वाधुश्रौ ३, ४२: १५, निरवदये
बौश्रौ ४, ११ ९^१, निरवाद्यत्
वाधुश्रौ ३, ४२, ८, १३, १४
निर्-अव/दो, > दा, निरवद्यन्ति
आपश्रौ ८, ७, ३, निरवद्येत्
माश्रौ १०, २२, १४.
निरव-(त् >)त्ता- -त्ताम् काश्रौ ९,
९, १०
निरव-दान- -नम् आपश्रौ ७, २६,
१, १२, २५, ८, -नात् मीस्
३, ४, ३८.
निरवदान-प्रतिषेध- -ध मीस्
१०, ७, ६.
निरव-दाय बौश्रौ २०, २९. ११,
२४, ३७: १; हिश्रौ ८, ७, ५५,
९, २, ८
निरव-दास्यत्- -स्यन्-स्यन् हिगृ
२, १६, १३.
निरव-धयत्- निरव/धे द्र
निर्-अव/धे, निरवधयेत् काश्रु ३६,
८

a) =पशुबन्धन-रज्जु-। b) वैप २, ३३८. द्र। c) विप.। बस.। d) पाभे. वैप १, १८१५ ई द्र।

e) वैप १ द्र। f) =[क्षेत्रायाम-प्रमाणा-रज्जौ] चिह्न-। व्यु. ?। नि/रुञ्छ्। =/लञ्छ्। इति PW प्रसृ.।

g) शायित्वा इति मूको.। h) वा. क्वि.। i) पाभे वैप १, १८१५ II द्र.। j) वैप ३ द्र.।

निर्व-धयत्- -यन्तः हिश्रौ ९, ४,
५२
निर्-भव/सो, निर्वसाययन्ति
आपध २, १४, १२, बौध २,
२, ५१, हिध २, ३, २३
निर्घ- निर्/अक्ष् द्र
निर्/अस् (क्षपणे), निरसेत् आश्रौ
१, ३, ३१
निरस्यते हिश्रौ २, ५, ३६, निर-
स्यति काश्रौ २, १, २२, ३,
१७x, आपश्रौ, निरस्यतः
काश्रौ ९, १०, १०, आपश्रौ
१२, २३, २, १८, १५, ७, बौश्रौ
७, ११ ४, १४ ३, वैश्रौ
१५, २९ २, ४, हिश्रौ ८,
७, २१, निरस्यन्ति बौश्रौ ७,
११ ११, १८, १५, १ ४,
२९ १९, निरस्य माश्रौ २,
१, ३, ५४१, निरस्यत बौश्रौ
६, २३ ७१, निरस्येत् काश्रौ
२, ६, ३३, आपश्रौ ३ १४, २,
५, १०, ५, बौश्रौ, निरस्येयु
द्राश्रौ ३, ३, २६, लाश्रौ १, ११,
१७
निर्-असत्- -सन् शागृ २, १२, १०.
निर्-असन- -ने बौश्रौ २०, ७ :
१०
निरसनो (न-उ) पवेशन- -ने
आश्रौ १, ३, ३२, वैश्रौ १५,
४ : २
निर्-असिवा आपश्रौ ३, ५, ७
निर्-अस्त- -स्त आश्रौ १, ३,
३१; शाश्रौ, -स्तम् काश्रौ ६,
६, ९१, आपश्रौ १, १७, १०,
१८, १५, ६, बौश्रौ १२, १०

१७१, माश्रौ ११, ११, ४१^०,
हिश्रौ १३, ५, २८^०, आमिगृ ३,
३, २ ६१^०, बौपि २, ९, ९^०,
अप ७२, १, २, आपश्रु २, ११,
बौश्रु २ ५, हिश्रु १, ३१, शुअ
१, ३९६१, ऋप्रा १४, २^०, ३०^०,
-स्तानाम् अप ६८, २, ४५,
-स्ते हिश्रौ ७, १, ७३१, -स्तौ
आपश्रौ १२, २३, २^०
निर्-अस्य आश्रौ ५, १२, ३, शाश्रौ
निर्-आस^० -स ऋप्रा १४, ११,
२४, २९
निर्-असूयक^० -क वैव ३, ५, ७
निर्-अहङ्कार^० -रा बौध १, १, ५
निर्-आका(ब्धा >)ङ्क्ष^०-
-ङ्क्षम् काश्रौ १, ३, २
निर्-आकार^० -रे विध ९७, ७
निर्-आ/कृ > निरा-करिणु- पा ३,
२, १३६
निरा-कर्त्- र्ता कप्र ३, ७, १७
निरा-कृत- पाग २, १, ५९, ५, २,
८८, -तम् ऋप्रा ११, ६०
निराकृतिन्- पा ५, २, ८८
निरा-कृति^० -ति कप्र ३, ७, १७^०,
आपध १, १८, ३३, हिध १, ५,
१०१, -तेः वाध २८, १७
निरा-कृत्य आपध २, ८, १४, हिध
२, १, ११६.
निर्-आत्मक^० -कम् या १४, ३
निर्-आदि- -दय पावा २, २, १८
निर्-आनन्द^० -न्दाः वैगृ ५, ७ : ४
निर्-आन्त्र^० -न्त्रम् हिपि ४-१
निर्-आमिष^० -ष कप्र १, १, १८.
निर्-आ/यच्छ, यम्, निरायच्छति
हिश्रौ १, ७, ६२, निरायच्छसि

शाश्रौ १२, २२, ११^०.
निरा-यत्-> °त-ग्री(वा>)व^०-
-व हिश्रौ १२, ८, ४
निर्-आलम्ब^० -म्बे विध २०, २२.
निर्-आवरण^० -ण अप ६८, ५, १०.
निर्-आ/विध् (<व्यध्), निरा-
विध्यत् या ६, ३४^१
निर्-आ(शा>)श^० -शाः शंघ
१९७
निर्-आशिस्^० -शी विध ९६, २१.
निर्/आह्, निराह बौश्रौ ३, २ :
१५१, वैश्रौ १, २० ७१, लाश्रौ
७, १३, ११, निस् ८, ६ ४, या
१३, १३, ऋप्रा ११, १६, २७,
६०, निराहु लाश्रौ ८, ६, ५;
निस् ६, ११ १७, या १, ३
निर्-आहार^० -र बौध ४, ५, २६.
विध ३२, ९, या १४, २०,
-रस्य विव ४६, १८, -राः अप
३०, २, १, बौध ३, ३, १४, १७;
निर्/इ, (निर्)अय > या ऋप्रा ८,
१५^०
निर् यन्तु कौस् ९७, ८१
निर्-अयण- -णम् या ७, २४
नि/रि(<री), निरिणोते या ३, ५,
निरिणाति आपश्रौ २१, २२, ३,
वाश्रौ ३, २, ५, २०, हिश्रौ १६,
७, १५, या १४, २४^०
निर्-इ(डा>)ड^० -डः क्षुस् ३, १२ :
२०.
निर्-इन्द्र(य>)या^० -याः बौध २,
२, ४७१.
निर्/ईक्ष्, निरीक्षते बौगृ २, ११,
३९, बौपि २, ९, १९; निरीक्षत
कौगृ ३, ११, ३३, अप ६९, ५,

a) पामे. वैप १, १८१६ f द्र. । b) सपा. तैशा ४, १०, ३ निरर्थम् इति पामे । c) = उच्चारण-
दोष-विशेष- । d) पामे. वैप १, १८१६ h द्र. । e) विप । बस. । f) = (देवादीनां) निराकर्त्- । गस.
उप. कर्त्तरि क्चि प्र. उखं. (पा ३, ३, ११३) । g) वैप १, १८१७ b द्र. । h) वैप १, १८१७ d द्र. ।

५, वाध ५, ७, बौध २, ३, ३१,
विध ६८, ३७.
निरीक्षयेत् शंघ १२२
निर्-ईदय कौट ३, ९, ४७, वैट २,
१५. १४, गौपि १, २, १०.
निर्-ईति- -ति अप ५९, १, ८,
-तिम् अप ५९, १, ४, ९
निर्-उक्त-^०कवत्- निर्-वच् द
निर्-उक्ष्, निरुक्षति बौधौ ४, ७.
२७, ८, २० १४, २, १६. २१,
आमिष्ट २, ६, २ १०, बौध २,
५, ५, निरुक्षन्ति शाश्रौ ८, १२,
११
निरुक्षयति पाट १, ३, १९
निर्-उच्य निर्-वच् द
नि-रु(जा) > ज^० -ज वाध २९, ७
निर्-उत्साह^० -हा अप ७०^२, १६,
३, -हान् गौध १०, १०
निर्-उदक- पाग ६, २, १८४
निर्-उद्-भ्रम् > निरुद्-भ्रान्त-
-न्त नाशि २, ८, १३^०
नि-रुध्, निरुध्यन्ति वाधश्रौ ४,
१३ ४
निरुणद्धि या ६, १, निरुध्यात्
काट २८, ४^१
नि-रुद्ध, द्वा- -द्धम् माश्रौ ५, १, ८,
१, -द्धस्य माश्रौ ५, १, ८, ४,
७, ११, १०, ३१, -द्धा या २,
१७^१, -द्धाम् शंघ ३३४,
-द्धासु बौध २, ३, ५, ७, -द्धे
बौध २, ७, २७
नि-रुध्य वैट ५, १ : १३
नि-रोध- -धात् सु २९, ४, वाध

२५, ६, बौध ४, १, २६.
नि-रोधक- -क वैध १, ७, ८,
-का वैध १, १०, २, ७
निर्-उपद्रव^० -व अप ७०, ८, २;
-वम् अप ४, ६, १, ६२, ६, ५
निर्-उपल^० -पाग ६, २, १८४
निर्-उप-हन् > निरुप-हत् -तानि
बौध ३, २, २
निरुत्त-^०, निरुह्य, निरुह्यमाण- प्रमृ.
निर्-वप् द
निर्-उञ्ज, ऋनिर् बौञ्जः
आपश्रौ १७, २१, ७, हिश्रौ
१२, ६, २६
निर्-उलप- निर्-उपल- टि द
निर्-उह्य प्रमृ निर्-वह् द
नि-रूपि (<रूप-) निरुप्येत मीसू
७, ४, १२
निर्-ऊष्मक^० -का माशि १३, ८,
९
निर्-ऊह् (प्रापणे), निरुहति बौश्रौ
१, ३ १०, २, ७ १३, १०, २१:
१६, १७, २८ १०, २९ ८,
३० ८, २०, ४. ९, २४, २४
७, भाश्रौ १, ८, ५, १२, ११,
६, १०, ४, वैश्रौ १८, १३ २, हिश्रौ
३, ७, २५, ११, ६, २, निरुहत्
भाश्रौ ११, ८, १, निरुहन्ति
२, ९, २, निरुहामि हिश्रौ ८, ६,
३८^१, निरुह काश्रौ २५, १०,
४^१^१, निरुहेत् बौश्रौ २०, ४
१०, वैश्रौ २०, १६ : ९, द्राश्रौ
३, २, १४, लाश्रौ १, १०, १०,
निरुहयम् आपश्रौ १२, १५, २,

हिश्रौ ८, ४, ३६^२
निर्-ऊहण- -णम् आपश्रौ १७,
८, ३
निर्-ऊहत्- -हन् हिश्रौ १३, ६,
२९, कौसू १७, ६^१, अप्रा २, ४,
१६^१.
निर्-ऊहितवै काश्रौ २५, १०, ४.
निर्-ऊह्य आपश्रौ १, १२, १, ६, ५,
६×४, बौश्रौ
निर्-ऊह्य > ऋनिर्-ऊह^० -ऋः आपमं
२, २२, १२, भाट २, ३० : ११;
हिट १, १६, ५
निर्-ऊति^० -ऋतये^१ आमिष्ट १,
५, १ २९; वैट ३, ७ १३;
१७ १३, ५, २. ३०, -ऋति
काश्रौ २५, ९, १५^१, आपश्रौ
९, १५, ६^१, ७, १६, १६,
१^२, बौश्रौ २, ५ ५×४, भाश्रौ;
हिश्रौ १५, ४, २६^१; अप १,
४, ५^१, ४०, २^१, ४८, ७२^३;
९२^३, निघ१, १^३, या २, ७^१;
वेज्यो ३३^१, -ऋतिम् आश्रौ ३,
१०, ३१^१, आपश्रौ ९, ४, १^२;
१५, ५^१, १८, १२^१, १६, १६, १;
बौश्रौ, भाश्रौ ९, ५, २२^१, माश्रौ
३, ५, १४^१, हिश्रौ १५, १, ७^१, ८,
१२, आपम २, १२, ८^०, आमिष्ट
२, १, ४ : १३^०, वैट १, ४ : ८^१,
हिट १, १६, ७, १८, ५, २, ४, १^०,
ऋअ २, १०, ६, २९, ६३^१, या
२, ८^१, -ऋते काश्रौ १५, १,
८, ३, १४, आपश्रौ; -ऋते आश्रौ
१, १२, ३६; आपश्रौ ९, २, १०;

- a) विप । बस. । b) पूष. = निर् । c) ०रुद्धान्त- इति कालिसे । d) ०उलप- इति पाका. ।
e) उप. < २ऊष्मन्- । f) निरुह इति पाठः ? यनि. शोच. (तु. माय ४, ५, २, ३) । g) ०हो इति
पाठः ? यनि शोचः (तु. आपश्रौ) । h) वैप १ द । i) = दिगभिमानि-देवता- । j) सपा. णि < > णि
इति पाठे. । k) = अलक्ष्मी- (तु. भाष्यम्) । l) = मूलनक्षत्राभिमानि-देवता- । m) = पृथिवी- । n) गो-
नामन्- । o) पाठे. वैप १, १८१८ g द. । p) णि इति पाठः ? यनि शोचः । q) पाठे वैप १, १८१८ 1 द. &
वैप-दि-८३

माश्रौ ३, १, २७, अप्राय ४, १, वृदे ७, ११५, चाअ ३८:१७५^३, शैशि १२२, -त्या आपश्रौ ९, १५, ७^१, वाधूश्रौ ४, ९० २४^१, २५, हिश्रौ १५, ४, २७^१, बौगृ १, ३, १४^१, कौस् ४७, १६^१, -^१त्या: आपश्रौ १६, १६, २, बौश्रौ ३, १६ : २९, माश्रौ ४, ९, २, आमिगृ ३, ८, २ ३२^१, बौपि १, १५ ४०^१, मागृ २, १७, १, अप ३७, १, १०, अअ १६, ८^१; या १, १७^१, शैशि ३३४, -त्याम् आमिगृ २, ५, १ २०, -^१त्यै आपश्रौ १०, १८, १०, १४, ११, ३, १८, ८, २०, बौश्रौ ६, ८ : ६, २७, ३ . ७, माश्रौ १०, १२, ७, माश्रौ ५, २, १०, २७, वाधूश्रौ, आपमं २, १२, ९^१, या १, १७

नैर्ऋत^१- -त काश्रौ १५, ३, १४; २३, ४, १७, आपश्रौ, आज्यो १, १०^१, -तम् आपश्रौ १८, ८, १२, १७, २२, २१, ३, बौश्रौ, -तस्य बौश्रौ २२, १६ : ६, १०, हिश्रौ १३, ३, १५, अशा २४, ३^१, -तान् आपश्रौ १६, १६, १०^१, बौश्रौ २६, २८ ६, वैश्रौ १८, १४ ४^१, -तानि बौगृ २, ११, ४०, अअ ६, २९, -ताय बौश्रौ १२, १ . ७, -ते वैगृ १, २१ : ७, अप ६०, १, ३, आज्यो ३, २, -तेन आपश्रौ १८, ८, १५, वाश्रौ ३, ३, १, ६, हिश्रौ

१३, ३, १६, कौस् ८१, २१, -तेषु अप ५९, १, १५, -तै अप ३३, ४, ४

नैर्ऋती- -ती अशा १६, १^१, वृदे ७, ९२, -ती काश्रौ १७, १, २३^१, आपश्रौ, -तीनाम् शाश्रौ १६, १३, ५, बौश्रौ २२, ४ : २८, -तीभिः वाधूश्रौ ३, ७९ १४, वाश्रौ २, १, ४, २१, -तीम् अशा १७, ५, शंघ ३८५, -स्याम् वैश्रौ १८, २० ५९, वैताश्रौ २८, २७, आमिगृ २, ४, ११ ९, ३, ४, ४ : १, बौपि ३, ४, ११, वैगृ, -^१त्यै मागृ ३, १३ २०, वाध २३, ३

नैर्ऋत्या(ती-आ)दि-
-दि वैगृ १, १५ : २

नैर्ऋत्या(ती-आ)द्य
(दि-अ)न्त- -न्तम् वैगृ १, १२

नैर्ऋत्या^१- -त्या. शुप्रा ८, ३८, कौस् ९७, ८, याशि २, १

निर्ऋति-कर्मन्- -र्माणि कौस् १८, १

निर्ऋति-गृहीत, ता- -तम् वाधूश्रौ ४, ९० २५, कौस् ९७, १^१, -तस्य अशा १७, ५, -ता बौगृ १, ३, १४, -ते वाधूश्रौ ४, ९० २३

निर्ऋति-देवता- > ^१त्य- -स्य आपश्रौ ९, १५, ४

निर्ऋति-द्यावापृथिव्या (वी-आ) दि- -नाता-देवता- > ^१त्य-

-त्यम् अअ २, १०.

निर्ऋति-पञ्चम^१- -मा नाशि २, ६, ५^१

निर्ऋति-प्रभृति- -तीनि अअ २, १०

निर्ऋति-मन्त्र- -न्त्रा अशा १८, ७.

निर्ऋ (ति >) ती-भा (ग >) गी^१- -गीम् अशा १५, २

निर्ऋत्य(ति-अ)पनोदा(द-अ)
र्थ- -र्थम् ऋअ २, १०, ५९

निर्ऋत्य(ति-अ)पस्तरण-काम-
-म अअ ६, १२४

निर्ऋत्य(ति-अ)भि-मुख- -ख अशा १५, ५

निर्-ऋण^१- -णम् या ९, ८

निर्ऋते अप ४८, ७

निर्-ऋथ^१- पाउ २, ८, -थ भाशि ५३^१, -^१थम् शैशि १२२, ३३४ -थस्य आपमं १, ६, १४^१

निर्-य (आ/इ), निरैतु आपमं २, ११, २०^१

निर्-पक^१- -कम्^१ वेज्यो १३

निर्-पध^१- -धम् अप ७०^१, ११, १८.

नि-रोध-, ^१धक- नि/रुध् द्र

निर्/गच्छ, गम्, निर्गच्छति वैश्रौ ४, ५ . ५, १२, १२ : १२

निर्गच्छेत् अप ४, १, १८, शंघ ७७.

निर्गमाणि ऋप्रा ५, ६०^१
^१निर्जगाम कौस् १२९, २, १३५, ९, अप्राय २, ६^२

निर्-ग- पावा ३, २, ४८.

a) = ऋषि-विशेष-। b) पामे. वैप १, १८१८ । द्र । c) पामे. वैप १, १८१९ ० द्र.। d) = मृत्यु-देवता- [लु. स्क]। e) पामे वैप १, १२४५ ८ द्र । f) वैप १ द्र.। g) = मुहूर्त-विशेष-। h) = शान्ति-विशेष-। i) = इष्टका-विशेष-। j) विप । प्राग्दीव्यतीय ण्य प्र उसं (पा ४, १, ८५)। k) विप । बस.। l) ण्तिः पञ्च इति पाठ ? यनि शोधः। m) विप । उस. उप. √भञ् + अण् प्र. कुत्वञ्च (पा ७, ३, ५३)। n) लष = उदक-। o) पामे वैप १ परि अ्वैतु शौ १, ११, ४ टि द्र.। p) वा क्रिवि ।

निर्-गच्छत्-च्छत वैगु ५,६ ३.
 निर्-गत- -तम् या २,७
 निर्-गल्य वैश्रौ १२,५० ९, १२ :
 १६, १३ १४, अप ६८, ५,
 २३, बौध ३,१,१३
 निर्-गम- -माः अप ६४,४,६
 निर्-गमन- -नम् वैश्रौ १८, १७
 ४, -ने या ११,४६
 निर्गमन-दक्षिण भाग- -गे वैगु
 ५,६ १६
 निर्गमन-प्रा(य>)या- -या
 या ३,६
 निर्-गमय वैगु ५,२ १७
 निर् गम्य जैश्रौका १५७.^२
 निर्-जगन्वस्- -न्वान् शुप्रा ३,
 १४४^१^b.
 निर्-गन्ध^a- > ंधो (न्ध-उ)-
 प्रगन्धि^c- -न्धि विध ७१,११
 निर्/गम् निर्/गच्छ द्र
 निर्-गुण- -णम् शंघ ३७१, विध
 २७,१६, १७
 निर्गुण-ब्रह्मा(द्वा-आ) अय- -ये वैध
 १,११,१४
 निर्/गृह्, निर्गृहीयात् माश्रौ ३,
 ६,१७^२
 निर्/गृ (निगरणे), निगिरन्ते अप
 ६७,६,५
 निर्-घात- प्रभृ निर्/हृत् द्र
 निर्-ज(ल >)ला^a- -ला अप ६२,
 ४,२.
 निर्/जि>निर्-जय- -यम् बौश्रौ
 १२,१६ ८; -येन बौश्रौ १२,
 १२ १३.
 निर्-जिहीर्षत्- निर्/हृ द्र.

निर्/क्षा> निर्-ज्ञाय वायुश्रौ ४,
 ७५ २४, ३६
 निर्कर्^d- -रस्य अप ४२,१,४
 निर्/ण(<न)म् >निर्-णत->
 °त-त(म>)मा- -मा या ८,५
 निर्-णाम- -म. आप्शु १५, ९,
 बौशु १० : १४, १५, हिशु ५,
 १६, -मम् या २,१६, -मयो
 आप्शु १७, ४
 निर्/ण(<न)श्, नि .अनीन-
 शत् मागु २,१८,२^१
 निर्-णाशयां/कृ, निर्णाशयां-
 चकार या ६,३०.
 निर्/णि(<नि)ञ्, निर्णेत्ति भाश्रौ
 ५,३,८, वैश्रौ १,५:१०, हिश्रौ ३,
 २,४१, ऋनिर्णेनजति तैप्रा७,२
 निर्-णित्- -क्तम् वाध १४, २४,
 बौध १,५,५६, विध २३, ४७,
 गौघ ९,६, या ३, १९, -कौ
 शाय ६,३,६
 ऋनिर्-णित्^e- -णित् अप ४८,
 ७९^२, निध ३, ७, -णिज या
 ५, १९, -णिजा माश्रौ ५, २,
 ७,१७^१.
 निर्-णित् आप्श्रौ ९, ५, ७, १७,
 १, बौश्रौ
 निर्/णी(<नी), निर्णयति कौस्
 ५८,१८,७६,१०, नि ...नयति
 अप्रा १,१,१५^१, निर् (नयति)
 अत्र ५,१८^१
 निर्-णय- -यः जैश्रौका १०६,
 शंघ ९, विध १०,१३.
 निर्-णीत- -तम् या ३,१९^१.
 निर्णीत-त(म>)मा- -मा या

८,५
 निर्णीता(त-अ)न्तर्हित-नाम-
 घेय^f- -यानि निध ३,२५, वा
 ३, १९
 निर्-णीय निस् १०,५ : १८.
 ?निर्णीत^g- -तम् हिश्रौ ४,२,५७.
 निर्/णु(<उ)द्, निर्णुदति बौध ३,
 ६,१९, ऋनि . नुदे आप्श्रौ ३,
 १४,२, भाश्रौ ३,१३, १; हिश्रौ
 २,६,३४, कौस् ४७, १०, अत्र
 ६, ७५, निर्(नुदे) कौस् ४८,
 २९^१, निर्णुदामि कागु १८,२^१;
 निर्णुदामसि कौस् ७१, १^१;
 ऋनि . नुदातै आप्श्रौ ४,६,३;
 भाश्रौ ४,९,१; हिश्रौ ६,२,१२;
 निर्णुदस्व अप २२,९,२^१, नि.
 . नुदस्व वाश्रौ १,३,१, २^१,
 ऋनि . नुद^१ आप्श्रौ ३, १०,
 ४, भाश्रौ ३, ९, ८; वैश्रौ ७,
 १३ १; हिश्रौ २, ५, ३६;
 निर्(नुद)^१ आप्श्रौ ३, १०, ४;
 भाश्रौ ३, ९, ८, हिश्रौ २, ५,
 ३६, ऋनि .. नुदस्वम् आप्मं
 २,१३,६, बौगु २,१, १२; मागु
 १,२५ : १४; निर्णुदित् अप ४०,
 ५,२, विध ५७,१०.
 निर्णोदयत्तु गौपि १,५,६
 निर्-णुद्य बौश्रौ २८,४ ३१
 निर्-णोद्- -दः गौपि २,३, १७^१;
 बौध ३,६,४, विध ४८,१७.
 निर्-दग्ध- प्रभृ निर्/दह द्र.
 निर्-द्(या>)य^a-> °यस्व- °स्वम्
 वाध ६,२४.
 निर्-दश,शा^b- -शः शाश्रौ १५,१८,

a) विप. । बस । b) पामे. वैप १,१८२० d द्र. । c) विप. । कस. । d) = प्र-सवण- । व्यु. ? ।
 e) वैप १ द्र. । f) द्रस. > षस. । कस. > षस. इति [पृच्छे] स्फ. । g) पाठः ? निर् (= नन्-)+नुत् (= नत-) >
 प्रास. इति भाष्यम् । सपा. आप्श्रौ ७, १०, ११ अवनतम् इति पामे. । h) पामे. वैप १,१८२१ f द्र. ।
 2) पामे. वैप १, १८२१ f द्र. । j) उप. दशन्- (= दशन्) + समासान्तः ङच् प्र. ।

१४१, -शायाम् बौश्रौ २३, १,
४३
निर्देश-ता- -तायाः आपृ १५, ७,
भा १, २३ : २०
निर् √ दह्, निर्देहति शाश्रौ १४, ५१,
१, अप ६१, १, १७, विध ४८,
१४, आ १४, ३३, निर्देहन्ति
कौ ३, १०, ३५, शा २, १६,
४; आमि २, ५, १ : ५५, जै १
२, ९ ४१, आज्यो १४, १०,
निर्देहताम् अप १८, १, ८, १,
निर्देहन्तु कौ ९, १११, अप
३३, ६, ९, आपमं २, १४, २,
आमि २, १, ३ : २६, भा १
१, २३ : १९, हि २, ३, ७,
या ९, ३३, नि. दह, नि. (दह)
माश्रौ १, ४, ३, ४, १, निरदहत्
शाश्रौ १४, ५१, १, निर्देहेत् अप
३८, ३, ५, ७०, २०, २, ऋ ३
२, ३, ३६.
निर्-दग्ध- -ग्धम् आपृ १, २२,
३, २३, ३, ७, १९, ८, बौश्रौ १,
८, ८, २०, ८, ७, भाश्रौ १,
२४, ४; माश्रौ १, २, ३, १, ७,
वाश्रौ १, ३, १, ४, वैश्रौ १, ९, १, ७,
हिश्रौ १, ६, ७, का ४, ५, ७, वै १
१, १२, ३, -ग्धा- आपृ १, १,
२२, ३, २३, ३, ७, १९, ८,
बौश्रौ १, ८, ८; २०, ८ : ८,
भाश्रौ १, २४, ४, अप्राय २, ५,
अप ३७, ५, ३
निर्दग्ध-काय- -यः शंघ ३८९
निर्दग्ध-वृजिने(न-इ)न्धन-
-नं बौध ४, ७, १०

निर्-दह(त् >)न्ती- -न्तीः कौ १
३३१, २१
निर् √ दिश्, निर्दिशति आपृ १,
१३, ४, ८, ६, २१ × ×, बौश्रौ,
निर्दिशामि आपमं १, १, ५,
बौ १, १, २६, निर्दिशेत्
आपृ ८, ६, २२, १४, ७,
१, बौश्रौ, नाशि १, ४, ८, १,
निर्दिशेयु लाश्रौ ९, १०, ४, ६
निर्दिश्यते आपृ २४, ३, १
निर्-दिश्य आपृ ३, ३, ५ × ×,
२२, ४, २८, बौश्रौ
निर्-दिश्यमान- -नस्य पावा ६, ४,
१३०
निर्दिश्यमाना(न-अ)धिकृतत्व-
-त्वात् पावा १, ३, ११
निर्-दिष्ट- -ष्ट काध २७५ ५, बृदे
३, ५६, -ष्टम् अप २८, २, ३,
३१, ५, ४, ४४, ४, ९, -ष्टस्य मी १
१२, १, ३८, -ष्टा अप ५८, १,
१, -ष्टान् काठश्रौ ३३, -ष्टानाम्
ऋ १४, १, -ष्टे आपृ १०,
१५, १६, आपध १, १८, २६, १,
हि १, ५, ९, ४, १, शु १, १३, ४,
पा १, १, ६६
निर्दिष्ट-ग्रहण- -णम् पावा १,
१, ६७
निर्दिष्ट-भाग- -ग बौश्रौ २६,
५ ७.
निर्दिष्ट-लोप- -पात् पावा १, ३,
९.
निर्-देश- -शाः माश्रौ २, १, १, १२,
अप, पावा १, ४, २३ × ×, मी ३,
७, ४२ × ×, -शस्य मी ६, ४, ६,

-शात् काश्रौ १, १०, १, आपृ १
२४, २, २९, माश्रौ, पावा ६, ४,
१७४, मी १, २, ३० × ×, -शेन
बौश्रौ २४, १, १७, वाध १, ३९
निर्देशा(श-आ)नर्थक्य- -क्यम्
पावा २, १, १.
निर्-देशक- -कौ तैप्रा २२, ४
निर्-देश्य- -श्यम् पावा २, १, ३०
निर्-देश्य- -न्यम् अप ६८, १, ५०
निर्दुर्गमण्य^१ कौ ४९, २७, ५८,
६, १२, अत्र १६, २^३
निर् √ दुह, निरदुहत् विध ५५, १०
नि. बहुक्षत् ऋ १४, ९८
निर्-दोष, षा^१ - ष आपध १, १९,
६, हि १, ५, १०८, -षा अप
२२, ५, ३, -षा. माशि १, ६,
-षाम् विध ५, १६२
निर्दोष-शरीरा(र-आ)हुति^१ - तिः
वै ७, १ ३^१
निर् √ दु, निर्द्ववत् कौ ११६, ७, १,
निर्द्वेयु का ११, १
निर्-द्वन्द्व^१ - -न्द्वः वै १, १०१७
निर्-धन^१ - पाग २, १, ५९^१, -नस्य
विध ६, ३०
निर्धन-ता- -ताम् अप ३६, १६, २-
निर् √ धम्, निर्धमेत् बौध ४, १,
२२^३
निर्-धमन- -नम् बौध १, १०, १८-
निर्-धयत्- -प्रसृ निर् √ धे द्र
निर् √ धू, निरध्वन् वाधूश्रौ ४,
१९ : ३९
निर्-धूम^१ - -म अप ७०^३, २, १, -मम्
वै ४, ५ २०, -मे सु १८, ३.
निर् √ धृ > निर्-धारण- -णम् पा

- a) पामे. वैप १, १८२१ । द्र १ b) पामे. वैप १, १८२१ । म द्र । c) पामे वैप १, १८२१ । द्र
d) विप. । बस । e) विप. । बस > कस । f) निर्दिशेत् इति काश्रौ । g) वाठः ? निर्देश्यम् इति शोधः
ह्रस्वस्र. ता २२, १४, २ । च । h) वैप १ द्र. । i) कश्चिद्-अपस. । j) पामे. वैप १ पुरुषाहुति^१ तै २, २, २, ५-
दि. द्र. । k) विप. । प्रास. वा कस. वा । l) तु. धयम् । -धयत् तु. चौस, नियमेत् इति मैसू. ।

२,३,४१, -जे पा २, २, १०,
५,३,९२
निर्-धारित- -तानाम् निस् २,
१२ ३१
निर्/घे, निः घयन्ति आपश्चौ
१३,१७,५^४
निर्-घयत्- -यत् माशौ ५, २,
२,९, -यन्तः वैश्रौ १६, २१ :
३^२
निर्-धान- > °न-दर्शन- -नात्
मीसू १०,२,१४
निर्-धीय काठश्रौ १५८
निर्-नमस्कार^१- -रः विध ९६,२०
निर्/बन्ध् > निर्-बद्ध- -द्वाः
या १,३
निर्/बाध् > निर्-बाध्- > नैर्वा-
ध्य- -ध्येन दंवि २,५^१
निर्बाध-स्व- -स्वम् माशि ५२
निर्बाध्य- -ध्येन^२ आपश्चौ ३,
१४,२, भाश्रौ ३,१३,१, हिश्रौ
२,६,३४
निर्-बाधित- -तासः^३ आश्रौ ५,
७,३
निर्-बीज- > °जिन्- -जी शंघ
३७७.६
निर्/ब्रू, निर्ब्रूयात् बौश्रौ २०,
१९ १८, १९, २१, लाश्रौ
७, १२, ७, १३, ३, वृदे २,
१०६, या २,१^३, २^३, ३^३
निर्-ब्रुवत्- -वत् ऋप्रा ११, ६२.
निर्/भज्, निर्भजति बौश्रौ ३,२१
८: ऋनिर्भजामि शाश्रौ ४, १२,
१०, बौश्रौ ३,२१ : ९, वाश्रौ
१, १, ४, २३^४, काय १८,२,
निर्भजाम अत्र १६, ८^१,

ऋनिर्भजाम. आपश्चौ ४,
११,१, भाश्रौ ४,१६,२, हिश्रौ
६, ३, ३, निर् (भजाम) अत्र
१६, ७^१, निरभजत् बौश्रौ
१४,५ : २९
निरभाक्, निरभाक्षम् बौश्रौ
१४,५ : ३०^१.
निरभाजयताम् वाधुश्रौ ४, ८
४

निर्-भक्त- -ऋक्तः शाश्रौ ४,१२,२,
१०, आपश्चौ ४, ११, १, बौश्रौ
३, २१. २, ९, १०, १६ २,
भाश्रौ ४, १६, २, वाश्रौ १,१,
४,२३^५, हिश्रौ ६,३,३

निर्-भय- -यः कप ३, २, १५,
विध ३, ९५, माशि १४, ७^२,
-या कौश्र ३, १२, ३०, अप
७०^३, ५, ४, ५

निर्/भर्त्स, निर्भर्त्सयेत् विध ६८,
२५

निर्-भर्त्सन- -नम् शंघ ३१३

निर्/भा, निर्भभौ विध ५१, ६७

निर्/भिद्, ऋनिर्भिनत्ति आम्रिण
३,१०,१ ११, बौपि ३,५,२,
१०, १, ऋनिर्भिनद्धि आम्रिण
३,४,१. २९,५ ६; निर्भिन्धि
कौसू ६१, २२^१
निर्भिभेद् सु ३, ३

निर्-भीत- -त्. शैशि १५३, याशि
१ : २३, नाशि १,६,१२

निर्/भुज्, निर्भुजति हिश्रौ ४,
४, ६०, हिश्रौ १०, २, १४,
निर्भुजेत् माशि १२,५

निर्/भू, निर्भवति कुसू ३, १०
२१.

निर्/भृ निर्/हृ द्र

निर्-मत्तिक- पाग ६, २, १८८

निर्/मथ्, न्थ्, ऋनिर्मन्थत्.^४ आपम
१, १२, ३, बौश्र १, ७, ४०;
माश्र २, १८, २, हिश्र १, २५,
१, निर्मन्थताम् जैश्र १, २२
२९^१, निरमन्थत्, निरमन्थत्
वैताश्रौ ५, १४^१, निर्मन्थेत्
वैश्रौ १, १ २२

निर्-मथित- -त् ऋम २,३,२३^१

निर्-मथ्य काश्रौ ४, ७, १४, ९,
१८××, आपश्चौ

निर्-मथ्य- थ्य आपश्चौ ८,२,
१३, माश्रौ १,७,४,९, वैताश्रौ
६,४, -थ्यम् आपश्चौ ५, ४,
१४, वैताश्रौ ८, १०, १८, ८,
अप्राय ३, ७, -थ्या अप १,
७,९^१, -थ्येन द्राश्रौ ७,४,७^१,
-थ्यैः बौपि १,२ २०, -थ्यौ
कौसू ६०,५

निर्मथ्या(थ्य-आ)हवनीय- -यौ
ऋम २,१,१२, शुभ्र १,३००,
सात्र २,१९४

निर्मथ्याहवनीया(य-अ)र्थ-

-थौ वृदे २,१४५.

निर्-मन्थ- -न्थेन माश्रौ १, ७, १,
३८, ८,३,३, २, १, ५, १४,
६, १,४,३९

निर्-मन्थन- -नम् वैताश्रौ ८, १२.

निर्-मन्थ्य काश्रौ २५,३,८, आपश्चौ
१३, २५, ३; बौश्रौ

निर्-मन्थ्य- -न्थ्य आपश्चौ १०,
३१,१२, बौश्रौ, -न्थ्यम् काश्रौ
६, ५, १३, बौश्रौ १४, ३ :
१३××, भाश्रौ, -न्थ्यस्य बौश्रौ

(a) निरवधयन्ति इति मूको. । b) विपं. । बस । c) वैप १ द्र । d) पामे. वैप १, १८२३ ७
द्र. । : e) प्रामे. वैप २, ३४. ऋनिर्बाधितासः टि द्र. । f) विप. । प्रास वा बस वा । g) ऋनिर्भित- १
h) पामे. वैप १, १८२३ j द्र । i) सपा ऋन्थेन <> ऋन्थेन इति पामे ।

५,२ : २१,६ २०xx, भाश्रौ,
-न्ध्याभ्याम् भाश्रौ ८,७, १५,
-न्धये मीसू १,४,१२, -न्धयेन
भाश्रौ ६,१०,२४, काश्रौ १६,
४,१३, २५, १३, २७, आपश्रौ,
लाश्रौ ३,४,६^a, -न्धयैः आग्निगृ
३,५,२ १७, -न्धयौ आपश्रौ
८,६,१८, बौश्रौ २०,१७ १७
निर्मन्ध्या(न्धय-आ)दि-दिषु
मीसू ७,३,१८

निर्-म(ध् >)ध्या^b- ध्या क्षुसू १,
१ ४, २, ३ १९.

निर्-मल^b- ल वाध २६, ६, -ला
वाध १९, ४५

निर्मल-स्निग्ध-परिधिपरिवेषाअ-
वृक्षप्रतिसूर्य(क >)का^c- का
अप ६५, २, २

निर्मली/कृ > निर्मलीकृत्य अप
१, ४, २, ९

निर्-मशक- पाग ६, २, १८४

निर्/मा(माने)^d, निर्मिमीते निस्
४, १० १७, वृदे ७, १२९,
निर् (मिमीमहे) अत्र १८, २१,
निरमिमीत या ८, २१, ९,
१०, निरमीमत वाधुश्रौ ४,
५९^e. ४, ५, १०

निर्मियन्ते या २, ८, निरमीयत
वाधुश्रौ ४, ५९^e ६

निरमायि वाधुश्रौ ४, ५९ . ९

निर्-माण- -णे या २, २२

निर्माण-कारक- -क विध १,
५५^d

निर्-मा (तृ >) शी- -ज्य या
१२, ७.

निर्-माय काशु ६, १०

निर्-मित, ता- -न्तः आश्रौ ३, ८,
४६, आपश्रौ १, १३, १५, १६,
२९, १, वैश्रौ १८, २० : १२,
हिश्रौ ११, ८, २, अप २, ४,
२६, अशा १०, ५, -तम् अप
३३, ३, ४, ३८, ३, ८, ४१, ३,
९, काशु ७, ११, -ता आश्रौ ३,
८, ३, आपश्रौ २४, ११, १०^f,
निस् ३, १३ : ३९, अप १,
४०, ४^g, २०, ३, १, अशा १०,
४, -न्ताम् आपश्रौ ५, १८, २,
हिश्रौ ६, ५, १६, -ते हिध १,
६, १७, पा ४, ४, ९३

निर्-मिमान- -नौ या ८, १२

निर्-माल्य^h- ल्यम् वैगृ ४, १२
१, अप ३, १, ११, ३५, १, १३,
-ल्यानि वैगृ १, ८, ९

निर्माल्य-गान्धहारी हास-गीत-वाद
ना(न-आ)द्यु(दि-उ)पहार-
-रान् अप ४०, १, ११

निर्मिलⁱ- -लाय अप २०, ४, २^f
निर्/मी(=व/मा[शब्दे]), निर्मिमाय^h
या ११, ४०.

निर्/मुच्, ङ्च्, णिर्, मुञ्चामि^h
आपश्रौ ७, २१, ६, बौश्रौ ४, ७
२४, भाश्रौ, णिर् (मुञ्चामि)
आपश्रौ ७, २१, ६^g, ११, १८,
२, बौश्रौ
निर्मुच्यते या १४, ७, णिर्

(मुच्ये)ⁱ काश्रौ ८, ७, १८, शुञ्च
१, ३६१, णिर्मुच्येत आपश्रौ
१७, १४, ३, वैश्रौ १९, ६ ७६;
हिश्रौ १२, ४, १२^g
णिर्(अमुक्षि)ⁱ आपश्रौ १, १८,
३, बौश्रौ ६, ३१ १५, भाश्रौ
१, २, १, ३९, वाश्रौ १, २, ४, ३३,
वैश्रौ १४, १६ ९, हिश्रौ १, ५,
२८

निर्-मुच्य बौश्रौ २, ११ २५^f
निर्-मोक- -कम् विध १, ३९

निर्/मुष्, निर्मुष्णाति वैताश्रौ
१३, ९

निर्-मूल-लूनⁱ- -नम् बौश्रौ २१,
४ ३

निर्/सृ > निर्-मार^h- -रम्ⁱ
आग्निगृ ३, ५, १ : १, ७, ३ : १,
बौपि १, १ १, २, १, १

निर्/सृज्, निर्माञ्छि वैश्रौ १५, ८ :
४, काय ६०, ६, ९, बौगृ १,
४, ४२, गोगृ २, ७, १८.

निर्मक्षत् भाश्रौ १, २, ५, ७^f,
निर्माञ्छि माश्रौ १, २, ५, ३-६^f,
णिर्निर्मक्षम् आपश्रौ २, ४, ४^m;
८, बौश्रौ १, १२ ४^m, ७^m, ९^m,
११^m, १४, १९ : २१, भाश्रौ
२, ४, ४^m-८^m, ३, ५, १४, वैश्रौ
५, २ : १५^m, ७, ५ १३, हिश्रौ
१, ७, ७^m, १३^m

निर्माञ्छयति कौसू ८०, ४७
निर्-मार्गⁿ- -र्णि आग्निगृ ३, ७, ३ :
२१, बौपि २, २, २^o, हिपि १९, ८.

a) पाठे. पृ १४२११ द्र. । b) विप । बस । c) = संध्या- । कस. > कस. उप.
= परिधि-परिवेषाऽअवृक्ष-प्रतिसूर्यकवती- । d) निर्वा^o इति जीस । e) वैप ३, ४५८ ० द्र ।
f) व्यप । व्यु. ? । g) विशेष मिमाय ऋ १, १६४, ४१ टि द्र । h) पाठे वैप १ मुञ्चामि पै ३, १७,
४ टि. द्र. । i) पाठे. वैप १, १८२४ ४ द्र. । j) विप. । बस. > कस. । k) = मरणासन्नता-
(छ. सप्र. मात्र १४, ७, १, ४१ अणिमानम् इति पाठे) । l) वा. किवि । m) पाठे. वैप १, १८२४ १ द्र. ।
n) वैप १ द्र । o) निमा^o इति B. (< निर्/सृज्) ।

निर्-मृजान- -नः कौसू २५, २८[†]
 निर्-मृज्य माश्रौ १, ३, ५, १४, कौसू
 ३, ९, २३, १५, ४२, ५
 निर्-मोक- निर्-मुच् द
 निर्-यत् > निर्-यात्य माश्रौ २,
 ३, ३, ७, ४, ४, ४
 निर्-यस् > १ निर्-यास^१- पाग २,
 ४, ३१, -सम् आमिगृ २, ५, २
 ४, बौगृ ३, ६, १, वैध ३, ५, ८
 २निर्यास-(> ^०सिक-पा) पाग ४,
 २, ८०
 निर्-या, निर्यान्ति अप ७०^३, २१,
 २
 निर्-याच्, निर्याचते बौश्रौ १४, ४
 ३७, [†]निरभाचथाः आपश्रौ १२,
 २३ ११, बौश्रौ ७, १४ :
 २२, १४, ५ २६, वैश्रौ १५,
 ३० : ६.
 निर्-याच्य बौश्रौ १४, ४ : ४०[†]
 निर्यूह- पाठभो २, ३, १८८
 निर्-लिख, निर्लिखेत् माश्रौ ३, १,
 २, शंघ १८०
 निर्लिख्यते आपश्रौ ९, १७, ४,
 हिश्रौ १५, ७, २४
 निर्-लिखित- -त्म् आपघ १, १७,
 १२, हिघ १, ५, ४४
 निर्-लिह, निर्लिहि काश्रौ ४, १४,
 २७, माश्रौ १, ६, १, ४७,
 वैश्रौ २, ५ ११, हिश्रौ ३,
 ७, ९२, आपगृ २, ११, बौगृ १,
 ४, ४२
 निर्-लिह्य शाश्रौ २, ९, १४; आपश्रौ
 ६, १२, २

निर्-लेप^१- -पम् वैश्रौ ५, २ १६,
 -पानाम् विघ २३, ७
 निर्लेप-निर्गन्ध- -न्धम् बौध ३, १,
 २२
 निर्-लोम^१- -सम् कौसू १३८, ९
 निर्-ल्वय(न >)नी^१- पाग ६, ३,
 १०९
 निर्-वच्, निरुवाच बौश्रौ १८, २९ :
 २, ४
 निरुच्यते निसू ३, ९ : ३९, ४६,
 वृदे २, ६९, या १०, ५
 निर्-उक्त, क्ता- पाग ४, २, ६०^०,
 ३, ७३^०, ६, २, १४६^१, -क्त
 शाश्रौ १७, ७, ९, आपश्रौ २२,
 ६, १६, -क्तम् शाश्रौ १३, १६,
 ५^२, आपश्रौ, अप १, १५, १^०,
 शंघ ११६ : ३९^०, चव्यू २ २३^०,
 -क्ता हिघ २, १, २७^६, -क्ताम्
 बौश्रौ ३, २९. १४, जैश्रौ ३,
 १३, लाश्रौ ७, १२, १४, -क्ते
 वृदे ६, १३४, ऋप्रा १५, ११,
 शुप्रा ४, १९५.
 नैरुक्त- पा ४, ३, ७३, -क्तः
 साअ २, २०१, -क्ता. वृदे १,
 २४, साअ १, ११५, १४७××,
 या २, ८, १४, १६, ३, ८, १४××,
 -क्तानाम् साअ १, ३४१, -क्ते
 वृदे २, ११९.
 नैरुक्त-समथ- -यः या
 १, १२
 नैरुक्तिक पा ४, २, ६०
 निरुक्त-निधन^१- -नम् निसू ६,
 ११-१६

निर्-उक्तवत्- -वान् वृदे २, १११,
 ११२, ११३
 निर्-उच्य बौश्रौ २०, १९ :
 १९
 निर्-वक्तव्य- -व्यम् या १३, १३;
 -व्या या १३, १२^१, -व्यानि
 या २, ७
 निर्-वक्तुम् वृदे १, ९६.
 निर्-वचन- -नम् शाश्रौ ६, १, २३;
 वृदे २, २३, या २, १, -नाय
 आमिगृ २, ४, १२ १२, या
 १, १९, २, ११, ३, २××, -ने
 बौश्रौ २०, १९ : १८, भासू ३,
 ५.
^१निर्वचनस्वाध्यायधर्म^१- -र्मः
 निसू ८, ७ २५.
 निर्-वचस^१- -च वृदे २, १०६
 निर्-वाक- > निर्वाका(क-अ)र्थ-
 -र्थेन निसू ६, ७ ३४, -र्थेन
 निसू ७, १ २ ४. ५, ४६.
 निर्-वाच्य- -च्यम् वृदे २, १०४,
 -च्ये ऋप्रा १५, ११
 निर्वाच्य-लक्षण^१- -णम् वृदे
 २, १०३
 निर्-व(न >)ण^१- पा ८, ४, ५.
 निर्-वघ्, [†]निर्वघिष्ठ काश्रौ २५,
 ११, २३, बौश्रौ ६, ६ २३××,
 माश्रौ, [†]निर्वघी- बौश्रौ ७, ५ :
 २७, १० ७, १४, ४ : ४५, हिश्रौ
 ८, ५, ३१, जैश्रौ ९ : २९
 निर्-वप्, निर्वपति आश्रौ ७, ५, ३^६,
 शाश्रौ १४, २, १७, १३, ५××,
 काश्रौ, आपश्रौ १३, २४, १^१,

- a) वैप १ द । b) विप. । बस । c) समासान्त अप् प्र उत्सं (पा ५, ४, ११७) ।
 d) = सर्प-त्वच्- । < निर्-वल् इति पागम. । e) = वेदाङ्ग- । f) निरुक्त- इति [पक्षे] भारुडा ।
 g) सप्र. आपघ २, २, ५ उक्ता इति पागे । h) पाठः ^१ अनिर्वचन- स्वा^० इति शोष- सभाव्येत
 (ख. संस्कृतः टि) । i) = निर्वचन- । j) नाप । k) सपा आपश्रौ ७, ७, १ युष्य इति पागे ।
 l) ०, अनुनिर्वपति इति शोधकः ।

निर्वपत्. बौश्रौ २३, १ ३५,
भाश्रौ ८, ५, ९, निर्वपन्ते द्राश्रौ
१४, २, १, लाश्रौ ५, ६, ४,
निर्वपन्ति शाश्रौ १३, २९, २०,
आपश्रौ ९, ४, ४, २३, १३, ५,
बौश्रौ, †निर्वपामि आपश्रौ १,
७, ९, १७, १२××, काश्रौसं,
गोय १, ७, ३^३, द्राय २, १, ९^३,
†निर्वपन्तु कौसू ६८, १, २,
निर्वपस्व काठश्रौ ११४, माश्रौ
२, ३, २, १^३, †निर्वप आपश्रौ
४, ४, ४, १२, ३, १५^३, बौश्रौ,
निरवपताम् बौश्रौ २८, ४ १८,
निरवपन् भाशि ७६, निर्वपेत्
काश्रौ ८, १, २, १२, २, १२××,
आपश्रौ, द्राय ३, २, २^०, निर्वपे-
रन् शाश्रौ ३, ६, १, द्राश्रौ १४,
२, २, लाश्रौ ५, ६, ५, १०,
१७, १, निर्वपेयुः आश्रौ ३,
१०, २४, ६, १२, ५××, बौश्रौ
निस्वाप वाधूश्रौ ३, ७७ ३,
†निर्वपस्यामि आपश्रौ १, १७,
२, ३, ४, ४, ४, बौश्रौ
निरुप्यते बौश्रौ १४, १९
७^३××, वाधूश्रौ, या ७, १८,
२०, ३१, निरुप्येते हिश्रौ १६,
८, २०, निरुप्यन्ते बौश्रौ २५,
३ १५, २१ : १५
निर्वापय>या कौश्रौ ५, ५, ५^३,
निर्वापयेत् वप्र ३, ४, ५,
निर-उत्त-सम् आपश्रौ ५, १९,
२, ६, २९, १२××, बौश्रौ,
-सान् आपश्रौ १, १८, २, ३,
बौश्रौ, -से आश्रौ ३, १०, १०,
शाश्रौ ३, २, ३, काश्रौ, -सेषु

आपश्रौ १, १८, २, १२, ४, ७,
भाश्रौ १, १९, १२, माश्रौ ३,
१, १६, वाश्रौ १, ७, २, १८
निस्सा(स-आ)ज्य- -ज्यस्य
वैश्रौ ८, ५ ३
निर-उप्य शाश्रौ १३, २९, १२,
काश्रौ १, ३, २२, ४, २,
३७××, आपश्रौ, हिश्रौ १, १,
२७^३, वैध १, ६, ४^{१०}, या १, ५
निर-उप्यमाण, न- -णम् आपश्रौ ४,
४, ५, बौश्रौ ३, १५ ७, भाश्रौ,
-णे वाश्रौ १, १, २, १८, -णेषु
आपश्रौ ८, १७, २, वैश्रौ ९, १० .
११, -ने वैताश्रौ २, ७
निर-वर्ष- -पाणि आमिगृ २, ६,
४ . १७^३, -पान् आमिगृ २,
५, १० . १२
निर-वपण- -णम् काठश्रौ ७, बौश्रौ,
-णात् काठश्रौ २२, बौश्रौ, -णे
बौश्रौ २०, ५ . २९, ६ . ६××,
-णेन बौश्रौ २२, ११ ३
निर्वपण-काल- -ले आपश्रौ ६,
२९, ७, ७, २२, ३××, बौश्रौ
२८, ४ २३, वैश्रौ ८, ४ ३,
९, १ १०××, हिश्रौ
निर्वपण-तस्() बौश्रौ २४, ३ :
१०, ११.
निर्वपण-न्याय- -येन बौश्रौ
२८, ४ : २१
?निर्वपणप्रभृत्याम् अप्राय ४, १
निर्वपण-प्रोक्षण-संवपन- -नम्
वाय १, १२
निर्वपण-प्रोक्षणा(ए-आ)धिवपन-
संवपना(न-आ)दि- -दीनि
बौश्रौ २८, ४ : ६

निर्वपण-लवना (न-आ)स्तरणा-
(ए-आ)ज्यग्रहण- -णेषु मीसू
११, ४, ४५
निर्वपणा(ए-आ)दिक्- -कम्
कप्र ३, १०, १३
निर्वपणा(ए-आ)न्त- -न्तम्
बौश्रौ २९, १० १५
निर्वपणा(ए-आ)र्थ- -र्थम् हिश्रौ
६, १, ५४, मीसू १२, १, १४
निर्वपणीय- -यम् शंघ १३२.
निर-वपत्- -पन् आपश्रौ १०,
३०, ७
निर-वस(व्य>)व्या- -व्या
बौश्रौ २६, ५ . ४
निर-वपुन्तु कौश्रौ ३, १०, ३५, शाय
२, १६, ६
निर-वप्यत्- -प्यस्य द्राश्रौ १२,
१, १६, १३, १, २०, १४, ३,
१२, लाश्रौ ४, ९, १०, ५, २,
२, ७, ११. -प्यन् बौश्रौ २,
१९ . २, ११, २ २××, वैश्रौ.
निर-वप्यमान- -ने माश्रौ १, ४,
१, १३
निर-वाप- -पः काय ४२ १९,
-पम् वैश्रौ १, १३ ५, ४, ११ :
८, -पा^३ कप्र ३, ७, २, ३
निर्वाप-वत् काश्रौसं ४ ३
निर्वाप-शेष-त्व- -त्वात् मीसू
१०, २, ६३
निर्वाप-श्रपण^३- -णम् वैश्रौ ४,
९ ३
निर्वाप-स्थान- -नम् वैश्रौ ४,
४ : १.
निर्वापा(प-आ)दि- -दि काश्रौसं
५ ६, वैश्रौ ३, १३ ३

a) पामे. वैप १, १८२५ 1 इ । b) सपा निर्वपस्व <> निर्वप इति पामे । c) निर्व इति
क्वाचित्क. पामे । d) निरु इति पाठ ? यनि. शोधः (तु हिश्रौ [१९, १, २४]) । e) निरु इति पाठ ? यनि. शोधः
(तु. BI) । f) नाप । उप. कर्मणि अप् प्र. उत्सं. (पा ३, ३, ५८) । g) विप । वस । h) समाहारे द्वस. १

निर्-वापण- -णम् वैगृ ५, १५
२१, बौध ३, १, १४
निर्-वाप्य शाश्रौ ४, १५, ८, वैगृ
निर्-वाप्य- -प्या वैगृ ४, ७ ६
निर्-वर्तमान- , -वर्त्य प्रभृ निर्
वृत् द्र
निर्-वस् (निवासे) > निर्-वास्य-
-स्यः विध ५, २०
निर्-वह, निर्वह वाधुश्रौ ३, ९९
७, ऋनिर्वहत आपश्रौ ७, ४, ५,
भाश्रौ, निर्वहेयुः लाश्रौ ८, ५,
६, मागृ २, ११, ४
निर्वक्षत् कागृ ४५, १०^१
निर्वाहयामि आपमं २, १५,
१^१
निर्-उह्य शाश्रौ २, ८, ८, काश्रौ
४, १४, २
निर्-उह्यमाण- -णम् काश्रौ २५,
१०, ५
निर्-ऊढ, ङा, ङह- -ङम् आपश्रौ
१, १२, १, भाश्रौ १, १२,
११, हिश्रौ १, ३, २१, ३, ७, २५,
अप ४५, १, १३, -ढया बौश्रौ
२२, १२ : ११, २५, ३२ : ३४,
-ढा. आपश्रौ १, १२, १^१,
-ङहा ऋगृ २, १०, १०८
निरूढ-पशुबन्ध^१- -न्ध शाश्रौ
६, १, १८, आपश्रौ ७, २८, ५,
द्राश्रौ १३, ४, १६, वैगृ १, १ :
९, गौध ८, १७, -न्धस्य आपश्रौ
७, २, १७ x x, बौश्रौ, -न्धानाम्
बौश्रौ २४, ५ ४, -न्धे आपश्रौ
७, २६, १०, ९, १८, १४, हिश्रौ
७, १, ६६, ३, २१, ८, ७, ६१,

१५, ८, १४, -न्धेन वैश्रौ १०,
१ : १, हिश्रौ ७, ८, २, ८, १,
७, ९, ६, १३, २२, १, २
निरूढपशुबन्ध-यूप- -प.
भाश्रौ ७, २, ७
निरूढपशुबन्ध-लक्षण, णा^०-
-ण वैश्रौ १२, २०. १५, -णाम्
वैश्रौ १३, १६ : ८.
निरूढपशुबन्ध-वत् आपश्रौ
११, १६, २, १३, २३, ७, १९,
१, २, १६, २, वैश्रौ ११, २ :
२, १४, १४ १
निरूढो(ङ-उ)प(घा >)घ^०-
-घात् या ४, २५

निर्-वा > निर्-वाण- पा ८, २,
५०

निर्-वाक-, °वाच्य- निर्-वच् द्र
निर्-वाप- प्रभृ निर्-वप् द्र
निर्-वासस्^०- -सा शघ ५१.

निर्वाह अप ३०^२, १, ११

निर्-विद् (लाभे) > निर्-विण्ण-
-णस्य पावा ८, ४, २९

निर्-विद्- पावाग ३, ३, १०८^१

निर्-वेद् > °दा(द-अ)वगघ^०-
-घम् बौश्रौ १७, ४८ १६

निर्-विध् (<व्यध्), निरविध्यत्
या ६, १९, ३३, ऋनिराविध्यत्
या ६, ३३^१, ऋप्रा २, ७६,
उसू २, २३.

निर्-विश > निर्-विष्ट^१- -ष्टम्
गौध १०, ४१

निर्-वेश^१- -शः बौध २, १, ४५,
४८

निर्-विश(ङा >)ङ्क^०- ङ्केन बौध

१, ४, १६

निर्-विशेष- -षम् बौध १, ११,
२९^१

निर्-विष् > निर्-वेष^१- -षः आपघ
१, २४, १०, हिघ १, ६, ५९;
-षम् आपघ २, १०, १२, हिघ
२, ४, १२

निर्वेषा(ष-अ)भ्युपाय- -ये
आपघ २, २६, २४^१

निर्विघ्नतानाम् वाश्रौ ३, ३, १, ३६
निर्-वीर्य, र्या^०- र्यम् शुभ्र १, ५,
-र्या कप्र १, ८, १८

निर्वीर्य-ता- -ताम् आपश्रौ ९, १४,
८, हिश्रौ १५, ४, १५

निर्-वृत्, निर्वर्तते आपघ १, २, ९^१;
२९, १४, बौध २, १, ५०, हिघ
१, १, ४२, ७, ७१

निर्वर्तयति आपश्रौ १३, २४,
१४, हिश्रौ १, ६, ३, निसू २,
७ : २०.

निर्वर्त्यन्ते आशि ७, ४, निर्वर्त्येत
मीसू ६, ३, ४२

निर्-वर्तमान- -ने आपश्रौ ६, २८,
१४, हिपि २२ : ७^१

निर्-वर्त्य काश्रौ २५, १२, १;
आपश्रौ १, २२, २ x x; बौश्रौ.
निर्-वर्त्य- -त्यम् कागृउ ४४ :
१६.

निर्-वर्त्यमान- -नम् आपश्रौ ५,
१०, १२

निर्वर्त्यमान-विक्रियमाण- -जे
पावा ३, २, १.

निर्-वृत्त- -त्तम् पा ४, २, ६८, ५,
१, ७९, -त्तस्य पावा १, ४, ४३^१

a) पाभे वैप १, १८२६ d द्र. 1

b) = याग-विशेष- 1 कस 1

c) विप. 1 बस. 1

d) तु पागम 1 = निर्वेद- 1

e) पृ २५७ f द्र. 1

f) = उपाजित- 1

g) = प्राप्तिवृत्त- 1

गस उप. षन् प्र. 1 h) = निर्वेश- 1

i) सप्र. हिघ २, ५, २१९ चरितनिर्वेषम् इति पाभे. 1

j) निर्वर्तते इति

पाठः? यनि शोध द्र. 1

वैप४ द्वि-८४

-त्त शाश्व २,१२, ९, पा ४,४, १९
 निवृत्त-ग्रहण- -णात् काश्रौ २२, ३,४९
 निवृत्त-प्रतिपत्ति- -त्तौ पावा १,१,५०.
 निवृत्ता (त-आ) छ(दि-अ)र्थ-
 -र्थम् पावा ४,२,८५
 निवृत्ति- -त्तिः पावा १,१, ४५, ५०, मीसू ९,२,३७.
 निवृत्त्य द्वाश्रौ ५,४,८
 निवृ-वेश- निवृ/विश्व द्र
 निवृ-वेष- प्रभृ निवृ/विष्व द्र
 निवृ/वेष्ट > निवृ-वेष्टित- -त या ५,८
 निवृ-व्यू(वि/ऊ)ह, निवृ-व्यूह्यते अप १,४४,३
 निवृ/वृज्, निवृ-ज्वेत् कौसू ७६,२
 निवृ-व्रण^a- -ण वैश्व २,४ १, -णम् वैश्व ७,४ ७
 निवृ/वृश्च > निवृ-वृस्क^b- -स्कम् काश्रौ २२,३, ५, -स्के आपश्रौ १०,२०,६.
 निवृ/वृलिष्^c, निवृ-लिषति हिश्रौ ४,४,६०
 ऋनिवृ-षीः आपश्रौ ७, २२, ७, भाश्रौ ७, १७, ६^e, वैश्रौ १०, १७ १०^f, हिश्रौ ४,४,५९
 निवृ-ल्लेषयेत् वाश्रौ १,६,६,१७
 निवृ/हन्^d, निवृ-हन्ति अप १,४८,५, निवृ-हन्ति बौश्रौ १४, १ १४, १७^f; ऋभाशि ११८, १२०, निवृ-हन्त्यात् तैप्रा ७, ३^f, नाशि १, ६, १५. निवृ-हन्त्यात् शैशि १५४, माशि ६, ६, याशि १, २४.

निवृ-घान या १२, १४^f, निवृ (जघन्थ) ऋप्रा ७,४६^f
 निवृ-ण्यते आपघ १, २४, २५, २८, १८, २९, १, हिष १, ६, ७४, ७,५३, ५७
 निवृ-घात- -त् अप ६१, १, २७, ६७, ६, १×४, आपघ, -तस्य अप ६०,१,५, -ता अप ५८^e, १, १, ६०,१, १, ६४, २, ७, -तान् अप ६४,१,४, -ते गोश्रु ३, ३, १९, कौसू १४१, २०, अप ७१,१६, ३, वाध १३,३२, -तै अप ७०^e,११, २९
 निवृ-त-भूकम्प-दिग्दाहा(ह-आ) दि-विवर्जित- -त. अप ७०, ८, ३
 निवृ-त-भूमिकम्प-राहुदर्शनो- (न-उ)ल्का- -ल्का गौघ १६, २२
 निवृ-त-भूमिवेगो (ग-उ)ल्का- पात-दिग्दाह-पांशुशोणितमांसा- स्थिसदधिलाजगौरवर्ष- -र्षेषु शघ ४७
 निवृ-त-वत् कौसू १४१,३३
 निवृ-ता(त-आ)दि- -दय कौसू १४१,३३
 निवृ-तो(त-उ)ल्का- -ल्का अप ५७,१,२, २,२, ३,२, ४,२
 निवृ-हन्त्वोस(.) बौश्रौ १४,४ ४२.
 निवृ-हस्त^b- -स्तः कौसू १४, ७, अप ३२,१, १३, अग्र ६,६६
 निवृ-हस्त^b- -स्त्यम् बृदे ८,१४^f
 निवृ/ह<>भृ, निवृ-रति बौपि ३, १२, ३^e, वैश्रु ३, १४:१४, निवृ-रन्ति हिपि १३:४, २३: १; गौपि १,१, १५, विध १९,

५, निवृ-राणि बौश्रौ १८, ४७-६^f, निवृ-रेत् शाश्रौ १३, १२, १२, अप, निवृ-रेरन् आपश्रौ १४, १५,१^f, ३१, ८, हिश्रौ १०,७, १७, निवृ-र्युः आपश्रौ १०,२०, ७, कप्र ३,२,५, विध १९,३
 ऋनिवृ-जभार या १०, १२^f; ऋप्रा ५,३६, निवृ-हार या १०,१२
 निवृ-रयेत् विध १९, १
 निवृ-जिहीर्षेत् काश्रु ३, १, आपश्रु २, ८, बौश्रु २ ३
 निवृ-जिहीर्षेत्- -र्षन् काश्रु ३, १, आपश्रु २, ८, बौश्रु २.३.
 निवृ-हार- -र माश्रौ ५,२, ७, १, आपश्रु १३,१०^f, बौश्रु २ ११.
 निवृ-हत्- -ते काश्रौ १०, ३,८, आपश्रौ ९, १,६^f, भाश्रौ ९,१, ६^f, हिश्रौ १५, १,६^f
 निवृ-हृत्य आश्रौ ६,१०,१, काश्रौ.
 निवृ/हृस्, निवृ-सेते ऋप्रा ४,१०
 निवृ-हसित->तो(त-उ)पसर्ग^a- नी या २,१७, ६,११
 निवृ-हास- -स आश्रौ ६, ६, ६^f काश्रु ३,१, २, ११, आपश्रु १, ६, २, १७, हिश्रु ४,३८^f नाशि १,५,१७
 निवृ-हास-विवृद्धि- -द्वयोः काश्रु १,२४
 निवृ/लि पाधा तुदा पर गहने
 नि-लय-, निलाय नि/र्ला द्र
 निल्(<र)इ, ऋनिलायत बौश्रौ २५,१० ७, वाधूश्रौ ४, १९ ३३, २२:१०
 नि/लिप्, म्प्, निलिम्पति शाश्रौ १,१०,२, २,९,१२, ४,२१,८- शाश्रु ६,६,६.

a) विप. । बस । b) वैप १ द्र । c) विपयसि वृत्ति (तु आपश्रौ ७,२२,८) । d) पा ८,४,१७
 श्वासृष्टः द्र । e) दहन्ति इति B. । f) सपा निवृ-रः<>निवृ-हास इति पाभे । g) पाभे पृ १६२ h द्र ४

नि-लिप्य माश्रौ ६, १, २, १२
 नि-लिप्य- पावा ३, १, १३८,
 -फम्पाः बौश्रौ १०, ५० १७,
 आपमं २, १७, २१
 निलिप्य-नामन्- -न्नः अअ ३,
 २६.
 नि-ली, निलयते बौश्रौ १४, २८ :
 १०, नि(लयन्ताम्) ऋप्रा ८,
 ४६१.
 नि-लय- > ०या(य-अ)र्थ- >
 ०थिन्- -यीं काट्ट ४, ४
 नि-लाय आपश्रौ ५, २, ४१
 नि-लीन- -नम् बौश्रौ १४, २८
 १० -नैः वाध ३, ४६
 नि-लीन- (> ०न-क- पा) पाग ४,
 २, ८०
 नि-लोप- -ये अप्रा ३, ३, १८२
 नि-व- (> ०नैव्य- पा) पाग ५, १,
 १२४.
 नि-वक- > ०नैवकि- (> ०कायन-
 पा) पाग २, ४, ६१
 नि-वक्षस्- -क्षस आपश्रौ २०,
 २३, १२, बौश्रौ १५, ३८ : १४,
 २६, ११ : २८
 नि-वच् > नि-वचन- > ०ने/कृ
 पा १, ४, ७६
 नि-वत्- -वतः आश्रौ २, १४, १२१,
 शाश्रौ, या १०, २०
 नि-वत्- > ०नैवति- (> ०तायन-
 पा) पाग २, ४, ६१
 नि-वन् > नि-वा(न्य >)-न्या-
 -न्याम् काश्रौ २५, ८, ८,
 -न्याया काठश्रौ ४०.
 निवान्या-दुग्ध- -ग्धे काश्रौ ५,

८, १८
 निवान्या-वत्स- -वत्सम् काश्रौ
 ५, ६, २८.
 नि-वप्, निवपति काश्रौ ४, ८,
 १४, ५, ३, १८, ४, १५××,
 आपश्रौ, बौश्रौ २, ५ २०,
 बौपि ३, २, ११६, निवपत
 बौश्रौ १२, १५ १४, माश्रौ
 १, ७, ४, ५, वाश्रौ १, ७, २, २०,
 निवपन्ते वैताश्रौ २३, १३,
 निवपन्ति काश्रौ १०, ८, ६,
 २४, ६, २, बौश्रौ १२, ३ ३२,
 वाश्रुश्रौ ४, ११४ : १, जैश्रौ
 ६ १, फनिवपामि काश्रौ २५,
 ८, ५, आमिष्ट ३, ११, २ : ७,
 हिमि १० ४, निवपन्तु निघ
 २, १९१, निवप आमिष्ट ३,
 ११, ७ ७, निवपेत् आपश्रौ
 १८, १८, १६, २१, १३, १४××,
 काश्रौसं; निवपेरन् हिश्रौ १६,
 १, २८, निवपेयु काश्रौ २५, १३,
 ४३, काठश्रौ १५८, द्राश्रौ ६,
 ३, १८, लाश्रौ २, ११, १२,
 १०, १५, १३, आमिष्ट ३,
 ५, ७. १४, बौपि १, ६. ९,
 निवपेयम् आमिष्ट ३, १२, १
 २०
 न्यवाप्सीत् बौश्रौ ६, २९ १६.
 न्युप्यते वाधुश्रौ ३, ४१. ३३;
 निवापयते भाग २, १९ : ८.
 नि-वपत्- -पन् आपश्रौ ५, ९, ७××,
 बौश्रौ, -पन्तौ या ६, २६.
 नि-वपन- -नः वाश्रौ १, ६, १, २५;
 -नम् काश्रौ ७, ७, २, माश्रौ;

-ने आपश्रौ २, २, २, बौश्रौ
 २०, ३ २७, १६ ५८, २१,
 १५. १०, २२, ४ : १
 निवपना (न-अ) दि- -दि
 आपश्रौ १०, २४, १; १६, १७, १;
 वैश्रौ १८, १४. १७
 निवपना (न-अ) न्त- -न्तम्
 आमिष्ट ३, ७, ३. २८, बौपि २,
 ३, २, हिमि १२ : ८
 नि-वप्स्यत्- -प्स्यन् वाश्रौ १, ४,
 २, ३, ६
 नि-वापिन्- पा, पाग ३, १, १३४.
 नि-वाप्य संघ १३२.
 न्यु(नि-उ) स, सा- -सः अप्राय ३,
 ११, -सम् आपश्रौ २, १,
 ८, माश्रौ ६, १, १, २८; वैश्रौ ४,
 ११ १५, -साम् आपश्रौ ५, ९,
 ११, माश्रौ १, ५, २, १२, हिश्रौ
 ३, ३, ३२, -साम् आपश्रौ १२,
 १८, ४, -साम् वैश्रौ १, १० :
 ५, -सायम् द्राश्रौ १४, ३, १२;
 लाश्रौ ५, ७, ११, -सेषु वैश्रौ
 १३, २ ४, -सौ वैश्रौ १८,
 १३ : १
 न्यु(नि-उ)प्य शाश्रौ ८, ८, ११;
 काश्रौ, आपश्रौ ७, ७, १; न्युप्य
 ऽन्युप्य काश्रौ १८, ६, ७
 नि-वर्त- -वर्तक- प्रमृ नि/वृत् द्र.
 नि-वस् (निवासे), निवसति अप ४,
 ६, १, ६९, ६, ५, न्यवसत् बुदे
 ७, १४७, निवसेत अप ७१, १५,
 ४, निवसेत् वैग ३, १६ : ४;
 विघ ७१, ६४, वैघ २, ५, ८; ३
 १४, ८.

- a) विप. । वस. । b) व्यप. । व्यु. । c) वैप १ द्र । d) = मृतवत्सा-नो- । गस. उप. कर्मणि ग्यत् प्र. ।
 e) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र । f) निवपति इति पाठः ? यनि शोच- (सु. पूर्व स्थलम्) । g) निवपेत् इति द्र. ।
 h) वधे वृत्तिः । i) = निवपन-मन्त्र- । j) सु. पाका. पासि. । नि-वापिन्- इति भाण्डा. । k) पागे. वैप १-
 १८५४ ० द्र. । l) पागे पृ १४२३ । द्र. ।

निवासयत् शंघ ३३४
 निवसत्-सत या ९, १०, -सङ्घिः
 शंघ २६२, -सन् वाध ८, ७,
 विध ५१, ६६, ६७, ३४, -सन्तम्
 या ५, ९, १०, १२.
 निवसन्ती-न्त्या या १०, २१
 ३निवास^a- पाग ४, ४, १०३, ८,
 ४, ३९, -सः शंघ २६२, पा
 ४, २, ६९, ३, ८९, -सात् वृदे
 १, २५, २९, या १०, ४४, ११,
 ४५, -से अप ४८, २८, पा ६,
 १, २०१
 नैवासिक- पा ४, ४, १०३
 निवास-कर्मन्^b-र्मण या २,
 ६, १०, १४, १६
 निवास-विति-शरीरो(र-उ)पस-
 माधान-नेषु पा ३, ३, ४१
 निवास-नामन्-म या ३, ३,
 निवास-लक्षण-ण पावा ४,
 २, १३८
 निवास-विवक्षा-क्षायां पावा
 ४, २, ५२.
 निवास-विषय-त्व-स्वात् पावा
 ४, २, ५२
 निवासिन्-पा, पाग ३, १, १३४
 नि वस् (आच्छादने), निवस्ते काश्रौ
 १५, ५, १२
 नि वह^c, नि वह^d शाश्रौ १२,
 १६, ११
 नी (<नि)वाह^e-हस्य वाश्रौ ३,
 ३, २, १४^f.
 नि व^g
 निवाकु^h- (> नैवाकवि-पा.) पाग
 ४, १, ९६.

१नि-वात-त्तम् काश्रौ २५, १०,
 २४, -ते आपश्रौ ९, १०, ६,
 माश्रौ १, ६, ४, २१, वाश्रौ १,
 ५, ५, ७, वैश्रौ
 २निवात-(> निवातक-, नैवातायन-
 पा.) पाग ४, २, ८०
 नि-वान्या-प्रम् नि वन् द्र
 नि-वापिन्-, प्य- नि वप् द्र
 निवायिन्- निवापिन्- टि द्र
 नि-वारयां वृ, णितुम् नि वृ
 (प्रतिघाते) द्र
 निवावरीⁱ-री^j ऋअ २, ९, ८६,
 -री^j: साअ १, ५६०, २, ३८२,
 ३८३
 नि वस् (= नि वस् (वैप १ द्र.)
 पाघा चुरा उभ आच्छादने
 २निवास- (> स-क- पा) पाग
 ४, २, ८०
 निविञ्चयायन-ना. बौश्रौ १७
 १०
 नि विद् (ज्ञाने), निवेदयते बौश्रौ
 २, ९. १४, बौय, निवेदयति
 आमिष्ट २, ५, ११ १८×४, बौय,
 निवेदयन्ते हिपि १८ २, ७, ९,
 निवेदयामि अप ४०, २, ९,
 निवेदयेत् आय ४, ७, २७
 कौय ३, १४, ८, शाय, निवेदयेयु
 वैश्रौ २, १० १९
 नि-विद्^j-वित् शाश्रौ ८, ७, १,
 ११, २, ५, काश्रौ १९, ७, ४, अप
 ४८, १०२१, निघ १, १११, या
 ७, २३, २४, -विस्तु आश्रौ ४,
 १, १३, वृदे ८, १००, -विदः
 आश्रौ ५, ९, १६; ६, ६, १७×४,

शाश्रौ, -विदः-विदः शाश्रौ
 ८, ७, ७, -विदम् आश्रौ ५, ९,
 १२, १४, २०×४, शाश्रौ, -विदा
 शाश्रौ १८, ९, ७, -विदाम् आश्रौ
 ५, ९, १९, वृदे ८, १०४, -विदि
 वृदे ३, ५०, ७८, -विदे आश्रौ
 ६, ३, १८, शाश्रौ ७, २१, ८, ९,
 ६, १७, १८, २१, ३, -विदौ
 शाश्रौ १६, ८, ५
 निविच-छं (<श)सम् शाश्रौ
 १०, ६, १३, १२, १७, ३, २१,
 ६^२
 निविद्-धान-नम् आश्रौ ७,
 ७, ६, शाश्रौ १४, ५३, ७, ५४,
 ४, -नयो आश्रौ ९, ३, २२,
 -नस्य शाश्रौ १४, २१, २,
 -नानाम् शाश्रौ ११, ३, ३, १२,
 ९, ३, छसू १, ८ : २२, -नानि
 शाश्रौ १४, ४५, २, १५, १०, ६,
 -ने आश्रौ ८, ७, २१, १०, ५,
 २२, शाश्रौ
 निविद्धानीय, या-यम्
 शाश्रौ १२, ८, ९, -या शाश्रौ
 १८, ९, ४, -यान् शाश्रौ १२, ८,
 ६, -यानाम् आश्रौ ५, १०, १६
 निविद्-वर^k-रः शाश्रौ ७,
 २१, ९
 नि-वेदन-नम् आपध २, १७, ११;
 हिघ २, ५, ४०, -नानि बौय ३,
 ३, २३, -ने अप ४०, २, ९
 नि-वेदयित्वा शाय २, ६, ७, पाय २,
 ५, ८, बौय ४, १२, २, अप ११,
 १, १२.
 नि-वेदित-त्तम् अप २०, ५, ६.

a) उप. भावाद्यर्थे घञ् प्र. । b) विप । बस । c) पा ८, ४, १७ परामृष्ट द्र । d) पामे
 कैम ६१८२९ d द्र. । e) नाप. । f) सप्र. आपश्रौ १८, १३, ९ परिनदीनाम् इति पामे. । g) व्यप ।
 व्युः । h) निवाकु- इति पाका. । i) परस्परं पामे. । j) वैप १-द्र । k) सप्त. उप = २दक्षिणा-
 (तु. भाष्यम्) ।

१, १२^{२०}, द्राश्रौ ९, १,
११^{२०}, लाश्रौ ३, ५, ११^{२०},
वैताश्रौ २८, २१, कौसू ७२,
१४, निवर्त सु ८, ३, ४,
निवर्तध्वम् शाश्रौ ४, १६,
१०, ७, ६, ८, कौगृ ५, ८, ९,
ऋअ २, १०, १९, वृदे ७, २०,
न्यवर्तत वृदे ५, ६०^२, निवर्तेत
माश्रौ २, २, ५, १, ५, २, १२,
४६, १५, ३३, हिश्रौ, निवर्तेरन्
शाश्रौ १३, २४, १७, द्राश्रौ ६,
१, १९, २, २२, लाश्रौ २, ९,
१६, १०, २१, पागृ ३, १०, ३२,
वैगृ ५, ६ ३
निवृत्त बौश्रौ ११, ७ ३९
निवर्तयते आपश्रौ ८, ४, २,
बौश्रौ, निवर्तयते आपश्रौ ८,
४, १, बौश्रौ, निवर्तयति शाश्रौ
९, १, ३, आपश्रौ, निवर्तयन्ति
बौश्रौ १५, २२ ११, निवर्तये
आपश्रौ ८, ४, २, बौश्रौ,
निवर्तयामि काश्रौ ५, २, १७,
आपश्रौ ८, २१, १; बौश्रौ,
निवर्तये माश्रौ १, ७, २, २३^१,
निवर्तये बौश्रौ १४, १४
१८^१, निवर्तयन् माश्रौ १, ७,
८, ८^१, निवर्तयन् आपश्रौ
८, २१, १, बौश्रौ ५, १८ २१,
हिश्रौ ५, ६, ४, निवर्तयित आश्रौ
२, १६, २३, निवर्तयेत बौश्रौ
२८, ८ १३^१, निवर्तयेत् वैश्रौ
१७, १८ १०, वैगृ ३, २२ :
८, अप २६, २, ८, आपध १,
४, २७, हिध १, १, १४६,

निवर्तयेरन् आश्रिगृ ३, ६, २
२, बौपि १, ९ १२
निवर्तयित् आपमं २, २२, ९,
भागृ २, २७ २
निवर्तयित् - त् आपमं २, २२, ९,
हिगृ १, १४, ४^०
निवर्तयित् - क पावा १, ३, ११
निवर्तयित् - त्वात् पावा १,
१, ४८ x x
निवर्तयित् - न्न बौश्रौ १४, १४ :
१८, आपम २, २२, ७, - नम्
काश्रौ १५, ८, २४, आपश्रौ,
या ४, १४^१, - नानि बौध ३, २,
२^२, - ने बौश्रौ २१, २ ८,
आपमं २, २२, ८^१, बौगृ ३, ५,
१८^१, - नेन बौश्रौ २१, २ .
८-१०
निवर्तयित् - मन्त्र - मन्त्रः वैश्रौ ८,
१४ : ९, ९, १२ १५
निवर्तयित् - ना. कौसू ९४, १४,
९५, ३
निवर्तयित् - ण काश्रौस
३०, ४
निवर्तयित् वैश्रौ १४, १० . ३
निवर्तयित् - नम् बौश्रौ १४, १४
१७
निवृत्त, त् - त्तः शाश्रौ १२, २२,
२^१, आपश्रौ २४, ४, १, हिश्रौ
३, १, २२, भागृ २, २७
२^१, ३, २० . १, बौध ४, ७, १,
आशि ८, ७, - त्तम् आश्रौ १,
१२, ३४, लाश्रौ १०, १०, ११,
आपध १, ८, ३०, हिध १, २,
११८, - त्ता अप्राय ६, २; वाध

६, २५, - त्त कौगृ १, ११, १;
शागृ १, १८, २, बौपि ३, १०,
१०^१, कौसू ३५, ७, गौध २८,
२
निवृत्त-त्त्व- -त्वात् पावा ६, १,
६८, ७, २, ५९
निवृत्त-धर्म-कर्मन् - म्णः
वाध २१, १६
निवृत्त-शराव-संपात - त्ते
बौध २, ६, २४
निवृत्ता(त्-अ)धिका(र>)रा^१-
-राम् शंघ ३३४
निवृत्ता(त्-आ)शिस् - शीः
गौध ३, १६
निवृत्ति- -त्तये भाशि १, -त्तिः
आश्रौ १२, ८, २, काश्रौ २२, २,
१५, लाश्रौ १०, ४, २, १०, १२;
कप्र, -त्तिम् लाश्रौ १०, ३, २१;
मीसू ९, २, ३४, -त्ते आपध १,
८, २९, हिध १, २, ११७, मीसू
१०, ३, ३३, -त्तौ कौशि १७;
पावा ६, १, २
निवृत्ति-कर्मन् - म् या २, १३.
निवृत्ति-दर्शन - नात् मीसू ३,
७, १२
निवृत्ति-स्थान - नेषु या २, १.
निवृत्त्य(त्-अ)र्थ - र्थम् पावा
१, ३, ६७, ७, १, ९६, २, ४४^२.
निवृत्त्या(त्-आ)चार-भेद -
-दात् वैध १, १०, १.
निवृत्त्य वाश्रौ २, १, ३, ३६, ४,
२७, कौसू ४७, ४४
नी(<नि)-वृत् - पावाग ३, ३,
१०८

- a) पासे वैप १, १८३१ M द्र. । b) पासे. वैप २, ३३^१ न्यवर्तयन् तैत्रा १, ५, ५, ६ टि द्र । c) सपा.
न्यवीवृत्त <> न्यवीवृत्तः इति पासे । d) वैप १ द्र । e) सपा. निवर्तः <> निवृत्त इति पासे. ।
f) वैप १ निर्दिष्टयो समावेशः द्र । g) पासे. वैप १, १८३१ V द्र । h) निवृत्ते इति B । i) विप. ।
बस. > द्रस. । j) विप । बस. > षस. । k) विप । बस. । l) तु पागम. ।

नि/वृध्, ¹न्यवीवृध् हिगृ १, १४,
४^a
नि/वृध्, नि वृध्न्ति वाधुश्री
३, ६९, २१, ऋनिवृध्न्त
आपश्री ४, ११, ५, भाश्री ४,
१७, २, हिश्री ६, ३, ८, भाशि
८२
नि-वेदन- प्रभृ नि/विद् (ज्ञाने) द्र
१नि-वेश- नि/विश् द्र
२निवेश- (> नैवेश- पा) पाग ४,
२, ७५
१-२नि-वेशन- प्रभृ नि/विश् द्र
नि/वेष्ट, निवेष्टयति वाश्री १, १,
४, २४, हिश्री ६, ४, २०,
ऋनिवेष्टयामि आपश्री ४, १५, ३,
भाश्री ४, २१, ३, माश्री १, ४,
३, १२, वाश्री १, १, ४, २४, हिश्री
६, ४, २०, निवेष्टयेत् भाश्री ४,
२१, ३.
नि-वेष्टन- नम् कौसू ३६, ५
नि-वेष्टय वाश्री १, २, २, २.
१नि-वेष्टय^b - > २निवे(ष्टय >)
ष्टया^c - ष्टया बौश्री १२, ८ :
१२, २६, २ २
निवेष्प^d - पाउभो २, २, २०९
१नि-वेष्प^e - > २निवे(ष्प >) व्या^f -
-व्याः काश्री १५, ४, ३२
नि/व्ये, निव्ययते भाश्री ८, २०, १३
नि-वीत- तम् हिश्री ५, ४, ९२,
आमिगृ २, ७, ११-११, बौध
१, ५, ७, मीसू ३, ४, १, -ता

काश्री २२, ३, १६, आपश्री १९,
१६, ६१×४, हिश्री, -तानि
आपश्री ८, १६, १८, -ते काश्री
१५, ५, १३.
निवीत-वत् मीसू ११, १, १६
निवीतिन्- -तिन्. आमिगृ १,
२, २ १४, ३, ७, ४ : ३५, बौगृ
३, ९, ५, बौपि २, ४, २१, हिगृ
२, १९, ३, -ती कौगृ २, ५, १,
आमिगृ २, ६, ३ ३५, वैगृ १,
४ २१, ५ १२, बौध २, ५,
२७, वैध २, ९, २
निश^g पाधा भ्वा पर. समाधौ
निश^h - पा ६, १, ६३, निशम् अप
६८, ३, ६, निशि माश्री ५, १,
१, १५, हिश्री २२, २, १०,
आपमं
निशि-यज्ञ- -ज्ञे मीसू १२, २, १४
नि-शब्दⁱ - -ब्द. शुप्रा ३, १८
नि/शम्^j, निशामये कागृ ४१,
१८†
निशीशमत निस् ८, ४ ३३
नि-शान्त- पाग ४, २, ९०^k,
-न्तम् आश्री^l १०, ७, ३, ४, ६
निशान्तीय- पा ४, २, ९०.
ऋनि-शामित^m - तम् कागृ ४१, १८
निशाⁿ - शा विध २०, १८, -शाम
कौगृ ३, ९, १४, शागृ ४, ७, १६,
अप ४, ३, ४, -शाया अप्राय
४, ४, आपध १, ३२, ११, हिध
१, ८, ५३^o, -शायाम् काश्री

४, ७, २२, आपश्री
नैश- पा ४, ३, १४, -शः अप
३३, ७, ६, -शम् अप ४, ४,
१२
नैशिक- पा ४, ३, १४, -कम्
वैध २, १०, ४.
निशा-कर- पा ३, २, २१, -रम्
अप ५१ ३, २, -रे विध ९९, ९.
निशा-कर्मन्- -र्मसु कौसू ८, १.
निशा-काल- -ले कौगृ १, ७, १,
शागृ १, ११, २, कागृ २१, १-
अप ३३ ४, ३
निशा-चर^p - -रान् बृदे ६, ३२
निशा(शा-आ)सन^q - -न. बौध ४,
५, ५
निशा-सध्यो(न्या-उ)ठक- केषु
गौध १६, १२
नि/शास्, नि अशिषन् बौश्री
८, १४ ३९†.
नि-शा(स्त >)स्ता- -स्ता बृदे
८, १०१
नि-शिता^r -तायाम् बौश्री १३,
३ ८†
निशि-यज्ञ- निश्- द्र
नि/शी > नि-शायिन्- पा, पाग
३, १, १३४
निशीथ^s - पाउ १, ९^t, -थे बृदे
३, १०
निशीथ-चारि(न् >)णी- -णी
आपम २, १४, २†^u, वैगृ ३,
१५ : ६

a) पाभे. पृ १४३० C द्र. । b) = जलावर्त- (तु उ L मा १०, ३) । c) विप (२अप्-)
तत्रमवीये यति प्र य-लोपः । d) = १नि-वेष्प- [तु वैप १, १८३२ f] । e) = १निवेष्प- (तु म L मा
१०, ३) । f) वैप १ द्र. । g) कस. पूष उपसर्गंतर- । h) पा ८, ४, १७ परामृष्ट द्र । i) = निवास-पृष्ट-
(तु. पागम ३०२ [अन्त पुर-]) । अधिकरणे कः प्र. (पा ३, ४, ७६) उपधादीर्घश्च (तु अक्षी. शक PW MW
प्रभृ.; वैतु. [पक्षान्तरे] अक्षी बस. इति, अभा. निशा- + अन्त- (< √ अम्) इति) । j) = संप्रदायागत- (तु. PW
प्रभृ.) । k) °शायाम् इति पाठः² यनि शोध- (तु. आपध) । l) = राक्षस- । m) विप । उस.
उप. कर्तरि < √ आस । n) नाप । व्यु^१ । o) < नि/शी । p) पाभे पृ १३६८ f द्र ।

नि-शुष्म^० - षम बौश्रौ ३, १८ :

१, भाश्रौ ४, १२, ७

नि-शुष्म^० - म्मा अप ४८, ११५,

निघ ४, ३, या ६, ४

नि√शो^०, निश्चयति या ४, १८.

निश्च^० - > निश्च-त्वच-, निश्च-प्रच-
पाग २, १, ७२^d

नि(स्>)श्च^० चर्चरीति
शाश्रौ १२, १५, ११^०

निश्च-चरत् - रन्तम् माश्रौ १, ८,
३, ३१^f

नि(स्>)श्च-चल, ला- -लाम् अप
३६, ६, २, -ले विव १, १३

नि(स्>)श्च^० चि^० > निश्च-चय- पा
३, ३, ५८, -य जैश्रौका २९,

८८, कप्र १, ६, ११, २, ७, ८,

वाध ६, १, बौध २, २, ६८,

पावा १, ४, ५१, -यम् अप

२, १, ७, ७०^२ २३, ७, विघ १,

२१, नाशि १, १, १, -ये अप

७०, १२, १, -येन या ७, २०,

१४, ३३

निश्चय-लिङ्ग^० - ङ. या १४, ३

निश्च-चित- -त अप ७१, १४, ५,

अप्र ८, १, अग्रभू ८, -तम्

अप ७०, ११, १, विघ ९३, १४,

ऋअ ३, ३९, -ताः अप ५ ४,

-तौ अप ५ १९

निश्च-चित्य अप ३१, ३, ३

नि(स्>)श्च^० चूष^० > निश्च-चूष्य

माश्रौ ५, १, ९, ९

निश्च^० - (> नैश्च्य- पा) पाग ५,

१, १२४

नि√अथ, नि शिश्नथत् या ११,
४७^f

नि√श्यै^० > नि-शयान- -नः शाश्रौ
१५, २१, १

नि√अथ > नि-अथ्य > ०थ्य-
हारिन्^१ - -रिणः या ६, ४

नि√आ, निश्चपयन्ति आमिष्ट २, ५,
८ : ८

नि√अधि > नि-अय(या >)णी^१-
-णीम् काश्रौ १४, ५, ५

नि-अयमाण- -ण बौश्रौ ७, ११
५, १३ १४, १६ ५, ६, ४१

नि√श्रु > नि-आविन्- पा, पाग
३, १, १३४

नि-श्रेणि^० - ण्या आपश्रौ १८, ५,
१३^१

नि√श्लिष्, निश्चलषयतः भाश्रौ ८,
६, ७

नि-श्लेष्य आपश्रौ ८, ६, १२

नि√श्वस्, निश्चसन्ति अप ७०^३,
३०, १, याशि २, ६६

नि-श्वसत् - सति अप ७२, १, ५.

नि-श्वस- -सः याशि १, ७४
निश्चप ज- -जाः अप ५२,
१२, ३

नि(स्>) शद्, ऋनि शीयताम्
कौसू ८५, २०, ८६, ९

नि-शीयमान- -नम् कौसू ८५,
२०, -ने कौसू ८३, ४, -नेन
कौसू ८६, ९

नि(स्>) शब्द^० - ङडाः अप ६८,

१, २६

नि(स्>) शेष- > ०ष-कृत्- -कृत्
विघ ६८, ४४

नि(स्>):√श्नथ्, निरशिश्नथत् या
११, ४७

नि(स्>) श्रेणि^० - पाउभो २, १,
२०८, -ण्या हिश्रौ १३, २, ४^१

नि(स्>) श्रेयस- पा ५, ४, ७७,
-सम् हिश्रौ ३, १, १, आपध

१, १, ८, हिघ १, १, ८, गौध
११, २८

निःश्रेयस-बुद्धि^१ - द्वि- हिश्रौ ३,
१, ५

नि(स्>) √श्वस् > नि-श्वस्य वैष्ट
१, ३ १४

√निष्^० पाधा म्वा पर सेचने
नि√ष(<स)ङ्ग^० > नि-षङ्ग^० ->

ङ्ग-थि- पाउ ४, ८७

निषङ्गिन्- -ङ्गिण. शाश्रौ १६,
१, १६, पाग २, १७, १३,

-ऋङ्गिण^० भाग २, १० ४,
हिग २, ९, २, ५, -ङ्गिणम्

वाधुश्रौ ३, ७९ : ७, -ङ्गिणे
आपमं २, १८, ४५^f, ४६,

भाग २, १० : ५, हिग २, ९, ६;
शुप्रा ५, ३७, -ङ्गिन् आपमं

२, १८, ४५^०, -ऋङ्गिभ्यः भाग
२, १० ४, हिग^२ २, ९, २, ५

नि-षज्यत् - ज्यत् अप १, ३२, ८.

नि-षण्ण-, ०षत्- प्रमृ. नि√षद् द्र.
नि√ष(<स)द्^०, निषद् > दा ऋप्रा
८ ६^f

- a) वैप १ द्र.। b) पा ७, ४, ४१ परामृष्टः द्र । c) अर्थ- व्यु. च^१ । d) तु. पागम । e) वैप १,
१८३३ द्र । f) पामे वैप १, ६३० b द्र । g) धा ज्ञाने वृत्तिः । h) विप । बस. । २) पूष.
= अशिथिला-गति- इति दु. । j) = सोपानपङ्क्ति- । उष करणे प्र । k) = निश्चयणी- । बस. (तु. अभा.) ।
l) निश्च^० इति पाठ. १ यनि शोषः (तु सप्र. हिश्रौ १३, २, ४ नि श्रेण्या इति पामे) । m) = निश्रेणि- ।
n) मलो. कप । o) तु. BFG । p) पा ८, ३, ६५ परामृष्ट द्र । q) मया निषङ्गिण- <> निषङ्गिन्
इति पामे । r) सपा. ऋङ्गिणे <> ऋङ्गिभ्यः इति पामे । s) पा ८, ३, ६६, ११८ परामृष्ट द्र ।

निषत्सि ऋप्रा ५, १२१, ऋनि ..
सत्सि काश्रौ २५, ११, ३४,
अप्राय २, ७, अप ४६, ३, ५
निषीदति शाश्रौ १२, १५, ३१^३,
ऋश्रौ १४, २३, ३, ४^३, ७^३,
९, वाधुश्रौ, निषीदन्ति अप
७०^३, ७, २५, ७०^३, ८, ४, नाशि
१, ५, १९, ऋनिषीदसि आश्रौ
१, १२, ३४, ३, ११, १, शाश्रौ
३, ०, २, आपश्रौ, ऋनिषी-
दतु^३ शाश्रौ ८, ११, १५,
आपश्रौ २, १७, १, हिश्रौ,
ऋनिषीदन्तु^३ पाठ १, ८, १०,
आमिष्ट १, ५, ४ : ५०, ६, ३
४२, माय, ऋनिषीद आपश्रौ
२४, १२, १०, हिश्रौ ११, ७, ४०,
नि - सीद शाश्रौ ३, १४, १२१,
ऋनिषीदत आश्रौ ६, ४, १०^३,
शाश्रौ २, १६, १^३, वैताश्रौ ३२,
७^३, अप्राय, न्यसीदत् आश्रौ ३,
१३, १२१, निषीदेत् वैष्ट ३, ५:
६, निषीदेत् ऋआपश्रौ ९, ५, २,
१७, ७, बौश्रौ
ऋनिषसाद् > दा काश्रौ १५, ७,
४, १९, ४, ९, आपश्रौ, या ११,
२८, निषेदुः या १३, १०^३, नि
(सेदु) शाश्रौ १८, ९, ४^३, ऋनि
सत्सत् आपश्रौ २४, १३, ३,
ऋप्रा ५, १२, नि असदत् हिश्रौ
२१, १ २, ऋनि(असदत्)आश्रौ

२, १७, १०, ४, १३, ७, आपश्रौ,
नि सदाताम् या ८, ११^३,
ऋन्यषद्^३ आपश्रौ ९, ५, २, १७,
७, बौश्रौ २८, ६ ७, हिश्रौ १५,
८, २, ऋन्यसद्^३ शाश्रौ १३, २,
५, निषद् ऋप्रा २, ४६^३,
नि सदातन > ना शुप्रा ३,
१२९^३, न्यषदास तैप्रा ६, ३^३
नि-षण्ण, ण्णा- ण्ण वृदे ५, २०,
माशि ४, ४, -ण्णम् या ३, ८,
-ण्णा निघ १, ६४, -ऋण्णाय
शुप्रा ३, ८६, ६, २६, तैप्रा १३,
१४, -ण्णे आपश्रौ ९, १७, ८,
माश्रौ ३, ५, १२, हिश्रौ १५,
८, २
निषण्ण-व(त >)ती^३- -त्य
निसू २, ११ १५, ६, ११ ८
निषण्ण श्या(म >)मा- पाग
२, १, ७^३
ऋनि-षत्त^३- पा ८, २, ६१, -त्तम्
उनिसू ४, ३२, -त्ता अप्रा २,
३, १६, ३, २, २९, -त्ते या ६,
१५^३
नि-षत्स्तु^३- -स्तुम् माय २, १८,
२^३.
नि-षत्स्यत्- -त्स्यन् हिश्रौ ८, ५,
३७
नि-षद्^३- -षत् वृदे २, ८२^३,
-षदा आश्रौ १, ४, ८.
नि-षद्न- -न या ३, ८^३.

ऋनि-षद्य, > दा शाश्रौ १, १५, १७;
काश्रौ २, २, २१; आपश्रौ.
निषद्य-श्या(म >)मा- निषण्ण-
श्यामा- टि द्र
नि-ष(द्य >)द्या- पा ३, ३, ९९.
नि-षद्वर^३- पाठ २, १२२
नि-षादित- (> ण्तिन्- पा) पाष
५, २, ८८
नि-षद्य आपश्रौ १४, १३, ७^३,
२०, ८^३, हिश्रौ.
ऋनि षीदत्- -दत् या २, ११, ७, ३१.
ऋनिषा, षा^३द^३ वाश्रौ १, ३, ३, १;
हिश्रौ १, ७, ४०.
ऋनिषद्दर^३ शाश्रौ १५, १९, १.
ऋनिषद्य^३- -धम् शंघ ११६: ९.
ऋनिषद्य^३- पाठमो २, २, १७५.
नैषद्य^३- -धा अप १, ८, २
नि-ष(< सं)धि^३- पाग ८, ३, ९८.
नि-षय- नि/षि (बन्धने) द्र.
नि/षा, सा^३ह^३
निषाद्^३ पाग ४, १, १००, १०४;
३, ११८, -दः बौध १, ९, २; २,
२, २९, वैध ३, १३, २, या ३,
८^३, माशि, मीसू ६, १, ५१;
-दम् बौध २, २, ३२; माशि २,
४, याशि १, ९, नाशि, -दत्स्य
नाशि १, ४, ७, -दाः काय ६५,
८, -दात् बौध १, ८, ११; ९,
१३, नाशि १, २, १३, -दन्
सु १८, १, २; -दानाम् काश्रौ

a) पाठ. ? तु वैप १ परि. शौ २०, १२७, १२ । b) पाठ ? तु. वैप १ परि. खि ५, ११, २ ।

c) पामे वैप १ प्रजायध्वम् काठ ३५, ३ टि द्र । d) वैप १, १०२६ f द्र । e) परस्परं पामे । f) = ऋच्- ।
g) ष्यश्या इति भोज (तु पागम.) । h) वैप १ निर्दिष्टयो. समावेशः द्र । i) पामे. वैप १, १८३५ h द्र. ।
j) वैप १ द्र. । k) = ऋषिका-विशेष- । l) पामे पृ १२३७ h द्र. । m) वाश्रौ. पाठ । n) पाठः ?
नि-षा, षा^३द- > -षा, षा^३द. (= आप) इति संभाव्यते । o) पाठ. ? नृषद् वर इति द्वे पदे इति सा. (ऐत्रा ७, १५),
नृ-षा (उस.) इति ऋ, यनि. (= अलस-) इत्यानर्त्तयिभाष्यम् । p) = महापर्वताऽन्यतम- । व्यु. ? । q) = देश-
विशेष- । व्यु ? । r) = तद्वासिन्- । s) विप. । बस । (t तु. पाका. । निःष^३ इति भाष्ये. प्रष्ट. । u) पा ८, ३,
७०; ७१ परानृष्टः द्र. । v) = संगीत-स्वर- । नाशि. शैधि. प्रष्ट. । जाति-विशेष- । काश्रौ. वैध. बौध. प्रष्ट. ।

२२, १, ३०, -दे काश्रौ २२, १,
 २६, आपश्रौ १७, २६, १८,
 हिश्रौ १७, १, १३, -देन बौध
 १, ८, १३, -देषु लाश्रौ ८, २, ८
 निषादी^० -द्याम् बौध १, ८,
 १३, ९, १४
 नैषाद- पा ४, १, १०४, पावा
 ५, ४, ३६, -दे बौश्रौ २, ५,
 १५†
 नैषादायन- पा ४, १, १००
 नैषादक- पा ४, ३, ११८
 नैषादकि- पावा ४, १, ९७
 निषाद-गान्धार- शौ शैशि १७४,
 पाशि १२, याशि १, ७, नाशि
 १, ८, ८
 निषाद-ग्राम- -मस्य लाश्रौ ८, २, ८
 निषाद-पञ्चम^b -मान् वृदे ७, ६९
 निषाद-रथकार- -रयो हिश्रौ ३,
 १, १५, -राः हिश्रौ २, १, ५४.
 निषाद-राष्ट्र- -ष्ट्रम् सु १६, २
 निषाद-वत्- -वान् माशि १, १०
 निषाद-सहित- -त. नाशि १, ४, ६
 निषाद-स्थपति^० - -तिः काश्रौ १,
 १, १२, -तिम् आपश्रौ ९, १४,
 १२, भाश्रौ ९, १६, १६, हिश्रौ
 १५, ४, २०, -ते माश्रौ ५, १,
 ९, २९, वाश्रौ १, १, १, ५
 नि-षादित-, -तिन्- नि/षद् द्र
 निषामयत्योः अप ४८, २†.
 नि/षि (<सि/बन्धने।) > नि-षय-,
 नि-षित- पा ८, ३, ७०
 नि/षि (<सि) व्, ङ्, निषि-
 ङ्गति शाश्रौ ४, ४, २, काश्रौ ४,
 १, १९×, कौट, निषिञ्चत्

काश्रौ ६, ६, ६, निषिञ्चन्ति
 कौट ५, ४, ३, आमिष्ट २,
 ५, १० : ११, निषिञ्चन्तु हिष्ट
 १, १८, २†, निषिञ्च ऋप्रा ५,
 १३†^d, निषिञ्चेत् बौश्रौ २०,
 १६ ३०, ३१, कौट १, १२,
 १, ८, शाष्ट १, १९, १, ५
 निषेचयति हिश्रौ १०, १, ४९,
 निषेचयेत् ऋप्रा २०, ४, २४, ४
 नि-षिक्त- -क्तानाम् अप ६८, १, ६.
 ऋनिषिक्त-पा^० -पाम् आपश्रौ
 १३, १८, १, माश्रौ २, ५, ४,
 १२.
 नि-षिच्य काश्रौ ४, ४, ८, ५, ४,
 ३३×, आपश्रौ १२, ६, १,
 वैश्रौ
 नि-षिच्यमान- -नेषु अप ६८, १, ७.
 नि-षिञ्चत्- -ञ्चन् अप्राय १, ३, अत्र
 ४, १५†
 नि-षेक^० - -कम् वैष्ट ६, २ : १,
 -कात् वैष्ट १, १ : ११
 निषेक-कर्मन्- -र्म विध २७, १
 निषेक-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-जा-
 तकर्म-नामकरण-अन्नप्राशन-चौ-
 ल- -लानि वैष्ट ६५ ४
 निषेका(क-आ)दि- -दीनाम्
 वैष्ट ६, ६. १
 निषेकादि-रमशानान्त-
 -न्ताः आमिष्ट ३, १०, ४ २२
 निषेकादि-संस्कार- -राणाम्
 वैष्ट ६, १. १, -रान् वैष्ट १,
 १. १
 निषेका(क-आ)द्य- -द्य विध
 २, ३, -द्या वैध १, १, ३

नि-षेचन- > ण-वत्- -वन्तम्
 हिश्रौ २४, २, ११
 नि/षि (<सि) व्, निषेध ऋप्रा ५,
 १५†.
 निषेधे वृदे ३, १९
 निषिध्यते कौशि ७६.
 नि-षेध- पाग ८, ३, ९८†, -धः
 पावा १, ३, २०^६
 नि/षि, सि] व्^d
 नि-षीदत्- नि/षद् द्र
 रनिषेध^१ - -ध निस् ६, १० : ३४,
 -धे लाश्रौ ७, ८, १०.
 निषेधा(ध-आ)न्धीगव- -वे निस्
 ७, ८ ३०
 नि/षे (<से) व्^१, निषेवेत् विध ७१,
 ९०.
 नि-षेवण- -गम् अप ७०^३, १४,
 २
 नि-षेवमाण- -णा आपश्रौ २१,
 १२, ९
 नि-षेवयत्- -यन् माश्रौ २, १, १,
 ३८.
 नि-षेवित- -तम् विध ७१, ९०
 नि/षो^k (<सो)
 निष्क पाधा चुरा आत्म
 परिमाणे
 निष्क^० - पाउ ३, ४५, पाग २, ४, ३१;
 ५, १, २०, -ष्कः काश्रौ २२, ४,
 १८, आपश्रौ, -ष्कम् शाश्रौ
 १६, १, ६, काश्रौ, -ष्काः
 आपश्रौ १, १४, १२, ३, १३, ५,
 भाश्रौ, -ष्काणाम् वृदे ३, १४८,
 -ष्कान् शाश्रौ १२, १४, १†,
 १५, ३, १४, आपश्रौ, -ष्केण

a) = निषाद-स्त्री. b) विप । बस । c) वैप १ द्र । d) पाभे. वैप १, ३६२ h द्र ।

e) = गर्भाधान-संस्कार- । f) निः-षेध- इति [पक्षे] भाण्डा, पासि. । g) तु पासि. । h) पा ८,
 ६, ७०; ७१ परावृष्ट द्र । i) = सामन्- । वैप २, ३खं. द्र । j) पा ८, ३, ७० परावृष्ट द्र. । k) पा ८, ४, १७
 परावृष्टः द्र. ।

आपश्रौ २०, १३, ८, ऋवाश्रौ ३,
४, ३, ३, ९, हिश्रौ
नैष्किक- पा ५, १, २०
निष्क-क(ण्ठ >) ण्ठी^१- ण्ठी
वाश्रौ ३, १, १, २९, -ण्ठीनाम्
आश्रौ ९, ९, १४, -ण्ठय काश्रौ
१४, २, ३०
निष्क-त्रय- यम् वैश्रौ ११, ५: ७
निष्क-रज्जु^२- ज्जु बौश्रौ ११,
६ ११, १२, ७. २६, -ज्जू
बौश्रौ ११, ६ २८, १२, ७ ३८
निष्क-शत-, °सहस्र- > नैष्कश-
तिक-, °सहस्रिक- पा ५, २, ११९
निष्का(ष्क-आ)दि- दिषु पावा ५,
१, २०
निष्कित्- -ष्की आपश्रौ २२, १२,
९^३.
निष्किणी- -ष्यः काश्रौ २७, १,
०२^४.
निष्-कम्प- -म्पम्^५ कप्र १, ८, ३
नि(स् >) ष्-कर^६- -रा वाध १९,
२६
निष्-कर्तृ- निष्/कृ द्र.
निष्-कर्ष- निष्/कृष द्र
नि(स् >) ष्/कल् > निष्-कालन^७-
> °न-प्रवेशन- -नै गोगृ ३,
६, ८.
नि(स् >) ष्-क(ला >) ल- पाग ४,
१, ४१^८, -लम् वैश्र ४, ११ २
निष्कली- पा ४, १, ४१

नि(स् >) ष्-कल्म(ष >) षा^९- -षा.
वाध २८, ६, बौध २, २, ५८
नि(स् >) ष्/कष्, स् > निष्-काष,
स^१- -ष वाश्रौ १, ७, ३, ३, -षम्
शाश्रौ ३, १५, १४, काठश्रौ १६०,
माश्रौ १, ७, ४, ७, -षस्य काठश्रौ
३६, काश्रौसं २९. ४, -षे
माश्रौ २, ५, ५, २, -षेण शाश्रौ
३, १४, १९, काठश्रौ ३६, -सः
शाश्रौ ८, १०, ९, -सम् आपश्रौ
८, ८, ८, बौश्रौ, -सस्य आपश्रौ
८, ८, ८, मीसू ११, २, ६१, -से
बौश्रौ ८, २१, २, -सेन आपश्रौ
८, ७, १४, बौश्रौ २१, ३. ६,
२५, २ १५; भाश्रौ ८, १०,
६, ११, हिश्रौ ५, २, ६३
निष्कास-वत् आपश्रौ १३, २०,
७
निष्कासि(त >) ता- -ताम्
वैश्रौ ९, २ ६, हिश्रौ ५, ३, २२
नि(स् >) ष्-काम^{१०}- -म अप २३,
१४, ४, वैध २, ५, ३, -मम् वैध
१, ९, ९, ११, १२, -मस्य अप
२३, १४, ४, -मेण अप २३,
१४, ५
नि(स् >) ष्-कालक^१- पाग ६, २,
१८४^६, -क^१ वाध २०, १४,
४२.
निष्-कालन- निष्/कृ द्र
नि(स् >) ष्-कालिक^{११}- पाग ६,

२, १८४^६
नि(स् >) ष्-कुल^{१२}- (> नैष्कुल्य-
पा.) पाग ५, १, १२८.
निष्कुला/कृ पा ५, ४, ६२
नि(स् >) ष्/कुष्^{१३} > निष्-कुषित-,
°तवत्- पा ७, २, ४७.
निष्-कोषण- -णे पा ५, ४, ६२.
नि(स् >) ष्/कृ, निष्कृष्य ऋप्रा ४,
६०^{१४}
नि . कृणोतेन वाश्रौ २, १, ५,
१^{१५}
निष्करोति बौश्रौ १४, २३ :
२१, २५, २४ : ११, २६
ऋनि ... अस्कृत वृदे २, ११५;
ऋप्रा ४, ८८, १०, ३, ११, ९;
उसू २, ३०
ऋनिष्-कर्तृ- -र्ता आपमं १, ७, ११^{१६};
काय २७, २^{१७}
नैष्कर्तृक^{१८}- -केण मीसू १०, २,
२७
निष्-कृणवान- -नयः या १२, ७^{१८}.
ऋनिष्-कृत^{१९}- -तम् बौश्रौ ६, ३१ :
८, पाय ३, ३, ५, या १२, ७;
ऋप्रा ४, ९३^{१९}, -तेषु पाय ३,
३, ५^{२०}
ऋनिष्कृता(त-आ)हाव^२- -वम्^२
आपश्रौ १६, १८, २; बौश्रौ १०,
२५ : २, वाश्रौ २, १, ५, १;
वैश्रौ १८, १५ : ९, हिश्रौ ११,
६, २३.

a) विप. । बस । स्त्री ङीष् प्र. । b) मलो. कस । c) पामे. वैप २, ३ख निष्कृन्त्यः माघ १३,
४, १, ८ टि द्र । d) वा. क्वि. । e) विप । बस. । f) उप. = ३कर- । g) = निष्कृत्सन- ।
h) = वनस्पति-विशेष- इति पागम. । i) वैप १ द्र । j) अर्थ व्यु च? । k) परस्परं पामे. । l) = मुखिडत-
शिरस्- । उप. (क-[शिरस्-] + अलक- [केश-] > सस.) = शिरस्थ-केश- (द्र. पमा ३, ३१४ Buh^२ च, वैतु. पाका.
निष्काल-क- इति, < निष्/कालि इति कक च) । m) निष्-का (ली >) लि^३ > प्रास. इति न्यासकारः ।
n) पा ७, २, ४६ परामृष्ट द्र. । o) पामे वैप १, १८३७ h द्र. । p) पामे. वैप १, ८४६ q द्र. । तत्र च BC. च
सस्थ. यनि. शोध. । q) = निष्कर्तृकर्मन्- । तस्य कर्मत्वर्थे ठक् > कः प्र. डसं. (पा ४, ३, १२४) । r) वैप १,
१८३८० द्र. । s) वैप १, १६६९ ० द्र. । t) पामे. वैप १, १८३८ १ द्र. । u) पामे. वैप १, ८४७० द्र. ।

निष्-कृति- -ति कौस् ५, ३११, वाघ २१, १५, शंघ ३७८, बौध २, १, ६, विघ ३४, २, -तिम् वैश्रौ २, १ १, १८, १:२, मागृ २, १७, ११, शंघ ४४०, बौध १, १, ३१, २, १, ६, विघ ५१, ६०, -ती ऋप्रा ८, २०१, -त्स्यै आपश्रौ ३, ११, २, बौश्रौ १, २१: १३; भाश्रौ ३, १०, २, वाघूश्रौ ४, ९९ २, वाश्रौ १, ३, ७, २०^२, हिश्रौ २, ६, १, कौश्रु १, ५, २९, आश्रिगृ १, ५, २०१६

नि(स्>)ष्व/कृत् (छेदने), निष्कृन्तामि पागृ १, ३, १८१, ऋनि. कृन्तामि^१ बौश्रौ १७, ४४: ५^१, बौगृ १, २, ३६^०, ऋनि कृन्तामि^१ द्राश्रौ १२, १, १९, लाश्रौ ४, ९, १३^६.

निष्कृदयाथोस्रघ्नी कौस् १२८, ४. नि(स्>)ष्व/कृष्, निश्चर्ष बृदे ६, १०५.

निष्-कर्ष- -र्षे मीस् ११, ३, ५२
निष्-कृष्य माशि २, ६

नि(स्>)ष्व-केवल^०-> निष्केवल्य-
-त्यम् आश्रौ ७, ५, १८, ७, २××, शाश्रौ, -त्यस्य आश्रौ ५, १५, १, ७, ६, ४, शाश्रौ, -त्यात् शाश्रौ ११, १०, ८, -त्ये आश्रौ ६, ६, १५, ७, ३, २२××; शाश्रौ १४, २१, ३, १६, ८, ११, हिश्रौ १०, ५, ४

निष्केवल्य-प्रभृति- -तिषु शाश्रौ १५, ४, ९

निष्केवल्य-मरुचतीथ- -ययो:

शाश्रौ ७, ५, २१, १०, ८, १६, ११, ११, १६, ८, ५, -ये शाश्रौ १५, २, १५, १३, ६, -यौ आश्रौ २, १०, ९

निष्केवल्य-सूक्त- -क्तानाम् आश्रौ ७, १, १३

निष्-कोषण- निष्/कृष् द्र नि(स्>)ष्व, ऋ/कृम्, निष्कामते वैश्रौ १४, ६: १, निष्कामति काश्रौ २, १३, ९, आपश्रौ १०, १४, २, बौश्रौ, निष्कामतः काश्रौ ७, ६, ११, २, १०, ५, १०, ४, ११, आपश्रौ १२, २२, ३, बौश्रौ २२, ९ १२, वैश्रौ १५, २८ १, निष्कामन्ति काश्रौ २, ६, २५, १२, ४, १२, माश्रौ, निष्कामन्तु बौश्रौ ७, ७: १६, निष्काम सु १८, ४, निष्कामेत् हिश्रौ ७, ७, २४^२, २५^२, द्राश्रौ २, ३, २१, १५, ४, १, लाश्रौ १, ७, १९, ५, १२, ८, जैगृ १, १७: ७, शंघ ७८, निष्कामेयुः द्राश्रौ ७, ३, १६, लाश्रौ ३, ३, १८

निष्कामयति बौश्रौ १, २१ . ६, वाश्रौ १, २, ४, ३३, वैश्रौ १०, १४ ५, निष्कामयन्ति बौश्रौ २, ५: ३४, १३ . ९, निष्कामयेयुः अप १८^१, १, ११.

निष्-क्रमण- पागृ ५, १, ९७, २, ३६, -णम् काश्रौ १, ८, २५, ९, ४, ३०, २६, ७, ६, आपश्रौ १०, १३, ६१, वाश्रौ १, १, ६, ७, मागृ १, २, १९, -णे बौश्रौ २, ११: ४१

निष्क्रमण- पा ५, १, ९७

निष्क्रमण-प्रभृति- -ति पागृ १,

८, ३

निष्क्रमण-प्रवेशन- -नानि आपघ १, ३०, ७, हिघ १, ८, ७, -ने आपघ १, २४, १९, हिघ १, ६, ६७, -नेषु शंघ २५५

निष्क्रम(ण-क>)णिका^१- -का कौगृ १, १८, १, पागृ १, १७, ५

निष्क्रमणित- पा ५, २, ३६

निष्-क्रम्य आश्रौ १, ११, १४, ३, ५, ४××, शाश्रौ, आपमं २, ११, १६^१

निष्-क्रा(न्त->)न्ता- -न्ताम् वैश्रौ १०, १४ ६, आपगृ ३, ११

निष्-क्रामण- -णम् वैघ १, ११, ४.

निष्-क्रामत्- -मत् वैश्रौ २१ ३; कौगृ २, ७, २३, ३, ४, १, शागृ २, १२, ९, ३, ५, १, -मन्त द्राश्रौ ६, ३, १२, लाश्रौ २, ११: ६, वैताश्रौ २, १५, -मन्तम् आपश्रौ १२, २६, १६, वैश्रौ १५, ३४ ३, हिश्रौ ८, ८, १०, लाश्रौ १, ११, २^१

निष्-क्रय- निष्/क्री द्र नि(स्>)ष्व-क्रि(या>)य^१- -०य विघ १, ५६

नि(स्>)ष्व/क्री, निष्क्रीणीते आपश्रौ १३, ६, ४, ऋबौश्रौ १४, २४. १३, २८, २९: ३५, वाघूश्रौ ४, १०: ५, निष्क्रीणीति वैश्रौ १०, १. ४, वैताश्रौ ३४, १८, ऋनिष्क्रीणीमि काश्रौ १४, ४, १६, आपश्रौ १३, ६, ५, वैश्रौ १६, ७: ११, हिश्रौ १०, ४, ५२, ५४-५७, ६०-६२, आपगृ २, ५^२, निष्क्रीणै शाश्रौ १५, २०, १^२:

a) परस्परं पाभे । b) ?नेष्टाविद्धम् टि द्र । c) ?नेष्टावृद्धिम् टि द्र । d) ?नेष्टाविद्धं कृतानि । e) वैप १ द्र । f) छु पाठ । g) =संस्कार-विशेष- । h) पाभे वैप १, १८८७ b द्र । शंघ. द्राश्रौ-३, ३, ११ नि.सर्पन्तम् इति पाभे. । j) विप. । बस. ।

निष्क्रीणात् सु ५, १
 निष्-क्य- -य सु ११, २, ३०, १,
 कौसू १११, ११, १२७, १३,
 मीसू ४, ४, २६
 निष्क्य-वाद- -व मीसू ४, ४,
 २८, -दात् काश्रौ २५, ११, ३,
 मीसू ६, ४, ३४
 निष्-क्यण- गानि वाघ २२, ८,
 बौध ३, १०, १०, गौव १९, १२
 णिष्-क्रीत- -तः शौच २, ६३,
 -ता. माश्रौ १, ८, ३, ३^६
 निष्-क्रीय शाश्रौ १६, २२, १९,
 आपश्रौ
 नि(स्)> ष्/क्रीड्, निष्क्रीड्यन्ति
 बौश्रौ ८, १: १४
 नि(स्)> ष्/खिद्, निष्खिदति
 हिश्रौ ७, ६, ६, १५, ८, १७,
 तैप्रा ८, २३, णि, निष्खिदन्ति
 हिश्रौ २१, २, ४४, णि, निष्खिदामि
 हिश्रौ ७, ६, ६^१
 नि(स्)> ष्/ट (<त) न्, निरतष्ट
 शाश्रौ १६, ३, १२, या ४, १३
 णिष्कृतश्च आपश्रौ १७, १८,
 १, ऋप्रा ५, ३६, श्रुप्रा ३, ७०,
 पा ८, ३, १०३
 निस्-तष्ट- -ष्टः शाश्रौ १६, ३, ११,
 या ४, १३
 नि(स्)> ष्/ट (<त) न्, निष्टन्तु
 ऋप्रा ५, ३६^१
 नि(स्)> ष्/ट (<त) ष्^१, निष्टपति
 आपश्रौ ५, ८, ५, बौश्रौ २, १६
 १, भाश्रौ, णिष्कृपामि आपश्रौ

२, ४, १०, बौश्रौ १, १२ ३,
 भाश्रौ २, ४, ११, वाश्रौ १, ३,
 २, १४, तैप्रा ६, ५, निष्टपेत्
 भाश्रौ ५, ४, ४, माश्रौ ३, १, २
 णिष्-टस- -स आपश्रौ १, १२, १,
 भाश्रौ १, १२, २, -सम्^० आश्रौ
 २, ३, ९, काश्रौ, -सा^१ आश्रौ
 २, ३, ९, माश्रौ १, ६, १, २५,
 वाश्रौ
 निष्टसो(स-उ)पवा(त>)ता-
 -तायाम् आपश्रौ १, २४, १,
 भाश्रौ १, २४, ११
 निष्-ट्य्य बौश्रौ १, १७ २२, २,
 १८ ३८xx, भाश्रौ
 णिष्कृपत् बौश्रौ २, ५: १७^१
 नि/ष्ट, स्तस्, म्भ> नि ष्ट (<ब्ध>)
 ष्धा- -ब्धयो हिश्रौ २४,
 २, ५^०
 नि-स्तब्ध- पा ८, ३, ११४
 नि(स्)> ष्/ट (<त) ष् (<वृत्
 [छिदने]) > ष्क्य^१- पा ३, १,
 १२३, -क्यम् आपश्रौ २, ५,
 ६xx, बौश्रौ
 णिष्कृ- -ष्ट्या- भाशि ५१
 नि/ष्टु, स्तु^१
 नि/ष्टु (<स्तु) ष् > नि-ष्टु (<ब्ध>)
 ष्धा- -ब्धयो आपश्रौ १५, ५,
 १०^०
 निष्ट्य, ष्ट्या^१- पावा ४, २, १०४,
 -णिष्ठ्य शाश्रौ ४, १२, १०,
 आपश्रौ, -णिष्ठ्याः वैताश्रौ ४०,
 ७, ४१, १२, ऋप्रा ८, १७,

-ष्ट्यायाम्^१ आपगृ ३, ३, भागृ
 १, १२. १८, -ष्ट्यायै^१ बौश्रौ
 २८, ४, ८, वैगृ ३, २०. ७
 निष्ट्या-शब्द- -ब्द. आपगृ ३, ४.
 नि/ष्ट्यै (<निस्/स्त्वै)^१, णिष्ठ्या-
 यताम् हिश्रौ ९, ५, ३६, वैताश्रौ
 २४, १, श्रुप्रा ३, ६९
 नि(स्)> ष्-ट्व (<त्वच्>) क्-त्र^१-
 -क्त्रासः या १, १०
 नि/ष्ट्या (<स्था), निष्टीयते बौश्रौ १०,
 २१ १२^२, १५, १७: ५,
 निष्टीयन्ते बौश्रौ २६, १७: २.
 निष्ठापयति कौसू २४, १७
 नि-ष्ट्या^१- पावाग ४, ३, ६०^१, -ष्ट्या
 निस् १०, ३ २०, आपघ २, १५,
 २४, २३, १०, २९, ११, हिष्
 २, ३, ५८, ५, १६३, ६, २४
 -ष्ट्याम् गौघ ११, २७
 नैष्ठिक^३- पावा ४, ३, ६०^२
 -कः वैगृ २, १२. २६, शंघ
 १३३, विघ २८, ४६, वैगृ १,
 ३, १, ६, -कम् अप ४०, १, ३
 नैष्ठ्य^०- -ष्ट्यम् बौश्रौ १८, ४९.
 ३, ५.
 नि-ष्ट्याय काश्रौ ८, ४, २२, ६, ११.
 नि-ष्ट्याय बौश्रौ ४, २: २६
 नि-ष्टित, ता- -तम् काश्रौ २६, १,
 १८, -ताम् पागृ ३, ४, १८,
 -ते द्राश्रौ ११, ३, १२; लाश्रौ ४,
 ३, १३, गोगृ १, ३, १७
 नि/ष्टिव, ष्टीव, निष्टीवते हिश्रौ १०, २,
 २०, निष्टीवति वाश्रौ १, ५, ४,

a) पाभे वैप १, १८३९ e द्र । b) पा ८, ३, १०२ परामृष्ट द्र । c) पाभे वैप १, १८२१ m
 द्र । d) पाभे वैप १, १८२१ n द्र । e) सपा निष्ठं <> निष्ठुं इति पाभे । f) वैप १ द्र ।
 g) वैप २, ३खं द्र । h) पा ८, ३, ७०, ७१ परामृष्ट द्र । i) = स्वाति-नक्षत्र- । j) विप । बस उप उस.
 = वस्त्र- [तु स्क] इति । k) भाप (श्रद्धा-, निर्णय-, पूर्ति-) । l) तु पागम. । m) विप > नाप ।
 मत्वर्थे ढक् प्र. उसं (पा ५, २, ११६) । n) तत्रमवीय प्र. । o) विप. (भय-) । प्राग्दीव्यतीयः प्यः प्र. उसं.
 (प्रावा ४, १, ८५) ।

२०, वैश्रौ १२, १० : १४, हिश्रौ
 ६, ६, २४, वाग् ५, १३, निष्ठी-
 वेत् काश्रौ २५, ११, २७, भाश्रौ
 १०, ८, १२, कौग् ३, ११, १८,
 शाग् ४, १२, १७, आमिग् २, ७,
 ८, ३, वाध १२, १२, शंघ
 २२६
 नि-ष्ठीवन- -नम् माश्रौ २, १, २,
 ३२, वैग् ३, ९. ११
 नि-ष्ठीवित-> ंत-हसित-विजृम्भि-
 ता(त-अ)वस्फोटन- -नानि गौघ
 २, २१
 नि-ष्ठीविन्- -वी विघ ५, २१
 निष्ठीविता- -ता आश्रौ १२,
 १०.
 नि-ष्ठीव्य बौश्रौ २८, ९. ९, वैश्रौ
 १६, २१ ५, २१, १ : ६, हिश्रौ
 ९, ४, ५३, कौसू ५८, ७, विघ
 २२, ७५.
 नि-ष्ठेव^a- पाग २, ४, ३१
 नि-ष्ठ्यूत-> ंत-वत् काश्रौ २५,
 ११, ३२.
 नि-ष्ठ्यून-> ंन-वान्त-रुधिर-विण्-
 मूत्र-स्नानोदक- -कानि विघ
 ६३, ४१
 निष्ठुर- पाउमो २, ३, ५२
 नि[√]ष्णा (<स्ना) > नि-ष्णात- पा
 ८, ३, ८९, -ता माश्रौ ४, १,
 २१, २४
 नि-ष्णि (<लि)ह^b- > नैणिह-
 -हाम् आश्रौ ९, ७, ३५
 नि(स् >)ष्[√]पच्, निष्पचतात्
 बौश्रौ १५, ३१ : २५
 नि(स् >)ष्-पञ-> निष्पत्रा[√]कृ पा
 ५, ४, ६१.

नि(स् >)ष्[√]पद्, निष्पद्यते हिश्रौ
 १, १, ३७
 निष्पादयति बौध ३, २, ३
 निष्-पत्ति- -त्ति अप ५९, १, ३
 †१निष्-पद्^c- पाग ५, २, ९७^d,
 -पत् आपश्रौ १५, ३, १७,
 बौश्रौ ९, ३ : २६, भाश्रौ ११,
 ३, १०, वैश्रौ १३, ४ : ९, हिश्रौ
 २४, १, १९
 निष्पल्-ल- पा ५, २, ९७
 निष् पन्न- -न्नम् अप ७०, १२, २,
 -न्ने या १, १३, १४^e, -न्नेन
 मीसू १२, ३, १६
 निष्पन्न-ग्रह- -हात् मीसू ८, ३,
 ३०^f
 निष्पन्न-बोदितत्व- -त्वात् निस्
 १०, ३ १८
 निष्पन्न-शब्द- -ब्द पावा ३, ३,
 १३३.
 निष्-पाद्^g- (> निष्पाल-ल- पा)
 पाग ५, २, ९७
 निष्-पाद्य हिश्रौ १०, ५, १२
 रनि(स् >)ष्-प(द् >)दी- पाग ५,
 ४, १३९
 नि(स् >)ष्[√]पा(पाने), निष्पिबति
 आपश्रौ १९, २४, ७, बौश्रौ १३,
 ३२ १५, १८, ९ ३०, हिश्रौ
 २२, ५, ७, तैत्रा ८, २४^h
 निष्-पिबत्- -बन्तम् बौश्रौ १३,
 ३२. १६, १८, ९ ३०, हिश्रौ
 २२, ५, ७
 निष्-पीत- -त् वाधुश्रौ २, १६ ८,
 -तम् वाधुश्रौ २, १६. ९
 नि(स् >)ष्[√]पा(रक्षणे), नि.(पाथ)
 ऋप्रा ७, ४६ⁱ.

निष्पा- (> ंष्पा-ल-) १निष्पाव-
 टि द्र
 नि(स् >)ष्[√]पाटि (<पाट-),
 निष्पाटयति वैश्रौ २०, ३७ :
 ८
 †१निष्पाव^h- (> ंव-ल- पा) पाग
 ५, २, ९७
 नि(स् >)ष्[√]पिष् > १निष्-पेष-
 (> नैष्पेषिक- पा) पाग ५, १,
 १०१
 निष्-पेष्टवैⁱ काश्रौ ७, २, १५^h
 नि(स् >)ष्[√]पीङ् > निष्-पीडन-
 -नम् गोपि १, ५, ५
 निष्-पीड्य आग् १, १७, ९, वैग् ३,
 १४ ५, अप ४२, २, ९
 निष्-पीत- निष्[√]पा(पाने) द्र
 नि(स् >)ष्[√]पु (<पू) निष्पुनाति
 काश्रौ २, ४, १८, भाश्रौ ६, १६,
 २५, माश्रौ १, २, २, २०, वाश्रौ
 १, २, ४, ५५, वैश्रौ ४, ७ ७,
 हिश्रौ १, ५, ६२
 निष्-पवण, न- -नम् हिश्रौ १, ६,
 ४१
 निष्पवणा(ण-ञ)न्तⁱ- -न्तम्
 माश्रौ १, ६, ४, ९
 रनिष्-पाव^j- पा ३, ३, २८.
 निष्-पुन(त् >)ती- -तीम् कौसू
 ६१, २५
 नि(स् >)ष्-पुरीष^k- -वम् आमिग्
 ३, ५, १ १९, बौपि १, २. ६,
 हिपि ४ १, २, -षेण बौश्रौ
 २६, ५ १
 नैष्पुरीष्य- -व्यम् वैश्रौ १२,
 १२ : १०, आपघ १, २७, ३,
 बौध २, १, ६३, हिघ १, ७, २८

a) = निष्ठीवन- (तु. पागम.) । b) = निष्पेह- । बस. । c) वैप १ द्र । d) निष्पाद- टि द्र. ।
 e) ंहणात् इति जीसं. । f) गस. उप. कर्तरि कृत् इति । १निष्पद्- इत्यभ्ये (तु. पागम) । g) अर्थः व्यु. च^१ ।
 निष्पा- (<[√]पा [पाने]) इत्यभ्ये (तु. पागम.) । h) वैप २, ३खं द्र. । i) विप. । बस. । j) = धान्य-विषये- ।

निष्पुरीषी ✓भू > षी-भाव- -वः
 बाध २३, ३०, गौध २३, २३
 †नि(स् >) ष्/पृ, निष्पर^३ शुप्रा ३,
 २३
 निः • पिपृत > ता ऋप्रा ८, १५,
 शुप्रा ३, १०७, निष्पिपर्वत
 ऋप्रा ४, ६०
 निः पारयथ ऋप्रा ५, ३६
 १निष्-पेष- निष्/पिष् द्र
 २निष्-पेष^b०- पाग ६, २, १८४
 निष्-पेष्टवै निष्/पिष् द्र.
 नि(स् >) ष् प्रमाण^d- -णम् वैध १,
 ११, १०
 नि(स् >) ष्-प्रवा(शी)णि-
 -णिः पा ५, ४, १६०
 नि(स् >) ष्-प्रीत्य(ति-अ)भिताप^e-
 -या गौध १३, ३
 नि(स् >) ष्/प्लु, †निष्प्लावयामि
 आपश्रौ ६, २०, २, वाश्रौ १, ५,
 ४, २०, वायु ५, १३
 नि(स् >) ष्-फल^b- -लम् अप ९, २,
 ६, शध ४६३, कौशि ३७, -ला
 आपध १, २०, २, हिध १, ६,
 १६, -लात् पावा ४, २, ३६.
 नि ✓ष्फु, स्फुर, ल् पा ८, ३, ७६.
 नि ✓ष्य (<स्य)न्द^f पा ८, ३, ७२
 नि-ष्यन्द- > ंन्द-वत्- -वन्तम्
 वैश्रौ १३, ७ २५^g
 नि-ष्यन्दन- > ंन-वत्- -वन्तम्
 बौश्रौ ९, ५: २०^h, १४, २६ २२
 नि ✓ष्व, स्व, ङ्ज् पा ८, ३, ७०,
 ७१
 नि ✓ष्व (<स्व)प्, †निष्वापय >

या ऋप्रा ५, १५, ८, ३१
 नि ✓ष्व (<स्व), †निष्पर^३ आपश्रौ
 १२, ९, ९, बौश्रौ ७, ६ ९, तैप्रा
 ६, १३
 †निष्पिन्^e- -पी अप ४८, ११५,
 निध ४, २, या ५, १६६, ऋप्रा
 १४, ३६
 नि(स् >) ष्-ष (<स)म- पा ८, ३,
 ८८, पाग २, १, १७^d
 नि(स् >) ष्/ष (<स)ह > नि-
 ष्-षहमाण- -णः या ३, १०.
 †निष्-षाह- -षाट् या ३, १०६;
 ऋप्रा १४, ३६
 नि(स् >) ष्-षा (<सा)मन्^l- पाग
 ८, ३, ९८
 नि(स् >) ष्/षि (<सि)ष् (संराद्धौ)
 > निष् षिष्- > षिष् (नू >
 र)री^h- -रीः ऋप्रा ५, ३९†
 नि(स् >) ष्: ✓ष्ट (<स्त)न्, निष्ट-
 निहिⁱ शुप्रा ३, ६९, नि ष्टनिहिⁱ
 ऋप्रा ५, १२†
 नि(स् >) ष्/ष्टा (<स्था), निष्ठितष्टे
 निस् २, ५ ३५^k
 नि(स् >) ष्/प्लु L = ✓ष्टि^l †निर-
 ष्टविषम् आपश्रौ १०, १३, ११,
 बौश्रौ २८, ९-१०, वैताश्रौ
 १२, ८
 नि(स् >) ष्/ष्फु (<स्फु)इ, ल् पा
 ८, ३, ७६
 नि(स् >): षं (<सं)धि- नि-षन्धि-
 टि. द्र.
 नि(स् >) ष (<स)म- निष्-षम-
 टि. द्र.

नि(स् >) षा (<सा)मन्- निष्-
 षाम् टि द्र.
 नि(स् >): ष्/षि (<सि)च्, निः
 षिषेच बौश्रौ १८, ४५ २३
 नि षिक्त- -क्तम् या ६, १,
 -क्तेभ्य वैश्रौ १५, ११-१०.
 नि-षिच्य आपश्रौ १३, १, ३, बौश्रौ.
 नि-षेचन- > ंन-वत्- -वन्तम्
 आपश्रौ १५, ६, २२
 निष्-षेचन- > ंन-वत्- -वन्तम्
 भाश्रौ ११, ६, १७.
 नि(स् >) ✓षि (<सि)ष् (गतौ),
 नि षेघन्ति शाश्रौ १६, १८, २०;
 †नि षेघ^m आपश्रौ १, २२,
 २, बौश्रौ १, ८: ४, २०, ८:
 ४, २४, २६: २, भाश्रौ १,
 २४, २
 नि-षिद्ध- > ंद्ध-पाप्मन्^b-
 -प्मान शाश्रौ १६, १८, २१
 नि-षेघ^m- पाग ८, ३, ९८
 नि(स् >) ✓षू (<सू [प्रेरणौ]),
 †नि (सुवामसि)ⁿ कौसू ४२,
 १९, अत्र १, १८
 †नि (साविषक्) अत्र १, १८^o.
 नि(स् >): ✓षू (<सू L अर्थः १ J)
 > निः-षूति- पा ८, ३, ८८
 नि(स् >): ✓ष्व (<स्व)प् पा ८,
 ३, ८८
 निस् पाग १, ४, ५८
 निः सर्ग- नि ✓सृज् द्र
 ✓निसङ्ख्याय (<नि-सङ्ख्या > J
 ङ्घ्य^p-) > निसङ्ख्यायत्-
 -यन्त वैध १, १०, ४^q

a) पामे. वैप १, १८४१ ० द्र.। b) विप. बस। c) उप. भाप.। d) प्रास. वा. बस. वा।

e) विप। बस > द्वस.। f) परस्परं पामे.। g) वैप १ द्र.। h) तु पाका.। नि.ष^० इति भाण्डा प्रभृ १
 i) तु पाका.। नि.षा^० इति भाण्डा. प्रभृ.। j) पामे वैप १, १८४२ ० द्र.। k) ष्टेत् इति पाठः? यनि शोषः
 (तु संस्कर्तुः टि)। l) पामे वैप १, १८२१ ६ द्र.। m) पृ १४३४ f द्र.। n) पामे. वैप १, १८१५ f द्र.।
 o) पामे वैप १, १८४२ m द्र.। p) बस पूष = नन्। q) न संख्यावन्तः इति ०.।

नि/सृ>नि-सृत- -तम् याशि १,
१२

नि/सृज्>नि-सर्ग^०-(>नैसर्गिक-
पा) पाग ५,१,१०१

नि स(ष्ट>)ष्टा- -ष्ट्याम् बौध ४,
१,१८

नि-स्तब्ध- नि/स्त,ष्टम् द्र

निस्-तरी-क^०- पाग ६,२,१८४

निस्-तरीष^०- पाग ६,२,१८४

निस्-तष्ट- निष्/तत् द्र

निस्-तान्तव^०- -बम् कागृ ४,७

निस्-तुष->°स्तुषा(ष-त्रा)मष्टष्ट-
यव^०- -वानाम् काश्रौ ५,३,२

निस्/त्>निस्-तीर्य अप २३,
८,१

निस्-त्रिंश^०- पावा ५,४,७३, -त्रा
अप २३,२,१

निखिंश-सुद्धर-निपात^०- -ता शंघ
३७४

निखिंशिन- -शिनः आश्रौ ९,७,४

नि/स्फुर,ल् नि/स्फुर,ल् द्र

नि/स्रु, निस्त्रावयति बौध २,७,
१०

नि-स्त्राव- -वेण जैगृ १,१२ २३

निस्त्रोहत^०- -ता. बौश्रौप १९: ५

नि/स्वन>नि-स्वन- पा ३, ३,
६४, -न अप ७१, १३, २,
-नाः अप ६४, ४, २, ७०^३,

४,१

?निस्वरित- -ता निस् ४, ९: २०.

निस्-संचय^०-> निस्संचयिन्- थौ

वैध ३,६, ६

निस् संचि^०- -धिः शैशि ३३३

†निस्-साला^०- -लाम् कौस् ८,
२५, ९, १, ३४, ३, ४४, ११,
७२, ४, ८२, १४, अत्र २, १४

निस्/स्था, निस्तिष्ठते निस् २, ५

३१, निस्तिष्ठति बौश्रौ ४, १

३१××, निस्तिष्ठन्ति बौश्रौ

१०, १० १०, ४६. ३०××,

निस्तिष्ठत †बौश्रौ ६, २३: ७,

२५ २३, २७ २६, निस्तिष्ठत

निस् २, ५ ३५

निस्-तिष्ठत्- -ष्टन् जैश्रौ २२: १४

निस्-स्पृ(हा>)ह^०- -ह वैध ३, ५,

७

निस्/स्फुर,ल् नि/स्फुर,ल् द्र.

नि(स>):-संशय- -यम् विध

१०, १३

नि(स>)-सं(ज्ञा>)ज्ञ->°ज्ञ-ता-

-ता अप ३६, ८, ४.

नि(स>):-सार^०- -रे कप्र ३, ५

†नि(स>)-सा(ल>)ला^०-

-लाम् अप १७, २, ३, ३२, १, ३,

२६, अप २: २१, अप्रा २, ४, १६

नि(स>)√सृज्>नि-सर्ग- (नै-

सर्गिक-) निस्सर्ग- टि द्र

नि-सृजत्- -जन् ऋप्रा ११, ३५

नि(स>)√सृप्, नि-सर्पति माश्रौ

१, २, १, ३९, २, २, ४, ३९,

नि सर्पन्ति शाश्रौ ६, १३, ६,

७, १४, १०, ८, ८, ८, आपश्रौ

१२, २९, १५, काठश्रौ १४५

नि-सर्पत्- -र्पत्सु द्राश्रौ १५, २,

१८, लाश्रौ ५, १०, १८, -र्पन्त

वैश्रौ १६, १२: १६, हिश्रौ ८,

४, ४३, ९, १, १७, ३, ३४,

-र्पन्तम् बौश्रौ ७, ७: ३२;

द्राश्रौ ३, ३, ११.

नि-सृण्य वैश्रौ १५, ३८ १४, १६,

१० ६, हिश्रौ ८, ४, ४५

नि(सृ>)-स्व^०->नि-स्व-पक्ष-

-क्षेण अप ११, १, १५

नि(सृ>)-स्व(न>)ना^०- -नाः अप

५८^३, ३, १

निस्, √सृ, नि सारयति माश्रौ १, ६,

१, ४८, ७, ३, २४, वाश्रौ १,

६, १, ३०

‡नि-सर- -र शागृ ५, २, ५

निस्, -सरण- -णम् कागृ ३, १३;

वागृ ९, १९.

नि-सारण->°णा (सा अन्त>)

न्ता^०- -न्ताम् माश्रौ १, ८, १,

२०, २, २, १, ५४.

निस्-सार्थ आपश्रौ ७, ४, ५, ५, ४;

माश्रौ ७, ३, ९, वैश्रौ

नि-सृत- -ताः अप ५२, १२, ५

नि-सृत्य माश्रौ २, २, ५, ३४^३××;

हिपि १ ४, अप

निस्, °/सृ, निस्स्रवति आपध १,

५, २, हिघ १, २, २

†निह^०- निहः अप ७, १, ५, अप्रा

३, ४, १

नि/हन्^०, नि हन्ति ऋप्रा ८, ४६;

निहन्ति काश्रौ ८, ३, ७, आपश्रौ

११, ४, १२××, बौश्रौ, निहन्ति

शाश्रौ १२, २४, २१, काश्रौ ६,

५, १५, ८, ८, २८, आपश्रौ,

†नि हंसि आश्रौ २, १६, ४,

a) नि सर्ग- इति वामन (तु. पागम) । b) विप । बस । c) उप = नौका- । d) प्रास इति

न्यासः । e) उप. <तन्नु- [वेणु-वा रज्जु- वेति देवपालः] । f) कस. > कस. । g) =खह- । प्रास उप.

= त्रिंशत् । h) =नरक-विशेष- । द्रस > बस । i) =ऋषि-विशेष- । व्यु । j) पूष =नब् । k) प्रास वा.

बस. स्र । l) वैप १, १८४२ प द्र. । m) पाभे वैप १, १८४२ s द्र. । n) उप. = धन- । o) हिघ.

षाठः । p) वैप १ द्र. । q) पा ८, ४, १७ परामृष्टः द्र. ।

८, १२, ७, ऋप्रा ७, ४६;
 †निहन्मि वैप ४, ४ ३, ५,
 १५ १, †निहन्तु^० माश्रौ २, २,
 ३, १६, ३, ५, ५, नि^० जहि > ही
 ऋप्रा ७, ५४, निहन्यात् बौश्रौ
 २१, १४ २८, बौश्रु १ ११××,
 निहन्तु^० बौश्रौ २६, २४. १३
 †निजघान अप १, ४०, १, ४१,
 २, अशा १०, १, ११, २,
 निहनियति वाश्रौ २, १, ५, १५
 निहन्यते आश्रौ ७, ११, ५,
 अप ४७, २, ६, उस् ८, १३,
 अशा १, १, १२, २३, शैशि १४८,
 निहन्येत अप ७०, १२, ३
 नि-घ- पा ३, २, ८७
 †निघात^०- -त नाशि १, ७, १९,
 पावा १, १, ६३, -तस्य निस् ७,
 ११ : १३, -ते गौघ २१, २१
 निघात-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा २,
 ४, ८५, ८, १, ५५.
 निघात-युष्मद्-अस्मद्-आदे-
 श^०- -शा पावा २, १, १, ८, १,
 १८.
 निघातयुष्मद्स्मदादेश-अ-
 तिषेध- पावा २, १, १.
 २निघा(त >) ता^०- -ता शौच
 ३, ६५.
 निघाता(त-अ)निघात-सिद्धि-
 -द्धिः पावा २, ४, ८१
 नि-घाति- पाउ ४, १२५.
 नि-घातिन्- (> नैघाल्य- पा) पाग
 ५, १, १२४
 नि-घत्- -घत्. हिश्रौ १७, २, ६१,

-घ्नताम् विध ५, ७३, -घ्नन्
 बौश्रौ २०, २६ : १३
 †निघ्नती- -ती^० हिश्रौ १६, ६,
 ३९
 †निघ्नन्ती- -न्ती^० आपश्रौ
 २१, १९, १८, बौश्रौ १६, २२. ८.
 †नि-जघ्नि^०- -घ्नि. शाश्रौ ८, १७, १
 नि-हन^०- -तः सु २५, ६, कौशि १०,
 १७, १९, २८, -तम् कौशि
 १८, शैशि १४५, -ते माश्रौ
 ५, २, ८, ६, -तेन कौशि १४
 निहत-स्वरित- -तम् कौशि ३५
 निहतां(त-अं)श- -श. कौशि
 २१
 नि-हत्य काश्रौ ४, १५, १५, आपश्रौ
 ९, १९, ४, १९, ११, ६, काश्रौस.
 नि-हनन- -ने बौश्रौ २०, २८ १४,
 २१, १४ २७
 नि-हनन्- -न्ता विध ५१, ७४
 नि-हन्यमान, ना- -नाम् आपश्रौ
 १९, १७, ११, हिश्रौ २२, १,
 २२, -नाय बौश्रौ ४, ६ ३२,
 ११, ४ : १६, १५, २८ २४,
 -नायाः निस् ७, ११ ११; हिपि
 ५ २
 १, २नि-हव- नि/हे द्र
 नि/हा(गतौ), निजीहते^० अप १, ७,
 ४, ७, नि जिहताम्, नि-
 (जिहताम्) शाश्रौ ७, ६, ३^१,
 †नि जिहत > ता, नि(जिहत
 > ता) आश्रौ ५, ७, ३.
 नि/हा(त्यागे), न्यजहात् सु २५,
 २, ४

नि^० हीयताम् ऋप्रा ५, ३.
 नि-हीन-> ण-तर-वृत्ति- -त्तिः
 आपध २, ५, ५^१
 निहीन-वर्ण-गमन- -ने गौघ
 २३, १४.
 नि-हाका- पाउ ३, ४४.
 १नि-हित- नि/घा द्र.
 २निहित^०- -तः बौश्रौप १४ : २.
 नि/हील् (= इ), निजिहीलते शाश्रौ
 १२, १४, २१
 नि-हूत- नि/हे द्र.
 नि/हृ, निहरामि बौश्रौ ५, १० : २४^१;
 †निहरामः आपश्रौ १३, २२, ५;
 बौश्रौ ४, ११ : १५, नि^० हृर >
 रा बौश्रौ ५, १० : २३^१.
 निजिहीर्षेत् हिश्रु १, ३०.
 नि-जिहीर्षेत्- -र्षेत् हिश्रु १, ३०.
 नि-हारम् बौश्रौ ५, १० : २३^१.
 नि-हार^०- -र्ष कौश्रु ५, ५, ६;
 कौश्रु ८२, २६, वाध १९, १४^१;
 अश्र १८, ३, अपं ३ : ६०, अप्रा
 ३, ४, १, -रान् अप्रा ३, ३, १२^१;
 -र्षे पाउ २, ११, ६, आपध १,
 ११, २५, ३१, बौध १, ११,
 २३; हिष १, ३, ७५, ८२, -रेण
 काश्रु ७, १८, या १४, १०^१;
 शुप्रा ३, १०५; ५, ३७.
 †नैहारिक^०- -कम् वाध
 १९, १५.
 †नीहाराय पावा ३, १, १७.
 नि/हनु, निहन्ते आश्रौ ४, ५, ७;
 ८, १३, २७, माश्रौ १२, १, १०;
 ३, १९, ४, ४.

a) पामे. वैप १, १८४३ g द्र.। b) माप, पारिभाषिक-सज्ञा- (अनुदात्त-। c) द्रस. > द्रस. >
 षस.। d) विप (निहता-] अणुमात्रा-। e) परस्परं पामे.। f) वैप १ द्र.। g) = अनुदात्त- [कौशि.
 शैशि।। h) छान्दसो दीर्घः। i) पामे वैप २, ३४३ साक्षा २८, ५ टि. द्र.। j) सप्र. हिष २, १, ८६ हीनत्वं
 इति पामे.। k) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ?। l) = निर्हार- इति कृष्णपरिषदतः (तु. Buh.)। m) तत्रसप्तवीथ-
 प्र. इति कृष्णपरिषदतः (तु. Buh.)।

निह्रुवे बौश्रौ ३, २९. २३,
वाश्रौ १, २, ३, २९, कागुड ३९
१५, गोगु ४, ३, १७, निह्रुवते
शाश्रौ ५, ८, ५, काश्रौ ८, २, ८,
आपश्रौ, निह्रुवे शाश्रौ १५, २४,
११, निह्रुवीरन् द्राश्रौ १४, २,
६, लाश्रौ ५, ६, ९.
नि-ह्रव^० - व आश्रौ ४, ८, ९, ११,
आपश्रौ ११, ४, २, -वात् आपश्रौ
११, ३, १३, -वे बौश्रौ २०, २१
२२
निह्रुवा(व-अ)न्त^० - न्तम् वैश्रौ
१४, ३ ११
नि-ह्रवन - नम् हिश्रौ १०, ३, ३५,
द्रागु ३, ५, २३; गोगु ४, ४,
१४.
नि-ह्रुव्य शाश्रौ ५, १०, ३६
नि-ह्रुवा(न>)ना - नाम् बौश्रौ
१५, २९; ३१.
नि-ह्रस् > नि-हास - स हिश्रु १,
१०, ३८, ४, ३८^०
नि-ह्राद्, निहादयन्ति हिश्रौ १३, १,
४७, १४, ३, ३९
नि-ह्रे^०, निह्रयामहे आपश्रौ १७,
२२, १, हिश्रौ १२, ६, २६
नि-ह्रव - पा ३, ३, ७२, -व
ऋअ २, १०, १२४
नि-ह्रव^० - व छुसू ३, ९. १५,
-वस्य लाश्रौ १०, ८, ९.
निह्रव-श्यावाइव - इवे लाश्रौ
१०, ८, ८

निह्रवा(व-अ)नुग्रह - हाय निसू
६, ३: ११.
नि-ह्रत - > त-वत् - वत् निसू
२, ११ २५.
४नी^० पाधा भ्वा उभ प्रापणे, नयते
शैशि १६६, याशि १, ३२, ३३,
नयति आपश्रौ ७, १५, ९××,
बौश्रौ, वैश्रौ १६, ७ ३^६, या
७, १४, २१××, नयतः या ७,
२९, नयन्ति शाश्रौ ४, १७, १०,
आपश्रौ, या ३, १९, ४, १४^१,
७, २१, २४^१, निनयामि काश्रौ
१२, २, २२^३, आपश्रौ ७, १८,
१४, २१, ५, १०, बौश्रौ, निनया-
मसि पागु ३, १३, ५^१, हिगु
१, १५, ३^१, शौच ३, ८१,
निनयत् आपश्रौ ६, २०, २, १२,
१५, ६, माश्रौ १, ६, ४, २१^१,
हिश्रौ ८, ४, २१, कागु ४१,
७^१, नयात् जैगु १, १२: ६,
८, १०, नयासि हिश्रौ ६, २,
१७^१, निनयतु आपश्रौ ३, १४,
२^६××, बौश्रौ, पागु १, ८, २^१,
नयताम् माश्रौ २, ३, २, १३^१,
नयन्ताम् कौसू १३७, २५^१,
निनयन्तु आपश्रौ ९, १४, १,
काश्रौ १०, ३, २२, बौश्रौ,
निनय, > या आश्रौ ३, ७, ५××,
शाश्रौ, नयतात् वाश्रौ १, ६,
२, ७^१, निनयतम् बौश्रौ ६,
२५: २, वैगु १, २१: २, गोगु

३, ४, २५, जैगु १, १९: २२;
नयध्वम् गौपि १, २, १०^१,
निनयत, > ता काश्रौ २५,
१३, २०, आपश्रौ, निनयानि
आश्रौ ५, १३, १२, शाश्रौ २,
६, १२××, निनयत् आपश्रौ
१४, १२, ६, वाश्रौ १, ५,
५, ७, हिश्रौ १०, ६, ६, सु
२६, २, ४, या २, २६, ऋप्रा
२, ४६, ४७, निनयन् आपश्रौ
८, ३, २५, शाश्रौ १२, १९, १,
१५, ३, ७, वाधुश्रौ ३, १७
१४^१, उसू ३, १, अनयत > ता
ऋप्रा ८, ३०^१, नयेत् शाश्रौ
१३, २४, १४, काश्रौ, हिगु १,
४, ८^१, नयेयु आश्रौ ३,
१०, ३, ९, १, १०, आपश्रौ १९,
१४, १४^१, २०, ७, १७, २२, २१,
८, बौश्रौ.
निनेषि आश्रौ ३, ७, ६, ८, ११,
१, माश्रौ ५, १, ६, २६
निन्ये अप १, ६, ६,
निनाय वाधुश्रौ ३, ८८ १७,
वैताश्रौ ६, १, निन्यिरे बौश्रौ
१८, २३ २; निन्यु आपमं
१, ९, ७^१, आमिगु १, ५, ४
४७, बौगु, नेव्याम छुसू ३, १.
५, निनेषत् आश्रौ ५, ९ १,
शाश्रौ ७, ९, १, बौश्रौ,
नेषतु पावा ३, १, ३४, २, १३५,
नै माश्रौ २, ५, ४, २४^१, नैष्ट

a) = नमस्काराङ्गलिकरण- [दक्षिणान्यायीन् उक्तानान्कृत्वा सव्याञ्जीव] इति (आपश्रौ [११, १, १२] प्रसू
[तु. J. Brough सिमा १, १२६-३०])। b) विप । बस । c) पाभे पृ १४२६६ इ. d) पा १, ३, ३०
परामृष्टः द । e) = साम-विशेष-। f) ऋप्रा १४, ४४ या ७, १४, २९ पा १, ३, ३६ पावा १, ४, ५२ परामृष्टः द ।
g) पाभे पृ १२२८ d द । h) सपा आपम २, २२, २ वि -नयामसि इति पाभे । i) सपा. तै ५,
७, २, ३ नेषत् इति पाभे । वैप १, १८४६ १ अपि द । j) पाभे. वैप १, १८४५ g द । k) पाभे.
वैप १, ३८५४ h द । l) पाभे. वैप १ विचक्रमे तै ३, २, ६, १ टि. द । m) सकृत् पाभे. वैप १,
१८४५ । द ।

ऋप्रा १४, ४४^१.
नीयते आपश्रौ २०, १७, ७,
बौश्रौ १६, २५ : ६×४, कप्र,
नीयन्ते आश्रौ ५, १३, ११,
बौश्रौ १८, २०२, १९, ५ :
३५, २४, २९ : ८
नय > रनय-व(त् >) ती-^२
-त्या बौश्रौ ६, ३० २६, ८,
५ १२×४, वैश्रौ, -वत्याम्
वैश्रौ १६, ८ ५
नय-शस्र () अप ६८, ४, २
नय- पाग ५, २, ६४^३, ६, १,
१९९^४, -यम् शंघ ११६ ५७^०
नय-क- पा ५, २, ६४.
१नय-वत्- -वान् शंघ २५३.
नयत्- -यन् काश्रौ ५, ५, ९, ६,
६, १×४, आपश्रौ
नयन्ती- -न्ती या ९, १८;
-न्ती बौश्रौ ८, ५ २१^१
नयति-> ल्य(ति-अ)र्थ- -र्थम्
ऋप्रा ५, ५७
नयन्^५- पाठवृ २, ७८, -नम् काश्रौ
२२, ३, २१, -नस्य मीसू ४, १,
२५
नयमान- -न बौश्रौ १०, १०
१, माश्रौ ६, २, २६, वाश्रौ २,
१, १, ५०, वैश्रौ १८, ४ १
नाय- पा ३, २४, पावा ३, २, १
नायक- -कम् वैश्रौ १८, १ २४;
अप २४, १, ९
१नीत, ता- -त बौश्रौ १८, ३०.
८, वाधूश्रौ ३, ४५-४, भाशि

१२५^१, -तस्य बौश्रौ १८,
४१ : १७^०, -ता आपश्रौ १३,
६, १४, -तात् या ७, १४,
-तासु आपश्रौ १३, ७, १६,
काश्रौसं ३४ : १, बौश्रौ.
नीत-दक्षिण^{१४}- -णम् बौश्रौ
२४, १३ ५.
२नीत^{१५}-> ल-मिश्र- -श्र आपश्रौ
२०, २५, २, -श्रेण आपश्रौ १४,
२४, १४, २२, १०, १०, बौश्रौ
नीति- -तौ पा ५, ३, ७७
१नीति-शरीर^{१६}- -रः वाधूश्रौ
३, ३५ ४
नीत्वा काश्रौ ४, ९, १२, आपश्रौ.
नीथ- पाठ २, २, -^१थानि^१ आश्रौ
५, ९, १, शाश्रौ ७, ९, १, -थेऽथे
आपम २, ११, ८^१, -थै भाश्रौ
५, ४, २
नीथ-विद्- -वित् शाश्रौ ७, ९,
१^१
नीथा- > ङ^१थानि-विद्^१- -विद्
ऋप्रा ९, १७
१नीयन्तम् सुध १३
नीयमान, ना- -नम् बौश्रौ ३, २६ :
४, ४, ६ २९, वैताश्रौ १३,
१२, वृदे ४, २७, -नस्य वाश्रौ
३, ४, ४, ७, -ना. विध ४३,
३३, -नाम् काश्रौ ७, ६, १४^{१५},
आपश्रौ १९, १७, १०; बौश्रौ,
-नाया काश्रौस २८ १०, -नासु
आपश्रौ १९, १४, १४, बौश्रौ
१९, ६.१५, हिश्रौ ९, २, १३×४;

जैश्रौ, -ने वैताश्रौ १०, १७.
नेत(व्य>)व्या- -व्या या ४, १५.
नेवृ- -तः ऋप्रा १, १०१^१;
-^१ता आश्रौ ५, १४, १७, शाश्रौ
७, १९, १२, ८, १७, १^२; वाधूश्रौ;
या १, ८, २, १४^१, -^१तु आश्रौ
७, ६, ६, आपश्रौ १०, ८, ६, १६,
८, १३; बौश्रौ ६, ४ ६, १०,
१३ : ५, भाश्रौ, पावा ५, ४,
११६^{१६}, -तृणाम् बौश्रौ
४, ४ : १७^१, -तृणाम् भाश्रौ
७, ७, १६^१, कौसू ४८, ११.
नेत्री- -त्री पाठ ३, ३, ५;
-श्रौ गोगृ ३, ४, २५^१, द्रागृ ३,
१, २३^१.
नेत्र- पावा ५, ४, ११६.
नेतोस (:) आपश्रौ १०, १३, ३;
भाश्रौ १०, ८, २
नेत्र^०- पा ३, २, १८२, पाग^१ २, ४,
३१, ५, ४, ३, -त्रम्^१ अप २२,
६, ५, १०, १, -त्रे जैश्र १, १९ :
२२^{१७}; कप्र १, १०, ३, अप
२२, ७, ३^१, वृदे ४, १५, -त्रेण^१
कप्र १, ८, ४, अप २२, ८, २;
-त्रेषु माशि १५, ९, याशि २,
१०९, नाशि २, ८, २३.
नेत्र-क- पा ५, ४, ३.
नेत्र-कन्धरा-बाहु-सकथं (विथ-
अं)स-भङ्ग- -त्रे विध ५, ७०.
नेत्र-चपल- -लः वाध ६, ४२.
नेत्र-द्वय- -यम् शंघ ५७, ४५६;
४५८.

a) वैप १, १८४७ ० द्र.। b) भाप.। c) = साध्याऽन्यतम-। मयम् इति पाठ ? यनि. श्लोघः (तु.
अपु २१९, २६ शक च)। d) भावाद्यर्थे ह्युट् प्र.। e) प्रकरणात्: अस्मिन्मान नीतस्य इति (तु. बौश्रौ १८, ३० :
८)। f) विप.। बस.। g) उप. = २दक्षिणा-। h) नवनीत- इत्यस्योत्तराशिः। i) पूष. अर्थः ?।
j) पाप्मे. वैप १, १८४७ १ द्र.। k) पाप्मे वैप १ विस्ववित् तै ५, ६, ८, ६ टि. द्र.। l) वैप १ द्र.। m) पाप्मे.
वैप २, ३३. अतिविच्छ्रमानाम् काश्र ४, २, ४, १२ टि. द्र.। n) सपा. नेत्र्यौ < > नेत्रे इति पाप्मे.। o) = व्येचन-
p) तु. पागम.। q) = मन्थन-रज्जु-। r) विप. (उपानहः)।

नेत्र-युग्म- -मम् बौशि ३५६
 नेत्र-विकल- -लः शंघ ३७७
 ११
 नेत्रा(त्र-आ)दि-करण- -णै- अप
 २३, ३, २
 नेत्रा(त्र-आ)द्यु(दि-उ)ल्लोच-
 शोभिष्ट- -ष्टम् अप २१, ६, २
 नेनीयाम्, √अस्, नेनीयामास बौश्री
 १८, ४७-१३.
 नेन्य^१- पा ३, १, १३४
 नेष्ट^२- पाठ २, १५, पा ६, ४, ११,
 पावा ३, २, १३५, -फं०ष्ट आश्रौ
 ५, ७, ३, शाश्रौ, -ष्टा आश्रौ ४,
 १, ६, ५, ३, २, १, ५, १७, शाश्रौ,
 वाश्रौ ३, २, १, १३^३, -ष्टार
 काठश्रौ १३०, -ष्टारम् आश्रौ
 ५, १९, ८, शाश्रौ, -ष्टु आश्रौ
 ९, ४, १७, १२, ९, ६, शाश्रौ,
 -ष्टा काठश्रौ १४२^३, बौश्रौ ७,
 १६ : ५१, ५३, -ष्टे आपश्रौ
 १३, ५, १२, लाश्रौ ९, ६, ६
 नेष्टा-पोतु- -तारौ बौश्रौ १७,
 १८ : ४, १९. ४, बौश्र ३, १०,
 ६, -तुभ्याम् काश्रौ १५, ८, २३,
 बौश्रौ १२, १८ १७.
 नेष्ट-मुख्य^४- -स्यान् वाश्रौ ३,
 २, १, १५
 नेष्ट^५- -ष्टात् काश्रौ ९, ८, १२,
 आपश्रौ ११, १९, ८^५, काठश्रौ
 १३०^५, बौश्रौ ७, ९ ११^५, माश्रौ
 २, ३, ६, १७^५, हिश्रौ ७, ८, ४२^५,
 या ८, ३^५, ऋप्रा १४, ५८^५,
 पावा ३, १, ३४^५, २, १३५^५.

नेष्ट(ष्ट-अ)च्छावाकीय^६-
 -ये काश्रौ २४, ४, ४३
 नेष्टा(ष्ट-आ)दि- -दीन् काश्रौ
 १२, २, १८
 नेष्ट्रीय, या- -य माश्रौ २, ३,
 ६, १७, -यम् आपश्रौ १२,
 ५, १४, माश्रौ २, २, ४, ४,
 -यस्य माश्रौ २, ३, २, २३,
 ५, २, १६, -यात् या ८, ३,
 -याम् भाशि १३^६.
 नी(नि√इ), न्येति बौश्रौ १५, ८
 १५, १६, ९ ४^७, नियन्ति
 बौश्रौ १४, २७ : १, २८ ७,
 अप १, ६, २, ५^७, ऋप्रा २, १०,
 नीयात् आपश्रौ ५, २६, ३
 न्य(नि-अ)यन- -नम् आश्रौ २,
 १२, २, आपश्रौ १७, १३, ५,
 बौश्रौ, -नात् आपश्रौ १८, ९,
 १६, वाश्रौ ३, ३, १, १७, हिश्रौ
 १३, ३, ३३
 न्या(नि-आ)य^८- पा ३, ३, ३७,
 १२२, पाग ४, २, ६०, ३, ५४^८,
 ७३, ८, १, २७, -य- शाश्रौ
 ३, १६, २२, ६, ११, १४,
 बौश्रौ, -यम् बौश्रौ २४, १
 १४, निस्, ऋप्रा १०, २२^८,
 -यात् शाश्रौ १५, २४, १^८,
 काश्रौ १३, ४, १२, -येन आश्रौ
 ११, ४, ८, १२, ५, १३, १४,
 गाश्रौ, -यै ऋप्रा १, ५३^८
 नैयाय- पा ४, ३, ७३
 नैयायिक- पा ४, २, ६०,
 -कम् माशि १५, १^९

न्याय-क्लृप्त, सा- -सः आश्रौ
 ११, २, १२, शाश्रौ १३, १८, ४;
 निस् ८, ८ : ४०^९, -सम् आश्रौ
 ११, २, ३, ८, १३, निस्, -साः
 आश्रौ ९, ४, २, ११, ६, १
 न्याय-तर- -र निस् २, ९ -
 २१, ६, ५ २६^९, ७, १३ ९,
 १८, -रेण निस् १, १० १४.
 न्याय-तस् (.) शंघ १३३, गौध
 ११, ९
 न्याय-दण्ड^{१०}- -ण्ड विध ३, ९६
 न्याय-पूर्व- -र्वम् मीस् ३, ८,
 २०
 न्याय-प्रगाथ-धर्म- -र्मभ्याम्
 लाश्रौ ६, १, १२
 न्याय-मात्र- -त्रम् मीस् ५, २,
 ९, २१
 न्याय-मुख^{११}- -खम् अप्रा १, १,
 ४.
 न्याय-वत्- -वान् या १, १३
 न्याय-विद्^{१२}- -विदः आपध २,
 १४, १३, हिघ २, ३, २४
 न्यायवित्-समय- -य आपध
 २, ८, १३, हिघ २, १, ११५.
 न्याय-विप्रतिषेध- -धात् मीस्
 ५, ३, २५
 न्याय-विहित- -तः लाश्रौ ६, ७,
 १३
 न्याय-वृत्त^{१३}- -त्तम् गौध ११,
 १४.
 न्याय-संहित- -तम् शुप्रा ५, ८^{१३},
 -तान् आपध १, २२, १, हिघ
 १, ६, १

a) विप । बस > मलो. कस > तुस. । नेत्र- = रज्जु-, उल्लोच- = वितान- । b) तु पासि. ।
 c) वैप १ द्र । d) ष्टाः इति पाठ. ? यनि शोघः । e) विप. । बस. । f) नेष्टात् इति पाठ ? यनि शोघः
 (तु. वृ १०२५०) । g) पररूपम् उस् (पावा १, १, ६४) । h) बप्रा । भाप नाप. (औचित्य-, दर्शन-शास्त्र-
 प्रसू.) । i) पृ ११२६० द्र । j) = प्रकृति- । k) = उत्सर्ग-विधि- । l) ष्यकम् इति पाठः ? यनि-
 शोघः । m) उप. < विद् [ज्ञाने] । n) पूष. = व्याकरण-नियम- ।

न्याय-सिद्ध- -द्ध. पावा ८, १, १२^२
 न्याया(य-ञ्च)ग(त) > ता-
 -ताम् अत्र ७, ११५
 न्याया(य-ञ्च)धिगम- -मे गौध
 ११, २५
 न्याया(य-ञ्च)ध्ययन- -नस्य
 अप्रा १, १, १
 न्यायो(य-उ)क्त- -क्ते मीसू ३,
 ८, ४१, -क्तेपु मीसू १०, ५, ७७
 न्यायो(य-उ)पेत- -तम् बौश्रौ
 २९, ८ २२, कौगृ ३, ९, ५१,
 -तेभ्यः शागृ ४, ८, १
 न्याय्य, द्या- पा ४, ३, ५४, ४,
 ९२, -द्यः लाश्रौ ७, १, ६, ३,
 १०, ४, ६, पावा १, २, ६४, मीसू
 ६, १, ४५, ९, ४, १८, -य्या पावा
 ३, २, १०२, १२३, -य्या लाश्रौ
 ६, ९, २, -य्यान् लाश्रौ ६, ९,
 १, -य्यानि मीसू १२, १, ११,
 -य्ये निसू ८, ८, ३३, -य्येन
 लाश्रौ ६, १२, १४^२
 न्याय्य-दण्ड-त्व- -स्वम्
 गौध १०, ८
 न्याय्य-प्रतिहार^०- -राणाम्
 लाश्रौ ६, ११, ३
 न्याय्य-भाव- -वात् प्राप्वा
 २, २.
 न्याय्य-समाज्ञा- -ज्ञा लाश्रौ
 ६, १०, २८
 ?नी.^० वाश्रौ १, १, २, १६[†]
 नीक- पाड ३, ४७
 नी-कर्षिन्- नि/कृष् द्र
 नीच^०- पाडभो २, २, ७८[†], पाग ४,

३, १५२^२, -चः शुप्रा १, १५०,
 माशि ५, ११, ६, १, ७, १०, याशि,
 -चम् द्राश्रौ १, ३, २५, आग्निगृ,
 -चस्य ऋत ५, ४, २, नाशि १,
 ७, २, -चा^० शाश्रौ ४, ३, ६,
 ९, ५, काश्रौ; या ४, २४[†]कृ,
 -चात् माशि ५, १, २, याशि १,
 ५८, कौशि ३२; नाशि १, ८, ६,
 २, ३, ३, -चे द्राश्रौ १, ३, २५,
 अप ६५, १, २, ऋत २, ६, ४,
 शैशि १३६, याशि १, ३, नाशि
 १, ७, १२, -चेन नाशि १, ७, ८,
 -चै^० काश्रौ ३, ६, ७, आपश्रौ,
 या २, ९, ४, २४^२, ५, १८, पा
 १, २, ३०, पाग १, १, ३७, -चौ
 शैशि १७४, याशि १, ७
 १नैच- पा ४, ३, १५२
 †२नै(च)चा^०-> नैचा-शा-
 (खा) > ख^०- -खम् या ६,
 ३२^{कृ}
 नीच-गत- -तानि याशि १, ५३.
 नीच-तर- -रम् माशि ५, १, २,
 याशि १, ५८, ६५, कौशि ३२,
 नाशि १, ८, ६
 नीच-तस् () नाशि २, ३, २
 नीच-त्व- -स्वम् कौशि ५, -स्वे
 कौशि ५
 नीच-दक्षि(णा) > ण^० -णस्य
 आगृ १, २३, २०
 नीच-पूर्व- -र्वं शुप्रा १, १११, याशि
 १, ७८
 नीच-स्वर-पर[†]- -रा-शुप्रा १, ११३.
 नीच-स्वरित- -तम् उसू ८, २०,
 २६.

नीच-स्वार-धृतो(त-उ)दात्त- -त्तान्
 कौशि ३८
 नीचा-पूर्व^०- -र्वः तैप्रा ५, ८
 नीचा(च-ञ्च)वग्रह- -हम् माशि
 ६, ५
 नीचा-शा(खा) > ख^०- -ख या ६,
 ३२.
 नीची/भू, नीचीभवति अप ५०,
 १, ३, ४
 नीचै-कर- -राणि तैप्रा २२, १०.
 नीचैर्-गमन- -नम् या १, ११;
 अत्रमू ८
 नीचै-शा(खा) > ख^०- -खः या ६,
 ३२
 नीचैस्-तर-> षाम् काश्रौ ७, २,
 २८^२, आपश्रौ १०, ४, १०^२,
 २४, १४, ५, वैश्रौ १२, ५, ७, ८;
 हिश्रौ २१, २, ४०, शागृ ४, १५,
 १८^२, कौगृ ४, २, ३, तैप्रा १, ४४.
 नीचैस्-ता- -तायाम् हिश्रौ ६,
 १, ४
 नीचो(व-उ)ञ्च-त्व- -त्वम् याशि
 २, २७
 नीचो(च-उ)ञ्च-स्वार-संप(ञ) >)
 ञा- -ञाम् तैप्रा २३, २४;
 कौशि ६७.
 नीचापा, य[†]क^०- (> ^०पकीय-
 ०यकीय- पा) पाग ४, २, ९०
 नीची-, नीचीन- प्रभृ न्य(नि/अ)
 च्, ञ्च् द्र.
 नीड^०- पाडभो २, २, ११९, पाग २, ४,
 ३१; -डम् सु ३१, १, वाध
 ६, ३, निष ३, ४[†], -डात्
 बौश्रौ ६, १७, ८; वैश्रौ १२,

a) तु पासि. । b) विप । बस । c) सपा आपश्रौ ४, ४, ८ भाश्रौ ४, ५, ५ हिश्रौ ६, १, ५१
 ईन्- इति पाभे । d) विप., नाप. (अनुदात्त-) । e) वैप १ द्र. । f) < ^०नम् । g) अर्थः ? । तु. पाका. ।
 १नीप- इति भाखडा. पासि., नीळ- इति [पळे] पाका. । h) उप = २दक्षिणा- । i) विप. । कस > बस. ।
 j) तु. भाखडा. प्रभृ. । k) तु. पागम. ।

२१ १५, -डे आपश्चौ ११,
१७, १०, १२, २, १२, बौश्रौ
१,२नीत-, नीति- प्रसू ✓नी द्र.
१नीप^० - (>नैप-पा) पाउ ३, २३,
पाग ४, ३, १५२^०
२नीप^० - >नीप्य- -प्याय शुप्रा ५,
३०^०.
नीपातिथि^० -थि ऋअ २, ८, ३४,
साअ १, ३४८
नीयन्तम्, नीयमान- ✓नी द्र.
नीर- पाउ २, १३, -रम् अप ४८,
७५^०, ८९^०, निघ १, १२^०,
या १४, ११
नी (<निर>रजस्- <क>) का^१-
-का बौध २, २, ६३
नी (<नि>)/राज् > नी-राजन^०-
-नम् अप १७, १, ४, ८, १८^२, ८,
१, १२, २, १६, १, -ने कप्र ३,
७, ८; अप २४, १, २
नी-राजयित्वा अप १८, ३, ९
✓नील् पाथा भ्वा. पर वर्णे
१नील, ला^० - पा ४, १, ४२, पावा ४,
२, २, पाग ३, १, १२^०, १३, ४,
३, १५२^०, -ल अप २४, ३, ४,
-लम् बौश्रौ १४, १ १०, १२^०,
आपगृ, शंघ ११६ ८^१, बौध २,
५, २५^०, -ला अप २१, ६, २,
-ला: अप ४३, ५, ६०^०, याशि
२, १, उनिस् ८ ७, -लान् विघ
५०, २५, -लानि बौश्रौ २६, ५
३१, -लाम् जैगृ २, ९: ३४,
-लाय आमिगृ २, ६, ८: ३४^०,

-लेन अय १५, १, -†लेषु
आपश्चौ १७, ५, ३, वैश्रौ १९, ५.
१८, हिश्रौ १२, २, १७, -ले.
अप ७०^०, ७, १७, ७१, ११, ५
नीली- पा ४, १, ४२, -ली
कौसू १२६, ५
नीली-काष्ठ-क्षत- -तः
शंघ ४१२
नीली-रक्त- -क्तम् विघ
६६, ३
नैल- पा ४, ३, १५२.
नील-श्रीव^० -वाय बौगृ २, ५,
३३, गौध २६, १२
नील-नख^० -खेभ्यः अप ४६, ९,
४, अय १९, २२
नील-पङ्कज-पत्रा (त्र-अक्ष >)
क्षी- -क्षीम् विघ १, २२
नील-पर्वत- -ते विघ ८५, १३
नील-बन्धन- -न हिगृ २, ७, २^१
नील-भौम^० -मम् शंघ ११६ ३
नील-म(त्त >)क्षा^१ -क्षा कौसू
११७, १.
नीलमक्षा(क्षा-अ)नाचार- -रे
कौसू ९३, २४
नील-मक्षिका- -का बौश्रौ २७, ९ १
नील-रश्मि-प्ररोहत्- -हन्त. अप
६५, १, ११.
नील-रुद्र^० -द्रैः अप १९^२, ३, ५
नील-लोहित^० -†०त् शुप्रा २,
२०, -त् अप्राय २, ३^२; अप
४८, ११६, -†त्म् कौगृ १, ८,
८, शागृ १, १२, ८, कागृ ३१, ४,

-ताभ्याम् बौश्रौ ५, १७ ४;
२१, ६: ४, वैश्रौ, -ते बौश्रौ
५, १६ ४^०, आपमं १, ६, ८^०,
आमिगृ ३, ६, ३: ४, बौगृ १, ५,
१०^०, बौपि १, ११ ४, कौसू
८३, ४, -तेन कागृ ३१, ४, वागृ
१६, ११, कौसू १६, २०
नीललोहित-पर्यक्त- -क्ता अप
५७, १, ७.
नीललोहित-पर्यन्त^० -न्त अप
५३, ५, ३, -न्तम् अप ६१, १,
१४
नील-लोहित-पीतक- -का: अप
६४, ३, १०
नील-व(र्ण >)र्णा, र्णी^० -र्णायाः
अप ३८, १, ५, -र्ण्या आमिगृ
२, ७, ७ ६
नील-वृष- -वेष शंघ ३३३
नीलवृष-वत्स-प्रभव- -व शंघ
३३३
नील-शिखण्ड^० -०ण्ड हिगृ १,
१५, ६, -ण्डेन अय ११, २^०.
नीला(ल-अ)ङ्ग^० - >ङ्ग-लोहितत-
ल- -लौ अप ६४, ६, ५
नीला(ल-अ)ञ्ज-ने(त्र >)त्रा-
-०त्रे विघ ९९, ३
✓नीलाय पा ३, १, १३
नीलो(ल-उ)त्पल- >ल-दल-प्र-
(भा >)भ- -भै अप ६४, १,
१०
नीलोत्पल-निभ- -भः अप २१,
७, ३

a) अर्थ व्यु. च^१।

b) नीच- टि द्र।

c) वैप १ द्र.।

d) = उदक-।

e) = गृह-। f) विप.। बस.।

g) = आरात्रिक-।

h) तु. पागम।

i) = महापर्वता-

-ऽन्यतम-। j) व्यप.। k) = यम-। l) सपा आपमं २, १६, १ पागृ १, १६, २४ बालबन्धनः इति पाभे.।

m) = पाताल-विशेष-। बस.। n) उप. = मक्षिका-। o) = मन्त्र-विशेष-। p) वैप १, १८५० m द्र.।

q) पाभे. वैप १, १८५० ० द्र.। r) = शिव-। बस.। s) पाभे वैप १, १८५० v द्र.। t) विप.। बस.

>कस.।

नीलोत्पल-यु(त>)ता- न्ता
विघ १, २७
नीलो(ल-उ)पकाश^{अ०} -वाः
आपश्रौ ६, ९, ११
२नील^०- पाग ४, १, १५४, -ला
बौश्रौप्र ४८०८, १३
नैलायनि- पा ४, १, १५४.
नीला(ल-आ)त्रेय- -याः बौश्रौप्र
२७ : ६
नीलङ्गु^०- पाउ १, ३६.
नीलागलसाला^०- ला अप ४८,
११६, अप्रा ३, ४, ७
नीव पावा भ्वा पर स्थौल्ये.
नीवर- पाउ ३, १.
नीवार- नि^०वृ (भोजने) द्र
नीवि, वी^०- पाउ ४, १३६, -नंविः
काश्रौ ७, ३, २३, आपश्रौ १०,
६, ६, भाश्रौ १०, ४, ४, हिश्रौ
१०, १, ३९, शुअ १, २५०;
-विम् काश्रौ ४, १, १५, ७, २,
१७, ३, २३, आपश्रौ १०, ६, ६,
हिश्रौ १०, १, ३९, -वी हिश्रौ
९, ४, २८, -वीम् काश्रौ ५, ९,
२०; भाश्रौ १०, ४, ४, माश्रौ
नीवि-देश- शै बौश्रौ ३, २७ :
२९
नीवी-हस्त^०- -स्तेन अप १, २८, ४.
नी-वृत्- नि^०वृत् द्र
नी-हार- , ^०नीहाराय नि^०ह द्र
नीनु, >नू^० आश्रौ ३, ७, १२, ८, १^०xx;
६, ४, १०^०, शाश्रौ, आपश्रौ ५,
६, ३^०; बौश्रौ १०, ११ : ९^०,
१७, हिश्रौ १२, ८, ७, आपश्रु
१२, ६^०, हिश्रु ४, २८^०
नुनुदे बौश्रौ १८, ३१-१५^०.
नुधेरन् बौश्रौ २३, ७ : ४
नुत्त^०- पा ८, २, ५६, -चानाम्
अप्रा २, ३, १६^०
नुदत्- -दन् वैताश्रौ १४, १^०
नुदनु- पाउना ३, ५१
नीनुदमान- -ने आपश्रौ ४, ६, ५;
भाश्रौ ४, ९, ३, वैश्रौ ५, ७ : ५;
हिश्रौ ६, २, १६
नुन्न- पा ८, २, ५६.
नोद्यमान- -न सु ८, ४
नुलु^०- लु अप ४८, ११६
नीनु ^०नु द्र
नीनु^० आपश्रौ ४, ४, ४^०, भाश्रौ ४,
५, ५, हिश्रौ ६, १, ५१.
नीनूतन^०- पावा ५, ४, २५\$, -नम्
अप ४८, ६९, निघ ३, २८,
अप्रा ३, ४, १, -ना आमिष्ट
३, ४, १-१५, बौपि १, ४.
१०; १५ : ४, -नेन आश्रौ ३,
८, १, ५, १७, ३, बौश्रौ १३,
२२ : ४, अप्राय ६, १, -नैः
या ७, १६^०
नूल^०- पावा ५, ४, २५, -नम् अप
४८, ६९, निघ ३, २८
नीनूनम्^० आश्रौ २, ९, ४xx, शाश्रौ;
या १, ५, ६, ११, ३६, नूनाइम्
बौश्रौ १८, ४५ : २२
नूपुर^०- पाउभो २, ३, ५२, पाग २,
४, ३१^०

वैघ ४, ८, ७^०, या १, ४^०,
४, २, १७^०, १०, ३^०, पा ६,
३, १३३, पाग १, ४, ५७
नुकम्^० निघ ३, १२^०, पाग १, ४,
५७
नीनु, नू पाधा अदा तुदा पर.
स्तवने, नवते निघ २, १४;
नवन्ते ऋअ २, ९, १००, साअ
१, ५५०, ऋप्रा ७, ४३
नौति अप ४८, ९, निघ ३, १४
अनूर्धत आश्रौ ६, १, २, ८, ३, ३४,
शाश्रौ १२, १२, ६, वैताश्रौ २५,
९, कौसू ४७, १६, अप ३७, १,
९, ऋअ २, ३, ३०, १०, ४३,
साअ १, ३७५, या ४, १९^०,
शुप्रा ४, ७८.
नोनुमः आश्रौ ५, १५, २, ६,
५, १८, आपश्रौ
नवन^०- नम् या ४, १६
नु^०- लु शुप्रा ३, १३३xx
नीनु^० पाधा तुदा उम प्रेरणे, नुदते
बौश्रौ २३, ७ ३, नुदति या ५,
२६, नुदन्ति सु ८, १, नुदतु
कौसू १३५, ९^०, नुदताव बौश्रौ
२, ९ : ४^०; नुदन्तु कौसू १३५,
९^०, नीनुदस्व वैताश्रौ ४, ५,
माग १, १३, १५, २, १, ७,
अप्राय २, ५, नीनुद, >दा अप
४२, १, ८, शुप्रा ३, १०७, तैप्रा
३, ८, नुदत माग २, १७, १^०,
अनुदत् वृदे ४, २३, नुदेत् ऋप्रा
११, ४३, नुदेय बौश्रौ १७, २८

१७, हिश्रौ १२, ८, ७, आपश्रु
१२, ६^०, हिश्रु ४, २८^०
नुनुदे बौश्रौ १८, ३१-१५^०.
नुधेरन् बौश्रौ २३, ७ : ४
नुत्त^०- पा ८, २, ५६, -चानाम्
अप्रा २, ३, १६^०
नुदत्- -दन् वैताश्रौ १४, १^०
नुदनु- पाउना ३, ५१
नीनुदमान- -ने आपश्रौ ४, ६, ५;
भाश्रौ ४, ९, ३, वैश्रौ ५, ७ : ५;
हिश्रौ ६, २, १६
नुन्न- पा ८, २, ५६.
नोद्यमान- -न सु ८, ४
नुलु^०- लु अप ४८, ११६
नीनु ^०नु द्र
नीनु^० आपश्रौ ४, ४, ४^०, भाश्रौ ४,
५, ५, हिश्रौ ६, १, ५१.
नीनूतन^०- पावा ५, ४, २५\$, -नम्
अप ४८, ६९, निघ ३, २८,
अप्रा ३, ४, १, -ना आमिष्ट
३, ४, १-१५, बौपि १, ४.
१०; १५ : ४, -नेन आश्रौ ३,
८, १, ५, १७, ३, बौश्रौ १३,
२२ : ४, अप्राय ६, १, -नैः
या ७, १६^०
नूल^०- पावा ५, ४, २५, -नम् अप
४८, ६९, निघ ३, २८
नीनूनम्^० आश्रौ २, ९, ४xx, शाश्रौ;
या १, ५, ६, ११, ३६, नूनाइम्
बौश्रौ १८, ४५ : २२
नूपुर^०- पाउभो २, ३, ५२, पाग २,
४, ३१^०

a) विप । बस । b) उप. = प्रकाश- । c) = ऋषि-विशेष- । व्यु १ । d) वैप १ द्र । e) अनु
इति पाठः ? यनि शोधः (तु ऋ ८, ९५, ७) । f) पामे. वैप १ परि. अनु ऋ ३, १७, १ टि. द्र । g) अनु इति
पाठ ? यनि शोधः (तु मा २७, २४) । h) अनु इति पाठ ? यनि. शोधः (तु छाउ ४, ४, ४) । i) पामे.
वैप १ परि. अमिष्टवः ऋ १, १३४, २ टि. द्र । j) = स्तोत्र- । करणे ल्युट् प्र । k) = न- (वर्ण-विशेष-) ।
व्यु. १ । l) अर्थ व्यु. व १ । m) पामे. पृ १४४५ C द्र । n) नूर इति पाठ ? यनि. शोधः (तु ०, भाश्रौ-
प्रसू. च) । o) = पाद-भूषण- । व्यु. १ । p) तु. पागम. ।

नूते^a हिय २,९,१०.

नृ^b- पाठ २,१००, पा ६, १, १८४, ४,६, पागवा ४,१,७३, फंनर आश्रौ २, १३, ७^३xx, शाश्रौ, माश्रौ ५, २, ८, २०^०, या १, १०, ५, १०, ९, १९, १०, ३०, फंनर आश्रौ ८, ३, ३०^d, शाश्रौ ६, १०, ८, १२, २४, २^d, १६, ११, ९, काश्रौ १०, ५, ४^e, आपश्रौ ११, ५, १^f, माश्रौ १, २, ४, १९^f, वाश्रौ १, ३, २, १^f, लाश्रौ, नरम् आश्रौ ७, ४, ३^g, शाश्रौ १८, ५, ९^g, वैताश्रौ^h ४०, १४, ४१, १, ४२, ५, ऋप्रा ७, ४३, फंनरा आश्रौ ४, १५, २, शाश्रौ ६, ६, ६, ७, १०, १०, फंनरा आश्रौ ७, ९, २, शाश्रौ, या ५, २४, नरे आपश्रौ १४, २९, २ⁱ, फंनरौ अप्राय ६, ९, नृणाम् फंआश्रौ ८, ६, १२, ९, ५, ५, शाश्रौ; या ६, १^j, फंनृभिः आश्रौ ६, १२, ११; शाश्रौ, या ५, ६, नृभ्य या ११, ३६, पावा ७, ३, १०९, नृषु वृदे ७, ६०, नृणाम् अप ३१, १०, ५; ७०, २, २, शघ, नृन शाश्रौ १४, ४३, १^k, वैध ३, ११, ७, या ११, ९^l; ऋप्रा ४, ७१^m,

७८^३kl, ७९^{kl}xx, पा ८, ३, १०.

२नारि,री^b- पावा ४, १, ७३, ४, ४९, -फंरि शाश्रौ १६, १३, १३, वैताश्रौ, आपमं १, १३, २^m, -फंरिषु बौश्रौ १३, १३ ५, काय ७३, २, या ११, ३८, -री शाश्रौ १२, २४, २ⁿ, लाश्रौ ९, १०, ६ⁿ, आपमं, -फंरीः शाश्रौ ४, १६, ६, आय ४, ६, १२, कौय, -रीणाम् अप ६४, ८, ७, ७१, १८, १, शघ, -रीम् आमिग २, ७, ६ : ४, १०, जैय, -रीषु विध ९९, २१, -र्य सु ४, २, अप ७०^३, १०, २, ७०^३, ११, ३१, -र्याः शंघ ३००, -फंर्याम्ⁿ आपमं १, १२, ६, माय २, १८, ४, -र्यै आपमं १, ८, १

नारी-निबन्धन^o- न याशि २, १०२, नाशि २, ८, २४.

नारी-मध्य- ध्ये विध ७०, १५

नारी-सुख-प्रसव^p- वाय अत्र १, ११

नरा(र-आ)दि^q- दि वैश्रौ २१, ३ : ४

नृ-चक्ष^r- पाठ ४, २३३, -०क्ष वाश्रौ १, ६, ५, १०, -फंक्षसः

शाश्रौ ९, २८, १०, काय ४० : ८; -फंक्षसम् शाश्रौ ७, ४, ४; आपश्रौ, -क्षसा हिपि १८ : ८ⁿ, -फंक्षसाम् काश्रौ १७, १०, १३, बौश्रौ १०, ४२ १०; माश्रौ ६, २, १, २४, -फंक्षाः आश्रौ ५, १९, ४, शाश्रौ ७, ४, ४^r, जैश्रौ, माशि ११, ३^r.
नृ-जित^s- जितम् शाश्रौ १४, ४३, १

नृजित-प्रभृति- तिभ्य शाश्रौ १५, १०, ६.

फंनृ-ज्यायम्^t माश्रौ ५, १, ५, ६७. फंनृ-तम- म शाश्रौ १८, १५, ५; -मम् आश्रौ ८, ६, १२, शाश्रौ १४, ३, ७, १८, १९, ७

नृ-नम^u- नृ-नमन- पाग ८, ४, ३९

नृ-प,पा^v- -०प वृदे ३, १४६, -प अप २, १, ५xx; विध; अत्र २०, ६३^l, -पम् अप ७, १, १३xx, वृदे, -पस्य कप्र १, ६, ५, अप; -पाणाम् अप ७, १, १३, ७०^३, १०, ४, -पाथ अप २४, ५, ५, -पायाम्^w वैध ३, १४, १, १५, ६, ८, ९, -पै शाश्रौ १६, ९, १०^x, अप ६९, ८, २xx, -पेण अप २, ४, २; ५, ५, १, -पौ वृदे ५, १२७.

a) पाठ^१ तृत्तम् (तु. भाष्यम्) इति संस्कर्तुं टि^१ । b) वैप १ द्र. । c) वैतु भा. सा.

(तैत्रा ३, ६, २, ३) नर->-रः इति । d) वैप १, १०८८ d द्र । e) पाभे वैप १, १६०६ g द्र. । f) पाभे. वैप २, ३३खं नृग. तैत्रा ३, ७, ७, १३ टि. द्र । g) पाभे वैप १, १८५६ g द्र । h) पाभे. वैप १, १८५६ f द्र । i) पाभे वैप १, १८५७ g द्र. । j) नृत् इति पाठ^१ यनि. श्लोघः (तु B.N.) । k) वैप १, १८५९ b द्र । l) सकृत् पाभे वैप १, १८५९ c द्र । m) पाभे वैप १, १३४५ k द्र. । n) पाभे. वैप १, १८५९ h द्र. । o) विप. । बस. । p) षस.>तृस. । q) पूष =<नृ>नृर (ऋ ७, १, १) इति । r) पाभे. वैप १ सुचक्षाः तै ३, २, ५, १ टि. द्र । s) उत्तरेण संधिरार्ष. । सप्र. याशि २, ९४ सक्शा इति पाभे. । t) =ऋतु-विशेष- । उस. उप. करणे प्र. । u) [पक्षे] पागम । v) नाप । व्यु. ? । कर्तारि <√नृप् (तु. वैप १, १८६०. 1) इति मतम् । w) =क्षत्रिया- । x) पाभे वैप २, ३३खं राष्मि माश १३, ५, ४, १८ टि. द्र. ।

नृप-क्षय^३- -ये वृदे ५, १९
 नृप-दर्शन- -नम् आज्यो ८, २
 नृप-प्रासाद-संनिधि- -धौ अप
 ६४, ६, ९
 नृप-प्रेष्य^३- -ज्ये अप ७०^३, १०,
 ६
 नृप-राष्ट्र- ष्ट्राय अप ७, १, ९
 नृप(प-ऋ)र्षि-कुल- (ज>)
 जा^३- -जा वृदे ५, ५७
 नृप-शता(त-अ)धिपता- -ताम्
 अप २४, ६, १
 नृप-स्त्री- -स्त्रियाम् अप ७०^३,
 १०, ६
 नृपा(प-२आ)द्य^३- -द्यानाम् अप
 ६३, २, ४
 नृपा(प-अ)ध्यक्ष- -क्षाः अप
 ६८, २, २०
 नृपा(प-अ)भिवेक- -कम् आज्यो
 ८, २
 नृपा(प-अ)लय- -यम् अप
 ७०^३, २३, ८
 नृपति^३- -ति अप ३, २, ५, १९,
 १, १३××, वृदे ७, ५९, ८, १,
 -तिम् बौश्रौ १३, ५ १४, कौट
 ५, ३, ३१, आमिष्ट ३, ६, १
 २९, बौपि १, ९ ६, -तिषु
 अप ५१, ५, १, -ती वृदे ५, ६२,
 -फं०ते^३ या ६, १, शुप्रा २, १९,
 -ते अप २४, ३, ५××, विध ३,
 ९७, वृदे ५, ३२, -तौ अप ६४,
 १०, ६
 नृपति-गण- -गः अप ५१, ४,

३
 नृपति-प्रयाण- -णम् आज्यो
 ८, २.
 नृपति-भय-कर- -रा अप
 ७०^३, ११, २९
 नृपति-वध- -धे विध ५०, ११
 नृ-पाण^३- -ण आपश्रौ १६,
 १४, ५, वाश्रौ २, १, ५, २०,
 वैश्रौ १८, १२ १३, -णम् या
 ५, २६फं
 नृ-पाय^३- -यम् शुप्रा ४, १५३फं
 नृ-मणस^३- -फं०ण द्राश्रौ २, ४, १,
 लाश्रौ १, ८, १, -फं०णसि^३ जैश्रौ
 १४, १७, जैश्रौका १४१, -फं०णः
 बौश्रौ १५, ७ १४, वैताश्रौ
 नृ-मत्^३-> नार्मत- -ते पावा ८,
 २, ९
 नृ-मादन^३- -नम् निसू ८, १ : १९
 नृ-मेघ^३- -घ ऋअ २, ८, ९८××,
 शुअ, अअ २०, ६२, ६४^३, १००,
 १०४^३.
 नार्मेघ^३- -घ ऋअ २, १०,
 १३२, -घम् शाश्रौ ९, ४, १,
 लाश्रौ ८, १, १४, १०, ११,
 छूसू, -घस्य लाश्रौ ६, १२, ३,
 १०, १०, १३, -घात् छूसू १, ५,
 २७, निसू ४, १० ९
 नार्मेघ-सदृश- -शम् निसू
 ६, ४ : ३
 नार्मेघ-स्तोत्रीया- -ये
 निसू २, ११ : २६.
 फं०नार्मेघा(घ-अ)न्त- -न्ते

द्राश्रौ १, ४, १८, लाश्रौ १, ४,
 १४
 नृमेघ-पुरुमेघ- -धयोः शुअ २,
 ४२७, -धौ ऋअ २, ८, ८९;
 साअ १, २४८××
 नृ-मेघस^३- -घस चाअ ४१ २०.
 नृ-यज्ञ^३- -ज्ञः कप्र २, ३, ३, विध
 ५९, २५
 नृ-लोक- -के विध २०, ४०
 नृ-वत्^३ आश्रौ ६, ७, ६, ८, ७, २२;
 शाश्रौ.
 नृ-वत्- वत् बौश्रौ १८, ६ . १३;
 -वन्त. आपमं १, १४, ३.
 नृवती- -ती आपश्रौ २४,
 १३, ३फं
 नृवत् सखि^३- -खा बौश्रौ ३, २२:
 १४फं
 नृ-वर^३- पाग २, २, ३१.
 नृ-वराह^३- पाग २, १, ६२
 नृ-वाहण^३- -णम् काश्रौ १२, ३,
 १४^३, आपश्रौ.
 नृ-वाहस^३- -हसा बौश्रौ १५, २४ :
 ५फं
 नृ-शंस^३- -सम् अप २, ६, २, -सस्व
 शघ ४३४, -साः काश्रौ २२,
 ४, ४.
 नृशंस-तम- -म. काश्रौ २२,
 ४, ७
 नृ-षट्^३- पाग ३, १, १२; -षत् या
 १४, ३१फं, -फं०षदम् आपश्रौ
 १८, २, १; बौश्रौ ११, ३ . १०;
 वैश्रौ १७, ९ : ४, हिश्रौ १३, १,

a) उप <√क्षि (निवासे) । b) उप =मृत्य- । c) विप । कस >षस >उस । d) विप ।
 बस । e) वैप १ द्र । f) पासे वैप १, १८६० ज द्र । g) पाठः ? नृमणाः असि इति द्विपदः शोधः संभाव्यते
 (तु सपा मा २२, १९) । h) व्यप । i) ष्वा इति पाठ ? यनि. शोध । j) ष्वौ इति पाठ ? यनि. शोधः ।
 k) व्यप (ऋअ), स्तोत्र-विशेष- (शाश्रौ), सप्त-विशेष- (अन्यत्र) । l) =ऋषि विशेष- । व्यु ? । m) =महायज्ञ-
 भेद- । n) तु पागम । o) नृवाहरणम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ २, ३७, ५) । p) वैप
 १, १८६२ ज द्र ।
 वैप४-३-८७

१६, -कषदे काश्रौ १८, ३, ५,
 आपश्रौ
 वृनाषद^३ - द. ऋप्रा ५, ३०,
 -देन शौच ४, ८३.
 ✓वृषाय पा ३, १, १२
 वृषद^३ - ह्ये ऋप्रा ९, ४३, ४४
 वृषा^३ - वा अप्राय ६, ३१
 वृषासहि - हि माश्रौ १, ६, २,
 १७१.
 वृषाह^३ - षाहम् ऋप्रा ९, ४७१
 वृषाह^३ - ह्ये ऋप्रा ९, ३०१
 वृषूत^३ - तः ऋप्रा ७, २३१.
 वृचक्षस्- प्रमृ वृ- द्र.
 ✓वृत्^३ पाषा दिवा पर गात्रविक्षेपे,
 नर्तति अप ६८, ४, २
 नृत्यति वावृश्रौ ३, ४९ : ५१,
 नृत्यन्ति कौसू १०५, १, अपं ३
 ५५१, या ५, १.
 नर्त^३ - पा, पाग ३, १, १३४
 नर्त- [८, ति^३] (> नार्तिक- पा)
 पाग ५, १, ६४^३
 नर्तक- पावा ३, १, १४५, -क वैध
 ३, १२, १०
 नर्तकी- कय आमिष्ट ३, ८, १
 २१, बौपि १, १४ : १९.
 नर्तन- पाग ८, ४, ३९, -नम् काण
 ३, १७; २२, १, अप ६४, ४,
 १०, ६८, ५, १३
 वृत्ति^३ - तथे आमिष्ट ३, ७, १
 २०, बौपि १, १७ : १८.
 वृत्त^३ - ०तो निसू १, ७ : १६^३,
 ऋप्रा २, ४२, ऋत ३, २, ८

वृत्- पाठ १, ९१
 वृत्-> वृत्त-गीत-वादित्र- त्राणि
 हिपि १४ : १५, आपध २, २५,
 १४
 वृत्तगीतवादित्र-वत्- वत्
 काश्रौ २१, ३, ११
 वृत्त-गीत-वादित्र-गन्ध-मालयो-
 (ल्य-उ)पानच्-छत्रधारणा(ण-अ)
 जना(न-अ)भ्यजन-वर्जिन्-
 -र्जी बौध १, २, २५
 वृत्त-गीत-वादित्र-रुदित-साम-
 शब्द- -व्देषु बौध १, ११, २३
 वृत्त-गीत-वाद्या(द्य-आ)दि-
 -दीनि आमिष्ट २, ४, ३ १८
 वृत्य- > वृत्य-गीत- -ते वाण ६,
 २३, विध ७१, ७०
 वृत्यगीत-शील- -लेभ्यः
 विध ९३, १४
 वृत्य-गीत-कथा-शील- -ला.
 अप ६८, १, ४१
 वृत्य-गीत-वादित- -तानि
 आश्रौ १२, ८, १८
 वृत्य-गीत-वादित्र- त्राणि पाण
 २, ७, ३, आपध २, २५, १४,
 हिघ २, ५, १९४
 वृत्य-वादित्र-गीत- -तानि अप
 ६४, ६, २.
 वृत्यत्- -स्यस्य कौसू ९३, १३,
 -स्यद्भि अप ६८, २, ४२
 वृत्तम-, वृत्त-प्रमृ. वृ- द्र
 वृत्तमि^३ - गि^३ पाण १, १६, २३^३
 वृत्तमादन- वृ- द्र

वृत्तम^३ - ऋणः आपश्रौ १३, १६, ८;
 हिश्रौ १०, ५, १२, -ग्गम्
 शाश्रौ १०, १४, ६, माश्रौ, या
 ११, ९६, -ग्गस्य आपश्रौ १३,
 १६, ८, हिश्रौ १०, ५, १२, या
 १०, १०६, -ग्गा उस् ३, ५
 वृत्त-प्रमृ वृ- द्र
 ✓वृत्^३ पाषा भ्वा कया. पर नये.
 नेक^३ - क. साश्र १, २०१
 वृत्तक्षण^३ - गेन कौसू २, ११, ८७,
 १२
 नेग^३ - नोभ्य साश्र १, १
 नैगि - गि ऋन ४, ३, २, -गिना
 ऋत २, ६, ९
 नैगि^३ - या. चव्यू ३ ८.
 वृत्तजमेष^३ - ०ष आपमं १, १२, ७,
 आण, वृदे ८, ८३^३, -षः वृदे
 ३, ५९^३, -षाच बौण २, ६, १८
 नैजमेष^३ - षम् माण २, १८, ४.
 नेतव्य-, नेतृ-, नेतोस्, नेत्र- प्रमृ.
 ✓नी द्र
 नेत्व- पाउना ४, ११६
 नेदि^३ आश्रौ ३, ३, १, आमिष्ट ३,
 ५, ७ २५, या १, ११, शुप्रा
 ६, १७, भासू २, ६; पाग १,
 ४, ५७^३
 ✓नेद^३ पाषा भ्वा उभ कुत्सासनि-
 कर्षयो, नेदति निघ २, १४१^३.
 नेद^३ -> नेदिष्ठ- पा ५, ३, ६३, -ष्ट^३
 शाश्रौ १५, २२, ११, आपमं १,
 ४, १५१, आमिष्ट १, ५, ४
 १०, अप्राय ४, ११, -ष्टम्

a) वैप १ द्र । b) पा १, ३, ८९, ७, २, ५७ पागवा ८, ४, ३९ परामृष्ट द्र । c) मेघ-, नर्त- इति
 भाण्डा पासि, मेधानर्त- इति पाका । d) पासि. पाठ । e) वर्त- इति पाका । f) त्त इति पाठ ?
 यनि. श्लोचः [तु ऋ २, २२, ४] । g) = बालप्रह-विशेष-। व्यु ? । h) पामे पृ १००८८ द्र । १) पा ७, ३,
 ८० परामृष्ट द्र । j) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । k) < ✓निज् इति संस्कृट् टि । l) = शाखा-, तदव्यायिन्-
 क्क । तेन प्रोक्तमघोषत इत्यर्थे ऋक् > एभ्यः प्र. उरसं. (पा ४, ३, १०१) । m) = ऋषि-विशेष- । n) विप. १
 द्रस्येदनीयः अस् प्र. । o) परिभये इति या १, १० । p) गतो वृत्तिः ।

काश्रौ २५, १३, २७, वाध्रौ
४, १०८ १३, वैताश्रौ ३७,
१६, कौस् १२७, ५१, -घाः
कौयु ५, २, ९, -छे निस् ६, ३.
१०.
नेदिष्टिन्^१- -छिन् आश्रौ ६,
१०, २५, -छिनौ निस् ५, ८.
५, -घी काश्रौ २५, १४, १,
आपश्रौ

नेदीयस्- पा ५, ३, ६३, -फ्य^२
आश्रौ ५, १४, ५, शाश्रौ ७,
१९, १०, बौश्रौ १५, १३ १३,
वाध्रौ ३, ४० ९, या ५,
२८०, -यसि आपश्रौ ५,
४, ५, बौश्रौ, -यसि निस् ८, ४:
५, -यान् बौश्रौ २०, ३ २९
नेदीयसी- सी निस् ४, ७
५, -स्या निस् ११, ११.
११

^१नेद्य वाध्रौ ४, ७५ : ३

नेनीयाम्-, नेन्य- ✓नी द्र

नेप- पाठ ३, २३.

नेपाल^३- >नेपाल-कामरूप- -यस्
अप ५६, १, १०

१नेम^४- पाठ १, १४०; पाग १, १,
२७, -म अप ४८, ११९, निघ
३, २९१, या ३, २०^५, -मे
या ३, २०^३फ

नेम-स्पृष्ट^६- -घाः पाशि २३

२नेम^५-> ✓नेम>३नेम^५- म.
ऋअ २, ८, १००, बृदे ६, ११७,

११८

१नेमतिथीवन्^१- -वान. शाश्रौ ८,
२१, ११^०

नेम धित- पा ७, ४, ४५

१नेम-धिति^२- -ता आश्रौ ३, ७, ११,
निघ २, १७, -तिः अप ४८,
१०५

१नेम^३- -म अप ४८, ८८, निघ २, ७

नेमि^४- पाठ ४, ४३, पावा ३, २,
१७१^३, -मि आश्रौ १, ३, ६१,
शाश्रौ, अप ४८, १०४^५,
निघ २, २०^५, -मिस् बौश्रौ
१७, २९ : ६, बौश्रु, -म्यास्
बौश्रु १६ २०

नेमि-नाभि- -म्योः बौश्रु १६ १४

१नेष् पाधा भ्वा उभ गतौ

१नेष्टाविद्धं कृतानि^५ लाश्रौ ४, ९, १३

१नेष्टाविद्धम्^५ बौश्रौ १७, ४४ ५

१नेष्टावृद्धिम्^५ बौयु १, २, ३६

नेष्टृ-, नेष्ट- प्रमृ ✓नी द्र

नैकटिक-, °कट्य- १निकट- द्र

नैकती^६- (नैकत- पा) पाग ४, २,
११०^१.

नैकरि- -रिः बौश्रौ १०, ३

नैकी- (>नैक-) नैकती- टि द्र

नैकृतिक- नि✓कृ द्र.

नैकेती- (>नैकेत- पा) नैकती-
टि द्र.

नैगम-, °मी नि✓गच्छ द्र

नैगि-, नैगेय- नेग- द्र

नैघण्टुक- निघण्टु- द्र

नैघात्य- नि✓हृत् द्र.

१नैच-, २नै(च)चा- नीच- द्र.

नैजमेष- नेजमेष- द्र.

नैतकी- (>नैतक- पा.) नैकती- टि. द्र.

नैतन्धव^७- -वा लाश्रौ १०, १८, १३;
-वे शाश्रौ १३, २९, २८, काश्रौ
२४, ६, ३१, आपश्रौ २३, १३,
१२, हिश्रौ १८, ४, ४८.

नैतिरक्षि^८- -क्षय बौश्रौ २४ : १.

नैतुन्दि- -न्दयः बौश्रौ १७. १६

नैतुन्धि^८- -न्धाः बौश्रौ २० : २.

नैतोश- नि✓तुश द्र.

नैत्य-, °त्यक- नित्य- द्र

नैदाघ-, °धी- नि✓दह द्र.

नैदान- नि✓दो द्र

नैधन- नि✓धन् द्र.

नैधवन- निधवन- द्र.

नैधान-, °न्य- नि✓धा > नि-धान- द्र.

नैधिकी- (>नैधिक-पा) नैकती-
टि. द्र.

नैधुव-, °वि- निधुव- द्र

नैप- १नीप- द्र

नैपातिक-, °व्य- नि✓पत्
> नि-पात- द्र.

नैपुण-, °ण्य- ✓निपुण- द्र.

नैबद्धक- १निबद्ध- द्र.

नैमग्नक- १निमग्न- द्र

नैमार्जन- नि✓मृज् द्र.

नैमित्त-, °त्तक- निमित्त- द्र.

नैमिशायन-, °शि- निमिश- द्र.

नैमिश्रायण-, °श्रि- निमिश्र- द्र.

a) वैप १ द्र । b) = देश-विशेष- । व्यु. ? । c) (सत्ताम्) आभ्यन्तर-प्रयत्न- । d) वावि.

<नेमधि-त्तीवन्- (वैप १ द्र.) । e) पाभे. वैप १, १८६६ i द्र । f) = अन्न- । व्यु. ? < ✓नी

इति दे । g) = वज्र- । h) पाठः ? निष् टे (< ते) आविद्धं कृतानि इति शोध. । १) पाठ ?

निष् टे (< ते) आविद्धम् इति शोध. (तु सपा द्राश्रौ १२, १, १९) । j) पाठः (सूत्रे. °विद्धिम्) ? शोधः

१ द्र. । k) अर्थ. व्यु च ? । = ग्राम-विशेष- इति PW प्रमृ. । l) नैकेती-, नैतकी-, नैधिकी

इति पाका., नैकी- इति वामनः (तु. पागम.) । m) = L सरस्वती-तीरवर्तिन्- । स्थान-विशेष- । व्यु. ? ।

n) = ऋषि-विशेष- । व्यु. ? ।

नैमिष^a- षम् अप ४२, २, ४, शंघ
११६:१३, -षे शंघ १९४
नैमिषा(ष-अ)रण्य- ण्ये विघ ८५,
२८
नैमिषीय^b-> 'याणाम्(अयन-)
आपश्रौ २३, ११, १०, हिश्रौ
१८, ४, १४
नैमिषायण-, षि- २निमिष- द्र
नैयप्रोध- न्यप्रोध- द्र
नैयमिक- नि✓यच्छ् > नि-यम- द्र
नैयाय-, नैयाधिक- नी(नि✓इ) द्र
नैयासिक- न्य(नि✓अ)स्(क्षेपणे) द्र.
नैय्यप्रोध- न्यप्रोध- द्र
नैरथि- थय- बौश्रौप्र ५: १
नैरुक्त-, ष्कि- निर✓वच् द्र
नैरुक्त-त-, ष्ती-, ष्य- निर✓ऋ द्र
नैर्बाध्य- निर✓बाध् द्र
नैर्हस्त्य- निर्हस्त- द्र
नैल- १नील- द्र
नैलायनि- २नील- द्र
नैव- (> षीय-) नैवाकव- टि द्र.
नैवकायन-, ष्कि- निवक- द्र
नैवतायन-, ष्ति- निवत- द्र.
नैवाकव^c- (> षीय- पा.) पाग
४, २, ९०
नैवाकवि- निवाकु- द्र
नैवातायन- २निवात द्र
नैवार- नि✓वृ(भोजने) द्र.
नैवासिक- नि✓वस्(निवासे) द्र.
नैवेद्य- नि✓विद्(ज्ञाने) द्र
नैवेश- २निवेश द्र.
नैद्य- षि- निव- द्र
नैश-, नैशिक- निशा- द्र

नैशन्य- निश्न- द्र
नैष- तिष्य- > तैष- टि द्र
नैषध- २निषध- द्र
नैषाद्- प्रभृ निषाद्- द्र
नैष्कर्तक- निष्✓कृ द्र
नैष्कशतिक-, षहस्रिक-, नैष्किक-
निष्क- द्र
नैष्कुल्य- निष्-कुल- द्र.
नैष्कमण- निष्✓कम् द्र.
नैष्ठययन^d- नानि बौश्रौ १७, ४५.
५, -नै बौश्रौ १७, ४५ ९×५
नैष्ठिक-, नैष्ठय- नि✓ष्ठा द्र
नैष्णह्य- नि✓ष्णिह् द्र
नैष्पुरीष्य- निष्पुरीष- द्र
नैष्पेषिक- निष्✓पिष् द्र
नैसर्गिक- नि✓सृज् द्र
?नैहारिक- नि✓ह् द्र
नो १न द्र.
नोट- (> षी-) नाट- टि द्र
?नोदल्^e- लम् आपमं २, ११, १९,
हिय २, ३, ३
नोधमान- ✓नुद् द्र
नोधस्^f- पाठ ४, २२६, -धसि वृदे ३,
१२८, -धा ऋअ २, १, ५८, ८,
८८, ९, ९३, शुभ, याध, १६१^g
नोधस्^f- -सः^h ऋअ २, ८, ८०,
-सम् शाश्रौ ७, २३, १, १५, ७,
४, बौश्रौ, -सस्य आश्रौ ८, ६,
१७, शाश्रौ ७, २३, ३; लाश्रौ
१०, १, १३, छुस् १, १: २; ८,
२०२१, ३: ११, ४-१४,
२२, ५-९, २, ६: ४, ९, १७,
१८, २५, -सात् निस् ४,

१०: ११, -से शाश्रौ ७, २३,
६, निस् ३, १० १२, -सेन
छुस् २, ६ ३१, जैश्रौ १७:
२५, निस् ६, ३: ४
नोधस-प्रतिषेध- ष: निस् ६:
११: १५
नोधस-वैरूप- षे आश्रौ ९, ११,
७
नोधस-श्यैत- तम् छुस् २,
५ २४
नोधस-श्यैत-योनि- नि
वैताश्रौ ३३, ७
?नोधात् अप ४८, ११५^d.
नोपध- न- द्र
नोपर- १न- द्र.
?नोपान- -नेन अप ६८, २, ४१^d
नोहि १न- द्र
नौ अस्मद्- द्र
नौ^f- पाठ २, ६४, पाग ५, २, ११६:
४, ३^g, १५१, नाव: आश्रौ ३,
७, ८^g, १२, ८, १०, बौश्रौ
१२, ११ ८, कप्र २, ८, २,
कौस् ७१, २०, ८६, २३,
पा ५, ४, ९९, नावम् आश्रौ
४, १३, २^g, आपश्रौ १०,
९, ४^g, बौश्रौ ६, ५. ६^g, १८,
४०: १६, २२, २५, ७: ५,
भाश्रौ १०, ६, १^g, वाधुश्रौ ३,
३९: १६, १८, ९९ १, ३;
४, ३६-२, वैश्रौ १२, ८:
११^g, सु १९, ५; आश्रु १,
८, २, २, ६, ८, कौश्रु १, ९,
१४, शाश्रु १, १५, १७, पाश्रु

a) = अरण्य-विशेष-। व्यु ?। <निमिष- वा = नैमिष- (<निमिष- L<नैमि- + ✓शृ।) वेति शक ।

b) = नैमिष-निवासिन्-। c) अर्थे व्यु. च ?। नैव-, बक- इति पाका । < निवाकु- इति पागम. PW ।

d) = हविर्-विशेष- (तु BIV.)। व्यु ?। e) पाठ: ? नो दलम् (तु. हिय. पाठ:) ? इति वा न उदलम् (उदलम्) इति वा संस्कृते. टि. (तु. आपमंम्, [पृ XXIV])। f) वैप १ द्र.। g) अपत्यार्थे अण् प्र । h) तो- इति मूको., तोष: इति च तत्र संस्कृते. टि. शोध: । i) पाठ ? नोत्पातेन इति संस्कृते. टि. । j) तु. पागम ।

३, २, ९×४, आपगृ ६, १, कागृ
 ४५, १०, १, बौगृ २, २, ९, गोगृ
 ३, २, २०, ४, ६, ११, १, १,
 हागृ, १, ५, २, ३, १, २, ५,
 ९, ४, नावया^१ बौश्रौ १८,
 ४६: १०, नावा बौश्रौ २८,
 १०. ७, १, बौगृ ४, ३, ६, मागृ
 १, १३, १६, जैगृ १, १७ ५,
 विघ ६, ३, ४७, १, ७, २०,
 १४, ३३, नावि आपश्रौ ५,
 २५, ८, १०, १९, १२, भाश्रौ
 ५, १६, २१, माश्रौ १, ५,
 ६, १५, वाश्रौ १, ४, ३, ४२,
 वैश्रौ १, १८. ४, कौसू
 ४८, ५, वाघ १३, १९, १४,
 ३६, आपघ १, १७, ६, हिघ
 १, ५, ३८, नौ बौश्रौ १८, ४६:
 १४, २५, ७, ४, वाधूश्रौ ३,
 ९: १४, ४, ३६ ६, अप ४८,
 १०२, १. बौघ १, ५, ५४, शुअ
 २, ४५४, निघ १, ११, १, या ५,
 २३; माशि
 नावा(व-अ)ग्र^१-ग्रम् अप ६८, ५, ६
 नाविक- पा ४, ४, ७, ५, २, ११६,
 -कः विघ ५, १३२, वैघ ३,
 १५, १
 रनाव्य, व्या^१- पा ४, ४, ९१,
 -व्ययो कौसू १८, २२, -व्या
 बौश्रौ २३, ५: १०, आगृ १,
 १२, ६; -व्या: भाश्रौ १०, १२,
 २०; हिश्रौ ६, ५, २५, १०,
 ३, १३, -व्यान् आपगृ ६, २,
 -व्याभ्याम् कौसू १९, ४;

-व्याया: कौसू १८, २, अशा
 १५, ६
 नौ-(क>)का- पा ५, ४, ३, -का
 याशि १, ४४^६
 नौ-काका (क-अ)न्न-शुक-शृगाल-
 वर्ज्य- -ज्येषु पावा २, ३, १७
 नौ-चक्री- > ऋ-वत्- -वन्तः
 गौघ १०, ३२
 नौ-मणि- -णिम् कौसू ५२, ११
 नौ-मण्ड^१- -ण्डे बौश्रौ १८, ४६:
 ११
 नौ-शिला-फलक-कुञ्जर-प्रासाद-
 कटक- -केषु बौघ १, २, ३५
 नौ-खेचन- पा, पाग ८, ३, ९८^१
 नौ-स्थायिन्- -यी अप ५०, ४, ५
 न्यैवाहयति वाश्रौ ३, ४, ३, १८.
 न्यक्त- न्य(नि/अ)ञ् द्र
 न्यग्रोध^१- पाग ४, २, ८०, ३, १६४,
 ७, ३, ५३, -घ गोगृ ४, ७,
 २२, शुप्रा ५, ३७, १, -धम्
 भागृ २, ३१: ४, गोगृ ४, ७,
 २०, -धस्य कौगृ १, १२, ८,
 शागृ १, २०, ३, आपगृ १४,
 १०; मागृ २, ६, ४, पावा १,
 २, ६४, २, २, २९, -घा:
 अप्रा ३, ४, १, १, -घान् गोगृ
 ४, ७, २१, -घे बौश्रौ १७, ४०:
 १९, आमिगृ १, ३, ३ ३, १,
 अप ७१, १६, १, पावा ७, ३, १.
 नैया, व्य^१ग्रोध^१- पा ४, ३,
 १६४, ७, ३, ५, -घ- आपश्रौ
 ९, १२, ५; बौश्रौ २३, ७ २०,
 कौगृ २, १, १८; शागृ २, १,

१९, आपगृ ११, १६, वैगृ २,
 ४: ३, वाघ ११, ५३, आपघ
 १, २, ३८, हिघ १, १, ६९,
 भाशि २८, १, -धम् बौश्रौ १२,
 ४ २, १४, १८ ७, १७,
 ३४: ८, ३८ ६, वाश्रौ
 ३, २, ७, १४×४, वैश्रौ,
 -घा काठश्रौ ७, १२०,
 बौश्रौ २५, १३ २१, कागृउ
 ४६. ६, -घान् आपश्रौ १२,
 २, ८, माश्रौ २, ३, १, २०,
 हिश्रौ ८, १, ३२, -घानाम्
 बौश्रौ २५, १३. १९, -घे
 आपश्रौ १८, १३, २१, हिश्रौ
 १३, ५, २१, -घेन काश्रौ १९,
 २, २१, आपश्रौ १८, १६, ५;
 बौश्रौ १२, ९ १३, १८, १०:
 ५, १३, वाश्रौ ३, ३, २, ४८,
 हिश्रौ १३, ५, ३३, अप्राय ५,
 ६, भाशि ५०, १.
 न्यग्रोधी- -धीभ्याम् बौश्रौ
 १८, ९ ९, -घ्यौ बौश्रौ १८,
 ८: ६
 १ न्यग्रोध-क- पा ४, २, ८०
 २ न्यग्रोध-क^१- -कान् वैश्रौ १५,
 २. १४
 न्यग्रोध-चमस- -सै- बौश्रौ २५,
 १३ २०.
 न्यग्रोध-त्व- -त्वात् पावा २, २,
 २९.
 न्यग्रोध-पनस- -सस्य अप ५, २, २.
 न्यग्रोध-प्रयोग- -ना पावा १, २,
 ६४, २, २, २९

a) तु सप्र. शौ १७, १, २५; २६ मंत्रा २, ५, १४, वैतु चिन्तामणि पूर्वेण समस्तमिति । b) तु १ अयाद्
 आदेशः (पा ७, १, ३९) । c) = वाच्- । d) पूष आवङ् उसं. (पा ६, १, १२३) । e) वैप १ द्र ।
 f) = अक्षितारका- इति पागम. । g) नाप (तत्सदृशहस्ताकृति-) । h) वस. उप = प्रमुखभाग- (तु. MW) ।
 i) ष्वेवन- इति पाका ? । j) आपश्रौ. आपगृ. हिगृ. वाघ. आपघ. पाठः । k) विप. । विकारे कन् उसं-
 (पा ४, ३, १६४) ।

न्यग्रोध-शुद्ध, ङा^१-ङ्गम् जैगृ १,
 ५ ५, -ङ्गाम् गोपृ २, ६, ६,
 द्रागृ २,२,२०.
 न्यग्रोध-शुद्ध^२-ङ्गम् आमिगृ २,
 १,१ १२, हिगृ २,२,६^३
 न्यग्रोध-स्तिभि^०-मीन् काश्रौ
 १०,९,२९
 न्यग्रोध-स्तिभि(न् >)नी^०-नीः
 आपश्रौ १२,२४,५, वैश्रौ १५,
 ३१ २, हिश्रौ ८,७,४३
 न्यग्रोधा(ध-अ)वरोध-धम्
 भागृ १,२२ २^४
 न्यग्रोधा(ध अ)वरोह-हम् कौसू
 ५७,६,-हान् पागृ १,१४,३^५
 न्यग्रोधा(ध-अ)वरोह-शुद्ध-ङ्गानि
 वागृ १६,५^६
 न्यग्रोधा(ध-अ)श्वत्थ-तिल्वक-हरिद्रु-
 स्फूर्जक-बिभीदक पापनामन्^०-
 मभ्यः काश्रौ २१,३,२०
 न्यग्रोधिक-, न्यग्रोधिन्- पा ४,२,
 ८०
 न्यग्रोधो(ध-उ)त्थ^{११४}-स्थान्
 वाठश्रौ ६, कागृ ४१. २
 न्यग्रोधो(ध-उ)दुम्बर^{११५}-र अप
 २६,५,६
 ङ्ग्य(नि-अ)ङ्ग^१-ङ्गौ^१ आपश्रौ १८,
 ४,६; २२, २६, १७, २८, १८,
 वौश्रौ ११,७ २६, १८, १०
 २०; १७: १९, वाश्रौ ३, १,
 २, १, वैश्रौ १७, १२. १०,
 हिश्रौ १३, १, ४४, २३, ४, ३१,
 ५७; आपमं २, २१, १७, पागृ
 ३, १४, ६, भागृ.

न्यङ्कु^१- पाउ १,१७, पागृ ३,५३
 न्यङ्कु-सारि(न् >)णी^१-णी निसू
 १,२ २२, ऋअ १,७,३, २,
 १०, ९३, १३२, शुअ १,
 २०५, ५, ४३, अअ ७, ६४,
 ऋप्रा १६, ४६, उनिसू १
 २६, पिं ३, २८, -णीम् शुअ
 २,४७
 ङ्ग्य(नि/अ)ञ्च,ञ्च, न्यचति आपश्रौ
 १०, ११, ३, वौश्रौ ६, ३१
 १५, १८, ९: ३७, न्यञ्चति
 भाश्रौ १०, ७, २, माश्रौ २, २,
 १, ८^२, वैश्रौ १२, १० २
 न्य(नि-अ)ञ्च,ञ्च- पा ६, २, ५३,
 नीच आश्रौ ४, ५, ७, आपश्रौ
 ११, १, १२, भाश्रौ १२, १, ११,
 ४, ४, माश्रौ २, २, १, १३^३,
 वैश्रौ १२, २३. ९, हिश्रौ ७,
 ३, ८०, द्राश्रौ १४, २, ६, लाश्रौ
 ५, ६, ९; अप्रा ३, ४, ११,
 ङ्ग्यकृ, ग् अप १, ३२, ५, उसू
 ८, २८, न्यङ् आपश्रौ १०,
 १५, ९, १२, १७, ३, भाश्रौ
 १०, ८, १०, न्यञ्चः द्राश्रौ १४,
 २, १०, लाश्रौ ५, ६, १०^{११},
 न्यञ्चम् आपश्रौ २, १४, ५; ३, ७,
 १, भाश्रौ २, १३, ११××, वाश्रौ
 १, ३, ४, १२, वैश्रौ ७, ६ ८,
 हिश्रौ २, १, २९, ३०××, आगृ
 ३, १०, १२, न्यञ्चि आपश्रौ १,
 ११, ४, १५, ६; वौश्रौ, न्यञ्चौ
 गोपृ ३, ७, १७××, द्रागृ १, २,
 ७××

ङ्गीनीची-ची शाश्रौ १८,
 ११, २, -चीः अप्रा ३, ४, १^{१३};
 -च्या भाश्रौ ७, २२, १०, १३;
 माश्रौ १, ८, ६, १६, वैश्रौ १०,
 २१. १८, -च्यै आपश्रौ ७, २७,
 १०, आपश्रौ ७, २७, ११, वौश्रौ.
 नीचीन^१- नस्य अप्रा ३, ४,
 ११
 नीचीन-द्वार^१- रम् या १०,
 ४
 ङ्गीनीचीन-वार^१- रम् या
 १०, ४^{१४}
 ङ्ग्य(नि-अ)ञ्च(त् >)ती-ती
 आपश्रौ १, १६, ८, भाश्रौ १,
 १८, ६, हिश्रौ १, ४, ५४
 न्य(नि-अ)ञ्चन^१- नम् वौश्रु १:
 १९, २९, -नेन वौश्रु १.
 २०, ३०
 न्य(नि/अ)ञ्ज, न्यङ्क्ते कौसू ७, २७.
 ङ्ग्य(नि-अ)क-क्तम् आपश्रौ ५,
 १, ७××, वौश्रौ २, ६: ३७.
 ङ्ग्य(नि-अ)ङ्ग^१-ङ्ग आपश्रौ १,
 २१, २, वौश्रौ १, ६, २९, माश्रौ
 १, २२, १२, हिश्रौ १, ५, ७६.
 न्यङ्ग-ता-युक्त-क्ते विध ५,
 ३३^{१५}.
 न्य(नि-अ)ज्य काश्रौ १६, ६, ८, १७,
 ३, २०, न्यज्यऽन्यज्य काश्रौ
 २६, ६, ११.
 न्य(नि/अ)द् > न्या(नि-आ)द्-
 पा ३, ३, ६०
 न्य(नि-अ)धि/स्था, न्यधितिष्ठते
 माश्रौ १, ८, ४, १०.

a) षस. उप = मुकुलित-पल्लव- । b) Böht (ZDMG ५२, ८६) 'शुद्धाम् इति शोषुक (तु. सप्र शुद्ध- इति गद्र.) । c) षस उप = फलस्तबक- । d) सप्र. शोधम् <> शोहान् शुद्धान् <> शोहशुद्धानि इति पाभे । e) पापनामन्- = श्लेष्मातक- प्रमृ इति विद्याधरः । f) विप. । बस । g) उप. भाप. < उद्/स्था । h) मखो.कस. । i) वैप १३ । j) पाभे वैप १, १८६८ । k) = छन्दो-विशेष- । l) शोध पृ १२२३ । m) वैप १, ४६६ । n) = लक्षण- । o) वैप २, ३६. द्र. । p) न्यङ्गतायुक्ताक्षेपे इति जीसं. ।

न्य(नि-अ)न्त^a- पा ६, २, १८१,
-न्ते आपश्चौ १३, १२, ९, वैश्रौ
१६, १४ : ११, हिश्रौ ९, ३,
५३, १०, ५, ८.
न्य(नि-अ)यन- नी (नि/इ) द्र
न्यरक^b- -कम् या १, ११
न्य(नि/अ)र्द^c > न्य(नि-अ)र्ण-
पा ७, २, २४.
न्य(नि-अ)र्षुद^d- -दम् आपश्चौ २२,
२१, १७, लुसु २, ९ : १९, -दे
शाश्रौ १५, ११, ४, आपश्चौ
न्य(नि-अ)व/ग्रह^e > न्य-वग्रह- -हः
शुश्रा १, १२०
न्य(नि-अ)व/मन्, नि भवमंस्थाः
सु १२, ३
न्य(नि/अ)स्(क्षेपणे), न्यसेत् हिश्रौ
२२, २, २६, आमिष्ट २, ४, ११
८×४, वैश्रु
न्यस्यते शाश्रौ १, १५, १४,
न्यस्यति आपश्चौ २, ५, १×४,
काठश्रौ, न्यस्यत् वाधुश्रौ ३,
१९ : ७, १०, न्यस्येत् काश्रौ
२१, ३, २६, आपश्चौ १९, १९, ३,
माश्रौ.
न्य(नि-अ)सन- नम् बौश्रौ २१,
४ २१; २३, २४.
न्य(नि-अ)स्त- नस्तम् आपश्चौ
१०, १, ३; बौश्रौ, -स्तानाम्
बौध १, ६, २१.
न्यस्त-त्(र>)रा- -रा ऋश्रा
३, २७.
न्यस्त-शस्त्र^f- -स्त्राः अप ५७,
३, ६.

न्यस्ता(स्त-आ)युध^g- > ष-
प्रकीर्णकेश-प्राञ्जलि-पराङ्गावृत्त-
-तानाम् आपध २, १०, ११,
हिध २, ४, ११
न्य(नि-अ)स्त्वा अप ३६, १४, १
न्य(नि-अ)स्य आपश्चौ २२, २, १६;
बौश्रौ ६, २५, १३×४, भाश्रौ
न्य(नि-अ)स्यत्- -स्यन्तम् कौसू
७८, ३
न्य(नि-अस्य>)स्या- -स्याः वैश्रौ
१९, ६ : १४३.
न्या(नि-आ)स- पाण ४, २, ६०^h,
४, १०, -स नाशि १, ४, १०,
२, ७, १०, -सम् ऋश्रा ३, २३ⁱ,
माशि ५, १०.
नैयासिक- पा ४, २, ६०
न्यास-प्रणव- -वै. वाधुश्रौ ४,
७२ ६, ८९ : २७, ३०
न्यासा(स-अ)पहारिन्^j- -री
शंघ ३७७ ४, १३
न्यासिक- पा ४, ४, १०.
न्य(स्तक>)स्तिका^k- -का कौसू
३६, १२, अश्र ६, १३९^l; अप
२ : ६४; ३ ३७
न्य(नि-अहन्>)हन्^m- -ह्ने कौसू ८७, २
न्याद- न्य(नि/अ)द् द्र.
न्या(नि-आ)य- , ष्य- नी (नि
/इ) द्र
न्यासर्ष वाधुश्रौ ३, ४० : ९, १०.
न्यासीदताम्ⁿ या ८, ११
न्यु(नि/उ)च्, नि उवोच वाश्रौ
३, ३, ३, १^o.
न्युप वाश्रौ ३, २, ४, १०.

न्युप्त-, न्युप्य नि/वप् द्र
न्यु(नि/उ)ब्ज^p, न्युब्जति आपश्चौ
१२, २९, ९; १३, १५, २; बौश्रौ
७, २०, १६, ८, ८ : २८;
२५, १८ : १६, २४ : १३, माश्रौ
२, ३, ६, १०, ४, २, ३६, वैश्रौ
१५, २७ : ११×४, हिश्रौ ८,
६, ३९^q×४, कौसू; न्युब्ज
आपश्चौ १४, १, १०, वैश्रौ,
न्युब्जतात् बौश्रौ ७, ७ ३१×४
न्यु(नि-उ)ब्ज, ब्जा^r- -ब्जम्
कप्र ३, १, १९, २, ११; -ब्जाम्
काश्रौ १६, ४, ११, -ब्जेन
काश्रौ ९, ६, ४.
न्युब्ज-पात्र- -त्रम् आमिष्ट ३,
१, ३ १९, ११, २ १५, हिष्ट
२, १२, १०, -त्राणि आपष्ट
२१, ९
न्यु(नि-उ)ब्ज^s- पा ७, ३, ६१.
न्यु(नि/उ)ब्ज^t, न्युब्जति हिश्रौ
१६, ३, २१
न्युब्जयति शाश्रौ १२, १३, १;
बौश्रौ २३, १० : ५, न्युब्जयन्ति
बौश्रौ १६, ३ २७^u, न्युब्जयेत्
आश्रौ ७, ११, १८; शाश्रौ १२,
१३, ५, ६.
न्यु(नि-ऊ)ब्ज^v- पाउभो २, २, ४९,
-ब्जः आश्रौ ७, ११, १; ९×४;
शाश्रौ १०, ५, १९, १२, २४, ३;
-ब्जम् शाश्रौ १०, ५, ९, शाश्रौ ११,
१५, १२^w, हिश्रौ १६, ३, २१;
३२, -ब्जेन शाश्रौ १२, २४, ५.
न्युब्ज-निनर्द- -र्दात् वैताश्रौ

a) वैप २, ३ खं. द्र.। b) वैप १, १०७५ j द्र। c) वैप १ द्र.। d) विप.। वस। e) =ग्रन्थ-
विशेष-। f) =अनुदात्त-। g) विप.। उस पूष. = निक्षेप। h) =अपराह- (तु. संस्कर्तु. टि.)। i) वैप १,
६०७ h द्र। j) पावा ७, ३, ६१ पराच्छ. द्र.। k) ष्यति इति पाठ^l यनि श्लोचः। l) =अधोमुख-
(तु. सा [ऐशा ७, ३०])। मस. उप. कर्मणि घञ् प्र.। m) =उपताप-। n) =षोडशोकार-समूह-। मस (वैतु-
पाउभो. अन्यथाव्युत्पादकः)। o) प्रकरणतश् च्युताऽऽथसकारः सन्युब्जम् इति पाठः प्रतिभायात् (तु. माष्यकार.)।

३२, १४ न्यूङ्ख-प्रतिगर- -रेषु वैताश्रौ ३२, १५ न्यूङ्खा(ङ्ख-आ)दि- -दि ^१ आश्रौ ७, ११, ३१ न्यू(नि-ऊ)ङ्खन- -ने बौश्रौ २३, १० ५ न्यूङ्खनीय- -य शाश्रौ १३, १, ७, -यम् शाश्रौ १३, १, ७, -यस्य शाश्रौ १२, १३, ५ न्यू(नि-ऊ)ङ्खय- -ङ्खयम् आपश्रौ २१, ७, २, १३, बौश्रौ १६, ३ २६, वाश्रौ ३, २, १, ५३ न्यू(नि-ऊ)ङ्खयमान- -ने आश्रौ ७, ११, ५ न्यू(नि ऊ)न, ना ^२ - -नम् आश्रौ १,	११, १५, शाश्रौ, -ना ऋअ ३, ४२, कागुड ४४: ९, -ना: कप्र ३, ५, ९, -नान् निसू १०, ४ २, -नानि उनिसू २ ९, -नाम् आश्रौ १२, ७, ९, -ने वाश्रौ १, ३, ७, २० ^१ , हिश्रौ, -नेषु बौश्रौ २९, ३ २ न्यून-त्व- -त्वे उनिसू २: १३ न्यून-ना(ह >)हा ^३ - -हा वैश्रौ ११, १३ ३ न्यूना(न-अ)क्षर ^४ - -रम् शुअ ४, २१४ न्यूना(न-अ)तिरिक्त- -क्तेषु शुअ ४, २१४ न्यूना(न-अ)धिक- -कात् शागृ ६, ६, १६, -कै अप ७१, ६,	४. न्यूनाधिक-त्व- -त्वे अअ १२, ४ न्यूनी ^५ √भू > °भाव- -व: निसू १, ७: २७ न्यूनो(न-उ)दयन- -नेन काश्रौसं ३१: ११ न्ये(नि-आ√इ), न्येयात् वाधूश्रौ ३, ७५: ४ न्येद् ^६ आपम २, १७, १३ न्यो(नि-ओ)कस् ^७ - -का कौगृ ३, १२, ३३ ^१ न्योजस्- पाउवृ ४, २२३ न्वाव ^८ वाधूश्रौ ३, ७९ २५ न्वै ^९ बौश्रौ १०, २१ १२××, वाधूश्रौ. न्वो३ ^{१०} शाश्रौ १२, १३, ५
---	---	---

a) वैप १ इ । b) विप । बस । c) = नेद् । यकारोपजन इति हरदत्त. (तु भू [XXVII]) ।
d) तु वाव > नैप्र यनि (तु वैप १ न्वै) । e) नु (ऋ १०, ८६, ४) इत्यस्य न्यूङ्ख ।